

A VEDIC WORD-CONCORDANCE

Being a **universal vocabulary register** of about 500 Vedic works,
with complete textual reference and critical comment on headings on
phonology, accent, etymo-morphology, grammar, metre,
text-criticism, and *śākhya* philology.

In five Volumes, sub-divided into fifteen Parts

By

VISHVA BANDHU

Director, the Vishveshvaranand Vedic Research Institute and the
D. A. V. College Research Department, formerly,
Principal, Dayananda Brahma Mahavidyalaya.

In collaboration with

BHIM DEV, RAMANAND, AMAR NATH, PITAMBAR DATT
AND MANY OTHER SCHOLARS

Vol. IV in Four Parts

(Vedāṅga-sūtras)

PART III

५-४

Pages I-IV and 1457—2116.

HOSHIARPUR

PUBLISHED BY THE V. V. R. INSTITUTE

1959

वैदिक-पदानुक्रम-कोषः

स च

संहितान्नाह्नणोपनिषद्वेदाङ्गसूत्रवर्गीयोपपञ्चशत[५००]वैदिकग्रन्थस्थ-सकलपदजात-संग्रहस्वरूपः

प्रतिपदप्रतियुक्त-श्रुतिस्थलसर्वस्व-निर्देशैः समवेतश्च यथासंगत-तत्तत्प्रागर्वाग्लक्षण-

विचारसमन्वितटिप्पणैः सनाथितश्च

संभूय पञ्चदशखण्डात्मकैः पञ्चभिर्विभागैर्व्यूढश्च

सन्

दयानन्दब्राह्ममहाविद्यालयीयाचार्यपदप्रतिष्ठितपूर्वेण, विश्वेश्वरानन्दवैदिकशोधसंस्थानस्य

च दयानन्दमहाविद्यालयीयाऽनुसंधानविभागस्य च संचालकेन

सता

किशकबन्धुना

भीमदेव-रामानन्द-अमरनाथ-पीताम्बरदत्त-

प्रमुखानां बहूनां शास्त्रिणां

सायुज्य-समुपलम्भेन

संपादितः

अयं च तत्र

(वैदाङ्गिकस्य)

चतुःखण्डात्मकस्य ४र्थस्य विभागस्य

३यः खण्डः

प-ल

पृष्ठानि, I-IV च १४५७-२११६ च

होशिआरपुरे

विश्वेश्वरानन्द-वैदिक-शोध-संस्थानेन प्रकाशितः

२०१६ वि०

(All Rights Reserved)

Printed and Published by Dev Datta Chatterjee,
at the V. V. R. L. Press, B. B. Road,
Ferozshah, Fort Road, Lucknow, India.
Price Rs. 4.00.

(अधिकार-सर्वस्व सुरक्षितम्)

होशियारपुरे वि. प्रै. शो. सं. मुद्रायुधे

देवदत्तसाम्बिका मुद्रायितः प्रकाशितम् ।

प्रथमं संस्करणम्, प्रथमः प्रकाशः, २०१३ ई. स. ११ अक्टोबर, ३०५५ पी. ए. ए. ए.
मुद्रायु ३०) ३. १

Prepared and published under the patronage of the Governments of the Indian Union and the States of Panjab, Jammu-Kashmir, Himachal, Uttar Pradesh, Bihar, Assam, Orissa, Madhya Pradesh, Bombay, Mysore, Kerala, Rajasthan and Madras, the former Princely States of Hyderabad, Travancore, Baroda, Indore, Kollhapur, Sangli, Patiala, Nabha, Jodhpur, Bikaner, Idar, Alwar, Udaipur, Shahpura, Sirmur and Keonthal, the former Princely Estates of Awagarh and Vijayanagaram, the Universities of Panjab, Poona, Andhra and Calcutta and the Trusts and Charities of Swami Vishveshvaranand, Shri Vishva Bandhu, Shri Moolchand Kharaitiram, D. B. Krishna Kishore, Shri Dhani Ram Bhalla, Shri Jai Dayal Dalmia, R. B. Jodha Mal Kuthiala and other donors.

अथ

वैदिक-पदानुक्रम-कोषे

वैदाङ्गिके चतुर्थे विभागे

तृतीयः खण्डः

प

प^१- पि ऋत ४, १, ६.

प^२->प-कार- -रः ऋप्रा ६, २२;

-रात् शुप्रा ४, ७; -रे ऋप्रा ४,

४१; १३, ३०; उस् ८, १९^{७६};

शुप्रा ३, १४०; याशि १, ६२.

पकार-पूर्व- -रैः तैप्रा ५, ३६.

पकार-वर्गो(गं-उ)पहित- -तात्
ऋप्रा १४, ५३.

पकारा(र-आ)दि- -दयः याशि
२, १.

पकारा(र-अ)न्त- -न्ते माशि
१४, ५; याशि २, ३८^३; -न्तौ
माशि ३२.

प-वर्ग- -गैः अप ४७, २, २; शुप्रा

८, १२; -गाव माशि ३१;

-गै तैप्रा २, ३९; शैशि ५०;

माशि ५८.

✓पंस पाषा. चुरा. उभ. नाशने>

पंसन->नीय- -याः या १२,

१९.

प^३- वेज्यो १८.

पङ्कवे, °कम्प- प्रम्. ✓पन् द.

✓पन् पाषा. चुरा. पर. परिग्रहे.

पक्ष^१- पाठ ३, ६९; पाग ४, २, ८०^६;

३, ५४; ५, २, १००^५; -क्षः

पशाश्रौ १७, १३, २; ३; काश्रौ;

-क्षम् आश्रौ १२, ६, १७; शाश्रौ

१७, १३, २, ३; आपश्रौ; आपशु

८, ५^१; -क्षयोः आपश्रौ १६,

३३, ५; माश्रौ; -क्षस्य आपश्रौ

१७, ११, ३; बौश्रौ; -क्षाः

बौश्रौ १ : २^३; वैताश्रौ ६,

१^१; वेज्यो २३; -क्षाणाम्

वेज्यो २३; -क्षाणि वाष्श्रौ ४,

८५ : २; -क्षात् आश्रौ ४, ४,

४; आपश्रौ; पा ५, २, २५;

-क्षान् माश्रु २, १३, ८;

-क्षाभ्याम् आपश्रौ ९, ११, २४;

१४, ३१, १; निसू ६, ७ : १७;

१९; -क्षे काश्रौ १८, ३, २;

आपश्रौ; -क्षेऽक्षे वैव १, ५, ३;

-क्षणं निसू ६, ७ : १५; आज्यो

७, ६; मीस् ३, ३, १८; ७, २४;

-क्षौ आपश्रौ १७, १२, १०;

बौश्रौ; या १४, २९.

पाक्षायण- पाग ४, २, ८०.

पाक्षिक- -कात् बौश्रौ २९,

८ : १०.

पक्ष-कर(ण>)णी- -ग्याः आपशु

१९, ९; हिशु ६, २९.

पक्ष-क्षय- -यः आज्यो ७, ८; -ये

आज्यो ७, ७.

पक्ष-च्छिद्र- -द्राः आमिश्रु २, ७,

६ : २४; -द्राणि आज्यो ६, ७.

पक्ष-ति- पा ५, २, २५.

पक्ष-त्रय- -ये हिपि २१ : ९; शंघ

४३२.

पक्ष-द्वय- -यम् काश्रौसं ३२ : १;

काश्रु ४१ : ११; ४५ : १३;

-ये आमिश्रु २, ७, ९ : ४१.

पक्ष-द्वादशको(क-उ)द्वत- -ताः

वेज्यो १५.

पक्ष-नमन- -नम् आपशु १८, १^१.

पक्षनमनी- -न्याः आपशु

१९, १०; हिशु ६, ३०.

पक्ष-निर्णाम^३- -मः आपशु १५,

५; १८, १; हिशु ५, ५^१; ६, ५;

-मयोः हिशु ५, ४३^{७६}.

पक्ष-पत्र- -त्राणाम् बौशु १० : ३१.

पक्षपत्रा(त्र-अ)पच्छेद- -दम्

बौशु १३ : ४.

पक्ष-पार्श्व- -श्वयोः बौशु ९ : २.

पक्ष-पुच्छ, छ^०- -च्छान् बौश्रौ १५,

१९ : ६; -च्छानाम् आपशु २१,

१२; हिशु ६, ६९; -च्छानि काश्रौ

१७, ६, ७; १२; १८, २, ११;

आपश्रौ १६, १७, १०; माश्रौ;

-च्छेषु बौश्रौ २२, ६ : ११; माश्रौ;

-च्छानाम् माश्रौ ६, १, ६, ११.

पक्षपुच्छा(च्छ-अ)प्यय- -येषु

काश्रौ १६, ८, १५.

पक्ष-प्रवचस^४- -यांसि बौशु ५ :

१४.

पक्ष-मध्य- -म्ययोः आपशु २०, ३;

हिशु ६, ४१.

पक्ष-मध्यो(य>)या- -न्याः

आपशु २०, ३; हिशु ६, ४०;

-याम् आपशु १९, ७; हिशु ६,

२५.

पक्ष-वत् मीस् १०, ५, ५६.

पक्ष-विपर्यय- -यम् आश्रौ ९, ३, ६.

पक्ष-व्रत- -तम् शंघ ४१८.

पक्ष-शेष- -श्वम् काश्रौ १५, १२, ७;

वाघ २३, ४५; बौशु ८ : १८.

पक्ष-संहित- -तावि बौश्रौ १५,

१९ : २.

पक्ष-संक्षय- -यः आज्यो ७, ८.

a) = वरु-विशेष-। व्यु. ?। b) परे इति पाठः! यनि. शोषः (तु. Pertsch)। c) विप.। वस.।

d) = आपः (पूर्वाषाढा-देवताः)। e) = पत्रत्र, मासार्थक, विभाग- प्रम्.। f) वैप १ द.। g) अर्थः!।

h) तु. पागम.। i) व इति पाठः! यनि. शोषः। j) तात्रमविकृष् ठक् प्र.। k) = इक्ष्वा-। l) पक्षि

इति पाठः! यनि. शोषः। m) = पक्षवक्रप्रदेश- (तु. भाष्यम् [हिशु ५, ४३])। वस.। n) 'ना' इति पाठः! यनि.

शोषः। o) वैप २, ३ वं द.।

पक्ष-संधि- -वेः बौधौ २२, ८: ९.
 पक्ष-संमि(त>)ता^१- ता काश्रौ
 ८, ८, ८.
 पक्ष-स्तोत्री(य>)मा- -ये निम्
 ८, १३: २०.
 पक्ष-हत^१- -तम् कौसु ३१, १८.
 पक्ष-होम- -मः कायुड ४१: ११;
 अप २३, ७, ५; -मम् अप २३,
 ७, ४; ८, १; -मात् कायुड
 ४५: १४; -मे काश्रौसं ३२: १.
 पक्षहोम-नियम- -मः कायुड
 ४५: १३.
 पक्षहोम-समास- -से कायुड
 ४५: १९.
 पक्षा(क्ष-अ)प्र- -प्रम् आपशु १८,
 ८; हिशु ६, १३; -प्रयोः
 वैश्री १८, १६: ७८; आपशु:
 -मात् बौशु ८: १६; २१;
 -मे आपशु १८, ७; हिशु ६,
 ११; -मौ बौधौ १७, २८: १२.
 पक्षप्री(य>)पा- -याः आपशु
 २०, १; हिशु ६, ३७; -याम्
 आपशु १९, ८; हिशु ५, ३०.
 पक्षा(क्ष-अ)पचय- -ये भापु ३,
 २१: ५.
 पक्षा(क्ष-अ)दि- -द्वयः गोशु १, ५,
 ५; -द्विषु पाशु १, १२, १; -दौ
 काश्रौ २४, ४, २६; कप्र २, ६,
 ११; अप ५०, ६, १; ३.
 पक्षानिक^१- -कम् कप्र २, ६, ११.
 पक्षा(क्ष-अ)न्त- -न्तम्^१ कायुड
 ४४: १६; -न्तयोः विष ९५,
 १२; -न्ताः गोशु १, ५, ५;
 -न्तात् भाश्री ६, १, ५, ४०;

-न्ते वैश्री १८, १४: ४११;
 १५: १.
 पक्षा(क्ष-अ)न्तर- -न्तवाप १६, ३.
 पक्षा(क्ष-अ)पचय- -ये अप ५०,
 ३, ४.
 पक्षा(क्ष-अ)प्यय- -ययोः आपशु
 १०, २; २०, १; बौशु ११:
 १२; दिशु ३, ४०; ६, ३८:
 -ये आपशु १८, ९; दिशु ६,
 १४; -यौ आपशु १९, १२;
 दिशु ६, ३३.
 पक्षा(क्ष-अ)भिधान- -न्तम् लाश्री
 १०, १६, २.
 पक्षा(क्ष-अ)याम- -मः आपशु
 १५, ८; हिशु ५, १३.
 पक्षा(क्ष-अ)विशेष- -यम् बौधौ
 २६, ३: १२; -ये बौधौ २६,
 २: १५; २३.
 पक्षा(क्ष-अ)श्रय- -येण वाप १६,
 ३७.
 पक्षा(क्ष-अ)हमो- -म्याम् पाशु ३,
 ३, ४.
 पक्षिक^१- (>पाक्षिक्य- पा.) पाग
 ५, १, १२८.
 पक्षिन्^१- -क्षिणः आपश्री १७, २८,
 २; बौधौ; -क्षिणम् आपमं २,
 १७, ११; अप ७१, ५, ५;
 -क्षिणाम् विष ४१, १; आजयो
 ४, ८; -क्षिण्यम् आपश्री २२,
 १२, १०१; हिश्री १७, ५, १८;
 -क्षी आपश्री २२, १२, १०१;
 काश्री २२, १०, ३४; हिश्री.
 पक्षिणी- -शी भापु २, १७,
 १११; शेष ३४८; बौध १,

५, ११८; -गीम् काशु ९, ११;
 भाग १, ४, १०; वाग.
 पक्षि-भाणक- (>पाक्षिणक-
 पा.) पाग ५, १, १२९.
 पक्षि-गन्धौ(न्ध-न्धौ)पचि-नञ्-
 वैदल- -ग्यानाम् विष ५२, १३.
 पक्षि-घातिन- -नी विष ५, ४३.
 पक्षि-जम्भ- -जम्भम् विष २३,
 ३८; गेष २, १५, ३.
 पक्षि-मध्य-शुग- -गाम् वा ४,
 ४, ३५.
 पक्षि-मांस- -मम् गोशु ३, २,
 ५०.
 पक्षि-योनि- -नयः विष ४४, ४.
 पक्षि-नाज- -जः शु १, ३.
 पक्षि-रूप- >पिन्- -पिणम्
 बुदे ४, १४.
 पक्षि-वध- -धे विष ५०, ४३.
 पक्षि-सामन्^१- -म निम् ७,
 ९: २२.
 पक्ष्य(क्षि-अ)भोज्या- -ज्यायाम्
 निम् ७, ९: २२.
 पक्षिल- वा ५, २, १००.
 पक्षे(क्ष-उ)हका- -काभिः आपशु
 २०, ३: ११; हिशु ६, ४१, ५१;
 -काम् आपशु १९, ६; हिशु ६,
 २३.
 पक्षो(क्ष-उ)पचय- -वे बौधौ १०,
 २४: ३; ७.
 पक्षो(क्ष-उ)पोचन- -न्तम् आमिगु
 २, ७, ५: १३.
 पक्ष्य- वा ४, ३, ५४.
 पक्ष्य-भोजन- -न्तम् काश्री १८,
 ६, २५.

a) वैप १६. b) विप.>नाप.(पक्षापात-). सप्त.। सा (मू. [श्री ६, ८०]) केरावध पक्षि हतम् इति ।।
 c) विप. (पक्षादौ दीपमान-। चरु-। तस्येदमीयम् उन् > हका प्र. उरसं. (वा ५, १, १६) । d) वा. किति. ।
 e) श्रयोः ।। मत्तमीयम् उन् प्र. इति ।। f) पक्ष इति पाठः । यनि. शोचः (शु. ऋ १०, १६५, २; इ.न. व) ।
 g) = साम-विशेष-।

पञ्च-करणी- प्रभृ. पञ्च-द्र.
पक्षस्- पाठ ४,२२०; -क्षः आश्रौ
 ११, ७, ६; १२, ३, ५; बौश्रौ
 २६, १६: १७; निसू ५, १०:
 ४; -क्षसः आश्रौ ११, ७, ८××;
 आपश्रौ २२, १६, ६; १६; १७;
 निसू १०, ९: ४; -क्षसा शाश्रौ
 १३, २९, ११; -क्षसि बौश्रौ
 २६, १७: २; द्राश्रौ; -क्षसी
 आपश्रौ १८, ४, ६××; बौश्रौ;
 -क्षसोः निसू ५, ९: १२; १०,
 ८: २८; २९.

पक्षः-संमित- न्तः बौश्रौ १९, १:
 १२.

पक्षसंहित- प्रभृ. पक्ष-द्र.

पक्षमन्- पाठभो २, १, २८५; पाग
 ५, २, ९७; -पक्षमणा^१ आपश्रौ
 १९, ५, ७; हिश्रौ २३, १, ६.
पक्षम-गुह^२- -हम्^३ माय १, २१,
 १२.

पक्षम-गुण^४- -गम्^५ काय ४०, १८;
 वाय ४, २३.

पक्षम-चामर-चर्म-नृण-वाल-वेत्र-
 बहकला (ल-आ) दि- श्रीनाम्
 शंष १७४.

पक्षम-रु- पा ५, २, ९७.

पक्ष्य- पक्ष-द्र.

पक्ष^६- पाठभो २, २, ३१ पाग २, ४,
 ३१; ५, २, १००; -क्षे सु २,
 ४; अय ४, ६, २; ६९, ७, १;
 याशि १, ४२.

पक्ष-ज^७- (>°जिन्>°)मी- (पा.)
 पाग ५, २, १३५.

पक्ष-दन्त^८- -न्तः सु १६, ५.
पक्ष-पिण्ड-शैवाल- संयुत- न्तम्
 कप्र ३, ४, १३.
पक्ष-भार^९- (>°भारिक- पा.)
 पाग ४, ४, १६.
पक्ष-मग्न- न्नौ सु २, ३.
पक्ष-शैवाल-दुष्टप्राह-मरस्य-जलौका
 (का-आ)दि-वर्जित- -ते विष
 १२, २.
पङ्क्ति- पा ५, २, १००.
पङ्के-सङ्घ- -ञ्जन् सु २, ४.

पङ्क्ति^{१०}- पा ५, १, ५९; पाग ४, १,
 ८६; ५, ४, ३८; -ङ्क्तयः
 शाश्रौ १८, १४, ४; वृदे; -ङ्क्तये
 माश्रौ ५, २, १५, २; वाश्रौ १,
 १, ५, २; वैताश्रौ १, १८; वाय
 १३, १; अप्राय ६, ९; -ङ्क्तः
 शाश्रौ ७, २७, ३०××; आपश्रौ;
 अय ८, १०; या ७, ११; १२; -ङ्क्तभिः
 आश्रौ ६, ३, ५; माश्रौ
 ६, २, २, २१; वाश्रौ २, २, १, ३१;
 -ङ्क्तभ्यः लाश्रौ ६, १०, २७;
 -ङ्क्तम् ऋआपश्रौ १०, ९, १;
 १६, १९, १××; बौश्रौ; -ङ्क्तानु
 आश्रौ ५, १४, ११; निसू ६, ८:
 ७; ऋप्रा १५, २४; १८, ५८;
 -ङ्क्ती आश्रौ ६, २, ४; ऋअ;
 -ङ्क्तीः शाश्रौ १२, ७, ६; काश्रौ;
 -ङ्क्तीनाम् आश्रौ ६, ३, ६;
 शाश्रौ ६, ३, १; ७, २६, ३; ऋअ
 ४, ३; उनिसू ८: २०; -ङ्क्तेः
 शाश्रौ ७, २७, १२; ९, ५, ८; कौसू;
 -ङ्क्तौ द्राश्रौ २, ४, २१; लाश्रौ

१, ८, ९; -ङ्क्तयः माश्रौ ५,
 २०, १०; -ङ्क्तया आश्रौ २,
 १९, ३४; आपश्रौ; -ङ्क्त्याः
 आपश्रौ ८, १६, १३; १४, १९,
 १; २६, २; वैश्रौ २१, ५: ८;
 हिश्रौ १५, ५, १; -ङ्क्त्याम्
 ऋप्रा १८, ४९; -ङ्क्त्यै
 आपश्रौ ३, १८, ४; बौश्रौ ३,
 २३: १९; माश्रौ ३, १४, २;
 हिश्रौ २, ८, १; -ङ्क्त्यौ आपश्रौ
 ५, २८, २; १३, २५, ५; बौश्रौ
 ३, २: १३; वैश्रौ १, २०: ५;
 हिश्रौ २१, २, ५०.

पाङ्क्त^{११}- पा ४, १, ८६; -ङ्क्तः
 आश्रौ ४, १२, १; शाश्रौ;
 -ङ्क्तम् आश्रौ ४, १३, ७; १४,
 २; १५, २; शाश्रौ; -ङ्क्तस्य
 लाश्रौ ७, ९, ११; -ङ्क्ताः निसू
 ९, १: ४४; १०, ६: ११;
 -ङ्क्तात् आपश्रौ १४, १९, २;
 २२, २८, १३; हिश्रौ २३ ४,
 ५१; -ङ्क्तानि शाश्रौ ६, ६,
 १९; १०, १२, १३; निसू ९, १:
 ४५; -ङ्क्ताय शाश्रौ ९, २७,
 १; -ङ्क्ते आश्रौ ७, १२, १७;
 शाश्रौ १६, ७, १४; अय २,
 २४; -ङ्क्तेन आश्रौ ६, ५, १७;
 शाश्रौ ९, २०, १९; बौश्रौ ९, ३:
 १९××.

पाङ्क्त-काकुभ^{१२}- -मः ऋप्रा
 १८, ८.

पाङ्क्ता (ङ्क्-अ)वसान- ने
 आश्रौ ८, ३, ६.

a) वैप १ द्र. । b) पामे. पृ ११६६ f द्र. । c) =पक्षम-गुण- । उप. ? । d) परस्परं पामे. ।
 e) विप. (ऊर्णारज्जुयुक्त-] तिल-पेशल-) । बस. । f) =कर्म- । व्यु. ? । <√पञ्चव्यक्तीकारणे] इति अभा. ।
 g) =कमल- । उल. । h) विप. । बस. । i) तु. पागम. । j) पामे. वैप २, २३. पङ्क्त्यै तैत्रा ३, ७, ६, २
 द्वि. द्र. । k) पङ्क्ती इति पाठः ? यनि. शोधः (द्र. संस्कर्तुः टि.) । l) पामे. वैप १, १८७६ ० द्र. । m) नाप.
 (प्रभाव-) । मलो. कस. । एतदनु पृ १००९.० शोधः द्र. ।

पाङ्क्तेय^१- -याः शंभु १९९.
 पङ्क्ति-कार्य- -र्थम् द्विधौ १,२,
 ७४;७५.
 पङ्क्ति-च्छन्दस्^२- -कन्दसः आश्रौ
 १४, ४, ११^३; माश्रौ २, ५, ३,
 २६^४; वैश्रौ १७, ५, ४; द्विधौ ९,
 ७, ५५; -न्दसा वैताश्रौ १९,
 १७; -कन्दः आश्रौ १९,
 ४, ९; वैश्रौ ११, ६; ७; द्विधौ
 १३, ८, ४२.
 पङ्क्ति-रूपक- -काः शंभु १४३;
 विधु ८२, ३०; काध २७८: १५.
 पङ्क्ति-रूपण- -गाः आश्रय २,
 १७, २१; द्विधु २, ५, ४९; -णैः
 वाध ११, २०.
 पङ्क्ति-पथ्या- -थ्ये उनिम् ७:
 ३२.
 पङ्क्ति-पाद- -श्री निम् १, ३: ६;
 ८; १०; १२.
 पङ्क्ति-पावन- -नः कौशु ३, १२,
 २९; कप्र ३, ७, १५; वाध ११,
 २०; गौध १५, २७; बध्यु २:
 ३५; -नम् शंभु १९१; -नाः
 वाध ३, १९; शंभु २००^५; आश्रय
 २, १७, २२; बौध २, ८, २;
 विधु ८३, १; द्विधु २, ५, ५०;
 गौध १५, २८.
 पङ्क्ति-पतिप्रयोज(न>)जा^६-
 -नाः निम् ८, ७: ३७.
 पङ्क्ति-प्राजाप(त्य>)स्या- -स्याः
 द्विधौ ५, ४, ८६; -स्याम्
 द्विधौ २, ७, ५४.
 पङ्क्ति-महापङ्क्ति-पङ्क्त्युत्(र>)

रा- -राभिः कप्र २, १०, ५९.
 पङ्क्ति-महावृत्ती-पङ्क्तय (ङ्क्ति-
 अन्त^७)- -न्तम् कप्र २, ८, ३५.
 पङ्क्ति-सुधन्व- -न्वः कप्र ३, ८,
 १५; -न्वम् गौध २, २, २३.
 पङ्क्ति-राधर्म- -धर्मम् श्रौधौ
 ९, २: ९: ३: ४.
 पङ्क्ति-वन् उनिम् २: ३५^८.
 पङ्क्ति-जंय- -यम् आश्रौ ८,
 ३, ५; ४, ९; शौधौ १०, ६,
 ४४४.
 पङ्क्तय(ङ्क्ति-अ)नुग्रह- -हाय निम्
 ६, ८: २.
 पङ्क्तय(ङ्क्ति-अ)न्त^९- -न्तः कप्र
 १८, ८; -न्तम् कप्र २, ५,
 ७४४; -न्तस्य कप्र २, ५, १.
 पङ्क्तया(ङ्क्ति-आ)दि- -द्वयः कप्र
 २, ६, ७५.
 पङ्क्त्यु(ङ्क्ति-उ)त्(र>)श^{१०}- -राः
 कप्र १, ९, ११; कप्र १६, ६८;
 शुभ ५, ७०.
 पङ्क्त्यु(ङ्क्ति-उ)द्वयन^{११}- -नाः
 आश्रौ १७, १०, ५.
 पङ्क्त्यु^{१२}- पाठभो २, १, ४८; -ङ्क्त्युः
 आश्रिय ३, १०, १: ५; बौधि
 ३, ५, २; कप्र २, ५, १; विधु ४५,
 १४.
 पङ्क्त्यु- पा ४, १, ६८.
 ✓पञ्च^{१३} पावा. भ्या. उभ. पाके, पचने
 आश्रौ १०, १४, ७; माशु ३,
 १४: २०^{१४}; कप्र ४८, २;
 पचति काश्री ४, ८, २; २०,
 १, ४; आश्रौ; वा १, १; ७,

२८^{१५}; पा ५, १, ५२; पचने
 आश्रौ ८, ११, ११; बौधि;
 पचति आश्रौ ७, २८,
 ८^{१६}; १६, १३, १; बौधि;
 पचति वा ७, २३, १^{१७}पचामि कप्र
 ६, १०३; १२, ३; अश्रौ ३: १३;
 पचन्तु आश्रौ ४, ३३: २७;
 पचन्तु आश्रौ ३, २, १, ५^{१८}; १^{१९}
 आश्रौ ४, १६, ५, ५, १०, १०;
 बौधि; १^{२०}पचत्पच कप्र ३५, १,
 २, ३६, ९, ३, १^{२१}पचत्, > वा कप्र
 ९, ५, कप्र ७, ३३; अपचथाः
 बौधि १५, ८: ३^{२२}; १^{२३}पचः
 आश्रौ २०, ६, ५; द्विधौ १४,
 २, ६; पचन्तु बौधि १७, १९:
 २८४४; माश्रौ; पचन्तु वाधुधी
 ३, ४: ९; आशु ४, ४, १४;
 पचन्तुः काश्री ४, १३, ९.
 पचन्तु बौधि २४, १३: ९^{२४};
 पचात् वृदे ४, १२६; पचिन्तु
 पावा ६, ४, १२०^{२५}; पचयन्ति
 पावा १, ४, २३.
 पच्यते बौधि १२, १५: २४;
 वाधुधी ४, १२: १२; कप्र ५३, ३,
 ३; आश्रय २, ७, २; द्विधु २, २,
 २३; पचयन्ते बौधि ९, ४: ९;
 १०, ७: २; वैधौ १३, ५: ७;
 कप्र ९, ४, २; शंभु ३७४; विधु
 ४३, २३; पा ५, १, ९०;
 १^{२६}पचयन्त काश्री १५, ९, २४;
 बौधि १७, ३२: ५^{२७}; ६; माश्री
 ५, २, ४, ५; द्विधौ १३, ८, ७^{२८};
 अपचयन्त वृदे ५, १७; पच्येत

a) विप.। कञ्>पचः प्र. उभं. (पा ४, ४, १०४)। b) विप.। वस.। c) 'पङ्क्तिपठ' इति पाठः।
 यनि. शोचः (द्व. वैधौ १७, ५: ४)। d) विप. (महाभाष्ये-।) वस. उप. अर्थः।। e) विप.। इत्स.>वस.।
 f) वैप ११.। g) वा. क्रि.वि.। वैप २, ३६. प्र. (द्व. वैताश्री ३२, १४ पदाद्यप्राह)। h) =विपट्-विशेष-। वस.।
 i) =श्रीक-। व्यु.। <✓पञ्च इति अन्त.. <✓पा [अर्थः?] इति पाठभो.। j) वा ६, १६ पावा १, ४, २३;
 ३, १, ८७, ७, २, १०; १३ परावृत्तः प्र.। k) कान्दसं कम्प [द्व. कैमटः]।

गोष्ट १,४, २३.
 पाचयति बौश्रौ २, १२: २८;
 ६, १: २४; १२, १५: २३; १५,
 २: २०; पाचयन्ति या २, २२;
 पाचयति बौश्रौ २४, २१: ७;
 पाचयेत् वैगृ ५, १३: ८; आपघ
 २, ८, ४; हिघ २, १, १०५.
 पक्त्वे कौगृ ५, ५, ५१.
 पक्त्वंय- -व्य: या ३, १२.
 पक्ति- पा ३, १५; ९६; -क्ति:
 या १, १; -क्ती: शुप्रा २, ६४१.
 पक्ति-वैषम्य- -म्यात् आपश्रौ
 २४, ४, १७; बौश्रौ २८, ५: ७;
 मीस् ११, ४, ३८.
 पक्त्र- पाउ ४, १६७.
 पक्त्वा कश्रौ ४, ८, १०; १४, १,
 १७; १५, ९, २८; आपश्रौ.
 पक्, क्वा- पा ८, ३, ५२; -क्: शाश्रौ
 १२, १७, ११; बौश्रौ १२, १६:
 ४; हिश्रौ २, ३, ३९; अश्र २,
 ५१; -क्मः शाश्रौ १२, १६, १;
 १५, १९, १०; १८, ११, २;
 काश्रौ; या ३, ८; ५, ३××;
 -क्या वैगृ ४, ३: १८;
 -कस्य गौघ ७, २१; -का
 आपश्रौ १४, ३३, १०; हिश्रौ
 १५, ८, ४३; लाश्रौ ८, ३, ४;
 -का: बौश्रौ २, १०: ३४१;
 -कान् आपश्रौ २, २, १: ३××;
 -कान् काश्रौ २२, ३, ४१; २६,
 १, २७; मागृ २, १४, २८;
 -कानि वैगृ ४, ८: ११; -कान्
 आपश्रौ १६, ५, ११; माश्रौ ६, १,
 २, १९; वाश्रौ; -कायाम् काश्रौ

१५, १०, २; १६, ७, १०; -कामु
 बौश्रौ १०, ७: ५; वैताश्रौ ८,
 ४; -के शाश्रौ १२, १५, १;
 -क्केन वैगृ ४, २: २; ३: १७;
 ६, १७: ५××; -क्केषु आपश्रौ
 ६, ३१, ९; १५, ४, ६; बौश्रौ.
 पक्क-कषाय- -य: विघ ९६, १.
 पक्क-फल- -लम् आमिगृ २, ४,
 ९: ३.
 पक्क-होम- -म: बौगृ १, ७,
 ११××; -मात् बौगृ १, ५, १५;
 -मे बौगृ १, ५, १६.
 पक्का(क्-अ)सि- -नौ जेगृ
 २, ९: २५.
 १पक्का(क्-अ)न्- -न्म काश्रौ
 २०, २, १५; -स्य बौपि ३,
 ४, २३; -कानाम् विघ ५, ८४.
 २पक्का(क्-अ)क्- -क्का: शाश्रौ
 ८, २१, ११.
 पक्का(क्-अ)रान- -नम् बौश्रौ
 १५, ७: २१; ८: १; वाधूश्रौ
 ३, ७५: ५.
 पक्के(क्-इ)ष्टर्का, का- -चित-
 -तानि विघ २३, ४१; -ते विघ
 २३, ४५.
 पच्>पच-प्रकृ(ट)>ट्या-, पच-लघ
 (रा)>णा- पाग २, १, ७२.
 पच- पा, पाग ३, १, १३४.
 पच- वा ३, २, ३३.
 पचत्- -चन् कौस् ६१, ३२१; अश्र
 १२, ३१; पावा ६, १, ६७;
 -चन्तम् कौस् ८६, ४१.
 पचत्>पत्-भृज(त्)>ता- पाग
 २, १, ७२.

पचत्, ता- पाउ ३, ११०; -त्त:
 आश्रौ ६, ५, २५; या ६, १६;
 -ता निघ ४, ३; या ६,
 १६१; -त्तै: आपश्रौ २०,
 ११, १६; १७, ४; बौश्रौ १५,
 २८: १६; हिश्रौ १४, ३, ५५.
 पचत्-वाहस- -हस: शाश्रौ ८,
 २१, ११.
 पचन्- -नम् बौश्रौ ९, ३: २५;
 १०, ६: ३; २२, २: ९; माश्रौ
 ४, १, २१; ६, १, २, १७; शंघ
 १७६; बौगृ ३, १०, ३; -नानि
 आप ७०, ११, २१; -ने बौश्रौ
 २२, २: १७; बौगृ २, ८, २१;
 वैगृ ३, ७: १; आपघ २, ३,
 १६; हिघ २, १, ४७; -नेन
 बौश्रौ ९, ३: ३०××; माश्रौ;
 -ने: वैश्रौ १३, ५: ४.
 पचन्-भाण्ड- -ण्डानाम् शंघ
 ३३५.
 पचना(त्-अ)लय- -ये वैघ ३,
 ४, १०.
 पचमान- -ना: बौश्रौ १५, ३: ४;
 १८, १८: ९.
 पचमान-कर्- -का: बौघ ३, ३,
 २: ३.
 पचि- पाउ ४, ११८.
 पचिलिम्- पाउ ४, ३७.
 पच्यमान, ना- -ना अश्र १२, ५११;
 -नान् आपश्रौ १५, ४, ४; भाश्रौ
 ११, ४, २; -नानाम् वैश्रौ १८,
 १६: ७५; आपश्रु ९, १७;
 हिश्रु ३, ३६; -नानि वैश्रौ १३,
 ५: ९; हिश्रौ २४, १, २१;

a) भाप. । b) पाभे. वैप २, ३६. स्वाहुस् ऐवा ७, १५ टि. द्र. । c) विप. । बस. उप.
 =कोषादि- [नु. दैमक्षोप. । d) श्चे इति पाठः? यनि. श्लोघः । (तु. C.) । e) विप. । बस. । f) प्रथमस्थलीयः
 पाठः । g) विप. । कम. > तुव. पूष. [पक्षे] हस्ताभावः उलं. (पा ६, ३, ६५) । h) वैप १ द्र. । i) पचवे
 इति पाठः? यनि. श्लोघः (तु. उत्तरं त्यलम्) । j) स्वार्थे कः प्र. ।

-नाम् आपथी १६, ५, १०;
 वाथी २, १, १, ४४; शिथी ११,
 १, ६३; वेताथी २८, १३.
 १ पाक^३- पाण ५, १, १२३; -कः मय
 ७०^३, ९, ५; बाध ११, १२;
 पावा १, ४, २३; मीसु १०, ३,
 ३६; -कम् मय ३६, १४, १;
 -कस्य मीसु १०, ३, ३७; -कात्
 वीथी २९, १२ : ७; विध ६७,
 १; -के काथी १६, ४, २६;
 वेथु ३, १९ : ३; विध ५९, ७;
 पा ५, ४, ६५; ६, १, २७; मीसु
 ७, २, २०.
 पाक-कम्-मूल-फल- -लानि
 वीथी २८, १३ : २.
 पाक-कर्ण-पर्ण-पुष्प-फल-मूल-
 वालो(ल-उ)त्तरपद- -दात् पा
 ४, १, ६४.
 पाक-ता- , पाक-व- पा ५, १,
 १२२.
 पाक-मूल- -ले पा ५, २, २४.
 पाक-यज्ञ^४- पावाग ४, २, ३५;
 -कः साथी ५, ४, २३; काय
 १३, १, २; बाय १, ३; गोय १,
 ९, १६; दाय १, १, २०; -कस्य
 काथी ६, १०, २८; -जाः प्राथी
 १२, १, ३; साथी; -कात् दाय
 १, ३, १०; काय; -कलात् दाय
 १, १०, १६; वीथ ४, ५, १, ९,
 १४; बाय १, ३६; गोय १, ९, ९;
 -ले प्राथी १२, १, ८; साथी ४,
 ९, ५; -लेन आपथी २, १५, ५;

वेथी २०, ३२ : ९; पाय ३, १२,
 ३; आपथ १, २६, ८; शिथ १,
 ७, १९; -लेषु काथी ६, १०,
 २६; दाय १, ३, ५; वीथ १,
 ११, २; बाय ३, १२ : १; गोय
 १, ९, ८; -श्रीः वेथ १, १ : १४;
 वेथ १, ५, ३; वीथ १, ६४.
 पाकयज्ञ-पशु- -यान् माय
 २, ५, ६.
 पाकयज्ञ-प्राग्नि- -प्राग्नी
 वेथ १, ४, १.
 पाकयज्ञ-वन् मीसु ९, २, ४.
 पाकयज्ञ-विधान- -नेन मय
 ३१, ६, ३; ३३, ४, ३; ६५, ३, ४;
 म्यां २५, २१.
 पाकयज्ञ-विधि- -विधः पाय
 १, ४.
 पाकयज्ञ-शव- -श्वः काय
 २, ९.
 पाकयज्ञ-संस्था^५- -स्थात्
 वेथ ६, १८ : ११.
 पाकयज्ञ-संस्था^६- -स्थाः
 वीथी २४, ४ : १; ३; ५; वीथ १,
 १, १; २, ११, ७१; वीथ ८, १६;
 -स्यात्मात् वेथ ६, १९ : १.
 १ पाकयज्ञिक^७- > °क-
 धर्म- -धर्मोऽपि दाय २, ४,
 ४ : ११; वीथ ३, ७, ११.
 पाकयज्ञिक-संस्था^८-
 -लानि वीथ १, ३, १२.
 २ पाकयज्ञिक^९- पावा ४,
 २, १५; -काः कय १, २, १३.

पाकयज्ञे (ज-३) शिक्यं-
 विदु- -विण का २३, ११, ५.
 पाकयज्ञो (ज-३) पवाग-
 (२-कात्)- -मिम् माय २, १, १.
 पाक-वेद- -स्थात् काथी ८,
 ८, ३५.
 पाक-संयुक्त- -कम् मीसु १०,
 १, ४१.
 पाक-संस्था^{१०}- -स्थाः शाय १,
 १, १५.
 पाक(क-अ)प- -मे कय २,
 ९, ३.
 पाक(क-अ)ध-भोजना(न-अ)
 ध- -धे शाय २, ५, १४६.
 पाकाध भोजनाध-वायी-परशु-
 दाय-कात्- -जानाम् काय २,
 २२, १५.
 पाकिमन्- पा ५, १, १२२.
 पाक- पा २, १०.
 पाक- > पावा(क-अ)भाष-
 -ले काथी ४, ११, १०.
 पाक- -कः वेथ ३, १४, ३.
 पाक- -कम् मय ६, ७, ४, १.
 पाक- -कयः कय २, ५, १३.
 पाक- प्रम्. √पय ३.
 पाक- (> पकिक-पा.) पाग ४,
 ४, १०.
 पाकयमान- √पय ४.
 पाक- -जाय कया ४, ६११.
 पाक- -श्वः माय १, २६, ८.
 पाक-शोक- > पृथक्शोवि-
 -विना वा ५, २२४.

a) वेथ १ द. । b) वस. उप. माये का प्र. । c) वस. उप. माये अत् प्र. । d) शार्थे इत् प्र. उर्य. (पा ५, ४, ३४) । e) 'पिक' इति पाठः । निति. शोचः (इ. वीथ.) । f) विप. (भूतिकर्मन्-). वस. उप. भाप. । g) विप. । अने व्याकृतां तस्यैवमर्थे वा उन् प्र. (इ. पा ४, १, ६८) । h) 'पिक्याः इति शोचः । i) वस. > कय. । j) = सप्तम-विधेय- । वस. । k) निति. त्वाने सपा. द्वि. 'माये' वासपीपरशु दाय-कात्पाकयज्ञे इति पाठः । पाक- = [सप्तमोक्त-पाठ- । वासी- = पृथक्शोवि- (इ. वेथ १ वासी- । पाक- = सुद्वय- । l) = १-२ कय- (वेथ १ द.) ।

२५३- -अम् लाश्रौ ७, ३, ३.
 पञ्चतौरश्रवस- -सयोः लाश्रौ ७,
 ३, ४.
 √पञ्च पाधा. भ्वा. आत्म. व्यक्ती-
 करणे; चुरा. पर. विस्तारवचने.
 १५३- पाठभो २, १, २७५; पाग
 ४, १, १००; -ञ्च आश्रौ १, ५, २;
 २, १२, ५१; ३, ८, १५५; शाश्रौ;
 या ४, २३१; २७; -ञ्चञ्च
 शाश्रौ ८, ८, ११; १३, २८, ८;
 काश्रौ १७, ६, २; ८, २; आपश्रौ;
 -ञ्चमिः आश्रौ ३, १, ११; शाश्रौ
 ७, २७, २५; १३, १०, ४; काश्रौ
 २५, १, १०; आपश्रौ; -ञ्चमिः
 ऽञ्चमिः आपश्रौ २, ११,
 २३; १४, २३, १४; माश्रौ
 ३, ७, २; क्षस् १, ७; ११;
 आश्रिण्; -ञ्चभ्यः आपश्रौ २२,
 १७, ७; हिश्रौ १७, ६, ४२;
 जैश्रौका १६८; बौण् २, ९, ८;
 भाण्; -ञ्चसु आश्रौ १०, ९, २;
 शाश्रौ ९, २३, १३; १४, ४, २;
 १६, ६, ११; काश्रौ; -ञ्चानाम्
 आश्रौ ४, १५, २; ६, १०,
 १९; १२, १३, ५; शाश्रौ.
 पञ्च-क^१- पाग २, ४, ३१; -कः
 ऋअ १, ५, ७, २, ४, १०; शुअ
 ५, ३०; अअ १५, ७; १८; अर्प
 ५; १४; १८; २२; -कम् कप्र
 ३, ६, १; वाध २, ४८; विध ४, ७;
 ६, २; ऋअ ३, १६; १९; अअ;
 -काः अप ४७, १, ८; ऋअ १,
 ४, २; ६, २; शुअ ५, १५; ३३;
 ऋया १६, १८; ४३; पि ३, ४४;

वेज्यो १४; -कानाम् ऋअ ३,
 ४१; -के कप्र ३, ६, ३; ऋअ
 ३, ३२; पि ३, ५५; -केन काण्
 ६७, २; ६८, २; ६९, २; -कैः
 उनिस् १ : ५०; -कौ ऋअ २,
 ४, १०.
 पञ्चका(क-अ) वलिप्त- -सैः अप
 ६५, २, २.
 पञ्च-कपाल- पावाग ५, १, १२४;
 -लः शाश्रौ २, ५, ८; काश्रौ ४,
 ११, ९; १०, ९, १८; आपश्रौ; या
 ७, २४; -लम् आपश्रौ ५, २८,
 १; १३, २५, ५; बौश्रौ २०,
 १९ : १०; माश्रौ; -लस्य बौश्रौ
 ३, ३, १६; -ले शाश्रौ ८, १३, ५.
 पञ्च-कर्ण- -र्णानाम् काण् ४, ९.
 पञ्च-कला^१- -ला ऋत २, ४, ३.
 पञ्च-कल्प^१- पा, पाग ४, २, ६०.
 पञ्च-कुल- -लैः गौपि १, ५, २९.
 पञ्च-कृत्वस(ः) पाग १, ४, ५७०;
 शाश्रौ १६, १८, १; काश्रौ ७, ८,
 १; ८, १, २५५; आपश्रौ.
 पञ्च-कृणाल- -लम् अप ३३, ३,
 २; गौध १२, १५.
 पञ्चकृष्णलो(ल-ऊ)- -ने विध
 ९, ९.
 पञ्च-कोण^१- -णम् आश्रिण् २, ५, १ :
 १९; जैण् २, ९ : १३; अप २५,
 १, ३; ७.
 पञ्च-कम^१- -सः उसू २, ३०.
 पञ्च-कल्प- -क्यम् आश्रिण् २, ७, ७ :
 ५; अप १३, २, ५; ३८, ३, ३;
 ३९, १, ११; विध २२, १८; २३,
 ४५; ५१, ४७; ५४, ६; ७; काव

२७७ : ३; -क्येन आश्रिण् २,
 ५, ९; ४; ३, १०, २ : ११;
 बौपि २, ८, ७; अप १९, ४, २;
 वाध २७, १४; बौध ४, ५, १४;
 विध २२, ७९; -क्यैः वैण् ७, ३ :
 ३; ४; १४; ६ : ९; जैण् २,
 ६ : ४.
 पञ्चगव्य-घृत-दधि-क्षीरा(र-अ)-
 क्षतोदक-कुशोदक-रत्नोदक-
 कैः वैण् ४, १० : १४.
 पञ्चगव्य-प्राशन- -नम् सुध
 ३६.
 पञ्चगव्या(व्य-आ)हार^१- -ः
 शंघ ३९२.
 पञ्च-गुण, णा- -णः शंघ ३२४;
 -णम् वेज्यो २८; -ण्य या
 १४, ४.
 पञ्च-गुह्यक-कारित- -तम् अप ७,
 १, १२.
 पञ्च-गृहीत- -तम् काश्रौ ५, ४, २;
 १२×५; आपश्रौ; -तानि बौश्रौ
 ५, १२ : ७; ६, १८ : १२; २१,
 ४ : १९; १३ : १२; १३; -तै
 काश्रौ १८, ३, ३; माश्रौ ५, २, २, ४;
 ६, २, ४, १७; वाश्रौ २, २, ३,
 २१; -तेन आपश्रौ १४, ३३, ८;
 काश्रौ १७, ३, २; बौश्रौ.
 पञ्चगृहीता(त-आ)दि- -दि
 काश्रौ १७, ७, ७.
 पञ्च-चतुर-गुण^१- -णाः अप ६४,
 ३, ६.
 पञ्च-चत्वारिंशत्- -शत् विध ९६,
 ६९; आपश्रु १७, ५; -शत् ऽ-शत्
 हिण् ५, ४५.

a) = साम-विशेष-। व्यु. १। b) वैप १ द.। c) तु. पागम.। d) स्वार्थे तदस्य-
 परिमाणो वा कन् प्र.। e) विप.। बस.। f) = अथर्ववेदिन्-। पाञ्चकल्पिक- > प्र. लुकि
 यनि. (दु. पाग. पागम. B। कौसू. भू. LVII)। g) = कम्-विशेष-। बस.। h) विप. (सस्य-)
 बस. > बस.।

पञ्चचत्वारिंशद्-अङ्गुला(ल-आ)
 यत- तम् वैश्रौ १,३: ९.
 पञ्च-चितिक^१- -कः शुभ्र २,३;
 -कम्^२ वाश्रौ २,१,४, १७.
 पञ्च-चितीक- -कम्^३ आपश्रौ १६,
 १५, ३; बौश्रौ २२, ४: ७; ९;
 वैश्रौ १८, १२: २२; हिश्रौ
 ११, ५, ३९.
 पञ्च-चू(ङ>)डा^४- -डाः काश्रौ
 १७, १२, २०; माश्रौ ६, २, २, ५^०;
 वाश्रौ २, २, १, २४^०; कागृ ४०,
 ५; कागृउ ४४: २०; वागृ ४,
 १८; -डानाम् आपश्रु ९, १६^०.
 पञ्च-चूडा(ङ-अ)ङ्गिरस्- -रसाम्
 चाश्र १७: ७.
 पञ्च-चो(ङ>)डा^५- -डाः आपश्रौ
 १७, ३, ७^०; बौश्रौ १०, ४५:
 १२^०; वैश्रौ १२, ४: १५^०;
 हिश्रौ १२, १, ३३^०; आम्रिगृ २,
 ५, ३: ४६^१; बौगृ २, ७, २८;
 -डानाम्^६ वैश्रौ १८, १६: ७४;
 बौश्रु ७: ४; हिश्रु ३, ३५;
 -डाभिः बौश्रु ५: २१.
 पञ्च-जन^७- पाग ४, ४, ९९; -नाः
 अप ४८, ७८^१; निघ २, ३^१;
 या ३, ७; ८; शौच ४, १०६;
 -नात् पावा ५, १, ९; -^१नाम्^०
 आपश्रौ ९, १०, १६; माश्रौ ३,
 १३, १; हिश्रौ २, ६, ३४; ७,
 १, ६०; -^१नानाम् आपश्रौ २,
 ७, ९; बौश्रौ ३, १६: १२; २४,
 २७: ११.
 पाञ्चजनीन- पा ४, ४, ९९.
 १पाञ्चजन्य, न्या^८- पाग ४,

२, ८०; -^१न्यः आपश्रौ ५,
 १७, २; हिश्रौ ३, ४, ४७;
 -न्यम् आश्रौ ९, ५, १६;
 अप्राय ६, ९; पावा ४, ३, ५८^१;
 -न्यया आश्रौ ७, १२, ९; शाश्रौ
 १०, ६, ८^१; या ३, ८^१;
 -न्यानि अप ३२, १, २१; -न्ये
 जैश्रौप १४^६.
 पञ्चजनीन, ना^९-पावा ५, १, ९;
 -नया या ३, ८.
 पञ्चजनी(य>)या^{१०}- -या शाश्रौ
 १०, २, ८; १८, २२, ९; -यायाः
 शाश्रौ १४, ५६, १४.
 पञ्च- पा ५, १, ६०.
 पञ्च-तपस्^{११}- -पाः शंघ १५९:
 १०; विघ ९५, २.
 पञ्च-तय- -यः बौश्रौ १७, ४४:
 १७; -यम् बौश्रौ १५, २८:
 २६; -यानि बौश्रौ ५, १८: २;
 -येन बौश्रौ २४, १: १.
 पञ्च-तस (ः) बौश्रौ १५, २३: १५;
 १६.
 पञ्च-तारक^{१२}- -काः अप ५२, ६, ५.
 पञ्च-त्रिंशत्- -शत् अश्र १०, ८.
 पञ्चत्रिंश^{१३}- -शम् वेज्यो ३०.
 पञ्चत्रिंशद्-राश्र- -श्रः आश्रौ
 ११, ४, ६; -श्रम् आपश्रौ २३,
 ६, १; -श्रेण हिश्रौ १८, २, १२.
 पञ्च-त्व^{१४}- -त्वम् कप्र १, ६, १४; २,
 ७, ५; ३, ७.
 पञ्च-दक्षि(णा>)ण^{१५}- -णम्
 अप्राय ६, ४.
 पञ्च-दशन्- -श आश्रौ १, २, २२;
 ४, १५, २; ६, ४, १०; ७, ५, ११;

शाश्रौ २, ५, ९; ३, ७, २××;
 काश्रौ; या २, १०; १५; ३, १; १९;
 -शभिः शाश्रौ १५, २२, १;
 आपश्रौ; -शभ्यः काश्रौ ९, २,
 २२; -शसु आपश्रौ ११, ४,
 १३; आपश्रु ५, १; हिश्रु २, ७;
 -शसुऽ-शसु काश्रौ ८, ३, ९;
 वैश्रौ १४, ४: २; -शानाम्
 लाश्रौ १०, १०, ११.
 पाञ्चदश^{१६}- -शयम् शाश्रौ
 २, ३, १६; ३, ११, ६; -श्येन
 हिश्रौ २१, २, २; ४.
 पाञ्चदश^{१७}- -शः आश्रौ ४, १२,
 १; शाश्रौ; -शम् आश्रौ १०,
 १२, ६; १६, २३, ५××; आपश्रौ;
 -शस्य शाश्रौ १६, २४, ६;
 बौश्रौ १६, ३४: ७; १८, ४०:
 ११; निम् ८, ३: १८; -शाः
 आश्रौ १२, ५, १६; काश्रौ;
 -शात् वेज्यो १६; -शान् निम्
 ६, १०: ६; १०, ४: ११;
 -शानाम् आश्रौ ११, ५, ३;
 निम् १०, २: २५; -शानि
 शाश्रौ ९, २१, ३; १४, १२, ७;
 आपश्रौ; -शाथ शाश्रौ ९, २७,
 ११; -शै शाश्रौ १०, १२, १४;
 आपश्रौ; -शेन आश्रौ ४, १२,
 २: १२, ३, ३; ४, २३; काश्रौ;
 -शौ शाश्रौ १४, २५, २, आपश्रौ.
 पाञ्चदशी^{१८}- पाग ४, ३,
 १६; -शी बौश्रौ २४, २१: ५;
 बौघ; -^१शीम् आपश्रौ ४, १,
 ८; बौश्रौ २०, १: ३१; माश्रौ
 ४, १, ११; वाधूश्रौ ४, १६: ३०S;

a) वैप १ द्र.। b) परस्परं पाभे.। c) सपा. चूडा: <> चोडा: इति पाभे.। d) परस्परं पाभे.। e) पाभे. वैप १, १८८ १ द्र.। f) तु. पाका. पासि.। g) =अग्नि-विशेष-। h) तस्यैवमीयत् छ> इत्यः प्र. उरसं. (पा ४, २, १३८)। i) विप.। बस.। j) =मरुण-। k) उप. = २दक्षिणा-। l) भावे ष्यञ् प्र.। m) वैप १, १०-३३ k द्र.। n) विप. (तिथि-, ऋच्- प्रम्.)।

वाश्रौ १, १, २, ३; हिश्रौ १, २, ५; -शीषु विध ४९, ७; -श्याः वृद्धे ५, १३३; -श्याम् आपश्रौ ८, २२, १; आश्रिण्.

पाञ्चदश- पा ४,

३, १६.

पाञ्चदश्या (शी-आ)

दि-द्वा (<द्वि-) - द्वे ऋञ् २, ३, ५३.

पाञ्चदश-त्रिवृत्^० - वृत् लाश्रौ ८, ११, १०; -वृत्तौ शाश्रौ १३, २१, ३; -वृद्ध्याम् निसू १०, ६; १०^३.

पाञ्चदश-पर्याय- -चैः लाश्रौ ६, ६, १५; -चौ लाश्रौ ६, ७, १६; ८, १४.

पाञ्चदश-प्रभृति- -तयः शाश्रौ १६, २१, ४; -तीन् निसू ७, ५; ३.

पाञ्चदश-भाग- -गः काशु ५, ८.

पाञ्चदशभागीय, या- -यः वैश्रौ १८, १६; ७३; -याः आपशु ९, १४; हिशु ३, ३३; -यानाम् आपशु २०, १६; हिशु ६, ५७; -याभिः आपशु १०, ४; ७; हिशु ३, ४३; ४६.

पाञ्चदश-वर्तनि^० - ङनिः बौश्रौ १०, ३६; १७; १४, २२; १७.

१पाञ्चदशषट्क- -कान् निसू ४, ११; ६.

पाञ्चदश-सप्तदश- -शान् निसू ४, १३; ९; -शानि बौश्रौ १८, ३९; ६; -शौ बौश्रौ २५, ५; १२.

पाञ्चदश-सम्पद्- -म्पत् निसू

१०, ६; २५; २८; ७; २८.

१पाञ्चदश-स्तोत्र- -त्रम् वैश्रौ

१५, ३६; ११; -त्रे निसू ३, ४; २७.

२पाञ्चदश-स्तोत्र^० - -त्रात्

निसू ४, १०; १.

१पाञ्चदश-स्तोम- -मः या ७,

१०; -मस् शाश्रौ १०, ३, १; लाश्रौ ८, १२, १०; -मस्य शाश्रौ १४, २३, २१; -माः क्षुस् ३, २; २२; -मेन वैश्रौ १७, ११; १२.

२पाञ्चदश-स्तोम^० - -मानि

लाश्रौ ९, ११, ६.

पाञ्चदशा (श-आ)घ (दि-अ)

र्थ- -र्थः पादा ५, १, ५८.

पाञ्चदशौ (श-ए) कविंश- -शौ

बौश्रौ १८, ३१; ८; वैताश्रौ ३५, १७.

पाञ्चदश-क^० - -कम् अश्र ११, २७^२; -के अश्र ५, १८; अपं २; ४९; -केन आपशु ५, १२.

पाञ्चदश-कपाल- -रुम् बौश्रौ २८, ४; १६.

पाञ्चदश-कृत्वस् (:) लाश्रौ १०, १२, ९; अप ४१, २, ७; ११.

पाञ्चदश-छदि^० - -दि हिश्रौ ९, ७, ४.

पाञ्चदश-छदिस^० - -दिः वैश्रौ १७, १; २.

पाञ्चदश-दर्भ- -भैः वैश्र १, ८; ६.

पाञ्चदश-पर्यन्त^० - -न्तः काश्रौ ६, १, २९.

पाञ्चदश-भेद^० - -दाः चव्यू २;

३५.

पाञ्चदश-मात्र- -त्रः नाशि २, ७, १; -त्राः गौष १, ५५.

पाञ्चदश-नात्र- -त्रः बौश्रौ १६, ३३; ४; ७; -त्रम् आपश्रौ

२३, १, ४; अप १, ३३, ६; -त्रस्य निसू ९, १०; ३७; मीस् ८, २,

२९; -त्राः आपश्रौ २३, २, १; हिश्रौ १८, १, १७; -त्राणि

आश्रौ ११, २, ९; काश्रौ २४, १, २५; -त्रे ब्राश्रौ १, ४, २६; लाश्रौ

१, ४, २० x x; -त्रेण वाध ४, २८.

पाञ्चदश(श-ञ्)च^० - -चैः शुञ्च

३, २१७; २३३; -चैस् अश्र ५, २९; -चै शाश्रौ १८, १३, ५;

-चैभ्यः अप ४६, १०, १२^१.

पाञ्चदश-वर्ष-> ^०वार्षिक^०-

-काणि आपश्रौ ८, २२, १२.

पाञ्चदश-वि(घा>)ध^० - -धस्

निसू २, १३; २०.

पाञ्चदशविध-ता- -ताम्

निसू २, १३; १९.

पाञ्चदश-सामिधेनीक, का^०-

-कम् बौश्रौ २६, ४; १; -का शाश्रौ ५, ३, ३; ५, ३; बौश्रौ २०, १८; १०; २२; १४; २३, १; २.

पाञ्चदश-सामिधेनी-दास्-

-रुणि भाश्रौ १, ५, ४.

पाञ्चदशा (श-अ) धर- -रस् वाधुश्रौ ४, १००; ८; १९; -रात् ऋषा १६, ६; -रेण शाश्रौ १०, ८, ११^२.

पाञ्चदशाक्षर-ता- -तायाः

निसू १, १; १३.

a) पुं. न. च द्वस. । b) वैष १ द्र. । c) विप. । बस. । d) विप. । कन् प्र. (पा ५, १, ५८) । e) विप., नाप. । f) विप. (चातुर्मास्य-विशेष-). तात्रभविके ठकि प्र. उप. वृद्धिः (पा ७, ३, १६) ।

पञ्चदशाक्षर-प्रभृति-तीनि
 निम् १,६ : १३.
 पञ्चदशा(श-अ)ष्टम्-मौ वैज्यो
 ११.
 पञ्चदशा(श-अ)ह-हम् विध
 २२,३; -हेन काध २७३ : ४.
 पञ्चदशिक,का^१-केन आपशु
 ६,७;१०;११; १२; ७,१; हिद्यु
 २,७^१;३५;४०;४५;४७.
 पञ्चदशिका-षट्त्रिंशिका^०-
 -कयोः बौशु १ : ३७.
 पञ्चदशिका (का-अ)ष्टिका-
 -कयोः आपशु ५,५; बौशु १ :
 ३६; हिद्यु २, १४^१।
 पञ्चदशिन^०-शिनः आपशौ
 २०,१४,६;२३,९, १३.
 पञ्च-दारु-कृत-ते विध ७०, ७.
 पञ्च-दिग्-दिशः शुभ्र २,२१५^१.
 पञ्चदिश्य-श्यानि शुभ्र १,
 ४०६.
 पञ्च-घा आपशौ ५,१८,२; बौशौ;
 पाग १,४, ५७^६.
 पञ्च-घातु^१-तु आपशौ १,४,१०;
 २,९,२; माश्रौ; वैश्रौ ५,६;५^१.
 पञ्च-धारा^१-राम् कप्र १,१,११.
 पञ्च-नख^१-खाः बौघ १,५,१३१;
 गौघ १७, २५; -खानाम् वाघ
 १४,३९; आपघ १,१७,३७;हिध
 १,५,६८; -स्वम्भ्यः गौघ २३, २७
 पञ्चनख-मल्य-वराह-मांस-
 -सानि विध ६६,१४.
 पञ्चनख-मांसा (सा-अ)शन-

-ने विध ५१,६.
 पञ्चनख-विण्-मूत्रा (त्र-अ)
 शन-ने विध ५१,४८.
 पञ्चनख-शव-वम् विध २२,
 ७०.
 पञ्चनखा (ख-अ)न्तरा (र-अ)
 गमन-ने विध ३०, २२.
 पञ्चनखा (ख-अ)स्थि-स्थि
 विध २२, ७५.
 पञ्च-नद^१-दम् अप ५०, ३, ५;
 -दे विध ८५, ५१^६.
 पञ्च-ना (मन् >) म्नी^१- म्नीम्
 पाशु ३,३,५.
 पञ्च-निधन^१-नम् क्षुसू ३,५ : ६;
 निम् ६,७ : ४३; -ने लाश्रौ
 १,६,२९^३.
 पञ्चनिधन-वत् द्राश्रौ २, २,
 ३०^३.
 पञ्च-पञ्चाशत्-शत् अश्र १२,
 २; -शतः हिश्रौ १८, ४, ६४;
 गौषि २,४,१०.
 पञ्च-पति->पञ्चपत्य^१-
 -स्यानि अश्र २,१९,
 पाञ्चपत्य-गण^०-गस्य
 अश्रम् ३.
 पञ्च-प(द् >)दा^१-दा शंश्रौ
 १४,४, ३; १६, २४, २; १८,
 १४,५; निम्; -दाः शंश्रौ ७,
 २६,६; काश्रौसं ६ : १५; निम्
 २, १२ : १९; अश्र २,२४xx;
 -दाम् शंश्रौ ६, ६, ६; उनिम्
 १ : ५६; -दायाम् निम् १,

७:९;-दे अश्र १३, १; १७, १xx.
 १पञ्चपदी-पाग ५,४,१३९;
 -शंश्रौ बौश्रौ १४, १४ : ३१;
 आशु १, ७, १९; कौशु १, ८,
 २८; शांशु १,१४,६.
 पञ्च-पदा(द्-आ)याम-मम् बौशु
 २० : ८.
 २पञ्च-प(द् >)दी^१-पद्याम् अश्र
 १,३,१४; ३, १, १३; शौच १,
 ८८; ३, ५९.
 पञ्च-पर्याय^१-यः अश्र ४ : ३९.
 पञ्च-पर्वन्^१-वर्णा कौसू २६, ९;
 १०.
 पञ्चपर्वे(व-इ)पु-कुम्भ-कम-
 ण्डल-स्तम्भ-काम्पोलशाखा-
 युगे(ग-इ)ध्मा(ध-अ)क्ष-
 -क्षेपु कौसू ३७,३.
 १पञ्च-पशु-शुभिः आपशौ २१,
 २,१३; -श्याम् वाश्रौ ३, २,
 १,७.
 २पञ्च-पशु^१-शुः शंश्रौ १६, ९,
 २५; बौश्रौ १७, ६२ : १८;
 वैताश्रौ ३७, ७; -शौ काश्रौ
 १६,३,२४.
 पञ्च-पात्र^१-त्रः आपशौ २१,
 २१, १३; -त्रम् आपशौ २१,
 २१,११; हिश्रौ १६,७,१०.
 १पञ्च-पाद्^१-दम् अश्र २,९;
 अश्र २,१,१६४.
 पञ्च-प्रतिपाक^१-कानि निम् ७,
 ३ : २०.
 पञ्च-प्रयाज^१-जम् आपशौ ८,

a) विप. । तदस्यपरिमाणो ऋ प्र. । b) पा° इति पाठः? यनि. शोघः (तु उत्तरं स्थलम्) ।
 c) दशिकष° इति पाठः? यनि. शोघः । d) काष्टक° इति पाठः? यनि. शोघः (तु. आपशु ५,५) । e) वैप १
 द्र. । f) शम् इति पाठः? यनि. शोघः (तु. मा १७,५४) । g) तु. पागम. । h) विप. । बस. । i) वा°
 इति पाठः? यनि. शोघः । j) =देश-विशेष- [उपचारतः] । समाहारे द्विस. उप. <नदी-+ अक्ष प्र. (पावा ५,४,७५) ।
 k) =तीर्थ-विशेष- । l) वैप २,३ खं. द्र. । m) परस्परं पामे. । n) विप. । तस्येदमीयः ष्यः प्र.
 (पा ४,१,८५) । o) प्याग° इति पाठः? यनि. शोघः । p) समाहारे द्विस. । सर्वनामस्थान-संज्ञा- ।

२०, ७; बौश्रौ २४, ११: १०;
-जस्य बौश्रौ २४, १०: १६;
-जे बौश्रौ २५, ३१: ९; -जेन
बौश्रौ २४, ११: ११.
पञ्च-प्रश्न- -रनेन कौसू ५७, २१.
पञ्च-प्रस्थ^५- -स्थम् आग्निष्ट २, ३,
१: ३.
पञ्च-प्रादे (श >) शौ^६- -शाम्
काश्रौ १६, ३, २४; आपश्रौ १६,
४, ८.
पञ्च-प्रायश्चित्त- -त्स वैद्य २, १, ९.
पञ्च-प्लव- -वानाम चात्र ३९: २.
पञ्च-बिल^७- -लः शाश्रौ १५, १४,
१२; काश्रौ १५, ९, १; बौश्रौ
२४, २७: १४; १६; -फलस्य
आपश्रौ २, ७, ९; २०, २५, २;
बौश्रौ; -लेन आपश्रौ २०,
२५, १.
पञ्च-भाग- > भी (य >) या-
या: आपश्रु ११, ७, १०.
पञ्च-भूता (त-अ) धिपति- -त्ये
वैद्य ५, ३: २११.
पञ्च-भेद- -दा: चव्यु २: १४.
पञ्च-म, मा^८- -मः शाश्रौ ९, २४,
५; १६, २४, २०; काश्रौ; या
३, ८; -मम् आश्रौ ५, ८, ३;
शाश्रौ १, १०, ६; ७, १४, ७××;
काश्रौ; -मस्य आश्रौ ७, ७,
५××; शाश्रौ; -मा: बौश्रौ
२४, २७: १२१; २६, ११:
२७; शैशि; -मात् लाश्रौ १०,
६, १३; ७, १३; निसू; -मान्
माशि १२, १०; -मानि वैश्रौ
१, १: १९; -मायाम् बौश्रु ५:
२०; -मे आश्रौ १, ५, २४; ७,

११, ३९××; शाश्रौ; या १४, ६;
-मेन आश्रौ १०, ९, ८; आपश्रौ;
-मेषु शुप्रा ४, १६३; १६४;
-मै: लाश्रौ ७, ७, १८; बौशि.
पञ्चमी^९- -मी शाश्रौ ६,
६, ८××; काश्रौ; पा २, १, ३७;
३, १०; २४; २८; ४२;
पावा ६, १, २; -मी: बौश्रु
१, २, १३; -मीभि: बौश्रु ११:
१; -मीम् आश्रौ २, ४, १४;
काश्रौ ७, १, २१; आपश्रौ; -म्य:
काश्रौ १७, ८, १४; आपश्रु १७,
२; बौश्रु ८: १७××; हिश्रु ५,
४०; -म्या आपश्रौ १९, १७,
५; बौश्रौ १०, २९: ६; वैश्रौ;
पा २, १, १२; पावा २, २, १८^{१०};
-म्या: काश्रौ १८, ४, १२;
आपश्रौ १७, ४, ९; वैश्रौ; पा ५,
३, ७; ४, ४४; ६, ३, २; ७, १,
३१; ८, ३, ५१; पावा २,
४, ८३; -म्याम् आश्रौ २,
१७, १; २०, १; शाश्रौ; या ५,
२३; पा ३, २, ९८; -म्यौ आपश्रु
१६, १४; हिश्रु ५, ३७.
पञ्चमी-कर्मन्^{११}-
-मार्गम् या १, ७.
पञ्चमी-निर्दिष्ट-
-ष्टात् पावा ३, १, २; ६, १, ८३;
८, २, ४२.
पञ्चमी-निर्देश-
-श: पावा १, १, ६७; -शात्
पावा ३, १, १; ४, ४, ८२××.
पञ्चमी-प्रकरण- -णे
पावा ६, ३, २.
पञ्चमी-प्रतिषेध-

-ध: पावा २, ३, ३५; -धे पावा
२, ४, ८३.
पञ्चमी-प्रभृति-
-ति गौपि २, २, ३; गौध १५, २.
पञ्चमी-विधान-
-नम् पावा २, ३, ३२; -ने पावा
२, ३, २८; ३५.
पञ्चमी-वष्टी- -ष्टयो:
अप्रा २, २, २.
पञ्चमी-सूत्र- -त्रे
कप्र ३, ६, २.
पञ्चम्य (मी-अ) न्त^{१२}-
-न्तस्य पावा ६, ४, १.
पञ्चम्य (मी-अ)
न्या- -न्त्ये ऋश्र २, १, ८५;
११०.
पञ्चम्य (मी-अ)
भाव- -व: पावा २, ४, ८३.
पञ्चम्य (मी-अ) र्थ-
-र्थे या ६, १.
पञ्चम्यर्थ-शेक्षा
-क्षा या १, १७.
पञ्चम्या (मी-आ)
दि- -दि ऋश्र २, १, ९१; ८, ४६;
-दिषु अप्र ६३, ३, ९.
पञ्चम्या (मी-अ) वा
> द्या- -द्या: ऋश्र २, १,
१८७; १०, ७८.
पञ्चमिकर्^{१३}- -कम् निसू
९, ११: २७.
पञ्चमिकी- -कीम्
निसू ८, ६: १८.
पञ्चमन्त्व- -त्वम् नाशि १, ५,
११.
पञ्चम-प्रभृति- -तिषु वैश्रौ

a) विप. । द्विस. उप. = परिमाण-विशेष- । b) विप. । बस. । c) विप., नाप. [नाशि. प्रभृ.] स्वर-
विशेष- । d) विप. (तिथि, विभक्ति- प्रभृ.) । e) तु. पाका. पासि. । f) विप. (माहृतसामन्-) तस्थेदमीयषु
ठक् प्र. उंसं. (पा ४, ३, १२४) ।

१०, २१: ६; -तीन् वैश्रौ १०,
२१: ५; -तीनि लाश्रौ ७, १,
११.

पञ्चम-भाग- -गम् आपृशु
१६, ८; हिशु ५, ३०.

पञ्चमभागीय, या^०- -या
आपृशु ११, ३; हिशु ४, ४;
-या: वैश्रौ १८, १६: ८०;
८२; बौशु; -याभि: वैश्रौ १८,
१६: ८३; आपृशु १०, ४; ७;
११, १२; बौशु ८: २०×४;
हिशु; -याया: बौशु ११: ७;
९; -ये काश्रौ १६, ८, १२.

पञ्चमभागीया (य-अ)र्ध
पुरुषीय- -ययो: काश्रौ १६,
८, १३.

पञ्चमभागीया (य-अ)र्ध
> धर्धा- -धर्धाभि: बौशु १२:
३.

पञ्चम-म्लेच्छ-संस्पर्श^b-
-शौं आमृशु २, ५, ७: ५.
पञ्चम-वर्ष- -वर्षेभ्य: वैश्रौ १७,
११: १०.

पञ्चम-षष्ठ^c- -ष्ठयो: ऋप्रा २,
५९; -ष्टाभ्याम् लाश्रौ ६, ११,
९; निसू ७, ३: ३३; -ष्ठे
आश्रौ ८, २, ६; लाश्रौ ६, १२,
१४; ७, १३, ३; निसू ३, ६:
२३.

पञ्चम-स्थ- -स्थ: शैशि २६३;
-स्थम् नाशि १, ४, ९.

पञ्चम-स्थान^d- -ना: निसू ८,
१३: ४०.

पञ्चमा(म-अ)श्र- -रम् याशि

२, ९५.
पञ्चमा(म-आ)दि- -दय: मैअ
२४.

पञ्चमा (म-आ) याम^d- -मम्
आपृशु १६, ३; हिशु ५, २४.

पञ्चमा(म-अ)ष्टम- -माभ्याम्
वैश्रौ १९, ६: ५६; -मौ वौध
१, ११, १३.

पञ्चमा (म-अ)हन्-> पाञ्च-
माह्निक- -कानि शाश्रौ १५,
८, २.

पञ्च-मयूख^e- -खम् कौसू १०७,
२१.

पञ्च-महायज्ञ- -ज्ञाय वैश्रु ३, ७: ८.
पञ्चमहायज्ञा (ज्ञ-अ)नुष्ठान-
-नम् वैश्रु ६, १९: २.

पञ्च-माष-> पञ्चमाष(क>)
की^f- -की^h वौध १, ५, ७८.
पञ्चमाषि(क>) की^h- -की^h
गौध १२, २६.

पञ्च-यज्ञ-विधान- -नम् शंघ
१३१.

पञ्च-योजन->^gनिक- -कम्
अप ६५, २, १२.

पञ्च-योजन्य- -न्य: अप ६१, १,
२६.

पञ्च-रात्रⁱ- -त्रम् माश्रु १, ४, १७;
गौषि; -त्रस्य आपृश्रौ २२, १४,
६; हिश्रौ १७, ६, ३; निसू ८,
१०: १४; -त्रा: आश्रौ १०,
२, २८; -त्राणाम् आश्रौ ११,
४, २; ३; -त्रात् या १४, ६;
-त्राय बौश्रौ १६, २९: २;
-त्रे हिश्रौ १३ ३, २; लाश्रौ ९,

१२, १५; -त्रेण शाश्रौ १६,
२४, १; २१; निसू ३, ७: ११;
८, १२: २२.

पञ्चरात्र-प्रभृति- -तय: निसू
९, ८: २२.

पञ्चरात्रो(त्र-अ)पजन^d- -न:
आश्रौ ११, ४, ६; -नम् आश्रौ
११, २, १५: ३, ५; ११.

पञ्च(श-अ)र्चा^h- -र्चा: वैताश्रौ
३२, २; ३३, ४; गौश्रु; -र्चम्
निसू ७, ४: २; गौश्रु: अश्रु ७,
३८^h; -र्चा वृष्टे ५, ८२; -र्चानि
अश्रु २, १९; अप २: ६४: ८२;

-र्चे वृष्टे ४, १३६; ५, २८;
अश्रु ६, १२३; -र्चेन बौश्रौ
१०, १४: २; २२, ३: ११;

वैश्रौ; -र्चेभ्य: अप ४६, १०,
२१; -र्चे अप ४: १७.

पञ्चर्चा(य-अ)द्य- -द्य: अप
४: ३.

१पञ्च(श-अ)र्तुⁱ->^gर्तु-ता-
-तया या ४, २७.

२पञ्च(श-अ)र्तु^d- -र्तु: निसू ७,
३: २०.

पञ्च-वर्षⁱ- -र्षा: काश्रौ ९, ४,
१६; ऋप्रा १, ८.

पञ्च-वर्षम् अप २: ४.
पञ्च-वर्षा^h, र्णा^d- -र्णा अप ७०^h,
११, ८; -र्णा: काश्रौ २२, ९,
१३; -र्णानि अप ७२, ३, १४.

१पञ्च-वर्ष- -वर्षाणाम् वेजयो ११;
-र्षेयु शाश्रौ ३, १८, २०.

पञ्चवर्ष-पर्यन्तिकृत- -ता:
आश्रौ १०, २, २९.

a) विप. (अत्रलिप्रमाराण- इष्टका-) । b) द्वस. > वस. पूष. = निपादादि- । c) द्वस. ।
d) विप. । वस. । e) वैष १ द्र. । f) पञ्चमाषिकी- इत्यस्य वाक्वि. द्र. । g) परस्परं पाठे. ।
h) विप. । वृद्धयर्थे ष्टन् > ष्टकः प्र. (पा ५, १, ४७) । i) = याग- । तद्धिताथै समाहारे च द्विस. । j) विप.,
नाप. । k) ष्वं इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. प्रकरणम्) ।

२पञ्च-वर्ष, वर्षा^१ - वर्षम् आपष १,
१४, १३; हिध १, ४, ४५; -र्षाः
काश्रौ २२, ९, १२; वाश्रौ ३,
४, ३, २०; -र्षान् आपश्रौ २२,
२०, ११; हिश्रौ १७, ७, २२;
-र्षान् शंघ ३९२.

पञ्च-वलि^२ - वलिः आपश्रौ १०,
९, १९; बौश्रौ ६, ५: १६;
२१, ७: २१; -लिम् काश्रौ
७, ३, २५^३; भाश्रौ १०, ६,
१३; हिश्रौ ७, १, ५२.

पञ्च-वात - > वातीय^४ - यम्
काश्रौ १५, १, १८.

पञ्च-वारुण^५ - णम् वैश्र १, १७:
२; वैश्र २, १, ९.

पञ्च-वाह - > हिन^६ - ही
आपश्रौ १८, ९, १३; वाश्रौ ३,
३, १, २४; हिश्रौ १३, ३, ३६.

पञ्च-विंशत् - शत् बौध १, ४, ९.

पञ्च-विंशति - तये शाश्रौ १६,
१२, १४; -तिः आश्रौ ८, १३,
३१; शाश्रौ; या ३, ७; १३;
-तिः-तिः आश्रौ १२, ५, १८;
शाश्रौ १३, २८, ७; १६, १२,
१४; -तिम् माश्रौ ४, ७, ४;
आमिष्ट २, ४, ६: ७; शंघ; -तेः
शाश्रौ १८, १०, २.

पञ्च-विंश^७ - शः शाश्रौ १६, १२,
१०×४; बौश्रौ; -शम् आपश्रौ
२१, १७, १×४; बौश्रौ; -शात्
निस् ८, १३: १८; भासू २,
१९; -शे हिश्रौ १८, ३, १३;
द्राश्रौ ११, ४, १; लाश्रौ.

१पञ्च-विंश-क^८ - कम् शंघ
३७१; विध १७, १६; या १४, ६१

पञ्च-विंश-स्तोम^९ - मम्
शाश्रौ १६, १२, ९; -मानि निस्
८, १३: १६.

२पञ्च-विंशक^१ - कम् अत्र ८, ४;
९, २; १०, ३; अर्ष ४: २४.

पञ्च-विंशति-रात्र^१ - त्रः बौश्रौ
१६, ३४: ३; या १४, ६; -त्रम्
आश्रौ ११, ३, ११; काश्रौ.

पञ्च-विंशति-स्वोभ - भाः निस्
६, ७: २.

पञ्च-विंशत्य (ति-अ)त्त(र>) ^{१०}
रा^{११} - रा बौश्रौ २४, १९: ७;
निस् १, ३: २४; २, १२: १९.

पञ्च-विंशत्य (ति-अ)ङ्गुलि^{१२} -
-ह्या वैश्रौ १, ३: २.

पञ्च-विंशत्य (ति-अ)नुवाक-
-कान् माष्ट १, २३, २३.

पञ्च-विंशत्य (ति-अ)रत्नि - तयः
शाश्रौ १६, १२, २.

पञ्च-विंशत्य (ति-अ)च^{१३} - चम्
शाश्रौ १७, ८, २.

पञ्च-विंशद्वाहम् आश्रौ ३, १, १४.

पञ्च-विध, धा - धम् शाश्रौ १६,
२४, १×४; बौश्रौ; -धाः
अप ५८^१, ३, ११; बौध ३, ३, ३;

चव्यू १: ७; -धान् वैश्र ५, १: ४;
-धाम् आमिष्ट २, ४, १०: ३३;

-धेन निस् १, २: २.

पञ्च-वृत् - वृत् कौष्ट १, ३, ८;
शाष्ट १, ८, २; -वृत्तम् गोष्ट १,
७, १०; द्राष्ट १, २, ११.

पञ्च-व्याकरण - पा, पाग ४, २, ६०.

पञ्च-शत - तम् बौश्रौ १०, १९:
२; द्राश्रौ ११, ३, १८; लाश्रौ
४, ३, १८; शंघ २६३.

पञ्च-शरद् - > पञ्चशारदीय -

-यः आश्रौ ९, ८, १०; शाश्रौ १४,
६२, १; काश्रौ; -यम् आश्रौ
१०, २, २७; -यस्य आश्रौ १०,
२, २९; -याः मीसू ११, २, ५२;

-यानाम् बौश्रौ २४, १०: १३;

-ये लाश्रौ ८, १०, ६; ९, ४,
२६; १२, १०; -येन आश्रौ ९, ८,
८; आपश्रौ २०, २५, १; २२,
२०, ९; बौश्रौ १८, ११: ११;

हिश्रौ १७, ७, २०.

पञ्चशारदीयवत् आपश्रौ
२०, २४, ५; २२, २१, १६.

पञ्च-शराव - वः वैश्रौ २०, ३:
७; मीसू ६, ४, २९; -वम्
आश्रौ ३, १०, २७; काश्रौ; -वे
मीसू ६, ५, १; ६; -वेण आपश्रौ
९, १, ३२; ३३; हिश्रौ १५,
१, ३७.

पञ्च-शा (खा >) ख^{१४} - खेन भाष्ट
१, २०: ७^१; वैश्र ३, ८: ६; हिष्ट
१, २४, ३^१.

पञ्च-शि (खा >) ख^{१५} - खः बौष्ट २,
४, १७; अप ४३, ३, ७^१.

पञ्च-शिखा - > खिन् - खी अप
४०, २, ९.

पञ्च-षष्टि - ष्टिः अप ४७, १, ११;
३, ६×४; वाश्र १७: १.

पञ्चषष्टि-वर्ण - र्णाः शुप्रा ८,
२५.

पञ्च-संयु (त >) ता - ता ऋश्र ४,
२, १०.

१पञ्च-संवत्सर - रम् शंघ ४०३.

पञ्चसंवत्सर-मय - > भय-युगा
(ग-अ)व्यक्ष - क्षम् वेज्यो १.

a) ददितार्थे द्विष. | b) विप. | वस. | c) °ब° इति पाठः? यति. शोषः. | d) वैप २, ३खं. द्र. |
e) समाहारे द्विस. उप. सास्यदेवतीयः अण् प्र. | f) वैप १ द्र. | g) विप. नाप. (स्तोम-). | h) स्वाथे
कन् प्र. | i) इवुन् प्र. (पा ५, १, २४). | j) विप., नाप. | k) = रज्जु- |

पञ्चसांख्यलरिक^a- -काणि
 आपथ्रौ ८, २२, १^b; -केपु
 आपथ्रौ ८, २२, १६.
 २पञ्च-संवत्सर^c- -राणि हिप्रौ ५,
 ६, १३^b.
 पञ्च-संचर- -रेपु मीस् ७, १, १७.
 पञ्च-सप्तति- -तिः वायुथ्रौ ४,
 ९२ : ४; अप्र ४ : ३७; -तिः
 ऽ-तिः वायुथ्रौ ३, ७९ : १०.
 पञ्च-सप्त-नवा(व-अ)न्यतम- -मैः
 वैध २, ३, २.
 पञ्च-सप्तम- -मौ अप्र २ : १५.
 पञ्च-सवन^d- -नः आपथ्रौ १४,
 १९, ३.
 पञ्च-सुक्त^e- -क्ताः अप्र २ : ३.
 पञ्च-स्तोम^f- -मम् बौथ्रौ २६,
 ३३ : २.
 पञ्च-स्थान-स्थित-स्व- -स्वेन
 नाशि १, ५, १२.
 पञ्च-स्थानो (न-उ)स्थित- -तस्य
 नाशि १, ५, ११^g; -तान् नाशि
 १, ५, १२^h.
 पञ्च-हविस्ⁱ- -विः शांथ्रौ ९, २४,
 ४, ६; बौथ्रौ; -विषम् शांथ्रौ २,
 ४, ६; बौथ्रौ १७, २३ : ५××;
 हिपि २० : ३; -विषा बौथ्रौ १२,
 १९ : १; १८, ५ : १६; ६ : १७.
 १पञ्च-हस्त-> ^oस्ता (स्त-आ)
 य(त>)वा- -न्ता विध १०, ३.
 २पञ्च-हस्त- -स्तम् अप्र १८, १, ५.
 पञ्च-हायन- -नेभ्यः आपथ्रौ १८,
 ३, ९.
 पञ्च-होतृ^k- -तरि शांथ्रौ १०,

१६, १; -ता आपथ्रौ ८, २२,
 १६; बौथ्रौ; -तारः आपथ्रौ
 २१, ११, ५; हिप्रौ १६, ४, ३;
 -तारम् शांथ्रौ १०, १६, २;
 आपथ्रौ ४, ९, १२××; बौथ्रौ;
 -तुः आपथ्रौ १३, २, ६; २१,
 १०, ७; बौथ्रौ; -त्रा आपथ्रौ
 २, ११, ५; ४, ८, ७××; बौथ्रौ.
 पञ्च-हो(त्रा>)त्र^l-> ^oत्रे(त्र-उ)
 एक- -काः बौथ्रौ १९, ७ : २०.
 १पञ्चा(व-अ)क्षर- > श्री- -री
 वेज्यो ३९.
 पञ्चाक्षर-शस्(ः) लाथ्रौ ७, ७
 १९.
 २पञ्चा(व-अ)क्षर^m- -रः निस् ३,
 १३ : ९; ऋप्रा १६, ३६; -रम्
 वायुथ्रौ ४, १०० : ६; वाथ्रौ
 ३, २, २, २३; -राणि छुस् १,
 ६ : २६; निस् ४, १ : २५;
 उनिस् ६ : ३१; -रान् ऋप्रा
 १७, ५०; -राभ्याम् शांथ्रौ १०,
 १३, २; -रेण आथ्रौ ८, १२,
 १६; शांथ्रौ ९, ६, २-५; १०,
 १३, २; वायुथ्रौ ४, १०० : २५,
 उनिस् २ : १; -रैः शांथ्रौ ७,
 २७, २५; -रौ निस् २, १२ : २३.
 पञ्चाक्षर-न्ता- -न्तायाः निस् १,
 १ : ५.
 पञ्चाक्षर-पा(द>)दाⁿ- -दा
 निस् १, ३ : २४; २, १२ :
 १९; -दाः निस् १, ३ : २२.
 १पञ्चा(व-अ)ग्नि- -ग्निभिः वैध ७,
 १ : १३; वैध १, ६, १; -नीन्

वैथ्रौ १, १४ : १७; वैध २,
 ४, ३.
 पञ्चाग्नि-मध्य-शाग्निन्-
 -यिनः वैध १, ८, १.
 २पञ्चा(व-अ)ग्नि^o- -गिनः अप्र ४४,
 २, ४; वायु ३, १९; शंघ.
 पञ्चा(व-अ)ग्नि^p- -ग्नि^o- -ग्नि^o
 कायथ्रौ ९२^q.
 पञ्चा(व-अ)ग्नि^r- > ^oव्य^o-
 -व्यम् गांशि १, ६२.
 पञ्चा(व-अ)ग्नि^s- > ^oलि-वि-
 सा(र>)रा^o- -रा वैथ्रौ १,
 ३ : ८; वैध १, ६, ५.
 पञ्चा(व-अ)ग्नि^t- -एम् आग्नि
 २, ३, १ : १४.
 पञ्चा(व-अ)ग्नि(क>)का^o- -का
 ऋथ्र २, १, ११२; ११६××.
 पञ्चा(व-अ)ग्नि^u(य>)यी- -यी
 शुथ्र ४, ५९.
 पञ्चा(व-अ)नुवाक- -कैः अप्र
 ४६, ९, ११.
 पञ्चा(व-अ)न्त^v- -न्ते काथ्रौ १८,
 १, ३; मैथ २६.
 पञ्चा(व-अ)पथ्य^w- -पथ्यः अप्र ३२,
 १, २१; -पथ्यानि अप्र ३२, १,
 २१^x.
 पञ्चा(व-अ)पवर्ग^y- -र्गः काथ्रौ
 १५, ४, २; आपथ्रौ १८, ८, ३;
 २२, १८; हिप्रौ १३, ३, ५; ७,
 ३५.
 १पञ्चा(व-अ)पथ्य^z- -रेया ४, २७^o.
 १पञ्चा(व-अ)ग्नि^{aa}- -न्तौ वैथ्रौ
 १०, २ : ५^h.

a) तेननिर्घृतामित्यर्थे ठञ् प्र., उप. वृद्धिः(पा ७, ३, १५) च। b) परस्परं पाभे। c) तेननिर्घृतीयस्य प्र. लुक् उत्सं. (पा ५, १, ८८ [वैट्ट. भाष्यकारः बस. इति])। d) विप.। बस.। e) ^oनस्थितः इति लासं.। f) ^oनोच्छ्रितः इति लासं.। g) वैप १, १३०२। द्र.। h) =मन्त्र-विशेष-। बस.। i) समाहारे द्विस.। j) स्तार्थं यत् प्र.। k) तुस. वा बस. वा। l) पूष. =पञ्चम-। m) वैप १ द.। n) समाहारे द्विस. द.। एतदनु चतुरस्रौ, श्यरलौ इत्यत्र शोच इष्टः।

१पञ्चारत्नि-प्रभृति- -ति माश्रौ
१,८,१,१५.
पञ्चारन्त्या(त्नि-त्रा)दि-
प्रमाण^१- -णम् वाश्रौ १,६,१,७.
२पञ्चा(ञ्-ञ्)रत्नि- -त्तिः काश्रौ
६,१,२९; १६, ८, १६; बौश्रौ;
-त्तिम् आपश्रौ ७,२,११; बौश्रौ
४,१ : २७.
२पञ्चारत्नि-प्रभृति- -त्यः बौश्रौ
२४, ३५ : ५.
पञ्चा(ञ्-ञ्)र्षेय^२- -यः आश्रौ
१२, १०, ६; आपश्रौ; -याः
बौश्रौप्र १ : २; -याणाम्
बौश्रौप्र २ : ३.
पञ्चा(ञ्-ञ्)वत्त, ता- -त्तः आपश्रौ
८,१५,५; वैश्रौ २,७ : ८; -त्तम्
आपश्रौ २,१८,२; ११,१,११;
बौश्रौ; -त्तस्य बौश्रौ २०, ६ :
१; -त्ता आपश्रौ ७, २०, १०;
११; भाश्रौ ७,१६,४;५; -त्ताम्
काश्रौ ३,४, ३; आपश्रौ ३, १,
६; वैश्रौ ६, ११ : २; हिश्रौ २,
३,७; -त्तायाः हिश्रौ २,३, १२.
पञ्चावत्त-वत्त मीसू ६,७,२८.
पञ्चावत्तिन्- -त्तिनः आपश्रौ
२, १८, ९; २१, ३××; बौश्रौ;
-त्तिनाम् आपश्रौ ८, १५, ५;
बौश्रौ २०, ५ : ३३××; भाश्रौ;
-त्ती वाश्रौ १,१, १, ३०; गोश्रु
१,८,७; ११; द्राश्रु २,१, २०.
पञ्चावत्तीय- -यम् भाशि ८७.
पञ्चा(ञ्-ञ्)वदान^३- -नः भाश्रौ २,
१७, ९; -नस्य भाश्रौ २, १८,
१२; १९, ३××; माश्रौ.
पञ्चावदान-त्व- -त्वात् मीसू
१०,७,५.

पञ्चा(ञ्-ञ्)वसा(न>)ना^४- -नाः
अर्षः ३ : ७०.
पञ्चा-शत्- -शत् शाश्रौ १५, २६,
१; हिश्रौ; -शत्-शत् आपश्रौ
२२, ८, ६; -शतः शाश्रौ १३,
२८, ८; काश्रौ; -शतम् शाश्रौ
१४, ९, ६; आपश्रौ; -शतम्-
शतम् काश्रौ २२, ७, १४; काश्रौसं
२९ : १२; -शता आपश्रौ १८,
१४, ६; बौश्रौ; -शता-शता
आपश्रौ ९, ११, २३; आमिश्रु ३,
१०, ५ : ६; बौषि ३, ८, १;
-शते वाश्रौ ३, ४, २, ८.
पञ्चाशच्-छ(<श)स(ः) आश्रौ
९, २, २५.
पञ्चाशत्-पल-> °लिक^५-
-कम् विध ११, ५.
पञ्चाशत्-प्रभृति- -ति वाश्रौ
३, ४, २, ८.
पञ्चाशद्-अक्ष(र>)रा^६-
-रा निसू ३, १२ : ४८.
पञ्चाशद्-ज (न>)ना- -ना
काश्रौ १७, ७, २१.
पञ्चाशद्-दिन- -नात् वैश्रु ३,
१९ : १.
पञ्चाशद्-भाग- -गः गौष १०,
२४.
पञ्चाशद्-रात्र-प्रभृति- -तीनि
आश्रौ ११, ४, ८.
पञ्चाशद्-वर्ष-ता- -तायाः
आश्रौ २, ७, ६.
पञ्चा(ञ्-ञ्)शीति- -तिः ऋश्रु ३,
३७.
पञ्चाशीति-शत- -तम् आपश्रौ
१९, ११, ३; बौश्रौ १९, २ : ११;
हिश्रौ २३, २, ३; आमिश्रु ३,

८, ३ : २३; बौषि १, १६ : ९.
पञ्चा(ञ्-ञ्)ह^७- -हः शाश्रौ १३,
१७, १; काश्रौ; -हम् बौश्रौ
१८, ३२ : ६; २५, २७ : ११××;
द्राश्रौ; -हस्य लाश्रौ १०, ४, १;
७; निसू ९, १:४८; -हाः काश्रौ
२३, ४, १××; आपश्रौ;
-हान् निसू ९, १३ : ९; ३४;
१०, १ : १५; -हानाम् लाश्रौ
१०, ४, १; -हे लाश्रौ ८, १, १४;
निसू ५, ३ : ३६; आमिश्रु ३, ४,
५ : २; -हेन बौश्रौ २६, ३ : २;
हिश्रौ १७, ७, १३; -हेषु लाश्रौ
१०, ४, ३; वैताश्रौ ४१, १४;
वैश्रु ३, २ : २; -हौ निसू ९,
१३ : ३६.
पञ्चाह-स्रुत्त- -सम् निसू
१०, १ : १३.
१पञ्चाह-तन्त्र- -न्त्राणि निसू
८, १० : २०.
२पञ्चाह-तन्त्र^८- -न्त्रः निसू ९,
११ : १०.
पञ्चाह-वि (घ>)घा- -घाः
निसू ९, ११ : ८.
पञ्चाह-विहित- -तम् निसू ९,
१३ : २.
पञ्चाहा(ह-अ)र्ध- -र्धं आश्रौ
११, १, १२; शाश्रौ १३, १५, ८;
काश्रौ २४, १, ८; निसू ९,
१० : ९.
पञ्चाहिक- -कानि काठश्रौ ४६.
पञ्चा(ञ्-ञ्)हाव^९- -वानि आश्रौ
५, १०, १२.
पञ्चा(ञ्-ञ्)हाव-परिमितत्व-
-त्वात् आश्रौ ८, ६, १८.
प(ञ्-क>)ञ्चिका^{१०}- -का बौश्रौ

a) विप. । बस.>बस. ।
(पा ५, १, ५४) । d) वैप १ द. ।
b) विप. । बस. । c) विप. । तदस्य परिमाणमित्यर्थे ऋ प्र. उर्यं ।
e) = रज्जु-विशेष- । प्रमाणाथं कन् प्र. (पा ५, १, २२) ।
वैपः-प्र-३

२६, २२: १७; आपशु ५, २;
 हिशु २, ९.
 पञ्चिन्-ञ्चिन् लाश्रौ ६, ६, १४;
 -ञ्चि लाश्रौ ८, ५, २३.
 पञ्चि-प्रभृति- -तय: निसू १,
 ८: ३५; ९: १३.
 पञ्चे(ञ्च-इ)म-> ०ध्मीय^०-यस्य
 बौश्रौ २२, १६: २७; -येन
 आपश्रौ १८, ९, १०; बौश्रौ १२,
 ४: १; वाश्रौ ३, ३, १, १६;
 हिश्रौ १३, ३, ३१, ३६.
 पञ्चो(ञ्च-उ)क्त- -क्तम् जैश्रौ २६:
 १४.
 पञ्चो(ञ्च-उ)द्वि^०- -द्विस्र आपश्रौ
 १५, २, १४; १६, ४, ७; माश्रौ
 ११, २, २३; हिश्रौ ११, १, ५१;
 २४, १, १५; -द्वीन् वैश्रौ १३,
 ३: १२.
 पञ्चो(ञ्च-ऊन>)ना- -ना क्रश्च २,
 १, २४; ३२××; अर्प ४: ३४.
 पञ्चो(ञ्च-ओ)दन^०- -नन्म कौसू
 ६४, १८; अश्च ४, १४; -नेन
 कौसू ६४, २८.
 पञ्चौदन-वर्जम् कौसू ६३, २४.
 २पञ्चन्^०- (>पञ्चि-पा.) पाग ४,
 १, ९६.
 १पञ्चाप्रायणषष्ठ्यै वाश्रौ ३, १,
 १४.
 १पञ्चान्तेनव^० मैश्च १३.
 १पञ्चाप्रिय^०- -यस्य चाश्च ३८: १६.
 १पञ्चाल^०- पाउ १, ११८; पाग ४,
 १, ८६; -ला: ० बौश्रौ १८, २६:
 ९; उनिसू १: २२; -नं०ला: ०

आपश्रौ १८, १२, ७; हिश्रौ १३,
 ५, ४; -लान्^० बौश्रौ १८, २६:
 ७; ८; -लानाम्^० ऋप्रा २, ३३;
 -लेषु^० बौश्रौ १८, २६: १२; १९.
 १पाञ्चाल^१- पा ४, १, ८६;
 -ल: ० हिश्रौ १३, ५, ४; -लम्^०
 आपश्रौ १८, १२, ७; अर्प १,
 ८, ३.
 पाञ्चाल-राज- -ज: वाधूश्रौ
 ४, ३७: ३.
 पञ्चाल-ज्येष्ठ- -ष्टा: अर्प १, ८, १.
 पञ्चाल-पद्-वृत्ति- -त्ति: शाश्रौ
 १२, १३, ६.
 पञ्चाल-राज- -जानाम् बौश्रौ १८,
 ३८: १८.
 २पञ्चाल^०- पाग ४, १, ९९.
 २पाञ्चाल- -लस्य चाश्च १६:
 १२; -लम् कौश्रु २, ५, ३; -ला:
 बौश्रौ ४१: १२; निसू १, २: ३.
 पाञ्चालायन- पा ४, १, ९९.
 पञ्जर^०- पाउभो २, ३, ३८; पाग ४,
 २, ८०; -रेषु बौश्रौ १५, १६:
 ८; वाश्रौ ३, ४, ३, २२.
 पाञ्जर्य^०- पा ४, २, ८०.
 ✓पद् (बधा.) पाधा. भ्वा. पर. गतौ;
 चुरा. उभ. माषायां प्रत्ये च,
 पाटयेत् विध ६, २५.
 पट^१- पाग २, ४, ३१^१; ४, १, ४१;
 ५, ४, २९^१; -टे अर्प १, ४४, ८;
 विध ३, ८२.
 पटी- पा ४, १, ४१.
 पट-क- पा ५, ४, २९.
 पट-कर्त्- -र्ता वैध ३, १४, १.

पटा(ट-आ)दि- -दिसु कप्र १-
 १, १४; -दीनाम् ऋत ४, ३, ४.
 पाटन- -ने काध २७: ७.
 पाटि(त>)ता- -ता कप्र १, ७, १४;
 ८, १७.
 पाटयमा(न>)ना- -ना: विध ४३,
 ३५.
 पट^१ पाग १, ४, ५७.
 पटच्चर- (> पाटच्चर- पा.) पाग
 ४, २, ११०.
 पटत्क- (> ०त्क-कन्थ- पा.) पाग
 ६, २, १२५.
 पटपटा^१ पाग १, ४, ५७.
 पटर^१- पाग ४, १, ४१; -र: बौश्रौ
 १८, ४६: ११^१.
 पटरी- पा ४, १, ४१.
 पटल^१- पाउभो २, ३, ९७; पाग ४,
 १, ४१^१; -लम् आश्रौ ४, ६, ३;
 -ले शाश्रौ ११, ९, १३; १३, २, १,
 २; २२, ३; ऋप्रा ४, २०; ६, १६.
 पटली- पा ४, १, ४१.
 पटह^०- पाग २, ४, ३१; -हा: अर्प
 ७०^३, २, २; ७०^३, ११, ७.
 पटाक^०- पाग २, ४, ६३.
 पटाका^०- पाउभो २, २, १३.
 पटिस- पाउभो २, ३, १७९.
 पटीर- पाउ ४, ३०.
 पटु^०- पाउ १, १८; पाग २, १, ४०;
 ५९; ७०; ५, १, १२२; ६, २,
 २४.
 पटिमन्-, पटु-ता-, पटु-स्व-,
 पाटव- पा ५, १, १२२.
 पटूर^०- -रौ अर्प्रा ३, ४, ११^१.

a) = कर्म-विशेष-। b) विप.। वस.। c) वैप १ द.। d) व्यप.। व्यु. ?। e) (पञ्च अन्ते येषां तादृशा नव) = चतुर्दश (तु. मैश्च २०)। f) पा ४, १, १६८। g) सपा. ०ल: <> ०लम् इति पाभे.। h) नाप.। व्यु. ?। i) = वस्त्र-। अच् प्र. (पा ३, १, १३४)। j) तु. पागम.। k) अर्थ: व्यु. च ?। l) = सण्ड-, छदि-। व्यु. ?। पट-+ल- (<√ल) वा <√पट् वेति अभा.। m) = वाद्य-भेद-। व्यु. ?। पट-+ह- (<√हन् वा √हा वा) इति अभा.। n) = पताका-। o) वैप २, ३खं. द.।

पट्ट^a -> पट्ट-बन्ध^b -न्धः वैध ३,
११,६.
?पट्टानीत-तम् वैश्रौ १०,९:१४.
पट्टार- (>पाट्टारक- पा.) पाग ४,
२, १२७.
पट्टव- पाठ १,१५३.
✓पट्ट पाधा. भ्वा. पर. व्यक्तायां-
वाचि, पठते अप ९,४, ७; ३१,
१०, ४; शैशि ३६२; आच्यो
१४,१२; पठति अप ६६,३, ४;
कप्र २,४,१८; अत्र ८,१; पठन्ति
आशि ६,१; ९; पठेत् कप्र ३,९,
१५; अप; पठेयुः शंघ २११.
पठ्यते काठश्रौ ४; ४७; काश्रौसं;
पठ्यन्ते काठश्रौ ४६; ऋअरे, ३९.
पाठयति अत्र ८,१.
पठव- ठन् कप्र २, ४, १३^३;
१४^२xx; अप.
पठि- पाठना ४,१२९.
पठित- पाग ५,२,८८; -तः आश्रौ
१,११,१०; आश्रिण् १,२, १:
१८; बौघ ३,१,२५; अप्रा २,३,
६; उस् ८,३६; -तानाम् पावा
१,१,२७; -तानि अप्रा ३,४,१.
पठित-त्व- -वात् पावा १, १,
३४.
पठितिन्- पा ५,२,८८.
पाठ- ठः पावा २,२, ३६; ४, २,
१३३; ठम् अपर ८,१,२; -ठाः
आपध १,१२, १०; हिध १,४,
१०; -ठात् पावा १, १, २७;
३८; -ठे पाशि २५; याशि २,९८;
कौशि २५; -ठेन पावा १,३,१.

पाठ-दोष- -वाः १, ३०.
पाठ-विशेषण- -णम् पावा ८,
१,२७.
पाठक- के शैशि २१२; याशि २,
८३.
पाठका (क-अ)वम- -माः शैशि
२१०; याशि २, ८२.
पाठयत्- -यन् अप ६९,९, ३.
?पट्ट (ट्ट, द्, श्)^c- ऋपड्भिः आपश्रौ
१३,७,१६^d; वाश्रौ १,६,५,५^e;
कौसू ४४, १७^e; निघ ४,२; या
५,३.
पट्ट-बी,वी,शि^f- -शम् बौश्रौ १५,
१५:१८; ३८:९; वाधूश्रौ ३,
७६:२७; दंवि २,३^g; -ऋशात्
आपश्रौ ७,२१,६; बौश्रौ ४,७:
२५; भाश्रौ ७, १६, १३; हिश्रौ
४,४, ४४.
✓पणव^h पाधा. भ्वा. आत्म. व्यवहारे.
स्तुतौ च, पणते काश्रौ ७,८,१;
१०; आपश्रौ.
पणायते अप ४८,९^h; ऋपणायति
अप ४८,२७; निघ ३,१४.
पणⁱ- पाग ५,१,२०; -णः पा ३, ३,
६६; -णाः शंघ ३२२; -णान् विध
५,३५xx; -णानाम् विध ४,१४.
पाणिक- पा ५,१,२०.
पण-पाद्-माष-शत- -तात् पा ५,
१,३४.
पण-शत- -तम् विध ५, १०६;
११०; १२८; १५४; १५८.
पणन- -नात् या २, १७; -ने बौश्रौ
२१, १२: १३; -नेषु आपश्रौ

१०, २५, ५.
पणमान- -नः वैश्रौ १, १५: २;
बौध २,१,५४; -नम् आपध २,
१०,८; हिध २,४,८.
पणस्^j->✓पणस्य, पणस्यति अप
४८,९^h.
पणस- पाठ ३,११७.
पणित- -तान् वैश्रौ १२, १८: १०.
पणित्वा वाध १, ३५.
पण्य^k- पा ३, १, १०१; -ण्यम्
आपध २२, ५; कौसू; या २,
१७; पा ४,४,५१; -ण्यस्य भासृ
२, २६: ६; हिण् १, १४, ९;
-ण्यात् आपश्रौ ४, १२, ६^h;
-ण्यानाम् आपध १, २०, ११;
हिध १,६,२५; -ण्ये गौध १०,
२५; -ण्येन वाध २, २४;
-ण्येभ्यः गौघ ४,८,२२; -ण्येषु
शंघ १४.
पण्य-कम्बल-पा,पावा ६, २,४२.
पण्य-काम- -मः कौसू ५९, ६;
अत्र ३,१५.
पण्य-व(र>)रा^l- -रा आपश्रौ
४,१२, ६^h.
पण्य-विक्रयण- -णम् आज्यो
७,३.
पण्य-सिद्धि- -द्धिः हिण् १,१४,
८.
पण्य-होम- -सम् गौघ ४, ८,
२०; द्राण् ४,३,७.
पण्यमान- -नः अप्राय ३,१.
पणव^m- पाठभौ २,३,१३४; पाग २,
४,३१; -वम् काण् १७, २.

a) = किरोट- वा उष्णीष- वा. । व्यु. ? । b) नाप. । c) वैप १ द. । d) पामे. वैप १,१९०१ ८ द. । e) सपा. तै ३,१,४,३ मंत्रा २,२,११ शंश्रौ ४,१७,१२ काश्रौ २५,९,१३ माश्रौ १,८,३,३४ पडिः इति पामे. । f) भाश्रौ. दंवि. पाठः । g) या २,२६ शौच ४, ९७ पा २, ३, ५७ परामृष्टः द. । h) = तुलामान- विशेष- वा परिभारणविशेष- वा । i) भाप. । धा. स्तुतौ ऋतिः । j) पामे. वैप १,१८८६ h द. । k) = वाद्य- विशेष- । व्यु. ? ।

पणि^१- पाठ ४, ११८; -णयः ऋञ्च
२, १०, १०८; बृदे ८, २४; २६;
शुप्रा ४, ७७; -णिः शांश्रौ १२,
२०, २१; अप ४८, १२८; या
२, १७; -णिता या २, १७; -
-णिभिः माश्रौ १, ३, ४, २६; वाश्रौ
१, ३, ६, १९; ऋञ्च २, १०,
१०८; या १२, २५; तैप्रा १३,
१०; -णिम् तैप्रा १३, १०; -
-णीन् बृदे ८, ३५; ३६; ३८;
या ६, २६; शैशि २२२.

पणित- पणित्वा √पण् द्र.

पणिन्^२- पाग ४, १, ९६°.

पणिन- पा ६, ४, १६५.

पणिनि^३- पा ४, १, ९६; -निः

बौश्रौ ३ : ७; अप ४३, ४,
१६; -नेः पावा ६, १, १; ७, १,
२; ८, ४, ६८.

पणिनीय- यम् पाशि १.

पणिनीय-रौठीय- पाग २,

३, ३१°.

√पण्ड^४ पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ;

चुरा. पर. नाशने.

पण्डक^५- कः आपश्रौ १२, ७, ११;

१३, १५, १; माश्रौ ५, २, १;

२६; या ६, ३२; -कम् माश्रौ

५, २, १, २६; -काय आपश्रौ

१८, १५, ६.

पण्डग^६- नाः या ६, ३२; -गाः अप्रा

३, ४, ११; -गाय वाश्रौ ३, ३, २,

४४.

पण्डर-(>श्री-पा.) पाग ४, १, ४१°

पण्डा^७- पाठ १, ११४; पाग ५, २, ३६.

पण्डित- पा ५, २, ३६; पाग २, १,

४०××; -तः शंघ २१९;

आपध १, २३, ३; विध ८२,

३०; हिध १, ६, ११; -ताः

माशि १६, १३; याशि २, ८४;

नाशि १, ३, १३; २, ३, ११.

पण्डित-ता-, **पण्डित-त्व-**,

पण्डितमन्-, **पण्डित्य-** पा ५,

१, १२३.

पण्डारक^८- पाग २, ४, ६९.

पण्य- प्रथ्. √पण् द्र.

√पत्^९ पाधा. भ्वा. पर. गतौ; दिवा.

आत्म. ऐधर्थे; चुरा. उभ. गतौ;

पतते अप ७०, ३२, १२××;

पतति आपश्रौ १७, २१, ८^{११};

बौश्रौ ६, ८ : ६; १६, ९ : ४^{११};

†हिश्रौ १२, ६, २६^{११}; १३, ५,

१४; आश्रित्य; या २, ५^{११}; ३, १;

५, २; ९, १९^{११}; पततः अप ६७,

३, २; पतन्ति †बौश्रौ २, १० :

३४; ३६; सु ७, ४; बौय; पतसि

बौश्रौ ९, १८ : १८; हिश्र १, १७,

२; पतामि सु १९, ३; पताति

कौसू ९५, ३^{११}; पतात् ऋप्रा ४,

६३^{११}; पतन्तु कौसू १०७, २^{११};

†पत् आपश्रौ १३, ५, ८; बौश्रौ;

पताम या १, ११^{११}; †अपतत्

आपश्रौ ५, २, ४; सु २६, ४;

अप; पतेत् काश्रौ ६, १, १७;

आपश्रौ ९, ११, २५××; वैश्रौ.

पपात् अप्राय २, ६^{११}; बृदे ३, २३;

७, ८८; पतिष्यामि सु ११, ३;

पसत् आपश्रौ २, २, १^{११}; †पसः

भाश्रौ २, १, ११; वैताश्रौ २, ४.

†पत्यते^{१०} शांश्रौ १२, १५, १^{११};

अप ४८, २१; निध २, २१;

†पत्येते^{१०} आश्रौ ५, २०, ६;

शांश्रौ ३, २, ४.

पतयति निध २, १४^{११}; पतयतः

शांश्रौ ४, २, १^{११}; †पतयन्ति

आश्रौ २, १५, २; आपश्रौ १७,

१८, १; आपमं २, २२, १२,

आश्रित्य ३, ८, २ : १६; बौपि

१, १५ : २६; हिश्र १, १६, ५.

पातयति आपश्रौ ७, २, ७;

वाश्रौ २, २, ४, ३; या ५, १९;

पातयन्ति वाध १६, ३७^{११};

पातयामि आश्रित्य १, ५, ३ : ५;

पातयामसि आश्रित्य २, ३, ५ :

१३^{११}; पातयेत् ऋप १, २, ५^{११};

अप २३, ४, २; विध ११, ९;

७९, २०.

पात्यते ऋञ्च १, १, १.

पत- पा, पाग ३, १, १३४.

पतिष्ठ- ष्टः माय २, १७, १^{११}.

पतत्- -ततः सु ८, १; १९, ४^{११};

२२, ५; आपध; -तताम् सु

१९, १; ३; अप ५८^{११}, ३, ११;

-तति काश्रौ २५, ११, ३३^{११};

-तन्तः आपध १, १६, १२;

हिध १, ५, ११; -तन्तम् आश्रौ

४, ७, ४; काश्रौ ६, १, १६; माश्रौ.

पतन्ती- -न्ती अप ५८^{११}, २, ३;

३, ३; या ११, ३६; -न्त्यः अप

५८^{११}, ४, १६.

पतत्र^{११}- पाठ ३, १०५.

a) वैप १ द्र.। b) व्यप.। व्यु. ? <पण- इति (पासि ६, ४, १६५)। c) तु. पागम.।

d) <पणिन- इति पासि. MW. च। e) = बुद्धि-। व्यु. ? <√पण् इति पाठ.। f) व्यप.। व्यु. ?।

g) या २, २८, ५, २ शौच २, ७७ पा ६, ४, १९; ७, ४, १९; ५४; ८४ पावा ७, २, ४९ परामृष्टः द्र.। h) पामे. वैप १,

१८८६ र द्र.। i) पामे. वैप १, ११६९ i द्र.। j) लघुशास्त्रीयः पाठः। k) सपा. तैप्रा २, ४, २, ४ पादयामसि

इति पामे.।

पतत्रिन्^a- पाग ५, ३, ६१^b;
-त्रि या ५, ३^c; -त्रिणः अप्राय
५, ६; अप १^c, १, ७; अप्रा ३,
४, ११; -त्रिणा विध ५१, १७;
-त्रिणौ कौसू ६८, २६^d;
-त्रिषु कौसू ११५, २१; -त्री^d
बौश्रौ १८, १७ : २१; वाश्रौ
३, १, २, १; आपमं २, २१, १७;
पाग ३, १४, ६^e; माग १, १३,
४; वाग १५, १.

पतत्रिणी- णी काग
२६, २^d.

पातत्रिण- पा ५, २, ६१.

पतत्रि-राज-जम् सु ३१, १.

पतत्रि-(> पातत्र- पा.) पाउ ४,
६९; पाग ५, २, ६१^b.

पतन- पा ३, २, १५०.

पतन- नम् इप ५८^c, ४, १;
१८xx; विध; -ने अप ५८^c,
४, १; ६८, २, ३७; ३८; काध
२७६ : २.

पतन-खण्डा(ण्ड-आ) दि- ढीन्
वैश्रौ २०, २९ : ६.

पतन-फालन-खण्डनो (न-उ)-
द्वर्तन-संसर्पण- णेषु बौश्रौ २७,
४ : १३.

पतन-फालन-खण्डनो (न-उ)-
द्वर्तन-संसर्पण-विपरीतव्यवाय-
करण- णेषु बौश्रौ २७, ३ : १४.

पतन-भेद- दाभ्याम् शैशि १६,
५; पाशि २८; माशि ४, ७;
याशि २, ७९; नाशि २, ८, ३०.

पतना(न-अ)न्त^f- न्ताः कप्र ३,
३, ८.

पतनीय^g- -यात् बौध ४, ५,
२४; -यानाम् आपध १, २८,
१४; बौध २, १, ५१; -यानि
शंघ ३७८; आपध; -ये विध
१५, ३६; -येन हिश्रौ २२, २,
१९; वाध २३, ३९; -येभ्यः
आपध १, २, १९; हिध १, १,
५२; -येषु हिध १, ७, ४९;
-यौ आपध १, २९, १६; हिध
१, ७, ७३.

पतनीय-वृत्ति- -त्तिः आपध
१, २९, १७; हिध १, ७, ७४.

पतनीय-सेवा- -वायाम्
गौध २१, १२.

पतनीया(य-आ) च्चप- -पे
विध ५, २९.

पतनु- पाउभो २, १, ७९.

पतन्त^h- > न्त-कⁱ- -कः बौश्रौ
२६, ३ : १८^j; लाश्रौ ९, ११, ६;
-कस्य निसू ८, ८ : १.

पातन्तक^k- -के निसू ८, ८ :
१०.

पतयत्- -यन्तम् आपमं २, १३,
७; माग २, १८, २.

पतयालु- पा ३, २, १५८.

पतयालू- पावा ४, १, ७१.

पतस- पाउ ३, ११७.

पतापत- पावा ६, १, १२; -तानि
कौसू १२८, १; -तेषु कौसू ९३,
३५.

पतित, ता- -०त वाध २०, ३०;

-तः बौश्रौ २८, १३ : २१;

माश्रौ २, ४, ६, २६^k; वाधूश्रौ

४, ८६; १२^k; वैताश्रौ १६, १७^l;

बौग; -तम् काश्रौ २५, १२,

८; बौश्रौ २४, ३३ : १४; कौसू;

-तस्य काश्रौ २५, ८, १५; शंघ

४३४; आपध; -ता कौसू १२६,

७; कप्र ३, ४, ८; -ताः बौश्रौ

२, १० : ३२^k; सु १३, ४; बौध;

-तानाम् वैग ३, ७ : २१; वाध

१५, १७; -ताम् वाध २०, १६;

बौध २, १, ४४; २, ४३; -ताय

आमिग २, ६, ७ : ६; -तायाम्

आपध १, २८, ९; हिध १,

७, ४५; -ते वैग ५, १ : २२;

६, १४ : ४; कप्र २, ७, ९; अप;

-तेन वाध १, २२; १३, ५१;

बौध २, १, ६२; विध ३५, ३;

-तेभ्यः कौसू ४६, ७; -तैः

आपध १, २१, ५; बौध २, २,

४२; ३, ४२; हिध १, ६, ३५.

पतित-क्रीबा (ध-अ)चिकित्स्य-

रोगविकल- -रुः विध १५, ३२.

पतित-चण्डाल-सूतिको (का-उ)

दक्या-शव-स्पृष्टि-तत्स्पृष्ट्यु-

(छि-उ)पस्पृष्टान- -ने गौध

१४, २९.

पतित-चाण्डाला(ल-आ)राव-

श्रवण- -णे वाध २३, ३४.

पतित-तजात-वर्जम् बौध २,

२, ४१.

a) वैप १ द्र.। b) पतत्रि- इति पाका.। c) पाभे. वैप १, १८८८ d द्र.। d) पाभे. वैप १,
१८८८ f द्र.। e) णत्रि (वैतु. BC. णत्रिः) इति पाठः? यनि. शोधः। f) विप.। बस.।
g) = पाप-कर्मन्-। पाप्र. (३, ३, ११३) कर्णे अनीयर् प्र.। h) सञ् प्र. उंसं. (पाउ ३, ५२८)।
i) = अश्व-मेघ-। स्वार्थे कः प्र.। j) = राजसूय-भेद-। k) स्वार्थे अण् प्र.। l) पातीतः
इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सपा. ऋ १०, १७, १३ स्कन्नुः इति, तै ३, १, १०, १ पतितः
इति च)।

पतित-त्व- -त्वात् नाशि १, ४, ४.
 पतित-दन्त^a- -न्तम् अप ३७,
 ८, १.
 पतित-ध्वज-वत्- -वान् अप
 ६८, ४, ३.
 पतित-प्रवृत्ति- -त्तिः बौध २,
 १, ४५.
 पतित-वृत्ति^b- -त्तिः गौध ४, २७.
 पतित-संयोग- -गः वाध १,
 २०.
 पतित-संन्यवहारिन्- -री शंघ
 ३९०; ४१४.
 पतित-संसर्ग^c- -गान् विध
 ८२, २३.
 पतित-संसृष्ट- -ष्टः शंघ ३९०.
 पतित-संप्रयोग- -गो वाध २०,
 ४५.
 पतित-संभाषण- -णे बौध ४,
 ११, १.
 पतित-सावित्री-क^d- -कः वाध
 ११, ७६; -काः आशु १, १९, ८;
 शांशु २, १, ९; पायु; -काणाम्
 पायु २, ५, ४२.
 पतित-सावित्र्यु(त्रि-उ)पनय^e-
 -ये काध २७४; ४.
 पतिता(त-अ)न्यज-मूर्खा(ख-अ)
 धार्मिक-वैरिन्- -रिभिः वैध
 ३, ३, ४.
 पतिता(त-अ)न्यजात- -तान्
 वैध ३, १, १३.
 पतिता(त-अ)न्न- -न्नस्य कप्र २,
 ९, २१.
 पतितान्न-वर्जिन्- -र्जी वाध
 ८, १७.
 पतिता(त-अ)धंशरीर- -रस्य

वाध २१, १५.
 पतितो(त-उ)त्तर- -रम् वैश्री
 १, १ : १२.
 पतितो(त-उ)न्मत्त-षण्डक- -कैः
 अप २३, १२, ४.
 पतितुम् बौशु ५ : १३.
 पतिवा वाधुश्री ३, २८ : २; अप्रा
 ३, ४, ११.
 पत्त्र, त्र^f- पा ३, २, १८२; पाग
 २, ४, ३१^d; ५, १, ४; २, ९७;
 -त्रम् सु २८, १; विध १८,
 ४४; -त्रागाम् अप ६५, ३, ८;
 -त्राणि वैशु ५, १२ : ६; १०;
 अप ३५, १, १४; बौशु ११ : ६;
 ६२ : ४; -त्रात् पात्रा ४, ३,
 १२०; -त्रे आश्रित २, ४, ११;
 १०; पा ३, १, १२१; -त्रेण वैशु
 ५, १० : १; -त्रैः विध ७,
 १२; वैध २, ५, ५; हिध^g २, ५,
 १३२; १५७.
 पत्र-क- पा ५, ४, ३.
 पत्र-तस्(ः)माश्री ५, १, ९, १८.
 पत्र-नाडी- -डीषु बौश्री १०,
 ४७ : ३; १९, २ : १५; वैश्री
 १९, ६ : २६.
 पत्र-पुट- -टेषु गौषि २, ३, २२.
 पत्र-पुष्प-यु(त>)ता- -ताः
 अप २६, २, ३.
 पत्र-पूर्व^h- -वर्ति पा ४, ३, १२२.
 पत्र-फल- -लानाम् सुध ३३.
 पत्र-भङ्ग- -ङ्गेन अप १, ४३, १.
 पत्र-मूल- (>लक-पा.) पाग
 ५, ४, ३.
 पत्र-ल- पा ५, २, ९७.
 पत्र-शाक- -कम् विध ४४, ३२.

पत्रा(त्र-अ)ङ्कुर-लता-
 -तानाम् अप ६४, ८, १०.
 ?पत्राद्यवयव- -वः अप ३५,
 १, ५.
 पत्रा(त्र-अ)ध्वर्यु-परिपद्- -षदः
 पा ४, ३, १२३.
 पत्रीय- , पड्य- पा ५, १, ४.
 पत्मन्ⁱ- -त्मन् बौश्री ८, १४ : ४१;
 वाश्री ३, २, ५, ४; ऋपा ४, ९८.
 पत्मिन्- -त्मी सु १३, २.
 †१पत्वन्^j- -त्व^k बौश्री १५, ७ :
 १५; आपसं २, २१, ३०.
 †२पत्वन्^l- -त्वने आपश्री १३,
 १२, ४; १६, २९, २^m; बौश्री ८,
 १२ : १८; वैश्री १६, १३ :
 १९; हिश्री ९, ३, ५०; -त्वा
 शांश्री ६, ८, १०-१२; बौश्री
 १०, ४ : १७; माश्री ६, १, १,
 ३७; वैश्री १८, १ : ५१.
 पत्व(र>)रीⁿ- -री कौशु १०७,
 २^o.
 १पात- पाग ३, १, १४०.
 २पात- -तः अप ७०^p, ११, १९;
 -तम् अप ७०^q, ९, ५; ११,
 ३२; -ते अप ७०, ७, २; -तैः
 अप ७०^r, ११, २६.
 पातक-पाग २, ४, ३१^d; -कम् शंघ
 ३९२; बौध ४, १, १४; -कात्
 आश्रित २, ४, ५ : २२; बौशु;
 -कानि वाध २८, ७; -के या
 ६, २७; -केभ्यः वाध २५, ३;
 शंघ; -केषु शंघ २६१; बौध
 ४, १, ११; -कैः वाध २७, १८.
 पातक-पतनीय-वर्ज- -र्जेषु बौध
 ४, १, ९.

a) विप. । बस. । b) वस. > षस. । c) = पक्ष-, पर्ण-, वाहन- । d) तु. पागम. ।

e) सपा. आपध २, २२-२३, २ पांशुः इति पांशुः । f) वैप १ द. । g) पांशुः वैप १, १८८९ p ४. ।

h) पांशुः वैप १, १८८९ i द. ।

पातक-पतनीयो(य-उ)पपातक-
वर्ज- -जेषु बौध ४,१,८.
पातक-वर्ज- -जेषु बौध ४,१,१०
पातक-वर्जम् बौध २,१,५०.
पातक-संयोजक- -काः गौध
२१,२.
पातक-सम- -मानि गौध २१,
१०.
पातका(क-अ)भिशंसन- -ने
बौध २,१,६०.
पातकिन्- -किनः विध ४३,४५
पातको(क-उ)पपातक-संयुक्त-
-क्तः बौधौ २८,१:३१.
पातको(क-उ)पम- -मैः बौध
४,२,१४.
१पातन^१- (>पातनी- पा.) पाग
४,१,४१.
२पातन- -नम् वाध ३८, ७;
-नात् शंघ १०१.
०पातम् पा ३,४,५६.
पातयत्- -यताम् वाध १५, १८;
-यन् अप ७०^३,३,३.
पातित- -तः बौध १,५,५९; -तम्
वाध ३,४५; -ते अप २३,४,१.
पातुक- पा ३, २, १५४.
पापति- पावा ३,२,१७१.
पापत्यमान- -नः या ५,२.
पत- √पत् द्र.
पतङ्ग^१- पाउ १,११९; -ङ्गः आश्रौ
३, ८, ११; बौधौ २६, ११;
२२१; शंघ ३७७: ६; ३७८;
ऋअ २, १०, १७७^०; वृदे ८,

७५^०; अप्रा ३, ४, ११^१; -ङ्गम्
आश्रौ ४, ६, ३१; शाश्रौ ५, ९,
१४^१; ११, १४, १७; ऋअ २,
१०, १७७^१; वृदे ८, ७५^१;
-ङ्गाः निघ १, १४^१; -ङ्गात्
शाश्रौ ११, १४, २८; -ङ्गात्
शुप्रा ३, १५०; तैप्रा ९, २३;
-ङ्गाय सु ८, ३; अप १४, १,
७; १७, १, ८.
पतङ्ग-वंश-मशक- -काः अप ५९,
१, ७.
पतञ्जल^०- पाग २, ४, ६९; -हानाम्^१
बौधौ २६: १.
पतञ्जलि^०- पावाग ६, १, ९३; -लिः
हिश्रौ २१, ३, १०.
पतत्-, ^०त्र-, ^०त्रि-, ^०त्रिन्- प्रयु.
√पत् द्र.
पताका^१- पाउना ४, १५; पावाग
५, २, ११६; -काः अप १, ३१,
४; २१, ६, ३; ४.
पताका-तोरण- -णैः अप १९,
४, ५; १९^३, १, ५.
पताकिन्-, पताकिन्- पा ५, २,
११६.
पतापत- √पत् द्र.
पति^१- पाउ ४, ५७; -पतयः बौधौ
३, २२: १२; १४, ९: ४०;
माश्रौ; या ३, २; १०, १६^१;
४३; -पतय आश्रौ १, ४, ९;
३, १, १४^१; शाश्रौ; काश्रौ ९,
८, १५^१; आपश्रौ १४, २५,
११^१; ३४, ५; वैताश्रौ १८, ५^१;

-पतिः आश्रौ ४, ७, ४४^४;
शाश्रौ; आपश्रौ १६, ३३,
४^१; वैताश्रौ ३१, ४^१; कौत् २१,
७^१; वृदे ३, ७१^१; या ४, २५;
५, ४; ७, १०; १०, १२^१; १३;
२१^१; २३; ११, ३८; पा १,
४, ८; -पतिना आश्रौ १, ७, २^३;
९, ११, १४; शाश्रौ; या १०,
१५; -तिभिः वाध १२, २४^१;
२१, १४; -पतिभ्यः काश्रौ १०,
४, ११; आपश्रौ १३, १०, १^३;
बौधौ; आपमं १, १, ४^१; बौध
१, १, २५^१; जैग १, २१: ८^१;
या ८, १०; -पतिम् आश्रौ ७,
६, ४; ८, १०, ३; शाश्रौ;
शाग ३, ११, १४^०; पाग ३,
९, ६^०; काग ५२, ५^०; विध
८६, १६^०; या ३, ५^१; ४,
२०; १२, २१; ११, १०;
३४; -पति आश्रौ ५, ५, १२;
शाश्रौ; -पति आश्रौ ६, १२,
१२^१; शाश्रौ ८, १०, १^१; आपश्रौ
१३, १८, २^१; १९, २, १९; बौधौ
७, १२: २९; ४२; हिश्रौ ८,
१८, ६^१; ९, ४, ५८^१; आपमं १,
६, १२; ७, ११; काग २६, १२;
बौध ४, २, १४; -तीन् वाधुश्रौ ३,
९२: ४; ऋप्रा ४, ७३^१; -तीनाम्
आपमं १, ६, ७^१; काग २५,
४७^१; वृदे १, ७५; -पति
आश्रौ ६, २, ६; ९, ११, १५;
शाश्रौ; आपश्रौ १०, २९,

a) कर्तरि ल्युः प्र. । b) वैप १ द्र. । c) = ऋषि-विशेष- । d) पामे. वैप १, १८८९ उ द्र. ।
e) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । °ञलि- इति भोजः (तु पागम.) । f) बहु. <पातञ्जल- । g) व्यप. । व्यु. ? ।
पुतत्- + अ० इति पासिवा. । h) = केतु- । व्यु. ? । i) पामे. वैप १, १८९० d द्र. । j) पामे. वैप १, १५७६ i द्र. ।
k) पामे. वैप १, १७६६ j द्र. । l) पामे. वैप १, १८९१ k द्र. । m) = प्रजापति- । n) पामे. वैप १, १९७४ f द्र. ।
o) पामे. वैप १, १९३४ p द्र. । p) धर्मणस्पती इत्यस्य स्थाने सपा.; माश्रौ २, ५, ४, १३ वैताश्रौ २, ३, १५;
धर्मणस्पति इति पामे., पाग २, ११, १२ विशिष्टश्च पामे. च । पृ १३५८ सरथ. धर्मणः > धर्मणः (सं.) इति शोधः ।

१^a; १३, १८, २^b; बौश्रौ ६, १६ :
 ५^a; ८, १८ : ६^b; भाश्रौ १०,
 २०, १^a; वैश्रौ १२, २० :
 ९^a; हिश्रौ ७, ३, १८^a; ९, ४,
 ५८^b; या १०, १६; -^कते:
 शाश्रौ ६, ९, १७^c; आपश्रौ
 ८, १८, ३^d; बौश्रौ ५, १६ : २४^d;
 भाश्रौ ८, २१, १०^d; हिश्रौ ५,
 ५, १८^d; -^{लौ} शुप्रा ३, ३९^e;
 शौच २, ७०; -^कत्या काश्रौ ३,
 ८, २^f; आपश्रौ ३, ९, १०; बौश्रौ
 १, २० : ३०^f××; भाश्रौ; माश्रौ
 १, ३, ५, १७^f; आपसं १, ५, १६^f;
 १७^f; माश्र १, ११, २०^f; या ३,
 २१; -^कत्युः बौश्रौ १, १२ :
 ३३^f; भाश्रौ २, ५, ११^f; माश्रौ
 १, ७, ७, ७; हिश्रौ १, ७, २४^f;
 आपसं १, ६, ५; १६, ३^f; आप्रियः
 -^कत्ये आपसं १, ६, ४^g; काश्रु
 २६, ४^g; माश्र १, १३, ६^g; १५;
 वाघ १७, ५६^g; या १, १९; ३, ५;
 १२, ८^h; -^कत्वी कौसू ६२, १२;
 वाघ; पा ६, २, १८.
 पत्ति, ^कत्वी- पा ४, १, ३३; -^कलयः
 आपश्रौ १४, १३, १०; २०, १५,
 ७; १६, १९××; बौश्रौ; -^कन्ति
 आश्रौ ४, १२, २; काश्रौ;
 -^कन्तिः-^कत्ति आपश्रौ २, ५, ७;
 भाश्रौ २, ५, ८; माश्रौ १, २, ५,
 १०; हिश्रौ १, ७, २०; -^कत्तिमिः
 आपश्रौ १४, १५, २^h; -^कत्तियै

आपश्रौ १०, २३, ४; ११, २१,
 ८^h; हिश्रौ ७, २, २९××; -^कत्वी
 आश्रौ १, १०, ८^h××; शाश्रौ;
 वैताश्रौ १५, ३^h×^h; या ९,
 २९; ३३; ११, ३७; ४९; १२,
 ७; ८; ४६^h; -^कत्तीः आश्रौ १,
 १०, ४; ५; ५, ५, १८^h××; शाश्रौ;
 हिश्रौ १५, ४, १०^h; या १२,
 ४५^h×^h; -^कन्तीः आपश्रौ २, ५,
 ७; बौश्रौ; -^कत्तीनाम् शाश्रौ
 ८, ७, १३; १४, ५७, ९; आपश्रौ;
 माश्रौ १, ४, ३, १^h×^h; वाश्रौ १,
 १, ४, ९^h×^h; हिश्रौ ६, ४, १^h×^h;
 -^कत्तीमिः हिश्रौ १०, ७, ४××;
 आप्रियः; -^कत्तीभ्यः आश्रौ १२,
 ९, १०; काश्रौ ६, ९, १५;
 आपश्रौ, -^कत्तीम् आश्रौ २, १,
 २९^h; ७, १३××; शाश्रौ;
 आपश्रौ १८, १७, १०; वाश्रौ १, ३,
 ७, ७^h; हिश्रौ १३, ६, १०^h;
 आप्रिय १, ५, ३ : ९^h; -^कत्त्यः
 आश्रौ १०, ८, ८; शाश्रौ; या
 १२, ४४; ४५; -^कत्त्यः ^ककौसू
 ८८, १२; १९; -^कत्त्या आश्रौ ३,
 १२, ९; शाश्रौ; -^कत्त्याः शाश्रौ १,
 १५, १०××; काश्रौ; कौसू ६,
 १७^h×^h; -^कत्त्याम् काश्रौ ७, ५, ११;
 आपश्रौ; -^कत्त्यै आश्रौ १, ११,
 १; काश्रौ ७, ६, २२; आपश्रौ;
 -^कत्त्योः आप्रिय २, ७, ३ : ८;
 -^कत्त्यौ हिश्रौ १४, ४, ३८^h.

पत्नी-पुत्र-शिष्य- -^कत्याणाम्
 वैश्र २, ८ : १०.

पत्नी-मन्त्र- -^कत्राः वैताश्रौ
 ४, २३; -^कत्रैः वैताश्रौ ४, २३^h.

पत्नी-यजमान- -^कनौ शाश्रौ ४,
 १, १; काठश्रौ.

पत्नी-यजुष- -^कज्वि बौश्रौ
 १४, २२ : १.

पत्नी-यूपो(प-उ)च्छूयण-
 -णम् काश्रौ ८, ८, ३७.

पत्नी-योक्त्र- -^कत्रम् वाश्रौ
 १, २, ४, ४.

पत्नी-लोक- -^कम् माश्रौ १,
 २, ५, १०; २, १, १, ४५; वाश्रौ
 १, ३, २, १९; -^कके भाश्रौ ६,
 ९, ५.

पत्नीलोको(क-उ)प-
 स्थान- -^कन्म् माश्रौ १, २, ५,
 १०^h.

पत्नी-वत् मीसू ९, ४, ९.

पत्नी-वत्- पाय ५, २, ६१;
 -^कवत् आपश्रौ ६, ५, १; -^कवतः

बौश्रौ २५, २३ : १०; -^कवता
 बौश्रौ २५, २३ : १३; -^कवन्त्

काश्रौ १०, ६, १९; शुभ्र १,
 ५००; शुप्रा २, २०; -^कवन्तः

शाश्रौ १८, ७, १४; अप ३२,
 १, १९^h; या ५, १८; -^कवन्तम्

बौश्रौ^h ८, १४ : १८; २६, ३१ :
 १२; असां २४, ६; -^कवाः^h

आपश्रौ १३, १४, ८; बौश्रौ ८,

- a) पामे. वैप १, १८९३ a द्र. । b) पामे. पृ १३५७ h द्र. । c) पामे. वैप १, १८९० d द्र. । d) सपा.
 मा ३, ६० का ३, ८, ५ माश २, ६, २, १४ अमुतः इति पामे. । e) वैप १, १८९३ j द्र. । f) पामे. वैप १, १८९३ l द्र. ।
 g) पामे. वैप १, १८९३ p द्र. । h) पामे. वैप १, १८९१० द्र. । i) वैप १ द्र. । j) पामे. वैप २, ३ खं गोत्रा
 २, २, ९^h टि. द्र. । k) पामे. वैप १, १६०० l द्र. । l) ^कत्वी इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ ९, १४, ३) ।
 m) पामे. वैप १, १८९४ m द्र. । n) सपा. ^कत्वीमन्वारभ्य <> ^कत्त्यन्वारभ्यम् इति पामे. । o) ^कत्वी इति पाठः?
 यनि. शोधः (तु. आपश्रौ १८, १७, १०) । p) सपा. हिश्रु १, २०, १ विशिष्टः पामे. । q) ^कत्त्याणम् इति पाठे ^कत्त्याः
 अणम् इति संधिः द्र (तु. संस्कृतः टि.) । r) पामे. वैप १, १८९४ f द्र. । s) पामे. वैप १, १८९५ f द्र. ।

१४:१९; २६, ३१:१३;
वैश्रौ १६, १७:९; हिश्रौ ९,
४, २०; -०वान् माश्रौ २, ५,
२, १२^{का०}.

पत्नीवत्^० पा ५, २,
६१; -तः आश्रौ ५, ५, २१^{का०};
बौश्रौ १७, १६:११; २५,
२०:२०; २६, २४:१५;
वैताश्रौ २०, ४; -तम् शाश्रौ
७, ३, ४; काश्रौ; -तस्य आश्रौ
५, १९, ७; शाश्रौ; -ते आपश्रौ
२०, २२, १४^द; बौश्रौ २५, २३:
१०; हिश्रौ १४, ५, १०; मीसू;
-तेन बौश्रौ १७, १५:१; माश्रौ
५, २, १२, ३४.

पत्नीवत्-त्रयोदश^०
-शान् बौश्रौ १७, ११:२.

पत्नी-वर्जम् आपश्रौ ८, १४,
१; १०, २१, ५; १७, १६, ६;
वैश्रौ १९, ६:९९.

पत्नी-विनाशि(न्>)नी-
नी अप २२, ३, ३.

पत्नी-शाल, ला^०- लम्
आश्रौ १२, ६, ६; शाश्रौ १७,
६, ४; काश्रौ; -ला वैश्रौ १२,
४:११; लाश्रौ ८, १, २२;
१०, १५, ९; -लात् बौश्रौ ८,
१९:२; -लाम् आश्रौ ४, १०,
१; द्राश्रौ १, २, २९××; लाश्रौ;
-लायाः द्राश्रौ ७, ३, १६;
लाश्रौ ३, ३, १८; -लायाम्
काठश्रौ १५२; बौश्रौ २९, ११:
२४; जैश्रौ ७:११; द्राश्रौ ७,

३, ९; लाश्रौ ३, ३, ११; -ले
शाश्रौ ९, २७, ४; काठश्रौ.

पत्नीशाल^०- -लान्
द्राश्रौ ४, ४, ३; लाश्रौ २, ३, १८.

पत्नी-शिरस्- -रः काश्रौ २६,
४, १४.

पत्नी(ली-इ)ष्टका^०- -का:
बौश्रौ १९, ७:४७; -के बौश्रौ
१९, ७:८; १७; २८:३७.

पत्नी-संयाज^०- -जस्य बौश्रौ
१५, ३५:१२; -जाः आश्रौ
१, १०, ५; शाश्रौ; -जान् आश्रौ
१, ५, ३१; शाश्रौ; -जानाम्
आपश्रौ ५, २८, १३; बौश्रौ;
-जेभ्यः आश्रौ ८, १२, २७;
शाश्रौ १०, १३, २६; काश्रौ;
-जेपु बौश्रौ २०, १४:२७××;
वाश्रौ; -जैः आश्रौ ६, १३, १;
शाश्रौ १, १५, १; जैश्रौ २१:
१^३; -जो भाश्रौ ४, १९, ५.

पत्नीसंयाज-कर्मा (र्म-
अ) न्त- -न्ते जैश्रौका २०५.

पत्नीसंयाज-प्रभृति^०-
-ति माश्रौ २, ५, ४, १५; वाश्रौ
१, ७, २, १५.

पत्नीसंयाजा(ज-अ)न्त,
न्ता- -न्तः आपश्रौ ११, २०,
१६; बौश्रौ ६, ३२:१३××;
माश्रौ; -न्तम् शाश्रौ ५, २०, ८;
आपश्रौ; -न्ता शाश्रौ ५, ३, ९;
आपश्रौ; -न्ताः वैताश्रौ १५,
१९^{१६}; -न्तानि आश्रौ ७, १, ५;
काश्रौ १२, ३, २३; वाश्रौ ३,

२, १, ३७; -न्ते काश्रौ २०, ८,
१०; आपश्रौ १४, २१, १२;
वाश्रौ ३, ४, २, २.

पत्नीसंयाजान्त-न्ता-
-ता शाश्रौ १०, १, १५.

पत्नीसंयाजान्त-त्व-
-त्वम् मीसू ९, १, २९.

पत्नीसांयाजिका^०- -के
आश्रौ १, ४, ५.

पत्नी-संयाजन- -नम् काश्रौ
६, ९, १४.

पत्नी-संयोजक- -काः बौश्रौ
२०, १०:२०.

पत्नी-संचार- -रान् वैश्रौ
१३, ७:३.

पत्नी-संतहन- -नम् काश्रौ
८, १, ५; आपश्रौ; -नात् वैश्रौ
९, ५:६; हिश्रौ ५, ३, १३××;
-नानि बौपि ३, ४, १.

पत्नी-हीन- -नेन अप २३,
१२, ५.

पत्नी-होम- -मम् बौश्रौ
२४, २९:१४.

पत्न्य(ली-अ)गार- -रे भाश्रौ
१०, १०, १.

पत्न्य(ली-अ)ङ्गलि- -लौ
बौश्रौ ५, १७:२; ६, २४:
२९; ३६; वैश्रौ २, ६:३; ९,
११:१२.

पत्न्य(ली-अ)र्क्षान- -नम्
काश्रौ २६, २, ३.

पत्न्य(ली-अ)नूयाज-प्रति-
षेच- -चः मीसू १०, ७, ३८.

a) अश्लुतिकः पाठः? b) पाठे. वैप १, १८९४ f द्र. c) = ग्रह-, यूप-, [पत्नीसन्दर्भतः] अध्याय-
वा अनुवाक- वा । अण् प्र. । d) सस्थ. त्रयोदशे सूत्रे त्वाष्ट्राः इत्यनन्तरं पठितव्यम् (तु. हिश्रौ १४, ५, १० C. च) ।
e) विप. । बस. । f) उप. वैकल्पिकं नपुंसकत्वं द्र. (पा २, ४, २५) । g) तान्भविकः अण् प्र. । h) मल्ये-
कस. । i) वैप १ द्र. । j) विप. । बस. वा पंस. वा । k) पाठः? न्तः इति शोचः (तु. सोमादित्यः C. च) ।
l) तस्येदमीये प्र. उप. वृद्धिः उरसि. (पा ७, ३, १०) ।

पत्न्य (ली-अ) न्वारब्ध-
 ष्वः काश्रौ ८, १, २.
 पत्न्य (ली-अ) न्वारम्भम्^३
 माश्रौ १, ३, ५, ५.
 पत्न्य (ली-अ) भाव- वे
 आपश्रौ २, ६, ४; शंघ १८८.
 पत्न्य (ली-अ) भिगामिन्-
 म् विध १७, ४.
 पत्न्य (ली-अ) वेक्षण- णम्
 चाश्र १ : १२.
 पत्न्या (ली-आ) यतन- ने
 आपश्रौ ६, १२, ५.
 पत्न्या (ली-आ) शिस्- शीः
 शुभ्र १, २७२; ४, ८५.
 पत्न्यो (ली-ओ) दन^४- नस्य
 भाश्र २, ९ : १; हिश्र २, ८, ७.
 पति-का (म >) मा- मा आपश्रौ
 ८, १८, ३; बौश्रौ; -माः काश्रौ
 ५, १०, १५; माश्र २, १४, १५;
 -मायाः आपश्रौ ८, १८, ५०;
 वैश्रौ ९, ११ : १२०; गो २, ३५;
 -मावै^५ भाश्रौ ८, २२, ३;
 माश्रौ १, ७, ७, ९; हिश्रौ ५;
 ५, १८.
 पति-कुल- लम् अप १, ४५, ८;
 -ल्ले माश्र १, १४, १०^६; गोश्र
 २, ३, ९; जैश्र १, २१ : ३४.
 पति- (अ >) ङ्नी- पा ३, २, ५२;
 ५३; -ङ्नी आपमं १, १, ५; १०,
 ३; ६; आश्र १, ५, ५; कौश्र.
 पतिव्य (ङी-अ) न्त^६- न्तस् वैश्र
 ३, ४ : ३.

पति-त्व- स्वम् मीसू ९, ३, ३९.
 पति-नामन्- म गोश्र २, १, ९;
 ३, ९; जैश्र १, २१ : ३४; ३६.
 पति-पर- रयोः शुभ्रा ३, ५१.
 पति-पुत्र- त्रौ विध ६, ३२.
 पतिपुत्र-कृत- तम् विध ६,
 ३१.
 पति-पुत्र-पृष्ठ-पार-पद्-पयस्-पोष-
 -षेषु पा ८, ३, ५३.
 पति-पुत्र-शील-संप (अ >) चा-
 -न्नाः गोश्र २, ४, ६.
 पति-पूजन- नात् शंघ ३३९.
 पति-पोषण- णम् काश्र २५, ३७^७.
 पति-प्रिया- न्या अप १, ४४, ८.
 पति-यान- नः गोश्र २, १, १९;
 जैश्र १, २० : १६.
 पति-रेतस्- तः^८ शांश्र १, १९, ६;
 आश्रिष्ट १, ५, ५ : १४^८.
 पति-लोक- कम् आपमं १, ४, ४६;
 ११, ५; आश्रिष्ट ३, ५, ६ : १३;
 ७, ४ : १०; बौश्र १, ४, १७^९;
 बौपि १, ५ : १; २, ४, १; जैश्र
 १, २१ : ११; २०^९; वाध २१,
 ११५; -के आपमं १, ४, ९;
 आश्रिष्ट.
 पति-व (त् >) ली- ली शंश्रौ १६,
 १३, १३; आपमं १, १०, २^{१०};
 कौश्र १, १२, १; शांश्र १, १९,
 १; बौश्र १, ६, २३.
 पतिवल्नी- पा ४, १, ३२.
 पति-व्यस^१- यसः आपध १, १४,
 २१; हिश्र १, ४, ५०.

पति-विमानिता- न्ता कप्र ३, १,
 १३.
 पति-वेदन^१- नः अश्र २, ३६;
 १४, २; -नंनम् आपश्रौ ८, १८,
 ३^{११}; बौश्रौ ५, १६ : २४^{११};
 भाश्रौ ८, २१, १०^{११}; वाश्रौ
 १, ७, ४, ७२^{११}; हिश्रौ ५, ५,
 १८^{११}; द्राश्रौ १२, ३, ३^{११};
 काश्र २५, ३५^{११}; कौसू ७५, ७५;
 -नानि कौसू ३४, १२.
 पति-व्रता^१- न्ता वैश्र ६, २ : ८;
 कप्र ३, ६, ६; बृदे ४, ३;
 आश्रयो १३, १०; -तानाम् वाध
 २१, १४; -ताम् आश्रिष्ट २, ७,
 ६ : १०; -तासु विध ९९,
 २१.
 पति-शब्द- व्दे ऋप्रा ४, ४२; ४६.
 पति-शुभ्रूषा- पया कप्र २, १०,
 १२; -पायाः शंघ ३३७.
 पति-संयोग-काल- ल्हे आश्रयो १४,
 ५.
 पति-संवननी^{११}- नी बृदे ८,
 ५७.
 पति-स्थ- स्थः हिनि ५ : ७^{११}.
 पति-स्थान- > ^{११}नीय- यः आश्र
 ४, २, १८.
 पति-हित- तः^{११} आश्रिष्ट ३, ५, ६;
 १५; बौपि १, ५ : २.
 पत्य (ति-अ) न्त^{११} पा ५, १, १२८.
 पत्या (ति-आ) दि- दिशु पावा ८,
 २, ६९^{११}.
 पत्यु (ति-उ) त्रपद्- द्नाम् पा ४,

a) पाभे. पृ १४८० n द्र. । b) मलो. कस. । c) सप्र. ष्मायाः <> ष्मायै इति पाभे. ।

d) उत्तरेण इयम् इति पदेनास्य संघिधार्षः । e) = मन्त्र-विशेष- । बस. । f) सपा. आपमं १, १२, ८ प्रश्र. प्रतिरेतः
 इति पाभे. । g) पाभे. वैप १, १८९२ ० द्र. । h) ष्ति इति पाठः? यनि. शोषः (तु. ऋ १०, ८५, २१) ।
 i) विप. । बस. उप. = आयुस्- । j) विप., व्यप. (अश्र.) । वैप १ द्र. । k) पाभे. वैप १, १८९६ j द्र. ।
 l) विप. > नाप. । बस. । m) = ऋग-विशेष- । उप. < सं/वच् । n) सप्रा. पतिस्वः <> पतिहितः
 इति पाभे. । o) तु. पाम. पासि. ।

१, ८५.

पतित- पतितुस् प्रथ्. √पत् द्र.

पती^१ जैश्रौका ९०.

पतेर- पाठ १, ५८.

पत्त-तस् (:) √पद् द्र.

पत्तन^b- पाठ ३, १५०; पाग २, ४, ३१०; -ने नाशि २, २, १३.

पत्तस् (:), पत्ति- √पद् द्र.

पत्तूर- पाठभो २, ३, ५९.

पत्त्य अत्राय ३, ८.

पत्मन्-पत्र- √पत् द्र.

पत्रिक-(> पात्रिक्य-पा.) पाग ५, १, १२८.

१, २पत्वन्- पत्वरी- √पत् द्र.

पत्सङ्गिनी- √पद् द्र.

पत्सल- पाठ ३, ७४.

पत्सु-तस् (:) √पद् द्र.

√पथ्, न्य्^d पाषा. भ्वा. पर. गतौ; सुर.

पर. प्रक्षेपे^e गतौ च, पथति अत्र

४८, २००; पथामि सु १२, ५;

१३, २; पथेयम् सु १५, ५.

पथ्यास्म कौस् ६८, २६१.

पथ^f- पथः आश्रौ ५, १, १५; ६,

२, ६; शांश्रौ ९, ६, ६; १२, १७,

११^h; काश्रौ; आपश्रौ १३, २२,

५१ⁱ; बौश्रौ ४, ११; १९^j; ऋया

३, २; ६, २; ८, ६; १२, ४३^k;

ऋयाऽपथः आश्रौ ३, ७, ८;

शांश्रौ; या १२, १८; ऋपथः

शांश्रौ ३, ५, ७; बौश्रौ १३, २; ११;

ह्रिश्रौ २२, २, ७; आश्रौ ३, ७, ८;

पथा ऋयापश्रौ ३, १९, ६; १०,

१, ६××; काठश्रौ; या ५, २१;

६, ७; १२, २१; २८^l; १४, १९;

ऋयाम् आश्रौ ३, ७, ८; शांश्रौ

६, १०, ४; वैताश्रौ; या २, २८;

पथि शांश्रौ ६, १३, २^m; बौश्रौ;

विष ५, १४ⁿ; पथे तैप्रा ८,

२५^o.

ऋयापथि-षद्- षदे पाग ३, १५,

७; ह्रिग १, १६, ८^p.

पथि-षदि^q- षी शौच २,

१८०^r.

पथि-स्थि(त >)ता- तासु विष

९९, २२^s.

पथ्य, थ्या^t- पा ४, २, ५४; ४,

९२; -थ्यम् द्राश्रौ ३, २, १९;

लाश्रौ १, १०, १४; निसू १,

४ : १२; ७, ८ : १४; विष ६८,

४८; -थ्यया^u लाश्रौ ६, २,

१७; १८; -थ्या आश्रौ ४, २,

२^v; ६, १४, ३; शांश्रौ; वैग ३,

१५ : ८^w; अत्राय १, ४^x;

अत्र ४८, १३९^y; शुअ १,

४२८^z; निष ५, ५^{aa}; या ११,

४५^{ab}; -थ्याः लाश्रौ ६, २, २;

३०; वैताश्रौ १३, २; -थ्यान्

आश्रौ १२, ८, ४०; -थ्यानाम्

निसू ६, १ : ६^{ac}; -थ्यानि निसू

१, १ : २८; -थ्याभिः लाश्रौ ६,

२, १४; -थ्याम् शांश्रौ ५, ५, १;

८, १२, ३; काश्रौ; -थ्यायाः

वैताश्रौ १३, २; २४, ८; -थ्या-

याम् निसू १, १० : १०; अत्र

१, ३४, ४; -थ्यायै शांश्रौ १६,

१०, ११; बौश्रौ ६, ११ : १^{ad};

वैताश्रौ ३७, २०; वाग १३, १;

-ऋयासु आश्रौ ४, ३, २; शांश्रौ

५, ५, २; शांश्रु ६, ४, २; माग २,

१५, ६; -०थ्ये बौग २, २, ७.

पथ्य-ता- ताम् निसू ४,

७ : १६.

पथ्य-प्रक्रम^e- मम् निसू २,

८ : १८.

पथ्या-कृत- तेषु माग २,

१५, ६^{af}.

पथ्या(थ्या-आख्य >)ह्या^g-

-ह्या निसू ४, ७ : १७.

पथ्या-पङ्क्ति- ङ्क्यः अत्र

१, ३; ११××; -ङ्क्ती अत्र ३,

२९××

पथ्यापङ्क्त्या(ङ्क्ति-आ)

दि- दि अत्र ११, ३ (२).

पथ्या-पाद्- षः नाशि २,

७, १.

पथ्या-वृहती- तीम् शुअ

१, १९६; ४३१××; -त्यौ अत्र

१०, ४; १९, १.

पथ्यावृहती-सतोवृहती-

-त्यौ शुअ ३, २३०.

पथ्या-लक्षण- णम् नाशि

२, ७, २.

पथ्या-व (त >) ती- त्यै

वाधुश्रौ ४, ४४ : २^{ah}.

पथ्या(थ्या-अ)वसानⁱ- नम्

a) पृ २३० k द्र. । b) = नगर- । व्यु. ? । c) तु. पागम. । d) या २, २८ परामृष्टः द्र. ।

e) √पृथ् (यद्) इति पाभे. । f) पाभे. वैप १, १८८७ d द्र. । g) वैप १ द्र. । h) वैप १, १८९७ d द्र. ।

i) पाभे. वैप १, १८९७ c द्र. । j) पथि ग्रामे त्रिवातान्ते इत्यस्य स्थाने पथिग्रामसीमान्ते इति जीसं. । k) व्यु.

पाभे. च वैप १ द्र. । l) विलोलुपासु इति जीसं. । m) बप्रा. । विप., नाप. । पाप्र. < पथिन्- । n) = किद्युति-

विशेष- । o) = हरीतकी- । p) पाभे. वैप १, १८९८ j द्र. । q) = देवता- । r) = छन्दो-विशेष- । s) विष. ।

t) पाभे. वैप १, २०२७ m द्र. ।

निसू २, ८: १८; ६, ६: २०;
८: ३४; ८, ४: १३.

पथ्या-स्थान- -ने निसू १,
१०: १२.

पथ्या-स्वस्ति-देवता->
०व(त्य>)त्या- -स्या ऋत्र २,
१०, ६३.

१पथ^०- पाठवृ ४, १२; -थम् बौगृ
४, ४, १०; -थात् बौगृ ४, ४, ९.

पथ-गामिन्- -मिनः या १४,
१०.

पथ्ये-ष्ठा^०- -ष्टाम्^० आपमं १,
६, १२; काट २६, १२; बौगृ
४, २, १४.

पथि^०- -थ्यः वाश्रौ १, ५, ५, ७^०;
पाट ३, १, २^०; बौघ २, ६, १३^०;

विषय, १०६९; -थिमिः आश्रौ
२, ७, ९×४; आपश्रौ; या ८, १९;
१४, ३; ३१; -थिभ्यः शाश्रौ

१५, १४, ४; -थिषु बौघ ३, २,
९; ११; १२; -थीनाम् शाश्रौ
१६, १, १४; वैताश्रौ २४, १;
काट २६, ७^०.

पाथेय^०- पा ४, ४, १०४.
१पथिक^०- पा ५, १, ७५; पाग
५, १, १२८; -कः अप २३, ८, १.

पाथिक्य- पा ५, १, १२८.

पथि-कार^१- पाग ४, १, १५१.

पाथिकार्थ- पा ४, १, १५१;
-याः बौश्रौ ४१: १५.

पथि-कृत्^०- -कृत् आश्रौ ३,
१०, ११; शाश्रौ १६, १०, ८;

बौश्रौ २७, ६: २३^०; २६; अप्राय
२, ३^०; -कृतः आमिगृ ३, ८, २;

५७; बौपि १, १५: ६२; -कृता
माश्रौ ३, १, ३४; वैश्रौ २०, १५:
१०; -कृते शाश्रौ ३, ३, २×४;

काश्रौ; -कृद्भ्यः हिपि १८: ६^०.
पाथिकृत^१- -तम् बौश्रौ
२३, १: १०; १२; १७; अप्राय
३, १०; -तेन हिगृ १, २६, २२.

पाथिकृती- -ती
आपश्रौ ९, ४, ५^०; बौश्रौ; -तीम्
आपश्रौ ९, १०, १७; १४, ३१,
२; वैश्रौ २०, २०: ३; हिपि
२०: ४; -त्या बौश्रौ २८, ४:

३०; हिपि २०: ४; -त्याम्
अप्राय ५, ३.

पाथिकृत्य(ती-अ)-
नाम(त>)ता- -ते माश्रौ ३,
१, ३३.

पथिकृद्-दैवस्य- -त्यम् वैगृ
६, १९: ४.

पथिकृद्-वैश्वानरी- -यौ
वैश्रौ २०, १५: १०.

पथि-दूत- -तयोः पा ४, ३,
८५; पावा १, ३, १०.

पथि-देवता-> ०व(त्य>)त्या-
-त्या शुभ्र १, २८३.

पथि-पा^०- -पथाः^१ आपश्रौ ६,
१८, ३; ७, २३, ६; माश्रौ १, ६,
२, १३; हिश्रौ ६, ६, १७.

पथि-रक्षि^०- -क्षयः मागृ १,
१३, १३; वागृ १५, ६; -क्षी

हिपि १८: ८^०.
पथि-शब्द- -न्दे ऋत्रा ४, ५३.

पथ्य(थि-अ)ङ्ग-कर्म-पत्र-पात्र-
-त्रम् वा ५, २, ७.

पथ्य(थि-अ)दन^०- -नम् या १,
१७.

पथ्यु(थि-उ)द्यानो(न-उ)दक-
समीप- -वे विषय ५, १०६.

पथिल- पाठवृ १, ५७.
पन्थ^०- > पान्य^०- पा ५, १, ७६;
-न्यः कप्र ३, २, १५.

पन्थक- पा ४, ३, २९^०.
पन्थन्^०- -न्यानः पृआपश्रौ २०,
२, २; १६, १५; बौश्रौ; -न्यानम्
आश्रौ २, ५, ६; काश्रौ; या १०,
२०; -न्यानौ शुभ्र २, ३९०.

पन्था^०- पाठ ४, १२; पा ६, १,
१९९; पावा १, १, ६३; ७, १, १;
-पन्थाः आश्रौ २, ५, ६; शाश्रौ

६, १०, १०; आपश्रौ; आपमं
१, १, २^०; आमिगृ १, ५, १: १^०;
काट २५, १^०; बौगृ १, १, १५^०;
वागृ १०, ७^०; जैगृ १, २०: ३^०;
या २, २८^०; ११, ४५; -न्याम्
आश्रौ १, ३, २५×४; आपश्रौ;

वागृ १५, २^०; या १०, २०^०;
११, ७.

२पथ^०- (> पाथ- पा.) पाग ४, २,
१११.

२पथिक- (> पाथिक- पा.) पथिक-
टि. द्र.

√पद्^० पाधा. दिवा. चुरा. आत्म.

a) =मार्ग-। अथिकरणे घः प्र. (पा ३, ३, ११८)। b) वैप १ द्र.। c) पामे. वैप १, १८९८ d) द्र.।
d) पामे. वैप १, १८९८ m) द्र.। e) पाप्र. <पथिन्- इति। f) व्यप.। उत. उप. अण् प्र.। पथि-कारिन्-
इति पागम., पाथिकारिन्- इति पाका.। g) विप., नाप. (इष्टि-).। h) षा इति छन्दोदशा पाठः।
i) साऽस्यदेवतायः अण् प्र.। j) पामे. वैप १, १८९९ f) द्र.। k) =पाथेय-। l) पामे. वैप १, १८९९ p) द्र.।
m) पामे. वैप १ लोक्म् ऋ १०, ८५, २० टि. द्र.। n) =ऋषि-विशेष-। व्यु.। o) या २, ७, २८, ५, १९
अत्रा २, ४, १० परामृष्टः द्र.।

गतौ, पद्यते भाग्य २, २७ :
 ११; १७; या ५, १८;
 पद्यन्ते शांश्रौ १५, १८, १;
 ङपद्यताम् माश्रौ १, ८, ३, ३७;
 नाश्रौ १, ६, ५, ९; पद्यन्ताम् शांश्रौ
 १५, १८, १; अग्र ३, १९१;
 ङपद्यस्व आपमं २, २१, ३३;
 भाग्य २, २६ : १६; हिग्य १,
 १५, ६; पद्येत आपश्रौ २, ११,
 २६××; बौश्रौ; पद्येयाताम्
 आपश्रौ १४, ३३, ४; हिश्रौ
 १५, ८, ३८.
 पेदिरे शांश्रौ १५, १८, १;
 ङपदीष्ट ऋप्रा ४, ५७; ५८;
 शौच २, ५८; अपादि पा ३, १,
 ६०; पादि बौश्रौ १०, ४ : १७१;
 अपस्तत शांश्रौ १५, १८, १.
 ङपादयामि आपश्रौ १२, १८, ९;
 बौश्रौ ७, १२, ३०××; हिग्य.
 अपिपादयिषीत् निसू ४, ७ :
 १६; ८, ५ : ४०.
 पत्ति^a— पाठ ४, १८३; —त्तीनाम्
 वाश्रौ ३, ७९ : १२.
 पत्ति-गणक— पाग २, २, ९; ५,
 १, १२९^b; ६, २, १५१.
 पात्तिगणक— पा ५, १,
 १२९.
 पद्^c— पा ६, १, ६३; ४, १३०;
 पत्सु आपश्रौ २०, ५, १९; बौश्रौ
 १५, ७ : ३; हिश्रौ १४, २, १;
 पदः आश्रौ ३, ३, ११; शांश्रौ;
 या ९, ७१; पदाकाश्रौ ७, ८, १०;
 आपश्रौ; विध २२, ५७^d; गौघ

९, ५०^e; या ५, १७१^f; ऋप्रा
 ८, ३३१; पदि ङआपश्रौ ६,
 २२, १; १०, २२, १०; वैश्रौ
 १२, १६ : १४१; हिश्रौ ७, २,
 २२१; बौपि १, ३ : २^g; तैप्रा
 ६, २१; ङपद्भिः^h शांश्रौ ४,
 १७, १२; काश्रौ २५, ९, १३;
 माश्रौ १, ८, ३, ३४; हिश्रौ १०,
 ५, १; पद्भ्याम् आपश्रौ १९,
 १०, २१; बौश्रौ.
 पच्-छ (<श)ब्द— पा ६, ३, ५६.
 पच्-छस् (:) आश्रौ ५, १४,
 १३; १५××; शांश्रौ; पा ६,
 ३, ५५.
 पच्छः-शस्य, स्या— स्या
 आश्रौ ५, २०, ३; —स्ये वैताश्रौ
 २१, ४.
 पच्छःशस्य-ग(त>)ता—
 -ताम् आश्रौ ५, १४, १३.
 पत्-काधिन्— पा ६, ३, ५४.
 पत्-त्तस (:) शांश्रौ ४, १४,
 ३४; कौग.
 पत्त-त्तस (:)^a अप्रा ३, ४, ११.
 पत्तो-दश^b— -शेन आपश्रौ^b
 ९, ११, २३; २२, ७, २४; हिश्रौ
 १७, ३, २३^h; आमिगृ ३, ४, १ :
 ७^h; ५, २ : ५^h; बौपि १२, २ :
 १०^h; हिपि २ : २; २३ : २६.
 पत्-सङ्गि(न >)नी^a— नीः
 अप्रा २, १, २१.
 ङपत्सु-त्तस (:)^a शांश्रौ ३, ५,
 १९.
 पद्-अधीव— पा ५, ४, ७७.

पद्-बोध— पा ६, ३, ५६.
 पद्-घ (<ह)ति— पा ४, १, ४५;
 ६, ३, ५४; पाग ४, १, ४५; २,
 ३८.
 पद्दती— पा ४, १, ४५.
 पाद्दत— पा ४, २, ३८.
 पद्-धर (>)णी^a— नीम्
 बौश्रौ ६, १० : ६; १२ : १२;
 -ण्याम् बौश्रौ ६, १३ : ९.
 पद्-धि (<हि)म— पा ६, ३,
 ५४.
 पद्-भाव— ने पावा ६, ३, ५२.
 षपद्य— पा ६, ३, ५३.
 पद्-वत्— वत् या १, १७;
 -वते या १, १७१^f.
 पद्वती— ती आपमं १,
 १७, ७१.
 पन्-निष्क^a— पावा ६, ३, ५६.
 षपन्नेजन्^b— नेषु अप्राथ ३, २.
 पन्नेज(न>)नी^a— नीः आपश्रौ
 १२, ५, १२; १४; बौश्रौ.
 पन्-मिश्र— पा ६, ३, ५६.
 पद्^a— पाग ४, २, ६०^l; ६१; ३,
 ७३^m; पावाग ६, ४, ४१; -दम्
 आश्रौ २, २, १७१^m; ३, १०,
 १४××; शांश्रौ; आपश्रौ ६, ५,
 ७१ⁿ; बौश्रौ १, १, ३०^o; माश्रौ ६,
 १०, ५१ⁿ; माश्रौ १, ६, १,
 १५१ⁿ; वाश्रौ १, ५, २, १७१ⁿ;
 हिश्रौ ३, ७, २८ⁿ; माग्य
 २, २ : ४१ⁿ; कौसू १३८,
 १०१ⁿ; ङया २, ७; ४,
 १९; १२, १९; १४, १३६;

a) वैप १ द्र. । b) पक्षि-गणक-, पत्रि-गणक- इति पाका. । c) नाप. । पाप्र. <पाद-, पाद्- ।

d) पादाभ्याम् इति जीसं. । e) तु. संस्कृतुः टि. Būh. च । f) पामे. पृ १४७५ e द्र. । g) विप. । बस. ।
 h) सप्र. वाश्रौ ३, ४, ४, १५ पादतोदं इति पामे. । i) विप. । पूष. = [सोमक्रयणी-] पादांशु- । उप. अधिकरणे
 क्त. । j) तु. पाका. पासि. । k) पाठः ? पत्नीजं इति संस्कृतुः टि. । l) पृ ९३९० द्र. । m) तु.
 पागम. । n) पामे. वैप १, १९०२ e द्र. । o) = पञ्चदशाक्षुज-प्रमास्य- ।

पा १, ४, १४; ६, १, १५८; -द्वयोः
लाश्रौ ७, ४, २; १०; १९^२;
याशि १, १३; भाशि ३३; भास्
२, २१; -दस्य बौश्रौ २१, ११ :
१९; २२; माश्रौ; पा ८, १, १६;
-कंदा आश्रौ ४, ८; ५, १, १;
शाश्रौ ७, ९, १; ८, १६, १; बौश्रौ;
-दात् बौश्रौ १२, १ : ७; २०,
२६; १४; माश्रौ; -दानाम् बौश्रौ
२६, १० : ५; २३ : ५; वैताश्रौ;
नाशि २, ७, ४^३; -दानि आश्रौ
३, ८, १^१; ६, ३, ४××; शाश्रौ;
या २, ७; ३, १३^२; ४, ४; २५;
७, २१; ८, २१; १३, ९^१;
-दाभ्याम् लाश्रौ ७, ४, १८;
बौश्रु २० : १५; ऋप्रा १०,
१९; ११, २४; -दाय लाश्रौ
७, ६, ४; आपर्म् १, १४, ६;
-दायऽ-दाय जैश्रौ ५, ४××;
द्राश्रौ; -दे आश्रौ २, १७,
३^१××; शाश्रौ; पा ६, २, ७;
८, ३, २१; -देऽ-दे आपश्रौ
१६, १८, ७^१; बौश्रौ;
-देन आश्रौ ५, ९, १५; शाश्रौ;
-देभ्यः लाश्रौ ७, ६, ७; या १,
१३; १४; -देपु आश्रौ ८, १३,
८; १०, ९, २; शाश्रौ; या २,
१; -दैः आपश्रौ ७, ३, १२;
वाधुश्रौ; -दौ बौश्रु १३ : १.
१पादिक- पा ४, २, ६०.
१पदक- पा ४, २, ६१.
पद-कर्मन्- -र्म मीष् ४, १, २५.
पद-कार^१- पा ३, २, २३; -राय
आमिपु १, २, २ : २९; बौश्रु

३, ९, ६; भापु ३, ११ : २; हिपु
२, २०, १; -रेण अप्रा ३, १,
२१.
पद-काल- -ले याशि १, ८८;
२, ५५; ५८.
पद-कृत्- -कृत् कौशि ४५^१.
१पद-क्रम^१- >°म-विशेष-ञ-
-ञः तैप्रा २४, ६.
२पद-क्रम^१- पाग ४, २, ६०;
-मम् ऋअ ३, ३९.
पादक्रमिक- पा ४, २, ६०.
पद-क्रम-मन्त्र-ब्राह्मण-कल्प-
शरी(र>)रा- -रा अप्र ४१,
६, ५.
पद-गर्- पा ६, ३, ५२.
पद-गर्त- -र्तम् वैश्रौ १२, १७ :
९.
पद-गोत्र- -त्रामि शुप्रा ८, ५१.
पद-ग्रहण- -गम् पावा ४, ३,
१४०; -गेपु तैप्रा १, ५०.
पद-च्छेद- -दम् माशि १६,
१३; याशि २, ८३; ८४; नाशि
१, ३, १३; -दे याशि २, २६;
५७.
पद-जात- -तानाम् शौच १, १;
-तानि या १, १; १२; ऋप्रा
१२, १७.
पद-जाति- -त्तिः वृदे २, ११४;
-त्तीनाम् नाशि २, ४, १०.
कंपद-(ज्ञ>)ज्ञा^१- -ज्ञाः ऋअ
७, ७५; अपं ३ : ३८.
पद-तस(ः) बाश्रौ ३, ४, १, २३;
पावा २, २, २३.
पद-ता- -ताम् ऋप्रा ११, २५;

३३.
पद-तृतीय^१- -यम् बौश्रौ ६,
२४ : २५; २५, ११ : ३; भाश्रौ
१०, १५, १७; -यस्य वैश्रौ १४,
५ : १४; हिश्रौ ७, ५, २; -येन
आपश्रौ ११, ६, ४; बौश्रौ १४,
३ : ४.
पद-त्रय- -ये वैश्रु ५, १ : १४.
पद-त्व- -त्वात् शौच ४, ९८.
पदन्व-प्रतिषेध- -धेन अप्रा
३, ३, २१.
१पद-देवता^१- -ताः शुप्रा ८,
५२.
२पद-देवता^१- -ते द्राश्रौ २, २,
३१.
पद-दैवत- -तम् लाश्रौ ७, ६,
२५; निस् ३, ११ : १५; १९;
६, ७ : ४.
पद-द्वय- -यम् भाशि १२९;
कौशि ५४.
पद-नाश- -शो वैश्रौ १४, ५ :
१६.
पद-निधन- -नम् शुस् १, २ :
२२; २, १५ : ९; ३, ७ : ११;
निस् ३, १० : ४१; ४, ७ :
२०; २७; -नानि निस् २, ३ : २;
६; ९; -ने लाश्रौ ६, ११, ४.
पद-निवृत्त्य(ति-अ)र्थ- -र्थः
पावा ८, २, ८२.
१पदंदिनाम् वैश्रौ १३, ७ : १४.
पद-न्यास- -सस् विध ११, ६;
१९, ८; -सैः विध १, २९.
पद-पङ्क्ति^१- -ङ्क्तिः शाश्रौ ७,
२७, २५; निस् १, ३ : २५; ऋअ;

a) पादानाम् इति लासं. । b) विप. > व्यप. । c) पदक्रमात्रेयः इति पाठः ? कृत्, मात्रे इति शोधः (तु. तै. काण्डातुक्रमणिका २७) । d) पस. । e) द्वस. । पृ ९३९ ० द्र. । f) = पदाति- । उप. <√गम् । g) तु. PW.; वैतु. WI.MW पर-ज्ञा- [विजन्ताम्] इति । h) पूर. = पद-पांसु- (तु. द्विश्री. भाष्यम्) । i) द्वस.पूप. = पाद- (तु. घन्वी) । j) वैप १ द्र. ।

-ङ्क्तिभिः माश्रौ ६, २, २, २१;
 -ङ्क्तीः काश्रौ १७, १२, १४^३.
 पदपाङ्क्त^३ -ङ्क्तः ऋत्र २,
 ४, १०; शुत्र २, २२६.
 पद-पदार्थ-प्रकृति-विकारा (र-आ)
 गम-लोप-कृत्-तद्धित-समास-
 धातु-निपातो(त-उ)पसर्ग-स्वर-
 लिङ्ग-वृत्ति-वार्त्तिक-विभक्त्यर्थ-
 वचन- नानाम् नाशि १, ३, ५.
 पद-पांसु- -सून् बौश्रौ ६, २४ :
 ३६; २८ : १७×४; वैश्रौ १४,
 ८ : ३; -सूनाम् बौश्रौ ६, २४ :
 २९; २३, ३, १०.
 पद-पार^० -रः चव्यू २ : १९.
 पद-पूरण- -णः या १, ५^३; ६; ७;
 -णाः या १, ४; ९.
 पद-पूर्व^३ -र्वम् शुप्रा २, १५;
 १७; -र्वस्य पावा ८, १, ७२.
 १पद-प्रकृति- -त्या उनिसू २ :
 १२.
 २पद-प्रकृति^३ -तिः या १, १७;
 ऋप्रा २, १; -तीनि या १, १७.
 पद-प्रत्यवरुह- -हम् निसू ३,
 ४ : २५.
 पद-प्रवाद- -दे ऋप्रा ४, ४९.
 पद-मध्य-गत- -तेषु शैशि २७५.
 पद-मात्र- -त्रे आश्रौ २, १६,
 १; ४, ८, २०; काठश्रौ ४९;
 -त्रेण बौश्रौ २६, १४ : ९.
 पद-लक्ष- -क्षम् ऋत्र ३, ४५.
 पद-लोप- -पः पावा ३, १, ८७;
 -पे पावा ८, ४, १४; -पेषु अप्रा
 १, १, २०.

पद-लोभन^० -नः माश्रौ ४, ४,
 ३३.
 पदलोभन-प्रभृति- -ति
 माश्रौ ६, २, ६, १.
 पद-वचन- -नम् पावा ५, २,
 ८४.
 पद-वत् ऋप्रा १, ६१; उस् ४,
 ११×४; कौशि ४७.
 ?पदवत्-स्तोभ^३ - -भाः निसू
 ३, १२ : २४.
 पद-वाक्य- -क्ये कौशि ७६.
 पद-वाय^६ -यम् अत्र १२, ५^३.
 पद-विकार- -रः मीसू ९, ४,
 १९.
 पद-विच्छेद- -दः शुप्रा १, १५६.
 पद-विद्^३ - -वित् बौव २, ६,
 ३२; माशि २, १४.
 पद-विधि- -धिः अप्रा १, १, ३;
 पा २, १, १; पावा २, १, १; ६,
 १, ८४.
 पद-विभाग- -गः या १, १७;
 अप्रा १, १, ४.
 पद-विराम- -मः तैप्रा २२, १३.
 पद-विवृत्ति^३ - -त्याम् तैप्रा २०,
 ६.
 पद-विष्कम्भ^३ - -म्भाः बौशु ४:
 २४.
 पद-वी^६ - पावाग ४, ४, १^३;
 -कंवीः^६ आश्रौ ४, ११, ६; विध
 ४८, ६; या १४, १३^३.
 पादविक- पा ४, ४, ३७; पावा
 ४, ४, १.
 पद-वीथ^६ -यम् आश्रौ ३, ८,

१^३.
 पद-वृत्त-प्रतिषेध- -धः पावा
 ५, ३, ८४.
 पद-वृत्ति- -त्तयः ऋप्रा २, २६;
 ४, ६७.
 पद-व्यक्त- -क्तम् शैशि २११.
 पद-व्यवाय- -ये वृदे २, ११३;
 अप्रा २, ४, ४; पा, पावा ८, ४,
 ३८.
 पद-व्यवेत- -तम् ऋप्रा ११,
 १३.
 पद-व्याख्यान^३ - (>पादव्या-
 ख्यान-पा.) पाग ४, ३, ७३.
 पद-शत- -तानि आप्राशु ५ १३;
 हिशु २, २४.
 पद-शब्द-नवन्- -व कौशि ३५.
 पद-शास्(ः) बौश्रौ १९, १० :
 १५^३; २५-२७; वृदे ८, १०१.
 पद-शेष- -षम् उस् ८, १५.
 पद-संहि(ता >) त^३ -तम्
 ऋप्रा ११, १.
 १पद-संहिता-> ता-विद्^३ -
 -विदः ऋप्रा ११, ६६.
 २पद-संहिता^० - -नाम् तैप्रा
 २४, २; ३.
 पद-संघात-ज- -जम् वृदे २,
 ११७.
 पद-संज्ञा- -ज्ञाः नाशि २, ७, ५;
 -ज्ञायाम् पावा १, ४, १४.
 पदसंज्ञा(ज्ञा-अ)भाव- -वः
 पावा १, १, ६२; ४, २१.
 पदसंज्ञा(ज्ञा-अ)र्थ- -र्थम्
 पावा ४, १, १.

a) = इष्टका-विशेष- । b) तस्येदमथि अणि प्र. उप. वृद्धिः उंसं. (पा ७, ३, १०) । c) विप. । उस. ।
 पृ ९३९ q अपि यनि. शोधः । d) विप. । बस. । e) = पद-योपन- । विप. । उस. उप. <√लुम् (=√लुप्) ।
 पा^० इति मूको. । f) पाठः ? तु. दशस्तो^० इति संस्कृतुः टि. । g) वैप १ द्र. । h) उप. <√विद्
 [ज्ञाने] । i) षस. वा सस. वा । j) तु. पागम. । k) पाभे. वैर १, १९०३ । द्र. । l) पद-, व्याख्यान-
 इत्यपि पागम. । m) समाहारे द्रस. । n) पूष. द्रस. । o) षस. ।

पद-संज्ञा-समाकुल- -लः याशि १, ३०.

पद-संघातु- -तु लाश्रौ ७, ९, १०.

पद-संधि- -धिषु ऋप्रा २, १४.

पदसंध्य(धि-अ)दर्शन- -नात् ऋप्रा ११, १३.

पद-सामान्या- -याः आश्रौ ५, ९, १७.

पद-समूह- -हे शुप्रा ४, १७७.

पद-सविशेष- -वेण बौशु १० : ३; २० : १५.

पद-सहस्र- -स्रम् आपशु ५, ८; हिशु २, १७; -स्त्रेण माशि १६, १.

पद-सांख्य- -ख्यम् भाशि १३०.

पद-सामानाधिकरण्य- -ण्यत् पावा १, २, ४२; -ण्ये पावा २, ३, ४६.

पद-स्तोभ^१- -भः क्षुस् ३, ७ : १३; निस् ६, १० : १८; -भाः वाध २८, १२; विध ५६, ११; शंघ १०५^१; -भान् निस् ८, ९ : १९; ३८; -भेषु लाश्रौ ७, ७, १.

पदस्तोभ-बाधित- -त्म् निस् ८, ९ : ३४.

पद-स्थ- -स्थः निस् ३, ६ : २४; -स्थानि निस् ३, ५ : २३.

पद-स्नात- -तस्य कौशु ६४, ३. पदा(द-अ)क्षर-सामान्या- -यम् ऋअ ३, ६.

पदा(द-अ)ङ्गा(ङ्-अ)धिकार- -रे पावा १, १, ७२.

पदा(द-अ)जि- पाउ ४, १३२; पा ६, ३, २२.

पदा(द-अ)ति- पाउ ४, १३२; पा ६, ३, ५२; पाग ४, २, ३८; -तिः आमिष्ट १, ६, १ : ८; -तिभिः अप ७१, १९, ४.

पादात्- पा ४, २, ३८.

पदा(द-अ)दि- -दयः ऋप्रा ५, ६; -दिः लाश्रौ ६, १०, २२; १२, १०; ऋप्रा ६, १२; शुप्रा १, १६७; याशि २, ५७; -दिभिः अप ४६, २, ४; ऋप्रा २, २; -दिषु ऋप्रा ४, ७; ६, २३; पावा ६, १, ६२; -दीन् निस् ३, १३ : ८; -दीनाम् उस् ८, २; -देः ऋप्रा ११, ५४; शौच ३, ५३; -दौ लाश्रौ ७, ७, २४; शैशि २०४; माशि ८, ७; याशि २, ५२; नाशि २, २, १६; १७; पा ८, २, ६; पावा १, ४, १३.

पदादि-ग^१- -गः भाशि ५१.

पदादि-ग्रहण- -गम् पावा ८, ३, ३२.

पदादि-पर-वचन- -नम् पावा ८, ४, ३५.

पदादि-विधि-प्रतिषेध- -धः पावा ६, १, १.

पदा(द-अ)देश- -शस्य, -शे पावा ३, ४, २.

पदा(द-अ)देश^१- -शे पावा ६, ३, ५१.

पदा(द-अ)द्य- -द्यम् याशि २, ५१.

पदा(द-अ)द्य(दि-अ)न्त- -न्तम् याशि २, ८१; -न्तयोः भाशि २६.

पदा(द-अ)धिकार- -रः पावा ८, १, १७; २, ६; -रस्य पावा ८, १,

१७; २, ७; -रात् पावा ८, १, १; १७; २, ८०.

पदा(द-अ)ध्ययन- -नम् शौच ४, १०७.

पदा(द-अ)ध्याय- -यः कौशि ४३.

पदा(द-अ)निर्देश- -शे लाश्रौ ६, १०, २३.

पदा(द-अ)नुपूर्व- -र्वम् आश्रौ ६, २, ११.

पदा(द-अ)नुपूर्व्य- -र्व्येण ऋप्रा ११, १५.

पदा(द-अ)नुरूप- -पान् निस् ३, १२ : ३७; -वे निस् ३, १२ : ४३.

पदा(द-अ)नुषङ्ग- -ङ्गान् शाश्रौ १७, १४, ३; १८, १९, १०.

पदा(द-अ)नुसारि-पद्धति- -स्या वृदे ८, ३५.

पदा(द-अ)नुस्वार, रा- -रस्य क्षुस् ३, १० : १४; -रा लुस् ३, १० : १३; -रे निस् १०, २ : ३७.

पदा(द-अ)न्त- -न्तः लाश्रौ ६, ११, ६; १२, ३×४; ऋप्रा; -न्तम् लाश्रौ ६, १०, २९; नाशि २, ३, ९; -न्तयोः शुप्रा ४, १२७; तैप्रा १६, १४; शौच २, २१;

-न्तस्य उस् ७, १; शैशि २२०; २७४; ३२१; भास् ३, १२; पा ८, ४, ३७; ५९; -न्ताः नाशि २, ४, १०; -न्तात् शैशि २४२;

पा ६, १, ७६; १०९; ८, ४, ३५; पावा ६, १, ७५; -न्तान् लाश्रौ ७, ७, २८; ऋप्रा १, ५८; २, २;

-न्तानाम् उस् ८, १; शौच २, २; -न्तान्याम् पा ७, ३, ३;

a) विप.। बस.।

b) पृ ४४५ f टि. द्र.।

c) भ्माः इति पाठः? यनि. शोषः।

d) उप. <

-न्ते लाश्री ७, ३, २; ४; ७,
२३; छुस्; -न्तेभ्यः ऋप्रा १३,
२३; -न्तैः ऋप्रा ४, ५; -न्तौ
शुप्रा ४, १०८; शौच ३, ५५.

पदान्त-ग^० - गः कौशि १४;
शैशि २६३; २८१.

पदान्त-ग्रहण- -गम् पावा
८, २, १०७.

पदान्त-द्विवचन^० पा १, १,
५८.

पदान्त-पदादि- -घोः शुप्रा
३, ३; पावा ६, १, ८५.

पदान्त-वत् शुप्रा १, १५३;
शैशि २०६; पावा ७, ४, ८५.

पदान्त-विकृत- -तानाम्
शौच ४, ८१.

पदान्त-विधि-प्रतिषेधा
(घ-अ)र्थ- -र्थम् पावा ५, २,
५१.

पदान्त-स्पर्श-युक्त- -क्तम्
शौच ३, ८९.

पदान्ता(न्त-अ)वग्रह-
-हयोः शौच १, ४५.

पदान्तीय^b - यः ऋप्रा ६,
१५; शुप्रा ३, ८९; शैशि २९१;
-याः ऋप्रा ६, २३; शुप्रा १,
८५; -यात् शैशि २६८; -यौ
शैशि २९३; याशि २, ५४.

पदान्त्य, न्या- -न्त्यः शौच
१, ३; -न्त्या अपं १ : ४७.

पदा(द-अ)न्तर- -रम् वैगृ ५, १:
२७; माशि ४, १४; -रे माशि
१३, २; -रेण अत्र १२, ५.

पदा(द-अ)न्तराल- -लेषु आपश्री
१७, १७, ४; हिश्री १२, ५, ३४.

पदा(द-अ)न्तादि- -दिषु ऋप्रा

२, ५; -घोः शैशि ३०३; ३१३.
पदान्तादि-वत् ऋप्रा २, ६.

पदा(द-अ)न्यत्व-प्रधानत्व-
-त्वात् मीस् ९, १, ५४.

पदा(द-अ)भिहोम- -मम् वैताश्री
१३, ६; -मात् द्राश्री १४, १,
११; लाश्री ५, ५, ८.

पदा(द-अ)भेद- -देन ऋप्रा १७,
२४.

पदा(द-अ)भ्यास- -सात् अत्र
१२, ५(२).

पदाभ्यास-प्रतिषेध- -घः
आपश्री २४, १४, १७.

पदा(द-अ)यतन- -ने हिश्री ७,
२, २८.

पदा(द-अ)र्थ- -र्थः वृदे २,
१०८; या १, ३; पावा २, १, १;
-र्थम् अप १, ८, ९; -र्थाः या
१, ३; -र्थात् पावा १, २, ४५.

पदार्थ-त्व- -त्वात् पावा ८,
१, ४.

पदार्थ-संभावना(ना-अ)न्वव-
सर्ग-गर्हा-समुच्चय- -येषु पा १,
४, ९६.

पदार्था(र्थ-अ)भिधान- -ने
पावा २, २, २४.

पदार्था(र्थ-अ)भिसंबन्ध-
-न्धस्य पावा १, २, ४५.

पदा(द-अ)र्थ- -र्थम् माश्री २,
२, ४, २५.

पदार्थ-न्यास- -सम् बौशु ४:
२२.

पदा(द-अ)वग्राहम् वैताश्री ३२,
१४; १९; २०.

पदा(द-अ)वलि- -लिः कौशि
५१.

पदा(द-अ)वृत्ति- -त्तौ शुप्रा
४, २०.

पदा(द-अ)शय- -यम् बौश्री ६,
१३; १५; १०, २; २१.

पदा(द-अ)स्वैरि-बाह्या-पक्ष-
-क्षेषु पा ३, १, ११९.

पदा(द-अ)हुति^० - -तिः बौश्री
२५, ८ : १४.

पदिक्- पावा ४, २, ६०^d; ६, ३,
५२; -कम् काशु ७, ३४.

पदे(द-इ)तरा(र-अ)र्थ- -धान्
या १, १३; १४.

पदै(द-ए)कदेश- -शम् आपश्री
१९, २०, ११; हिश्री २२, ३,
२७; -शाः ऋप्रा ९, ३१.

पदैकदेश-सुख(व-अ)लोप-
दर्शन- -नात् पावा ५, २, ५९.

पदो(द-उ)त्तम- -मैः अप ४६,
२, ४.

पदो(द-उ)त्तरपद- -दम् पा ४,
४, ३९; -दात् पावा ४, २, ६०.

पदो(द-उ)पस्पर्शन- -नम्
आपध १, ३१, ६; हिध १, ८,
२४.

पदो(द-उ)पहत- पा ६, ३, ५२.

पदोपहता(त-अ)र्थ- -र्थम्
पावा ६, ३, ५१.

२पद्य, घा^e - पा ४, ४, ८७^f;
-द्यः शौच १, ३; ४; -द्यम् पागृ
१, ३, ५^g; ऋप्रा १, ७४; शौच
१, ५७; -द्या जैगृ १, १९:

३४^h; -द्याः ऋप्रा २, १२; ५,
२७; ९, १५; -द्यान् ऋप्रा १,
६१; -द्यानि आपश्री १०, ५,
१३; भाश्री १०, ३, २०; वैश्री
१२, ६ : ७; हिश्री ७, १, ३८;

a) उप. <✓गम् । b) विप. (वर्ण-विशेष-). c) पूष. = पदपांसु- । d) तु. पागम. । e) तत्र-

भवाद्येषु यद् प्र. । f) नाप. । g) = [पादार्थ-] आसन- । पाद्यम् इति राजा. व्याघासं. ।

-घामिः शांश्रौ १२, १९, ४१;
-घाम् गोय ४, १०, २१;
-फँघाय^a आपमं २, ९, १३;
वौय १, २, २८; -फँघायै^a शांश्रौ
४, २१, ३; आय १, २४, १६;
कौय ३, ४, ६; शांय ३, ७, ५; भाय
२, २४ : ३; माय १, १, ७; वाय
११, ५; हिय १, १३, १; -घे
ऋप्रा ४, ८५; ६, २५; उस् ५,
२; -घेन वाय ११, १३^b; -घेषु
ऋप्रा ९, २५; उस् ६, १.

पघा (घा-अ)क्ष(र्ष)या-
-र्ये ऋप्रा १८, ३.

पघा(घ-आ)दि- -दीन् ऋप्रा
३, २५.

पघादि-भाज्- -भाक्
ऋप्रा ५, २१.

पघा(घ-अ)न्त- -न्तः ऋप्रा
४, ६५.

पदन- पा ३, २, १५०.

पदि^e- -दिः या ५, १८६; -दिम्
निघ ४, २१; या ५, १९१.

पदन्- पाठ ४, ११३; -फँद्वा^d
आपश्रौ १०, १, ५; माश्रौ १०, २, ४;
वैश्रौ १२, १, १३; हिश्रौ ७, १, १३.

पदन्- -आः या १२, १९; -फँघात्
कौय ५, ३, ३१^e; आमिष्ट ३, ६,
१ : २९; बौपि १, ९ : ५; हिपि
८ : ३.

पदन्-गा^f- -गस्य कौय ४, २, ३;
-गाः अप ५२, ८, ४; सु २४, १;
-गान् वाश्रौ ३, ४, ३, २२;
-गेभ्यः माय २, १२, १७.

पदन्-द^g- -दम् काश्रौ ६, ३, १९;
काश्रौ ५२; माश्रौ १, ८, २, ३.
पदन्-दत्^h- -दन् हिश्रौ ४, ३, १.
पदन्-दन्तⁱ- -न्तम् वैश्रौ १०,
९ : १३.

पाद्^j-> पान्-नेजन^k- -नम् वौश्रौ
७, ३ : १०; २९, ६ : १७;
माश्रौ २, ३, २, २०; २३; ५, २,
२१; -नान् काश्रौ ९, ३, ८.

पान्नेजनी- -नीभिः काश्रौ
१०, ७, ४; -नीम् आपश्रौ १२,
५, ३; -न्याः अप्राय ६, ५.

पान्नेजन-पाणि^k-> ०पाणि-
(न् >)नी- -नीम् माश्रौ २, ३,
२, १३.

पान्नेजन-पात्र- -त्रम् वैश्रौ
१५, ६ : २.

पान्नेजन-ह(स्त >)स्ता-
-स्ताम् काश्रौ ६, ६, १.

पपाद्^l- पा ३, ३, १६; पाग ४,
४, १०; १२; ५, १, २०; २, २४;
६४^l; ६, १, २०३; २, १९४;
-दः शांश्रौ १३, १, ७; आपश्रौ;
या २, ७६; ७, ९; ११, ६; १२,
२९१; अप्रा ३, ४, ११^m; पा ४,
१, ८; ६, ४, १३; -दःऽदः
आपघ २, २७, १२; हिघ २,
५, २३१; -दम् आश्रौ ८, ३,
१०; शांश्रौ; या १२, २९१;
-दम्ऽदम् विघ ५५, ११;
-दयोः आश्रौ ४, ९, ३; ५, १४,
११; ६, ३, ११; शांश्रौ; -दस्य
शांश्रौ ९, ५, १२; १०, ५, १०×५;

निसु; -दाⁿ वौश्रौ ८, १९ :
१२; -दाः शांश्रौ १७, २, ७;
आपश्रौ ५, १७, ४१; वौश्रौ; या
१३, ७१६; -दात् भाश्रौ ५,
२०, २; -दान् आश्रौ ६, ३, ३;
७×५; शांश्रौ; -दानाम् जैश्रौका
९३; निसु २, १२ : २०; अप;
-दाभ्याम् आश्रौ ८, २, १०;
शांश्रौ; -दाघ द्राश्रौ २, २,
३०; लाश्रौ १, ६, २८; -दे
आश्रौ १, १, १८; शांश्रौ; या
१०, १६; -देन आश्रौ १, १, २३;
शांश्रौ ९, ५, ५×५; काश्रौ; या
५, १७; ७, १२; १२, २९; -देषु
आश्रौ ७, ११, ९×५; लाश्रौ;
-दैः आश्रौ ५, १४, १६; वैश्रौ;
या १२, १९; -दौ आश्रौ ५,
१५, ६; १२, ९, ८; ९; शांश्रौ.

पाद-क- पा ५, २, ६४.

पाद-कर- -रयोः वैय ५, २ : ३.

पाद-क(ि >)पवाⁿ- -पवा
वौश्रौ २६, २२ : १७.

पाद-कुशरिका- -काम् शांय
४, ८, ११.

पाद-कृच्छ्र^o- -कृच्छः शंघ ४३२;
-कृच्छ्रम् वैय ६, ९ : ३; १०,
१; १५ : ११; १९ : ३; ७.

पाद-केशां(श-श्रं)शुक-कर-
लुण्ठन- -ने विघ ५, ६५.

पाद-गृह्ण^p पाग २, १, ७२.

पाद-ग्रहण- -णम् विघ ३२,
१५; -णे आश्रौ १, १, १७;
उनिसु १ : ३५.

a) सपा. पघाय <> पघायै <> पाघायै इति पाभे. । b) = उदक- । c) वैप इ द्. । d) सपा.
तां १, १, ४ बद्धा इति पाभे. । e) पर्णान् इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. तैआ ६, ३, ३) । f) = सर्व- । उप.
<√गम् । g) विप. । बस. उप. नैप्र. < दत्- , यद्वा दन्तस्य दः उस्. (पा ५, ४, १४२) । h) विप. L
बस. । i) = १पाद- । j) विप., नाप. (माश्रौ.) । उप. <√निज् । k) विप. (पत्नी-) । मलो. कस. ।
l) निपाद- इति पाका. । m) -दायाद्ः इति स्यात् । n) = पादौ । o) = त्रत-विशेष- । p) [पक्षे] भागडा. ।

पाद-प्राह- -ह्याः वाध १३, ४२.
 पाद-घोष- पा ६, ३, ५६.
 पाद-च्छेद- -दे अप ६८, २, ११.
 पाद-जङ्घा- -ङ्घे अप २२, ५, १.
 पाद-जाह- पा ५, २, २४.
 पाद-ज्ञान- -नस्य ऋप्रा १७, २५.
 पाद-तस (:) निस् ३, १३ : ३३;
 कौशु ३, १०, १४^१; ५, ६, ५; शां. ७.
 पादतो-इश^०- -शेन वाश्रौ ३, ४, ४, १५^०.
 पाद-निचृत्^०- -चृत् ऋअ १, ४, ४; २, १, ३०××; शुअ; -चृत्तौ ऋअ २, १, १७.
 पाद-निष्क^०- पाशा ६, ३, ५६.
 पाद-न्यून- -ने शंघ ४४६.
 १पाद-प^०- -पाः अप ५७, १, ७; ७०^२, ७, २; ७१, १५, १; -पान् वाध १९, ११; -पानाम् काध २८ : ६.
 २पादप- पा ४, ३, ११९.
 पाद-पार्ष्णी- -गर्भांस् कौसू ४२, २१.
 पाद-पीठ- -उम् अप ५, २, ५.
 पाद-पूरण^१- -णः ऋप्रा १२, २५;
 -णम् पा ६, १, १३४; -णे पा ८, १, ६.
 पादपूरण-त्व- -त्वात् आपशु ३, १६; हिशु १, ५७.
 पादपूरणा(ण-अ)र्थ- -र्थम् ऋअ १, ३, ६; शुअ ५, ६.
 पाद-प्रक्षालन- -नम् लाश्रौ १, २, २^१; आमिष्ट ३, ३, २ : ८;
 -नात् हिध १, २, ८४.
 पादप्रक्षालन-क्रम- -मेण

आमिष्ट ३, ३, १ : १८.
 पादप्रक्षालनो (न-उ)च्छेषण-
 -णेन बौध १, ५, १०.
 पादप्रक्षालनो(न-उ)त्सादना-
 (न-अ)नुलेपन- -नाणि (१नि)
 आपध १, ११, १३^१.
 पादप्रक्षालनो(न-उ)त्सादना
 (न-अ)वलेखना (न-अ)नुलेपन-
 -नानि^१ हिध १, २, ९३; ३, ६८.
 पाद-प्रतापन- -नम् शंघ ४३९.
 पाद-प्रभृति- -ति वाध २०, ४२; गौपि १, २, ३३.
 पाद-प्रमाण^०- -णम् काशु ३, ८;
 आपशु ३, १५; हिशु १, ५६.
 पाद-भाग^१- -गेन शाश्रौ ७, २७, २९.
 पादम् पा ३, ४, ५६.
 पाद-मात्र, त्रा- -त्रः शैशि ३८;
 -त्रम् आश्रौ ६, १०, ६; -त्रा शैशि ३५; -त्रे काश्रौ १६, ७, ३.
 पादमात्री- -त्री काश्रौसं २५ : २; काशु ५, ६;
 आपशु ११, ४; हिशु ४, ५;
 -त्राः काश्रौ १७, १, १४;
 २३××; आपश्रौ; -त्रीम् काश्रौ १७, ४, १२; बौश्रौ २२, २ : २;
 -स्यः आपश्रौ १६, १३, ६;
 वैश्रौ १८, ११ : २२; आपशु ११, २; हिशु ४, ३; -स्यौ काश्रौ १७, १, १०.
 पादमात्रिक (>)का- -का शैशि ११५.
 पाद-मिश्र- पा ६, ३, ५६.
 पाद-युज्- -युक् अअ ४, ४०.
 पाद-लेप-तस (:) अप ३५, २, २.

पाद-वत् बौशु २१:८; ऋप्रा १, ५७; मीसू ६, ७, २०.
 पाद-वत्- -वान् मैअ ६.
 पाद-विभाग- -गेन माशि १३, ४.
 पाद-विशेष- -धात् ऋअ १, ३, ७; शुअ ५, ७.
 पाद-विहरण- -णे पा १, ३, ४१.
 पाद-वृत्त^१- -त्तः शुप्रा १, ११९;
 तैप्रा २०, ६; शौच; -त्तम् माशि ७, ७; -त्तयोः ऋप्रा १, ६०.
 पादवृत्ता(त-अ)न्त^०- -न्तः शैशि २३८.
 पादवृत्ता(त-अ)मि (धा >) ध^०- -धः कौशि १७.
 पाद-वृत्ता (त-अ)क्षर- -रैः ऋप्रा १७, २१.
 पाद-व्यवस्था- -स्था मीसू २, १, ३३.
 पाद-शत- -तस्य पा ५, ४, १.
 पादशत-ग्रहण- -णम् पावा ५, ४, १.
 पाद-शब्द- पा ६, ३, ५६.
 पाद शम् (:) माष्ट १, २२, १४.
 पाद-शोधिन्- -धी वैश्रौ १, १६ : २.
 पाद-शौच- -चात् विध ९१, १८.
 पाद-संस्थान^१- -ने याशि १, १५.
 पाद-संज्ञा- -ज्ञा उतिसू २ : २३.
 पाद-सूक्त-ऋग्-अर्धर्च-नामन्-
 -मानि वृदे २, ९८.
 पाद-स्थान- -नम् ताशि २, ६, १.

a) विप. । बस. । b) पांशे. पृ १४८५ h द्र. । c) = गायत्री-भेद- । d) तु. पाका. पासि. । e) = वृक्ष- । उप. < ✓पा [पाने] । f) उप. कर्तारि कृत् प्र. । g) = जल- । उस. उप. करखे प्र. । h) सपा. पादप्रक्षालनम् <> पाचम् इति पांशे. । i) परस्परं पांशे. । j) मलो. कस. । k) = स्वर-विशेष- । l) = पाद-समाप्ति- ।

पाद-स्पृष्ट- -ष्टैः वैध ३,४,१२.
 पाद-स्वेदन- (>निक- पा.)
 पाग ४,४,१९.
 पाद-हारक- -पावाग २,१,३३.
 षाद-हीन- -नः सु ३,४.
 षादा(द-अ)प्र-तस्रः(ः) अप ३५,
 १,७.
 पादा(द-अ)ङ्गुली- -लीषु
 शांश्रौ ४,१५,२०; जैगृ २,४,५.
 पादा(द-अ)ङ्गुष्ठ- -ष्ठे बौध २,
 ७,१०; -ष्टेन वैगृ २, ५ : १२;
 ३,३ : ६.
 पादा(द-अ)दि- -दिः भास् २,
 ३; ऋप्रा २,३४; ४,५६; -दिषु
 आपृ ११,११; बौगृ २,५,४०;
 -दीनाम् अप्रा १, १, १९;
 ३, ८; -दौ ऋप्रा २, ६०;
 ७०^२xx; अप्रा.
 पादादि-वत् अप्रा १,१,२०.
 षादा(द-अ)थ- -थम् याशि
 २, ५१.
 पादा(द-अ)न्त- -न्ते ऋप्रा ९,
 १९,३९; १६,७७; पा ७,१,५७;
 -न्तेषु निम् २,१२ : २१; -न्तौ
 ऋप्रा ८,४८.
 पादान्त-गत- -ते ऋप्रा ४,
 ४४.
 पादान्त-वृत्त- -त्तस्य नाशि
 २,१,७.
 पादा(द-अ)भ्यङ्ग- -ङ्गम् विध
 ६७,४६.
 पादा(द-अ)र्थ- -र्थम् पागृ १,३,
 ५.
 पादा(द-अ)र्ध- -र्धाः वृदे ४,८.

पादा(द-अ)वेनक्तु- -क्ता आपध
 २,२६,१५; हिध २, ५,२१०.
 १पादा(द-अ)वनेजन- -नम्
 आपधौ २२,३, १६; आपध १,
 ३१,१; हिध १,८,१९.
 १२पादा(द-अ)वनेज(>)नी^०-
 -नीः आपमं २,९,१०, बौगृ १,
 २,२०; भागृ २,२३ : ८; कौसू
 ९०,११.
 पादिन्- -दिनः आपधौ २१,
 २, १९; वाश्रौ ३, २, १, १५;
 हिश्रौ १०,४,४२; १६, १, ३६;
 -दिभ्यः आश्रौ ९,४,५; माश्रौ
 २,४,५,७; हिश्रौ १०,४,३९.
 पादिनी- -नीनाम् लाश्रौ ९,
 ६, ७; -नीभ्यः लाश्रौ ९,११,
 ३; -न्यः लाश्रौ ९,१,१३.
 पाद्(द-ऊ)न^०- -नम् आपध
 १,२,१३^d.
 पादे-गृह्य पाग २,१,७२.
 पादे(द-इ)ष्टका- -का आपशु
 ११,४; हिशु ४,५; -काः वैश्रौ
 १८, १६ : ७७; हिपि १५ : ५;
 आपशु; बौशु १०, २४; २० :
 २४^{१०}; -काभिः वैश्रौ १८,१६;
 ८१; ८४; आपशु; -काम् आपशु
 १९,५; बौशु १२ : ८; १३ : ५;
 हिशु ६, २१; -के बौशु ८ :
 १७xx.
 पादो(द-उ)दक- -कम् वैगृ ३,
 २२ : १३.
 पादो(द-उ)दगत- -तैः वैगृ १,
 ५ : ४.
 पादो(द-उ)दधत्- -तानि

आमिगृ २,६,७ : ३१.
 पादो(द-ऊ)न- -नम् शंघ ३९४;
 विध ५०,१२; हिध १,१, ४६^d.
 पादोन-फल-भागिन्-
 -गिनौ कप्र १,६,३.
 पादो(द-उ)पसंस्पर्शन- -नम्
 विध ३२,५.
 पादो(द-उ)पसंग्रहण- -णम्
 विध ३०, ३२; गौध १, ५८;
 ६,१.
 पादो(द-उ)पहत- -तम् बौध
 १,७,४.
 पादो(द-ऊ)ध्व- -ध्वम् वेज्यो
 १४.
 १पाद्य, द्या^० पा ५, ४, २५;
 पाग ५, ४, ३; -द्यम् शांश्रौ ४,
 २१, ३; २५; द्राश्रौ १, २, १^५;
 आगृ; -द्याः आपृ १३, ४^१;
 बौगृ १, २, १९; बौशु ९-१० :
 २xx; -द्याभिः कागृ २४,१०;
 बौशु १० : २५,३३; -द्याभ्याम्
 काश्रौ ३, १, ७; -द्यायै^१ पागृ
 १,३,१२; कागृ २४,६^१; -द्येन
 भागृ २,२३ : ३; मागृ १, ९,
 १३; जैगृ १,१९ : ३३.
 पाद्य-क- पा ५,४,३.
 पाद्य-दान- -नम् वैगृ २,
 १६ : ८.
 पाद्य-पात्रो(अ-उ)दक-वत्
 विध २१,१७.
 पाद्य-प्रतिग्रहण^१- -णः शांगृ
 ३,७,५^१; -१णम् कौगृ ३,४,६^१.
 पाद्य-प्रथम^१- -मैः कागृ २४,
 ५.

a) विप. > नाप. (मञ्जीरादि- [तु. नागेशः]) । b) =पञ्जेजनी- । c) पररूपम् (पावा ६,१, १४) । d) सपा. पाद् <> पादो इति पाभे. । e) पदे इति पाठः? यनि. शोधः (तु. बौशु १०:२४) । f) मलो. कस. । g) विप., नाप. (जल- इष्टका- प्रष्ट.) । h) पाभे. पृ १४९१ h. । i) पाभे. पृ १४९० a. । j) भाप., नाप. (मन्त्र-) । उप. भावाद्यर्थे प्र. । k) परस्परं पाभे. । l) विप. । बस. ।

पाद्या(द्य-आ)चमन- नम्
वैगृ ४, १२ : ६.

पाद्या(द्य-आ)चमन-गन्ध-
पुष्प-धूप-दीपा(प-अ) क्षता(त-
आ)चमन- -नैः वैगृ ७, ६ : ५.

पाद्या(द्य-आ)चमनीय-मुख-
वास- -सम् वैध ३, १०, ३.

पाद्या(द्य-आ)र्घ्य-मधुपर्क-
-कैः वृदे ५, ७९.

पाद्या(द्य-अ)र्घ्या(र्घ्य-आ)
चमनीयो(य-उ) दक- -कानि
शंघ २०४.

१पादु^१ - > १पादु-(क>)का^२-
-के वाध १२, ३४; शंघ.

पादुकिन्- -की आपध १,
८, २; हिध १, २, ९०.

२पादुक- पा ३, २, १५४.

पादू^८ - पाउ १, ८५.

पद्- √पद् द्र.

?पद् वायुशौ ४, १०८ : २०.

पद्-, १पदक- √पद् द्र.

२पदक^१ - पा, पाग २, ४, ६३.

पद-कर्मन्- प्रम्. √पद् द्र.

पदञ्जल^{१७} - पा, पाग २, ४, ६९.

पद-ता- प्रम्. √पद् द्र.

पदनु- पाउभो २, १, ७९.

पद-न्यास-, पदिक-, पदघोष- प्रम्.

√पद् द्र.

१पद्म^१ - पाउ १, १४०; पाग २, ४,

३१; ५, २, १२७^६; १३५; -अम्

आमिगृ २, ४, १० : ५; ११ : ६;

अप १८, १, १७; १९^२, २, ४;

५; माशि ११, ३^३; -अस्य

वैश्रौ ११, ८ : २; आमिगृ २, ४,

१० : ६; -अन् वाध २७, १२;

-अनि अप ६८, २, ४९; -अं

आपश्रौ १६, ३१, १; वैश्रौ १८,

२ : ५२; हिश्रौ ११, ८, ४; विध

९९, १२५; -अेषु या १४, ३०;

-अैः अप ३१, ६, ५; ६८, २, ४९.

२प(द्य>)आ- पा ५, २, १२७;

-आ कप्र १, १, ११^१.

पद्म-कुमुदो(द-उ)पल- -लैः अप

१८, ३, १.

पद्म-खण्ड- -ण्डे विध ९९, १७.

पद्म-चारि(रु>)णी- -गी मागृ २,

१३, ६^१.

पद्म-तन्तु-निकाश- -शेन अप ५८^१,

३, १०.

पद्म-धर- -०र विध ९८, ७५.

पद्म-धारा-धर- -०र विध ९८, ७६.

पद्म-नाभ^६ - पाग २, २, ३७^६;

-०भ विध १, ५०; ९८, ७४;

-भम् आमिगृ २, ५, ७ : १०^१;

बौगृ १, ११, ७; वैगृ ३, १३ :

५; बौध २, ५, २४^१.

पद्म-निधि- -धिम् वृदे ६, ५५.

पद्म-निम- -भम् अप २५, १, ९.

पद्म-निलय^१ - -यम् या १४, ३०.

पद्म-पत्र- -त्रेण आमिगृ २, ७, ७ :

१९; अप ३८, ३, १.

पद्मपत्र-प्र (भा >) भ- भः

माशि १, १३; नाशि १, ४, १.

पद्मपत्रा(त्र-अ)क्ष^१ - -क्षः चव्यु

४ : १३.

पद्म-पुष्पा(ष्प-आ)कृति- -तिः अप

७०, ६, २.

पद्म-बिल्व-पलाशो(श-उ)दुम्बर-

कुशोदक- -कानि शंघ ४१७.

पद्म-योनि^१ - -निना अप ६८, १, १.

पद्मयोनि-मत- -तम् अप ५२,

१, २.

पद्म-वर्ण-निभ- -भम् अप २१, ७, ४.

पद्म-वैदुर्थ-निका (श >)शा- -शा

अप ७०^३, ४, १.

पद्म-शङ्खे(ङ्ख-इ)न्दु-वज्रा (ज-अ)हि-

मत्स्य-ध्वज-नि(भ >)भा- -भा

अप ५८^२, ३, ६०.

पद्म-संभव^१ - -वम् अप ७०, २, ५;

-वे विध १, १.

पद्मा(द्य-आ)कार^१ - -रम् अप २५,

१, १०.

पद्मा(द्य-आ)कृति- -तिः अप ७०,

६, ३.

पद्मा(द्य-अ)क्ष^१ - -क्षैः शंघ ४४ ६

विध २३, २४; ४६, १७.

पद्मा(द्य-आभा >)भ- -भः अप ७०^३,

२, १; -भम् अप २५, १, ३; ८.

प(द्य >)आ-वती^१ - पाग ६, ३,

११९^६.

पद्मा(द्य-अ)ष्ट-शत- -तम् अप ३६,

२६, २.

पद्मि(रु >)नी- पा ५, २, १३५;

पावाग ४, २, ५१^९.

पद्मिनी-खण्ड- पावा ४, २, ५१.

पद्मिन्यु(नी-उ)त्करण- -गेन अप

३६, ७, ४.

पद्मो(द्य-उ)दुम्बर-बिल्व-पलाश-

-शानाम् वाध २०, ३१.

१, २पद्य, द्या- प्रम्. √पद् द्र.

पद्- पाउ २, १३.

पद्- पाउभो २, ३, १२७; -द्वे^१ बौश्रौ

a) वैप ३ द्र.। b) स्तार्थे प्र.। c) = १पादु-। d) व्यप.। व्यु. ?। e) तु. पाका.। f) वैप १ द्र.। g) तु. पागम.। h) = यम-विशेष-। i) = मातृकाऽन्यतमा.। j) = देवी-विशेष-। k) = विष्णु-। l) विप.। बस.। m) = ब्रह्मन्-। बस.। n) = पद्म-बीज-। o) = नदी-विशेष-। p) = [साहचर्यात्] संख्या-विशेष-। व्यु. ?।

१८,४३:७; २६,३३:१२.

पद्धत्- पद्धत्- √पद् द्र.

†√पन्^१ पाधा. भ्वा. आत्म.

व्यवहारे स्तुतौ च, पनायते निघ

३, १४; पनय > या लुप्रा ३,

११२; पनायत या ९, १६६.

पन्-> †पनि(ष्ट>) छा- -छा

आपश्रौ १०, ३, २; भाश्रौ १०,

१३, ३.

पनस्^२-> †√पनस्य, पनस्यति

निघ ३, १४; पनस्य अप ४८,

१२५.

†पनारस्य^३- -स्यम् आश्रौ ९, ११,

१६; अत्र २०, १४३.

†पनिन्तव^४- -न्तम् आश्रौ ४,

१०, ३; अप्रा ३, २, १७; ४, ५.

†पन्य^५- -न्यम् S-न्यम् शाश्रौ ९,

१९, २; निस् ८, १: ८; सात्र

१, १२३; १२४; --न्ये शाश्रौ ९,

१९, २.

पनस्^६- पाउ ३, ११७.

पनिष्प(द>)दा^७- -दा अप्रा ३, १,

७; ४, ५; शौच ४, १६.

√पन्थ्, पन्थन्-, पन्था- √पथ् द्र.

१पन्न- प्रथ्. √पद् द्र.

२पन्न- पाउ ३, १०.

†पपयस्यम् अप्रा ३, ४, ११.

पपL, म्पLस-> √पप L, म्पL स्य पा.)

पाग ३, १, २७.

पपिवस्- √पा(पाने). द्र.

पपी- पाउ ३, १५९.

पपु- पाउवृ १, २२.

पपि- √पृ, पृ द्र.

पफक^८-> पफक-नरक- पा, पाग २,

४, ६८.

पम्पा^९- पाउवृ ३, २८; पा, पाग ४,

२, ८२.

√पय् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.

पयस्^{१०}- पाउभो २, १, ३२२; पाग ३,

१, २७; ५, २, १३५; -यः आश्रौ

२, १०, २११; ३, ११, ७^१××;

शाश्रौ; काश्रौ २५, ५, २८^१;

आपश्रौ ४, १४, ४^१; बौश्रौ ३,

२०:१८^१; माश्रौ १, ४, १, ५^१;

३, ९^१; हिश्रौ ६, ४, १४^१;

द्राश्रौ २, २, ३४^१; लाश्रौ १,

६, ३०^१; आपमं २, ९, १४^१;

पाग १, ३, १४^१; माग २, ११,

१८^१; हिगृ १, १३, ४^१; या

२, ५; ६, ३; ८, ५; ९, ४१^१;

१०, १६^१; ११, ४३; ४५^१;

-यसः आश्रौ ४, ७, ४; शाश्रौ;

माश्रौ १, ४, १, ५^१; वाश्रौ १,

१, २, ५^१; या २, ५^१; ४,

१९^१; ८, ५; -यसा आश्रौ २,

३, १××; शाश्रौ; माश्रौ १, १,

३, ३२^१; वाश्रौ १, २, २,

२८^१; या ९, ३९^१; -यसाम्

बौश्रौ २०, २: ३××; -यसि

काश्रौ ४, ६, ४; ५, ६, ६; आपश्रौ

६, २९, १०××; बौश्रौ; -यसी

काश्रौ २२, ८, २; आपश्रौ १५,

९, १०; बौश्रौ ९, ९: १९; २२;

२५; भाश्रौ ११, ९, १३; वैश्रौ

१३, ११: १५; हिश्रौ २४, ४, ४^१;

-यसे बौश्रौ ८, १२: २८^१;

-यसो: शाश्रौ ५, १०, १०;

-यांसि †आश्रौ १, १०, ५; ५,

६, २७; शाश्रौ; †या ११, २५;

२८; ४२.

पायस^{११}- -सः कौगृ ४, ३, १;

शागृ; -सम् वैश्रौ १२, ४:

१६; २२: ६; आगृ; -सस्य

आगृ २, ३, ३; द्रागृ ३, ३, १८;

-सात् द्रागृ ३, १, ३८; -सान्

कप ३, १०, ७; -सेन पागृ ३,

८, १६; बौपि; -सौ अप १,

३४, ३; ४.

पायस-कूसर-गौड्या (डी-

२आया>)घ^{१२}- -घै: वैगृ ४,

१४: १०.

पायस-तिल-चूर्ण^{१३}- -र्णम्

आमिगृ २, ४, ३: १५.

पायस-म(य>)यो- -योम्

अप ३६, ७, ३.

पायस-शेष- -पम् वैगृ ३,

१३: ११.

पायसा(स-अ)ञ- -ञेन

आमिगृ २, ४, ५: २५.

पायसा(स-अ)प-संयुत-

-तै: अप ६८, ५, २१.

पायसो(स-ओ)दन- -नेन

आमिगृ २, ४, ८: १४.

पय-आहुति- -तिभिः आगृ ३, ३, २.

पय-उपसेचन^{१४}- -नम् आपध २,

७, ४.

पयः-पश्वो(शु-ओ)पधि- -धीनाम्

वृदे ६, १४.

पयः-पात्र- -त्रान् बौश्रौ १८, ४०:

१५; -त्रैः बौश्रौ १८, ४०:

२३^१; २६.

पयः-पूर्ण- -र्णम् तैपा १७, ८.

a) अप्रा ३, २, १७ पराष्टः द्र. । b) वैप १ द्र. । c) = फल-विशेष- । व्यु. ? । d) व्यप. । व्यु. ? ।

e) = नदी-विशेष- । f) पाभे. पृ १३३५ ज द्र. । g) पाभे. वैप १, १९०७ a द्र. । h) सकृत्

= साम-विशेष- । i) पाभे. वैप १, १९०७ c द्र. । j) पाभे. वैप १, १९०८ d द्र. । k) विप., नाप. ।

ताद्वितः अण् प्र. । l) द्रस. > बस. । गौडी- = सिता- । m) मलो. कस. > बस. । n) विप. । बस. ।

पयः-प्रतिषेध- -धः मीस् ११, १, ५१.
 पयः-प्रोक्ष^१- -क्षम् बौश्रौ १०, २७ :
 २; -क्षे बौश्रौ १०, २७ : ९, २२, ६ : ८.
 पयः-क्षेप- -पम् आपश्रौ १९, ८, १४; हिश्रौ २३, १, ४१.
 पयसि(न् >)नी- पा ५, २, १३५.
 पयस्-पति- -०ते विध ९८, २२.
 ✓पयस्य पा ३, १, २७.
 †पयस्य^२ कप्र २, ८, २५.
 पयस्य, स्या^३- पा ४, १, १६०; -स्यः
 द्राश्रौ १, २, १४; लाश्रौ १, २, ८;
 जैगृ १, १९ : ३८; -स्यया शाश्रौ
 ९, २८, १८; १४, ४०, २३;
 काश्रौ १५, ६, ३५; हिश्रौ २२,
 २, ५०; -स्ययोः माश्रौ १,
 ७, ४, ७; -स्या आश्रौ ६, १४,
 १९; १२, ८, ३३; शाश्रौ; -स्याम्
 काश्रौ ९, १, १५; ११, २३;
 आपश्रौ १२, ४, ६; ११; २५, ६;
 १९, २५, १; ४; बौश्रौ; हिश्रौ
 २२, ५, १६१^४; -स्यायाः काश्रौ
 १५, ९, ५; १६, १, २८; १९, ७,
 १७^५; आपश्रौ ११, ५, १२;
 १९, २५, ७; हिश्रौ २२, ५, १९;
 -स्यायाम् काश्रौ १५, ६, ३३;
 आपश्रौ १९, २५, २; बौश्रौ १३,
 ३४ : १; हिश्रौ २२, ५, १६;
 द्राश्रौ २, २, ५१; लाश्रौ १, ६,
 ४८; -स्यायै माश्रौ २, २, ५,
 २८; वैश्रौ १४, ५ : ३; -स्ये
 काश्रौ ५, ४, २१.
 पयस्या-प्रचरण-काल- -ले

काश्रौ ५, ५, १६.
 पयस्या(स्या-ञ्च)र्थ- -र्थम्
 आपश्रौ ११, २१, ७.
 पयस्या-वर्जम् काश्रौ ९, १४, ३;
 आपश्रौ १३, १, १२; १०, ७.
 पयस्या-स्विष्टकृद्-इ (डा >)
 ड^६ -डम् काश्रौ १५, ७, २२.
 †पयस्-वत्- -वत् बौश्रौ १, १२ :
 २४; २१ : २××; माश्रौ; -वते
 बौश्रौ १८, ९ : १७; -वन्तः हिश्रौ
 ६, ७, ८; हिगृ १, २९, १; कौस् ८९,
 १२; ऋप्रा २, ४८; -†वन्तम्
 शाश्रौ ६, ७, १०^७; आपश्रौ १०,
 २५, ४^८; बौश्रौ ६, १५ : १^९;
 ७, ५ : ८^१; १८, ९ : १७; भाश्रौ
 १०, १६, १६^२; -वान् आश्रौ १,
 १३, ४; शाश्रौ; या २, १३.
 †पयस्वती- -ती आश्रौ १, ९,
 १; ४, १२, २^३; शाश्रौ; निघ
 १, ७^४; या ५, २^५; -तीः
 आपश्रौ ४, २, ३; ९××; बौश्रौ;
 -तीम् आपश्रौ ११, ४, १४;
 भाश्रौ; -त्यः निघ १, १३^६.
 पयस्-वि(न् >)नी- -नी अप १,
 ४८, २; -नीम् अप १, ४८,
 २; ५०, ८××; अशां; -न्यः अप
 २१, १, ४; १; वृदे ५, ९२; ८,
 ७२; -न्याः पागृ ३, ९, ६; कागृ
 ५९, ५; विघ ८६, ४.
 पयः-सुरा-ग्रह- -हाणाम् वैताश्रौ
 ३०, ११.
 पयो-गुड- -डान् वाश्रौ ३, ४, २, ४.
 पयो-नोधूम-शालि- -लीनाम् अप
 ७०, ४, ९.

पयो-ग्रह- -हाः आपश्रौ १९, २,
 १३; शुभ्र २, ३७४; -हान् काश्रौ
 १९, २, १४; २४; २८; आपश्रौ;
 -हेभ्यः माश्रौ ५, २, ४, ८.
 पयोग्रह-संमर्शन- -नम् काश्रौ
 १९, २, ३१.
 पयो-ग्रहण- -णम् काश्रौसं २५ : ६.
 पयो-द^१- -देषु अप ५९, १, १६.
 पयो-दधि पृषदाज्य- -ज्यानाम्
 आम्रिण २, ७, ९ : ४; भागृ ३,
 १८ : ६.
 पयोदत्^२- -नम् बौगृ १, ८, २; जैगृ
 २, ९ : २६.
 पयो-देवता- > -श्व्य, स्या- -न्यम्
 शुभ्र ४, ९९; -न्याम् शुभ्र १,
 १८५^३; -न्यानि शुभ्र २, ३६९.
 पयो-दोष- -षात् मीस् ६, ५, ६.
 पयो-धर^४- -राः अप ५९, १, १७;
 -रान् अप ५८^५, ४, ८.
 पयो-धर्म- -र्माः भाश्रौ ७, ६, ९.
 पयो-धस- पाठ ४, २३०.
 †पयोघा निसृ ९, ६ : २८.
 पयो-निघन्त^६- -नम् द्राश्रौ २, २,
 ५१; लाश्रौ १, ६, ४८; ७, ३, ११.
 पयो-भक्ष- -क्षः आम्रिण २, ४, ४ :
 ६; -क्षम् शाश्रौ ४, १३, १.
 पयो-मार्थ^७- -र्थः वाधूश्रौ २, १६ : ६.
 पयो(यस्-ञ्च)भाव- -वे वाश्रौ १,
 ५, ३, ४.
 पयो-मन्य- -न्यम् आपश्रौ २२,
 २६, १; हिश्रौ २३, ४, १७.
 पयो-मिश्र- -श्रम् आम्रिण २, ४, ३ :
 १५; -श्रस्य बौश्रौ २, १२ :
 २९; ६, १ : २४; १५, २ : २१.

a) = प्रोक्षणप्रयोजनक-पयस्-। b) पाठः ? पयसा इति कोचः (तु. भाष्यम्)। c) विप, नाप.।
 d) श्यान्तम् इति पाठः ? यनि. शोचः (तु. आपश्रौ १९, २५, १)। e) इडा = इडामार्जनान्तकर्मन्-। f) पामे.
 वैप २, ३३६. बहुरमध्यम् टि. द्र.। g) पामे. वैप १, १९०९ g द्र.। h) = रात्रि-। i) = नदी-। j) = मेघ-।
 वस.। k) तुस.। शकन्वादिर्त्वं द्र.। l) = ऋच्-। m) = साम-विशेष-। वस.। n) तुस. उप. < ✓श्रु.।

पयो-मूल-फल-लैः अय ७०, २, १; शंघ १८७.
 पयोमूलफला(ल-अ)शन-नैः अय ७०, १, ११.
 पयो-यवाग्वा(गू-आ)मिक्षा(क्षा-आ) हार^३-राः शंघ २८.
 पयो-विकार-रः मीसू ८, १, ४०; -रे बौध १, ६, ४७.
 १पयो-व्रत-तम् वैश्रौ १४, १७ : ३; गौपि १, ७, ११.
 २पयो-व्रत, ता^४-तः बौश्रौ २६, ५; २; विघ ५०, ५०; गौध २४, ६; -ता भाश्रौ १०, ९, ९.
 पयोव्रत-ता-ता वाध २२, ११; बौध ३, १०, १२; गौध १९, १४.
 पयो-होत्र^५-त्रम् बौश्रौ २४, ३० : १६.
 पर, रा^६-पाग १, १, २७; २, १, ५९; -०र विघ ९८, ६१; -रः आश्रौ १, २, ९×४; १०, ९, ३^७; शाश्रौ; वाश्रौ ३, ४, ४, १^८; लाश्रौ ९, १०, १४^९; या १, १७^{१०}; ६, ३२; ७, १४; २९; ३०^{११}; १०, १०^{१२}; २६^{१३}; १४, १९^{१४}; पा १, १, ४७; ४, १०९; ३, १, २; ८, ३, ४; पावा १, ४, ५६^{१५}; -रम् आश्रौ ५, १, ३; १०, ९, २; शाश्रौ; वैघ ३, ७, १३^{१६}; या २, ३^{१७}; २४; ११, ७^{१८}; १४, ३; ६; २९; पा १, ४, २; ८, १, २; -रम्-रम् आश्रौ १, ३, २; -र्या वैताश्रौ २२, १४; २५,

११; ऋश्र; -रयोः माश्रौ १, १, २, २; जैश्रौका; शैशि २२१^{१९}; -रस्मात् आपध २, २०, ४; हिध २, ५, ९१; गौध १८, १२; पा ७, १, १६; पावा ५, ३, २२; -रस्मिन् आपधौ १३, २२, ५^{२०}; बौश्रौ; पा १, १, ५७; ३, ३, १३८; ७, १, १६; -रस्मै शाश्रौ १८, २४, ९; काश्रौ; या ३, ६; -रस्य शाश्रौ १३, २०, १२; १६, ९, १३^{२१}; आपधौ; पा १, १, ५४; ६, १, ११२; ३, ८; ७, ३, २२; २७; ४, ८८; ८, २, ९२; पावा ४, २, १३८^{२२}; -रस्य-रस्य पावा ८, २, १; -^{२३}रस्या काश्रौ १६, ४, ३६; आपधौ १६, ९, ११; बौश्रौ; -स्याम् सु १४, ४; -रा निसू २, १३ : २७; बौधि २, ९, १२; जैघ; अश्र ४, ३७^{२४}; -राः शाश्रौ १०, ६, ४; दाश्रौ; -राणि आपधौ २१, १६, २; १२; माश्रौ; निसू ३, १३ : ३; ९; या ६, २६; -रात् काण्ड ४६ : १७; -रान् आपधौ ८, १६, ७; २२, ११; बौश्रौ; -रान्-रान् बौश्रौ ९, ६ : ८; -रामिः द्राण्ड ३, ४, २४; ऋश्र; -राभ्याम् काठश्रौ १५; काण्ड ४० : १३; ऋश्र; -राम् आपधौ २२, ४, २७^{२५}; बौश्रौ; अश्र १, २८^{२६}; -राम्-राम् कौसू ४, १५; -^{२७}रासः आश्रौ २, १९, २२; ५, २०, ६; बौश्रौ २, ८ : २८; १७, ३६ : १२; या

११, १८; -रासु लाश्रौ ७, ११, ४; ५; निसू ६, ३ : १८; ऋप्रा ४, ७; शैशि २८६; २८७; -रे शाश्रौ १२, २, २; काश्रौ; या ११, १८; -रे-रे आमिण्ड २, ४, ६ : २१^{२८}; -रेण काश्रौ २, १, ११; १७, २, ३; हिश्रौ; -रेभ्यः आश्रौ २, ६, २०; काश्रौ २०, ८, ५; आपध; -रेपाम् वैताश्रौ १७, ७; निसू ६, १३ : १५, ७, १२ : ७; आपध; -रेषु ^{२९}शाश्रौ^{३०} ३, ५, ८×४; दाश्रौ; -रैः ^{३१}बौश्रौ^{३२} ४, १ : १७, ७, ६ : २३; आमिण्ड; -रौ आपधौ ८, २२, १०; माश्रौ ६, १, ४, २८; लाश्रौ.
 पर-क-> पारक्य^{३३}-क्यम् अय ६८, २, २६; -क्ये अय ४२, १, ३^{३४}.
 पारक्य (क्या-अ) शुचि-भूमि-मिपु शंघ १९२.
 परकीय-पाग ४, २, १३८; ३, ६०.
 पर-काय-प्रवेशिन्-शो वैघ ५, ८ : ४.
 पर-कारण^{३५}-गानि अग्रा १, १, १६.
 पर-कार्य-दक्ष-क्षे विघ ९९, २०.
 १पर-काल-ले अय ७१, ४, ५.
 २पर-काल^{३६}-रुः शुप्रा ३, ४.
 पर-कुल-पाग ४, ४, ९९; -रुानि या ४, ५.
 पारकुलीन-पा ४, ४, ९९.
 पर-कृत-तस्य हिश्रौ ९, ४, ५७^{३७}; जैश्रौ २० : ७; -तात् अय २०, ७, ४; -तान् बौध २, ३, ६.

a) विप.। द्रस. > बस.। b) विप.। बस.। c) = होम-विशेष-। d) वैप १ द्र.। e) पामे. वैप १, १९१० d द्र.। f) तु. पाका.। g) पृ १३११ j द्र.। h) परे इति पाठः? यनि. शोधः (तु. संस्कर्ता)। i) जस्य इति पाठः? यनि. शोधः। j) पाठः? प्रकरणात् पराभ्याम् इति शोधः। k) पामे. वैप १, १९११ k द्र.। l) = परकीय-। विप.। तस्येदमोयः प्यः प्र. (या ४, १, ६५)। m) नाम. (परलोकसंबन्धिन्-। पूर्ण-)

पर-कृति^१ - त्तिः आपथश्री २४, १,
३३१; हिश्री १, १, १११.
परकृति-पुराकल्प- -ल्पम् मीसू
६, ७, २६.
पर-क्रम^२ - मम् ऋप्रा १४, ५५;
-मे ऋप्रा १, २६; १८, ३६.
परक्रम-स्वररेफोपध^३ - -धे ऋप्रा
६, ४४.
परक्रमो(म-उ)पधा- -धा ऋप्रा
६, ११.
पर-क्षेत्र- -त्रात् पावा ५, २, ९२;
-त्रे विध ७१, ६१; वैध ३, २,
१५; पा ५, २, ९२.
परक्षेत्रो(त्र-उ)त्पन्न- -न्नाः शंघ
२८८.
पर-खातक- -के अप ४२, १, ४.
पर-गर्हा- -र्हाम् आपथ १, ७, २४;
हिध १, २, ८१.
पर-गामिनी- -नी वाध १३, ५२;
१७, ८०.
पर-गुण- -गम् ऋत ४, ४, २.
पर-गृह- -हाणि या ४, ५; -हेषु
विध २५, १०.
पर-घातक- -कम् आज्यो ४, ९.
पर-चक्र- -क्रस्य अप ७१, १०, २.
परचक्र-भय- -यम् अप ५७,
१, ८; -ये अप ३१, ४, ५.
परचक्र-समुत्थ- -त्थम् अप ७१,
६, ६.
परचक्रा(क्र-आ)गम- -मः अप
७०^३, ४, ५; १२, २; ४; ५; ७१,
८, ४; -मम् अप ७१, ५, ४; ६,
३; -मे अप ३१, ८, १; अशां
१७, २.
परचक्रा(क्र-अ)भिमर्शन- -नम्

अप ७०^३, २३, ३.
परचक्रो (क्र-उ) पवात्- -तान्
विध ३, ६९.
परचक्रो (क्र-उ)पसृष्ट- -ष्टस्य
अप ३३, २, ३.
पर-जनपद- -दात् माश्री ५, १, ५,
६७; -दे माश्री ५, १, १, ३४१.
पर-जला(ल-अ)पहारिन्- -री शंघ
३७८.
पर-जाया- > पारजायिक^४ - -क्रः
शंघ ३२८.
पारजायिन्^५ - -यी विध ५, ४०.
पर-तन्त्र->^६न्त्र-व्यवेत- -तानाम्
आपथ्री २४, १२, ४.
परतन्त्रा (न्त्र-आ) पत्ति- -न्तेः
मीसू १२, १, ७.
परतन्त्रो (न्त्र-उ)त्पत्ति^७ - -त्तयः
काश्री ६, १०, २५; -त्तिः वागृ
१, ६.
पर-तर- -रम् शंघ १०६.
पर-तल्प- -ल्पान् आपथ १, २१, ९;
हिध १, ६, ३९.
परतल्प-गामिन्- -मी आपथ
२, १७, २१; हिध २, ५, ४९.
पर-तसः (ः) जैश्रीका १४१; अप;
पा ५, ३, २९६.
पर-त्र अप २२, १०, २; वैध २, १२,
४; गौध २१, ५; भाशि ६५;
पावाग ४, ३, ६०.
पारत्रिक- पावा ४, ३, ६०.
पर-त्व- -त्वम् आपथ २, २७, ५;
हिध २, ५, २२४; -त्वात् पावा
४, २, ९२; ७, ३, ११६; ४, ९.
पर-द्(त् >)त्ता- -त्ताम् विध ३,
८३.

पर-दर^८ (> १ पारदारिक- पा.)
पाग ७, ३, २०.
पर-दान- -नानि आज्यो २, ६.
पर-दार- पावाग ४, ४, १; -रम्
आपथ २, २६, १८; हिध २, ५,
२१३; -रान् वैध ३, १, ७; -रे
विध ५३, ८; गौध २२, ३१.
२ पारदारिक- पावा ४, ४, १;
-काः अप ५०, ५, २.
परदार-गमन- -नात् वैध ३,
१, ७; -ने विध ५३, २.
परदार-गामिन्- -मी शंघ ३७८.
परदारा(र-अ)भिगमन- -नम्
विध ३७, ९.
पर-दुर्बल-> पारदौर्बल्य^९ - -त्यम्
मीसू ३, १, ४; ८, ४, १७.
पर-देश-गत- -तस्य वैगृ ५, ८;
१५; -ते वैगृ ६, १४ : १.
पर-देश-पथ- -ग्यात् विध ३, ३०.
पर-देशा(श-अ)वासि- -सौ विध
३, ४२.
पर-द्रव्य- -व्यम् विध ५, १६४;
४४, ४४.
परद्रव्या(व्य-अ)पहारिन्- -री
शंघ ३७७ : २२.
पर-द्रव्य- -व्यम् भाशि १०९.
पर-निपान- -नेषु विध ६४, १;
८४, ३.
पर-निर्हास-कुत्व- -त्वेषु पावा १,
१, ५८.
पर-निहित- -तम् विध ३, ६४.
पर-तप- पा ३, २, ३९; -पः अप
४३, ५, १४.
पर-पक्व- -क्वम् वैध २, १५, १०.
पर-पक्ष- -क्षे शंघ २४६; वैध ३, ९, १

a) = (परकृति-प्रतिपादक-) अर्थवाद-विशेष-। b) उप. = द्विरक्ति-। c) द्वस. उप. द्वस. > बस.।
d) ठक् प्र. डसं. (पावा ४, ४, १)। e) गिनिः प्र. डसं. इति d टि. विशेषः। f) विप.। बस.। g) पाप्र.
अतसुप्र.। h) तु. B.P.G.। अर्थः?। i) प्वजि प्र. उभयपदवृद्धिः डसं. (पा ७, ३, २०)।
वैपठ-प्र-६

पर-पञ्चम- -मम् शुभ्रा ४, १२.
 पर-पत्नी- -त्नी विध ३२, ७.
 पर-परतर- -राणाम् पावा ५, २, १०.
 पर-परिग्रह- -हम् आपध १, २८,
 १; २, २८, १०; हिध १, ७,
 ३७; २, ६, १०.
 पर-पाक-निवृत्त- -त्तः, -त्तस्य शंघ
 ४६१.
 पर-पाक-रत- -त्तः, -त्तस्य शंघ
 ४६१.
 पर-पाप- -पम् बौध १, ७, ३०.
 पर-पीडा-कर- -रः विध ४५, ३१.
 पर-पुरा(र-अ)वासि- -सौ विध
 ३, ४७.
 पर-पुरुष- -पम् शंघ ७७; ७८.
 १?परपूर्व^a- -र्वम् अप्रा २, २, ५;
 -र्वथोः अप्रा ३, ३, २१.
 पर-पूर्वत्व- -त्वे पावा ६, १, १०६.
 २पर-पूर्व(र्व)र्वा^b- -र्वा विध १५,
 ९; -र्वासु शंघ ३६८; विध २२,
 ४३.
 पर-प्रकृति-शील- -लाः अप ६८, १,
 ४२.
 पर-प्रधान^c- -नानाम् आपधौ २४,
 १२, ४.
 पर-प्रयोग-निवृत्त्य (त्ति-अ)र्थ-
 -र्थम् पावा २, २, ३०.
 पर-ग्रहाण-> ०ण^d- पा, पाग
 ४, १, ४.
 पर-प्रि(य>)या^e- -या आमिष्ट
 २, ७, ६: ७.
 पर-प्रेष्य- -ष्यः शंघ ३७७: २२.
 पर-बलीयस्- -यांसि गौध ६, २१.
 १पर-बीज- -जानि वाध १७, ९;
 आपध २, १३, ६; बौध २, २, ३६;
 हिध २, ३, ६.

पर-ब्रह्मन्- -ह्यणे वैध ३, १०, ४१.
 परब्रह्म-रूप- -पेण शुभ्र १,
 ५२४.
 परब्रह्म-स्वरूप-> ०पिन्-
 -पिणम् आमिष्ट २, ४, १२: १.
 पर-ब्राह्मण- -णम् लाश्रौ १०, ४, ८.
 पर-भाग- -गः शैशि १४८.
 पर-भाव- -वः पावा ५, ३, २२;
 -वस्य पावा २, २, ३६.
 पर-भूत- -त्तयोः भाशि ३३.
 परभूत-लौपा(प-अ)र्थ- -र्थम्
 पावा ३, १, २.
 पर-भूमि- -मिषु अप ७०^२, ११,
 १; ३.
 पर-भुत्-> ०त्ता^d- पा, पाग ४,
 १, ४.
 पर-म,मा^e- पाग ८, १, ६७; -मः
 बौधौ २६, २२: १६; २९, ८:
 १२; वाधूधौ; -मम् १आपधौ
 ७, ११, ४; १६, २६, ४; बौधौ;
 या २, ७^१ ४××; -मया ऋप्रा ९,
 ४५^१; -मस्य वाधूधौ ४, १०: ७;
 काट २४, १३^२ १; अप ५: २३;
 -१मस्याः काश्रौ १६, ४, ३७;
 आपधौ १३, १, ११; १६, ९, १२;
 बौधौ; -१मस्याम् शाश्रौ ८, १६,
 १; बौधौ १, ११: १०; १५; २०;
 माश्रौ २, १, ९; या १२, ३१;
 -मा आश्रौ ३, ७, ९^१; अप ३१,
 ४, ३; आपध १, २२, ७; विध १,
 ४९; हिध १, ६, ७; अश्र १४, २^३;
 या १०, २६^१; -माः अप ६२,
 ४, ४; -१माणि आश्रौ २, १८,
 १९; ३, ८, १; शाश्रौ ३, १५,
 १९; -माम् आश्रौ ११, ३,
 ११; आपधौ; -मायाम् आश्रौ

११, ४, ८; आपधौ २३, ६, ११;
 हिश्रौ १८, २, १७; -१म आश्रौ
 ३, ९, ४; शाश्रौ १५, १७, १;
 आपधौ; आमिष्ट ३, ६, ३: २५^६;
 बौपि १, १२: १^६; -१मेण बौधौ
 १, ३: १२; १८, ३३: १०; आपध;
 -मेभ्यः शौच २, ९४^१.
 परम-अधि- -पीन् आमिष्ट २,
 ६, ३: ३५.
 परम-कण्ठ^h- -ण्ठेन लाश्रौ ९,
 ८, १५.
 १परम-कर्म-कारिन्- -रिणे अप
 १, ३९, २; अशां ९, २.
 परम-गुरु- -रुषु आमिष्ट ३, ६,
 २: ६; बौपि १, ९: १५.
 परमगुरु-संस्थाⁱ- -स्थायाम्
 आपध २, १५, ५; हिध २, ३,
 ३५.
 परम-च्छद्^j- -च्छदः तंप्रा १४,
 ८^१.
 परम-ता- -ताम् बौधौ १८,
 १९: १५^३; १६; १७; वाधूधौ ४,
 ५५: १२.
 परम-दाकण- -णः अप ७२,
 ३, १५.
 १परम-पुरुष- -याय वैष्ट ५, ३:
 २१; वैध ३, १०, ४.
 परम-प्रकृति- -तेः पावा ४, १,
 ९३; १६३.
 परम-मैत्र- -त्रे आज्यो १०,
 १०; ११; ११, ५.
 परम(म-अ)धि- -ध्वयः बौध १,
 ३, १३; वैध १, ९, १४; -र्वीन्
 बौध २, ५, २७^१.
 परम-स्थ-> ०पारमस्थ- पा.)
 पाग ५, १, १२४.

a) समासः ? । b) विप. । वस. । c) वृ. पागम. । d) = क्रोडिल- । e) वैप १ द. । f) वैप
 १, १९१२ f. d. । g) पामे. वैप १ सल्लिखे शौ १८, ३, ८ टि. द. । h) उप. = स्तर- । i) उप. = मसु- ।

परम-स्वामिन्-> ०मि-नामन्-
-ञ्चः आग्निष्ट २,३,४:३.

परमस्वामि-शर्मन्- -र्मणः

आग्निष्ट २,३,५:१.

परम-हंस^१- -साः वैध १,९,१;५.

परमा(म-अ)क्षर- -रस्य शुञ्च
४,१२६.

परमा(म-अ)णु- -णु शुप्रा १,
६१; ऋत २,४,४.

परमा(म-अ)त्मन्- -त्मनः वैध
१,९,१५; -त्मना वैध १,११,
१३; -त्मनि वैध १,११,१३;

२, ६, १; -क^२त्मने वैध २, ६,
३; ३,१०,४; -स्मा वैश्रौ २,
६:१०; वैध १, ११, १०;

शुञ्च ४,१२७; -त्मानम् वैध २,
८,७; या १४,२९.

परमात्म-दैवत^३- -तम् अञ्च
१९,७२.

परमा(म-अ)नन्द- -न्दम् अप
१५,१,९.

परमा(म-अ)ञ्ज- -ञ्जम् विध ९०,
२६.

परमा(म-अ)युस्- -युः अशां
१८,११.

परमा (म-अ)वटिक^४- -काः
चव्यू २: ३७.

परमा(म-अ)हुति- -तिः अप
२६,५,८; -तिम् अप ३०,३,१.

परमे(म-ई)श्वर- -रम् आग्निष्ट
३,१०,४:१; अप १९^३,२,५.

-रे अप १९^३,५,७.

परमेश्वरा(र-अं)श- -शाः सु
१,३.

परमे-ष्ठ- पा ८,३,९७.

परमे-ष्ठा^५- -ष्ठा निस् १,५:१८.

परमे-ष्ठिन्^६- पाउष्ठ,१०; -क^७ष्ठि^८
आपश्रौ ८, ४, २; बौश्रौ ५,४:

२५; माश्रौ ८, ३, २४; माश्रौ
१,७, २, २३; वैश्रौ; -ष्ठिनः

क^९आपश्रौ २०,२०,३××; बौश्रौ;
बृदे ८, ४५^६; शुञ्च^६ २,८;२४५;

चाञ्चमू १; -ष्ठिनम् वाधूश्रौ ४,
५५:१; आग्निष्ट; -ष्ठिने माश्रौ

५,१, ९, ३१; आग्निष्ट २,६,८:
३५^१; बौष्ट २,८,१५^१; भाष्ट;

-ष्टी शाश्रौ १४, ७४, १; काश्रौ
१७, १२, २२^१; आपश्रौ ८,

२१,१; १६,२८,१; १७,३,८^१;
१३, २; बौश्रौ; माश्रौ ६, २, ५,

३२^१; वाश्रौ २,२,४, १४^१;
हिश्रौ १२, १, ४३^१; ऋञ्च २,

१०, १२९^६; शुञ्च १, १४^६××;
३,२३६^६; साञ्च^६ १, ४४१××;

ऋप्रा १७,५^६.

पारमेष्ठव^१- -ष्ठवः ऋञ्च

१,२,११.

परमेष्ठि-करण- -णम् गोष्ट

१,१,१२.

परमेष्ठि-काम- -मः माश्रौ

५,१,९,३१.

परमेष्ठि-ता- -ताम् आपश्रौ

२२, २४, १०; हिश्रौ १७,८,

३६; १८,४,५४.

परमेष्ठि-मरण- -णे काष्ट

४५,२.

परमेष्ठ्या(ष्ठि-अ)दि- -दयः

शुञ्च १, ३; -दीन् काश्रौ २५,

६,१.

परम-मध्य(म>)मा- -मयोः लाश्रौ
६,८,१२.

पर-मांस- -न्तेन विध ५१,७५.

पर-मोदा(द-अक्त>)क्ता^६- -क्ताः
अप ६८,१,३६^१.

परं-पर- पाग ५,१, १२४^३; -रम्
शुप्रा १,१२५.

पारंपर्य^१- पा ५,१, १२४.

पारंपर्य-गत- -तः वाध

६,४३.

पारंपर्या(र्य-अ)गत-

-तम् वैष्ट ३,२१:४.

परंपरीण- पा,पावा ५,२,१०.

पर-युग-> (>पारयुगीन-पा.) पाग
४,४,९९.

पर-योग-> ०गिन्- -गीनि अप्रा
१,१,१७.

पर-रथ- -थेन निस् ५,१३:१८.

पर-रन्ध्र-ज्ञ- -ज्ञः शंघ २४४.

पर-राष्ट्र- -ष्ट्रम् अप ७०^३, ३, २;
आज्यो ३,२.

पर-रूप- -रम् अप्रा २,१,५; शौच
३,५२; पा ६,१, ९४; पावा ६,

१,९४^४; १००; -पात् पावा १,
४,२.

पररूप-प्रकरण- -णे पावा ६,१,
९३.

पररूप-श्लङ्ग- -ङ्गः पावा ६, १,
१००.

पररूप-वचन- -नम् पावा ६,१,
१०६.

पररूपा(प-अ)भाव- -वस्य पावा
६,१,१००.

a) = भिक्षु-भेद- । b) विप. । बस. । c) = आवटिक- । d) = छन्दो-विशेष- । e) वैप १ द्र. ।

f) पासे. वैप २, ३खं. परमेष्ठि तैत्रा १,५,५,१ टि. द्र. । g) = ऋषि- । h) पासे. वैप १,१९१३ वृ द्र. ।

i) पासे. वैप १, १९१३ र द्र. । j) साऽस्यदेवतीयः ष्यः प्र. उस्. (पा ४, १, ८५) । k) कस. > तुस. ।

l) परमोदकः इति संस्कृतः टि. । m) तु. पागम. । n) वैप ३ < परं-परा- । o) तु. पाका. ।

पर-रेतस्- -तसः आपध २, १३,
६; बौध २, २, ३५; हिध २,
३, ६.

पर-लोक- पाग ७, ३, २०; पावाग
४, ३, ६०^३; -कम् वैगृ ७, १:
२; विध २०, २८; -के विध
३०, ३९; ९१, ४.

पारलौकिक- पा ७, ३, २०;
पावा ४, ३, ६०; -कम् वैगृ ५,
१ : ५; विध ९३, १.

परलोक-सं(स्था >)स्थ^३- -स्थान्
अप ७२, २, १.

पर-लोप- -पः पावा ५, २, ९२.

पर-वचन- -नम् पावा २, २, ३५; ३,
१, २; -नात् पावा १, १, ४६;
६, ४, ४९; -ने पावा १, ४, १.

पर-वत् पा.पावा २, ४, २६.

पर-वर्जम् शौच २, ७०; ३, २५.

पर-वाक्य-श्रवण- -गात् आपधौ
८, १३, ७; २४, ३, ५१.

पर-वारि- -रिगा शंघ १००.

पर-विज्ञान- -नात् पावा ३, १, १.

पर-विषय^३- -यम् अप ६८, ३, १३;
शंघ २५३.

परविषय-भेद- -दः शंघ २५१.

पर-वृत्ति-ज्ञ- -ज्ञः विध ४५, ३०.

पर-वेदमन्- -इम वैध ३, ७, ४.

पर-व्यवहित-वचन- -नम् पावा १,
४, ८०.

पर-शव- -वे वाध ४, ३२.

परशवो(व-उ)पस्पर्शन- -ने बौध
१, ५, ११८.

पर-शाकव(र >)रा^३- -रा अत्र ११,
१^{११}; १३, १^{१०}; १९, ५७.

पर-शाखा(खा-आ)श्रय- -यम् कप्र
१, ३, २.

पर-शाख- -खेग बौधौ २९, ८ : २३.
परशास्त्र-कुतूहल^३- -लः काद्यु
७, ६.

पर-संस्थान, ना- -नः शौच २,
१३; ३१; ४०; -नाम् शुप्रा ४,
१०.

पर-संस्थित- -ते माशि १०, ७;
१३, १०.

पर-संदीक्षित-त्व- -त्वात् कौसू
१३९, १९.

पर-सवर्ण- -र्णः पा ८, ४, ५८;
-र्णम् माशि ९, ७; नाशि २,
४, ४.

परसवर्ण-त्व- -त्वम् पावा ८,
२, ६.

पर-सामर्थ्य- -थ्यात् मौसू १०, ८, ७.

पर-सूत्र-प्रकार- -रेण जैश्रीका ३१.

पर-स्त्री- पाग ४, १, १०४; १२६;
७, ३, २०; -स्त्रियम् शंघ ४३८;
वैध २, ११, ४; ३, २, ९; -स्त्रीम्
अप ६८, २, २८.

पारस्त्र- पा ४, १, १०४.

पारस्त्रैण्य- पा ४, १, १२६;
७, ३, २०.

परस्त्री-गमन- -ने शंघ ३९४.

परस्त्री-संभाषण- -णम् शंघ १२.

परस्मैपद- -दम् पा १, ३, ७८;
४, ९९; ३, १, ९०; पावा १, ४,
१; ३, १, १५; -दस्य पावा १, ३,
१२; -दानाम् पा ३, ४, ८२; पावा
१, ३, १०; -देष्टु पा २, ४, ७७;
३, १, ५५; ४, १०३; ७, २, १;
४०; ५८; ७२; ३, ७६.

परस्मैपद-ग्रहण- -णम् पावा १,
४, ९९^१.

परस्मैपद-प्रतिषेध- -धात् पावा

१, ३, ७९.

परस्मैपदप्रतिषेधा(ध-अ)र्थ-
-र्थम् पावा १, ३, १२.

परस्मैपद-वचन- -नम् पावा १,
३, ८८.

परस्मैपद-संज्ञा- -ज्ञाम् पावा
१, ४, १.

परस्मैपदा(द-आ)त्मनेपद-
ग्रहण- -णम् पावा ३, ४, २.

परस्मैपदा(द-आ)श्रय-त्व-
-त्वात् पावा १, ३, ६०.

परस्य-कुल- (>)पारस्यकुलीन-
पा.) पाग ४, ४, ९९.

पर-स्व-त्व- -त्वेन मौसू ४, २, २९.

पर-स्वर- -नम् तैप्रा २१, २.

पर-स्वा(स्व-अ)पहरण- -णम् विध
३७, ८.

पर-होम- -मः अप १८, ७, १.

परा(र-आ)काङ्क्षा- -ङ्क्षाम् मौसू
२, १, ३.

परा(र-आ)कृति- -तिः अप ३३,
६, ६.

परा(र-आ)गमन- -ने आश्रित २,
७, ४ : ३.

परा(र-अ)मिन- -मिन्घु निम् ५,
१३ : १७; १९.

परा(र-अ)ङ्ग- -ङ्गम् नाशि २, २,
१३; -ङ्गस्य बौधि ३, ७, ३^१;
शैशि १९०; याशि २, २४.

पराङ्ग-कर्म-क^३- -कात् पावा १,
३, २०^६.

पराङ्ग-भूत- -भूतेषु माश्रौ २, २,
५, १.

पराङ्ग-वत् पा २, १, २.

पराङ्गवद्-भाव- -वे पावा
२, १, २^२.

a) तु. पाका. पासि. । b) विप. । बस. । c) उप. = देश. । d) परा-मा^३ इति पाठः ? यनि.
शोधः । e) सकृत्. क्वरपरा इति पाठः ? यनि. शोधः । f) अप^३ इति B. । g) तु. पासि. ।

पराङ्गा (ङ-आ)दि- -दौ नाशि
२,२,१२.
परा(र-अ)तिज्ञाग(त>)ता^a- -ता
अत्र ११,१; १३,१.
परा(र-आ)दि- -दि ऋत २,३,६;
-दि: पा ६,२,१९९; पावा १,
२,३७; -दिना काश्रौ १,३,९;
-दौ पावा १, १, ४७; ५१; ६,
१, ७०××.
परादि-स्व- -स्वात् पावा ६, १,
९; ८,३,७९.
परा(रा-रआ)घ- -घ: अत्र २,१७.
परा(र-अ)धिकार- -रात् काश्रौ २,
६,२७; मीसू ३,८,२२.
परा(र-अ)धीना (न-आ)हार->
रिन्- -री वैध ३,१५,११^b.
परा(र-अ)ननुव्यक्त-व(त्र>)
क्त्रा^c- -क्त्रा शंघ ७८.
परा(र-अ)ञ- -ञात् शंघ ४६१.
परा(र-अ)ञ-पान- -न्म विध ४३,
३७.
परा(र-अ)पर-पर- -रम् अप २३,
१४,५.
परा(र-अ)मिमृष्ट- -ष्ट: शंघ ६,
१,१०.
परा(र-अ)र्थ- -र्थानि शंश्रौ १३,
१४, ४; आपश्रौ २१, ३, २;
हिश्रौ १,१, ४२; १६, १, २३;
मीसू १२, ४, ३२; -र्थे मीसू
९,२,४४^d; -र्थेषु काश्रौ १२,
१,१४.

परार्थ-स्व- -स्वात् काश्रौ १,
६,६; १०; १५; मीसू.
परार्थो(र्थ-उ)त्पत्ति^e- -त्त: काश्रौ
४,३,२३.
१परा(र-अ)र्थ^g- -र्थ: श्रुपा ६,
२६^h; -र्थम् अत्र ७, १०६;
-र्थाया वाश्रौ ३, ४, २, ११;
वाधूश्रौ ३, ८३: १८; -र्थे
आपश्रौ १६, ३१, १^h; बौश्रौ
१८, ४२: २०; ४३: ७; २६,
३३: १२; वैश्रौ १८, २०:
५२^h; हिश्रौ ११, ८, ४^h.
२परा(र-अ)र्थे->^gर्थ्य, धर्मा- पा
४, ३, ५; -र्थ्यम् आपश्रौ ५,
२७, ४; द्राश्रौ ९, ३, २३; लाश्रौ
३, ७, ८^h; निस् ९, ८: ३४; गोश्रु
१, ९, १०; -र्थ्या भाश्रौ १, २,
१३; निस् १, ५: ३^h; १६;
-र्थ्या: द्राश्रौ ११, ३, १८; लाश्रौ
४, ३, १८.
परार्थ-स्थ- -स्थम् या २, ७.
३परा(र-अ)र्थे->^gर्था- -र्था: वाश्रौ
१, ५, ४, ३९; ४०.
परा(र-अ)वर-योग- -नो पा ३,
४, २०
परा(र-अ)वर-रूप- -वेण श्रुत्र १,
१७१.
परा(र-अ)वरा(र-अ)र्थे->^gर्थ्य-
-र्थ्या: ऋपा १५, २७; १८, ५८.
परा(र-अ)शिष्- -शिष्: कौसू
६०, १२.

परा(र-अ)शुचि- -चौ विध ६०
१३.
परा(र-अ)श्रित- -चौ पाशि ५.
परे-द्योⁱ- -द्यवि पा, पावा ५, ३,
२२.
परो(र-उ)क्त, क्त- -क्तम् कप्र १,
३, ३; -क्ता कप्र १, ३, १.
परो(र-उ)दात्त^j- -त्त: कौशि २७.
परो(र-उ)पदेश- -शे पाप्रवा ५,
१; ४.
परो(र-उ)पवाल्^k- -स: आपध १,
२, १७; हिध १, १, ५०.
?पर^l: काश्रौ २५, ११, २१.
परक- > परकीय- प्रसृ. पर- द्र.
?परंगतिविलीके अप ४८, १२४.
पर-चक्र-परम- प्रसृ. पर- द्र.
?परमधनम्^m माश्रौ २, ५, ४,
२४.
परम-पुस्व- प्रसृ. पर- द्र.
?परशुⁿ- पाग ४, १, १००; १०४.
१पारशव^o- पा ४, १, १०४; -व:
वाध १८, ९; १०; बौध
१, ९, ३; २, २, ३०; वैध ३,
१३, १.
पारशव-यवन-करण-श्रुद्र- -द्राम्
गौध ४, २१.
पारशवायन- पा ४, १, १००.
?पारशव्य^p- -ये शंश्रौ १६,
११, २०.
२परशु^q- पाठ १, ३३; पाग ५, २,
९७^r; -शु: बौश्रौ ७, १०: १;

a) विप. 1 बस. 1 b) हार: इति C. 1 c) अननुव्यक्त- = अप्रकाशित- 1 d) र्थेन इति प्रयासः 1
e) वैप १ द्र. 1 f) = ३पराधा- 1 तत्रमनीयः यत् प्र. 1 g) = अति-विप्रकृत- 1 h) सप्र. ऋपा १६, ८०
ब्रह्ममा इति पाभे. 1 i) विप. ([अधिकधिक-] रात्रि-) 1 बस. 1 <परार्थ- इति MW. 1 j) पाप्र. पर- + एद्यवि
प्र. इति 1 k) परसमीपे वासः, परलोकार्थे उपवासो वेति भाष्यम् 1 l) पाठः ? परा (कृत्वे) इति शोधः (तु. सपा. शौ
७, १०५, १) 1 m) पाठः ? तैत्रा ४, २०, २ अनु परम्, अघरम् इति शोधः (तु. मै ४, ९, १२ परम्, अघरम् इति पाभे.) 1
n) व्यप. 1 व्यु. ? 1 o) जाति-विशेष- 1 p) पाठः (तु. C.) ? पारशव्य- > -व्ये इति शोधः (तु. MW.,
ऋत्र २, ८, ६ पारशव्य- इति) 1 q) वैप १, १९१४ 1 द्र. 1 r) पशु- टि. द्र. 1

आपमं; याशि १, ४५^५; -शुना
 काश्रौ ६, १, १२; आपश्रौ;
 -शुम् हिश्रौ ४, १, १०; आमिष्ट;
 -शोः पावा १, ४, २३.
 परशव्य-> रपारशव- पा ४, ३,
 १६८.
 परशु-च्छेद^५- -दः माशि २, १२.
 परशु-पर्ण^६- -र्गान् कौसू ३०, १४.
 परशु-पलाश^७- -शेन कौसू ४७,
 २५.
 परशु-फाण्ट^८- -ण्टम् कौसू ३६,
 २७.
 परशु-ल-, परशु-वत्- पा ५, २,
 ९७.
 परश्वध^९-> पारश्वधिक- पा ४, ४,
 ५८.
 †परसै^{१०}- -रः आश्रौ ३, ८, १; शाश्रौ
 १२, २६, १९; आपश्रौ; -रःऽ-रः
 अप्रा ३, ३, ५.
 पर-उष्णिह^{११}- -ष्णिक् उनिस् १ :
 १८; ४ : १३; १५.
 पर-पुह(ष>)षा^{१२}- -षे शाश्रौ १७,
 १, १६.
 पर-शत, ता^{१३}- पाग २, २, ३१^१;
 पावा २, १, ३९^६; -तम् बौश्रौ
 १२, १६ : ३; १५, १५ : ८; ३८ : ६;
 वाश्रौ ३, २, ५, ५५; -ताः आपश्रौ
 १८, १९, १०; हिश्रौ १३, ६, ३५;
 -तान् आपश्रौ १८, १९, १;
 -तानि आपश्रौ ८, ६, १३;
 भाश्रौ ८, ७, ९; माश्रौ १, ७, ४,
 ५; वाश्रौ १, ७, २, २०.
 परःशत(त-ऋ)र्ग-गाथ^{१४}- -थम्

शाश्रौ १५, २७, १.
 परस्-तर-> परस्तरम्^१ माश्रौ ३,
 ४, २.
 परस्तराम्^१ आपश्रौ ९, १, १८;
 बौश्रौ २९, १० : ९; भाश्रौ ९,
 २, १; वैश्रौ २०, २ : १०; हिश्रौ
 १५, १, १९.
 परस्-तात्^१ आश्रौ ३, १०, ३१^{१०}म्;
 काश्रौ ३, २, ८××; २५, ९,
 १५^{१०}म्; आपश्रौ; माश्रौ ३, ५,
 १४^{१०}म्; पा ५, ३, २९.
 परस्-पर- पावा ८, १, १२; -रः अप
 ५१, ५, २; शैशि ७८; -रम्
 वैश्रौ ८, ७ : १२; अप; -रेण अप
 ६१, १, १९.
 परस्पर-जिर्घासु- -स्वः अप
 ६१, १, २३.
 परस्पर-बलो (ल-उ)त्तर- -राः
 अप ५८^२, १, ८.
 परस्पर-व्यपेक्षा- -क्षाम् पावा २,
 १, १.
 परस्परो(र-उ)पपद्- -द्रात् पावा
 १, ३, १६.
 परः-सहस्र, सार्^१- पाग २, २, ३१^१;
 पावा २, १, ३९^६; -स्रम् आपश्रौ
 १४, ४, ४; बौश्रौ १७, १० : ९;
 वैश्रौ १७, ५ : १; सु २८, ३;
 -स्राः आश्रौ ९, ११, २२;
 आपश्रौ १८, १९, १०; हिश्रौ
 १३, ६, ३५; -स्राणि आपश्रौ ८,
 ६, १३; भाश्रौ ८, ७, ९; माश्रौ
 १, ७, ४, ५; हिश्रौ ५, २,
 ४३; -स्रान् आपश्रौ १८,

१९, १.

परः-सामन्- -मसु आपश्रौ २१,
 २१, ३; हिश्रौ १६, ७, ३; -मानः
 बौश्रौ १४, १३ : ५; १६, १४ :
 १२××; -स्रः आपश्रौ २१,
 १५, १४; बौश्रौ १६, १७ : ९;
 २६, १६ : ११; -स्राम् बौश्रौ
 १४, १३ : ४; १६, १७ : ४; २६,
 ८ : ७.

परो(रस्)अक्ष, क्षा^{११}- -क्षः वृदे ७,
 ९; ८, ५२; -क्षम् आपश्रौ १०,
 २०, ८; ९; बौश्रौ; -क्षस्य छुस् २,
 १३ : ३; ४××; -क्षाः आश्रौ १,
 ३, १५; -क्षाणि छुस् २, १२ :
 ३; १०××; लाश्रौ १०, २, ३;
 -क्षाय निस् ८, ७ : २७;
 -क्षायाम^० शौच ४, ८४; पावा
 १, २, १८^६; -क्षे छुस् २, ६ :
 ३२; पा ३, २, ११५; पावा
 ३, २, १११; ११५; -क्षेण
 वाधुश्रौ ४, १५ : ८; १९^३;
 १७; २२ : १०; या ९, २०^१;
 -क्षेपु छुस् २, १२ : २४; -क्षैः
 वृदे ५, २.

परोक्ष-कृत, ता- -ताः या ७, १^३;
 ३; -तानि या ७, २.

परोक्ष-कृति- -तिः छुस् ३,
 १ : ८.

परोक्ष-गत-प्रेत- -तस्य आमिष्ट
 ९, २ : १०.

परोक्ष-देव^{१२}- -वाः विघ १९,
 २०; २३.

परोक्ष-पृष्ठ^{१३}- -ष्ठः आश्रौ ८, ४,

a) = हस्त-दोष- । b) = परशु-पलाश- (तु. संस्कृतुः टि.) । c) उप. = कुठारमुख- (तु. संस्कृतुः टि.) ।

d) तत्परशुकथितफाण्टमिति कृत्वा कस. । e) व्यप. । व्यु. ? । f) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. ।

g) = छन्दो-विशेष- । h) विप. । बस. । i) वैप १ द्र. । j) तु. पागम. । k) तु. पाका. । l) विप. ।

बस. > द्रस. (तु. भाष्यम्) । m) पांमे. वैप २, ३ खं. पराचैः तैवा ३, ७, ३, ६ टि. द्र. । n) परोक्षभावे

तद्वृत्ति च वृत्तिः । o) = लिट्-सकार- । p) कस. । q) = एकाह-विशेष- । बस. ।

२३; आपश्चौ २२, १, १३^६; क्षुस्
२, १० : ९; -ष्ठस्य शांश्रौ १०,
८, २१; -ष्ठानि निस् ६, ५: २१^६;
-ष्ठे शांश्रौ १२, ७, ४; ८; हिश्रौ
१७, १, १५^६; निस् ७, ४ : २७;
-ष्ठौ हिश्रौ १७, २, ४.

परोक्षपृष्ठो (ष्ठ-उ)पाङ्ग्यपृष्ठ-
-ष्ठयोः निस् ४, ४: १२^६.

परोक्ष-प्राङ्ग्य-पृष्ठ^६- -ष्ठः क्षुस्
२, १३ : ७; १०.

परोक्ष-प्रिय^६- -याः वाधूश्रौ ४,
१५ : ८; १९^६ : १७; २२ :
१०.

परोक्ष-प्रेत^६- -तस्य वौपि २, ६,
१; १०; ११.

परोक्ष-वत् ऋञ्च २, १०, २८;
वृदे ७, ३१.

परोक्ष-वात्रे^६- -त्रौ आश्रौ २,
१८, १५.

परोक्ष-वैश्वदेव^६- -वम् वृदे ५,
४४.

परोक्षा(क्ष-आ)पक्व^६-पृष्ठ^६- -ष्ठः
क्षुस् २, १३ : १; ४.

परोक्षा-वत- -तम् वौश्रौ १८,
२६ : १६^६.

परोक्षी√कृ > परोक्षी-कृत्य
निस् ३, ११ : ७.

परोक्षी-चिकीर्षत्- -र्षन् निस्
३, ४ : ३०, ३४.

परोक्षी-चिकीर्षा- -र्षा निस्
२, ७ : ६,

परोक्षी√भू > परोक्षी-भाव-
-वः निस् ३, ११ : १०; १४.
परोक्षो(क्त-उ)क्त- -क्ताः वृदे ४,
३२.

परोक्षो(क्ष-उ)पस्थान- -नम्
बौश्रौ २४, ३० : १९.

परोक्षो(क्ष-उ)पहत- -तानाम्
बौध १, ६, २२.

परोक्षो(क्ष-उ)पाङ्ग्य-पृष्ठ^६- -ष्ठः
क्षुस् २, १३ : १३; १६.

परो-नायूति^६- -ति आपमं २, १७,
१३; -तिम् हिश्रौ २, ३, ५०;
५, ५, २०; हिगृ २, ९, ५; -तौ
आपश्चौ ३, ४, ८.

परो-गोष्ठ^६- -ष्ठम् वाश्रौ १, ६, ७,
३५; २, १, ४, २७; माश्रौ; -ष्ठे
आपश्चौ ३, ४, ८; माश्रौ ८, २२, ५;
हिश्रौ ५, ५, २३; ९, ५, ४८; भागृ
२, १० : ३.

परो-द्वि-व्याया(म >)मा^६- -मे
शांश्रौ १७, २, ४.

परो-नजस^६- -नजाः आपश्चौ १०,
२८, ५; माश्रौ १२, १, १४;
हिश्रौ १७, ६, ४४; जैश्रौ ३:
२४.

परो(रम्-अ)वर^६- -रः बौश्रौ २७,
४ : २३; -रम् शांश्रौ १६,
१, ७^६.

परोवर्य- > ^०र्व-विद्-
-वित्सु या १, १६; १३, १२.

परोवरीण- पा ५, २, १०.

परो-वरीयस्^६- -यान् वैगृ १, १ :
१८.

परोवरीयसी- -सी वैश्रौ १, १ :
१९.

† १परस्-पा^६- -पाः^६ आपश्चौ ६, १६,
१२; भाश्रौ ६, २, ३.

२परस्पा^६- -पायाः^६ आपश्चौ १५,
१४, १^२; बौश्रौ ९, १४ : १;
३×४; भाश्रौ; -पायि^६ आपश्चौ
१५, १४, १; बौश्रौ ९, १४; ६;
भाश्रौ ११, १३, १६; माश्रौ ४,
४, १३; वैश्रौ १३, १६ : ५.

पर-संस्थान- प्रच. पर-द्र.

† १परस्पी- -स्पी^० आपमं २, २, १०;
वौगृ २, ५, १४; जैगृ १, १२: ४७.

† १परस्वत्^६- -स्वति बौश्रौ २, ५ : ५.

परा^६ या १, ३; ऋपा १५, १७; शुप्रा
६, २४; पाग १, ४, ५८.

१पराक^६- पाठभो २, २, १४; -कः
शांश्रौ^६ १६, २२, ७; ९; काश्रौ
२३, २, १०^६; वाध २४, २^६; शंघ
४३२^६; बौध^६ २, १, ६३-६५; ४;
५, १५; विध^६ ४६, १८; ५१, ५८;
सुध ६४^६; -कम्^६ वाधूश्रौ ३,
१९ : २१; बौगृ ३, ३ : २८; वाध
२३, ४३; विध ३७, ३५; -केण^६
आपश्चौ २२, १८, १०; हिश्रौ
१७, ७, ५.

पराक-च्छन्दोम^६- > ^०म-पराक-
-कौ आश्रौ १०, २, १३.

२पराक- परा(रा√अ)च्, च्च् द्र.

a) सप्र. °ष्ठः <> °ष्ठे इति पाठे. । b) विप. । c) °पाङ्ग्य- इति पाठः? यनि. शोधः (तु. संस्कृतः टि.) । d) = षडह- । कस. > बस. । e) विप. । बस. । f) विप. । सस. । g) °क्षाद् व्र° इत्यपि संस्कृतः टि. । h) वैप १ द्र. । i) विप. । बस. > समाहारे द्विस. । j) वैप २, ३खं. द्र. । k) विप. । सुप्युपीयः समासः । l) विप. । वैप १ द्र. । m) माप. (परिपालन-) । व्यु. ? (तु. वैप १ परस्प- इत्यत्र टि., तस्यैवैतत् स्त्री. रूपान्तरं द्र.) । n) पाठे. वैप १, १११६ j द्र. । o) पाठे. वैप २, ३खं. परस्वी मंत्रा १, ६, २८ टि. द्र. । p) अल्प. । व्यु. ? । q) = त्रिरात्र-विशेष- । r) = कृच्छ्र-विशेष- । s) वरा° इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र. बौध ४, ५, १५) । t) मलो. कस. ।

पराकदास^१- सः बृदे ७, ११८.
 पराकाङ्क्षा- प्रथ्. पर- द्र.
 परा√कम्^२, ङपरकमध्वम् शांश्रौ
 ४, १०, १; २; आपश्रौ.
 परा-कम् -मे बौग ३, ३, २२.
 परा-कम्य शांश्रौ ५, १६, ४१; निसू
 ७, ८: २४.
 परा-क्रान्त-न्ते या ५, ९.
 परा√ख्या> परा-ख्याय बौश्रौ ३,
 १३: ७××; वाधूश्रौ.
 परा√गम्, पराजग्मुः हिश्रौ १, ३,
 १८१.
 परा-गत-ङितम् आपश्रौ १३, १४,
 ४; १९, ३, ७; बौश्रौ; -ङिताः
 कौसू ८६, २; ८८, १७; -तात्
 या ७, २६; ११, ४८.
 परागमन्- पर- द्र.
 परा√गा, परागात् आपश्रौ १, ५, १:
 ७१; परागाः आपश्रौ ६, ११, १११
 परागिन्- प्रथ्. पर- द्र.
 परा(रा/अ)च्, ङच् > रपरा
 (रा-आ)क^३-ङके आपमं २,
 २०, २८; आग २, ४, १३;
 आपश्रौ; या ५, ९६.
 परा(रा-अ)च्, ल्व-नाक्, ग् काश्रौ
 ७, २, ३३; ८, ३, २८; १२, २,
 २२; निसू; -राक्षु काश्रौ २५,
 १३, ३१; -राभिः काश्रौ
 १७, ६, ७; -राह् आपश्रौ ५,
 ९, १; शांश्रौ १०, १३, २६;
 आपश्रौ; -राह्-राह् माश्रौ ६, १,
 ५, १६; -ङराचः बौश्रौ १६, ९: ७;
 वाधूश्रौ २, ९: २; कौसू ४९,
 ६; -राचा आपश्रौ २०, २४, १०;

जैश्रौ ११: १२; द्राश्रौ २, १, ३;
 आपश्रौ; -राचि कौसू ८९, १०१;
 -राञ्चः शांश्रौ १०, १५, २;
 बौश्रौ; -राञ्चम् बौश्रौ ४, ४:
 १२; वैश्रौ ७, १: १०; वाधूश्रौ;
 -राञ्चा वैग ३, १०: ८; -राञ्चि
 शांश्रौ १४, १०, १९; बौश्रौ
 १७, ३८: ३.
 पराची- -ची आपश्रौ २४,
 १४, १८; बौश्रौ १४, २४: २०;
 वाधूश्रौ; या ९, ३०; -चीः आपश्रौ
 ८, १३, ६; शांश्रौ १४, ४०,
 १९; १८, १, २०; काश्रौ; भाग
 २, ३०: १५^४; हिपि १५: ७;
 -चीभिः शांश्रौ १३, ११, २;
 बौश्रौ १४, ५: ४६; -चीम्
 आपश्रौ १, ७, १३; २४, १४, १६;
 हिश्रौ २१, २, ५६; बौग १, ७,
 २५; आपमं २, १५, १; -चीपु
 माश्रौ ३, ८, ४; निसू ६, १०: १२;
 -च्यः बौश्रौ ६, ८: ८; वाधूश्रौ
 ३, ५८: ५; ८.
 पराक्-त्व- -स्वम् लाश्रौ ९, ७,
 ९; -त्वात् निसू १, ११: २९.
 पराक्-शब्द- -ब्दस्य मीसू १०,
 ५, ४५; ४७.
 पराग्-चसु^५- -ङसुः^६ आपश्रौ
 ३, १८, ४; २४, १३, १; कौसू
 ३, ६; १३७, ३८.
 पराह्-मनस्^७- -नाः अप्रा २,
 ४, १४.
 पराह्-मुख^८- -खः गौपि १, ३,
 १०; विध २८, १८; -खम् बृदे
 ६, १५२; -खस्य विध २८, २०.

पराचीन- -नम् आपश्रौ ३, २०,
 ४; ६, १२, २××; बौश्रौ; -ना
 अप्रा ३, ४, ११; -नेन आपश्रौ
 १२, ८, ६; वाश्रौ ३, २, ५, १११.
 पराचीन-पाणि^९- -णिः
 आपश्रौ २, ६, १५.
 पराचीन-पाश^{१०}- -शम् बौश्रौ
 १०, २२: १२; वैश्रौ १८, १३: ९.
 पराचीन-मूल^{११}- -लान् कौसू
 ५०, २२.
 पराचीन-रात्र^{१२}- -त्रे आपश्रौ
 ८, ११: १७; भाश्रौ ८, १३, २;
 हिश्रौ ५, ३, ३४.
 परा(रा-अ)ञ्चन- -नैः या ११, २५.
 ङपराच^{१३}- -चैः आपश्रौ^{१४} ९, ४, १;
 १८, १२; बौश्रौ ८, १९: १५^{१५};
 भाश्रौ ९, ५, २२^{१६}; हिश्रौ^{१७} १५,
 १, ७५; ८, १२; आपमं; या
 ११, २५^{१८}ङ्.
 परा√चर्, ङपरा (चरति) आपश्रौ
 १६, ७, ४; वैश्रौ १८, ५: ३;
 हिश्रौ ११, २, २.
 परा(चरत्)- -रन्तम् या १४, ३^{१९}ङ्.
 परा√जि^१, पराजयते बौश्रौ १२,
 १५: २३; पराजयेथे बौश्रौ १६,
 २६: ८^{२०}ङ्; पराजयाते बौश्रौ
 १३, २८: १६; १७; पराजयेत्
 अप ५१, २, ५.
 पराजिमेथे बौश्रौ १६, २६: ९^{२१}ङ्.
 परा-जय- -यः विध ८, ३८; -यम्
 अप ५१, १, २; ६३, ५, १;
 आज्यो १०, २.
 परा-जित, ता- -तः अप ३३, १, ३;
 ७०^{२२}, ११, ३; -ताः वाधूश्रौ ४,

a) = ऋषि-विशेष-। व्यु. १। = सपा. ऋषि ३, २१, ४; २२, २। खि. अलुक्रमर्या [३] तु ऋगदा^० इति पामे.। b) पा १, ३, ३९ परामृष्टः द्र.। c) वैप १ द्र.। d) सपा. शौ ६, १२४, २ पराचैः इति पामे.। e) विष.। बस.। f) पामे. वैप २, ३३३. पराबसुः माश १, ५, १, २३ टि. द्र.। g) = अपर-रात्र-। h) पामे. वैप २, ३३३. पराचैः तैत्रा ३, ७, ३, ६ टि. द्र.। i) पा १, ३, १९ परामृष्टः द्र.।

६३ : ३; अत्र ८, ८^१; -ताम्
सु ५, १.
परा-ज्येष्ठमाण- -गान् कौसू १५,
१६.
परा√णी(<नी) > परा-णीय माश्रौ
५, १, ६, २१.
परा√णु(<तु)द्, पराणुदस्व ऋप्रा
५, ६०^१; पराणुदत् वृद्धे ४,
१३४; अत्र ३, १८, १९.
परा(रा-अ)तिजगती^१- -ती अत्र
५, २७; १२, १.
परातिजागता- पर-द्र.
परा(रा-अ)तिशक्ती^१- -री अत्र ५,
२६; १२, १.
परा√त्रस्, (परा) अतित्रस्व अत्रा
३, ४, १^१.
परा-त्रिपटुम्^१- -टुप् अत्र ११, ९;
१८, ३.
परा√दा, परादेहि आपमं १, १७,
७; कौसू ७९, २०.
पराददुः शाश्रौ १२, २०, २;
परादात् माश्रौ २, ५, ४, २४;
परादाः माश्र २, १६, ३; या ५,
१६.
परादि- पर-द्र.
परा√दृश् > परा-दृश्य माश्रौ १, ७,
४, ३६.
पराद्य- पर-द्र.
परा√धम्, ध्मा, पराधम आपमं १,
१५, २^१.
परा-ध्मात्- -ताः आपश्रौ १,
२०, ८; वैश्रौ ४, ७ : ७; हिश्रौ
१, ५, ६३.

परा√धाव् (गती), परा (धावसि)
वैताश्रौ ३२, १७^१.
पराधिकार- प्रभृ. पर-द्र.
परा(रा-अ)नुष्टुम्^१- -टुप् अत्र १,
३१; ३, २२; ४, १०; ६, १३४;
७, ६०; ८, ७; १९, ४०^१; -टुभः
अत्र ४, २९; १४, २.
परा(रा-अ)न्त्य- -न्त्ये अर्प ४ : ३.
परात्र- पर-द्र.
परा√पत्, परापतति बौश्रौ ४, १ :
२१; १८, ३६ : ४; हिश्रौ ४,
१, २१; पंपरापतात् शाश्रौ १, ६,
२; कौश्र १, १२, ६; पंपरापत्
आश्रौ २, १८, १३; आपश्रौ;
परापत्त् आपश्रौ २४, १२, ६^१;
वाधूश्रौ ४, ६४^१ : २; पंपाश्र २,
२, १२; ११, १२^१; हिश्र १,
११, ११^१; परापतेत् माश्रौ ७,
१, १४; माश्रौ २, ३, ३, १०;
वैश्रौ १०, २ : १.
परापपात वैताश्रौ १२, ९.
परा-पतित- -त्म् भाश्र २, २२ : ८^१.
परा-पातु(क) > का^१- -का भाशि
३६^१.
परा(र-अ)पर-पर- पर-द्र.
परा√पश, परापश्येत् काश्रौ २५,
४, १; आपश्रौ ९, ६, १२; हिश्रौ
१५, २, १८; अप्राय ५, २.
परापशवा अत्र २, ३४.
परापहाण- > णा^१- पा, पाग ४,
१, ४.
परा-पुद्- -पुरः आश्रौ २, ६, २;
शाश्रौ ४, ४, २; आपश्रौ.

परा√पू, परापुनाति आपश्रौ १,
२०, ७; बौश्रौ १, ६ : २३; २०,
७ : ८; ९; भाश्रौ १, २१, ३;
परापुनीहि कौसू ६१, २५^१.
परा-पावम् आपश्रौ १, ७, १०;
भाश्रौ १, ७, ५; माश्रौ.
पंपरा-पूत, ता- -त्म्^१ काश्रौ २, ४,
१८; आपश्रौ; -ताः^१ आपश्रौ
१, २०, ७; बौश्रौ १, ६ : २३;
भाश्रौ १, २२, ३.
परा√वाघ्, परा...वाघस्व जैश्र १,
१ : १७^१.
परा-वृहती^१- -ती अत्र २, २९; ५,
३; २९; ७, १११; १२, २; ३.
पराभिमुष्ट- पर-द्र.
परा√भू, पराभवति कौसू ९४, १;
परा...भवति बौश्रौ १४, ८ :
१२; परा (भवति) शाश्रौ १४,
३२, १; पराभवन्ति बौश्रौ २४,
२५ : १९; पंपराभवन्तु^१ आपश्रौ
४, १५, ४; भाश्रौ ४, २१, २;
हिश्रौ ६, ४, २१; पंपराभवन् वैश्रौ
८, १ : २; आशिग ३, ८, ३ : ५;
बौवि १, १५ : ७६; परा(अभवन्)
शाश्रौ १४, ३२, १; बौश्रौ
१४, ८ : १०; १७, ४७ : ८;
पराभवत् भाश्र २, ६ : १६.
पराभावयति आपश्रौ ५, १५, ३.
परा-भाव्य बौश्रौ २, ७ : १.
परा-भूत्, ता- -ताः वाधूश्रौ ३,
४६ : १५; अर्प ३३, २, १.
पराभूत-वेणु- -णोः कौसू ४७,
२४.

a) = छन्दो-विशेष-। कज.। b) विप.। बस.। c) पामे. वैप १, १९१९ b द्र.। d) अलुष्टुप् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. ष. सात. च)। e) उभा (? महा < महान्ता [अश्विनौ]) कवी युवा (ना) यो (< यद् उ यद् यस् [अश्व.]) नो धर्मः परापतत् (= श्रुतत्) इति शोधितः पूर्वोऽर्थव्यं द्र.। उत्तरस्याऽर्थव्यं कृते तु. टि. ? महा। f) वैप १ द्र.। g) तु. पागम.। h) पामे. वैप १, १९२० c द्र.। i) पामे. वैप १, १९२० f द्र.। j) पामे. वैप १, १७८३ c द्र.।

परा-भूति- -त्याः अत्र १६, ८१.
 परा/मृशु>परा-मर्श- -शैः वृदे ५,
 २४.
 परा-मृशत्- -शन् शांश्रौ १८, २१,
 ८.
 परा-मृशय कौसू १७, १४.
 परा-मृष्ट- -ष्टः वृदे ५, २३.
 परायण-, परा-यत्-
 परे(रा/इ) द्र.
 परा/या, ङपरयाहि आश्रौ ६, ११,
 १२; शांश्रौ १०, १, ११;
 ङपरयात् आस्रिग ३, १, ३;
 ३४; भाग २, १४ : १३; हिय
 २, १३ : २; कौसू ८८, २८;
 अप ४३, ६, ४.
 परायापयति कौसू ८८, २८.
 परारि- पा, पावा ५, ३, २२.
 परारिन्त- पावा ४, ३, २३.
 परार्थ- प्रभृ. पर- द्र.
 ङपरवत्- -वत् आश्रौ ३, ७, ९;
 -वतः आश्रौ २, १४, १२; ६, ४,
 १०xx; शांश्रौ; या ७, २६; ११,
 ४८६; -वतम् आपश्रौ ३, १४,
 २; २२, ४, २७; बौश्रौ; -वति
 शांश्रौ ६, ६, ४; ८, १६, १; बौश्रौ
 १, ११ : १०; १५; २०; भाश्रौ
 २, १, ९; -वते अप ४८, १०९.
 परा/वद्, ङपरवद् द्वाश्रौ १०, ३,
 ४^३; लाश्रौ ३, ११, ३^३; हिय १,
 १६, १९.
 ?परावद्^३ अप ३३, ६, ९.
 परा/वध्, ङपरवधीत् आपश्रौ ७,
 ९, ९; बौश्रौ ४, ४ : ९; १५,
 २९ : ३८; भाश्रौ.
 परा/वप्, परावपति बौश्रौ ६, २८:

१७; १३, २१ : ७; वैश्रौ १४,
 ८ : ४; परा (वपति) भाशि
 १२३१.
 ङपरो(रा-उ)वप^० आपश्रौ ५, २७,
 १२; भाश्रौ ५, १९, ९; भाश्रौ
 १, ६, ५, ७; वैश्रौ १, १९ : १७;
 द्विश्रौ ३, ६, १२; परो(रा-उ)वाप
 वाश्रौ १, ५, १, ९^०.
 परो (रा-उ) प्येत वावृश्रौ ४,
 ११२ : ४; ६.
 परा-वाप- -पम् वैगृ ४, ५ : ११.
 परावर-योग- प्रभृ. पर- द्र.
 ङपरवसु^१- -सुः^० आश्रौ १, ३, ३१;
 शांश्रौ १, ६, ६; बौश्रौ ३, २८ : ४;
 भाश्रौ.
 परा-विराज्^१- -राट् अत्र १०, १०.
 परा/वृज्, परावर्क उस् ७, १७^०.
 परा/वृत्, परावर्तते बौश्रौ २९, १३ :
 १; वैश्रौ १२, १२ : १०.
 परा-वृत्त- -त्तः बौध ४, ५, ७.
 परावृत्त-मुख- -खः वैगृ ५, ५ :
 २६.
 परा-शकरी^१- -री अत्र ७, २१; १२, १.
 परा/श(द् >)त् >पराशातयित्-
 -त्ता या ६, ३०.
 शपराशर-(>पराशरीय- पा.) पाग
 ४, २, ८०.
 पराशिष्- प्रभृ. पर- द्र.
 ङपरा/श्ट, शृ (हिसायाम्), परा-
 (शृणन्तु) अत्र ८, ३१; परा-
 (शृणीहि) ऋप्रा १२, २०^०.
 परा (रा-अ) शरीत् आपश्रौ ३,
 १४, २; भाश्रौ ३, १३, १; द्विश्रौ
 २, ६, ३४.
 २परा-शर^६- पाग ४, १, १०५; २,

१११; -रः अप ३, १, ७; ४८,
 ११५^०; ऋअ; या ६, ३०^०;
 -रम् शंघ ११६ : ४०; -राः^१
 बौश्रौप्र ४८ : १; २; ४; ६; ८; १०;
 १२; १३; -रागाम्^१ आश्रौ १२,
 १५, २; आपश्रौ २४, १०, ६;
 द्विश्रौ २१, ३, १४; चाअ ४० :
 ३; -राय आस्रिग १, २, २ :
 २३; बौगृ ३, ९, ५; भाग ३,
 १० : ८; हिय २, १९, ६; -रेभ्यः^१
 आपश्रौ २४, १०, ४.
 पराशर्य- पा ४, १, १०५;
 -ङ्गं आश्रौ १२, १५, २;
 आपश्रौ २४, १०, ६; बौश्रौप्र
 ४८ : १४; द्विश्रौ २१, ३, १४; वैध
 ४, ६, १; -र्यम् अत्र ६, ६७^१.
 पराशरी- -र्यौ^१ अप
 १, ३, १.
 पराशर- पा ४, २, १११;
 -राः चव्यू २ : ३७.
 पराशरिन्- पा ४, ३,
 ११०.
 पराशर-वत् आपश्रौ २४, १०,
 ६; बौश्रौप्र ४८ : १५; द्विश्रौ
 २१, ३, १४; वैध ४, ६, १.
 परा-शीर्ण- -णीस्य या ६, ३०.
 पराश्रित- पर- द्र.
 परा(रा/अ)सु (क्षेपणे), परास्यति
 द्विश्रौ १८, ४, २६; लाश्रौ १०,
 १५, ८०; परास्यन्ति या ३, ४;
 परा...स्यन्ति बौश्रौ ८, १९ :
 ८^०; परास्यामि सु २८, ५;
 परास्यः शांश्रौ १२, १८, ६^०.
 परा(रा-अ)स्त- -स्ताः आपश्रौ १,
 ८, ७.

a) वैप १ द्र.। b) पाठः ? परावदन् इति संस्कृतुः टि.। c) परस्परं पाभे.। d) वैप २, ३ खं.
 द्र.। e) पाभे. वैप २, ३ खं. परावसुः माश १, ५, १, २ टि. द्र.। f) विप.। वस.। g) = ऋषि-विशेष ।
 वैप १ द्र.। h) बहु. <पराशर्य-। i) विप (सूक्त-। j) विप. (पराशर्यदेवताक- नक्षत्र-।

परा(रा-अ)स्व शांशौ १३, २९, २;
 आपश्रौ १२, १९, ६; बौश्रौ.
 परा/सिच्, परासिचम् ँआश्रौ
 १, ११, ८; ६, १२, ११.
 परा...सिच्यते बौश्रौ १७, ५०:
 ३; परासिच्येत वाधूश्रौ ३, ३९:
 १२; ४, ११२: ६; परा...सिच्येत
 वाधूश्रौ ४, ११२: ४; परासि-
 च्येन् बौश्रौ २९, ६: १७;
 २४; वैश्रौ २१, १८: ३; बौग
 ४, १, ७; ८.
 ँपरासेचि शांश्रौ ४, ११, ६;
 काश्रौ २५, ५, २८; आपश्रौ.
 परा(रा-अ)सु^१-सु: लाश्रौ ३, ३, ७.
 ँपरा/सू (प्रेरयो), परा...सुवामि^२
 आश्रौ २, १०, ४; कौग १, १७,
 ६; परासुव आपश्रौ ६, २३, १;
 परा...सुव^३ आपश्रौ ६, २३, १;
 कौसू ५८, १; अप १, २६, ४.
 परा...साविषत् शांश्रौ ८,
 १८, १.
 परा/हन्, पराहन्ति आपश्रौ २, ३,
 १५; पराहण्यात् भाश्रौ २, ३,
 १८; वाधूश्रौ ३, १०६: २; ३;
 हिश्रौ १, ६, ११५.
 परा/ह् > परा-हत्- -तम् आपश्रौ
 ९, ६, ४; भाश्रौ ९, ७, ८; हिश्रौ
 १५, २, १२.
 ँपरि^४ आश्रौ ४, ७, ४^०; १३, ७; ५,
 १०, २८; ६, ५, २; १२, १२^१,

१३, १५^१; ७, २, १०; शांश्रौ १,
 १४, १८; ७, १५, ८^१; १२, १८,
 ८^१; काश्रौ १६, ५, २१; २५,
 ११, २२^१; आपश्रौ १, २४, ५,
 ३, ११, २^१; ५, १२, २××; ८,
 ८, १८^१; ९, ८, ७^१; १२, ३^१;
 १३, २२, ५^१; १५, १६, १०^१;
 १७, १२^१; १६, ६, ७^१; १९, १०,
 ५^१; बौश्रौ १, ९: ९××; ८, २०:
 २१^१; ९, १६: २४^१; १७: २३^१;
 १०, ४: ११^१; १५, २४: २^१;
 २७, १: १६^१; २९, ३: १८^१; भाश्रौ
 १, २५, ६; ३, १०, २^१; ५, ८, १;
 ११, १६, १४^१; १८, ३^१; भाश्रौ
 १, २, ३, १४; २, ४, ३, २९^१;
 ५, ४, १३^१; ४, ३, ४१^१;
 ६, ५^१; ६, १, ४, १८; वाधूश्रौ;
 वाश्रौ ३, २, ७, ४२^१; वैश्रौ
 १६, २६: १०^१; १८, ४: ९^१;
 २०, १५: ३^१; २४: २^१; २१,
 ३: १^१; हिश्रौ २, ६, १०^१; ३, ३,
 १७^१; ११, २, ५^१; २३, १,
 ५५^१; द्राश्रौ ६, ४, ९^१; लाश्रौ २,
 १२, १०^१; वैताश्रौ १६, १७^१;
 २३, १५^१; आपमं १, ६, २^१;
 २, १९, २^१; कौग १, ५, २९^१;
 पाग २, ११, १२^१; आमिग १,
 २, ३: १५^१; २, ४, ६: २६^१;
 ६, २: २६^१; ८: ४७^१; ३, ४,
 ४: १४^१; ६, १: ३७^१; ३: ३७^१;

८, ३: ४३^१; बौग २, ५, ४४^१;
 बौगि १, ९: १०^१; १२: ११^१;
 १६: २७^१; ३, ४, १८^१; हिपि
 ८: ३^१; जैगृ^१ १, ४: १२; १३:
 ८; अप्राय ३, १०^१, अप ४१,
 १, ७^१; बौध^१ २, ५, १३; १०,
 ५१; ऋग २, ९, १४^१; १०९^१;
 सागृ^१ १, ४२७^१; २, ११७^१;
 अग ५, ६^१; तिघ ४, २^१; या
 १, ३^१; ५, २८^१; ६, १^१; १०,
 ७, ११, १७; १२, ३१; ऋग
 ४, ४४^१; ६४^१; ५, १६^१; १५,
 १७^१; पा १, ४, ९०; २, १, १२;
 ३, १०××; पाग १, ४, ५८^१.
 परि- -रिणा पा २, १, १०;
 -रे: पा ६, १, ४४; २, १८२;
 ८, १, ५^१; २, २२; पावा ८, १,
 ५^१; २, १९; -रौ छुप्रा ३, ३१;
 शौच २, ६६.
 परि-प्रत्यु(ति-उ) पा (प-अ)प- -पा:
 पा ६, २, ३३; -पेभ्य: पावा ६,
 २, ३३.
 पर्या(रि-आ)दि- -द्वय: पावा २, २,
 १८; -दिभ्य: पावा ६, २, १२१.
 पर्यादि-वर्जम् शौच २, ६७.
 परिंश^५- -शम् हिश्रौ १२, ६, ६^१.
 परि/कथ्, परिकथ्यते अप २३,
 १०, ३.
 परि-कथित- (> °तिन्-पा.)
 पाग ५, २, ८८.

a) विप.। बस.। b) पामे. वैप १, १९२४ f द्र.। c) पामे. वैप १, १९२४ h द्र.। d) वैप १ द्र.। प्रायेण पञ्चम्यादि-युक्तः कप्र.। e) वैप १, १९२५ n द्र.। f) तु. सस्थ. टि. श्महा, १ युवा। धर्मणः (परि = सत्यस्य धर्मं परिरक्ष्य) इति पं. युक्तः कप्र.। g) वैप १, १९२५ c द्र.। h) पामे. वैप १, १९२६ f द्र.। i) स्वाअ.। j) दोषात् इति युक्तः कप्र. (तु. चौसं., ८ [आपश्रौ १०, १३, १०] च)। पदि इति कांसं पाठः? यनि-शोचः। k) वैप १, १९२३ z द्र.। l) वैप १, १९२६ d द्र.। m) वैप १, १९२४ n द्र.। n) वैप १, १९२६ o द्र.। o) पाठः? पती (संर) इति शोचः (तु. टि. पती आपश्रौ ६, १२, १२)। p) वैप १, १९२६ n द्र.। q) वैप १, १९१६ c द्र.। r) वैप १, १९२७ h द्र.। s) वैप १, १९२६ g द्र.। t) वैप १, १९२६ f द्र.। u) वैप १ द्र.।

१परि-कर्मन्^१ -र्मणे भाग्य २,
१९:१०.

२परि-कर्मन्- परि✓कृ द्र.

परि-कर्ष^२ - पागवा ६, २, १८४.

परि✓कल् > परि-कलित-
(> षित्- पा.) पाग ५, २,
८८.

परि✓कास् > परि-कासन- -ने
आपग ९, २; बौग ४, २, ११.

१परिकासयातै^३ बौश्रौ १४, २१:
३२.

परि-किरण- प्रभ. परि✓कृ(विक्षेपे)द्र.

परि✓कीर्ति (< कीर्ति-), परि-
कीर्त्यते कप्र २, ८, १; ३, ६, ६;
बुदे ४, ४६.

परि-कीर्तन- -नम् बुदे ३, ४७.

परि-कीर्षयत्- -यन् पाग ३, १२,
८; शंघ ३८७; विध २८, ४९.

परि-कीर्तित, ता- -तः अप २२,
१, ५; शंघ; -त्तम् कप्र १, ७, ४;
८, १९; अप; -ता कप्र २, ५,
१; अप ३०, १, ४; ३४, १, ५;
बौध; -ता: कप्र १, ७, १०; १०,
६; अप; -ते शंघ ५३; -तौ
बुदे ४, १०९.

परि-कीर्य परि✓कृ(विक्षेपे) द्र.

परि✓कुप् > णपरि-कुपित- -तेन
आपमं २, २२, ६; भाग्य २, २७:
१५; हिग्य १, १४, २^१.

परि✓कृ^४, परिकुर्वीत आमिग्य ३,
६, २: १४.

२परि-कर्मन्^५ - > षमित्- -र्मिणः
शांश्रौ १६, १८, १७; बौश्रौ ६,
१२: १××; -र्मिणम् बौश्रौ

१, ९: ४; २, १९: १;
-र्मिणे आश्रौ २, ४, १६; बौश्रौ
४, २: ३७; ६, १५: ११; १५,
४: ६; वैश्रौ १२, १९: १२;
-र्मिभ्यः बौश्रौ ६, ३०: ९; २५,
१२: १; १५: १८; -र्मि बौश्रौ
९, ११: ३०; १३: ८; ११, ८:
११; १४, २४: ५; १७.

परि✓कृत् (छदने) > परि-कृत्-
-त्तम् काश्रौ ८, ५, २३; आपश्रौ
१२, २, १४.

परि-कृत्यमान- -नः वाश्रौ १, ६, ५,
१०^१.

परि✓कृष्, परिकर्षति बौश्रौ १०,
९: १९; १०: २××; वाश्रौ.

परिकृषेत् बौश्रौ १६: १६; १८.

परि-कर्षण- -णम् बौश्रौ २१: ५;
-णयोः बौश्रौ १६: २०.

परि-कृष्ट- -ष्टम् काश्रौ २१, ४, १८.

परि-कृष्य काश्रौ २१, ४, १०;
आपश्रु ३, ३; हिग्य १, ४२.

परि-कृष्य- -ष्यः बौश्रौ १७, २९:
७; १; १३; १७; ३०: ७; १०.

परि✓कृ (विक्षेपे), परिकिरति काश्रौ
८, ६, ३०; आपग्य ९, ५; हिपि;
परिकिरामि बौपि १, १५: ७१^१.

परि-किरण- -णम् अप ४४, ४, ५.

परि-किरत्- -रत् गोश्रु ४, ९, २०;
कौसू ३६, २२.

परि-कीर्ण- -र्णः कौसू ८९, ९.

परि-कीर्य काश्रौ २६, ३, ९; आपश्रौ
१९, ५, ११^३; बौश्रौ.

परि✓कलृप्, परिकल्पयेत् मैत्र ६.
परि-कल्प्य कप्र २, १०, १.

परि-केश- पागवा ६, २, १८४.

१परिकेश्य^६ - -श्यः बौश्रौ १८, १: ५^१.

परि✓कम्, परिक्रामति बौश्रौ १,
२०: ३; ७, १३: २१, २३; माश्रौ;

परिक्रामतः आपश्रौ १२, २२, ७;

माश्रौ २, ४, १, १२; पाग्य १, ७,

३; आमिग्य १, ६, २: १४;

परिक्रामन्ति काश्रौ २१, ३,

७; २६, ४, ४; णपरिक्रामतु^७

आपमं २, १८, ३२; भाग्य २, ९:

८; परिक्रामन्तु हिग्य २, ८, ११^१;

परिक्रामेत् दाश्रौ ४, ४, २; लाश्रौ

२, ३, १७; निस्; परिक्रमेया-

ताम् जैग्य १, २१: १६; परि-

क्रामेयुः बौश्रौ २०, १४: २८;

२४, २९: १२; २५, १९: १०.

णपरि (अकमीत्) काश्रौ १६, २,

२३; आपश्रौ ७, १५, २××;

बौश्रौ.

परिक्रमयति माश्रौ १, ५, ४, ११;

६, १, ६, १७; परिक्रमयेत् आपश्रौ

९, ३, २३; हिश्रौ १५, १, ७३;

१७, १, ३६.

परि-क्रम^८ - -मम् दाश्रौ ६, ४, १८;

लाश्रौ २, १२, १८; -मा: अप

५२, ७, ४; -मे बौश्रौ २०, १६:

२०.

परि-क्रमण- -णम् आपग्य ५, ९; १०;

हिपि १४: १४; -णयोः हिश्रौ

५, ५, १८; -णे बौश्रौ २०, १४:

२७; २६: ४४.

परि-क्रम्य काश्रौ ४, ९, १५××;

आपश्रौ; परिक्रम्यऽपरिक्रम्य

काश्रौ १७, १, ११.

a) = मृत्य- । प्रास. वा बस. (तु. शक.) वा । b) वैतु. MW. < परि✓कृष् । c) भूयान् मूको.

पामे. । d) 'पिले' इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. भाग्य.) । e) ऋप्रा ४, ८५ उस् ६, ३ परामृष्टः द्र. ।

f) = कर्मन्- । गस. । g) = १परि-कर्मन्- । h) स्वार्थे यत् प्र. । i) श्योऽथ इत्यस्य स्थाने 'इय' (शी-अ) थ

इति मूको. । j) परस्परं पामे. । k) भावे कर्तरि वा कृत् ।

परि-क्रान्त,न्ता- -न्ताय बौश्रौ ९,
८: ६; २५, २०: १५; -न्तासु
कौघ ३, ५, ५; शांघ ३, ९, २;
-न्तेभ्यः हिश्रौ ६, ३, ८.
परि-क्रामत्- -मत्सु आघ ४, ६, १४;
-मन् भाश्रौ ७, ४, २; -मन्तम्
आघिण् १, १, ३: २; हिघ १,
५, १.
परि-क्रामत् काश्रौ ३, १, १३; १७,
५, २०.
परि√की^१, परिक्रीणीते हिश्रौ १३,
८, २८; परिक्रीणाति बौध १,
२, ५७^१; परिक्रीणामि गोघृ
२, ६, ७^१; परिक्रीणीयात् शाश्रौ
१५, १५, १४; आघश्रौ १९,
३, ३; वैश्रौ ११, ५: १.
परि-क्य- -यः मीसू ३, ८, १; १०,
२, ३३; १२, १, ३२; -यात्
मीसू १०, २, २५^१; ३, ५१; ५५;
-ये मीसू ३, ४, ४८; १०, ३, ५५.
परिक्रया(य-अ)म्नान- -नात्
मीसू ३, ७, २०.
परिक्रया(य-अ)र्थ- -र्थम् मीसू
१०, २, २३.
परिक्रया(य-अ)विभाग- -गात्
मीसू १०, ६, ६७.
परि-क्रयण- -णे पा १, ४, ४४.
परि-क्री^०- -क्रिया आश्रौ ९, ५,
१२; शाश्रौ १४, ४२, ६^३; बौश्रौ
१८, २३: ११; हिश्रौ १७, २;
१८; -क्रियाम् बौश्रौ २३,
१८: २७; २६, ३२: २०; २३;
-क्री: हिश्रौ १७, २, ४.
परि-क्रीत- -तः काश्रौ १९, ३,

१९; आघश्रौ ६, १५, १६^३; १,
अप्राय ६, ४; -ता: बौश्रौ २,
३: १४^१; -तै: बौध ४, ८, ९;
-तौ वाश्रौ ३, २, ७, ७५.
परिक्रीत-वचन- -नात् मीसू
१०, २, २५.
परि-क्रीय भाश्रौ १०, १८, १२;
लाश्रौ ८, ४, ४; ७; आघिण्.
परि√क्रीड् पा १, ३, २१.
परि√कुञ्, ङपरिक्रोशतु आपमं २,
२२, ९; भाघ २, २७: ३; हिघ
१, १४, ४; परिक्रोशेत् हिघ १,
१४, ४^१.
परि-कुण्ड- -ष्टम् आपध १, १८,
१७; हिघ १, ५, ८६.
ङपरि-करोश^१- -शः आपमं २, २२,
९; भाघ २, २७: ३; हिघ १,
१४, ४.
परि√क्लिञ् > परि-क्लिश्यमान-
-ने पा ३, ४, ५५.
परि√क्वण् > परि-क्वण^०- -नम् या
६, १.
ङपरि-क्षपम्^१ आपमं १, १३, ५; बौघ
४, २, ११.
परि√क्षर, ङपरि(अक्षरत्) साघ १,
४७५; २, ४४३.
ङपरि(अक्षाः) ऋअ २, ९, १८;
उसू ३, १.
परि√क्षल, परिक्षालयति आपश्रौ
१, १६, ३.
परि-क्षालन^१- -नम् काश्रौ ४, २,
३२.
परिचालना(न-अ)न्त^१- -न्तम्
काश्रौ ४, २, ३८.

परि√क्षि(निवाते) > ङपरि-क्षित^१-
-क्षित् शाश्रौ १२, १७, २;
-क्षितः शाश्रौ १२, १७, १; ३;
वाश्रौ ३, २, ५, ४३; वैताश्रौ
३४, ९.
१पारिक्षित^१- -तः वाघुश्रौ ३,
७७: १; ८८: ४; -तम् शाश्रौ
१६, ८, २७; -ता: शाश्रौ १६,
९, ७^१.
२पारिक्षित^१- > ङती- -त्यः
शाश्रौ १२, १६, २.
पारिक्षितीय^१- -या: शाश्रौ
१६, ९, ५.
परि√क्षि(च्ये) > परि-क्षीण- >
णा(श-अ)र्थ-वाहन^१- -नः अघ
२, ४, ५.
परि√क्षिप्, परिक्षिपेत् अघ ६८, ३,
१२.
परि-क्षिप्य ऋप्र २, १, ४.
परि-क्षेपक- पा ३, २, १४६.
परि-क्षेपिन्- पा ३, २, १४२.
परि√क्षु > ङपरि-क्ष्व^१- -वः भाघ
२, ३१: १४; -वम् भाघ २,
३१: ११; अघ १, २६, ४; ५; -वे
आपघ ९, २; बौघ ४, २, ११.
परि√क्षुद् > परि-क्षुद्य बौश्रौ ५,
११: १५; १३, २५: १५.
परि√खन् > परि- (ख^१) > खा-
पाग ४, २, ११०; -खाम् अघ
१, १०, ५; ६२, २, ३.
पारिख- पा ४, २, ११०.
पारिखेय- पा ५, १, १७.
परिखा (खा-अ) तिक्रान्त^१-
-न्तम् बौश्रौ २४, १३: ६;

a) पा १, ३, १८ परामृष्टः द्र. । b) तु. प्रयासं. प्रष्ट. । c) पृ १६८ 1 द्र. । d) गस. उप. भाप. ।
e) उप. कर्तारि दृढ. । f) शोधः वैप १, १९३० 0 द्र. (भाघ. च) । g) = उदक- । उप. करणे प्र. ।
h) विप. । बस. । i) वैप १ द्र. । j) वैप २, ३ खं. द्र. । k) विप. । बस. > द्रस. । l) नाप. । गस. उप.
कर्मणि डः प्र. (पा ३, २, १०१) । m) पूष. = मर्षादा- इति भवस्वामी, = समुद- इति वेङ्कटः ।

-न्ताः बौश्रौ २, ३:२.
 परि-खाय आपश्रौ १७, २६, १५;
 बौश्रौ १७, २८: ५; हिश्रौ.
 परि-ख्या, परिख्यन् या ९, ३^१.
 परि-ख्यात, ता- पाग ५, १, १२४^b;
 -तः अप्राय ३, १; -ता भाग १,
 ११:१३.
 परिख्यात्य- पा ५, १, १२४.
 परि-गच्छ, गम्, परि(गच्छति)साञ्च
 १, ५५२^१;
 ऋपरि(अगमम्) कौसू २९, २८;
 अञ्च ६, १२.
 परि-ग(त>)ता- ता काथ २८०:
 ४; -तायाम् आसिष्ट ३, ४, ३:
 ५; ६; बौपि ३, ४, ५; ६; गौपि
 १, ३, ५; ६.
 परि-जिगांसत्- -सन् बौश्रौ १६,
 २९: २.
 परि-गण > परि-गणन- -नात्
 पावा ४, ३, १२०.
 परि-गणित-(> ०तिन्- पा.) पाग
 ५, २, ८८.
 ?परि-गण्य आसिष्ट २, ४, ९: ९.
 परि-गद् > परि-गदित-
 (> ०तिन्- पा.) पाग ५, २,
 ८८.
 परि-गध् > परि-गधि(त>)ता-
 -ता^d या ५, १५^१.
 परि-गह् > परि-गहन- पाग ८, ४,
 ३९.
 परि-गा, पर्यगात् या ६, ४;
 परि...गात् या ६, ४^१; परि
 (अगात्) शुञ्च ४, १२४^१.
 परि-गाण, न- प्रच. परि-गै द्र.
 परि-गूढ-(> ०ढ-क- पा.) पाग ४,

२, ८०.
 परि-गृ, गृ (शब्दे), परिगृणाति
 बौश्रौ २१, २३: ३; हिश्रौ १४,
 २, १५.
 परि-गृह्, प्रह्, परिगृह्णाति काश्रौ
 २, ६, १८; २३; ९, १३, ११^१××;
 आपश्रौ; वैश्रौ १३, १२: ४^१;
 परिगृह्णीतः बौश्रौ ५, ५: २३;
 भाश्रौ ८, ६, १४; माश्रौ १, ७,
 ३, ४९; परिगृह्णन्ति बौश्रौ ३,
 १७: २४; भाश्रौ ७, १२, ६^१;
 द्राश्रौ; ऋपरिगृह्णामि काश्रौ २६,
 ५, १४; आपश्रौ ४, १, ८^१××;
 बौश्रौ ८, १५: ७××. भाश्रौ;
 परिगृह्णीमहे आसिष्ट १, ५, १:
 ६^१; ऋपरिगृह्णन्तु आपश्रौ २,
 २, ३; बौश्रौ १, ११: २३-२५;
 भाश्रौ २, २, २; माश्रौ १, २,
 ४, १५; हिश्रौ १, ६, ८७; ऋपरि-
 गृहाण काश्रौ २, २, १०; आपश्रौ
 ३, १९, ३; बौश्रौ; परिगृह्णीहि
 बौश्रौ ३, २४; १०^१; पर्यगृह्णात्
 या १०, १०; परिगृह्णीयात्
 आपश्रौ १, १४, १७; ९, ३, १३;
 बौश्रौ २०, ९: ५××; भाश्रौ.
 ऋपरिग्रहीष्यामि आपश्रौ २,
 ३, ७; बौश्रौ; परिग्रहीष्यामहे
 वाश्रौ २, १०: ५; ८.
 परिगृह्यते बौध २, २, २०; २३;
 २६.
 परि-गृहीत, ता- पाग ६, २, १४६;
 -तः वैश्रौ १०, ७: ७; -तम्
 भाश्रौ १२, ६, ५; वाश्रौ ४,
 २३: ७; -ता अञ्च ११, ३^१;
 -ताम् बौश्रौ १८, ४०: १७;

२२; वाश्रौ ४, १५: ६; हिश्रौ
 ७, ४, ५७; -ते वैश्रौ ९, ५: ५.
 परि-गृहीति- -त्यै बौश्रौ २४, २४:
 ६; ७.
 परि-गृह्णत्- -ह्णन्तम् काश्रौ २,
 २, १०.
 परि-गृह्णान- -नौ वाश्रौ ४, ७९: १.
 परि-गृह्ण आश्रौ १, ७, ६××; वाश्रौ.
 ऋपरिगृह्ण-व(त >)ती^d- -तो
 बौश्रौ १०, ५१: २५; वैश्रौ १९,
 ६: ८१.
 परि-गृह्ण, ह्या- -ह्याणि उस् ४,
 १; -ह्यायाः^b कौसू १७, २.
 परि-गृह्णमाण, णा- -णाम् आपश्रौ
 ४, ५, ४; वैश्रौ ४, १२: ६;
 वेताश्रौ २, ५; १५, ८; -णायाम्
 माश्रौ १, ४, १, १४; -णासु
 हिश्रौ १०, ८, ३८; -णे जैश्रौ
 २३: १३.
 परि-ग्रह- -हः काश्रु ७, ८; उस्
 ४, १२; मीस् १२, ४, २५; -हम्
 काश्रौ २, ६, १८; २३; अण १,
 १०, १; -हाः शंथ २५५; -हात्
 काठश्रौ ४९; माश्रौ १, १, ३, ३;
 ७, ३, २५; वाश्रौ १, ६, १, १९;
 हिश्रौ २३, २, ६; -हे ऋश्रा ३,
 २३; १०, २०××; उस्; -हेण
 शाश्रौ १५, ५, १०; -हेषु आपध
 १, २८, २; हिध १, ७, ३८.
 परिग्रह-प्रसङ्ग- -ङ्गात् विध ३३,
 २.
 परिग्रहा(ह-अ)र्थ- > ०र्थ-
 -यः या १, ७; -यम् या ५,
 २२.
 परि-ग्रहण- -णे बौश्रौ २०, ९: ४.

a) पासे. वैप १, १९३० ० द्र.। b) तु. पागम.। c) वैप १, १३५४ b द्र.। d) वैप १ द्र.।
 e) पासे. वैप १, १९३१ d द्र.। f) परिग्रह्णाति इति चौंसं.। g) ०ती इति पाठः यनि. शोचः। h) =वेदि-
 (तु. B [मू. LII]। i) भाप. (स्वीकार-), नाप. (वेदयाः]सीमा- निर्देशः, पारिभाषिकसंज्ञा-[ऋश्रा. प्रच.])। अप् प्र.।

परिग्रहण-मात्र-त्रम् कप्र २,
८, १७.
परिग्रहणीय- -यौ बौगृ १,
२, ६.
परिग्रहीष्यत्- -ष्यन् बौश्रौ ११,
२: १०; २५, ३३: १३;
-ष्यन्तम् माश्रौ ५, २, १५,
१२.
परिग्राह^१- पा ३, ३, ४७; -हम्
आपश्रौ २, ३, ७; ७, ८, ५;
११, ३, १; ५, ११; बौश्रौ;
-हयो: माश्रौ ४, २, ३३; हिश्रौ
६, २, ५; -हात् आपश्रौ १, १४,
१७x; बौश्रौ; -हान् वाश्रौ १,
१, ५, ११; -हाम्याम् माश्रौ ४,
३, २८; -हे आपश्रौ ३, १९, ३;
वैश्रौ ९, ४: ७, ५: ५; १०, ३:
३: ७: ७; हिश्रौ २, ८, १५;
-हेण हिश्रौ १, ६, १०४; -है:
वाश्रौ १, ७, २, २१; -हौ आपश्रौ
२, ३, ८; बौश्रौ ५, ५: २३; २९;
माश्रौ ८, ६, १४; माश्रौ १,
७, ३, ४९; ४, २, २; ६; ३, १७;
वैश्रौ ५, २: १.
परि/गै, परिगायति आपश्रौ १६, ६,
४; वैश्रौ १८, ३: ११; हिश्रौ ११,
१, ६९; परिगायन्ति हिपि १८:
१२; परिगायेत् बौश्रौ २२, २:
२६; लाश्रौ ८, ८, ३५.
परिगीयते निस्र ७, ९: २०.
परि-गान[न^१]- -णम् निस्र २, ६:
३४०; -गानि जैश्रौ २४: १;
जैश्रौका ३८; -नम् गौपि २, ७,
३४०.
परि-गायत्- -यन् काश्रौ २२, ६,

१५.
परि-गीत- -तम् माश्रौ १, ५, ३,
१६; ४, ६; १५; ६, २, ४, १०;
-तम्-तम् माश्रौ १, ६, ५, ७.
परि/ग्रह् प्रष्ट. परि/ग्रह् द्र.
परि-ग्राम-> पारिग्रामिक- पा ४,
३, ६१.
परि/ग्लै, पस्त्रियायेत् वाधूश्रौ ४,
३०: २२.
परि-घ- परि/हृत् द्र.
परि-घर्म^१- -र्मम् हिश्रौ २४, २, ८;
लाश्रौ १, ६, ३६०.
परिघर्म्य^१- -र्म्यम् काश्रौ २६, २,
६; २८; ७, २; आपश्रौ १५, ५, ६;
६, ४; ११, १६; १३, २; १४, ९;
बौश्रौ ९, ५: १३; १२: ४; १३:
५; माश्रौ ११, ५, ६; ६, ४; वैश्रौ
१३, १५: ८; १६: १०, हिश्रौ २४,
२, ४; ५, ३; द्राश्रौ २, २, ४००;
-र्म्ययो: बौश्रौ १८, २४: ७;
-र्म्ये वाधूश्रौ ३, १००: २६.
?पारिघर्म्य- -र्म्याणि माश्रौ
४, १, ३०; ३, ३९; ४, ५;
१५.
परिघर्म्य-योजन- -नम् काश्रौ
२६, २, ३७.
परिघर्म्य-शङ्कु- -ङ्कु वाधूश्रौ
३, १००, ६.
परि/चक्ष्, परिचष्टे निस्र २, २:
१९; ४, १: ४१; भागृ १,
१२: १५; परिचक्षते निस्र ९,
९: १२; आपगृ; परिचक्षमहे
जैश्रौ १: ११; परिचक्षीत
आपश्रौ ९, ३, १२; माश्रौ ९,
५, २; हिश्रौ १५, १, ६०; अप्राय

५, २.

परि-चक्षा^१- -क्षा वाधूश्रौ ४, २८:
८; २९: २.

परि-चक्षाण- -ण: जैश्रौ १: १०.

परि-चक्ष्य- -क्ष्यम्^१ बौश्रौ १७,
५०: ११; २८, २: ३४; या ५,
८०.

परि/चक्ष्, परिचरति बौश्रौ ६, १७:

१९; माश्रौ १०, २२, ४; वैश्रौ

१२, २२: ५; हिश्रौ ७, ३, ५६;

भागृ १, १८: १२; ३, ३: ९;

कौसू ८७, १०; परिचरत: या

११, ९; परिचरन्ति वैश्रौ १२,

२०: १०; परिचरसि या ११,

२३; परिचराणि आश्रौ ९, ५,

१६; परिचरेत् बौश्रौ २१,

१३: ७; आगृ १, ९, १; आग्निगृ;

परिचरेयाताम् कौगृ १, १०, २०;

शांगृ १, १७, ८; परिचरेयु: कौसू

१४०, १७; अप्राय २, ८; ९;

गौध १०, ६५; परिचरेम या

२, २४.

परि-चरण- -णम् पागृ १, ९, १;

द्रागृ १, ५, ६; बौध ३, १, १४;

-णेन अप १३, १, ११; कौसू

५३, ४; ६७, २१x.

परिचरण-कर्मन्- -र्माण: या

३, १३.

परिचरण-तन्त्र- -न्त्रेण गौपि

१, १, २८.

परिचरणी(य >)या- -या:

गोगृ १, १, २४.

परि-चरत्- -रत् कप्र १, २, ५; विध

४९, ८; -रन्त: या ११, ९.

परि-च(र >)रा^१- -रा लाश्रौ ६,

a) वैप इ द्र. b) गौपि. पाठः। c) सपा. ष्णानम् <> ष्णानम् इति पाठे. d) = पात्र-
विशेष- (१घर्म-). बस.। e) सपा. ष्मम् <> ष्म्यम् इति पाठे. f) स्वार्थे यत् प्र.। g) ष्म्यौ इति पाठः? यनि.
शोधः। h) गस. उप. भाप.। i) पाठे. वैप १, १९३२ f द्र.। j) विप.। बस.। k) विष्टुति-विशेष-।

५,३-५; निसू १,८ : १९; २०; २१; -रायाम् द्राश्रौ ११, ४, १; लाश्रौ ४, ४, १.	७, ९×४; बौश्रौ. परि-चित्त्य माश्रौ ४, १, २२; २, २३.	परि-जि > परि-जच्य- > °व्य- लभ्य-कार्य-सुकर ^१ - -रम् पा ५, १, ९३.
परि-चर्य पाठ २, १४, २२; आग्निष्ट. परि-चर्या- पावा ३, ३, १०१; -र्या लाश्रौ १०, १८, १३; भाट्ट ३, १ : २; बाध २, २०; संघ १३८; बौध १, १०, ५; गौध १०, ५६; -र्यायाम् बौध ३, ७, १३; या ११, २३; -र्याथै बौश्रौ २१, १३ : ६.	परि-चिन्त् > परि-चिन्त्क- -का: अप ४०, ५, ३.	परि-जिगांसत्- परि-ज्गच्छ द्र. परि-जिर्हीर्षत्- प्रष्ट. परि-ज्ह द्र. परि-ज्ज्ञा, परिजानन्ति हिश्रौ १४, ४, ३८०; परिजानात् बौश्रौ ९, १६ : १७०.
परि-चार- -रान् अप १, ९, ९. परि-चारक- पाग २, २, ९. परिचारक-मुख्य- -ख्यान् अप ७०, १०, ५.	परि-चृत, परिचृतति कौसू २१, १९. परि-चर्तन ^२ - -नानि बौश्रौ ३, १९ : १२०.	परि-ज्जातृ- -तारः शंभ २५५. परि-ज्जान- -नात् वृदे १, २, १.
परि-चारिन्- -रिणः वृदे ४, २१.	परि-चेष्ट > परि-चेष्टा- -ष्टा भाट्ट ३, १ : २९; -ष्टाम् भाट्ट ३, १ : २९; बौध २, १, ३३; ४, २, १०.	परि-ज्जाम्- -तारः शंभ २५५. परि-ज्जान- -नात् वृदे १, २, १.
परि-चारिन्- -रिणः वृदे ४, २१.	परि-चेष्ट ^३ - -लम् कौसू ८५, २२.	परि-ज्जाम्- -तारः शंभ २५५. परि-ज्जान- -नात् वृदे १, २, १.
परि-चि (चयने), परिचिनोति आपश्रौ १७, १६, १७; १९, १५, ३; बौश्रौ; परिचिनुतः बौश्रौ ९, ७ : १८; परिचिनुयात् बौश्रौ २०, ८ : ७; आग्निष्ट ३, ६, ३ : २३; ४ : १२; बौपि.	परि-च्छेद ^४ - -लम् कौसू ८५, २२. परि-च्छद् > परि-च्छद ^५ - -दान् वैठ ३, १६ : ३; ४, ४ : १९.	परि-ज्जाम्- -तारः शंभ २५५. परि-ज्जान- -नात् वृदे १, २, १.
परि-चार्य- पा ३, १, १३१ ^६ ; -र्यः बौश्रौ १७, २९; १६; आपश्रु १४, ५; हिश्रु ४, ४६; -र्ययम् बौश्रौ १७, २९ : १३; हिश्रौ १२, ८, १३; आपश्रु १४, ४; हिश्रु ४, ४५; -र्ये बौश्रु १८ : १०; -र्येन हिश्रौ १२, ८, १४; आपश्रु १४, ७; हिश्रु ४, ४८.	परि-च्छिद् > परि-च्छिद्य द्राश्रौ ४, १, ७; लाश्रौ २, १, ६. परि-च्छिन्न- -न्नः विध २०, १६; -न्नम् कौसू ४७, १; ११६, ५; -न्नाः बौध २, ६, २८.	परि-ज्जाम्- -तारः शंभ २५५. परि-ज्जान- -नात् वृदे १, २, १.
परि-चित्त ^७ - -चित् आपश्रौ १, २२, ३; १६, १४, ७; बौश्रौ १०, २१ : ४; माश्रौ १, २४, ५; माश्रौ; -चितः आपश्रौ १५,	परि-जन् > परि-जात- -तः अत्र ३, ६०; अप्रा ३, ३, ६०; पा ५, २, ६८ ^८ ; -ते अप १९, १, १३. परि-जायमान- -नम् अप १३, १, ६.	परि-ज्जाम्- -तारः शंभ २५५. परि-ज्जान- -नात् वृदे १, २, १.
परि-चित्त ^७ - -चित् आपश्रौ १, २२, ३; १६, १४, ७; बौश्रौ १०, २१ : ४; माश्रौ १, २४, ५; माश्रौ; -चितः आपश्रौ १५,	परि-जन ^९ - -नः आज्यो ७, १८. परि-जप् > परि-जपित- -तम् गोष्ट २, ३, १८.	परि-ज्जाम्- -तारः शंभ २५५. परि-ज्जान- -नात् वृदे १, २, १.
परि-चित्त ^७ - -चित् आपश्रौ १, २२, ३; १६, १४, ७; बौश्रौ १०, २१ : ४; माश्रौ १, २४, ५; माश्रौ; -चितः आपश्रौ १५,	परि-जप्त- -सम् अप ३६, १६, १. परि-जप्य गोष्ट ४, ५, १८; द्राष्ट १, ४, १०; ४, १, ११; कप्र १, १०, ३; अप ३६, १४, १.	परि-ज्जाम्- -तारः शंभ २५५. परि-ज्जान- -नात् वृदे १, २, १.
परि-चित्त ^७ - -चित् आपश्रौ १, २२, ३; १६, १४, ७; बौश्रौ १०, २१ : ४; माश्रौ १, २४, ५; माश्रौ; -चितः आपश्रौ १५,	परि-जाकृत ^{१०} - -तान् हिष्ट २, ३, ७० ^{११} .	परि-ज्जाम्- -तारः शंभ २५५. परि-ज्जान- -नात् वृदे १, २, १.

a) वैप १ द्र. । b) विप. (दूर्शी-) । बस. उप. <२चेल्- । c) नाप. । उप. करणे षः प्र. धा. ह्रस्वश्च (पा ३, ३, ११८; ६, ४, ९६) । d) =संबद्ध- । e) =परिवार- । प्रास. (तु. शक.) । f) अर्थः व्यु. च? । g) पाभे. पृ २५६ b द्र. । h) समाहारे द्वस. । i) °ज्मन् इति पाठः? यनि. शोचः (तु. सपा. ऋ ३, २, ९ प्रष्ट.) । j) विप. । बस. । k) वृदे. पाठः ।

परि,री^१णह^२- -णट् वाधूश्रौ ४,
११२:२; -णहः हिश्रौ १, ५,
१३:२८; -णहम् हिश्रौ^३ १, ५,
१२; १४; ऋप्रा ९, १०^४;
-णहि शांश्रौ १३, २९, २९;
काश्रौ २४, ६, ३२; आपश्रौ २३,
१३, १३; वाधूश्रौ ४, ११२:३;
५.

॥पारीणह^५- -ह्यस्य तैप्रा ३, ७;
७, ४.

परि-णहन^६- -नम् माश्रौ ४, ७, ५.
परिणहना (न-ञ)न्त- -न्ते
गोश्रु ३, २, ३१.

परि-णह्वा हिश्रौ १८, ४, ४९;
कौसू १८, १७.

१परि-णाह^७- (> ह-वत्, °हिन-
पा.) पाग ५, २, १३६.

२परि,री^६णह^५- -हम्^८ आपश्रौ
१, १७, ९; भाश्रौ १, १९, ९.

परीणाहा(ह-ञा)दिक- -कम्^९
वैश्रौ ४, ४: ६^१.

परि-णि (<नि)√हन्, परिणिहन्ति
बौश्रौ ६, २८: ३९; १०, ३३:
५; हिश्रौ ११, ७, ४२.

परिणि-हृत्य आपश्रौ १६, २५, २;
२१, १८, ३; काठश्रौ ९६; हिश्रौ
१६, ६, २७; बौषि ३, २, ८.

परि√णी (<नी), परिणयति काश्रौ
१७, ३, २५; भागु; परिणयन्ति
आश्रु १, ७, १५; काश्रु ५६, २;
परि...नयध्वम् माश्रु २, १७,
११^१; पर्यणयम् वाश्रु १४, २०^१;

परिणयेत् बौश्रौ २२, १६: १७;
२४, ३३: १५; २५, ६: १४;
१७; वाश्रु.

परिणेष्ये आप्तिगृ १, ५, १:
२८; ॥परि...अनेषत् काश्रौ २१,
४, २६; आश्रु ४, ६, १४;
काश्रु ४५, ११^२; ५६, २; ॥परि-
(अनेषत्) शुभ्र ४, ५४; छेदे ८,
६१.

परिणीयते कप्र २, १०, १५;
शुप्रा ३, ८६; परि (शीयते)
ऋप्रा ५, ५७^१.

परि-णय- -येन आपश्रौ १०, १२, ९.

परि-णयत्- -यन् आश्रु १, ७, ६.

परि-णयन- -नम् काश्रौ १७, ७, ५.

परि-णाय- पा ३, ३, ३७.

परि-णिनीषु- -बु: अप ६९, ४, ५.

परि-णी (>)ता- -ता गोश्रु २,
२, ९; सुध्र ८८, ६; -ताम् पाश्रु
१, ७, ६.

परि-णीय काश्रौ १७, ३, २६; ७, ४;
आपश्रौ १६, ३५, ११; वैश्रौ.

परि-णीयम,न,ना- -नम् कौसू ६४,
७; -नाम् कौसू ८१, २०.

परि-णय- -य: आश्रु ४, ६, १५.

पारिणय^६- -यम् बाध १७, ४६.

परि√तेस् > परि,री|तेस्य
आपश्रौ १६, २५, २; १९, ५, ८;
हिश्रौ ११, ७, ४२; २३, १, ७.

परि√तक् > परि-तकन- -नम् या
११, २५.

॥परि-त(कम् >)कम्प्या^५- -कम्प्या

निष ४, १; या ४, १६६; ११,
२५^१.

परि√तन्, परितनोति बौश्रौ ६, १५;
२३; २२: १२×४.

परि-तत्य काश्रौ ७, ९, ८; १६, ८,
१७; २१, ३, ७; ३१; हिपि १३:
१०; कौसू १६, २०.

परि(>)री-तान- -ने हिपि १३:
८.

परि√तप्, परितपति आपश्रौ १, २५,
८; हिश्रौ ११, ३, ४.

॥परीताप्सीव^१ आपश्रौ १६,
२५, २; वैश्रौ १८, १७: ५३;
हिश्रौ ११, ७, ४२.

परितापयेत् काश्रौसं ३२: २०.

परि-तपन->°ना(न-ञ)न्त^३-
-न्तम् आपश्रौ १९, २२, १;
हिश्रौ २२, ४, १६.

परि-तस्(ः) वैश्रौ १, २: ५; १०×४;
हिश्रौ; या ११, २५; पा, पावा
५, ३, ९.

परित-स्वग्-अङ्कित^२- -तम् वैश्रौ
१५, २: ५^०.

परितो-भित्ति^३- -न्ति: वैश्रौ ११,
८: १४.

परि-तस्थिवस्- परि√ष्ट (<स्था)
द्र.

परि√तुष्, परितुष्येत अप २, ३, ३;
३, १, १८.

परितोषयति आप्तिगृ ३, ११,
४: १७; परितोषयेत् अप १९,
३, ७.

a) शांश्रौ. वाधूश्रौ. ऋप्रा. पाठः। b) = प्रदेश-विशेष-, आच्छादन- प्रसू.। वैप १ द्र.। c) सपा.
णहम् <> णाहम् <> हादिकम् इति पाठे.। d) वैप १ द्र.। e) = वृष-। f) पणा इति पंजा.।
g) आपश्रौ. पाठः। h) = कट-। i) = शकटादिक- इति संस्कृतैः टि.। j) पाठे. वैप १, १९३३ i द्र.।
k) नाप. (दास-)। परि-णेया- (वधू-) + तस्येदमीयः अण् प्र.। l) पाठे. वैप १, १९३४ f द्र.।
m) विप.। बस.। n) विप.। सुधुपीयः समासः > तुप्त.। o) सपा. आपश्रौ १२, १, १३
परिचक् इति पाठे.।

परि-तुष्टि- -ष्टये अण् ७२, ४, ७.
 परि-√तद् > परि-त् (ण्ण) ण्णा-
 -ण्णा बौश्रौ ६, ५ : १६; -ण्णाम्
 वैश्रौ १२, ९ : ५.
 परि-√तप्, परितातृपीः बौश्रौ १६,
 २३ : १०१.
 ?परि L, री^३] तोषात्^३ आपश्रौ १०,
 १३, १०; बौश्रौ २८, ९ : १२;
 वैश्रौ २१, १ : ७.
 परि-√त्यज्, परित्यजेत् जैश्रौका १४४.
 परि-त्यक्त- -क्तः विध १५, २५;
 -क्ताः विध ५४, २७; -क्ते अण्
 १९^२, १, ४.
 परि-त्यक्त(व्य)व्या- -व्या सुधप
 ८८:७.
 परि-त्यजत्- -जन् विध ५, १६२.
 परि-त्यज्य वैश्रौ १, १ : २४; वैगृ
 ५, ८ : १; अण्.
 परि-त्याग- -गः वाध २०, ४५.
 परि-त्याज्य, ज्या- -ज्यः वाध १३,
 ४७; -ज्याः वाध १३, ४९; २१,
 १०.
 परि-√त्रै, परित्रायते वाधूश्रौ ४,
 १५ : १०.
 परित्रास्यति वाधूश्रौ ४, १५ : ८.
 परितित्रासते वाधूश्रौ ३, ७९ :
 २०; १७ : ४.
 परि-त्राण- -णम् आपमं २, १७,
 ३१; -णात् शंघ ३७९.
 परि-त्रायमाण- -णः या १, १५.
 परि-√त्वर् > परि-त्वरमाण- -णः
 कौसू ५५, १८१.

?परित्वाहलनोहलनिवृत्तेन्द्रवी-
 रुधः^० पाण् ३, ७, ३.
 परि-√त्सर, परि-अत्सरत् वाधूश्रौ
 ३, १७ : ३१.
 ङपरि-√दद्, परिददेम अप्राय ३, १०;
 ४, १.
 परि-√दह् > परि-दहन- -नम् बौध
 १, ४, ३.
 परि-दाहिन्- पा ३, २, १४२.
 परि-√दा (दाने), परिददाति आपश्रौ
 १६, ५, ३; ११××; बौश्रौ;
 ङपरिददामि आश्रौ १, १२,
 ३६; आपश्रौ; आपमं २, ३,
 १३-२०; २१^१; २२; २३;
 पाण् २, २, २१^{१५}; आश्रिण् १,
 १, ३ : ४५^{१५}; हिण् १, ६, ५^{१५}.
 ङपरि-ददामि आपश्रौ १४,
 २०, ७; बौश्रौ १४, १४:१; माश्रौ;
 परिददत् या ७, ९^{१०}; ङपरि-
 ददात् आश्रिण् ३, ५, ४ : २^{१०};
 बौपि १, ३ : १२^{१०}; ८ : ४^{११}.
 ङपरिददात् आपश्रौ १४, २०,
 ७; कौण् ३, ४, १; २; शाण् ३, ५,
 १; २; जैण् १, ७ : ९; ८ : ६;
 परिदत्ताम् जैण् १, ८ : ७;
 परिददत् जैण् १, ८ : ८^१; ९;
 ङपरिदेहि जैश्रौ १३ : ४;
 आपमं; परि(देहि) भाशि ४३१;
 ङपरिदत्तात् आश्रिण् ३, ६, १ :
 ४; भाशि ११९; १२०; ङपरिदत्^१
 माश्रौ १, ६, ४, २१; वाश्रौ १,
 ५, ५, ७; बौध २, ६, १३;

परिददानि वाण् ७, १२^{११};
 परिददीत् बौश्रौ २०, ६ : ९;
 वाण् ७, १२; परिदद्यात् द्राण्
 २, ४, १६.
 परिददे वृदे ४, ११७.
 परि-दत्त- -त्तः कौण् २, ७, १९^{११};
 -त्ते वैश्रौ १, १४ : १८^१.
 परि-ददान- -नस्य चाश्र ८ : ४.
 परि-दा^१- -दाम् काश्रौ २१, ४,
 २६; वैताश्रौ १४, १; माण् १,
 २३ : १; २५ : ११; २, २८ : १.
 परि-दातवै हिण् १, ४, २^{१६}.
 परि-दान- -नम् बौश्रौ २५, ३१ :
 ४; हिश्रौ १४, १, २९; ३, ३६;
 आण् १, २२, २७; -नात् बौश्रौ
 १५, ८ : १७; आण् २, १, १३;
 -ने बौश्रौ २०, ६ : ९.
 परिदाना(न-अ)न्त^१- -न्तम्
 बौश्रौ २६, ६ : ३; आण् १, २२,
 २२.
 परि, री^३] दाध बौश्रौ २२, ३ : १९;
 २०; २९, ६ : ६; हिश्रौ; आपण्
 १०, १२; माण् १, ८ : ५; हिण्
 १, ७, १०; हिपि २३ : ३.
 परि(>)रीन्त- -न्तः शाण् २, १२,
 २^१; शुप्रा ५, ४५; अण् ३, ४, १.
 परि-√दिव् (=√देव्), परिदेवयां
 √कृ, परिदेवयाञ्चके या १, ५.
 परि-देवन- -ने पावा ३, ३, १५.
 परि-देवना- -ना कण् ३, ३, ७; विध^१
 २०, २८; ४६; ४८; वृदे १, ३५;
 ५०; या ७, ३.

a) वैश्रौ. पाठः। b) पाठः? परि (कण्.), दोषात् इति द्वि-पदः शोषः (तु. काश्रौ २५, ११, २२ [बौसं.],
 ०. व)। c) पाठः? परि लो (त्वा-उ) द्ध्वल्लो (न[अग्ने]उ) द्ध्वल्लन्ति वृत्तानी (नि-इ) ण्डवानि वीरुधः इति
 शोषः संभाव्यते। d) पाठे. वैप १, १२३८ b द्र.। e) पाठे. वैप १, १९३४ w द्र.। f) पाठः? परिदत्तात् इति
 शोषः (तु. सपा. ऋ १०, १६, २ शौ १८, २, ५ तैआ ६, १, ४ आनिण् ३, ६, १४ प्रमृ.)। g) पाठे. वैप १, १९३५ ०
 द्र.। h) सप्र. परिदत्तः <> परीत्तः इति पाठे.। i) पाठः? अपरिः इति संस्कर्ता टि. संभावयति। j) भावे
 अह् प्र.। k) पाठे. वैप १, १९३६ t द्र.। l) विप.। बस.। m) आपण्. पाठः। n) परिदेवना इति Jolly! &

परि√दी ([=√डी] गतौ),
 ऋपरिदी(य>)या माश्रौ ५, ८,
 ५; वैश्रौ १, १२: १८; हिश्रौ
 ३, ४, ३२; शुप्रा ३, १२९, तैप्रा
 ३, १२.

परि√दीप्, परिदीपयेत् अप ३६,
 २९, १.

परि√दंद्, परिदंद्हति माश्रौ ७, ८,
 १५; हिश्रौ ४, २, ५९.
 परिदंद्हयति वाश्रौ १, ६, ३, १७.

परिदंद्हण- णम् हिश्रौ ७, ७, ९.

परि√दृश्, परिदृदर्शं वाधूश्रौ ३,
 २९: ३; ४, २: ४.

परिदृश्यते वाश्रौ ३, २, १९;

परिदृश्यन्ते आपश्रौ १८, १३,

११; हिश्रौ १३, ५, १४.

परिदृक्षेत जैश्रौ १९: १०.

परि√दृ, ऋपरिदृर्षीष्ट आपश्रौ २१,
 १२, ९; वाश्रौ ३, २, ३, ३६.

परि√देव् (=√दिव्) ^a > परि-
 देविन्- पा ३, २, १४२.

परिदेवन्- न्, ना- परिदिव् द्र.

परि√द्रा, परिद्रेद्वाश्रौ १४, २७, १.

परि√द्रु, परिद्ववति हिश्रौ ४, ३, ४१.

परिद्वेषस् ^b -षसः या ५, २३ ऋ०.

परि√घा, परिघते आपश्रौ १३, २२,
 ३; १८, ५, ७××; बौश्रौ; परि-
 दधाति आश्रौ ५, ९, २४; शाश्रौ;
 परिदधाते काश्रौ ५, ५, ३२;
 २२, १, २०; बौश्रौ; परिघत्तः
 आपश्रौ १, १४, १२ऋ; १५, ८,
 १; बौश्रौ; परिदघति शाश्रौ १२,

२, २, ७; ६, १८; परिदघामि
 पाण्य २, २७; माण्य १, २, १२;
 परिदघ्मः अत्र ६, ९९ ऋ०; ऋपरि
 ...दघ्मसि^d आश्रिण्य १, १, २:
 ४५; ४७; ४८; काण्य ४१,
 ७; हिण्य १, ४, ८^{३०}; जैण्य १,
 १२: ५; ८; १०; परि(दघ्मसि)
 ऋजैण्य १, १२: ५; १९: १७;
 ऋपरि...दघत् कौसू ४६, ५५;
 अप १, ३६, ७; परि(दघातु)
 कौण्य ३, ५, ५; काण्य ३, ९, २;
 अप १८^३, १, ६; अत्र ७, ८;
 परिघत्ताम् बौश्रौ १, १३: २३;
 ऋपरिघत्स्व आपमं २, २, ५;
 ७; पाण्य; आश्रिण्य १, १, २:
 ४१^३; हिण्य १, ४, ६; ऋपरिघिहि^३
 आपश्रौ ३, १३, ५; माश्रौ ३,
 १२, ३; हिश्रौ २, ६, ३०; ऋपरि-
 घत्तम् माश्रौ ५, २, ६, १९;
 आश्रिण्य २, ५, १०: ९; ऋपरिघत्त
 आपश्रौ १, १४, १२^३; माश्रौ १,
 ११, १^३; २, ८, ८^३; माश्रौ १, ३,
 ५, २६; हिश्रौ १, ४, १०^३; आपमं
 २, २, ६; पाण्य ३, १, २^३; आश्रिण्य;
 परिदघानि वाण्य ९, ९^३; पयंद्-
 घात् पाण्य २, २, ७^३; ऋपरिघत्स्थाः
 आपश्रौ ३, ७, १२; बौश्रौ १, १९:
 ३३; माश्रौ; परिदघीत् आपश्रौ
 १०, १५, १५; द्राश्रौ; परिदघ्यात्
 आश्रौ २, १६, ७××; शाश्रौ;
 परिदघीयाताम् माश्रौ ५, २,
 २४; परिदघीरन् बौध १, ६, ५.

परिदघे सु २९, ५; ऋपरि...दघे
 आपमं २, २, ११; शाण्य २, १,
 ३०; पाण्य; परिघास्थे^१ पाण्य २,
 ६, २०^३; माण्य १, ९, २७; काण्य
 १२, ३; ऋपरिघिषीय आपश्रौ
 १०, ६, ६; हिश्रौ १०, १, ३८;
 पा ७, ४, ४५; ऋपरि...अधा-
 ताम् कौसू ८१, ४६; ८७, ३;
 ऋपरि...अधिधाः आपमं २, २,
 ८^३; आश्रिण्य १, १, २: ३३^३;
 ५, १: २४^३; काण्य ४१, ७^३;
 बौण्य २, ५, १२^३; माण्य १, ६:
 १^३; १३: ९^३; हिण्य १, ४:
 ३^३; ऋपरि(अधिधाः)^d आश्रिण्य
 १, ६, १: २०; वैण्य २, ५: १३.
 परिधीयते आपश्रौ १४, ४, ५.
 परिधापयति काश्रौ १४, ५, ३;
 १५, ५, ७; बौश्रौ; परिधापयेत्
 बौश्रौ २२, १५: २; अशां २५,
 १; अप ३३, ७, १.
 परिदघत्- -धत् आश्रौ ५, १४,
 २५.
 परिधात्त्वै^३ आपमं २, २, ६;
 आश्रिण्य १, १, २: ३०; ५, १:
 २२; बौण्य २, ५, १२; माण्य १,
 ५: १६; १३: ६.
 परिधान^३ -नम् बौश्रौ १४, ४: ८;
 बौण्य १, ७, १०; अप ३३, ७, १;
 -नस्य शाश्रौ ६, ६, २०; -नात्
 आपश्रौ १०, ६, १०; बौश्रौ १५,
 १७: १६; माश्रौ ५, २, १, १२;
 ६, २, ६, ८; आपमं १, ४, १०;

a) पा ३, २, १४७ परामृष्टः द्र. b) वैप १ द्र. c) वैप १, १९३४ Q, 8 द्र. d) पामे. वैप १,
 १९३६ m द्र. e) 'दघ्मसि इति Old. (Böht L ZDMG ५२, ८१)]। f) परि...दघत्स्व
 इति पाठः? यनि. शोधः (तु. हिण्य.) g) पामे. वैप १, १९३६ i द्र. h) पामे. वैप १, १९३५ C द्र. i) लटि
 उणु १ रूपम् (तु. St.) j) पामे. वैप १, १९३६ p द्र. k) धास्थै इति (जयराम-गदाधरी BW.
 Old. च १ इति) पाठः? यनि. शोधः (तु. भाण्य. वाण्य.) l) एतदतु वैप १ टि. निर्देशः शोधः। l) पामे. शोधश्च वैप
 १, १९३६ p, q द्र. m) पामे. वैप १, १९३६ t द्र. n) आप., नाप.। वैप १ द्र.

आग्निगृ १, ५, ३: ११†; कागृ
२८, ४†; बौगृ २, १, ११†;
भागृ १, १४: १०†; हिगृ १,
१९, ७†; जैगृ १, २०: २७†;
कौसू ५५, ५; -नानि जैगृ १, १२:
५०; -ने बौश्रौ २०, ११: १७;
२३: ३६; २१, ५: १; १६: ४;
२२, १०: १; पावा ३, १, १९;
-नेन बौश्रौ ७, १: ८.
परिधान-प्रभृति- -ति आग्निगृ
१, ७, ३: १८; बौगृ.
परिधाना(न-आ)दि^३- -दि काश्रौ
२५, ११, १७.
परिधाना(न-अ)न्त^३- -न्तम्
हिगृ १, १९, ४; -न्तानि कौसू
५४, १७.
परिधानीय, या^१- -यम् वैश्रौ
२०, २३: ७†; -या आश्रौ २,
१६, ८××; शाश्रौ; -या: शाश्रौ
१३, १०, ६; १५, ८, १८; -याम्
शाश्रौ १, १, २५; ७, २०, १०;
वाश्रौ ३, १, २, २७; २, २, २०;
५, ५६; ३, ३, ३४; ४, १, ३७;
कागृ ३९: ५; -याया: आश्रौ
५, १, १; ६, ३, १८; ५, २०; ७,
१, १२; ९, ६, २; आपश्रौ १४,
९, ३; हिश्रौ १०, ८, ४०; २१, १,
७; द्राश्रौ १५, २, १३; लाश्रौ ५,
१०, १३; -यायाम् आपश्रौ २,
१२, ६; १३, १६, ४; हिश्रौ
९, ४, ४०; -यायै शाश्रौ ७, १०,
५; १४, ६; २१, ८; ८, ७, ९;
९, ६, १७; २०, २८; १८, २१,
३; वैताश्रौ २०, १६.

परि-धापन- -नम् आग्निगृ २, ७,
१: ९.
परिधापना(न-अ)श्ममण्डल-
वर्जम् कौसू ५४, १६.
परिधापनीय^१- -याभ्याम् कौसू
७९, १३.
परि-धापयत्- -यन् बौगृ २, ५, ११.
परि-धाप्य कौगृ १, ७, १; पागृ.
परि-धाप्यमान- -नम् वैताश्रौ १०,
६.
परि-धाय आश्रौ २, १७, १०××;
शाश्रौ; माश्रौ १, ५, १, १२^९.
१परि-धि^१- -धय: आश्रौ ३, १४,
१०; ९, ७, ६; शाश्रौ; -धये
बौश्रौ ८, १२: २६; -†धि: बौश्रौ
१, १३: २१; २२; २४; आपमं
२, १७, ३; शौच २, ७७; मीस्
१२, २, २६; -धिभि: काश्रौ
४, २, ४३; आपश्रौ ७, ५, ६;
१५, ८, १; बौश्रौ ६, १८: ३;
९, ७: १७; माश्रौ; -धिभ्य:
वाश्रौ १, ३, ३, २; -धिम्
काश्रौ २, ८, २; ३, ६, २××;
आपश्रौ; वाश्रौ १, ३, ६, १९†^६;
या २, २६†; -धिषु आपश्रौ
४, १२, ९; १३, १७, १; बौश्रौ;
-धी आपश्रौ ८, १४, ९××;
बौश्रौ; आपमं २, २, ४†^६;
-धीन् शाश्रौ ४, १६, ३; काश्रौ;
-धीनाम् बौश्रौ १५, १७: १६;
२०, ३: ९××; माश्रौ; -धे:
आपश्रौ १२, ११, ३; ४; माश्रौ
२, ३, ३, १९^२; ४, २, ११; वाश्रौ
१, ६, ४, ७; -धौ आश्रौ ९, २, ४;

काश्रौ; -धो: द्राश्रौ १२, ३,
२४; लाश्रौ ४, १०, २७.
परिधि-कर्मन्^१- -र्मं शाश्रौ ४,
१६, १; ११; कौगृ ५, ८, १; १०;
-र्मणि वृद्धे ७, ११.
परिधि-दाह- -हे आग्निगृ २, ७,
९: २३; बौगृ ४, २, ४; भागृ
३, १९: ९.
परिधि-देश- -शे आश्रौ ३, १०,
२४; ६, १२, ५; आपश्रौ १, ५,
२; वाश्रौ.
परिधि-परिधान- -नम् काश्रौ
५, ६, १३.
परिधि-विमोक- -कम् आश्रौ
६, २, ६; १९; वाश्रौ २, २, ५, ६;
वागृ १, ३१.
परिधि-वृत्त- -क्षणात् काश्रौ १,
३, १८; कागृ ४, १८.
परिधि-संधि- -न्धिना आपश्रौ
७, ५, ६; वाश्रौ १, ३, ४, ३; ६,
४, १३; -न्धिम् आपश्रौ २, १२,
७; १३, ११××; बौश्रौ; -धी
माश्रौ १, ३, १, ३१; -धे: माश्रौ
१, ३, ३, १; ७, १, ३९; -धौ
बौगृ १, ३, २७; २८; -धो:
काश्रौ १८, ६, १६.
परिधी(धि-इ)ध्मो(ध्म-उ)क्ति-
-क्तौ वैश्रौ ११, १०: ११.
परिध्य(धि-अ)र्थ- -र्थे आपगृ २,
२.
परि-धित^६- -तम् हिश्रौ ६, २, १५;
-ता: आपश्रौ ११, २, १२; -त्ते
आपश्रौ १४, ४, ६.
परि-धीयमान- -नम् हिश्रौ ६, २,

a) विप.। बस.। b) =ऋग्-विशेष-। c) विप. (कर्मन्-).। d) =मन्त्र-विशेष- (शौ १४, १, ४५; ५३)।

e) पामे. घृ ४९७ a द्र.। f) वैप १ द्र.। g) पा० इति पाठः? यनि. शोचः। h) पाठः (तु. वै १५, ५, ६
श्वे.। वैतु. BKA. °धी इति शोचः।)। परि-दाय (परि√दा ह्यप्र प्र.) इति शोचः। एतदतु वैप १, १९३७ निर्देशो
नेहः। i) =शान्ति-कर्मन्- इति भाष्यम्। j) षस. > षस.। k) तु. पा ७, ४, ४५।

१४; -नान् आपश्रौ ४, ६, ३;
 बौश्रौ ३, १६ : २०; भाश्रौ ४, ९,
 १; हिश्रौ ६, २, १२; -नेषु माश्रौ
 १, ४, १, १६; वाश्रौ १, १, २, २३.
 ?परिधे^a काण्ड ४१, ६१.
 परि-हित, ता- ण्तः आपश्रौ १,
 १४, १२; भाश्रौ १, ११, १;
 हिश्रौ १, ४, १०; -तम् वैश्रौ ५,
 ७ : २; आपण्ड १०, १०; बौण्ड
 २, ५, १२; भाण्ड १, ६ : १; बौध
 १, ६, १४; -तस्व कौस् ६३, १३;
 -ता अश्र १२, ५१; -ताः वैश्रौ
 १४, १३; कौस् २१, १३; -ताम्
 भाण्ड १, १३ : ८; -तासु बौश्रौ ४,
 ७ : ७; १८, २२ : २; -ते आश्रौ ४,
 ६, ३, ५, १, १; ६, ९, १; बौश्रौ १०,
 ५७ : ४; ११, ३ : २ x x; वैश्रौ.
 परिहित-वासस्^b -ससम् काण्ड
 ४१, ७.
 परि/घाव् (गती), परिधावति शाश्रौ
 १२, २४, ५१; अण्ड २०, ७, ८; ३५,
 १, १५; परिधाव ऋषा ८, ४४१;
 परिधावेत् शंघ ७८.
 शपरिधि- परि/घा द्र.
 रपरिधि^c (> पारिधेय- पा.) पाण्ड
 ४, १, १२३.
 परि-धित- परि/घा द्र.
 णपरि/धी, [= घा] परि...धीमहि
 बौश्रौ ३, ९ : ९; परि(धीमहि)आश्रौ
 ५, १३, ६; ८, १२, ७; आपश्रौ.
 परि-धीयमान- प्रघ. परि/घा द्र.
 ?परिध्यापकवर्जित- -ताः काण्ड
 ४० : १६.
 परि/ध्वंस् > परि-ध्वंस्^d -साः

आण्ड २, २, ७०.
 परि-नक्षत्र- -त्रम् बौश्रौ २०, १ : १५.
 परिनट^e - पा, पाण्ड ८, ४, ३९.
 परि/नद् > परि-न(द्)दी^f -
 -दीनाम् आपश्रौ १८, १३, ९^h.
 परि/नन्द > परि-नन्दन- पा, पाण्ड
 ८, ४, ३९.
 परि-नि/घा > परिनि-घाय काश्रौ
 १८, ६, १३.
 परि-नि/नी, परिनिनयेत् काश्रौसं
 ३२ : १३.
 परि-निर्/मा > परिनिर्-मित- -०त
 विध ९८, ११.
 परि-निर्/हन्, णपरिनिर्जहि अण्ड
 २, ५; अण्ड ३७, ५, ३.
 परि-नि/प(<स)द् > परिनि-षघ
 वाधुश्रौ ४, २६ : २८; २९; ३१;
 ३३; ३५.
 परि-नि/घ्रा (<स्था) > परिनि-
 घ्राय बौश्रौ २०, ८ : ३७; १६ :
 ५९; २४, १५ : १२; १७ : १५.
 परिनि-घ्राय निसू ४, २ : २५.
 परिनि-ष्ठित- -ते बौश्रौप्र ५४ : ६.
 परिनिष्ठित-कर्मन्^g -साणः वृदे
 ३, ८४.
 परि-निसू/स्था, परिनिस्तिष्ठेत् बौश्रौ
 २०, ४ : १९; २०; १० : १३ x x.
 परि-नि/हन्, परिनिहन्ति वैश्रौ १८,
 १७ : ५२.
 णपरि/नृत्, परिनृत्यति अण्ड ३ : ३०;
 परि(नृत्यति) अश्र ४, ३८;
 परिनृत्यन्तिⁱ आपश्रौ २१, १९,
 १८; बौश्रौ १६, २२ : ८;
 (परि)नृत्यन्ति तैषा ७, १६.

परि-नर्तन- पाण्ड ८, ४, ३९.
 परि-नृत्य(त्) > न्ती- -न्ती^j
 हिश्रौ १६, ६, ३९.
 परि-न्य(नि/अ)स्(क्षिपणे) > परिन्य-
 स्य बौश्रौ ४, ४ : ३५; ६, २७ : १०.
 परि/पच् > परि-पाक- -कः अण्ड २३,
 १२, २.
 परि/पद् > परि-पाटि^k -टिम् मैअ
 ५.
 परि/पद् परिपद्भवे अण्ड २३, ३, १;
 ५, ५; बौध १, ४, २.
 परि/पत्, णपरिपातय आपमं १, ९,
 १०; हिण्ड १, १८, ५.
 णपरि-पति^l -न्ते बौश्रौ ६, १९ : १;
 माश्रौ २, १, २; वाधुश्रौ ४, ५४ :
 ३; वैताश्रौ १३, १६; -तिः वाधुश्रौ
 ४, ५४ : ४४; चाश्र २ : ११; -तिम्
 आश्रौ ३, ७, ८; बौण्ड ४, ११;
 शुअ ४, २६; या १२, १८^l.
 परि/पद्, परिपादयन्ति ऋषा १४,
 ३७; परिपादयै निसू ३, २ : २.
 परि-पत्र^m -न्नम् ऋषा ४, १५;
 १५, १२.
 परिपन्ना(न्न-अ)पवाद- -दः
 ऋषा ४, २३.
 परिपन्नो(न्न-उ)पधा- -धा ऋषा
 ५, २५.
 परि/पन्थⁿ (बाधायाम्) > परि-
 पन्थिन्^o - पा ५, २, ८९; -न्थि
 अण्ड १, ४८, ५१; -णन्थिनः बौश्रौ
 ६, १६ : ६; आपमं १, ६, १०^m;
 आण्ड; कौण्ड १, ९, १०^m; काण्ड
 २५-२६, ५^m; -न्थिनम् आश्रौ
 ५, ३, २२ⁿ.

a) शोधः वृ ५५१६ h द्र. । b) विप. । बस. । c) व्यप. । व्यु. ? । d) विप. > नाप. । उप.
 कर्तारि कृत. । e) सपा. हिध २, १, २९ वर्षपरिध्वंसाः इति पाभे. । f) तु. पागम. । g) = २ अण्ड- । h) सपा.
 हिश्रौ १३, ५, १४ सवन्वीनाम् इति पाभे. । i) सपा. णन्ति <> णन्तीः इति पाभे. । j) = परम्परा- । उप. भाप. ।
 k) वैप १ द्र. । l) = संज्ञा-विशेष- । m) पाभे. वैप १, १९३८ ० द्र. ।

परिपन्थि-नाश(न >)नी ^० - नी अत्र १४, २.	परि-पाण ^० - णम् अप ४६, ५, १; अत्र ४, ९.	परिपूर्ण-मरीचि-जाल ^० - लः अत्र २४, ६, ३.
परि-पन्थ ^b > परिपन्थिक- पा ४, ४, ३६.	परि-पाद् - पागवा ६, २, १८४.	परि/प्लु (L < √प्लु ^० *हिंसायाम्) > परि-परिन् ^० - पा ५, २, ८९; -री बौश्रौ ६, १६ : ६†.
परि/पश्, परिपरयते बौश्रौ १७, ४२ : ६; परिपश्यति आग्निगृ १, ३, ५ : ७†; परिपश्यन्ति बौश्रौ १५, २९ : १६†; हिश्रौ ९, ४, १०; परिपरयत्यत्र आपश्रौ ५, २, ४; बौश्रौ १३, ३२ : ९; ङनाश्रुश्रौ ४, ३० : ५; १०९ : ४; वाश्रौ १, ४, २, २; वैश्रौ १, ७ : ९; या १०, १२; परिपरयत्यत्र वाश्रुश्रौ ४, १९ : १३; १६; २० × ४; परि- पश्येत् आपश्रौ १३, १४, ३; बौश्रौ ८, १४ : १०†; भाश्रौ.	परि/पालि (<पाल-), परिपालय भाग् २, ३१ : ८; परिपालयेत् विध ३, ६५.	परि-प्र-ऋषी (पि-इ)न्द्रा (न्द्र-आ)दि- -दिषु ऋषा ५, ४३.
परि-पश्यत्यत्र - श्यतः बौश्रौ १७, ४२ : ६; भाग् २, २२ : ८.	परि-पालय आग्निगृ ३, ९, ३ : १६; बौपि २, ७, १५; बौध १, १०, १६.	परि-प्र/गा, परिप्रागात् आपश्रौ १६, ६, ७; वैश्रौ १८, ४ : ९; हिश्रौ ११, १, ७३; अप ३९, १, ३.
परि-पश(व्य >)व्या ^० - व्ये काश्रौ २०, ६, ११; पाग् ३, ११, ३.	परि/पू, परि (पुनन्ति) क्षुस् २, ४ : १४; ५ : १३; सात्र १, ५५२; २, ६७९.	परि-प्र/गृह्, परिप्रगृह्णाति आपश्रौ १२, २६, १६; माश्रौ १, ३, ३, ९.
परि/पा (रक्षणे), परिपासति ^d आग्निगृ ३, ५, ४ : १७; बौपि १, ३ : २६; परिपातु बौश्रौ १३, ४२ : ११; अप १, ३७, ४; ३२, १, ११; अशां ७, ४; १८, २; या ९, १५; परि ^e पातु ^० अप्राय २, ५; अप ३७, ५, ६; परि (पातु) अत्र १९, ३५ ^० ; परिपातु आगृ २, ४, १४; पागृ ३, ३, ६; भागृ २, ८, ६ ^३ ; परिपाहि पागृ २, ६, ३१ ^३ ; कौसू ११४, २; १२८, २; अप ३७, १, ५ ^३ ; परि (पाहि) अत्र २, ७ ^३ †; परिपातम् अप्राय ६, ११†.	परि-पवन ^१ - नम् या ४, ८; -नेन या ४, ९†.	परि-प्र/धन्व्, परिप्रधन्व लुस् १, ५ : २; १०; ६ : १; ८; ९ : १४; १० : ११; परि ^e प्रधन्व, > न्वा आपश्रौ १६, १८, ७; वैश्रौ १८, १६ : १; हिश्रौ ११, ६, २९; ऋषा ८, १४; परि (प्रधन्व) ऋष २, ९, ११०; सात्र १, ४२८; २, ७१४; उनिस् ५ : ७.
परि-पूर्व ^१ - र्वः अप्रा ३, १, ७; - र्वम् दंवि २, १०†; - र्वे उस् ६, ३.	परि-पु- (त >)ता- - ताभिः शंघ ५६.	परि-प्र/स्यन्द, परिप्रस्यन्दते बौश्रौ २८, १ : २०; २ : २६; वैश्रौ २०, ३३ : ११.
परि/पृच्छ, परिपृच्छति कौगृ २, ७, ११; अप २५, १, १; २९, १, १; ३०, १, १; ७० ^३ , २२, १; आश्रयो १, १; परिपृच्छत अप ३१, ४, १; ७० ^३ , १, १; परिपृच्छेत् आगृ १, २३, २१; भागृ १, ११ : ८.	परि-पृच्छक- -कः काश्रु ७, ३.	परि-प्रो (प्र/उ)क्ष्, परिप्रोक्षेत् भागृ २, ५ : ३.
परि/पृष्ट- -ष्टः अप १९ ^३ , १, २; ६६, १, ३.	परि-पृच्छक- -कः काश्रु ७, ३.	परि/प्लु, परिप्लवते भाश्रौ १६, २, ३६; परिप्लवेत् कागृ १, २३.
परि/पृ, परिपूरयेत् अप १०, १, १२.	परि-पूरित- -ते अप १८, १, ६.	परिप्लवयति भाश्रौ २, ३, ४, ४; १०; वैश्रौ; परिप्लवयन्ति बौश्रौ ७, ६ : ८.
परि-पूर्ण, णां- -णाः वैगृ १, ७ : १२; - णाय कौसू १२२, २†.	परि-पूर्ण, णां- -णाः वैगृ १, ७ : १२; - णाय कौसू १२२, २†.	परि-प्लव ^m - पाग ५, ४, ३८ ^३ ; -वे बौश्रौ ६, ६ : २४; -वेभ्यः बौगृ २, ८, ३३†.

a) पथना^० इति पाठः? यनि. श्लोघः । b) अस. वा तस. वेति नागेशः । c) वैप २, ३खं. द्र. ।

d) पामे. वैप १, १९३९ b द्र. । e) पामे. वैप १, १९३९ B द्र. । f) पामे. वैप १, १९९० r द्र. । g) वैप १
द्र. । h) विप. । प्रास. । i) = चालनी- । उप. करणे प्र. । j) विप. । बस. । k) विप. । बस. > षस. ।
l) पामे. वैप १, १९३९ n द्र. । m) विप. , नाप. । वैप १ द्र. । n) = चञ्चल- इति पागम. ।

परिप्लवा^a - वया आपश्चौ
१२, १८, ५; ११; २०, २०^३;
माश्रौ; -चा हिश्रौ ८, १, ३४;
-वाम् काश्रौ ९, २, १५; आपश्चौ
१२, २, ७; माश्रौ २, ३, १, १८;
४, २, ३; वैश्रौ १५, २: १४;
हिश्रौ ८, १, ३१; -वायाम् काश्रौ
९, २, १७.

पारिप्लव^b - पा ५, ४, ३८^c; -वम्
आश्रौ १०, ६, १०; शांश्रौ १६,
१, २२; २, ३६; काश्रौ २०, २,
२२; आपश्चौ २०, ६, ७; काठश्रौ
११७; वाश्रौ ३, ४, १, ३५^d;
हिश्रौ १४, २, १५; १८; लाश्रौ
९, ९, १०; -वे हिश्रौ १४, २,
१६; -वेन काठश्रौ १२८.

पारिप्लवा (व-आ) ख्यान-
-नाय वैताश्रौ ३६, २२.

पारिप्लवा (व-अर्थ) > र्था^e-
-र्था: हिश्रौ १, १, २०.

पारिप्लवीय- -यै: शांश्रौ १६,
१०, १३.

परि-प्लावयत्- -यन् आपश्चौ १२,
९, ८.

परि-प्लावित- -तानाम् शेष १७६.

परि-प्लान्य वाश्रौ १, ६, ७, ५; आपश्चौ.

परि-प्लु^f- -प्लु बौश्रौ ७, ७: २३;
८, २: ४; -प्लुना बौश्रौ ७, ८:
१९; १२: १८xx; वैश्रौ.

परि-प्लुत्य वैश्रौ २१, १६: ८.

परि√वन् > बन्, परिबेधिरे दंवि
२, ४^g.

परिवध्व^h- -व: अपं १: १.

परि√वाध्, परिबाधते आमिष्ट १, ५,
२: ४; बौग १, ३, ३७;
परिबाधन्ते हिश्रौ ८, ४, ५१;
ऋपरि (बाधस्व) काश्रौ ७, ९, १;
शुत्र १, २८२; परिबाध आमिष्ट
१, ५, २: ५; परिबाधेत् आपश्चौ
१२, १७, १०^h; माश्रौ २, ३, ६,
११.

ऋपरि-बाधमान, ना- -न: या ९,
१५ⁱ; -ना आपमं २, २, ९;
कौग.

परि√बृह्, बृह् > परि-बर्हण- -णात्
या ७, १२; ८, ८.

परि-बर्हणा- -णा या ६, १८.

परि-बृंहित- -त्त: -तम् वृदे ३, ५.

परि-बृह- -ढम् वाधूश्रौ ४, ७०: १६

परि√ब्रू, परिब्रूयात् वैश्रौ २१, ६:
९; हिश्रौ १५, ५, २४; अप्राय
६, ६.

परि-भक्ष^j- -क्षम् आपश्चौ १४, ३१,
९; द्राश्रौ ७, २, १; लाश्रौ ३,
२, १^k.

१परिभव^l- -व: बौश्रौ २३: २.

परि-भारड^m- -ण्डम् आपध २, १४,
८; दिध २, ३, १९.

परि√भाष्, परिभाष्यते अत्र १, ३;
३२.

परि-भाषा- -षा पावा १, ३, ११;
-षाया: पावा १, १, ६९.

पारिभाषिकⁿ- -क: कप्र ३, ७,
७; -कम् अत्र १, ३२; ५, ७;

११, २.

परि-भाषित- -तम् शुत्र ४, १६०.
परि-भाष्य वाध १३, ४९.

परि√भी > परि-भय- -ये या १,
१०.

परिभया(य-अ)र्थे- -र्थे या ९,
३०.

परि√भुज्, परिभुज तैत्रा १४, ८^o.
परि-भुक्त- -क्तानि बौग १, ८, ९.

परि-भोजन- > ष्नीय- -यम् वैश्रौ
३, ४: १७; -यान् वैश्रौ ५, ९:
७; -यानि बौश्रौ १, २: २४;

परि√भू^p, परिभवन्ति या १४, २१^q;
ऋपरि...भवन्तु बौश्रौ ६, २७:
२१; आपमं १, २, ६; आमिष्ट
१, २, ३: ९; ऋपरि(भवन्तु)
आश्रौ ४, ६, ३; ९, ६; शांश्रौ ५,
९, १२; १३, १०; काश्रौ;

पर्यभवत् या १०, १०; परि...
भवन्तु बौश्रौ १४, १२: ३१^r;
परिभवेत् भाग २, ६: १४.

परिबभूव या १०, ४३; ऋपरि
...बभूव बौश्रौ १, २१: २५^s;
१८, ४१: ३; आमिष्ट^t १,
५, ४: १३; ३, २, २: १०;
जैग १, ४: १४^u; या १०, ४३^v.

२परि-भव- पा ३, ३, ५५; -वम्
भाग २, ३१: १०^w.

परि-भविन्- पा ३, २, १५७; पाग
३, १, १३४.

परि-भाव- पा ३, ३, ५५.

परि-भाविन्- पाग ३, १, १३४.

a) = (द्रोणकलशात् सोमग्रहणार्था-) दर्वी- (तु. विद्याधर: [काश्रौ.] । b) = ?शस्त्र-, आख्यान- प्रष्टु.

वैप २, ३३. द्र. । c) स्वार्थे षण् प्र. । d) परि^o इति पाठः? यनि. शोषः । e) विप. । बस. । f) = परिप्लवा- ।

उप. डु: प्र. उंसं. (पाठ १, ३६) । g) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । h) = स्वाभिर् बर्जयित्वाऽन्यदीययागे सोमभक्षण-

उपचारात् तन्निमित्त-प्रायश्चित्त- । सुप्लुपीयः समासः । i) अपरि^o इति अग्निस्वामी? (तु. C [आपश्चौ.] ।

j) = एहोपकरण- । भारखेन परिगृहीत- इति प्राप्त. । k) तान्नभविकष् ठक् प्र. । l) वैप १ द्र. । m) पाप्मे.

वैप १, १३४३ ग द्र. ।

परि-भू^० -भुवः या १४, २१;
 -भूः आश्रौ १, ३, ६; शांश्रौ १,
 ४, २१; आपश्रौ.
 परि-भू-तम- -मस्^b आपश्रौ १६,
 ३५, ५; वाश्रौ २, १, ८, १६;
 हिश्रौ ११, ८, २३.
 परि-भूत- -न्तः अप ७, १, २; -तम्
 भाग्य २, ३१; १२१; -तानि
 शंघ २३०.
 परि-भूषित- -तम् अप १८, १, ६.
 परि√भृ, परि(भरत) ऋञ्ज २, १,
 ५२; साञ्ज १, ४९६.
 परि√भ्रंश् > परि-भ्रष्ट- -ष्टः अप
 ४२, २, १३.
 परि√भ्रम्, परिभ्रामथेत् अप ७,
 १, ८; १८, ५, १.
 परि-मण्डल, ला^० - पा ६, २, १८२;
 पाग ५, १, १२४; -लः हिश्रौ
 १२, ८, ८; १५; वाग्य ५, २८;
 बौशु १८: ८; हिशु ४, ३१;
 -लम् काश्रौ १६, ५, १; आपश्रौ
 १५, १४, ९; १६, १४, १^५ × ×;
 बौश्रौ; -ला आपशु ७, ३; बौशु
 ७: ६; हिशु २, ५१; -ला:
 आपश्रौ १७, २१, ५; १९, ११,
 ६; बौश्रौ; -लान् वैश्रौ १४,
 १२: ४; हिश्रौ ७, ७, २७;
 -लानि हिश्रौ १२, ८, ९; कौसु;
 -लाभ्याम् काश्रौ १६, ५, ३;
 -लाम् आपश्रौ १६, ४, ७;
 काश्रौ २८; बौश्रौ; -लान्याम्

बौशु ७: ११; -ले काश्रौ १३,
 ३, ९; २६, १, २१; आपश्रौ.
 पारिमाण्डलय- पा ५, १, १२४.
 परि√मद् > परि-माद्^० - मादः
 द्राश्रौ १०, १, १; लाश्रौ ३, ९,
 १; निसू १, १३: ३.
 परि-माद्^० - दान् शांश्रौ १७,
 १२, ४.
 परि-मर्शन- परि√मृश द्र.
 परि√मा (माने), परिमिमीते आपश्रौ
 ७, ३, १२; बौश्रौ ४, २: ६; २६;
 भाश्रौ; परिमिमीत बौश्रौ २०,
 २६: ८.
 परि-ममे आपश्रौ १६, ११,
 १२; वैश्रौ १८, १०: ६; हिश्रौ
 ११, ४, १२; निसू ३, ९: ४०^१.
 परिमापथेत् भाग्य २, ४: १३.
 परि, री^०]-माण- -णम् काश्रौ १,
 ३, १३; आपग्य १, १९; अप्राय;
 पा ५, १, ५७; -णस्य वृद्धे ५,
 १५४; पा ७, ३, २६; -णात्
 तैप्रा २३, २; पा ४, ३, १५६;
 पावा ४, ३, १५४; -णे काश्रौ
 २२, १, १६; बौश्रौ २०, २६: ७;
 शुप्रा २, २८; पा ३, २, ३३;
 ३, ६६; ४, ३, १५३; ५, २, ३९;
 -णेन आपध १, ३०, २; -णेषु
 हिश्रौ २१, २, ६.
 परिमाण-ग्रहण- -णम् पावा १,
 ३, १.
 परिमाण-ञ्ज- -ञ्जः काशु ७, ३.
 परिमाण-तस्रः(ः) मीसू १, २, १७.
 परिमाण-विरोध- -धात् मीसू
 ११, १, ६२.
 परिमाण-विहार- -रान् बौशु १: १.

परिमाण-शब्द- -ब्दानाम् पावा
 ५, २, ४५.
 परिमाण-शास्त्र- -स्त्रम् मीसू
 १०, ५, २१.
 परिमाणा (ए-आ) ख्या-
 -ख्यायाम् पा ३, ३, २०; पावा
 ३, ३, ३६.
 परिमाणा(ए-अ)न्त- -न्तस्य पा
 ७, ३, १७; पावा ७, ३, १५
 परिमाणा(ए-अ)भाव- -वात्
 बौशु ६: १७.
 परिमाणा(ए-अ)र्थे- -र्थम् अपं
 ३: ३; पावा १, ४, १३ × ×.
 परिमाणा(ए-आ) ह्वान- -न्म्
 द्राश्रौ १, ४, २८; लाश्रौ १, ४, २३.
 परिमाणित्- -गिना पा २, २,
 ५; पावा २, १, ५१; -गिनि
 पावा ५, १, ५८: ५९.
 परि-माय माश्रौ ५, २, १२, ५.
 परि-माय्य- -य्यम् सु १५, १.
 परि-मित, ता- -न्तम् काग्य ४, ९;
 -ता या १३, ९^१; -तः आश्रौ
 १०, ५, १६; आपश्रौ १, ५, ५;
 भाश्रौ; -तानाम् आश्रौ १०, ५,
 १६; -तानि बौध २, १०, ६६^३ ^१;
 या १३, ९; -ते शांश्रौ ४, १५,
 ८^१; हिश्रौ १०, ३, २.
 परिमित-काल^१ - -लम् अप ७२,
 ४, ७.
 परिमित-शस्य^१ - -स्यः आश्रौ
 ५, १५, १५; शांश्रौ ७, २१, ७.
 परि-मार्जन- प्रसू. परि√मृज् द्र.
 परि√मि (प्रक्षेपणे), परिमिनोति
 आपश्रौ ११, ७, ७; परिमिनुयात्
 हिश्रौ ११, ६, ५९.

a) वैप १ द्र.। b) पामे. वैप १, १९४१ k द्र.। c) प्रास. वा बस. वा। d) वा. क्वि.।
 e) वैप २, ३ खं. द्र.। f) वैप १, १९४२ g द्र.। g) आपग्य. आपध. तैप्रा. पाठः। h) नाप.। अर्थः ? = स्वशान-
 इति भाष्यम्। i) विप.। बस.। j) उप. < √ संस्।

परि-मित्य आश्रौ ७,४,२.
 परि-मित- प्रभु. परि√मा द्र.
 परि√मिश्रि (< मिश्र-) > परि-
 मिश्रि(त >)ता- ता काशु
 ७,१४.
 परि√मिह् > ऋपरि-मीढ- -ढः^२ पाठ
 ३,७, २^३; भाग २, २७:१६^२;
 हिण् १,१४,२^३.
 परि-मुख- पावाप ४,३,५८.
 परिमुखिक- पा ४,४,२९.
 परिमुख्य- पावा ४,३,५८.
 परि√मुच्, परिमुच्यन्ते कौसू १३९,
 २८; परिमुच्ये सु १०,४.
 परि-मु(क्त>)क्ता- क्तायाम् भाग
 १,२५: १५.
 परि-मोक्ष- -क्षः माशि १५, ६;
 नाशि २, ८, १०; -क्षम् कौसू
 १३९,२८; आपध २,२१, १२;
 हिघ २,५,१२१.
 परि√मुष् > परि-मोष- -षः बौश्रौ
 १७,५०: २.
 परि-मोषण- -णम् आपध २, २८,
 ११; हिघ, २,६,१११.
 परि√मुह^b, परिमोहयन्ति कौसू १३५,
 ९.
 परि-मोहिन्- पा ३,२,१४२.
 परि√मु > परि-मु(र्णो >)र्णी- -र्णी
 काश्रौ १५,३,२०.
 परि√मुञ्, परिमाष्टि माश्रौ १, २,
 ३,२३; ६,१,९; ४,१, २८; २,
 १४; वाश्रौ; परिमृजित वाग ५,
 ३३; ३५; गोय; परिमृज्यात्
 माश्रौ ३,१, २; वाध १२, १५;
 विघ ७१, ३८; गौध १, ३९;
 परि...मृज्युः वाधूश्रौ ३, ९:

१०;११; १३.
 परिमृजति आग्निग २, ६, १:
 १३;१४; परि...मृजन्ति वाधूश्रौ
 ३, ९: १२; परिमृजामि वैग
 १, ९:११; १३-१५; परि...
 परिमृजामि आपमं २, ६, १;
 परि(परिमृजामि)आपठ ११, २२;
 परिमृजेत् बौश्र १, २, ३२; ४२;
 वाग.
 परि-मार्जन- -नम् वाश्रौ ३, ३, ७,
 ६४; हिश्रौ ८, ४, १३; शंघ;
 -नात् शंघ ४५७: ९.
 परिमार्जन-द्रव्य- -व्याणि बौध
 १, ६, ३६.
 परिमार्जन-प्रदाह-तक्षण-निर्णे-
 जन- -नानि गौध १, ३१.
 परिमार्जन-प्रभृति- -ति काश्रौ
 १२, ६, २५.
 परि-मार्ज्यं जैग २, ६: ३.
 परि-मृजान- -नः हिघ २,१,१०१^d;
 परि-मृज्य आश्रौ ८,१४,१४; काश्रौ
 २, ४, २७; आपश्रौ; या ७, २३;
 परिमृज्यऽपरिमृज्य काश्रौ ९, ५,
 २३.
 परि-मृष्ट- -ष्टम् आपध १,१७,११;
 हिघ १,५,४३; -ष्टानाम् बौध
 १, ६, ३५; -ष्टे कौसू ७३,९.
 परि√मृश, परिमृशति बौश्रौ ४, ४:
 २६^१; भाश्रौ ७, ८, ६; वैश्रौ;
 परिमृशेत् बौश्रौ २१, १४: २४;
 २६.
 परिमाश्रुः ऋग्रा ९, २६^१.
 परि-मर्शन- -नेन वाधूश्रौ ३, १०६:
 ४.
 परि-मृशत्- -शन् भाश्रौ ७, ८, ५.

परि-मृश्य काश्रौ ६,३, ५; वैग २,
 १६: ३.
 परि√मृष् पा १,३,८२.
 परि-मोक्ष- परि√मुच द्र.
 परि-मोष-^०षण- परि√मुष् द्र.
 परि√यज्, परियजति काश्रौ १०, ६,
 ८; आपश्रौ १३, १३, २०; बौश्रौ
 ८,१४:८; वाधूश्रौ ३, १३:१७;
 परियजन्ति आश्रौ ५, १९, २;
 परियजेत् लाश्रौ ८, ११, १२;
 ९, ४, १; २.
 परियक्षसि बौश्रौ ८, १४: १^१;
 परियक्षसी ३ बौश्रौ ८, १४: २^१.
 परि-यष्ट^०- -ष्टुः बौश्रौ २७, ५: ९.
 परि(रि-इ)ष्ट- -ष्टः बौश्रौ १८, ५: १;
 १७; २६; वैश्रौ २०, २६:
 ९; -ष्टस्य बौश्रौ २७, ५: ९^f;
 परि-यज्ञ^०- -ज्ञः काश्रौ २२, १०, ९;
 १२; १५; -ज्ञम् वैताश्रौ २७,
 १७; -ज्ञाः काश्रौ १४, १, ९.
 परि√यत् > परि-यत्- -त्तः बौश्रौ
 १३, १२: ६.
 परि-यत्- परि(रि/इ) द्र.
 परि√या, परियाति आपश्रौ १४,
 १२, १^१^b; हिश्रौ १०, ६, ९^१^b;
 कौसू १६, ४; ऋपरि...याति
 आपश्रौ १६, ६, ७; वाश्रौ २, १,
 ५, २०; हिश्रौ ११, १, ७३;
 परि(याति) वैश्रौ १८, ४:
 ८^१; ऋपरियाहि द्राश्रौ १०, २, ८;
 लाश्रौ ३, १०, ७; परि...यातम्
 या ३, २०^१; परियायुः द्राश्रौ
 १०, २, ४; लाश्रौ ३, १०, ४.
 परि-या(त् >)न्ती- -न्तीः वैताश्रौ
 ३४, ९.

a) सपा. आपमं २, २२, ६^२ परिषीतः इति पाठे. । b) पा १, ३, ८९ परामृष्टः द्र. । c) वैप २, ३ खं. द्र. ।

d) सपा. आपध २, ५, १९ परीवृजानः इति पाठे. । e) =(सति ज्येष्ठे सोम-याजिन्-) कनिष्ठ-भ्रातृ- । f) =[परि-
 यष्टुर् ज्येष्ठ-भ्रातृ- । g) =[प्रधानयज्ञायन्तभाविन्-] यज्ञ-विशेष- । प्रास. । h) पाठे. वैप १, १९५३ d द्र. ।

परि-याय बौधौ १८, १० : २२ ;
१७ : २७.
परि√यु > परि-युत- -तः या २, ८.
परि√युज् > परि, लि-योग-
पावाग ८, २, १८^०.
परि√रत्न, पर्यरक्षत् या १०, १०.
परि-रक्षित- (> ०तिन्- पा.) पाग
५, २, ८८.
परि√रट् > परि-राटक- पा ३, २,
१४६.
परि-रादिन्- पा ३, २, १४२.
परि-रथ^०- (> परि-रथ्य- पावा.)
पावाग ४, ३, ५८.
परि√रम् पा १, ३, ८३.
परि√राप्^b > परि-राप्^०- -रापः
ऋप्रा ९, ४८^०.
परि√रिद्ध (=√लिद्), परिरेरिहस्व
कागृ ४१, ११^०.
परि√रुज् > परि-(रुजत्-जन्) अत्र
१६, १^०.
परिलि^०- (> पारिलि- पा.) पाग ४,
१, ११२.
परि√रिख्, परिलिखति काश्रौ ६,
२, ८; ७, ६, १७; १६, २, २३;
आपश्रौ; परिलिखत् काठश्रौ
९२; बौधौ.
परि-लिखत्- खतः बौधौ २६,
२४ : ४; -खन् बौधौ २०,
२६ : २.
परि-लिखित, ता- -त्म् आपश्रौ
७, ४, २; १०, २३, २; ११, ११,
२; बौधौ; -ताः आपश्रौ ७,
४, २; १०, २३, २; ११, ११, २;
बौधौ; -ते वाध १३, १२.
परि-लिख्य काश्रौ ८, ८, ११; आपश्रौ.

परि-लिख्यमान- -नम् वैताश्रौ २८,
८.
परि-लेखन- -नः आपश्रौ ७, ९, ७;
१४, ५, १६; हिश्रौ ९, ८, १०;
-नम् बौधौ २०, २६ : १० × ×;
हिश्रौ ७, ६, २; ७, ४; -नात्
काश्रौ ८, ५, १; -ने बौधौ २०,
२ : २४; २६ : १ × ×.
परि√लिप्, म्प, परिलिम्पेत् बौधौ
२०, १६ : ५६.
परिलेपयति बौधौ २, १६ : ६;
१०, १९ : १५.
परि-लिस- -से कौस् ७३, ९^०.
परि-लिप्य बौधौ २३, ८ : १२;
१३ × ×; वैश्रौ.
परि-लेपन- -ने बौधौ २०, १६ :
५५.
परि√लुप्, परिलुप्यते हिश्रौ २, ७,
६८; ऋप्रा २, ११; परिलुप्येरन्
मीस् १२, ४, २९.
परि-लुप्त- > ०प्त-कृत्य^d- -त्याय
वाध २, ४३; बौध १, ५,
८१.
परिवंश- (> ०शक- पा.) पाग ४, २,
८०.
परि√वच् > परि-वाचन- > ०ना-
(न-अर्थे- -र्थानि निस् ६, ९ :
४.
पर्यु(रि-उक्त >) क्ता- -क्ता अत्र ४,
११^०.
परि-व(त्) > ती^०- -त्यः निस् २, ११;
१५; -त्या निस् ८, ६ : ३०.
परि-वत्सर^b- पाउभो २, ३, ७०; -रः
आपश्रौ १७, १३, २^०; १९, १२,
२३; बौधौ; -रम् वैश्र ५, ७ : ५६;

-राः आपश्रौ ८, २१, १, बौधौ
५, १८ : २०; माश्रौ १, ७, ८, ८;
वाश्रौ १, ७, ५, ४; हिश्रौ ५, ६,
४; -राय माश्रौ १, ६, ४, २१;
वाश्रौ १, ५, ५, ७; वैताश्रौ; -रे
आपश्रौ १६, ३१, १; वैश्रौ १८,
२० : ४९; हिश्रौ ११, ८, ४;
निस् ५, १२ : १९; -रेभ्यः वैश्र
२, १२ : ११.
परिवत्सरा(र-अ)न्त- -न्ते वैश्र ५,
१५ : ११.
परिवत्सरीण, ण^b- पा ५, १, ९२;
-ण^० आपमं २, २०, ३४;
आग्निगृ ३, २, २ : ५^०; मागृ २,
१५ : ७; हिगृ २, १४, ४^०;
-ण^० आपश्रौ ८, ७, ८; बौधौ
५, ९ : ३३; १४, ३० : ३; माश्रौ.
परिवत्सरीय, या- पा ५, १, ९२;
-यम् मागृ २, ८, ४^०; -य^०या
माश्रौ १, ६, ४, २१; वाश्रौ १,
५, ५, ७; -याम् माश्रौ १, ७,
४, ४९^०.
परि√वद्, ङपरिवदन्ति आपश्रौ
२१, ११, १३; हिश्रौ १६, ४, ३३;
द्राश्रौ ९, ४, १६; परिवदेयुः
हिश्रौ १६, ४, ३५.
परि, रो^०-वाद्- -द्ः बौधौ १८, ३४ :
२१; -दम् आपमं १, १३,
५; बौगृ ४, २, ११; मागृ
२, ३१ : १० अप १, २६, ४;
बौधः; -दान् आपध १, ३१, ८;
हिघ १, ८, २६.
परि-वादक- पा ३, २, १४६.
परि-वादित- (> ०तिन्- पा.) पाग
५, २, ८८.

a) तु. पागम. b) वैप १ द्र. c) व्यप. । व्यु. ? । d) विप. । बस. । e) = ऋच्- । f) पाभे. वैप १, १९४४ d द्र. । g) पाभे. वैप १, १९४४ g द्र. । h) शोषः वैप १, १९४४ g द्र. । १) पाभे. वैप २, ३४. तैत्रा १, ४, १०, २ टि. द्र. । j) आपमं. आपध. हिघ. पाठः । k) पाभे. वैप १, १९४४ j द्र. ।

परिवंद्यतायाः^a वाश्रौ ३, ३, १, ३६.
 परि✓वप्, परि...वपते बौश्रौ ५, ४:
 २५, ९; २६××; परिवपति माश्रौ
 २, ३, ४, १८; वाश्रौ १, ६, ३, १६;
 वैश्रौ १८, १२: ११; परिवप
 पागृ २, १, २०; कौस् ५४, १.
 परि [री^{२०}] -वाप- पागृ ४, २,
 ८०^{२०}; -पः आश्रौ १२, ८,
 ३३^१; आपश्रौ १२, ४, १३^१;
 काठश्रौ ११३; वैताश्रौ १६,
 १७; शुप्रा ३, १२९^१; -पस्
 आपश्रौ १२, ४, ६; बौश्रौ ७,
 १२: ४; २५, २०: ४; -पस्य
 बौश्रौ ७, १२: ९; वैश्रौ १५,
 २५: २; -पात् माश्रौ २, ४, ६,
 २६^१; -पाय माश्रौ २, ३, २,
 २; ७, ८.
 परिवाप-मिश्र^d -अस्य शाश्रौ
 ८, २, १३.
 परिवाप-लाज- -जान् वैश्रौ १५,
 ४: ६; हिश्रौ ८, १, ५०.
 परिवापिक्- -पिन्- पा ४, २,
 ८०.
 परिवा(प्य>)प्या^e -प्यायै
 काश्रौ ८, ९, २५.
 परि-वापण[ल, न] -नम् माश्रौ १, ५,
 १, ११; जैगृ १, १९: ७; आपध
 १, १०, ६; हिध १, ३, ३५; -ने
 पा ५, ४, ६७.
 परि-वाप्य कौगृ २, १, २६; शांगृ २,
 १, २६.
 परि-वाप्यमान- -नाभ्याम् वाश्रौ

३, ४, ४, २४.
 पर्यु(रि-उ)स, सा- -सः लाश्रौ १०,
 १५, १६; -साः वैश्रौ १८, १२:
 १५^१.
 पर्युस-शिरस्^f -रसम् पागृ २,
 २, ५.
 पर्युसिन्- -सिनम् वागृ ५, ६.
 परि-वप^g >^१वप्य^h -प्यः हिश्रौ ९,
 ८, ३७^३; १३, १, २४^३; -प्यम्
 आपश्रौ ७, २०, ९; २१, २;
 भाश्रौ; -प्यौ शाश्रौ १५, १,
 २६^१; आपश्रौ १४, ७, ५; वाश्रौ
 ३, ४, ४, २४; वैश्रौ १७, १०: ९;
 मागृ २, ४, ६.
 परिवप्य-महिमन्- -मानौ
 आपश्रौ २०, १९, २; ६.
 परि-वर्जित-, ^१वर्ज्यं परि✓वृज् द्र.
 परि-वर्त- प्रभृ. परि✓वृत् द्र.
 परि-वर्मन्ⁱ -र्मन्^१ कौस् ४४, २९.
 परि-वर्मन्^h -र्मा द्राश्रौ १०, २, ७;
 लाश्रौ ३, १०, ६.
 परि✓वस्(निवासे), परिवसति काश्रौ
 १२, १, २१; परिवसन्ति वाध
 २६, १२; परिवसेत् माश्रौ ७,
 ४, ५; ६, १.
 परिवसयेत् आगृ २, ८, ४.
 परि-वास^l -सम् हिश्रौ १२, ८,
 २४^३; -साः निसू ६, ६: १.
 पर्यु(रि-उ)षित- -तम् गोगृ ३, ५,
 ९; जैगृ १, १९: २७; वाध;

-ताः बौध २, १, २१; -तैः
 आपध १, ११, ४; हिध १, ३, ६१.
 पर्युषित-भोजन- -नम् बौध १,
 १, १९.
 पर्युषित-भोजिन्- -जी शंघ
 ३७७: १६.
 परि✓वस् (छेदने), परिवासयति
 आपश्रौ ७, २, १०; बौश्रौ ४, १:
 २९××; भाश्रौ.
 परि-वासन- >^१न-शकल- -रुम्
 आपश्रौ १, ६, ८; १३, १५;
 वैश्रौ ३, ५: १०.
 परि-वासित- -तः आपश्रौ १५, ५,
 १९; भाश्रौ ११, ५, २१; हिश्रौ
 २४, २, ६; -तानि वैश्रौ ३, ५:
 ५; -तेन माश्रौ ११, १०, २.
 परि-वास्य काश्रौ ६, १, २३; ६, १२;
 आपश्रौ.
 परि✓वह्, परिवहति आपश्रौ १८,
 १२, ३; २०, १६; हिश्रौ १३,
 ४, १६; ७, ५; परिवहन्ति
 आपश्रौ १८, ११, ४; बौश्रौ ६,
 १६: ९; परि...वहामि सु ७,
 ५; परि...वहन् आपसं १, ५, ३;
 ८; १३; पागृ; परिवहेत् बौश्रौ
 २१, १२: २४; २२, १७: १८;
 परिवहेयुः माश्रौ ५, २, १०, २८;
 वाश्रौ ३, ४, १, ५.
 परि...वक्षि^o आपश्रौ १५, १४,
 ४; बौश्रौ ९, १४: ११; भाश्रौ
 ११, १४, ५.
 परि-वहण- -णे बौश्रौ २१, १२: २४.

a) पाठः? परिवातायाः इति शोधः (तु. संस्कृतुः टि., सप्र. आपश्रौ १८, १०, १४ वावातयै इति च) ।
 b) काठश्रौ. वैताश्रौ. शुप्रा. पाठः । c) अर्थः? । d) पूष. = दधि- इति भाष्यम् । e) अर्थाथं यत् प्र. ।
 f) माश्रौ. पाठः । g) विप. । वस. । h) पाठः? सपा. शांगृ ३, १, १ परि वः सैन्याद् चघाद् व्यावृजन्तु इति ।
 i) प्रास. । j) = (वपाहोमाद्यन्तभाविन्-) होम- । तस्येदमीयः यत् प्र. । k) व्वा इति पाठः? यनि. शोधः (तु.
 C., आपश्रौ ७, २०, ९ च) । l) वैप १ द्र. । m) वा. क्वि. । n) भाप. [तु. काश्रौ २२, १, २१] । o) पाठो.
 वैप १, १९४५ a द्र. ।

†परि-वाहि(रु>)णी- णीः
 आपश्रौ १८, १३, ९; वाश्रौ ३,
 ३, २, १४; हिश्रौ १३, ५, १४.
 पर्यु(रि-उ)ह्य काश्रौ १५, ४, ३;
 आपश्रौ ११, १३, ७; काठश्रौ १६.
 पर्यु(रि-उ)ह्यमाण- ण्याय शाश्रौ ५;
 ६, १; काश्रौ ७, ९, १३; -णे
 काश्रौ १४, १, १६.
 पर्यु(रि-उ)ह्यमा(न>)ना- ना या
 १२, १११.
 परि-वाचन- परि√वच् द्र.
 परि-वाद- प्रभृ. परि√वद् द्र.
 परि-वाप-, षन- प्रभृ. परि√वप् द्र.
 परि-वार- प्रभृ. परि√वृ(आच्छादने)
 द्र.
 परि-वास- परि√वस् (निवासे) द्र.
 परि-वासन- प्रभृ. परि√वस्(छेदने)द्र
 परि√विद् (ज्ञाने), परिवेद †बौश्रौ
 १९, ७ : ५; २४.
 परिवेदयन्ते या १४, २२.
 परि√विद् (लाभे), परिविन्दति बौध
 २, १, ३९.
 परिविद्यते शंघ ३९८; विध ५४,
 १६.
 परि-वित्त- -त्तः वैश्रौ २०, २६ :
 ९; बौध २, १, ३९३; अषा २, ३,
 १६†; -त्तस्य बौश्रौ २७, ५ :
 ७; -त्ते बौध ४, ६, ७.
 परि-वित्ति- -त्तिः कप्र १, ६, २;
 वाध १, १८; २०, ७; शंघ; -त्तिम्
 वैश्र ६, १३ : ७.
 परिवित्ति-ता- ता विध ३७,
 १५; सुघप ८६ : १.
 परिवित्ति-परिविदिदान- नौ

कौसू ४६, २६.
 परिवित्ति-परिवेत्त- -त्तारौ कप्र
 १, ६, ३.
 परि-विन्दत्- -न्दन् कप्र १, ६, ६.
 परि-विन्न- -न्नः वैश्रौ २०, २६ : ९;
 -न्नस्य बौश्रौ २७, ५ : ७.
 परि-विदिदान- -नः वैश्रौ २०, २६ :
 ९; वाध २०, ८; -नस्य बौश्रौ
 २७, ५ : ८.
 परि-वेत्- -त्ता वैश्र ६, १३ : ७;
 कप्र १, ६, २; वाध.
 परि-वेदन- -नम् विध ३७, १६;
 -ने अत्र २३, १२, ३; ४.
 परि√विश, परिविशति आग्निगृ ३,
 २, ३ : ११; ६ : १३××; परि^१
 विशन्ति वाधूश्रौ ४, २६^३ : ३;
 परिविशन्तु वाश्रौ १, ३, १, ५†;
 पर्यविशन् वाधूश्रौ ४, २६^३ : १.
 †परिवेशय^६ माश्रौ १, २, ३, ४;
 वाश्रौ १, ३, १, ५.
 परि-विश्य आग्निगृ ३, २, ३ : ११;
 ६-७ : १३.
 परि√विष्, परिवेष्टि वैश्रौ १८,
 १२ : ७^{१४}; हिश्रौ १०, १, २;
 द्विगु १, २३, ५; २, १४, ८; परि^१
 वेष्टि वाधूश्रौ ४, २५ : ९; परि-
 वेष्टिषन्ति आपश्रौ १०, ३, ७.
 परिविष्येयाताम् अप ७२, २, १.
 परिवेषयेत् भागु २, ४ : १६; ६ :
 १३; ३२ : ८.
 परि-विष्ट, ष्टा- -ष्टः अप ६३, ३, ४-६;
 ४, ४; -ष्टम् वाश्रौ १, ३, ७, ७†;
 -ष्टयोः अप ६३, ३, ६; -ष्टा
 वाधूश्रौ ४, २६^३ : ३; -†ष्टा^१

बौश्रौ ४, ६ : ४५; माश्रौ ७,
 १४, १; -ष्टे अप ६३, ४, २;
 ३; -ष्टेषु अप ६३, ३, ८.
 परि-विष्प वाधूश्रौ ३, १८ : ८;
 आग्निगृ १, १, १ : ६××; बौश्र;
 जैगृ २, ६ : ८^{११}.
 परि-विष्यन्- -ष्यतोः कप्र १, ५, ८^६.
 परि-विष्यमाण- -णे गोश्र ४, ५,
 २९; द्रागृ ४, १, १४.
 परि-वेष^{१७}- -पः माश्रौ ८, १७, ६;
 अप ६१, १, २७××; -†पम्
 आपश्रौ १, ६, ७; माश्रौ १, ६, १०;
 हिश्रौ १, ३, २; -पाः अप ६८,
 ५, १५; -षाणाम् अप ६१, १, १;
 ६३, १, ४; -षान् अप ६३, १, ३;
 ३; ४, १०; -षे अप ६३, १, १०;
 २, ४; आपध १, ११, ३१; हिध
 १, ३, ८२; -षेषु अप ५२, ७, ३;
 ६१, १, ४; -षेः अप ६५, २, ३.
 परिवेष-ग(त>)ता- -त्ता अप
 ६३, २, ९.
 परिवेष-रजो-भूस- -साः अप
 ६४, ९, १.
 परि-वेषक- पाग २, २, ९^{१०}.
 परि-वेषण- -णाय जैश्रौ १ : २१.
 परि-वेष्ट- -ष्टा बौश्र २, ११, ६६;
 -†ष्टारः शश्रौ १६, ९, १६;
 माश्रौ ७, १४, १; बौश्रौ ४, ६ :
 ४५; अश्र ९, ६(६); -ष्टारम्
 वाधूश्रौ ४, २६^३ : ४.
 परि-वेष्य वैश्र २, १ : ५.
 परि-वी-, वीत- प्रभृ. परि√व्ये द्र.
 परि√वृ (आच्छादने), परिवारयन्ति
 गोश्र ४, २, ३; परिवारय शौच

a)) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । b) पामे. वैप १, १५४२ k द्र. । c) = परि-वित्त- । उप. प्र.
 भेदः । d) = परि-वित्त- । e) वैप १ द्र. । f) = परि-विदिदान- । g) पामे. वैप १, १९४४ n द्र. ।
 h) *विवेष्टि इति पाठः ? यनि. शोचः । i) पामे. वैप १, १९४५० द्र. । j) *ष्यम् इति पाठः ? यनि. शोचः । k) *ष्यतोः
 इति B.I. ? , *ष्यतोः इति जीसं. ? । l) भाष. > नाप. । m) तु. [पक्षे] पाका. पासि. च । परिवेषक- इति पामे. ।

३,६५[†].
 परि-वार- -रः^a आपश्रौ २२, १२,
 ७^b; -रम्^c वाध १६, २६^d; -रात्
 वाध १६, २४^e; शंघ २४३.
 परि-वार्य काश्रौ ८, ३, २४; ६, ९; काण
 परि-वार्यमाण- -णयोः द्राश्रौ १४,
 ४, १६; लाश्रौ ५, ८, १५.
 परि-वृत्त- -तः बौश्रौ १८, ४५:
 २५; वैश्रौ १८, १५ : १७[†];
 कौसू; पा ४, २, १०; -तम्
 काश्रौ ५, ८, २१; २६, १, १३;
 गोण ३, ४, ७; ऋपा ९, १८[†];
 -तस्य गोण ४, २, ८; १६; -ता
 अप ५८[†], ३, ३; -ताः अप
 ५८[†], ४, १०; -ताम् जैण २, ९:
 ३८; -ते काश्रौ ७, १, २०××;
 पाण ३, ३, १०; द्राण ३, १, १.
 प(रि >)री-वृत्त, ता- -[†]तः
 आपश्रौ १६, १८, ६; हिश्रौ ११,
 ६, ३०; अग्र १७, १[†]; -[†]तम्
 आपश्रौ १७, २१, ७; बौश्रौ १२,
 ७; ३३; हिश्रौ १२, ६, २६; ऋपा
 ९, ६; -तात् अपा ३, ४, १.
 परि-वृत्[†] -क्षाणि कौसू ८०, २.
 परि√वृत्, परिवृणक्ति वाधुश्रौ ३,
 ३३ : ४; [†]परि...वृणक्ति बौश्रौ
 ६, १६ : ११; बौण ४, ४, १०;
 परि (वृणक्ति) शुपा ४, २७[†];
[†]परि...वृणक्तु आपश्रौ १, २, ८;
 बौश्रौ १, १ : १४; माश्रौ; या
 १०, ७; [†]परि (वृञ्जन्तु) आपश्रौ
 २२, २८, २३; बौश्रौ १८, १७ :

२५; हिश्रौ २३, ४, ६२; परि-
 वृद्धिग्व आपश्रौ २०, १६,
 १२[†]; परिवृद्धि हिश्रौ १४,
 ३, ३६[†]; शुपा ६, ३०.
 परिवर्ज काण ३१, २[†].
 परिवर्जयेत् आपण ३, १०; १३;
 अप.
 परि-वर्जित- -तः शंघ ४६१.
 परि-वर्ज्य- -ज्यम् वाध १४, १४.
 परि-वृक्त, क्ता- -क्तः अप ५३, २,
 ५; -क्तम् बौश्रौ १५, ३० :
 २५; अप ७२, ३, ८; -[†]क्ता[†]
 शाश्रौ १२, २१, २; काश्रौ २०,
 १, १२; ५, १५; अप्रा ३, २,
 १८[†]; -क्ताः[†] शाश्रौ १६, १३,
 १०[†]; -क्ताम्[†] शाश्रौ १६, ४, ३.
 परि-वृक्ति, क्ती[†] -क्तिः हिश्रौ १४,
 ३, २२; २३; -क्ती आपश्रौ २०,
 १५, ७; १०××; बौश्रौ; -क्तीम्
 आपश्रौ २०, १०, २[†]; लाश्रौ
 ९, १०, ५; -क्त्यै बौश्रौ १२,
 ५ : २२; २६, १ : १३.
 प(रि >)री-वृञ्जान- -नः आपण
 २, ५, १९[†].
 परि-वृढ- परि√वृह् द्र.
 परि√वृत्, परिवर्तते आपश्रौ ५, १४,
 ६; २१, १४, ४××; माश्रौ;
 परिवर्तते या १४, ४; परिवर्तन्ते
 हिश्रौ १६, २, १२; ७, २२;
 परिवर्तते वैश्रौ २०, २९ : ७.
 परिवर्तयति वैश्रौ १, १२ : १९[†];
 परिवर्तयन्ति अप ७२, ४, ४;

माशि १६, ४; [†]परिवर्तये[†]
 आपश्रौ ८, ४, २; बौश्रौ; परि-
 वर्तय[†] माश्रौ १, ७, २, २३; [†]पर्य-
 वर्तयत्[†] आपश्रौ ८, ८, २१;
 बौश्रौ ५, ९ : २६; १७ : १४;
 हिश्रौ ५, २, ७०; [†]परिवर्तयेत्
 भाश्रौ ५, ८, ८; माश्रौ १, ५, ४,
 १६; ५, २, १५, २७; द्राश्रौ.
 परि-वर्त[†] -> [†]क्त-[†] -केन वाध
 २, ३९.
 परि-वर्तन- -नम् वाध १६, ११.
 परि-वर्तमान- -नः शाश्रौ १७,
 १५, ४; -नम् या १४, ५; -ने
 वैश्रौ १७, १३; १९; हिश्रौ १३, १,
 ५३; या ४, २७[†].
 परि-वर्तयत्- -यन् द्राश्रौ १५, ४,
 १२; लाश्रौ ५, १२, १८.
 परि-वर्ति(त >)ता- -ता माशि
 १६, १.
 परिवर्तित-वासस[†] -ससः विध
 १९, ८; १८; -साः विध ६४,
 २५.
 परि-वर्तिन्- -र्विनः वृदे ४, ३४.
 परिवर्तिनी[†] -नी[†] विध ९८, २;
 -नीम् निस् १, १०; १३; -न्या
 लाश्रौ ६, २, १६; -न्याः लाश्रौ
 ६, ६, १०.
 परिवर्तिनी-पर्याय- -यी
 लाश्रौ ६, ७, १; १४.
 परिवर्तिनी-विधान- -नम्
 लाश्रौ ६, १, १८.
 परि-वर्त्य काश्रौ ६, ९, १७; द्राश्रौ;

- a) = उत्तरीय-वस्त्र-। b) सप्र. वैयाघ्रः परिवारः <> वैयाघ्रपरिच्छदः इति पाभे.। c) = परि-जन-।
 d) सप्र. शंघ २४३ तपरिवारम् इति पाभे.। e) पाभे. वैप १, १९४६ b द्र.। f) णिवृ इति पाठः? यनि.
 शोघः (तु. शौ १७, १, २८)। पाभे. वैप १, ७१३ d द्र.। g) विप.। बस.। h) पाभे. वैप १, १९३३ b द्र.।
 i) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.। j) वैप १ द्र.। k) पाभे. पृ १५२१ d द्र.। l) पाभे. वैप २, ३खं.
 परिवर्तये तैत्रा १, ५, ५, १ टि. द्र.। m) सपा. माश्रौ १, ७, ५, ५१ पर्याय इति पाभे.। n) = परि-वर्तन-।
 o) स्वार्थे प्र.। p) = विष्टुति-। q) विप. (वसुमती-)

परिवर्धऽपरिवर्त्य काश्रौ २५, ८,१.	परिवेष्टित-शिरस् ^d - -राः वाघ १२, १३.	आपश्रौ ७, १०, ५; बौश्रौ; -णे बौश्रौ २०, २६ : ५०.
परि-वृत्ति,त्ती- -न्तिः मीसू १०, ५, ८६; -त्तीम् काश्रौ १५, ३, २१ ^a ; -त्तौ आपध २, २, ३; हिध २, १, ३५; मीसू १०, ५, ८५; -त्तै काश्रौ १५, ३, १४ ^b .	परि-वेष्ट्य शाश्रौ ४, १५, २२; ७, १५, २; काश्रौ.	परिव्ययणी ^c - -णीम् आमिगृ ३, ८, १ : ५ ^h .
परि-वृत्त्य कौगृ २, १, २९.	परि-वेष्टृ- परि√विष् द्र.	परिव्ययण-काल- -ले काश्रौ १४, १, २०.
परि√वृश्च (<√वृश्च), परिवृश्चति वैश्रौ १०, २ : ५.	परि-व्याघ ^e - -घः आगृ २, ७, ६.	परिव्ययण-देश- -शम् काश्रौ ६, ३, ५.
परि√वृह > परि-वृढ [ह ^h] - पा ७, २, २१; पाग ५, १, १२३; -ढः या १, ८, ६, १७; -ढम् या १, ७, ८. पारिवृढ्य- पा ५, १, १२३.	परि-व्या (वि-आ)√वृज्, परि...व्या वृजन्तु शांगृ ३, ९, ११.	परिव्ययणा (ण-आ)दि- -दि आश्रौ ५, ३, ५; काश्रौ ९, ८, १; १०, ९, १३.
परिवृढ-निपातन- -न्म् पावा ७, २, २१.	परि-व्या (वि-आ)√ह > परि-व्या- हरत्- -रन् वैश्रौ १८, ३ : ११.	परिव्ययणा (ए-अ)न्त ^d - -न्तम् वाश्रौ ३, २, ६, १६.
परिवृत्त- (>°त्त-क- पा.) पाग ४, २, ८०.	परि√व्ये, परिव्ययति शाश्रौ १७, १०, १०; काश्रौ; ङपरिव्ययामसि वैश्रौ १९, ६ : ५४; हिश्रौ १२, ४, १; ङपरि...व्ययन्ताम् बौश्रौ ४, ४ : ३८; भाश्रौ ७, ९, २; परि (व्ययन्ताम्) बौश्रौ ४, ४ : ३८ ^f ; ङपरि...व्ययस्व आगृ ४, ३, १९, आमिगृ ३, ५, ७ : २४; ७, ३ : १५; बौपि १, ७ : १, २, १, ७; परिव्ययेत् बौश्रौ ७, ११ : ७; २४, ३५ : ४.	परिव्ययणी (व >)या- -या शाश्रौ ६, ९, ४; -याम् आश्रौ ५, ३, ६; शाश्रौ ६, ९, ६; ७.
परि-वेत्त- , वेदन- परि√विद् (लाभे) द्र.	परिव्यत ऋप्रः १४, ५८ ^f .	परिव्ययणीया (य-आ)दि- -दि शाश्रौ ६, ११, १७.
परि-वेष- परि√विष् द्र.	ङपरि-वी ^g - -वीः काश्रौ ६, ३, १३; आश्रौ ७, ११, ५; बौश्रौ.	परिव्ययणो (ए-उ) पाकरण- नियोजन-प्रोक्षण- -णानि पागृ ३, ११, २.
?परिवेषः ^c अप ६८, २, ४.	परि-वीत,ता- -तः आश्रौ ३, १, ९; आगृ १, २०, ९; पागृ; या २, ८; -ताम् बौगृ २, ५, १४; वागृ ५, ७; -तायाम् मागृ १, २, २, १०.	परि-व्ययत्- -यन् बौश्रौ ४, ४; ३७; ७, ९ : २; वैश्रौ १०, ९ : ९; बौगृ २, ५, १३.
परि-वेषक- , षण- परि√विष् द्र.	परि-वीथ काश्रौ ८, ८, १५; आपश्रौ; पा ६, १, ४४.	परि-व्याण- > णा(ए-अ)न्त ^d - -न्तम् मीसू ५, २, ७.
परि-वेष्टयि ^e अप ६८, २, ४.	परि-वीथमाण- -णाय शाश्रौ ५, १५, ४; काश्रौ ६, ३, १३; आपश्रौ.	परि√वृज्, परिवृजेत् आमिगृ २, ७, १० : १७; बौध २, ६, १८.
परि-वेष्टयत्- , षण- परि√विष् द्र.	परि-व्ययण- -णात् काश्रौ ६, ३, ५;	परि-वृजत्- -जन् आश्रौ ६, १०, १७; आगृ २, ८, ११×४.
परि-वेष्टयत्तः हिश्रौ ७, ५, १९; परिवेष्टयन्ति आपश्रौ ११, ७, ५; परिवेष्टयेत् भाग २, २७ : ६.		परि-वृजन- -न्म् शंघ १६१.
परि-वेष्टयिक्त्वा आमिगृ २, ४, ६ : ८.		परि-वृज्य आश्रौ ४, ६, १; ५, ३, १८; ७, १; गोगृ २, २, ८.
परि-वेष्टित- -तः अप ६३, २, ६; वाघ २१, १८; काश्रु ७, २३; -तम् अप २१, ५, ४.		परि-वृज् !- पाउ २, ५९; पावा ८,

a) = पतिपुत्रहिता-न्त्री- इति विवाधरः । b) या १, ७; ८^३ पाठः । c) पाठः ? (परि√विष् > स्वपि) परि-विश्य इति शोषः । d) विप. । बस. । e) नाप. । अर्थः व्यु. च ? < परि√व्यध् इति अभा. MW. । f) वैप १ द्र. । g) = रज्जु- । h) सपा. बौपि १, १४ : ४ परिव्ययणीम् इति पाठे. । i) पूष. = परिव्ययण- । j) कर्तारि कृत. ।

२, ३६^६; -त्राजः आपध २, २१,
७; हिघ २, ५, ११६.

परित्राज्-कौशिक- पा, पाग २,
४, १४.

परि-त्राज^६- जेन आमिण् २, ४, ९ :
१३.

परि-त्राजक- पाग ५, १, १३०; -कः
बौघ २, ९, १७; वाध १०, १;
बौध २, ६, १४; १८; या १,
१४; -कस्य बौपि ३, ११, १;
-काः या २, ८.

परित्राजक^६- पा ५, १,
१३०^६; -कः कौसू ९२, १०.

परित्राजक-कौशिक- पा, पाग २,
४, १४.

परित्राजक-चारण-वानप्रस्थ-ब्रह्म-
चारिन्- रिणाम् अप ७२, ४, १.

परित्राजक-वानप्रस्थ- रथौ शंघ
२५८.

परि√शस् (हिंसायाम्) > परि >
री-शस्^६- सौ काश्रौ २६, २,
१०; ५, १२; ७, १७.

परि-शाल^६- (> पारिशाल्य-पावा.)
पावाग ४, ३, ५८.

परि√शिष्, परिशिनष्टि काश्रौ ४,
१४, ११; बौश्रौ ५, १० : १६××;
वैश्रौ; परि...शिनष्टि बौश्रौ १,
१५ : ५; ४, ६ : २; १६××;
बौघ; परि...शिनष्टः बौश्रौ ५,
७ : २; परिशिंष्यात् बौश्रौ २५,
३२ : १३; २४; ३०.

परिशिष्यते आश्रौ ९, ३, १३;
शांश्रौ १५, २७, १; १६, २२, १८;
बौध १, २, ५७^१; परि (शिष्यते)
अत्र १५, १२^१; परिशिष्यन्ते

वाधूश्रौ ३, ८६ : ३; ४, ४६ :
११; ९१ : ३; आपद्य १८, ३;
५; ७; हिद्य ६, ८; ९; १२.

परि-शिष्ट, ष्टा- -ष्टः शांश्रौ १८, २०,
५; -ष्टम् आश्रौ ३, ११, ८;

भाश्रौ २, १६, १०; ७, १, ३;
अत्र १९^३, ५, ९; -ष्टाः शांश्रौ
१८, १०, २; ६; वाद्य १, १; -ष्टान्

आश्रौ ७, २, १०; ५, ८; १०,
२, ३०; हिश्रौ ७, २, ४३; -ष्टानि

चव्यु २ : २९; ३२; -ष्टायाम्
शांश्रौ १७, १७, ५; -ष्टासु शांश्रौ

१७, १४, ४; १५, ९; -ष्टे शांश्रौ
१०, ८, १४; -ष्टेन बौश्रौ ३,

१६ : ३; -ष्टौ शांश्रौ ९, ५, ८.

परिशिष्ट-संख्या- रूयानाम्
वाद्य १, १.

परि-शिष्य शांश्रौ ५, ९, २५××;
हिश्रौ ५, ४, ७२.

परि-शेष- (> पारिशेष्य- पा.) पाग
५, १, १२४^६; -षम् शांश्रौ १८,
२४, २४; -षात् शांश्रौ १२, ७,
१.

परि√शी, परिशेते बौश्रौ ९, ४ :
२५; १७ : १३××; वैश्रौ;

परिशेरते आपश्रौ १, १४, ३;
८, १३, २०; बौश्रौ; परिशेर^६

आपश्रौ १२, २५, ७^१; बौश्रौ
७, १५ : ६××; वैश्रौ; परिशयीत

बौश्रौ ६, २४ : १३; परिशयी-
रन् बौश्रौ २०, ६ : १९; २१ :
२५××.

परिशाययन्ति बौश्रौ ९, २ : ३२;
१२, ८ : २६; वाश्रौ ३, १, १,

२१; २, ३३; परि...शाययन्ति

बौश्रौ १८, २२ : ३; परिशाय-
यित बौश्रौ २५, १६ : १०;

परिशाययेत् आपश्रौ २१, १०,
३; बौश्रौ २०, ४ : ३६; २३, २ :
१९; हिश्रौ १६, ४, १५.

परि-शायन- -नम् बौध १, ६, ३८;
-ने बौश्रौ २०, ६ : १९; २१,

१३ : ३३.

परि-शील^६- (> पारिशाल्य-पावा.)
पावाग ४, ३, ५८.

परि√शुध् > परि-शु(द्ध)दा- द्दा
शंघ २३४.

परि-शुद्धि- द्दयै वैघ ३, २ : २.

परि√शुष्, परिशोषयेत् आमिण् २, ७,
१० : ८.

परि√श्रि, परिश्रयति काश्रौ १७, १,
७; २१, ३, ३२; २६, ३, ९;

आपश्रौ; परिश्रयेते हिश्रौ १६,
६, २४; परिश्रयतः^१ हिश्रौ ७,

५, २९; ७, २१; परिश्रयन्ति
आपश्रौ १५, ५, २; २१, १७,

१९; बौश्रौ ५, १३ : १५××;
भाश्रौ; परिश्रयस्व बौश्रौ ९,

७ : १७; १९ : २९; बौघ ३, ४,
१९; परिश्रयेत् माश्रौ १, १, २,
१३.

परि-श्रयण^१- -णम् आपश्रौ ८, १४,
२५; ११, १०, १४^१; बौश्रौ;

-णानि आपश्रौ ८, १५, १; १६,
१६; बौश्रौ ८, २० : २७; १५,
२२ : ११.

परिश्रयणी- -णीम् बौपि १,
१४ : ४^६.

परिश्रयणा (श-आ)वृत्- -वृता
माश्रौ ४, २, ४.

a) तु. आर्षव्याकरणम् ।

b) उप. भावे प्र. ।

c) विप. । तस्येदमीयः अण् प्र. ।

d) भाप. ।

e) = पात्र-विशेष- । करणे घञ् प्र. ।

f) अस्त. ।

g) तु. पागम. ।

h) प्रपुत्र त-लोपे रूपम् ।

i) सप्र.

j) भावाद्यर्थे क्त. ।

k) पाभे. पृ १५२६ h द्र. ।

श्रयतः <> श्रित्य इति पाभे. ।

परि-श्रयत्-यन्तः माश्रौ २,१,१,
९; हिश्रौ ७,१,२५.
परि-श्रित^१-श्रितः काश्रौ १६, ८,
१७; २३; १८, ६, १३; वैताश्रौ
२९, ११; शुअ २, १०९; -श्रित्सु
काश्रौ १८, १, १; -श्रिद्धिः
काश्रौ १७, १, ७; २१, ३, ३२.
परिश्रित-स्पृश्-स्पृक् काश्रौ
१८, ५, ६.
परि-श्रित-तः वौश्रौ १५, १० :
२६; -तम् आपश्रौ ८, १६, १०;
१०, ५, १; ११, ९, ४; वौश्रौ;
-तस्य आश्र २, ५, २; पाश्र २,
६, ९; -ताः आपश्रौ १७, २१,
६; वैश्रौ १९, ६ : १४१; -तात्
माश्रौ १, ७, ६, ४८; -ताम् वैश्रौ
१२, ४ : ९; -ते शाश्रौ ३, १६,
१६; आपश्रौ ३, ९, ३; ८, १५,
१८××; वौश्रौ; -तेन आपश्रौ
१०, २४, २; हिश्रौ ७, २, ३६.
परि-श्रित्य शाश्रौ १८, २४, १९;
काश्रौ २५, २, २; आपश्रौ ८,
१३, १५××; ११, ८, ४^b; वौश्रौ.
परि-श्रीघमाण-णयोः शाश्रौ ५,
१३, ७.
परि√श्रु> परि-श्रुत-तम् माशि
१५, १.
परिषा, षि^०क^० (> परिषा, षि)
क-पा.) पाग ४, १, ११२^f.
?परिषथोयः वाधुश्रौ ४, ७५ : २.
परि√ष (<सि) दू, ङपरिषीदन्ति
कौस् ५, ४; अयं २ : ५६.

परि-षद्^६-पाग ४, २, ६०; ११०^h;
३, ११८^०; ५, १, ९७^९; पावाग
३, ३, १०८; -षत् वौध १, १, ७;
गोध २८, ५०; -षत्सु आपध १,
११, ३८; हिध १, ३, ८९; -षदः
आपश्रौ ५, १९, ३; माश्रौ ५,
१२, १२; वाश्रौ; -षदम् हिद्य
१, १५, ८; द्राद्य ३, १, २५; कौस्
३८, १७; ३०; -षदि कौस् ३८,
२२; वौध २, १, ३५; -षद्भयः
वौद्य २, ८, ९[†].
परिषद-पा ४, २, ११०;
३, १२३; ५, १, ९७.
परिषदक-पा ४, ३, ११८.
परिषदिक-पा ४, २, ६०.
परिषद्य-पा ४, ४, ४४;
१०१.
परिषत्-स्व-स्वम् वाध ३, ५;
वौध १, १, १०.
परिषद्-गामिन्-मि शंघ ३००.
परिषद्-चल-पा ५, २, ११२.
ङपरि-षद्य^१-०द्य आपश्रौ ५, १२,
२; ६, ३, ४××; माश्रौ; -द्यः
शाश्रौ ६, १२, ७; आपश्रौ ११,
१४, १०; वौश्रौ; -द्यम् या
३, २, ४[†].
परि-षवण-परि√षू द.
परि-षस्वजाना-परि√ष्वज् द.
परि√ष (<सि) ह पा ८, ३, ७०.
परिषादक्^k (> परिषादक-पा.)
पाग ५, २, ६१.
परि√षि (<सि) > परि-षय-पा

८, ३, ७०.
परि-षि, षी^१त^१-पा ८, ३, ७०;
-ङतः आपसं २, २२, ५; ६^२म्;
भाग्य २, २७ : १५; हिद्य १, १४,
२[†].
परि√षि (<सि) च्, ञच्, परिषिञ्चति
काश्रौ ५, ९, १२; १८, २, १××;
आपश्रौ; परिषिञ्चन्ति काश्रौ
१९, २, ८[†]; वौपि १, ८ : ११;
शुप्रा ३, ६४[†]; परि(षिञ्चति)
शुअ २, ४२५[†]; ङपरिषिञ्चामि^०
शाश्रौ २, ६, १०; ११; आपश्रौ;
ङपरि...सिञ्चत, > ता काश्रौ
१९, १, २२; आश्रौ १९, ५,
११; माश्रौ; परि (षिञ्चत) ऋप्रा
७, ३२; ११, ५; उनिस् ७ : १४;
परिषिञ्चत् आपश्रौ १५, १४, ३;
१६, ३; वौश्रौ.
ङपरिषिच्यते आश्रौ ५, १२,
१५; शाश्रौ.
परि-षिञ्च-क्ते माश्रौ ४, ४, २५;
२६; द्राश्रौ.
परि-षिच्य काश्रौ २६, ७, १२;
आपश्रौ; परिषिच्यऽपरिषिच्य
काश्रौ ५, ९, १३; वौश्रौ २२,
९ : १२.
परि-षिच्यमान-ने वौश्रौ ९, १४ :
१०; १६ : १५××; माश्रौ.
परि-षिञ्चत्-ञ्चन् शाश्रौ १, १५,
११; आपश्रौ; -ञ्चन्तम् आश्र
१, २२, २१.
परि-षेक-कः कप्र २, ४, १-५;

a) = (स्तम्भनार्थ-) पाषाण-खण्ड-। b) पांमे. पृ १५२७ i द.। c) पाका. पाठः। d) व्यप.।
व्यु. ?। e) तु. पागम.। f) पार्षिका- इति [पक्षे] पागम., पार्षिका- इति भाण्डा. पासि.। g) = समिति-।
अधिकरणे कृत्। h) = ग्राम-विशेष-। i) पर्वद्- इति [पक्षे]. भाण्डा. प्रम्.। j) वैष १ द.।
k) अर्थः व्यु. च ?। तु. पाका.। परि-सारक- इति भाण्डा. प्रम्.। l) षि^० इति पा. पाठः।
m) पांमे. पृ १५२१ a द.। n) षदः इति पाठः ? यनि. शोबः (तु. भाण्ड.)। o) पांमे. वैष २, ३३
तैत्रा २, १, ११, १ टि. द.।

-कम् माश्रौ ३,५,५; बौघ्.
 परि-षेचक- पाग २,२,९.
 परि-षेचन- नम् काश्रौ २६, ७,
 ३५; आपश्रौ १५, १६, ८;
 वोश्रौ; -नात् बौपि २, ११, २;
 भाय् २,२ : २; हिद्य १, ८, ३;
 -नाय वाश्रौ १,७,४,२४.
 परिषेचना(न-अ)दि^३- -दि
 भाश्रौ ६,१४,१७.
 परिषेचना(न-अ)न्त^३- -न्तम्
 आपय् ५,१३; ६,४××; भाय्.
 परि/वि, षीच्^३, परिषीव्यति काश्रौ
 ८, ४, १४; भाश्रौ १०, ५,
 १३; हिश्रौ ७,१, ४४; ५, ३१;
 ७, २१; परिषीव्येत् बौश्रौ २१,
 १४ : ३०; ३१.
 परि-षीवण- -णे बौश्रौ २१, १४ :
 ३०.
 परिषीवण-ग्रन्थ्यभिमर्शन-
 -नानि काश्रौ ८,६,९.
 परि/वू (<स्)°, परिषीति आपश्रौ
 १,३, ६; भाश्रौ १,३, ९; वैश्रौ
 ३,४ : ३; हिश्रौ १,२,२६.
 परिषुवति भाश्रौ १,१, १, २९.
 परि-षवण- -णात् आपश्रौ १,४,६;
 भाश्रौ १,३, २०; हिश्रौ १, २,
 ३९; -णे बौश्रौ २०,२ : २३.
 परिषवणो(ण-उ)स्वर्जन-वर्जम्
 वैश्रौ ३,४ : ८.
 परि-षुत्- -ः^३तम् आपश्रौ १,३,६;
 बौश्रौ; -त्तस्य वैश्रौ ३,४ : ४;
 हिश्रौ १,२,२८; -ताम् आपश्रौ

१,३,१०.
 परि-षूय आपश्रौ १,३, ८; वाश्रौ १,
 २,१,१५.
 परि/षे(<से)व् पा ८,३,७०.
 परि/ष्व, स्कन्द^३>परि-ष्वन्द-
 -न्दम् बौश्रौ १८,२४ : १८.
 परि-स्कन्द- पा ८,३,७५.
 परि-ष् (<स्)✓कृ^३, परिष्कृष्वन्ति
 ऋप्रा ४,८७^३.
 ऋपरिष्-कृष्वत्- -ण्वन् ऋप्रा ४,
 ८५; उस् ६,३.
 ऋपरिष्-कृत,ता- -तः अप ३७,१४,
 २; -तम् ऋत ४, ५, ८; -ता
 अप्रा ३,४, १; -ताः शुप्रा ३,
 ५३.
 परि/ष्टि^३- -ष्टिः आश्रौ २,१०,४^३.
 परि/ष्टु (<स्तु)°, परिष्टुवन्ति बौश्रौ
 १८,१५ : ५; ७××; वाश्रौ २,
 २,३,१४.
 परि-ष्टवन->नीय^३- -याः शाश्रौ
 १७,७,६^३.
 ऋपरि-ष्टुत्- -न्तम् हिद्य १,१६,१७;
 -ते शाश्रौ ९,२५,१.
 ऋपरि-ष्टुति- -तिः बौश्रौ ६, २४ :
 २२; ९,२ : ३.
 परि/ष्टु (<स्तु)भू, परिष्टोभत ऋप्रा
 ५,१२^३.
 परि-ष्ट (<स्थ)ल- पा ८,३,९६.
 परि/ष्टा (<स्था), परिष्टात्, परिष्टुः,
 परिष्टाः ऋप्रा ५,१६^३.
 परि-तस्थिवस्->तस्थुषी- -षीः
 कौघ् ३,१५,५^३.

परि-ष्टा^३- -ष्टाः शुप्रा ४,२७^३.
 परि/ष्व (<स्य)न्द^३>परि-
 ष्वन्द^३- -न्दे काश्रौ १८,३,९.
 परि-ष्वन्दम् बौश्रौ १४,२६ : २२.
 परि/ष्वज्, ङ्ज^३, परिष्वजते हिद्य
 १, २४, ५; परिष्वजति बौघ् १,
 ७, ४२; परिष्वजन्ते ऋप्रा ५,
 १३^३; ऋपरिष्वजाते^३ कृया ६,
 २८; ११, ३४; परिष्वजस्व
 आपमं १, ११, ७^३; परिष्व-
 जध्वम् ऋप्रा ५,१३^३; परिष्वजेत्
 वाध २०,१४.
 ऋपरिष्वजे आश्रौ ७, २, १७;
 ऋप्रा ५,१५; ऋपरिष्वजाते या
 १४, ३०; ऋप्रा ५, १५;
 परिष्वङ्क्ष्यते या ६, २८; ११,
 ३४; पर्थेष्वजत् ऋप्रा ५,३०^३.
 ऋपरि-ष्वजा(न>)ना- -ना या
 ९,१८^३; -नाः आपश्रौ १८,
 १५, ३; बौश्रौ १८, १८ : १२;
 हिश्रौ १३,६,३९.
 परि-ष्वङ्ग^३->ङ्ग-परम^३- -मम्
 बौश्रौ ४, १ : २८.
 परि-ष्वजत्- -जन्तः हिश्रौ १६,
 ५,३^३.
 परि-ष्वजन- -नाय या २,२७.
 परि-ष्वजमा(न)ना- -ना या ९,
 १८.
 ऋपरि-ष्वजे^३ आपमं १, १, ६; बौघ्
 १,६,२६; ४,१,११.
 परि-ष्वज्य आपश्रौ २१, १२, ७^३;
 आपध १, २५, २; हिद्य.

a) विप. । बस. । b) पा ८,३,७०; ७१; ११६ परामृष्टः द्र. । c) वैप १ द्र. । d) पा ८,३,७४
 परामृष्टः द्र. । e) पा ६,१,१३७; १३८ परामृष्टः द्र. । f) पा ८,३,७०; ७१ परामृष्टः द्र. । g) तस्येदमीयर्थ
 छः प्र. उस्. (पा ४,२,२८) । h) णी^३ इति पाठः ? यनि. शोधः । i) सपा. परितस्थुषीः <>परिस्सुषीः
 इति पाठे. । j) वैप १,१९५० । f द्र. । k) पा ८,३,७२ परामृष्टः द्र. । l) वैप २, ३स्. द्र. । m) पा ८,३,
 ६५; ७० परामृष्टः द्र. । n) पाठे. वैप १, १९५० । k द्र. । o) पाठे. वैप १,१९५० । i द्र. । p) अर्थः ? = एक-
 इत्त- इति आष्यम् । q) परस्परं पाठे. ।

परिष्वति वाश्रौ ३, २, ६, २०.
 परि-सं√यु (मिश्रणे) > परिसं-युत-
 -तः अप ७०, ८, ५.
 परि-संवत्सर^१ - -रात् आपृ १३,
 १९; मागृ १, ९, २^b; वागृ ११,
 २^b; आपृ २, ८, ७; १५, २०;
 हिध २, १, १०९; ३, ५४; -रात्
 गोगृ ४, १०, २५^b.
 परि-सं√वह > परिसम्-उह्य शांश्रौ
 २, ६, ९; ४, ३, ७; काश्रौ; हिध १,
 १, १३५^e.
 परिसम्-ऊढ - -ढस्य वागृ २, ४;
 -ढेषु बौगृ ३, १२, ५.
 परि-सं√स्था > परिसं-स्थि(त >)
 ता- -ता निस् ३, २: २३.
 परि-सं√ख्या > परिसं-ख्या^१-
 -ख्या शांश्रौ १, १, ६; वृदे २, ७१;
 मीस् १, २, ४२; १०, ७, ४; ७.
 परिसंख्या(ख्या-अ)र्थे- -र्थम्
 मीस् ७, ३, २२; १०, ५, ३९.
 परिसंख्या-होम- -मान् अप
 ३७, १०, १.
 परिसं-ख्यात- -तः चव्यू २: १०;
 -तम् चव्यू १: १३; -ताः मैअ
 २१.
 परिसं-ख्यातुम् शांश्रौ १, १७, ८.
 परिसं-ख्यान- -नम् कप्र १, ४, १२;
 -नात् मीस् ३, ७, ३३.
 परिसं-ख्याय कप्र २, ९, १०; वाघ
 ३, ४७.
 परिसं-ख्येय- -यम् अप ७१, १८, २.
 परि-सं√गृह > परिसं-गृह्य अप २२,
 १, ३.
 परि-सं√चक्ष्, परिसंचक्षते गोगृ ३,
 ५, २.

परि√सद् > परि-सन्न- -न्नात् आश्रौ
 २, ६, ६.
 परि-सम्√आप्, परिसमापयेत्
 अशां १२, ५.
 परिसम्-आपन- -नात् आपृ २,
 १७, २४.
 परिसम्-आसि- > ष्य(सि-अ)र्थे-
 -र्थे: मास् ३, ७.
 परिसम्-आप्य आपृश्रौ १४, २१, १२
 परि-सम्√इ, परि-समीयात् वाश्रौ
 ३, २, १, १७; ६, ५.
 परि-सम्√ऊह (प्रापणे), परिसमूहति
 भाश्रौ ६, ८, ११; १२; वाश्रौ १, ५,
 २, १४; पागृ २, ४, २; बौगृ २,
 ५, ५८; ६४; परिसमूहन्ति बौश्रौ
 १, १: ६; भाश्रौ १, ६, १४;
 परिसमूहेत् वागृ ५, ३१; गोगृ ४,
 ५, ५; जैगृ १, १: १९; आपृ ४,
 ४, १८.
 परिसमूहयति कौस् ५७, २३.
 परिसम्-ऊहन- -नम् भाश्रौ ६, १४,
 ९; गोगृ १, ८, १६; कप्र १, ९,
 ५; २, ५, १८; ३, ८, २; -ने
 आश्रौ २, ४, २१; -नेन आपृश्रौ
 ६, ३, १; हिश्रौ ३, ७, ११.
 परिसमूहन-पर्युक्षण- -णे पागृ
 २, ४, ६.
 परिसमूहना(न-आ)दि- -दीनि
 द्रागृ १, ५, १६.
 परिसम्-उह्य आश्रौ २, ५, १३;
 वाश्रौ १, २, २, ७; कौगृ; आपृ ४,
 ४, १६^o.
 परि-सं√सृज्, परिसंमार्दिं आमिगृ २,
 ५, ९: ३.
 परि-सर्पक-, -र्षम् परि√सृप् द.

परि-सहस्र^१ - -सम् शांश्रौ १७, ७, २.
 परि-साम्न^१ - -मभिः द्राश्रौ २, ४, ७;
 -मानि द्राश्रौ २, १, १; लाश्रौ
 १, ५, १.
 परि-सिन्धु^१ - (> पारिसैन्धव- पा.)
 पागृ ४, २, १३३.
 परि-सीर^१ - (> पारिसीर्य- पावा.)
 पावागृ ४, ३, ५८.
 परि√स्तु, परि-स्तु कप्र ५, ५८^१;
 ऋपर्यसरत् आपृ २, १३, १२;
 आमिगृ २, १, ३: २०; भागृ १,
 २३: ११; हिगृ २, ३, ७.
 ऋपरि (सखतुः) कौस् १४, ७; १६,
 ४; अप ३२, १, १३; अश्रु ६, ६७.
 परिसारयति भाश्रौ १, २, ३, १४.
 परि-सर्षा- पावा ३, ३, १०१.
 परि-ससृवस- > ससृषी- -षीः
 शांश्रु ३, १३, ५^h.
 परि-सारक^१ - -कम् या १४, २९.
 पारिसारक^१-
 परि-सारिन्- पा ३, २, १४२.
 परि-स्त- -स्तः मागृ २, ११, १२^१.
 परि-स्तव(र >)री- -रीम् भाश्रौ
 ५, २, १०, २३.
 परि√सृज्, परि(सार्दिं) कप्र २, ९,
 १२^१.
 परि√सृप्, परिसर्पति कौस् २, १८.
 परि-सर्पक- -काः अप ५२, ५, ३.
 परि-सर्षम् काश्रौ १७, ४, ७.
 परि-स्कन्द- परि√ष्कन्द द.
 परि√स्तु,स्तु,परिस्तरत् कप्र २, ८, ४
 परिस्तुगृवात् गोगृ १, ७, ९.
 परिस्तृणाति आपृश्रौ १, १४,
 १४; १५, ३; ६, ३, ५; बौश्रौ;
 परिस्तृण्मि बौश्रौ २, १३:

a) प्रास. । b) सप्र. शत् <> शम् <> पागृ १, ३, २ प्रतिसंबत्सरम् इति पाठे. । c) सप्र
 श्रु <> श्रु इति पाठे. । d) भाप., नाप. (विधि-विशेष-) । e) अश्रु- इति BL. । f) टु. धामम. । = प्रवेश-
 विशेष- । g) अस. । h) पाठे. पृ १५२९ i द. । j) परिषाद- टि. द. । j) पाठे: वैप १, १९५१ ङ द. १

१७; ६, १: १९××; परि...
 स्तृणन्ति वाधुश्री ३, ९: १३;
 ऋपरिस्तृणामि आपश्री ११,
 १३, ७; बौश्री ६, २८: ४२; वैश्री
 १४, ९: ६; हिश्री ७, ६, ३१;
 कौसू २, २१; परिस्तृणीहि वैताश्री
 २, ७; कौसू २, २०^१; अश्री
 ७, ९९^१; बौच; ऋपरिस्तृणीत
 आपश्री १, १४, १२; भाश्री १,
 ११, १; वैश्री; परिस्तृणीयात्
 बौश्री २०, ४: ३९; ५: ४; ६;
 २४, ३४: ६××; परि...स्तृणीयुः
 वाधुश्री ३, ९: १०; ११; १३.
 परि-स्तर^१ - ऋरम् आपश्री १, ५, ५;
 भाश्री १, ५, १; हिश्री १, २,
 ३३; -रात् बौश्री १, ४, ३६.
 परि-स्तरण- -णम् काश्री ४, १३,
 १५; आपश्री १, १४, १७; वाश्री;
 -णानाम् आपश्री १, ५, ५;
 भाश्री १, ५, १; -णानि वैश्री
 २०, २२: ४; काश्री ४७, १५;
 -णाय बौश्री २, ११, ६३; -णे
 बौश्री २०, ४: ३८; ५: ३; वाश्री
 १, १, १, ७४; -णेभ्यः आमिष्ट
 १, ६, ३: ९; -णैः आश्री १, ८,
 २; वाश्री १, २, ४, १२; ५, २, ४६.
 परिस्तरणी- -णीम् आपश्री
 १, १४, १३.
 परिस्तरण-कूर्च- -र्चम् वैध १,
 ६, ४^१; -र्चान् वैध २, १, ६.
 परिस्तरणकूर्च-पवित्रा(त्र-आ)-
 दि- -दीनाम् वैश्री ११, १०: ७.
 परिस्तरण-दाह- -हे आमिष्ट २,
 ७, ९: १९; बौश्री ४, २, २; माश्री

३, १९: ५.
 परिस्तरण-न्याय- -यः गोश्री १,
 ७, १४.
 परिस्तरण-पात्रसंसादन-प्रोक्षणा-
 (रा-आ) ज्यनिर्वपण- -णानि
 काश्री ८, ६, २३.
 परिस्तरण-पात्रसंसादन-प्रोक्षणा-
 (रा-आ) ज्यनिर्वपणा(रा-अ)धि-
 श्रयण- -णानि काश्री ६, २, ५;
 ८, २, २०; ८, ३८.
 परिस्तरण-पात्रसंसादन-प्रोक्षणा-
 (ण-आ) ज्यनिर्वपणा(रा-अ) -
 धिश्रयण-सुकसंमार्जनो(न-उ)-
 द्वासना(न-अ)वेक्षण- -णानि
 काश्री ९, १, २.
 परिस्तरण-बर्हिस्- -र्हिषः वैश्री
 १, ८: ४; २१: ५.
 परिस्तरण-योग- -गात् अप
 २४, ४, १.
 परिस्तरणा(ण-आ)दि- -दिः
 वैश्री २, १: ८.
 परिस्तरणादि-संभार-
 -राणाम् वैश्री ६, १: १७; -रे
 वैश्री ६, १: ७.
 परिस्तरणा(रा-अ)न्त^१ - -न्तम्
 वैश्री ११, १: ५.
 परिस्तरणीय- -यान् बौश्री ३,
 १०: २; आमिष्ट ३, ५, २:
 १४; ६, ३: ४; बौपि.
 परि-स्तीर्ण- -णस्य वाश्री २, ४;
 -र्णाः बौश्री १, ४: २; -र्णे वाश्री
 १, १, ५, ६.
 परि-स्तीर्य आपश्री २, ६, ४; शाश्री
 ४, ३, ७; काश्री,

परि-स्तीर्थ^१ - -र्थम् वैश्री १, ११: ४.
 परि-स्तीर्थमाण- -णान् भाश्री ४,
 ५, ४; -णेयु आपश्री ४, ३, ६;
 वैश्री ३, ९: ९; हिश्री ६, १, ३९.
 परि-स्तृणत्- -णत् बौश्री ५, १२:
 ११; २१, ४: २६; -णन्तम्
 वैताश्री २, ७.
 परि-स्तृ(त>)ता- -ता वैश्री ११,
 २: ५.
 परि√स्वन्द>परि-स्वन्द- -न्दः
 बौध ३, २, १६; ३, २३.
 ऋपरि√स्वस्व>परि-स्वस्व^१ - -स्वसा
 आपश्री ५, १, ७; बौश्री २, ६:
 १५; भाश्री ५, १, ६.
 ऋपरि-स्वज्- >स्वजिन्^१ - -जो
 आपश्री २२, ७, ७; बौश्री १८,
 १: ३; ४; हिश्री १७, ३, ६.
 २परि-स्वज्- -स्वक् आपश्री १२, १,
 ११; भाश्री २, ३, १, १५; हिश्री
 ८, १, २२.
 परि√स्तृ, ऋपरिस्त्व जुम् ३, ११:
 २०; अप ४८, ११^२; निघ ३,
 २१; या ६, ६; ९, २.
 परिसुस्तृ: वाधुश्री ४, ७५: ३९.
 परि-(स्व>)स्वा^१ >स्वा-व(त>)
 ती^१ - -ती वाधुश्री ४, ७५: ४०.
 परि-स्तृत्^१ - -स्तृत् आपश्री १८, १,
 १०; १९, १, ८; ६, ५; वैश्री
 ११, १: १०; हिश्री २३, १,
 १४; -ऋस्तृत्: काश्री १४,
 १, १४^१; आपमं २, १५,
 ४^१; आश्री २, ८; १६^१;
 शाश्री; काश्री ११, २^१; भाश्री
 २, ३: ९^१; माश्री १, २०,

a) पाभे. वैप १, १९५१ j द्र.। b) वैप २, ३ खं. द्र.। c) स्तरकू^० इति पाठः! यनि. शोधः (तु. उत्तरं स्थलम्)। d) विप.। बस.। e) विप.। मस. उप. वयप्र. उसं. (पा ३, १, १२३)। f) वैप १ द्र.। g) = पात्र-विशेष-। बस.। उप. = रास्ना- (तु. भाष्यम्)। h) = २श्च-। मस. उप. कर्तरी डः प्र. उसं. (पा ३, २, १०१)। i) = अम्याहुतिविशेष-। j) पाभे. वैप १, १९५१ s द्र.। k) शोधः वैप १, १९५१ t द्र.।

२; -सुतम् शांश्रौ ४, ५, ३;
१२, १७, १, आपश्रौ; -सुता
वैश्रौ ११, १: ११; भाशि २०.
परिसुच-छे (<शे) ष- षम्
काश्रौ १५, १०, १६.
परिसुत्-क्षीर-लिस- -सानि
काश्रौ १९, ५, ११.
परिसुद्-धो (<हो)म- -मः
काश्रौ १५, १०, १५.

परि√स्वन्> परि-स्वान^१- -नम्
निसू ८, ४: १७.

परिस्वाना^१- -ना निसू ६, २: ९;
-नाम् निसू ६, २: ८.

परि√सृ> परि-स्वार^२- -रः लाश्रौ
७, ८, ८; नाशि १, ७, ५.

?परिस्वृतेषु^३ ऋप्रा ५, २४.

परि√हन्, परिघ्नन्ति शांश्रौ १६,
१८, १४.

परिघातयति बौश्रौ १८, २०: ६;

परि^१, लि^१-व^१- पा ३, ३, ८४; ८,
२, २२; पावाग ८, २, १८^४; -घः
अप ४८, १०१^५; ६१, १, २६;
-घम् माण २, २८: ३^६; अप
६१, १, १४; ७०^२, २३, १३;
-घे अप ६१, १, १५.

परि-हनु^१- (> परिहनव्य- पावा.)
पावाग ४, ३, ५८.

परि-हरण- प्रभृ. परि√हृ द्र.

परि-हव- परि√हे द्र.

परि√हस्, परिहस्यते अप ६८, ४, ४.
परि-हास- -सम् वाश्रौ ३, २, ४,
१०.

परि-हस्त- पागवा ६, २, १८४.

परि√हा, (त्यागे) परिजहति बौश्रौ
२५, ५: ७; परिजह्यात् बौश्रौ
२०, १: ६३.

परिहीयते अप ५२, ११, ४.

परि-हाणि- पाउवृ ४, ५१.

परि-हाप्य शांश्रौ १, १७, १०: ३,
१६, १३××; काश्रौ; आपघ
२, १५, २^१.

परि-हाय माश्रौ ६, १, ३, ३.

परि-हीण- -णस्य बौश्रौ १४, २६:
११; -णे बौश्रौ २३, ८: १९.

परि-हार- प्रभृ. परि√हृ द्र.

परि√हि, ऋपरिहिणोमि^१ अप १, ३८,
२; अशां ८, २; ऋपरिहिणोमि^१
ऋप्रा ५, ५०; अप्रा ३, १, ७;
शौच ३, ८८.

परि√हि, परिजुहुयात् बौश्रौ २०,
१९: १६; २१, १५: ३९××.

परि-हृत- परि√हे द्र.

परि√हृ, परिहरते काश्रौ १५, ५, १३;
परिहरति काश्रौ २, ७, १; ३, ४,
२५××; आपश्रौ; परिहरन्ते बौश्रौ
१८, ३८: १८; परिहरन्ति
आश्रौ ४, १२, ८; आपश्रौ २१,
६, ६; बौश्रौ ३, २४: १४;
हिश्रौ १६, ३, ६; वैणु ६५: ६;
परि...हरन्ति बौश्रौ १, १८:
१७; ५, ४: ३; ९: २; परिहरत्
सु १५, ४; परिहरन्ते बौश्रौ १८,
३८: १७^५; ऋपरिहर बौश्रौ
१, १८: १७; ४, ९: ३६;
५, ४: २; ९: २; परिहरेत्
आश्रौ २, ३, ७; वैश्रौ; परिहरेयुः

आपश्रौ ९, २०, ९; वाश्रौ १, ४,
४, ३४; वाधुश्रौ ३, ८ ३: ९;
लाश्रौ ८, ८, १६.

ऋपरि...अहृषत् काण ४५, ११;

परिहार्षम् वैश्रौ १४, १९: २^६.

परिहारयेत् बौश्रौ २३, ३: १४.

परि-जिहीर्षत्- -र्षन् निसू ८, ६:
३०.

परि-जिहीर्षित- -त्म् निसू २, ६:
१; गौपि २, ७, १.

परि-हरण- -णात् शांश्रौ ८, १५, ६;
वाश्रौ ३, २, १, ४०; द्राश्रौ;

-णाय वाश्रौ १, ६, ३, २०; -णे
बौश्रौ २१, १५: ४३.

परिहरण-काल- -ले बौश्रौ १५,
२१: ३; माश्रौ ५, २, १०, ११.

परिहरण-प्राशन- -नम् आपश्रौ
३, १, ५.

परि-हरत्- -न्त् बौश्रौ २१, १५:
४४; वैश्रौ १४, १९: १; वैणु ७,

४: ३; गोणु २, १०, ३३; वैघ ३,
६, १०; -न्तः कौणु ३, ९, ५८.

परि-हरमाण- -णः बौश्रौ २६, १८:
१९; १९: ९; आपघ; -णाः

बौश्रौ १७, २७: ५; २६, २५:
९; २७: २२.

परि-हरिष्यत्- -ष्यन्त् बौश्रौ ६, ३३:
१; २०, १३: ३२.

परि-हर्षव्य- -व्यम् या ३, २.

परि, री^१-हार^१- -रः शौच ४,
११७; -रम् विघ ३, ११; -रे

जैश्रौका८९; -रेण निसू ८, ४: ३४
परिहार-सू^१- -सुः आपश्रौ १९,

a) = परि-स्वार-! b) = ऋग्-विशेष-। <परि स्वानासः [कौ १, ४८५]। c) = गानप्रकार-विशेष-।

d) पाठः! सपा. शांश्रौ ८, ८ परिश्रुतेषु इति पाठे। e) माण. अप. पाठः। f) = आणुघ-विशेष-।

g) द्र. पागम.। h) अस.। i) सप्र. हिष २, ३, ३२ कर्षयित्वा इति पाठे। j) परस्परं पाठे।

k) विघ. पाठः। l) भाप., पारिभाषिक-संज्ञा-(परि-ग्रह-[शौच.])। m) विप. > नाप. (परि-रिषी- [वैप १ द्र.])।

उस. उप. किम् प्र.।

१६, ११; बौश्रौ २४, ३० : १२^३;
 हिश्रौ २२, १, ८^०.
 परि-हारम् आपश्रौ १२, २५, १;
 बौश्रौ ७, १४ : ४३; माश्रौ.
 परि-हार्य- -र्यः गौघ ८, १२; शौच
 ४, ११६; १२६; -र्यम् बौश्रौ
 १८, २० : ५; -र्याः माशि ११,
 ४.
 परि-हृत, ता- -तम् आपश्रौ ६, २८,
 ७; हिश्रौ २, ८, ३६; ३, ८, ६;
 -तासु आपश्रौ २२, ८, १६;
 काश्रौसं २९ : ६; बौश्रौ; -ते
 शाश्रौ १, १२, ९; वाश्रौ १, १,
 ५, १४.
 परि-हृत्य आश्रौ ५, ५, १२; ६, ११;
 आपश्रौ.
 परि-हियमाण, णा- -णम् आपश्रौ
 ३, १९, ६; वैश्रौ ७, १ : १; -णाः
 वैताश्रौ १६, १; -णाय भाश्रौ
 ७, १०, ४^१; -णासु आपश्रौ १४,
 ९, ३; द्राश्रौ १५, २, ४; लाश्रौ ५,
 १०, ३; -णे निसू ३, १२ : ४५.
 परि-होम^० - मे बौश्रौ २०, १९ : १६;
 २१, १५ : ३९××.
 परि√ह्ल > परि-ह्लालम् काश्रौ ७,
 ५, ६; भाश्रौ १०, ७, १४.
 परि√ह्वे > ऋपरि-ह्व^१ - वम् आपमं
 १, १३, ५; बौश्रौ ४, २, ११; अप
 १, २६, ४.
 ऋपरि-हृत- -तम् आपमं १, १३, ६;
 बौश्रौ ४, २, ११; हिश्रु १, १६,

१७^०.

परी(रि√इ), पर्येति शाश्रौ ४, १६,
 १०; १५, ११, १××; काश्रौ;
 आपश्रौ १६, २०, १४^१; हिश्रौ
 ११, ६, ६१^१; या ९, १५^१; या
 परीतः काश्रौ ५, ८, ३३; वाधूश्रौ
 ४, २७ : १८; परियन्ति शाश्रौ
 १३, ११, ४; १७, १४, १३; १७,
 ८; काश्रौ; बौपि ३, २, ३; ४^६;
 ऋपर्येषि आपश्रौ १२, १२, १३;
 हिश्रौ ८, ३, ४२ वैताश्रौ १४, १;
 ऋपर्येति आश्रौ १०, ९, २;
 शाश्रौ १६, ६, १; लाश्रौ ९, १०,
 १०; ऋपरियन्तु^१ आपमं १, १, ८;
 बौश्रु १, ६, २१; ऋपरीहि आपश्रौ
 १२, २२, ८^१; बौश्रौ ५, १३ :
 १७; १५ : १९; ७, १३ :
 २२^१××; हिश्रौ ८, ७, १४^२;
 आपमं २, २, १०^१; बौश्रु
 २, ५, १४^१; ऋपरीत^१ आपश्रौ
 ३, ४, ४; भाश्रौ ३, ४, ४; माश्रौ
 १, ३, ३, १४^१; वाश्रौ; ऋपर्याणि^१
 बौश्रौ २७, ६ : १६; १८;
 वैश्रौ २०, ३० : ११; १३;
 पर्येत् शाश्रौ १५, ११-१२,
 १; १६, १५, १; बौश्रौ; पर्येताम्
 वाधूश्रौ ४, ३० : ११; पर्यायन्
 वाधूश्रौ ४, १९ : ३५; परीयात्
 आपश्रौ ८, १८, ३; बौश्रौ;
 परीयाताम् बौश्रौ २०, १८ :
 २६; परीयुः वैश्रौ २१, ८ :

६; द्राश्रौ; लाश्रौ ४, ३, १८^१;
 ऋपरीयाः द्राश्रौ १०, २, १३;
 लाश्रौ ३, १०, १२; परीयाम्
 शाश्रौ १५, ११, १; १२, १;
 बौश्रौ १८, १९ : ११; १३××;
 परि-यत्- -यन् वैश्रौ १०, ५ : २;
 द्राश्रौ १३, ३, १; लाश्रौ ५, ३, ७.
 परी(रि-इ)त्, ता- -तम् निसू ९, २ :
 ९; -ताः निसू ६, ३ : १५;
 -तानाम् बौश्रौ १४, २७ : १३;
 १५××; -तायाम् शौघ ३४८;
 -ते जैश्रौका ४३.
 परी(रि-इ)त्य आश्रौ १, १२, ८; २,
 ४, १७; ६, १०, १३; शाश्रौ;
 अप १, ६, ६^१; या १२, १३;
 परीत्यऽपरीत्य आपश्रौ ८, १८,
 ६; भाश्रौ.
 पर्येत्- -र्यन् आश्रौ २, ५, ३^०.
 पर्यं(रि-अ)यण- -णम् काश्रु ७१,
 १०; -णाय वाधूश्रौ ३, ११, ५;
 -णे काश्रु २५, ३४^१.
 पर्यां(रि-आ)य^१ पा ३, ३, ३८;
 -यः काश्रौ १०, १, ६; १२,
 ६, ६; आपश्रौ; अप्राय ३, ३^१;
 -यम् आपश्रौ १७, २०, १;
 हिश्रौ १२, ६, १६; २२, १, ३१;
 द्राश्रौ; -यस्य माश्रौ २, ४, ४,
 ७; वैश्रौ; -याः आश्रौ ६, ४,
 ७; ११; काश्रौ १२, ६, ५;
 माश्रौ; अत्र ८, १०; या १,
 ९^१; ऋ; -याणाम् आश्रौ ६,

a) अर्धसंवत्सरं सूत्वाऽपरस्मिन् प्रसूयते इति वा, एकस्मिन् पुमान् एकस्मिन् स्त्रीवत्सो वा यस्या इति वा भाष्यम्। b) षासूः इति पाठः? यनि. शोघः (तु. आपश्रौ.)। c) परि-यञ्ज- टि. द्र.। d) वैप १ द्र.। e) षुतं इति Böhrt (ZDMG [५२, ८४])?। f) पाभे. वैप १, १९५३ e द्र.। g) प्रतिपरि^० इति B.। h) पाभे. वैप १, १९५३ g द्र.। i) पाभे. वैप १, १९५३ j द्र.। j) पाभे. वैप २, ३खं. पर्येहि मंत्रा १, ६, २८ टि. द्र.। k) पाभे. पृ ७८४ g द्र.। l) पाठः? परियाणि इति संस्कृतुः टि. [बौश्रौ.] शोघः। m) परि^० इति पाठः? यनि. शोघः [तु. भाष्यम्]। n) रि^० इति पाठः? यनि. शोघः। o) पाठः? परि-यन् इति मूले.। p) भाप. > नाप.। q) उत्तरेण सधिरार्षः।

४, १; शाश्रौ; -यान् आश्रौ ६,
६, १; आपश्रौ; -याभ्याम् वाश्रौ
१, ६, १, २४; ३, २, ५, ४; हिश्रौ
१५, ६, ३२; कौस् ५८, २३;
-ये आश्रौ ६, ४, २; आपश्रौ
१२, १०, ११×; बौश्रौ; पा
३, ३, ३९; -येऽ-ये माश्र १,
१०, १९; -येण बौश्रौ १७, ९:
१८; माश्रौ १, ४, १, २७; ४, १,
२८^५×; वाश्रौ; विध ४३, २३;
४४, २; पा ७, ३, ३१; -येभ्यः
द्राश्रौ ५, ३, ६; लाश्रौ २, ७, ५;
-यषु आश्रौ ५, १०, ११;
वैताश्रौ १२, १७; अषं १ : २९;
-यैः शाश्रौ १३, १०, ४; ७;
आपश्रौ; -यौ आपश्रौ १२,
२९, २ : २१, १३, १७, लाश्रौ.
पर्याय-कृति- -तिः निस् १,
८ : १४; २५; ३६; ९ : ५;
-तौ लाश्रौ ६, ६, ९.
पर्याय-कृति-प्रयोग^b- -नौ
लाश्रौ ६, ७, १९.
पर्याय-तस् (:) वैश्र १, २० : १०;
जैश्रौका १५१.
पर्याय-प्रत्यवरुह- -हम् लाश्रौ
६, ६, ६.
पर्याय-प्रभृति- -तीनाम् आश्रौ
५, ९, २.
पर्याय-भा(ग>)गा- -गा निस्
१, ८ : १७.
पर्याय-मन्त्र- -मन्त्रान् अश्र ८, १०
पर्याय-रोह- -हम् लाश्रौ ६, ६, ५
पर्याय-वचन- -नस्य पावा १,
१, ६८^३.
पर्याय-विदोष- -षम् निस् १,

१० : २७.
पर्याय-विष्टाव^c- -वान् द्राश्रौ
५, २, १६; लाश्रौ २, ६, ९.
पर्याय-शस् (:) आश्रौ १०, ७, ९.
पर्याय-समाधि- -धयः निस् ४,
२ : १७.
पर्याय-सूक्त-मन्त्र- -मन्त्रः अश्र
११, ३ (२).
पर्याय-स्थान- -नेषु लाश्रौ ६,
६, १६.
पर्याया(य-आ)दि- -दिषु काश्रौ
९, ५, ४; १३, ३, २५; द्राश्रौ ५,
२, १७; लाश्रौ २, ६, १०; ६,
१, १५; -द्वौ जैश्रौका १२०.
पर्यायादि-पर्यायान्त-
-न्तयोः लाश्रौ ७, ६, १८.
पर्याया(य-अ)न्त- -न्ते लाश्रौ
१०, २, १२; -न्तेषु निस् ४,
२ : १७.
पर्याया(य-अ)र्थ- -र्थम् पावा
१, ३, ७.
पर्याया(य-अ)ह्रणो(ण-उ)त्पति-
-त्तिषु पा ३, ३, १११.
पर्यायिक^d- -कम् अषं २ : १;
-कैभ्यः अष ४६, ९, ७; अश्र
१९, २२.
पर्यायिक-वर्जम् अषं २ : ५.
पर्यै(रि-ए)ष्य(त् >)न्ती- -न्त्यः
शाश्रौ १७, ४, ८.
परी(रि/इ)ध्, पर्यैक्षन्त वाधुश्रौ ४, २९;
१३; परीक्षन्त आश्र १, ५, ११;
२, ८, १; वैश्र ३, १४ : ८; कौस्;
या २, १.
परीक्षयेत् काश्र १४, ३, ४.
परी(रि-ई)क्षा- -क्षा बृदे ५, ९४;

-क्षायाम् कप्र ३, १०, १०.
परीक्षा(क्षा-अ)र्थ- -र्थः आपध
१, २९, ६; हिश्र १, ७, ६२.
परी(रि-ई)क्षि(त>)ता- -ताभिः
शोध ४५९.
परी(रि-ई)क्ष्य वैश्र ५, १ : ३.
परी(रि-ई)क्ष्य, क्ष्या- -क्ष्यः अष
७०^३, १२, २; -क्ष्याः विध ८,
६; बृदे ३, ८०; ५, १३.
परीक्षन्त^e वाधुश्रौ ४, ५९^३ : ३.
परी(रि/इ)च्छ्, परीच्छेत् शाश्रौ १,
१७, ९.
परी(रि-इ)ज्या^f- -ज्या बौश्रौ २५,
२२ : ६; -ज्याम् हिश्रौ ९, ४,
७; -ज्यायाः काश्रौसं २९ : ८;
-ज्यायाम् शाश्रौ ८, ४, ४;
-ज्यायै बौश्रौ २१, २३ : १०.
परीण^g- -णम् लाश्रौ १०, १९, १.
परीणट-सहित^h- -तम् वैश्रौ ४,
४ : २.
परीणसⁱ- -णसः आश्रौ ८, १, २;
वैताश्रौ ३१, २७; -णसम् तैषा
३, ७; ७, ४; -णसा निध ३, १;
-णसि क्षुस् ३, ११ : ८^१.
परीणह- परि/णह् द्र.
परीणाम- परि/णम् द्र.
परीणह- परि/णह् द्र.
परीत- परी(रि/इ) द्र.
परीतान- परि/तम् द्र.
परीतोषात् परितोषात् द्र.
परीत्त- परि/दा द्र.
परीत्य परी(रि/इ) द्र.
परीदाय परि/दा द्र.
परी(रि/इ)ध्, न्घ, परीन्धे आपश्रौ
१६, ९, ५; हिश्रौ १, ३, २४;

a) क्वचित् वा. क्वि. । b) षस. > द्रस. । c) समाहारे द्रस. । d) वैष १ द्र. । e) पाठः ?
पर्यैक्षन्त इति संस्कृतुः शोधः । f) परिषत् टि. द्र. । g) अर्थः व्यु. च ? । = कुक्षेत्रमभूमेरुवत्प्रदेश- इति
भाष्यम् । h) पाठः ? (तु. णत्-सं इति संस्कृतुः टि.) । पूष. = परीणह- । i) वैष १, १९५४ म.प. द्र. ।

पर्येन्द्र वायुश्रौ ४, २९:१४;
परि...ऐन्द्र वायुश्रौ ४, २९:
१५-१७; १८^३; १९; परीन्धीत
माश्रौ १, ५, १, १८.
‡परी(रि-इ)ध्य- -ध्यः आपश्रौ
१४, ३४, १; बौश्रौ २९, ६: ३;
वैश्रौ २१, १७: ३; हिश्रौ १५,
८, ४४.
परी(रि-इ)न्ध^३- -न्धेन बौश्रौ २,
१४: १; ५, १: २९.
परीप्सत्- प्रस्. पर्या(रि/आ)प् द.
परी-माण- परि/मा द.
परीर- पाठ ४, ३०.
परी-वाद्- पारि/वद् द.
परी-वाप- परि/वप् द.
परी-वृत्- परि/वृ (आच्छादने) द.
परी-शास- परि/शस् द.
परी(रि/इ)ष् (गतौ) > परीष्टि- , पर्ये
(रि-र)षणा- पावा ३, ३, १०७.
परी(रि-इ)ष्ट- परि/यत् द.
परीसान^३- नम् अप ४८, ८०.
परी-हार- परि/हृ द.
‡परुक्णाः^० भाश्रौ ५, १९, ८.
परुच्छेप^३- -पः ऋअ २, १, १२७;
वृदे ३, ५६ शुअ; या १०, ४२०^३;
-पस्य चाअ ४१: २०; या १०,
४२; -पात् ऋअ ३, २१; वृदे
३, १२५; -पे वृदे २, १२९;
ऋप्रा २, ६५.
पारुच्छेप^३- -पस् ऋअ २, १,
१२७.
पारुच्छेपी- -पीः शाश्रौ १०,

७, २; बौश्रौ १६, ५: १८;
२६, १४: ४; वैताश्रौ ३१,
२७; -पीनास् आश्रौ ७, १२,
१; -प्यः आश्रौ ८, १, ११; १५.
पारुच्छेपि- -पिः ऋअ २, ९,
१११; साअ १, ४६३.
परुच्छेप-ऋच्- -ऋचः उस् ३, ६.
परुत्^३ पा ५, ३, २२; पाग १, ४, ५७^३;
पावा ५, ३, २२.
परुत्-त्- पावा ४, ३, २३.
परुत्^३ > स्त्-क^३- -कैः आपश्रौ
५, २७, ११.
परुष^३- पाठ ४, ७५; -षः सु २३, ५;
-षम् सु २, २; आपघ १, ३१,
५; -षाः अप ६३, ४, ९; बौघ
२, ३, ४०; -षे या २, ६१^३.
परुषां(ष-अं)सक- (> पारुषांस-
किन्-) पुरुषांसक- टि. द.
परुष्णी^३- -०ष्णि या ९, २६१^३;
-ष्णीम् वृदे ६, ९६^३; -ष्ण्याम्
ऋप्रा ८, २५^३.
परुस्^३- पाठ २, ११७; -ः बौश्रौ
६, १४: १०; माश्रौ १, १, १,
३३; वाश्रौ १, २, १, १६; हिश्रौ
१, २, ३२; -रुःऽरुः तैप्रा ८,
३२^३; -रुषः आपश्रौ २३, १३,
३^३; -रुषःऽरुषः शुप्रा ३,
३७^३; -रुषा बौश्रौ ६, १४:
१०^३; -रुषि शुप्रा ३, ३७^३;
-रुषिऽरुषि भाश्रौ ३, १५,
३; या १०, ४२; परुः षु कौस्
१२४, ५^३; -रुषि आपश्रौ ५,

१९, ४^३; बौश्रौ १८, ३२: १३;
भाश्रौ.
परुषि-दित^३- > ०त्-पूर्ण-वृत्त-
विदग्ध^३- -ग्धम् मीस् ३, ४, ११
परुष^३- पाठभो २, ३, १६६.
परुष-क^३- -कम् शाश्रौ १५, १९, १.
परे(रा/इ), परैति वाश्रौ १, ६, ६, २४;
परायन्ति भाश्रौ ८, २०, ३;
परैतु^३ शाश्रौ ४, १६, ५; कौघ ५,
८, ५; ‡परैहि आपश्रौ २१, ४;
१; वैताश्रौ १०, १७; निस्सु;
या ६, १२; ९, ३३; ११,
७; ‡परैत आपश्रौ १, १०,
७^३; ५, १८, १; बौश्रौ ३, ११:
२२^३, ५, १५: १७^३; भाश्रौ^३ १,
९, १२; ८, २०, ४; हिश्रौ २, ७,
५१^३; ३, ४, ५४; वैघ ४, ४:
२४^३; आप्रा ३, २, ६; ‡परैतन^३
आश्रौ २, ७, ९; माश्रौ १, १, २,
१४; ३७; ७, ६, ५२; वाश्रौ १, २,
३, १४; ३२; ७, ४, ५३; ‡परा...
एतन ऋप्रा २, ७२; १०, ३; ११,
१०; उस् २, १८; परैयात् हिश्रौ
७, ८, ५४.
‡परा(रा-अ)यण^३- -०ण विघ ९८,
९९; -णः अप्राय १, ४^३; -णान्
विघ १, ६४; -णे आपश्रौ १३,
२०, १; बौश्रौ १०, २४: १८;
वैश्रौ १८, १५; ५; बौघ ३, ५, १८.
‡परा-यत्- -यते आश्रौ १, १२,
३४; आपश्रौ; -यन् आपमं २,
११, २६.

a) नाप. (अभि-). b) =उदर-। व्यु. ?। c) पाठः? परुक्काः (परुभन्तः) इति शोधः (तु. सप्र. आपश्रौ ५, २७, ११ परुकैः इति पाभे.)। d) वैप १ द्र.। e) =सुक्त-। f) =पूर्वसंवत्सर-। व्यु. ? पाप्र. <पर- <पूर्व- इति। g) तु. पागम.। h) =पस्- (तु. वैप १ पुरुच्छेप- टि.)। व्यु. ?। i) विप.। मत्वर्थीयषु ठञ् > कः प्र. (तु. भाष्यम्)। परुष्-क- इति C.। j) पाभे. वैप १, १९५५। द्र.। k) उप. <√दा (अभ्रखण्डने)। l) समाहारे द्वस.। m) =वृत्त-, तत्फल-। व्यु. ?।। n) स्वार्थे कः प्र.। o) पाभे. वैप १, १९५६। d द्र.। p) पाभे. वैप १, १९५६। m द्र.।

†परे(रा-इ)त- -ताः आपश्चौ १६,
२५, २; वैश्रौ १८, १८: ३;
हिश्रौ ११, ७, ४२; कौगृ ३, २,
१; शांथ ३, २, २; आमिगृ ३, २,
५: ४.

परे(रा-इ)त्य आपश्चौ ७, २७, १५;
९, २, ४××; काठश्रौ.

परे(रा-ई)यिवस्^a- -कंवासम्^b आश्रौ
२, १९, २२; शांश्रौ १५, ९,
५××; कौसू; या १०, २०००.

?परेयुवस्^c- -वांसम्^d वैश्रौ २०,
२२: १; आमिगृ ३, ५, २: १;
बौपि १, १: १९; २: १; हिपि
१: १८.

?परेक्तौति अप ४८, ११६.

परे(रा√ई)क्ष, परेक्षते आपश्चौ १२,
१०, १०; बौश्रौ ७, १०: १६;
१८; वैश्रौ; परेक्षते बौश्रौ ७,
११: ६; परेक्षन्ते बौश्रौ ७, ११:
१३; २०; परेक्षत हिश्रौ ८, ५,
३८.

परेक्षयति बौश्रौ ४, ४: ३१.

परोक्ष- , ण्यवृत्ति- प्रमृ. परस्- द्र.

परो(रा-उ)ष्णिह^d- -ष्णिक् शुअ २,
१९९; ४, ८४; १०७; अअ ६,
२३१; ७, ५५××; पि ३, २१;
-ष्णिहः अअ २, ११; ६, २;
-ष्णिहम् शुअ ४, २०; -ष्णिहौ
अअ १८, १.

परोष्णिह्-महापङ्क्ति- -ङ्क्ती शुअ
२, ३३९.

पर्णी- पर्णी- टि. द्र.

पर्चयत्- √पृच् द्र.

पर्जन्य^a- पाउ ३, १०३; -न्यः काश्रौ
२५, १२, ८१; †आपश्चौ ४,

६, १; १०, १, १४××; बौश्रौ;
या २, २२; ४, २१; २७; ७,
८; १०; १०, १०००; १११;
-न्यम् आपश्चौ ८, १, ४१;
वाधूश्रौ ३, ५०: ११; पागृ

२, १३, २; आमिगृ; शंघ ११६:
५५१; वृदे २, ३७; या ९, ६;

-†न्यस्य आश्रौ १, ३, २३;
बौश्रौ ६, १५: १७; २७, १४:

४; आपर्मं; -†न्याः बौश्रौ १८,
१८: १६; आमिगृ २, ५, १०:

२८; ११: २७; या ६, २२; ७,
२३; -न्यात् अप्राय ६, २३;

-न्यान् आमिगृ २, ५, ११: २८;
-न्याय आश्रौ २, १५, २१;

शांश्रौ ३, १३, ४, आपश्चौ; -न्ये
बौश्रौ १०, ४८: २८१; -न्येन

आमिगृ २, ५, १०: २७१; वृदे
१, ११७; या ७, ५.

पर्जन्य^b- -न्यः अप ४८, ४४१;
-न्यम् आपश्चौ ८, १, ३; बौश्रौ

५, १: ८; माश्रौ; -न्यस्य
आपश्चौ ८, १, ४; वैश्रौ ८, ३:

८; -न्याः शांश्रौ १६, ९, २९;
आपश्चौ २०, २३, ११; -न्यान्

काश्रौ २०, ८, ३०; -न्याय
कौगृ ३, १०, १११; -न्ये

आपश्चौ ८, १, ४; बौश्रौ.
†पर्जन्य-जिन्वि(त>)ता^c- -ताम्

या ९, ६००.
पर्जन्य-पक्ती^d- -पक्ती कौसू १०६,

७१.
पर्जन्य-प्री(त>)ता- -ताम् या

९, ६.
पर्जन्य-मित्रा(त्र-आ)दि- बहु-

देवता- > ष्य- -न्यम् अअ
१, १.

†पर्जन्य-सु(ष्ट>)ष्टा- -ष्टाः अप
१, ४०, ३; अशां १०, ३.

पर्जन्य-स्तुति-संहृष्ट- -ष्टान् ऋअ
२, ७, १०३.

पर्जन्या(न्य-अ)ग्नि- -ग्नी वृदे ५,
३९.

पर्जन्याग्नि-देव(त>)ता^e- -ता
ऋअ २, १, १६४.

पर्जन्या(न्य-अ)ग्नि-विवस्वत्-
-स्वताम् वृदे ४, ३८.

†पर्जन्या(न्य-आ)म्न^f- -त्मभ्यः
बौश्रौ ७, ४: १५.

पर्जन्या(न्य-अ)निल-मास्कर- -राः
वृदे ७, २८.

√पर्णी पाधा. चुरा. उभ. हरितभावे.

१पर्ण^g- पाउ ३, ६; पाग ४, २, १०;
३, ७६; ५, २, १७; १००^h; -र्णः

आपश्चौ ५, २, ४१; बौश्रौ २, ७:
१७; १२: ४; १४, २९: २०;

वाधूश्रौ; -र्णम् शांश्रौ ४, १६,
५१; †आपश्चौ १, १४, ६××;

बौश्रौ; -र्णस्य बौश्रौ १४, २९:
२०; वाधूश्रौ ३, ४१: २९; ४,

६४ⁱ: ५; -र्णानि बौश्रौ १, ३:
१; वैश्रौ ३, ५: ७; आपगृ २०,

५; कप्र ३, ४, ३; अप २०, ३,
३; -र्णे बौश्रौ ५, १६: १०;

जैगृ १, २: १४१; अप ७०^j,
७, १५; ७१, ११, २; वैध ३, ५,

१३; आज्यो १२, ४; -र्णेन
बौश्रौ २४, ८: १२; १३; २८,

८: १४; माश्रौ ९, ३, ५; बौगृ
१, ७, ३४; अप्राय ४, १; ३;

a वैप १ द्र. । b) पामे. वैप १, १९५७ g द्र. । c) ष्यि> ष्यु इति. चावि. द्र. । d) = छन्दो-
विशेषः । कस. । e) पाठः ? । अपु २१९, २४ स्वजन्यम् इति पामे. । f) विप. । साऽऽन्यदेवतीयाद्यर्थे ऋण्
प्र. । g) विप. । बस. । h) तु. पागम. ।

-जेषु आपगृ २०, १४; -जैः
 आपघ २, २२, २; २३, २.
 १पर्ण- पा ४, ३, ७६; -र्णः
 कौट २, ६, ९५; कप्र १, ८, १२;
 -र्णान् गोवृ १, ७, १५.
 पर्ण-वैल्वा (लव-आ) इवत्थ-
 त्थाः गोवृ २, १०, १०.
 पर्ण-कषाय- -यः वाधूश्रौ ४, १०४ :
 १५.
 पर्णकषाय-पक्क- -क्वम् काश्रौ
 १६, ३, १५.
 पर्ण-कुटी- -टीम् शंघ ३८७; विध
 ५०, १.
 पर्ण-कृच^१- -चः शंघ ४१७.
 पर्ण-कृच्छ्र^१- -च्छ्रः शंघ ४१७;
 विध ४६, २३.
 पर्ण-त्त्व- -त्वम् बौश्रौ १४, २९;
 २०; वाधूश्रौ ३, ४१ : २९; ४,
 ६४^१ : ५.
 पर्ण-त्सर- -रुषु आमिगृ ३, ७, ३ :
 १५; बौपि २, १, ७; -रूपाम्
 बौश्रौ १४, २९ : २१; २०, ३ :
 २४; आमिगृ.
 पर्ण-पुट- -टम् भागृ २, १० : २;
 हियृ २, ९, ५; -टे आपगृ २०, ७.
 पर्ण-मणि^१- -णिम् अत्र ३, ४.
 पर्ण-मय- -यम् बौश्रौ १२, ४ : २;
 १०xx; आमिगृ; -यान् बौश्रौ
 १४, १६ : १७^२; -यानि काठश्रौ
 ७; १२०; कागृउ ४६ : ७; -चे
 बौश्रौ १७, ३६ : ५; १८, १ :
 १३xx; -येन आपश्रौ १८, ९,
 १७; बौश्रौ १२, ४ : १३; ८ :

८xx; वाश्रौ; -जैः हिय्रौ १४,
 ४, ४१.

पर्णमयी- -यी आपश्रौ १,
 १५, १०; भाश्रौ १, १६, ५;
 -यीभ्याम् बौश्रौ १८, ९ : २;
 -य्याम् बौश्रौ १४, १६ : २३;
 १९ : २४; -य्यौ बौश्रौ १८,
 ८ : ६.

पर्णमय-वारण- -गौ बौपि १,
 १५ : ८२.

पर्णमय-वारण-वैतस-शमीमय-
 -यान् आमिगृ ३, ८, १ : १०^०;
 बौपि १, १४ : १०.

पर्णमय-सुव- -वम् बौपि ३,
 ६, ६.

पर्ण-मुच्च- पाउवृ २, २२.

पर्ण-मूल-फला(ल-अ)शन- -नः
 शंघ ३८७.

पर्ण-रुह- पाउवृ २, २२.

पर्ण-ल- पा ५, २, ९७.

पर्ण-लोष्टा(ष्ट-अ)श्मन्- -श्मनिः
 गौघ ९, १५.

१पर्ण-वल्क^१- -ल्कः आपश्रौ १,
 १३, १५^१; -ल्कम् आपश्रौ १,
 ११, १०; वैश्रौ ३, ८ : ७; हिय्रौ

१, ३, १७; -ल्काः आपश्रौ १,
 १४, १; -ल्कैः हिय्रौ १, ३, ५३.

पर्ण-वल्कल^१-> °ल-फा (रट>)
 ष्टा^१- -ण्टामिः माश्रौ ६, १,
 २, २.

पर्ण-विहार^१- -रः भागृ २, ९ : ८^६.

१पर्ण-शद^१- -दः^१ आश्रौ ८, ३,
 २३; वैताश्रौ ३२, २५.

पर्ण-शाखा- -खया आपश्रौ ८, ९,
 १२; बौश्रौ १०, ९ : १८; २२,
 २ : २५; आमिगृ; -खा बौपि

१, १४ : १२; -खाः आमिगृ
 ३, ५, २ : १५; ६, ३ : ६; बौपि

१, २ : १८; -खाम् काश्रौ ४,
 २, १; बौश्रौ १, १ : ७; १०,
 ९ : १५; २४, २३ : ३; माश्रौ

१, १, १, १२; -खायाम् बौपि
 ३, ४, १६; -खासु बौश्रौ ११,
 ११ : ५; -खे आमिगृ ३, ६,
 १ : २६; ३ : ३३; ८, ३ : ३९; बौपि.

पर्ण-शुष्- पाउवृ २, २२.

पर्ण-सद^१- -दः^१ माश्रौ १२, २३, ३.
 पर्ण-सेव^१- -वान् बौश्रौ ५, ११ :
 ३; -वाभ्याम् बौश्रौ १४, १३ :
 २६; २९; -वेषु बौश्रौ ५, १५ :
 ४; -वैः बौश्रौ ५, १५ : २४.

पर्ण-होम- -मः अप ७०^३, ९, २.
 पर्णा(री-आ)शिन्- -शी विध ९५,
 १०.

पर्णिल- पा ५, २, १००.

पर्णीय- पा ४, २, ९०.

२पर्ण^१-> पर्णीय- पा ४, २, १४५.

३पर्ण^१- (> २पर्ण- पा.) पाग ४,
 १, ११२.

४पर्ण- (> पर्ण-स- पा.) पाग ४, २,
 ८०.

पर्णक^१- पाग २, ४, ६९.

पर्णकायन- -नाः बौश्रौप्र ४५ : ६.

२पर्णवल्क^१- पाग ४, १, १०५.

पर्णवल्क- -ल्काः बौश्रौप्र ४५ : ६.
 पर्णवल्क्य- पा ४, १, १०५.

a) = व्रत-विशेष-।

b) वैप १ द्र.।

c) °वारणवे^० इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. बौपि.)।

d) द्वस.।

e) विप. (२अप्-).। तुस. उप. = फाणित- [कषायित-]।

f) = कर्म-विशेष-। षस.

पूप = पलाशपत्र-।

g) सप्र. हियृ २, ९, १ बौद्धविहारः इति पाठे.।

h) पाठे. वैप १, १९५१ द्र.।

i) = पर्ण-शद-

j) षस. उप. = वृन्त- (तु. संस्कृता)।

k) भारद्वाजदेशवाचिनश् च > ह्यः प्र.।

l) व्यप.। व्यु. ?।

वैप४-प्र-११

पर्णासि- पाठ ४, १०७.
 पर्णाट^{a,b}- पाग २, ४, ६३.
 पर्णाढिक^a- पाग २, ४, ६३.
 पर्णी- पाग ४, २, ८२; ४, ५३.^c
 पर्णुसि- पाठभो २, १, २४०.
 पर्त- √पृ, पू द्र.
 √पर्द पाधा. भ्वा. आत्म. कुत्सिते शब्दे.
 √पर्प पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
 पर्प^d- पाठ ३, २८; पाग ४, ४, १०.^e
 पर्विक- पा ४, ४, १०.
 पर्पट- पाठभो २, २, ९८.
 पर्परीक- √पृ, पू द्र.
 पर्फरीक^f- पाठभो २, २, २०; -का
 या १३, ५.^g
 पर्य(रि-अ)त्रि^h- -त्रये आश्रौ ३, २,
 ९; शाश्रौ ५, १६, ८.ⁱ; काश्रौ
 ६, ५, १; आपश्रौ; -श्रि^l आश्रौ
 ६, १४, ११; काश्रौ २, ५,
 २२; आपश्रौ; माश्रौ १, २, ३,
 २६.^j; -गिनम् माश्रौ १, ६, १,
 २; ७, ६, ८xx; वाश्रौ; -न्तौ
 आपश्रौ ७, १५, ४; १९, १७, ९;
 २०, १७, ४; बौश्रौ.
 पर्यगिन/कृ>पर्यगिन-करण- -गम
 शाश्रौ ४, २०, ४; बौश्रौ २४, ९;
 ९; १०: १७; माश्रौ; -णात्
 आपश्रौ १९, ८, २; बौश्रौ ५, ५;
 १७xx; माश्रौ; -णे बौश्रौ १५,
 २८: १५; २०, २८: ६.
 पर्यगिनकरण-पर्याय- -ये
 आपश्रौ १९, ८, ३; हिश्रौ २३.

१, ३.
 पर्यगिनकरण(रा-अ)न्त^k-
 -न्तम् शाश्रौ १५, १, २३; वाश्रौ
 ३, २, ६, ६२; ७, ८.
 पर्यगिन-कृत, ता- -तः अप्राय
 ३, २; -तम् शाश्रौ ४, १७,
 १०; ९, २७, ५; काश्रौ; -तस्य
 वाधूश्रौ ३, ४४: १७; वैताश्रौ
 २४, १२; -तान् काश्रौ २०, ६,
 ९; २३, ४, ७; आपश्रौ; -तानाम्
 आपश्रौ १८, २, १४; बौश्रौ;
 -ताम् भाग २, १६: ७; -ताय
 शाश्रौ १५, २१, १; -तेषु शाश्रौ
 १५, १५, ५; -तैः बौश्रौ ११,
 ४: १२; १५, २८: १९; १७,
 १४: १५.
 पर्यगिन-कृत्य वैश्रौ १७, १०: ७.
 पर्यगिन-स्नोक-मनोतो(ता-उ) श्रौ
 यमान-सूक्त^k- -क्तानि आश्रौ
 ३, १, २२.
 पर्यगन्था(मि-आ)श्रवस्तुति^l- -त्ति
 वैग ३, १६: १४.
 पर्यङ्क^m- पा ८, २, २२; पावाग ८, २,
 १८.ⁿ; -ङ्कम् अप ४, १, १४.
 पर्य(रि-अ)ङ्ख^o, पर्यङ्खयातेⁿ
 आश्रिगृ ३, ५, ७: २५; बौषि
 १, ७: २.
 पर्य(रि-अ)ङ्क- > ङ्ग्य^o- -ङ्ग्या:
 वाश्रौ ३, ४, ३, १३; शुश्र ३,
 ४१; -ङ्ग्याणाम् काश्रौ २०,
 ७, ४; बौश्रौ १५, ३०: २६; ३१:

१५xx; -ङ्ग्यान् शाश्रौ १६, ३,
 २८; काश्रौ २०, ६, ४; आपश्रौ;
 -ङ्ग्येषु बौश्रौ २६, ११: ६.
 पर्य(रि-अ)ज्ज, ङ्ज, पर्यगन्ति आपश्रौ
 ७, २, ३; माश्रौ ७, १, ११; हिश्रौ
 ४, १, २०; पर्यगन्ति माश्रौ १,
 ८, १, ५; वाश्रौ १, ६, १, ८.
 पर्य(रि-अ)ज्ज वैश्रौ १०, १: १६.
 पर्य(रि-अ)ञ्जन- -नेन वाश्रौ ३,
 २, १, १७; २, ६, ५.
 पर्य(रि-अ)ट्, पर्यटत् गौष २, ३६;
 पर्यट्येयुः जैगृ २, ७: ४.
 पर्यत्- परी(रि-अ)ट् द्र.
 पर्य(रि-अ)न्त- -न्तान् वैश्रौ १०, ४:
 १३.^p
 पर्यन्ती(य>)या^q- -याः आपश्रौ
 ११, १०, ६.^r
 पर्य(न्य>)न्त्या^s- -न्त्याः हिश्रौ
 ७, ५, २०: ७, १३.^t
 पर्य(रि-अ)पे(प/इ)> पर्यपे(प-ट)त-
 -ते आश्रिगृ १, १, ३: ५०; ४:
 ४३; ६, ३: ५८.
 पर्ययण- परी(रि-अ)ट् द्र.
 पर्य(रि-अ)र्ष, ऋषि(श्र)रुश्र २, ९,
 ५२; माश्र १, ४१६; ऋषि(अर्षत)^u
 कौसृ ४६, ८; अश्र ६, २८.
 पर्य(रि-अ)च/च्चि > पर्यव-चयन-
 -ने बाधूश्रौ ३, १००: ८.
 पर्य(रि-अ)च/दा (< दौ)श्रव-
 खण्डने), पर्यवचयि आपश्रौ १९,
 २२, ११; बौश्रौ १३, २९: १०.

a) व्यप. । व्यु. ? । b) < १पर्ण + √अट् इति पागम. । c) पर्णा- इति [पत्ने] भाण्डा, पाभि. च ।
 d) नाप. । व्यु. ? । e) = दारमयशकटप्रायोपवरण- इति पागम. । f) वैप १ द्र. । g) प्राप्त. (कैतु. विद्याधरः
 [काश्रौ ६, ५, १] वस. इति) । h) द्वि१ सत् वा. क्वि. । i) ऽश्रिम् इति पाठः ? यनि. शोधः । j) विप. । वस. ।
 k) द्रस. > कस. । l) द्रस. । m) तु. पागम. । n) = सपा. तैश्चा ६, १, ४ । ऋ १०, १६, ७ तु पर्यङ्खयाते इति,
 शौ १८, २, ५८ पर्यङ्खयाते इति च पासे. । o) वैप २, ३खं द्र. । p) सप्र. आपश्रौ ७, ४, ५ अन्तान् इति पासे. ।
 q) विप. । तत्र भवीयश् छु प्र. उंसं. (पा ४, ४, ११७) । r) सप्र. ंत्याः <> ंत्याः इति पासे. । s) विप. ।
 भवार्षे वा अर्हार्थे वा यत् प्र. । t) वैप १, १९६० r द्र. ।

पर्य(रि-अ)व ✓घा, पर्यवदध्यात्
 आपध १,३,४०; १०,३०; हिध
 १,१,११६;३,५७.
 पर्य(रि-अ)व ✓लुप् > पर्यव-लोपम्
 बौश्रौ ६, २० : ४.
 पर्य(रि-अ)व ✓शिष्, पर्यवशिष्येत्
 वैताश्रौ ११, ५.
 पर्य(रि-अ)व ✓सो, पर्यवस्यति वाधूश्रौ
 ३,६९ : १९; पर्यवस्यन्ति बौश्रौ
 १२, ५ : १; १५, १३ : १३.
 पर्यव-सान- -नात् गोग् १,६, १६.
 पर्यव-सित- -त्तम् आमिष्ट २, ४,
 ६ : १.
 पर्य(रि-अ)व ✓स्था > पर्यव-स्थात्^८-
 -तरि वा ५, २, ८९.
 पर्यव-स्थित- -त्तः अप ७१, १, १;
 -ताः वाध २५, १०.
 पर्य(रि-अ)वे (व ✓ई), पर्यवेयात्
 आपश्रौ ८, २१, ४.
 पर्यवेव्यत् निसू ४, ८ : २८; ३०;
 ३२.
 पर्यवे(व-इ)त्, ता- -तायाम् बौश्रौ
 २६, २७ : २४; -ते आपश्रौ
 १५, २१, २; बौश्रौ ९, २०, ३;
 १८, ११ : ५××; बौग्य; -तेषु
 बौश्रौ १२, ३ : ४; ९××.
 पर्यवेत्-रान्त्रि^९- -त्रयः बौश्रौ १८,
 ४४ : १९.
 पर्यवेत्-व्रत^{१०}- -त्तः कौसू ४२,
 १३.
 पर्यवेत्वत्-दीक्षिव्यमाण-
 -णानाम् कौसू ५५, ६.
 पर्य(रि-अ)वे (व ✓ई) झ्, पर्यवेक्षेत्
 जैश्रौ १९ : ६.
 पर्य(रि-अ) झ् (व्याप्तौ), ङपरि...

अज्ञेनोत् आपश्रौ ६, १७, १२;
 हिश्रौ ६, ६, १६; ङपरि (अश्रोतु)
 शाश्रौ २, १२, ७; काश्रौ ४, १२,
 ३; शुश्र १, १९८; चाश्र ७ : ४.
 पर्य(रि-अ) झ् (भोजने) > पर्य(रि-
 अ)झन्त- -झन्तः शंघ १३३.
 पर्य(रि-अ)स् (भुवि), परिष्टः ऋप्रा ५,
 १२१; परिषन्ति ऋप्रा ५, १६१
 पर्य(रि-अ)स् क्षेपणे), परि...अस्यते
 अप्रा १, १, १५१; पर्यस्यति
 बौश्रौ ६, ५ : ७; ४ : ८××;
 माश्रौ; पर्यस्यन्ति शाश्रौ १८,
 २४, २३; काश्रौसं २६ : ५;
 बौश्रौ ४, ६ : ५५; पर्यस्यत्
 बौश्रौ २५, १७ : ७.
 पर्य(रि-अ)सन- -ने पावा ३, १, २०.
 पर्य(रि-अ)स्त, स्ता- -स्तः वाधूश्रौ
 २, १३ : ३; ४, १०६ : २; -स्तम्
 शाश्रौ १, ३, ५; वाश्रौ ३, १, २,
 १४; -स्ताः माश्रौ ४, ७, ३;
 -स्ताम् वाश्रौ ३, ४, १, १४; -स्ते
 बौश्रौ १४, १२ : ३.
 पर्यस्ता(स्त-अ)क्ष^{११}- -क्षाः अश्र
 ८, ६१.
 पर्य(रि-अ)स्य शाश्रौ २, ९, १४;
 काश्रौ २५, ८, १२; काठश्रौ.
 पर्या(रि-अ)स^{१२}- -सः आश्रौ
 ६, ४, १०; शाश्रौ १२, ४-५,
 ३; १०, ५××; द्राश्रौ; -सम्
 शाश्रौ १२, २, ९; ११, १७;
 माश्रौ; -सस्य शाश्रौ १२, ३,
 २१; ४, २१; ५, २२; -साः आश्रौ
 ६, ४, ९; ७, २, १२; ५, १४; शाश्रौ
 १२, २, ३; ३, २, -सात् शाश्रौ
 १२, १२, ४; २६, ४; मीसू ५, ३,

७; -सान् आश्रौ ७, १, १५;
 शाश्रौ १२, ६, १९, -सानाम्
 शाश्रौ ११, ३, २; १२, ८, ४; १४,
 ३, ११; -सैः शाश्रौ १२, २, २७.
 पर्यास-वर्जम् आश्रौ ६, ४, १२.
 पर्यास-स्थान- -नेषु आश्रौ ७,
 ५, १४.
 पर्यासा(स-आ)घ-नृच- -वर्जम्
 वैताश्रौ ३९, ३.
 पर्याकारम्^{१३} आश्रौ ८, ३, १७१.
 पर्याकाजनीनाम् वाश्रौ ३, १, २,
 ४४.
 पर्या(रि-आ) ✓ख्या > पर्याख्या-
 -ने पावा २, ४, ५४.
 पर्या(रि-आ) ✓गम् > पर्यागत- -ने
 आपश्रौ ५, २२, १२; २४, ८;
 बौश्रौ.
 पर्यागतवत्^{१४} -वन्तम् या १०, २०.
 पर्यागारम्^{१५} शाश्रौ १२, १८, १८१.
 पर्या(रि-आ) ✓चि (चयने) > पर्या-
 चि- -पाग ६, २, १४६.
 पर्याज्य^{१६} -ज्यम् बौश्रौ २१, १३ :
 २६.
 पर्याण-यजुस्^{१७} -जुः बौश्रौ २१, १० :
 १०.
 पर्या(रि-आ) ✓ण, नह्, पर्या-
 णहति माश्रौ २, १, ४, २३; पर्या-
 नहति आपश्रौ १०, ३१, ५;
 माश्रौ १०, १९, ५; वैश्रौ १२,
 २२ : ४; हिश्रौ ७, ३, ४; तैप्रा
 ७, १६१.
 ङपर्याणह- -ह्स् आपमं १, ७,
 १०; काण २६, ६.
 पर्याणहन- -नम् माश्रौ २, ५, ४,
 ३६.

a) = परि-पथिन-। b) विप.। बस.। c) वैप १ दृ.। d) नाप. (अन्तिम-भाग- इति O.

।शाश्रौ.। e) वैप १, १९६ १ दृ.। f) = प्रधान-। नैप्र. < परि-आज्य- इति संभाव्येतेति भाष्यम्।
 व्यु. ?। g) मलो. कस. पूप. = परियाण- इति ?।

पर्या-नह्य आपश्रौ १०, २७, १०.
पर्या(रि-आ)✓णी, पर्याणयति हिश्रौ
 ११, ७, १७; आश्रिणु ३, ५, ८;
 ३; बौश्र; पर्याणयन्ति काश्रौस
 २८: १.
 पर्या-णीय बौश्रौद, २: २७; ७, ३: १२;
 १६, २६: १; २१, ८: २७; हिश्रौ.
पर्या(रि-आ)✓तन्, पर्यातनोति
 आपश्रौ ११, ४, १५; भाश्रौ १२,
 ४, १८; हिश्रौ ७, ४, ४१.
पर्यादि- प्रश्र. परि द्र.
पर्या(रि-आ)✓घा, पर्यादधाति कौस
 ६१, ३२; णपर्याधत्त कौस ६४,
 १४; पर्यादध्यात् श्रप्राय २, ९.
 पर्या-दधत्- -धत्त कौस ६४, १४.
 पर्या(रि-आ)घान-> ष्ने(न-इ)
 ज्या- -ज्ययो: बौध ४, ६, ७.
 पर्या-दित- -त: वैश्रौ २०, २६: ९.
पर्या✓नह पर्या✓णह द्र.
पर्या(रि-आ)प्, पर्याज्जोति बौश्रौ ७,
 १७: ३; ८, ७: १३; १३: १३.
 परी(रि-ई)प्सत्- -प्सत् वाधूश्रौ ३,
 २८: १.
 परी(रि-ई)प्सा- -प्सायाम् पा ३,
 ४, ५२; ८, १, ४२.
 परी(रि-ई)प्सु- -प्सो: वाधूश्रौ ३,
 ३१: ४.
 पर्या(रि-आ)स,सा->पार्यासिक-
 पावा.) पावाग ४, ४, १; -सायै
 वाधूश्रौ ४, ७९: २.
 पर्या(रि-आ)सि- -सी: आपश्रौ २०,
 ११, ८; बौश्रौ १५, १८: १५;
 ३२: ५; ३६: १२.
 पर्यासि-वचन- -नेषु पा ३, ३, ६६
 पर्याप्य(सि-अ)र्थ-प्रहण- -णम्
 पावा २, ३, १६.

पर्या(रि-आ)✓प्लु, पर्याप्लवते बौश्रौ
 ६, १०: १; १०, १९: १.
 पर्याप्लवयति भाश्रौ १, २५,
 ६; भाग २, २१: ३.
पर्या(रि-आ)✓भू, पर्याभवेत् वाधूश्रौ
 ३, ३१: ४; ३९: १९.
पर्याय- परी(रि-इ) द्र.
पर्या(रि-आ)✓यत्, पर्यायातयति
 बौश्रौ १४, २२: १५.
 पर्या-यातित- -ता: बौश्रौ १४,
 २२: २२.
पर्या(रि-आ)✓यु > पर्या-युवत्-
 -वन् माश्रौ १, १, २, ५; माग
 २, २, ३.
पर्यारिणी- पर्य(रि-इ) द्र.
पर्याली^० (> ली ✓कृ पा.) पाग १,
 ४, ६१.
पर्या(रि-आ)✓वह, पर्यावहन्ति जैश्रौ
 ३: ७;
पर्या(रि-आ)✓वृत्, पर्यावर्तते बौश्रौ
 ३, २१: १२; १८, ३२: १४;
 ३३: ६; कौस २४, ३०; ४६,
 ११; या ७, १४; पर्यावर्तते
 बौश्रौ १४, ७: १३; २६, ७: १६;
 वाधूश्रौ ४, १०२: ३; पर्यावर्तन्ते
 या ७, २४; णपर्यावर्ते काश्रौ
 २५, ११, २१; कौस ४६, ११;
 श्रप ३२, १, ८; श्रअ ७, १००; ण;
 श्रप ३: ५४ पर्यावर्ते आपश्रौ
 ६, ३०, २; ९, १४, १; भाश्रौ.
 परि (आ...वृत्त्यात्) शाश्रौ
 १४, २४, ५.
 पर्यावर्तयति भाश्रौ २, १०, ८;
 हिश्रौ २, ४, २४; णपर्यावर्तयत्
 भाश्रौ १, ७, ४, ५१; वाश्रौ १,
 ७, २, ४३.

पर्यावरीवर्ते वाधूश्रौ ४, १०२:
 ४.
 पर्या-वर्तन- -नम् वाधूश्रौ ४, १०२:
 ५.
 पर्या-वर्तमान- -न: वैश्रौ १५, ३५:
 १४; हिश्रौ ८, ८, २४.
 पर्या-वर्तयत्- -यन् आपश्रौ ३,
 ७, १; वैश्रौ ७, ६: ८.
 पर्या-वर्त्य आपश्रौ १, ११, १; १९,
 ३; वाश्रौ.
 पर्या-वृत्त- -त्तस्य बौश्रौ ८, १०:
 १०; -त्ते आपश्रौ १५, २१, ८;
 बौश्रौ ९, २०: १७; भाश्रौ.
 पर्या-वृत्त्य शाश्रौ २, ९, १४; ४, ४,
 १२; ६, ७, १०; आपश्रौ.
पर्या(रि-आ)✓श्रिप्, पर्याश्रिषयते
 काग ४०, १६.
पर्या(रि-आ)स्, पर्यास्ते वाधूश्रौ ४,
 १५: ६; ७; पर्यास्ते, परि...
 आसने या १२, ३२; पर्याध्वम्[॥]
 आपसं २, १३, ७; पर्यासीरन्
 आपश्रौ १५, १६, ७; भाश्रौ ११,
 १६, १०; वैश्रौ १३, १८: ३.
पर्या(रि-आ)स- पर्य(रि-इ)स्
 (क्षपणे) द्र.
पर्या(रि-आ)✓सिच् > पर्या-सिच्य
 भाश्रौ १२, ३, १५; वाश्रौ ३, २,
 ५, ५७.
पर्या(रि-आ)✓श्रह, पर्याहु: आपश्रौ १९,
 २४, ६; बौश्रौ १३, ३२: १०;
 माश्रौ ५, २, २, ११; हिश्रौ २२,
 ५, ६.
पर्या(रि-आ)✓ह > पर्या-हृत्य शाश्रौ
 ७, ५, ४; १७, ७, ११; काश्रौ.
 पर्या-हियमाण- -णम् हिश्रौ २, ८,
 २०.

a) ष्साय इति संस्कृतुः टि. । b) तु. पासि, [पक्ष] मारुडा. च । c) पासे. पृ १५२५ m द्र. ।

d) तु. संस्कृतुः टि.; वैतु. हरदत्तः < परि/अस (क्षपणे [तु. भू. XXXVI]) ।

पर्युक्त- परि/वच् द्र.

पर्यु(रि/उ)क्ष्, पर्युक्षति शांश्रौ ४,
१८, ७; माश्रौ १, ६, १, १;
वाश्रौ; पर्युक्षन्ते आश्रौ ६, १२,
७; ऋपर्युक्षामि^३ आश्रौ २, २,
११; माश्रौ १, ६, १, १०; वाश्रौ
१, ५, २, १५^३; पर्युक्षत वाग् १,
३७; पर्युक्षत् आश्रौ २, २, ११;
१३; वाश्रौ. •

पर्यु(रि-उ)ञ्जण- -णम् आश्रौ २,
४, २०; २५; शांश्रौ; कौग् १,
५, २९^{१०}; वाग् १, ९, १७; -णात्
आश्रौ २, ४, २२; -णे वाग् ४, ३.

पर्युक्षणी- -णीम् कौस्
८७, २४; ८९, ११.

पर्युक्षण-परिसमूहनो(न-उ) परि-
पुष्पकरण- -णैः वैश्रौ २, १: १४.

पर्युक्षण-वर्जम् द्राग् १, ५, १६.

पर्युक्षणा(ण-ञ)न्त- -न्तान्
गोग् १, ३, ५.

पर्यु(रि-उ)क्षत्- -ञ्चन् बौग् ३, ५,
१९^०.

पर्यु(रि-उ)क्ष्य शांश्रौ २, ६, १०; ४,
३, ७××; काश्रौ.

पर्यु(रि-उ)द्वय^१- -यम् काश्रौ ४, ७,
२२; १५, ११.

पर्यु(रि-उ)द्/अस्(क्षिपणे) > पर्युद्-
आस- -सः पावा १, १, २७.
पर्युदास-सामर्थ्य- -थ्यात्
पावा ६, ४, १७१; ७, ३, ८५.

पर्यु(रि-उ)प/घा, पर्युपदध्यात् आपश्च
२०, २; ७; हिश्रु ४, १४; ६,
३९; ४७.

पर्यु(रि-उ)प/लिम्, पर्युपलि-
म्पति गोग् १, ५, १४.

पर्यु(रि-उ)प/विञ्, पर्युपविशेते

आपश्रौ २०, १९, ६; पर्युप-
विशन्ते वैश्रौ १५, १३: १;
२४: ७; हिश्रौ ८, ३, ३२; १३,
६, २५; पर्युपविशन्ति आश्रौ
६, १०, १३; काश्रौ ७, ६, १५;
९, ४, १; आपश्रौ ९, ११,
२३^०××; बौश्रौ; हिपि २३:
२७^०; पर्युपविशेयुः बौश्रौ २०,
१६: ३५.

पर्युपविश्य काश्रौ १२, २, ४;
आपश्रौ २१, १०, १३^१; बौश्रौ;
आमिग् ३, १०, ५: १०^०.

पर्युप-वेगन- -नम् काश्रौ ९, ५, १०.
पर्युपवेगन-सामर्थ्य- -थ्यात्
काश्रौ ९, ५, १.

पर्यु(रि-उ)प/स्त, स्तु > पर्युप-
स्तारम् बौश्रौ १०, ५३: १.

पर्युप-स्तीर्थ बौश्रौ २०, २४: ३८;
२४, ३३: २२.

पर्यु(रि-उ)प/स्था > पर्युप-स्थित,
ता- -ता नाशि २, ८, २; -ते
अप ७०^२, १६, ४.

पर्यु(रि-उ)पा(प/अस्(क्षिपणे), पर्यु-
पास्यति बौश्रौ १२, १०: १३.

पर्युपा(प-ञ)स्य बौश्रौ १०, ५७: २१;
११, ७, १०××; नाशि २, ८, ७.

पर्यु(रि-उ)पा(प/अस्), पर्युपास्ते
शंघ ४४०; वृदे २, ४९.
पर्युपासयेत् आमिग् २, ४, ७: १७.

पर्युपा(प-ञ)सित- -स्य बौघ ३,
१, २२.

पर्यु(रि-उ)पो(प/उष्(दाहे), पर्युपो-
षेत् बौश्रौ २०, ३१: २२.

पर्युपो(प-ञ)षण- -णम् बौश्रौ १४,

१३: १४; -णे बौश्रौ २०, ३१:
२२.

पर्युप्त- परि/वप् द्र.

पर्यु(रि-उ)लूखल^१- (>पार्थुलूख-
ल्य- पावा.) पावाग ४, ३, ५८.

पर्यु(रि/उ)ष्, पर्योषति माश्रौ १,
७, ६, ५४; ८, ६, २३.

पर्यु(रि-उ)षित- परि/वस् (निवासे)
द्र.

पर्युह्य, पर्युह्यमाण- , णाना परि
/वह द्र.

पर्यु(रि/ऊ)ह् (प्रापणे), पर्युहते
माश्रौ २, ५, ५; १०, ६, ११,
पर्युहति काश्रौ ६, ३, ९; ८, ५,
२२; आपश्रौ १५, ४, ९; बौश्रौ;
पर्युहत् माश्रौ ११, ८, २;
ऋपर्युहे द्राश्रौ ३, ३, २४; लाश्रौ
१, ११, १५; ऋपर्युहामि आपश्रौ
११, १३, ७; १५, ४, ९; बौश्रौ;
ऋपर्युह बौश्रौ १, ८: ७; १०××;
हिश्रौ १, ६, १२.

पर्यु(रि-ऊ)हण- -णम् हिश्रौ ७,
७, ९.

पर्युहण-परिदंढण-परिषेचन-
-नानि आपश्रौ ११, १०, ३.

पर्युहणा(ण-ञ)दि- -दि काश्रौ
८, ५, ३१; -दीनि वैश्रौ १४,
११: २.

पर्यु(रि-ऊ)ह्य आपश्रौ १, १२, ३; २,
५, ६××; वैश्रौ.

पर्यु(रि/ऊ) > पर्या(रि-ञ)रि(न् >)
णो^१- -णी आपश्रौ १९, १६, ११;
बौश्रौ २४, ३८: १२; हिश्रौ २२,
१, ८; -णी: बौश्रौ १५, ७: ३६;
-णीम् माश्रौ ५, २, १, २३.

a) पामे. वैप २, ३३. परिषिञ्चामि तैत्रा २, १, ११, १^१ टि. द्र. ।

b) णनम् इति पाठः ? यनि.

शोधः (तु. शांय.) । c) वैतु. मैसू [१९०४ ई.] 'क्ष्यन् इति । d) अस. । e) पामे. पृ ३०३ D द्र. ।

f) वैप १, १९६२ j द्र. । g) = आहुति- ।

पर्यृ(रि/च्छ)ष्(गती), पर्यृषति शांश्रौ
 १७, १०, ९; १५; काश्रौ ६, ३,
 १०.
 पर्ये(रि-अ/इ), पर्यायन्ति वाश्रौ ३,
 २, ५, ४७; ऋष्येहि आपश्रौ ३,
 १९, ६; भाश्रौ ३, १७, ४; माश्रौ.
 पर्ये(आ-इ)व्य शांश्रौ १५, १८, १;
 १९, १; १७, ११, ४.
 पर्येषणा- परी(रि/इ)ष् द.
 पर्येहि^१-(> ंही- पा.) पाग ४, १,
 ७३.
 पर्यो(रि-ओ)ष्ठ-(> पायोष्ठ- पावा.)
 पावाग ४, ३, ५९.
 √पर्व पाधा. भ्वा. पर. पूरणे.
 पर्व^२- ऋ: नाशि १, ६, ८; -वै भाश्रौ
 ६, १५, १४; माशि २, १०.
 श्पर्वत^३-(> श्पर्वत- पा.) पाग ४,
 ३, ९३.
 र्पर्वत^४- पाठ ३, ११०; पावा ५, २,
 १२२; -त: आश्रौ २, १३, ७१;
 शांश्रौ ३, १५, १५; आपश्रौ;
 अप ४८, १००९; वृदे २, ३^५;
 निघ १, १०^६; या १, २०^७;
 ६, ५; ७, १०: ९, ८; -तस् कौस्
 ५१, ७; अप; शंघ ११६: ५^८; या
 १०, ९^९; -तस्य काश्रौ १५,
 ६, ८^९; बौश्रौ; -ता: आपश्रौ
 १४, २७, ७^९; भाश्रौ १०, १८,
 १०^९; हिश्रौ; या ९, ९^९;
 -ऋताव आश्रौ ८, ११, १; शांश्रौ
 ६, १०, २; कौस्; -तान् आश्रौ
 ६, २, ११^९; शांश्रौ ८, २५, १^९;
 हिश्रौ; -ऋतानाम् आश्रौ ६,

१४, १८; ९, ५, २; २८, १३;
 आपश्रौ; पाग १, ५, १०^९; या
 ९, ३९; ११, ३०^९; -तानि अप
 ६८, १, ४९^९; -ते बौश्रौ १०, ४:
 २८^९; माश्रौ ६, २, ४, ८; गोष्ट;
 पा ४, ३, ११; ५, ४, १४७; -तेन
 आश्रौ ६, ६, ११; आपश्रौ ९, १२,
 ४; १४, २२, ३^९; भाश्रौ; -तेषु
 कौस् ११५, २^९; अप ६२, ३, ४;
 शंघ ९९; विघ ८५, ५८; ९९,
 १६; -ऋतै: बौश्रौ २, १०:
 ३; आपमं २, १९, ४; आश्रिष्ट.
 ऋर्पावत(त >)ती^१-ती^२ माश्रौ
 १, २, २, २६^३; वाश्रौ १, २, ४,
 ६१; ६२^३; -ऋत्य: अप ४८,
 ७६; निघ १, १३.
 ऋर्पावते(य >)यी^४-यी^५
 आश्रौ १, २१, ३; बौश्रौ १, ७:
 ७; भाश्रौ १, २३, ३; वैश्रौ ४, ८:
 ५; हिश्रौ १, ५, ८१.
 पर्वत-ग^६-गा: बौश्रौ १८, ४७: ७.
 पर्वत-नामन्-मभि: या २, २१.
 ऋर्पर्वत-रूप^७-षम् आपमं २, ९,
 १; हिष्ट १, ११, ५.
 पर्वत-भेषज-जम् आपमं २, ९, १^९
 पर्वत-मस्तक-क्के विघ ७०, १७.
 ऋर्पर्वत-वर्चस-सम् बौश्रौ १७,
 ४२: ५; आपमं २, ९, १; आग
 २, २२: ७.
 पर्वत-वन् वृदे ४, ५.
 पर्वता(त-अ)ग्र-ग्रम् अप ६८, २,
 ४; -ग्रात् अप ६८, ५, २.
 पर्वता(त-अ)न्तरय^८-ये आपश्रौ

१४, २०, ४^९.
 पर्वता(त-अ)युष-षम् आपमं २,
 ९, १^९.
 ऋर्पर्व(त >)ता-वृध^९-वृध: ऋषा
 ९, १७.
 पर्वति^{१०}-ति: बौश्रौ १, ७: ७^९.
 पर्वतीय-पा ४, २, १४३.
 पर्वते-छा^{११}-छाम् या ६, ३^९.
 ऋर्पर्व(त्य >)त्या^{१२}-त्या^{१३} आपश्रौ
 १, २१, ३; बौश्रौ १, ७: ६;
 भाश्रौ १, २३, ३; वैश्रौ ४, ८: ४;
 हिश्रौ ७, ५, ९.
 र्पर्वत^{१४}-त: ऋष २, ८, १२; साध
 १, ३४४; ३९४; अश्र २०,
 १११^{१५}.
 पर्वतायन-, पर्वति- पा ४, १,
 १०३.
 र्पर्व(त >)ती-तीम् शंघ
 ११६: २५.
 पर्वत-नारद-दयो: चाश्र ३९: ९;
 -दौ शांश्रौ १५, १७, १; ऋष २,
 ९, १०४; साश्र १, ५७४; ५७५.
 पर्वताष्टीरा: सु २५, ५.
 पर्वन्^{१६}- पाठ ४, ११३; -र्व आपश्रौ
 १, ३, १३^९; ऋर्बौश्रौ १, २:
 ११×४; भाश्रौ; या १, २०^९;
 ६, २०^९; ११, ३१; -र्वण: शांश्रौ
 ३, ११, ९; १३; हिश्रौ ३, ५, २०;
 २८; ५, १, २; -र्वण ऽ-र्वण: काश्रौ
 ५, ११, ३०; -र्वणा निस् ८, ९:
 १२; शौच ४, ७७; शुषा ५, ७;
 -र्वणाम् आश्रौ ९, २, २; आपश्रौ
 ८, २२, ४; कौस्; -र्वणि आपश्रौ

a) अर्थ: व्यु. च। b) = पर्वन्-। c) = देश-विशेष-। व्यु. ?। d) वैप १ द.।
 e) = मेघ-। f) = वज्र-। g) लोकोलोकपालाऽन्यतम-। h) पासे. वैप १, १९६३ ० द.। i) अर्थचोदित्व-
 द.। j) पासे. पृ ९८७ i द.। k) पासे. वैप १, १९६४ ० द.। l) नदी-नामन्-। m) उस. उप. < √गम्।
 n) उप. = पौख-। o) षस. उप. भाप. (< अन्तर/इ)। p) वैप १, १९६४ 11 द.। g) = ऋषि-विशेष-।
 व्यु. ?। r) पा इति पाठ: ? यनि. शोध:।

२,१,१२; ४,२; शांश्रौ; -र्वणि-
 ऽ-र्वणि शांश्रौ १४, १०, १७;
 बौश्रौ १९, १० : ६०^१; बौश्रौप्र;
 -र्वणी आश्रौ १, ७, १; आग्निगृ
 ३, ५, १ : १०; बौपि १, १ : ९;
 शुप्रा १, १३८^४; -र्वणे काठश्रौ
 १७; आग्निगृ २, ६, ७ :
 ३७^१; -र्वणोः वैश्रौ ६, ११ :
 ११; लाश्रौ १०, १८, ४; -र्वन्
 कौसू १, २५; ६१, ३९; -र्वमिः
 आपश्रौ ८, २२, ८; बौश्रौ १८,
 ३२ : १२; भाश्रौ; -र्वसु आश्रौ
 २, १६, २६; आपश्रौ ८, ४,
 ४; बौश्रौ; -र्वसुऽ-र्वसु चक्वू
 २ : ३३; -र्वा अश्र १२, ५,
 (५)^१; -र्वाणि आश्रौ ९, ३, ४;
 आपश्रौ; या ६२०.
 पार्वण^१- णः आगृ १, १०, १;
 शांगृ ५, ४, १; बौगृ; -णम् शोध
 २४०; -णे बौश्रौ २०, १ : १०;
 २९, ८ : ६; ९; आगृ ४, ७, १;
 कागृ ४२ : २३; शोध २१०;
 -णेन बौश्रौ २०, १ : १०; २६, १ :
 ७; आग्निगृ; -णौ आपश्रौ २, २०,
 ५; बौश्रौ १, १७ : ११; भाश्रौ.
 पार्वण-वत् आग्निगृ २, ७,
 ९ : ४१; आपगृ १८, ६; २२, १;
 भागृ ३, २१ : ५.
 पार्वण-होम- मयोः मीसू
 ९, २, ५१; -मौ आग्निगृ १, ७,
 ३ : २४.
 पर्व-कार^१- राञ् विध ८२, १८.
 पर्व-तन्त्र-> न्त्र-क- के कागृ ४२ : १५.

पर्वतन्त्र-देवता- -ताः कागृ ४२ : १४.
 पर्वतन्त्र-प्रधान-निर्णय- -यः
 कागृ ४२ : ५.
 पर्व-तिथि- -थ्या बौश्रौ १३, १ : ३.
 पर्व-दक्षिणा^१- -णा जैगृ १, १४ :
 १२; -णाः गोगृ ३, २, ४४.
 पर्व-देवता- -ताभ्यः शांश्रौ १४,
 ५, ६.
 पर्व-भां, -भ्रंश-समन्वि(त>)
 ता^१- -ताम् वेज्यो २०.
 पर्व-आ(भ-भ्र)दान-कला^१-
 -लाः वेज्यो २१.
 पर्व-मा(त्र>)त्री- -त्रीम् कौसू
 ८७, १५.
 पर्व-मैथुन- °निन्- -नी शोध ३७८.
 पर्व-वत्- -वति या २, ६; -वान् या
 १, २०.
 पर्ववती- -ती या ९, २६.
 पर्ववत्-छेप^१- -पः या १०, ४२.
 पर्व-वर्जम् वाध १२, २१.
 पर्व-ष(१^१)ल्ल(१^१)-वत्->
 ं-ओषधि- -धीः कागृ ४० :
 १५.
 पर्व-संस्था^१- -स्थासु काश्रौ ५, २,
 १३.
 पर्व-समत- -ताः वेज्यो १४.
 पर्व-स्थ- -स्थः अप ५३, ६, १.
 पर्व-स्थान- -नेषु काश्रौ २२, ७, १.
 पर्व(र्व-भ्र)दि- -दीन् द्रागृ ३, २,
 १८.
 पर्व(र्व-भ्र) नारोग्य-वर्जम् विध

५४, ८.
 पर्व(र्व-भ्र)न्तर- -रेषु आश्रौ ९, ३,
 ५; काश्रौ २२, ७, १७; २४,
 ६, ४×४.
 १पर्वयेत् त्रि-पर्वा- टि. द्र.
 पर्वर- पाठना २, १२२.
 पर्वि- पाठभो २, १, २३४.
 १पशु^१, शू^१- पाठ ५, २७; पाग ५, २,
 १७^१; -र्शैवः अश्र ११, ३; या
 ४, ६७; -शुः बौश्रौ ७, १० : ११;
 या ४, ३७; भाशि ४^१; -शुम्
 आपश्रौ १, ३, ४; ऋकौसू १, २४;
 ८, ११; ६१, ३८; -श्वं आपश्रौ
 ११, ५, २; भाश्रौ १२, ४, १९;
 द्विश्रौ ७, ४, ४४.
 पार्श्व^१on- पाठ ५, २७; पाग २,
 ४, ३१; ५, २, ९७; पावा ४, २,
 ४२; पावाग ५, ४, ४४; -श्वः
 काश्रौसं २५ : २५; -श्वम् आश्रौ
 १२, ९, ५; जैगृ २, ३ : ८^१; वप्र;
 या४, ३७; -श्वयोः शांश्रौ ४, १४,
 २८; काश्रौ २५, ७, ३०; आपश्रौ;
 -श्वस्य बौश्रौ ४, ६ : ५५; ९ :
 ३; कप्र ३, १०, ५; -श्वत् कौसू
 ५८, १; -श्वानि जैगृ २, ३ : १३;
 अप ४२, १, ५; -श्वंभ्याम् द्विपि
 ९ : ९; अप ५८^१, ४, १४; -श्वं
 शांश्रौ ४, १४, २९; काश्रौ ६, ७,
 ६; १६, ८, १२; आपश्रौ; -श्वेन
 काश्रौ ६, ८, ११; आपश्रौ; -श्वैः
 कौगृ ४, ४, १०; शांगृ ४, १८, ६;
 आपगृ; -श्वौ अप ४८, ६०^१;
 निघ ३, ३०^१; शैशि १४२.

a) = शब्द- । b) पाठः ? णि इति शोधः संभाव्यते । c) विप. > नाप. (याग- श्राद्ध- प्रसू.) ।
 तादृत्तः प्र. । d) नाप. । उस. । e) उप. = २दक्षिणा- । f) विप. (तिथि-) । षस. > षस. > तुस. ।
 g) षस. > षस. > मलो. कस. । h) विप. । वस. । i) पाठः ? यनि. शोधः । j) षस. उप. = समाप्ति- ।
 k) वैप १ द्र. । l) भारुडा. पाठः । m) तु. पाशि., परशु- इति पाका. । n) बप्रा. । o) < √सृष्ट इति ।
 p) = पार्श्वमानी- (रज्जु-) । q) = यावापृथिवी- । r) पार्श्वे इत्यपि दे. ।

१ पार्श्व-क^० - पा ५, २, ७५.
 २ पार्श्व-क (>) का^० - का:
 विध ९६, ७६.
 पार्श्व-चारिन्^० - रिणः अत्र
 ५२, १४, २.
 पार्श्व-तस् (:) शांश्रौ १४,
 ५०, १; काश्रौ; या ४, ३; पार्श्वतः
 ५ पार्श्वतः माश्रौ ५, २, ९, ५.
 पार्श्वतीय- पागवा ४, २,
 १३८; पावा ४, ३, ६०.
 पार्श्व-देश- -शो कौसू ४४,
 २८.
 पार्श्व-भेद- -दः अत्र २२,
 ६, १.
 पार्श्व-मा (न >) नी^० - नी
 बौश्रौ ६, २७: ३१; १२, १: ५;
 काश्रु; -नीम् काश्रु ३, १; आपश्रु
 २, ९; ३, १; बौश्रु २: ४; हिश्रु
 १, ३०; ३९; -न्याः काश्रु ७,
 ५; -न्यौ आपश्रु ४, ७; ६, १५;
 हिश्रु २, ६; ४१.
 पार्श्वमानी-संमि (त >)
 ता- -ताम् काश्रु ३, १.
 पार्श्व-ल- पा ५, २, ९७.
 पाश्व-शय- पावा ३, २, १५.
 पार्श्व-शाधिन्- -यी अत्र ५०,
 ४, ६.
 पाश्व-संस्थित- -ताः काश्रु
 ७, ७५.

पार्श्व-संहित- -ते ताश्रौ ८,
 ६, १५.
 पाश्व-सक्थि-सव्य^० - -न्या-
 भ्याम् पाश्रु ३, ३, १०.
 पाश्व-संधान- -नम् बौश्रु ५:
 १८.
 पाश्व-सहित- -ते काश्रौ २२,
 ४, १९.
 पार्श्व-स्थ- -स्थम् वृदे ७,
 १४९; -स्थेन आश्रौ १, ३, २५.
 पार्श्विक^० - > ँक-द्यूत-चौ-
 र्या (य-आ) स-प्रतिरूपक-साह-
 स^० - सैः विध ५८, ११.
 पशु-मय- -यम् या ४, ३.
 पशु-ल- पा ५, २, ९७.
 पशु(श्रु-आ)दि^० पावा ४, १, १७५.
 २ पशु^० - (> पार्श्व- वा.) पाग ५, ३,
 ११७.
 ३ पशु^० -> पार्श्व^० - -व्यस्य ऋअ
 २, ८, ६.
 पशु- १ पशु- द्र.
 ✓ पशु^० ✓ वृष् टि. द्र.
 पशु^० - -र्षान् या ३, १००.
 पशु^० - पाश्रु १, १३०^०; पाग ४, २,
 ६०^०; ३, ११८^०; -र्षत् वाध
 ३, २०; बौध १, १, ८; -र्षदः
 पाश्रु ३, १३, ४; -र्षदम् पाश्रु
 ३, १३, ४; शंध २५३.
 पार्श्व^० - -दम् चव्यू २: ३१;

अप्रा १, १, १; -दानि या १, १७;
 -द्रे अर्ष २: ४४.
 पार्श्विक- पा ४, ३, ११८.
 पार्श्विक- पा ४, २, ६०^०.
 पशुन्-सुक्त-जल-छटा^० - -टाः कप्र
 १, १०, ११.
 ? पशु^० अप्राय २, १.
 पार्श्विक- (> पार्श्विक- वा.) पाग ५,
 १, १२८.
 पार्श्विका- (> पार्श्विक-) परिपक- टि.
 द्र.
 ✓ पल्ल पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
 १ पल्ल- १ पल्ल- पा ३, १, १४०.
 २ पल्ल^० - लम् अप ३३, ३, २; -लानाम्
 अत्र ३३, ३, ४; ५; -लानि
 वेज्यो २४.
 पल्लै(ल-ए)कशत- -तम् अत्र ३३,
 २, ५.
 ३ पल्ल^० -> १ पल्ल^० -> ल्य-वर्चस-
 -सम् पावा ५, ४, ७८.
 पल्ल-द^० - -दम् वाश्रु ४, २१; -दानाम्
 अप्रा ३, ४, ११.
 पल्लदी^० - (> पाल्ल- वा.) पाग ४,
 २, ११०.
 पल्ल^० - पाश्रु १, १०६; पाग ५, २,
 १००; -लम् अशां १५, ३.
 पल्ल-न- पा ५, २, १००.
 पल्ल-सूप-शाक- -कम् पा ६, २,
 १२८.

a) = मायाविन्- इति पाका. । b) = बद्धिक- । तत्रभवीयः कः प्र. । c) विप. । उस. । d) = रज्जु-
 विशेष- । उस. उप. करणे <√मा (माने) । e) सपा. °संहिते <> °सहिते इति पाशे. । f) द्वस. > कस. ।
 g) = दास्य- । तत्रभवीयष् ठक् प्र. । h) द्वस. । आप्त- = भैक्ष- , प्रतिरूपक- = छयन्- । i) °सं प्रतिरूपकसाहसौ
 इति जीसं. । ङ्कोचद्यूतदौष्यार्तप्रति^० इति नारदस्मृतिः (३^३, ४७) । j) = आयुधजीविसंधविशेष- । k) व्यप. ।
 व्यु. ? । l) यज् प्र. उसं. (पा ४, १, १०५) । m) वैष १, १९६५ ५ द्र. । n) परि-षद्-> नैष. यनि. (तु.
 अभा.) । o) <√पृष् । p) तु. पागम. । q) = प्रन्य-विशेष- । r) परि-षद्- टि. द्र. । s) तात्रभविकः
 अण् प्र. । t) तुस. > कस. > षस. । षर्षद्- = ससूह- । u) = परिमाणविशेष- । व्यु. ? । v) = मांस- । व्यु. ? ।
 w) = मांस-भोजिन्- । तदर्हतीत्यर्थे यज् प्र. इति पासित. । x) वैष १ द्र. । y) अर्षः व्यु. च ? = देश-
 विशेष- इति पागम., = प्राम-विशेष- इति MW. ।

पल्लो(ल-ओ)दन- नः अप १,
३४,२.
पलाण्डु^०- पाठवृ १,३७; -ण्डुम् वैध
२,१५,५.
पलाण्डु-लघुन-प्रस्थ- -स्थम् अप
३६,७,२.
पलाण्डुवा(ण्डु-आ)दि- -दीन् वैध
३,५,८.
प(रा>)ला(ला/अ)य्, पलायते
आमिष्ट २,५,१०:३३; या ४,२;
१०, ११; पलायन्त वाधूश्रौ ४,
४५:९; ५३^२:२; ५९^२:२;
६०:३; पलायेत काश्रौ २५,
९,१; माश्रौ ३, ५,२; वाधूश्रौ;
पलायेरन् आपृ २३,७.
पलायिषत वाधूश्रौ ४,६०:४;
पलायिष्ठा: शाश्रौ १३, २, ४;
आश्रौ ९, १८, ४; बौश्रौ;
हिश्रौ १५,८,६^०; पलायिष्महि
वाधूश्रौ ४,४५:१३; १४; ५३^२:
५; ७
पला(ला-अ)यन- -ने वृदे २,१०९;
आज्यो ४,७.
पला(ला-अ)यमान- -ने शाश्रौ
१३,२,४.
पला(ला-अ)यित- -ते शाश्रौ १३,
२, ७; काश्रौ २३, ४, १५;
आपृश्रौ ९, १८, ४; हिश्रौ १५,
८,६; ११.
१पलाल^०- पाठ १,११८; पाग २,४,
३१^६; फि ६७; -लः अप ७०^३,
१८,४^०; -लानि वैश्रौ ११,१०:
९; कौसू ८०,२७.
पलाली^१- (> °लि-न- पा.)
पागवा ५,२,१००.

पलाल-क- -कम् अप २,५,३.
पलाल-भार- -रः गौध २२, २५;
-रम् बोध ४०१; सुध ३८.
पलालभार-क- -कम् विध ५०,
३५.
२पलाल^०-> °ला(ल-अ)पुपलाल^०-
-लौ अथ ८,६५.
पलाव^०- -वान् कौसू ६१,२५^५.
१पलाश^०- पाठभो २, ३, १४४^६;
पाग ४,२,७५; ९०; ३, १४१; ६,
३,१०८^६; -शा: वैश्रौ १०,१:
११; हिश्रौ ३,३, ३७; वौष्ट २,
५, ६३; भाष्ट १, १०:४; अप
२३, ६, ५; २६, ५, ६; -शम्
भाश्रौ ५,५,१४; माश्रौ १,५,२,
१८; वाश्रौ; या १२, २९^६;
-शस्य माष्ट १,१७,६; वाष्ट २,
४; ५,४२; कौसू; -शान् कौष्ट
१,८,१९^६; -शानाम् भाश्रौ १,
६,९; -शानि शाश्रौ ४, १८, ५;
१९, ७; आपृश्रौ; -शे आपृश्रौ
१, ६, १०; बौश्रौ १, ३:४;
भाश्रौ; -शेन आष्ट ४,८, १८^५;
कौसू ४२, २०; विध ९४, १३;
-शेषु पाष्ट २,१५, ४; भाष्ट २,
१०:१५; हिष्ट २,९,९.
पलाशा^१- पा ४, २, ७५; ३,
१४१; -शा: शाश्रौ १७,३, ४;
आपृश्रौ ७,२,१७; बौश्रौ; -शम्
शाश्रौ ४, १६, ३; काश्रौ ६, १,
८; २१,३, ३०; आपृश्रौ; -शा:
आपृश्रौ २०,९,७; ८; भाश्रौ १,
५,६; वाधूश्रौ; -शात् वाधूश्रौ ३,
४१:३४; -शान् काठश्रौ ६;
बौश्रौ १५, १४:४; २३:२; वाश्रौ;

-शानि आपृश्रौ १५, ५, ११;
वैश्रौ १३, ७:१६; हिश्रौ २४,
२, ५; -शे काश्रौ १५, २, २; ६,
१०; आपृश्रौ; -शेन काश्रौ १५,
५, ३१; ६, १२; आपृश्रौ; -शेषु
पाष्ट ३, ८, ११; -शै: काश्रौ
१९, ३, १२.
पलाशी- -शी शाश्रौ
१७, ३, २; काश्रौ १, ३, ३५;
काठश्रौ; -शी: काश्रौ १६, ४,
४०; निसू १, ११:४; शाष्ट;
-शीम् शाश्रौ २, ८, २२; आपृश्रौ
६, ८, ५; ९, ३; १६, १, ७; बौश्रौ;
-श्य: आमिष्ट ३, ८, १:४;
१५; काष्ट ४, १८; बौपि १,
१४:४; १३; अप २३, ९, ४;
-श्या वैश्रौ १, ५:१; वैष्ट ५,
२:१७; कौसू ४३, २०; ८२, २५.
पलाश-खादिरौ (र-औ)
दुम्बर- -रा: विध २७, २१.
पलाश-स्वरु- -रूपि अप्राय
३, ८.
पलाश-दण्ड- -ण्डा: वैष्ट ५,
१२:६.
पलाश-पर्ण- -णै: वैष्ट ७,
३:९; १२; ४:१५.
पलाश-पात्र- -त्रेषु वाश्रौ
३, ४, ५, ७.
पलाश-वैकङ्कत-काश्रम्य-
वैल्व- -ल्वान् काश्रौ २, ८, १.
पलाश-शङ्कु- -ङ्कुना
आमिष्ट ३, ४, ५; ३; -ङ्कून् बौपि
३, १०:१.
पलाश-शाखा- -खाभि:
आमिष्ट २, ७, २:१५.

a) नाप. (प्याज इति नभा.)। व्यु. ?। b) अप^० इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपृश्रौ.)। c) वैप १
द्र.। d) तु. पागम.। e) अर्थः ?। f) = महत्-पलाल- इति पागम.। g) < √पल् (अर्थः ?)।
h) सपा. शाष्ट १, १३, ६। सपलशान् इति पागे.। i) स्वार्थे विकारार्थे च अण् प्र.।
वैप ४-प्र-१२

पलाश-समिध्- -मिधः
 आग्नि २,५,४:५.
 पालाशा (श-अ)ग्नि- -ग्नौ
 अष ३५,१,८.
 पालाशा(श-अ)ङ्कुर- -राणि
 वैगृ २,७:५.
 पलाश-कषाय- -येण^३ आपश्रौ १६,
 ४,१; वैश्रौ १८,१:६०; -यैः
 हिश्रौ ११,१,४४^३.
 पलाश-शार्भर्य-खादिरो (र-उ)
 दुम्बर-बिल्व-रोहीतक- विकङ्कत-
 -तानाम् आपश्रौ १,५,८.
 पलाश-खादिर-बिल्व-रौहीतक-का:
 आपश्रौ ७,१, १५.
 पलाश-खादिर-बिस्वा(ल्व-अ)श्वथ-
 शमी- -मीनाम् वैश्रौ ११,१०:
 ११.
 पलाश-जात- -तानि बौश्रौ २४,
 २३:४.
 पलाश-त्सर- -रुणाम् जैगृ २, ४:
 १; कौसू ८३,२४; -रून् कौसू
 ३५,७.
 पलाश-दण्ड- -ण्डम् आपश्रौ १४,
 २५,५^३.
 पलाश-दूत^४- -तेन आगृ १,१२,२.
 पलाश-पत्र-पुट- -टे गौपि १, २,
 १६; ५,२५.
 पलाश-पत्र-मध्यम- -मेन काश्रौ
 ५,१०,७.
 पलाश-पर्ण- -र्णेन आश्रौ ३, १०,
 २३; आपश्रौ ८,१७,१२; ९,२,
 ५; वाश्रौ; -र्णेषु बौगृ २,५,
 ३३.

पलाश-पर्ण-वृन्त^५- -न्तस्य सु २,
 ३.
 पलाश-पलाश^६- -शम् मागृ १,२४:
 २; -शानि शाश्रौ ४, १८, ५;
 -शे भाश्रौ ८,२१,७.
 पलाश-पुट- -टे काश्रौ २५, ८, १;
 -टेन काश्रौ १६,६,२६.
 पलाश-फाण्ट^७- -ण्टेन वैताश्रौ २८,
 ११.
 पलाश-बिल्व-पत्र- -त्राणि वाघ
 २७,१२.
 पलाश-मूल- -ले हिपि ९:१२.
 पलाश-यष्टि- -ष्टीनाम् कौसू १८,
 ३२.
 पलाश-व(त>)ती- -तीम् माश्रौ
 १,८,३,२; वाश्रौ १,६,४,३.
 पलाश-वल्क- -ल्कैः आपश्रौ ९,११,
 २३; आग्नि ३, १०, ५:४;
 हिपि २३:२१.
 पलाश-विदारी- -यौ कौसू ३५,४^६.
 पलाश-वृक्ष- -क्षस्य शंघ ४११;
 पलाश-वृन्त- -न्तानाम् काश्रौ २५,
 ८, १४; आपश्रौ ९, ११, २३;
 कौगृ ५,६,५; आग्नि ३,१०,५:
 २; बौपि ३,७, ३; हिपि २३:
 २० -न्तानि शाश्रौ ४,१५, ९;
 -न्तेन काश्रौ २५, ८, १; -न्तैः
 बौपि ३,८,१; गौपि २,१,७.
 पलाश-शकल- -लम् आग्नि ३,
 १२,२:१.
 पलाश-शाखा- -खया शाश्रौ ४,
 १४,७; काश्रौ; -खा शाश्रौ ४,
 २०,५; -खा: आग्नि ३,८,१:

१२; -खानाम् वैगृ ५, १२:
 ३; -खाभिः शाश्रौ १०, २१,७;
 -खाम् शाश्रौ ४,१७,५; आपश्रौ
 १,१,८; बौश्रौ; -खायाम् शाश्रौ
 ४, १७, ९; बौश्रौ २५, ९:३;
 -खे आपश्रौ १०,२८,३; भाश्रौ;
 कौगृ ५,३,२९^{४६}.
 पलाश-समिध्- -मिधः वैगृ ६,
 १०:२.
 पलाश-संदंश- -शेन गौपि १,५,
 २३.
 पलाशा (श-अ)पचार^८- -रे आगृ
 १,२२,२१.
 पलाशा(श-अ)यो-लोह-हिरण्य-
 -ण्यानाम् कौसू ४६,३.
 पलाशावाणपर्ण- -र्णेन अप्राय ४,
 ३^२.
 पलाशीय- पा ४,२,१०.
 पलाशो(श-उ)दुम्बर-जम्बु-काम्पील-
 सग-वङ्क-शिरीष-स्रक्त्य-वरण-
 बिल्व-जङ्घिड-कुटक-गर्ह-गाला-
 वल-वेतस-शिम्वल-सिपुत्र. रंश-
 दना(न-अ) रणिका(क-अ)रम-
 योक्त-तुन्यु-पूतदार- -रवः कौसू
 ८,१५.
 पलाशो(श-उ)प(मा>)म- -मा:
 वैश्रौ ११,११:१.
 रपलाश- (>°शिक-°शिल- पा.)
 पाग ४,२,८०^२.
 पला(ल-अ)शन^९- -न्त या १२,२९.
 पलिक्नी^{१०}- पावा ४,१,३९; -क्नी:
 ऋप्रा ४,९६; शंशि ६५; २५४.
 पलि-घ- परि✓ हन् द्र.

a) परसरं पामे. । b) मलो. कस. (तु. Old.) । c) घस.>षस. । d) घस. उप. =पत्र- ।
 e) घस. । °पाण्टेन इति पाठः? यनि. शोधः (तु. C. [पक्षे], माश्रौ ६, १,२,२ पर्णवल्कलफाण्टाभिः इति, ?°शकटेन
 इत्यपि सोमादित्यः) । f) °दुयौ इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सा [शौ ३,२३,१]) । °वीपला° इति पाठः चिन्त्यः
 (तु. सत्य. टि. बृहती) । g) °खे इति पाठः? °खयोः इति शोधः (तु. तत्रैव तयोः इति) । h) घस. उप.
 =अभाव- । i) वैप १,१९६६ P द्र. । j) वैप १ द्र. ।

पलिङ्ग^{ab}-(>पालिङ्गिन्- पा.) पाग
४,३,१०६.

पलिङ्गु^a-ङ्गवे हिय २,२०,१.

१पलित^c-पाठ ३,९२^d; ५,३४; पा,
पाग ५, २, १२,७; पाग २,४,
३१^e; -०त शांश्रौ १६, २९, ७^f;
-ततः बौश्रौ १४, ७:३; कौसू
१०१,२; वृदे ४,३३^g; या १४,
१८^h; -तम् कौसू १३, १२;
-ततस्य शांश्रौ १८, २२,७; या
४,२६ⁱ.

पलित-वत्- -वान् शंघ २२०.

२पलित-(>पालित्य- पा.) पाग ४,
२, ८०.

पलि-योग- परि[√]युज् द्र.

पली (लि<रि[√]इ [गतौ]), पल्ययते
वाधूश्रौ ३,१७:१.

पलीजक^o-कम् अत्रा ३,४,१[†].

पलूल-पाठना ४,९६.

√पल्यूल् पाधा. चुरा. पर. लवन-
पवनयोः.

पलूल^a-लाः बौश्रौप्र ९:३.

√पलूलि (<पलूल^o), पलूलयति
बौश्रौ ११, ६:१९; १२, ७:
३२; पलूलयन्ति बौश्रौ २,२०:
३; १७, ५१:१०; २८, ८:३;
पलूलयतः बौश्रौ ११, ६:३;
पलूलयेयुः वाश्रौ १,४,१,१२;
हिश्रौ २,६,५९.

पलूलन^b-नम् बौध २,५,८; -ने
कौसू ११, १६; -नेन बौश्रौ २,

२०:२; १७, ५१:१०; २८,
८:३; वाश्रौ १, ४, १, १२;
हिश्रौ २,६,५९.

पलूलित-तः बौश्रौ २,१७:
१६; -तम् बौश्रौ ४, ५:१;
-तौ बौश्रौ १०,१:१७.
पलूलित-विहित- -तम् कौसू
६७,२३.

१पल्य- ३पल- द्र.

१२पल्य^h- पाठनावृ ४,१२१; -ल्ये
कौसू २१, ७ⁱ.

पल्यङ्क^l- पा ८,२, २२; पावाग ८,२,
१८^o.

पल्य (लि<रि[√]अ)ङ्ग>पल्य
(लि-अ)ङ्गय काश्रौ ८,२,१.

√पल्यूल् √पल्यूल् टि. द्र.

पल्व^h- पाठमो २, ३, १३[†]; पाग
२, ४, ३१; ५, २, ३६; ४, ३^o;
-वैः अप ५,२,२.

पल्व(क<)>विका- पा ५,४, ३^o.

पल्वित- पा ५,२, ३६.

पलि^l, ली^{ll}]-(> पालक- पा.)
पाग ४, २, १२७.

पल्व^h- -ल्वे बौश्रौ १८,४३:७; २०,
६:४^o; २६, ३३:१२; बौपि १,
१४:१९^p.

पल्वल^o- पाठ ४,१०,७; पाग ६, २,
८५^q; -लानि बौश्रौ १५, १:
५; -ले पाग २,१,२२; आग्निगृ
३,८,१:२१; बौग २, ८, २१;
-लेषु विध १,१४.

पाल्व (ल >)ली^r- -ल्यः विध
१,१४.

पल्वल-कूप-तडाग-नदी-तीर- -रे
अप ६५,२,८.

पल्व (ल्य >)ल्या^r- -ल्याः बौश्रौ
१२,८:११; २९, १०:३.

√पव् √पल्व टि. द्र.

पवमान-, ष्यित्- प्रसृ √पू द्र.

पवष्टुरिक^o-(>पावष्टुरिकेय- पा.)
पाग ४,१,१२३.

पवस्त^o- -स्तैः अत्रा ३,३, ८[†].

पवि^o- पाठ ४, १३९; -विः ऋअप
४८, १०२; १०४; ऋनिघ १,
११; २, २०; ४, २; या ५,
५[†]; १२, ३०[†]; -विना बौश्रौ
७, ५:७[†]; -व्या या ५,५[†].

१पवी-२^o- -रम् या १२, ३०.

पवीर-व^o- -वत्^o आश्रौ १६,
१९, २; बौश्रौ १०, २५:४;
माश्रौ ६,१,५,३९; वाश्रौ २,१,
५, ३; वैश्रौ १८, १६:१२;
हिश्रौ ११, ६, ३२; -वान् काग
७१,६, या १२, ३०[†].

पवीर(व<)>वी^o- -वी
आश्रौ २,८,३; ३,७,६; ५,२०,
६; शांश्रौ ६,१०,२; हिश्रौ २२,
३,४; या १२, ३०.

पवीर-वत्^o- -वत्^o वैताश्रौ
२८, ३१; वाघ २, ३४; ३५;
अत्र ३,१७; छुरा ५,३७.

पवित-, पवित्र- √पू द्र.

a) व्यप.। व्यु. ?। b) तु. पागम.। पुल्लिङ्ग- इति वामनः। c) वैप १ द्र.। d) <√पल्

इति। e) तु. पागम.। f) तु. पासि.। अन्यत्र √पल्यूल् इति। g) भावे करणे च ल्युट् प्र.। h) अर्थः
व्यु. च ?। i) =धान्य- (तु. संस्कृतुः टि.)। j) =पर्यङ्क-। k) =किसलय-। व्यु. ?। <√पल् + √ल्ल व
पद्- + √ल्ल वेति अभा.। l) <√पल्। m) =देश-विशेष- ?। व्यु. ?। वल्ली- इति पाका.। n) =संख्या-
विशेष-। व्यु. ?। o) =शर्प- (तु. सूची)। p) पाठः ? तु. संस्कृतुः टि.। q) तु. पाक.। वल्लभ- इति
भारखा. प्रसृ.। r) विप. (२अप-).। s) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.। t) पाभे. वैप १,१९६८ d द्र.।
u) वैप १,१९६८ h. द्र.।

पविन्द [, ०न्दा^अ]- (> पाविन्दायन-
पा.) पाग ४, १, ११०.

१पवीर- पवि- द्र.

२पवीर- पाठभो २, ३, ४८.

पवीर-च-, ०वत्- पवि- द्र.

√पश्^० (= √स्पर्श), पश्यते अप
३५, २, ४; ६८, २, २७; पश्यति
बौश्रौ ९, ४: २८; १४, १:
९; १८, ४४: १५; वाधूश्रौ; मागृ
१, २१, ६^०; या १, १६; १९;
१४, २३; पा ४, ४, ४६; पश्यन्ति
शाश्रौ १५, १७, १^०; आपश्रौ; या
६, २६; पश्यसि बौश्रौ १८, ४४:
६; वाधूश्रौ ३; १९: १६; ४;
६४: ६; कागृ; ऋया १२, २२;
२३; २४; २५; पश्ये सु ६, ३;
पश्यामि ऋआपश्रौ ६, १७,
९; १४, १८, १; काश्रौसि;
परयाम: क्षुसु २, १६: ६; ११;
निसु; या १, १४^३; ऋपश्यत्
शाश्रौ १५ ३, ८^०; वृदे ८, ६६^०;
या ५, १; १४, २०; पश्यम्
आपमं २, १३, ३; ऋपश्याति^१
आपमं २, १, ५; आगृ १, १७,
१३; पागृ २, १, १६^१; कागृ ४०,
११^{१६}; जैगृ १, ११: १७;
पश्यन्तु आपमं १, २, ५^०; सु
२९, १; ऋपश्य शाश्रौ १५, १९,
१; आपश्रौ १०, ३, २^३; बौश्रौ;
या ९, २४; १४, १८; ऋपश्याहि
जैगृ १, ८: ३; ५××; ऋपश्यत
शाश्रौ ९, १७, ३; १३, ७, ६;

आपश्रौ: पश्यानि जैगृ १, २१:
३३^०; अपश्यत् शाश्रौ १०,
१४, २; १५, २××; आपश्रौ;
अपश्यताम् शाश्रौ १४, ३०,
१; ७१, २; बौश्रौ १८, ३५:
२; ५०: ३०; अश्र ६,
१०×; अपश्यन् शाश्रौ १०,
१८, २; १४, १४, १××;
बौश्रौ; ऋपश्यस् आश्रौ ४,
६, ३^३; १३, ७; आपश्रौ; या ४,
२६; १०, ४६; १४, ३; ऋअप-
श्याम^१ आम्रिगृ ३, ५, ८: ३;
बौपि १, ७: ५; हिपि ४: ८;
पश्येत् शाश्रौ ५, २, ३; १५,
१७, १^०; आपश्रौ; पश्येयु:
जैश्रीका १३८; दाश्रौ २, ४,
३; लाश्रौ; पश्ये: वाधूश्रौ ४,
६४: ३; पश्येयम् बौश्रौ १८,
४४: १३; वाधूश्रौ ४, ६४: ४;
ऋपश्येम् आपश्रौ १४, १६, १;
हिश्रौ १५, ५, १ आपमं.
पश्य- पा ३, १, १३७.
पश्यत्- -श्यत: आपघ १, ७, १३;
हिघ १, २, ७०; -श्यते अप
३०^३, २, ५; -श्यन् काश्रौ ५, ४,
१२; आपश्रौ १६, ३, १३; १६,
४^०; वैश्रौ; ऋया १, १९^३, ५, ४;
१२, २३; १४, २०^६; -श्यन्त:
बौश्रौ १४, ७: १३^०; २६, ७,
१७; वाधूश्रौ; या ३, २०^०.
ऋपश्यन्ती- -न्ती आपमं १,
४, ९; आम्रिगृ १, ५, २: ५५; कागृ.

पश्यतो-हर^१- पावा ६, ३, २०.
पश्यत्^६- -०त् अप ३०, ६, ५^०.
पश्यति-> ०ति-कर्मन्^१- -र्मा-
या ४, १९; -र्माग: निघ ३, ११;
या ३, १३.
ऋपश्यमान- -न: शाश्रौ १८, २१,
११; काश्रौ १३, २, २४;
-नास: शाश्रौ १२, ११, १७.
√पश्^३ पाधा. चुरा. पर. बन्धने.
१पाश^६- पाग ४, २, ४९; -श:
आश्रौ ६, १३, ८^०; ऋशाश्रौ ८,
१०, ४; १५, २२, १^०; ऋआपश्रौ
८, ७, २६; ८, १८××; ऋबौश्रौ;
या ४, २^०; -शम् काश्रौ २, ७,
२; ६, ३, २४××; आपश्रौ ७,
१७, ५^०; ऋ^०; ऋ^०; १६, १५, ८;
बौश्रौ १, २०: २८^०; ४, ६:
३८^०; ४०: १०, १६: ७; भाश्रौ
३, १२, ५^०; ७, १३, ७^०;
माश्रौ १, ३, ५, १७^०; ३, १,
२९^०; ६, १, ४, १३; वैश्रौ
१०, १४: १^०; ऋ^०; १८, ८:
८^०; २०, ११: ३^०; हिश्रौ ४, ४,
३^३; ऋ^०; ११, ६, ६; आपमं १, ४,
११^०; ५, १७^०; आम्रिगृ १,
३: २^०; ५, ३: ४^०; बौगृ १, ४,
३, २३^०; भागृ १, १४: १२^०;
सागृ १, ११, २०^०; जैगृ १,
२०: २९^०; कौसु ३३, ६;
६६; ३०^०; अश्राय; -शयो:
काश्रौ १६, ८, ४; आपश्रु १, १२^०;
हिश्रु १, २२^०; -ऋशा: आश्रौ १;

- a) पाका. पाठ:। b) व्यप.। व्यु. ?। c) या ३, १६ परामृष्ट: द्र.। d) सपा. पश्यति <>
पश्यति इति पाठे.। e) पाठे. वैप १, १९६९ e द्र.। f) तु. राजा.। गुप्तं. पश्याम् इति, लाघासं. पश्याति
इति.। g) पश्या इति पाठ: ? यनि. शोच:।। h) सपा. शौ १, ३३, ४ पश्यत इति पाठे.। i) सपा. शौ १८,
३, ३ अपश्यम् इति पाठे.। j) = चौर- (तु. शक.)।। k) वैप १ द्र.। l) विप.। नस.। m) या ४, २ पा
४, ४, ८६ परामृष्ट: द्र.। √पश् इति [पक्षे] BPO.। n) पाठे. वैप १, १९७१ g द्र.।। o) पाठे. वैप १, १९७१ f
द्र.। p) पाठे. वैप २, ३खं. पाश्याम् मंत्रा १, १, १४ टि. द्र.। q) पाठे. वैप १, १९७१ i द्र.।

३, २४; शांश्रौ १, ६, ३; काश्रौ;
या ९, २६९; -फँशात् आश्रौ
१, ११, ३^a; काश्रौ ३, ८, २^a;
आपश्रौ; आपमं १, ५, १६^a;
आश्रु १, ७, १७^a; -शान् आपश्रौ
१६, १६, ११; फँबौश्रौ ११, ४:
२३^b; २५; १५, २९: १८^bxx;
माश्रौ १, ८, ३, ३६^b; वाश्रौ;
-शाम्याम् माश्रौ ५, २, १३, ११;
-शाय फँमाश्रौ १, ७, ४, ४२; २,
१, ४, ४१; -शे बौश्रौ ६, ८: ५;
भाश्रौ ७, १३, ७; कौस्
४७, ४९^c; -शेन काश्रौ २६,
५, ३; आपश्रौ २, ५, ४; ७,
१३, ८^f; बौश्रौ; -शेभ्यः बौश्रौ
११, ४: २२; १५, २९: १८;
माश्रौ ५, २, १३, ११; कौस् ४७,
१६^f; अप ३७, १, १०^f; -शेषु
वाश्रौ १, ६, ५, ७; -फँशैः बौश्रौ
१, ११: १०; १५; २०; भाश्रौ;
या ४, ३९; -शौ काश्रौ १६, ५,
१७; ८, ५; ६; बौश्रौ.
पाश-ब्लेदक- -का: शब्ध ४४०.
पाश-तस(ः)आश्रौ ६, १०, ६.
पाश-धर- पाठश्रु २, २२.
पाश-पाणि^c- -णि: अप ६७, २,
४.
पाश-प्रतिमोक- .क: काश्रौसं
३५: १३.

पाश-वत्- -वन्तम् वाश्रौ २, १,
२, ३४.
पाश-विमोच (न >) नी- नी
ऋञ् २, ७, ८८.
पाश-समूह- -ह: या ४, २.
पाश-हस्त^{c,d}- पाग २, २, ३७^e;
-स्तेन अप १, २९, ४; -स्तैः
अप ६८, २, ४५.
पाशा(श-अ)ङ्कुश-संनिभ-
-भा: अप ६१, १, १०.
√पाशि पा ३, १, २५.
पाशिन- -फँशिन: आपश्रौ १६,
१८, ७; वैश्रौ १८, १६: ५;
हिश्रौ.
पाशो (श-ऊ)मि-नगरा (र-आ)
कार^f- -रै: अप ६४, १, ८.
पा(स्य >)इया- पा ४, २, ४९;
-इया या ४, २^g.

पशग^h- -ग: बौश्रु ३, १०, ६^h.

पशव्य- पशु- द्र.

पशुⁱ- पाठ १, २७; -फँशव: आश्रौ
१, ११, ७; २, २, १७xx;
शांश्रौ; आपश्रौ ४, १, १०^j; ७,
१७, १^j; भाश्रौ ४, २, २^j;
हिश्रौ १, २, ५^j; ४, ३, ५४^j;
कौस् ८२, १३^k; या ७, ५९;
१९; ८, २२^k; ११, २९^k;
-शव: गोश्रु ३, १०, १७^l;
-फँशवे शांश्रौ ४, २०, १; बौश्रौ

४, ६: ३२; ६, २४: १३; ७^l
१२: २५^l; ११, ४: १६;
१४, ५: २१^lxx; अप ३६,
९, २१; -शु^m या ४, १४^m;
पाग १, ४, ५७; ६१ⁿ; -शु: आश्रौ
२, १७, १८; ९, २, ६xx; शांश्रौ;
निसू २, ५: १८^o; २१^o; या
३, १६^o; १२, ४१^o; -शुना
आश्रौ २, २०, ५; ५, ३, १xx;
शांश्रौ; काश्रौ ९, ७, ४^p; १०,
१, १८^p; आपश्रौ १२, १७,
२०^p; वैश्रौ १५, २०: १०^p;
हिश्रौ ८, ५, १^p; -शुभि: आश्रौ
१, ३, २८; ३, १४, १२xx; शांश्रौ
८, ८, ११^q; १७, १७, १^q;
आपश्रौ ४, १०, १^q; -फँशुभ्यः
आश्रौ २, ३, २०; आपश्रौ ५,
१३, ४xx; १०, २२, १२^r;
१४, २७, ७^r; बौश्रौ १, १२:
१४^r; २, १७: २१^r; वैश्रौ
२१, १४: १५^r; हिश्रौ ३,
४, १६^r; १५, ७, ८^r; आपमं १,
३, ११^r; शांश्रु १, १४, ६^r; पाश्रु
१, ४, १६^r; ८, १^r; आमिश्रु १,
५, ३: १०^r; ४: ४३^r; बौश्रु १,
१, २८^r; भाश्रु १, १७: ३^r;
वाश्रु १४, ३^r; वैश्रु ३, ४:
८^r; हिश्रु १, २०, २^r; २१, १^r;
-शुभ्याम् बौश्रौ १२, १६: १८;

a) पाभे. वैप १, १९७१ f द्र.। b) पाभे. वैप १, १९७१ g द्र.। c) विप.। बस.। d) पृ ११११
जाल हस्त- इत्यत्र टि. अपि 'विप. बस.' इति द्र.। e) तु. पागम.। f) विप.। द्रस. > बस.। g) = सर्प-
विशेष-। व्यु. ?। h) सपा. बौश्रौ १७, १८: ६ प्रशुक्र: इति पाभे.। i) वैप १ निर्दिष्टानां समावेश: द्र.।
j) पाभे. वैप १, २१२५ h द्र.। k) पाभे. वैप १, २००६ k द्र.। l) पाभे. वैप १, १९७३ f द्र.। m) सम्यग्-
अर्थे क्वि.। वैप १, १९७२ d द्र.। n) हिसायाम् इति पागम.। o) पशुसोम: इति पाठ: ? यनि. च सोम:
इति च शोष: (तु. संस्कृत: टि.)। p) पाभे. वैप २, ३खं. पशुना माश ४, २, ५, ११ टि. द्र.। q) पाभे. वैप १,
१६९७ b द्र.। r) पाभे. वैप १, १९७४ b द्र.। s) पाभे. वैप १, १९७९ a द्र.। t) पाभे. वैप २, ३खं.
पशुभ्य: तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द्र.। u) सपा. पशुभ्य: <> पशुनाम् इति पाभे.। v) पाभे. वैप १, १९७५ c
द्र.। w) सपा. आश्रु १, ७, १९ प्रजाभ्य: इति पाभे.। x) पाभे. वैप १, १९७४ f द्र.।

१८: २२; -शुम् आश्रौ ३,
२, ११; ९, २, ४; १२, ९, १७;
शांश्रौ; आपश्रौ ७, १४, ११^क;
माश्रौ ^क२, ३, ६, १२^ड; ५, १,
२३^ड; वैश्रौ १०, ११: १०^क,
हिश्रौ ४, ३, ३७^क; भाग
२, ३१: ८^क; या ४, १४;
-शुम्-शुम् बौश्रौ २२, १२:
५; माश्रौ ५, २, १२, २६; -शुपु
काश्रौ २, ८, १४^क; ६, १०,
२९^क; आपश्रौ; या १३, ९^ड;
पा ३, ३, ६९; -शु आश्रौ
९, २, १०; शांश्रौ १४, ३,
१८; १३, १; आपश्रौ; -शुम्
आश्रौ १, २, १; ^क२, ३,
१७; ५, २^क×; ^कशांश्रौ २,
१३, ४; १४, ४^ड; १५, २^ड;
काश्रौ; आपश्रौ ५, १८, २^क××;
^क६^ड, २४, ३; ६, २५, १०;
२६, ५; ^कबौश्रौ २, १८: १८^ड; ३,
१४: १२^ड; माश्रौ ५, ११, ७^क;
^कमाश्रौ १, ४, ३, १^क; ६, ३, ७^ड;
१४^ड; ८, ३, १८^क; ६, १, २, २६^क;
^कवाश्रौ १, १, ४, ९^क; ४, ४, १^ड;
५, ४, २७^ड; ३६^ड; ६, ४, २२^क;
वैश्रौ १, १४: १६^क; ^कहिश्रौ ६,
७; २^ड; ७^ड; आमिष्ट १, ५, ३:
१३^क; भाग २, १३, ६^क; हिष्ट
१, २०, २^क; आपघ २, २८, ६^ड;
या ७, १९^क; -शुनाम् आश्रौ
१०, ९, ६; शांश्रौ; आपश्रौ

२, ४, ८^क; ^कबौश्रौ ३, २०:
२^ड; १०, ३४: २^क; ६^ड;
५६: २^क; माश्रौ १, ४, ३,
१^क; वाश्रौ १, १, ४, ९^क; हिश्रौ
६, ४, १^क; हिघ २, ६, ६^क;
-शो: आश्रौ ३, ४, ४; ६, ११,
६××; शांश्रौ; या ६, १६; -शौ
आश्रौ १, ४, ४; १२, १७××;
शांश्रौ; आपश्रौ १३, ११, १^क;
बौश्रौ ८, ११: १२^क; वैश्रौ १६,
१३: २^क; हिश्रौ ९, ३, ३७^क;
पा ३, २, २५; पावा ५, ४, २९^क;
-शौ-शौ बौश्रौ २०, २५: ४;
-^कश्र: आश्रौ ४, १०, १; शांश्रौ
५, १४, ८; -^कश्र आश्रौ ८, १२,
२४; ऋश्र २, १, ६५; ३, १७;
बृदे ३, ११८.
पाशुक^क-^क: शांश्रौ १४, १०,
५; -^कम् शांश्रौ १४, १०, २;
काश्रौ; आपश्रौ १३, १६, १२^क;
-^क: आपश्रौ ८, २, १५; ३, १;
-^कत् आपश्रौ १४, १९, ४;
हिश्रौ १५, ५, १८^क; -^कान
आपश्रौ १७, १५, ४; वैश्रौ १९,
६: ८९; -^कानि शांश्रौ १४,
१०, २३; आपश्रौ; -^क आपश्रौ
११, १६, ५; -^केन वैश्रौ १६,
२०: १^क; -^कै: वैश्रौ १४, १५:
१२.

पाशुकी-^की माश्रौ २, २,
५, १; -^कीम् वैश्रौ ८, ९:

३; ४.

पशुव्यव्या-^कव्य: काग ४, ८, ३५;
पाग ३, ८, २; भाग २, ३२:
९; -^कयम् आश्रौ २१, २५,
१२: बौश्रौ १७, १८: ११;
वाधुश्रौ; -^कव्या: श्र ७०^क, ६,
३; -^कव्याम् काग २५, २०^क.

पशु-^कर्मन्-^कर्म आश्रौ ५, १७, ४;
शांश्रौ; -^कर्मसु हिश्रौ १, १, ५०;
-^कर्मणि गो १, १.

पशु-^कल्प-^कल्प: आग १, ११, १;
काग ५१, १; -^कल्पेन आग २, ४,
१३; -^कल्पेषु बौश्रौ २३, ११:
१५; २६.

पशु-^कांस्य-यान-^कास-^कायना(न-^कआ)
सना(न-^कआ)दि-^कदीनि वैग
४ ४: १८.

पशु-^काम-^कम: आश्रौ ९, ८, ८;
१२××; शांश्रौ; -^कम्-^कम्: माश्रौ
१, ३, ५, ३; -^कम् आपश्रौ
१४, १३, १०; १४, ७×××;
माश्रौ; -^कमस्य आश्रौ १०, १, ७;
३, १५; १९; शांश्रौ; -^कमा: आश्रौ
११, २, १५; ३, ५; ६; शांश्रौ;
-^कमानाम् आश्रौ ११, ४, ६;
काश्रौ २४, २, १३××; बौश्रौ;
-^कमाय शुसु १, ७: ५.

पशु-^काम-^कयज्ञ-^कयज्ञ: निसू २,
३: १७; ७, ८: १; १२; ८,
२: १६; ९, १: ४२; -^कयज्ञे लाश्रौ
९, ४, ३४; निसू ७, ८: ६; ११:

- a) पामे. वैप १, १९७५ g द्र. । b) पामे. वैप २, ३३^क पशुना मास ४, २, ५, ११ टि. द्र. । c) पामे.
वैप १, १९७५ k द्र. । d) पामे. वैप १, १६९५ m द्र. । e) सपा. पशुल विन्देयम् <> पशुन् विदेयम् <>
पशुमान् भूयासम् <> पशुमती भूयासम् इति पामे. । f) पामे. वैप १ रयिम् ऋ १०, ८५, ४१ टि. द्र. ।
g) पामे. वैप १, २०२७ o द्र. । h) सपा. पशुन् <> पशुनाम् इति पामे. । i) पामे. पृ १५४९ u द्र. । j) पामे.
वैप १, १९७६ j द्र. । k) पामे. वैप १, १९७५ e द्र. । l) पामे. वैप १, १९७५ f द्र. । m) पामे. वैप १,
१९७४ g द्र. । n) तु. पाका. । o) विप. (कर्मन्, संभार-प्रसू.) । तत्रभवीयष् ठक् प्र. (पा ४, ३, ७२) । p) पामे.
पृ ९०३ d द्र. । q) पाशुकात् स्विष्टकृत: इत्यस्य स्थाने सपा. वैश्रौ २१, ५: ९ पशुस्विष्टकृत इति पामे. ।

१५; -ज्ञौ काश्रौ २२, १०, १८;
निसू ७, ८: १८.

पशुकामयज्ञ-त्व- -त्वात्

निसू ७, ८: १७.

पशुकाम-श्री- -श्रिया हिश्रौ १३,
८, ४४.

पशुकामा(म-अ)वकाम- -मयोः
माश्रौ ५, २, ७, ९.

पशुकाम्य^१- -म्यम् गो १, २८.

पशु-काल- -ले आपश्रौ १७, २३,
४; १८, २, १२××; वाश्रौ.

पशु-कुणप- -पेन वाधुश्रौ ३, ४४:
१३; १५.

पशु-न्लृसि- -सिः आपश्रौ २१,
१४, ६; २२, १२; हिश्रौ १६,
२, १७, ८, १; -सेः बौश्रौ १६,
११: १; १९: १.

पशु-गण- -णानाम् आपश्रौ २४, ३,
३६; -णे शाश्रौ ६, ११, १६;
मीसू ५, २, १०; ९, ४, १; ११,
४, ३१; -णेषु काश्रौ १९, ४, ६.

पशु-गमन- -ने विध ५, ४४.

पशुगवा अप्राय ५, ५.

पशु- (हन् >) ङी- -ङी आपसं १,
१०, ३; ६; पाण.

पशु-चित्^२- -चित् बौशु ६: १२.

पशु-चोदना- -नायाम् मीसू ६, ८,
३२.

पशु-जात- -तानाम् बौश्रौ १५,
३१: १८; ३४: ५; -तानि माण
२, १०, २.

पशु-जानु^३- -नुः विध १, ५^४.

पशु-तन्त्र- -न्त्रम् आश्रौ ३, ६, २८;
काश्रौ ५, ११, १९; -न्त्रे शाश्रौ
५, १९, ५; ९, २७, ३××;

-न्त्रेण वैश्रौ १६, १३: ५; हिश्रौ
७, ८, ५६; ९, ३, ४२.

पशु-त्व- -त्वम् मीसू ९, १, ४५.

पशु-दावन^४- -वा कौसू ७२, १८^५.

पशु-देवता- -ता आश्रौ ३, ४, ९;
१२; ६, ११, ७; काश्रौ १६, १,
२६; -ताभ्यः आश्रौ ३, १, १२;

-ताम् आश्रौ ६, ११, ५^६; शाश्रौ
५, १५, ६; ६, ९, १३; -तायै
काश्रौ ६, ७, १६.

पशुदेवता-वनस्पात- -तिभ्याम्
काश्रौ ६, ९, १३; १०, ७, १४.

पशु-देव (ता >) त, ता^७- -ताः
या ८, २२; -ताम् आण २, ४,
१२.

पशु-देवता^८- -ताः शुअ ३, १३१.

पशु-देवत^९- -तम् शुअ १, ५३८.

पशु-द्वन्द्व- -नपुंसक- -कम् पावा २,
४, १२.

पशु-धर्म^{१०}- -र्मः बौशु ६: १^१.

पशु-धर्म^{११}- -र्म आपश्रौ १४, ७,
१५; -र्मणा शाश्रौ ९, २७, ६.

पशु-नानात्व- -त्वम् आश्रौ ३, ७,
४.

पशु-नामन्- -म या २, ५, ५, ५.

पशुनामा(म-अ)दि- -दिभ्यः
पावा ५, २, २९.

पशु-निगम- -माः शाश्रौ ९, २३,
१३.

पशु-नियोजन- -नम् काश्रौ २२,
७, ५.

पशु-प^{१२}- -पस्य आपध २, २८, ३;
हिध २, ६, ३.

पशु-पक्षि-मृगा (ग-२आ)घ- -घान्
विध १, १७.

पशु-पति^{१३}- -पाग ४, १, ८४; -तये
शाश्रौ ४, १८, ५; ९, २६, २;

काश्रौ; -पतिः आश्रौ ४, ११, ५;
बौश्रौ ४, ६: २३; माश्रौ; -पतिम्

आमिण २, ६, ३: १५; माण
२, ३, ५; अण; अण २,
३४^{१४}; -पतिं आपश्रौ ६, ११,

३; बौश्रौ; -पतिः आपश्रौ ७,
१५, ५; हिश्रौ ४, ३, ६; आपसं.

पाशुपत- पा ४, १, ८४;
-तम् अण २०, ६, ४; ४०, ५, ३.

पाशुपत-जता(त-आ)
देश- -शः अण ४०, १, १.

पाशुपत्य^{१५}- -त्यम् अण २,
३४.

पशुपति-सायुज्य- -ज्यम् अण
४०, ६, १४^{१६}.

पशु-पर्याधिकरण- -णात् काश्रौ ८,
९, ३.

पशु-पा^{१७}- -पाः आश्रौ ४, ११, ६;
आपश्रौ ६, १८, ३; ७, २३, ६;

बौश्रौ २०, २९: १६; हिश्रौ ६,
६, १७; -पाम् आपश्रौ १, २, १;

भाश्रौ १, २, ११; वाश्रौ १, २, १,
४; हिश्रौ १, २, १२.

पशु-पाद-प्रकृति^{१८}- -तिः या २, ७.

पशु-पाल- > पाशुपाल्य- -त्यम्
वाध २, १९.

पाशुपाल्य-कुसीद-वाणिज्य-
-ज्यानि वैध १, १, ८.

पशुपाल-क्षेत्रकर्षक-कुलसङ्गत-
कारयितृ-परिवारक- -काः गौध
१७, ६.

पशु-पालक-> लिका^{१९}- पा, पाग
४, १, ४.

a) तस्येदमीयः यत् प्र. उंसं. (पा ४, ३, १२१)। b) वैप १ द्र.। c) विप.। बस.। d) प्रांशु-
जानुः इति जीसं.। e) उप. <√दा [दाने]। f) तु. आन.। g) द्वस.। h) र्मा इति संस्कृतेः टि.।
i) उप. <√पा [रक्षणे]। j) सास्यदेवतीयः ण्यः प्र. (पा ४, १, ८५)। k) षस.> बस.। l) तु. पागम.।

पशु-पालन- नम् विध २,७; सुध
८.

पशु-पीडित- ते गौध १२,१६.

पशु-पुरोडाश^१- -शः काश्रौ ८,७,

२५; १६,१, २५; ३९; आपश्रौ;

-शम् आश्रौ ३,४,१२; ६,११,६;

१४,१५; शाश्रौ; -शस्य आपश्रौ

७,२२,१; ११,२०,१३; बौश्रौ;

-शाः आश्रौ ३, ९, २; काठश्रौ

६३; बौश्रौ; -शान् काश्रौ १९,

४, १; आपश्रौ २०, २३, २;

बौश्रौ; -शानाम् माश्रौ ५, २,

४, ३३; ४३; वाश्रौ ३,१, २, ३, १;

२, ७, ८३; ८, ११; हिश्रौ १४, ५,

१४; -शाय शाश्रौ ५, १९, १;

काठश्रौ ६३; माश्रौ ५, २, ८, १४;

-शे आश्रौ ९, २, ६; १९; भाश्रौ

१०, १४, ६; -शेन आश्रौ ५,

१३, ८; ६, ११, ७; शाश्रौ;

-शेभ्यः बौश्रौ २४, १० : १२;

१३; -शैः माश्रौ ५, २, ४, ३३;

वाश्रौ ३, १, २, ३०××; -शौ

बौश्रौ १५, ११ : १४; ३७ :

१०××.

पशुपुरोडाश-तन्त्र- -न्त्रम् काश्रौ

१५, ४, १८.

पशुपुरोडाश-प्रथम^२- -मान्

काश्रौ ९, १४, ३.

पशुपुरोडाश-प्रभृति- -ति माश्रौ

२, २, ५, १९; -तीनि हिश्रौ

१३, ८, २५.

पशुपुरोडाश-वत् काश्रौ ९, ९, ८.

पशुपुरोडाश-श्रवण- -णम् काश्रौ

१, १, १५; पाठ ३, १२, ५.

पशुपुरोडाश-स्विष्टकृत्- -कृतः

बौश्रौ १५, ३७ : १०; ३८ : १;

-कृति हिश्रौ ४, ३, ३०.

पशुपुरोडाश-हविः-स्विष्टकृत्-

-कृताम् माश्रौ ५, २, ११, ४०.

पशुपुरोडाशा(श-अ)दि- -दि

आपश्रौ १४, ७, १८.

१ पशुपुरोडाशा(श-अ)र्थ^३- -र्थैः

काश्रौ १५, १०, १७.

२ पशुपुरोडाशा(श-अ)र्थ^४- -र्थैः

काश्रौ १५, १०, २०.

पशुपुरोडाशी(य>)या->य-

प्रोक्षणी- -णीः बौश्रौ २४, ३६ :

६.

पशुपुरोडाशे(श इ)डा- -डायाम्

वाधूश्रौ ४, ४ : ५.

पशु-पोषण- -णाय अश्र ३, २८.

पशु-प्रमोचन->नी(य>)या^५-

-याः वाश्रौ १, ६, ४, २६.

पशु-प्रवा(द>)दा^६- -दा निम् ७,

८ : ३२.

पशु-प्रायश्चित्त- -त्तानि बौश्रौ २८,

६ : १.

पशु-प्रोक्षणी- -णीः बौश्रौ २४,

३६ : ५.

पशु-बन्ध^७- -न्धः शाश्रौ ९, २३, १;

१४, ११, ३; काश्रौ; -न्धम्

शाश्रौ १०, १७, २; काश्रौ २२,

७, २३; बौश्रौ; -न्धस्य आपश्रौ

७, ७, ३; बौश्रौ ३, २६ : १४;

३० : २४; वाधूश्रौ; -न्धाः

माश्रौ ५, २, १०, ४; आश्रिष्ट १,

२, १ : १४; -न्धाः वाधूश्रौ

३, ४१ : १८; -न्धात् माश्रौ १,

८, ६, २५; माश्र १, १८, ७;

-न्धानाम् वैश्रौ १०, २२ : २८;

-न्धाय माश्रौ ५, २, ४, ६; ११,

५; वाधूश्रौ ४, १०३^८ : ८;

-न्धे आपश्रौ १९, ११, २; १४,

४; ६; काठश्रौ २; बौश्रौ; -न्धेन

काश्रौ १२, २, ८^९; आपश्रौ;

-न्धेषु जैश्रौ २६ : १; -न्धैः

वाश्रौ ३, ४, ३, २१; लाश्रौ ९,

१२, १०; शंघ १३८; -न्धौ

काश्रौ १५, ९, २२.

पाशुबन्धिक, का^१- -कम्

बौश्रौ १०, ९ : १४; १७, ३३ :

१०××; माश्रौ २, २, ५, २७;

-काः बौश्रौ २४, ३५ : ५;

-कानाम् माश्र २, ४, १०;

-कानि बौश्रौ ५, ४ : २१; ९ :

१३; १७, ३७ : ९; -कायाः

आश्रौ ३, १, ८; बौश्र ३ : २४.

पाशुबन्धिकी- -की बौश्रौ

४, १ : ३२; ५, ५ : ९; १०, ९ :

४; २१, ६ : १४; -क्यः शाश्रौ

४, २०, ४.

पशुबन्ध याजिन्- -जि आपश्रौ

७, १, १; बौश्रौ २४, ११ : १८^{१०};

बंध १, ५, ३.

पशुबन्ध-यूप- -यूप वाधूश्रौ ३,

४१ : ३४; ३७.

पशुबन्ध-वत् आपश्रौ ८, १, ६;

३, १२××; वैश्रौ.

पशुबन्ध-वर्जम् आपश्रौ २२, २५,

१७, हिश्रौ २३, ४, ११.

पशुबन्ध-स्थान- -ने काश्रौ १२,

२, १०.

पशु-ब्रह्मवर्चसा(स-अ)द्याद्य-काम-

-माः काश्रौ १, ३, २४.

पशु-भाग-करण^{११}- -णम् अश्र २,

३४.

पशु-भूमि-स्त्री- -स्त्रीणाम् गौध

१२, ३६.

a) वैप २, ३३३. द.। b) विप.। बस.। c) षस.। d) = आहुति-विशेष-। e) वैप १ द.।

f) विप. (यूप, वेदि-प्रभृ.)। g) विप. (सूक्त-).। षस.>उस.।

पशु-भेद- -ने शाश्रौ ६, १, १६.
 पशु-मत्- -कमत् बौगृ ४, ३, ४;
 या ४, २४; -कमत् बौश्रौ ५,
 १६: १५; द्राश्रौ १३, २, १३;
 लाश्रौ ५, ३, ५; -मते शाश्रौ
 २, १०, १; -मत्सु शाश्रौ १४,
 १०, १; -मन्तः शाश्रौ १५,
 २७, ११; -कमन्तम् आपश्रौ
 १, १, ९; ६, २१, १; कागृ
 २५, ३८; -मन्ति बौश्रौ १६,
 १२: २; ५; वाश्रौ १, ७, ५, १०;
 -मात् आपश्रौ ४, ११, ५१;
 कआपश्रौ १, १, ९×४; ४, १३,
 २^{१०}; बौश्रौ ३, १९: २^{१०}; १४,
 ६: ११×४; २७, १४: ७^{१०};
 ९^{१०}; कमाश्रौ ३, २, १; ४, १५,
 ६; १९, ४^{१०}; ७, १, ८; ८, ३,
 १^{१०}; माश्रौ १, ४, १, २७^{१०};
 २, ६^{१०}; वाधूश्रौ; वाश्रौ १, १, ३,
 ६^{१०}; हिश्रौ ६, ४, १^{१०}; ४२^{१०};
 -मान्ति ऋषा ९, ५२^{१०}.
 कपशु-मती- -ती आपश्रौ ३,
 १०, ९; ४, १३, ३^{१०}; भाश्रौ;
 -ती आपश्रौ ४, ८, २^{१०}; भाश्रौ
 ४, ११, ४^{१०}; हिश्रौ ६, २, १७^{१०}.
 पशु-मान- -नेन बौश्रौ १९, १: ६.
 पशु-योनि- -नयः विध ४४, ९.
 पशु-रशता- -ना आपश्रौ ७, ११, २;
 -नायाः बौश्रौ २०, २७: १३;
 २८: १७.
 पशु-रोमन्- -माणि वाध ११, ३४;
 विध ५१, ६०.
 पशु-वचन- -नम् काश्रौ २५, ९,

१२.
 पशु-वत् आश्रौ ६, १४, १४; काश्रौ.
 पशु-वप(पा-अ)न्त- -न्ते काश्रौ
 २२, ९, ४.
 पशु-वर्जम् वाश्रौ १, ७, ५, ३३.
 पशु-वाचिन्- -चि माश्रौ ५, २, ९,
 ३.
 पशु-विधि- -धिः मीस् ३, ६, १८.
 पशुविरावाभ्रदण्डाभ्रवल्पात् अप
 ६५, २, १०.
 पशु-वेला- -लायाम् बौश्रौ १४,
 ३: १५; २६, ७: ३.
 पशु-वेद्या-गमन- -ने विध ५३,
 ७.
 पशु-वेद्या (श्या-अ)भिगमन- -ने
 शंघ ४०७.
 पशु-व्रत- -तः आपश्रौ २२, १३, १,
 पशु-शकुनि-द्वन्द्व- -न्द्वे पावा २,
 ४, १२.
 पशु-शक्ति- -क्तौ भाश्रौ ८, २४,
 १४.
 पशु-शिरस्- -रसाम् आपश्रौ १४,
 २३, ५; १६, २७, ५; वैश्रौ २१,
 १०: ७; हिश्रौ १५, ६, ४; -रोसि
 आपश्रौ १६, १३, १०; माश्रौ
 ६, १, ७, ३२; वैश्रौ १८, ११:
 २७; हिश्रौ ११, ५, २१; -रोसि:
 हिश्रौ ११, ७, ६३.
 पशु-शीर्ष- -र्षाणाम् बौश्रौ २२, २:
 २१; ७: ५; -र्षाणि आपश्रौ
 १६, २७, ७; बौश्रौ १०, ९: १३;
 १६×४; वैश्रौ; -र्षैः आपश्रौ १६,
 २७, २२.

पशुशीर्ष-विद्या- -ग्राम् वाधूश्रौ
 ४, १०८: १४; १८×४.
 पशु-श्रपण- > णा(श-अ)र्ष-
 -र्षम् आपश्रौ १९, ८, ४; हिश्रौ
 २३, १, ३१.
 २पशु-श्रपण- -णः अप्राय ६, १;
 -णम् बौश्रौ ६, २९: १८; १४,
 ३: ९; १०; १२; वाश्रौ ३, २,
 ७, ९; हिश्रौ १०, ३, ४१; -णत्व
 हिश्रौ १५, ८, २७; -णात्
 काठश्रौ ६९; -णे माश्रौ ३, ५,
 १८; ६, २, ६, २; वैश्रौ २०, ३७:
 १०; ३८: ७; हिश्रौ १५, ८, १८:
 २५.
 पशुश्रपणी- -णीम् भाश्रौ ७,
 ६, ६; -णाम् भाश्रौ ७, ६, ७.
 पशु-श्राद्ध- -द्धस्य कागृ ६८, १;
 -द्धेषु विध ७३, ६.
 पशु-षट्- -षडे हिगृ १, १६, ९^{१०};
 पशु-षष्टि- -ष्टिः बौश्रौ १५, २३:
 ११.
 पशु-(स्था >)ष्टा- -ष्टाः अप्राय ३,
 १^{१०}.
 १पशु-संयोजन- -नानि बौश्रौ २०,
 २६: ४२.
 २पशु-संयोजन- -नः बौश्रौ २६,
 २९: १०.
 पशु-संस्ताव- -वम् निस् ७, ८:
 १०; ८, २: ५४; -वौ निस् ७,
 ८: २१.
 पशु-संज्ञपन- -नात् माश्रौ १, ८;
 ३, ३३.
 कपशु-सनि- -नि शाश्रौ ४, १३, १,

a) सकृत् पाठे. पृ १५५० e द्र. । अन्यत्र सपा. पुष्टिमान् पशुमान् <> पुष्टिमती पशुमती <>
 प्रतिष्ठात् इति पाठे. । b) सकृत् पाठे. वैप १, १९७८ i द्र. । c) स्वस्तिमान् पशुमान् इत्यस्य स्थाने
 सपा. माश्रौ १, ४, २, ६ संवित्प्रसूतः इति पाठे. । d) पाठे. वैप १, १९७९ a द्र. । e) पाठे. पृ १५५०
 e द्र. । f) वैप १, १९७९ b, c द्र. g) वैप १ द्र. । h) षस. पू. = पशु-याग- । i) [=पशुश्रावार्थ-]
 पात्री- । j) मलो. कस. । k) उप. <√ष(<स)द् । l) विप. । बस. ।
 वैप-प्र-१३

आपश्रौ ६, ११, ५; बौश्रौ ३,
७: २; भाश्रौ ४, २२, ४;
वाधूश्रौ २, १६: ३; हिश्रौ ३,
७, ९२; -नि: शुप्रा ३, ८१.
पशु-समाप्नाय- -ये या १२, १३.
पशु-संमर्शन- -नम् हिश्रौ ४, ५,
२९.
पशु-सवनीय- -येषु मीसू १२, २,
३०.
पशु-सस्यो(स्य-उ)पघात- -तै: अप
५२, १५, १.
पशु-साध(न>)नी^a- -नी ऋप्रा
५, २७.
पशु-सोम- -मयो: वाश्रौ १, १, १,
३०; मीसू २, २, १७.
पशु-स्थान- -ने कप्र २, ७, २५.
पशु-स्वस्वयन-काम- -म: गोश्रु
४, ५, १७; द्राश्रु ४, १, १०.
पशु-स्वामिन्- -मिने विध ५, ५१.
पशु-स्विष्टकृत- -कृत: काश्रौ १२,
६, २१; बौश्रौ १५, ३७: १२;
३८: ३; वैश्रौ २१, ५: ९^b;
-कृति हिश्रौ ४, ३, ३०; ५, २८.
पशु-हिरण्य- -ण्ययो: गौध १०,
२४; -ण्येभ्य: विध ३, २४.
पशु-हौत्र^c- -त्रम् आश्रु १, २, १:
१६; बौश्रु ३, १, २४.
पशु-कृ पा १, ४, ६१.
पशु(शु-उरु)>का^d- -क्ता: निस्
४, ३: १०; जैश्रु १, १७: ६.
पशु(शु-उ)खा- -खा काश्रौ २५,
९, १५; माश्रौ ३, ५, १४; -खाम्
आपश्रौ ९, १८, १२; वाश्रौ १,
६, २, ११; वैश्रौ २०, ३७: १;
हिश्रौ १५, ८, १२.

पशु(शु-उ)पज^e-> °ज-लोम-
क्षेत्रशद-वाह्य^f- -ह्येषु गौध १२,
३३.
पशु(शु-उ)पवाद- -दात् काश्रौ
२२, ८, २४.
पशु(शु-उ)पाकरण- -णम् कौसू
५९, २३; -णात् आपश्रौ १९,
१, १८; हिश्रौ १३, ८, १७; -णे
वैश्रौ १७, १०: ४.
पशुपाकरण-काल- -ले वैश्रौ ११,
२: १३.
पशुपाकरण-प्रभृति- -तीनि
हिश्रौ १३, ८, १९.
पशु(शु-अ)ङ्ग- -ङ्गम् पाश्रु ३, ११,
९; माश्रु १, ९, २२; वाश्रु ११,
२२; मीसू ४, ४, २२; २७;
-ङ्गानि वाश्रौ ३, २, ६, ४१; कप्र
३, १०, ४.
पशु(शु-अ)प्राण-दान^g- -नम् शुश्रु
१, ४०७.
पशु(शु-अ)तिरेक- -क: मीसू ११,
४, २७; -के मीसू १०, ६, ४२.
पशु(शु-अ)नङ्गत्व- -त्वात् मीसू ११,
३, ५२.
पशु(शु-अ)नृत^h- -ते बौध १, १०,
३५.
पशु(शु-अ)न्तⁱ- -न्तम् निस् १०,
११: २२; -न्तानि बौश्रौ २१,
६: २४.
पशु(शु-अ)भाव- -वे हिश्रौ ५, ६,
८; कप्र ३, १०, ७; ८.
पशु(शु-अ)भिधान^j- -नात् काश्रौ
२०, ७, १९; मीसू ९, १, ४५;
-ने आश्रौ ३, ४, १४.
पशु(शु-अ)भिधायिन्- -यिन: वाश्रौ

३, २, ६, ४१.
पशु(शु-अ)भिधारण- -णम् काठश्रौ
५३.
पशु(शु-अ)यन^k- -नेन आश्रौ १२,
७, १०.
पशु(शु-अ)र्थ- -र्थम् आश्रौ १२, ४,
१३; वैश्रु २, १७: ५; -र्थानि
आश्रौ १२, ४, १५; शाश्रौ ५,
१९, २.
पशु(शु-अ)लाभ- -मे आश्रौ ६,
१४, १९; बौपि २, ७: १७.
पशु(शु-अ)विभव- -वे हिपि २१:
२.
पशु(शु-अ)सि- -सी काश्रौ ६,
८, ७.
पशु(शु-अ)ज्य- -ज्यम् बौश्रौ २५,
४: ४.
पशु(शु-अ)ग्रहण- -णम् काश्रौ
८, ६, ३२; ९, १, २.
पशु(शु-अ)ज्य-शासिन्देश-यूप-
चात्वाला(ल-आ)हवनीय-
-यान् काश्रौ ६, ५, २.
पशु(शु-अ)ति(ध्र>)थ्या-
-थ्ययो: काश्रौ २, ७, १४.
पशु(शु-अ)तिथ्या-दर्शन- -नात् काश्रौ
२, ७, १२.
पशु(शु-अ)दि- -दिभ्य: बौपि २,
८, ५; -दौ काश्रौ २०, ३, १०.
पशु(शु-अ)नन्तर्य- -र्यात् मीसू
८, २, १७.
पशु(शु-अ)नयन- -नात् हिश्रौ ९,
१, २२.
पशु(शु-अ)पद्- -पदि काश्रौ २३,
४, १३.
पशु(शु-अ)लम्भ- -म्भ: हिश्रौ

a) वै १ द्र.। b) पाभे. पृ १५५० Q द्र.। c) = प्रश्न-द्वय-। d) विप. ([पशुनाम्नोक्ता-] शकवरी-। e) = घृतादि-। उस. उप. <उप/जन्। f) द्वस.। क्षेत्रशद- = क्षेत्र-ज्य-अशादि-। g) विप. (यजुस्-। सस.> उस.। h) मलो. कस.। i) विप.। बस.। j) उप. भावे कर्तृरि वा कृत। k) = अयन-विशेष-।

१७, २, १५; -स्मम् वैश्रौ १८,
४: १२.
पश्चा(शु-आ)लम्भना(न-आ)दि-
काश्रौ २०, ४, १.
पश्चा(शु-आ)सादन- नात् काश्रौ
२०, ७, २८.
पश्चा(शु-आ)हुति- ती: आपश्रौ
१२, ३, १२; माश्रौ २, ३, ७, १४;
-त्या या १०, २१.
पश्चि(शु-इ)ज्या- ज्या काश्रौ ६,
१, १.
पश्चि(शु-इ)डा- डाम् काश्रौ ८, ८,
२; माश्रौ २, २, ५, २; -डाया:
आश्रौ ४, २, ११; माश्रौ २, २,
५, १९.
पश्चिडा(डा-अ)न्त- न्तम् आश्रौ
५, १७, ४.
पश्चि(शु-इ)ष्टि- ष्टि: आपश्रौ ११,
१६, ३; हिश्रौ ७, ८, ३; -ष्ट्याम्
माश्रौ ७, २, १६.
पश्चे(शु-ए)कत्व- त्वात् मासू ५, २,
१०.
पश्चे(शु-ए)कादशिनी^a- नी
आपश्रौ १४, ७, १९; हिश्रौ ९,
८, ४४; -न्या हिश्रौ १६, ८,
१५; -न्याम् काश्रौ ८, ८, २६;
वैताश्रौ २२, २०.
पशु-कर्मन्- प्रसृ. पशु- द्र.
पशुक^b- क्र: बौश्रौ १७, १८: ६०.
पशु-गण- प्रसृ. पशु- द्र.
पश्च, चा^d पा ५, ३, ३३.
पश्च-भाव- व: पावा ५, ३, ३२.

पश्चात्-नात्^d आश्रौ ३, ८, १; शांण
६, ६, १.
पश्चा(श्च-अ)नुपूर्वी^e- पाग ६, ३,
१०९.
पश्चा-पापीयस्- यान् माश्रौ १,
५, १, ७.
पश्चा(श्च-अ)मिसुख^e- पाग ६, ३,
१०९.
पश्चा(श्च-अ)र्ध^f- पाग ६, ३, १०९०;
-र्धम् माश्रौ २, ३, १, १९;
आमिष्ट २, ७, ९: २५; भाग्य ३,
१९: १११; जैग्य १, २०: १३; कौसू
६४, २१; -र्धस्य वाश्रौ ३, २,
५, ५७; -र्धात् शाश्रौ ४, २१,
१०; आपश्रौ २, १८, ९; बौश्रौ;
-र्धे शाश्रौ ४, २१, १०; काश्रौ
१६, ८, ९; आपश्रौ २, ३, ११×४;
माश्रौ; -र्धेन शाश्रौ ६, १३, ९;
माश्रौ २, ५, ५, १७; वाश्रौ.
पश्चा^dर्ध-सेवि-पुरीष- षम्
निस् ४, २: ९; २६.
पश्चा^dर्ध, र्ध्या^g- र्ध्य: भाश्रौ
१२, ४, ११; -र्ध्यम् वाश्रौ १, ३, ३,
१४; -र्ध्यात् भाश्रौ १२, ४, १४;
हिश्रौ ७, ४, ४०; -र्ध्यायाम् भाश्रौ
८, १९, ११; हिश्रौ ५, ४, ७५.
पश्चात्^d आश्रौ १, ७, ३; १०, ४×४;
शाश्रौ; काश्रौ १७, ६, ४^h;
आपश्रौ १०, २२, ८^h; हिश्रौ
१२, १, ६^h; द्राश्रौ १०, ३, ६^h;
लाश्रौ ३, ११, ३^h; आपमं
१, ४, १०^h; बौग्य २, १, ११^h;

भाग्य १, १४: १०^h; भाग्य २,
१५, १^h; हिग्य १, १९, ७^h; जैग्य
१, २०: २७^h; या ऋ, ५, १६;
पा ५, ३, ३२; पश्चात्पश्चात्
हिश्रौ १, ६, ५; २, ४, ३.
पाश्चात्य(त्च [पा.]) - पा ४,
२, ९८; -त्य: वैश्रौ १४, ४: १;
८; -त्यात् वैश्रौ १४, ४: २;
-त्ये वैश्रौ ७, १०: ५.
पश्चात्-चमस^m- स: वाश्रौ २, २,
४, २.
पश्चात्-छिद्र^m- द्रेषु द्राश्रौ ११,
१, २; लाश्रौ ४, १, २.
पश्चात्-कर्णⁿ- र्णम् काश्रौ २५, ७,
३७.
पश्चात्-त्तर- -रान् आश्रौ ८, १३, ३५.
पश्चात्-तिथिञ्च्- -थिञ्चौ बौश्रौ १७,
३०: २^p.
पश्चात्-पाद-द्विगुण^p- गम् काश्रौ
७, ३, १८.
पश्चात्-प्रजन(न>)ना^m- नाम्
माश्रौ १, ५, ३, १; ७, १, ४०.
पश्चात्-प्रेङ्क्^o- ङ्क्म् शाश्रौ १७,
१३, १२.
पश्चात्-प्रेङ्क्-फलक^r- कम् शाश्रौ
१७, १६, ७.
पश्चात्-सद्^q- सद्: बौश्रौ १२,
४: ६; भाग्य २, ६: ७.
पश्चात्-सुच्^m- सुच्म वाश्रौ १,
३, ३, ३०.
पश्चाद्-अक्ष^o- अक्षम् काश्रौ ९, १२,
७; आपश्रौ १२, २, १०×४; बौश्रौ.

a) वैप २, ३स्. द्र.। b) = सर्प-विशेष-। व्यु. ?। c) पामे. पृ १५४९ h द्र.। d) वैप १
द्र.। e) वैतु. पागम. पूष. < पश्चात्। f) विप.। भवार्थे यत् प्र.। g) पामे. वैप २, १९८०
a द्र.। h) घृतात् इति पामे. [तु. C.]। i) सपा. आपश्रौ १७, १, ८ उत्तरस्याम् इति पामे.। j) पामे.
वैप २, ३स्. प्रतिष्ठा ऐशा ५, १, २ टि. द्र.। k) पामे. वैप १, ७९८ h द्र.। l) पामे. वैप १, १९८० n द्र.।
m) विप.। बस.। n) तु. अग्निस्वामी; वैतु. धन्वी द्वे पदे इति। o) अस.। p) अर्थतः सङ्ख्येऽपि Thibaut
(JASB [४४, २६५]) पाठाभावः ?। q) विप.। तस. > बस.। r) अस. > बस.।

पश्चाद्-अपवर्ग^a- -र्गम् काश्रौ २,७, २२.
 पश्चाद्-आसेचन-व(त् >)ती-
 -तीम् आपश्रौ १७, १७, ८.
 पश्चाद्-उदक^b- -कम् आमिष्ट ३, ५, ५: १; बौपि १, ४: १^d; ५: १.
 ?पश्चाद्दुद्दीचीनकुम्बा^c- -म्बाम् वाश्रौ १, २, ४, ६३.
 पश्चाद्-(हो >)धोम^e- -मेणु बौग २, ११, ४८.
 पश्चाद्-वर्ष- > षीय- -यः आमिष्ट ३, २, २: १.
 पश्चाद्-वात^f- -तः आमिष्ट २, ५, १०: ६; ११: ९; - ण्तम् आपश्रौ १९, २५, १८; बौश्रौ १३, ३८: २; हिश्रौ २२, ६, ३.
 पश्चिम, मा^g- -मा पावा ४, ३, २२; -मस्याम्^h वैष्ट १, १०: ६; १३; १४: ५; ४, ५: १०; ६, १: ११; -मा काश्रौ १७, ११, ४; १२, ३; कप्र २, ४, १-५; -माम् आमिष्ट ३, ११, ४: १०; द्राष्ट ४, १, २५; कौसू; -मायाम् द्राष्ट ३, ५, २६; अप ६०, १, ३; -मे आश्रौ १२, ६, २; शाश्रौ ४, १८, ८; १९, ४; काश्रौ; -मेनⁱ काश्रौ १४, ४, १६; जैश्रौका १५६; द्राश्रौ २, १, ८; ९×४; लाश्रौ.
 पश्चिम-तस्र (:) वैश्रौ ८, ७: १०; वैष्ट १, ९: १२^k; १०: ९×४.
 पश्चिम-दक्षिणो(ण-उ)त्तर- -रेषु

वैश्रौ १, ३: ९.
 पश्चिम-द्वार^l- -राणि अप १, २९, ३.
 पश्चिम-पूर्वा(र्व-आ)य (त >) ता- -ताम् वैश्रौ १, २: १.
 पश्चिम-वेदि- -दिम् वैष्ट १, ९: १३.
 पश्चिमा(म-आ)दि- -दि वैष्ट १, १५: ४; वैध ३, १०, ४^l.
 पश्चिमा-मुख- -खः अप २२, ७, ५.
 पश्चिमा(म-अर्क >)का^m- -काम् वैष्ट १, ३: २२.
 पश्चिमो(म-उ)त्तरⁿ-तस्र (:) जैष्ट २, ९: ११.
 पश्य-, पश्यत्- प्रष्ट. √पश् द.
 पश्चङ्ग- प्रष्ट. पशु- द.
 √पप्^o पाधा. चुरा. उभ. गतौ.
 पथिक^p- (> पापिक- पा.) पाग ४, १, ११२^m.
 पृष्ट^q- > पृष्ट-वाह^r- -वाद् आपश्रौ १७, १, ८ⁿ; - ण्वात्^o बौश्रौ १०, ३८: १८; हिश्रौ १२, १, ६; -वाहः वाश्रौ ३, ४, ३, २०^q.
 पृष्टोहीⁿ- -ही आपश्रौ ५, ११, ४; १८, १०, १५; २२, २५, ४; बौश्रौ १८, ३: ४; वाश्रौ; -हीः आपश्रौ १२, ८, ११; १९, १३, ११; बौश्रौ ७, ४: २४; १२, १८: १५; वैश्रौ १५, ११: १, हिश्रौ १०, ४, १४; २३, २, ४४; -हीभ्याम् शाश्रौ

१५, १४, १३; -हीम् आपश्रौ १५, १३, १; १८, १९, २×४; -ह्यः आश्रौ ९, ४, १४.
 पृष्टोही-कंस-नूपुरा(र-आ)दि- -दिभिः काश्रौसं ४: १७; -दिभिः काश्रौसं ५: १.
 पृष्टोही-व (र >)रा- -राम् काश्रौसं ४: १३.
 पृष्टोह्या(ही-आ)दि- -दि काश्रौसं ६: ६.
 पाष्टोह^o- -हम् लाश्रौ ६, १२, १४.
 √पस् पाधा. चुरा. पर. बन्धने.
 ण्सस^p- -सः शाश्रौ १२, २४, ६; -ससा शाश्रौ १२, २४, २.
 ण्सस्य, स्त्या^q- -स्यम् अप ४८, ८९; निष ३, ४; -स्त्यासु बौश्रौ १२, ९: ९; १४: २१.
 पस्त्या-वत्^r- -वान् ऋप्रा ९, ११^r.
 √पा^s पाधा. भ्वा. पर. पाने, पिबति माश्रौ ५, २, २, ९; हिश्रौ; या ४, १८; १२, २९; पिबतः आपश्रौ १७, २६, १६; हिश्रौ १७, १, १३; पिबन्ति शाश्रौ ५, ८, ४^s; बौश्रौ २२, २०: २१; भाश्रौ; ण्या १, ११; ५, ११^t; १०, १३; पिबसि आष्ट १, १३, ३^t; ण्वात् आपश्रौ ५, १८, २; शाश्रौ ८, ३, ४; आपश्रौ १४, ३०, ३; बौश्रौ २९, ५: ७; हिश्रौ १५, ७, २०; ण्वात् आपश्रौ ८, ६, ८; ९, ९, १४; १०, ९, ५; शाश्रौ; माश्रौ^u २,

a) विप. । बस. । b) सप्र. बौश्रौ २५, ५: २ पुरस्तादुदकम् इति पाभे. । c) पाठः ? सप्र. आपश्रौ १, २१, ३ प्रष्ट. उदीचीनकुम्बाम् इति । d) = कर्म-विशेष- । बस. । e) वैप १, ८८७ ० द्र. । f) विप., नाप. (दिश-). g) सर्वनाम-संज्ञा-उसं. (पावाग १, १, २७) । h) क्वचित् एनबन्तं द्र. । i) दक्षिणादि इति B.L. । j) = वायव्य-कोण- । k) √पश् इति [पक्षे] BPG. । l) व्युप. । व्यु. ? । m) पथिक- इति [पक्षे] माण्डा. पासि. । n) वैप १ द्र. । o) पाभे. वैप १, १९८२ द्र. । p) वैप १, १९८२ द्र. । q) = साम-विशेष- । r) पा १, ३, ८९; २, ४, ७७; ६, ४, ६६; ७, ३, ३७; ७८; ४, ४ पावा १, १, ५६; २, ४, ७७; ७, ३, ७८ परामृष्टः द्र. । s) पाभे. वैप १, १४९५ ० द्र. ।

४, १, ३६; ३७; या ८, २^३फ;
 ङिबिताम् काश्रौ १९, ७, ८^३;
 काठश्रौ १४१; बौश्रौ १६, ५:
 ४; ७; माश्रौ २, ४, २, ११^७;
 पिबन्तु आश्रौ ३, ९, ३^३फ;
 ङिबिब, > बा आश्रौ ५, ५, ४;
 १९x५; शाश्रौ; काश्रौ २५, १२,
 ४^{१०}; या ४, ८; ७, ६; ८, २; ३;
 १०, २; ११, ४४; ङिबितम्
 आश्रौ ४, ७, ४^३; ५, ५, १९^३;
 ६, ५, २४; शाश्रौ; आपश्रौ
 २१, ७, १६^{२a७b}; १७^{३a७b};
 वाश्रौ ३, २, २; १^{२a७b}; हिश्रौ
 १६, ३, ३५^{२a७b}; ३६^{२a७b};
 अत्राय ६, ६^{१६}; या ४, १७;
 १९^३फ; १२, ३१; ङिबित, > ता
 आपश्रौ ७, २५, १०; बौश्रौ ४,
 ९: २४^३; ७, ५: १७; २५, १७:
 ११; माश्रौ; ङिबित आश्रौ
 ३, ९, ५; आपश्रौ १९, ३, ४;
 हिश्रौ १३, ८, २८; वृदे ३, ९०^३;
 सात्र १, १३१; या ५, ११;
 ङिबित् आपश्रौ २१, २०,
 ३; हिश्रौ १६, ६, ४१^{१०};
 अपिब: आश्रौ ९, ५, १६^३फ;
 पिबेत् काश्रौ ४, १४, ११;
 आपश्रौ; पिबेताम् वैश्रौ ११,
 ५: १३; या ९, ४२; ४३;
 पिबेयु: शंघ ३९०; विघ ५४,
 ६; पिबेयम् वृदे ८, ३०.
 ङिपाथ > था ऋप्रा ७, ५३; शुप्रा
 ३, १२९; तैप्रा ३, १०; पातु
 कौस् ९१, २०^३फ; ङिपाहि आश्रौ
 ५, १४, २; शाश्रौ १४, ३, ६; २१,
 २; बौश्रौ; या १०, २^३फ; शुप्रा

२, ६२; ङिपातम् आश्रौ ४, ७, ४;
 शाश्रौ २, ४, ३^६; ५, १०, १८; ८,
 १५, १२^७; आपश्रौ १५, १०,
 ११^७; बौश्रौ ९, १०: १७^७;
 भाश्रौ ११, १०, १०^७, वैश्रौ १३,
 १२: १७^७; द्राश्रौ १४, ३, ५^७;
 लाश्रौ ५, ७, ४^७; शुप्रा २, ६२;
 या ४, १९.
 पपौ वाधुश्रौ २, १३: २; वृदे ६,
 १०२; पपिरे या १०, १३^३फ;
 ङिपपु: काश्रौ १३, ३, २६^३;
 आपश्रौ २१, २०, ३; बौश्रौ;
 पास्यन्ति सु २८, ४; पास्यसि
 वाश्रौ ३, ४, ४, ५^६फ; ङिअपात्
 आश्रौ ६, ४, १०; शाश्रौ;
 ङिपात् द्राश्रौ ६, ४, १७;
 लाश्रौ २, १२, १७; ङिअपाताम्^७
 शाश्रौ ८, १५, १३; काश्रौ २६,
 ६, ७; द्राश्रौ १४, ३, ६; लाश्रौ
 ५, ७, ५; शुअ ४, ९६; ङिअपा:
 आश्रौ ६, २, १२; ३, १६; ११,
 ९; शाश्रौ ९, ६, १८; वैताश्रौ
 २६, १३; ङिपा: आश्रौ ९, ६, २;
 शाश्रौ ११, २, १३; ङिअपातम्
 आपश्रौ १५, १०, १२; बौश्रौ
 ९, १०: २०; माश्रौ; ङिअपाम
 आश्रौ ५, ६, २६; काश्रौ १०,
 ९, ८; आपश्रौ.
 ङिअपायि आश्रौ ६, ४, १०; ८,
 ५, १२; शाश्रौ.
 पाययति आपश्रौ ७, १३, ११;
 बौश्रौ ४, ५: २०; भाश्रौ पाययन्ति
 आपश्रौ १६, १८, ३; २०, २,
 ११^३फ; बौश्रौ १८, ५०: २८;
 हिश्रौ ११, ६, २५; १४, १, २३^३फ;

ङिपायय > था बौश्रौ १६, ५:
 १३; ऋप्रा ८, ३३; पाययेत्
 आश्रौ ३, ११, ३; आपश्रौ १९,
 १३, १२; हिश्रौ २३, २, ४५;
 शांय.
 ङिपाययिष्यति आश्रौ ५, ५, २७;
 शाश्रौ ७, ४, १२; आपश्रौ.
 पिपासति हिश्रौ १०, २, ५८^३फ;
 पिपासेते वैश्रौ १५, ३१: २;
 पिपासन्ति सु ११, २; पिपासेत्
 हिश्रौ ८, ७, ४३.
 ङिअपिबस्- वांस: या १२, ४२^३फ;
 तैप्रा १६, १३; -वान् या ११, ४.
 ङिपातवे आपश्रौ १६, २६, ३; वैश्रौ
 १८, १८: ८; हिश्रौ; या ११, ३.
 ङिपातवै आपश्रौ १२, २४, १४;
 वैश्रौ १५, ३१: ११.
 ङिपातव्य, व्या- न्यस्य मीस् १०,
 ४, ४९; -व्या विघ २२, ८२.
 ङिअपातु- -ता आश्रौ ६, ४, १०;
 शाश्रौ ९, ८, ३; वाधुश्रौ २,
 १३: ४; या ५, २^३फ; -तारम्
 आपश्रौ १९, ३, ३; बौश्रौ १७,
 ३१: ७; ३५: ६; वैश्रौ ११,
 ५: २; हिश्रौ १३, ८, २८.
 ङिअपान- नम् शाश्रौ १४, २, ११;
 १५, १, ४^३फ; ५; काश्रौ; पा ८,
 ४, ९; -नात् या ५, १; ६,
 ७^३; मीस् ३, २, ३४; -नानि
 बौश्रौ २, ९: १६; -नाय माश्रौ
 ५, २, २, ६; गोग् ३, १०, २१;
 या ५, १८; १२, ४; -ने अय
 ४८, २९; बौध २, १, १८; गौघ
 २३, २; -नेत् आग्निग् २, ६, ७:
 ३२; विघ ४६, २३; -नै: अय

a) पाभे. वैप १, १९८३ p द्र. । b) पाभे. वैप १, १९८३ ० द्र. । c) पाठ: ? वैप १, १९८३ j द्र. । d) पिबित इति पाठ: ? यनि. शोध: । e) अपिपन् इति पाठ: ? यनि. शोध: (द्र. आपश्रौ.) । f) सपा. पातु <> पात् इति पाभे. । g) पाभे. वैप १, १९८५ f द्र. । h) पाभे. वैप १, १९८४ j द्र. ।

४४, ३, १०; या ५, ३.

पान-क^a- पाग २, ४, ३१; -क्रेभ्यः

शंभ २१९.

पान-कर्मन्- -र्म अप ७०^३, १०,
७^२.

पान-भोजनो(न-उ)पनिवेश^b-

स्थान^c-शङ्काप्रतिविधान-

कुशल- -लः शंभ २५३.

पान-व्यापद्^d- -पत् मीस् ३,
४, ३२.

पान-हस्त^e- -स्तेन अप १, ३०,
४.

पानीय^f- -यम् वैष् ४, ४ : २६;
१२ : ९; ५, ६ : २६; शंभ २५४,

३४); ४२६; या १, १६; ७,
१३; २५; -ये अप ७०^३, ७;

११; विध ९१, १;

पानीया(य-अ)र्थे- -र्थम् वैष्
५, ७ : १.

पान्त^g- -न्तम् आश्रौ ८, ८, ६;
शांश्रौ ९, ४, ५; १०, ६, १९;

११, १२, १३; १२, २६, १५;
या ७, २५^३.

पान्त-पश्यन्ति-शब्द- -द्वौ
ऋषा ४, ४८.

पायन^h- -नानि कौस् ३१, ५;
३२, ७.

पायना(न-अ)र्थे- -र्थम् निस् ४,
३ : १०.

पाययमा(न>)ना- -ना या २,
२७; -नाः गोष् ३, २, ६.

पाययितवै काश्रौ ४, १३, ११^३.

पाययित्वा वैश्रौ १०, १० : १३;

आष् १, ११, २; ४.

पिपानⁱ- -नः अत्र ९, ४^३.

पिपासत्- -सते या ७, १३.

पिपासा- पाग ५, २, ३६; ६४^१;
-सा बौश्रौ २, ५ : २^३; अप

२३, १४, ६.

पिपासक^j- पा २, २, ६४.

पिपासित- पा ५, २, ३६.

पिपांसु- -सुः कप्र २, २, ९.

पिपिपीषत्^k- -षते शांश्रौ ७, ७, १;
१०, ६, १४××; आपश्रौ.

पिषव- पा ३, १, १३७.

पिषव- > षव-वत्^l- -वान् आश्रौ
८, ५, ३.

पिषवन्- -पिषवन् आश्रौ ५, १९, ३;
आपश्रौ; आपमं २, २, १^३;

-बन्तः बौश्रौ ११, ११ : ३;
-बन्तम् शंभ २५४; विध ७१,

६२.

पिषवन्ती- -पिषवन्तीः आपश्रौ १,
२, ८; भाश्रौ; -न्तीम् अप ३९,

१, ७.

पिषव्यै^m आश्रौ ६, ५, २४^३.

पिपीत, ता- -तः आश्रौ ५, ६, २६;
६, १२, २; माश्रौ २, ४, १, ४५;

वाधूथौ ३, ५३; ३; वैताश्रौ १९,
१८; -तस्य आपश्रौ १४, १८,

८; बौश्रौ ५, ४ : १८××; -ताः
काश्रौ ७, ४, ३०^m; आपश्रौ १०,

१७, ११; बौश्रौ; या १४, ६.

पीत-धृत-, -त-तैल-, -त-
दधिⁿ-, -त-मद्य- पाग २, २,

३७.

पीत-वत् लाश्रौ ८, ९, १३.

पीत-वत्- -वती निस् ३, १२ :
४०; -वन्तः या १२, ४२;

-वन्ति निस् २, ११ : १३.

पीतवती- -त्याम् निस् ३,
१२ : ४०.

पीत-विपीत- पावाग २, १, ६९.

पीत-विष^o- पाग २, २, ३७.

पीत-शेष- -षम् गोष् ३, १०,
२२.

पीता(त-अ) पीत^p- -पितस्य
काश्रौ २५, १२, १; माश्रौ ३, ६,

१३; -तौ काश्रौसं ३२ : २४;
माश्रौ ३, ६, १३; अप्राय ६, ६.

पीता(त-अ)वशिष्ट- -ष्टम् शंभ
२२६.

पीता(त-अ)वशेषित- -तम् शंभ
४२६.

पीति- पा ३, ३, ९५; -पितये

आश्रौ ६, ५, २४; आपश्रौ ५, ४,
१; बौश्रौ; या १२, ४^३; -पितिम्

आश्रौ ६, ४, १०; शांश्रौ ९, १८,
५; द्राश्रौ ४, २, ९; लाश्रौ २, ३,

८; वैताश्रौ २६, १०.

पिपीत्वा आश्रौ २, १०, ४^१××;
शांश्रौ; कौष् १, १७, ६^१; विध

८४, ३^१.

पिपीत्वा-स्थिरक- पाग २, १, ७२;
पीत्वी पाग ७, १, ४९.

पीयमान- -नः वाधूश्रौ ४, ५२ : ८;
-नाः वाधूश्रौ ४, ५२ : ७.

पेय, या- -यम् द्राष् ४, १, ६; -या
काध २७५ : २; -याः शांश्रौ

a) नाप. । स्वार्षे प्र. । b) =नूतन-राज्य- । c) =सेना-निवेश- । d) पस. उप. =वमन- ।

e) मलो. कस. । f) तस्मै द्वितीयः छ>इयः प्र. (पा ५, १, ५) । g) वैष १ द्र. । h) गिजन्तात्.

कर्मणि प्र. । i) तु. पाका. । पिशाच- इति भाष्ठा. प्रम्. । j) कनि प्र. ह्रस्वत्वम् । k) =धातु-निर्देश- ।

l) पाभे. वैष १, १९८७ म. द्र. । m) पाभे. वैष १, १९८८ अ. द्र. । n) तु. पागस. ।

o) श्रीत्वा इति जीसं. ।

१५, १, ४; बौश्रौ १८, ५१ : १७;
-याम् गोष्ट ४, ५, २४; -यैः
शांश्रौ १५, १, ३; बौश्रौ १८,
५१ : २; ३^३; ४.

√पा^१ पाधा. अदा. पर. रक्षणे, पाति
अप ४८, १४^१; ७०, १, १०;
वाध ३०, ६; वैध; या ४, १८^३;
१२, २९; पासि आश्रौ ४, ११,
६^१; पाथः बौष्ट ३, ११, ३^१;
१पातु आश्रौ १, ४, ९; ४, १२,
२; ६, ९, ३^१; शांश्रौ ४, ६, ९^{३०};
काश्रौ; आपश्रौ ७, ५, १^०; २^१;
माश्रौ ६, २, ४, १^०; हिश्रौ ६, २,
४^१; १२, ४, ४^१; कौश्र १, ५,
२९^१; या ११, ४६; ऋप्रा ४,
५९^१; शुप्रा २, ३०^०; पातुऽपातु
हिश्रौ ८, ५, ३५^१; १पाताम्
आश्रौ १, ३, २३; ९, ५; ६,
९, ३; शांश्रौ; १पान्तु आश्रौ १,
२, १; शांश्रौ १, ६, ४; आपश्रौ;
माश्रौ १, ७, ३, २९^०; ६, २,
४, १^१; वाश्रौ २, २, ३, १^०;
२^३; वैश्रौ; १पाहि आश्रौ १,
१३, ५; ६^{३०}; २, २, ३^१; ५,
२^३ × ×; ५, ६, ७^३; ११^३; शांश्रौ
२, ६, ६^१; १४, २^१ × १; ८, २४,
१^३; काश्रौ; आपश्रौ २, १४, १०^०;
३, २०, ८^{३०}; १२, १४, १३^३;

माश्रौ १, ३, १, १८^०; ४, २,
११^१; ६, ३, ७^५; वैताश्रौ
४, १६^३; पाष्ट ३, ४, ७^१; माष्ट
२, ११, १९^०; कौसू ११९,
२^६; १पातम् शांश्रौ १, ६, ११;
काश्रौ; आपश्रौ १२, २०, ९^३;
माश्रौ २, ३, ७, २^५; हिश्रौ ७, ३,
५६^३; २१, १, ६^३; पाष्ट २, ६,
३०^५; कौसू ५८, १^३; १३७, ४१^३;
१पात आश्रौ ५, ३, १५; शांश्रौ
६, १३, १; काश्रौ; पाथन > ना
ऋप्रा ७, ३३^१; पायात् जैश्रौका
१५४; बौध ४, ५, ४.

पा->२पाल->√पालि^२,
पालयते गौध ११, ३३; पाल-
यति बौध ३, २, १०; वृदे ३,
२६; या ६, १७; पालयन्ति
अप ५२, १६, ७; ७१, १९, ९^३;
पालयन्तु माष्ट १, १३, ४^१;
पालयेत् कप्र ३, १, ३; ४, ४;
शंघ १५९ : १३; २७०; विध
९४, ७.

३पाल- -ले विध ५,
१३७.

१पाली^२- -लीम्
आपष्ट ३, ११.

पाल-क्षेत्रिक- -कयोः
गौध १२, १८.

पाल-दोष- -षः विध
५, १३७.

पाल-संयुक्त- -क्ते गौध
१२, १७.

पालक- पाग २, ४,
३१; -कः जैश्रौका १५४.

पालन- -नम् वाध १९,
१; शंघ १३८; वृदे ६, ३२;
-नात् वाध १९, ५; या ६, १२.

पालनी^१- -न्ती बौध
३, १, ५^१; २, १०.

पालयित्- -ता या ४,
२१; ८, ३; ९, २ × ×; -तारः कौसू
९४, ४; या १०, १६; -तारम्
या ४, २६; -तारौ या ५, २८;
-तुः या ४, २६.

२पातव्य- -व्यः सुधप ८५ : ७.

पातु- पाउमो २, १, ५८.

२पात्- -ता वृदे ३, २६; या ४,
२१; ८, ३; ९, २; १०, ११;
१२ × ×; -तारः या १०, १६;
-तारम् वृदे २, ४०; या ४, २६;
-तारौ- या ५, २८.

११पायु^२- -युः ऋप्रा ४, ६१; ७८;
शुप्रा ३, १०९; -युभिः आश्रौ
२, १०, ४; ३, ७, ५; बौश्रौ २६,
१५ : ७; ऋप्रा ५, ३७; शुप्रा ३,
७८; तैप्रा ६, ५; -योः शुप्रा

- a) या ९, २४ शुप्रा ३, २८ परामृष्टः द्र. । b) पामे. वैप १, १९९१ d द्र. । c) पामे. वैप १, १९८९ h द्र. । d) पामे. वैप १, १९८९ k द्र. । e) पामे. वैप १, १९८९ i द्र. । f) पाव इति पाठः? यनि. शोघः (तु. आपश्रौ ४, ५, ५) । g) पान्तु इति पाठः? यनि. शोघः (तु. ऋ १०, १५८, १ शांघ ४, ६, ४ च) । i) वैप १, १९८९ f द्र. । j) सकृत् पामे. वैप १, १९९० b द्र. । k) संपा. आपश्रौ ६, १, ७ माश्रौ १, ६, १, ३ आपमं २, १५, १२ मुञ्च इति पामे. । l) पामे. वैप १, १९९० p द्र. । m) पामे. वैप १, १९८९ j द्र. । n) पामे. वैप १, १७२ k द्र. । o) पामे. वैप १, १९४० g द्र. । p) पामे. वैप १, १९९० q द्र. । q) पामे. वैप १, १९९० m द्र. । r) पामे. वैप १, १९९१ l द्र. । s) पामे. वैप १, १९९० g द्र. । t) पामे. वैप २, ३खं. कल्पय तैप्रा ३, ७, ११, ५ टि. द्र. । u) पामे. वैप १, १९९१ n द्र. । v) पामे. वैप १, १९९१ o द्र. । w) पामे. वैप १, १९९० o द्र. । x) वैप १ द्र. । y) पामे. वैप १, २०८४ j द्र. । z) = पालिका- । a^१) = वृत्ति- । b^१) °लिनी इति पाठः? यनि. शोघः ।

२,५९६; -बौ पा ८,३, ११६.	पांसु-वृष्टि- -ष्टिः अप ६७, ७, २; -ष्टौ काथ २७५: १०.	११५; या ५, १५; -स्नः ऋभ २,८,३; वृदे ६,४२.
पा- √पा (रक्षणे) द्र.	पांसु-संचय- -यम् याशि २,१०७.	३पाक ^b - पाग ४, २, ८०; -फकम् ^d आश्रौ १, ३, २४; शाश्रौ.
पांशु ^a - -शुभिः काश्रौ १०, १५, १६; गोय ४, १, २०; नाशि २, ८, २१; -शूनू लाश्रौ ५, १, ४; १०, १५, १२.	पांसु सिकता- -तामिः कौसू २६, १०.	पाकायन- पा ४, २, ८०.
पांस ^b - -सम्, -से माशि ४, १४.	पांसु-हर ^c - -रे गौध १६, ५.	पाक-दूर्वा ^c - -र्वा ^o कौय ५, ५, ५फं.
पांसु ^c - पाउ १, २७; पाग ५, २, ९७; -सवः वाश्रुश्रौ ४, ४८: ५; अप ७० ^३ , २०, ३; या १२, १९फं; -सुना अप ५८, १, ४; ६४, ६, ९; -सुभिः काश्रौ ६, ३, ९; आपश्रौ ७, १०, १२; माश्रौ; -सुषु कौसू ८७, २२फं; -सून् आश्रौ ४, ४, २फं; काश्रौ; -सूनाम् बौश्रौ २३, १२: २०; माश्रौ २, २, ३, ४.	पांसव(सु-अ)श्मा(रम-आ)दि- -दिषु अप ६४, ४, ५.	?पाकनग्निम् अप्राय ६, ८.
पांसु-कर्म- -मे षैय ६७: १०.	३पाक- प्रष्ट. √पच् द्र.	पाक-व(त्>)ती ^d - -ती शैशि १८३; माशि २, २; ३फं; याशि २, १०; ११फं; नाशि २, ४, २.
पांसु-खल ^d - -लः काश्रौ २२, ३, ४६.	रपाक ^c - पाउ ३, ४३; ५, ५३; पाग ४, १, ४; -कः आपग २०, १५; भाग २, १०: १६; वाय १, ३; हिण्य २, ९, १०; अप ४८, ६२; निष ३, ८; या ३, १२फं; -फकम् आश्रौ १, ३, २४ ^६ ; शाश्रौ १, ६, ३६; आपश्रौ २४, १२, ७ ^६ ; हिश्रौ २१, १, १ ^६ ; या ३, १२फं; -फकेन अप ८, ४; या १०, ४६फं;	?पाक-शंस ^c - -सम् वृदे ६, २९फं.
पांसु-धिण्य- -वेषु आपश्रौ १२, १८, ३.	पाका- पा ४, १, ४.	पाकिमन्- ^६ कुक्, -क्य- √पच् द्र.
पांसु-मांसा(म-आ)दि- -दीनाम् शौच १, ८५.	फपाक-तर ^c - -रः आश्रौ १, ३, ३०; काश्रौ २, १, २१; बौश्रौ.	पाक्षायण- ^७ पक्षि- प्रष्ट., पक्ष- द्र.
पांसु-र- पावा ५, २, १०७; -फ ^१ ^e बौश्रौ ६, २४: २८; अप्राय ५, २; १२; या १२, १९फं; ऋप्रा १३, २४; तैप्रा १६, २.	फपाक-त्रा ^d आपश्रौ ३, १२, १; २४, १३, ३; बौश्रौ.	पाङ्कत- ^८ पाङ्कतेय- पाङ्कत- द्र.
पांसु-ल- पा ५, २, ९७; -ले या १२, १९.	पाकत्रा-कर्मन् ^{११} - -र्मसु बौश्रौ २७, २: ११.	फपाङ्क ^{१०} - -त्रान् शुप्रा ५, ३४; ६, ३०.
पांसु-वर्ष- -र्वम् अप ५७, २, ४; -वैः अप ७० ^३ , ११, २९.	पाक-व(त्स>)त्सा ^१ - -त्सा कौष्ट ^k ३, २, २ ^१ ; ३; शांय ३, २, ६.	पाचक- ^९ चन-, -च्य- √पच् द्र.
	पाक-शासन ^m - -नः अप ७० ^३ , १८, १; वृदे ६, ७६; ७, १४८; ८, २५; -ने अप ७१, १७, १; ४.	पाजक ⁿ - -के आपश्रौ ५, ५, १; बौश्रौ १७, ३१: १६; भाश्रौ ५, ३, २; हिश्रौ ३, २, ३७.
	फपाक-स्थासन् ^c - -मा अप ४८,	पाजस् ^c - पाउ ४, २०३; -फजः आश्रौ ४, ६, ३; शाश्रौ ५, ९, ११; काश्रौ; या ६, १२फं; १३; -फजसा काश्रौ १६, ३, १४; आपश्रौ १६, ४, १; बौश्रौ.

- a) = पांसु- । b) ऋथः व्यु. च ? । c) वैप १ द्र. । d) मलो. कस. । e) पाभे. वैप १, १९९२ i द्र. ।
f) विप. (वायु-) । उस. । g) पाभे. वैप १ परि. अनुत्तम् शौ ४, १६, ६ टि. द्र. । h) वैप १, १९९३ e, g द्र. ।
i) ऋ इति मूलो. । j) विप. । वस. । k) पावक-वथसा इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. शांय.) । l) सपा.
शांय ३, २, ५ नित्यवत्सा इति पाभे. । m) = इन्द्र- । उस. । n) पाभे. वैप १, १९७१ k द्र. । o) पाभे.
वैप १, १९९३ q द्र. । p) = विवृत्ति-विशेष- । व्यु. ? । MW. यनि. < १पाक- इति । q) = पाङ्कत- ।
r) पाभे. वैप १, १९९४ d द्र. । s) = [महानसोपकरण-] पात्र-विशेष- । व्यु. ? ।

१पाञ्चाल- १पाञ्चाल- द्र.
 २पाञ्चाल-, °लायन- २पाञ्चाल- द्र.
 पाञ्चि- २पञ्चन्- द्र.
 पाञ्चर्ष्य- पञ्जर- द्र.
 पाद् पाग १,४,५७.
 पाद्- पाउभो २,१,३३७.
 पाटन- √पट् (बधा.) द्र.
 १पाटल, °लका^१ - (>°ल्य-, °लक्य- पा.) पाग ४,२,४९.
 पाटला^० - °ले अप ३६,९,३१.
 पाटलि- पाउभो २,१,२३२.
 पाटलिपुत्र^१ - °त्रम् अप ५६,१,२.
 पाटली^० - (>२पाटल- पा.) पाग ४,३,१३६.
 पाटव- पटु- द्र.
 १पाटवः कौसू १४१,३७.
 पाटा^१ - > पाटामूल- °लम् कौसू ३८,१८; अशां १९,६.
 पाटित- √पट् (बधा.) द्र.
 पाटूपट^१ - पावा ६,१,१२.
 पाट्टारक- पट्टार- द्र.
 पाट्ट्यमान- √पट् (बधा.) द्र.
 पाठ-, पाठक- √पठ् द्र.
 पाठन^१ - (>°नी- पा.) पाग ४, १, ४१.
 पाठयत्- √पठ् द्र.
 १पाठा- (>१पाठय- पा.) पाग ४, २, ९७.^१
 २पाठा^१ - °गम् आपग ९,५; वृदे ८, ५६.
 पाठा-शुद्धिनपर्णी-कर्मिकार-राजवृक्ष-कण्टक-तिल्वक-विभीतका (क-

त्र) क-शर-श्वदंष्ट्रा (प्ल-अ) ध्यण्ड- °ण्डाः हिपि १३: ६.
 पाठीन^१ - पाउभो २,२,१९८.
 पाठीन-रोहित- °तौ शंघ २२४.
 पाठीन-रोहित-राजीव-सिंहतुण्ड-शकुल-वर्जम् विध ५१, २१.
 २पाठेय^१ - (>°यक- पा.) पाग ४, २, १२७.
 पाणि^१ - पाउ ४, १, ३३; -ण्यः आपश्रौ ५, ५, १०; -णिः बौश्रौ २, २: २०; कप्र १, ८, ११; विध २४, ५; या २, २६४; मावि; -णिना आश्रौ १, ३, २५; ५, ६, ९; काश्रौ; -णिभिः आश्रौ ६, १२, ७; आपश्रौ; -णिभ्याम् आश्रौ ३, १, १६; काश्रौ; -णिम् आश्रौ १, ७, ३; शाश्रौ २, ९, १३; काश्रौ; -णिषु आश्रौ ४, ७, २१; २३; कौय; -णी आश्रौ १, १, २३; ३, १०, ६१; १३, १४; शाश्रौ; या २, २६; -णीन् आश्रौ ४, ५, ७; ६, १२, ११; ८, १३, २२; शाश्रौ; -णेः शाश्रौ १, १०, १; आपश्रौ; -णौ आश्रौ १, ७, ३; २, ९, ९; ३, १४, १८; शाश्रौ; -ण्योः आश्रौ ३, १०, ८; ४, ८, ११; शाश्रौ.
 पाणि-कोष्ठ- °ष्ठम् माश्रौ १, २, ४, ८; °ष्ठे माश्रौ १, २, ४, १३; वाश्रौ १, ३, १, ३७.
 पाणि-गृही (त>) ता^१ - °तायाः वाध १२, २३.

पाणिगृहीती- पाग २, २, ३७^१;
 पावा ४, १, ५२.
 पाणिगृहीति-का^१ - का काध २८०:३.
 पाणिग्रहण^० - °गम् बौगृ २, ६, १७;
 वैगृ ३, १: १××; -णस्य द्रागृ १, ३, ४; -णात् आम्रिगृ १, ७, १: ४; बौगृ २, ६, २०; भागृ; -णे वैगृ ६, ११: १०; गोयृ.
 पाणिग्रहण-प्रसृति- °ति बौगृ २, ६, २१; वैगृ ६, १५: १; १८: ७.
 पाणिग्रहणा(सु-आ)दि- °दि आगृ १, ९, १; -दिः हिगृ १, २६, १२^१.
 पाणिग्रहणी(स>)या^१ - °याः गोयृ २, २, १५.
 पाणिग्रहा(ह-आ)दि- °दिः आम्रिगृ २, ७, २: १२^१.
 पाणिग्रह^१ - °हः गोयृ २, २, ४; द्रागृ १, ३, ६; -हम् गोयृ २, २, १४; द्रागृ १, ३, २८; -हस्य गोयृ २, १, २२; द्रागृ १, ३, ७; विध १५, १२; १७; -हे वाध १७, ७४.
 पाणिग्रह-वत् वाध १७, ६१.
 १पाणि-घ- पा ३, २, ५५.
 पाणि-नल- °ले आश्रौ १, १०, ८; °लेन शंघ ४५७: ५; ४५८.
 पाणितल-मात्र-पुष्क(र>) रा^१ - °राः माश्रौ १, २, १, ६.
 पाणि-दण्ड- पाग २, २, ३७.
 पाणि-निमार्जन- °नम् बौश्रौ २८,

a) पाका. पाठः। b) अर्थः व्यु. च?। c) =देवी-विशेष-। व्यु. ?। d) =नगर-विशेष-। [पटना इति नभा.]। व्यु. ? बस. इति शक.। e) =शुद्ध-विशेष-। व्यु. ?। f) वैप १ द्र.। g) <पाटि<√पट्। h) पानठ- इति [पक्षे] भारुडा. प्रसृ.। i) पावा- इति पाका.। j) =ओषधि-विशेष-। व्यु. ?। k) =मत्स्य-विशेष-। व्यु. ?। l) तु. पागम.। m) विप.। बस.। n) स्वार्थे प्र.। o) =संस्कार-विशेष-। p) =औषस-नाधि-। q) सपा. °हणा° <> °हा° इति पाभे.। r) =शुद्ध-। s) =परि-भेद-। उस. उप. कर्त्तृ कृत-। t) विप. (सुच्)। बस. > बस.।

१२:२३; हिमि २१.८.
 पाणि-नेय- -याय अप ३१,१०,५.
 पाणि-धम- पा ३,२,३७.
 पाणि-पञ्च^३-, पाणि-पल्लव^३- पाग
 २,१,५६.
 पाणि-पाद- -दम् आपध २, १९,
 १; विध ९७,४; हिथ २,५,७३;
 -दान कौसू ७१, १७; ८६,२०;
 -दौ वैश्रौ १०,१५: १; आग्रिय
 २, ६, ८: ९; ७, ६: २९; वैश्र
 १,२: ४; शंघ ५५.
 पाणिपाद-चपल- -ल: वाध ६,
 ४२.
 पाणिपाद-प्रक्षालन- -नम् गौध
 १०,५२.
 पाणिपाद-शलाका- -का: विध
 ९६,५९.
 पाणि-प्रक्षालन- -नम् हिश्रौ १०,३,
 ३५.
 पाणिप्रक्षालन-प्रभृति- -ति
 वाश्रौ १,६,२,९.
 पाणिप्रक्षालन-प्रस्तराहरणा(ए-
 आ)दि- -दि वैश्रौ १५, १: ४.
 पाणिप्रक्षालना(न-आ)दि- -दि
 आपश्रौ ७,८,१; ८, ९, १३××;
 वैश्रौ.
 पाणि-मध्य- -व्ये वाध ३,६७.
 पाणि-मात्र->°त्र-पुष्क(र<)>रा^३-
 -रा: काश्रौ १, ३, ३८; -राम्
 १७, ४, १२.
 पाणि-मार्ग^०- -र्गम् काय ७,१९.

पाणि-मुख^३- -ख: बौध १, ११,
 २८; -कखा: आग ४, ७, २२;
 गौषि २,३,३४.
 पाणि-वज्र^३- पाग २,२,३७.
 पाणि-वन् मीसू ६,६,१२०.
 पाणि-शूर्पा(र्ष-आ)स्य-द्वि- -विभि:
 कप्र १,९,१४^३.
 पाणि-संक्षुब्ध- -द्वेन आपध १,
 ४,२१; हिथ १,१,१४०.
 पाणि-समूह- -ढम् आपध २, १२,
 ५; हिथ २,४,४१^३.
 पाणि-संमेशन- -नात् बौश्रौ २५,
 ६: ३; -ने बौश्रौ २०, ५: १;
 -नेन बौश्रौ २१,३: १०.
 पाणि-समर्थ- पावा ३, १,१२४.
 पाणि-हृदय- -यार् कौसू ११,
 १४.
 पाणौ-कृत्य- पा १,४,७७.
 पाण्या(णि-आ)वार^३- -रे अप ३०^३,
 २,७.
 पाण्या(णि-आ)स्य^३- -स्य: शांगृ
 ४,७, ५५^३; -स्या: कौसू ३,९,
 ५०^३; वाध १३,१६.
 पाण्यत्(णि-आ)द्वृत्ति- -ति: कप्र १,
 ९,११.
 पाणिक- ✓ण् द्र.
 पाणि-कोष्ठ- प्रभृ., १पाणि-ध-
 पाण-द्र.
 २पाणिघ^३- -घ: अप ४८,१०१^३.
 पाणि-तल-, °दण्ड- पाणि-द्र.
 पाणिन-, °नि- परिण-द्र.

पाण्ट- (> °ण्टी- पा.) पाउभो २,
 २,९५; पाग ४,१,४१^३.
 पाण्ड->°ण्डी-) पाण्ट- टि. द्र.
 पाण्डर^३- -रम् आपश्रौ १८, १४,
 १^३; २^३; -राय भागृ २, १:
 ५^३.
 पाण्डर-ताप्यो(र्ष-उ)ग्गीष- -पाणि
 आपश्रौ १८, १४,३.
 पाण्डित्य- ण्डा-द्र.
 १पाण्डु^३- पाउभो २,१,५२; पाग ५,
 १, १२२^३; -ण्डु: अप ५३,
 १,३; -ण्डुना अप ५८^३, २, ५;
 -ण्डुम् कौसू ४८, २३; -ण्डुन्
 अप ६३,१,२.
 १पाण्डव-, पाण्डिमन्- पा ५, १,
 १२२.
 पाण्डु-कम्बल^३->°लिन्^३- पा ४,
 २,११.
 पाण्डु-ता-, पाण्डु-त्व- पा ५, १,
 १२२.
 पाण्डु-पत्रा(त्र-आ)शित्^३- -शिन:
 वैध १,८,१.
 पाण्डु-भूम- पावा ५,४,७५.
 १पाण्डुर- पावा ५,२,१०७.
 पाण्डु-रोग->°गिन्- -गी शंघ
 ३७६; ३७७: ४.
 २पाण्डु^३->(२पाण्डव-, पाण्डवेय-
 पा.) पाग ४, १, ११२^३;
 १२३.
 पाण्डु-शतराष्ट्र^३- पाग २,३,३१.
 पाण्डु-नन्दन- -०न शंघ १२९.

- a) तु. पागम. । b) विप. (सुन्-) । वय. । c) उप. = मार्जन- । d) विप. । वय. ।
 e) पाणित्वम् इति जीसं. । f) पाणिसूषेस्फयदास्मि: इति जीसं. । g) °गिम् इति पाठ: ? यान. शोथ: (तु.
 भाष्यम्) । h) मलो. कस. । i) परसंरं पाभे. । j) = पर्वत- व्यु. ? । k) तु. पाका. ।
 पाण्ड- इति भाण्डा. प्रभृ. । l) विप., नाप. । वर्णे तद्वृत्ति च वृत्ति: । वैप १ द्र. । m) सपा. पाण्डरम् <>
 पाण्डुरम् इति पाभे. । n) श्वेतं पाण्डरम् इत्यस्य स्थाने सपा. हिश्रौ १३, ५, २३ श्वेतपाण्डुरम् इति, सा (मास ५,
 ३; ५, २१) श्वेतं पाण्डरम् इति पाभे. । o) = वर्ण-विशेष-, तद्वन्- । व्यु. ? < ✓ण्ड इति पाउवृ १, ३७;
 < ✓ण् इति पाउभो. । p) = कम्बल-विशेष- (तु. वापाभा.) । q) = वानप्रस्थ-विशेष- । r) व्यप. । व्यु. ?

३पाण्डु^० -> पाण्ड्य- पावा ४, १, १६६.
 २पाण्डुर, रा^० - रम हिश्रौ १३, ५, २३^०; विध १, ३७; अप ५०, ७, ३; ६८, २, ६; -रा अप २१, ६, २; -राणि अप ६८, २, २०; ३५; -राभिः अप ५२, ५, ४; -रासु विध ९९, १०.
 पाण्डुहृद्^० -दाः बौश्रौप्र ४९ : ४.
 पाण्ड्व^० -ण्ड्वम् काश्रौ १५, ५, १२.
 पाण्य(णि-आ)धार- प्रभृ. पाणि-द्र.
 १-२पात-पातक- प्रभृ., पातन्तक-
 √पत् (गतौ) द्र.
 पातवे, पातवै, १पातव्य- √पा (पाने)
 द्र.
 २पातव्य- √पा (रक्षणे) द्र.
 पाताण्डनीय^० -याः वच्यू २ : ४.
 पाताल^० - पाठ १, ११७.
 पाताल-ससक- -कम् शंघ ११६ :
 ४; विध १, १५.
 पाति- पाठ ५, ५.
 पातित- √पत् (गतौ) द्र.
 ? पातीतः^० वैताश्रौ १६, १७^०.
 पातु- √पा (रक्षणे) द्र.
 पातुक- √पत् (गतौ) द्र.
 १पातु- √पा (पाने) द्र.
 २पातु- √पा (रक्षणे) द्र.
 पात्तिगणक- √पद् द्र.
 पात्नीवत-, °नीशाल- पति- द्र.
 पात्र^१ - पाठभो २, ३, ७६; पाग २, ४, ३१; -त्रः बौश्रौ ६, १ : ८; -त्रम्
 आश्रौ ५, १४, ३; ६, ४, १०;
 शाश्रौ; आमिष्ट ३, १, २ : ११;

१५; १८××; या ५, १^०कृ; ऋप्रा
 ४, ७८; -त्रयोः आपश्रौ ८, २,
 ९; १२, २६, १८; भाश्रौ; -त्रस्य
 आपश्रौ १२, ११, ३; ४; भाश्रौ २,
 ३, ३, १९^२; काण्ड २४, १२; जैगृ
 १, २ : ४; या ८, २^२; -त्राया ३,
 २०^०; -त्राणाम् आश्रौ २, ७,
 २०; काश्रौ; -त्राणि आश्रौ २,
 ६, ४; शाश्रौ; -त्रात् वैगृ १,
 १० : १; शंघ १८१; बौघ
 १, ६, ४७; -त्रान् शाश्रौ
 १६, १, २; बौश्रौ २, १३ :
 २०; -त्राम्याम् आपश्रौ १२,
 १, ९; १३, ९; हिश्रौ १४, ३, ८;
 -त्रे काश्रौ १०, ३, ८; १२, ५,
 १६××; आपश्रौ; -त्रेण शाश्रौ
 १६, १७, ९; काश्रौ; -त्रेभ्यः
 काश्रौ २, ४, २; काठश्रौ; -त्रेषु
 काश्रौ २५, १०, २०; आपश्रौ;
 -त्रैः आपश्रौ १८, १६, ८; १९,
 ४, ६; बौश्रौ.
 पात्री- पागम ५६; -त्री वैश्रौ
 ११, ९ : ८; विध ९२, १५; -त्रीः
 वाधूश्रौ ३, ७६ : १२; वैश्रौ ९,
 १ : ९; हिश्रौ ५, ३, ६; -त्रीम्
 शाश्रौ ४, ३, २; काश्रौ; -त्रीषु
 वैश्रौ ९, २ : ५; हिश्रौ ५, ३, २१;
 -त्र्या आपश्रौ १, १८, ७; बौश्रौ
 ११, ५ : ११; १५, ३१ : ११;
 भाश्रौ; -त्र्याः आपश्रौ ३, ८, ५;
 बौश्रौ १, ५ : ८; -त्र्याम् शाश्रौ
 ४, ३, ४; काश्रौ २, ३, २८; ४,
 २१; ५, १०××; आपश्रौ; -त्र्योः

काश्रौ ५, ६, १०; भाश्रौ १, ७,
 ४, ६; ६, १, ४, २८; -त्र्यौ
 शाश्रौ ४, १४, २८; कौगृ ५, ३,
 १८.
 ? पात्रीडाचमसम् काठश्रौ ७;
 काण्ड ४६ : ८.
 पात्री-निर्णेजन^० - नम्^०
 आपश्रौ १, २५, १४; भाश्रौ १,
 २६, १०; हिश्रौ १, ६, ५६.
 पात्री-बिल- -ले काश्रौ २,
 ३, २९.
 पात्री-संशालन^१ - नम्
 बौश्रौ १, १० : १३.
 पात्री-स्थ- -स्थम् शाश्रौ ५,
 ८, २.
 पात्री-स्थान- -ने वाश्रौ ३,
 ३, ४, ४.
 पाण्य(त्री-अ)ङ्गुलि-प्रक्षा-
 लन^० - नम् काश्रौ २, ५, २६.
 पात्र-चमस^० - सम् जैगृ १, १९ :
 ३६.
 पात्र-चय- -यः आमिष्ट ३, ७, ३ :
 २१; बौपि २, २, २; ३, १३.
 पात्रचये(य-इ)ष्टका-वर्जम् हिपि
 १२ : ७.
 पात्र-चयन- नम् हिपि १९ : ८.
 पात्रचयन-प्रभृति- -ति आमिष्ट
 ३, ७, ३ : १३; बौपि २, १, ६.
 पात्र-तस(ः) कप्र १, ३, ११.
 पात्र-दर्शन- -नात् मीसू ८, २, १४.
 पात्र-देय- -यम् जैगृ २, १ : २४^०.
 पात्र-दौर्बल्य- -ल्यत् वाध ६, ३१.
 पात्र-धर्म- -मैः वाश्रौ १, ६, २, १२.

a) = जनपदशब्द-क्षत्रियविशेष-। व्यु. ? । b) पाण्डर- इत्यनेन स-न्यायता द्र. । c) पाभे. पृ १५६२ m
 द्र. । d) व्यप. । व्यु. । e) वैप २, ३खं. द्र. । f) = शाखा-विशेष, तदध्यतृ-। व्यु. ? । g) = लोक-विशेष-।
 व्यु. ? । h) पाठः ? पतितः इति शोघः (तु. C., सपा. ऋ १०, १७, १३ स्कन्नुः इति पाभे. च) । i) पुं. न. च
 नाप. (भारड-) । शिष्टं वैप १ द्र. । j) वैप १, १९९५ g द्र. । k) सपा. पात्रीनि^० <> पात्रनि^० इति पाभे. ।
 l) = पात्री-निर्णेजन- । m) नाप. । द्रस. > कास. उप. करणे कृत् । n) मलो. कस. (तु. भाष्यम्) ।

पात्र-निनयन^a - नम् वाघ १५,
११.
पात्र-निर्णयन^b - नम् माश्रौ ९,
१५,४; वैश्रौ ४,१० : १४^c.
पात्र-न्यासा (स-आ) दि- दि कप्र
३,४,२.
पात्रन्यासादि-क- -कम् कप्र ३,
४,१.
पात्र-पाणि^d - णि: पाण्ड १, १६,
२३; आग्निष्ट २, १, ३ : १५^e;
भाण्ड १, २३ : ७; हिण्ड २, ३, ७;
जैण्ड १, ८ : १७.
पात्र-प्रक्षालन- नम् काश्रौ ९, १४,
७; -नात् काश्रौ १०, ३, २१;
६, ७; १२, ६, ३.
पात्र-प्रक्षालना (न-आ)न्त- न्ते
काश्रौ १०, ७, ९.
पात्र-प्रयोग- ना: आपश्रौ ८, १३,
१४; १०, ३०, ४; १३, २५, ४;
-नात् वाश्रौ १, ६, २, ९.
पात्र-प्रयोजन- नम् वाश्रौ ३, २, १,
२७; -नात् माश्रौ १, ७, १,
१३.
पात्र-प्रोक्ष- -क्ष: आपण्ड १, ११.
पात्र-प्रोक्षणा (ण-आ)दि- दि काश्रौ
१०, ९, १३.
पात्र-प्रोक्ष(ण>)णी- णी: बौश्रौ
२४, ३६ : ६.
पात्र-भूत- -तान् आमिष्ट ३, ११,
१ : ११.
पात्र-भेद- -द: मीसू ४, १, ३३;
५, २, १६; -दे बौण्ड ४, ९, ४.
पात्र-भेदन- -ने बौश्रौ २८, ११ : ४.
पात्र-मन्त्र-हविर-द्विज- -जा: अप
२३, १०, ७.

पात्र-मुख- -खे काश्रौ ९, १३, १४.
पात्र-योग- ना: आपश्रौ ७, २२, २;
१३, १९, ३; १७, १६, ३.
पात्र-योजन- नम् काश्रौ ९, २, १.
पात्र-लाभ- -भ: मीसू १०, १,
४७.
पात्र-विनियोग- ना: अप्राय ३, ६;
-गम् अप्राय ३, ७^३; ८.
पात्र-वृद्धि- -द्धि: मीसू ५, २, ८; ९.
पात्र-शेष- -षम् काठश्रौ ६३.
पात्र-संसादन- -नात् आपश्रौ १,
१५, १०; -ने वैश्रौ ९, ४ : १०.
पात्रसंसादन-काल- -ले आपश्रौ
३, १६, १५; ८, २, १××; वैश्रौ.
पात्रसंसादन-प्रभृति- -तीनि
हिश्रौ ४, ४, ४५; ८, १, ४८; ९, ४,
१; ७, ४५.
पात्रसंसादना (न-आ)दि- दि
आपश्रौ ७, २२, १; ११, २०, १३.
पात्र-संक्षालन^f - नम् भाण्ड ३, १४ :
२३.
पात्र-सद्- -सदे माण्ड १, ९, १३^३;
वाण्ड ११, १६; १५, ८.
पात्र-संपात- -त्ते विध ९६, ६.
पात्र-संमार्जन-काल- -ले वैश्रौ १०,
७ : ८.
पात्र-सादन- नम् काश्रौ ९, ४, ३७;
९, ६, ५०; -ने वैश्रौ १०, ६ :
१०.
पात्रसादन-काल- -ले आमिष्ट
३, ३, १ : २२.
पात्र-स्थ- -स्थम् काश्रौसं ३६:
१३.
पात्र-सुवा (व-आ)दि- -दय: वैण्ड
१, ८ : ८.

पात्र-हरण-सामर्थ्य- -थ्यात् काश्रौ
१०, ६, २४.
पात्रा(त्र-आ)दि-संभार- -रान् वैण्ड
१, ८ : ९.
पात्रादिसंभार-युक्त- -क्त: वैण्ड
२, ३, ६.
पात्रा(त्र-अ)न्तर- -रम् शंघ १८१.
पात्रान्तरा (र-आ)नयन- -ने
बौध १, ६, ४७.
पात्रा(त्र-आ)साद- -दम् अप २३,
११, ५.
पात्रा(त्र-आ)सादन- नम् काश्रौ
४, १, ३; २६, २, ९.
पात्रिक^g - पा ५, १, ४६;
५४.
पात्रिय^h - पा ५, १, ६८.
पात्रिणⁱ - पा ५, १, ५३.
पात्रे-बहुल-, पात्रे-स [सं^h]मित-
पा, पाण्ड २, १, ४८; दि, २, ८१.
पात्रौ (त्र-ओ)दन- -नान् वाधूश्रौ ४,
७४ : ३२.
पाथ्य^j - पा ५, १, ६८.
पात्रीव^k - पाण्ड २, ४, ३१.
पाथ- २पाथ- द.
पाथस^l - पाठ ४, २०४; २०५; -थ:
आश्रौ १, ११, ८; ४, ५, ३; शाश्रौ
१६, ३, ३२; आपश्रौ; या ६, ७४;
८, १७४.
१पाथ्य- पा ४, १, १११.
पाथिक- २पाथिक द.
पाथिक्य- ✓पथ द.
पाथिस- पाठ २, ११४.
१पाथेय- ✓पथ द.
२पाथेय- (>पथक- पा.) पाण्ड ४, २,
१२७.

a) भाप. > नाप. (कर्म-विशेष-). b) विप., नाप.। c) पाथे. पृ १५६३ k द्र.। d) = बालप्रह-
विशेष-। e) णिम् इति पाठः ? यति. शोधः (तु. पाण्ड. प्रसू.)। f) = पात्री-निर्णयन-। g) विप.। पात्र-
= परिमाण-विशेष-। h) पाक्य. पाठः। i) अर्थः व्यु. च!। = यज्ञोपकरण- इति पाण्ड.। j) वैप १ द्र.।

†रपाथ्य^a- -थ्यः माश्रौ ६, १, १,
२६; वैताश्रौ ५, १४.
पाद्-, १पाद्- √पद् द्र.
२पाद्^b- (>पादायन- पा.) पाग
४, १, ११०.
पादक्रमिक-, पादविक-, पादिक-,
१पादु- √पद् द्र.
†रपादु^c- -दुः निघ ४, २; या ५,
१९६.
१-२पादुक- √पद् द्र.
१पादुकहेम^d- -मम् शैशि ९८१०; १०४
पादू-, पादूत-, पाघ- √पद् द्र.
१पान- √पा (पाने) द्र.
२पान^e- (>पानी- पा.) पाग ४, १,
४१.
३पान^f- (>पान-र- पा.) पाग ४, २,
८०.
पानक- प्रमृ. √पा(पाने) द्र.
पानठ- (>ठी-) पाठन- टि. द्र.
पानभो^g- ^०नव्यापद्- √पा (पाने) द्र.
पानस्य^h- -स्याः बौश्रौ ४१ : ११.
पान-हस्त-, ^०नीय-, पान्त √पा
(पाने) द्र.
पान्थ- √पथ् द्र.
पाप, पाⁱ- पाउ ३, २३; -पः शांश्रौ
१५, १९, ११; बौश्रौ २, ५ : ८;
या ५, २६; -पम् शांश्रौ १५,
२४, ११; काश्रौ १२, २, ८;
आपश्रौ; आगृ २, ४, १४; पागृ
३, ३, ६; हिगृ १, १९, ७;
या १३, ६; १४, २९; ३४;
पा ६, २, ६८; -पपया^j आपमं
१, १७, ८; बौध २, ६, ३४; -पस्य
आपश्रौ ६, ६, ८; शंघ १३३;

बौध ४, ८, १०; -पा आच्यो
१३, ८; -पाः अप ६४, ९, ८;
बौध १, ११, २१; विघ ४३, ३२;
या ६, २५; -पात् आश्रौ ९, ३,
१२; वाश्रौ; -पानाम् वाध २५,
१; १२; २७, २०; शंघ १६२; विघ
५४, ३४; -पानि जैगृ १, २० :
२९; वाध; -पाम् अत्र ७,
११५; -पाय अत्र १३, ४, (४);
-पासः या ६, २५; -पे
शौच २, ७९; -पेन आपश्रौ १०,
१२, १३; आगृ २, ६, १ :
२६; विघ ९३, १०; वृदे ४,
२३; या १२, ३; -पेभ्यः आगृ
२, ६, २ : ६; बौध; -पैः द्राश्रौ
९, ४, १७; विघ ८, ३७.
पापी^k- पा ४, १, ३०; -पी शांश्रौ
१४, ५१, १; कप्र ३, ६, ३; -पीः
आपश्रौ ४, १५, ४; भाश्रौ ४, २१,
२; हिश्रौ ६, ४, २१; -पीनाम
पागृ १, १२, ४; -पीम् शांश्रौ
१४, ५१, १; -प्या आश्रौ ९,
७, २२; शांश्रौ १४, ५१, १.
पारप-विलोम-पूर्व^l- -र्वे भाशि ५.
†पापक^m- -कम् शांश्रौ १५, २४,
१; १६, ९, ७; आगृ ३, ६, ७;
आपघ २, १२, १६; हिघ २, ४,
५३; या ३, ८; १४; १९; ४, २४;
६, १; ३; २३; ९, ४; -केन
बौध २, ६, ३२; १०, ८.
१पापकर्मन्- -र्मभिः वाध १३,
४९; -र्मभ्यः बौध ४, ७, १.
पापकर्म-रतिⁿ- -तिः वाध
२७, ४.

पापकर्मा(र्म-अ)पनुत्ति- -त्तये
जैश्रौका १९९.
पापकर्मिन्- -र्मिणः शंघ ३७४.
२पापकर्मन्^o- -र्मिणाम् बौपि २,
८, १; -र्मभिः जैश्रौ १ : १५;
-र्मिणम् जैश्रौ १ : १४; वाध
२६, १९.
पाप-कृच्छ- -कृच्छोः वृदे ७, ९५.
पाप-कृत्- -कृत् बौश्रौ १८, १२ :
१५; १३ : २; वाध; -कृतः
आश्रौ १०, ७, ६; १२, ९, १७;
शांश्रौ; या १०, ११; -कृता कप्र
२, ७, ८; -कृताम् शंघ १०४.
†पापकृत्या^p- -त्या काश्रौ १२, २,
८; द्राश्रौ ७, ३, ६; लाश्रौ ३, ३, ९.
पाप-घ्न- -घ्नः बौध ४, ५, २२;
-घ्नम् बौध ४, ८, ५.
पाप-चारिन्- -रिणः वाध १८, १३.
पाप-चेतस्^q- -तसः वृदे ८, २८.
पाप-चैल- -लम् कौसु ६३, २.
पाप-धो^r- -धियः या ५, २३; १०,
५; -धियम् या ५, २.
पाप-नक्षत्र- -त्रे कौसु ४६, २५.
१पापनामस्- -मनी या ४, २१.
२पापनामस्^s- -मा या ६, १२.
†पापनाशन- -०न अशां ३, १;
-नः अप २४, ३, १.
पाप-नाशि(रु>)नी- -न्यः बौध
४, ६, २.
पाप-प्रणाशि(रु>)नी- -नी बौश्रौ
२२, ८ : १५.
पाप-प्रशमन- -नम् शंघ १०४.
पाप-बहुल- -लाः शंघ २६२.
पाप-बुद्धि^t- -द्धिः वैगृ ५, ९ : ५;

a) वैप १, १९९७ d द्र. । b) व्यप. । व्यु. ? । c) वैप १, १९९७ e द्र. । d) अर्थः व्यु. च ? ।

e) अदुक^० इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. उत्तरं स्थलम्) । f) तु. पाका. । यान- इति भारुडा. प्रमृ. ।
g) रपीन- इति BPG., पासि. । h) वैप १ द्र. । i) पासे. पृ २८५ i द्र. । j) पासे. वैप २, ३४. पाशम्
मंत्रा १, १, १४ टि. द्र. । k) लाघासं. ^०पिनाम् इति । l) दस. > वस. । m) स्वार्थे प्र. । n) विप. । वस. ।

-द्विस्र वैगृ ५, ९: १४.

पाप-भद्र- -द्रम् बाधूश्रौ ३, १: १; -द्रवो: बौश्रौ १८, २९: ४१.

पाप-भीरु- -रुम् बाध ६, ३०.

पाप-मरण- -णे वैगृ ७, ४: ११.

पाप-मृत- -तस्य वैगृ ७, ४: १४.

पाप-यक्ष्म-गृहीत- -त: बौश्रौ १३, २८: १; २३, ३: २१; २८, १: १; -तस्य द्विश्रौ २२, ४, १५.

पाप-श्रोनि^१- -निषु कौशि ४०.

पाप-रोग^२- -गात् गोश्र ४, ६, २; -तेण वृदे ७, ४२.

पापरोगा(ग-अ)न्वित- -त: वैगृ ५, ११: २.

पापरोगिन्- -गिणास् वैगृ ३, ७: २२.

पाप-लक्ष्(रा-)णा^३- -गाया: कौम् ४२, १९.

पाप-वसीय(य-)सी- -सी गोश्र १, ६, २.

पाप-वस्यस^४- -सम् आपश्रौ १६, २, ४१.

पाप-वाद- -द: बौश्रौ २, ५: २३१.

पाप-विनाशन- -ना: बौध ४, ६, १.

पाप-विवर्जित- -त: शंघ ४४१.

पाप-शकुनि^५- -नि: भागृ २, ३१: १३१.

पाप-शान्त्य(न्ति-अ)र्थ- -र्थम् जैश्रौका ११८.

पाप-संयुक्त- -क्ता: शंघ ४४०.

पाप-संकर^६- -रूपा: या १०, ५.

पाप-संचय- -य: आम्रिगृ २, ४, ५: २३; बौध ४, ७, ८.

?पाप-सम^७- पाग २, १, १७; -सम् बौश्रौ १४, १३: ३१; वैतार्थ: ३१, ५.

१पाप-स्पर्श^d- -शै^० गोश्र ३, ३, ३२.

२पाप-स्पर्श^b- -शै^० द्रागृ २, ५, ३५.

१पाप-वृत्त- -वृत्त: बौश्रौ २८, ९: २०; -वृत्ते बौगृ ३, ५, १४.

पाप-हर- -रम् अष ८, १, ६.

पाप-हारि(न् >)णी- -णीम् अष ७ १, ६.

पापां(प-अ)श-भाज्- -भाक् शंघ २६२.

पापा(प-अ)णक- -के पा २, १, ५४.

पापा(प-अ)मन्^b- -मनाम विध ४४, १; -त्मा शंघ ४४१: विध ५४, १.

पापा(प-अ)पनुत्ति- -त्तये अष ३१, ६, ४.

पापा(प-अ)भिशङ्का- -ङ्कया वृदे ६, ३७.

√पापाय > पापायित- -ता: बौश्रौ १८, २६: २०.

पापा(प-अ)र्ह^a- -हम् भागृ १, १२: १५; -हे भागृ १, १२: १४.

पापा(प-अ)हि^a- -हे: माशि १५, ६; पाशि २५; नाशि २, ८ १०.

पा(प-क >)पिका- -का: अष १, ३२, ११.

पापिन्- -पिन: बाध १४, १९.

पापिष्ट- -ष्ट: गौध ४, २८; -ष्टम् कप्र २, ७, ८; १०, १०.

पापीयस्- -य: बाधूश्रौ ३, ४६: ४; निम् ८, ७: २८; -यस:

शंघ २२९; गौध १३, २५; -फयसा आपश्रौ ६, १८, २; वैश्रौ

१५, २६: ७; द्विश्रौ ६, ६, १७; १०, ४, २३; -यसे बौश्रौ १६,

११: ५; बाध २, ४३; बौध १, ५, ८१; -यान् आपश्रौ २, १७,

५३; ५, ३, ७xx; बौश्रौ.

पापीयसी- -सी बौश्रौ १८, २६: १८.

पापीयो भव्या- -व्यायै बाधूश्रौ ४, १०१: १०.

पापी(य >)या- -याम् बौश्रौ १८, ४८: ११.

पापति- प्रभृ. √पन् (गती) द्र.

?पापनयत् अष ३७, १, ५.

?पापस्वप्नोपभुक्ते: ^१ वैश्रौ २१, २: ६.

?पाप:स्वप्नात्^१ काश्रौ २५, ११, २१.

?पापीन्^१- आम्रिगृ ३, ११, १: १०.

पाप्मन्^७- पाठ ४, १५१; -फंप्मन्

बौश्रौ २, ५: २३; २४^१; २५;

आ अगृ; -फंप्मन: आश्रौ २, २, ३; ९, ७, ३५; शाश्रौ; बौश्रौ

२४, ३०: ११^१; माश्रौ १, ६, १, ३; -प्मना आश्रौ ११,

५, १; आपश्रौ; -प्मने बौध ३, ४, ४१; -फंप्मा काश्रौ २, १, २२;

बौश्रौ २, ५: ४; १३; २९, ८: १२^१; बाधूश्रौ ३, २६: ५; ४,

५९: ६; ९; ६०: १०; आगृ १, २४, ३१^१; पागृ; -फंप्मान:

शाश्रौ १५, १९, १; आम्रिगृ २, ४, ५: १५; -फंप्मानम्

a) कस. । b) विप. । वस. । c) वैप १ द्र. । d) वस. । e) परस्परं पाभे. । f) उप.

=अहन- । g) पाठ: ? पापस्वप्नाद् अयमुत्तयात् इति द्विपद: शोघ: (तु. वैप १, १९९९ p, ?अमृत्या: [वैप १ परि.] टि. च) ।

h) पाठ: ? पाप-स्वम- > -म्रात् इति शोघ: (तु. वैप १, १९९९ p) । i) पाठ: ? पापिन: इति वा पापान् इति वा शोघ: संभाव्यते । j) पाप्मान: इति पाठ: ? यनि. शोघ: (तु. सपा. माश्रौ.) ।

k) सकृत् पाप्मा <> पाप्मानम् इति पाभे. ।

आश्रौ २,३,१६; २३; ८, १३,
१४^२; शांश्रौ १,५, ९×५; काश्रौ
४, १५, ४; ५; १५, ७, ६^२;
आपश्रौ; आपमं १,४,११^३; हिष्ट
१,१९,७^३; कौसू ९२,१९^३.
पाप्म-गृहीत- -तः वाघ ५, ८^१;
-तस्य हिश्रौ २२,५,१५.
पाप्म-देवताक^०- -कम् अश्रद्ध, २६^३.
पाप्मन्त्य^०- -न्यम् अश्रद्ध, ३३.
पाप्म-हन्^१- -ह्नः अश्रद्ध, ३१; -हा
अप ३२,१,६^३; अशां २३, १;
अश्रभू २.
पाप्महा-गण- -गणस्य अश्रभू २.
पाप्महा-देवता-> ^०त्य- -त्यम्
अश्रद्ध ३,३१.
?पाप्मा...स्य चाश्र ८:१.
?पाम^०- (> पाम-र- पा.) पाग ४,
२,८०.
पामन्^१- (> न्त- पा.) पाग ५, २,
१००.
पापपाली^१ (> ली/कृ पा.)
पापपी^१ (> म्पी/कृ पा.) पाग १,
४,६१.
पायन- प्रम्. √पा (पाने) द्र.
पायस्- पयस्- द्र.
१पायु- √पा (रक्षणे) द्र.
२पायु^१- पाउ १, १; -^१युः बौश्रौ
४, ६: ५१; भाश्रौ ७,१४, ७;
वैश्रौ; -युम् काश्रौ ६, ६, ३;
बौश्रौ ४, ६: ५२; भाश्रौ; -योः
बौध १,५, ७२; -यौ शुञ्च ४,

२०९.
पायू (यु-ञ्)पस्थ- -स्थम् विध ९६,
९५.
३पायु^१- -युः ऋश्र २, ६, ७५; १०, ८७;
शुञ्च; -युम् बृदे ५, १२७.
पाय्य- पा, पावा ३, १, १२९.
√पाइ पाधा. सुरा. उभ. कर्मसमाप्तौ.
पार^१- पाग २, ४, ३१^१; -रम् आश्रौ
५, ३, १४^१; शांश्रौ २, ११, ४^१;
आपश्रौ; या २, २, ४^१; ६, २०^१;
९, १८; १३, १३; -रात् आपश्रौ
१०, १९, १०; साश्रौ २, १, ३,
१६; १७; हिश्रौ १०, ३, १६;
-राय^१ काण्ट ४, २०; गौध २६,
१२; -रे आपश्रौ ९, १७, ६;
१०, १९, ११×५; बौश्रौ; पा २,
१, १९.
पार-ग- पा ३, २, ४८; -गः कप्र
१, १, ८; शंघ २००; विध ८३,
६; ८; -गाः अप १३, ५, १;
गौध २८, ५०.
?पार^१- -दाय गौध २६, १२^१.
पार-शब्द- -ब्दे ऋप्रा ४, ४५.
पारा(र-ञ्)वार-> ^०श्वाति(न->)
नी- -नीम् या २, २४.
पारावारीण-, पारीण- पावा ४,
२, ९३.
पारे-बद्धवा- पा ६, २, ४२.
पार्य- -यै ऋप्रा ७, ५१^१.
पारक- (> क्की- पा.) पाग ४, १,
४१.

पारकि- (> क्कीय- पा.) पाग ४,
२, १३८.
पारकुलीन-, पारक्य- पर- द्र.
पारञ्- पाउ १, १३६.
पारजायिक-, 'यिन्- पर- द्र.
पारण- √पृ, पृ द्र.
पारणि^१- (> णायन- पा.) पाग
२, ४, ६१.
पारत्रिक-, १-२ पारदारिक- प्रम्.
पर- द्र.
पारय-, 'यत्- प्रम्. √पृ, पृ द्र.
पारयुगीन-, पारलौकिक- पर- द्र.
१पारशव- १परशु- द्र.
२पारशव- २परशु- द्र.
पारशवायन-, 'शव्यथ- १परशु- द्र.
पारश्वधिक- परश्वध- द्र.
पारस्कर- ऋत ४, ५, १०; पा ६, १,
१५७; -रान् हिश्रौ १७, २,
६२^१; -राय या १४, ३७^०.
पारख-, 'खैण्येय-, 'स्यकुलीन-
पर- द्र.
पारायण^१- -णम् बौध ४, ५, २९;
चव्यू १: १५; ऋप्रा १५, १;
-गणस्य आपध १, ११, ७; हिध
१, ३, ६४; -णे ऋप्रा १५, ३३;
-णैः हिध १, ७, ३४^१.
पारायणव्रत- -तानि वैगृ २, ९: १.
पारायणव्रत-बन्ध-विस्म^१-
-नै वैगृ ६, ११: १.
पारायण-समाप्ति- -सौ आमिष्ट १,
२, २: ४७; वौगृ ३, ९: १६;

a) पामे. पृ १५६६ k द्र. । b) पामे. वैप १ रोदम् शौ ८,६,२६ टि. द्र. । c) विप. । वस. ।
d) पाप्मदे^० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. W.) । e) विप. । यत् प्र. उलं. (पा ४, ३, १२१) । पाप्मन्त्य^०
इति पाठः ? यनि. शोधः । f) ?आस्त्वौत् > ?ओऽस्त्वौत् इति द्र. । g) पामं- इति पाका. । h) वैप १
द्र. । i) तु. पागम. । j) विस्ना-विध्वंसमाधुयैषु कर्णविलापे च वृत्तिः इति पागम. । k) = ऋधिन-विशेष- ।
व्यु. ६ । l) = देवता- । m) व्यप. । व्यु. ? । n) = देश-विशेष- । o) तु. राज. प्रम्. ।
= आचार्य-विशेष- । p) भाप. > नाप. ([अविच्छेदेन] वेदाध्ययन-) । व्यु. ? < पार- इति शक. प्रम्. ।
g) पामे. पृ १४७ k द्र. । r) पस. > दस. ।

भाट्ट ३, ११ : १४; हिट्ट २, २०, १३.
 पारायणिक- पा ५, १, ७२.
 पारावत^१- कि ७१: -तम् आग्रिष्ट २, ३, ५ : २०; -तान्^२ शुप्रा ५, २२; ३७; -तेभ्यः^३ शाश्रौ १२, १६, ४.
 पारावत-(हन् >)घी^४-घीम् या २, २४^५कृ.
 पाराशर-, शरिन्- परा √शृ द्र.
 पाराशरीय- १पराशर-द्र.
 पाराशर्य- परा √शृ, शृ द्र.
 १, २पारिक्षित-, तीय- परि √चि (निवासे) द्र.
 पारिख-, खेय परि √खन् द्र.
 पारिणह्य- परि √णह् द्र.
 पारिणोय- परि √णी द्र.
 पारिघापयन्त^६- न्ताः हिश्रौ २१, ३, १२^७.
 पारिधेय- २परिधि-द्र.
 पारिपन्थिक- परि-पन्थ-द्र.
 पारिप्लव- परि √प्लु द्र.
 पारिभद्रक^८- > का(क-अ)म्लिका-मोचक-शालमली-शण-ज-जम् विध ६१, ५.
 पारिभाषिक- परि √भाष् द्र.
 पारिमाण्डल्य- परि-मण्डल-द्र.
 पारिमुखिक-, मुख्य- परि-मुख-द्र.
 पारियात्र^९-त्रम् बौध १, १, २५; -त्रात् वाध १, ८; शेष ७.
 पारियात्रक-कम् शेष ११६; १०^{१०}.

पारिल- परिल- द्र.
 पारिवृद्ध- परि √वृह द्र.
 पारिवाजक- परि √वज् द्र.
 पारिशाल्य- परि-शाल-द्र.
 पारिशील्य- परि-शील-द्र.
 पारिषथोयेन वाधूश्रौ ४, ७५ : १.
 पारिपद-, दक-प्रभृ.परि √पद् द्र.
 पारिसारक- परि √स द्र.
 पारिसीर्य- परि-सीर-द्र.
 पारिसैन्धव- परि-सिन्धु-द्र.
 पारु- पाउवृ ४, १०१.
 पारुच्छेप-, पि-, पी- परुच्छेप-द्र.
 पारेवत- कि ५७.
 पारोवर्य- परस्* -द्र.
 पार्जन्य- पर्जन्य-द्र.
 १पार्ण- १पर्ण-द्र.
 २पार्ण- ३पर्ण-द्र.
 पार्णकायन- पर्णक-द्र.
 पार्णजङ्घ^{११}-ङ्घाः बौध्रौ ३१ : १.
 पार्णदारुणी^{१२} कप्र ३, १०, १.
 पार्णवलक-, ल्वय- २पर्णवलक-द्र.
 पार्णागारि^{१३}-रिः बौध्रौ ४७ : २.
 १पार्थ^{१४}- > पर्थिन्- र्थी बौध्रौ १८, ४१ : ११.
 २पार्थ- पृथा- द्र.
 ३-४ पार्थ- २पृथि- द्र.
 ५ पार्थ- २पृथु- द्र.
 पार्थव- √पृष् द्र.
 पार्थिका-का निसू २, १ : ३१.
 १पार्थिव^{१५}-वाः बौध्रौ १० : ४.
 २पार्थिव- पृथिवी-द्र.

पार्थुरश्म- √पृथु > १पृथु- द्र.
 पार्थ^{१६}- (> पर्थे-वत्- पा.) पाग ४, २, ८६.
 पार्थक^{१७}-काः बौध्रौ ४३ : १.
 पार्थसिक- पर्या (रि-उ/आ)प् द्र.
 पार्थुल्लखल्य- पर्यु(रि-उ)ल्लखल-द्र.
 पार्थोष्ठ- पर्या(रि-ओ)ष्ठ-द्र.
 पार्थी^{१८}- र्वम् अत्र ४८, ७५^{१९}.
 १पार्थवत- १पर्वत-द्र.
 २पार्थवत(>)ती- २पर्वत-द्र.
 पार्थवायन-, पार्थति-, ३पार्थवत(>) ती- ३पर्वत-द्र.
 पार्थन्य- २पृथिन-द्र.
 पार्थर्व- १पृथु-द्र.
 पार्थव- √पृष् द्र.
 पार्थद- , दक-, पृथक- पर्षद-द्र.
 पार्थदंश- पृषदंश-द्र.
 पार्थदश्व- √पृष् द्र.
 १पार्थिक^{२०}-काः बौध्रौ ३ : ३.
 पार्थिका- (> २पार्थिक-) पृ १५२८ f द्र.
 पार्थिक्य- पार्थिक-द्र.
 १पाणि, प्णी^{२१}- पाउ ४, ५२; पागवा ५, २, १७; -णिः शाश्रौ १, ४, २; -णिम् भाट्ट १, २५ : १७; -ण्यै बौध्रौ २४, २४ : १२; हिश्रौ १, ६, १४; -णी वैश्रौ १३, १७ : १; वैताश्रौ ३७, १९; अत्र १०, २^{२२}; -णीः द्राश्रौ ३, १, १०; लाश्रौ १, ९, ११; -णीम् आश्रौ १, १, २३; ४, ४, २; -ण्या आश्रौ ४, १५,

a) वैप १ द्र.। b) वैप १, २००२। द्र.। c) वैप १, २००२। द्र.। d) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। e) पन्थ्यः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. पा <> वा इति वावि. विधया सपा. आपश्रौ २४, ९, ९ वारिघापयन्ताः इति, आश्रौ १२, १४, ५ वारिघापयन्तानाम् इति च पाठे.)। f) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। *माद् इति jolly। g) = पर्वत-विशेष-। विन्ध्यपर्वत- इति MW.। व्यु. ? <परियात्रा- इति शक.। h) परि इति पाठः ? यनि. शोधः [तु. अणु २१९, ५५, ५६]। i) पाठः ? प्राणदारुणि इति अस्तु. पाठः। j) = एकाद-विशेष-। व्यु. ?। k) तु-पागम.। l) = उदक-। व्यु. ?। m) वैप १, २००३। द्र.।

३; ६, १८, २१; भाश्रौ; -ष्ण्योः
 आपश्रौ २, २, ७; भाश्रौ २, २, ८;
 -ष्ण्योः आपश्रौ १५, १५, १;
 भाश्रौ ११, ५, २१; हिश्रौ २४,
 ६, १२; विष ९६, ६१.
 पाणि-ह(त>)ता- -ता माशि ४,
 ९; नाशि २, ८, १७.
 पाणी-ल- पा ५, २, ९७.
 पाणी-सूक्त- -कम् अत्र १०, २.
 रपाणि^a- -र्षिः पाठ २, १७, १५.
 √पाल^b पाधा. सुरा. पर. रक्षणे.
 शपाल- √पल् द्र.
 र-शपाल- √पा (रक्षणे) द्र.
 धपाल^c- (>पालेय- पा.) पाग ४,
 २, ८०.
 पालक- √पा (रक्षणे) द्र.
 पालद- पलदी- द्र.
 पालन-, ंलनी-, पालयितृ- √पा
 (रक्षणे) द्र.
 पालाकल^d- -लस्य आपश्रौ १८, १०,
 २५; हिश्रौ १३, ४, ११०.
 पालाकली- -लीम् आपश्रौ २०,
 १०, २१^e.
 पालाग(ल>)ली^f- -ली काश्रौ २०,
 १, १२; -लीम् शाश्रौ १६, ४,
 ४; काश्रौ २०, ८, २५^g.
 पालाश- प्रभृ. पलाश- द्र.
 √पालि √पा(रक्षणे) द्र.
 पालि- पाउभो २, १, १६८.
 पालिङ्गायनिक^h- -काः आपश्रौ
 २१, २३, ५; हिश्रौ १६, ८, ८^d.

पालित्य- रपलित- द्र.
 पाली- √पा (रक्षणे) द्र.
 पाल्लक- पल्लि- द्र.
 पाल्वल- पल्वल- द्र.
 शपावकⁱ- -काः बौश्रौप्र ४३:१.
 रपावक- प्रभृ. √पू द्र.
 पावा- (>पावेय-) १पाठा- टि. द्र.
 पावित्रायण- √पू द्र.
 पाविन्द्रायन- पविन्द्र- द्र.
 पावीरव- पवि- द्र.
 शपाश- √पशू (बन्धने) द्र.
 रपाश^j- (>पाशिल- पा.) पाग ४,
 २, ८०.
 पाशि शी^k- -शीम् कौसू ८३:३.
 पाशिमिकतो(ता-ऊ)षो(ष-उ)हुम्बर-
 शङ्ख-शालक-सर्वसुरभि-शमी-
 चूर्ण- -र्गानि कौसू ८५, १९.
 पाशुक-, श्चुपत- प्रभृ. पशु- द्र.
 पाश्र्वात्य- पश्वात् द्र.
 पाशय- √पशू (बन्धने) द्र.
 पाषण्ड- -ण्डाः अप ६४, ४, ९.
 पाषण्ड-मूक-बधि(र>)रा^l- -रा
 वैगृ ५, ९:४; -राम् वैगृ ५, ९:
 १३.
 पाषाण^m- पाउभो २, २, १२८; -णाः
 अप ७१, ४, ४; -णेन विष ५,
 ६३.
 पाषाण-शायिन्- -यिनः वैध १,
 ८, १.
 पाषिक- पषिक- द्र.
 √पास्, पासति अप ४८, १४ⁿ.

√पि पाधा. तुदा. पर. गतौ.
 √पि, पी(=√प्याय, √प्यै)पयते या
 ११, ४२ⁿ.
 पीपीपिहि आपश्रौ १५, १०, १३^o;
 बौश्रौ ९, १०: ३६^o; २७^o;
 २८^o××; भाश्रौ ११, १०,
 १४^o; वैश्रौ १३, १३: १^o;
 हिश्रौ २४, ४, १०^o; पिपीहि
 काश्रौसं ३६: १६^o.
 पीषाय ऋषा ४, ६३.
 पीषयति बौश्रौ ९, १०: ३०.
 पिपिवस-> पीपियुषी- -षीम्
 आश्रौ ४, ७, ४, ५, १२, १५.
 पीपिन- पा ६, १, २८; -नौ विष
 १, २४.
 पीनी^p- पागम ५८.
 पीनो(न-ऊ)रुज्वनस्थ(ल>)
 ला^q- -लाम् विष १, २३.
 पीपिवस- -वंसम् आश्रौ २, ८, ३;
 बौश्रौ २, २१: १२; १३; ३६:
 ९; वैश्रौ १, १७: १२; तैत्र
 १६, १३.
 पीप्या(न>)ना^r- -ना या २,
 २७^q.
 पीवन्^s- पाउ ४, ११५; -पीवा
 आपश्रौ १०, १४, १०; २९, ६^r;
 २१, १, ९; वैश्रौ १२, २०:
 १६^r; हिश्रौ ७, ३, २१^r; १६,
 १, ७; -ईवान्^s बौश्रौ २१, १२:
 ३०^r; -पीवानम् भाश्रौ ७, ९,
 ७; भाश्रौ १, ८, २, ३०; २, १, ४,

a) व्यप. । व्यु. ? । b) पावा ७, ३, ३७ परामृष्टः द्र. । c) भल्लपाल- इति [पक्षे] भारुडा. प्रभृ. ।

d) = पालागल- । e) सपा. पालाक<>पालाग^o इति पाभे. । f) वैप २, ३३^o. द्र. । g) = आचार्य-
 विशेष- । व्यु. ? । h) ंकान् इति पाठः ? यान. शोचः (तु सपा. आपश्रौ.) । i) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? ।
 j) वाश- इति पाका. । k) अर्थः व्यु. ? । = पाषाण- इति MW. । l) द्रस. > मलो. कस. पू. असादावा-
 धिकरण्येऽपि पुनर्द्वावः उंसं. (पा ६, ३, ३४) । m) = अश्मन्- । व्यु. ? । n) पाभे. वैप १, २००: ३ V द्र. ।
 o) = मातङ्गानां स्नेहपात्र-प्रकार- । p) विप. । वस. > द्रस. । q) वैप १ द्र. । r) सपा. पीवा <> पीवन्
 इति पाभे. । s) पीनवान् इति संस्कृते. टि., पीवस- > यनि. इति PW. ।

३३; वृदे ७, २५.
 पीवर^१ - पाउ ३, १; -रः बौध १,
 ५, ८६.
 पीवरी - री आग्नि २, ३, ५;
 २५; पावा ६, ४, ६६; -रीम्
 पाग १, १६, २१^१; वाध २, ३४;
 ३५.
 √पिञ्ज √पिश्द्र.
 √पिस् पाधा. जुग. उम. भाषायाम्.
 पिक^१ - पाउमो २, २, १५.
 पिङ्गानि^१ - ण्याम् भाग्य ३, १३:
 १५; -ण्यै भाग्य ३, १३:
 १४^२.
 पिङ्गख्य^१ - इङ्ख्यान् बौधौ २४, २१:
 ६.
 शपिङ्ग^१ - पाउमो २, २, ५७; पाग २, २,
 ३८, ५, २, ९७; -ङ्गः अप्रा ३,
 ४, ११^१.
 शपिङ्ग-ल, ला^१ - पाउवृ १, १०९;
 पा ५, २, ९७; पाग २, २, ३८^१;
 ४, १, ४१; ६, २, ८५; -लः
 आपश्रौ ६, ३१, ५; आग ४, ६,
 १५; अप; -लम् आपश्रौ १, १९,
 १५; १४, ७, १३; माश्रौ; शंघ
 ११६: १९६; -लया बौधौ १६,
 २४: १४; १७, १: ३; -ला
 काश्रौ ७, ६, १२; आपश्रौ २२,
 १५, ३; बौधौ ६, १०: ३;
 -लाम् बौध २, १, ५७; -ल्लाय
 कौग ४, ३, २; शाग ४, १६, २;
 अप ६६, ३, २; गौध २६, १२.

पिङ्गली - पा ४, १, ४१.
 पिङ्गल-खलति-विक्रिध-शुक्ल-
 -कृत्य काश्रौ २०, ८, १६.
 पिङ्गल-नेत्र^१ - त्राय अप ३६,
 १, १६^१.
 पिङ्गला(ल-अ)भाव- वे काश्रौ
 ७ ६, १२.
 पिङ्गा(ङ्-अ)क्ष^१ - क्षः शाश्रौ १६,
 १८, १८; बौधौ १५, ३७: १;
 १८, १: ६; भाग्य २, ३२: १३^१;
 चयू ४: १५; -क्षम् आपश्रौ
 २०, २२, ६; हिश्रौ १४, ५, ४;
 -क्षेण बौधौ १७, ४५: १.
 पिङ्गाक्षी - क्षी माश्रौ १०,
 १४, १९; १७, १२; हिश्रौ ७,
 २, १६; १७, ६, २३; -क्षीम्
 वैश्रौ १२, १६: ९.
 पिङ्गाक्षी-पुत्र- > पैङ्गा-
 क्षीपुत्र- (> पुत्रीय- पावा.)
 पावाग ४, २, २८.
 शपिङ्गाक्ष-जटिल-गांभव^१ - वस्य
 वाश्रौ ३, ४, ५, १७.
 शपिङ्ग^१ - > शपिङ्ग^१ - > क^१-
 -कम् जंश्रौ २२: २२.
 पैङ्ग-शाम्बव्यै(व्य-ऐ)तरेय- या:
 कौग २, ५, ३.
 पैङ्गायनि - > णि-ब्राह्मण- णम्
 आपश्रौ ५, १४, १८; २९, ४.
 पैङ्गिन्^१ - ङ्गिनः निसू ४, ७:
 १; ९.
 पैङ्ग्य^१ - ङ्गयः वाधूश्रौ ३, ४१:

२६; अप ४३, ४, ४७^१; -ङ्गयम्
 कौग २, ५, ३; शाश्रौ ४, २, १२;
 ११, १४, १९×४; आग; -ङ्गयस्य
 शाश्रौ ११, ११, ५.
 पैङ्गय-ब्राह्मण- णम् हिश्रौ ६,
 ५, ३९.
 शपिङ्ग^१ - > शपिङ्ग - ङ्गे कौसू १४१,
 ३९.
 पिङ्गर^१ - (> वैङ्गरायण- पा.) पाग
 ४, १, ९९.
 शपिङ्गल - णपिङ्ग - द्र.
 शपिङ्गल^१ - पाग ४, १, ९९; २, १११;
 -लात् उनिसू ८: ३०.
 पैङ्गलायन - पा ४, १, ९९; -ना:
 बौश्रौ ३: ४.
 पैङ्गलायनि^१ - पा, पाग २, ४, ५९.
 पैङ्गलायनि-ब्राह्मण- णम् बौश्रौ
 २, ७: २५; २६.
 पैङ्गलय - पा ४, १, १०५.
 पैङ्गल - पा ४, २, १११.
 पिङ्गलक^१ - पा, पाग २, ४, ६९.
 पिङ्गलक-कृष्णपिङ्गल - पा, पाग २,
 ८, ६९^१.
 शपिङ्ग(ल >)ला^१ - लया वैध १,
 ११, २-४.
 शपिङ्ग(ल >)ला^१ - लाम् हिग्य
 १, १७, ३.
 पिङ्गाक्षि - अयः बौश्रौ ४१: ७.
 पिचण्ड^१ - पाउना १, १२०; पाग
 ५, २, ६४; ११७.
 पिचण्ड-क - पा ५, २, ६४.

a) वैप १ द्र.। b) पासे. वैप १, २०२१ k द्र.। c) अर्थः व्यु. च?। d) =स्यूल-काष्ठ- इति भवस्वामी। व्यु. ?। e) वैप १, २००४ n द्र.। f) पिङ्गुल- इति [पक्षे] भारद्वा., पासि.। g) नाप.। अर्थः?। h) विप.। बस.। i) गांभव- इत्यस्यार्थः?। j) व्यप.। व्यु. ?। k) अपत्ये तस्येदमित्यर्थे च अण् प्र.। l) स्तार्ये कः प्र.। m) नाप.। णिनिः प्र. (पा ४, ३, १०५)। < पैङ्गय- इति MW.। n) विप., व्यप.। अपत्यार्थे यञ् प्र., तस्येदमित्यर्थे च व्यः प्र. उर्स. (४, ३, १२९)। o) =मूषिक- इति MW.। p) तु. पागम.। q) =शपिङ्गल-। r) तु. पाका.। पैङ्गालौदायनि- इति भारद्वा. प्रमृ.। s) पिङ्गलक- इति शाकटायनः। t) =नाडी-विशेष-। व्यु. ?। u) =उलूक- इति भाष्यम्। v) वैप ३ द्र.।

पिचण्ड-वत्-, पिचण्डिक-, पिचण्डित्-, पिचण्डिल- पा ५, २, ११७.
 पिचु- पाठभो २, १, २२.
 पिचुक^{ab}- (>°कीय- पा.) पाग ४, २, ९०.
 पिचुमन्द^{abc}- > °न्द-पत्र-त्राणि पाग ३, १०, २४.
 √पिचच्^d, च्छ पाधा. चुरा. पर. कुहने.
 पिच्छ^e- पाठभो २, २, ८४; पाग ५, २, १००.
 पिच्छिल- पा ५, २, १००; -लम् विध ६१, ११.
 पिच्छोरा[ला]^f- -रा: शांश्रौ १७, ३, १२^g; -राम् शांश्रौ १७, ३, १३; द्राश्रौ ११, २, ६; ७; लाश्रौ ४, २, ५; ६; -लाः^h आपश्रौ २१, १७, १६; १९, ३; हिश्रौ १६, ६, २१.
 पिजवनⁱ- -न: या २, २४^j; -नस्य या २, २४.
 पैजवन^k- -न: गोण १, ९, ११; ऋञ्च २, १०, १३३; सान्त्र २, ११५१; या २, २४^j; -नस्य शांश्रौ १६, ११, १४; ऋञ्च २, ७, १८; वृदे ५, १६२; या २, २४.
 पिजूर[ला]^l- (>पैजूर[ला]यन- पा.) पाग ४, १, ११०^k.
 पिञ्छ- पाठना ४, ११६.
 पिञ्छोला^m- -लाःⁿ बौश्रौ १६, २०:

५; २६, १७: १२; -लामि: बौश्रौ १६, २१: ५; १३; २६, १७: ११.
 √पिञ्ज पाधा. अदा. आत्म. वयौ, संपर्चने, अवयवे, अव्यक्ते शब्दे; चुरा. पर. हिंसाबलादाननिकेतनेषु, उभ. भाषार्थे च, पिञ्जयति या ३, १८.
 पिञ्जर- पाठभो २, ३, ३८.
 पिञ्जल^o- पा, पाग २, ४, ६९^l.
 पिञ्जुल- पाठना ४, ९६.
 पिञ्जूर^k- (>पैञ्जुरायण-).
 रिपिञ्जूल- पाठ ४, ९०.
 पिञ्जूलक- पिञ्जल- टि. द्र.
 रिपिञ्जू (ल>)ली^m- -ली: कौस् ७२, ११; ८२, ९; ८८, १४ⁿ; -लीनाम् कप्र २, ८, ५; -लीमि: कौस् २७, ७; ३२, ३४x; -लीम् कप्र १, २, १२; -ल्य: द्राण २, ३, १७; -ल्य: कप्र १, २, ११.
 पिञ्जुल्या(ली-आ)दि-दि कप्र २, ८, १८.
 √पिट् पाधा. भ्वा. पर. शब्दसंघातयोः.
 पिट^{no}- (>पिट-क-पा.) पाग ५, ४, २९.
 रिपिटक- पाठभो २, २, १०; पाग २, ४, ३१^p; ४, २, ४९^q; ४, १५^r.
 पैटिक- पा ४, ४, १५.
 पिटक्या- पा ४, २, ४९.
 रिपिटक^s- (>पैटक-पा.) पाग ४, १, ११२.

रिपिटक- पाग ४, २, ४९^q; ४, १५^r.
 पैटिक- पा ४, ४, १५.
 पिटक्या- पा ४, २, ४९.
 रिपिटक^s- (>पैटक-पा.) पाग ४, १, ११२.
 √पिट् पाधा. भ्वा. पर. हिंसासंज्ञे-शनयोः.
 पिटर^s- (>री- पा.) पाठभो २, ३, ३९; पाग ४, १, ४१^m.
 पिठीनस^t->पैठीनस- -सा: बौश्रौ ४१: ११.
 पैठीनसि- -सि: अप ४, ४, १२; १८, १९, १; -सिम् अप ४३, ४, ३७; ४, ५४.
 √पिण्ड पाधा. भ्वा. आत्मा., चुरा. पर. संघाते, पिण्डयेत् शैक्ति २०७.
 रिपिण्ड^u- पाग ४, १, ३५; ४१; -ण्ड: वाश्रौ १, २, ३, २२; पाण ३, १०, ५३; गोण ४, ३, ८ⁿ; गौपि २, ६, ५^o; कौस्; -ण्डम् काश्रौ १६, २, ३; ११; १४; १७; २३; २४; २८; ३, ६; ९; १३; आपश्रौ; -ण्डम् ऽण्डम् बौश्रौ १०, ४; २; -ण्डस्य काश्रौ १६, २, २०; वैण ५, १३: २५; १४: ५; -ण्डा: आपश्रौ ५, ५, १०; बौश्रौ; -ण्डान् आपश्रौ २, ६, १५; शांश्रौ; -ण्डानाम् आपश्रौ २, ७, १२; बौश्रौ; -ण्डानि अप १८, २, ४; -ण्डे काश्रौ १६, ३, १५; आपश्रौ;

a) अर्थ: व्यु. च ? । b) = वृक्ष-विशेष- इति शक. MW. । c) = निम्ब-वृक्ष- इति भाष्यम्, असा. प्रसू. च । d) तु. BPG. । e) तु. पाका. । पिच्छा- इति भाण्डा. प्रसू. । f) = वीणा-विशेष- । व्यु. ? । g) सप्र. पिच्छोरा: <>पिच्छोला: <> पिच्छोला: इति पाभे. । h) वैप १ द्र. । i) तु. पासि. । j) व्यप. । व्यु. ? । k) पिञ्जर- इति पाका. । l) तु. पाका. । पिञ्जूलक- इति भाण्डा. पासि. । m) = दर्भ-पिञ्जूल- । n) तु. पागम. । o) = [वंशदलादिमय-] भाण्ड- । व्यु. ? । p) = विस्फोट- इति पागम. । q) = पिट- । r) = नौ-विशेष- इति वापाभा. । s) = पात्र- । व्यु. ? । t) पाभे. पृ ७८५ d द्र. ।

—ण्डेऽण्डे शांश्रौ ८, २, १३;
 वैगृ ५, १५:१०; बौध २, २,
 १९; —ण्डेन वैगृ ५, १३: २३;
 —ण्डेभ्यः वाधृश्रौ ४, ७४: १८;
 —ण्डेषु आश्रौ २, ७, ५; आपश्रौ;
 —ण्डैः आगृ ४, ७, ६; शांगृ;
 —ण्डौ आपश्रौ १, २४, ५; बौश्रौ
 २६, ५: ११; वाधृश्रौ.
 १पिण्डी— पा ४, १, ४१; —ण्डी:
 आपश्रौ १९, २६, १, ६; ९; १२;
 १७; २७, १४; बौश्रौ; —ण्डीम्
 माश्रौ ५, २, ६, १७; —ण्डयः
 आश्रौ २ १३, ६; ५, १७, ५.
 पिण्डी-जड्घ^१— पा, पाग २,
 ४, ६३.
 पिण्डी-श्रृत्— पा, पाग २,
 १, ४८; ६, २, ८१.
 पिण्ड-करण— णे पागृ ३, १०, ५०.
 पिण्ड-कारिन्— री बौश्रौ २७, ९:
 २; बौगृ ४, १, २.
 पिण्ड-कृत— ता: शैशि ३२४.
 पिण्ड-मोत्र(त्र-क्)र्षि-संबन्ध^२—
 न्धा: गौध २८, २१; —न्धेभ्यः
 गौध १८, ६.
 पिण्ड-चतुष्टय— यम् विध २१, १५.
 पिण्ड-तोय-प्रदायिन्— यिन: विध
 २०, ३२.
 पिण्ड-त्रय— यम् कप्र २, ७, ३;
 —ये विध २१, १७.
 पिण्ड-द्— द: शंघ २९०; —देन
 शंघ २८२.
 पिण्ड-दान— नम् बौश्रौ २४, ३०:
 ५; ३२: १×४; बौगृ; —नस्य
 कप्र ३, १०, ९; —नाय या ३, ४;
 ५; —ने कप्र १, ४, ८; ३, ५, १५.

पिण्डदान-प्रभृति— त्ति हिश्रौ
 २, ७, ३५.
 पिण्डदान-मन्त्र— न्त्रै: वैश्रौ
 १६, १५: १.
 पिण्डदान-वत् कप्र ३, २, ७.
 पिण्डदानो(न-उ)दकक्रिया— या
 शंघ १८८.
 पिण्ड-दायिन्— यी विध १५, ४०.
 पिण्ड-नायक— कम् याशि २, १२.
 पिण्ड-निधान^३— नम् माश्रौ १,
 १, २, २१; वाश्रौ; —नात् आपगृ
 २२, ८.
 पिण्ड-निर्वपण— णम् विध २१, ९;
 ६७, २३; ७४, ३.
 पिण्ड-निर्वाप— प: वैगृ ५, १४: १;
 १५: ८; —पम् वैगृ ७, ४: १०.
 पिण्ड-निवृत्ति— त्ति: गौध १४, १२.
 पिण्ड-प(ति>)त्नी^४— पा ४, १, ३५.
 पिण्ड-पात— त: अप ३६, ८, ४.
 पिण्ड-पितृ-यज्ञ^५— ज्ञ: आश्रौ २,
 ६, १; शांश्रौ ४, ३, १; ५, १३;
 काश्रौ; —ज्ञम् शांश्रौ ३, १०, ६;
 आपश्रौ; —ज्ञस्य शांश्रौ ३, २, ९;
 ३, ९; बौश्रौ; —ज्ञात् बौश्रौ २५,
 ३२: ३५; —ज्ञाय वाश्रौ १, २,
 ३, १; —ज्ञे भाश्रौ ८, १९, १३;
 २०, ६; माश्रौ; —ज्ञेन आपश्रौ
 १, ७, २; बौश्रौ.
 पिण्डपितृयज्ञ-कल्प— ल्प: द्रागृ
 ३, ५, ३३; —ल्पेन आगृ २, ५, ३.
 पिण्डपितृयज्ञ-पात्र— त्राणि
 आपश्रौ १, ७, ५; भाश्रौ १, ७,
 २; १०, ४; हिश्रौ २, ७, ८.
 पिण्डपितृयज्ञ-मन्त्र— न्त्रान्
 वैश्रौ १६, २१: १०; हिश्रौ ९,

३, ५४; १०, ५, ९.
 पिण्डपितृयज्ञ-वत् काश्रौ १०,
 ५, ११; आपश्रौ ८, १६, १३१;
 वैश्रौ.
 पिण्डपितृयज्ञ-वर्जम् वाश्रौ १,
 १, १, ६६.
 पिण्डपितृयज्ञा(ज्ञ-आ)वृत्^६—
 -वृता कौगृ ३, १५, ७; शांगृ ३,
 १३, ६; कागृ ६५, ६.
 पिण्ड-प्रभृति— त्ति द्रागृ ३, ५, २२.
 पिण्ड-फ(ल>)ला— पा, पावा ४,
 १, ६४.
 पिण्ड-मात्र— त्रस्य कप्र ३, १०, ९.
 पिण्डमात्रो(त्र-उ)पजीवि(न्>)-
 नी— नीम् शंघ ३३४.
 पिण्ड-मूल— ले गौपि १, ६, ८.
 पिण्ड-यज्ञ— ज्ञम् कागृउ ४४: १७.
 पिण्ड-वत् काश्रौ १६, ५, ७; १४××:
 कप्र २, ४, १-५.
 पिण्ड-व(र्ज>)र्जा— र्जा अप २६,
 २, १.
 पिण्ड-वर्धन^७— नम् वैगृ ३, २२:
 १४; शंघ २०१.
 पिण्ड-शब्द-प्रयोग— ण: कागृउ
 ४५: ७.
 पिण्ड-शेष— षम् बौध २, ३, २२;
 कागृउ ४०: १.
 पिण्डशेषा(ष-आ)दि— दि वैगृ
 ५, १३: २१.
 पिण्ड-शौच— चयो: शंघ ३६६.
 पिण्डा(ण्ड-अ)न्वाहार्यक^८— कम्
 कप्र २, ६, १.
 पिण्डा(ण्ड-अ)र्थ— र्थम् आगृ ४,
 ७, २७; वैगृ ४, ७: २; कप्र १,
 २, ४.

a) व्यप. । बस. । b) विप. । द्रस. > बस. । c) उप. भावाऽधिकरणे प्र. । d) पूव.
 = पिराडदायिन्. । e) मलो. कस. > षस. । f) उप. भाप. = इतिकर्तव्यता- (तु. कागृ. भाष्यम्) । g) = कर्म-
 विशेष- (तु. मदनपारिजातः [३५६]) । उप. करणे कृत. । h) मलो. कस. उप. = श्राद्ध- ।

पिण्डार्थ-स्व- -त्वात् मीसू १०,
१,५१.
पिण्डा(रड-आ)वृत्^२- -वृता
आमिष्ट ३, २, २: १५; ६:
११××.
पिण्डी✓कृ>, पिण्डीकरोति आमिष्ट
२, ६, १: ३१; ३, ६, ३: २०.
पिण्डो(रड-उ)दक- -कम्^२ शंघ
३५०; -का: बौध २, ८, २३०.
पिण्डोदक-क्रिया- -या आमिष्ट
३, १०, ४: २८; ३४; बौध १,
५, ९३.
पिण्डित-> पिण्डिता(त-आ)चिं^२-
-चिं: अप ७०^३, ३, १.
पिण्ड्य- -ण्ड्यौ आष्ट ४, ३, २३.
२पिण्ड^०- (> पैण्डायन- पा.) पाग
४, १, ९९.
३पिण्ड^१- (> पिण्डीय- पा.) पाग
५, ३, ११६.
पिण्डग्रीव^०- -वा: बौधौप ३५: २.
पिण्डक, का^६- पाग ५, १, १२८;
-का अप २३, ३, २; -के विध
९६, ९२.
पैण्डक्य- पा ५, १, १२८.
पिण्डल- पाठ १, ५४.
१पिण्डी- १पिण्ड- द्र.
२पिण्डी^०- (> पैण्ड्य- पा.) पाग ४,
१, १५१.
पिण्डीतक^१- पाठभो २, २, ४०; -केन

वैय ३, १४: ५.
पिण्ण- पाठना ३, ७.
पिण्याक^१- पाठभो २, २, १४; पाग
२, ४, ३१; -कम् आपध २, १८,
१; हिध २, ५, ५३; -कस्य अप
६८, २, ४६.
पिण्याका(क-आ)च(इचा^क) म-तक्रो-
दक-सक्तु- -क्तूनाम् विध ४६,
२२.
पितम्^१ शंघ ११६: ५१.
पितु^०- -तु: माश्रौ १, ६, ४, २५^३;
वाश्रौ १, ५, ५, ८^३; आमिष्ट
३, १, ३: २२××; अप ४८,
८८; निघ २, ७, ५, ३; या ९,
२४^३; -तुम् आश्रौ २, ५, २;
शाश्रौ; चाश्र ४०: १२^{१०}; या
९, २५; ऋप्रा १६, ३६; -तूनाम्
ऋप्रा ८, २९; -०तो आश्रौ २,
९, १०^३; बौश्रौ; हिश्रौ १२, ६,
६^{१०}; कौश्र ३, ५, १^३; शांश्र ३, ८,
४^३; पाश्रु; जैश्र १, २४: ५^३;
-त्वे वाश्र १५, १०^{१०}.
पितु-भृत्- -भृत्: ऋप्रा १६, ६३^३.
पितु-मत्- -मत् या ४, २४;
-मत: आश्रौ ४, ७, ४; शाश्रौ
५, १०, ३१; बौश्रौ ९, ११: २८;
-मान आश्रौ २, ५, ६.
पितुमती- -तीम् या ६,
३६^३.

पितु-स्तोम- -मे ऋप्रा १६, ५०.
✓पितृय> पितृयत्- -यत: ऋप्रा
९, १४^३.
पितृ^०- पाठभो २, १, १३५; -०ंत:
आश्रौ ३, ८, १; शाश्रौ; -तर:
आश्रौ १, ११, ७^३; २, ६, १४××;
शाश्रौ; आमिष्ट ३, १, २: ४^६;
३, १: २३^३; या ३, ८;
११, १७: १८^३; १^३; १९^३; १^३; १४;
६^३; -०ंतर: आश्रौ २, ७, १, ७,
६^३××; शाश्रौ; हिश्रु २, ११, १^३;
-तरम् ऋआश्रौ २, ७, ११; ८,
१३, २६; शाश्रौ; या २, ४^३; ७,
३१; -०तरा आश्रौ २, ९, १४;
८, १०, २; शाश्रौ १०, १०, ७;
-तरि बौश्रौ ३, १२: २०^३;
आमिष्ट; -०तरौ आश्रौ ३, ९, ३;
आपश्रौ; -ता ऋआश्रौ १, १०,
५^३; २, २, १३^३××; ४, ६,
३^३; ११, ६^३; शाश्रौ; आपमं २,
१४, १^३; ऋया ३, ४; ५^३; ४,
२१^३; २३; ५, २१; २४; ६,
१५^३; ९, १४; १२, २९^३; ३२;
३४; १४, २०; पा १, २, ७०; -तु:
शाश्रौ ४, ४, २; १५, १७, १^३;
आपश्रौ; कौश्र ३, १५, ५^३; शांश्रु
३, १३, ५^३; या ३, ५; ६, ६;
९, २९^३; १४, २०^३; -०तृणाम्
बौश्रौ ४, ४: १५; ६, २७: ३

a) उप. भाप. = इति कर्तव्यता-। b) समाहारे द्वस.। c) तद्विनि वृत्तिः। पिण्डतर्ककाः इति
Multzsch। d) विप.। वस.। e) व्यप.। व्यु. ?। f) = आमुद्योजीविसंघविशेष-। व्यु. ?। g) अर्थः
व्यु. च ?। = जङ्घोर्वोर्मासलौ भागौ इति विध. भाष्यम्। h) पृ ५९८ b द्र.। i) = वृत्त-विशेष-। व्यु. ?।
j) = तिल-कल्क-। व्यु. ?। k) पाठः ? यनि. शोधः (तु. यास्वु [३, ३२२])। आचाम = श्रोदन-निःसाव-।
l) पाठः ? मितम् इति शोधः (तु. अपु २१९, २९)। m) वैप १ द्र.। n) पाभे. वैप १, २००५ m द्र.।
o) पितुः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. ऋ १, १८७, १)। p) पाठः ? पित्रे इति शोधः (तु. तै ४, ६, २, ६)।
q) सपा. पितरः <> पितरः [सं३] इति पाभे.। r) सपा. बौपि २, ९, ५; ११, २ प्रेतः इति पाभे.। s) पिता नः
इत्यस्य स्थाने सपा. ऋ ३, २, २ च्चनोहितः इति पाभे.। t) पाभे. वैप १, १६८७ a द्र.। u) श्तेति <०ता पृत्ति
(तु. भू [XXVIII])। v) सपा. पितुः <> पितृभ्यः <> प्रपितामहात् इति पाभे.।

४xx; वैश्रौ; -ऋतुभिः आश्रौ^भ
 २, १९, २२; ५, १९, १; शाश्रौ
 ३, १६, ४^३; ७, ५, २२; ८, ४, २^३;
 आपश्रौ; -तृभ्यः आश्रौ २, ३,
 २१[†]; १९, २२[†]xx; शाश्रौ;
 आपश्रौ २०, १४, १३[†]भ; माश्रौ
 २, ३, ७, ३[†]; हिश्रौ १४, ३;
 १८[†]भ; आपमं १, ४, ४[†]; कौश्र
 ३, १५, ५^३; आमिश्र ३, ६, १:३[†];
 या १, ४[†]; ७, ९[†]; -तृषु वाधूश्रौ
 ३. ६: ५; १७: १२; १८;
 -ऋतुणाम् आश्रौ १, १०, ८; ३,
 ६, २७; शाश्रौ; आपश्रौ १५,
 १०, ७^३; द्राश्रौ १३, २, ८^३;
 लाश्रौ ५, २, ११^३; आपमं १,
 ११, ९^३; कौश्र ८९, १^३; या
 १०, ५^३; ११, ३३; -तृन्
 आश्रौ २, १९, ७; २२[†]; ५, २०,
 ६; शाश्रौ; आमिश्र २, ६, १:
 १६[†]; या ३, ५; ११, १८; -त्रा
 आश्रौ १, ३, २३[†]; शाश्रौ १, ६,
 २; आपश्रौ; या ७, ३१[†]; -त्रे
 आश्रौ २, ६, १५; ३, ७, ९[†]; ४,
 ६, ३[†]xx; ऋशाश्रौ ५, ९, ६^३;
 १८, १, २^३; काश्रौ; आपश्रौ ५,
 १६, १[†]; बौश्रौ २, १६:५४[†];
 हिश्रौ ६, ५, ११[†]; -त्रोः पाश्रु
 ३, ७, २; शंघ ३५९.
 पैतृक, का^म - पा ४, ३, ७९;
 -कम् वैश्रौ १. ४: १०;

आमिश्र २, ६, १: ७^३; ३,
 ११, ३: २६; वैश्रु २, २: १२;
 ५: ८^३; ५, १५: १२^०; १९^०;
 अप; -काः वैश्रु ४, ४: १७^३;
 -के वैश्रु १, ८: १०; १३: ३xx;
 -केण वैश्रु १, ५: ९^३; २०: ६;
 वैश्रु २, १३, ५; -केषु आपश्रु
 २, ४.

पैतृकी- -क्याः आपश्रु
 ६, ११; बौश्रु ३: २७; हिश्रु २,
 ४४; -क्याम् काश्रु २, ६.

पैतृक-वत् वैश्रु ६, २: ११.

पैतृक-होम- -मम् वैश्रु ६,
 १९: १४.

पैतृका(क-आ-दि-क- -कम्
 वैश्रु २, १८: १६.

पैत्र^१ -त्रम् शंघ २५७; -त्रे
 शंघ ७३.

पैत्री- -त्रीणाम् शाश्रौ ८,
 ७, १६; १४, ५७, ११; -त्र्यः
 शाश्रौ ८, ६, १२.

पैत्र्य^२ -त्र्ये विध ७८, १५^३.

पितरा-मातृ^३ -तरा पा ६, ३, ३३.

पितरि-श्रर- पा, पाग २, १, ४८; ६,
 २, ८१.

पिता-पुत्र- -त्राः बौश्रौ २, ९: १९;

-त्राणाम् बौश्रौ १८, ४५:
 ३१; -त्रौ काश्रौ १५; काश्रु
 ४०: ११; आपघ; या १, १६;
 पा, पाग २, ४, १४^३.

पितापुत्र-विरोध- -धे विध ५,
 १२०.

पितापुत्रीय, या- -यः बौश्रौ १८,
 ३५: ११; -या आपश्रौ ११,
 २०: ४; बौश्रौ; -याम् आपश्रौ
 ११, २०, ३[†]; माश्रौ २, २, ५;
 ९; ३५; वैश्रौ १४, १७: १३[†];
 जैश्रौ ७: २.

पैतापुत्री(य >)या^४ - -याम्
 काश्रौ ८, ९, ११; काश्रौ
 ११२[†].

पितामह^५ - पा ४, २, ३६; पाग ४,
 १, ४१; -ऋंह आश्रौ २,
 ६, २४; आपश्रौ १, ९, १५;
 बौश्रौ; -हः काश्रौ १५; बौश्रौ;
 -हम् आपश्रौ २, २१, ७[†];
 बौश्रौ; -हस्य शाश्रौ ४, ४, ३;
 बौश्रौ; -ऋहाः आश्रौ २, ६, १४;
 काश्रौ; -ऋहाः बौश्रौ २, ९: १७;
 ३, ११: ९xx; हिश्रौ; -ऋहात्
 काश्रौ १५; बौश्रौ; -हान्
 बौश्रौ २८, १०: १२; आमिश्रु;
 -हानाम् ऋआमिश्रु ३, १, २:
 १६; २, ३: ५; बौश्रु; -हाय
 आश्रौ २, ६, १५; ६, १२, ९[†];
 बौश्रौ; माश्रौ २, ५, ४, ११[†];
 -हे कप्र २, ७, २; अप ७१, १६, ५;
 विध ७५, २; ३; -हेन कप्र २,
 ७, ८; -हेभिः भाग ३, १७: ९;
 हेभ्यः आपश्रौ १, ९, ९[†];
 बौश्रौ

a) पाभे. वैप १, २०१० f द्र.। b) पाभे. वैप १, २०११ c द्र.। c) पाभे. वैप १ सुखिभ्यः

कौ २, ११७८ टि. द्र.। d) पाभे. वैप १, २०१३ h द्र.। e) पाभे. पृ १५७३ w द्र.। f) पाभे.

वैप १, २०१० m द्र.। g) पाभे. वैप २, ३३. पितृणाम् तैश्च ४, ८, ५ टि. द्र.। h) पाभे. वैप १, २०१० e द्र.।

i) पाभे. वैप १, २१०२ c द्र.। j) अप्रकरणकत्वात् पाठः।। k) पाभे. वैप १, २०११ m द्र.। l) पाभे.

वैप २, ३३. पित्रे तैश्च १, २, १, २० टि. द्र.। m) विप., नाप.। तत आगतायथे ठञ् प्र.। n) =पितृ-तीर्थ-।

o) =पितृ-श्राद्ध-। p) विप. (ऋच्-)। q) तत आगतीयायथे अण् प्र.। r) = (पितृदेवत्व-) मघा-नक्षत्र-।

साऽस्यदेवतीयः यञ् प्र. उस्. (पावा ४, १, ८५)। s) ऋइति जीसं.। t) वैप १ द्र.। u) तु. पागम.। v) सप्र.

पिता<> पैता इति पाभे.। w) तस्येदमीयश् छण् प्र. उस्. (पा ४, २, १३८)। x) पाभे. वैप १, २०१२ f द्र.।

२,९ : २७; २९; १७, ३७ : ११^०;

वाश्रौ ३, २, ७, ४९^१; आग्निः

कौसू ७३, ६^१; -^१हैः बौश्रौ ६,

३१ : २१; बौपि २, १२, ४.

पितामही- पा ४, १.

४१; पावा ४, २, ३६; -०हि

आपमं २, २०, १२^१; -^१ही

आपमं २, १९, ३; आग्निः ३,

१, १ : २२; हिगृ २, १०, ७;

-हीः आग्निः २, ६, ३ : ४७;

५०; बौध २, ५, २८^१; -हीभ्यः

आग्निः १, २, २ : ३२; ३३××

बौध २, ११, ३४^१; -ह्यः

आपमं २, २०, ६^१; -ह्या

कप्र २, ७, १०; -ह्यै शंघ ११६:

७३; विध ६७, २३^१; ७७, १.

पितामह्या(ही-आ)दि-

-दिभिः शंघ २३८.

पितामह-हम् वृदे ७, १४८;

-हाः अप ५२, १३, १; -हात्

शाश्रौ १५, २४, १^१; -हे विध

१५, ३८; १७, २.

पितामह-दश-गण-गम् काश्रौ

१५, ८, १६.

पितामह-नियोग-गेन अप ६३,

१, ५.

पितामह-पत्नी-लीभ्यः वैगृ

१, ४ : २०; ४, ४ : १०.

पितामह-पितामह-हाय विध

७५, ५.

पितामह-प्रपितामह-हाभ्याम्

वैगृ ४, ७ : ५.

पितृ-कर्मन्-र्म अप २३, १३, १;

शंघ ३५१; -र्मणा कौगृ १, ६,

७; शांगृ १, १०, ८; -र्मणि

बौश्रौ २१, ५ : २; कागृ ४४ :

१२; वाध ११, ४१.

पितृ-कार्य-र्णम् वाधूश्रौ ४, ४२:

४^२; -र्णं बौध २, ८, २१.

पितृ-कृत-तस्य आश्रौ ६, १२,

३; शाश्रौ ८, ९, १; आपश्रौ.

पितृ-कृत-त्ये वाध ११, २७;

-त्येषु कप्र २, ७, १.

पितृ-गामिन्-मि विध १७, ६.

पितृ-गो(त>)ता-ता विध ८०,

१३; ८३.२०; -ताः विध ८५,

६४; -ते विध ७८.५१.

पितृ-गृह-हे वाध १७, २२; विध

१५, ११; २२, ३४.

पितृ-घात-तेन आग्निः २, ४, ८ :

१९.

पितृ-जीर्ण-र्णम् वैगृ ४, ४ :

२४; ५, १५ : १५.

पितृ-उद्येष्ट-उद्योः वैगृ ६, ९ : ८.

पितृ-तर्पण-गम् अप ४२, २, ६;

शंघ ४६३; बौध २, ३, २; विध

५९, २३; ३०.

पितृ-तसः(ः) आश्रौ ९, ३, २०; २१;

वाधूश्रौ; या १४, ५^२.

पितृ-तीर्थ-र्णम् शंघ ११६ : ७२;

११७; -र्णं कप्र १, २, ३.

पितृतीर्थो(र्थ-उ)दक-कम्

याशि १, ५३.

पितृ-त्रैयम्बक-पुनरुक्त-वर्जम् काश्रौ

२०, ७, २२.

पितृ-त्व-त्वम् बौगृ ३, १२ : १४;

वैगृ ५, १५ : ११; -त्वे वृदे ६,

३८.

पितृ-दिङ्-मुख-खः कप्र ३, २,

१२.

पितृ-देव-वाः विध २६, ७.

पितृ-देव-गुरु-भृत्य-भरण-गे गौध

१७, ४.

पितृ-देवता-पाग ५, १, ६६^१;

-ताम् शंघ १५९ : ५.

पितृदेवत्य,त्या-पा ५, १, ६६;

-त्यः वाधूश्रौ २, १७ : २,

अप्राय ३, २; -त्यम् अत्र १८,

४; या ७, ४; -त्या वैश्रौ ५, १ :

४; कौसू ४, १२; -त्याः बौश्रौ

२४, ३८ : ३; कौगृ ३, १४, ४;

शांगृ ४, १, ८; कागृ ६१, १;

कप्र १, २, २; -त्याभिः शाश्रौ

१५, १५, ७; -त्येषु गोगृ ४, ४,

२१.

पितृ-देवत,ता^१-तानाम् बौश्रौ

१५, ३१ : १९; -ताम् आगृ २,

४, १२.

पितृ-देवता^१-ताः विध ५७, १३;

-ताभ्यः बौध २, ३, १८.

पितृ-देवत(ता-अ)तिथि-पूजा-

-जायाम् वाध ४, ५.

पितृ-देवता(ता-अ)तिथि-भृत्य-

-त्यानाम् कौगृ ३, ११, ४३; शांगृ

४, ११, १२.

?पितृ-देव(व-ऋ)र्षि-आद्-द्भ्यः

ऋय ३, ३६.

पितृ-देवा(व-अ)क्षि-कार्य-र्णेषु

बौध १, ४, २१.

पितृ-देवा(व-अ)सुर-राणाम् वृदे

६, १६०.

पितृ-देवत-कर्मन्-र्मणि कौगृ ३,

१०, ३५; शांगृ २, १६, १; वाध

४, ६; विध ५१, ६४.

पितृ-देवत-कार्य-र्णेषु कौगृ ३,

११, ४७; शांगृ ४, ११, १६.

पितृ-देवत-भृत्य-त्यानाम् बौध

२, ७, २१.

a) पाभे. वैप १, २०१२ f द्र.। b) = तीर्थ-विशेष-। c) पू. = दक्षिणा-दिश-। d) तु. पागम.।

e) विप.। बस.। f) द्रस.। g) ष्षसाध्वे, ष्षसिद्धे इति च संस्कृतेः टि.।

पितृ-द्वैत्य, त्या^१- -त्यस् वैगृ २,
१ : २४^१; -त्याः वैगृ २, २ :
१०; ५, १४ : १३; -त्ये गोपृ
३, १०, २५; पावा ७, ३, ४५.
पितृ-द्रव्य- -व्यस् विध १८, ४२.
पितृ-धर्म- -र्मण मागृ १, ५, ६.
पितृ-नामन्- -मानि कागृउ ३९ :
१४.
पितृ-पक्ष- -क्षानाम् शंघ ११६ :
७५; ११८; -क्षे शंघ ११६ : ७४;
११८; विध २२, ३३.
पितृ-पति- -तथे आगृगृ ३, ४, १ :
२०^१.
पितृ-पत्नी- -नीभ्यः वैगृ १, ४ :
१९; ४, ४ : ९; -न्यः वैगृ १,
७ : १; सुधप ८५ : २.
पितृ-पात्र- -त्रम् बौपि २, १२, ४;
-त्रेषु शांगृ ४, ३, ६; आगृगृ.
पितृपात्रो(त्र-उ)दक- -कैः वैगृ
७, ८ : ७.
पितृ-पाद्यपात्र-त्रय- -त्रे विध २१,
१४.
पितृ-पिण्ड- -ण्डेषु आगृगृ ३, ११,
३ : २४; बौपि २, ११, ८; १२, २;
गौपि २, ६, २१; अगृ २३, १, ३;
-ण्डैः वैगृ ७, ८ : ७.
पितृ-पितामह- -हानाम् शंघ २९१.
पितृपितामहा(ह-आ)दि- -दिषु
पावा ६, ३, २५.
पितृ-पितामह-प्रपितामह- -हाः
आगृगृ २, ४, ७ : २१; -हान्
वैश्रौ ९९ : १०; -हेभ्यः आपश्रौ
१९, ८, १४; हिश्रौ २३, १, ४१.
पितृ-पीत- -तस्य बौश्रौ ७, १७ :
१३; ३४; ८, ७ : २१××; माश्रौ

२, ४, २, ३२; ५, १, ५०; -ताय^१
आपश्रौ १, ८, ३; बौश्रौ.
पितृ-पुत्र^१- -त्रयोः विध १७, २.
पितृ-पुत्रा(त्र-आ)चार्य-याज्य(ज्य-
ऋ)त्विज्- -त्विजाम् विध ५,
११३.
पितृ-पूजा- -जा वैगृ ४, ७ : ९.
पितृ-प्रभृति- -ति काश्रौ ४, १, १०.
पितृ-बन्धु- -न्धुभ्यः वागृ १०, २;
वाध ८, २; गौध ४, ३.
पितृ-भक्ति- -क्त्या विध ३१, १०.
पितृ-भर्तृ-पुत्रा(त्र-अ)धीनता- -ता
विध २५, १३.
पितृ-भुक्त- -क्तम् वैगृ ४, ४ : १४;
५, १५ : १५^१.
पितृ-भेद- -दे शाश्रौ ४, ४, ६.
पितृ-भ्रातृ- -जाति-सगोत्र-मातुला
(ल-आ)दि- -दिषु वैगृ ६, ७ :
१०.
पितृ-भ्रातृ-सपत्न- -नैः अप २३,
१२, ४.
पितृ-मत्- -पाग ४, १, १५१; -मतः
शाश्रौ ३, १६, ४; वतौश्रौ १४,
७; चात्र ४१ : २२^१; -पितृ-
आश्रौ २, ६, १२; शाश्रौ ३, १६,
२; ४, ४, १^१; काश्रौ; -मन्तः
जैश्रौका १८८; शंघ २७०;
-पितृ-मन्तम् शाश्रौ ३, १६, १३;
आपश्रौ; -पितृ-मान् आश्रौ २, १९,
२१; आपश्रौ.
पितृ-मती- -तीभिः आपश्रौ
१९, ३, ८; वैश्रौ ११, ५ : ९;
हिश्रौ १३, ८, ३४.
पितृ-मत्स्य^१- -पा ४, १, १५१;
पावा ४, १, ८५; -पितृ-
बौश्रौ

८, ६ : २; माश्रौ २, ४, ५, १४.
पितृ-मन्त्र-वर्जम् शांगृ ४, ४, ७.
पितृ-म(य^१)थी- -थी कागृ १८,
२^१.
पितृ-मातृ-गुर्व(ह-अ)गिन-स्वाध्याय-
त्यागिन्- -गिनः विध ८२, २९.
पितृ-मातृ-प्रदर्शित- -ताः विध
१६, १७.
पितृ-मातृ-बन्धु^१- -न्धुभ्यः शंघ
६९.
पितृ-मातृ-सुत-भ्रातृ-दत्त- -त्तम्
विध १७, १८.
पितृ-मात्र^१- -त्राः वाधुश्रौ ४, ३७ :
११.
पितृ-मेघ^१- -घः काश्रौ २१, ३,
१; आगृगृ ३, ७, २ : १९^१××;
बौपि; -धम् आगृगृ १, २, १ :
९; हिपि १९ : १; ५; कौसू
८०, १; विध २२, ८५; -घात्
शुअ ३, २१६; -घे आपश्रौ ९,
११, २०; आगृगृ ३, ७, ४ : ९;
बौपि २, ३, १८; अप्राय २, ९;
-धेन वैगृ ७, १ : १०; अप्राय
२, ८; वैध ३, ८, ४.
पितृ-मेघ- -घः बौगृ ३, १, २१.
पितृ-मेघिक- -कम् बौश्रौ
२९, ५ : १९; वैश्रौ २०, २२ : ५;
आगृगृ ३, ९, १ : ८; १०, २ :
१४^१; ३ : २; बौपि; -केन
वैश्रौ २१, ७ : ६.
पितृ-मेघिक-भाण्ड- -ण्डम्
हिपि २३ : १.
पितृ-मेघ-वत् वैगृ ७, २ : ५.
पितृ-मेघ-विधि- -धिना वैगृ
५, २ : १०; ११.

a) विप. । वस. ।

b) पाभे. वैप १, २०१२ k द. ।

c) भानहृद्वादेशस्याऽभावः उर्र्.

(पा ६, ३, २५) ।

d) = ऋषि-विशेष- ।

e) वैप १ द. ।

f) द्वस. > षस. ।

g) नाप. (याग-) ।

h) *कर्म इति पाठः ! यन्ति. च कर्मन्- > मं इति च शोधः (तु. पूर्वोत्तरे स्थले) ।

२पितृमे(ध>)घा^१-घा: ऋञ्ज
२,१०,१८.
पितृ-यजन- नम् बौश्रौ २,२:२१^२.
पितृ-यज्ञ^३-ज्ञ: आपश्रौ ८, १३,
५; १६,२२××; -ज्ञम् आपश्रौ
३, १६, ७; बौश्रौ; -ज्ञस्य
आपश्रौ ८, १३, १; भाश्रौ
८,१५, १; -ज्ञान् लाश्रौ १०,
११,१०; -ज्ञाय वैष्ट ३, ७: ८;
-ज्ञे काश्रौ ५, ८, १; आपश्रौ;
-ज्ञेन आपश्रौ ८, १५, १८;
२२, ८, १९; काश्रौसं.
पैतृयज्ञिक,का-कम् बौपि
३,३,१२; -कान् बौश्रौ २, ८:
३; २३; -कायाम् दाश्रौ १३,
१,१७; लाश्रौ ५,१, १५; १०,
११,११; -केन बौश्रौ २८, ४:
६.
पितृयज्ञ-बर्हिंस- -र्हिषि बौश्रौ
२,३: १७.
पितृयज्ञ-लोप- -ये बौश्रौ २९,
१२: ३.
पितृयज्ञ-वत् शाष्ट ५, १०, ६;
मीस् ६, ८, ८.
पितृयज्ञ-सामान्य- -न्यात् बौश्रौ
२०,३: १८.
पितृयज्ञा(ज्ञ-अ)निनचित्य-
-न्ययो: काश्रौ २,६,२१.
पितृयज्ञा(ज्ञ-अ)व्यय- -ये कप्र
२,१,२०.
पितृयज्ञा(ज्ञ-अ)र्थ-सिद्धि-
-द्धये कप्र २,३,६.
पितृ-याण^४-णम् आपश्रौ २४,
१३,३; अत्र १५,१२^२; -णा:^४
आपश्रौ १३, २२, ५; बौश्रौ ४,

११: १८^५; माश्रौ २,५,५,२२;
बौष्ट ४,४,९.
पितृ-रूप^६-पा: आपश्रौ १,८,७;
माश्रौ १,१, २, ८; वाश्रौ १,२,
३,१.
पितृ-लिङ्ग^७-ङ्गेन आपध २,४,५;
हिध २, १, ५८; -ङ्गे: आमिष्ट
३,३,२: २१; ११,३: २०.
पितृ-लोक- -पंकम् बौश्रौ २९,१३:
६; वाधूश्रौ ४,१६: ४; ६३: ४;
लाश्रौ; या १४, ८४; -कात्
वाधूश्रौ ४, ६३: ४; या १४, ८;
-पंकं आपश्रौ १०,५,५; बौश्रौ.
पितृलोक-काम- -मस्य आपश्रौ
१४,५,२२; ६,९; बौश्रौ.
पितृलोक-गत- -त:; -तस्य विध
२०,३४.
पितृ-वंश- -श: शाष्ट ४, १०,५;
अप ४३,४,५९^१.
पितृवंश-मातृवंश- -शौ कप्र २,
२,३-८.
पितृ-वत् काश्रौ ५, १०, १३; २०,
६,१३××; आष्ट.
पितृ-वल- पागम ४३०.
पितृ-वित्ता(त्त-अ)लाभ- -भे विध
१५,४३.
पितृ-विभ(क्त>)क्ता- -क्ता विध
१७,३.
पितृ-वेदमन्- -श्मनि विध २४,
४१.
पितृव्य- पा,पावा ४, २, ३६; -व्य:
बौष्ट १,२,६५; कप्र २, ३, ७;
८; वैध २,११,२; -व्यम् बौपि
३, १, ५; -व्यस्य बौश्रौ २४,
३२: ४.

पितृव्य-मातामह-मातुल-श्वशुर-
नृप-पत्न्य(त्री-अ)भिगमन-
-नम् विध ३६,४.
पितृव्य-मातुल- -लान् वाध १९,
३१.
पितृव्य-मातुल-श्वश्रू-श्वशुर-
वृद्ध- -द्धा: शंघ ४३.
पितृव्य-स्नातक मातुल- -ला:
वाध ११,२.
पितृव्या(व्य-आ)चार्यं(र्थ-कृ)
विद्-मातुल-श्वशुरा(र-आ)दि-
-दीन् वैध १,४,२.
पितृ-शब्द- -ब्द: भाशि ४०;
-ब्दम् काश्रौ १५,६, ११; वैश्रौ
९,४: ४.
पितृ-शासन- -नम् बौध ४,१,१५.
पितृ-ष(<स)द^८- -षद: वाश्रौ १,
२,३, २; जैष्ट २, २: २; कौस्
८७,१६^६; -षदम् आपमं १,१०,
२; बौष्ट १, ६, २३; -षदे पाष्ट
३,१५,१३.
पितृ-ष(<स)दन^९- -न: आपश्रौ
७,९,१०; बौश्रौ; -नम् काश्रौ ६,
२,१८^४; माश्रौ; -ना: माश्रौ
१,८,२,७; अपं ३: २३.
पितृ-ष्व(<स्व)स- पा ८, ३, ८४;
-सा वैध २,११,२; विध ३२,३.
पैतृष्वसेय- पा ४,१,१३३.
पैतृष्वसेयी- -यी या
१४, ३०^५.
पैतृष्वसेयी- पा ४,१,१३२.
पितृष्वस्-मातृष्वस्-स्वस्-
गमन- -नम् विध ३६,५.
पितृ-संयुक्त- -क्तम् भग १, १२:
२; ४; १०; -क्तानि आमिष्ट २,

a) विप. (ऋञ्ज-). तद्वति वृत्तिः। b) नाप. (याग-). c) वैप १ द्र.। d) पाभे. वैप १, २०१३ ० द्र.। e) विप.। बस.। f) पाभे. वैप १ वेदिषुदः मा २,२९ टि. द्र.। g) पाभे. वैप १, २०१३ ० द्र.। h) पाभे. वैप १, २०१० २ द्र.।

६,३: ५९; आपगृ १,१८; बौगृ
१,३,७; बौघ २,५,३१^क.
पितृ-संहिता- -ताम् कप्र १,३,८.
स्वितृ-संचर- -रः कौसू ८३,२६.
पितृ-स्थान-गत- -ताय वैगृ ५,
१४: ४: १५: ९.
पितृ-हन- -न्नः शंघ ३७७: १०.
पितृ-हस्त- -स्ते आमिगृ ३, ३, २:
२२.
पितृ-श- -शा: शंघ २७९.
पित्र-तृ-अर्थ- -र्थम् वैगृ ७,८: १;
-र्थे वैगृ ४,३: ४.
पित्र-तृ-अवनेजन- -नम् काश्रौ
५,९,१३.
पित्रादि-दि- -दयः वैगृ ७, १:
८; -दिभ्यः वैगृ ४, ४: ११;
-दीन् वैगृ ६, ६: ६; वैध २,१३,
५.
पित्रादि-त्रय-पत्नी- -त्नीषु शंघ
१९०.
पित्रादि-बान्धवा(व-अ)लाभ-
-भे वैगृ ६,७: १२
पित्रिय^६- -यम् वाधूश्रौ २, ८: १;
२.
पितृ(तृ-उ)च्छिष्ट-समीप- -ये गौपि
२,४,१९.
पित्र्य, ज्या^७- पा ४,२,३१; ३,७९;
-ज्यः कप्र २, ३, ४; विघ ५९,
२३; शुभ; -ज्यम् काश्रौ १,१०,
१४; आगृ ४, १, १९; कौगृ;
या ११,३३; -ज्यस्य गोपृ १,
४,२०; या ३,२; ४,७^क; -ज्या
आश्रौ २,१९,१; ४,८,२; ९,२,

१७; शाश्रौ; -ज्या: ऋभ २,१०,
१४; शुभ २, ३९५; -ज्याणाम्
आश्रौ १२,८,२; -ज्याणि शाश्रौ
१, १, ७; १४; आपश्रौ; मौसू
६, ८, २७^६; -ज्यात् शाश्रौ
२,१४,३; १५,४; -ज्यान् गौघ
१८,२१; -ज्याम् शांघ ४, १०,
२; अप ४३, ४, १; -ज्यायाम्
आश्रौ २,१८,७; शाश्रौ ४,६,२;
वैताश्रौ ९,८: १२^क; -ज्ये काश्रौ
३,६, ११^क; कौगृ १, ३, २^६;
४×४; शांघ; १, ७, ३; -ज्येण
अप ४४, १, १४; शंघ ११६:
७; विघ ६४, ३१; -ज्येषु काश्रौ
१, ७, २६; भाश्रौ.
पित्र्य-प्रतिग्रह-भोजन- -नयो:
बौघ १,११,२६.
पित्र्य-मन्त्रा(न्त्र-अ)नुद्वर्ण^८-
-णे कप्र १,२,१३.
पित्र्या-व(तृ>)ती^९- -ती ऋप्रा
९,११^क.
पित्र्युपवीत^{१०}- -तम् वैताश्रौ
७,१५; अप ४५,१,२७.
पित्र्युपवीतिन्- -ती वैताश्रौ
२८,३६; कौसू ८७,२६×४.
पित्र्यो(ज्य-उ)पसद्- -सद:
आश्रौ २,१५,९.
पितृ^६- पाठभो २, २, १३४; पाग ५,
२,९७; -त्तम् बौश्रौ २, ५:
२०^क; वृदे ७, ८०; -त्तेन वैगृ
५,१: २१.
पैत्तिक- पावा ५,१,३८; -कस्य
अप ७०,१२,१; -का: अप ६८,

१,३; १९.
पित्त-ज्वर- -रः अप ५७,१,५.
पित्त-प्रकृति^१- -तयः अप ६८, १,
१२.
पित्त-ल- पा ५,२,९७.
पित्र्य- प्रभृ. पितृ- द्र.
पि^१✓घा,पिद्घामि पागृ ३, १५,२३^३;
पिदध्यात् वैगृ ५,७: ११; ८: ६.
पि-घान- पाग २, ४, ३१; -नम्.
भाशि १२०^क; -नात् बौपि ३,
१०,३; -ने कौपि ३,२,१३^६.
पिधाना(न-अ)र्थ- -र्थम् हिश्रौ
१,३,८.
पि-धाय आमिगृ २, ४, १०: ३७;
कागृ २४, ५; वैगृ ५, ७: ७;
१०: ५.
पि-हित- -तः आश्रौ ९, ७, २२;
वाश्रौ ३,२,५,२८; द्राश्रौ.
पिहिता(त-अ)नन^१- -नम्
आमिगृ २,३,३: १०.
पिनद्ध- (>पैनद्धक- पा.) पाग ४,
२,८०.
पि^१✓नह्>पि-नह्य कौसू ३९,१५.
पिनाक^६- पाउ ४,१५; पाग २,४,३१;
-कम् अप ४८,१२२^क; निघ ३,
२९^क; या ३,२१^३क^६; ५,२२^क.
पिनाक-सेन^१- -नाय अप २०, ४,
२^क.
पिनाक-सेन-यजमान- -नात् अप
२०,७,११.
पिनाक-हस्त^३- -स्तः^३ आपश्रौ ८,
१८, ९; बौश्रौ ५, ११: ७;
भाश्रौ; या ३,२१; ५,२२.

a) तस्येदमित्यर्थे घ > ह्यः प्र. उसं. (पा ४, ३, १२१)। b) वैपश् निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.।

c) पित्राणि इति जोसं. ?। d) पाभे. वैप २, ३खं. पित्रे तैत्रा १, २, १, २० टि. द्र.। e) पित्र्ये इति पाठः ? यनि.
शोधः (तु. शांघ).। f) कस. > पस. उप. = समुच्चारण-। g) वैप १ द्र.। h) वैप २, ३खं. द्र.। i) विप.।
बस.। j) यनि. नैप्र. < अपि। k) सपा. शांघ ३, ३, ९ अपिधानम् इति पाभे.। l) विप. > नाप.। बस.।
m) पाभे. वैप १, २०१४ III द्र.।

पिनाकिन्-किने वैप ५,२:२९;

-की आसिप २,५, ३: १५;

अप ४३,५,१४; बौपि ३,७,१४.

पिन्व पाधा. भ्वा. पर. सेचने;

पिन्वते आश्रौ ५, १८, ५;

आसिप ३,८,२: १६; बौपि १,

१५: २६; पिन्वति माश्रौ ४,

३, १३; पिन्वन्ति आश्रौ ५,

१४, १७; शाश्रौ ७,१९, १४;

बौश्रौ १३,३९:१२; पिन्वताम्

वाश्रौ १,१,३,१२१; पिन्वताम्

माश्रौ १,१,३,२३१; पिन्वस्व

शाश्रौ ४, ९, २; काश्रौ ३, ४,

१०××; आपश्रौ ४,६,२; १०,

९; ११, ३; काश्रौसं ३६:

१७; बौश्रौ ३,१८: २९××;

माश्रौ ४, ८, ३; १६, १०××;

माश्रौ; वैश्रौ ७,२:३; ३:५××;

हिश्रौ ६,३,३××; पिन्व आश्रौ

१,७,८; काश्रौ १७, ८, २१;

आपश्रौ; पिन्वत्म् या ६, २९;

अपिन्वत् शाश्रौ ८, २५, १.

पिन्वयति बौश्रौ ९, ९: १५;

१८; वैश्रौ १३, ११: १४;

पिन्वयेत् आपश्रौ १५, १८, २;

माश्रौ ११,१८,५.

पिन्व- -नम् बौश्रौ ९, ३: १७;

-ने काश्रौ २६, १, २१; २,

१२××; काश्रौसं; -नेन बौश्रौ

९,१०: २४.

पिन्वना(न-आ)दि- दीनाम्

काश्रौ २६,१,२९.

पिन्वन्यपी(य >)या- -यया

शाश्रौ १०,१३,१०.

पिन्वमान, ना- -नः आपश्रौ २,

२१,७; १७,१८,१; हिश्रौ; आप

२,४,१४; -नम् काश्रौ २६, ६,

८; बौश्रौ १, १७: २२; माश्रौ

१,२,३, २५; आसिप १,७,३:

३४; -नस्य माश्रौ १,२,३,

२५; वाश्रौ १, ३, १, २४; -ना

आपश्रौ १६,३१,१; वैश्रौ; -ना:

आपश्रौ १, १२, १४; माश्रौ;

-नाय आपश्रौ १६, ३१, १;

वैश्रौ १८,२०: ५३; हिश्रौ ११,

८,४; -ने आपश्रौ १६,३०-३१,

१; वैश्रौ; -नेभ्यः आपश्रौ १६,

३१, १; वैश्रौ १८, २०: ५३;

हिश्रौ ११,८,४.

पिपान-, पिपासत्- प्रसृ. √पा (पाने) द्र.

पिपील^१ > षपी(ल-क^१) > लिका-

पाउमो २, २, १८; -का जैप

१,३: ३; या ७, १३; वैशि;

-का: आपश्रौ ६, १२, ४; ४;

माश्रौ; -काभिः याशि २,१०७;

-काभ्यः वाश्रौ १,५, २, ४६; ६;

माप २,१२,१७.

पिपीलिक-म(ध्य >) ध्या^१ - ध्या

ऋश्र १, ५, ६; ६, ४××; शुश्र;

या ७,१३; माशि ९,३; -ध्या:

ऋश्र २,९,११०; अश्र ९,६(३);

-ध्याम् दाश्रौ ८,३,९; शुश्र ३,

१०; -ध्ये ऋश्र २, १०, १०५;

अश्र ६,२; उनिस् ५: ७.

पिपीलिक-मध्य(म >) मा^१ -

-मा ऋया १६,३९; ५२.

पिपीलिका-किरि^१ -रिम वाश्रौ

१,४,२,८.

पिपीलिका(का-अ) ण्ड-संका-

न्ति- -न्ति: अप ६५,२,७.

पिपीलिका(का-अ) नाचार- -रे

कौस् ९३, २३.

पिपीलिका-मध्य, ध्या^१ - ध्यः^०

विध ४७, ४; ५; -ध्यम्^० बौध

३,८, ३२; -ध्या निस् १,२:

१३; -ध्या: लाश्रौ ४, ७, ३^०;

-ध्याम् दाश्रौ ८,३,२१^०; लाश्रौ

४,७, १; निस् ६, ६: १८; ८,

६: २०.

पिपीलिकावटः^१ आश्रौ ८, ३,

२१; शाश्रौ १२,२३,३; वैताश्रौ

३२, २५.

पिपीलिको(का-उ) दाप^१ -पान्

कौस् ११,५; -वे कौस् ११,४.

पिपीलिका^१ -कान् माश्रौ ६, १३,

१०; हिश्रौ ३,७,९८; -कैः बौश्र

४,९,५.

पिपीषत्- √प (पाने) द्र.

पिप्प(क >) का- पागम ६१.

पिप्पल^१ - पाउमो २,३,९९; पाग ४,

२,९०; ३,७६; -लम् अप ४८,

७५; वाध; निध १, १२; १;

a) प्रपु १ रूपम् । b) पामे. वैप २, ३खं. जिन्वत्म् तैत्रा ३, ७, ४, १६ टि. द्र. । c) पामे. वैप १, १९१० m द्र. । d) पामे. वैप २, ३खं. जिन्व तैत्रा ३, ७, ५, ७ टि. द्र. । e) = [सुत्तिकाभिर्नित्त-] पात्र-विशेष- (तु. विद्याधरः [काश्रौ.]) । f) < पिन्वन्ति अपः (ऋ १, ६४, ६) । g) पामे. पृ ५४१ b द्र. । h) पामे. वैप १, २०१५ g द्र. । i) वैप १ द्र. । j) < √पिष् इति । k) = गायत्री-भेद- । वस. पूष. ह्रस्वविकल्पत्वं (पा ६, ३, ६३) । l) = विद्युत्ति-विशेष- । m) = पिपीलिकोत्कीर्ण-मृचय- । n) = अमुष्ण-भेद- । o) = चान्द्रायण- । p) परस्परं पामे. । q) वैप १, २०१६ c, d द्र. । r) पिपील इत्यनेन सन्यायता द्र. । s) तु. पागम. । t) = जल- ।

या १४, २९^क; -लानि आपथौ
१०, १६, ११; माथौ १०, १०, ९.
पैप्पल- पा ४, ३, ७६.
पिप्पल-मात्र- -त्रम् काथौ ३, ४, १;
आपथौ.
पिप्पला(ल-अ)द^३- -दम् अप ३९,
१, १; -देन अप २२, १०, ४;
२३, १४, ३.
पैप्पलाद- -दम् अप २, ३, ५;
-दाः अप १^२, १, ७; -देन
अप २, ६, १.
पैप्पलादि- -दयः बौथौप्र ४६ :
३.
पिप्पला(ल-अ)दि->^०दि-शान्ति-
गण- -णः अप ३२, १, २०.
पिप्पलीय- पा ४, २, ९०.
२पिप्पल^३- -लाः चव्यू ४ : २.
३पिप्प(ल>)ली^०- पा, पाग ४, १,
४१; पाग ४, ३, १६७; -ली
कौसू २६, ३३; अप; -^१लीम्
अशां २१, १; अत्र ६, १०९;
-ल्यः अप्रा २, ३, १४^क.
पिप्पली, लि^१मरीच- -चे आपघ
१, २०, १२; हिष १, ६, २६.
पिप्पली-सुकुन्दक-भूस्तृण-शिग्रु-
सर्षप-सुरसा-सर्जक-सुवर्चल-
कृष्माण्डा(ण्ड-अ)लाबु-वार्ताकु-
पालक्यो(क्या-उ)पोऽकी-तण्डु-
लीयक-कुसुम्भ-पिण्डालुक-महि-
षीक्षीर- -रापि विध ७९, १७.
पिप्पली-मूल- (>लीय- पा.)
पाग ४, २, ९०.
पिप्पलू^०-(>पैप्पलव्य-पा.।>पैप्प-
लव- पा.।) पाग ४, १, १०५, २;

१११.
^१पिप्पलु अप ४८, १७.
पिप्रत- √पृ, पृ द्र.
पिप्रु^१- -युम् सु २९, ५; -प्रोः ऋअ
२, ६, २०^क.
१-२पिव- प्रथ. √पा (पाने) द्र.
पियाल- पाउ ३, ७६.
?पिलकावत् बौथौ ७, ६ : ४२.
पिलिपिच्छ- पाउमो २, २, ८५.
^१पिलिपि(ल>)ला^१- -ला बौथौ
१५, २९ : २; ४.
पिलु- पावा ५, २, ३३.
^१पिल्व^०- -ल्वयोः^१ आपथौ १६,
१८, ६; वैथौ १८, १५ : १६.
?पिवा वाथौ ३, ४, १८.
^१√पिश् > पिश् (बधा.)^१ पाधा.
तुदा. पर. अययवे, पिशति शैशि
२७७; पिशतु आपमं १, १२, १;
बौथ १, ७, ३७; माथ; अपिशत
या ८, १४^क.
पिशित^१- पाउ ३, ९५; -तम् बौथौ
४, ९ : ८; १५, ३० : २३; -तस्य
वाधूथौ ३, ९७ : १; -तानि
आमिष्ट ३, ५, ६ : ९; बौपि १,
४ : २५; हिपि ५ : ५; कौसू १२,
८.
पिशित-भक्षण- -णे अप ६८,
२, १७.
पिशित-होम- -मः आमिष्ट ३,
७, ३ : २३.
पिशिता(त-आ)म^१- -मम् कौथ
२, ७, २३; शांथ २, १२, १३.
पिथुन^१- पाउ ३, ५५; पाग ५, १,
१२४; १३०; -नः विध ४५, ७;

या ६, ११^क; -नम् विध ५,
१९१; -नाय या ६, ११.
पैथुन- पा ५, १, १३०; -नम्
गौध २१, १०.
पैथुन्य- पा ५, १, १२४;
-न्यम् वाध ६, २४; विध ३७, २.
पैथुन्य-मत्सरा(र-अ)-
मिमामा(न-अ)हंकारा(र-अ)
अद्वा(दा-अ)नार्जवा(व-अ)
त्मस्तव-परगर्हा-दम्भ-लोभ-मोह-
क्रोधा(ध-अ)सूया-विवर्जन-
-नम् वाध १०, ३०.
पिथुना(न-अ)नृतवादि-क्षतध-
मात्म-रसविकथिन्- -थिणाम्
विध ५१, २२.
^१पिथि^१- -थम् अप ४८, ७९;
निघ ३, ७.
रपिथ->^१पिथ-त(म>)मा^१-
-मया या ८, २०^क; ऋप्रा ७, ९.
पेपिशा(न>)ना- -ने आपमं २,
२०, ३१^क.
पेश^१- पाग ४, १, ४१; ५, २, ९७.
पेशी- पा ४, १, ४१^क; -शी
या १४, ६; -शाम् काथ ६२,
५; -रयः काथ ६२, ३; ६६, ३.
पेशी-शत- -तानि विध
९६, ८३.
पेशल^१- पाउथ १, १०६; पा ५,
२, ९७; -लम् अशां २५, ३^क.
^१पेशस^१- -शः अप ४८, ७९; ९१;
निघ १, २, ३, ७; या ८, ११^क \$;
-शसा आपथौ २०, ३, ९; हिथौ
१४, १, ३०.
पेशि^१- पाउना ४, १३०.

a) = ऋषि-विशेष-। उस.। b) = वेदशाखा-। व्यु. ?। c) वैप १, २०१६ m द्र.। d) आपघ.
पाठः। e) व्यप.। व्यु. ?। f) वैप १ द्र। g) अर्थः व्यु. च ?। h) पाभे. वैप १, २०२१ d द्र.। i) या
६, ११; ८, ११ पा ७, १, ५९ परामृष्टः द्र.। j) वैप १, २०१७ ० द्र.। k) कस. परनिपातः (पा २, २, ३१)।
l) रूप-नामन्-। m) = पिशित-। n) वैतु. अभा. < पेशि- इति।

पिशङ्करोहितः^a हिण् २, ७, २^b.
 पिशङ्क^० - पाठभो २, २, ६१; पाग ६,
 २, ८५; -ङ्गः आपश्रौ २०, २, ९;
 वाश्रौ १, ५, ५, २; ३, २, ६, ३४;
 हिश्रौ १४, १, २१; बौगृ ३, १०,
 ६^०; -ङ्गम् कौसू ३९, २; ऋप्रा
 १७, १४; अत्रा ३, ४, ११; -
 ऋः आपश्रौ २०, २३, १०;
 बौश्रौ १५, ३८:११; हिश्रौ १४,
 ५, १७.
 पिशङ्गी - पावा ४, १, ३९; -ङ्गीः
 आपश्रौ २२, २०, १४; हिश्रौ
 १७, ७, २६; -ङ्गयः काश्रौ २२,
 ९, १३.
 पिशङ्ग-मृष्टि^० - ष्टिम् आमिण् २,
 ६, ८: ३९१.
 पिशङ्ग-रूप- > ङ्ग-रूपि(न् >)-
 णो- ण्यः उनिस् ८: ४.
 ऋरपिशङ्ग-रूप^० - षः आश्रौ ३, ८,
 १; शाश्रौ १३, ४, २; आपश्रौ.
 पिशङ्ग-लोहित^० - त्तः भागृ २, ७:
 २११^b.
 पिशङ्ग-सदृश^० - दृशम् शाश्रौ १८,
 ३, २१.
 पिशङ्ग-सूत्र- ऋम् कौसू ४३, १.
 ऋपिशङ्गिला^० - ला बौश्रौ १५, २९:
 २, ४.
 पिशाच^० - पाग ५, १, १२४; २, ६४;
 ३, ११७^६; ४, ३८; ६, ३, १०८;
 -चः अप २३, ५, १; -चम्
 आमिण् २, ६, ८: ४०१; -चाः
 ऋआपश्रौ १, ७, १३; ४, ६, ४;

बौश्रौ; -चान् वाधूश्रौ ४, ८८:
 १०; आमिण् १, ५, ३: ४१^h;
 हिण्; -चानाम् वैश्रौ १, १: २३;
 -चेभ्यः आपश्रौ १८, ९, १४;
 हिश्रौ १३, ३, ३७; मागृ २, १२,
 १७; अप २०, ७, ३; -चैः अप
 ७०^२, १५, ४.
 पिशाची- -चीम् वृदे ५,
 १९, २२.
 पैशाच^१ - पा ५, ३, ११७; ४,
 ३८; -चः आगृ १, ६, ७; वैगृ;
 -चे वैगृ ६, १२: ११.
 पैशाच्य- पा ५, १, १२४.
 पिशाचक- पा ५, २, ६४.
 पिशाचकिन्- पावा ५, २, १२९.
 पिशाच-तत्स (:) कौसू २५, ३२.
 पिशाच-भिक्षा- ऋक्षा आपध २,
 १७, ८; हिघ २, ५, ३७.
 पिशाच-वत् विघ ५१, ७३.
 पिशाच-विद्या^१ - द्या आश्रौ १०,
 ७, ६.
 पिशाच-संयुक्त- ऋम् आश्रौ १०,
 ७, ६.
 ऋपिशच-हन्- हन्म् आपश्रौ
 १६, ३०, १; वैश्रौ १८, २: ४३;
 हिश्रौ ११, ८, ४.
 पिशाचा(च-अ)सुर-राक्षस- सताः
 नाशि १, ७, ७^१.
 पिशाचो(च-उ)रग-गन्धर्व-यन्त्र-
 राक्षस-मातृष- षान् विघ १,
 १७.
 पिशीली^k > ऋल-मात्र- न्नाः

आपष्ट ७, १२; हिण् २, ६२.
 पिशीली^१ > पिशीली^m - द्राश्रौ
 ११, २, ५; लाश्रौ ४, २, ४१ⁿ.
 पिशील-वीणा-तन्त्री- न्त्रीम्
 कौसू ३२, ११.
 √पिष्, पिष्^० पावा. र्वा. पर. सं-
 चूर्णेन, पिषति बौश्रौ १, ७: १२;
 ऋपिष आपश्रौ १, २१, ७, बौश्रौ
 १, ७: १६; भाश्रौ.
 पिनष्टि काश्रौ २, ५, ६; आपश्रौ
 १, २१, ६×४; भाश्रौ; पिषन्ति
 काश्रौ ५, ८, १९; बौश्रौ १, ७:
 १६; भाश्रौ ८, १६, ३; पिण्डि
 बौश्रौ १२, १: ८.
 पेषयति कौगृ १, १२, १; पेष-
 येत् गोगृ २, ७, १७; द्रागृ २,
 २, २२; ३३.
 पिषत्- ऋन् आपश्रौ १८, ८, ११.
 ऋपिष्ट, ष्टा- ष्टम् बौश्रौ ६, २: १५;
 कागृउ ४१: ५; हिण् १, १०,
 ४; -ष्टस्य कौगृ ४, ४, १९;
 सागृ ४, १९, २; -ष्टान् मागृ २,
 १४, २८; -ष्टानम् आपश्रौ ८,
 २, ४×४; भाश्रौ; -ष्टानि काश्रौ
 २, ५, १०; आपश्रौ; -ष्टामिः
 आपश्रौ १६, ४, १; वैश्रौ १८,
 १: ५९; हिश्रौ ११, १, ४४;
 -ष्टे भाश्रौ ८, ५, २१; -ष्टेन
 वैश्रौ २, ९: ३; वैगृ ३, २१:
 १३; -ष्टेषु आपश्रौ १, २४, ५;
 भाश्रौ; -ष्टैः आपश्रौ १६, ४, १.
 ऋपैष्टिक^p - ऋम् वैगृ ५, ७:

a) पाठः? पिशाङ्करोहित इति संस्कृतः टि. ?। b) सप्र. भागृ २, ७: २१ ङ्गलोहितः इति पाठे.।
 c) वैप १ द्र.। d) विप., नाप.। e) = सर्प-विशेष-। f) तस. (पा २, १, ६९)। g) = आयुधजीवि-
 संघविशेष- इति वापामा.। h) चान् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सपा. खि २, ११, २ हिण् १, १९, ७)।
 i) = पिशाच-, विवाहभेद-। j) पाठे. वैप २, ३३. देवजनविद्या टि. द्र.। k) = प्रमाणा-विशेष- (बाहवोरन्तराल-
 प्रमृ. [तु. भाष्यम्.]। व्यु. ?। l) वैप २, ३३. द्र.। m) = पिशीलवीणा- इति MW.। n) अपि^० इति पाठः ?
 यनि. शोधः (तु. द्राश्रौ.)। o) तुदा. उस्.। p) विप.। विकारार्थे ष्क् प्र. उस्. (पा ४, ३, १४६)।

७; वैध ३, ५, ६; -कान् बौगृ ३, ८, २.

पै(ष्ठ>)ष्टी^०- -ष्टी विध २२, ८२.

पिष्ट-क- पा ४, ३, १४७.

पिष्टिका-(> २पैष्टिक-पा.)

कनिष्ठिका- टि. द्र.

पिष्ट-कुलमाष-मांस- -सानि अशां १५, ४.

पिष्ट-चरु- -रुम् माश्रौ ५, १, १०, ५६.

पिष्ट-भाज्- -भाक् माश्रौ १, ७, १, २२.

पिष्ट-मय- पा ४, ३, १४६; -यम् अप ७, १, ४.

पिष्टमयी- -यीम् अप ४, ३, १; ५, ४××; -व्याः अप ३६, ६, २.

पिष्ट-मिश्रो(श्च-उ)दक- -कम् वैश्रौ ११, ११ : १२.

पिष्ट-मोदक^०- पाग २, २, ९; ६, २, १५१.

पिष्ट-रात्रि^०- -त्रिम् अप ६, २, १; -व्याः अप ६, १, १.

पिष्ट-लेप- -पम् भाश्रौ ३, ९, ६; ७, १७, ९; माश्रौ; -पान् काश्रौ ३, ८, १; आपश्रौ ३, १०, १; वैश्रौ ७, १० : ८; -पेन माश्रौ १, २, ३, २३; -पौ माश्रौ १, ७, ३, ४९.

पिष्टलेप-फलीकरण-होम- -माभ्याम् आपश्रौ ३, ९, ११;

हिश्रौ २१, २, ७०; -मौ आपश्रौ ३, ९, १२; १२, २५, १३; भाश्रौ ३, ९, ४; ७, १७, १५; हिश्रौ २, ५, २६; ४, ४, ७१.

पिष्ट-संयवन^०- > नी^०- -नी

वैश्रौ ११, ९ : ८; -नीम् आमिगृ ३, ४, २ : ८; वैगृ ५, ४ : ३ १^०ष्ट; हिपि ६ : ४^०.

पिष्टसंयवनी(य>)या^०-

-याः बौश्रौ १, ८ : २१. पिष्टा (ष्ठ-अ) ङ- -ङम् आपगृ २२, ६; बौगृ १, २, ५४.

√पिष्टि, पिष्टयेत् अप ३५, १, ९.

पिष्टो(ष्ठ-उ)त्पवन-स्थान- -ने वैश्रौ २, १ : १२.

पिष्टो(ष्ठ-उ)द्वप(न>)नी^०- -नीम् बौश्रौ १, ४ : ९; आमिगृ ३, ५, ७ : ९; बौपि १, ६ : ४; ३, ३, १२^१!

पिष्ट्वा काश्रौ ५, ८, १८××; बौश्रौ.

पिष्यमाण- -णेषु काश्रौ २, ५, ९.

पेष- -षम् माश्रौ ३, ८, २.

पेषण- -णम् माश्रौ २, ५, ४, ३३; हिश्रौ १०, ५, ३९; मीस् ३, ३, ३४; १०, १, ४९; -णे बौश्रौ २०, ७ : १५.

पेषणी^०- -णी शंघ १३१; विध ५९, १९; -ण्योः वैगृ ३, ७ : २०; -ण्यौ वैश्रौ ११, ९ : ६.

पेषण-खेला- -लायाम् वाश्रौ १,

७, ४, १७.

पेषणा(ण-अ)र्थ- -थान् काश्रौसं ४ : ५.

पेषणो(ण-उ)पघान- -ने काश्रौ २, ४, २४.

पेषयित्वा कौगृ १, १२, ८××; शांगृ. पेषि- पाउवृ ४, ११९.

१-२पिष्ट- √पिष् द्र.

३पिष्ट- √पिष् द्र.

४पिष्ट^०- (पैष्ट-पा.) पा, पाग २, ४, ६९; पाग ४, १, ११२.

पिष्टप^०- -पम् विध १५, ४६^०.

पिष्टात- (>^०त्-क- पा.) पाग ५, ४, २९.

√पिस् पाधा. भ्रा., चुरा. पर. गतौ, पिस्थिति निघ २, १४^०.

पेस्वर- पा ३, २, १७५.

पि-हित- पि^०धा द्र.

√पी √पि द्र.

पीठ^०- पाउभो २, २, ११३; -ठम् अप ५, २, ५; ४८, ९८^०;
-ठानि वैगृ ४, १३ : १०; ११.

पीठ-चक्र^०- -क्रेण श्रागृ ४, २, ३.

पीठ-छत्र-ध्वज-निभ- -भाः अप ७०^३, ४, ४.

पीठ-सर्पिन्-> पैठसर्प- पावा ६, १, ४४.

पी(ठ-क>)ठिका- -काम् अप ५, ४, ४.

पीठिका-व्यञ्जन-छत्र-शस्त्र-कीलक-मण्डल- -लौ अप ६४, ६, ५.

a) = सुरा- । b) तु. पागम. । c) = [पिष्टमयी-] रात्रि-प्रतिकृति- । d) उप. भावाऽधिकरणे प्र. । e) = पात्री- । f) 'यमनीम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. संस्कृता, हिपि. च) । g) सप्र. आमिगृ ३, ५, ७ : ९ बौपि १, ६ : ४ दासुपात्रीम् इति पाठे. । h) विप. (२अप-). । i) 'ष्टोर्ध्वप' इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र. बौश्रौ.) । पिष्टसंयवनीम् इति B. । j) नाप. (चक्री इति नभा.) । k) व्यप. । व्यु. ? । l) वाचि. = विष्टप- [तु. पाठे.] । व्यु. पागम. द्र. । m) सपा. वाघ १७, ५ शंघ २८३ हिघ २, ४, ४० विष्टपम् इति पाठे. । n) = पीठिका- ०) वैप १ द्र. । p) अन्तरिक्ष-नामन्- । q) मलो. कस. ।

पीठो(ठ-उ)पहित-पाद- -दः विध
 ३०,१७; -दाः विध ८१,१४.
 ✓पीड्, लृ^१ पाधा. चुरा. उभ. अव-
 गाहने, पीडयते अप ५३, ४, ४;
 ५७, १, ५; ६३, ३, ४; पीडयति
 आशि १, ३; पीडयेत् अप २२,
 ८, १××; शंघ.
 पीड्यते अप ४, ६, २××; विध;
 पीड्यन्ते अप ५१, ४, १××.
 पीडक^२ -कः अप २२, १०, १; -के
 अप २२, ७, ३; -केन अप २२,
 ८, १.
 पीडा, लृ^३न- -नम् अप २२, ७, ५;
 ७०^३, ११, २८; ऋप्रा^४ १४, ११;
 १७; २९.
 पीडयत् -यन् वैगृ ५, १३ : १७.
 पीडयित्वा आसिगृ २, ६, २ : २३;
 ३, ४, ४ : १९; ८, १ : २८;
 बौगृ.
 पीडा- पाग ३, ३, १०४; ४, २, ८६^६;
 -डा अप ५४, २, १; ६४, २, १०;
 ३, १; -डाम् वैश्रौ १८, १ : ४;
 अप ७१, १३, १; १६, ४; -डाम्
 द्वंवि २, १.
 पीडा-कर- -रम् अप ७१, १५,
 ९; विध ५, ११०.
 पीडा-कृत- -ते गौघ १३, १०.
 पीडा-वत्- पा ४, २, ८६.
 पीडित- -तः अप ७१, ६, २; शौच
 १, ४३; -तम् याशि २, ८०;
 -ताः पाशि २९; माशि ४, ८;
 नाशि २, ८, ३१.
 पीडिता(त-अ)ग्र^७- -ग्रे अप २४,
 ५, २.

पीड्यमान- -नः अप ४, १, २१;
 या १४, ६१; -नाः अप ३१,
 १, १; विध ४३, ३५; ४३; -ने
 अप १, ६, ४.
 रपीत- ✓पा (पाने) द्र.
 रपीत, ता^८- पाग ३, १, १३; ५, ४,
 २९^९; -तः अप ५०, ६, १; २;
 याशि २, १^२; -तम् अप ७०,
 १०, १; २; अशां ६, २; -ता
 अप २१, ६, २; ५८^३, ४, १५;
 -ताः अप ५८, १, ८; ९; ६२,
 १, ४; -तान् अप ६३, १, २;
 -ते अप ५०, ५, ५; ६३, ४, ५;
 -तेन अप ५८^३, २, ५.
 रपीत-क, का- पा ५, ४, २९; पावा
 ४, २, २; -कः अप ५३, ४, ३;
 ५४, १, ३; ५; -कम् अप ७१,
 १६, २; नाशि १, ४, २; -का
 अप ५८^३, ४, १४; -काः कप्र
 १, २, २; -कौ आसिगृ २, ५,
 १ : १०; जैगृ २, ९ : ५.
 रपीत-भौम^१- -मम् शंघ ११६ : ३.
 रपीत-मण्डल^२- -ले अप ६३, १, ९.
 रपीत-सृत्ति(का>)क^३- -कम् वैश्रौ
 १२, ४ : ३;
 रपीत-रक्त^४- -क्तः अप ५२, ९, १;
 -क्ताः अप ५२, ८, ५; -क्तौ
 अप ५२, ९, १.
 रपीत-रक्त^५- -क्ते अशां ६, ५.
 रपीत-रक्त-सि (त >)ता- -ताः
 अप २१, ६, ४.
 रपीत-वर्ण^६- -र्णः माशि १, १४.
 रपीत-वस्त्र- -स्त्रैः अप ७०^३, ७,
 १७; ७१, ११, ४.

पीत-वासस्^१- -ससम् विध १, ४२.
 पीत-स्तम्ब^२- (> ष्व-क)
 पीता(त-रआ)ग्र^३- -घ्राः अप ५२,
 १६, १.
 पीता(त-अ)ब्र^४- -ब्रम् आसिगृ २,
 ५, ६ : ९.
 पीता(त-अ)म्बर-धर- -रम् वैगृ ४,
 ११ : ४.
 ✓पीताय पा ३, १, १३.
 पीता(त-अ)रुण-ग्र(भा>)म-
 -भाः अप ६४, ७, ८; -भान्
 अप ६८, १, १३.
 पीत-दारु^५- (> पैतदारव- पा.)
 पाग ४, ३, १५४^६.
 पीत-द्रु^७- -फि ३७.
 पीतस्तम्ब- (> ष्व-क) रपीत-
 टि. द्र.
 पीति- ✓पा (पाने) द्र.
 पीतु- पाउ १, ७१.
 पीतु-दारु^८- > पैतदारव- -वान्
 काठश्रौ ३०; -वेण द्विश्रौ १८,
 ३, ३; -वैः काश्रौ ५, ४, १४;
 -वौ काश्रौ २०, ४, १८.
 पैतदारवा(व-आ)दि- -दि
 काश्रौ १८, ४, ३.
 पीतु-द्रु-> पैतद्रव- -वौ शंघश्रौ १६,
 ३, ३; १६, १२, ४.
 पीत्वा, पीत्वी ✓पा (पाने) द्र.
 पीथ- पाउ २, ७.
 रपीन- ✓पि, पी द्र.
 रपीन- (> ष्व-र) रपान- टि. द्र.
 पीप- (> पीप्य-) दीप- टि. द्र.
 पीपिवस्, ष्याना- ✓पि पी द्र.
 पीबस्- पीबस्- द्र.

a) पा ७, ४, ३ परामृष्टः द्र. । b) =मन्थनोपकरण- । c) ऋप्रा. पाठः । d) =स्वरदोष-विशेष- ।
 e) तु. पागम. । अर्थः ? । f) विप. । बस. । g) =वर्ण-विशेष-, तद्रत्- । व्यु. ? । h) पीत-, स्तम्ब- इति
 भाखडा. प्रमृ., पीतस्तम्ब- इति पाका. । i) =पाताल-विशेष- । बस. । j) विप. । तस. (पा २, १, ६९) ।
 k) द्रस. । l) कस. । m) =पीतु-दारु- । n) कपीत-, दारु- इति पाका. । o) वैप १ द्र. ।

†√पीयू^a, पीयति अप ४८, २८;
या ३, २०^b; भाशि १४.

पीयु^c- पाठ १, ३६.

पीयमान- √पा (पाने) द्र.

पीयूक्षा^d- पाग ४, २, ८०^e; ३, १५२.

पैयूक्ष- पा ४, ३, १५२.

पीयूक्षा-वण- पा ८, ४, ५.

पीयूक्षिल- पा ४, २, ८०.

पीयूष^f- पाठ ४, ७६; पाग ४, २,

८०^g; -†षः आपश्रौ १६, ३२,

४^h; वैश्रौ; -षम् निसू १, २:

२७ⁱ; कौष्ट ३, ५, ८; शांष्ट ३,

१०, ३; कौसू १९, १५; उनिसू

७: २५^j.

पीयूषिल- पा ४, २, ८०.

पीरिठ^k- ठम् अप ४८, १८^l.

√पील^m पाधा. भ्वा. पर. प्रतिष्ठम्भे.

पीलाⁿ- पाग ४, १, १५१^o.

पैल- पा ४, १, ११८; पाग २, ४,

५९; -लः कौष्ट २, ५, ६; अपश्रौ ३,

४, १७^p; -लाः बौश्रौप्र ३: ४.

पैल-पूयापण्ये- पाग ६, २, ३७.

पैला(ल-आ)दि- दिषु पावा १,

२, ४१.

पैलेय- पा ४, १, ११८.

पैलेय- पा ४, १, १५१.

पीलु^q- पाठभो २, १, १०५; पाग ४,

१, ८६^r; ५, २, २४; पा, पावाग

६, ३, १२०; -लु शाश्रौ १२,

१६, १^s.

पैलव- पा ४, १, ८६; पाग ५,

१, ९७.

पीलु-कुण- पा ५, २, २४; पाग ४,

१, ८६^t.

पैलुकुण- पा ४, १, ८६.

पीलु-मूल-> पैलुमूल- पा, पावा.)

पाग, पावाग^u ५, १, ९७.

पीलु-वह- पा, पावा ६, ३, १२०.

†पील्व^v- -त्वयोः माश्रौ ६, १, ५, ३८^w.

√पीव्^x पाधा. भ्वा. पर. स्थौल्ये.

†पीवा, वास्^y- -बः अत्र ९, ७;

-बसि दंवि २, ४; -वः शाश्रौ

१२, १८, १९; हिश्रौ १२, ६, ६^z.

†पीवस^{aa}- -सा आश्रौ ३, ८, १;

आष्ट ३, ८, ९; आश्रिष्ट ३, ५, ७:

२४; बौषि १, ७: १; हिपि ६: १३.

†पीवो-अञ^{ab}- -ज्ञान आश्रौ ३,

८, १; ८, १०, १; शाश्रौ ९, २, ३,

११; आपश्रौ.

†पीवो(वस्-उ)पवसन^{ac}-

-नानाम ऋप्रा २, ७३; शुप्रा

३, १४.

पीवन-, वर-, शी- √पि, पी द्र.

पुंश्च(ल>)ली^{ad}- -लि वाश्रौ ३, २,

५, ३२; -ली आपश्रौ २१, १७,

१८; १९, ५०; ६०; वाश्रौ; -लीम्

वैष्ट ५, ९: १३; -ल्याम् बौश्रौ

२. ५: २०^{ae}; -ल्यै आपश्रौ

२१, १७, १९.

पौश्रलेय^{af}- -यः आपश्रौ २०,

३, ९; १२; बौश्रौ.

पुंश्रली-ग्राम- -मस्य द्राश्रौ ११,

३, १०; लाश्रौ ४, ३, ११.

पुंश्रली-दशन-क्षत- -तः शंघ ४१२.

पुंश्रली-दाम्भिक-चिकिसक-लुब्धक-

कूरो(र-उ)प्रो(प्र-उ)दिच्छभो-

जिन्- -जिनाम् विध ५१, १०.

१पुंश्रल^{ag}- -लः हिश्रौ^{ah} १६, ६, २३;

२४; -ल्लश् शुप्रा ५, ४३^{ai}.

पुंश्रल-ब्रह्मचारिन्- -रिणौ काश्रौ

१३, ३, ८^{aj}.

पुंश्रल-वा(क्य>)क्या^{ak}- -क्या

बौश्रौ १८, २५: ६; ८.

२पुंश्रल^{al}- -ल्लस काश्रौ २०, १, ३७.

√पुंस^{am} पाधा. चुरा. पर. अभिवर्धने.

पुंस^{an}- पाठ ४, १७८; पाग ५, ४,

१५१; पुंसः आपश्रौ ८, ६, २;

बौश्रौ २०, १: ६२^{ao}; भाश्रौ;

शांष्ट १, ११, ६^{ap}; या ३, ४^{aq};

५^{ar}††; २१; १४, २०^{as}††; पुंसा

आष्ट १, १४, २; पाष्ट १, १४, ३;

वैष्ट; पुंसाश् शाश्रौ १४, ३९, ४;

आपमं १, ११, ४^{at}; आष्ट; पुंसि

माश्रौ ५, २, ९, २; वाघूश्रौ ४,

३०: ३; ५; कौष्ट; पा २, ४, २९;

३१××; †पुंसे आपश्रौ ९, २, ३;

भाश्रौ ९, ३, १; हिश्रौ; पुंस्यः

कौष्ट १, ७, ३^{av}; कौसू ७२, १२;

पा ६, २, १३२.

पुंसो^{aw}- -स्याः कौसू ३५, ८.

a) या ४, २५ परामृष्टः द्र. । b) पाभे. वैप १, १८०२ m द्र. । c) वैप १ द्र. । d) = वृक्ष-
भेद- । व्यु. ? । e) अर्थः ? । f) पीयूष- इति पाका. । g) = अन्तरिक्ष- । व्यु. ? । h) व्यप. ।
व्यु. ? । i) तु. पागम. । j) वैप १, २०२० r द्र. । k) पीलु-, कुल- इति पाका. । पीलुकुण-
इति भारुडा. प्रभृ. । l) पीलु, मूल इति [पक्षे] भारुडा. । m) पाभे. वैप १, २०२१ d द्र. ।
n) वैप १, २०२१ h द्र. । o) पाभे. पृ. टि. द्र. । p) अपत्यार्थे ढक् प्र. । q) लुः इति पाठः ? यनि. शोघः
(तु. सप्र. आपश्रौ २१, १९, ५; ६ पुंश्रली इति पाभे.) । r) तु. चौसं. । पुं इति अच्यु. । s) विप. । बस. ।
t) नाप. पुं. । †स्त्रीलोलुप- इति भाष्यम् । व्यु. ? । u) या ९, १५ परामृष्टः द्र. । v) सपा. पुंसः <> पुंस्यः
इति पाभे. । w) = पुंस्य-ना- ।

पौंस-पा ४, १, ८७; -सन्सु
अथ ६, ११३; ७, ८.
पौंस्य^a- -स्यम् ऋप्रा १३,
२४; -स्या आश्रौ ८, १, २;
-स्यानि^b अप ४८, १०३; निघ
२, ९; -स्ये^c अप ४८,
१०५; निघ २, १७; या ६,
१४; -स्येन काय ३१, २;
-स्येभिः या ६, ७.
पुं-युक्त- -क्तम् मीसू ६, १, ६.
पुं-योग- -गात् पा ४, १, ४८; पावा
४, २, १३.
पुंयोग-प्रकरण- -गे पावा ४, १,
३६.
पुं-लिङ्ग^d- -ङ्गः आग्नि २, ४, १२२;
६; -ङ्गैः कौसू ६०, १५.
पुंलिङ्ग-पात्र-> -त्र-चयने(न-इ)
ष्टका-केशवपन-वर्जम् आग्नि ३,
७, २१:७^e; बौपि १, १७:३६.
पुंलिङ्ग-वपन-वर्जम् हिपि १२:
१२.
पुं-लिङ्ग^f- -ङ्गानि माश्रौ १, ७, ४,
३.
२पुं-लिङ्ग- -ङ्गम् जैग १, ५:३.
पुंलिङ्ग-क- -काः याशि २, ६.
पुंलिङ्ग-निर्देश- -शः पावा ४,
१, १२८.
पुं-वचन^g- -नानि अप्रा २, १, १५.
पुं-वत् आश्रौ ३, २, १२; शांश्रौ ६,
१, १३; काश्रौ; पा १, २, ६६;
६, ३, ३४; ४२; ७, १, ७४.
पुं-वद्-भाव- -वस्य पावा ४, २,
३८; -वात् पावा ४, १, १४७;

६, ३, ४१; -वे पावा ६, ३, ३३.
पुं-वद्-भाव-प्रतिषेध- -धः
पावा २, २, २९.
पुं-वद्-भाव-प्रतिषेधा(ध-अ)
र्थ- -र्थम् पावा ४, १, १४७;
१५०.
पुं-वद्-भाव-रभाव-दिलोप-
यणादिपरा(र-अ)र्थ- -र्थम्
पावा ६, ४, १५५.
पुं-वद्-वचन- -नम् पावा १, २,
४८; ५, २, ५२××; -नात् पावा
५, ४, १५६.
पुं-व(त्स>)त्सा^d- -त्साम् काश्रौ
४, १४, १; वैश्रौ १३, २:६.
पुं-विषय- -यम् मीसू ९, १, ४५.
पुं-व्यञ्जन^e- -नानि आपश्रौ ८, ६,
२; भाश्रौ ८, ६, ५; हिश्रौ ५, २,
३०.
२पुं-व्यञ्जन^f- -नः वैश्रौ ८, १०:६.
पुं-शब्द- -न्देन या १४, २०^h;
पावा ४, १, ४८.
पुं-शब्दा(ब्द-अ)तिदेश- -शः
पावा ६, ३, ३३.
पुं-श-छगला^d- -लाम् आपश्रौ १५,
१, ६; भाश्रौ ११, १, ९ⁱ.
पुं-सवन्^j- -नम् आप १, १३, १^k;
३; शांश्रौ १, २०, १^k; पाय १,
१४, १; आग्नि ५; -नस्य गोय २,
६, १; -नानि कौसू ३५, १.
पुं-सवन्-वत् पाय १, १५, २.
पुं-सवन्-सोमन्त- -न्तयोः वैय
६, ३:६.
पुं-सवना(न-अ)दि- -दिषु अप

४४, १, ५.
पुं-सवना(न-अ)नवल्लोभन- -ने
वैय ६३:७.
पुं-सा(सा-अ)सुज- -जः पावा ६, ३,
३.
पुं-सुव(त्>)ती- -ती कौय १, १०,
१०ⁱ.
पुं-सुवन्^m- -नम् आपमं २, ११,
१४^k; कौय १, १२, ७.
पुं-सू- -स्योः आपय ६, ११.
पुं-सू-कृति- -स्या वाध २०, २४^k.
पुं-सू-ता- पा ५, १, ११९.
पुं-स्त्री- -स्त्रियः आश्रौ १३, ४.
पुं-स्त्व- पावा ५, १, ११९; -त्वम्
क ३, १, १३; ऋश्र २, ८, १.
पुं-स्त्वो(त्व-उ)पघात-कारिन्-
-री विध ५, ११९.
पुं-सू-प्रजननⁿ- -नस्य अप ४८,
१२३; या ३, २, १.
पुं-सू-प्रवाद- -न्दे ऋप्रा ४, ४२.
पुं-ख्यान- -ने पावा २, ४, ५४.
पुं-गव- -वैः लाश्रौ १०, १७, ५.
पुं-छगला^d- -लया हिश्रौ २४, १,
१०.
पुं-नञ्चत्र- -त्रे कौसू ३५, २.
पुं-नद- -दः आपश्रौ १८, १३, ३.
पुं-नपुंसक-तस्(ः) पावा १, २, ७२.
पुं-नामधेय^l- -याः निसू ८, ९:
२१; -ये आग्नि १, १, १:५;
भाय १, १:१२; हिग १, १, ५;
कौसू ३३, २०.
पुं-नामन्^d- -नानि वैय २, ५:२;
-मनः बौश्रौ १२, ८:१०ⁱ;

a) वैप १ द्र.। b) बल-नामन्-। c) =संप्राम-। d) विप.। बस.। e) पुल्लिङ्गः

पात्रचयेष्टकाः केशः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. बौपि.)। f) षस.। g) कात्. उप. करणे कृत्।

h) ष्दे इति ल.। i) पुच्छगः इति पाठः? यनि. शोधः। j) =संस्कार-भेद-। वैप १ द्र.। k) सपा.

पुंस° <> पुंसु इति पाठे.। l) सपा. पुंसुवती <> पुंसवती इति पाठे.। m) =पुंसवन्-

n) =पुंसव्यञ्जन-

कौशु १,८, १९^६; शाणु १, १३, ६; -मिन वैशु २, ९: २; ३, १०: ३××.
 पुंसुहुस्- हुसो: पावा ८, ३, ४१.
 पुंस^१- > पुंस-वत् माश्रौ ५, २, ९, २.
 पुंस-व(त् >)ती- ली शाणु १, १६, ११९.
 पुंससृष्ट^२ वाश्रौ ३, ४, ३, १७.
 पुक्- (> पुक्त्- पा.) पाग ४, २, ८०.
 पुक्कार^३- राणाम् चाश्र ४१: २३.
 पुह्व^४- पाउभो २, २, ५०; पाग २, ४, ३१.
 पुच्छ^५- पाउभो २, २, ८४; पाग २, ४, ३१; -च्छ: हिश्रौ १४, ३, १४; बौशु ८: १४; -च्छम् शाश्रौ ४, १६, ८; १७, १३, ५^३क; काश्रौ; -च्छस्य बौश्रौ १०, २४: ५; बौशु ९: ४××; -च्छात् काश्रौ १७, ३, २२; १८, ४, २२; ५, ६; आश्रौ; -च्छानि अप ६७, ४, ३; -च्छे काश्रौ १८, ३, २; आश्रौ; -च्छेन वाश्रौ ३, २, ५, २९; वैताश्रौ ३४, ११; निस्; -च्छेषु हिश्रौ ११, ८, ३^१.
 पुच्छ-काण्ड- -ण्डम् आश्रौ २१, १८, ३; -ण्डात् काश्रौ २५, ६, २; -ण्डेन आश्रौ २१, १९, ८; हिश्रौ १६, ६, २७.
 पुच्छ-तस्(ः) वाश्रौ २, १, ५, ४.
 पुच्छ-देश- -शे आश्रु १७, ७.
 पुच्छ-धि^६- -धौ अप ४८, ११६^१.

पुच्छ-पार्श्व- -र्श्वयो: आश्रु १०, ३; १६, १३××; बौशु.
 पुच्छ-योग- > णि(त् >)नी- नी अप ५८^३, ४, १४.
 पुच्छ-संधि- -धौ काश्रौ १७, १२, १९; २०; बौश्रौ १०, २८: ६; ४६: १९.
 पुच्छा(च्छ-अ)श्र- -श्रे आश्रु १९, १३; हिश्रु ६, ३६.
 पुच्छा(च्छ-अ)न्त- -न्ते वैश्रौ १८, १४: ४३.
 पुच्छा(च्छ-अ)प्यय- -यम् आपश्रौ १६, २१, १२; माश्रौ ६, १, ६, १२; २, ४, २; वाश्रौ; -ययो: बौशु ९: ५; -ये वैश्रौ १८, १६: ८२; आश्रु.
 पुच्छा(च्छ-अ)वकाश- -शेन अप ५८^३, ३, ८.
 √पुच्छि पा ३, १, २०.
 पुच्छो(च्छ-उ)पप्लव- -वे बौश्रौ १०, २४: ५.
 पुक्ष^७- > पुक्षी/कृ > कृत्वा बौश्रौ १४, २२: ८.
 पुक्षिष्ट^८- पा ८, ३, ९७; -ष्टा: आश्रौ १०, ७, ८; -ष्टेभ्य: शुप्रा ५, ३७^३क
 √पुट् पाधा. तुदा. पर. संश्लेषणे; चुरा. पर. अल्पीभावे^१, उभ. भाषायां संसर्गे च.
 श्पुट^९- पाग ४, १, ४१; -टम् बौश्रौ १०, ४८: २; १९, ४: २५; -टेन विध ९४, १३.
 पुटो- पा ४, १, ४१.
 पुटा(ट-अ)पुट- > पु(ट-क >)

टिका- पावा, पावाग २, १, ६९.
 २पुट- पाग ४, १, ११०^३; २, ८०^१.
 पौटाघन- पा ४, १, ११०.
 पुटिन्- पा ४, २, ८०.
 पुटक- (> टकिन् >)नी- पा.) पाग ५, २, १३५.
 √पुट् पाधा. चुरा. पर. अल्पीभावे.
 √पुड् पाधा. तुदा. पर. उत्सर्गे.
 √पुण् पाधा. तुदा. पर. कर्मणि श्रुभे.
 √पुण्ड्र पाधा. चुरा. उभ. भाषायाम्.
 √पुण्ड्र √सुण्ड्र द.
 पुण्डरि-स्रजा^{१०}- -जान् बौश्रौ १२, १७: १२^१म्.
 पुण्डरिस्रजिन्- -जिनम् बौश्रौ १२, १७: १३; २२, २०: ५.
 पुण्डरीक^{११}- पाउ ४, २०; पाग २, १, ५६; ५, ३, १०७; -कम् अप ७०^३, १०, २; अश्र १०, ११^१क; -काणि काश्रौ १५, ८, ५; बौश्रौ २२, २०: ६; -कान् वाश्रौ ३, ३, ४, ११.
 १पौण्डरीक- पा ५, ३, १०७.
 पौण्डरीक-वन- -नानि अप ६८, १, ३०.
 पौण्डरीका(क-अ)क्ष^{१२}- -क्षम् अप ४०, २, ३.
 १पुण्डरीक-वत्- -वान्^{१३} बौश्रौ १०, २४: १९; वैश्रौ १८, १५: ६.
 पुण्डरीका(क-अ)क्ष- -०क्ष विध ९८, ९७; -क्षम् विध १, ४४; ६०.
 १पुण्ड्र- पाउवृ २, १३.
 २पुण्ड्र^{१४}- -ण्डम् वैश्रौ २, ६: १२.

a) णामस्य इति पाठः? यनि. शोधः (तु. शाणु.) । b) = पुंस्- । c) पाभे. पृ १५८५ । द. ।
 d) पाठः? पुंससृष्ट (>)ष्टा- > -ष्टाः इति शोधः । e) अर्थः व्यु. च? । = दान- इति पागम. । f) व्यप. । व्यु. ? । g) = बाणाश्रभाग- । व्यु. ? । h) वैप १ द. । i) = समह- । व्यु. ? । j) तु. BPG. ५ k) नाप. । व्यु. ? । l) अर्थः ? । m) पाभे. वैप १, २०२३ k द. । n) विप. । बस. । o) वैप ३, ५१० n द. ।

३पुण्ड्र^३- गङ्गाः शाश्रौ १५, २६, १.
 ४पुण्ड्र^४- गङ्गान् बौध १, १, ३०.
 ५पुण्ड्र^५-> ण्ड्रक- पाग ५, ४, ३.
 पुण्य, ण्या^६- पाउ ५, १५; पाग ५,
 ४, २९^६; -ण्यः आश्रौ १०,
 २, २; आपश्रौ ५, २५, १०;
 २२, १४, १८; २०, १; हिश्रौ;
 -ण्यम् बौश्रौ ३, ३० : ३१×४;
 सु; या ९, २; पा ६, २, १५२;
 -ण्यस्य बौश्रौ २६, १० : २४;
 आपध; -ण्या बौश्रौ २, १५, ६;
 २०, १६; ५०; गो; -ण्याः शाश्रौ
 १६, ९, ७; आपश्रौ ४, १५, ४; १;
 बौश्रौ; -ण्यान् बौश्रौ १६, २७;
 ३; हिश्रौ १७, ६, ३६; गो २, ९;
 -ण्यानाम् अत्र १५, १३; १;
 -ण्यानि माण १, १२ : ८; हिण
 १, २३, १; अत्र ४, १, २४; ४२,
 २, ४; -ण्याभिः अत्र १, ४२, ६;
 -ण्य्याम् माण २, १३, ६; गो
 २, ७; अत्र ७, ११५; -ण्य्याय
 आपश्रौ ४, ११, २; ५, ११, ५;
 बौश्रौ; -ण्ये शाश्रौ २, १, ८; ४,
 १७, ३, ५, २, ४; आपश्रौ; -ण्येन
 शाश्रौ १६, ९, ७; -ण्येषु अत्र
 ३१, ५, २; -ण्यैः आश्रौ ९, ३,
 २०; माश्रौ ५, ३, २.
 षौण्य^७- ण्यः काश्रौ २३, २, ५.
 पुण्य-क- पा ५, ४, २९.
 १पुण्य-कर्मन्-र्मसु बौध ७, ७, १.
 २पुण्य-कर्मन्^८-र्मणाम् अत्र ५८^२,
 ३, ११; -र्मा बौध ४, ८, १२;
 उस् ८, ३६.
 पुण्य-कृत- पा ३, २, ८९; -कृत
 बौश्रौ १८, ४८ : ११; बौध ४,

८, १२; -कृतः आपश्रौ २०, २२,
 ९; हिश्रौ; या २, १४; -कृतौ
 या १२ १; -कृद्भिः शाश्रौ १६,
 १, २५; या २, १४^२.
 पुण्यकृत-तम- -मम् वैणु ३,
 २१ : ८.
 पुण्य-क्रिया- -यासु आपध १, २९,
 ५; हिध १, ७, ६१.
 ऋण्य-गन्ध^९- -गन्ध जैणु १, १८ :
 ९; ११; -गन्धः अत्र १, ४६, २;
 -गन्धाः आमिणु ३, ४, २ : १६;
 बौषि ३, २, ३; गौषि १, २, ४१.
 ऋण्य-जन^{१०}- -नाः काणु २६, ८;
 -नेभ्यः कौस् ७३, ५.
 पुण्य-तम- -मम् शंघ १००; -मात्
 गौष २०, १०; -मे आमिणु २,
 ५, ४ : ३.
 पुण्य-नदी- -द्याम् वैणु ७, ६ : १०.
 पुण्य-नामधेय^{११}- -यम् वाश्रौ ३, ४,
 १, २; हिश्रौ १४, १, ३.
 पुण्य-नामन्^{१२}- -म आपश्रौ २०, १,
 २; बौध ४, ८, ४; -मातौ बौश्रौ
 १५, १ : ६; ९; वाधूश्रौ ३, ६९ :
 २२; २३; २६; -मः बौश्रौ १२,
 १५ : ९.
 पुण्य-फल- -लम् अत्र १२, १, ८;
 वाध २८, २०; विध ५१, ७६;
 -लेषु आपध २, १४, १८; हिध
 २, ३, २८.
 पुण्य-रात्र- पा ५, ४, ८७.
 पुण्य(ण्य-ऋ)क्ष- -क्षे वैध २, १, ३.
 पुण्य-लक्ष्मी(क>)का^{१३}- -काम्
 भाणु १, ११ : १६; १.
 १पुण्य-लोक- -के बौषि २, १०, ५.
 १२पुण्य-लोक^{१४}- -काः आपश्रौ २०,

२१, ८; २२, ९; हिश्रौ १४, ४,
 ५४.
 पुण्य-वत्- -वान् वाध १६, २८.
 पुण्य-शरीर- -राणि वैणु ५, ८ : १४.
 पुण्य-सम^{१५}- पाग २, १, १७; -सम्
 बौश्रौ १४, १३ : ३१; वैताश्रौ
 ३१, ५.
 पुण्य-हृद्- -दात् वाध १५, २०.
 पुण्य(ण्य-अ)हृ^{१६}- -हम् वैश्रौ १, ४ :
 ११; कौणु १, १०, ९; शाणु १,
 १६, १०; आमिणु १, १, १ : ६;
 ४ : २८; ४३×४; बौणु; -हयोः
 आपश्रौ २२, २८, १; हिश्रौ २३,
 ४, ४१; -हानि बौश्रौ १३, १ :
 ५; -हे काश्रौ ७, १, २५; काठश्रौ
 ७२; बौश्रौ; -हेन वैणु ७, ७ : १२.
 पुण्याह-काल- -लः भाणु ३,
 १७ : २.
 पुण्याह-वाचन- पाव, पावाभ
 ५, १, १११.
 पुण्याह-समृद्धि- -द्धिः आमिणु
 २, ३, ४ : ५.
 पुण्याहा(ह-अ)दि- -दीनि
 आमिणु ३, ११, २ : २०; अत्र
 १८^२, १, २.
 पुण्याहादि-विवाचन- -नम्
 आमिणु २, ३, ३ : १.
 १पुण्याहा(ह-अ)न्त- -न्ते वैणु
 ३, ३ : १.
 २पुण्याहा(ह-अ)न्त^{१७}- -न्तम्
 वैणु ३, १२ : ६.
 पुण्याहिन्- -ही अत्र १, २३, १;
 ४; २४, १; ४; २५, १; ५.
 पुण्य(ण्य-अ)हन्- -हनि लाश्रौ
 ९, ३, ११.

a) वैष ३, ५१० q द. । b) = देश-विशेष- । व्यु. ? । c) = इक्षु-विशेष- इति पागम. । d) वैष १
 द. । e) तु. पागम. । f) वैष २, ३ खं. द. । g) त्रिप. । बस. । h) वैष १, १९९९ k द. । समास-
 विशेषः पागम. द. ।

पुण्यो(प्य-उ)क्त- क्तम् वागृ १५,
 १७; कागृ १४, ११; २८, ४; मागृ
 १, ७, ५; १४, ६; -क्तानि आपगृ
 २, १३; बौगृ १, १, २२.
 ऋपुण्यगश्च^१ अप १, २६, ५.
 पुत- पाठभो २, २, १३४.
 पुत्तलिका^२- काम अप ३६, ११, १.
 पुत्तिका^३- पाठभो २, २, ३७.
 पौत्तिका^४- कम् बौश्री २६, ६; १७.
 पुत्र^५- पाठ ४, १६५; पाग ४, १, ३५;
 ४१^६; १००; १०४; ५, ४, २९;
 -०त्र शांश्री १६, २९, ८; बौश्री;
 या ५, २५; -त्रः आश्री २, २, १३;
 ३, १४; ८, १४, ४; शांश्री; आपश्री
 १८, १६, १५^७; १७, ११; हिश्री
 १३, ६, १०^८; आपमं १, १३,
 २^९; २, १३, १२^{१०}; आगृ ४, ३,
 १८; शंघरे ८६^{११}; या २, ११^{१२};
 १३; २४xx; पा ६, २, १३२;
 -त्रम् ऋश्री २, १०, ४^{१३}; ३,
 ९, ३; शांश्री ९, २८, ३xx; काश्री;
 ऋश्री १, १२, ६^{१४}; १७, ६^{१५};
 ऋश्री १, १९, ६^{१६}; २५, ८^{१७};
 आम्रिगृ २, १, ४; १५^{१८}; मागृ २,
 १८, ४^{१९}; हिगृ २, ४, २^{२०}; कौसू
 ८८, २४^{२१}; या २, १३; २७; ३,
 ६xx; -त्रयोः काश्री १९;
 माश्री ५, १, ६, ४१; कौसू
 १११, ६; -त्रस्य शांश्री २,
 १२, १०; १५, १७, १^{२२}; काश्री;

हिष १, ७, ४५^{२३}; या ६, ६; पा,
 पावा ८, ४, ४८; -त्रा कौसू ८१,
 १९^{२४}; -त्राः आश्री ६, १०,
 ७; शांश्री; आम्रिगृ १, ५, ३;
 ५^{२५}; या ३, ४; ११, १६; १७;
 -०त्राः शांश्री १५, २७, १^{२६};
 -त्राणाम् आश्री २, ३, १३;
 शांश्री १५, २५, १^{२७}; आपश्री; या
 ३, ४^{२८}; -त्रात् अपा ३, १, ७^{२९};
 -त्रान् शांश्री १५, २५, १; २६,
 १; २७, १; बौश्री; ऋश्री १,
 १३, ३^{३०}; २, २०, २४^{३१}; मागृ २,
 १३, ६^{३२}; ऋश्री १, १९, ७^{३३}; २,
 १२, १०^{३४}; या १२, ६; -त्राभ्याम्
 शांश्री ४, २०, १^{३५}; -त्राय काश्री
 १०, ९, ५; १५, ६, १०; आपश्री;
 -ऋश्री ६, १७, १०;
 १४, १६, १; माश्री; -०त्रासः
 कौसू ६०, ३५^{३६}; -त्रे शांश्री
 १५, १७, १^{३७}; काश्री १५, ६,
 ११^{३८}; बौश्री; पा ६, ३, २२;
 -त्रेण शांश्री १५, १७, १^{३९};
 वैगृ ६, २; ६; कौसू; -त्रेभ्यः
 ऋश्री ४, १५, १; ६, २५, ४;
 बौश्री; -त्रेषु शंघ ३६८; विघ
 २२, ४३; ९४, ३; या १०, ७;
 -त्रैः आश्री ३, १४, १२; काश्री
 २५, ५, २९^{४०}; आपश्री; या १,
 १६^{४१}; -त्रौ बौश्री १८, ४५;
 १७; वैश्री २०, ३०; १; हिश्री.

पुत्री- पा ४, १, ४१; -त्री
 वाश्री २, १, ६, ३०^{४२}; वाघ १७,
 २३; विघ ३२, ७.
 पुत्रका- पावा ७, ३, ४५.
 पुत्रिका- पावा ७, ३, ४५;
 -का वाघ १७, १५; शंघ २९०;
 विघ; -काम् गौघ २८, १८;
 वृदे ४, ११०; -कायाः कप्र २,
 ७, १०; शंघ २९५; या ३, ५.
 पुत्रिका-पुत्र- -त्रः
 शंघ २९१; विघ १५, ४; -त्रम्
 बौघ २, २, १५; ३१; -त्रस्य
 बौश्री २४, ३२; १०.
 पुत्रिका-विधि- -धिना
 विघ १५, ६.
 पुत्रिका-सुत- -तः
 कप्र २, ७, १२; शंघ २९०; बौघ
 २, २, १६.
 पौत्र^४- पा ४, १, १०४; -त्रः
 आश्री २, २, १३; आपश्री १०,
 ११, ५^{४३}; बौश्री; -त्रम् आपमं
 १, ४, ७^{४४}; cxx; आगृ १, १३,
 ७^{४५}; पागृ १, ५, ११^{४६}; आम्रिगृ
 १, ५, २; ५१^{४७}xx; ३, ११, २;
 २२; कौसू ८८, २४^{४८}; या ३,
 ४; -त्राः निसू १०, ९; २३; हिगृ;
 -त्रान् जैश्रीका ८६; आपमं २,
 २०, २४^{४९}; आम्रिगृ; हिगृ २,
 १२, १०^{५०}; या १२, ६; -ऋश्री
 बौश्री १२, ८; ९; २०; -त्रेण.

a) वैप १ द्र.। b) नाप.। व्यु. ?। c) = मधुमक्षिका-। व्यु. ?। d) अन् प्र. उरं. (पा ४, ३, ११९)। e) तु. पागम.। f) पामे. वैप १, २००८ j द्र.। g) ऋ इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. मै ४, ४, ५ आपश्री १८, १७, ११)। h) पृ ४६७ b अपि द्र.। h) पामे. वैप १, २०२६ a द्र.। i) पामे. पृ १२९८ n द्र.। j) पामे. वैप १, २०२५ f द्र.। k) पामे. वैप १, २०२६ b द्र.। l) पामे. पृ ८८३ n द्र.। m) पामे. वैप १, २०२५ o द्र.। n) पामे. वैप १, २०२६ d द्र.। o) सपा. पुत्रस्य <> पुत्रत्वस्य इति पामे.। p) पाठः ? तु. संस्कृतुः टि., आगृ ४, ३, १८ पुत्रः इति च। q) पुत्रान् इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. खि २, ११, ५ हिगृ १, १९, ७)। r) पामे. वैप १, २०२७ o द्र.। s) पामे. वैप २, ३ खं. पुत्रान् मंत्रा १, १, १२ टि. द्र.। t) वैप १, २०२७ o द्र.। u) विप. (अघ-आनन्द-).। v) पामे. वैप १, २०२७ f द्र.।

कप्र २, ७, ५, ६; वाध; -त्रेषु या
१०, ७; -त्रैः बौश्रौ ६, ३१:
२२१.

पौत्र-दौहित्र- -त्रयोः विध
१५, ४७.

पौत्र-प्रपौत्रक- -कैः कप्र २,
७, ७.

पौत्र-प्रभृति- -ति पा ४,
१, १६२; -तेः पावा ४, १, १६२.

पौत्रप्रभृति-संज्ञा-करण-
-णम् पावा ४, १, १६२.

पौत्रप्रभृत्य (ति-अ)

पे(क्षा>)त्- -क्षम् पावा ४,
१, १६२.

पौत्र-मृत्यु- -त्युम्^a आपमं
१, ४, ११; आम्रिष्ट १, ५, ३: २;
बौघ.

पौत्र-वत् विध १५, ४७.

पौत्रीय- -यम् आपश्रौ २१,
२५, १२; बौश्रौ १७, १८: ११.

पौत्र्य- -त्र्यः भाग २, ३२:
९; -त्र्यम् बौध ३, ८, ३८.

पुत्रक- पा ५, ४, २९; -०क वृदे
४, ६०; -०काः बौश्रौ १८, २६;
८; वाधुश्रौ ४, १०३^c: १०; गोग
३, २, ६; -०कौ बौश्रौ १८, ४५:
१९.

पुत्र-काम, मा- -काम आपमं १,
११, १; काग ३०, ३; माग १,
१४, १६; वाग १६, १; -मः
आपश्रौ ३, ९, ४; भाश्रौ; -मम्
कागु ४०: ३; गौपि २, ३, ३१;
-मस्य आम्रिष्ट २, ४, ११: २;
वृदे ८, ८१; -मा शाश्रौ ४, ५, ८;
काश्रौ ४, १, २२; माश्रौ १, ३,
५, १६; -माः शाश्रौ १५, २७,

१; बौश्रौ १८, ४४: १७; गोग
४, ३, २७; -माम् द्राग ३, ५,
३०; -मायाः वैग ३, ९: ११;
वृदे ८, ८२; -कामायै आपमं १,
१२, ७; बौग; -कामे आपमं
१, ११, २; काग ३०, ३; माग १,
१४, १६; वाग १६, १; -मेण
हिश्रौ १०, ७, ५.

पुत्रकामा (मा-अ) वतुका-
-कयोः कौसू ३२, २८.

पुत्रकामे (म-इ) छि- -च्छाम्
आश्रौ २, १०, ८.

पुत्र-कामिन्- -मी आम्रिष्ट २, ४,
११: २५.

√पुत्रकाम्य>पुत्रकाम्या- -म्यया
वृदे ४, २४.

पुत्र-कृत- -तम् विध ६, ३३.

पुत्र-हन् (>)घ्नी- -घ्नी क्काम्रिष्ट
१, ५, ५: ४; ८; वैग ५, ९: ३.

पुत्रकन्य (घ्नी-अ)न्त^b- -न्तम् वैग
३, ४: ४.

पुत्र-ज(गध>)ग्धी- पावा ८, ४,
४८.

पुत्र-जन्मन्- -न्मना वाध १५, २१.

पुत्र-जात^c- पाग २, २, ३७.

पुत्र-ज्यानि- -निम् वैश्रौ १, १९: २.

पुत्र-ता- -ताम् शाश्रौ १५, २५,
१^dक; ऋअ २, ८, १; वृदे ३,
११५.

पुत्र-त्रय- -यम् विध १८, ६.

पुत्र-त्व- -त्वम् वाध १७, १६; ३५^dक;
आज्यो १४, ३; -त्वस्य आपध
१, २८, ९^d.

पुत्र-दर्शन- -नम् मीसू १, २, १३.

पुत्र-दायाद्य- -द्ये या ३, ३.

पुत्र-दार^e- -रम् अप ६७, १, १.

पुत्र-दौहित्र- -त्रयोः शंघ २९०.

पुत्र-नामन्- -मानि शाश्रौ ४,
१२, १०.

पुत्रनाम-ग्रहण- -णम् काश्रौ ४,
१२, ११.

पुत्रनामन्- -मा आपमं २.
११, ३३; १४, ३; आग; या ३, ४.

पुत्र-पति- पाग २, २, ३१; -त्योः
पा, पावा ६, १, १३.

पुत्र-प(ति>)त्नी^e- पा ४, १, ३५.

पुत्र-पशु- पाग २, २, ३१; -शवः
वाग १०, १५.

पुत्रपशु-काम- -मः गोग ४, ५,
१५; ७, १५.

पुत्र-पुत्रा(त्र-आ)दि(न् >)नी-
पावा ८, ४, ४८.

पुत्र-पौत्र- पाग २, ४, ११; -त्रम्
बौध १, ५, ९५^e; -त्राः काठश्रौ

२५; ४३; भाश्रौ ८, ६, १; चाअ
३९: १९; -त्रेभ्यः हिग १, २२,
१४; -त्रैः आम्रिष्ट २, ४, ६:

४३.

पुत्रपौत्र-ल- -लस्य बौध १, ५,
१०२.

पुत्रपौत्र-प्रति(छा>)ष्ट^e- -ष्टस्य
शंघ ७४; २८४.

पुत्रपौत्र-व(त् >)ती- -ती
आम्रिष्ट २, ७, ६: ५.

पुत्रपौत्रा(त्र-आ)दि- -दीन्
जैश्रौका ८७.

पुत्र-पौत्रक- -कम् वाध १७, ८६.

पुत्र-भागा(ग-अ)नुसार- -रेण विध
१८, ३४.

पुत्र-भार्या- -र्यायै हिपि १८: २३.
पुत्र-भाव- -वः या ३, ५; -वम्
या ३, ४.

a) पाभे. वै १, २०२७ h द्र. । b) =मन्त्र-विशेष- । बस. । c) विप. । बस. । d) पाभे.

पृ १५८८० द्र. । e) समाहारे दस. ।

पुत्र-भ्रातृ-तरः आपश्रौ ११, १६,
१४.
पुत्र-भ्रातृ-सपिण्ड-पढाः आमिष्ट
२,४,४ : १५.
पुत्र-मर्त्या^a-मर्त्याम्^b हिश्रौ ३, ६,
२; -मर्त्याम्^b आपश्रौ ५,
२६,३; माश्रौ ५, १७, ५.
पुत्र-मात्र-त्रः वैगृ १, १ : १२.
पुत्र-मित्र-सखि-शब्द-ब्दाः
नाशि २,३,१०.
पुत्र-मुख-खम् शंभ २८५.
पुत्र-यजमान-नयोः काश्रौ १५,
५, ११.
पुत्र-लाभ-भात् वाध १७, ४१.
पुत्रलाभा(म-आ)दि-काङ्क्षण-
-णम् वैध १, ९, १००.
पुत्र-वत् शंभ २९०.
पुत्र-वत्-वते बौश्रौ १३, ७ : १;
हिश्रौ २२, २, १७१; -वन्तः
वाध १७, १०; -वान् पागृ ३,
१०, ५०; हिपि.
पुत्रवती-०ति मागृ २, १४,
३०; -ती बौश्रौ ९, ७ : ६;
मागृ १, १०, १७१; वैगृ.
पुत्रवन्ती-न्त्यः वाध १७,
११.
पुत्र-वल^d-पावा ५, २, ११२.
पुत्र-वासस^e-ससा गोगृ ४, १०,
११.
पुत्र-वत् >०तिन्-ती वागृ ३,
१२.
पुत्र-शत-ते बृदे ६, २८; ३४.
पुत्र-शब्द-ब्दः ऋप्रा ४, ५९१.
पुत्र-शिव्य-हित-ताय अप २३,

१४, ३.
पुत्रशिव्यहितै(त-ए)षिन्-
-षिभिः नाशि १, ८, ५.
पुत्र-शोक-परिप्लुत-तः बृदे ६,
२८.
पुत्र-समन्वि(त>)ता-ताः अप
५७, ४, ४.
पुत्र-स्थान->०नीय-न्याः वाध
१७, ८१.
पुत्र-ह(त>)ती-पावा ८, ४, ४८.
पुत्र-ही(न>)ना-नायाम् वैगृ ६,
२ : ७.
पुत्रा(त्र-आ)गम-मम् अप ६८,
२, ३०.
पुत्रा(त्र-अ)द^f->पौत्राद^f-
-दम् अप्रा ३, १, १७१.
पुत्रा(त्र-आ)दि-दिः कप्र ३, २, ८;
४, ४.
पुत्रादि-मृत^h-तम् वैश्रौ २१,
९ : १.
पुत्रादि-हीन-नस्य वैश्रौ २१,
९ : १.
पुत्रा(त्र-अ)न्त^h-न्तात् पा ४, १,
१५९.
पुत्रा(त्र-अ)भाव-वे शंभ १८८;
आपध २, १४, २; हिध २, ३,
१३; गौध १५, १३.
पुत्रा(त्र-अ)मात्य-परिवृत्-ताय
आश्रौ ९, ३, ९; १०, ६, १०.
पुत्रा(त्र-अ)र्थⁱ-र्थः मौसू ६, ८,
१११.
पुत्रार्थिन्-र्थी अप २२, ९, ३;
१०, ३; आज्यो १३, ३.
२पुत्रा(त्र-अ)र्थ-र्थम् वैगृ ६, २ :

८; १२ : ५.

पुत्रा-वल-पुत्रवल-टि. द्र.
पुत्रिन्-त्रिणः शांश्रौ १५, १७,
११; माश्रौ ६, १, ७, १७; वाध;
-त्रिणम् आपमं २, ११, ६;
-त्रिणा आपमं १, ११, १०;
-त्रिणाम् वाध १७, २; -त्रिणे
बौश्रौ १३, ७ : १; -त्री आश्रौ
२, १०, ८; वाधूश्रौ २, ३ : २;
वाध ११, ४८१.
पुत्रिणी-णी आज्यो १३, ६.
पुत्रिय, पुत्रियन्ति^k अप्रा ३, १,
१४१.
पुत्रिय, या^l-यम् वाधूश्रौ २, ३ :
६; -याम् कागृ २५, २०१.
पुत्रीय, पुत्रीयते अप ६९, ५, २.
पुत्रीयत्-यन्तः^k ऋप्रा ९,
१६१.
पुत्रीय-पा ५, १, ४०.
पुत्रे(त्र-इ)ष्टि-ष्टिः कागृउ ४३ :
१५.
पुत्रो(त्र-उ)क्त-क्तम् ऋप्रा २, ७,
३२; अप्रा २, ७९.
पुत्रो(त्र-उ)पचार-रेण शंभ २८६.
पुत्र्य-पा ५, १, ४०; -त्र्यः आगृ ४,
८, ३५; पागृ ३, ८, २; -त्र्यम्
वागृ २, ६१; द्रागृ ४, २, १३;
बौध ३, ८, ३८.
पुत्र-क-पुत्र-द्र.
२पुत्रक^m-(>पौत्रक्य-पा.) पाग
५, १, १२८.
पुत्र-काम-प्रमृ. पुत्र-द्र.
पुत्रिक^m-(>पौत्रिक्य-)
पुत्रिका-प्रमृ. पुत्र-द्र.

a) उप. = मृत्यु-। b) परस्परं पाभे.। c) °भाह्निका इति C.। d) तु. पाम.। पुत्रावल- इति पागम.। e) वैप २, ३खं. द्र.। f) पाभे. वैप १, १४५१ h. द्र.। g) वैप १ द्र.। h) विप.। बस.। i) कस.। j) अपुत्रा इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. जीसं. प्रयासं. प्रमृ.)। k) पाभे. वैप १, २०२८ g. द्र.। l) तस्मैहितमित्यर्थे ब>इयः प्र. उलं. (पा ४, ४, ११७)। m) तु. पाका.। पुत्रिक- इति भाष्या. प्रमृ.

√पुथ् पाधा. दिवा. पर. हिसायाम्;
चुरा. पर. भाषायाम्.

पुद्^२- पुव या २, ११.

२पुन्-नामन्^१- -म्नः शंघ २८६;
विध १५, ४४.

पुनत्- √पू द.

पुनर्(,;श्)^० आश्रौ २, ३, ७; ५,
२१××; शाश्रौ १, ६, २××;
८, १०, ११^१; काश्रौ; माश्रौ
१, ३, ४, २३^१; आपमं १, ५,
३^१; २, २२, ७^१; आश्र ३,
६, ८^१; पाश्र १, ७, ३^१; काश्र;
भाश्र २, २७: ५^१; माश्र २, १८,
४^१; कौसू ७२, १४^१; या १,
२०; २, ९; २४××; १०, १८^१;
१४, ३५^१; पुनःऽपुनः आश्रौ २,
२, ११; १६, ४××; शाश्रौ; माश्र
१, २१, ३^१; या ६, २७; पाश्र
५, १, १२४.

पौनःपुन्य- पा ५, १, १२४.

पुनः-करण- -णे वैताश्रौ २८, १२.

पुनः-कल्पना(न-आ)दि- -दि
आमिष्ट २, ३, २ : १४.

पुनः-काम- -मस्य आपश्रौ ५, २९,
३.

पुनः-पचन- -नम् शंघ १७६.

१पुनः-पद- -दम्, -दस्य शाश्रौ ७,
२६, ६.

२पुनः-प(द >)दा^१- -दानाम्
शाश्रौ ७, २६, ८.

पुनः-परिधान- -नम् काश्रौ १५,
५, १६.

पुनः-पाक- -कः वाध ११, १२;

-क्रेन वाध ३, ५८; ५९; विध
२३, ३३.

पुनः-प्रमाद- -दे आपध २, २८, ८;
हिध २, ६, ८.

पुनः-प्रयोग- -गः आपश्रौ ९, १, ७;
हिश्रौ ५, ६, ८; मीसू ११, ४,
४४; -गात् मीसू १०, ६, २९;
११, ३, ३१××; -गे वैताश्रौ
९, २५.

पुनः-प्रवृत्ति- -त्तिः मीसू ८, ४, १४.

पुनः-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा ६, १, १३२;
७, १, ७२.

पुनः-प्रसङ्ग-विज्ञान- -नात् पावा
७, १, ८२; २, १; ४, १०.

पुनः-प्राध्वेषण- -णम् शाश्र ६, २, ८.

पुनर्-अग्न्याधान- -नम् वैश्रौ १,
२० : १२.

पुनर्-अग्न्याधेय- -यस्य वैश्रौ १,
१९ : १.

पुनर्-अन्वाधाय बौश्रौ २४, २२ :
३; ५.

पुनर्-अभिद्योत्य बौश्र २, ३, ११^१;
बौधि २, ९, ४^१.

पुनर्-अभिहित- -तः आपश्रौ ५,
२९, ३.

पुनर्-अभ्यास- -सेन बौश्रौ २६,
१२ : २०.

पुनर्-अभ्युद्धृत- -तेषु निसू ९, ८ :
३१.

पुनर्-अभ्युकीय बौश्रौ १४, २३ :
२४.

पुनर्-अवज्योत्य काश्रौ ४, १४, ५.

पुनर्-भागत- -ते वैश्र ६, १४ : २.

पुनर्-आदधान- -नस्य बौश्रौ २४,
१९, ३.

पुनर्-आदाय आश्रौ ३, १, १४^१;
काश्रौ २, २, १६; ६, ५, ५.

पुनर्-आदायम् शाश्रौ ९, २०, ६;
१८, ४-५, ३; वैताश्रौ २२, ८;
२६, ३; कौश्र ३, ३, १^०; शाश्र
३, ४, ५; ६, ३, १२.

पुनर्-आधान- -नम् बौश्रौ २९, १२ :
१५; हिश्रौ १५, ३, ५; आमिष्ट.

पुनराधान-कर्मन्- -मणि कप्र
३, १, १४.

पुनराधान-नक्षत्र- -त्राणि वैश्रौ
१, १९ : १२.

पुनर्-आधास्यमान- -नः बौश्रौ ३,
१ : १.

पुनर्-आधेय^१- -यः बौश्रौ १४,
१९ : ३४; वैश्रौ २०, ९ :
४; १४ : २; हिश्रौ; -यम्
आश्रौ ३, १२, २९; शाश्रौ
२, ५, १; काश्रौ; -यस्य बौश्रौ
३, १ : ३; हिश्रौ ६, ५, ३९;
-यात् बौश्रौ ३, ३ : १४; भाश्रौ
५, २१, ११; हिश्रौ ३, ६, २७;
-ये आश्रौ २, ८, ४; शाश्रौ ८,
१३, ४; वाश्रौ १, ५, १, ६; हिश्रौ
६, ५, ३९; -येन शाश्रौ १४, ४, १.

पौनराधेयिक- -कात् बौश्रौ
२४, १० : २; -कानि बौश्रौ
२०, १९ : ८; -क्रेन बौश्रौ २४,
१९ : २.

पौनराधेयिकी- -की
आश्रौ २, १५, १०; ६, १४, २४;

a) वैप १, २०२४ n द.। b) विप.। बस.। c) वैप १ द.। d) पाभे. वैप १, २०२९ ० द.।

e) पाभे. वैप १, २०२९ h द.। f) पाभे. वैप १, १४४९ ० द.। g) पाभे. वैप १, १०५९ d द.। h) सपा.

आपमं २, २२, १० पाश्र ३, ७, ३ विशिष्टः पाभे.। i) पाभे. वैप १, १२१८ d द.। j) पाभे. वैप १, २०२८ ० द.।

k) पाभे. वैप १, ९३३ i द.। l) पाभे. वैप १, ७४४ l द.। m) पाभे. वैप १, १६३९ l द.। n) पृ २९४ सङ्कत्

सस्थ. अभिद्योत्य इति नेष्टम्। o) थ्य इति पाठः? यनि. शोघः। (तु. शाश्र.)। p) विप., नाप. (अभि-विशेष.)। गसः।

शांश्रौ ८, १३, ५; -कीः आपश्रौ
 ५, २९, १; भाश्रौ ५, २०, १३;
 हिश्रौ ६, ५, ३९.^२
 पुनराधेय-काल- -लः शांश्रौ २,
 ५, ४; भाश्रौ ५, १७, ७.
 पुनराधेय-दक्षिणा^२- -णाः बौश्रौ
 ३, ३ : १; २०, १९ : ११;
 भाश्रौ ५, २०, १४.
 ?पुनराधेय-धर्म^२- -र्म बौश्रौ
 २५, २६ : १५.
 पुनराधेय-नक्षत्र- -त्राणि भाश्रौ
 ५, १९, १; हिश्रौ ३, ६, ६.
 पुनराधेय-वत् मीसू १०, ५, ४७.
 पुनर्-आम्नान- -नम् लाश्रौ ९, ६,
 २३; -नात् लाश्रौ ९, ६, २०.
 पुनर्-आयण- -णः अप्राय १, ४, १.
 पुनर्-आरम्भ- -म्भः मीसू ९, १,
 ३५.
 पुनर्-आलम्भ^२- -म्भः बौश्रौ २४,
 ३६ : २; -म्भम् आपश्रौ ४,
 १६, १२; बौश्रौ; -म्भात् बौश्रौ
 २१, ८ : ३६; -म्भेन बौश्रौ २६,
 १२ : २०.
 पुनर्-आवृत्त- -त्तम् बौश्रौ २६,
 २६ : १.
 पुनर्-आवृत्ति- -त्तिः आश्रौ ३,
 १४, ३; कौश्रु ३, १२, २२; काश्रुज
 ४१ : २३.
 पुनरावृत्ति-दुर्लभ- -भम् अप
 ४०, ५, ३.
 पुनर्-आस्तरण- -णे बौश्रौ २०, ७ :
 १३.
 पुनर्-आहार- -रः काश्रौ २५, ११,
 ८; १४, ३४.
 पुनर्-आहारम्^२ आपश्रौ २, ६, ७;

बौश्रौ १, १२ : ४६; भाश्रौ.
 पुनर्-इज्या- -ज्या आश्रौ ३, १०,
 १९; वैश्रौ २०, ५ : ६.
 पुनर्-इष्टि- -ष्टिः अप्राय ४, २.
 पुनर्-उक्त-पाग ४, २, ६०^०;
 ३, ७३^०; -क्तम् तैप्रा १, ६१;
 -क्तस्य लाश्रौ ६, १२, ८; -क्ते
 माश्रौ २, ५, २, २६.
 पौनरुक्त- पा ४, ३, ७३.
 पौनरुक्तिक- पा ४, २, ६०.
 पुनर्-उत्सृष्ट- -ष्टः काश्रौ १५, १,
 १२; आपश्रौ १९, १६, १६;
 बौश्रौ; -ष्टम् काश्रौ ७, १, ६;
 बौश्रौ ३, १ : ५; ३ : २; माश्रौ
 ५, २, १०, १६.
 पुनर्-उत्स्यूत- -तः शांश्रौ २, ५,
 २७; -तम् आपश्रौ ५, २९, ३;
 बौश्रौ.
 पुनर्-उपक्रम- -मे निसू ३, ५ : ११.
 पुनर्-उपनयन^२- -नम् आमिश्रु २,
 ७, १ : १; वैश्रु ६, ९ : ९; १० :
 १; वाघ २०, १७.
 पुनर्-उपाकरण- -णात् गोश्रु ३,
 ३, १६.
 पुनर्-उपादान- -नम् वैश्रौ २१,
 ११ : १.
 पुनर्-ऊह- -हः निसू २, १ : ८.
 पुनर्-नामन- -नम् अप ४०, ६, १४.
 पुनर्-ग्रह- -हः बृदे २, ९७.
 पुनर्-ग्रहण- -णम् काश्रौ १, ४, ७;
 २५, ५, २०; बौश्रौ १४, २६ :
 १०; -णात् काश्रौ १, ४, ६;
 १०, ६, १२.
 पुनर्-ण^२, नव, वा^२- -वः अश्रा १,
 १०३; ५, ५३; -वः शांश्रौ १५,

१७, ११; माश्रौ १, ६, ५,
 ११; वाश्रौ १, ५, १, १७; -वम्
 बौश्रौ ३, ८ : १७; -वाः बौश्रौ
 १८, १२ : १३.
 पुनर्-दर्शन- -नात् अप ५३, ६, ४.
 पुनर्-दहन-प्रभृति- -ति वैश्रु ७, ६ :
 ३.
 पुनर्-दहन-मन्त्र- -न्त्रेण बौपि २,
 ३, १२; हिपि १२ : ११.
 पुनर्-दहना(न-अ)न्त^२- -न्तम्
 आमिश्रु ३, ७, ३ : २९; बौपि २,
 ३, २; हिपि १२ : ९.
 पुनर्-दातृ- -त्रे आश्रौ २, १०, १५.
 पुनर्-दाय^२- -पाग २, १, ७२.
 पुनर्-दाह- -हः काश्रौ २५, १३,
 ४४; आमिश्रु ३, ७, ४ : ७; बौपि
 २, ३, १.
 पुनर्-दीक्षा- -क्षायै हिश्रौ १०, ५,
 ४१.
 पुनर्-दोह- -हाय आपश्रौ १, १३,
 १०; बौश्रौ १, ३ : २७; भाश्रौ
 १, १३, १४; हिश्रौ १, ३, ४४.
 पुनर्-धेनु- -नुः लाश्रौ ९, ४, ७.
 पुनर्-निष्कृत^२- -तः आपश्रौ ५,
 २९, १; बौश्रौ २४, १८ : ९;
 भाश्रौ ५, २१, १; वैश्रौ १, २० :
 ८; हिश्रौ ६, ५, ३९; -तम् बौश्रौ
 ३, १ : ४; ३ : १.
 पुनर्-भक्ष- -क्षः आश्रौ ५, ६, ५.
 पुनर्-भृ^२- -पाग ४, १, १००; १०४;
 पावा ६, ४, ८४; -भुवम् सुघप
 ८६ : ४; -भृः कुंवाघ १७, १९;
 २०; विध १५, ८४; -भ्वः शंघ
 ८४; -भ्वाम् बौध २, २, २७.
 पौनर्भव, वा^२- -पा ४, १,

a) उप. = २दक्षिणा । b) पाठः ? तु. संस्कृतुः टि. । c) वैप १ द्र. । d) वैप २, ३ सं द्र. ।
 e) = प्रत्य-विशेष- । f) विप. । बस. । g) बौश्रौ (१८, १२ : १३), माश्रौ. पाठः । h) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेष्टः
 द्र. । i) नाप., व्यप. । वैप १ द्र. । j) नाप. । अपत्ये-अन् प्र. ।

१०४; -वः वाध १७, १८; शंघ
२२१; बौध २, २, २७६; विध
१५, ७६; -वम् बौध २, २, ३२;
-वाः काध २८०:१; -वेन
बौध ४, १, १८.

पौनर्भवा-दग्ध- -ग्धम्
काध २८०:७.

पौनर्भवायण- पा ४, १,
१००.

पुनर्भू-प्रस(व>)वा^a- -वा काध
२८१: ४.

पुनर्-मघ^b- -वः भाशि ३२१.

पुनर्-मृत्यु^c- -न्युम् बौध २, ११:
२२१; २८, ४: ३२; वाध १, ३,
९: २२; हिश्रौ १८, ४, ६१; बौध
३, ८, ६; बौध २, ६, ८.

पुनर्-यज्ञ^d- -ज्ञः काश्रौ २५, १२,
२१; १४, २९; -ज्ञे काश्रौसं
३४: २; बौध १८, २२: ९;
वैश्रौ २१, १३: ४; ६; हिश्रौ
१५, ६, ४०; ४३.

पुनर्यज्ञ-पथ- -थम् शाश्रौ १६,
१०, ८.

पुनर्-युवन्^e- -वानम् माश्रौ ६,
१, ८, १०; वाश्रौ २, १, ८, ७.

पुनर्-वचन- -नम् पावा १, १, ३३;
३, ३, १२××; मीसू; -ने ऋश्रा
१०, १६.

पुनर्-वत्^f- -वताम् काश्रौ २२,
१०, १७.

पुनर्वती- -तीभिः माश्रौ ६, १,
४, १२; ३८; -तीभ्याम् माश्रौ
६, १, ४, ३५.

पुनर्-वत्स^g- -त्सः लाश्रौ २, ४, ७;
ऋश्र २, ८, ७^h.

पुनर्-वरण- -णम् काश्रौ २५, ११,
९.

पुनर्-वसु^b- -सवे गौध २६,
१२१^h; -सुः वाश्रौ १, ५, १, ५;
अप १, ३७, ५१; अशां ७, ५१;
-सुभ्याम् बौध ३, १: ७; २४,
१८: ५; शाण् १, २६, ५१^h;
अप १, ४३, ५; ४८, ३; अशां
१२, १; -सुम् अशां १, ६; -सू
शाश्रौ २, ५, ५; आपश्रौ; -सू-
भ्याम् वैश्र ३, २०: ४१^h; -०सो
अशां १, ६; -सोः अश्र १, २७, २;
-सौ विध ७८, १२; -स्वा अप
१, ९, ८; -स्वोः काश्रौ ४, ११,
५; आपश्रौ ५, ३, ७; बौध १;
पा १, २, ६१.

२पुनर्वसु- पा ४, ३, ३४.

पुनर्वसु-विशाखा- -खयोः पावा
१, २, ६२.

पुनर्-विधान- -नम् पावा ३, ३,
१०; -नात् पावा ७, २, ४४; -ने
पावा ७, २, ३७.

पुनर्-विवाह- -हम् वैश्र ६, ११:
१२; १२: ९; १३: २; ८; -हे
वैश्र ६, ११: १२.

पुनर्-हविस^b- -पिः बौध ७,
१८: ६; १९: ७××; माश्रौ;
-विषम् माश्रौ २, ४, ३, १४; २४.

पुनर्-हुति- -तिम् काण्ड ४१: १६.

पुनर्-होम^c- -मम् आश्रौ ३, ११,
१८; वैश्रौ २०, ५: ६; ११: ७;

वैश्र ६, १८: १०; -मान् काण्ड
४१: १५.

पुनर्-चिति^b- -तिः आपश्रौ १७,
२४, ११; बौध २५, ३०: १०;
माश्रौ ६, २, ६, २८; हिश्रौ ११,
१, २; -तिम् काश्रौ १७, १२, १८;
१८, ६, ३३; बौध १; -तौ बौध
२३, १४: १९; वैताश्रौ २९, ९.

पुनः-शिला^a->पौनःशिला^a- -लम्
कौसू ६६, १५.

पुनः-श्रुति- -तिः मीसू २, ४, २९;
४, २, २४××; -तौ मीसू १०,
८, ४२.

पुनस्, ^b-संभव- -वे आपध १, ५,
५; हिध १, २, ५.

पुनस्, ^b-सर्ग- -र्गो आपध २, २४,
६; हिध २, ५, १७१.

पुनस्, ^b-सिद्ध- -द्धम् वाध १४, २८;
गौध १७, १३; सुधप ८८: ३.

पुनस्^m, ⁿ-स्तोम^c- -मः काश्रौ २२,
१०, १६ⁿ; -मे वैताश्रौ ३९, १७;
-मेन आपश्रौ २२, ११, १ⁿ;
काश्रौसं; हिश्रौ १७, ५, १ⁿ; बौध
१, १, २०; ३, १०, ७; -मौ बौध
१८, ४७: २३.

पुनः-संस्करण- -णम् काश्रौसं ३३:
१०; ११; १५; माश्रौ ३, १, १९.

पुनः-संस्कार- -रः वाध २०, १९;
२३, ३०; -रम् आमिण् २, ७, १:
१६; ३, १०, ५: १; ३; वाध;
-रे वैश्र ६, १०: ५.

पुनः-संस्कार-कर्मन्^c- -र्मणि वाध
२०, १८.

a) विप. । बस. । भूः प्र^o इति पाठः? यनि. शोधः (तु. पमा १, २, ५७) । b) वैश्र इ. द. । c) वैश्र
२, ३३. द. । d) = पुनःशब्दवत्- । e) नाप. । तस. । f) = ऋषि-विशेष- । g) = देवता-विशेष- ।
h) सप्र. °सुभ्याम् <> °सुभ्याम् इति पाठे. । i) = ओषधि-विशेष- (तु. पुनःसरा- [शौ ४, १७, २] इति P.W.) ।
j) विप. (मधुमन्थ-). तस्येदसीयः अण् प्र. । k) हिध. पाठः । l) वाध. पाठः । m) काश्रौ. आपश्रौ.
काश्रौसं. बौध. पाठः, बौध. स-ल्लोपः । n) सप्र. °मः <> °मेन इति पाठे. ।

पुनःसंस्कार-विधि- -धिम् बौधि
३,८,१.

पुनःसंस्कृत- -तः शाश्रौ २,५,२७;
काश्रौ ४, ६, १९; बौश्रौ २४,
१८:१०; लाश्रौ ९, ४, ७;
-तम् बौश्रौ २४,१८:१७.

पुनःसंनहन- -ने वैश्रौ ८,३:१४;
हिश्रौ ५,१,११.

पुनःसवन- -नम् बौध ३, १०,७;
गौध १९,८१.

पुनान- √पू.द्र.

√पुन्थ पाधा. भ्वा. पर. हिंसासंक्ले-
शनयोः.

पुनक्षत्र-प्रथ. पुंस्-द्र.

पुत्राग^१- > षा-चम्पक- -कौ अप
२६,५,५.

शुं-नामन्- पुंस्-द्र.

२पुन-नामन्- पुद्-द्र.

पुपुष्वस्- √पुष्.द्र.

पुम्^०- ऋत ४, २,३; पुमः शौच २,
२५; पा ८,३,६.

पुमां,मांस्^०- पाठ ४, १७८; पा ७,
१,८९; -मांसः माश्रौ २,२,४,
२३; आश्रु १, ७, ३१; वाघ;
-मांसम् आपश्रौ १, १०, १११;
५, ११, ६१; १९, १६, १३; बौश्रौ;
कौश्रु १, १२, ६१^०; शांश्रु १,
१९, ७१^०; या ३, ४, ९, १५१;
-१मांसौ कौश्रु १, १०, २४^२;
शांश्रु १, १७, ९^०; पाश्रु; -मान्
शांश्रौ १६, ११, १७; आपश्रौ
७, ११, ९; बौश्रौ; आपमं
१, १३, २^३१^०; कौश्रु १, १०,

२४^३१^०; शांश्रु १, १७, ९^३१^०;
आश्रिष्ट १, ५, ५: १६१^०; बौश्रु
४, १, १०^३१^०; या ३, ४, ६; २,
१५१^०; १४, ६; पा १, २, ६७.

पुं-मुहुस्- पुंस्-द्र.

√पुर् पाधा. तुदा. पर. अग्रगमने.

पुर्^०- पा ३, २, १७७; ५, ४, ७४;
पुरः आपश्रौ ११, ४, ८; १६,
१४, ५१; २१, १२, ३; बौश्रौ;
पुरम् १आश्रौ ५, १३, ६; ८, १२,
७; आपश्रौ; पुरा आश्रौ १०,
३, २५^०; १पुराम् आश्रौ ७, ८,
३; शांश्रौ ८, १७, १^२; १२,
२६, २१; बौश्रु; या ६, १३६;
पुरि आपध २, २५, ३; हिध २,
५, १८१; पूः काश्रौ २३, ५,
२७^०; आपश्रौ १४, २६, ११;
वाश्रुश्रौ ४, १९^२: १५^०; हिश्रौ;
पूभिः बौश्रौ ९, ८: १९१.

पुरं-दर^०- पा ३, २, ४१; ६, ३, ६९;
-रः अप १, ४०, ११; ७, १,
२; अशां; या ७, १३; -रम्
वैताश्रौ ५, १४; अप ७, १, ७;
बौध २, ९, ५.

पुरि-शय- -यः या १, १३; २, ३.

पुरि-वाद्^०- -द्ः या २, ३.

पू-पति- -तिम् उस् ६, १^१.

१पुर-भिद्^०- -मित् आश्रौ ५, १६,
३; ७, ५, २०; ९, ८, १८; शांश्रौ
७, २३, ६; वैताश्रौ.

पूर-याण^०- -णः शौच ३, ८३.

१पुर^०->पुर्-तस्^१(ः) वैश्रु ५, ५: २;
कप्र २, ८, १; पिं ३, ४१.

२पुर^०- पाग २, ४, ३१; ६, २, १९३;

-रम् आपध १, २२, ७; २, २५,

२; ५; विध; -रस्य अप ६९,

३, ५; -राणाम् अप ७०^३, २०,

५; -राणि अप ५७, १, ४; -रे

अप ५७, २, ७; ६४, ८, २^३xx;

पा ६, २, ९९; -रेषु अप ३, ३,

७; ७०^३, ७, २.

पुरो- -रीः वृदे ७, ५२.

१पौर^०- -रः गौध ६, १०; १५;

-राः अप ५१, ४, ३; -रेषु अप

७२, ३, १२.

पौर-सख्य- -ख्यम् आपध

१, १४, १३; हिध १, ४, ४५.

पुर-शोभ- -भः अप ५८^३, ४, २.

पुर-गोपुर- -रेषु अप ७०^३, ११, २०

पुर-ग्राम-निवेशन- -नम् अप ६४,

४, ७.

पुर-दुम- -माणाम् अप ७०^३, ११, १९

पुर-द्वार- -द्वारि बौध २, ३, ३४.

पुर-द्वार- -रे अप ५८^३, ४, २; ६४,

५, ३; ७०^३, ६, १.

पुर-मध्य- तस्^(ः)अप ७०^३, ७, ४.

पुर-मध्य-स्थ- -स्थाः अप ७०^३,

५, ५.

पुर-मुख्य- -ख्ये अप ७०^३, १०, २.

पुर-राष्ट्र-हानि- -निः अप ३, २, ५.

पुर-रेणु-कुण्ठित-शरीर- -रः बौध

२, ३, ५३.

पुर-रोध- -वः अप ६३, ३, १;

-धम् अप ६३, ४, २.

३पुर^०- पाग ४, १, १२३; १५१.

३पौर- -रः ऋध २, ५, ७३.

a) =पुष्प-भेद-। व्यु. ?। b) =पुंस्-। c) वैप १ द्र.। d) पुमांस्त्वम् इति पाठः? यत्नि. शोषः (तु. सप्र. शौ ३, २३, ३ शांश्रु १, १९, ७)। e) पाभे. वैप १, २०३२ g द्र.। f) एकतरत्र पुमांसं व^० इति पाठः? यत्नि. च संव^० इति च शोषः (तु. BC.)। g) वैप १, २०३२ k द्र.। h) =दशरात्र-याग-। i) उस्- उप. < √ष (<स)द्। शा^० इति स्क्र.। j) वैप १, २०३३ h द्र.। k) =पुरस्। l) वैप ३, ५२५ t द्र.। m) पुद्- इत्यनेन सन्यायता द्र.। n) विप., आप.। तात्रभक्तिः अण् प्र.। . o) व्यप.। व्यु. ?।

१पौर्ये- पा ४,१,१२३.
 पौर्य- पा ४,१,१५१.
 पुरक^a-(>पुरका=न>]ण- पा.)
 पाग ६,३,११६.
 पुरग- पाग ४,२,८०; ६,३,११६.
 पौरगीय- पा ४,२,८०.
 पुरगा-व(न>)ण- पा ६,३,११६;
 ८,४,४.
 १पुरण- पाउ २,८१.
 २पुरण- (>√पुरण्य पा.) पाग ३,
 १,२७.
 पुरंदर- पुर- द्र.
 †पुर(स>)न-धि^b- -धिः आपमं
 १,३,३; पाग १,६, ३; आमिण्य;
 यादि, १३६; ११, २; -धिम् आश्रौ
 ३, ७, १४; शांश्रौ ८, १८, १९;
 १४, ७१, ४; आपश्रौ; या ६, १३;
 १७; -धी^c अप ४८, ६०; निघ
 ३, ३०; -ध्या या १२, ३०;
 ऋप्रा ८, २८.
 पुरन्धिया^d वृदे ३, ७९.
 पुरन्धि^e-> ण्निन्नात्र- त्रे विध
 ९९, १४.
 पुरस्^f(,;:श) पा १, ४, ६७; ५, ३,
 ३९; पाग १, ४, ५७; ५, १, १२४;
 †आश्रौ ४, १३, ७; ८, १४, ४;
 शांश्रौ; आपश्रौ १३, २४, १९†^g;
 बौश्रौ ४, ११; २२†^g; वैश्रौ १६,
 २८; ७†^g; हिश्रौ १०, ५, ४८†^g;
 वाघ १, १५†^g; बौघ १, १,
 २८†^g; या २, १२; ९, १६†^g;
 पुरःपुरः हिश्रौ ४, १, ३१.

पौरस्य- पा ४, २, ९८; -स्यः
 वैश्रौ १४, ४; २; -स्यत् वैश्रौ
 १४, ४; ३; ७^३; -स्ये वेज्यो १६.
 पौरस्य- पा ५, १, १२४.
 पुर-उपरिष्टाज्-ज्योतिष्मती^h- -ती
 अत्र ४, ३८.
 पुर-उष्णिहⁱ- -ष्णिक् शांश्रौ ७, २७,
 ३; निसू १, २; ८; २, ११; २७;
 २८; ऋअ; -ष्णिहः शांश्रौ ७,
 २७, २१; अत्र ५, २७; -ष्णिहौ
 ऋअ २, ८, ९८; अत्र २, २४†^k;
 ६, २; १५, १४.
 पुरउष्णिक्-बृहत्य(ती-अ)
 लुष्टुब्-अन्त^l- -न्तम् ऋअ
 २, ८, ३०.
 पुरउष्णिग्-अन्त^m- -न्तः ऋ २,
 ८, ४.
 †पुर-ष्टुⁿ- -ता आश्रौ ४, ४, २;
 १२, २; शांश्रौ ५, ६, २; काश्रौ;
 -तारः शुप्रा २, ६१; -त्रा शांश्रौ
 १५, २७, १.
 पुरः-ककुम्सती^o- -ती अत्र ७, ७०;
 १९, ४०.
 पुरः-पर-शाकर (र>)रा^p- -राः
 अत्र १३, १.
 पुरः-परोष्णिह^q- -ष्णिक् अत्र
 ७, ६७.
 पुरः-प्रसन्नण^r- -णाः ऋप्रा ४, ५०†^r.
 पुरः-शाकरी^s- -री अत्र ४, २९.
 पुरः-शाकव(र>)रा^t- -रा अत्र
 १३, २.
 पुर(स>)श-चक्र^u- -क्रम आपश्रौ

१२, ७, २; वैश्रौ १५, ८, ८.
 †पुरश्रर^v आपश्रौ १, ६, २; १५,
 ४, १२; ५, ४××; बौश्रौ.
 पुरश-चरण^w- -णः कृअप ७०, २, १;
 ९, २; -णम् बौश्रौ २, ६; २;
 अत्र २२, १०, ४; ४१, ३, ९; -णे
 निसू १०, ११; २.
 पौरश्ररणिक- पा ४, ३, ७२.
 पुरश्ररण-शोधित- -ताः अत्र
 ६८, ५, २४.
 पुरस्^x√कृ, पुरोऽकुरुत वाधुश्रौ ४,
 ३०; १३; पुरस्कुर्वीरन् काश्रौ
 २२, ५, २९; ११, ८; लाश्रौ ८, ७,
 ४××.
 पुरः...अकृत वाधुश्रौ ४,
 ३०; १५.
 पुरस्-कृत- -तः वृदे ७, ७६.
 पुरस्^y,-ःकृति^z- -तिः अत्र ८,
 ५; ९, १०; ११, २.
 पुरस्कृति-त्रिष्टुब्-बृहती-
 गर्भा^{aa}- -र्भा अत्र ५, १०.
 पुरस्-कृत्य आपश्रौ १३, २२, ५;
 बौश्रौ १८, १०; २२; १७; २७;
 माश्रौ.
 पुरस्-तात्^{ab} आश्रौ १, ६, ४; ११,
 ५××; शांश्रौ १, २, २××;
 १५, २६, १†^{ac}; काश्रौ;
 आपमं २, ५, १२†^{ac}; माग १,
 २२, ११†^{ac}; हिग १, ७, १०†^{ac};
 गोय ३, ८, ५†^{ac}; या १, ४, ३,
 १५; १६××.
 पुरस्तात्-चुबुक^{ad}- -क्रम आपश्रौ

- a) तु. पाका. । पुरग- इति भाषाया. प्रभृ. । b) वैप १ द्र. । c) पामे. वैप १, २०३४ g द्र. ।
 d) = वावा-पृथिवी- । e) पुरन्धिर् योषा (मा २२, २२) > छन्दोदिशा यनि. । f) = स्त्री- । व्य. ? < २पुर- ।
 √ष्ट इति अभा. । g) पामे. वैप १, १०९१ k द्र. । h) पामे. वैप २, ३खं. प्रति तैत्रा १, ६, १ टि. द्र. ।
 i) विप. । द्रस. > बस. । j) = छन्दो-विशेष- । बस. । k) षे इति पाठः ? यनि. शोधः । l) द्रस. > मल्ले.
 क्रस. > बस. । m) विप. । बस. । n) विप. । उस. । o) अस्. वा. क्रिवि. । p) वैप २, ३खं. द्र. k
 q) पामे. वैप २, ३खं. पुरः ऐत्रा ७, १८ टि. द्र. । r) = पूर्वा-दिश- ।

१६, २७, ७; वैश्रौ १८, १९: १०.
पुरस्ताज्-जप- -पः शांश्रौ १,
१, ३८^३; ७, २, १५; द्राश्रौ ५,
३, १४; लाश्रौ २, ७, १३; -पम्
द्राश्रौ ५, ३, २३; लाश्रौ २, ७,
२०; जैष्ट्र १, १४: २; -पात्
द्राश्रौ ५, ४, १८; २३; लाश्रौ २,
८, १८; २२; -पेषु निसू २, ९:
१४.

पुरस्ताज्जघो(प-उ)परिष्ठा-
ज्जप- -पौ द्राश्रौ ५, ४, १५;
लाश्रौ २, ८, १५.

पुरस्ताज्-ज्योतिष्मती^b- -ती
अत्र ४, २९; ८, ३; १९, ५५.
पुरस्ताज्-ज्योतिस्^e- -ति:
क्षुसू^d २, १२: १५; १८; निसू १,
२: १६^d; अत्र; -तिषम् शुअ
२, ३१०.

पुरस्तात्-ककुम्मती^b- -ती अत्र
१२, २.

पुरस्तात्-तिर्यञ्च- -र्यञ्चौ
बौश्रौ १७, ३०: २^e.

पुरस्तात्-पृथ्व्य^b- -पृथ्व्या:
आपश्रौ २३, ९, १३; हिश्रौ १८,
३, १६.

पुरस्तात्-प्रस्तारपङ्क्ति^b-
-ङ्क्तिः अत्र ८, ८.

पुरस्तात्-स्तोभ^b- -भः लाश्रौ
७, १, १०; २, १५; -भम् लाश्रौ
७, ७, २७; निसू ५, १: १९;
-भाः लाश्रौ ७, ३, १२; निसू
६, ७: ११; -भानि निसू २,
३: ३; ६; १०; -भेन लाश्रौ
७, ६, २२.

पुरस्तात्-स्वाहाकृति^b- -तिम्
बौश्रौ ४, ७: १३; ११, ५: ७;
१५, ३१: ७.

पुरस्ताद्-अग्निष्टोम^b- -मः
वैताश्रौ ४२, १७; -माः शांश्रौ
१६, ३०, १२.

पुरस्ताद्-अलङ्कार^b- -रा:
आपश्रौ ६, ३, २; हिश्रौ ३,
७, १२.

पुरस्ताद्-आपन्न- -न्नानि निसू
६, ९: २३.

पुरस्ताद्-उदक^b- -कम् बौश्रौ
२५, ५: २^f.

पुरस्ताद्-उपयाम^b- -मा:
आपश्रौ १२, १६, १३; हिश्रौ ८,
४, १२; -मेन आपश्रौ १२, १५,
३; वैश्रौ.

पुरस्ताद्-मन्थि^b- -न्थि काश्रौ
२, ७, १६; माश्रौ १, ३, ५, २५.

पुरस्ताद्-धो(<हो)म^b- -मः
कौसू ३, १९; -माः कौसू ४७,
८; ६८, ३०; अप्राय १, २^३; २,
१^३; २-४; ७^०; ८; -मान् वैताश्रौ
२, १०^३; ९, ९×४; कौसू.

पुरस्ताद्-धोम-वत्- -वत्सु
कौसू ८, १.

पुरस्ताद्-धोम-संस्थितहोम-
-मान् कौसू ८०, २९; ४०;
-मेषु वैताश्रौ १, ४; ८, ५.

पुरस्ताद्-धोम-संह(त >)
ता- -ताम् कौसू ४, ९.

पुरस्ताद्-बृहती^b- -ती निसू
१, २: २०; ऋअ १, ७, २ शुअ;
अत्र ९, ६(२); -थ्यौ अत्र ८,

२; १४, २.
पुरस्ताद्-बार्हत^१- -तम् ऋअ
२, १०, २२.

पुरस्ताद्-बृहत्य(ती-अ)न्त^b-
-न्तम् ऋअ २, १०, ९३.

पुरस्ताद्-भाग, गा^b- -नानि अत्र
१, ५, १; ६; -गाभिः बौश्रौ ६,
१४: ४.

पुरस्ताद्-वर्जम् काश्रौ ७, १, १२.
पुरस्ताद्-विराज्^b- -राट् अत्र
१२, २.

पुरस्तान्-पास^१- -सम् बौश्रौ
१७, २६: १.

पुरस्ताल्-लक्ष(ण >)गा^b- -णा
आश्रौ २, १४, १९; शांश्रौ १,
१७, १६.

पुरस्ताल्-लक्षमन्^b- -क्षमा
आपश्रौ १९, १८, ९; २४, १३, ८;
बौश्रौ २६, ४: १३; हिश्रौ २२,
३, ५.

पुंपुरः, सू^३-सद्^१- -सदः आपश्रौ
१८, ९, ११; बौश्रौ १२, ४: ४;
वाश्रौ; बौध ३, ६, १३; -सदे
वाश्रौ ३, ३, १, २३; चाअ १५: ४.

पुरः-सर- पा ३, २, १८.

पुरो(रसू-अ)क्ष^३- -क्षम् आपश्रौ
११, ११, १; १२, ७, २^३; १८, २,
९; बौश्रौ.

पुंपुरो-ग^१- -गागाम् आपश्रौ १२,
२०, ८; बौश्रौ ७, १०: १२;
वैश्रौ.

पुरो-गम^b- -मान् वैताश्रौ ९, १२.
पुंपुरो-गव^१- -वः कौसू १०४, २.
पुंपुरो-गा^१- -गाः बौश्रौ १४, १२:

a) विप. > नाप. । बस. । b) विप. । बस. । c) छन्दो-भेद- । बस. । d) षडह-विशेष- ।

e) तु. Thibaut JASB 188, 265। f) पाभे. पृ १५५६ b द्र. 1: g) वैप २, ३खं. द्र. । h) त्रिप.,
नाप. (छन्दस्-) । i) पृ ५७२ k. द्र. 1: j) ऋर्म-विशेष- । बस. । k) बौध. चाअ. पाठः । l) वैप १. द्र. ३
अस. वा. क्रिवि. । m) उस. उप. कर्ति. प्र. ।

१४; १५; १९, ७; ५२; वैश्रौ
१५, १० : ८; हिश्रौ ८, २, ४३;
या ८, २१६; -गाम् आपश्रौ
५, ८, ६; बौश्रौ २, १५ : ९;
वाश्रौ १, ४, १, २०; हिश्रौ ६, ५,
१०.

पुरो-गामिन्- -मी या ८, २१.

पुरो-ग्रन्थि^६- -न्थि आपश्रौ २, ८, १;
बौश्रौ १, १३ : ८; भाश्रौ.

पुरो-जिति^७- -ती^० क्षुस् १, ३ :
५; १२××; निस्; -स्याम्
लाश्रौ ८, ५, २१.

पुरो(रस्-अ)तिजगती^८- -ती अश्र
५, २९; ११, १.

पुरो(रस्-अ)तिजाग(त>)ता^९- -ता
अश्र ११, ५^१.

पुरो(रस्-अ)ति-शकरी^९- -री अश्र
४, ४०; ९, ५.

पुरो-देवता->^{१०}व(त्य>)त्या-
-त्ये अश्र २, २४.

पुरो-द्वयतिजाग(त>)ता^९- -ता
अश्र १३, २.

पुरो✓धा>पुरो-धस्- पाठ ४,
२३१; -धसः क्षुस् २, २१;
-धसम् अप ५८^३, ४, ७; -धसा
अप ७, १, १; ३१, २, २; -धसि
अप ६४, १०, ६; -धसु अप ७०,
२, ४; -धाः अप २, ५, २; ३, १,
१०; वृदे ६, १४९.

पुरोधस्-त्व- -त्वे अप ४, १,
२१.

पुरो-धा^{११}- -धाम् शाश्रौ १६, २१,
६; ११; क्षुस् २, ४ : १; निस्
७, १ : ६; -^{१२}धायाम् आपश्रौ

१६, १, ३; पाठ १, ५, १०;
आमिष्ट १, ५, २ : ३५.

पुरोधाकाम- -मः आपश्रौ
२, १९, ५; २२, ७, ६; भाश्रौ;
-मस्य शाश्रौ १६, २९, १०;
काश्रौ २२, ११, १४; हिश्रौ २,
२, १८.

पुरोधाकाम-यज्ञ- -ज्ञः
निस् ७, १ : ३.

पुरो-धात्- -तुः वृदे ५, ६.

पुरो-धास्यमान- -नः शाश्रौ १४,
२९, २.

पुरो-हित^{१३}- पाग ४, ४, ४८; ५,
१, १२४^{१४}; १२८; -तः आश्रौ

२, १, २१^{१५}; शाश्रौ; या २,
१०; १२^{१६}; २४; ७, १५;

-तम् ^{१७}आश्रौ १, ३, २७;
२, १, २६; शाश्रौ; या ७,
१५^{१८}; -तस्य आपश्रौ २, १६,
१०; १८, १२, ३; काश्रौ; -ता

आश्रौ ९, ११, १९^{१९}; -ताः अप
५१, ४, ३; -तान् अश्र २, १०,
५६; वृदे ७, ८५; -ताय आपश्रौ

१८, १८, १४; हिश्रौ; -ते बौश्रौ
१८, २ : १५; अप ५, ५, ५××.

पौरोहित- पा ४, ४, ४८.

१पौरोहित्य- पा ५, १,
१२४; १२८; -त्ये कौस् १७,
३०; अप ३, ३, ३; ४.

२पौरोहित्य^२- -स्यान्
आश्रौ १, ३, ३.

पुरोहित-कर्मन्- -माणि अप
४, १, १.

पुरोहित-कुल- > ^३लीन^३-

-नस्य क्षुस् २, ४ : १.

पुरोहित-गोत्र-प्रवर^४- -रः
वैध ४, ८, १३.

पुरोहित-प्रवर- -रः आश्रौ
१२, १५, ४; बौश्रौ २४, २८ : ४;

बौश्रौ ५४ : ३; -रेण शाश्रौ
१, ४, १७; वाश्रौ १, ३, ४, २०;

हिश्रौ २, १, ५७; २१, ३, १७.

पुरोहिता(त-अ)मात्य-नृप-

-पाः अप ६४, ४, १.

पुरोहिता(त-अ)र्षेय- -येण
काश्रौ ३, २, १०.

पुरो-हिति^५- -तिः अश्र ४, ९,
३^६.

पुरोहिति(क >)का- (>
पौरोहितिक- पा.) पाग ४, १,
११२.

पुरो-ध्व(ति-अ)नुष्टब्-ग-

(र्भे>)र्भा^७- -र्भा अश्र ५, १०^७.

पुरो(रस-स्)नुवाक्या^८- -क्याया
भाशि ४८; -क्या आश्रौ ३, ९,
३; शाश्रौ; -क्याः शाश्रौ ५, १६,
२; ६, ११, १२××; आपश्रौ;

-क्याभिः अश्र ३, ९, २; -क्याम्
शाश्रौ ९, २५, २; आपश्रौ;

-क्यायाः आश्रौ २, १५, १४;
शाश्रौ; -क्यायाम् बौश्रौ ३, १७;
१७; २४ : १३; -क्यासु हिश्रौ

२१, २, ३१; -क्ये शाश्रौ ३, १६,
८; ७, २, २××; आपश्रौ.

पुरोनुवाक्या(क्या-अ)धिकार-

-रः मीस् ३, ७, ४५.

पुरोनुवाक्या-लक्षण- -णानि
शाश्रौ १, १७, १४.

a) = पुरस्ताद्-ग्रन्थि-। b) वैप १ द.। c) वैप १, २०३७ W द.। d) विप.। बस.। e) तु) वागम.। f) विप. (आर्षेय-। तस्येदमीयः व्यः प्र. उसं. (पा ४, ३, १२९)। g) ख > ईनः प्र. (पा ४, १, १३९)। h) विप.। बस. > दस.। i) विप. (अतिजगती-। बस.> कस.> बस.। j) ^{१३}धृतिद्वयनु^{१३} इति षठः ? यनि. शोधः (तु. सातः W: च)।

पुरोनुवाक्या-वत् शांश्रौ ३, ७, ७.
 पुरोनुवाक्या-व(त्)ती- तीषु
 हिश्रौ ८, ६, ८.
 पुरोनुवाक्या-संप्रैष- षः हिश्रौ
 ८, ६, ८^१; २१, २, ३५; -वात्
 हिश्रौ २१, १, ७.
 पुरो(रस्-अ)नुष्टुम्^१ - ष्टुप् अत्र
 १, २५; ३, ५××.
 पुरो-बृहती^१ - ती अत्र ८, २; १०,
 ११××; -त्यौ अत्र १२, १.
 पुरोबाह्व(त)ता- ता अत्र
 १२, १^१.
 पुरोबाह्व(त)तिजागत-
 ग(र्भ)र्मा^१ - र्मा अत्र ११,
 ५.
 पुरो(रस्-अ)भिकृति^१ - तयः अत्र
 १०, ५.
 पुरो-भू^१ - भूः वाश्रौ २, १, ७, १८^१.
 पुरो-मुख^१ - मुख कौसू ९१, ३.
 पुरो-यावन्^१ - वानम् ऋषा ५,
 ५३^१.
 ऋपुरो-युष्^१ - युष्वा आश्रौ ८, १३,
 २३; आपश्रौ २१, १२, ९; वाश्रौ.
 ऋपुरो-रथ^१ - रथम् आश्रौ ६, २, ६;
 शांश्रौ ९, ६, १२; बौश्रौ.
 पुरो-रुह्व^१ - रुह्व आपश्रौ १९, २,
 ८; ६, १५; ७, ३; वैश्रौ; -रुभ्यः
 आश्रौ ५, १०, ७; -रुवः शांश्रौ
 ७, १०, ३; आपश्रौ; -रुचम्
 शांश्रौ ७, ९, २; बौश्रौ; -रुचा
 बौश्रौ १४, ७; ३१; ३४; -रुचाम्

आश्रौ ५, १०, ४.
 पुरोरुग्-गण- गः शुभ्र ३, २१७;
 २३३; २४४.
 ऋपुरो-वसु^१ - सुः बौश्रौ ७, १४:
 ३४; वैश्रौ १५, २६; १०;
 ३२:२; हिश्रौ ८, ६, २६; आपमं
 १, ७, १९; -०सो माश्रौ २, ४,
 १, ३३.
 ऋपुरो-वात^१ - माश्रौ^१ ५, २, ६, ४;
 ६, २, २, ९; -तः आपश्रौ १९,
 २६, ११; बौश्रौ; -ऋतम् काश्रौ
 ४, ५, १७; आपश्रौ.
 ऋपुरोवात-सनि^१ - निः आपश्रौ
 १७, ५, ५; बौश्रौ १०, ४५:२४;
 वाश्रौ.
 पुरो-विराज्^१ - राट् अत्र २, ५; ६,
 ६८; ११, १; १८, ४^२.
 पुरो(रस्-अ)ष्टि^१ - ष्टिः अत्र ४,
 २९,
 पुरो(रस्-उ)ष्णिह^१ - ष्णिक् अत्र ४,
 ४^१; ११, ७; १३, १^२; १४, २^३.
 पुरो-ह्विस्^१ - विः वाधूश्रौ ४,
 ९०:३; -ऋविषि आपश्रौ १०,
 २०, ५; बौश्रौ.
 पुरा^१ ऋआश्रौ ३, ३, १; ४; ५, ५,
 १८××; शांश्रौ; या ३, १५^१;
 १९; ४, १७^१××; पा ८, १,
 ४२; पुरा-पुरा माश्रौ ५, २, ९, ५.
 पुरा-कल्प^१ - कल्पः आपश्रौ २४, १,
 ३३; हिश्रौ १, १, ११.
 पुरा(रा-अ)प्रसिद्ध^१ - >द्धा (द्ध-

आ)श्रय-पूर्व-सिद्धि^१ - द्धिभिः
 ऋषा ११, ६६^१.
 पुरा(रा-अ)प्रसिद्धि^१ - द्धेः ऋषा
 ११, ६९.
 ?पुरा-रञ्जन^१ - नयोः अत्र ६८, २,
 ३०.
 पुरा-वृत्त- -त्तः वृदे ४, ४६.
 पुरो(रा-उ)दक^१ - कम् बौश्रौ २,
 २:२३.
 पुरो(रा-उ)दय^१ - यम् वैश्रौ २, २:
 १०; हिश्रौ ३, ४, २××; -ये
 वैश्रौ १८, १२:५.
 पुराग- (> पौराणीय- पा.) पाग ४,
 २, ८०.
 पुराण^१ - पाग २, ४, ३१; ४, १, ४५;
 -०ण विध १, ५१; ५६; ९८, ६२;
 -णः या ८, १९; १२, ३२;
 -णम् आश्रौ ९, ११, २०^१; १०,
 ७, ८^१; शांश्रौ १५, ८, २१^१;
 १६, २, २७^१; १७, ६, २^१; काश्रौ;
 शंघ ११६:३८^१; गौध ११,
 २१^१; या ३, १९^१; ४, १९; १०,
 ३; -णस्य अत्र ४८, ७०; निघ
 ३, २७; -णाः आपश्रौ ४, ७, २;
 माश्रौ; आम्रिण ३, ४, १:१४^१;
 बौषि^१ १, ४:१०; १५:३; -णान्
 आपश्रौ ५, २७, ९; हिश्रौ; या
 १२, २९^१; -णानाम् काश्रौ ४
 ६, ८; आपश्रौ ६, २९, ७; माश्रौ;
 वैध ४, १, १२^१; -णानि वैग ३,
 १६:२; ऋष २, ४, १५; -णे

a) संश्रे^१ इति पाठः? यनि. शोघः। b) विप.। वस.। c) विप.। कस. > वस.। d) वैप १ द.।

e) पाभे. वैप १, २०३९ k द.। f) पुरोवातसनि- इत्यस्य पूर्वावयवः द.। g) प^१ इति पाठः? यनि. शोघः

(दु. ऋष्टि- इति सात. w. [शौ ४, २६]। h) संधिरार्षः। i) अधिकः पाठ इति कृत्वा परिहारः अत्रः शोघः

(दु. सात. w. एतदभावः)। j) प^१ इति पाठः? यनि. शोघः। k) सुस्पृषीयः समासः। l) उप. = अ-प्रसिद्धि-

इति कृत्वा भावे क्तः प्र.। m) द्रस. > वस. > कस.। n) सूको. अनु^१सिद्धयश्रय^१ इति संभाव्येतेति मङ्गलदेवः।

o) अर्थः व्यु. च?। p) अस. वा. क्रिवि.। q) = वाङ्मयीयविभागाविशेष-। r) पाभे. वैप १, २०४० ll द.।

s) पाभे. वैप १, २०४० O द.। t) = ऋषि-विशेष-। पौराणाम्-इति पाठः? यनि. शोघः।

शांश्रौ ४, १५, ८; वैश्रौ; आपघ
१, १९, १३^०; २९, ७^०; २, २३,
३^०; द्विध १, ७, ६३^०; २, ५,
१५८^०; -णेन आमिष्ट ३, ६, ४:
४; द्विधि १५: २०; जैष्ट १,
२४: १; या ९, ४३^०; -णैः
शांश्रौ १६, १, २५; वैश्रौ.

पुराणी- पा ४, १, ४५.

पौराण- -०ण वैध ४, १, १२^०;
-णम् बौध १, २, १^०.

पौराणिक- पावा ४, २, ६०.

पुराण-गार्हपत्य- त्यः बौश्रौ १८,
२४: १६; -त्यम् बौश्रौ २१,
१५: ३३; २५, ११: १९; २६,
७: ३.

पुराण-वृत्-दिग्घा(ग्ध-अ)ङ्ग-
ङ्गः अप ६८, ५, १४.

पुराण-दृष्ट- दृष्टाः वाध १७, १२.

पुराण-नव- नवयोः या ४, १७.

पुराण-नामन्- मानि निघ ३, २७;
या ३, १९.

पुराण-श्रोक्त- क्तेषु पा, पावा ४, ३,
१०५.

पुराण-भस्मन्- स्मनः बौश्रौ १७,
३५: ५; ३६: १६.

पुराण-वत् निसू १, ७: २०; वैध
४, १, १२.

पुराण-विद्या- द्या आश्रौ १०, ७,
८^०.

पुराण-वेद्- दः शांश्रौ १६, २,
२७^०.

पुराण-सर्पिस्- र्पिषा बौपि १, १३:
५.

पुराणा(ण-आ)चार्य- र्यान् पाठ २,
१२, २.

पुराणा(ण-अ)र्थ- र्थम् अप ४६,
२, ९.

पुराणे(ण-इ)तिहास-वेदाङ्ग-धर्म-
शास्त्र- स्त्राणि विध ३०, ३८.

पुराणे(ण-इ)तिहास-व्याकरण-
पाठ-ग- गः विध ८३, ७.

?पुरारब्धादीनि निसू ३, १२: ३४.

पुरि- पाठ ४, १४३.

पुरी(<रि.)-तत्- पाठभो २, १,
२६०; -कृतम् आश्रौ ७, २२,
६; २४, १२; भाश्रौ; -तता श्रुपा
३, १२९^०.

पुरीष, पा^०- पाठ ४, २७; पाग ५, २,
३६; -षम् शांश्रौ १०, ६, १३^०;
काश्रौ; बौश्रौ ४, २: २०^०; द्विश्रौ
११, १, ३^०; ४^०; या २, २२^०; १^०;
-षम् ऽ-षम् बौश्रौ २५, २७:
२९; २८: १८; -षस्य बौश्रौ
१०, ३९: २; ४१: २××; वैश्रौ:
-षाः निसू ४, २: १३; -षात्
वैताश्रौ ६, १^०; -षान् वैश्रौ
२१, १०: ८; -षे आपश्रौ १६,
१३, ३; वाश्रौ; पा ४, ३, १४५;
-षेण काश्रौ १७, १२, २४;
काठश्रौ; -षेषु लाश्रौ ७, ५, ७; ८,
७; -षैः वाध ३, ५९; आपश्रु
१०, ९; द्विश्रु ३, ४८^०.

पुरीष-चिति^०- तिः बौश्रौ १७, २४:
३; ५-८××; -तिम् बौश्रौ २२,
८: २; -तेः बौश्रौ २२, ८: १.

पुरीष-पद^०- दम् बृदे ८, १०२;

-दानि आश्रौ ७, १२, ११; निसू
४, १: २५; उनिसू ६: ३१;

-दैः निसू ४, २: १.
२पुरीष-प(द>)दा^०- दाः साअ
१, ६४२.

पुरीष-प्रवृत्ति- ति वाश्रौ २, २,
२, २०.

पुरीष-भक्षण- -णम् अप ६४, ५,
२; -णे सुध ४४.

पुरीष-वत्- -वन्तम् द्विश्रौ ६, १, ६.

पुरीषवती- ती बौश्रौ २६,
२९: १७-१९; -तीम् काश्रौ
१७, ७, १; आपश्रौ २, २, ७; १७,
३, ३, बौश्रौ; -त्याः काश्रौ १७,
१२, १५.

पुरीष-वाहन^०- पा ३, २, ६५; -नः
बौश्रौ १०, ४: १३.

पुरीष-व्यूहन- -नम् बौश्रौ १९,
१०: ५७.

पुरीष-सहित(त>)ता- ते काश्रौ
१७, १२, १५.

पुरीषा(ष-आ)च्छ(ञ>)ञ्जा- -ञ्जाम्
वैताश्रौ २२, ५.

पुरीषा(ष-आ)धान^०- -नम् विध
१६, ११.

पुरीषा(ष-अन्त>)न्ता^०- न्ता
आपश्रु १०, ९; द्विश्रु ३, ४८;
-न्ताः बौश्रौ १९, ८: ४.

पुरीषा(ष-आ)हरण- -णम्
काश्रौ १६, ५, १०.

पुरीषा(ष-आ)दृष्टि-सहस्र- स्रम्
गोष्ट ४, ९, १२.

पुरीषित- पा ५, २, ३६.

a) वाङ्मयीयविभागविशेष-। b) व्यप.। c) तस्यैदमीयः अण् प्र.। d) सपा. ण्विद्या

<> ण्वेदः <> माश १३, ४, ३, १३ पुराणम् इति पाभे.। e) वैप १ द्र.। f) पाभे. वैप १, २०४१ g द्र.।

g) ऋकृपादविशेषसंज्ञा-। h) पू इति पाठः इ यनि. शोधः। i) पाठः इ (तु. टि. सामपुरीषम् [आपश्रौ १७, २, २५, ४])। j) वैप २, ३खं. द्र.। k) =(महानाम्नीषु पुरीषस्थानीय-).संघायक-पद- (तु. आश्रौ. भाष्यम्)।

l) विप.। बस.। m) =शरीरस्थानविशेष-। उस. उप. अधिकरणे कृत.।

†पुरीषिन्- -षिणः भाश्रौ ६, २,
६, २६; वाश्रौ २, २, ५, १४;
चाश्र ३० : ७; -०षिणः आश्रिण
२, ५, १० : ३०.

†पुरीष्य^a- -०ष्य आश्रौ २, ५,
१२; शाश्रौ २, १५, ४; आश्रिण
२, ७, ३ : १३; ३, १०, ३ : २१;
-ष्यः आश्रौ २, ५, १२; शाश्रौ;
-ष्यम् काश्रौ १६, २, ११; १३;
३, १२; आपश्रौ; -ष्याः आपश्रौ
१७, २३, १२; बौश्रौ; -ष्यासः
माश्रौ ४, ८, २०; शाश्रौ; वैश्रौ
१८, १६ : ३०?^b; -ष्येभ्यः ऋश्र
२, ३, २२.

पुरीष्य-चित्ति- -तये आश्रौ ४,
८, १८.

पुरीष्य-वाहन- पा ३, २, ६५.

१पुरु^a- पाउ १, २३; -रु^b आश्रौ
४, १३, ७; ६, ४, १०; †शाश्रौ
६, ४, ९; ९, १२, ४; १८, ३, २०;
निस्; या २, ११; ५, ७†^c;
६, २१†^d; -रुः बौश्रौ १८,
१४ : ६†; -†रुणि आश्रौ ३,
१०, ६; ४, १, २३; आपश्रौ;
वैताश्रौ २४, १०.

पुरु-काम- -मः या ६, ४.

पुरु-कुत्स^e- पाग ४, १, १८; १०५.

पौरुकुत्स^f- -०त्स^g आपश्रौ
२४, ८, ९; बौश्रौ २० : ४.

पौरुकुत्स्य- पा ४, १, १०५;
-०त्स्य^h आश्रौ १२, १२, ३; वैष
४, ३, ४; -त्स्यः ऋश्र २, ४, ४२;
ऋप्रा १८, ९†.

पौरुकुत्स्याय(न>)नी-
पा ४, १, १८.

पुरुकुत्स-वत् आपश्रौ २४, ८, ९;
बौश्रौ २० : ५; वैष ४, ३, ४.

†पुरु-त्तमⁱ- -मस् काश्रौ २, ४३†;
-मस्य शाश्रौ १०, १०, ५; १४,
२४, ४×४; -मानि आश्रौ ८, ७,
२३; शाश्रौ १२, ५, ५; -मासः^j
आश्रौ ४, ७, ४; शाश्रौ ५, १०, ८.

‡पुस्ता- -ता अप्रा ३, ४, १†.

†पुरु-त्रा शाश्रौ १३, १२, १३;
आपश्रौ ३, १३, १; २४, १२, ६;
बौश्रौ; या ९, १३†; पा ५, ४,
५६.

†पुरु-दंस^k- -सम् आश्रौ ३, ५, ९;
आपमं १, ७, २; तैप्रा १६, १९.

पुरु-दंसस^l- पाउमो २, १, ३४५.

†पुरुदंसो^m काश्रौ २५, १०, १५;
शुअ १, ५१८.

†पुरु-धामⁿ आश्रौ ४, १, २३; आपश्रौ
७, ६, ७; बौश्रौ; वाश्रौ १, ६,
२, ४†; या १०, ३४†.

पुरु-नृग्म^o- -ग्नाय ऋप्रा ५,
५१†.

पुरु-पञ्च-विट्-कुल^p->°ला(ल-अ)
म्बरीष-बहुयाजिन्- -जिनाम्
शांश्र १, १, ८.

पुरु-प्रजात^q- -तस्य ऋप्रा ८, ४२.

†पुरु-प्रिय^r- -यः या ५, २; शुप्रा
४, ७३; -या शाश्रौ ११, ९, ३;
ऋप्रा ५, ५८.

पुरु-भुज^s- -०भुजा ऋप्रा ७, २३.

†पुरु-भोजस^t- -जाः अप ४८,

१०१; निघ १, १०.

पुरु-मनस्^u- -नाः या ९, १५.

पुरु-मीढ, ल्ह^v- -ढः साश्र १, ६, ४९;
२, १०४; -ल्हम् बुदे ५, ६१;
८०.

पौरुमीढ, ल्ह^w- -ढम् निस्
५, ९ : २३; -ढे लाश्रौ ७, ८,
१४; -ल्हम् शाश्रौ १२, ९, १७.

पुरुमीढ^x, ल्हा (ल्ह-अ) जमीढ,
ल्ह- -ल्हौ ऋश्र २, ४, ४३; शुअ
३, ८९; १८०; अश्र २०, १४३.

पुरु-रथ^y- -थः या ११, २३†^z.

†पुरु-रावन्^{aa}- -राव्णः^{ab} द्राश्रौ ६,
४, ८; लाश्रौ २, १२, ९.

†पुरु-रूप, पा^{ac}- -पस् आश्रिण २,
५, ३ : २०; बौग ३, ७, १६;
-पाः द्विश्रौ १०, २, ८.

†पुरु-वर्षस^{ad}- -र्षसम् या ११,
२१†^{ae}.

†पुरु-वार^{af}- -०र ऋप्रा १४, ४०.

पुरु<>श्-चन्द्र^{ag}- -न्द्रम् उस्
६, ५†.

†पुरु-वन्ति^{ah}- -नितम् ऋप्रा ५,
३०; १४, ४०; -न्तो निस् ९,
९ : १०†; -न्त्योः उस् ५, ३.

†पुरु-शु(<स्तु)त^{ai}- -०त आश्रौ
५, ४, ३; विघ ९८, ३५†; -तः
अप १, ४०, ५; अशां १०, ५;
-तस्य वैताश्रौ ३२, ३.

पुरु-संभृत^{aj}- -तम् आश्रिण २, ३,
५ : २०†.

†पुरु-स्पृह^{ak}- -स्पृक् शाश्रौ १८,
१, ८.

- a) वैष १ द्र. । b) ष्यसः इति पाठः? यनि. शोषः (तु. ऋ ३, २२, ४) । c) पामे. वैष १, ९६८ a द्र. । d) वप १, २०४२ i, २०४३ k द्र. । e) पामे. वैष २, ३खं. पुंरुषि तैत्रा ३, ७, १३, १ टि. द्र. । f) व्यप. । व्यु. ? । g) परस्परं पामे. । h) वैष १, २०४४ l द्र. । i) शोषा इति पाठः? यनि. शोषः (तु. पूर्वापरे स्थले) । j) बस. >कस. >षस. । k) विप. । बस. । l) =साम-विशेष- । m) शुअ. पाठः । n) वैष १, २०४६ ll द्र. । o) पामे. वैष १, २०४७ g द्र. ।

पुरुहन्मन्^a - न्मा ऋञ्च २, ८, ७०;
साञ्च १, २, ४३××; अञ्च.
पौरुहन्मन^b - नम् लाश्रौ ७, ३,
१५; निसू २, २: १८.
†पुरुहूत^c - ०त् आश्रौ १, ६, १;
३, ७, ११××; शाश्रौ; या १,
४; ५, २४; -तः ऋप्रा ७, २३;
-तम् बौश्रौ २७, ६: ८; या ६,
२६.
पुरु- > †पुरु-तम्^d - मम् ऋञ्च
२, ६, ४५; ऋप्रा ९, ७; १७, ४८.
पुरु-रव^e - > वा (व-त्रा)र्द्रव-
वौ शंघ २१०^d.
पुरु-रवस्^f - पाठ ४, २३२; फि
६४; -०वः या १०, ४०†;
-वसम् शंघ ११६: ६२^g; बृदे
२, ५९; -वसि बृदे ७, १४७;
-†वाः काश्रौ ५, १, २५; आपश्रौ
७, १२, १३; बौश्रौ; या १०,
४६६.
पौरुवरवस^h - ०स आश्रौ
१२, १५, ५; आपश्रौ २४, १०,
१२; बौश्रौप्र ५२: १; हिश्रौ
२१, ३, १६; वैष ४, ८, १०†;
-सौ बौश्रौ १८, ४५: ३६.
पुरुवरवो-वत् आपश्रौ २४,
१०, १२; बौश्रौप्र ५२: २; हिश्रौ
२१, ३, १६; वैष ४, ८, १०†.
पुरु-रुच्ⁱ - रुचम्^j निसू ८, ६:
२८†.

†पुरु-वसु^k - सुः आश्रौ ५, ५,
८; ६, १†; शाश्रौ; काश्रौ ९, ११,
१६†; २५, ५, ३०†; -०सो
आश्रौ ७, ४, ४; शाश्रौ ९, ५, ३;
११, ११, ११†××; वैताश्रौ^l ३२,
९; ४१, १३; ऋप्रा २, ४६; शुप्रा
३, ९७†.
†पुरु(रु-उ)रु^m - इरुणा आश्रौ ७,
२, २; शाश्रौ १२, १, ३; ऋञ्च.
पूर्व(रु-अ)च्, ञ्च्->पुरुचीⁿ-
-चीः आपश्रौ ५, १, ७; ९, १२,
४; १४, २२, ३; भाश्रौ.
†पूर्व(रु-अ)णीक^o - ०क शाश्रौ ३,
५, १०; तैप्रा ७, १२.
‡पुरु^p - रुः साख १, ८८.
पुरु-काम- प्रष्ट. १पुरु- द्र.
‡पुरुध्यवानः वाश्रौ १, ५, ४, २४†.
पुरुमद्ग^q - > पौरुमद्ग^r - द्रम्
लाश्रौ ८, ५, ११; निसू ६, १०:
२४; -द्रे लाश्रौ ७, २, १०; १२.
पुरुमीढ- प्रष्ट. १पुरु- द्र.
पुरुष^s - पाठ ४, ७४; पाग ५,
१, १३०; पावाग ८, २, १८^o;
-०ष विध ९८, ८३; -षः
आश्रौ ३, १०, १०; १०, ९,
२†; शाश्रौ ४, ५, ८†; ९, २३,
४; १५, १९, १†××; काश्रौ;
लाश्रौ ७, ५, ९; निसू ३, १३:
९; ५, ७: ४; कौष्ट १, १२, ६†^u;
विध ९७, १५†; काश्रु ५, ५†;

१†; आपश्रु ९, २; १५, ७; १८,
६; १९, १; ९; बौश्रु १: ८; ८:
६; १०; १३; १५; १७; ६; हिश्रु
३, २१; ५, १०; ६, १०; १६; शुञ्च
३, १३३†; १३७†; ४, १४५†;
अञ्च ३, ६†; या १, १; १२; २,
२××; पा ६, २, १९०; -वः-ऽवः
बौश्रौ ८, १९: १०†; ९, १३:
३०; -षम् शाश्रौ १५, २०, १;
१६, १२, १७; १५, ५; काश्रौ;
शंघ ३७१†; विध ९७, १६†; या
१, १३; ८, २२†; १४, ६; -षम्-ऽ
-षम् आज्यो ९, १; -†षस्य
शाश्रौ १२, २०, २; काश्रौ २४,
७, ३३; आपश्रौ १६, २७, १४;
२९, २†; बौश्रौ; हिश्रौ ११, ८,
४†^v; चाञ्च १४: ४†; ३९:
४†; ४२: १३†; या ९, २८; १४,
७; -वस्य-ऽवस्य द्राश्रौ ११,
३, १०†; लाश्रौ ४, ३, ११; -षाः
काश्रौ १७, २, १८; २०, ६, २१;
बौश्रौ; कौष्ट १, १२, ६†^v; कौष्ट १,
१९, १०†^v; भाग १, १८: ८†^w;
जैष्ट १, २२: ७†^w; -†०षाः
बौश्रौ १०, २: १२; ४: २२;
द्राश्रौ ७, ३, २; लाश्रौ ३, ३, २;
-षाणास् काश्रौ १, ७, १८; २२,
३, २०; वाधुश्रौ; -षात् शाश्रौ
१२, २२, २†; काश्रौ १५, ४, २६;
आपश्रौ; पा ४, १, २४†; -षान्

a) वैप १ द्र. । b) = साम-विशेष- । तेनदृष्टीयः भण् प्र. । c) विश्वेदेव-विशेष- । d) सप्र. पुरुरवाद्बौ
<>माद्रवं पुरुरवसम् इति पाठे. । e) अपत्याद्यर्थे भण् प्र. । f) पौरवस इति पाठः? यनि. शोधः ।
g) ऋवसवत् इति पाठः? यनि. शोधः । h) पाठे. वैप १, २०३९ f द्र. । i) तु. चौसं. । पुरु^o इति अच्यु. ।
j) पाठे. वैप १, २०३९ k द्र. । k) पाठे. वैप १, २०३९ n द्र. । l) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । पाठः? पू इति
शोधः (तु. ऋञ्च २, ५, १६) । m) व्यप. (अङ्गिरस्-) । व्यु. ? । n) = प्रमाण-विशेष- (काश्रु ५, ५ प्रष्ट.) । o) तु.
पागम. । p) सपा. वैप २, ३ खं. भवति ऐत्रा ७, १५ टि. द्र. । q) सपा. षः <> षे इति पाठे. । r) = ऋषि-
विशेष- । s) = देवता- । t) = विष्णु- । u) पाठे. वैप १, २०५१ b द्र. । v) पाठे. वैप १, १०१९ n द्र. ।
w) पाठे. वैप १, २०५२ i द्र. । x) वैप १, १६६४ m द्र. ।

आपश्रौ २०, २४, ७; २५, ११;
माश्रौ; या २, ६; -घाय शाश्रौ
१६, १२, २०; बौश्रौ; -षे आश्रौ
१०, ९, २^१; शाश्रौ १६, ६, १^१;
काश्रौ; शांग १, १९, ६^१; पा
६, ३, १०६; -षेण शाश्रौ १६,
१३, १; आपश्रौ; या २, ३^१;
-षेभ्यः शाश्रौ १६, ९, २२;
आपश्रौ; -षेषु अप ७१, १७,
१०; विध; -षैः अप ११, २, ४;
१६, २, १; ६८, २, ४५; विध ५,
१८७; ४३, ३३; -षौ आपश्रौ
९, १४, ७; भाश्रौ ९, १६, १३;
कौसू २०, ३४.

पुरुषी^b- षी आपश्रौ २०,
१७, ६; बौश्रौ १५, २८ : १८^१;
हिश्रौ १४, ३, ५५; -षीणाम्
ऋप्रा ९, ४४^१; -षीम् आश्रौ
१२, ६, ३०; आपश्रौ.
पौरुष^c- पा५, १, १३०; २, ३८^d;
-षः वाधुश्रौ २, २:५; विध २०,
१६; -षम् सु ११, ५^e; अप २, १,
२^e; वाध; -षस्य वृदे ७, १४३;
-षाणाम् विध २०, १९.

पौरुषी- षी अप ५८^२, २,
३; -षीः बौश्रौ २९, १३ : २१;
-षीम् शाश्रौ १३, २९, २१^१;
-ष्यः वृदे ८, १०९.

पौरुषेय- पा, पावा ५, १, १०;
-^१यम् अप ३२, १, १५; अत्र
१९, २०; -^१यात् हिट् १, ११,
८; कौसू ५५, १६; -येण कौसू
११२, १^१.

पौरुषेयी- ऋयाः शुप्रा ४,

१५३^१.

पौरुष्य^f- ष्यम् अप ३१, २, ५;

शुप्रा ८, ३०.

पुरुष-ऋषूत्रय- यम् विध ७४, ५.

पुरुष-कल्प- ल्येन मीसू ६, ६, ३६.

पुरुष-काम- मः हिश्रौ १७, ८, २३;

-मस्य लुसू १, ६ : ७.

पुरुष-कार^g- रात् अप २, १, ३.

पुरुष-क्षय^h- ये अप ५२, ७, १.

पुरुष-नातिⁱ- तिः बौध ३, १०, ११;

गौध १९, १३.

पुरुष-गर्हा- र्हा या १, १४.

पुरुष-गात्र- त्रम् कौसू ११, २०.

पुरुष-चतुर्थ^j- र्थम् आपश्रु १९,

९; हिश्रु ६, २९; -र्थेन आपश्रु

१८, ७; हिश्रु ६, ११.

पुरुष-चिति^k- तिम माश्रौ ६, १,

८, १; वाश्रौ २, १, ७, ७.

पुरुष-च्छन्दस्^l- न्दसः निसू ६,

८ : ३१^१; ७, १२ : ६.

पुरुष-तृतीयवेला- लायाम् बौश्रु

८ : १६.

पुरुष-त्रा पा ५, ४, ५६.

१पुरुष-देवता^m- ताभ्यः काश्रौ २१,

१, १३.

२पुरुष-देवता- >थ्व(त्य>)ल्या-

-त्याः अत्र १९, ६; सात्र १,

६१८-२२.

३पुरुष-देव(त>)ताⁿ- ताः

उनिसू ८ : २६.

पुरुष-द्वेषि(न>)णी- णीम् शंघ

८२.

पुरुष-धर्म- र्मः काश्रौ ७, २, २१;

मीसू ३, ४, १४^m.

पुरुषधर्म-न्व- त्वात् मीसू ९,
४, ३८.

पुरुष-ध्यान- नम् विध ९७, ८.

पुरुष-निःश्रेयसा(स-अ)र्थ- र्थम्

वाध १, १.

पुरुष-पञ्चम- मे काश्रौ १६, ८, २.

पुरुष-पीडा-कर- राः विध ५, ७५.

पुरुष-प्रधा(न>)ना^o- ना वाध

५, १.

पुरुष-प्रमाण^p- गम् काश्रु ५, ४;

-णे काश्रु ५, ७; १०.

पुरुष-बाधित-त्व- त्वात् पावा १,

४, ९९.

पुरुष-भेद- दात् काश्रौ १०, २,

२२.

पुरुष-मर्म-ज्ञ- ज्ञाः अप ३३, ७,

५.

पुरुष-मात्र- त्रम् काश्रौ २१, ३,

२७; आश्रिण ३, ८, १ : ३१;

बौपि १, १५ : १०^१; -त्रस्य

आपश्रु ९, ६; हिश्रु ३, २५;

-त्राणि, आपश्रौ १६, १७, १०;

माश्रौ ६, १, ५, ३१; वाश्रौ;

-त्रेण बौश्रौ १०, १९ : ७; वैश्रौ.

पुरुषमात्री- त्री आपश्रौ ७, २,

१६.

पुरुष-मित्र- त्रम् शंघ ११६ :

५२ⁿ.

पुरुष-सुख^o- स्वाः कौसू १०४,

२^१.

पुरुष-मेघ^p- घः काश्रौ २१, १, १;

आपश्रौ २०, २४, १; २२, २१,

१५; बौश्रौ; -घम् शाश्रौ १६,

१०, १; -घस्य वैताश्रौ ३८, १०;

a) पामे. पृ १६०११ द्र. b) वैप १ द्र. c) विप. (दिवस-, सूक्त- प्रम्.)। तस्येदमाद्यर्थे अण् प्र.। d) =पुरुषप्रमाण-वत्-। e) =पुरुषार्थ-। f) ध्वज प्र. डसं. (पा ५, १, १२४)। g) =पुरुषार्थ-। उप. भाप. <√कृ। h) उप. <√क्षि (स्ये)। i) नाप. (सामन्-। j) वैप २, ३३६. द्र.। k) षस.। l) विप.। बस.। m) पुरुषः इति जीसं.। n) =वायु-भेद-। पुरुषमित्रः इति शक. [वायुशब्दे]।

-धे हिश्रौ १४, ६, १०; २८^३;
 वैताश्रौ ३७, ९; -धेन शाश्रौ १६,
 १०, १^३; वाधूश्रौ ४, १९: ३१;
 हिश्रौ १४, ६, १५.
 पौरुषमेधिक^३ - कम् शाश्रौ
 १६, १५, २; ४; काश्रौ; -कान्
 हिश्रौ १४, ६, ३.
 पुरुषमेघ-वत् काश्रौ २१, २, १३;
 वैताश्रौ ३८, १०.
 पुरुष-योग-> णि-मन्त्र-संस्कार-
 र- रयो: काश्रौ १, ७, २०.
 पुरुष-रत्नस^३ - सस् कौसू ९५, ३^३.
 पुरुष-रूप^३ - प: बौश्रौ ९, १६: ५^३;
 -पम् कौगु ९५, १^३; -पेण
 शाश्रौ १५, १८, १; १९, १^३; बौश्रौ
 १७, १८: ८; वाधूश्रौ ४, १०९:
 १.
 पुरुष-रेषि(र>)णी^३ - गीम् कौसू
 ५८, १^३.
 पुरुष-लक्षण^३ - ण: अप ५०, २, ६.
 पुरुष-वत् आपश्रौ १६, २२, ८;
 हिश्रौ १४, ६, २८.
 पुरुष-वत् - वत् आपश्रौ ६, २९,
 १; हिश्रौ ३, ८, १४.
 पुरुष-वध - ध: आपध १, २१, ८;
 हिध १, ६, ३८; -धे आपध २,
 २७, १६; हिध २, ५, २३५.
 पुरुष-वशा-कुमारी-वेहत् - हत:
 गौध ७, १४.
 पुरुष-वाच^३ - वाच: वाधूश्रौ ३,
 १८: १५.
 पुरुष-वाजिन् - जिन: अप ७०^३,
 १६, ३.

पुरुष-वाहम् पा ३, ४, ४३.
 पुरुष-विकल्प- -रूपम् बौपि ३, ८,
 १^६.
 पुरुष-विग्रह^३ - हान् वृदे ५, ६८.
 पुरुष-विज्ञेय - यम् आज्यो ९, २.
 पुरुष-विद्या (द्या-अ)नित्यत्व-
 -त्वात् या १, २^३.
 पुरुष-विध^३ - धम् शाश्रौ १६, १४,
 ८; १४; -धा: या ७, ६; -धानाम्
 या ७, ७.
 पौरुषविधिक^३ - कै: या ७,
 ६^३; ७^३.
 पुरुषविधाताम्^३ चाअ १६: ३०;
 ३२: ७.
 पुरुष-विधि- -धिम् काश्रौ २५, ८,
 १३; अप्राय ६, ७.
 पुरुष-विशेष - व: या १, १६.
 पुरुष-व्याधि-पीडित- -त: शंघ
 ३७८.
 पुरुष-व्रत^३ - त: जैश्रौप ४^३; -तम्
 जैश्रौप ३; द्राश्रौ २, १, १२;
 लाश्रौ; -ते विध ५६, १५.
 पुरुष-शक्त्य(क्ति-अ)पराधा(ध-अ)
 नुबन्ध-विज्ञान- -नात् गौध
 १२, ४८.
 पुरुष-शत- -तानि वाधूश्रौ ३, ६९:
 ४२; ७५: २××.
 पुरुष-शिरस्- -र: काश्रौ १७, ५,
 १४; आपश्रौ १६, ६, २^३××;
 बौश्रौ; -रस: माश्रौ ६, १, ७, ३०;
 वाश्रौ २, १, ७, ७; हिश्रौ ११, ७,
 ५४; -रसा वाश्रौ २, १, २, १२;
 -रसि आपश्रौ १६, २६, १३;

कौसू १५, १.
 पुरुषशिर:प्राण^३ - -णेषु वैश्रौ
 १८, १९: ४.
 पुरुष-शीर्ष- -र्षम् माश्रौ ६, १, ७, २७.
 पुरुष-शोणित-कर्दम-वाहि (न-
 >)नी- -नी अप ५३, ३, ५.
 पुरुष-श्रुति- -ति: मीसू ४, १, ३; ६,
 १, ३५; -ते: मीसू २, २, २८;
 ६, २, ३.
 पुरुष-संस्कार- -र: आपध २, २३,
 ११; हिध २, ५, १६४.
 पुरुष-संज्ञपन- -नम् काश्रौ १६, १,
 १४.
 पुरुष-संज्ञा- -ज्ञा पावा १, ४, १.
 पुरुष-संमित- -त: आपश्रौ ३, १२,
 १^३; बौश्रौ २७, २: १०; माश्रौ;
 -तम् आम्रिगु ३, ४, ५: १०;
 बौपि ३, १०, ३.
 पुरुष-सामन्^३ - म आपश्रौ १५,
 १९, ११; १६, २२, ३^३; माश्रौ
 ११, २०, ७; वैश्रौ १८, १७:
 ९^३; -म्ना हिश्रौ ११, ७, २१.
 पुरुष-सामर्थ्य- -र्थ्ये मीसू ३, ८, ३.
 पुरुष-सूक्त- -क्तम् आम्रिगु २, ४, ३:
 १६; वैगु ४, १०: ११; अप;
 -क्तेन आम्रिगु २, ५, ६: १७;
 ३२××; बौपि.
 पुरुषसूक्त-जपहोम- -भ्याम्
 विध ५५, ६.
 पुरुषसूक्त-पूर्व- -र्वम् वैगु ६,
 ८: ९.
 पुरुषसूक्त-विष्णुसूक्त- -क्त-
 भ्याम् वैगु ६, २०: ८.

a) विप. । तस्येदमीयष् ठक् प्र. । b) मलो. कस. समासान्तष् टक् प्र. (पा ५, ४, १०३ । वैतु. 'अस-
 इति PW. प्रसृ. ?) । c) वैप १ द्र. । d) = पुरुष-रत्नस- । e) विप. । बस. । f) विप. । बस. वा उस.
 (तु. वैप १) वा । g) 'षाकृतिम् इति B. । h) पृ १५९ सस्थ. अनित्यत्वात् इति नेष्टम् । i) वैप
 २, ३ खं. द्र. । j) पाठ: ? 'विधताम् इति संभाव्येत । k) = साम-विशेष- । l) तद्वति वृत्ति: ।
 m) षस. उप. = ज्ञानेन्द्रिय- । तु. सप्र. माश्रौ ६, १, ७, २६ । n) मलो. कस. पू. = पुरुषव्रत- ।

पुरुष-स्थानी (य >) या- -याम्
 आपञ्च ९, १०; हिञ्च ३, २९.
 पुरुषस्थानाराधणस्या (स्य-ञ्च) यन-
 -ने निस् १०, ८ : २८.
 पुरुष-हित- -तम् वाश्रौ १, १, १, १.
 १ पुरुषा (ष-अ) कृति- -तिम् वाश्रौ
 ४, १५, २२; आपञ्च ९, ११,
 २३^३ x x; माश्रौ.
 २ पुरुषा (ष-अ) कृति^३- -तीनि
 अप्राय ३, ८.
 पुरुषा (ष-आख्या >) ख्य- -ख्याः
 मीस् १, १, २७.
 पुरुषा (ष-आ) धिपत्य-काम- -मः
 गोरु ४, १, १.
 पुरुषा (ष-अ) नृत- -ते वाध १६,
 ३४; बौध १, १०, ३५.
 पुरुषा (ष-अ) न्त- -न्ते आपञ्च १८,
 ९^२; हिञ्च ६, १४^२.
 पुरुषा (ष-अ) न्न- -न्नम् बौध १, ६,
 ४६^६.
 पुरुषा (ष-अ) पनय- -यः मीस् १०,
 २, १९; ३, ६५; -यात् मीस्
 १०, २, २०; ३, ७३.
 पुरुषा (ष-अ) पराध- -धः या १, १६.
 पुरुषा (ष-अ) वाधकत्व- -त्वस्य
 पावा १, ४, ९९.
 पुरुषा (ष-अ) भिहोम-वत् काश्रौ
 १७, १२, २६.
 पुरुषा (ष-अ) भ्यास- -सः काञ्च ५,
 ३; आपञ्च २१, १४; बौध २१ :
 १२; हिञ्च ६, ७१; -से काञ्च
 ५, ४.

पुरुषा (ष-अ) युष- पा ५, ४, ७७.
 १ पुरुषा (ष-अ) र्थ- -र्थाय मीस् ४,
 १, ३.
 पुरुषार्थ-त्व- -त्वात् मीस् ३, १,
 ५; ६, २, ३२.
 पुरुषार्थै (र्थ-ए) कसिद्वित्व^९-
 -त्वात् मीस् ६, २, १.
 २ पुरुषा (ष-अ) र्थ^३- -र्थः मीस् ६,
 २, २२; २५.
 पुरुषा (ष-अ) र्थ- -र्धात् बौध १६ :
 ७.
 पुरुषा (ष-अ) शन-मात्र- -त्रम् वैध
 २, १५, ४^६.
 पुरुषा (ष-अ) श्व-गो (गो-अ) व्य
 (वि-अ) ज- -जान् काश्रौ १६,
 १, ८.
 पुरुषा (ष-अ) स्थि >) स्थ^९- -स्थस्य
 बौधौ १८, ३६ : ३; २३, १८ :
 ३०; -स्थे अप्रा ३, १, १७^१.
 *पुरुषा (ष-आ) ह^९- > षाह-व-
 (त् >) ती^९- -तीः काश्रौ २५,
 ७, १६.
 पुरुषा (ष-अ) हुति- -तिः बौधौ
 १३, ४ : ८; आमिण्ड ३, ६, २ :
 २०^१; बौपि १, १० : १६^१;
 हिपि १ : १.
 पुरुषा हुति-वत् काश्रौ १८, ५,
 १९.
 पुरुषो (ष-उ) च्य- -येन काश्रौ १६,
 ८, २०; काञ्च ५, १.
 पुरुषो (ष-उ) त्तम- -म विध १,
 ५१; ५६; ५८; -मः वैध ३, ४ :

१२; आञ्चो १३, ७; -मम् हिपि
 १९ : ४; -मेन विध १९, २३.
 पुरु-षन्ति- १ पुरु- द्र.
 पुरुषां, षा^९ | सक^९- (> पौरुषां, षा |
 सकिन्- पा.) पाग ४, ३, १०६.
 पुरु-, पुरु-न्तम- प्रमृ. १ पुरु- द्र.
 पुरो-डस्^९- पा ३, २, ७१, -^९डाः
 आश्रौ ६, ५, २५; या ६, १६;
 -^९डाः पा ८, २, ६७.
 ?पुरोडा पाग ४, ४, ६२^१.
 पुरो-डाश्^९- पा ३, २, ७१.
 पुरोडा (ळा^९) श^९ - -शः आश्रौ ३,
 ४, ४; १४, १३; १२, ८, ३३;
 शाश्रौ; -शम् आश्रौ ३, १०, २६;
 १२, ६, ९; शाश्रौ; या ४, १९^१;
 -शयोः काठश्रौ ६३; माश्रौ
 १, २, ६, १७; मीस् १०, ८, ३४;
 -^९शस्य आश्रौ ३, ५, ९; ५,
 १७, ५; ६, ५, २५; शाश्रौ; -शाः
 शाश्रौ १४, २, २०; ३, १; १३,
 ८; काश्रौ; -शात् आपञ्च २,
 १०, ४; बौधौ १३, ३४ : ३ x x;
 भाश्रौ; -शान् शाश्रौ १४, २,
 १७-१९; १३, ४; ५; काश्रौ;
 -शानाम् आश्रौ ५, ४, ७; शाश्रौ
 ७, १, ७; काश्रौ; -शाभ्याम् द्राश्रौ
 २, २, ३९; लाश्रौ १, ६, ३५;
 मीस् १०, ८, ३४; -शाय माश्रौ
 २, ३, २, २; ५, २, ८, ३३; -शे
 काश्रौ २५, ८, १७; आपञ्च १,
 २५, १२; बौधौ; पा ४, ३, १४८;
 -शेन आपञ्च ३, १६, १७; ७,

a) विप. । बस. । b) सप्र. पुरुषान्नम् <> पुरुषाशनमात्रम् इति पाभे. । c) पस. > बस. ।

d) वैप १ द्र. ।

e) नाप. (पुरुष-नामन्-) । पस. उप. करणे क्विप् < *आह् (< नैत्र. √भाष्

। आख्यायाम् ।) । f) विप. [पुलिङ्गाभिधाना- (ओषधि- L वैतु. कर्कविद्याधरो भा √ह्वे > *आ-ह्वति- इति, WSR.

आ-ह्वत्-> इति च उप. इति ?]] । g) पाका. पाठः । h) व्यप. । व्यु. ? । i) पुरो-डाश्- इति P.W.

(पौरोडाश- द्र.) । j) वैप १, २०-५४ a द्र. । k) शाश्रौ. पाठः । l) = [पुरोडाशसहचरित-] ग्रन्थ- इति विशेष-

(पा ४, ३, ७०) ।

२२, ११; ९, १, ३२, काश्रौंस;
-शेभ्यः हिश्रौ ५, ५, १२; -शेषु
आश्रौ ९, २, ६; ९××; हिश्रौ;
-शैः आश्रौ ५, ४, १; ६, ११,
६^a; शाश्रौ; -शौ काश्रौ २, ५,
१९; ८, १४; ३, ३, २३; आपश्रौ.
पौरोडाश^b -> १ पौरोडाशिक-
पा ४, ३, ७०.
२ पौरोडाशिक^c -कम् बौश्रौ
४, २ : १; ५, २ : १××; -काः
बौश्रौ २०, १० : ३३^d××; -केन
बौश्रौ २१, ८ : ३९; २५, ११ :
१०××; -कैः बौश्रौ २०, १० :
३०^d; ३२××.
पौरोडाशीय^e -यानाम् भाग १,
९ : ७.
पुरोडाश-कपाल- लम् आपश्रौ १,
२२, २; हिश्रौ १, ५, ६४; -लानि
आपश्रौ १२, ४, १; बौश्रौ; -ले
आपश्रौ १, २०, ९; माश्रौ; -लेन
काश्रौ ३, ८, ७.
पुरोडाश-गण- गे आपश्रौ २४, ३,
१७; हिश्रौ ३, ८, ६.
पुरोडाश-तत्प्रधानत्व- त्वात् आश्रौ
३, ४, १२.
पुरोडाश-त्व- त्वम् वाधूश्रौ ४,
१९^२ : १६.
पुरोडाश-द्वगल्^f - लम् आश्रौ ५,
७, २^g; ७.
पुरोडाश-देवता- ताम् आश्रौ ६,
११, ५.
पुरोडाश-धर्म- र्माः काश्रौ १५, ९,
२७.

पुरोडाश-निगम- न्मेपु आश्रौ ३, ४,
१३.
पुरोडाश-निधान- नाय वैश्रौ ११,
९ : १०.
पुरोडाश-पयस्या-धाना- नासु काश्रौ
२, ८, ९.
पुरोडाश-पिण्ड- ण्डान् माश्रौ २,
५, १, ३५.
पुरोडाश-प्रमन्दा(न्दा-अ)लंकार^h-
रान् कौसू ३२, २९.
पुरोडाश-प्रमाण- णम् अप २३,
९, ५.
पुरोडाश-मात्रा- त्राः काश्रौ १०,
५, ११; -त्राम् काश्रौ ९, ११,
२३.
पुरोडाश-वत् आश्रौ ३, ४, १३.
पुरोडाश-वत्- वतः कौसू २, २३.
पुरोडाश-विकार- रः मीसू ८, २,
१०.
पुरोडाश-वृगल्ⁱ - लम् माश्रौ २, ४,
१, ४०; ४९^१.
पुरोडाश-शकल- लम् काश्रौ ९,
१२, ९; आपश्रौ १२, २५, ६××;
बौश्रौ; -लान् आपश्रौ १३, १२,
९; बौश्रौ.
पुरोडाश-शब्द- ष्टम् आश्रौ ५,
४, ७.
पुरोडाश-श्रपण- णात् आश्रौ ३,
५, ४.
पुरोडाश-संवर्त^j- र्तान् वैताश्रौ २२,
२२; कौसू ३०, १८.
पुरोडाश-सांनय्य- य्ययोः वैश्रौ
२१, ४ : २; हिश्रौ २, २, २०.

पुरोडाश-स्थान- ने वाश्रौ ३, २, ७,
८६; वैश्रौ १७, १६ : ६.
पुरोडाश-स्विष्टकृत्- कृतः आश्रौ
३, ५, ९; काश्रौ १८, ६, १४.
पुरोडाश-हर^k- -०२ विध ९८, ६७.
पुरोडाशा(श-आ)दि- दि आश्रौ ५,
१३, ११; १७, ४; काश्रौ १०,
१, २५; ५, ७; -दीनाम् काठश्रौ
१३४.
पुरोडाशा(श-अ)र्थ- र्थानि हिश्रौ
८, १, ४९.
पुरोडाशा(श-अ)वदान- नम्
काठश्रौ १४; वैश्रौ ६, ८ : ९.
पुरोडाशा(श-आ)दुक्ति- तिम् हिश्रौ
२, २, २४; -तीः आपश्रौ १२,
३, १२; माश्रौ २, ३, ७, १४.
पुरोडाशिक- पा ४, ३, ७०.
पुरोडाशिन- शिनः हिश्रौ १६,
८, २१; निसू ५, १३ : २०.
पुरोडाशिनी- न्यः आश्रौ १०,
२, २४; काश्रौ २३, २, १३;
आपश्रौ.
पुरोडाशीय, या^l- याः वाधूश्रौ ४,
८७ : २; ९६ : १; -यान् आपश्रौ
१, १७, ९; बौश्रौ; -यानाम् बौश्रौ
२०, ६ : १५; २७××; -यानि
बौश्रौ ६, ३४ : ४; १६, ४ : ९;
२४, ३६ : १५; -येभ्यः आपश्रौ
१, १७, १०.
पुरोडाशे(श-इ)डा- डयाः शाश्रौ
५, ३, ७.
पुरोडाशेडा(डा-अ)न्त^m- न्तम्
काश्रौ ४, ११, १५.

a) पाभे. वैप १, २०५४ g द्र.। b) = पुरोडाशासंस्कारकमन्त्र-। तस्येदमीयः अण् प्र. (तु. पाकाः; वैतु. पासि. स्त्रार्थे प्र. इति। c) विप., नाप. (कर्म-विशेष-। d) विप. (मन्त्र-। e) विप. > नाप. (मन्त्र-
[तु. पौरोडाश-।)। तस्येदमीयश् छण् प्र. उस्. (पा ४, २, १३८)। f) उप. वावि. = वृगल्- (शकल- [तु. पाभे.])।
g) सप्र. > शादग° << > शवृण° इति पाभे.। h) द्वस.। प्रमन्द- = सुगन्धित-वनस्पति- इति MW.। i) वैप २,
३३३. द्र.। j) उप. = १पिण्ड-। k) विप. (विष्णु-। l) वैप १ द्र.। m) विप.। बस.।

पुरोडाशै(श-ए)कदेश-तसः(ः) जैश्रौ-
का १८७.
पुरोडाशय^१ - श्याः चाश्र १:४;
-श्यान् वैश्रौ ४, ४:७; ५:
२x४; हिश्रौ; -श्र्यैः हिश्रौ ३,
८,६५; ५,१,१५.
पुरो-दाश^२ - शान् बौश्रौ ७,८:१५;
-शेन वाधूश्रौ ४,१९^३:१६.
?पुरोह- > पौरुह- प्र√रूह >
प्र-रोह- टि. द्र.
√पुर्व^४ पाधा. भ्वा. पर. पूरणो; चुरा.^०
उभ. निकतने.
पुर्वच्, कच्- प्रसृ. १पुस्- द्र.
√पुल् पाधा. भ्वा. पर. महत्वे;
चुरा. पर. महत्वे संधाने च.
पुल्- (>पुल्-स-, पुव्य- पा.) पाग
४,२,८०^२.
पुल्क^५ - पाउभो २,२,११०; पाग ५,
२,३६; -कःम गृ २,२१:८;९.
पुल्कित- पा ५,२,३६.
पुल्स्ति^६ - पाउवृ ४,१८०; पाग ४,
१,१०५; -स्तयः बौश्रौ प्र ४:
२^६; -स्तये शुप्रा ५,३७^६.
पौलस्य- पा ४,१,१०५.
पुल्स्य^७ - पाउभो २, ३, ४; -स्तयः
अप ५२, १०, ४; -स्त्यम् अप
४३, ३, १५.
पुल्ह^८ - हः अप ५२, ४, १०; -हम्
अप ४३, ३, १६.

पुलाक- पाउभो २,२,१४.
पुलिक- पाउभो २,२,१५.
पुलिन^१ - पाउ २,५३; पाग २, ४,
३१; ४, २, ८०; ,६३, ११८;
-नेषु विध ८५,५६.
पौलिन्य- पा ४,२, ८०.
पुलिन-व (त >)ती- पा ६,
३,११८.
पुलिनद्^२ - पाउ ४, ८५; -न्दः वैध
३,१४,२; -
पुलिनद्-क^३ - कः अप ५०,२,५.
पुलीकय^४ - याः अप्रा ३,४,१^५.
पुलु (=१पुलु) - > ऋ पुलु-काम^५-
-मः निघ ४,३; या ६,४४.
पुल्व(लु-अ)घ^६ - घः या १३,३^६.
पुलुष^७ - पावाग ८,२,१८.
पुलोमन^८ - > पौलोम^० - मान् बृदे
७,५३.
पौलोमी^९ - मी ऋअ २, १०,
१५९; बृदे ८,६३.
पुल्कस^{१०} - पाउभो २, ३, १७४; -सः
वाध १८,५; बौध; -सात् वैध
३, १५, १०; -सानाम् विध
१६,९.
पौल्कस^{११} - सः आपघ २,२,६;
हिध २,१,२८.
पुल्कस-मागध- धौ विध १६, ५.
√पुष्^{१२} पाधा. भ्वा. दिवा. क्र्या. पर.
पुष्टौ; चुरा. उभ. धारणे, पोषति

या ५,१४; १०,३४.
पुष्यति हिश्रौ १७, ५, २७; कौष्ट
३,१०,३०^१; आश्रित्य; या १२,
१६; पुष्यन्ति हिश्रौ १७, ७,९;
नाशि २, १, ११; ऋपुष्यसि
बौश्रौ ९,९:१०; बौष्ट २, १,
१०; पुष्यामि आपमं २, ११,
३२^१; पुष्यताम् मागृ २, ११,
१२^१; पुष्यतम् आपमं १,
११, ७^१; पुष्येम् शांश्रौ १८,
१५,५^१.
पुष^२ आपश्रौ ६,१७,६; ऋपुषे-
यम् आपश्रौ ४, १०, १; बौश्रौ;
पेषम् काश्रौ २,१,३^१.
ऋपुषोष आपश्रौ ४,५,५; भाश्रौ
४,७,२; हिश्रौ ६,२,६; या १०,
३४^१; ऋपुष्यासम्^३ बौश्रौ ३,
८:२५; ९:३; हिगृ १, १८,४;
पुष्यास्म कौसू ८९, १३^१.
पोषयति बृदे २, ६३; पोषयेत्
वैध १, ७, ६.
पुष्यते विध ९०,५.
ऋपुष्वस- -ज्वान् या १, ८; शैशि
५५.
ऋपुष्ट- -ष्टम् शांश्रौ १६, ४, ४;
आपश्रौ; या १०,१५^६; -ष्टस्य
कौसू ७२, १४^७; -ष्टे हिगृ
२,१७,४^७; अप ६,१, ८^७; अश्र
३, १०^७; अप ३: २६^७, -ष्टेषु

a) वैप १ द्र.। b) वैप २, ३खं. द्र.। c) तु. BPG.। d) =रोमान्, मणि-विशेष- [मागृ.]।
e) विप., व्यप. (ऋषि-। f) बहु. <पौलस्य-। g) पाभे. वैप १,२०५५ g द्र.। h) =ऋषि-विशेष-।
व्यु. ?। i) नाप.। व्यु. ? <√पुल् इति प्रायोवादः। j) नाप. (म्लेच्छ-)। व्यु. ? <√पुल् इति प्रायिकम्।
k) =पुलिनदनिवासजनपद-। कः प्र. उंसं. (पा ४,२,८०)। l) वैप १,२०४१ i द्र.। m) =पुस्व-। तु. पागम.।
n) =दैत्य-विशेष-। व्यु. ?। o) अपत्यार्थे अण् प्र.। प्रकृतिभावाऽभावः (पा ६,४, १००)। p) =इन्द्राणी-।
q) =पुल्कस-। स्वार्थे प्र.। r) पा ३,१,५५ परामृष्टः द्र.। s) पाभे. वैप २,३खं. पुष्यासम् माश १४,९,४,२३
टि. द्र.। t) पाभे. पृ ११८७ e द्र.। u) पाभे. वैप १,२०५६ g द्र.। v) पाभे. वैप १ सहस्रपोषम् मा ४,
२६ टि. द्र.। w) पाभे. वैप १,२०५६ h द्र.। x) पाभे. वैप १,२०५५ x द्र.। y) पाभे. वैप १,२०५० e
द्र.। z) पाभे. वैप १,२०५० f द्र.।

शांश्रौ १२, १३, २; वैताश्रौ
३२, १७; या १३, ४; -ष्टैः
आपश्रौ ९, १४, १.
पु(ष्ट्र>)ष्टा-वत्- -न्वत्: ऋषा
९, १७; उस् ४, १९.

पुष्टि^१- -ष्ट्ये कौस् ३, १२; -ष्टिः
आश्रौ २, २, १७^क; ६, ९, १;
आपश्रौ; माश्रौ १, ६, १, १५^क;
वाश्रौ १, ५, २, १७^क; हिश्रौ
३, ७, २८^क; हिष्ट २, १७, २^क;
या १४, २२^०; -ष्टिना अप्राय
६, ६^क; -ष्टिम् आश्रौ ३, १०,
८; शांश्रौ; काश्रौ ५, १३, १^२^क;
आपश्रौ ४, ६, २^क; १४, २८,
४^क; भाश्रौ ४, ८, ३^क; वैश्रौ
२१, १५: १५^क; हिश्रौ ३,
७, १०५^क; ६, २, ११^क; १५,
७, १२^क; आमिष्ट १, ४, १:
२०^क; ^कबौष्ट^१ २, ८, ३८; ३९;
भाष्ट ३, १४: १७^क; -ष्टेः
या ११, ४९^क; -^कष्टौ^१ कौष्ट
४, ४, १५; शांष्ट ४, १८, १०;
-ष्ट्या आपश्रौ ५, १०, ९^क;
हिश्रौ; -ष्ट्यै शांश्रौ ७, ५, १४^क;
काश्रौ.

पौष्टिक^१- -कम् अप २६, २,
२; आज्यो ५, ४; -के अप २१,
३, ३; २५, १, १०××.

पौष्टिक-होम- -मः अप
१८^२, ८, १.

१पुष्टि-कर्मन्- -र्मणि कप्र १,

५, ६.
२पुष्टि-कर्मन्- -र्म बौध २, ८,
१; -र्मणाम् कौस् २४, ४५^१;
-र्मसु कौस् ७, २; -र्मा गोष्ट
३, १०, १.

पुष्टि-काङ्क्षा- -क्षया आमिष्ट
३, १२, १: १८.

पुष्टि-काम, मा- -मः आश्रौ १०,
२, २३; काश्रौ ४, १४, २२;
आपश्रौ; -मम् आपश्रौ १७,
१९, ७; बौष्ट २, ५, ५; -मस्य
काश्रौ २३, २, १२; आपश्रौ ५,
१४, १; बौश्रौ; -मा वैष्ट ३, ७:
२६; -माय अशां १९, ४^क.

पुष्टि-कारक- -कम् या १४, ३२.

पुष्टि-सु^१- -सुः ऋअ २, ८, ५०;
अअ २०, ५१.

पुष्टि-दावन्- -वा कौस् ७२,
१८^क.

पुष्टि-पति- -^कतये शांश्रौ २, १०,
१; काश्रौ ४, १४, २२; आपश्रौ
६, १३, २; १४, २१, ७^क; वाश्रौ;
-^कतिः आश्रौ ३, ८, १; शांश्रौ;
काश्रौ ५, १३, १^क; आपश्रौ १४,
२८, ४^०; वैश्रौ २१, १५: १५^०;
हिश्रौ^० ३, ७, १०५; १५, ७, १२;
आमिष्ट १, ४, १: २०^०; बौष्ट^० २,
८, ३८; ३९; भाष्ट ३, १४: १८^०;
-तिम् काष्ट २२, २; ३; -०ते
आश्रौ ६, ९, १^क; -तौ हिश्रौ
१५, ५, २७.

पुष्टि-प्रवाद- -दस् निस् ६, ७:
३९.

पुष्टि-मत्- -मत् काष्ट ५, १३,
३^क; -मते वाधुश्रौ ४, १०८:
९^क; -मन्तम् माश्रौ १, २, ६, ४^क;
-मन्तौ आश्रौ २, १, २७; १८,
५××; काश्रौ; -^कमान् आपश्रौ
४, १३, २^क; बौश्रौ २७, १४:
९^क; भाश्रौ ४, १५, ६; १९, ४^क;
८, ३, १^क; माश्रौ १, ४, १, २७;
२, ६^क; वाश्रौ १, १, ३, १; ६^क;
हिश्रौ ६, ३, २; ४, १^क; ४२^क;
भाष्ट.

^कपुष्टिमती- -ती आपश्रौ ३,
१०, ९; ४, १३, ३^क; भाश्रौ
३, १२, ८; वैश्रौ ७, ११: ४;
-त्यै आपश्रौ २०, ४, ३; बौश्रौ
१५, ५: २२; हिश्रौ १४, १,
३८.

^कपुष्टि-वर्द्ध^१, ध^१न^१- -०न कौस्
७०, १; -नः आश्रौ २, ५, १२;
शांश्रौ; -नम् बौश्रौ ५, १६:
२०^०; द्राश्रौ १३, ३, ३^क; लाश्रौ
५, ३, ७^क; वैताश्रौ ९, १९^क; अप
१८, १, ५^क; या १४, ३२^क०.

पुष्टी(ष्टि-इ)च्छु- -च्छुः काश्रौ
१८, ५, १२.

पुष्ट्य(ष्टि-अ)र्थ- -र्थेन आपध २,
२०, ३.

पुष्ट्य^१- पा ३, १, ११६; -०व्य
अशां २, १; -व्यः अप १, १,

- a) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । b) पाभे. वैप १ रन्तिः शौ ३, १०, ६ टि. द्र. । c) तु. राज. ।
d) एकतरत्र पाभे. वैप २, ३ खं. पुष्टिः तैत्रा २, ५, ७, ४ टि. द्र. । e) पाभे. वैप १ वृष्टिम् काठ ५, २ टि. द्र. ।
f) पाभे. वैप १, २०५६ m द्र. । g) पाभे. वैप १, २०५७ e द्र. । h) विप. । ठञ् प्र. (धा ५, १, १०९) ।
i) विप. । बस. । j) = मन्त्र- । k) वैप १ द्र. । l) उप. < √दा (दाने) । m) पाभे. वैप १, २०५७ m
द्र. । n) पाभे. वैप २, ३ खं. पुष्टिपतिः माश ११, ४, ३, १६ टि. द्र. । o) पाभे. वैप १, २०५७ i द्र. ।
p) पाभे. पृ १५५३ a द्र. । q) पाभे. वैप १, १९७९ a द्र. । r) लाश्रौ. या. पाठः । s) पाभे. वैप १,
१८९६ j द्र. । t) = नक्षत्र-विशेष- ।

२०, २, १; ३, १××; काशु ७, ३५;
-ष्यम् अशां २, १; -ष्यस्य
अशां ६, २; -ष्यान् अप १, ४, ३,
६; -ष्याय शां १, २६, ६१;
अशां १२, १; -ष्ये अप १, ४, २;
२७, २××; विध ७८, १३; -ष्येण
शां १, २०, २; पाठ.

१पौष- पावा ६, ४, १४९.

पौषी^०- षी कौस्
१४१, ४२; विध ९०, ३; -षीम्
द्राण ३, २, २४; -ष्याम् वैताश्री
२८, ३; कौस् १४१, ५; अप
१८, ११, १; विध ९०, १९.

२पौष^०- षस्य पाठ
२, १२, १; कौस् १३९, २४^१;
-षे अप ५५, ३, १; वैध २, १२,
७.

पौष-कृष्ण-समा-
पित्- -पिनः वेज्यो ५.

पौष-भाद्रपद्-
ज्येष्ठ- -ष्ठाः बौध ४, ५, २४.

पुष्य-यु(क्त>)क्ता- -क्ता विध
९०, ३.

पुष्य-स्नाना(न^०-आ)दिक्-
-कम् शंघ^११००.

पुष्या(ष्य-अ)भिषेक- -कः अप
१८, ११, १; ३३, ७, ६; -कस्य
अप ५, १, १.

पुष्या(ष्य-अ)भिषेचन- -ने अप
५, ५, ७.

पुष्यत्- -ष्यन् वृदे २, ६३.
पुष्यन्ती- -न्त्याः बौश्री ६, १५;
५१.

पुष्यमाण- -णः माण २, ११, १७^१.
पुष्यसे^० बौश्री ६, ४ : ७; १०,
१३ : ६.

पौषोष^१- -०ष जैग १, १२ : ९;
-षः शाश्री २, ११, ६; ४, १२,
९^१; आपश्री; बौश्री^१ ३, २१ :
१३; ११, ११ : १७; हिश्री
१३, २, ९^१; -षम् आश्री १,
९, ५; १०, ८××; शाश्री; आपश्री
२०, २०, ९^१; पाठ २, ६, २०^१;
या १, ८; -षस्य आश्री १, ७,
८; बौश्री १४, ८ : १५; आण
२, ८, १६^१; कौग ३, २, ६^१;
शां ३, ३, १; माण २, ११,
१२; -षाः भाश्री २, २, ६;
माश्री १, ८, ३, ३; वाश्री; -षान्
हिश्री १७, ७, ९; तैप्रा ९, २, १;
-षाय शाश्री ४, ८, १; १६, ४, ४;
आपश्री; माश्री १, ५, ३, ६^१;
आण १, ७, १९^१; कौग १, ८,
२८^१; शां १, १४, ६^१; पाठ
१, ८^१, १; आम्रिण १, १, २ :
४८^०; ५, ४ : ४४; काण २५,
२७; ४२^१; ४१, ७^{२०}; बौग १, १,
२८; भाण १, १७ : ४; वैग ३,
४ : ९; हिण १, ४, ८^०; २१,
१; जैग १, १२ : १०^०, या

६, २१; -षे शाश्री १, १२, ५;
बौश्री; आम्रिण १, १, २ : ४९^१;
काण ४१, ७^१; हिण १, ४, ८^१;
जैग १, १२ : १०^१; अप ६, १,
८^१; अप ३ : २६^१; -षेण शाश्री
२, ११, ५; १२, १०; ४, १२, ९^१;
आपश्री १, १२, ११××; ५, २, ४^१;
११, ५^१; १८, २^१; बौश्री २, १६ :
३८^१××; ३, २, १३^१; ११, ११ :
१७^१; भाश्री; माश्री २, १, १, ६^१;
वाश्री^१; १, ४, २, १४^१; हिश्री
६, ५, ११; १३, २, ९^१; शां
३, ११, १४^१; पाठ ३, ९, ६^१;
-षेषु या १३, ४; -वैः आश्री
२, ३, २७; शाश्री.

पोष-सुत्र- -त्रयोः शुप्रा ३, २५.
पो(ष्य>)ष्या^०- -ष्या आश्री ६,
१४, १८; आपमं १, ८, ९; कौग
१, १०, १३^१; शां १, १७, ३^१;
-०ष्ये पाठ १, ८, १९^१.

१पोषण- -णम् सुध ८; आज्यो
५, ८; -णात् बौश्री २५, १३ :
२५.

पोषणा(ण-आ)दि-परिचर्या-
जीविन्- -वी वैध ३, १३, १०.

२पोषण^१- >०णी- -णी शंघ ४२.

पोषयित्- -त् या १०, १५.

पोषयित्नु- पाठ ३, २९; -पुन्तु
आश्री १, १०, ५; ३, ८, १;
शाश्री १३, ४, २; आपमं २, १८,

a) उत्तरेण संधिरार्षः। b) = पौर्णमासी-। c) = मास-। अण् प्र. (पा ४, २, २०)। d) ष्यस्य इति पाठः? यनि. शोधः (तु. पाण.)। e) = स्नान-विशेष- (तु. उत्तरे प्राति.)। सस. > बस.। f) सपा. काश्री २५, ५, २८ आण २, ९, ५ मोदमानः इति पामे.। g) वैप १ द्र.। h) भाप., नाप.। i) पामे. वैप १, १९७३ d द्र.। j) पामे. वैप १, २०५९ ७ द्र.। k) सप्र. वाण १२, ३ हिण १, ४, ३ विभे.। l) पोषस्व इति पाठः? यनि. शोधः (तु. शां. माण. गसं. Old. च)। m) पामे. वैप २, ३खं. पोषेण तैप्रा १, २, १, १९ टि. द्र.। n) पामे. वैप २, ३खं. वृत्ताय टि. द्र.। o) पामे. वैप १, ११८६ f द्र.। p) पामे. वैप १, ११८६ h द्र.। q) पामे. वैप १, २०६० b द्र.। r) पामे. वैप १, १९७४ b द्र.। s) पामे. वैप १, २०६० d द्र.। t) परस्परं पामे.। y) कर्तारि कृत।

४७; या १०, १५^क.
 पोषयित्वा वैध १, ७, ५.
 पोषित-तम् आम्रिष्ट १, ७, ४:४.
 √पुष् √व्युष् टि. द्र.
 १पुष्क^१- (> १पुष्क-ल-, पुष्क-वत्-
 पा.) पाउभो २, २, ५; पाग ५,
 २, ९७.
 २पुष्क- > पौष्क^१- (> पौष्कायण-
 पा.) पाग २, ४, ६१.
 ३पुष्कर- पाउ ४, ४; पा, पाग ४, २,
 ८२; पाग ४, १, ४१; २, ९५;
 ५, २, १३५; -रम् अप २२, ३,
 १; शंघ^१ ११६: १२^२; १३;
 वृदे ५, १५५; अत्र १२, ११;
 निघ १, ३१^०; या ५, १४^० ११^०;
 १४, ११^०; -रस्य आपश्चौ ५,
 २, ४; वाश्चौ १, ४, २, २;
 -राणि अप ४२, २, ४; -रारात्
 आश्चौ २, १६, २; शाश्चौ; -रे
 शंघ १२४^१; विघ ८५, ३^१; वृदे
 ५, १५४, या ५, १४^१; -रेषु
 विघ ८५, १.
 पुष्करी- पा ४, १, ४१.
 पौष्करेयक- पा ४, २, ९५.
 पुष्कर-तन्तु- > °न्तु-गोवाल-नुटि-
 सर्षप-यव- -वस्य अप २१,
 २, ४.
 पुष्कर-द्वीप- -पम् शंघ ११६: ५.
 पुष्कर-नाल- -लस्य कालु ७, २३.
 पुष्कर-पर्ण- -र्णः हिश्रौ ३, ३, ३७;
 -र्णम् काश्चौ १६, २, २५; १७,
 ४, १; आपश्चौ; -र्णात् हिश्रौ ३,

३, ३८; -र्णानि आम्रिष्ट २, ५,
 १०: ४; ११: ३; -र्णे काश्चौ
 १६, २, २९; आपश्चौ १६, ३, ४;
 २२, ३; माश्चौ; -र्णेन बौश्चौ २२,
 १: १४; -र्णेषु आम्रिष्ट २, ५,
 १०: १९; ११: १७.
 पुष्करपर्णा(र्ण-आ)दि- -दयः
 बौश्चौ १२, १०: ५६; -दिभिः
 बौश्चौ १२, १०: ५४.
 पुष्कर-पलाश- -शाम् माश्चौ १, ५,
 २, १८; -शे जैश्चौ १; द्राश्चौ
 २, १, ११; लाश्चौ १, ५, ८; -शेषु
 हिश्रौ २२, ६, ६; -शैः आपश्चौ
 १२, २६, १.
 पुष्कर-संवर्त-मूल- -लैः आपश्चौ
 २, १०.
 पुष्कर-सद^१- पा, पाग २, ४, ६३^१;
 पाग ४, १, ९६; ७, ३, २०.
 पौष्करसादि- पा ४, १,
 ९६; ७, ३, २०; पाग २, ४, ६१;
 -दिः बौश्चौ ४८: १०; -देः
 तैत्रा ५, ३७; १२, १६^३ x x; पावा
 ८, ४, ४८.
 पौष्करसादायन- पा २,
 ४, ६१.
 पुष्करसद्-ग्रहण- -णात् पावा
 ७, २, ११७.
 पुष्करसादि^१- -दिः आम्रिष्ट १,
 १, ३: ५०; हिष्ट १, ६, ८^१;
 आपथ १, १९, ७.
 १पुष्कर-स्रज^०- -स्रजम् आश्चौ २,
 ७, १३; शाश्चौ; -स्रजा आपथं

१, १२, २; २, १२, २; बौष्;
 -स्रजौ आयु १, १५, २; पाग् २,
 ४, ८^१; आम्रिष्ट.
 पुष्करि(त् >)णी^०- पा ५, २,
 १३५; -र्णी कौस् १०६, ७^१;
 या ७, ३; -ण्यः बौश्चौ १८,
 ४५: २४; -ण्याम् अप १८^२,
 १५, १; ३९, १, २.
 पुष्करिणी-कूप-तडाग- -नानाम्
 शाग् ५, २, १.
 पुष्करिणी-गत- -तान् अप ६८,
 २, २७.
 पुष्करिणी-पर्ण- -र्णे अप ६८, २,
 ७.
 पुष्करद^१-
 १पुष्कल- १पुष्क- द्र.
 २पुष्कल^१- पाउ ४, ५; पाग ४, १,
 ४१; २, ७५; ९५; -लम् काश्चौ
 २५, ५, १८; आपश्चौ २, १३, ४;
 १६, ९; बौश्चौ; वैध १, ७, ६^३;
 -लेन याशि २, ११३; -लेभिः
 भाशि ११७^१; -लेषु^१ आपश्चौ
 १२, २५, १६; हिश्रौ २२, ५, २६.
 पुष्कली^०- पा ४, १, ४१.
 पौष्कल- पा ४, २, ७५; -लम्^१
 लाश्चौ ६, ११, ४; १०, १, १६;
 निस्; -लस्य लाश्चौ ७, ९, ७^१;
 -लेन जैश्चौ २७^१.
 पौष्कल-श्रुध्यौ(ध्य-श्रौ)णिह-
 -हाः निस् २, १२: १७.
 पौष्कलेयक- पा ४, २, ९५.
 पुष्ट- पुष्टि- प्रष्ट. √पुष् द्र.

a) शुष्क- इति पाका. । b) तु. पाका. । पौष्पि- इति भास्व. प्रष्ट. । c) वैप १ द्र. ।
 d) = तीर्थ-विशेष. । e) अन्तरिक्ष-नामन्. । f) = उदक. । g) = आचार्य-विशेष. । h) पुष्करद- इत्यपि
 पासि. । i) = पौष्करसादि- । पूष. वृद्धयभावः । j) पौ^१ इति भाष्यम्, Böht [ZDMG ४३, ५९९] च ।
 k) पाप्ने. वैप १, २०, ६१ e द्र. । l) बप्रा. । विप., नाप. (सुवर्णपरिमाणविशेष- [काश्चौ २५, ५, १८]), व्यप.
 (ऋषि-). m) तु. C.; वैतु. रत्ना. °ल-सुक्तम् इति । n) विप. [(पुरस्य-) नक्षत्र- (आद्रपदा- [तु. C. टि.])] ।
 o) = वनस्पति- इति पागम. । p) = साम-विशेष- ।

√पुष्प^१ पाथा. दिवा. षर. विकसने.
 १पुष्प^२ - पा ४, १, ६४; पा, पाग ५,
 ३, १००; पाग ३, १, २७^०; ५, २,
 २४^०; ३६; -ष्यम् आपश्रौ १४,
 ३२, १^१; वैश्रौ २०, २८ : ५^१;
 जैश्रौ; या ५, १४^०; आज्यो
 १२, १^१; ३^१; -ष्पाणाम् अप
 ७०, ५, ५; -ष्पाणि आश्रिगृ २,
 ५, १ : १२; वैगृ ४, १२ : १०;
 गौपि; -ष्पात् पावा ४, १, ६४;
 -ष्पात् आज्यो १२, ४; -ष्ये
 अप ६४, ८, ७; ७०^२, ७, १४×४;
 आपध; -ष्येभ्यः बौध २, ६, ४;
 -ष्येषु अप ७०^२, २३, १३; विध
 ९९, १६; -ष्यैः आश्रिगृ २, ४,
 ६ : ५, १; वैगृ.
 १पुष्प-क^० (> यक. २पुष्पक^० -
 पौष्पक-पा.) पाग ५, ३, १००^१;
 ४, ३८.
 पुष्प-काल- -लम् वाध २८, ३.
 पुष्प-कुण-पुष्प-ज्वाह- पा ५, २,
 २४.
 पुष्प-तिल-चूर्ण-लाज-धूप-दीपा (प-
 अ)त्त- -तैः वैगृ ५, ७ : ७, ८.
 पुष्पतिला(ल-अ)क्षत- -तैः वैगृ ५,
 ६ : १५.
 पुष्प-तिला(ल-अ)क्षत-दर्भ- -र्मान्
 वैगृ ४, ४ : १३.
 पुष्प-दान- -नम् कप्र १, ४, ६.
 पुष्प-धूपा(प-अ)तुलेपन-दीप-नैवेद्य-
 -द्यैः विध ४९, २.
 पुष्प-पूर्ण- -र्णम् अप २०, ३, ४.
 पुष्प-अचायिका^० - पाठ २, ३, २.
 पुष्प-अदान- -नेन विध ९१, १३.

पुष्प-फल- -लम् या १, २०;
 -लानाम् सुधप ८७ : १३; -ले
 अप ७०^२, ६, ४; या १, २०.
 पुष्पफलो(ल-उ)पग- -गाः बौध
 १, ५, ५१; -गान् वाध १९,
 ११.
 पुष्प-फल-भक्ष- -क्षान् गौपि १, ६,
 ६.
 पुष्प-फल-मूल- -लानि वाध २,
 २६.
 पुष्प-फल-यव- -वान् कौगृ १, २, २;
 शां १, ६, २.
 पुष्प-फला(ल-अ)क्षत-मिश्र- -श्रैः
 बौगृ १, १, २४.
 पुष्प-म(य>)यी- -यीम् गौपि १,
 ६, ५.
 पुष्प-मूल- -लेषु पावा ४, ३, १६४.
 पुष्पमूल-प्रचयन- -नम् शंघ
 २५५.
 पुष्प-मूल-फल- -लानि वाध २,
 ४६.
 पुष्प-वत्- -वन्तः अप ७१, १५, १;
 आज्यो २, १०; -वन्तम् बौगृ
 १, ६, २२.
 पुष्पवती- -ती आज्यो १८, ४;
 -तीषु आपश्रौ १६, ४, १४;
 वैश्रौ १८, १ : ५५; हिश्रौ ११,
 १, ४१.
 पुष्प-वारी- -टीम् वृदे ६, ५६.
 पुष्प-विधि- -धिः आज्यो १२, २.
 पुष्प-साधारण- -णे माशि १, १०;
 नाशि १, ५, ४.
 पुष्प-हरित-गुल्म-वल्ली-लता-पर्ण-
 -र्णानाम् विध ५, ८५.

पुष्पा(प-अ)क्षत-फल-यव-हिरण्य-
 मि(श्र>)श्रा- -श्राम् कौगृ १,
 २, ३^१; शां १, ६, ५.
 पुष्पा(ष्य-अ)ज्या(ज्य-अ)दि-
 हस्त- -स्तः शंघ ४०.
 पुष्पा(ष्य-अ)ञ्जलि- -लिम् शंघ
 ११६ : ६९.
 पुष्पा(ष्य-अ)दि- -दि वैगृ २, २ :
 ४; ५, ६ : १७; -दिना वैगृ ३,
 २२ : ७; -दिमिः वैगृ २, १ :
 ११; ५, ६ : २३.
 पुष्पाद्य(दि-अ)लङ्कार- -रम् अप
 १८^१, १, २.
 पुष्पा(ष्य-अ)द्य- -द्यैः वैगृ १, ६ :
 ३; २, १ : ७×४; वैध ३, १०, ५.
 पुष्पा(ष्य-अ)पहारिन्- -री शंघ
 ३७८.
 पुष्पा(ष्य-अ)पुष-दक्षिणा (शा-अ)
 दि- -संभार- -रान् वैगृ ३,
 २२ : ५.
 १पुष्प(>)ष्पा-व(त्>)ती- -तीः
 विध ६५, ९^१; तैश्रा ३, ५^६.
 पुष्पा(ष्य-अ)शिन्- -शी विध ९५,
 ७.
 पुष्पि(न्>)गी- -गीः बौश्रौ १०,
 २४ : १८; वैश्रौ १८, १५ : ५^१;
 -गीम् याशि २, ५०^१; -ण्यौ
 शांश्रौ १५, १९, १^१.
 पुष्पित, ता- पा ५, २, ३६; -ताः
 अप ६८, २, २२; -तानाम् विध
 ५०, ४८; -ते अप ७१, १६, १.
 पुष्पो(ष्य-उ)पगम-द्रुम- -च्छे-
 दिन्- -दी विध ५, ५६.
 √पुष्प्य पा ३, १, २७.

a) या ५, १४ परामृष्टः द्र. । b) बप्रा. । अर्धर्चादित्वं द्र. । c) तु. पागम. ।

d) = स्त्री-रजस्- । e) <पुष्पक-क- । f) = विमान- इति पागम. । g) = क्रीडा-विशेष- (तु. पा ६, २, ७४) ।
 h) श्रान् इति पाठः ? यनि. सोधः [तु. शांश्र.] । i) पाभे. वैप १, २०६२ C द्र. । j) ष्य^० इति जीसं. ।
 k) पाभे. वैप १, २०६२ d द्र. ।

२पुष्प^a->पौष्पि^b- -ष्यः वौश्रौप्र
२६ : ३.

पौष्पायण- पा २,४,६१.

१-२पुष्पक- प्रभृ. १पुष्प-द्र.

पुष्पि^c- -ष्यः वौश्रौप्र २७ : ९.

पुष्पिणी- प्रभृ. १पुष्प-द्र.

पुष्प्य- प्रभृ. √पुष् द्र.

√पुस् पाधा. चुरा. पर. संघाते^e.

√पुस्त पाधा. चुरा. पर. आदरा-
नादरयोः

पुस्त- पाउभो २, २, १३४; पाग
२,४,३१.

पुस्तक^d- पाग २, ४, ३१; -कम्
विध १८,४४; २३,५६.

पुस्तक-प्रत्यया(य-अ)धीत- -त्म्
नाशि २,८,१९.

!पुस्तक-वाच^e- -द्यम् नाशि २,८,
२९.

√पू (बधा.)^g पाधा. भ्वा. आत्म.,
क्र्या. उभ. पवने, ऋपवते काश्रौ
९, ६, १५; ३४; आपश्रौ; अत्र
१८, २^h; या ७, २; १४, १२;
पवन्ते आपश्रौ १७, १८, १^h;
ऋपवसे आश्रौ २, १, २०; ३,
२९; ८, १२; काश्रौ; ऋपवताम्
बौश्रौ ९, ४ : ३०; १२ : ८×४;
वैश्रौ; ऋपवस्व, > स्वा आश्रौ
२, १, २०; शाश्रौ २, २, ५;
काश्रौ; ऋपवेथाम् आपश्रौ
१२, १८, २०; माश्रौ २, ३,
७, १ⁱ; वैश्रौ १५, २२ : ९;

ऋपवध्वम् आपश्रौ १२, १८,
२०; वैश्रौ १५, २२ : ९; ऋप-
वधाः आपश्रौ १२, १५, ८;
जैश्रौ ९ : १९; २०.

पुनीते वाधूश्रौ २, १४ : ४;
बौध; पुनाति आश्रौ २, १२,
६^h; काश्रौ १४, १, २७; १५,
१०, ९; १९, २, ९^h; आपश्रौ;
ऋपुनते आपश्रौ ४, १३, ४;
बौश्रौ २८, १ : ७; २ : ६;
भाश्रौ; पुनन्ति वाध ६, ३;
२६, ४; २८, १५; शोध;
ऋपुनीषे आश्रौ ७, ९, २;
शाश्रौ १२, १०, ६; ऋश्र २, ७,
८५; ऋपुने बौश्रौ ६, २ : २२;
भाश्रौ १०, ५, ५; ऋपुनामि वाश्रौ
३, ३, २, २८; कौप ५, ३, ३०;
आमिगृ; ऋपुनीमहे आपश्रौ १०,
७, १३; बौश्रौ २८, १ : २०×४;
वैगृ; ऋपुनातु काश्रौ २१, ४, १;
आपश्रौ १, ११, ७; १२, १, १८^l;
बौश्रौ; वैश्रौ २०, ३३ : ६^h; या
५, ६; ऋपुनन्तु काश्रौ १९, ३, २३;
आपश्रौ; या ५, ६; ऋपुनीहि शाश्रौ
१५, १५, ६^l; द्राश्रौ १३, ४, ७^m;
लाश्रौ; वैताश्रौ ३०, ९ⁿ; कौसू
२, १; पुनथ बौध ३, ६, ५^o; ६^p;
७^q; ८; ९^q; १०^q; पुनीध्वम्^r विध
४८, २०-२२; ऋपुनीत आपश्रौ
४, ५, ६; भाश्रौ; विध ४८, १८^o;
पुना(त>)वा^s ऋपा ७, ३३;

ऋपुनात् वाधूश्रौ ४, ८३ : ३^h;
कौप ५, ३, २०^h; आमिगृ ३,
६, १ : २८; बौपि १, ९ : ४^h;
पुनीयात् वाधूश्रौ २, १४ : ३.

पुपुतुः शाश्रौ १४, ६२, २.
पूयते अप २, ६, ३; वाध ३, ६१;
२३, २२; या १४, १५^h;
पूयन्ते वाध २८, १७; शोध.

पवयते वैश्रौ १५, २० : ५; पव-
यति आपश्रौ ६, ३, १४; १०, ७,
५×४; बौश्रौ; ऋपवयन्ते बौश्रौ
८, १४ : १०; पवयन्ति बौश्रौ १६,
१ : १७; २६, ३३ : २०; वाधूश्रौ
३, १६ : ४; पवयसि भाश्रौ १०,
५, १; पवयतु बौश्रौ १६, १ :
१७; पवयेत् बौश्रौ २१, ८ : १७;
२१; जैश्रौका ९५; १८४.

पवयिष्यामहे बौश्रौ १८, २६ :
१२.

पावयति काश्रौ ७, ३, १; आपश्रौ;
पावयतः काश्रौ १९, २, २८;
पावयन्ति आमिगृ २, ६, २ : २९^h;
पावयेत् काश्रौ १२, २, १९;
आपश्रौ १०, ७, ९; बौश्रौ.

पावयां √कृ, पावयांक्रियात् पा
३, १, ४२.

पवन^u- पाग ३, १, १३४ⁿ; -नः

विध ८, २९; आल्पो ७, १८;

-नम् आमिगृ ३, ४, ४ : २७;

-नस्य बौश्रौ १६, १ : ११; -ने

बौश्रौ १, ४ : २०^h; २१, ८;

a) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ? । b) पृ १६०९ b द्र. c) तु. BPG. । d) नाप. । व्यु. ? <पुस्त- इति
शक. । e) पूष. ? । f) वैप १ द्र. । g) या ५, ६ पा १, २, २२; ७, २, ७४; ३, ८०; ८, ४, ३२ परामृष्टः द्र. । h) पामे.
वैप १, १८८६ r द्र. । i) पामे. वैप १, २०६३ b द्र. । j) पामे. वैप १, २०६४ g द्र. । k) 'न्व' इति
पाठः ? यनि. शोधः (तु. तैत्रा १, ४, ८, ६) । l) पामे. वैप १, २०६५ f द्र. । m) पामे. वैप १, २०६४ n द्र. ।
n) पामे. वैप १, २०६५ d द्र. । o) सप्र. पुनथ <> पुनीत इति पामे. । p) सप्र. विध ४८, १९ नाशयध्वम्
इति पामे. । q) परस्परं पामे. । r) 'पुनत इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. तैत्रा ६, ३, २ आमिगृ.) । s) पामे.
वैप १, १००३ d द्र. । t) = वायु- । u) तु. पाका. । यवन- इति भाण्ड. प्रभृ. ।

१६××; वाव; -नेन बौश्रौ
 १२, ९: १७; आग.
 पवन-क्षोभ-संजात-बीची-
 शत-समाकुल- -लम् विध १,
 ३४.
 ?पवन-जल-मरण-रोग-रक्ष-
 क्षय- -याय अप ७०^३, २३, १४.
 पवमान^१ - > °मान्-वत्- -वान्
 भाश्रौ ५, २०, ७.
 पवमान, ना^१ - पा ३, २, १२८; -०न
 ऋप्रा ६, १२; ८, ४७^१; -न:
 आश्रौ २, १, १९; १२, ५; शाश्रौ ६,
 १२, ७^१; १०, १३, ५××;
 आपश्रौ ११, १४, १०^१; १०^१;
 या १४, १७^१; -नम् शाश्रौ २,
 ३, १०; आपश्रौ १३, २, ७;
 बौश्रौ; -नयो: आश्रौ ८, ६,
 ८; हिश्रौ १, १, २१; जैश्रौ;
 -नस्य शाश्रौ ६, ८, १४^१;
 बौश्रौ; -^१ना आपश्रौ ५, १३, ७;
 १६, ४; २६, ५; भाश्रौ; -ना:
 आश्रौ ६, १०, २२; शाश्रौ;
 -नात् आपश्रौ १३, ३, १; ११, १;
 बौश्रौ; -नान् शाश्रौ ६, ८, ९;
 बौश्रौ; -नानाम् शाश्रौ ८, १५,
 ७; बौश्रौ १४, ६: १××;
 -नाभ्याम् माश्रौ २, ४, २, ३९;
 लुस् १, ११: २५^१; -नाय
 आश्रौ ५, २, ४; शाश्रौ; -ने
 आश्रौ ५, १२, २६; १५, १६; १७,
 ४; शाश्रौ; -नेन शाश्रौ ७, १६,
 १; ८, १, ९; आपश्रौ; -नेभ्य:
 आपश्रौ १२, १७, १; १४, २५,
 १; १७, २३, ३; बौश्रौ १४, ६:

२; ९^१; -नेषु आश्रौ १, १२,
 २२; शाश्रौ ११, ११, ४; काश्रौ;
 -नौ शाश्रौ १४, २५, २; २६, २;
 ३३, २; आपश्रौ.
 पावमान^१ - न: भाशि
 १२१; -नम् ऋश्र २, ९, १; वृदे;
 -नस्य माश्रौ ५, २, २, ६^१;
 लाश्रौ ६, ११, २; -ना: शागृ ४,
 १०, ३^१; -नानि लुस् २, ९:
 २^१; -^१नाय लाश्रौ ७, १०,
 २१; १२, ३; -ने गोय २, ३, ४४;
 जैय १, १४: १२; -नेन आपश्रौ
 १९, २४, ६^१; बौश्रौ.
 पावमानी^१ - नी बौश्रौ
 २७^१, ६: २३; २६; बौध ४, ६,
 २; ऋश्र; -नी: आश्रौ ५, १२,
 ११; आपश्रौ १७, ९, ८; वैश्रौ; माय
 २, १४, २६^१; -नीनाम् शाश्रौ
 ७, १५, १५; लाश्रौ ८, ५, १५;
 -नीभि: बौश्रौ २३, १६: १६^१;
 १८; आश्रिगृ; -नीम् निसू ७,
 ५: ११; लुश्र ३, १०^१; -नीषु
 निसू ८, ८: २; या ११, २;
 -न्य: ^१बौश्रौ २८, १: ७; २:
 ७; आगृ ३, ४, २^१; कौय २, ५,
 १^१; आश्रिगृ २, ४, ५: ८^१;
 अप; -न्याम् या १२, ३१.
 पावमान्य(नी-अ)ष्ये-
 वृ-स्तुति^१ - ती ऋश्र २, ९, ६७.
 पावमान्या(नी-आ)
 दि- -दिभि: आपध १, २, ६.
 पवमान-गत- -तयो: निसू २,
 ९: २२.
 पवमान-ग्रह- -हा: आपश्रौ १२,

१६, १२; -हागम् बौश्रौ २१,
 १८: १; -हान् वैश्रौ १६, २:
 ११; १२: १५; हिश्रौ; -हेभ्य:
 वैश्रौ १६, १२: १०; हिश्रौ ९,
 ३, ३३; -हौ वैश्रौ १६, १२: १५.
 पवमान-जप- -प: जैश्रौका
 ११२; १६१; -पम् जैश्रौ ११:
 २.
 पवमान-भाव- -वे आश्रौ ८, ४,
 २६.
 पवमान-मुख^१ - -खयो: निसू ७,
 ५: ३०.
 पवमान-वत् वृदे ६, १३०; मीसू
 १०, ४, २८; १२, ३, ७.
 पवमान-सर्पणा (ए-अ)न्त-
 -न्तम् वैताश्रौ २२, १५.
 पवमान-सामन्- -मनी निसू २,
 ९: २७^१.
 पवमान-स्तोत्र- -त्राणि वैश्रौ १५,
 १९: ६.
 पवमान-स्थान- -नेषु निसू ४,
 ११: ८.
 पवमान-हविस्- -विभि: वैश्रौ
 २, ७: ६; हिश्रौ ३, ५, ११;
 -विषाम् हिश्रौ ३, ५, १२; मीसू
 ५, ४, ८; -विषो: हिश्रौ ६, ५,
 १८; -वि:षु बौश्रौ २०, १८:
 १५; मीसू ११, ४, १२; -वीषि
 आपश्रौ ५, २१, १; ६, १६, ९;
 वैश्रौ १, १६: ५; २०, ४: १०.
 पवमाना(न-अ)च्छावाक-साम-
 न्- -न्नाम् निसू ६, ११: २९.
 ?पवमाना दनलोकम् वाश्रौ ३,
 २, ५, ३४.

a) = √पू इत्येवं भातुपरो निर्देशः [तु. सा (बुधन्वती- [तैत्रा १, ३, १, ३])] ।
 c) पामे. वैप १, ७३५। द्र. । d) सपा. ञ्ता: <> न्य: इति पामे. । e) = इष्टि-विशेष- । f) पामे. वैप १,
 २०६७। द्र. । g) पव इति पाठः? यनि. शोषः । h) न्यम् इति पाठः? यनि. शोषः [तु. बौध ४, ७, ५।
 ३) पस. > बस. । j) वैप २, ३३६. द्र. । k) ञ्नी इति संस्कृतुः दि. ।

पवमाना(न-अ)नुसन्त्रण- -णेन
वाश्रौ ३,४,३,१.

पवमाना(न-अ)न्त्य- -न्त्यम्
निसू ६,१० : १९; २५.

पवमाना(न-अ)न्वारम्भण- -णम्
वाश्रौ १,१,६,४.

पवमाना(न-अ)भिमन्त्रण- -णम्
वाश्रौ ३, २, २, ४३^३; -णानि
हिश्रौ १६, २, १७^३.

पवमाना(न-अ)हुति- -तीः
हिश्रौ ३,४,४,२.

पवमाने(न-इ)ष्टि- -ष्टिस्य बौध
१,६,४९.

पवमानो(न-उ)पाकरण- -णम्
काश्रौ ९,६,३४; १०,१,१६.

पवयित्- -ता बौश्रौ १६,१ : १६.

पवयित्वा बौश्रौ २, ८ : १३; १२,
१७ : १३×४; जैश्रौ ८ : २५.

पवयिष्यत्- -ष्यन् आपश्रौ १९,
१२, ९; बौश्रौ १९, ३ : २४;
हिश्रौ २३, २, २०.

पवित- वा १, २, २२.

पविता (त-अ) भिव्याहा (र>)
रा^० -रा निसू ९, ३ : १८; २१;
१०, ७ : ३५; -राः निसू ६, ११ :
९.

पवितवत्- पा १, २, २२.

पवित्र,त्रा^० -पा ३, २, १८५; १८६;
पाग २, ४, ३१; ४, १, ११०;
-त्रः शाश्रौ १५, १२, ५; काश्रौ
१५, १, ३^६; बौश्रौ; ऋश्रौ २,
९, ६७; ७३; ८३; साश्र १,
५६५^६; -त्रम् ऋश्रौ २, १२, ४;

४, ६, ३^३; शाश्रौ; आपश्रौ १,
१२, ६^६; १०, २६, १२^३; १२,
१२, १२^३; १४, ११^३; १६, १०^३;
११^३; १९, ६, ८^३; २१, २०, ७^३;
भाश्रौ १, ६, ११^३; १०, १७,
१८^३; माश्रौ १, १, २, २^३; २,
३, १, १८^३; वाश्रौ १, २, २, ६^३;
वैश्रौ ३, ५ : ११^३; ११, ५ : ६^३;
हिश्रौ १, ३, ३^३; जैश्रौ ८ : २१^३;
लाश्रौ १, १०, २०^३; कौश्र ३, १४,
१२^३; वैश्र १, ३ : ६^३; कौसू ६६,
१६^३; कप्र १, २, १०^३; २, १, ३^३;
अप ४८, ७५^३; बौध २, ६,
२६^३; निघश्र १, २^३; याश्र ५, ५^३;
श्रौ; १४, ११; १३^३; -त्रयोः
काश्रौ ३, ४, २१; बौश्रौ २०,
५ : १८; आपश्र १, १९; -त्रस्य
आपश्रौ १२, १३, १; बौश्रौ; -त्राः
आपश्रौ १०, ६, १^३; हिश्रौ;
-त्राणाम् विध ६४, ४०; -त्राणि
शाश्रौ ८, ९, २; वाश्रौ ३, ३, २,
७; सु; -त्रात् माश्रौ २, ४, ३,
२९^३; वैताश्रौ १६, १७;
-त्राभ्याम् काश्रौ २, ५, १३;
आपश्रौ; भाश्रौ २, ६, १३; -त्राय
शाश्रौ १५, १२, ३; -त्रे आश्रौ
२, १२, ४; ५, १२, १५; शाश्रौ ७,
१५, १३^३; काश्रौ; या १४,
१६^३; -त्रेण आश्रौ ९, ३, २;
शाश्रौ १५, १५, ६^३; आपश्रौ
१९^३, ७, १^३; ४-६; बौश्रौ; या ५,
६^३; -त्रैः आपश्रौ ४, ५, ६;
भाश्रौ ४, ७, ५; हिश्रौ.

पावित्रायण- पा ४, १, ११०.

पवित्र-क- -कम् जैश्रौका १९.

पवित्र-काम- -मः बौध ३, ७, ५.

पवित्र-काषायवासो-वर्जम् बौध
३, २, १४.

पवित्र-क्रिया- -यया बौध ४,
८, ४.

पवित्र-चमस-स्फ्य-कपाला(ल-
अ) विनहोत्रहवणी-शूर्प-कृष्णा-
जिन-शम्भो(म्या-उ)ल्लखल-मूस-
ल-दषद्-उपल-वेद-कुट्ट-सुव-जु-
हु(हु-उ)पभृद्-श्रवा-प्राशित्रहरणे
(ए-इ)डापात्र्या(त्री-आ)ज्यघान-
पात्री-संवपनपात्री- -त्रीः माश्रौ
१, २, १, ४.

पवित्र-दशा- -शाभिः आपश्रौ
१२, १४, ९; १०.

पवित्र-दीक्षा-स्थान- -ने काश्रौ
१५, १, १७.

पवित्र-नाश- -नो बौध ४, ९, ४.
पवित्र-पति^० -०ते आपश्रौ
१०, ७, १३; बौश्रौ ६, २ : २२;
भाश्रौ.

पवित्र-पाणि^० - -णिः वाश्रौ १,
२, ४, १२; आश्रिग २, ३, ३ :
४×४; वैश्र; -णी आश्रिग १, ७,
१ : ६.

पवित्र-पूत- -तस्य शुपा २,
१९^३.

पवित्र-वत्- -वता बौश्रौ २०,
१६ : २६; २१, ३ : १६; -वति
शाश्रौ १, १२, ८; आपश्रौ;
-वन्तः बौश्रौ १९, १० : ३०;

a) परस्परं पाभे. । b) विप. । वस. । c) वैप १ द्र. । d) = सोमयाग-विशेष- । e) = ऋषि-
विशेष- । f) = दशापवित्र- । g) पाभे. वैप १, १५१४ द्र. । h) = [प्रादेशमात्र-] दर्भमय-उपकरण- ।
i) पाभे. पृ ७८५ e द्र. । j) = (दर्भमय-)अनामिकावेष्टन- । k) = सव-विशेष- । l) = दर्भ- । m) = उदक- ।
n) = कुशमुष्टि- । o) पत्रेण इति । C. शोधः । तु. सप्र. बौश्रौ १७, ३४ : ७ श्येनपत्रेण इति पाभे. । । p) पाभे.
वैप १, २०६८ d द्र. ।

या १२, ३२कृ; -वन्तौ आश्रु ३,
२, २; आश्रु २, ६, ४: ४.

पवित्रवती- तीभिः गौध

२६, १०^a; -त्या बौश्रौ १९, १०:

३१^b; -त्या आपश्रौ १, १७,

१०; बौश्रौ १, ५: ६; १५;

५, ११: ७; -त्या: माश्रौ ४,

२, ३१; -त्याम् आपश्रौ १, २४,

१; बौश्रौ.

पवित्र-समूह- हेन बौध २, ४,

४.

पवित्रा(त्र-आ)ख्यान- नम्

बुदे १, ३६.

पवित्रा(त्र-अ)तिपवित्र- त्रस्य

बौध ३, ५, १.

पवित्रा(त्र-आ)त्मन्^b- त्मा

अप ३८, १, ३.

पवित्रा(त्र-अ)न्त- न्तेन वैश्रौ

१५, १५: ८.

पवित्रा(त्र-अ)न्तर(र>)रा^b-

-रा वाश्रौ १, ३, १, २४^c; -रा:

वाश्रौ १, २, ४, ८^d.

पवित्रा(त्र-अ)न्तर्हित, ता- तम्

आपश्रौ १, १६, ३०; -तान्

काश्रु ३९: ८; गोश्रु १, ७, ६;

कप्र १, ४, ९; -तायाम् आपश्रौ

१, ११, ९; २, ६, १०; भाश्रौ; -ते

भाश्रौ १, १८, १; माश्रौ; -तेषु

गौपि २, ३, १४; शंघ २१४.

पवित्रा(त्र-अ)र्थे^e- र्थान् आपध

१, २७, २; हिध १, ७, २७.

पवित्रे(त्र-इ)ष्टि- ष्टिः बौध ४,

६, २; -ष्टिम् आश्रौ २, १२, ६^f;

बौश्रौ २८, २: ५७; वाध; -ष्ट्या

बौश्रौ २८, २: २^f; -ष्याम्

आश्रौ २, १२, १.

फ(वि>)वीत्^g- -०तारः ऋप्रा

९, ५१; -तारम् ऋप्रा ९, ५२^h.

२पावक, कर्ⁱ- पावा, पावाग ७, ३,

४५; -फं०क आश्रौ २, १, २५ⁱ;

३, १२, २७××; शाश्रौ; या १२,

२२-२५; -फं०क आश्रौ २, १,

२५; १२, २^j; ५; ३, १२, २७;

शाश्रौ; -कम् शाश्रौ २, ३, १०;

कौसू ७३, १^k; कप्र; या १४, ५;

-फं०कया आश्रौ २, १२, ३;

बौश्रौ; -कस्य बौश्रौ २८, २:

३०; ३९^k; वैश्रौ; -फं०का

आश्रौ २, ८, ३; शाश्रौ २,

४, ४; ७, १०, १५; काश्रौ;

या ११, २६; -फं०का: आपश्रौ

१०, ६, १^l; बौश्रौ; -काय शाश्रौ

२, २, ७; १४, २, १४: १८; काश्रौ;

-के आश्रु २, ४, १०: ३;

११; कौसू.

पावक-दीप्ति^m- सिम् या ४,

१४.

पावक-वत्- वते शाश्रौ ३, १९,

१५; आपश्रौ ९, १, १४ⁿ;

भाश्रौ; -वन्तौ आश्रौ २, १२, ३;

बौश्रौ २८, १: १७; २: २२;

-वान् आश्रौ ३, १२, २६.

पावकवती- श्यौ आश्रौ २,

१२, २; बौश्रौ २८, १: १६; २:

२१; वैश्रौ २०, ३३: ९.

पावक-वर्ण^o- र्णाथ गौध २६,

१२^k.

पावक-शुचि^p- श्चिभ्याम्

आपश्रौ ५, २१, ७.

फं०पावक-शोचि^q- -०चे आश्रौ

४, ७, ४.

फं०पावक-शोचिस्^r- श्चिभ्यम्

आश्रौ ७, ११, १४; १७; या

४, १४^l.

पावका(क-अ)भिव्याहा(र>)

रा^b- रा: निसू ६, १३: १.

पावन्^s- पाग ४, १, ४१; -०न

विध १, ५७; -नम् काश्रौ १०,

३, १७; माश्रु; अप ४८, ७५^t;

-नानाम् अप ३८, १, १; -नानि

वाध २२, ९; बौध ३, १०, ११;

गौध १९, १३; -नाथ अप ७०,

१, १०; बुदे ८, ९२; -ने वाध

१, १६.

पावनी- पा ४, १, ४१; -नी

विध ९९, ४.

पावना(न-अ)र्थ- र्थम् वैश्रौ १,

४: ४.

पावयत्- यन्तम् वैताश्रौ ३०, ९.

पावयित्वा माश्रौ २, १, १, ४५; बौध

३, १, ८; वैध ३, १५, १३.

पावित- तः माश्रौ ५, २, ११, २१;

अप ४१, ३, १०.

पाव्यमान, ना- नः आपश्रौ १०,

७, १२; भाश्रौ १०, ५, ४; हिश्रौ

१०, १, ५०; वैताश्रौ ११, १०;

-नाम् वैताश्रौ ३०, ७.

फं०पुनत्- नन् आश्रौ^u १०, ८, १२^v;

१३^v; शाश्रौ १६, ४, २; लाश्रौ^w

९, १०, ३^v; ४^v; वैताश्रौ ३६, ३१;

-नन्तः या ४, २.

पुनती- फं०वी आपमं २, २, ९;

a) = ऋन्- । b) विप. । बस. । c) पाठः ? शंम् इति शोधः [तु. सप्र. आपश्रौ २, ६, १ पवित्रान्त-
हितायाम् इति पामे.] । d) उत्तरेण संघिरार्षः । e) = मृगारादथे(या-इ)ष्टि- इति भाष्यम् । f) वैप १ द. ।
g) पामे. वैप १, २०६७ m द. । h) = [उपचारात्] इष्टि-द्वय- । i) विप., नाप. । j) = उदक- ।
k) पुनर्विक- इति पाठः ? पुनत् इव इति शोधः (तु. मा २३, १६; १७) ।

कौट २, १, २९; शां.प.
 ऋणान, ता- -नः आपश्रौ १६, २०,
 १४; हिश्रौ ११, ६, ६१; छसू;
 या ६, २८; -नाम् निसू ९, ४:
 २१; -नाय ऋञ्च २, ९, १०३.
 सुपूषमाण- -णः बौश्रौ १४, १३:
 १६.
 पूत, ता- पाग २, ४, ३१; -तः शांश्रौ
 १५, १२, ५; काश्रौ; -ऋतम्
 आपश्रौ १०, ७, १३; १९, २१,
 १७; बौश्रौ; कौसू २, ३२^३;
 -ता आम्रिण २, ६, २: १८^३फं;
 वाघ २१, १-३; ६-८; बौघ
 २, ५, ११फं; -ऋताः आपश्रौ
 १, १४, ३; बौश्रौ १, ३: २६;
 भाश्रौ; -तान् अप २, ६, ५;
 -ताम् काश्रौ १९, २, ८; आपश्रौ;
 -ऋते^३ आपश्रौ १, ११, ९; बौश्रौ
 १, ४: १९; भाश्रौ; -तेन जैग २,
 १: ३९फं; गो २, २६.
 पूत-काम^३- -मः आम्रिण २, ४,
 ५: १.
 पूत-किखिब^३- -षः अप ४१,
 ३, १०.
 पूत-ऋतु^३- > पूतऋतायी- पा,
 पावा ४, १, ३६.
 ऋणपूत-दक्ष^३- -क्षम् आश्रौ ७,
 २, २; ५, ९.
 २पूत-दक्ष^३- -क्षः ऋञ्च २, ८,
 १४; साञ्च १, १४९; १७४.
 पूत-भृत्^३- -भृत् जैश्रौ १८:
 ९; द्राश्रौ ३, ४, ३८; लाश्रौ १,
 १२, २२^३; -भृत्तः काश्रौ ९, ५,

२०; १०, ४, ३××; आपश्रौ;
 -भृत्तम् काश्रौ ९, २, २०;
 आपश्रौ; बौश्रौ ७, ७: ३०^३;
 -भृत्ति काश्रौ ९, ७, ३; १४,
 २××; आपश्रौ.
 पूतभृद्-आधवनीय- -ययो:
 बौश्रौ २३, ५: २०; -यौ काश्रौ
 ९, ७, १२; आपश्रौ.
 पूत-यव- पाग २, १, १७^३.
 पूता(त-आ)त्मन्^३- -त्मा बौघ
 ४, ७, १०.
 पूत्रिम^३- -मम् अप्रा ३, ४, ५फं.
 पूत्वा काण २५, ९फं.
 पूत्वी ऋप्रा ४, ६३फं.
 पूत- पावा ८, २, ४४.
 पूयमान- -नः ऋप्रा ८, ७फं; -नस्य
 या ५, १२; -नाः आपश्रौ १७,
 १८, १फं.
 पूयमान-यव- पाग २, १, १७.
 पूः^३ आपश्रौ ४, ४, ४^३; भाश्रौ ४, ५,
 ५; वाश्रौ १, १, २, १६; हिश्रौ
 ६, १, ५१^३.
 पूर-इत्रा(म>)मा^३- -मा आपश्रौ
 ४, ४, ४; भाश्रौ ४, ५, ५; वाश्रौ
 १, १, २, १६; हिश्रौ ६, १, ५१.
 पूकर^३- (> पौकरीय- पा.) पाग ४,
 २, ८०.
 पूम^३- पाउ १, १२४^३; पाग २, १,
 ५९; ४, ३, ५४; -गात् पा ५, ३,
 ११२; -गेषु पा ६, २, २८.
 पूग-तिथ- पा ५, २, ५२.
 पूग-शस्(ः) बौश्रौ ११, ६: २८;
 १२, ७: ३८.

पूय- पा ४, ३, ५४.
 पूगर^३- (> पौगरीय- पा.) पाग ४,
 २, ८०.
 ✓पूज पावा. चुरा. पर. पूजायाम्,
 पूजयति वैग ४, ३: १०; १३:
 २; अप; या १४, २७^३; पूज-
 यन्ति आम्रिण २, ५, १: ५५;
 जैग २, ९: ४०; कप्र १, १, १३;
 या २, २६; ८, २; १०, ३९;
 पूजयामि या ९, १६; पूजयेत्
 आम्रिण २, ४, १०: ४; ९; ११;
 वैग; पूजयेयुः आपघ २, ४, २०.
 पूजयाम् ✓अस्, पूजयामास
 विघ १, ३०.
 पूज्यते अप १४, १, १०; पूज्यन्ते
 कौट ३, १२, ९; अप ७०^३, १६,
 १^३; २;
 पूजक- पाग २, २, ९; ६, २, १५१.
 पूजन- -नम् वैग ३, २३: १५; ४,
 ७: १०; ५, ३: १; कप्र; -नात्
 अप ७०, १०, ४; पा ५, ४, ६९;
 ८, १, ६७.
 पूजना(न-अर्थ)- -र्थे या १२, ७.
 पूजनिक^३- (> पौजनिक्य-
 पा.) पाग ५, १, १२८.
 पूजनीय, या- -यम् या ७, २६;
 -याः कप्र १, १, १३; १७.
 पूजयत्- -यन् विघ ५, ९३; या ३,
 ४.
 पूजयितव्य- -व्यम् या ५, १४;
 -व्याः वैघ २, ११, २.
 पूजयित्वा वैग २, १५: ११; ५, ७:
 ८; अप.

a) पाभे. वैप १, २०७१ h द्र.। b) पूष. भावे क्तः प्र.। c) विप.। बस.। d) = इन्द्र- (तु. शक.)। बस.। e) वैप १ द्र.। f) = ऋषि-विशेष-। g) °भृत्तम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. उत्तरं स्थलम्)। h) ?पूनयव- इति भोजः इति पागम.। i) पाभे. वैप १, २०७२ l द्र.। j) अर्थः व्यु. च?। k) पूज इति पाठः? यनि. शोधः (तु. भाश्रौ. वाश्रौ.)। l) तु. पागम.। m) = संघ-। व्यु.?!। n) < ✓पू इति। o) तु. राज.; वैतु. ल. पूरयति इति। p) = पूजा-वत्- (तु. पूजनीक इति पंजा.)। मत्वर्थीयं उन्.प्र.।

पूजयिष्यत्- -व्यन्तः आणु ३, ९, ३.
 पूजा- पा ३, ३, १०५; -जा अप
 ६८, ५, १९; आपध; -जाभिः
 अप ६८, १, २४; -जाम् साणु
 ४, ५, १४; आमिणु; -जायाम्
 आपध १, ३०, ५; २, ६, ६; विध;
 या १, ४; ३, १८; पा १, ४, ९४;
 २, २, १२××.
 पूजा-कर^१- -रम् या ५, १४.
 पूजा-कर्मन्^२- -र्मणः या २, २६;
 -र्मा या ७, १५; १०, १६.
 पूजा-तस्^(ः) गौध १७, १८.
 पूजा(जा-अ)र्ह- -र्हम् विध ५, ९३
 पूजित, ता- पाग ५, २, ८८; -तः
 बौध्रौ १२, ६ : ५; -तम् अप
 २१, ६, १; पा, पावा ८, १, ६७;
 -तस्य पावा ८, १, ६७; -ताः
 आमिणु २, ५, १ : ५५; जैगृ २,
 ९ : ४०; कप्र; -तान् विध २१,
 १; -तानाम् अप ७०^३, ९, १.
 पूजितिन्- पा ५, २, ८८.
 पूजिल- पाठ १, ५६.
 पूज्य बौध २, ३, १८; ९, ५.
 पूज्य, ज्या- -ज्यः वाध १, ३८;
 -ज्यस्य अप ७०, १०, ४; -ज्याः
 कप्र १, १, १२; -ज्यान् बौध २,
 ३, ५५; -ज्येषु अप ७०^३, १६,
 १; -ज्यौ बौध २, ३, ५७.
 पूज्यमान- -नः अप २१, ६, ७;
 -नम् पा २, १, ६२; -नैः पा
 २, १, ६१.
 √पूण √पूण् टि. द्र.
 पूत- प्रभु. √पू द्र.

पूत-दारु^०- -रम् असां १९, १.
 पूतदारव- -वैः माश्रौ १, ७, ३, ३,
 ३४.
 पूतदारु-गुगुलु-कैरु-सुगन्धितेजन-
 -नम् माश्रौ १, ७, ३, ३५.
 पूत(न>)ना- पाठभो २, २, २०६.
 पूतर- (>पौतरीय- पा.) पाठभो २,
 ३, ६७; पाग ४, २, ८०^६.
 पूति->पूति-रज्जु^०- -रज्जुः कौसू
 १६, १०; अत्र ८, ८; -ज्जुम्
 कौसू १६, १०.
 रपूति- प्रभु. √पूय द्र.
 पूतिक, का- पाग ४, २, ७५^६; ५, १,
 १२८; -काः^६ आपधौ १, १, १४;
 -कान्^६ वैश्रौ १३, २ : १; हिश्रौ
 २४, १, १०; -कैः^६ वैश्रौ ३, ८ : ७.
 पौतिक- पा ४, २, ७५.
 पौतिक्य- पा ५, १, १२८.
 पूति-तृण^१- -णानि बौध्रौ १०, १३ :
 ८; १४, १३ : २६; २९; वैश्रौ
 १८, ७ : १.
 पूतिमाष^१- पाग ४, १, १०५; २, १११;
 -पाः^१ बौध्रौप्र २३ : ३; ४५ : ७.
 पौतिमाष्य- पा ४, १, १०५.
 पौतिमाष- पा ४, २, १११.
 पूतीक^०- पाठभो २, २, २०; -कम्
 माश्रौ ४, १, ९; ११; -काः
 आपधौ १४, २४, १५^३; -कान्
 आश्रौ ६, ८, ५; शाश्रौ १३, ६, ३;
 काश्रौ; -कैः आश्रौ ६, ८, ६;
 हिश्रौ १, ३, ५३.
 पूतीका(क-अ)भाव- -वे आपधौ
 १४, २४, १२.

पूतीकी^१- (>पौतीक-)
 पूतु-दारु^क- -रु अप ३७, ९, २; -रुम्
 कौसू ५८, १५.
 पूतुदारव^१- -वे वाधुश्रौ ३,
 ८६ : ६; -वेभ्यः हिश्रौ ४, ५,
 ६५; -वौ वाधुश्रौ ३, ७६ : ७.
 पूतुदारु-मणि- -णिः अप ३७, ९, २.
 पूतु-द्रु^०- -द्रुः असा ३, ४, ११^६.
 पूतुद्रव^१- -वम् बौध्रौ १५, २२ :
 १७; -वान् बौध्रौ ४, १ : १; ३ :
 ११; माश्रौ; -वेण आपधौ २३,
 ७, ९; बौध्रौ १५, २४ : २०;
 -वैः आपधौ ७, ५, ६; हिश्रौ ४,
 २, १३; -वौ आपधौ २०, ९, ७;
 बौध्रौ.
 पूत्रिम- प्रभु. √पू द्र.
 पूप^म- पाग ५, १, ४; -पम् अप १२,
 १, ८.
 पूय- पा ५, १, ४.
 √पूय पाधा. भ्वा. आत्म. विशरणे
 दुर्गन्धे च, पूयति आश्रौ ५, ४, ८.
 रपूति^१- > पूति-गन्ध^१- -न्धः
 बौध्रौ २२, ४ : १५; १७; वैश्रौ
 २१, ४ : २; आपध १, १०,
 २४^६. -न्धे आपध १, ११, ३१०;
 बौध १, ११, २३.
 पूतिगन्ध-प्रसृति- -तौ वाध
 १३, १७.
 पूतिगन्धा(न्ध-अ)न्तश्शव-
 दिवाकीर्त्य-शुद्धसंनिधान^१-
 -ने गौध १६, १९.
 पूति-गन्धि- पा ५, ४, १३५;
 -न्धि विध ६१, १०

a) उस. उप. करणे प्र. । b) विप. । बस. । c) वैप १, २०२० b द्र. । d) तु. पागम. ।
 e) वैप १ द्र. । f) का- इति [पक्षे] भास्वा. पासि. पाठः, पूतीकी- इति पाका. । g) =पूतीक- ।
 h) = पूतीक-तृण- इति विवरणकारः (तु. बौध्रौ. सूची) । i) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । j) बहु. <पौतिमाष्य- ।
 k) = पीतु-दारु- । l) विकाराऽर्षे प्र. । m) = धूप- । व्यु. ? । n) वैप १, २०, ७३ h, i द्र. ।
 o) सप्त. ष्ति<> ष्ती इति पामे. । p) दस. (वैतु. [पक्षे] माष्यकारोऽन्यथाव्याख्यानः) ।

पृति-ना(सा >)स^a-सः विध
४५, ७.

पृति-मृत्ति (का >)क^b-कम्
विध ४२, १५.

पृति-वक्त्र^a-वक्त्रः विध ४५, ८.

पृति-शफरी^c-रीभिः कौसू
२७, ३२.

पृ(ति >)ती-गन्ध-न्धः हिध
१, ३, ५१^d; -न्धाय तैप्रा ३,
७^f; -न्धे हिध १, ३, ८२^d.

पूय^e-पाग ४, १, ४१^f; -यम् अप
७१, १४, ३; विध ४२, ३९.

पूयी-पा ४, १, ४१.

पूय-गन्धि^g-न्धि विध ४२,
३९.

पूय-शोणित-कर्म-मः शंघ
३७४.

पूय-शोणित-गन्ध-न्धेन विध
४२, ३६.

पूय-शोणित-संपूर्ण-णै शंघ
४४०.

पूय-शोणित-संभव^h-वे बौध
१, ५, १२३.

पूयमान-√पू द्र.

पूर-(> रपौरैय-पा.) पाग ४,
२, ८०.

१पूरण^a-णः ऋञ्च २, १०, १६०;
अञ्च २०, ९६; -णाःⁱ आपश्रौ
२४, ९, ९; बौश्रौ १ : ५; ४० :
१; हिश्रौ २१, ३, १२.

पौरण-०ण आश्रौ १२, १४, ५;
आपश्रौ २४, ९, १०^f; हिश्रौ २१,

३, १२; -णः बौश्रौ ४० : २.
पूरण-वत् आपश्रौ २४, ९, १०; बौश्रौ ४० : २; हिश्रौ २१, ३, १२.

पूरण-वारिघापयन्त-न्तानाम्
आश्रौ १२, १४, ५.

२पूरण-पूरयत्-प्रभृ. √पृ, पृ द्र.

पूर^{jk}-क^l-क^mरवः अप ४८, ७८; निघ २,
३; या ७, २३ⁿ; -रुः ऋञ्च २,
५, १६ⁿ; -क^lरुषु आपमं २,
८, ३; माण २, २१ : १८^o;
हिण १, १०, ६३; ११, ३.

पौरव-पावा ४, १, १६८.

पूरुष^k-क^l-क^mश्रौ १२, २०, २;
२२, १; ऋप्रा २, ४०; छुप्रा
३, ११९; -षस् वाण १, २३^p;
विध २०, ५; -क^lषाः^m पाण १,
८, १०; आमिण १, ५, ४ : ५०;
हिण १, २२, ९; -०क^lषाः^m
शाश्रौ १२, १५, १; आपश्रौ;
हिश्रौ १५, ७, २३ बौगृ १, ५, ७;
-षान् गौध २२, ३२.

पूरुष-ञ्च^k-ञ्चम् ऋप्रा २, ५०^q.

पूरुष-व- > त्वन्ता-न्ता ऋप्रा
२, ५१^q.

क^lपूरुषा(ष-ञ)द्-षाद्ः वृदे २,
१११; या २, ६^r; ऋप्रा २, ५०.

पूर्णा-, पूर्त-, पूर्ति-√पृ, पृ द्र.

क^lपूर्ती^a माण १, ८, ११; वाण १४, १.

पूर्त्वी-√पृ, पृ द्र.

पूर-दशम-?पूः द्र.

पूर्यमाण-√पृ, पृ द्र.

√पूर्व^b पावा. सुरा. उम. निकेतने

पूर्व, वार्^c- पाग १, १, २७; २, ४,
३१; पावाग ४, २, ५१^d; -र्वः
आश्रौ ८, १, २; ५, १०××;
शाश्रौ; या ३, १६××; पा १,
१, ६५××; -र्वःऽ-र्वः काश्रौ
२, १३, ३; १५, ७, १२××;
आपश्रौ; या १२, ५^e; -र्वम्
आश्रौ १, १, ३; २, ६××;
शाश्रौ; द्राश्रौ ६, १, १३^f; या २,
२^g; ४, १७^g; ५, ७; २८××;
नाशि २, १, १०^h; पा २, २, ३०;
६, १, १९२; २१९××; पावा २,
२, ३५ⁱ; -र्वम्ऽ-र्वम् काश्रौ १,
८, ३१; ३, २, २०××; आपश्रौ;
-र्व्या आश्रौ २, १०, ७; ४,
१०, १××; शाश्रौ; या २, २८;
-र्वयोः आश्रौ ५, ६, २७; शाश्रौ
१०, ५, १९; काश्रौ; -र्वस्मात्
आश्रौ ८, ७, १५; काश्रौ १७, ६, ५;
माश्रौ; -र्वस्मिन् आश्रौ ३, ६, १६;
११, ३, ८; शाश्रौ; आपश्रौ १४,
२३, १३^j; पा ३, ४, ४; ७, १, १६;
-र्वस्मिन्ऽ-र्वस्मिन् आपघ १,
१, ८; हिध १, १, ८; -र्वस्य आश्रौ
१, ५, २९^k; ४, १३, ७××;
शाश्रौ; या १, १३; १४; पा १, १,
६६; ४, ४०; ६, ३, ११०××;
मीसू ५, ३, १६^l; -र्वस्यऽ-र्वस्य
वैश्रौ १५, ३४ : ३; हिश्रौ ८,
८, ३; -र्वस्याः शाश्रौ २, ९,
४; ५, ११, ३; कश्रौ; -र्वस्याम्
आश्रौ ६, ३, ११; शाश्रौ; वैष्ट

a) विप. । बस. । b) = नरक-विशेष- । बस. । c) मलो. कस. उप. = मत्स्यभेद- । d) पामे. पृ १६१६ ०
द्र. । e) वैप २, ३खं. द्र. । f) तु. पागम. । g) = पूति-गन्धि- । h) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । i) बहु.
< पौरण- । j) बप्रा. । k) वैप १ द्र. । l) पु० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपमं. प्रभृ.) । m) पामे.
वैप १, २०५२ i द्र. । n) पामे. वैप १, २०७२ l द्र. । o) तु. BPG. । p) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. ।
q) तु. पाका. । r) सपा. पूर्वम् < > पूर्वम् इति पामे. । s) पूर्वात् इति लासं. । t) तु. पारि. ।
u) पाठः ? मध्यमे इति शोधः । तु. रुद्रदत्तः C. च । । v) *ना तु पूर्वस्य इत्यस्य स्थाने *नानुपू इति जीसं. ।

१,१४: ७^०; अप २५, १, ५^०;
या ५, २८××; -र्वस्यै शांश्रौ
१७,४, २; आपश्रौ १५, ६, १४;
-र्वां आश्रौ ७, ७, ८; शांश्रौ;
†या ३, २२; ११, २९; ३१;
-र्वाऽर्वा बौश्रौ २२, २०: ३;
शंघ ८५; -र्वा: शांश्रौ ६, ११,
१२; ९, २८, ७××†; बौश्रौ; या
९, २८†^०; -र्वाऽर्वा: वैश्रौ २०,
९: ३; -र्वाणि आश्रौ ६, ३, ४;
७, १२, १२; शांश्रौ ३, १०, ३××;
आपश्रौ; -र्वात् काश्रौ २५, १३,
१६; गौपि २, ३, ३८; अप;
-र्वात्ऽर्वात् वैश्र १, १: १८;
-र्वात् आश्रौ ९, ९, १६; आपश्रौ
१८, २, १४; ६, ५; बौश्रौ; -र्वाभिः
शांश्रौ १५, २३, १; आपश्रौ १४,
३३, ७; बौश्रौ; -र्वाभ्यः अशां
१२, ३; -र्वाभ्याम् शांश्रौ २, ५,
२४; काश्रौ; -र्वाभ् आश्रौ २, ३,
१७; २६××; शांश्रौ; -र्वाभ्-र्वाभ्
काश्रौ १६, ७, ७; १७, ४,
१९; आपश्रौ; -र्वासाम् आश्रौ
६, ३, ४; बौश्रौ; -र्वासु शांश्रौ
८, २२, १†; लाश्रौ; -र्वे आश्रौ
२, ४, २२××; शांश्रौ; आमिग्य
१, ३, २: १९^{२०}; या ७, ७†; २३;
१२, ७†; ४१†^०; पा ६, २, २२;
-र्वेण^० आश्रौ १, १, ४; २, १९,
३७; ३, ६, २०; ५, ३, २४; ७,
१; १०, २५; ६, १०, ३०;
१२, ५, १३; १४; शांश्रौ;
या १, ५; ५, १६; -र्वेणऽर्वेण
आपश्रौ ११, ११, ११; १३, १२,

७; १५, ८, ३; भाश्रौ; -र्वेभिः
काग्य ६६, ७; या ७, १६; वैशि
३३५; -र्वेभ्यः काश्रौ १४, २,
१८; आपश्रौ; -र्वेषाम् आश्रौ
६, २, १२; ३, १६; शांश्रौ; मीसू
३, ६, ४५^०; -र्वेषु आश्रौ ५, १,
७; शांश्रौ २, ५, २०; १३, ५, १८;
आपश्रौ; या ४, ७; -र्वैः आश्रौ
५, ९, ११; काश्रौ १५, ९, ४; २०,
७, १२; आपश्रौ †१६^०, २६, ६;
१२; १७, १७, ३; ५; २०, ६,
१३†^०××; बौश्रौ; वैश्रौ १८,
१९: १†^०; हिश्रौ ११, ७, ५१†^०;
या ७, १६; -र्वैऽर्वैः काश्रौ
१५, ४, ३७; -र्वौ आश्रौ ७, ३, १;
९, ८, ९; १२, २, ६; शांश्रौ; पा
७, ३, ३; -र्वौऽर्वौ बौश्रौ २१,
१४: ३१.
†पूर्वा^० -र्वीः आश्रौ ७, २, १७;
८, ६, १३; ९, ७, ३६; शांश्रौ;
या ६, १६; १०, ४१.
?पूर्व-कर्त्तृ-र्ता अप १, ८, ३.
पूर्व-कर्मन्-र्म वाश्रौ १, ७, २, ४.
पूर्व-कल्प-ल्पः शंघ ६४; -ल्पेन
पाग्य २, १०, १४.
पूर्व-काण्ड^०- पावा ४, २, ५१;
-ण्डस्य अत्र २, १.
पूर्व-काय^० > ष्य-कृष्ण- णम्
काश्रौ २०, १, ३३.
पूर्वकाय-मध्यापरकाय- यान्
काश्रौ २०, ५, १५.
पूर्व-कारिन्-रिणः शांश्रौ १३, १, १.
पूर्व-काल-लम् आमिग्य २, ४, ५:
२; ७, ११: २; -ले शुप्रा ३, ४; पा

३, ४, २१; -लेन बौश्रौ २४, ६:
७.
पूर्वकाल-त्व- -त्वात् मीसू ३,
४, ४७.
पूर्वकालै(ल-ए)क-सर्व-जरत्-
पुराण-नव-केवल- -लाः पा २,
१, ४९.
पूर्व-कृत- -तम् विध २०, ४७; उसू
३, ४; -तेभ्यः कौसू ८४, १४.
पूर्व-ग्रहण- पावा ७, ४, ६१; -णम्
पावा ८, २, ४२.
*पूर्वग्रहणा(शा-आ)नर्थक्य-
-क्यम् पावा ६, १, १७४.
पूर्व-चतुर्थ- -र्थः शौच २, ७; -र्थम्
शुप्रा ४, १२४.
†पूर्व-चित्^०- -त्तये बौग्य ३, ११,
३; -त्तिः आपश्रौ २०, १९, ७;
बौश्रौ १५, २९: १; १८, ४५: १
१^०; वाश्रौ ३, ४, ४, २^०; हिश्रौ
१४, ४, ३२.
पूर्व-चोदन- -नात् मीसू १२, २, २४.
पूर्व-चोदना- -नया वाश्रौ १, १, १,
७०.
पूर्व-चोदित- -ताः अप ६८, ५,
१४; -तान् अशां २३, ५†.
पूर्वचोदित-त्व- -त्वात् पाग्य २,
१७, ४.
पूर्व-ज- -जः कप्र १, ६, २; -जम्
वाअ १७: १२†; -जस्य
गौघ २८, ३; २९, ९; -†जाः
आमिग्य ३, ४, १: १८; बौपि
३, २, ९; गौपि १, २, ११;
वाघ ११, ४१^०; -जान् बौश्रौ
१४, २०: १६†; -जानाम् गौघ.

- a) = पूर्वा-दिश- । b) पाभे. वैप १, २०७५ C द्र. । c) पूर्वा इति पाठः ? यनि. शोघः [तु. बौरप. १, १३, २५] । d) कचित् वा. क्वि. । e) पूर्वलिङ्गानाम् इति जीसं. प्रयासं. प्रसू. । f) पाभे. वैप १, २०७६ b-द्र. । g) पाभे. वैप-२, ३खं. पुराणैः माश १३, ४, ३, ३ टि. द्र. । h) वैप १ द्र. । i) कस. । पाप्र. काण्डः प्र. । j) एकदेशिसमासः (पा २, २, १) । k) वैप १, २०७९ e द्र. । l) = अप्सरो-विशेष- ।

६, ३; बुदे ७, ७३; -ङ्जे आश्रौ
१, ७, ७; २, ९, १४; शाश्रौ;
-जेभ्यः हिपि १८: ६ङ्; -जौ
अप १, ४१, ४ङ्; असां ११, ४.
पूर्वजे > जे-प्रभृति- -ति तैप्रा
४, २३.
पूर्व-जन्मन्- -न्मसु आमिष्ट २, ४,
५: २४; बौध ४, ७, ८.
पूर्व-तर, रा- -राम् बौघ २, ११, ३३;
-रेभ्यः वाधुश्रौ ४, ४७: ४.
पूर्व-तसु (:) वैश्रौ १२, १३: ५; वैघृ
५, २: १०; ५: १४; गोघृ.
पूर्व-त्र पा ८, २, १; पावा १, १,
५८××; पूर्वत्रऽपूर्वत्र पावा ८,
२, १.
पूर्व-त्रिक- -कम् कप्र २, १, १४.
पूर्व-व्यह- -हः आश्रौ ८, ७, १८.
पूर्व-त्व- -त्वम् निसू ६, १२:
२४; -त्वात् निसू ६, ४: ८;
९; मीसू १, २, २१××; -त्वे
पावा १, ३, १०; ६, ४, १३०;
८, ४, ११.
पूर्व-था या ३, १६ङ्; १२, ३४;
शुपा ५, १२; पा ५, ३१११.
पूर्व-दक्षिण, णा^०- -णः अप ६०, १,
४; -णस्मिन् वैश्रौ १४, ८: ४;
-णस्याम् काश्रौ १७, १, १५;
-णे काश्रौ ८, ५, १३; १७, १०,
४; -णेन काश्रौ ३, ७, २.
पूर्वदक्षिण-तसु (:) जैघृ २, ९: ९;
अप ५२, ८, ५.
२पूर्व-दक्षिण- -णयोः वैश्रौ १, २: १.
पूर्व-दक्षिण(ण-अ)प (>) रा^०-
-रासु वैश्रौ ९, ९: १०.
पूर्व-द(त >)त्ता- -त्ताम् विध ५,
१६०.

पूर्व-दिश- > ंदिश्य- -इयस्य
बौश्रौ १९, १०: ४३.
पूर्व-दीक्षा- -क्षा बौश्रौ २५, २९:
९; -क्षाः आपश्रौ २०, ११, ४.
पूर्व-दीर्घा(र्घि-अ)र्थ- -र्थम् पावा २,
२, २८.
पूर्व-देश- > ंशिक- -कः जैघृ २,
९: २१.
पूर्व-द्वैर्वलय- -ल्यम् काश्रौ २५, ११,
१२, मीसू ६, ५, ५४.
पूर्व-द्वार- -द्वारा वैश्रौ १३, ११: ४.
पूर्व-द्वार- -रस्य वैश्रौ १५, २४: ३;
-रे जैश्रौका १३४.
पूर्वद्वार-बाहु- -हू वैश्रौ १५,
२३: १५.
पूर्व-धृत- -तम् विध २०, ५०; ६४,
१३.
पूर्व-नगरी- (>) पौर्वनगोरय- पा.)
पाग ४, २, १७.
पूर्व-न(ष्ट >)ष्टा- -ष्टाम् शंघ
२७३.
पूर्व-निघात- -तस्य पावा १, १, ३९.
पूर्व-निचित- -तम् विध ९४, १२.
पूर्व-निपात- -त्वे पावा २, २, ३५;
३६.
पूर्वनिपात-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा २,
२, ३६.
पूर्व-निमित्त-मानिन्^०- -नितः ऋप्रा
१२, ११.
पूर्व-पक्ष- पाग ४, २, १३८; -क्षः
लाश्रौ ९, ३, ३; १२; १०, १५, ६;
भाग १, १२: ३ङ्; द्रागृ २, २,
८; -क्षम् आश्रौ ३, १०, १८;
१२, ६, १७; काश्रौ; -क्षस्य
आपश्रौ १९, १२, १; ३; बौश्रौ;
या ५, ११; -क्षात् वाधुश्रौ ४,

१९: ७; -क्षान् आपश्रौ १९,
१२, ९; हिश्रौ २३, २, २०; -क्ष
आश्रौ ८, १४, ३; काश्रौ २४, ४,
१४; आपश्रौ; या ५, ११; -क्षेषु
लाश्रौ ८, ११, ६; -क्षौ या ११,
५.

पौर्वपक्षिक- -कः निसू ५,
८: २१; -कम् निसू ५, ८: २६.
पूर्वपक्षा(क्ष-आ)दि^०- -दिम् या
११, ६.

पूर्वपक्षा(क्ष-अ)परपक्ष- -त्तौ अप
१, १३, १; या ११, ५.

पूर्वपक्षापरपक्षा (त्त-अ) भी-
ज्या- -ज्या निसू २, ५: ९.

पूर्वपक्षीय- पा ४, २, १३८.

पूर्वपक्षे(क्ष-इ)ष्टका- -काः बौश्रौ
१९, ३: २३.

पूर्व-पत्र- -त्रे आमिष्ट २, ४, ११: ८.

पूर्व-पद- पाग ४, २, ६०^०; -दम्

तैप्रा १, ४९; अप्रा ३, १, ५;

भासू ३, १; पा ६, २, १; -दस्य

बौश्रौ २१, ११: २०; माश्रौ २,

१, ३, ३९; पा ७, ३, १९; पावा

१, १, १९××; -दात् अप्रा ३, ३,

१०; शौच ३, ७६; पा ८, ३,

१०६; ४, ३; पावा ८, ३, १०३;

-दान् अप १, ६, ६; -देषु

काठश्रौ ८४.

पूर्वपद-त्व- -त्वात् पावा ६, २,

३६.

पूर्वपद-निमित्त^०- -त्तानाम् शौच

४, ७५.

पूर्वपद-प्रकृति-स्वर- -रः अप्रा

१, ३, १; -रात् पावा १, ४, २.

पूर्वपदप्रकृतिस्वर-त्व- -त्वम्

पावा २, १, ४; ३, २, १.

a) = आमेय-कोण-। बस-। b) द्वस. अपि पूष. पुंवद्भावः उत्सं. (पा ६, ३, ४२)। c) कस. >उस.।

पूर्व- = पूर्व-पद-। d) षस.। e) तु. पागम.। f) विप.। बस.।

पूर्वपदप्रकृतिस्वर-भाव- >
 'विन्- -विनि पावा ६, २, ५२.
 पूर्वपद-विकार- -राः पावा ६,
 १, ९०.
 पूर्वपदा(द-अ)तिशय- -ये पावा
 २, १, ६९.
 पूर्वपदा(द-अ)न्त- -न्ताः ऋप्रा
 ९, १.
 पूर्वपदान्त-ग- -गम् ऋप्रा
 ५, ४५.
 पूर्वपदा(द-अ)न्तोदात्तत्व- -त्वम्
 पावा ६, १, ८४.
 पूर्वपदा(द-अ)र्थ-हित-त्व-
 -त्वात् पावा ५, १, ९.
 पूर्वपदो(द-उ)त्तरपद- -दयोः
 पावा १, ४, २.
 पूर्वपदो(द-उ)प(धा >)ध^३-
 -धः ऋप्रा ९, २७.
 पूर्वपद्य^३- -द्यः ऋप्रा १, ८०;
 -द्यान् ऋप्रा ४, ५०; -द्यौ
 ऋप्रा १३, ३०; उस् ८, १९.
 पूर्वपद्या(द-अ)न्त- -न्तः
 ऋप्रा ५, ३१; -न्ते ऋप्रा ४,
 ८४; उस् ६, ५.
 पूर्वपर- -रयोः शौच ३, ४१; पा ६,
 १, ८४; पावा १, ३, ९; -रौ अप्रा
 ३, १, १७.
 पूर्वपर-प्रहण- -णम् पावा ६, १,
 ८३.
 पूर्वपर-प्राप्ति- -प्तेः पावा १, ४, २,
 पूर्वपर-व्यवस्था(स्था-अ)र्थ-
 -र्थम् पावा १, ४, ८०.
 पूर्ववरा(र-अ)धिकार- -रात्
 पावा ६, १, ८४.
 पूर्व-परा(र-अ)वर-दक्षिणो(ण-उ)

त्तरा(र-अ)परा(र-अ)वर- -राणि
 पा १, १, ३४.
 पूर्व-परिच्छेद- -दात् वाध १६, ३५.
 पूर्व-पश्चादु(द-उ)त्तर- -रे अप
 ७०^३, १८, ५.
 पूर्व-पाद- -इम् शांश्रौ १५, १३,
 १५; आपश्रौ ९, १९, १२×४;
 काठश्रौ; -दे वैश्रौ १०, १० :
 ११; १२, १६:१४; हिश्रौ ४, ३,
 १८; ७, २, २२; उस् ३, ३; -देन
 हिश्रौ ७, २, २४; अत्र २, १^२.
 पूर्व-पान- -नाय या १०, ३७.
 पूर्व-पाप-कर्मन्- > ऽमिन्-
 -र्मिणाम् काध २७८ : ६.
 पूर्व-पीति- -तये आश्रौ ५, १५, २;
 शांश्रौ ७, २०, ३; वैताश्रौ ३९,
 ६; क्षुसू २, ११ : ३; निसू ७,
 ४ : २२; या १०, ३६^३.
 पूर्व-पुरुष- -षाः कौसू ६७, ३;
 -षाणाम् बौगृ २, १, २९;
 -षाभ्याम् शंघ २५७; -वैः
 बौश्रौ २४, १२ : ४.
 पूर्व-पुरुष-कृत- -तम् बौध ३, ६,
 १९; विध ४८, १४.
 पूर्व-पूर्व^३-^३, -प्राधान्य- -न्यम्
 बौध १, ६, ५०^२.
 पूर्व-पूर्व^३-^३- -वाणि हिश्रौ २, २,
 १८^३.
 पूर्व-पूर्वतर- -रयोः पावा ५, ३, २२.
 पूर्व-पूर्व(वृत्त^३)विंका^३- -०के अशां
 ४, ३.
 पूर्व-अकरण- -णम् वाश्रौ १, १, १,
 १८.
 पूर्व-प्रक्रान्त- -न्तम् शांश्रौ १४,
 ४०, २४.

पूर्व-प्रज्ञा- -ज्ञा या १४, ७.
 पूर्व-प्रथम- -मयोः पावा ८, १,
 १२.
 पूर्व-प्रथम^३- -मानि आपश्रौ २,
 १९, ३^३.
 पूर्व-प्रयुक्त- -क्तम् लाश्रौ १०, ५, ६.
 पूर्व-प्रोष्ठपदो(द-उ)त्तर-प्रोष्ठपद-
 -दौ अप १, १, २.
 पूर्व-फल- -लम् अप ३५, १, १७.
 पूर्व-भाग- -गः शैशि १४९; -गम्
 आप्ति २, ३, १ : १४; -गे अप
 १, ७, १.
 पूर्व-भागो(ग-उ)त्तर- -रे वैश्रौ
 १, ३ : ४.
 पूर्व-भाज्- -भाक् ऋप्रा १, ३२; १८,
 ३३.
 पूर्व-भाव- -वम्, -वस्य या १, २.
 पूर्व-मर्यादा-स्थापन- -नम् शंघ
 ३१०.
 पूर्व-मात्र- -त्रस्य पावा १, १, ५७.
 पूर्व-मारि(न् >)णी^३- -णीम् शांश्रौ
 ४, १५, २३; कौगृ ५, ६, ६; कप्र
 ३, १, ६; -ण्याः शांश्रौ ५, ९, ६.
 पूर्व-मार्ग- -र्गण जैश्रौका १३१.
 पूर्व-मुख^३- -खः अप ७०^३, ६, ७.
 पूर्व-मृत- -ताः वैगृ ५, १५ : ७.
 पूर्व-यज्ञ- -ज्ञम् वाधूश्रौ ३, २८ : १.
 पूर्व-युग-> ऽगीय- -यस् वृदे ४,
 ३६.
 पूर्व-रात्र- -त्रे आपश्रौ ६, ४, १०;
 भाश्रौ ६, ९, ८; कौसू.
 पूर्वरात्र- -मध्या(ध्य-अ)पर-
 रात्र- -त्रेषु काश्रौ २१, ३, ९.
 पूर्व-रूप- -पस्य शौच १, ५०;
 -पाणि ऋप्रा २, ३३.

a) विप. । वस. । b) विप., नाप. । स्वार्थे वा तत्रभवार्थे वा यत् प्र. । c) द्विभावे कस. अतिदेशः -
 (यक. पावा ८, १, १२; पा ८, १, ११) । d) सप्र. पूर्वपूर्वाणि <> पूर्वप्रथमनि इति पाभे. । e) = पूर्वाषाढा-
 नक्षत्र- । f) = पतिव्रता-स्त्री- । उस. उप. <√सृ ।

पूर्व-लक्षण-लक्षित- -तः काशु ७,
१०.
पूर्व-लिङ्ग-त्व- -त्वात् पावा २, ४,
१२.
पूर्व-लुप्त-कारण^१- -गानि अप्रा १,
१, १५;
पूर्व-वचन- -नम् उस् ४, ११;
पावा २, २, ३०××.
पूर्व-वत् काश्रौ २, ५, २; ६, २३××;
आपश्रौ; पा १, २, ६२; मीस् ४,
४, १४^०; १२, ४, १४^०.
पूर्ववत्-प्रमा(ण>)णा^१- -गास्
आपश्रौ १७, २६, १४; हिश्रौ
२४, १, ३.
पूर्व-वत्- -वति मीस् ८, ३, २८;
-वन्तः मीस् १, ४, १७; -वान्
शुप्रा २, ७; मीस् १०, ३, ४.
पूर्ववती- -स्याम् आपध २,
१३, ३; हिध ११, ३.
पूर्ववत्-त्व- -त्वम् मीस् ७, ४,
१; -त्वात् मीस् २, ३, १९^०; ४,
२३; ३, २, ३२^१××.
पूर्व-वर्ण- -र्णः शैशि २७१; -र्णयोः
नाशि २, २, ८.
पूर्व-वर्ध- -र्षेषु अप ५९, १, १३; १९.
पूर्व-वसन्त-ज्योतिष्टोम- -मस्य
बौश्रौ २८, १२: १८.
पूर्व-वह- -वहः वाधूश्रौ ४, ४७:
२; आपसं १, ३, ४.
पूर्व-वाद- -दः विध ८, १०.
पूर्व-वाह- -वाट् आपश्रौ ५, १४,
१७; १८; बौश्रौ २, १७: १६;
हिश्रौ ३, ४, ३५; -वाहम् बौश्रौ

२, २२: ७; २४, १४: ६; वैश्रौ
१, १२: २०.
पूर्व-विज्ञान- -नात् पावा १, १, ५७.
पूर्व-विधान^१- -नम् ऋप्रा ११, २२;
४४.
पूर्व-विधि- -धौ पा १, १, ५७;
पावा ६, १, ८४.
पूर्व-विप्रतिषिद्ध- -द्धम् पावा २, ४,
१२; ८५××.
पूर्व-विप्रतिषेध- -धेन पावा ६, २,
१३०; ४, ४××.
पूर्व-वृत्- -तस्य शेष ३०३.
पूर्व-वृष्टि- -ष्ट्याम् अप ५९, १, १७.
पूर्व-वेदि- -दिम् वैश्र १, ९: १५.
पूर्व-व्रत- -तम् वैश्रौ १२, २४: ३.
पूर्व-शास(ः) अप्रा २, ४, ३.
पूर्व-शान्ति- -न्तिम् वैश्रौ १३, १५:
७.
पूर्व-शास्त्र- -स्त्रे तैप्रा १९, ५^२.
पूर्व-शेष- -षात् काश्रौ १, ६, २;
-षौ काश्रौ ८, १, १७.
पूर्वशेष-दर्शन- -नात् पावा १,
२, ७२.
पूर्व-शेष- -षे पावा ७, ४, ६१.
पूर्व-संस्था- -स्थाः बौश्रौ २४, १०:
१६; १७.
पूर्व-संस्थि(त>)ता- -ताम् कप्र ३,
१, ५.
पूर्व-सकथ- -था पा ५, ४, ९८.
पूर्व-सक्थि- -क्थिना वैश्रौ २०, ३८:
३.
पूर्व-संक्लिन्न- -न्नाः^१ बौपि ३, ३, १.
पूर्व-संचिता(त-अ)शन- -नम् वैध

३, ५, ११.
पूर्व-संजात- -तम् वैश्रौ २, १०: १९.
पूर्व-संज्ञा-प्रसङ्ग- -ज्ञः पावा १,
२, २७.
पूर्व-सद्- -सद्भयः माश्रौ २, ३,
७, ३; जैश्रौ ८: १५; माश्रौ ४,
४, १३.
पूर्व-सदृश-समो(म-ऊ)नार्थ-कलह-
निपुण-मिश्र-इलङ्गण- -ङ्गणैः पा
२, १, ३१.
पूर्व-संधे^१ शैशि २३९.
पूर्व-संध्या- -ध्याम् वाध २६, ३.
पूर्व-समय^१- -येषु जैग २, ५: २०.
पूर्व-समुद्र- -द्राः अप ५६, १, ३.
पूर्व-संभूत- -तः बृदे ४, १३.
पूर्व-संभृत- -तयोः विध २२, ५३.
पूर्व-सर- -रा पा ३, २, १९.
पूर्व-सवर्ण- -र्णः पा ६, १, १०२.
पूर्वसवर्ण^० पा ७, १, ३९; पावा
१, २, ६२.
पूर्वसवर्ण-गुण^० पावा ६, ३, ६७.
पूर्वसवर्ण-पूर्वत्व^० पावा ६, १,
१०६.
पूर्वसवर्ण-प्रतिषेध- -धः पावा ७,
१, २५.
पूर्वसवर्ण(र्ण-अ)प्रसिद्धि- -द्धिः
पावा ६, ३, ६७.
पूर्व-सन्स्थान^१- -नः शौच २, १५;
-नम् ऋप्रा १४, ३०.
पूर्व-सुराक्षित- -तात् वैश्रौ १६, २८:
४.
पूर्व-सू^१- -सूभ्याम् शाश्रौ १, ६,
११^१.

a) विप.। कस. > बस.। b) पूर्ववत्वात् इति जीसं.। c) पूर्ववत्त्वात् इति आन.। d) विप.।
बस.। e) पूर्ववत्वात् इति जीसं. प्रम.। f) पूर्ववत् इति जीसं.। g) नाप.। उस. उप. विन् प्र.। h) कस.।
i) ञम् इति संस्कर्तुः टि.। j) ञवौ इति संस्कर्तुः टि.। k) विप. > नाप. (पूर्वप्रोष्ठपदादिनक्षत्र-। बस. उप.
= आख्या-। l) बस. उप. = समान-स्थान-। पर-संस्थान- इत्यत्र उप. यनि. शोधः। m) विप.। उस. उप.
क्वि प्र.। n) पूर्ववत्सूभ्याम् इति BC.।

पूर्व-सूक्त- -क्तम् वृद्धे ३, १२७;
-क्तानि अत्र १८, १.
पूर्व-सूक्त-द्वय- -येन अत्र ५, ३.
पूर्व-सूत्र- -त्रे पात्रवा ८, १.
पूर्वसूत्र-निर्देश- -शाः पावा ४,
१, १४.
पूर्व-सेवा- -वा अप ३६, २४, २;
बोध ४, ८, १८.
पूर्वसेवा(वा-अ)र्थ- -र्थः अप ३६,
२४, १.
पूर्व-स्थ- -स्थः याशि २, ५८.
पूर्व-स्वर- -रः तैत्रा १५, १; -रम्
शौच १, १०४; माशि ६, ४;
-रस्य शैशि ११२.
पूर्व-स्वरूप- -पम् ऋप्रा ६, ४२.
पूर्व-हृति^a- -तौ आश्रौ ५, २०, ६^b;
शश्रौ ३, २०, ४^b या ५, २८^b.
पूर्व-होम- -मान् आपश्रौ २०, ५,
९; ११, ३; हिश्रौ १४, १, ४४.
पूर्वा(र्व-अ)क्षर- -रस्य याशि २,
९५.
पूर्वा(र्व-अ)ग्नि^c- -ग्निना आमिष्ट ३,
५, २; १६; बौपि १, २; १९;
-ग्निम् बौश्रौ ४, ११; २५;
१८, ८; १०××; आमिष्ट ३,
१०, ३; ९; -ग्नेः जैश्रौका १९८;
-श्रौ आमिष्ट २, ७, ३; ६.
पूर्वाग्नि-वहन^d- -नम् काश्रौ १५,
६, १४.
पूर्वाग्नि-वाह^e- -हः काश्रौ १५,
७, २१; -हौ काश्रौ १५, ९, ११.
पूर्वाग्नि-सहित^f(त>)ता- -ताम्
काश्रौ १५, ७, १३.
पूर्वा(र्व-अ)ग्र^g- -ग्रान् शंघ २०९;
-श्रौ वैध २, २, १.

पूर्वा(र्व-अ)घार-समिध्- -मिधम्
वैश्रौ १४, २; ३.
पूर्वा(र्व-अ)ङ्ग- -ङ्गम् नाशि २, २,
१२; १३; १५; -ङ्गस्य शैशि
१९०; याशि २, २४; -ङ्गे शैशि
१८८; माशि ११, ७.
पूर्वा(र्व-अ)ङ्गार- -रान् माश्रौ ५, २,
१२, २६.
पूर्वा(र्व-अ)चार्य- -र्याः अप १, ७,
३; -र्यान् शाण्ट ६, १, १.
पूर्वा(र्व-अ)तिथि^h- -थीनाम्ⁱ वैध
४, ५, ५.
पौर्वातिथ- -थ आश्रौ १२,
१४, १; बौश्रौ ३० : ४; वैध
४, ५, ५.
पूर्वातिथि-वत् बौश्रौ ३० : ४;
वैध ४, ५, ५.
पूर्वा-त्रिष्टुभ^j- -ष्टुप् अत्र १५,
११.
पूर्वा(र्व-आ)दि- -दिषु पावा २, १,
३१; -दीनाम् पावा १, १, २९;
६, ४, १३५.
पूर्वादि-दिश्- -दिक्षु अप २५,
१, ४.
पूर्वा(र्व-अ)घर (>पौर्वाघर्यं- पा)
पाग ५, १, १२४.
पूर्वा(र्व-अ)ध्याय- -यम् निसू
७, १२ : ९; ८, १ : १४.
पूर्वा(र्व-अ)नुष्ठित-त्व- -त्वात् बौध
२, १, १९.
३पूर्वा(र्व-अ)न्त- -न्तः पावा ६, १,
१३२; -न्ताः काश्रौ १, ३, ९;
-न्ते पावा १, १, ४७; ५१××.
पूर्वान्त-लक्षण- -णम् द्राश्रौ १,
१, ३; लाश्रौ १, १, ३.

पूर्वान्त-सस्थान^k- -नः तैत्रा २,
४८.
२पूर्वा(र्व-अ)न्त^l- -न्तम् वैग ३
७ : १८.
पूर्वा(र्व-अ)पर, रा^m- पा २, ४, १२;
-परम् बौश्रौ १८, १२ : ४;
भाश्रौ ६, १६, २६; माश्रौ;
-रयोः आपश्रु १२, ८; बौश्रु; -राः
काश्रौ १६, २, ४; आपश्रौ; -रान्
काण्ट ४, २३; भाग्य; -राम्याम्
काश्रौ २२, १, ३३; लाश्रौ
८, १, १९; -रासु अप ६१, १,
९; -रे काश्रौ १६, ७, २५; १७,
५, १५; बौश्रौ; -रौ काश्रौ १५,
४, २६; आपश्रौ १५, १४, ८;
भाश्रौ.
पौर्वापर्य- -र्यम् वैश्रौ १५,
११ : २; पावा १, ४, १०९;
मीसू १०, ३, २७; -र्यं मीसू ६,
५, ५४.
पौर्वापर्य-जोदन- -नात्
लाश्रौ १०, ९, ३.
पौर्वापर्य-भाव- -वात्
पावा २, ४, ३५.
पूर्वापर-रात्र- -त्रेषु कौण्ट ३,
११, ५ⁿ.
पूर्वापर-रात्रि- -त्रौ शाण्ट ४, ११,
१९^o.
पूर्वापरा(र्व-अ)तिजागत^p- -तौ
अत्र ५, ३.
पूर्वापरा(र्व-अ)पच्छेद- -दे
आपश्रौ १४, २६, ८; हिश्रौ १५,
६, ४२.
पूर्वापरा(र्व-अ)भाव- -वात् पावा
१, ४, १०९.

a) वैप १ द्र.। b) पाशे. वैप १, २०७९। द्र.। c) =आवसथ्यामि-। d) =अनस्-। e) वैप
२, ३३३. द्र.। f) विप.। वस.। g) व्यप.। h) बहु. <पौर्वातिथ-। i) उप. =समान-स्थान-। j) सपा.
श्रेषु <> श्रौ इति पाशे.।

पूर्वापरी✓भू>पूर्वापरी-भूत-
-तः वृदे १,४४; -तम् या १,१.
पूर्वा(र्व-अ)पर-प्रथम-चरम-जघन्य-
समान-मध्य-मध्यम-वीर- -राः
पा २,१,५८.
पूर्वा(र्व-अ)परा(र-अ)धरो(र-उ)त्तर-
-रम् पा २,२,१.
पूर्वा(र्व-अ)पहरण^१, [हाण]->णा-
पा, प्राग ४,१,४^b.
पूर्वापिहाण->णा^b-
पूर्वा(र्व-अ)पूर्व-समुच्छ्रित(>)ता-
-ता अप २५,१,१२; ३०,५,९.
पूर्वा-फाल्गुनि-संज्ञक^c- -कम् अशां
२,४.
पूर्वा-भाद्रप(द>)दा^d- -दाम् अशां
५,४.
पूर्वा(र्व-अ)भाव- -वे विध २४,३९.
!पूर्वार्थ्य- -थेन निस् ६, ६: २६.
पूर्वा(र्व-अ)म्नान- -नात् वाश्रौ १,
१,१,१८.
पूर्वा(र्व-अ)रम्भिन्- -रिभणम्
आश्रौ १२,८,१५.
पूर्वा(र्व-अ)र्थ- -र्थम् पावा ६, १,
१३२.
पूर्वा(र्व-अ)र्थ- -र्थम् पावा ७,१,
८६.
पूर्वा(र्व-अ)र्ध^e- -र्धः बौश्रौ १०,
५४: ३; १५, ३५: २; -र्धम्
शाश्रौ १७,१३,१; काश्रौ ८, ८,
७; १७,१२,२०^f; बौश्रौ १, ५:
६; माश्रौ; -र्धस्य वाश्रौ ३,२,५,
५७; -र्धात् शाश्रौ ४, २१, ८;
काश्रौ; -र्धं शाश्रौ ४, २१, ८;
काश्रौ ४,४,१४××; आपश्रौ ६,
१०, ११^g; बौश्रौ; -र्धेन माश्रौ

२, ५, ५, १७.
पूर्वा(र्व-अ)मध्य- -ध्ये बौश्रौ १७,
३९: २२.
पूर्वा(र्व-अ)र्ध- -र्धर्चः शुश्र १,
५१४.
पूर्वा(र्व-अ)र्ध्या- -र्ध्यम् काश्रौ ७,
१,३०; बौश्रौ १,८: ९; -र्ध्याः
बौश्रौ १२,८: ४; -र्ध्यात् काश्रौ
८,३,७; ११; १६,८, ९; हिश्रौ
७, ४,४०; -र्ध्यायाम् भाश्रौ ८,
१९, ११; हिश्रौ ५,४,७५.
पूर्वा(र्व-अ)लाम- -मे आश्रौ ३,
१४, १५; वैगृ ६, १२: ६;
भेऽ-भे काश्रौ २, ८, १; २५,
१२,२०.
पूर्वा(र्व-अ)वृत्- -वृता जैश्रौका
२००.
पूर्वा(र्व-अ)शौच- -चेन वैगृ ७,५: ७.
पूर्वाशौच-व्यपगम- -मे विध
२२,३५.
पूर्वा(र्व-अ)षा(ढ>)ढा^d- -ढा
अप १,३,१; १३,१; अशां १०,
३; -ढा: अप १,१, २; ७,१०;
५७,३,१.
पूर्वाषाढे(ढा-इ)ति-संज्ञक-
-कम् अशां ४,३.
पूर्वा(र्व-अ)हुति- -ति: आपगृ ७,
२१; -तौ काश्रौ २५, ३, १;
-स्या: जैश्रौका ३२.
पूर्वाहुति-स्थान->नीय- -यम्
वैश्रौ २०,१७: ११.
पूर्वा(र्व-अ)ह्ण^h- -ह्णः वाधुश्रौ ४,
२८: १; भागृ १, १२: ५^h;
गोश्रौ १,५, १४; -ह्णम् पागृ ३,
४, ८; -ह्णस्य कौसू २२, २^h;

-ह्णे आश्रौ ४, ७,४; ८, १७;
शाश्रौ; या ८,९.
पौर्वाह्णिक- पा ४,३,२४.
पौर्वाह्णिकी- -कीभ्याम्
आपश्रौ ११, ४,१; ५, ८; १६,
२१,२××; भाश्रौ; -क्या काश्रौ
८,३,६; १६; -क्यौ हिश्रौ १२,
१,१.
पौर्वाह्णिक्या(की-आ)
पराह्णिक्य(की-अ)न्तर- -रे
काश्रौ १७,७,३.
पूर्वाह्णिक- पा ४,३,२८.
पूर्वाह्णिकर्मन्- -र्मणा कप्र ३,४,
१३.
पूर्वाह्णिक, ह्णे-तन- पा ४,३,२४.
पूर्वाह्णिक-मध्यन्दिना(न-अ)पराह्ण-
-ह्णान् गोष ९, ४८; -ह्णेषु गोश्रु
४,६,१०; द्रागृ ४,१,२२.
पूर्वाह्णिक(ह्ण-अ)पराह्ण- -ह्णयोः
लाश्रौ ९,१२,४.
पूर्वाह्णिक, काⁱ- -का: बौश्रौ २६,
३२: १५; -के बौश्रौ ९,६:
२१ⁱ; १२: १७ⁱ; २६, २७: ५; ७.
पूर्वाह्णिकी- -की: वैताश्रौ
२९, ४; -कीभ्याम् माश्रौ ६, २,
१, २; ९××; -कीम् माश्रौ २, २,
१, ५१; ५५; ६, १, ५, २८; वाश्रौ
२, १, ४, ३२; -क्यो: वाश्रौ २,
२, ५, १७; -क्यौ वैश्रौ १४, ४:
१८.
पूर्विण- पा ४, ४, १३३; -णेभिः
आश्रौ २, ७, १^k.
पूर्विन्- पा ५, २, ८६.
पूर्वे-द्युस् (:) आश्रौ २, १५, १; १८,
२; ९, २, १४; शाश्रौ.

a) तु. पाका. b) पूर्वापिहाणा- इति पासि. c) विप.। बस. पूष. = नक्षत्र-। d) = नक्षत्र-।
e) वैप १ द्र.। f) ष्णं इति चोसं.। g) पुं इति पाठः? यनि. शोधः (तु. भाष्यम्)। h) तस. (पा २,
२,१)। i) विप.। उन् प्र. उसं. (पा ४,३,११)। j) पौर्वा इति सूको.। k) पाभे. वैप १,२०३४ d द्र.।

पूर्वेद्युः-काल^१- लम् बौश्रौ २०,
१ : ४२.
पूर्वेद्युः-कृत- ते हिश्रौ १, ४,
४२.
पूर्वो(र्व-उ)क्त, क्ता- -क्तः बौध २,
२, ६८; -क्तम् बौश्रौ २९, २ :
७; १३×४, वैगृ; -क्तस्य पावा
२, १, १०; -क्ताः सात्र २,
१-९; -क्तानाम् बौध १, ५,
४२; काघ २७८ : २; -क्ताम्
वैगृ १, ७ : ७; ५, ६ : ६; -क्तेन
आमिगृ २, ६, ४ : २६; ३, १२,
१ : ६; वैगृ.
पूर्वोक्त-चर- -रुभिः वैगृ ४,
१४ : ११.
पूर्वोक्त-त्व- -त्वात् आपश्रौ
२४, ४, १५; मीसू ५, २, १७.
पूर्वोक्त-देवता- > ^२त्य- -त्यम्
अत्र ६, ४६.
पूर्वोक्त-यन्त्र-शुद्ध- -द्वेभ्यः
बौध ४, ५, ३२.
पूर्वोक्त-विधि- धिना वैध २,
१, ७.
१ पूर्वो(र्व-उ)त्तर, रा^३- -रस्मिन् वैश्रौ
१४, ८ : ८; -राम् अप ५९,
१, १३; -रे काश्रौ ८, ५, १७;
अप ६०, १, २.
पूर्वोत्तर-तस्(ः) जैगृ २, ९ : ९;
कौसू १३७, ३६.
२ पूर्वो(र्व-उ)त्तर, रा^४- -रयोः अप
१, ४८, ७; शुभ्रा १, १४५; पावा
१, १, ६७; -रे शाश्रौ ७, २५,

७; -रेषु कौगृ १, २०, ४^५.
पूर्वोत्तर-कृत- -तम् ऋप्रा १०,
५; उसू ३, ६.
पूर्वोत्तर-पद^६- -दयोः पावा ५,
३, ८३.
?पूर्वोत्तर-पुनर्वसु^७- -सू वैगृ २,
५ : १.
पूर्वोत्तर-प्ल(व >)वा^८- -वा
अप ३०, १, ३.
पूर्वोत्तर-विरोध- -घात् बौश्रु
५, ११.
पूर्वोत्तर-स्वर-सरूपता- -ताम्
ऋप्रा ६, ५३.
पूर्वो(र्व-उ)स्थान- -नम् विध २८,
१३.
पूर्वो(र्व-उ)त्यायिन्- -यी कागृ १,
११; आपघ १, ४, २८; बौध.
पूर्वो(र्व-उ)थित- -तान् नाशि १,
५, १८.
पूर्वो(र्व-उ)त्पति(त >)वा- -ताः
वायूश्रौ ४, ६९ : ५.
पूर्वो(र्व-उ)त्पन्न- -न्नानाम् या १,
१४.
पूर्वो(र्व-उ)त्सष्ट- -ष्टः माश्रौ ५, २,
१०, ४०.
पूर्वो(र्व-उ)पक्रम, मा^९- -मम् द्रागृ
१, २, ११; -माः गोगृ ४, २,
१६; २२.
पूर्वो(र्व-उ)पदेश- -शे पाप्रवा ५,
३; ५.
पूर्वो(र्व-उ)पलिस- -से द्रागृ ३, २, २.
पूर्वो(र्व-उ)षि(त >)ता^{१०}- -ताम्

ऋप्रा २, १०, ९५.
पूर्वो(र्व-उ)व्या^{११}- पा ४, ४, १३३; -व्यैः
आश्रौ ८, १, १४; शाश्रौ १०,
८, ५; बौश्रौ; -र्व्यम् आश्रौ
४, ९, ४; आपश्रौ १२, १५, ६;
माश्रौ; लाश्रौ २, ९, ९^१; -र्व्या
मागृ १, १०, १७; अप्राय ६, ९;
-र्व्याः^१ आश्रौ ४, ७, ४; शाश्रौ
५, १०, ३२; -र्व्यायि शाश्रौ ५,
११, ७^१; -र्व्यासः बौश्रौ १५,
२ : ६; हिश्रौ १४, ३, ४०;
शुभ्रा ४, ७८; -र्व्येण आश्रौ ९,
११, १४; ऋप्रा ६, २; -र्व्येभिः^{१२}
आश्रौ ६, १०, १९; आगृ ४,
४, ६; -र्व्यैः^१ बौश्रौ ३, ११ :
२२; आमिगृ ३, १, १ : ८; ३५;
बौधि.

?पूर्वधीयते^{१३} आश्रौ ८, १३, ३१.
?पूर्वा आयुषे, पूर्वायुषे आमिगृ १,
३, २ : १९.
पूर्वी- पूर्व- द्र.
✓पूल पाथा. भ्वा. चुरा.^{१४} पर. संघाते.
पूल^{१५}- पाग २, ४, ३१^{१६}; ४, १,
४१^{१७}; ५, ४, २९^{१८}; -लान् मागृ
१, २३, १६.
पूल(>)ली- पा ४, १, ४१.
पूल-क- पाग ५, ४, २९.
पूलाक- (>पौलाक- पा.) पाग ४,
३, १३९.
पूलास- (>पौलास- पा.) पाग ४,
२, ७५.
पूलास-कुरण्ड- पाग २, २, ३१^{१९}.

a) विप. । बस. । b) = ईशान-कोण. । बस. । c) द्वस. । d) पूर्वोत्तराभिधेषु षट्सु नक्षत्रेष्विति भावः । e) तु. पाका. पासि. । f) पूष. ? इति कृत्वा समासः ? । उत्तरेणान्वितं पूष. इति C. । g) उप. < ✓वस (निवासे) । h) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । i) पाभे. पृ १६१७ C द्र. । j) पाभे. वैप १, २०७ C द्र. । k) पाभे. वैप १, २०३४ C द्र. । l) पाभे. वैप १, २०३४ d द्र. । m) पाठः ? पूर्वम् अधीयते इति शोधः । n) ✓पु, पूण इति [पक्षे] BPG. । o) = घास-भार. । p) तु. पागम. । q) कुरण्डस्थल-पूलास- इति तत्रैव शाकटायनः, 'सक-कुरण्ड- इति भारण्डा, 'सक-करण्ड- इति पाका, 'स-कारण्ड इति पासि. ।

पूल्य^१- ल्यान् कौसू १०१, २^०;
-ल्यानि कौसू २६, २×४.

√पूष् पाधा. भ्वा. पर. वृद्धौ.

पूषन्^१- पाठ १, १५९; पा ६, ४, १२; -फणम् आश्रौ २, ११, ४; शाश्रौ १४, ७१, ४; वाश्रौ; या ४, २५; ६, ४; -फणना शाश्रौ ६, ११, १; माश्रौ ५, २, ७, १७; -फण्वन् आश्रौ २, १६, ११; ३, ७, ८; शाश्रौ; आपमं १, ११, ६०; आसिगृ १, ५, ३: १०; ३, ९, ३: ७; काट २५, २२०; बौघ १, ७, ४४०; बौपि २, ७, ६०; भाग १, १५: १३०; जैय १, २१: १२०; अश्र १४, २^१; या १२, १७०; -फषा आश्रौ २, ५, २; १२×४; शाश्रौ; आपमं १, २, ८^१; पाठ १, ४, १६०; या ५, २८; ६, ६×४; वेज्यो ३४; -णः शाश्रौ ४, ७, ५१; १६, ३, २९; ३०१; काश्रौ; -ण्णा बौश्रौ १०, २: १०१; या ७, १०; -णो शाश्रौ ३, ४, ९; १५, १४, ४; १६, १, १३; काश्रौ.

२पौष- > षी^१- षी
निस् ७, ४: ६.

पौषण^१- णः काश्रौ ५, १, ४; १२, ३×४; आपश्रौ; -णम् काश्रौ २०, १, २४; २५, २, ८; आपश्रौ; -णस्य शाश्रौ ६, १०, ४; कौघ ३, ६, २; शांघ; -ण्णा:

आपश्रौ २०, १४, ७; बौश्रौ २४, ३८: ३; हिश्रौ १४, ३, १६;
-ण्णान्माश्रौ ८, ३, २; -ण्णानाम् बौश्रौ १५, ३१: १९; -ण्णानि वृदे ५, ११८; या ७, २३; -णो अष ३१, ५, २; विघ ७८, २३; -णौ वृदे ६, ४३; ७, ८.

पौष्णी- ण्णी आश्रौ १०, ६, ५; वैताश्रौ ३६, १७; वृदे ६, ७१; साश्र २, ९४४^३; -ण्णी: वृदे ५, ११४; -ण्यः ऋश्र २, ६, ४८; ८, ४×४; -ण्याम् आश्रौ ९, ४, ६; लाश्रौ ९, ९, ९; -ण्यौ वृदे ६, ७४; शुश्र ४, २७.

पौष्ण-सावित्र-सौम्य-

-म्या: वृदे ४, १२५.

पौष्णा(ष्ण-अ)न्त^१-

-न्तान् वैताश्रौ ८, २१; ९, २६;
-न्तानि शाश्रौ ३, १४, ३; १८, २; आपश्रौ ८, २, ३.
पूष(न् >)ण्वत्- वत्ते आपश्रौ १२, ४, ६; माश्रौ २, ३, २, २; वैश्रौ १५, ४: ५; हिश्रौ ८, १, ५०.

पूषण्वती- ती: हिश्रौ १५, ५, १९.

पूष-दैवत्य, त्या^१- त्या अप १, ४, ७; -त्ये अष ३३, ४, १.

पूषा(ष-अ)गिन-वायु- -युषु शुश्र २, ५५१.

पूष- (>पूषी- पा.) पाग ४, १, ४१.

√पृ,पृ^१ पाधा. जु. क्वा. पर. पालन- पूरणयो; चुरा. पर. पूरो, ऋषि आपश्रौ ६, २२, १; अष ४८, १२; निघ ३, १९; या ४, ३^१; ऋप्रा ४, ५५.

फिपिपि आपश्रौ ७, ४, ५^६; आश्रौ ७, ३, १२^६; हिश्रौ ४, १, ६१^६; अष ४८, १४; या ५, २४; फिपिपि आश्रौ ४, १२, २^३; आपश्रौ ४, ९, ३; माश्रौ; फिपिपिताम् बौश्रौ १४, १४: ३५; द्राश्रौ ११, ४, ९; लाश्रौ ४, ४, ८; अश्राम ४, १; फिपिपिहि शाश्रौ ६, १२, ३^१; बौश्रौ ६, २९: ७^१; २५, १९: ४^१; वैश्रौ १४, १२: ५^१; जैश्रौ १३: ६^१; कौघ १, १२, ६^३; शांघ १, १९, ६; पिपृतात् आश्रौ ४, १२, २; फिपिपृत्तम् शाश्रौ ५, १९, ८; पिपृत्, >ता आश्रौ ५, ३, १५^१; शाश्रौ; वाश्रौ १, ३, ३, १^१; जैश्रौ १३: २६^१.

फिपृणति अप ४८, १३; १४; निघ ३, २०; पृणन्ति या १, १७; अश्र १, १, १४; पृणत् शाश्रौ १२, १५, २१.

अपूरि, अपूरिष्ट पा ३, १, ६१; पर्षन् या ६, २०१; पर्षि ऋप्रा ५, ५८१.

पूर्यते आश्रौ ११, २, १७; ३, ७×४; आपश्रौ; या ५, १८; पूर्यन्ते अष ७१, १४, ५;

a) वैप १ द्र.। b) अर्थ: १। c) पामे. वैप १, २०८०। d) पूषम् इति पाठ: १ पति. शोषः (तु. वैप १, २०८०।)। e) पामे. वैप १, २०८०। f) पामे. वैप १, २०८१। g) = [पूषदेवत्या-] ऋच्-। अणि टि-लोपः उंसं. (पा ६, ४, १७३। तु. तां १८, १, १५।)। h) विप.। बस.। i) या १, २०; २, ३; २२ शौच २, ७८ पा ६, ४, १०२; ७, ३, ८०; ४, १२; ७७; ८, २, ४४ परामृष्टः द्र.। j) वैप १, २०८३। f द्र.। k) पामे. वैप १, २०५६। d.। l) पामे. वैप १, २०८३। m) सप्ता. आपमं १, १२, ८ हिद्य १, २५, ३ विभर्तु इति पामे.। n) सप्ता. हिश्रौ १, ७, ४०; पिप्रीत् इति पामे.।

पूर्यताम् आगृ २, २, ३;
 पाठ २, १६, ३; ३, ४, ४^a; भाग
 २, १४ : १६; वैगृ ४, ८ : ४;
 अपूर्यत वाधूश्रौ ४, ८६:१; ९; १७;
 पूर्येत शाश्रौ १३, १, ७; माश्रौ
 ६, १, ४, ३१; हिश्रौ २१, २, ६;
 पूर्येरन् लाश्रौ ९, २, ४.
 पूरिता आपश्रौ २४, २, २२;
 भाश्रौ १, १, ६; अपूरि वाधूश्रौ ४,
 ८६ : १०; १७.
 पारयते वाधूश्रौ ३, ४३ : ७;
 पारयति अप ४८, १४; पार-
 यन्ति हिपि १ : १०; ऋपा-
 यन्तु^b बौश्रौ १८, १७; २१; वाश्रौ
 ३, १, २, १; आपमं २, २१,
 १७; कागृ २६, २; वागृ १५, १;
 पारय, >या आश्रौ २, १०,
 ४; शाश्रौ ५, ५, २; आपश्रौ.
 पारयिष्यति माशि १५, ३; १०.
 पूरयति काश्रौ २६, ७, ३२;
 आपश्रौ १५, १४, ११×४;
 काश्रौसं; या २, ३; ३, २०;
 पूरयन्ति आश्रौ ६, १०, ५;
 शाश्रौ १३, १५, ११; काश्रौ;
 ऋपायाध्वे बौश्रौ १८, २९ : ७;
 पूरय या ४, ३; पूरयत शाश्रौ ८,
 ८, ११; पूरयेत् वैश्रौ १८, १६ :
 ८२; ८४; छुस्; या १४, ३०^c;
 पूरयेयुः आश्रौ १२, ७, १४.
 पीपरत् अप्राय ६, १^d; अप
 ३७, ४, २^e; ४८, १२; अत्र
 १९, ४०; निघ ३, १९; ऋपा-
 परः आपश्रौ १५, १२, ७^f;

काश्रौसं ३५ : ८; ९; बौश्रौ.
 ऋपाश्रौ- प्रयः बौश्रौ १८, १७;
 २१; वाश्रौ ३, १, २, १; आपमं;
 -प्रिम् आश्रौ ३, ७, ७; आपश्रौ
 २२, २५, १२; बौश्रौ १८, ५ :
 ११; हिश्रौ २३, ४, ७.
 ऋपाश्रौ-तम- मस् बौश्रौ १, ४ :
 ३०; ५ : १०.
 पर्व- हंभिः ऋपा ५, ३७.
 पर्वरीक- पाठ ४, १९.
 पारण- -णम् ऋश्र ३, ४३; -णे
 ऋश्र ३, ३६.
 पारण-कर्मन्- -र्भं ऋपा ११,
 ७०.
 पारय- पा ३, १, १३८.
 पारयि(ष्ठ>)ष्ठा- -ष्टे वाधूश्रौ
 ३, ४३ : ७.
 पारय(त्>)न्ती- -न्ती या ९,
 १८^g; भाशि ७८; -न्तीम्
 आश्रौ ४, १३, २.
 पारयद्-व(त्>)ती- -त्यौ
 माश्रौ ५, १, ५, ४८.
 पारयन्त- -न्ताय कागृ ४, २०.
 पारयिष्णु- -ष्णवः गोगृ ३, २, ६;
 या ६, ३^h; -ष्णवे गोध २६,
 १२ⁱ; -ष्णुम् बौश्रौ ९, ६ :
 ५^j.
 पिप्रत्- ऋपाश्रौ १४, ३२,
 २; द्राश्रौ ७, २, १०; लाश्रौ ३, २,
 १०; भाशि ११९; १२०.
 रपूरण- -णः काश्रौ २४, ७, १८;
 उनिस् २ : १३; -णम् आपश्रौ
 १६, २६, ९; २७, ६; हिश्रौ;

या ७, २८; -णात् उनिस् ४ :
 २८; पा ५, २, १३०; ३, ४८;
 -णे शौच ४, ३८; पा ५, २, ४८;
 पावा ६, ३, ५.
 पूरणी- -ण्याम् पावा ६, ३,
 ३३.
 पूरणी-प्रमाणी- -ण्योः पा
 ५, ४, ११६.
 पूरण-गुण-सुहिता(त-अर्थे^o पा
 २, २, ११.
 पूरण-प्रत्यया(य-अन्त-
 -न्तः पावा १, १, २३.
 पूरणा(ण-आ)दि- -दीनि कप्र
 १, २, ८.
 पूरणा(ण-अर्थे)- -र्थाः वृदे २,
 ९०; -र्थे अप्रा ३, ४, १.
 पूरयत्- -न्य या १४, ३०.
 पूरयन्ती- -न्ती भागृ २, २ :
 ८; हिगृ २, १७, २.
 पूरयितव्य- -व्याः या ७, २३;
 -व्ये पा ६, ३, ५९.
 पूरयितृ- -त्ता निस् १०, ५ :
 १०; -तारः निस् ९, १ : ४०;
 ४७.
 पूरयित्वा शाश्रौ ४, १४, ३५ आपश्रौ.
 पूरित- पा ७, २, २७.
 पूर्ण, पूर्ण- पा ७, २, २७; -र्णः शाश्रौ
 १, ३, ५; आपश्रौ २२, ८,
 १८; २४, २, २१; बौश्रौ;
 -र्णः-ऽणः आश्रौ ११, १, १५;
 -र्णम् आश्रौ १, ११, ६^k; २, ३,
 १४; शाश्रौ ४, ११, ३^k; काश्रौ;
 आगृ २, ८, ४^l; या २, ३^k;

a) पाभे. वैप २, ३खं. शीयताम् तैत्रा ३, ७, १४, ५ टि. द्र. । b) पाभे. वैप १, २०८४ j द्र. ।

c) पूरयन् इति लसं. । d) पिपरित इति पाठः? यनि. शोधः [तु. शौ १९, ४०, ४] । e) वैप १ द्र. ।

f) =पारायण- । g) =देवता-विशेष- । कर्तरि ऋच् प्र. उसं. (पाठ ३, १२८) । h) पाभे. वैप १, २०८५ i द्र. ।

i) पाभे. वैप २, ३खं. पारविन्दाय सात्रा १, २, ५ टि. द्र. । j) पाभे. वैप १ बिन्नतः ऋ १०, ५७, ६ टि. द्र. ।

k) भावायर्थे क्त. पा. =पूरणप्रत्ययान्त- । l) सुपूर्णम् इति आन-, पाञ्चपूर्णम् इति जीसं. ।

१४, ११; नाशि १^३, ३, १; २^३६;
 -र्णया द्विश्रौ १०, ७, २; -र्णस्य
 माश्रौ २, ३, ४, १२; -र्णा आश्रौ
 २, १८, १३१; काश्रौ; -र्णाः
 आश्रौ २, ४, १३; ६, १२, ६;
 शांश्रौ; -र्णात् अत्र १०,
 १११; -र्णात् काश्रौ ९, ६,
 २४; १३, ४, १; बोश्रौ; -र्णाम्
 आश्रौ २, ६, ५; काश्रौ ७, ३, १६;
 आपश्रौ; -र्णायाम् अप ३०^३, २,
 १; आज्यो ७, ५; -र्णे काठश्रौ
 ९; माश्रौ १, ४, १, १; द्विश्रौ;
 -र्णेन आपमं २, ११, ११; आश्रु
 १, २०, ४; कप्र; -र्णेषु विध ९९,
 १७; सुध ५३; -र्णैः अप २३,
 १, ५.
 पूर्ण-कंस-सेन कौस् ७७, २१.
 पूर्ण-कमण्डलु-लुम् वाध २९,
 १७.
 पूर्ण-काकुद्, द-पा ५, ४, १४९.
 पूर्ण-काल-(> पौर्णकालिक-
 > का, की-पा.) पाग ४,
 २, ११६.
 १ पूर्ण-कुम्भ-म्भस्य अप ६८,
 २, ३१.
 २ पूर्ण-कुम्भ->म्भा-म्भाः
 शांश्रौ १७, १४, १३; १७, ८.
 पूर्ण-चात्र-त्रेण पाश्रु १, १५,
 ४; गोश्रु २, ७, ७.
 पूर्ण-तम-मम् आश्रौ २, ३,
 १३.
 पूर्ण-त(र)>रा-राम् वैताश्रौ
 ७, १२.
 पूर्ण-द्वै-वैस् माश्रौ १, ७, ५,

२९; वैताश्रौ ९, ४; -वै बोश्रौ
 २४, १७ : ३; माश्रौ ५, २, १५,
 ३१.
 पौर्णदर्व-वैस् आश्रौ
 २, १८, ९^१, ९, २, १५.
 पूर्णदर्व-वैस् शांश्रौ ३,
 १५, १४; -वैस् बौश्रौ २१, ३;
 ३१; -वैया बौश्रौ ५, १० :
 १६; वैश्रौ ९, ३ : ४; -वै
 बौश्रौ २१, ६ : १८; -वैयेण
 आपश्रौ ८, ११, १८; २२, ८, १७;
 बौश्रौ.
 पूर्ण-दोहि(त्->)नी-नीम्
 अप १, ५०, ३.
 पूर्ण-पात्र-त्रः काश्रौ ६, १०,
 ३४; आपश्रौ ९, १६, १; बोश्रौ;
 -त्रम् आश्रौ १, ११, ५; ८; ३,
 १३, १७; शांश्रौ; -त्रस्य आपश्रौ
 ८, ७, १२; वाश्रौ १, ३, ७, १९;
 -त्राणि जैश्रु १, ११ : ३; २६;
 अप १, ३१, ५; -त्रात् आश्रौ १,
 ११, ७; भाश्रौ ४, २०, १;
 -त्रान् काश्रौ १०, ८, ८; -त्रे
 बोश्रौ ३, २० : १० x x; वाश्रौ;
 -त्रेण वैश्रौ १०, १४ : ४.
 पूर्णपात्र-वर्जम् आपश्रौ ८, ७,
 ११; वैश्रौ ८, १३ : १३.
 पूर्णपात्र-विष्णुकम-मैः
 बोश्रौ ५, ४ : २२; ९ : १४ x x.
 पूर्णपात्र-स्थान-ने वाश्रौ १,
 ६, ७, १३; वैश्रौ ८, १४ : १.
 पूर्णपात्रा(त्र-आ)दि-(क->)
 का-का कप्र २, ५, १.
 पूर्ण-पात्रो-त्रीम् कौश्रु १, २,

३; शांश्रु १, ६, ५.
 पूर्ण-मस्थ-द्वि-भाग-गम्
 आश्रु २, ३, १ : १२.
 पूर्ण-मास-फंसः बोश्रौ १४,
 १६ : ९; १७, ४७ : ३६; आपमं १,
 १०, ९; आश्रु २, ५, ५ : ५;
 वैश्रु १, १७ : ५; -फंसम् आपश्रौ
 २, २०, ५; ५, ८, ८; बोश्रौ; -साः
 निसू ५, ११ : ३१; -फंसाय
 आपश्रौ २, २०, ५; बोश्रौ १, १७ :
 १३; भाश्रौ; -से आपश्रौ ४, २,
 ६; बोश्रौ; -सेन वैश्रौ १, १९ :
 ३.
 १ पौर्णमास-पावा ४,
 २, ३५^६; -सः वैताश्रौ १२,
 १; कप्र २, ९, २; अप्रया ६,
 ३; -सम् शांश्रु ३, १३, २९;
 १७-१८, १३; काश्रौ; अप
 ३७, ८, १^१; -सस्य बोश्रौ २८,
 १२ : ११; शांश्रु १, ३, ७; द्राश्रु
 २, २, ७^५; -सात् आश्रौ २,
 १४, १३; ४, १, २४; बोश्रौ;
 -सानि शांश्रु ३, ८, ७; १०,
 ३; -साय आपश्रौ ४, २, ४; -से
 शांश्रु १, ३, १४; बोश्रौ २७, ६ :
 २७; भाश्रौ; -सेन आश्रौ २, १,
 १ x x; शांश्रु.
 पौर्णमासी-पाग
 ४, ३, १६; -सी काश्रुसे ३१ : १०;
 बोश्रौ १७, ५१ : १७ x x; भाश्रौ;
 या ११, २९; -सीभिः शांश्रु
 १३, २०, २; -सीम् आश्रौ ३,
 १०, १०; शांश्रु ३, ११, ३; काश्रौ;
 -सीम्-सीम् बोश्रौ १७, ४८ :

a) = गानगुणवृत्तिविशेष-। b) तु. पागम.। c) विप.। बस.। d) = सूत्रपूर्ण-तर्कु-। e) वैप २,
 ३ खं. द्र.। f) सपा. द्विश्रौ ६, ८, ८ पौर्णदर्व्ये इति पाभे.। g) स्वार्थे यत् प्र.। h) विप. (धनु-).।
 i) कस.>बस.>कस.। j) वैप १ द्र.। k) = पौर्णमासी-तिथि-। l) विप. (तन्त्र-).। m) पूर्ण- इति
 आन.। n) = तिथि-वा इष्टि- वा।

२; -सीषु गोष्ट ३, ३, २१;
-सीषुऽ-सीषु बौश्रौ २३, १५;
४; -स्यः बौश्रौ १६, १२ : ७;
-स्या आपश्रौ ८, ४, १; ८;
१९××; माश्रौ; -स्याः आश्रौ
९, ३, २; शाश्रौ १३, १९, ५;
काश्रौ; -स्याम् आश्रौ १, ३, ८;
१३××; शाश्रौ; -स्यै आपश्रौ
२१, १५, ५; बौश्रौ; -स्यौ
२, १४, ७; शाश्रौ १, ३, ३; ५;
आपश्रौ; या ११, २९.

२ पौर्णमास-

पा ४, ३, १६.

१ पौर्णमासि-

क^a-कम् अप १८^c, ४, १.

पौर्णमासी-

काल-लाः गोष्ट १, ५, ११.

पौर्णमासी-दी

(ला>)क्ष^b-क्षम् काश्रौ २४,
४, २१.

पौर्णमासी-दी-

क्षा-मासा(स-त्र)षवर्ग^c-र्गाः
लाश्रौ ९, ५, १.

पौर्णमासी-

प्रक्रम^d-माणि काश्रौ २४,
३, ३२.

पौर्णमासी-

प्रभृति-तयः लाश्रौ १०,
११, १.

पौर्णमासी-

प्रसव^e-वः द्राश्रौ ८, ४, ७;
लाश्रौ ४, ८, ७; -वम् लाश्रौ
१०, २०, १३.

पौर्णमासी-

वत् मीसू २, २, ९; ९, १, २६;
११, २, ३५.

पौर्णमासी-

विकार-रः शाश्रौ १, १६, १२;
२, २, ४××.

पौर्णमासी-सु

(त्या>)व्य^f-त्यः काश्रौ १५,
९, १५.

पौर्णमास्य-

(सी-अ)तिपत्ति-त्तौ काश्रौसं
३१ : ११.

पौर्णमास्य-

(सी-अ)तिरात्र-त्रः लाश्रौ
१०, १, ८.

पौर्णमास्य-

(सी-अन्त>)न्ता^g-न्ता वैश्रौ
२०, ४ : ३.

पौर्णमास्य-

(सी-अ)मावास्या-स्ये कौसू
९४, ७; अप १, १४, १.

पौर्णमा-

स्यमावास्या-सं(स्था>)स्थ^h
-स्थौ आश्रितृ ३, ५, १ : ८.

पौर्णमास्य

(सी-अ)ष्टका(का-अ)मावास्या-
(स्या-अ)ग्न्युत्पात-भूमिकम्प-
श्मशान-देशपतिश्रोत्रियैकती-
र्थ्यप्रायण-णेषु बौध १, ११,
२२.

पौर्णमास्या-

(सी-अ)रम्भणⁱ-णौ वाश्रौ
१, ४, ४, ३९.

पौर्णमास्यु-

(सी-उ)पक्रम^j-मौ बौश्रौ २४,

२० : १; बौपि १, १ : ७.

पौर्णमास-तन्त्र-

-न्त्रम् माश्रौ ५, १, १, २३; ३१;
४, २४; अप १८^c, १, २; -न्त्रेण
माश्रौ ५, १, १, २०.

१ पौर्णमास-धर्म-

-र्माः काश्रौ ५, ११, ३.

२ पौर्णमास-धर्म^k-

-र्माः काश्रौ ६, १०, १७.

पौर्णमास-वत् काश्रौ

४, २, ४४; ७, ११; १२, ११;
काश्रौसं ४ : १.

पौर्णमास-वैश्व-

-धाम्याम् बौश्रौ २, २१ : १५;
५, ४ : २३××.

पौर्णमास-हविस-

-विभिः बौश्रौ १७, २० : ६;
-वौषि बौश्रौ १८, ५३ : ८.

पौर्णमासा(स-अ)

त्यय-ये कप्र २, ९, ८.

पौर्णमासा(स-आ)

दि-दि^l कप्र २, ९, १.

पौर्णमासा(स-अ)

न्त-न्ते काश्रौ २५, ७, ४.

२ पौर्णमासिक^m->

की-की वाश्रौ ३, २, ६, ५६६;
काशु ७, २.

पौर्णमासो(स-उ)प-

क्रमⁿ-मौ द्राष्ट २, १, १.

पौर्णमास्य^o-स्यम्

बौश्रौ १, २१ : ३४; वाश्रौ १, ४,
४, ४१^l; अप्राय ३, १०; -स्येन

शाश्रौ १३, २९, ९; हिश्रौ ५,
६, ४; आश्रितृ ३, ४, १ : ८.

a) विप. । तेननिवृत्तीयस्तत्रकार्यायो वा उञ् प्र. (यक्र. पा ५, १, ७९; ९६) । b) विप. । बस. ।

c) विप. (अहोन-) । बस. पूष. उप. च सस. । d) उप. = समाप्ति- । e) ष्यम् इति जीसं. । f) तस्येदमीभः

प्र. । g) सप्र. माश्रौ ५, २, १२, ३५ दार्ढिकी इति पाभे. । h) विप. । तेननिवृत्तीयस्तत्रभवीयो वा यत् प्र. ।

i) पाभे. वैप १, २०८६ p द. ।

पूर्णमास्य^a- -स्यम् वाश्रौ
३, २, ४, २.
१पूर्ण-मुख- -खेन माश्रौ १, ५,
३, ७.
२पूर्ण-मुख^b- -ः^c अप्रमं २,
१८, ३२१; भाग्य २, ९ : ८१;
-खम् हिय २, ८, १११.
पूर्ण-मुष्टि- -ष्टिम् शांष्ट ४,
१७, ३०.
१पूर्ण-बन्धुर^d- -रः बौश्रौ ५,
१५४ ११; द्राश्रौ १३, २, ७;
लाश्रौ ५, २, १०.
पूर्ण-वि-वन^e- -नम् शांष्ट १,
३, ३.
पूर्ण-शराव- -वाणि आग्य १,
१७, २.
पूर्ण-सुव- -वम् माश्रौ १, २,
६, २७; ३, १, ५×४; वाश्रौ १,
३, ३, २२; ४, ३.
पूर्ण-होम^f- -मः गोयष्ट ४, ८, २३;
-मम् वैताश्रौ ६, ९; १०, १;
द्राय; -मे कौसू १३८, १५१;
-मौ कौसू ७३, ४१.
पूर्णा(शी-अ)क्षलि- -लिम् कौसू
७८, १६; १३३, १.
पूर्णादर्वि^g > पौर्णादर्व्य^h- -र्व्यं
हिश्रौ ६, ८, ८.
पूर्णा(शी-अ)वसानⁱ- -नाः निस्
५, ११ : ३३.

पूर्णा(शी-आ)हुति- -तयः वैश्रौ
२०, ९ : ३; -तिः काश्रौ १५,
१, ५; बौश्रौ २७, ११ : १८; २०;
वाधुश्रौ ३, १२ : ११^l×४; वाश्रौ;
-तिभिः जैष्ट १, २० : ३०१;
-तिम् आश्रौ ३, १३, १४; शाश्रौ
८, १३, १; काश्रौ; -ती माश्रौ
१, ७, ३, ४५; वैश्रौ; -तीः शाश्रौ
१८, २४, २७; आपश्रौ; -तीनाम्
वाश्रौ ३, ४, १, ४९; -तेः काश्रौ
४, ७, २२१; माश्रौ; -तौ बौश्रौ
२, १८ : २६; ४, ११ : २८; २०,
१८ : १; माश्रौ; -त्या बौश्रौ
२१, २६ : ८; वैश्रौ २०, २२ :
३; ६; -त्याम् वैश्रौ १६, ८ : ४;
-त्यै बौश्रौ २०, १७ : ३१; १९ :
५×४; वाधुश्रौ ४, ३२ : २६.
पूर्णाहुति-वर्जम् वाश्रौ २, १,
२, १७; ३, ४, १, ४८.
१पूर्णाहुत्य(ति-अ)न्त- -न्ते
काश्रौ ४, १०, ४; २०, १, १९.
२पूर्णाहुत्य(ति-अ)न्त^j-
-न्तम् आश्रौ २, १, १७; बौश्रौ
२४, १५; १४; १७ : १०; वैताश्रौ
४३, २.
पूर्णाहुत्या(ति-अ)दि-क^k-
-कम् कप्र ३, १, १७.
√पूर्णि > पूर्ण-क^m- -क कौसू
२०, ३.

पूर्णिमाⁿ- -माम् अप ९, ४, ६०.
पूर्णे(र्ण-उ)दकुम्भ- -म्भेषु विष
९९, १३.
पूर्णे(र्ण-उ)न- -नाम् द्राश्रौ ८,
४, २४; लाश्रौ ४, ८, २०.
पूर्णे(र्ण-उ)पक्रम^o- -माः निस्
५, ११ : ३२.
पूर्त^p- पाग ५, २, ८८; -र्तम्
आपश्रौ ४, ९, ६१; माश्रौ ४, १३,
११; हिश्रौ ६, ३, २१; जैष्ट २,
२ : २२-२४; शंष १३८; -र्तस्य
कौसू ३, ७१; १३७, ३९.
पूर्तिन्- पा ५, २, ८८.
पूर्ति- -र्त्या बौश्रौ ६, ७ : २४;
माश्रौ १०, १२, २.
पूर्त्वा आपमं १, १, ९१.
पूर्वमाण- -णे आश्रौ ५, १, १३.
१पृणत्- -णत् बौश्रौ ६, ७ : २४;
माश्रौ १०, १२, २.
पृणाति- > ण्ति-निगम- -मौ या
५, २४.
√पृक्ष् (बधा.) > पृक्ष^q- कृपृक्षः अप
४८, ८८; निघ २, ७.
१पृक्ष^r- -क्षस्य^s आश्रौ ७, ४, १३;
७, ८; ८, ६, २२; शाश्रौ १०, ३,
१५; ऋअ २, ६, ८; -क्षे निघ
२, १७.
√पृच्, जच् (बधा.) पाधा. अदा.
आत्म. संपर्चने; रुधा. उम-

a) = पौर्णमास्य- । b) विप. । बस. । c) ष्वः परिक्रामतु इति पाठः ? ष्वं परिक्रामन्तु इति शोधः (तु. सपा. हिय. [d टि.]) । d) विप. (Lआहुतिभिर्हूयमान- = भरितमुख-] अग्नि-) बस. । 'तत्सामे-र्गन्धं जिघ्रन्त्यः गावस्तं पूर्णमुखं (सन्तं) परिक्रामन्तु' इति वा. (वैत. Old. कस. इति ?) । e) सप्र. कौष्ट ४, ३ तेषां मुष्टिम् इति पाठे. । f) वैप १ द्र. । g) विप. । [विशद-] चरु- । बस. । पूष. क्वि.वि., उप. = विगतघनी-भाव- (तु. कप्र २, ५, १३ अकठिनम्) । h) = पूर्णाहुति- । i) < पूर्णादर्वि (सा ३, ४९) । j) = होमविशेष- । प्राम्दीव्यतीयः ण्यः प्र. । k) पाठे. पृ १६२७ f द्र. । l) पाठः ? ष्ते इति शोधः [तु. C.] । m) विप. (ब्रह्म-) । कर्तारि ण्वुल् प्र. । n) = पौर्णमासी- । २पूर्ण- (भाप.) + तेन निर्वृतीयः इमम् प्र. (पावा ४, ४, २०) । o) सप्तम्यर्थे छान्दसं द्वि । p) पाठे. वैप २, ३खं. पूर्तम् ऐवा ७, २४ टि. द्र. । q) पाठे. वैप १, २०२२ l द्र. । r) पाठे. वैप १, २०८८ c द्र. ।

संपर्के; चुरा. उभ. संयमने, पृच्छन्ति शाश्रौ १४, २२, १९; पृष्णक्षि निघ ३, २०^क; पृष्णचि माश्रौ २, ४, ३, ९^क; ऋष्ण-जिम्^० आपश्रौ १२, २८, १६; वैश्रौ १५, ३७: ८; पृष्णक्तु बौश्रौ १८, १०: २१^क; ऋष्णक्तम् काश्रौ १२, ३, १४; आपश्रौ २१, ७, १७; बौश्रौ.

ऋष्ण्यताम् आपश्रौ १०, २४, ५; बौश्रौ ६, १, ४: १०; भाश्रौ. ऋष्ण्यशाः^d अप ४८, ९; निघ ३, १४^०.

पर्ययत्-यता वाग् ९, ३^क.

पृक्त, का- -क्तम् बौश्रौ २४, २६: ११^क; कौसू ३०, ३; गौष ११, १९^क; -क्ता या ३, ८; -क्तानि कौसू १३, ६.

पृक्तस्वर-रात् तैप्रा १३, १६.

पृक्^६-पृक्ष् उनिसू ४: २३^क.

पृक्ष्(त् >)वी- -वी: काश्रौ ४, २, ३२; माश्रौ १, १, ३, ३२; वाश्रौ १, २, २, २८; कौष १, २१, ७; शांश्र १, २८, ८.

√पृच्छ्, प्रच्छ^h पाधा. तुदा. पर. ज्ञान्पायाम्, पृच्छते आश्रौ ४, ११, ६^क; अप ६४, १, ६; ७१, २, ४; पृच्छति आश्रौ ५, १, १४, ५, २५; १०, ९, २; शाश्रौ; पृच्छतः बौश्रौ १२, १८: ७; बौग १, ८, ६; पृच्छन्ति आश्रौ १०, ९, २; आपश्रौ २१, ११, ७; बौश्रौ;

पृच्छसि या ९, ३०^क; ऋष्णच्छामि आश्रौ १०, ९, २^क; शाश्रौ १६, ६, १; २^क; काश्रौ; बौश्रौ १५, २९: ८^क; वाश्रौ ३, ४, ४, १^क; पृच्छामः लाश्रौ ९, १०, १३^क; शुप्रा १, २८; पृच्छात् काश्रौ ६, ८, १^क; पृच्छ, >च्छा बौश्रौ १८, ४६: ८; ऋप्रा ८, २८; ऋष्णच्छत् >ता ऋश्र २, १, १४^क; ऋप्रा ८, १५; अपृच्छत् वृदे ५, ६९; अपृच्छन् अप ६९-७०, १, १; पृच्छेत् आश्रौ २, १, १५; काश्रौ १२, ३, १८; बौश्रौ; पृच्छेयुः आपश्रौ २०, ५, १५; २१, १०, १३^क; बौश्रौ. पप्रच्छ शाश्रौ १५, १७, १; बौश्रौ; या २, ९; ६, ५; पप्रच्छुः वृदे ८, २६.

पृच्छत्- -च्छतः अप ६८, १, ३; शंघ २२७; वृदे ८, २७; आज्यो १, २.

पृच्छमान, ना- -नस्थ आज्यो १४, ११^क; -ना: या ऋष्ण १४, १४; १५; -नानि या १४, १५.

पृष्ट, ष्टा- -ष्ट: शाश्रौ १५, १७, १; काश्रौ ९, ३, १२; बौग; -ष्टम् आपश्र ११, २^क; वाघ २, १२; बौघ १, २, ५०; -ष्टा: विघ ८१, १९; -ष्टानि आपश्रौ २०, १९, ७; -ष्टाम् वैताश्रौ ८, २०.

पृष्ट-प्रतिवचन- -ने पा ३, २, १२०; ८, २, ९३; पावा ३, २,

१२०.

पृष्टवत्-वान् वृदे ५, ७१.

पृष्ट्वा आश्रौ ८, १४, ४; १६; शाश्रौ; पा १, २, ८.

प्रश्न- पा ३, ३, ९०; -श्नः काश्रौ ४, २, २४; आपश्रौ ११, १२, ४; वाधूश्रौ; -श्नम् बौश्रौ १४, ११: ३२; ३३; आपघ; -श्नान् जैश्रौका ६; -श्ने भाशि ११; पा ३, २, ११७; ८, १, ३२; -श्नेषु गौषि २, २, २६.

प्रश्न-प्रतिप्रश्न-भूत्, ता- -तम् शुभ ३, ३७; -ता: शुश्र ३, २४.

प्रश्न-शास् (:) ऋप्रा १५, २२.

प्रश्न-स्थान- -ने कप्र १, ३, १०.

प्रश्ना(श्न-श्ना)ख्यान- -नयोः पा ८, २, १०५; पावा २, ३, २८.

प्रश्ना(श्न-श्न)न्त- -न्तेऽन्ते काश्रौ ७, ८, १२.

प्रश्नान्ता(न्त-श्न)भिपूजित- -तयोः पा ८, २, १००.

प्रश्नान्ता(न्त-श्न)भिपूजित- विचार्यमाण-प्रत्यभिवाद-

याज्यान्त- -न्तेषु पावा ८, २, १०७.

प्रश्नो(श्न-उ)त्तर-मुख^l- -खेन अश्र ५, ११.

प्रष्टव्य- -व्या: विघ ८, १०.

प्राश्^m- पाठ २, ५७; पावा ३, २, १७८; प्राशम् कौसू ३८, २४^क.

प्राह-विवाक^०- -क: गौष १३,

a) धा. दाने वृत्तिः । b) पाभे. वैप १, २०८८ वृ. । c) वावि. <पृष्णचिम् । d) सन्नन्ताल् लेटि मयु । धा. स्तुतौ वृत्तिरिति स्कन्दस्वामी इति दे. । e) पि^० इत्यपि सूको. । f) सपा. पाठ २, १, १८ मज्जयता इति, आश्र १, १७, १६ मर्चयता इति, काश्र ४०, १२ भाग १, २१: ७ वर्तयता इति च पाभे. । g) वैप १ द्र. । h) पा ७, २, ७५ पावा १, ४, ५१; ४, ४, १ परामृष्टः द्र. । i) पाभे. वैप १, २०८९ i द्र. । j) ण्यस्य इति पाठः इ मनि. शोषः । k) प्र^० इति चौस. ? । l) विप. । द्रस. > वस. । m) भावे कर्तरि वा क्विप् प्र. । n) = प्रश्न-क कस. । उभयत्र कर्तरि-प्र. (तु. मित्ताक्षरा [यास्तु २, ३]; नैतु. अभा. शकः भावे प्र.)

२६; -कम् गौघ १३, २७; -के गौघ १३, ३१.

√पृञ्च, पृञ्चती- √पृञ्च द्र.

√पृञ्च पाधा. अदा. आत्म. वर्यो, संपर्चने, अत्रयवे, अव्यक्ते शब्दे.

√पृङ् पाधा. तुदा. पर. सुखने.

√पृण् पाधा. तुदा. पर. प्रीणने, ङ्पृणस्व आश्रौ ६, ३, १^३; शाश्रौ ९, ५, २; १४, २१, २; आपश्रौ; ङ्पृण काश्रौ १६, ७, १९; आपश्रौ ७, १०, ७××; बौश्रौ; पृणत > ता या ३, २०; ऋप्रा ८, १५.

पृणत्- पृणाति- √पृ, पृ द्र.

पृत्^३- पावा ६, १, ६३; ङ्पृत्सु आपश्रौ १२, ६, ५; बौश्रौ ५, ८ : १; ७, ४ : ३; वैश्रौ.

ङ्पृत्सुषु^३ ऋप्रा ७, ५०.

पृत(न >) ङा^३- पाउमो २, २, २०६; -ना अप ४८, १०५^३; -ङ्नाः आश्रौ ७, ४, ३; शाश्रौ; या ९, १४; -नानाम् या ९, २४; -ङ्नाम् बौश्रौ १४, १६ : १४; आमिगृ २, ५, ५ : १०; -नायाः शुप्रा ३, ७४^३; -ङ्नासु आश्रौ ३, ७, ७; आपश्रौ; या ५, २.

पृतनाज^३- -जम् शाश्रौ १४, ४४, १^३; या १०, २८^३.

पृतनाज्य^३- -ज्यम् निघ २, १७^३; या ९, २४^३; -ज्ये आश्रौ ६, २, ५^३; -ङ्ज्येषु बौश्रौ १४, १६ : १०; आमिगृ १, ५, २ : २१; २, ५, ५; या ९, २४.

पृतना-जय- -जेषु पागृ १, ५, ९^३.

पृतना-जि^३- -जि आपमं २, ८, २^३.

पृतना-जित्- -ङ्जित् आपश्रौ १६, ३०, १; वैश्रौ १८, २० : ३९;

हिश्रौ ११, ८, ४; भागृ २, २१ : १५;

-जितम् शाश्रौ १४, ४४, १;

कौसू ६९, २२^३; अप्राय २, १^३;

अथ ७, ६३^३; या १०, २८.

√पृतनाय > पृतनायत्- -ङ्पृततः वैताश्रौ ६, १^३; आपमं; कौगृ १, ८, २०^३.

पृतना-षा(<सा)ह्- पा ८, ३, १०९; -ङ्षाद् वैताश्रौ २५, १^३; अप्रा ३, ४, १; -०षाट् अथ ५, १४^३.

ङ्पृतना-षाह्^३- -ह्याय ऋप्रा ९, ३०; शुप्रा ३, ७४; १२२.

ङ्पृतना-सह्- -सहम् बौश्रौ १३, ५ : १६; १७, ४१ : १८.

ङ्पृतना-साह्- -साहम् आमिगृ १, ३, ४ : १२; हिगृ १, १०, ६.

पृतना-ह्व^३- -ह्वेषु आश्रौ ३, ७, १३^३.

√पृतन्य पा ७, ४, ३९; पृतन्यति आपश्रौ ३, १४, २; भाश्रौ ३, १३, १; हिश्रौ २, ६, ३४; ङ्पृतन्यात् आपश्रौ २१, १२, ९; वाश्रौ ३, २, २, ३६; हिश्रौ १६, ५, ३; वैताश्रौ ३४, १.

पृतन्यत्- -ङ्पृततः आपश्रौ १६, २, १०^३; २०, २०, ७; बौश्रौ ३, १६ : ७; ७, १३ : २५; १०, २ : १९^३××; हिश्रौ ११, १, २२^३; १५, ७, ८^३; वैताश्रौ; कौगृ १, ८, २०^३; बौगृ १, ४, २४^३; २, ५, १०^३; शौच २,

१०७^३; -न्यता आपश्रौ १२, २२, ५^३.

√पृथ् √पृथ् टि. द्र.

√*पृथ्, प्रथ्^३ पाधा. भ्वा. आत्म. चुरा. पर. प्रख्याने, ङ्प्रथताम् काश्रौ २, २, १०; आपश्रौ; ङ्प्रथस्व आपश्रौ १, २५, ३; ७, ४, ५; बौश्रौ; कौसू २, १७^३; या १, १५; प्रथत आपश्रौ ३, ७, १४; वैश्रौ ७, ७ : ११; हिश्रौ २, ४, ४१; अप्रथत् भाशि ७३^३; अप्रथेताम् तैप्रा ४, २.

ङ्प्रथये शाश्रौ ६, १०, ४; आपश्रौ २, १, ३; ५, १३, ४; बौश्रौ; या ६, ७.

प्रथयति काश्रौ २, ५, २०; १६, ३, २५; बौश्रौ; या १, १५;

प्रथयन्ति भागृ २, ३० : ११^३;

अप्रथयत् ङ्शाश्रौ ८, २५, १; १२, २०, २; ङ्प्रथयि आपश्रौ ४, ७, २; बौश्रौ १, १४ : २४;

भाश्रौ ४, ११, १; हिश्रौ ६, २, १७.

अपप्रथन्त या ७, २५^३; अप्रथयिष्यत् या १, १३; १४.

पृथ^३- -थः काश्रौ ५, ३, १०; -थेन बौश्रौ २१, ९ : ६.

पृथ-मात्र- -त्रम् काश्रौ ६, १, २७; आपश्रौ ७, ३, ४; ८, ५, १०; भाश्रौ; -त्रात् बौश्रौ ५, ५ : ११; -त्रेण भाश्रौ ८, ४, ८; वैश्रौ ८, ९ : ४; हिश्रौ ५, २, १०.

पृथमात्री- -त्रीम् आपश्रौ २, २, ७.

a) वैप १ द्र. । b) =शूर- । c) पामे. वैप १, २०९१ h द्र. । d) वैप १, २०९१ i द्र. ।

e) पामे. वैप १, २०९१ o द्र. । f) पामे. वैप १, २०९२ g द्र. । g) पामे. वैप १, २०९२ l द्र. । h) पामे. वैप १, २०९२ s द्र. । i) या ५, २५ पा ७, ४, ९५ परामृष्टः द्र. । j) पामे. वैप १, २०९३ i द्र. । k) =प्रमाण-निशेष- (=आ मणिवन्धात्) प्रसृताङ्गुलि-पाणि- इति विधाधरः) ।

!पृथोत्तरयुगे^३ बौह्य १:४.

*पृथस्- >पृथस्तु- -स्तु: वाश्रौ
१,३,३,२४^३.

१पृथु- पाउ १, २८; पाग ५, १,
१२२; २,९७; -थु शाश्रौ १२,
१९, ३१; काश्रौ २१, ३, २८;
पाग २, ६, २४; या ९, ३२;
१२, २३^३; ऋप्रा ४, ६१; ८४;
-थु: आश्रौ ४, १४, २; काश्रौ;
या १, १४; २, २; ६, ७; -थुना
बौश्रौ १०, ५: १^३; -थुम् काश्रौ
१८, ४, २३; आपश्रौ १, २५, ६;
-थुनि आपश्रौ १६, १४, ५;
वाश्रौ २, १, ५, २०; वैश्रौ १८,
१२: १३.

१पृथ्वी- -थ्वी आपश्रौ
१०, ९, १३; बौश्रौ ६, १: २;
-थ्वीम् माग १, २२, ७.

पार्थिव- पा ५, १, १२२;
-वम् कप्र १, ७, ४^d.

१पार्थिव- -वेन जैग २, ३:
११.

पृथु-केश-स्तु(क>)का^३- -०के
या ११, ३२.

†पृथु-भावन्^६- -वा माश्रौ १,
२, २, १०; वाश्रौ १, २, ४, ४३.

पृथु-जव(न>)ना^६- -०ने या
११, ३२.

पृथु-जव^६- -व: या ५, ९.

पृथु-जाघ(न>)ना^६- -०ने
ऋप्रा ९, ४९.

†पृथु-अयस्^६- -या: अप ४८,
११५; निघ ४, २; या ५, ९^६.

पृथु-अ(य>)यी^६- -यी ऋप्रा

२, ५९.

पृथु-ता- पा ५, १, १२२.

पृथु-त्व- पा ५, १, १२२; -त्वे
अप २२, ४, २; -त्वेन अप २३,
३, ३.

पृथुपाज^१- >पृथुपाज-व(त>)
ती^१- -त्वी आपश्रौ १९, १८,
३; बौश्रौ १०, ११: ३; माश्रौ.

†पृथु-पाजस्^६- -जसा आश्रौ ७,
१२, ७; वाश्रौ ११, ९, ३; -जसे
आश्रौ ५, २०, ६; वाश्रौ ८, ६, २;
१८, २३, २; -जा: आश्रौ २,
१, २६; ८, ६, ३; माश्रौ ५, १, १,
६; २, १, २५.

पृथु-बुधन्^६- -धन: बौश्रौ ३,
२२: १५^३; लाश्रौ १०, १५,
१४; -धनम् बौश्रौ ९, ३: १६,
-धनान् बौश्रौ ११, १: ७.

पृथु-मात्र- -त्रम् माश्रौ १, ८, १,
१६; हिश्रौ ४, १, ३३.

पृथु-मुख^६- पा ६, २, १६८;
-ख: काश्रौ ७, ४, ८.

पृथु-रश्मि^६- -श्मे: चाअ ५: ३.

पार्थुरश्मि^६- -श्मम् लाश्रौ
७, ५, १३; १०, २, १५; निस्;
-श्मस्य लाश्रौ ७, ५, १४.

पृथु-ल- पाउमो २, ३, ११०;
पा ५, २, ९७; -ले अप २४,
५, २.

पृथुल-मध्यम^६- -म: अप
२४, ३, ४.

पृथु-शब्द- -ब्दे ऋप्रा ४, ५४.

पृथु-श्रवस्^६- -वस: ऋअ २, ८,
४६; -वसि शाश्रौ १६, ११,

२३; -वा: बौश्रौ १७, १८: २;
बौग ३, १०, ६; वृदे ६, ७९.

पृथु-श्लक्ष्ण- -क्षणे मीस् १०,
१, ५५.

†पृथु-श्लुका^६- -०के वैताश्रौ १,
१४; आमिग २, १, ५: १७;
शुअ ४, ६; अअ ७, ४६; या
११, २२^६.

पृथु-श्लु(त>)ता- -०ते या
११, ३२.

पृथु-संश्लिष्ट- -ष्टा: बौह्य १: २.

पृथ्व(थु-अ)गन्^६- -नम् वैश्रौ
१२, ९: ८.

पृथ्व(थु-अ)न्त^६- -न्ता: या ४,
१३.

*पृथुस्- >पृथुस्तु- -स्तु: माश्रौ
१, २, ६, २०^३फ.

प्रथ्- >प्रथिमन्- पा ५, १, १२२;
-मन: आपश्रौ १४, ६, ११;

हिश्रौ ९, ८, २८.

प्रथिष्ठ- -ष्ठम् आपश्रौ १२, २,
१५; वैश्रौ १४, ९: ११; हिश्रौ
७, ६, ३६; आमिग २, ३, ५:
१७^३; -ष्ठे काश्रौ १७, ५, २३.

प्रथीय(स्>)सी- -सी आपश्रौ
२, ३, २; बौश्रौ २४, २४: ८;

आपश्रु ४, ६; -सीम् माश्रौ २,
२, १२; -स्यौ कौस् १३७, ३.

प्रथन- -नम् आपश्रौ ५, २, ४^३;
वाश्रौ १, ४, २, २^३; -नात् या
१, १३; १४.

प्रथन-कर्मन्^६- -र्मणाम् या
१४, १२.

†प्रथमान, ना- -नम् आपश्रौ ४,

a) अर्थ: व्यु. च ? । b) सपा. पृथस्तु: <>पृथुस्तु: <>प्रथस्तु: (तैत्रि ३, ७, ५, ३च) इति पाठे. ।
शेषं वैप २, ३खं. द्र. । c) वैप १, २०९४ ८ द्र. । d) पार्थिवम् इति जीसं. । e) = पृथुल- । पाठः ? पार्थिव-
इति शोधः । f) वैप १, २०९५ i द्र. । g) वैप १ द्र. । h) विप. । बस. । i) <>पृथुपाजा: (ऋ ३,
२७, ५) । j) = [धाव्या-] ऋच्- । k) = ऋषि-विशेष- । l) पाप्र. पृथु->यनि. इति । m) राज. पाठः ।

५, ५; माश्रौ छ, ८, २; वैश्रौ ५,
६ : ३; हिश्रौ ६, २, ९; -ना
आपश्रौ ५, ९, ११; माश्रौ १, ५,
२, १२; वाश्रौ १, ४, २, २; हिश्रौ
३, ३, ३२.

प्रथयत्- -यन् आपश्रौ १, २५, ३;
-कयन्तः आश्रौ छ, ६, ३;
आपश्रौ.

प्रथयित्वा आपश्रौ ३, ६, ११; ५,
१९, २; ७, ४, ५; माश्रौ.

कप्रथस्- -थः आश्रौ छ, ६, ३;
आपश्रौ १६, २३, ७^b; वैश्रौ १८,
१७ : २४^b; जैश्रौका ५९; ऋश्र
२, १०, १८१; वृदे ८, ७७;
अश्र १३, ४(६).

कप्रथस्-नु^c- -नुः^d आपश्रौ २,
१०, ६; बौश्रौ १, १४ : १२;
माश्रौ २, १०, ७; वैश्रौ ५, ८ : ८;
हिश्रौ १, ८, २.

प्रथित- -ताः अप ६४, ८, १.

प्रथित-पराक्रम- -मः अप ५१,
४, ४.

प्रथित-यशस्- -शसः सु ५, २.

प्रथिति- पाठ छ, १८३.

पृथ- √*पृथ् द.

पृथक्- पाठ १, १३७; आश्रौ २, १४,
५; ३, ४, ५, ५; शाश्रौ; आपश्रौ
५, ९, ११^क; माश्रौ; वाश्रौ १,
४, २, २^क; हिश्रौ २, ३, ३२^क;
पा २, ३, ३२; पृथक्पृथक् बौश्रौ
२४, २ : १; माश्रौ.

पृथक्-करण- -णम् पावा ५, २, ५१.

पृथक्-कर्म-स्तुति- -तिः वृदे ६,
७०.

पृथक्-कल्पन-त्व^h- -त्वात् मीस्

१०, ७, २.

पृथक्-काम- -मः वैश्रौ ३, १ : २;
१२, २ : ८; -मेषु काश्रौ १२,
४, २६; -मैः आश्रौ १०, १, ७.

पृथक्-क्षेत्र- -त्राः शंघ २०८.

पृथक्-चर- -राः अप ५२, १, ४.

पृथक्-त(त्र >)न्त्रा^e- -न्त्रा माश्रौ
५, १, ६, ३२.

पृथक्-त्व- -त्वम् आश्रौ १०, ५,
१३; -त्वात् या १, ४; मीस् छ,
३, ८; १०, ३, ५०; ११, १, ३४;

-त्वे मीस् छ, ४, ३४; १०, ५,
१७; -त्वेन वृदे १, ९५; २,
२८××; मश्र; या १३, १२;

-त्वेषु वृदे ३, ४९; -त्वैः ऋप्रा
११, ६४.

पृथक्त्व-तस्(ः) शाश्रौ १, १७,
८.

पृथक्त्व-निर्देश- -शः पावा १,
३, ९.

पृथक्त्वनिर्देशा(श-आ)नर्थ-
नय- -नयम् पावा ८, १, ८.

पृथक्त्व-निवेदा- -शात् मीस् २,
२, २१.

पृथक्त्वा(त्व-अ)भिधान- -नात्
पावा १, २, ५८.

पृथक्-इक्षि(णा >)ण^h- -णानि
हिश्रौ १३, २, ११.

पृथक्-पात्र- -त्राभ्याम् आपश्रौ ३,
३, १०; -त्रेषु काश्रौ १५, ४,
२४; हिश्रौ २३, १, ४४; -त्रैः
आपश्रौ १२, २१, २२.

पृथक्-पाद- -देषु कौस् १७, १४;
६४, ३; १९.

पृथक्-पृथक्-स्तुति- -ति वृदे ३,

४०.

पृथक्-प्रण(व >)वा^e- -वे आश्रौ
५, ५, २.

पृथक्-शतमान^e- -नौ हिश्रौ २४
२, ६.

पृथक्-शाथिन्- -थिनः विध १९,
१७.

पृथक्-शौच^e- -चाः शंघ २०८.

पृथक्-संस्था- -स्थाभिः आश्रौ १०,
५, ९.

पृथक्-संज्ञा-करण- -गात् पावा १,
१, ६२.

पृथक्-संभार्य- -र्ये कौस् ३४, ८.

पृथक्-सहल- -लाभ्याम् अश्र १९,
२२^क.

पृथक्-सूक्त- -क्तेषु वृदे ३, ६०.

१पृथक्-स्तुति- -तिः वृदे छ, ४२.

२पृथक्-स्तुति^e- -ति वृदे ३, ४२;
४३.

पृथक्-स्तोत्र- -त्रेभ्यः द्राश्रौ ५, ३,
५; लाश्रौ २, ७, ४.

पृथक्-स्तोत्रीया- -यासु निस् ८,
१ : २४.

पृथग्-अनुबन्धत्व- -त्वे पावा १,
२, १.

पृथग्-अर्थ- -र्थानाम् पावा २, १, १.

पृथगर्थ-त्व- -त्वात् मीस् छ, १,
८; ९, २, ८.

पृथग्-अवसानी(य >)या- -याभिः
वाश्रौ ३, २, २, ४८.

पृथग्-असमासा(स-अ)र्थ- -र्थम्
पावा २, १, ४.

पृथग्-आदि- -दिषु पावा २, ३,
३२.

पृथग्-आदेश-प्रतिषेधा(ध-अ)र्थ-

a) वैप १ द्र. 1

b) पाभे. वैप १, २०९३ ह्र द्र. 1

c) वैप २, ३ खं. द्र. 1

d) पाभे.

पृ १६३२ b द्र. 1 e) विप. 1 वस. 1

f) पाभे. वैप १, २०३६ h द्र. 1

g) तु. या ७, ५। 1

h) क्प्रक इति

जीसं. 1 i) उप. = ३ वक्षिणा-1

-थैम् पावा ६,१,८३.
 पृथग्-आहुति^a - ती गोयु ४,८,८.
 पृथग्-इष्टि- ष्टिषु द्राश्रौ १२,४,७;
 लाश्रौ ४, १२, ७.
 पृथग्-ओदन^a - नेषु कौसू ६५,४.
 पृथग्-ग्रहण- -गम् पावा ३,३,४३.
 पृथग्-घो (<हो)म^a - -मान् लाश्रौ
 ९,१२,३.
 पृथग्-जन^a - -ना: शंघ २०८.
 पृथग्-जनपद- -दे द्राश्रौ ३,३,२२;
 लाश्रौ १,११,१३.
 पृथग्-दधि- -धिनो वैश्रौ ८,९:१२.
 ?पृथग्-दशरवृकदधि: शैशि २४८.
 पृथग्-देव(ता>)त^a - -ता: वृदे
 ४,१२४.
 पृथग्-धर्म-विद्^b - -विद: गौघ
 २८,५०.
 पृथग्-भाव- -वम् शैशि ३१४;
 -वस्य या ४,२५; -वात् मीसू
 ७,२,२; -वे अप ४८,२८.
 पृथग्-भू(त>)ता- -ते अप २३,
 २,४; काशु २,११; आपशु.
 पृथग्-लक्ष(ण>)ण^a - -णा:
 काश्रौ १६,४,६.
 पृथग्-वर्ण- -र्णानाम् द्राग २,५,३.
 पृथग्-वषट्का (>)रा^a - -रे
 आश्रौ ५,५,४.
 पृथग्-वाता(त-अ)दर्शन- -नात्
 पावा ४,२,४९.
 पृथग्-वि(घा>)घ^a - -घा: अप

४७,१,९; -घै: कप्र १,१,१४;
 अप १९,१,५.
 पृथग्-विना-नाना- -नाभि: पा २,
 ३,३२.
 पृथग्-विभक्ति-प्रतिषेधा(घ-अ)
 र्थ- -थैम् पावा १,२,६४.
 पृथक्-विभक्ति-संख्य(ज्ञि-अ)नुचा-
 रणा(ण-अ)र्थ- -र्थ: पावा १,
 ३,१०.
 पृथग्-विभक्त्यु(क्ति-उ)पलब्धि-
 -विघ: पावा १,२,६४.
 पृथग्-विभाषित- -तम् अप २: ६.
 पृथ-मात्र- प्रम्. √पृथ् द.
 पृथवी^c - पाठ १,१५०.
 *पृथस्- √*पृथ् द.
 पृथा^c - (>२पार्थ- पा.) पाग ४, १.
 ११२.
 १पृथि- पाठमो २,१,२६८.
 २पृथि^d ->३पार्थ^e - -र्थ: ऋअ २,
 १०,९३?; वृदे ३,५७; -थानाम्
 काश्रौ १५,५, ३; ३४; -थानि
 काश्रौ १८, ५, ३; आपश्रौ १८,
 १५,८; १६,१; वौश्रौ.
 ४पार्थ^e - थैम् द्राश्रौ ८, ३, ५;
 १७; लाश्रौ ४, ७, १; छसू १,
 ८: १०; ३. ७: १२; निसू;
 -थैस्य लाश्रौ ९, ५, १९; निसू
 ८,१३: ३७; ४२.
 पार्थ-याम^f - -मे द्राश्रौ ८,
 १,२३; लाश्रौ ४,५,२०.

पार्थ-लौश-शार्ग- -र्गाणि
 निसू २,१: ३३.
 पृथि-सव^g - -व: वौश्रौ १८, ६:
 २२; २४,११: २; -वेन आपश्रौ
 २२, २५, १४; वौश्रौ १८, ६:
 १; १५; हिश्रौ २२, ४, ९.
 पृथिवी^d - पाठ १,१५०; पा, पाग ४,
 १,४१; पाग ४,१,८६; -फं० वि
 आश्रौ ८, १४, १८; शाश्रौ १,
 ५,९; ९,२८,१३; काश्रौ; हिश्रौ
 ११, ७, ५१^h; या ९, ३२^h;
 ११,३७; -फं० वी आश्रौ १,२,१;
 २, ९, १४××; शाश्रौ १०,१७,
 ४ⁱ; काश्रौ; आपश्रौ १६,५,११^m;
 वौश्रौ १०,७: १२^m; वैश्रौ १८,
 २:४^m; हिश्रौ ११,१,६५^m; कौघ
 ३,१५, ५^m; शांघ ३, १३, ५^m;
 हिग् २, ११, ४^{no}; गोग् २, १,
 ६^o; या १,१३; १४; ३,२१××;
 ७,२४^o; -वी: अप २: १२^o;
 -फं० वीम् आश्रौ १, ६, १; २, ७,
 ११; १०, २१; ३, ३, १ⁱ; शाश्रौ ५,
 १७, ३ⁱ; काश्रौ ६, १, ३३ⁱ;
 आपश्रौ १६, ७, ३ⁱ; १८, ६ⁱ;
 माश्रौ ३, ५, १४; वाश्रौ २, १,
 २, ९ⁱ; वैश्रौ १८, ४: २०ⁱ;
 हिश्रौ ११, २, ५ⁱ; या १, ४; २,
 ९^q××: १०, २७^q; -फं० वी
 आश्रौ १, ७, ७^r; शाश्रौ; काश्रौ
 ७, ४, ३३^r; वौश्रौ २, १०: ३^r;

a) विप. 1 बस. 1 b) उप. <√विद् (ज्ञाने)। c) व्यप. 1 व्यु. ?। d) वैप १ द. 1 e) = (अप्रमे स्वाहेत्यादि-) मन्त्र-, (उपचारतः) हविस्-। शेषं वैप १, २०९६ k द. 1 f) = ऋषि-विशेष-। g) पाठः? (तु. ऋ १०, ९३, १५; मूको. च पार्थ्यः इति; वैतु. सा. षड्गुरुशिक्ष्यश्च यनि. < पृथु-इति)। h) = साम-विशेष-। तेनदृष्टीयः अण प्र. 1 i) द्रस. 1 j) = याग-विशेष-। k) श्वी इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र. तं ४, २, ९, ४)। l) पामे. वैप १, २०९७ i द. 1 m) वैप १, २०९७ f द. 1 n) सपा. पृथिवी <> पृथिव्या इति पामे. 1 o) सकृत् सपा. पृथिवी, समा <> पृथिवीसमम् इति पामे. 1 p) पामे. वैप २, ३खं. भूमिः तैत्रा १, ५, ५, १ टि. द. 1 q) पामे. वैप १, १५८५ a द. 1 r) पामे. वैप १, २०९७ d द. 1 s) पाठः?। पामे. वैप १, 2१०४ k द. 1 पामे. वैप १, २०९९ g द. 1 u) पामे. वैप १, २०९८ e द. 1 v) पामे. वैप १, २१०० a द. 1

४,१ : २३^a; १०,२९,१३^b; २८,
९:१६^a; माश्रौ १०,१२,१९^a;
वैश्रौ १२, ११:१४^a; १४:
१३^a; २१, २: २^a; हिश्रौ १०,
३, १७^a; आपमं २, १९, ४^b;
आमिग ३, १, १: १६^b; बौग
२, ११, २६^b; भाग २, ११:
१४^b; हिग २, १०, ७^b; या २,
७; -^कव्या: आश्रौ १, १३, १;
२, १०, ७××; शाश्रौ; आपश्रौ
१२, २२, ८^०; माश्रौ १, २, ४,
९^d; ६, २३^e; २, १, २, ७^f;
वाश्रौ १, ३, १, ३२^d; ३, २७^e;
माग १, ११, ६^f; १४, १६^e; चाअ
१: ११^b; ८: ७^b; १६: २३^b;
२६^b; २८^b; या २, ५; १४××;
६, १७^g; -^कव्याम् आश्रौ २,
२, ४; ४, १४^h××; शाश्रौ २, ६,
७; ४, १२, ४××; काश्रौ; आपश्रौ
६, १२, ४ⁱ; ९, ४, १ⁱ; १४,
३१, ४^m; १५, ४, ७ⁿ; कौसू
५, ८^०; ५९, १६^०; अग्र ४,
३९^०; या ६, ३६; ७, ५××;
-^कव्यै आश्रौ २, ३, ८; ३, ८, १;
४, ५, ७^p××; शाश्रौ; काश्रौ २,
६, ८^d; ४, १४, २८^g; आपश्रौ २,
१, ५^d; १६, २९, २^q; २०, १२,
८^०; द्राश्रौ १४, २, ६^p; लाश्रौ;
वैताश्रौ १३, २४^p; २०, १३^q.
२पार्थिव^r - पा ४, १, ८६; ५, १,

४१-४३; पावा ४, १, ८५; -व:
आपश्रौ १७, ८, ४^क; वैश्रौ १९,
५: ४६^क; द्राश्रौ; -वम् आश्रौ
३, ३, १; ४, ६, ३; शाश्रौ; या ९,
२९^क; -वस्य आपश्रौ १६, ६,
४; २२, ७, ११; माश्रौ; या ६,
२२; -वा हिश्रौ ३, २, ५६^क;
-वा: आपश्रौ ५, २, २; ६, ३;
वौश्रौ; -वान् आपश्रौ ५, १, ४;
५××; बौश्रौ; या १४, ५;
-वानाम् वैश्रौ १, ९: १०; हिश्रौ
३, ३, ३३; कौग; -^कवानि
आपश्रौ २, १, ३^क; वौश्रौ १,
१०: १९^क; माश्रौ २, १, ४^क;
वाश्रौ १, १, २, २०: हिश्रौ
१, ६, ६१^क; ६, २, २^क;
शुअ; -वाय माश्रौ १, २, ४,
५^क; हिग २, १६, ४; -^कवास:
बौपि २, १२, २; भाग ३, १७:
४; जैग २, १: २५; या १२,
४५; -वेन या २, १०; -वेभ्य:
^कवौश्रौ ७, ५: ४१; ६: २७;
जैश्रौ १०: ७; -वेषु आपश्रौ
१६, ३०, १^क; वैश्रौ १८, २:
३४^क; हिश्रौ ११, ८, ४^क; अप
७१, १७, २; -वै: आपश्रौ १४,
१७, १^क; हिश्रौ १५, ५, १^क;
अप ५, १, २; ३७, १, ६^क.
पार्थिवी- -वी अप ६५,
२, १२; अशां १६, १; ऋअ २,

१, २२; वृदे २, ७२××; शुअ
१, ५५९; -वी: आपश्रौ^क ५,
१२, २; १३, ८; १५, ६; बौश्रौ;
-वीम् अशां १७, ५; शुअ ४,
५७; -व्याम् अशां १८, ८; १९,
८.
पार्थिव-चन्द्र- पाग २, १,
५६.
पार्थिव-मण्डल- -लानाम्
अप ७०^३, ११, ११; १२.
पार्थिव-मध्यम^क - -मौ वृदे
१, १०१; ३, ११; ५, ४८.
पृथिवी^r -> ^कपृथिवि-क्षित्^r -
-क्षिते^v आपश्रौ २०, २, १; बौश्रौ
१५, २: ९; हिश्रौ १४, १, १३.
^कपृथिवि-दा^r - -दा: आपश्रौ
१७, ५, १६; वैश्रौ १८, २१; १७;
हिश्रौ ११, ८, १०.
^कपृथिवि-षट् - -षट्भ्यः^w
आपश्रौ १, ९, ६; हिश्रौ २, ७, ३०;
हिग २, १२, ४; कौसू ८७, ८.
^कपृथिवि-सद् - -सदम् शुआ
३, ८३^z.
^कपृथिवि-स्पृश- -स्पृक् बौश्रौ
९, १०: ६.
^कपृथिवी^r आश्रौ ३, ८, १^३; शाश्रौ
८, ३, ११; बौश्रौ ८, १३: १७;
ऋअ २, १, १५९; ७, ५३; या ९,
३८; तैरा ४, १९.
^कपृथिवी-क्षित् - -क्षित: वाधूश्रौ

- a) पामे. वैप १, २१०० a द्र.। b) पामे. पृ १६३४ II द्र.। c) पामे. वैप १, २१०० b द्र.।
d) पामे. वैप १, २१०३ c द्र.। e) पामे. वैप २, ३खं. पृथिव्यै तैरा ३, ७, ५, ३टि. द्र.। f) पामे. वैप १, १२७६ f
द्र.। g) पामे. वैप १, २१०२ c द्र.। h) = ऋषिका-। i) पामे. वैप १, २१०० g द्र.। j) सपा. व्याम्
<> ष्यै इति पामे.। k) पामे. वैप १, २०९८ h द्र.। l) पामे. वैप २, ३खं. पृथिव्याम् तैरा ३, ७, ३, ६ टि.
द्र.। m) पामे. वैप २, ३खं. पृथिव्याम् तैरा ३, ७, १०, १ टि. द्र.। n) पामे. वैप १, २०९७ f द्र.। o) पामे.
वैप १, २१०२ l द्र.। p) पामे. वैप १, १५७६ a द्र.। q) पामे. वैप १, २१०१ f द्र.। r) वैप १ द्र.।
.s) पामे. वैप १, २१०३ m द्र.। t) पामे. वैप १, २१०२ j द्र.। u) = अग्नि-द्वय-। v) पामे. वैप १,
२१०४ e द्र.। w) पामे. वैप १, २१०४ i द्र.। x) पामे. वैप १, २१०४ h द्र.।

३,५१ : २; -क्षिते काश्रौ ४,
१४,२८.
पृथिवी-गत- -तान् वैगृ ५, १४ :
७र्ष; -तेभ्यः वैगृ २,२ : १०र्ष;
५,१४ : १४.
पृथिवी-जात- -ताः वृदे ७,७२.
पृथिवी-दान-फल- -लम् विध
८८,२.
पृथिवी-नामधेय- -यानि निघ १,
१; या २,७.
पृथिवी-पत्ति- -तिः अप ४,२,१२;
६८,५,१९;-०ते विध ९८,२३.
पृथिवी-प्र^०- -प्रः अत्र १३,२र्ष.
पृथिवी-मध्य^०- -ध्यस्य पावा ४,
२,१३८.
पृथिवी-लोक- -कः हिपि ७ : ६;
-केन कौगृ १, १०, १; शांणु १,
१६,३.
पृथिवी-शरीर- -रम् बीपि ३,७,३.
पृथिवी-शायिन्- -यो वैध १,७,८.
पृथिवी-षट्- -षडे भागृ २,२९ :
१२; १३; ३० : २३; -षट्भ्यः^०
बौश्रौ २४,३२ : १३; भाश्रौ १,
९,१; माश्रौ १,१,२,२२; वाश्रौ
१,२,३,१९; आशिगृ २,१, ३ :
९; गोश्रु; जैगृ २,२ : १०.
पृथिवीष्टका अप ३६,९,३र्ष.
पृथिवी-सम^०- -सम् आशिगृ^० ३,
१,२ : १४; २,३ : ३; बौध २,८,
१२.
पृथिवी-स्थान^०- -तः या ७,५,१४;
-नम् वृदे १, १०५; -नाः या

१२,४१.
पृथिव्य(वी-अ)ग्नि- -नी अत्र ४,
३९.
पृथिव्य(वी-अ)ग्न्या(ग्नि-आ)श्रय^०-
-यः वृदे १,१२०.
पृथिव्य(वी-अ)न्तरिक्ष-दैवत^०- -तः
ऋत्र २,७,१०४.
पृथिव्य(वी-अ)प्-तेजो-वाच्य (यु-
आ)काश-मनो-बुद्ध्या (दि-आ)
त्मा (त्म-अ)व्यक्त-पुरुष-
-षाणाम् विध ९७,७.
पृथिव्य(वी-अ)प्-तेजो-वाच्य(यु-
आ)काशा(श-आ)त्मक^०- -कम्
विध ९६,५१.
पृथिव्या(वी-आ)त्मन्- -त्मानौ
काश्रौ २,६,७.
पृथिव्या(व्य-आ) दि-व्यवस्थित-
-तान् वृदे ७,५२.
पृथिव्यां-देवयजन^०- -नाः वाधूश्रौ
४,१८ : २६; २८.
पृथिव्या(वी-आ)यतन^०- -नानि या
७,११; ९,१.
२पृथ्वी^०- पाठ १, १५०; -ध्वी
शांश्रौ ३, १२, ९; वाध २९,
१९; निघ; -ध्वीम् आश्रौ ४,
६, ३र्ष; बौश्रौ; या ६, १२र्ष;
-ध्व्या भाश्रौ १०,६,१०.
पृथ्वी^०- -थी अत्र ८, १०, (४);
ऋप्रा १४,३९.
१पृथु- ✓*पृथु द.
२पृथु^०- -थुः ऋअ २, १०, १४८;
सात्र १,३१६.

५पार्थ^०- -०र्थ आश्रौ १२, १०,
११; आपश्रौ २४,६,८; बौश्रौप्र
८:२; हिश्रौ २१, ३,७; वैध ४,
२, ६; -थ्याः आपश्रौ २४,६,७;
बौश्रौप्र ८ : १; हिश्रौ २१,३,७.
पृथु-न्त आपश्रौ २४, ६,८; बौश्रौप्र
८:२; हिश्रौ २१, ३,७; वैध ४,
२,६.
पृथुक^०- पाठ ५,५३^m; पाग ५, १,४;
-कान् आपश्रौ २०,१०,५; हिश्रौ
१४,३,३;-कानि वाश्रौ ३,४,२,४
पृथुक-चर्मन्- -नीणि बौश्रौ १५,
१६ : ३.
पृथुकीय- , पृथुक्य पा ५,१,४.
पृथुकेरास्तुका- -प्रभृ., १पृथ्वी-
✓*पृथु द.
पृदाकु^०- पाठ ३, ८०; -कवः शांश्रौ
१२,१८,८; -कुः आपश्रौ १३,
१८, ७; हिश्रौ १०, ५, १र्ष;
आपमं २, १७, १५र्ष^m; -कुम्
अत्र ३,२६; -कोः अत्रा ३,३,
६र्ष; -र्षकौ बौश्रौ १८, ८ :
१८; २६, ३० : १९; आशिगृ
२,४,४ : ११; बौध ३,७,११.
पृदाक्वा^० अत्रा १,३,१४र्ष.
पृदाकु-सानु^०- -नुः ऋप्रा ५,२७र्ष.
पृदाकुनि बौश्रौ २,५ : ११.
पृशान^०- >पृशाना(न-आ)दि- -दयः
ऋप्रा ९,१३.
✓पृशानाय^० >पृशानायु^०- -युवः
ऋप्रा ९,१६.
१पृथिन^०- पाठ ४, ५२; फि ३३;

- a) वैप १ द. । b) तु. पाम. । c) पामे. वैप १, २१०४i द. । d) विप. (अत्र-) ।
e) ०र्षी स^० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. बौध.) । पामे. पृ १६३४० द. । f) विप. । बस. ।
g) विप. । षस. > बस. । h) विप. । द्वस. > बस. । i) द्वस. > बस. । j) = ऋषि-विशेष- ।
व्यु. ? । k) अपत्यार्थे ङण् प्र. उंस. (पावा ४, १, १७१) । l) = विपिटक- । व्यु. ? < ✓ प्रथ्
इति प्रायोवादः । m) = अर्मक- । n) पामे. वैप १, २१०५ g द. । ०ऋ इति पाठः ? यनि. शोधः ।
o) वैप १, २१०५ k द. ।

-**क्षयः** काश्रौ २२, ९, १३;
 आपश्रौ २०, १४, ७; ९; बौश्रौ;
 ऋञ्च २, ९, ८६; साञ्च २, १७३;
 उनिसू ८: १२; -**क्षये** वृदे ५,
 ११४; -**क्षि** निसू ३, १०: ६^१;
 आपमं २, ११, २०; पाण् १,
 १६, २; -**क्षि**: आश्रौ ४, ६, ३;
 ६, १०, १६; ८, १३, ६; शाश्रौ;
 या २, १४^१; -**क्षिना** काण् २९,
 १^१; -**क्षिभिः** बौश्रौ २५, १७:
 १८; -**क्षिभ्याम्** आपश्रौ २२,
 १३, १५; -**क्षिन्** काश्रौ १४,
 २, ११; आपश्रौ १८, २१, १३;
 २१, २३, १२; बौश्रौ; -**क्षिन्**चै
 बौश्रौ ८, ३: २; १३, २०: ७;
 वैश्रौ १६, ३: ९; -**क्षिनी** आपश्रौ
 २१, १३, १४; १६; -**क्षिनी**:
 आपश्रौ २२, २०, ११; बौश्रौ;
 -**क्षिन्** आपश्रौ २२, २०, ११;
 -**क्षिनाम्** बौश्रौ १४, १३: १;
 -**क्षि**: शाश्रौ ८, १७, १; बौश्रौ;
 -**क्षौ** वैण् १, १४: १२; -**क्ष्या**:
 चाञ्च १: १०; १५.
पृश्नि-गर्भं, भा^१ - **गर्भम्** विध १,
 ५९^०; -**गर्भा**: आश्रौ ४, ६, ३;
 ५, १८, ५; या १०, ३९^१.
पृश्नि-ग्रह- **हाणाम्** आपश्रौ २१,
 १३, ८^१; बौश्रौ २३, ६: ६;
 -**है**: बौश्रौ २३, १९: ३५.
पृश्नि-ज^१ - **जा**: अप ४३, ५, ५९^१.
पृश्नि-प(रां >)णी^१ - **णीं** अप
 १८, १, १७; ३२, १, ३^१; -**णीम्**
 आग्नि ३, ५, ५: ६; बौपि;

-**ण्यां** कौसू ८, २५.
पृश्नि-प्राण-ग्रह^१ - **हान्** आपश्रौ
 २१, १३, ७; हिश्रौ १६, २, ९.
पृश्नि-मन्थ- **न्थः** कौसू ११, १५.
पृश्नि-मातृ^१ - **तरः** शाश्रौ ८, २३,
 १^१; आपश्रौ १४, १६, १^१;
 हिश्रौ १५, ५, १^१; अप्राय ६,
 १; वृदे ५, ७१.
पृश्नि-मान- **नानि** हिश्रौ १६, २,
 ९^१.
पृश्नि-वर्ण^१ - **र्णम्** ऋप्रा १७, १५.
पृश्नि-वा(ल >)ला^१ - **ला** आपश्रौ
 १०, २२, ४; हिश्रौ ७, २, १६.
पृश्नि-वा(फ >)फा^१ - **फा** आपश्रौ
 १०, २२, ४; हिश्रौ ७, २, १६.
पृश्नि-सक्थ^१ - **क्थम्** तैप्रा ६, १२;
 -**क्था**: बौश्रौ १५, ३८: १२.
पृश्नि-सूक्त- **क्तम्** ऋञ्च २, ६, ४८;
 -**क्ते** वृदे ५, ११३.
पृश्न्य(श्नि-ञ्च)श्मन्- **श्मा** काश्रौ
 १८, ६, ८; -**श्मानम्** काश्रौ १८,
 ३, २०.
२पृश्नि^१ - **क्षीनाम्** चाञ्च १७: ९.
पादन्थ^१ - **न्थस्य** चाञ्च १६:
 ४; ५.
√पृष् (बधा.) पाधा. भ्वा. पर. सेचने
 हिंसासंक्लेशनयोश्च > **पृषत्^१**
 पाठ २, ८४; पाण् २, १, ५६^१;
 -**षत्** माश्रौ १, ७, १, ३०; ऋप्रा
 १७, १७; -**षता** काश्रौ ७, ८,
 २५; आपश्रौ; -**षन्** काश्रौ १५,
 ३, १६; ९, ५; -**पृषन्तः** आपश्रौ
 २०, १४, १४; बौश्रौ १५, ३८:

१२; हिश्रौ १४, ३, १८.
पृषती^१ - **पृषत्यः^१** आपश्रौ
 ३, ६, ६; बौश्रौ १, १९: २६;
 भाश्रौ ३, ६, १; -**ती** काश्रौ १५,
 ९, १४; माश्रौ ५, २, १, १८;
 कौसू २४, ४२^१; -**ती**: बौश्रौ
 १८, ११: ६; -**तीनाम्** बौश्रौ
 ४, ३: ३८^१; वाश्रौ १, ६, २,
 १४^१; -**तीभिः** वैताश्रौ ३१,
 २७; -**तीम्** कौसू २४, ४३; -**त्यः**
 अप ४८, ९४; वृदे ४, १४१; निघ
 १, १५; -**त्या** कौसू २४, ४४;
 -**त्या**: हिश्रौ २२, ४, २०.
पृषद्-अश्व^१ - **श्वः** आपश्रौ
 १४, १६, १; हिश्रौ १५, ५, १;
 काण् ५८, २; अप्राय ६, १;
 -**श्वानाम्** आश्रौ १२, ११, १.
पार्षदश्व- **श्वः** आश्रौ
 १२, ११, १^१; आपश्रौ २४, ८, ५;
 ६; बौश्रौ २४: ४.
पृषदश्व-वत् आपश्रौ २४, ८,
 ५; ६; बौश्रौ २४: ५.
पृषद्-आज्य^१ - **ज्यम्** आश्रौ ६,
 १०, ५; काश्रौ ५, ४, २४; ६, ६,
 २०; आपश्रौ; -**ज्यस्य** काश्रौ ६,
 ८, ४; १७; आपश्रौ; -**ज्यात्** बौश्रौ
 ४, ९: २८; २०, २०: १३; वैश्रौ
 १०, १९: १७; -**ज्याय** बौश्रौ
 ४, १: ६; ५, १: ५×४; माश्रौ;
 -**ज्ये** आपश्रौ ८, २, ८; ६, ९;
 ९, १७, २^१; बौश्रौ; -**ज्येन** शाश्रौ
 ४, १४, ३५; आपश्रौ ७, २३, ७;
 काठश्रौ; गौपि २, ७, ३२^१.

a) = साम-विशेष- । b) वैप १ द्र. । c) विप. > ताप. (विष्णु-) । विशेषः मभा १२, ३४१, ४४
 द्र. । d) सपा. पृश्निग्रहाणाम् <> पृश्निमानानि इति पाभे. । e) = पितृ-विशेष- । उस. । f) द्रस. > षस. ।
 g) विप. (वैराज- [= सामविशेष-]) । बस. । h) विप. । बस. । i) व्यप. । व्यु. ? । j) °त- इति पाका. ।
 k) वैप १, २१०७ m द्र. । l) पाभे. वैप १, २१०७ n द्र. । m) बप्रा. विप., व्यप. । n) बहु. < पार्षदश्व- ।
 o) पृञ् इति पाठः ? यनि. शोधः ।

पृषदाज्य-ग्रह (रा >)णी-
णीम् बौश्रौ ४, ३:३१;३४; ५,
२: ५; ८×५; वैश्रौ १८, ३: २;
बौपि ३, ३, १२; -ण्याम् बौश्रौ
४, ३: ३५; -ण्यै बौश्रौ २०,
२६: २८.

पृषदाज्य-घा(न >)नी- नी
वाश्रौ १,६,२,११; वैश्रौ ८, ४:
२; -नीम् आपश्रौ ७, ८, ३;
७×५; भाश्रौ; -न्या: माश्रौ १,
७,१,२८; ३३; -न्याम् आपश्रौ
७,९, २; ८,२,८; ६,९; भाश्रौ;
-न्यो: भाश्रौ ८,७,२.

पृषदाज्य-धर्म- मै: वाश्रौ
१,६,२,१२^१.

पृषदाज्य-प्रणुत्त-
त्तानाम् शौच ३,६५.

पृषदाज्य-वत् मीस् ५,३,१;
१०,६,६४;७,६४.

पृषदाज्य-वत्त- वन्ति बौश्रौ
५,२: ९; ५: ३६×५; भाश्रौ.

पृषदाज्यवती- तीम्
काश्रौ २५,७,३१.

पृषदाज्य-स्कन्दन- ने काश्रौ
२५,६,३;७.

पृषदाज्य-सुव- वम् हिश्रौ
४,४,७३;५,२७.

पृषदाज्या(ज्य-अ)र्थ- र्थम्
हिश्रौ ४,२,३१.

पृषदाज्या(ज्य-अ)वकाश-
शे बौश्रौ ४,६: ३४; ११, ४:
१८; १५,२८: २८.

पृषदाज्या(ज्य-अ)वेक्षण-
-णम् शाश्रौ ५,१७,१२.
पृषद्-वस्त-वय^१ -यम् वाध
२१,२३.
पृषद्-व(त्स >)त्सा- न्सायै
हिश्रौ २२,४,२०.

पृषोत्था,द्वा^१न- पा,पाग ६,३,
१०९.

पृषोदर^१- पा, पाग ६,३,१०९;
-र: हिश्रौ १४, ३, १४; -रम्
आपश्रौ २०, १३, १२; बौश्रौ
१५,२३: ७;२६: ८.

पृषोदरा(रि-आ)दि-दीनाम्
ऋत ४,३,६.

पृषत्^१- पाउ ३, १११; पाग २,१,
५६^१; बौश्रौ २६, ११: २२; या
२,२; -तम् माश्रौ ६,१,७, २२;
-ता: अप ७१,३,३.

पार्षत्^१- -तम् शोध २२२;
-तेन विध ८०,८.

पृषता(त-अ)न्त^१- न्तान् काश्रौ
२०,६,६.

पृषित- पाउमो २,२,१४३.

पृषित-मात्र- त्रे बौश्रौ २०,
२६: ३७.

पृष- (> पार्ष-) पृषदंश- टि. द्र.

पृषत्- √पृष द्र.

पृषदंश^१- (> पार्षदंश- पा.) पाग
४,१,८६.

पृषदश्व- प्रस्. √पृष् द्र.

पृषध्र^१- ध्र: ऋअ २,८,५६; साअ १,
४४,७; -ध्रस्य वृदे ६,८५; -ध्रे

शाश्रौ १६, ११,२६.

पृषातक^१- क: माग २, ३,६; -कम्
आग २,२,३; माग २, ३, ५^१;
गोय; -कस्य कौय ४,३,२; शाग
४, १६, ३; काग ५८, २; ५;
-का: पाग २, १६, १^६; -कानि
आश्रौ ८, ३, २१; शाश्रौ १२,
२३,३; वैताश्रौ ३२,२५; -काय
आग २,२,२; ३; -के गोय ३,
८,१; -केन कौस् ४९,१५.

पृषातक-श्रेषण- णयो: क्रप ३,९,८.

पृषु^१ ऋषा ४,६३^१.

पृषु- √पृच्छ द्र.

पृषु^१- -ष्ट: आश्रौ २,१५, २^३; ८,
१०,३; शाश्रौ; या ७,२३.

पृषुम^१- म: शोध ११६: १७.

पृषि,षी^१- ष्य: वैश्रौ १३, १७:
६^१; -ष्टीनाम् आपश्रौ १५,
१५,१; भाश्रौ ११, १५, १३;
हिश्रौ २४, ६, १२^०; -ष्टीभ्य:
तैप्रा ३,७^१.

पृषया(ष्टि-आ)मय^१- >० यिन्-
-यी या ५,२१^१क^१.

पृषु^१- पाउ २,१२; पाग ५, २, २४;

पावाग ३, २, १५; ५, ४, ४४;

कि १५; -ष्ट: निस् ५,६: ६;

-ष्टम् आश्रौ ५,१५,२; ७,३;

९×५; शाश्रौ; आपश्रौ १४,

११, ४^१; २२,२,२^१; द्राश्रौ ९,

३, ८^१; या ४, ३; -ष्टयो:

आश्रिग ३, ४, २: १२; बौपि

३, ३, १२^१; वैग ५, ४: ३४;

a) ष्मै: इति पाठः? यनि. शोधः। b) समाहारे द्वस। वय- = पक्षिन्-। c) पाका. पाठः। d) वैप^१
द्र.। e) विप. (कूर्म- [माश्रौ.])। शिष्टं वैप १ द्र.। f) पृ १६३७ j द्र.। g) विप.। तस्येदमीयः षण् प्र.।
h) विप.। बस.। i) अर्थः व्यु. च?। पृष,दंशे इति पाका.। j) रुद्र-नामन्-। k) = कर्म-विशेष-। l) व्यप.।
व्यु. ?। m) वैप १, २१०८ m द्र.। n) सपा. पृष्यः <> पृष्टीनाम् इति पाभे.। o) ष्ठी^१ इति पाठः? यनि. शोधः।
p) पाभे. वैप १, २१०८ q द्र.। g) पाभे. वैप १, २१०९ m द्र.। r) ष्ठयम् इति पाठः? यनि. शोधः। तु. सूको,
तां १६, ७, ३; ०. च।। s) सप्र. पृष्यम् <> पृष्यम् इति पाभे.। t) प्रतिष्ठयोः इति B.।

-ष्ठस्य काश्रौ १६, २, १८;
 दाश्रौ २, ३, १३; लाश्रौ ३, ६,
 ३३; ५, १२, ८^१; वैताश्रौ; -ष्टात्
 वैताश्रौ २७, ६; क्षुस्; -ष्टानाम्
 आश्रौ ८, ७, १०; आपश्रौ २,
 ७, ९^१; वैश्रौ; लाश्रौ १, १०,
 १६^१; -ष्टानि आश्रौ ८, ४, १८;
 ५, ११; ७, ५; शाश्रौ; -ष्टानिऽ-
 ष्टानि क्षुस् २, १४ : १६; -ष्टा-
 भ्याम् निसू ४, ६ : ११; -ष्टे
 शाश्रौ ७, २५, ९; ११, ४, ३××;
 काश्रौ; वैताश्रौ ३५, १६^१; या
 ९, १४; -ष्टेऽ-ष्टे लुस् २, ९;
 २४; -ष्टेन आश्रौ ८, १४, १५;
 दाश्रौ ९, २, ११; लाश्रौ; -ष्टेभ्यः
 बौश्रौ १४, २९ : ३०; ३५; निसू
 ६, ६ : २२; ७, ५ : १२; -ष्टेषु
 आश्रौ ५, १५, ११; दाश्रौ ९, ३,
 २; लाश्रौ; -ष्टैः आपश्रौ १७,
 १२, १०; वैश्रौ.
 पृष्ठ-काल-ले काश्रौ १२, ३, ७.
 पृष्ठ-च्छन्दस्-न्दसः निसू ३, १२ :
 ४.
 पृष्ठ-जाह-पा ५, २, २४.
 पृष्ठ-तप्-तप् आपध १, २७, १०;
 हिघ १, ७, ३५.
 पृष्ठ-तस्(ः) शाश्रौ ४, १४, १४;
 बौश्रौ १८, ३३ : ७^१; वाश्रौ.
 पृष्ठ-त्व-त्वम् निसू ४, ४ : १४;
 -त्वे निसू ४, ७ : ३, ५, ७ : १२;
 ८ : २.
 पृष्ठ-देश-शम् वाश्रौ १, ६, ५, १७;
 या ४, ३.
 पृष्ठ-धर्म-मैः निसू ६, ६ : ४.

पृष्ठ-न्यङ्ग-ङ्गाः निसू ६, ९ : ३.
 पृष्ठ-भक्ति-क्तिः निसू ४, ७ : २^१.
 पृष्ठ-भस्मन्-स्म वैश्र १, १२ : ६.
 पृष्ठ-रोग->गिन्-गी या ५,
 २१.
 पृष्ठ-वंश-शः बौश्रु ६ : ७; -शम्
 आम्रिण २, ४, १ : १९; भाण २,
 ३ : १३; हिण १, २७, ७; -शो
 कप्र १, १, ३.
 पृष्ठ-वत् मीस् १०, ५, ७९.
 पृष्ठ-वाद-दः निसू ८, १० : १४.
 पृष्ठ-विलोप-वः निसू ८, ७ : १४.
 पृष्ठ-न्यसन-ने वाश्रौ ३, २, २,
 ४८.
 पृष्ठ-शब्द-ब्दः मीस् ७, ३, ६; ३४;
 ३५; -ब्दात् मीस् १०, ६, १३.
 पृष्ठ-शमन->न-रूप-पम् निसू
 १०, ११ : २३.
 पृष्ठशमना(न-अ)र्थ, र्था-र्या
 निसू ६, १ : ९; -र्थेन निसू
 १०, १० : ३.
 पृष्ठशमनीय^०-यः शाश्रौ १३,
 १४, ७; काश्रौ १३, ४, ८; आपश्रौ
 २१, १३, ५; २१, १^१; निसू ६,
 १ : ५; १४; -यम् शाश्रौ १३, १४,
 ८; निसू ६, १ : ८; -येन शाश्रौ
 १८, २४, २९; आपश्रौ २१, १३,
 ५; बौश्रौ; -यैः वाश्रौ ३, २, २,
 ४७; निसू ५, १३ : ४^१.
 पृष्ठ-शय-पावा ३, २, १५.
 पृष्ठ-संयोग-नो हिश्रौ ८, ४, ४.
 पृष्ठ-संहित-तौ कौस् २७, ९.
 पृष्ठ-स्तोत्र-त्रम् वैश्रौ १६, ९ : ९.
 पृष्ठ-स्तोत्रिय->या(य-अ)नुस्-

प-पाः वैताश्रौ ३२, ६; -पौ
 वैताश्रौ ३१, १८; २३; ३२, १;
 ३३, ६; ९; १६^१; २४.
 पृष्ठ-स्तोत्रीय-येषु दाश्रौ ८, २,
 २०; लाश्रौ ४, ६, १६; १०, २,
 ३; क्षुस् २, १२; ३; १६; २४.
 पृष्ठ-स्थ-स्थानि लाश्रौ २, ९, ६^१.
 १पृष्ठ-स्थान-नम् निसू २, ९; १३.
 २पृष्ठ-स्थान^१-नानि दाश्रौ ६,
 १, ९^१.
 पृष्ठ-होम-मम् दाश्रौ ६, १, १;
 लाश्रौ २, ९, १; निसू २, ४ :
 ७; १६; -माय दाश्रौ ४, २, ६;
 लाश्रौ २, २, १५.
 पृष्ठा(ष्ठ-अ)गिनष्टोम-सामन्-मनी
 क्षुस् ३, ३ : २; -मनोः निसू
 ५, ९ : ३.
 पृष्ठा(ष्ठ-आ)देश-शम् दाश्रौ ६, १,
 ६; लाश्रौ २, ९, ५.
 पृष्ठा(ष्ठ-अ)न्वित-तम् निसू ४,
 १३ : ३; ७, ९ : ३०; -तानि
 निसू ४, १२ : १४; १९; -ते
 निसू ९, २ : २९.
 ?पृष्ठा (ष्ठ-अ)पदान-नात् निसू
 ७, २ : ६.
 पृष्ठा(ष्ठ-आ)पन्न-न्नानाम् निसू
 ७, १३ : ११.
 पृष्ठा(ष्ठ-अ)पाय-यात् निसू ९,
 १ : २७.
 पृष्ठा(ष्ठ-आ)रूढ-ढः आपध १,
 ९, २७; हिघ १, ३, २८.
 पृष्ठा(ष्ठ-अ)र्थ-र्थे मीस् १०, ४,
 ४२; ६, १६; २५.
 पृष्ठा(ष्ठ-अ)स्थि-स्थि विघ ९६,

a) सप्र. पृष्ठस्य <>पृष्ठयस्य इति पाभे. । b) ष्टा इति पाठः? यनि. शोधः । c) ष्टये इति C. ।
 d) ष्विभं इति संस्कृतुः टि. । e) =ऋतु-विशेष-। तदस्यप्रयोजनमित्यर्थे छ > ईयः प्र. (पा ५, १, १११) ।
 f) ष्टयं इति पाठः? यनि. शोधः (तु. पूर्व स्थलम्) । g) ष्टयं इति पाठः? यनि. शोधः (तु. मूको,
 निसू ६, १ : ५ प्रथ.) । h) पाठः? पाः इति शोधः [तु. C.] । i) परस्परं पाभे. । j) विप. । वस. ।

६९.
 पृष्ठा(ष्ट-अ)हन्- -हानि हिश्रौ १७,
 ८, १६.
 पृष्ठा(ष्ट-आ)हुति- -ती जैश्रौ १७ :
 ३.
 पृष्ठी-रूप^१- -पम् जैश्रौका १७५.
 पृष्ठी(ष्ट-उ)पाय- -याः निसू १०,
 ६ : १८.
 पृष्ठ्य, ष्टया^२- -पावा ४, २, ४२; -ष्टयः
 आश्रौ ८, ४, २१; ७, १८××;
 शाश्रौ; काश्रौ १२, ३, १; द्राश्रौ
 ९, २, १५; लाश्रौ ३, ६, १६;
 १०, ३, १३; वैताश्रौ ३१, ७;
 ९; १२; निसू ९, १:२०; १० :
 ३६; ३८; १२:२६; १०, ३:२६;
 -ष्टयम् आश्रौ ११, २, २; ७; ७, ४;
 शाश्रौ; द्राश्रौ ५, ४, १७; ८, १,
 २६; २, १२; लाश्रौ २, ८, १७;
 ३, ६, २८^३; ४, ५, २१; ६, १२;
 निसू ४, ११ : १; ५, ५ : २५;
 १० : २; ८, १३ : १; ९, १० :
 २९; ३१; १२ : २१; -ष्टयया
 माश्रौ ५, २, १६, ७^४; -ष्टययोः
 काश्रौ २४, १, २८; निसू ९,
 १३ : ४३; -ष्टयस्य आश्रौ ७,
 ५, ४; १०, १××; शाश्रौ; द्राश्रौ
 १५, ४, १^५; वैताश्रौ ४२, १;
 लुसू ३, ११:११; १२:१३; निसू
 ६, ४:६; -ष्टया^६ काठश्रौ ९२;
 आपश्रु ५, १२; हिश्रु २, २३;
 -ष्टयाः आपश्रौ २३, ९, १६^७;
 बौश्रौ १६, १६ : ३; २६, १७ :

८; -ष्टयात् शाश्रौ १२, ६, ३;
 १४, ७०, २; काश्रौ; -ष्टयान्
 बौश्रौ २६, १७ : ९; -ष्टयानाम्
 आपश्रौ २१, १६, २०; बौश्रौ;
 -ष्टयानि आश्रौ १२, १५, ११;
 निसू ९, १ : २२; १०, ८ : ३५;
 -ष्टयाम्^८ काश्रौ ८, ३, १२; १९;
 ४, २५; ६, ५; ९, ७, ६; आपश्रौ
 ११, ४, १६; ६, ३; काठश्रौ;
 भाश्रौ १२, ४, १८; माश्रौ २,
 २, २, ६; १३; वाश्रौ १, २,
 ४, १; हिश्रौ ७, ४, ४२^९; ५,
 १२; ७, ३; वैताश्रौ १८, ३;
 बौध २, १०, २३^{१०}; -ष्टयायाः^{११}
 आपश्रौ ११, ९, ९; काठश्रौ
 ९८; बौश्रौ २०, ५ : १८; माश्रौ
 २, २, ३, १३; ५, २, १५, २८;
 वाश्रौ १, २, ४, २; -ष्टयायाम्^{१२}
 आपश्रौ ११, १४, ४; वैश्रौ १४,
 १२ : ८; हिश्रौ ७, ७, ३०; आपश्रु
 १, १२; हिश्रु १, २२; -ष्टयायै
 बौश्रौ २०, ५ : १६^{१३}; -ष्टये आश्रौ
 ७, ३, २०; ८, ४, १९^{१४}; काश्रौ;
 द्राश्रौ ८, २, ९; ९, १, १; २,
 १७; लाश्रौ ३, ५, १; ६, १८; ९, १;
 ४, ६, ८; १०, ४, १६; वैताश्रौ
 ३१, २५; निसू ४, ५ : ११;
 ५, ६ : १७; २३; ९ : ११;
 २२; -ष्टयेन बौश्रौ १६, २९ :
 १२; १७, २२ : २; लाश्रौ;
 -ष्टयौ आश्रौ ११, २, ५; ३, २;
 ६, १३; शाश्रौ.

पार्थिक^१- -कान् लाश्रौ ८,
 ११, ६; -कानि काश्रौ १४,
 १, ५; ६; २२, ७, १; २४, २,
 १७.
 पृष्ठ्य-ग्रह- -हाणाम् बौश्रौ २३,
 ५ : २६; ३०; -हान् बौश्रौ
 २३, ५ : २७.
 पृष्ठ्य-चतुर्थ^२- -र्थम् वैताश्रौ ३८,
 ७; -र्थान् शाश्रौ १३, १९, ९.
 पृष्ठ्यचतुर्थ-वत् वैताश्रौ ३३,
 २२; ३६, २६.
 पृष्ठ्य-च्छ^३, छन्दोम- -मान् निसू
 ४, ११ : ३^४; -मानाम् निसू
 ४, ६ : ४; -मेषु वैताश्रौ ३३,
 १४.
 पृष्ठ्य-त्सु^(ः) लाश्रौ १०, ४, ४.
 पृष्ठ्य-व्यह- -हः आश्रौ ९, १,
 ५; १०, ३, ५; -हस्य वैताश्रौ
 ४१, ७.
 पृष्ठ्य-दशरात्र- -त्रयोः निसू ६,
 ४ : ६.
 पृष्ठ्य-पञ्चम^५- -मान् आश्रौ
 ११, ७, २; शाश्रौ १३, १९, ७.
 पृष्ठ्य-पञ्चाह- -हः आश्रौ १०,
 २, ३२; ३, ४; निसू ९, १३ :
 २०; -हस्य वैताश्रौ ४१, १६.
 पृष्ठ्यपञ्चाह-वर्जम् निसू ५,
 ५ : २१.
 पृष्ठ्य-पृष्ठ्यस्तोम- -मयोः निसू
 ६, ४ : ५.
 १ पृष्ठ्य-मध्य- -ध्ये आश्रौ ११,
 २, ९.

a) पूष. = पृष्ठ- (तु. जैश्रौ १७ : ६)। व्यु. ?। b) वैपश् निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.। स्वार्थे यत् प्र. इत्यत्र विशेषः। c) पामे. पृ १६३८ S द्र.। d) = (वेदिपृष्ठमवा-) रेखा- (तु. काश्रौ ८, ३, १२ आपश्रौ. प्रम्.। e) पामे. पृ १६३९ a द्र.। f) = रज्जु- इति गोपीनाथः। g) = वेदि-। h) ष्ठे इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. श्रान., काश्रौ १२, ३, १ च)। i) विप.। तस्येदमीये ठकि प्र. य-लोपः उंस. (पा ६, ४, १५०। तु. विद्याधरः PW. प्रम्. च; वैतु. कर्कः <पृष्ठ- इति)। j) विप.। बस.। k) निसू. पाठः। l) ष्ठ्याच्छ इति पाठः ? यनि. शोधः स्यात् ? (तु. उत्तरं स्थलम्)।

२पृष्ठ्य-मध्य^१ - ध्याः काश्रौ
२४, ४, ४.

पृष्ठ्य-मध्यम^२ - माः आश्रौ १२,
१, ३; ६.

पृष्ठ्य-मात्र- श्रौ निसू ९, ११ :
३८.

पृष्ठ्य-मुख^३ - खान् आश्रौ ११,
७, १०.

पृष्ठ्य-विकार- रः शाश्रौ ११,
४, १.

पृष्ठ्य-शमन- > नीय^४ - यः
आश्रौ १२, १५, ८.

पृष्ठ्य-षडह- हे वाश्रौ ३, २,
२, ९.

पृष्ठ्य-षष्ठ- छे वैताश्रौ ३१, २७.
पृष्ठ्यषष्ठवत् वैताश्रौ २७,
२६.

पृष्ठ्य-सदृश- शौ निसू १०,
३ : ३२.

पृष्ठ्य-तांनिपातिक- के निसू
१०, ३ : २५.

पृष्ठ्य-स्तोत्रिया- याः आश्रौ
७, ३, १३.

पृष्ठ्य-स्तोम^५ - मः आश्रौ ८,
४, २५; १०, ३, १५ × ×; शाश्रौ;

-मम् निसू ९, १२ : २७;
-मस्य क्षूसू २, १० : ३; निसू

६, ४ : ६; ९, ६ : २७; -माः
आश्रौ ११, ३, ८; शाश्रौ १४,
३८, २; ५; काश्रौ २२, ६, २६;

-मात् निसू ४, ४ : १०;
-मानाम् शाश्रौ १३, २३, २; ४;
२४, ५; २८, ५; -मेन काश्रौ

२४, ४, १६; लाश्रौ १०, १०,

१६; -मैः शाश्रौ १६, २२, ८;
-मौ काश्रौ २४, २, १९; बौश्रौ
२६, ३३ : ४; निसू ९, १३ :
२३.

पृष्ठ्यस्तोम-न्याय- येन
निसू ६, ४ : ७.

पृष्ठ्यस्तोम-पञ्चाह- हः
निसू ९, १३ : २०; ३०; -हान्

लाश्रौ १०, ४, ४.

पृष्ठ्यस्तोमपञ्चाह-त्व-
-त्वात् निसू ९, १३ : ९.

पृष्ठ्यस्तोमा(म-आख्या >)
ख्य^६ - ख्यः काश्रौ २३, ५, १३.

पृष्ठ्य-स्वरसामन्- -स्नाम् द्राश्रौ
७, ४, २१; लाश्रौ ३, ४, २०.

पृष्ठ्या-काल^७ - लम् बौश्रौ २१,
११ : १९; १४ : १६; १५ :
२४.

पृष्ठ्या-तस् (ः) आपशु ९, ६;
दिशु ३, २५.

पृष्ठ्या(छ्य-अ)तिग्राह- ह्याः
बौश्रौ २६, ८ : १.

पृष्ठ्या(छ्य-आ)दि- द्यः आश्रौ
१२, २, ३; काश्रौ २४, ४, १३.

पृष्ठ्या-देश- शस्य माश्रौ २,
१, १, २१; ४, ३, ४; ६, २, ५, ६;

-शे माश्रौ २, २, ४, ४.

पृष्ठ्या(छ्य-आ)नन्तर्य^८ - र्ये
द्राश्रौ ७, ४, १७; लाश्रौ ३, ४,
१६.

पृष्ठ्या(छ्य-अ)न्त- न्तयोः
आपशु १, ४; २, २; ५, १;
बौशु.

२पृष्ठ्या(छ्य-अ)न्त^९ - न्ताः

आश्रौ १२, २, ४; ५.
पृष्ठ्या-बर्हि-प्रभृति- ति

वाश्रौ २, २, ४, २१^{१०}.

पृष्ठ्या(छ्य-अ)भिल्लन- नयोः
आश्रौ ७, ३, ४; १२, ४, १७;

शाश्रौ १२, २७, ५; निसू ५, २ :
२९ × ×; -वान् वाश्रौ ३, २, ३,

२७; द्राश्रौ; -वानाम् बौश्रौ २६,
१७ : १०; -वेभ्यः आपश्रौ

२३, ९, १६^{११}; बौश्रौ २३, ११ :
२२^{१२}; -वौ शाश्रौ १३, १९, १२;

आपश्रौ २३, ९, ६; हिश्रौ १८,
३, ११^{१३}; लाश्रौ ४, ५, ४.

पृष्ठ्या(छ्य-अ)यन^{१४} - नः निसू
५, ४ : २.

पृष्ठ्या(छ्य-आ)रम्भण^{१५} - णान्
शाश्रौ १३, १९, ११; २२, ३.

पृष्ठ्या(छ्य-अ)र्थ- र्थेन निसू
९, १३ : ४०.

पृष्ठ्या(छ्य-अ)वलम्ब^{१६} - म्बः
आश्रौ १०, ३, १९; काश्रौ २३,
५, १७; हिश्रौ १७, ८, २१^{१७};

निसू ८, १२ : १८; ९, १३ :
३१; -म्बम् आश्रौ १०, ३, ३;

-म्बस्य आश्रौ १०, ३, २४;
निसू ९, ५ : ५; ६ : २७; -म्बात्

काश्रौ २३, ५, ३२; -म्बेन
आपश्रौ २२, २२, १९; हिश्रौ

१७, ८, २१.

पृष्ठ्यावलम्बा (म्ब-आख्या
>)ख्य- ख्यः काश्रौ २३,
५, ३.

पृष्ठ्या(छ्य-अ)विलोप- पान्
निसू ९, १३ : १४.

a) विप.। बस.। b) = पृष्ठ्यशमनीय-। c) = पृष्ठ्यषडह-। बस. (तु. शाश्रौ १३, १६, ५ भाष्यम्)।

d) = पृष्ठ्या-देश। e) सपा. माश्रौ ६, २, ६, १ पदलोभनप्रभृति इति, आपश्रौ १७, २०, १८ वेद्यास्तरणदि इति च
पाभे.। f) पृष्ठा^{१८} इति पाठः? यनि. शोधः। g) = षडह-विशेष-। बस. वा उस. वा। h) ष्म्यः इति पाठः?
यनि. शोधः (तु. सस्थ. ष्म्वेन इति)।

पृष्ठा(ष्य-आ)वृत्ति- -त्तौ मीस्
१०, ५, ८५.
पृष्ठा-शङ्कु- -ङ्कुम् माश्रौ १,
७, ३, १३; २, २, १, ५२×४;
-ङ्कोः माश्रौ २, २, २, १२;
३, ६, १३.
पृष्ठा-सहित- -त्म् काश्रौ १८,
३, २०.
पृष्ठ्या(ष्य-अ)ह- -हेषु हिश्रौ
१६, २, १५.
पृष्ठ्या(ष्य-अ)हन्- -हः आश्रौ
९, २, ५; १०, १०, ८; १२, ६,
२४; -हःसु आपश्रौ २१, १३,
२०^a; -हनि आश्रौ ५, ८, ६^b;
८, ४, १३^c; -हानि आश्रौ ९,
८, २५; १०, १, ७; शाश्रौ १४,
६८, २; -ह्ना आश्रौ ८, ७, ११;
१०, ९, ८; लाश्रौ १०, १०, १८;
-ह्नाम् आश्रौ १०, ३, २३; ११,
५, ६.
पृष्ठ्यो(ष्य-उ)त्तम- -मे वैताश्रौ
३८, १३.
पृष्ठ्यो (ष्य-उ)दय^d- -यान्
शाश्रौ १३, २२, ४.
पृष्ठ्यो(ष्य-उ)पधान- -नात्
निस् ९, १२ : १५.
पृष्ठ्यो(ष्य-उ)पाकरण- -णम्
काश्रौ १३, २, २५.
पृष्ठा^e- -ष्वाः बौश्रौ १२, ८ : १३.
पृष्ठ^f- (> पृष्टी-पा.) पाग ४, १,
४१.
√पृ √पृ द्र.
पेचक- पाठ ५, ३७.

पेट^g- पाठ २, ४, ३१.
पेटाविकन्ते, पेटिलालकन्ते
निस् १, २ : ४.
पेट्व^h- पाठ ४, १०५; -त्वः वाश्रौ
३, २, ६, ३४; -त्वम् बौश्रौ १०,
५७ : १०; १५, २३ : ७; २६ :
९; हिश्रौ ९, ८, ३१; १६, ८,
१५ⁱ; -त्वस्य आपश्रौ ७, ६,
१; बौश्रौ ४, १ : २; भाश्रौ;
-त्वौ या १२, २१.
पेपा- पाठभो २, २, २०९.
पेपिशान- √पिश् द्र.
पेय- √पा (पाने) द्र.
पेयूष- पाठ ४, ७६.
पेरु- पाठ ४, १०१; -रुः आपश्रौ
१५, ९, ८; बौश्रौ ९, ९ : १४;
भाश्रौ ११, ९, १०; वैश्रौ १३,
११ : १२; हिश्रौ २४, ४, ३;
-रुः काश्रौ ६, ३, २८^j; २०, ६,
८; आपश्रौ.
√पेल^k पाधा. भ्वा. पर. गतौ,
पेलयति निघ २, १४^l.
पेलव^m- पाठभो २, ३, १३४; -वेन
अप ५८ⁿ, ३, ९.
पेलि^o- (> पेलि-शाल-, ष्ला-पा.)
पाग ६, २, ८६.
√पेव^p पाधा. भ्वा. आत्म. सेवने.
पेश-, पेशल- प्रभृ. √पिश् द्र.
√पेष^q पाधा. भ्वा. आत्म. प्रयत्ने.
पेष-, पेषण- प्रभृ. √पिष् द्र.
पेषुण^r-> षु(ण>)णा-गिरि- ऋत
४, ७, १०.
पेष्ठा- फि ५७.

√पेस् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
पेस्वर- √पिस् द्र.
√पै पाधा. भ्वा. पर. शोषणे.
पैङ्ग- रपिङ्ग- द्र.
रपैङ्ग- रपिङ्ग- द्र.
पैङ्गक- रपिङ्ग- द्र.
पैङ्गरायण- पिङ्गर- द्र.
पैङ्गल-, ष्लायन- प्रभृ. रपिङ्गल- द्र.
पैङ्गाक्षीपुत्र- १पिङ्ग- द्र.
पैङ्गायनि-, पैङ्गिन्- प्रभृ. रपिङ्ग- द्र.
पैजवन- पिजवन- द्र.
पैजूरायण-, ष्लायन- पिञ्जूर, लु- द्र.
पैञ्जुरायण- पिञ्जूर- द्र.
पैटक- रपिटक- द्र.
पैटकिक- रपिटक- द्र.
पैटाक- रपिटाक- द्र.
पैटाकिक- १पिटाक- द्र.
पैटक^s- -काः बौश्रौ ४६ : ३.
पैठसर्प- पीठ- द्र.
पैठीनस-, ष्नि- पिठीनस्- द्र.
√पैष्^t पाधा. भ्वा. पर. गतिप्रेरण-
श्लेषणेषु.
पैण्डायन- रपिण्ड- द्र.
पैण्डिक्य- पिण्डिक, का- द्र.
पैण्ड्य- रपिण्डी- द्र.
पैतदारव- पीतदार- द्र.
पैतामह- पितृ- द्र.
पैतुदारव- पीतुदार- द्र.
पैतुद्रव- पीतुद्रु- द्र.
पैतृक-, पैतृमत्य- प्रभृ. पितृ- द्र.
पैत्तिक- पित्त- द्र.
पैत्र-, पैत्र्य- पितृ- द्र.
पैद्व^u- -द्वः अप ४८, ९३; निघ १,

a) सप्र. 'हेषु<>' ष्ःसु इति पाठे. । b) पृष्णा^o इति पाठः? यनि. शोधः [तु. आन.] । c) 'हानि इति पाठः? यनि. शोधः [तु. आन.] । d) विप. । वस. । e) वैप १ द्र. । f) तु. पाका. । वृस्- इति भारुडा., वृक्ष-, वृस- इति पासि. । g) तु. पागम. । h) या ७, १३ परामृष्टः द्र. । i) विप. । व्यु. ? <पेल- इति अभा., √पेल इति पाठभो. । j) = आचार्य-विशेष- । व्यु. ? । ऐलि- इति पाका. । k) = गिरि-विशेष- ? । l) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । m) √प्रेण इति [पन्ने] पासि. ।

१४; -द्वम् कौस् ३२, १२;
३५, ४; ८.
पैनद्वक- पिनद्व- द्र.
पैप्पल- १पिप्पल द्र.
पैप्पलव, °व्य- पिप्पलू- द्र.
पैप्पलाद-, °लादि- १पिप्पल- द्र.
पैयूक्ष- पीयूक्षा- द्र.
पैल- पीला- द्र.
पैलव-, °लुकुण-, °लूमूल- पीलु- द्र.
पैलेय-, पैव्य- पीला- द्र.
पैशाच-, °व्य- पिशाच- द्र.
पैशुन-, °न्य- √पिश् द्र.
पैष्ट- षपिष्ट- द्र.
१, २ पैष्टिक-, पैष्टी- √पिष् द्र.
पोगण्ड- पाउभो २, २, ११७.
पोटा^१- पा २, १, ६५; पावा ३, १, १७.
√पोटाय पा ३, १, १७.
पोत^२- पाउ ३, ८६; पाग ४, २, ४९;
५, १, १३०.
पोत- पा ५, १, १३०.
पो(व्य >)व्या- पा ४, २, ४९.
पोतन-(> नी-पा.) पाग ४, १, ४१.
पोतु- पाउभो २, १, ६१.
पोतु^३- पाउ २, ९५; पा ६, ४, ११;
पाग ५, १, १२९; -फंतः आश्रौ
५, ७, ३; शाश्रौ ७, ६, ३; आपश्रौ;
-ता आश्रौ ४, १, ६; ५, ३, २१;
५, १७; शाश्रौ; -तारः माश्रौ
२, ३, ६, १७फं; -तारम् आपश्रौ
१७, १ : ९फं; ११, १९, ८;
बौश्रौ; -फंतारौ आपश्रौ २, ८,
६; माश्रौ २, ८, ७; -तुः आश्रौ
९, ४, १७; १२, ९, ६; शाश्रौ;
-त्रा काठश्रौ १४२; बौश्रौ ७,
१६ : ५१; ५३; -त्रे लाश्रौ ९,
६, ६.

२पोत्र- पा ५, १, १२९.
†पोतु-तम- -मम् आपश्रौ १, ६,
१०; बौश्रौ १, ३ : ५; भाश्रौ
१, ६, १३; हिश्रौ १, ३, ४.
†१पोत्र^४- -त्रम् आपश्रौ २४, १३,
३; -त्रात् आपश्रौ ११, १९, ८;
काश्रौ ९, ८, ११; काठश्रौ.
पोत्रा(तृ-आ)मीध- -श्रौ वैताश्रौ
१९, ६.
पोत्रीय, या- -यम् माश्रौ २, २, ४,
४; -याम् भाशि १३.
२पोत्र^५- पा ३, २, १८३.
पोष-, १-२पोषण- प्रभृ. √पुष् द्र.
पौंश्चलेय- पुंश्चली- द्र.
पौंस-, पौंस्य- पुंस- द्र.
पौकरीय- पूकर- द्र.
पौजनिक्य- √पूज द्र.
पौञ्जिष्ठि^६- -ष्ठयः बौश्रौ १५ : १.
पौटायन- २पुट- द्र.
पौण्डरवत्स^७- -त्साः चव्यु २ : ३७.
१पौण्डरीक- प्रभृ. पुण्डरीक- द्र.
२पौण्डरीक^८- -कः शाश्रौ १६, ३०,
८; काश्रौ २३, ५, ३३; आपश्रौ;
-कम् आश्रौ १०, ४, १; -के
काश्रौ २३, १, ९.
पौण्डल^९- -लः बौश्रौ २२ : ३.
पौण्य- पुण्य- द्र.
पौतदारव- पूतदारु- द्र.
पौतरीय- पूतर- द्र.
पौतिक-, °व्य- पूतिक- द्र.
पौतिमाष-, °भाव्य- पूतिमाष- द्र.
पौतीक- पूतीकी- द्र.
पौतुदारव- पूतुदारु- द्र.
पौतुद्रव- पूतुद्रु- द्र.
पौत्य^{१०}- -त्यः बौश्रौ २३ : १.
१पौत्र- प्रभृ. पुत्र- द्र.

२पोत्र- पोतु- द्र.
पौत्रक्य- २पुत्रक- द्र.
पौत्रिक्य- पुत्रिक- द्र.
पौत्राद्य-, पौत्रीय-, पौत्र्य- पुत्र-
द्र.
पौनःपुन्य-, पौनःशिल-, पौनराधे-
यिक- प्रभृ. पुनर् द्र.
१पौर- प्रभृ. २पुर- द्र.
२पौर- ३पुर- द्र.
पौरगीय- पुरग- द्र.
पौरण- १पूरा- द्र.
पौरव- पूर- द्र.
पौरश्चरणिक- पुरस् द्र.
पौरागीय- पुराग- द्र.
पौराण-, °णिक- पुराण- द्र.
पौरकुत्स-, °स्त्य- प्रभृ. १पुर- द्र.
पौरुमद्र- पुरुमद्र- द्र.
पौरुमीढ, ल्ह- १पुर- द्र.
पौरुष-, °षमेधिक- प्रभृ. पुरुष- द्र.
पौरुषां, षा]किन्- पुरुषां, षा]सक-
द्र.
पौरुहन्मन-, पौरुखवस- १पुर- द्र.
पौरुवेय-, °थी-, °व्य- पुरुष- द्र.
१पौरैय- ३पुर- द्र.
२पौरैय- पूर- द्र.
पौरुडाश- प्रभृ. पुरोडाश- द्र.
पौरुह- ?पुरोह- द्र.
पौरुहित-, °हितिक- प्रभृ. पुरस् द्र.
पौरुर्दर्व- प्रभृ. √पृ, पू द्र.
पौर्य- ३पुर- द्र.
पौरुवनगरेय- प्रभृ. पूर्व- द्र.
पौलस्त्य- पुलस्त- द्र.
पौलाक- पूलाक- द्र.
पौलास- पूलास- द्र.
पौलि^{११}- -ल्यः बौश्रौ १९ : ५;
२२ : ३.

a) = स्त्रीपुंसलक्षण-। व्यु. ?। b) = समुद्र-यान-। व्यु. ?। c) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र.।
d) वैप १, १८४८ ० द्र.। e) वैप १ द्र.। f) व्यप.। व्यु. ?। g) = सोमयाग-विशेष-। व्यु. ?।

पौलिन्य- पुलिन-द्र.
 पौलोम-, 'मी- पुलोमन्-द्र.
 पौलकस- पुलकस-द्र.
 १-२पौष- प्रभृ. √पुष् द्र.
 ३पौष- √पूष् द्र.
 पौष्करसादायन-, 'दि-, पौष्क-
 रेयक- पुष्कर-द्र.
 पौष्कल-, 'लेयक- २पुष्कल-द्र.
 पौष्कायण-, 'विकि- २पुष्क-द्र.
 १पौष्टिक- प्रभृ. √पुष् द्र.
 २पौष्टिक- -का: बौश्रौ प्र २७: २.
 पौष्ण- 'ष्णी- √पूष् द्र.
 पौष्पक- १पुष्प-द्र.
 पौष्पायण-, 'ष्पि- २पुष्प-द्र.
 प्याद् पाग १,४,५७.
 प्यात्व- पाउना ४,११६.
 √प्याय्^७ पाधा. भ्वा. आत्म. वृद्धौ >
 प्यायन्^८ -ने या १२,१९.
 प्युक्ष्ण^९ > प्युक्षण-वेष्टित- -तम्
 काश्रौ १५,३,१९^९.
 √प्युष् √व्युष् टि. द्र.
 √प्यै पाधा. भ्वा. आत्म. वृद्धौ.
 प्र^१ काश्रौ ५७^{११}; या १, ३; ऋप्रा
 १२, २०; १५, १७; शुप्रा ६,
 २४; तैप्रा १, १७; पाग १,४,
 ५६; प्रस्र पा ८, १, ६; प्र:
 जैश्रौका ८८^१; प्रात् पा ६, २,
 १८३; पावा ५, ४, ३०; ६, १,
 ८८; प्रे शौच २,७६.
 प्रा(प्र-आ)दि- -दय: पा १,४,५९;
 पावा २, २,१८; -दिभि: पावां
 १, ४, १; -दिभ्य: पावा २, २,
 २४; -दीनाम् पावा १, ४, १.

प्रादि-प्रसङ्ग- -ङ्गे पावा २, २,
 १८.
 प्रो(प्र-उ)दात्^{११} - -त्ते शुप्रा ६,९.
 †?प्र^{१२} अनजा^{१३} ऋप्रा ८, १५; प्र
 (अनजा) आश्रौ २, १३, ७; १९,
 १४; शाश्रौ १०, २, ९; ऋअ
 २,५,५४.
 प्र-उग^{१४} - -गा: शाश्रौ १०, २, ३; ३,
 ४,४××; बौश्रौ २५, २१: ५;
 -गम् आश्रौ ५,१०,९; ७, ६,
 ३××; शाश्रौ; -गा: शाश्रौ ११,
 ५१, ८; आपशु १२, ५; हिशु
 ४,२७; -गात् काश्रौ ७,९,४;
 -गे आश्रौ ५, १०, ६; ७, १,
 १०; शाश्रौ; -गेण ऋअ २, २,
 ४१; -गौ शाश्रौ ११, १०, ३;
 १६, ७, १५; १४, ४.
 प्राउग^{१५} - -गा: वृदे ४,९२.
 प्रउग-चित्^{१६} - -चित् काश्रौ १६,
 ५, ९; काशु ४, १; -†चितम्
 बौश्रौ १७, २८: १४; हिश्रौ
 १२, ८, ६; बौशु १४: १; हिशु
 ४, २२; -चिता आपशु १२,
 ९; बौशु १५: २; हिशु ४,३०.
 प्रउग-नुच- -चानि शाश्रौ १०, ३-
 ४, ५; ५, ४××; -चेषु आश्रौ
 १०,१०,३.
 प्रउग-देवता- -ता: ऋअ २, १, ३;
 वृदे २,१३५.
 प्रउग-मध्य- -भ्ये बौशु १९: ५.
 प्रउग-शस्त्र- -स्त्रात् वैताश्रौ २०,
 १४.
 प्रउग-स्तोत्र- -त्राय वैताश्रौ २०,

१३.
 प्रउगा(ग-आ)दि- -दीन् बौशु:
 २१: १०.
 प्र-कट- पा ५, २, २९; पाग ५, १,
 १२४^{१७}.
 प्राकटय- पा ५, १,१२४.
 प्र√कथ्, प्रकथयते अप २३,१,१.
 प्र-कथन- पाग ८, १,२७.
 प्र√कम्प्, प्रकम्पते अप ६७, ६, ३;
 ७०^{१८}, १५, २; प्रकम्पन्ते ऋप्रा
 ३, ३४; प्रकम्पन्ति अप ६४,
 ७,४; ७२, ४,४.
 प्रकम्पयन्ति^{१९} आपश्रौ १२, २८,
 १; १८,७,४; हिश्रौ ८, ८,३३;
 १३,२,३१^{२०}; प्रकम्पयेत् शैशि
 १४२; माशि ८,५.
 प्र-कम्पन- -नम् अप ६४, ६, ३.
 प्र-कम्पित,ता- -ता, -ता: सु ४,
 १; -तायाम् अप ६२, १,३;
 २-४,१.
 प्र-कम्प्य काश्रौ ४,१४,१९.
 प्र-कर- प्र√कृ (विक्षेपे) द्र.
 प्र-करण-, 'र्तव्य- प्र√कृ द्र.
 प्र-कर्ष- प्र √कृष् द्र.
 प्र√कल्^{२१}, प्रकालयति वाश्रौ १,२,१,
 ६; प्रकालयेत् द्राग ३,१,४२.
 प्र-कालयिस्वा काग ५९,६.
 प्र-कालयमा(न>)ना- -ना: गोग्
 ३,६,१.
 †प्रकल्^{२२} > प्रकल्-विद्^{२३} - -वित्
 अप ४८, १२८; निघ ४, ३;
 या ६,६६.
 प्र-कला^{२४} - -ला: या ६, ६.

a) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। b) या २,५; ९,२४ पा ३,१,६१; ६,१,२८ पराशुष्ट: द्र.। c) विप.
 (अन्तरिक्ष-। d) अर्थ: व्यु. च ? = स्नायु-वा अजगर-चर्मन्- वेति भाष्यम्। e) तु. सपा. माश ५,३,१,११ P.W.
 प्रभृ. च; वैतु. चौसं. अप्युक्षण->°क्षणवे° इति ?; उक्षण->उक्षणवे° इति सा [माश.] ?। f) वैप १ द्र.। g) प्रेषा
 [काठ ३,६] इत्यस्याऽऽयमक्षरम्। h) कस.। i) विप.(तुच-। j) = (प्रउगाकृति- अग्नि-स्थरिडल-। उप. कर्मणि क्तिप्।
 †) तु. पागम.। l) तु. सस्थ. टि. अनु। m) घृ. १८३ अनुग्र° इति. निर्देशो नेष्टः।। ^{२५} प्रास. (तु. वैप १,२,११३ U)।

प्र-कल्पक- प्रभृ. प्र√कल्प् द.
 प्र-काम^a- पाग १, १, ३७^b; ५, १,
 १२४; -मा: जैगृ २, १: ३२^c;
 -फमात् कागृ ६३, १३^d; विघ
 ७३, १५^e.
 प्राकाम्य- पा ५, १, १२४.
 प्र-कार- प्रभृ. प्र√कृ द.
 प्र-कालयित्वा, ल्यमान-प्र√कल् द.
 प्र√काश, प्रकाशते अप ५८^f, ४,
 १६; ६८, १, ८; प्रकाशन्ते अप
 ५२, ५, ३; ७, २×४.
 प्रकाशयति वैश्रौ १०, २: ११;
 या ९, १९; प्रकाशयन्ति या ३,
 ९; प्रकाशयेत् आज्यो १, ६.
 प्र-काश(वप्रा.)^g- -श: आप्रौ
 २३, १४, ८; हिश्रौ १८, ४, ६२;
 कागृ ३८, ५^h; -शम् आप्रौ १०,
 २०, १०; कौगृ १, १७, ६; शांगृ
 १, २५, ९; वैगृ ३, १९: ९; शंघ
 २७४; विघ ५, १६४^b; १९०^b; गौघ
 २३, १४^d; वृदे २, ६५, ५, २२.
 प्रकाश-कर्मन्ⁱ- -मैणाम् या
 १४, १२.
 प्रकाश-काम- -मा: आश्रौ १२,
 ५, ५.
 प्रकाश-लिङ्ग^j- -ङ्ग: या १४, ३.
 प्रकाश-वृष्टि- -ष्टया अप ७०^k,
 ११, ३२.
 प्रकाशी√भू > प्रकाशी-
 भाव- -वस्य या १२, १.
 प्र-काश, शा^l- -शा: विघ १६,
 १७; माशि १, ५^k.
 प्र-काशन- -नम् या १, १९; -नात्

या ६, १; १२, २५; -ने अप
 ४८, ५८.
 प्रकाशन-वत्- -वन्तम् या ६, १०
 प्रकाशन-स्थेयाख्या- -ख्ययो:
 पा १, ३, २३.
 प्र-काशयत्- -यन् वृदे ५, २२; ६,
 ५९.
 प्र-काशयति->प्रकाशयति-कर्मन्-
 -मैण: या २, २५; १२, ८.
 प्र-काशिन्- -शिनि अप ६३, १, १०.
 प्रा-काश^l- -शौ^m काश्रौ १५, ८, २३;
 बौश्रौ १२, १८: १४; लाश्रौ ९,
 २, १३; मीस् १०, ३, ६३.
 प्र√कित्ⁿ, ऋप्रचिकित: आश्रौ २, १९,
 २२; ३, ७, ७; ४, ३, २; शाश्रौ
 प्र(चिकेत) बौश्रौ १३, २५: ५ⁿ.
 ऋप्र-केत- -त: वैताश्रौ २२, ४ⁿ;
 या २, १९७.
 प्र-केतन- -नम् या २, १९.
 प्र-कीर्ण- प्रभृ. प्र√कृ (विक्षेपे) द.
 प्र√कीर्ति (<कीर्ति-), प्रकीर्त्यते
 वृदे १, ७३; शैशि ३५; ११२.
 प्र-कीर्तन- -नम् वृदे ४, ३०.
 प्र-कीर्तना- -ना या ७, ९.
 प्र-कीर्तित, ता- -त: कप्र ३, ९, १७;
 अप २१, ५, ३; ३६, ३०, ३;
 विघ; -तम् कप्र २, १०, १६;
 अप; -ता अप २२, ७, ४; २३, ३,
 ४; ३०, ३, १; शंघ ६५ⁱ; विघ २६,
 ५; वृदे ६, ७२; -ता: बौश्रौ २८,
 ११: १२; बौश्रौ ५४: २; शांगृ.
 प्र-कीर्य, र्थमाण- प्र√कृ(विक्षेपे) द.
 प्र√कुप्, प्रकृप्यते अप ६४, २, २.

प्र-कृपित- -तान् शाश्रौ ८, २५, ११ⁿ.
 प्र√कृ, ऋप्र(कृष) शाश्रौ १४, ६०, ३;
 ७१, ४; वृदे ५, १०६.
 प्र-कृणुष्वम् आश्रौ ३, ८, ११ⁿ.
 ऋप्र (कृणुष्वम्) आश्रौ २, ९,
 १४; बौश्रौ ३, १२: २०; माश्रौ
 ५, २, ७, ६; वैश्रौ ८, १: १०.
 प्रकृष्वते शांगृ २, १७, ४; प्र-
 करोतु अप्राय ६, २ⁿ; प्रकृर्वीत
 आम्रिगृ २, ६, ५: २३; बौगृ
 २, ९, २०; कप्र; प्रकृर्वीत् पागृ
 ३, १०, २५.
 प्रक्रियेताम् गोगृ १, ४, २२.
 प्रकारयेत् अप ६८, ५, २०;
 गौघ ५, ३३.
 प्र-करण^o- -णम् वृदे २, ९६; मीस्
 १, ४, १४; २, २, ३; ४, ४, ४;
 -णस्य वृदे २, ९३; अप १: ५;
 -णात् काश्रौ १३, १, १४; ४,
 १०; २३, ४, २६; वृदे; -णे
 काश्रौ १, ३, ३०; लाश्रौ १०,
 ६, १; मीस्; -णेन आप्रौ २४,
 २, २७; मीस् ३, ३, ८; -णेषु
 कौगृ २, ७, २६; ३०; शांगृ २,
 १२, १४; १७.
 प्राकरणिक- -का: मागृ १,
 ९, ३.
 प्रकरण- -णात् पावा १, १,
 ३-५×४; -णे पावा १, १, ३६;
 ३, २, ५×४.
 प्रकरण-काल-लिङ्गा(ङ्ग-अ) सुप्रह-
 वचना(न-अ) नाहिताश्रुति-
 -तिभ्य: काश्रौ ४, १, २९.

a) प्रास. उप. भावकर्मणोर् घञ् प्र. । b) वा. क्तिवि. । c) ष्मा इति पाठः? यनि. शोघः ।
 d) सपा. जैगृ २, १: ३२ अप्रकामाः इति पाठे. । e) ष्माः इति जीसे. । f) भाप., नाप. । g) = दर्पण- ।
 गस. उप. अधिकरणे कृत् । h) = जनसमक्षम् (तु. मनु ८, ३७२ संस्थाने बहुसंस्थिते इति पाठे.) । i) विप. ।
 बस. । j) उप. कर्तारि अच् प्र. । k) ष्माः इति पाठः? यनि. शोघः । l) वैप १ द. । m) = कर्ण-नेष्टन-
 इत्यपरे (तु. भाष्यम् [काश्रौ. लाश्रौ.]) । n) पाठे. वैप १, २११४ i द. ।

प्रकरण-निबन्धन- -नात् मीस्
७,१,१२.

प्रकरण-भूत-त्व- -त्वात् लाश्रौ
१०,१७,७.

प्रकरण-वत् लाश्रौ ९,६, २१.

प्रकरण-विशेष- -घात् मीस् ३,
६,९;७,१;९,३,१८.

प्रकरण-शब्द-सामान्य^a- -न्यात्
मीस् ४,४,१.

प्रकरण-शास्त्रः) या १३,१२.

प्रकरणा(ण-अ)न्तर- -रे मीस्
२,३,२४; १०,१,१.

प्रकरणा(ण-अ)विभाग- -गात्
मीस् ३, २, १८; ६, २९; ४१^b;
-ने मीस् ४,४,५; ११,१, ६४.

प्रकरणा(ण-अ) विशेष- -घात्
मीस् ३,१,७;४, १५; ६,१८;८,
३०.

प्रकरणो(ण-उ)पपत्ति-
-त्तिभ्याम् मीस् ३,२, २१.

प्र-कर्त्त(व्य >)व्या- -व्या अप
७०^c,११,१.

प्र-कार- -रः काण्ड ४५: १५ -रे
पा,पावा ८, १, १२.

प्रकार-द्वय- -यम् काठश्रौ २०.

प्रकार-वचन- -ने पा ५,३,६९.

प्रकारा(र-अ)न्तर- -रम् काण्ड
४५: १५.

प्र-कृत;ता- -तम् कप्र १,५, ११;
शंघ २२५; -तस्य वाध ११,
३०; -ता अप २२,९,४; -तात्

पाण्ड २,१७, १७; तैप्रा २, २५;

-तान् अप ६८,२, ३७; -तानि

अत्रभू १; -ताभ्यः वृद्धे ३,

१२७; -ते अप ३६,५,३; पावा

३, ३,४३; १६१; -तेन हिश्रौ

१४,३, २३; -तेषु वाध १४,

२५.

प्रकृत-वचन^c- -ने पा ५,४, २१.

प्रकृता(त-अ)न्न- -न्नम् विध

६७,३८.

प्रकृतान्न-विकिर^d- -रम् शंघ

२१७.

प्रकृता(त-अ)र्थ-विशेषण- -त्व-

-त्वात् पावा ७, १, २३.

प्र-कृति(वप्रा.)^e- -तयः अप ६८,१,

४९^f; आपध २, २४, १३^g; विध

३, ३३^h; हिध २, ५, ७७^h; अत्र

९, ५ⁱ; या २, २^j; ऋप्रा १३, ३^k;

-तिः आश्रौ ८, १३, ३१^k; ११,

१, ७; वाश्रौ; कौण्ड २, ४, २१^l;

शुभ्र १, ३०४^l; ४, १८५^l;

अत्र १, ३^l; या १४, ७;

तैप्रा २४, ५; पा १, ४, ३०^k;

उनिस् २ : १८^l; पिं ४, ३^l;

-तिभिः वैताश्रौ ४३, ४४; -तिम्

शाश्रौ ९, १, ३; बौण्ड १, ४, ४४^l;

या १४, ४; ऋप्रा ११, ३६; -ती

अत्र १३, ३; -तीनाम् वाश्रौ

३, १, १, २९; -तेः शाश्रौ १४, १,

१; काश्रौ ५, ४, ५; आपश्रौ; -तौ

आश्रौ ३, २, १७; शाश्रौ ६, १,

२; काश्रौ; पा ५, १, १२^m; -त्या

आश्रौ १, २, २४; ६, ६×४;

शाश्रौ; या २, २८; ऋप्रा २,

३३ⁿ; ५१ⁿ; उस् ५, ५; शुप्रा ३,

११; तैप्रा ९, १६; अप्रा २, ३,

९; शौच ३, ३३; नाशि १, ८,

९; भास् ३, ८; पा ६, १, ११५;

२, १×४; पावा ६, ४, १६३^o;

पिं ४, ४; मीस् ५, १, २५^o;

-त्याम् बौश्रौ २५, १० : २०.

प्राकृत,ता^p- -तः शाश्रौ ७,

२१, ७; १४, २२, ६×४; आपश्रौ;

-तम् शाश्रौ ९, १, ३; काश्रौ;

शंघ ४३९^q; गौध २२, १३^r;

-तस्य काश्रौ २२, २, १४; ३,

२१; भाश्रौ; -ताः आश्रौ ३,

२, १८; काश्रौ १९, ६, १०; २५,

४, ४७; बौश्रौ; -तात् हिश्रौ

५, ४, ११; मीस् ५, २, २२;

-तान् आपश्रौ २०, १५, ४;

हिश्रौ १६, ७, ८; -तानाम् आश्रौ

१२, ८, २; मीस् ५, २, १८×४;

-तानि काश्रौ १६, ४, ३०; बौश्रौ

२२, १८ : १०; -ते आश्रौ ८,

४, १७; बौश्रौ २४, १ : १३;

लाश्रौ ८, १२, ६; अत्र १३, १^q;

वैशि ११; पाशि ३^q; -तेन

शाश्रौ १५, १, ८; बौश्रौ; -तेषु

हिश्रौ १, १, २२; -तैः आपश्रौ

७, १४, ९; २६, १३; हिश्रौ;

-तौ आपश्रौ १९, १८, ४; हिश्रौ

a) सस.>षस. (तु. शाबरभाष्यम्) ; b) विशेषात् इति प्रयासं. । c) षस. वा उस. वा । पूष.

=प्राचुर्येण प्रस्तुत- (तु. पाका.) । d) उप. भाप. । e) भाप., नाप. । गस. उप. कित्त् प्र. । उस. इति न्यासः

(अथ शब्दानुशासनम् इत्यत्र) । f) =स्वभाव- । g) =शरीर- । h) =राज्य-तन्त्र- (तु. मनु ९, २९४) ।

i) =छन्दो-विशेष- । j) =आख्यात- (तु. डु.) वा धातु- वेति स्क. । k) =मूलाधिष्ठान- । l) सपा. शाण्ड २,

७, २६ प्रभृतिः इति पाभे. । m) =उपादान-कारण- इति पाका. । n) =प्रकृति-भाव- । o) प्रवृत्त्या इति

जीसं. प्रभृ. । p) तस्येदमीयात्यर्थे अण् प्र. । q) =व्रत-विशेष- (तु. मेघातिथिः [मनु ११, १५८] =प्राजापत्य-

इति) । r) =खट्वादिरहित-व्रत- इति भाष्यम् । s) प्रकृ इति पाठः? यनि. शोधः । t) =भाषा-विशेष- ।

२२, २, ४; वैताश्रौ.
 प्राकृती^० - ती लाश्रौ
 ९, ७, २; निसू ८, १२ : ७; -ती:
 शाश्रौ १, १७. २०^३; आपश्रौ;
 -तीनाम् मीसू ८, ३, १३;
 -तीभ्यः आपश्रौ ९, ४, ७;
 १०; भाश्रौ ९, ६, ३; मीसू
 ६, ५, १६; -तीषु माश्रौ ६,
 १, १, २; वाश्रौ २, १, १, १;
 -त्याः भाश्रौ ६, १५, ११; -त्यै
 भाश्रौ ६, १५, १२.
 प्राकृत-कर्म-त्व- -त्वात्
 पावा ३, १, ८७.
 प्राकृत-गुण-लोप- -पः
 मीसू १०, २, ६८.
 प्राकृत-त्व- -त्वात् काश्रौ
 ५, ४, ३.
 प्राकृत-निवृत्ति- -त्तिः
 काश्रौ २२, ३, ४९.
 प्राकृत-प्रतिषेधा(ध-अ)
 र्थ- -र्थम् मीसू १०, ८, १७^१.
 प्राकृत-वैकृत- -तैः ऋप्रा
 २, ३४.
 प्राकृत-व्रत^० - -तः काश्रौ
 २०, ४, ६
 प्राकृतो(त-उ)दय^० - -याः
 ऋप्रा २, २३.
 प्राकृतो(त-उ)प(धा>)
 ध^० - -धः ऋप्रा ४, ३५.
 १ प्राकृति-काल^० - -लः मीसू ११,
 ३, ४५.
 प्राकृतिकाल-मध्य-त्व^० -
 -त्वात् आपश्रौ २४, ४, १९;
 मीसू १२, २, १९.
 प्राकृतिकाल(ल-आ)सत्ति-

-त्तेः मीसू ११, ३, ४८.
 २ प्राकृति-काल^० - > ल-त्व-
 -त्वात् मीसू ५, ४, २२.
 प्राकृति-ग्रहण- -णम् पावा १,
 १, २०.
 प्राकृति-ज्ञान-कोविद- -दाः
 अप ६८, १, ८.
 प्राकृति-तस(ः) मीसू ३, ६, १६.
 प्राकृति-तुल्य- -ल्यानाम् अप
 ६८, १, ६.
 प्राकृति-दक्षि(णा>)ण^० - -णः
 वैश्रौ १७, ११ : १२.
 प्राकृति-दर्शन- -नम् शौच ४,
 ७३; -नात् काश्रौ ५, ११, ९;
 मीसू १०, ५, ३८.
 प्राकृति-दीर्घ- -र्षौ शुप्रा ३,
 १२९.
 प्राकृति-देवता- -ताभ्यः आपश्रौ
 २४, ३, ४५; भाश्रौ ६, १५, १०;
 हिश्रौ ३, ८, ३०.
 प्राकृति-द्रव्य^० - -च्याणि अप ३,
 १, १.
 प्राकृति-धर्म-त्व- -त्वात् मीसू
 ५, १, १९.
 प्राकृति-धर्म-लोप- -पः मीसू
 ५, १, २०.
 प्राकृति-निपातन- -नम् पावा
 २, ४, ७०.
 प्राकृति-नियम- -मे पावा ३,
 १, २.
 प्राकृतिनियमा(म-अ)भाव-
 -वः पावा ३, १, २.
 प्राकृति-निहासा(स-अ)र्थ- -र्थम्
 पावा ४, ३, १००.
 १ प्राकृति-प्रत्यय- -यात् लाश्रौ

१०, ४, ४.
 २ प्राकृति-प्रत्यय^० - -ययोः पावा
 ६, १, १५४.
 प्राकृति-प्रत्यापत्ति- -त्तिः पावा
 ३, १, २६.
 प्राकृतिप्रत्यापत्ति-वचन-
 -नम् पावा ४, १, ३६.
 प्राकृति-भाव^१ - -वः शुप्रा ४,
 ८२; अप्रा २, ३, २५; याशि
 २, ८^६; पावा ६, ४, १६३; -वस्य
 अप्रा ३, १, २; -वे आश्रौ ५,
 १, ७; भावा ६, ४, १३५; ८, १,
 ५१; २, १६; -वेऽवे आश्रौ
 १२, १५, १२^१.
 प्राकृतिभाव-प्रसङ्ग- -ङ्गः
 पावा ८, १, ५१.
 प्राकृतिभाव-मात्र- -त्रम्
 पावा ६, १, १२५.
 प्राकृतिभावा(व-अ)र्थ- -र्थम्
 पावा ६, १, १२३.
 प्राकृति-भूत- -तानाम् निसू ६,
 १२ : २६; -तानि अप ७१,
 १९, ३.
 प्राकृति-भूमन्- -मभिः या ७, ४.
 १ प्राकृतिमुख^० - -खेभ्यः अप ३,
 १, १०.
 १ प्राकृति-लिङ्ग- -ज्ञानि हिश्रौ
 ३, १, १०.
 प्राकृति-लिङ्ग-संयोग- -गात्
 मीसू १०, ४, ८; ६, १६.
 प्राकृति-लिङ्गा(ङ्ग-अ)संयोग-
 -गात् मीसू १०, ४, १.
 २ प्राकृति-लिङ्ग^० -त्व- -त्वात्
 मीसू ३, ८, ४४.
 प्राकृति-वच् काश्रौ १, ७, ६; २५,

a) विप. (रात्रि, सामिधेनी- प्रसृ.) । b) प्र^० इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. जीसं. प्रसृ.) । c) विप. ।
 बस. । d) षस. । e) मथ्य- = मथ्यभाव- । f) उप. = २दक्षिणा- । g) मलो. कस. । h) द्वस. ।
 i) = संधि-विशेष- । j) = (प्रकृतेः [ज्योतिष्टोमस्य]) पृष्ठयशमनीय-भाव- । k) पाठस्तुदितः ? ।

११,११; आपश्चौ २, १२, ५;
 वैश्रौ; पावा ३,१,२६.
 प्रकृति-विकारा (र-अ)व्यव-
 स्था-स्था पावा १,१,६७.
 प्रकृति-विकृति-स्योः मीसू १,
 १,१०.
 प्रकृति-विवक्षा-ग्रहण-गम्
 पावा ५,४,५०.
 प्रकृति-विशिष्ट-ष्टम् वाघ
 ४,१.
 प्रकृति-विहित-तम् काश्रौ
 २४,१,१५; २४;३,२५; -तानि
 काश्रौ २४,२,१; १०; ३१; -ते
 काश्रौ २४,१,२६; -तेषु काश्रौ
 २४,१,५.
 प्रकृति-शब्द-ब्दः पावा ४,
 ३,१५३.
 प्रकृति-संहिता^a-ता नाधि २,
 ५,६.
 प्रकृति-संनिधान-नात् मीसू
 १०,४,२
 प्रकृति-सविध-धम् निसू २,
 १० : २६.
 प्रकृतिसविध-तर-रम् निसू
 ४,५ : १०.
 प्रकृति-सार्वनाम्य-म्यात् या
 ७,४.
 प्रकृति-स्वोम-मः निसू ८,३ :
 १६; १३ : १३; १७; २३.
 प्रकृति-स्थ-स्थः विध २४,
 ३९; -स्थान् बौध ३,८,१०.
 प्रकृति-स्वप्न-भाव-वेषु अप
 ६८,१,३७; -वैः अप ६८, १,
 २०.
 प्रकृति-स्वप्न-लक्षण-णे अप
 ६८,१,१९.

प्रकृति-स्वर-रस्य पावा ३, १,
 ३; -रे पावा ६,१,१५४.
 प्रकृतिस्वर-स्व-स्वे पावा
 ६,२,१३९.
 प्रकृतिस्वर-बलीयस्व-
 -स्वात् पावा ६,१,१५४.
 प्रकृतिस्वर-भाव-प्रसङ्ग-
 -ङ्गः पावा ६,२,५२.
 प्रकृतिस्वर-वचन-नम्,
 -नात् पावा ६,२,४९.
 प्रकृत्य (ति-अ)धिकार-रात्
 मीसू ८,३,१३.
 प्रकृत्य (ति-अ)नुग्रह-हात्
 काश्रौ १, ६, २७; २२, १,१७;
 ४६.
 प्रकृत्यनुग्रहा (ह-अ)नुयाज-
 प्रतिषेध-धाम्याम् काश्रौ ७,
 ५,२३.
 प्रकृत्य (ति-अ)नुपरोध-धात्
 मीसू १०,३,१४; १९.
 प्रकृत्य (ति-अ)न्तर-रम् पावा
 ६,१,६०; -रेषु पावा १,३, १.
 प्रकृत्यन्तर-स्व-स्वात् पावा
 ३,१,१९; ३४; ४,३, २२; १६१.
 प्रकृत्य (ति-अ)न्वय-यात् मीसू
 ५,१,१८; ११,४,२८.
 प्रकृत्य (ति-अ)पश्रय^b-याः निसू
 ८,८ : १२.
 प्रकृत्य (ति-अ)भाव-वात् पावा
 ५,१,२.
 प्रकृत्य (ति-अ)भिहितत्व-स्वात्
 पावा ३,३,१६१; ५,४,५.
 प्रकृत्य (ति-अ)र्थ-र्थस्य पावा
 ५,२,२९; -र्थे पावा ५,३, ६७.
 प्रकृत्यर्थ-नियम-मे पावा
 १,३, १२.

प्रकृत्यर्थ-विशेषण-स्व-
 -स्वात् पावा ५,३, ६७; ८, १
 १२.
 प्रकृत्यर्थ-वैस्पृश्य-वचन-
 -नात् पावा ५,३, ६६.
 प्रकृत्य (ति-अ)र्थ^b-र्थः मीसू
 ३, ६, ८; -र्थम् मीसू ३, ६,
 १४.
 प्रकृत्यर्थ-स्व-स्वात् मीसू
 ७,४,२०; ११,३, ६६.
 प्रकृत्या (ति-अ)क्रान्त-मण्डल^c-
 -ले अप ६३,३,१.
 प्रकृत्या (ति-अ)दि-दिभ्यः
 पावा २,३,१८.
 प्रकृत्या (ति-अ)देश-शाः अप्रा
 २,४,५.
 प्रकृत्यापश्रय^d निसू ३, ३ :
 २३.
 प्रकृत्यु (ति-उ)पपदो (द-उ)
 पाधि-धीनाम् पावा ३,१,१.
 प्रकृत्यु (ति-उ)पबन्ध-न्धात्
 आपश्चौ २४,४,१८.
 प्रकृत्यु (ति-उ)पबन्धन-नात्
 मीसू ८,३,३२०.
 प्रकृत्य बौश्रौ १८, २,१,५; कौसू
 ४४,३,५.
 प्र-क्रिया-याम् आश्रित २,६, ५ :
 २३; बौश्र २, ९, २०; -यासु
 वृद्धे १,१,५.
 प्रा (<प्र)-कार^e-रम् अप ६२,२,
 ३; ७०^३,२०,१; -राणाम् अप
 ७१, २, २; -रात् वाधुश्रौ ३,
 ८१ : २; -रैः शाश्रौ १६,१८,
 १४.
 प्राकार-द्वार-तोरण-णैः अप
 ७०^३,६,६.

a) = प्रकृतिभाव-संधि- b) विप.। बस.। c) विप.। वृत्त. > बस.। d) पाठः ? (तु. संस्कृतः
 टि.)। e) न्धात् इति जीसं. प्रमृ.। f) नाप.। गस. उप. घञन्ते उपसर्गस्य दीर्घः (पावा ६,३,१२१)।

प्राकार-मर्दिन्^०— (> मर्दि-
पा.) पाग ४, १, ९६.

प्राकार-वेश्म-भि(ति>)त्ती-
त्तीषु अप ७०^३, २३, ९^१ b.

१ प्र-कृत- प्र√कृ द्र.

२ प्र-कृत^०— (> प्राकृतायन-पा.) पाग
४, १, ११०.

प्र-कृति- प्रमृ. प्र√कृ द्र.

प्र√कृष्, प्रकर्षति वाश्रौ १, २, ४, ६५;

३, ६, २; २३^१ d; गोश्रु १, ७, १३;

कौसू ९०, ९; १०; प्रकर्षेत् द्राश्रु

१, २, ९; गौघ १५, ६.

प्रकर्षयेत् आश्रु २, १०, ३.

प्र-कर्ष- (> प्राकर्षिक-पा.) पाग
५, १, ६४.

प्र-कर्षण- -णे ऋप्र १४, ७.

प्र-कर्ष्य कौसू २९, ६; ३२, २१.

प्र-कृष्ट- -ष्टे पा ५, १, १०८; -ष्टौ
तैप्रा २, १५.

प्रकृष्ट-वर्मां(त्सं-अ)पहारिन्-
-री विध ४४, १३.

प्र-कृष्य माश्रौ १, ३, १, २४; माश्रु.

प्र-कृष्य- -ष्यः काश्रौ २४, ५, २७;
आपश्रौ २३, १२, १५; हिश्रौ

१८, ४, २९; लाश्रौ १०, १५,
१५^१.

प्रकृष्य-कुत्सित-ग्रहण- -णम्
पावा २, ३, १७.

प्र√कृ (विक्षेपे), प्रकिरति काश्रौ ५, ३,
३२; १७, १२, २७; भाश्रौ ७,

३, ११; माश्रौ २, ५, ४, ३०;

बौपि ३, २, १२; कौसू ४७, ३०;

प्रकिरन्ति शाश्रौ १६, १५, ११;

बौश्रौ ९, २ : ३३.

प्रकीर्येते शंघ २८७; २८९.

प्र-कर्^०- -रः कप्र १, ३, ९.

प्र-कीर्ण,र्णा- -र्णाः अप ७०^३, ११,
२९; विध ४४, १०^१; -र्णानाम्

बौश्रौ १९, ६ : ४^६; -र्णानि या
९, २३; -र्णे अप ५३, ४, २;

-र्णेन अप ५८^१, २, ८; -र्णेषु
विध ४४, १०^१.

प्रकीर्ण-क^१- -कम् विध ४२,
१; -केषु विध ३३, ५.

प्रकीर्णक-पातक->^०किन्-

-किनः विध ४३, ३१.

प्रकीर्ण-केश^१- -शः आश्रिण ३,
११, १ : ४; अप ६८, २, ४४;

शंघ ३८४; आपध १, २५, ४;
हिध १, ६, ७९; गौघ १२, ४०;

-शाः आश्रिण ३, ५, ३ : ३;
४ : ७x४; बौपि.

प्रकीर्णकेशी- -श्यः आश्रिण
३, ५, ३ : ५; बौपि १, ३ : ४;

कौसू ८४, १०.

प्रकीर्ण-पातक- -के विध ४२, २.

प्रकीर्ण-भाण्ड-भोजनीयो (य-
उ) पस्कर-द्र(व्य>)व्या^१-
-व्या शंघ ७९.

प्रकीर्णा(र्ण-अ)वशीर्ण- -र्णानाम्
कौसू ८८, १३.

प्र-कीर्य वैश्रौ १३, ६ : ८; आश्रु.

प्र-कीर्यमाण- -णान् आपश्रौ २२,
२८, ७; हिश्रौ २३, ४, ४७.

प्र√कल्प, †प्र...कल्पताम् गोश्रु २,
१, १९; जैश्रु १, २० : १७; †प्र

(कल्पताम्) गोश्रु २, १, २०; जैश्रु
१, २० : १७.

प्रकल्पयते आपश्रौ ९, ११, २३;
बौपि ३, ८, १; हिपि २३ : २२;

प्रकल्पयति आपश्रौ १, १५, ५;
१२, ९, ७; हिपि ११ : ३;

प्रकल्पयन्ते निसू ३, ५ : २२;
प्रकल्पयेत् निसू ५, ५ : ३; अप

५, ४, ५; ६, १, ७; १९^२, ३, ४;
बौघ.

प्र-कल्पक- -कम् पावा १, १, ६७;
मीसू ६, २, १९.

प्र-कल्पयत्- -यन् अप १, २६, १.

प्र-कल्पित- -तः वृदे ८, ८९; -तैः
अप ६८, ५, २१; २२.

प्र-कल्प्य वैश्रौ १, २ : १०; आश्रु.

प्र-कल्पस- -साः निसू १, १२ : २१;
-से ऋप्रा ११, ५८.

प्रकल्पस-त्व- -त्वात् काश्रौ २५,
७, १०.

प्र-कल्पसि- -सौ मीसू १०, ८, ७.

प्रकल्प्यु(ति-उ)पबन्ध-
-न्धाम्याम् काश्रौ १, ८, २२.

प्र-कृत-, -तन- प्र√कित् द्र.

प्र√कर्म^१, प्रकामति आपश्रौ ११,
९, १; १६, २, ८; २३, १२, ११;

बौश्रौ; प्रकामतः बौश्रौ ६, २५ :
६; प्रकामन्ति शाश्रौ ४, १५, १^१;

भाश्रौ १०, ९, ७; प्रकामेत् बौश्रौ
२०, १ : १०; २ : ८x४; हिश्रौ

१६, १, ३९; लाश्रौ १०, १९, ६;
प्र...कामेत् आपश्रौ १६, ११,

९; वैश्रौ १८, ९ : ११; हिश्रौ

a) व्यप. । उस. । b) षभिट्टी^० इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. सूको.) । c) व्यप. । व्यु. ? ।

d) उपकर्षति इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. आपश्रौ ३, ८, ४ प्रोहति इति पाभे., संस्कर्तुः टि. च) । e) गस.
उप. भाप. । f) विप. > नाप. (प्रकीर्णपापवत्-). g) विप. (इष्टका-). h) नाप. (अनुकृति-कृति-क-पाप-). ।

स्वार्थे कन् प्र. । i) विप. । बस. । j) विप. । बस. > दस. > कस. । k) पा १, ३, ४२ परामृष्टः द्र. ।

l) सपा. प्रकामन्ति <> प्रकामन्तान् इति पाभे. ।

११,४,१०; प्रक्रामेयुः आपश्रौ
 १४,२५,२; २१,२,३.
 प्रक्रमक्रमः आपश्रौ १०, ६, १;
 हिश्रौ १०, १, ३४; आपमं १,
 २, १; प्र...अक्रम् शांश्रौ ११,
 ८, ७; प्र(अक्रम्) ऋअ २, ५,
 ५९; प्र(अक्रमः) ऋअ २, ९,
 ३१; ३२; ४१; साअ १, ४७७;
 ४९१; २, २४२.
 प्रक्रमयति आपश्रौ १, १५, १;
 ५, १९, १×४; भाश्रौ; शांश्रु १,
 १४, ५^a; आपश्रु ४, १६^b; माश्रु
 १, १७ : १^a; माश्रु १, ११, १८^a;
 वाश्रु १४, २३^a; प्रक्रमयति पाश्रु
 १, ८, १^a; काश्रु २५, ४२^a;
 प्रक्रमयेत् बौश्रौ २४, ७ : २;
 कौश्रु १, ८, २८^a.
 प्राचिक्रमिषीत् निसू ७, ३ : ७;
 ८, १२ : ९; १०, ६ : १०^०.
 प्रक्रम^d-मः काश्रौ १६, ८, १६;
 बौश्रौ; काश्रु ६, २; ९; आपश्रु
 ६, २; बौश्रु १ : ६; ४ : १८; २१;
 हिश्रु २, २७; -मम् भाश्रौ ७,
 ३, २; १२, ५, ४; निसू ८, ६ : ३०;
 काश्रु ६, ३; ७, ३४; -मस्य काश्रौसं
 २५ : ३; बौश्रौ २६, १० : ३;
 आपश्रु ५, ११; ६, १; हिश्रु २,
 २०; २६; अपं १ : १५; -माः
 आपश्रु ५, १; बौश्रु ४ : ३; २० :
 ४; हिश्रु २, ७; -माणाम् बौश्रौ
 २६, २५ : २०; -मात् आपश्रौ

३, १५, ३; बौश्रौ; -मान् काश्रौ
 ८, ५, २६; २०, ३, ३; आपश्रौ;
 काश्रु ६, २; बौश्रु ४ : ५;
 -माभ्याम् बौश्रु २० : ५; -मे
 आपश्रौ ३, १५, ३; १७, ९; ११,
 ९, ९; भाश्रौ; आपश्रु ६, २;
 बौश्रु १ : ७; हिश्रु २, २८; ४३;
 -मेण बौश्रौ २३, १९ : ७; ९;
 काश्रु ६, ४; बौश्रु २० : १५;
 मीसू २, ४, ३; -मेणऽमेण
 बौश्रु १० : ९; २० : ९; -मेषु
 काश्रौ ४, ८, १७; ७, २, ३; ८, ३,
 ७; ४, ५; आपश्रौ; काश्रु ६, ३;
 आपश्रु ४, ३; बौश्रु ३ : २; हिश्रु
 २, ३; -मैः बौश्रु १० : ११.
 प्रक्रम-नृतीय^०-येन काश्रौ
 १९, २, २.
 प्रक्रम-प्रमाण^f-णानि बौश्रु
 १० : १५; २० : ६.
 प्रक्रम-मात्र-न्ने माश्रौ १, २,
 ४, ८; ७, ३, १५; २, २, १३;
 वाश्रौ १, ६, १, १९.
 प्रक्रम-ब्वेला^६-लायाम् बौश्रौ
 १०, ३० : ८, ३१ : १३; ३३ : ९×४.
 प्रक्रम-न्या(स)सा^h-साः
 बौश्रु १८ : ६; २१ : ६.
 प्रक्रम-ससम-भाग-गान्
 काश्रु ६, २.
 प्रक्रम-स्थान->नी(य>)
 याⁱ-न्या आपश्रौ १४, ५, ११;
 काश्रौसं २५ : २; हिश्रौ ९, ८, ६;

आपश्रु ५, ११; ६, १; हिश्रु २,
 २०; २६.
 प्रक्रम(म-अ)र्थ^l-र्थः बौश्रौ
 १९, १ : ७; काश्रु ६, ३; ४.
 प्रक्रम(म-अर्थ>)था^k-था
 काश्रु २, १९.
 प्रक्रमो(म-उ)थान^l-ने काश्रौ
 ७, १, २६.
 प्र-क्रमण-णम् काश्रौ १६, ७, ३०;
 वाश्रु १४, २७; -णात् माश्रौ ५,
 २, १२, २०; -णे बौश्रौ २०, ६ : १.
 प्र-क्रममाण-णम् माश्रु २, ४, ३.
 प्र-क्रमय्य वाश्रौ २, १, ६, १०.
 प्र-क्रम्य आपश्रौ १, १५, ४, ३,
 १०, ५×४; बौश्रौ; या १४, ७.
 प्र-क्रान्त-न्तम् बौश्रौ २०, ४ : २;
 ५; वाधूश्रौ ३, ३७ : ४; -न्तान्
 कौश्रु ५, ३, २८^m; -न्ते वैश्रौ
 १३, ३ : ६.
 प्र-क्रान्ति-न्तौ काश्रौसं ३१ :
 १२ⁿ.
 प्र/क्रीड्, प्रक्रीडन्तु वाश्रु १३, ४ⁿ.
 प्रक्रीडयति काश्रु १७, ३;
 प्रक्रीडयन्तु काश्रु १७, २ⁿ.
 प्र/कुश्रु > प्र-क्रोश-शाः द्राश्रौ
 ११, २, १०; लाश्रौ ४, २, ९^०.
 प्र/प्रत्न^०-त्नः भाशि ९१; -क्षस्य^०
 जैश्रौका ६५; साअ १, ६१०;
 उनिसू ६ : १५; -क्षे^० शांश्रौ १८,
 १५, ५; गौषि २, ४, ७; साअ १,
 ४४४; उनिसू ५ : २०.

a) सपा. प्रक्रमयति <> प्रक्रामयति <> प्रक्रमयेत् इति पाठे. । b) पाठे. पृ ९३९ m द्र. ।
 c) °क्रमयि^० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. पूर्वे स्थले) । d) = प्रमाण-विशेष- (त्रिपद-), भाप. । वैप १ द्र. ।
 e) षस. । पूष. = (उपचरतः) प्रक्रममापिका-रज्जु- (तु. विद्याधरः) । f) विप. । बस. । g) = प्रक्रमप्रमाण-देश- ।
 h) विप. (इष्टका-) । बस. । i) = (चतुर्विंशभागसंमिता-) रज्जु- । इह प्रक्रमपदमप्यस्मिन्नेवार्ये रूढमिति गोपीनाथः
 (तु. हिश्रौ) । j) कस. । k) चस. । l) द्रस. (प्रारम्भ-समाप्ति-) । m) पाठे. पृ १६४९ l द्र. ।
 n) पाठः ? पूर्वेषु समस्तं द्र. । o) प्र-क्रोशाः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. द्राश्रौ) । p) वैप १,
 २११६ C द्र. । g) = पृक्ष- (अल-) । पाठे. वैप १, २०८८ ० द्र. । r) वैप १, २११६ f द्र. ।

†प्र✓क्षर, प्र(अक्षरत्) आश्रौ ८, ९, ७;
शाश्रौ; प्र(अक्षरत्) शाश्रौ ७,
१५, १४^३; क्षुस् १, ३: ८; ऋअ.
प्र(अक्षाः) साश्च २, ५१०.
प्रक्षर(त् >)न्ती- न्तीषु शाश्रौ
७, १५, १४.
: प्र✓क्षल्, प्रक्षालयते बौश्रौ २, २०:
३; २८, ८: ४; माश्रौ; प्रक्षा-
लयति काश्रौ ७, ५, १६; आपश्रौ;
प्रक्षालयतः माश्रौ २, ५, ४, ३५;
५, २, ११, ३७; हिश्रौ १०, ५,
२७; प्रक्षालयन्ते हिश्रौ ७, ३,
७८; ४, २३; प्रक्षालयस्व भागृ
२, २८: ५; †प्रक्षालय कौसू ८७,
६; १२; प्रक्षालयत बौश्रौ ६,
१०: २१; प्रक्षालयति आपश्रौ
९, ३, १४; माश्रौ ९, ५, ३; हिश्रौ;
प्रक्षालयेत् बौश्रौ ९, १७: २०;
१८: २०; २०, २६: ३८; गोयु;
प्रक्षालयेरन् माश्रौ २, २, १, १०;
प्रक्षालयेयुः लाश्रौ ८, ८, ११.
प्रक्षालापयीत^३ आगृ १, २४, १०.
प्रक्षालन- नम् काश्रौ २२, ६,
११; आपश्रौ १२, २७, १०;
वाश्रौ १, ५, २, ५०; वैश्रौ; -ने
बौश्रौ २०, २६: ३८; -नेन
काश्रौ १९, ३, २१^७; विध २३,
१७.
प्रक्षालयत्- यन्तम् कौसू ६४, ९.
प्रक्षालयमान- नः माश्रौ १, ६,
२, १.
प्रक्षालयितृ- तारम् आपगृ १३, ६.
प्रक्षालित, ता- न्तः बौश्रौ ४, ४:

११; -तम् काठश्रौ ५२; बौश्रौ;
-ता बौश्रौ ६, २६: २९; -ताः
बौश्रौ १७, १२: २; -तानि
बौश्रौ १, ८: १; २, १८: २७;
३, ४: १५; -ताम् वैश्रौ १४,
१०: ८; -तायाम् आपश्रौ १,
२४, १; -ते काश्रौ ८, ३, १९;
५, २२; बौश्रौ; -तेषु काश्रौ २०,
६, १४; -तौ कौसू ९०, ११.
प्रक्षालित-पाणि^८- णिः भागृ
१, १८, ४; २, १६, ६.
प्रक्षालित-पाणिपाद, दा^९- दः
आमिगृ २, ४, ६: २३; वैध ३,
७, ६; -दा भागृ ३, १२: ९;
-दौ बौगृ १, ८, १२.
प्रक्षालित-पाद^९- दः आगृ १,
२४, ११; -दाः काठश्रौ १३३.
प्रक्षालित-पाद-पाणि^९- णिः
बौश्रौ २९, ५: २४; बौध २, ४, २.
प्रक्षालित-शिरस्^९- रसम् वाश्रौ
२, २, ४, १६.
प्रक्षालिता (त-अ)भ्यक्त-पाणि-
पाद^९- दानाम् कौसू ५२, १२.
प्रक्षालितो(त-उ)पवात्^९- तानि
आमिगृ २, ६, २: २४; कौसू २,
२९; बौध १, ६, ५; २, ५, १२^६.
प्रक्षालय आश्रौ १, १३, १××;
शाश्रौ; आपश्रौ १५, २१, ७^४.
प्रक्षालयमान- नम् वैताश्रौ १०,
३; -नौ कौसू ७६, २७^३†.
प्रक्षाम-, क्षायत्- प्र✓क्षै द्र.
प्रक्षाय^९- वेभ्यः जैश्रौ २६: १५^९.
प्र✓क्षि^९, प्रक्षिणोति हिश्रौ १२, ३,

१२†; †प्रक्षिणोमि आपश्रौ १७,
१२, ६; हिश्रौ १२, ३, १२;
प्रक्षिणुयात् आपश्रौ १७, १२, ६;
हिपि ३: ४.
प्रक्षिणाति कौसू ४८, १०; या
६, ५.
प्रक्षीयते अप ५३, १, ५.
प्र✓क्षिप्, प्रक्षिपति वैश्रौ १२, ६: २;
वैगृ ७, ६: १०; गोपि १, ३,
३४; कौसू ३१, १२; वैध २,
७, २; ३; प्रक्षिपेत् जैश्रौका
२०५; आमिगृ.
प्रक्षिपत्- पन् विध ५, ११०.
प्रक्षिस- सस् विध २३, २; -साः
माश्रौ १, २, ६, ६.
प्रक्षिप्य बौश्रौ २७, ७: ३; माश्रौ;
वैश्रौ ६, १: ६^६.
प्रक्षिप्यमाण- णः ऋअ २, ७, ३२;
अअ २०, ७९^१।
प्रक्षेप- पः विध १९, ११; -पम्
अप ७०, ४, १०.
प्रक्षेपण- णम् भागृ ३, १८: १७;
बौध ३, २, ८.
प्रक्षेपणी^३- > ण्या (शी-
आ)दि- दीनि वैगृ ५, ४: ३७.
प्रक्षेपणीय^३- न्यानि वैश्रौ ११,
१०: १.
प्र✓क्षुण्ण, प्रक्षुणोति बौपि १, ३: १४;
२१; २८.
प्रक्षुणत्- न्तः या २, २५; -तान्
माश्रौ ५, १, ८, ५.
प्रक्षुण्णता(त-अ)प्र^९- अः आपश्रौ
२२, ४, ७; हिश्रौ १७, २, ९.

a) रयन्ताद् आगुगागमः उस्. (पात्रा ३, १, २५)। b) = उदक-। c) विप.। बस.। d) विप.।
बस. > दस.। e) विप.। कस. > बस.। f) विप.। कस. उप. = शुष्क-। g) तु. चौसं.। वाताक्लि.
इति मैसं.। h) प्रा० इति पाठः? यनि. शोधः। i) अर्थः व्यु. च?। j) वैप १, ११९०. a द्र.। k) पासे.
पृ. ३२६ म. द्र.। l) णम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. ऋअ.)। m) = पात्र-विशेष-। n) अर्हार्थायश्
ः प्र. उस्. (पा ५, १, ६९)।

प्र√क्षै > प्र-क्षाम- -मः आपश्रौ ९,
१५, २०; भाश्रौ ९, १८, ९;
हिश्रौ १५, ४, ४०.
†प्र-क्षायत्- -यत्ः^१ आपश्रौ ४,
११, ५; १६, १; भाश्रौ ४, १७,
२; हिश्रौ ६, ३, ८; ४, १८.
प्र√खिद् > प्र-खिखदत्- -दते तैप्रा
१४, ८१.
†प्रखुदसि^२ शाश्रौ १२, २३, ४.
प्र√ख्या > प्र-ख्या- > °ख्या (ख्या-
अ)भाव- -वात् मीसू १, १, २२.
प्रख्या(ख्या-अ)विशेष- -षात्
पावा १, २, ६४.
प्र-ख्यात- -तम् या ३, १९; ५, ८.
प्रख्यात-तम- -मेन या ३, १३.
प्र-ख्यापन- > °नीय- -यम् या
५, ८.
प्र-ख्याय अप्राय २, ४.
?प्रख्यायत्- -यतः शाश्रौ ४, १२,
१०^३.
?प्रग अप ४८, १५.
प्रगदिन्- (> प्रागद्य- पा.) पाग
४, २, ८०.
प्र√गम्, प्रो(प्र-उ)°अगमन् आश्रौ
६, ४, १०^४; प्रो(प्र-उ)अगमन्
शाश्रौ ९, १७, ३१.
प्र-जिगांसत्- -सन् शाश्रौ १६, २२,
१९.
प्र√गल्भ् > प्र-गल्भ^५- -ल्भः बौश्रौ
१७, ५० : १६; शैशि १६३;
याशि १, २९.
प्र√गा, प्र°जिगाति वृदे ६, ३०^६;

†प्र(जिगाति) आश्रौ १, २, ७;
४, १३, ७; ७, ८, १; शाश्रौ.
†प्रागात् आश्रौ १०, ८, ७;
आपश्रौ; या ६, २२^७; †प्र°
अगात् आपश्रौ १, ३, ५; ५, १;
बौश्रौ; प्र(गुः) कौसू ३४,
२०^८; †प्रागाः आश्रौ ४, १०,
५; शाश्रौ ५, १४, १८; प्र°
गाः बौश्रौ १०, ४ : ११^९;
†प्रागाम आश्रौ २, ५, ४^{१०}; १९,
३६^{११}; ६, ६, १८; आपश्रौ.
प्र-गाथ- प्रमृ. प्र√गै द्र.
प्र√गाह् > प्र-गाहण- -णम् आश्रौ
१२, ८, ८.
प्र-गाह्य आपश्रौ ८, ७, २७××; हिश्रौ
प्र-गीत- प्र√गै द्र.
?प्रगुण^{१२}- -णौ क्षुसू २, ६ : ११; २६.
प्र√गृ (अवबोधने) > प्र-जागर-
-रः शंघ १५६.
प्र√गृभ्, ह, प्र°गृभायत् शाश्रौ १२,
१९, ३१.
प्रगृह्णति काश्रौ ३, ६, १७××;
प्रगृह्णन्ति वृदे २, १४२; प्रगृ-
ह्णीयात् काश्रु ७, १८.
प्र-गृही(त>)ता- -तायाम् वाधूश्रौ
४, ५ : १३^{१३}.
प्रगृहीत-न्(द>)दा^{१४}- -दाः
ऋप्रा २, ५४.
प्र-गृह्व- -ह्वन्तः बौश्रौ १८, २१; ६.
प्र-गृह्य शाश्रौ १, ६, १०××; बौश्रौ;
या २, २६.
प्र-गृह्य^{१५}- -ह्यः ऋप्रा १, ६८; शौच

१, ७३; -ह्यम् ऋप्रा ११, ३९;
शुप्रा १, ९२; ४, १८; ८८; ७,
७; पा १, १, ११; -ह्यस्य ऋप्रा
१०, २०; -ह्याः ऋप्रा १, ७३;
२, ५१; शौच ३, ३३; पावा
१, १, ११; -ह्याणाम् अप्रा ३,
१, २; -ह्ये शुप्रा ४, १९४; -ह्यौ
शाश्रौ १, २, ७.
प्रगृह्य-प्लुत-प्रतिषेध-प्रसङ्ग-
-ङ्गः पावा ६, १, १२७.
प्रगृह्य-मध्य- -म्ये अप्रा २, ३,
१०.
प्रगृह्य-संज्ञा- -ज्ञायाम् पावा १,
१, १२; ६, १, ८४; ८, २, ६.
प्रगृह्या(ह्य-अ)वगृह्य-चर्चा-
-र्चायाम् शौच ४, १२३.
प्रगृह्या(ह्य-अ)वगृह्य-समापाद्या-
(द्य-अ)न्तगत- -तानाम् शौच
४, ११७.
प्र-ग्रह(वप्रा.)^{१६}- पा ३, ३, ५२^१;
५३^२; -^{१७} कौशि ६८; -हः
ऋप्रा १, ८, १२^३; -हस्य कौशि
४८^४; -हाः तैप्रा ४, १^५; -हेभ्यः
हिश्रौ २१, २, ३३^६; -हैः आपश्रौ
१४, २६, १^७.
प्रग्रह-स्त्रादि- -द्विषु तैप्रा १, ६०.
प्र-ग्रहण- > °ण-मन्त्र- -न्त्रेण
शाश्रौ ७, ५, १.
प्र-ग्रह- पा ३, ३, ४६; ५२; ५३.
प्र√गृ (निगरणो), प्रगिरन्ति आश्रौ
६, १३, १०; प्रागिरत्, प्रागि-
रताम् वाधूश्रौ ४, १९ : २९;

- a) पाभे. वैप २, ३ खं. प्रक्षायतः तैत्रा २, ४, १, २ टि. द्र.। b) पाठः? शोधार्थं वैप १, १२०३
a, 0 द्र.। c) पाठः? प्रक्षायतः इति शोधः (तु. सपा. तैत्रा २, ४, १, २; 0. च)। d) वैप १ द्र.।
e) पृ ६८३ f द्र.। f) प्रणम इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आन., BC. च)। g) प्रमाम इति पाठः? यनि.
शोधः (तु. आन.)। h) अर्थः व्यु. च?। i) =संहिता-विशेष-। बस.। j) =पारिभाषिक-संज्ञा-।
k) कर्मादिषु अप् प्र.। l) =तुला-सूत्र-। m) =अध-रश्मि-। n) वृद्धितः पाठः। o) =सुक्-सुवयोः-
दण्ड- (तु. संस्कृतः टि. [गोय १, ३, ९])। p) =प्र-गृह्य-। q) अर्थः?।

प्रगिरित् द्राय् ३,३,१३.
 प्रगे^a लाश्रौ ८,३,२; गोय् २,१०,६.
 प्रगे-तन- पा, पावा ४,२,२३.
 प्र√गौ, ऋप्रगायामसि वाधूश्रौ ४,
 ४७:८; आपमं १, ३, ५;
 पाय् १, ७, २^{१०}; आम्रिय् १,
 ५, ३:१६; बौय् १, ४, ९;
 भाय् १, १६:५; साय् १, १०,
 १५^{१०}; हिय् १, २०, १^{१०};
 ऋप्रगायत् आश्रौ २,१५,२; ७,
 ८,२; शाश्रौ; या ७, २; प्र...
 गायत् आश्रौ ७, ८, १; शाश्रौ
 १२,१०, ७; ऋप्र(गायत्) आश्रौ
 ६, ४, १०; ७, ५, ९; ८, ४, १;
 शाश्रौ; प्रगायेत् माशि ६, ६;
 नाशि १,६,१५.
 प्र-गाथ^b-थ: आश्रौ ५, १४, ५;
 १८; शाश्रौ ७, १४, ७××;
 लाश्रौ; ऋअ ८, १^१; १०^१; ४८^१;
 ६२^१; वृदे ६, ३५^१; ३८^१; ५०^१;
 शुअ ३, २१०^१; अअ २०, ९^६;
 १०^६; १४^६; ९३^६; -थम् शाश्रौ
 ६, ९, ७; ७, १९, १०××; ऋअ;
 -था: आश्रौ ५, १०, १९; १४,
 ७××; लाश्रौ; ऋअ १, ११,
 १^६; -थान् आश्रौ ७, ३, ४;
 १२, ८; ८, ४, १६; शाश्रौ;
 -थानाम् आश्रौ ५, १५, २०;
 निस् ५, ५:२; -थाय शाश्रौ

७, २१, ८; वैताश्रौ २०, १६;
 -थे आश्रौ ५, १५, ६; ८, ६,
 १८; मीस् ९, २, २७; साअ १,
 ४०; -थेन शाश्रौ १०, १३,
 १५; ११, १२, ८; वृदे ३, १११;
 -थेभ्य: आश्रौ ५, १०, १३; ९,
 ५, ६××; -थेषु आश्रौ ६, ५,
 २१; शाश्रौ १२, ९, ८; लाश्रौ;
 पा ४, २, ५५; -थौ आश्रौ ५,
 १५, २; १६, २^{३१}; २०, ६××;
 शाश्रौ.
 प्रागाथ^c-थ: ऋअ २,
 ८, ६०; ६६; ७२××; -थम्^d
 ऋअ २, १, ३६; ३९××; ऋप्रा
 १, ८७.
 प्रागाथी^e-थीम् आश्रौ
 ४, ७, ४.
 १प्रागाथि (क >)
 का^m-काम् शाश्रौ ५, १०, २६.
 २प्रागाथिकⁿ-कम् छुस्
 ३, ३:११; ४:१०; ५:५;
 मीस् ९, २, २५; -कानि लाश्रौ
 ६, २, १६^०; निस् ५, ५:१९^{१०};
 १०, ६:८.
 प्रागाथ-कारम् द्राश्रौ २, ४, १५;
 लाश्रौ १, ८, ११.
 प्रागाथ-तृच-सूक्ता(क्त-आ)गम^o-
 मेषु आश्रौ ७, १, २२.
 प्रागाथ-बृहती-तीषु निस् ६,

११:२४.
 प्रागाथ-शब्द- -व्दात् उनिस् ५:
 ३७.
 प्रागाथ-स्थ- -स्थे शाश्रौ ७, २५,
 ९.
 १प्रागाथा(थ-अ)न्त- -न्तेषु
 आश्रौ ८, २, २०.
 २प्रागाथा(थ-अ)न्त^f- -न्तम्
 ऋअ २, ८, १७; ७७.
 ३प्रागाथा(थ-अ)प्रभव- -वात्
 लाश्रौ १०, ६, ८.
 प्रागाथा(थ-अ)यन- -नानि निस्
 ५, ३:७.
 प्रागाथी√कृ > प्रागाथी-कार-
 -राय निस् ७, २:१३.
 प्र-गीत- -ते नाशि १, ५, १६.
 प्र√गमन् > षप्र-गमन्तु- -ऋमन्ता
 आपमं १, १, १; बौय् १, १, १४;
 वैय् ३, २:४; ऋअ २, १०, ३२.
 प्र√ग्रथ्, ण्थ्, प्रग्रथ्नाति बौश्रौ ६,
 १७:१७; १०, ११:१८××;
 वैश्रौ १९, ६:५४; प्रग्रथन्ति
 बौश्रौ ६, १:१८; १०, १७:७××.
 प्र-ग्रथन- -नम् वैताश्रौ २२, ९;
 २५, ५.
 प्र-ग्रथित, ता- -त: बौश्रौ ८, ५:
 २; -ता बौश्रौ ११, ६:१२;
 १२, ७:२६.
 प्र-ग्रथ्य बौश्रौ ६, १२:६××; वैश्रौ.

a) = प्रातर। सप्त१ < प्रग-। अव्य.। व्यु. ? < प्र√गम् इति P.W. प्रष्ट., < प्र√गौ इति अभा.।
 b) प्रजायामस्य इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. [अंशतः] लाधा. Old. च)। c) प्रगायामि, अस्य इति पाठः ? यनि.
 शोधः [तु. b, d टि. च]। d) प्रजायामसि इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सपा. पूर्वाणि स्थलानि, Old. च)।
 e) = द्वयृच- (तु. आश्रौ ५, १४, ७ ऋप्रा १८, १) वा (छन्दोऽन्तरेण प्रग्रथनात्) तृच- (तु. सा [ऐत्रा ३, १७],
 पाका [४, २, ५५] च) वा। शेषं वैप १ द्र.। f) = ऋषि-विशेष-। g) = छन्दो-भेद-। h) एकतरत्र
 तु. आन.। i) अपत्यार्थे तस्येदमित्यर्थे च अण् प्र.। j) = प्रागाथापत्य-। k) = सूक्त-। l) ऋच-।
 प्रागाथर्विष्टा- इति संस्कृतः टि.। प्रागाथसंबन्धिनी इति C. [शाश्रौ ५, १०, २६]। m) = प्रागाथी-। स्वार्थे के ह्रस्वः।
 ण्। विप.। तस्येदमीयष् ठक् प्र.। o) = सामन्-। p) प्रगा इति पाठः ? यनि. शोधः। q) द्वस. > षस.।
 r) विप.। बस.।

प्र/ग्रन्थ प्र/ग्रन्थ द.
 प्र-ग्रह- प्रसृ. प्र/ग्रम्, ह् द.
 प्रग्रीव- पाग २, ४, ३१.
 प्र-घण- प्र/हृत् द.
 प्र/चस् > प्र-वात्^१ - >^२सिन्^३ -
 -^४सिन्^५ काश्रौ ५, ५, ९; लुञ्ज
 १, २, २१; -^६सी आपश्रौ १७,
 १६, १८; वैश्रौ १९, ६ : १०८;
 हिश्रौ १२, ५, ३०.
 ऋषास्व^७ - -स्थात्^८ आपश्रौ
 ८, ६, १९; काठश्रौ ३४^९;
 बौश्रौ ५, ७ : १२; भाश्रौ ८,
 ८, ६; माश्रौ १, ७, ४, १२;
 वाश्रौ १, ७, २, ३०; वैश्रौ ८,
 ११ : १०; हिश्रौ ५, २, ४७.
 प्र-घाण-^{१०}वात्-^{११}प्रघात् प्र/हृत् द.
 प्र/घृष् > प्र-घृष् कौस् २६, २२.
 प्र/चक्ष्, प्रचक्षते कप्र २, ५, ११;
 ८, २१××; अप.
 प्रचक्षते अप ६३, १, ६.
 प्र-चक्षण- पाग ८, १, २७.
 प्र-चण्ड-^{१२}ण्डः चव्यू ४ : १९.
 प्रचण्ड-तर-^{१३}रः चव्यू ३ : १२.
 प्र-चय- प्रसृ. प्र/चि (चयने) द.
 प्र/चर्, प्रचरति काश्रौ १४, ५, १९;
 १५, ६, ३५; आपश्रौ; वैश्रौ १६,
 २० : ९^{१४}; ऋषा^{१५}चरति^{१६} आश्रौ
 ४, ७, ४; शाश्रौ ५, १०, १८;
 प्रचरतः आपश्रौ ८, ७, ९; १२,
 २१, ७××; भाश्रौ; प्रचरन्ति
 आश्रौ १०, ९, ६; शाश्रौ
 १४, ४०, १२; काश्रौ; ऋषा
 (चरन्ति) काश्रौ १५, ६,

८^१; लुञ्ज १, ६, १३; ऋषाचरन्तु
 आपश्रौ १६, २५, २; बौश्रौ १०,
 ३३ : ५; वैश्रौ १८, १७ : ५१;
 २०, ३५ : ७; बौश्रौ १, ३, ३४;
 ऋषाचर, > रा शाश्रौ १२, २३,
 ४; काश्रौ ६, ६, १८; बौश्रौ;
 ऋषाचरत, > ता आपश्रौ १५,
 ६, २^{१७}; ३; बौश्रौ ३, २६ : ९;
 ९, ६ : ६^{१८}; १४, ९ : २६; भाश्रौ
 ११, ६, २^{१९}; ३; वैश्रौ १३, ८ :
 १^{२०}; हिश्रौ २४, २, ८^{२१}; वैताश्रौ;
 काश्रौ २६, १२; ४५, १२; प्रचरेत्
 आपश्रौ ९, १, २८; ३०××;
 काश्रौसं ३०, ७; ३२; ९^{२२}; ११^{२३}××;
 बौश्रौ; प्रचरेयुः आश्रौ ३, १०,
 २५; शाश्रौ.
 ऋषाचरिष्यामः काश्रौ २६, २,
 २५; आपश्रौ १५, ६, १; बौश्रौ.
 प्र-चरण^{२४} -^{२५}णः^{२६} वाधूश्रौ ३, १०० :
 ८; -णम् काश्रौ ९, १३, ८;
 भाश्रौ ८, १९, १; माश्रौ १३, २,
 २, २०; वैश्रौ १७, ५ : ६; -णात्
 काश्रौ २, ६, ३१; माश्रौ; -णात्
 कप्र २, १, २^{२७}; -णे अप ६५,
 २, ५.
 प्रचरणी^{२८} -^{२९}णी वाधूश्रौ ३,
 १०० : ७; -णीम् काश्रौ ९,
 २, १९; आपश्रौ; -ण्या काश्रौ
 ८, ७, १; ९, ३, १; १०, ६, १४;
 आपश्रौ; -ण्याम् काश्रौ २५,
 १०, १०; १४; आपश्रौ.
 प्रचरणी-^{३०}ण्ड-^{३१}ण्डे वैश्रौ
 १४, १४ : १२.

प्रचरणी-शेष-^{३२}वात्
 आपश्रौ १२, ६, ५; -षेण काश्रौ
 १०, ६, १७.
 प्रचरणी-संज्ञव-^{३३}वम्
 काश्रौ ९, ३, १३.
 प्रचरण-कल्प-^{३४}ल्पः आपश्रौ
 १४, ४, १५; बौश्रौ २८, ४ : ७;
 ६ : १७; हिश्रौ ४, ५, ६५^{३५}××.
 प्रचरण-काल-^{३६}ले आपश्रौ ६,
 २९, २२; ८, २, १७××; वाश्रौ.
 प्रचरण-योग-^{३७}गात् काश्रौ १६,
 १, १५.
 प्रचरण-वेला-^{३८}ल्यायाम् माश्रौ
 १, ६, ४, १८.
 प्रचरणा(ण-श्वा)दि-^{३९}दि आपश्रौ
 १८, २०, १.
 प्रचरणीय-^{४०}यम् आपश्रौ १५,
 ७, २; १४, ७; बौश्रौ ९, ५;
 २१××; -ये भाश्रौ ११, १४,
 ९; वैश्रौ १३, १६ : १९; हिश्रौ
 २४, ६, ८.
 प्रचरणीयो (य-उ)पाव-
 हरण-^{४१}णात् वैश्रौ १३, १७ : २.
 प्र-चरत्-^{४२}रन्तः बौश्रौ २६, १२ :
 २१; -^{४३}रन्तौ आपश्रौ १४,
 २८, ४; हिश्रौ १५, ७, १२.
 प्र-चरित-^{४४}तम् आपश्रौ २१, ७,
 १७; १७, ५; हिश्रौ १६, ३, ३६;
 -ते आपश्रौ १४, २, ६; वैश्रौ.
 प्र-चरितुस् वैश्रौ १५, २५ : ११.
 प्र-चरितोस्(ः) वैताश्रौ १६, ५.
 प्र-चरिष्यत्-^{४५}ष्यन्त बौश्रौ ११, २ :
 ८; २५, १६ : ९; ३३ : ११;

a) वैप १ द.। b) पामे. वैप १, २११८ h द.। c) ष्वा इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. तै १, ८, ३, १; आपश्रौ. च)। d) सप्र. आपश्रौ १३, १६, १२ प्रतिपद्यते इति पामे.। e) पामे. वैप १, २११८ ० द.। f) पामे. वैप १, १३११ m द.। g) पामे. वैप १, २११९ b द.। h) पामे. वैप १, २१६३ i द.। i) यक. प्रवरेत्, प्रवरे इति पाठौ ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ ९, १, २८; ३०)। j) उप. भावकरणयोर् ल्युट् प्र.। k) = लुव-। l) प्रचरणीयाः इति जीसं.।

वाधुश्री ३, १००: १; ४, ४४:
४; -व्यन्तः आपश्री १५, ५, १;
बौश्री १४, ९: २३; भाश्री ११,
५, १; हिश्री २४, २, १.
प्र-चर्य काश्री ८, ३, ६×४; आपश्री.
प्र-चर्या- -र्या आपश्री ३, १०, २८;
-र्या: हिश्री २२, ३, २०.
प्र-चार- पाग ५, २, ३६; -र: वैश्री
१७, ८: १२; विध १८, ४४.
प्रचार-रथ्या- -थ्यानाम् शोध
२७८.
प्रचारित- पा ५, २, ३६.
प्र-चार्य काश्रीसं २९: १५.
!प्रचरतिम् वाश्री १, ७, २, १५.
प्र-चारित- प्रभृ. प्र✓चर द्र.
प्र✓चल, प्रचलति अप ३७, ३, १;
प्रचलेत् माग २, १५, ६.
प्र-चल- -ल: अप ७१, ५, ५.
प्र-चलित- -तै: विध १, ३५.
प्र✓चि (चयने), प्रचिन्वीत गोश्री ३, ५,
१४; जैश्री १, १९: २४.
प्र-चय^१- -य: ऋप्रा ३, १९; तैप्रा
१८, ३; २१, १०; शैशि; -यम्
उस् ८, १३; माशि ५, ७; याशि
१, ५५; भाशि २; -यान् याशि
१, ५९; -ये पावा २, १, १.
प्रचय-पूर्व- -र्व: तैप्रा १९, २.
प्रचयपूर्व-क- -क: कौशि २७.
प्रचय-स्थ- -स्थम् माशि ५, ३;
नाशि २, ३, १; -स्थानि नाशि
२, ७, ८.
प्रचय-स्वर- -र: ऋप्रा ३, २२;
-रम् उस् ८, ११; १८; -रे ऋप्रा
३, २७.

प्रचयस्वर-धर्म-वत् ऋप्रा ३,
२२.
प्र-चित, ता- -त: माशि २, ४; ५;
-तम् माशि ५, ६; -ता^१ याशि
१, ७१; -तात्^१ माशि ५, ६;
-ताम्^१ याशि १, ७१; -ते माशि
४, १२^१.
†प्र-चिन्वत्- -न्वद्भ्यः भाग २, ९:
१३; -न्वन्तः भाग २, ९: १३.
प्रचिक^१- (> प्राचिक्य- पा.) पाग
५, १, १२८.
†प्र✓चित्, प्र...चेति कौस् ५, २.
प्रचेतयति या ११, २७^१;
प्रचेतय आश्री ६, २, ९; ३, ११;
छुस् १, ७: ५.
†प्र-चेतन^१- -न आश्री ६, २, ९;
३, ११.
प्र✓चुद्, प्रचोदयति भाश्री ८, ११,
१९; †प्रचोदयात् वाश्री २, १०,
२; बौश्री ३, ९: ५; आप्रिगृ;
प्रचोदयेत् शांग ४, ८, १२; बौध
२, १०, ४३.
†प्र-चोदयत्- -यन् या ६, ७;
-यन्तौ या ८, १२^१.
प्र-चोदयमान- -नौ या ८, १२.
प्र-चोदित- -त: वृदे ५, ७५; ऋप्रा
१५, ८; शैशि २४०.
प्रचुर^१-> प्राचुर्य-> ष्व-दंश-
मशक- -कै: अप ६५, २, ६.
प्रचुल^१- (> प्राचुल्य- पा. L > प्रा-
चुल-] पा.) पाग ४, १, १०५;
२, १११.
प्र✓चृत्, प्रचृतति कौस् ५, १८; ६६,
२९.

प्र-चृतत्- -तन्तः कौस् ३४, १७.
‡प्र-चेतस्^१- -ततः ऋप्रा ४, ४०;
-†तसः आपश्री २०, २३, ४^१;
बौश्री^१ १५, ३८: १; २८, १: २३;
वैश्री २०, ३३: १३^१; हिश्री १४,
५, १३^१; आप्रिगृ २, ३, ५: १२^१;
काग ४०, ९; या ९, २०^१;
शुप्रा ४, ७८; पावा ८, २, ७०^१;
-तस्म् अत्र ४, ५३; -तसा
माश्री ५, २, ८, २०^१; -तसौ
ऋत्र २, १, १३; -†ता: शाश्री
६, १२, १६; आपश्री १७, ७, ७;
२४, ९; बौश्री; वैश्री १९, ५:
४२^१; या ८, ५^१.
२प्रचेतस्^१- -ता: ऋत्र २, १०, १६४;
अत्र ६, ४५; २०, ९६.
प्राचेतस- -स: शोध २९०.
प्र✓च्छद्, प्रच्छादयति काश्री २०,
६, १५; आपश्री १५, १५, १^१×४;
काठश्री; प्रच्छादयन्ति कौस्
८१, २५^१; प्रच्छादयति पाग
२, ६, २२; प्रच्छादयेत् बौश्री
२६, २७: ३; वैश्री १८, १६:
८१; ८४; आप्रिगृ.
प्र-च्छन्न, द्वा- -न्न: बौश्री २२, १९:
४; -न्ना आपश्री ११, ५, ६^१;
-न्ना: विध १६, १७; -न्नाम्
वैश्री १४, ४: १७^१.
प्रच्छन्न-पाप- -पा: विध २२,
९०; -पानाम् वाध २०, ३.
प्र-च्छाद^१- -दम् बौश्री २५, ३०:
१२; २६, २७: २.
प्र-च्छादन- -नम् बौश्री १९, १०:
५५; माश्री २, ४, ५, ३; बौध १,

a) = एकश्रुति- (तु. पा १, २, ३९)। b) = प्र-चय-। c) = ऊष्मभेद-। d) अर्थः व्यु. च?।
e) वैप १ द्र.। f) = बहुल-। व्यु. ?।। g) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?।। h) पाभे. वैप १, २१२० b द्र.।
i) 'तः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्री १७, ७, ७)। j) 'यति इति सूको.। k) सपा. 'न्ना <>
'न्नाम् इति पाभे.। l) नाप.। उप. घञ् प्र.।

६, १८.

प्रच्छादना(न-अ)र्थे- र्थस्य हिश्रौ
७, ८ : १७.

प्रच्छादित- -ताय विध ८७, ६.

प्रच्छाद्य शांश्रौ ४, १४, १७; काश्रौ.

प्र✓च्छिद्, प्रच्छिनति बौश्रौ २,
९ : २१; आगृ १, १७, १०;
द्रागृ १, २, १२.

प्रच्छिद्यते अप ६७, ६, ३; प्रच्छि-
द्यन्ते अप २३, ४, ४.

प्रच्छेदयति बौश्रौ ४, १ : ३०.

प्र-च्छिद्य आपश्रौ ९, १९, १२; १४,
३३, २××; बौश्रौ; प्रच्छिद्यप्र-
च्छिद्य आगृ १, १७, ११.

प्र-च्छिन्न- > प्रच्छिन्ना(अ-अ)प्र^०-
-प्रम् आपश्रौ २४, १३, ११;
-प्रेण आपश्रौ १५, १०, ६.

प्रच्छेद्- -दम् काश्रौ ६, ९, १०;
८, २, २१; बौश्रौ ४, १० : ७.

प्र✓च्यु, प्रच्यवते क्षुसू ३, १ : १४;
१० : २०××; निसू; ऋप्रच्य-
वस्व आपश्रौ १०, २९, १; बौश्रौ
६, १६ : ५; भाश्रौ; हिश्रौ ७, ३,
१८^०; ऋप्रच्यवेयाम् कौसू ८२,
४०; अश्र १८, ४; प्रच्यवेत् क्षुसू
३, ३ : १६; ४ : ५; ऋप्र-
च्यवेत् आपश्रौ १७, १७, ७;
वाधूश्रौ २, ९ : ४; हिश्रौ १२,
५, ३७.

प्रच्योष्ट निसू ६, ६ : १७; ११ :
३६××; प्र-अच्योष्ट वाधूश्रौ
४, १६ : १४; प्रच्योषाताम्
निसू ८, ७ : ४०.

प्रच्यावयति बौश्रौ ८, १५ : ७;
वाधूश्रौ ४, ८८ : ९; हिश्रौ ९,

४, ३८; निसू ७, ६ : १४^०;
प्रच्यावयतः वैश्रौ १२, २० : ९;
प्रच्यावयन्ति आपश्रौ ७, २८, ४;
बौश्रौ ६, १६ : ५; निसू ९,
५ : ४; प्रच्यावयतु या ७, ९^१;
ऋप्र-च्यावयतु आश्रौ ६, १०,
१९; आगिरि ३, ५, ४ : १; बौपि
१, ३ : १२; या ७, ९; ऋप्रच्या-
वयन्तु आपश्रौ १३, १६, १;
बौश्रौ ८, १५ : ८; वैश्रौ १६,
१९ : ८; हिश्रौ ९, ४, ३८;
ऋप्रच्यावयतात् काश्रौ ६, ८, १;
बौश्रौ ४, ८ : ८; प्रच्यावयेत्
बौश्रौ २०, २९ : ५; २८, ११ : १६.

प्र-च्यावन- -ने बौश्रौ २०, २९ :
५; २१, २३ : २३.

प्रच्यावनी^०- -नीम् आगिरि ३,
५, २ : १५; बौपि १, २ : १८.

प्र-च्यावयत्- -यन् वृदे २, ६०;
-यन्तः बौपि १, ४ : २५.

प्र-च्युत्, ता- -तः हिश्रौ ९, ५, ३६^१;
वैताश्रौ २४, १; -तम् निसू ५,
१ : ११; २०××; -तस्य काश्रौ
६, ८, १; बौश्रौ ४, ८ : ८;
-तानि अप ५८^३, १, ५; -ताम्
निसू ३, ९ : ३७; ४२; ८, ७ :
३३; अश्र ८, ९^१; -ते काश्रौ ६,
८, २; भाश्रौ ७, १८, ३; निसू
८, ७ : ३९; -तौ निसू ७, ९ : ६.

प्र-च्युति- -तिम् आश्रौ २, १०,
१४^०.

प्र✓च्युत्, प्रच्योतयति बौगृ १, ९, ६.
प्र-च्युति(त>)ता- -तायाम् गोगृ
३, १०, ३०.

प्र✓जन्, प्रजायते शांश्रौ ३, ८, २७^१;

आपश्रौ २३, १४, १५^१; बौश्रौ;
या १४, ६; प्र-जायते शांश्रौ
१०, १४, ८^१; आपश्रौ २१, १, १;
२२, २२, ८; वाधूश्रौ; प्रजायन्ते
बौश्रौ २०, १० : १७; वाधूश्रौ;
प्र-जायन्ते शांश्रौ १०, १४,
८^१; आपश्रौ २३, २, ९; १७;
ऋप्रजायसे आपश्रौ ८, २१, १;
बौश्रौ ५, १८ : १९; हिश्रौ;
ऋप्रजायताम् आपमं १, ८, १;
मागृ २, १८, २; ऋप्र-जायताम्
काश्रौ २५, १२, ८; आपश्रौ ९,
१७, १; हिश्रौ १५, ७, २३;
प्र(जायताम्) वृदे ७, १०३^१;
ऋप्र-जायन्ताम् कौसू ११४,
२; १२८, २; ऋप्रजायस्व आपश्रौ
७, १३, २; बौश्रौ ४, ५ : ११^३;
भाश्रौ; ऋप्रजायध्वम् आश्रौ २,
५, १७; शांश्रौ १२, १५, १^१;
आपश्रौ; हिश्रौ १५, ७, २३^१;
द्राश्रौ ७, ३, २^१; बौगृ १, ५, ८^१;
वैगृ ३, ५ : ६^१; अश्र ५, ५^१;
प्रजायवहै वाधूश्रौ ४, १९ :
४२; ३३ : ५; प्रजायत शांश्रौ
१४, ६, १; ६५, १; ६८, १;
बौश्रौ १६, २८ : १८; प्रजाये-
ताम् वाधूश्रौ ४, १९ : ४५;
प्रजायन्त शांश्रौ १४, ६०, १;
बौश्रौ १४, २० : ५; प्रजायेत
आपश्रौ १४, १३, ३; माश्रौ ५,
२, १४, १४; हिश्रौ; प्रजायेरन्
वाधूश्रौ ४, ३१ : ७; ऋप्रजायेय
शांश्रौ १०, १४, २; आपश्रौ १४,
१३ : ६; वाधूश्रौ ४, ५ : १;
९४ : १.

a) विप. । बस. । b) प्रच्यवस्य इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.) । c) प्रा^० इति पाठः? यनि. शोधः । d) = कुम्भी-विशेष- । e) पाठे. वैप १ हस्तच्युतिम् मै २, ७, १२ टि. द्र. । f) पाठे. वैप १, २१२२^१ द्र. ।

ऋजन्ते शांश्रौ ४, १२, १०;
 बौश्रौ; ऋ...जन्ते हिश्रौ २२,
 ४, १४; चाश्र ४१: ९; प्रज-
 निष्यन्ते बौश्रौ १४, २०: ३;
 ऋजनिय्ये^१ आपश्रौ ५, ८, ८;
 बौश्रौ २, १५: १३; ऋजनिषीय
 आपश्रौ ४, १०, १^०; माश्रौ १,
 ४, २, ६^०; वाश्रौ १, १, ३, ६^०;
 हिश्रौ ६, ४, १^०; ४२; ऋ...जनि-
 षीय आपश्रौ ४, १०, १; बौश्रौ
 २७, १४: ५; वाश्रौ १, १, ३, ६;
 ऋजनिषीमहि आपश्रौ ९, ६, ७;
 बौश्रौ ९, १६: १२; हिश्रौ १५,
 २, १४; ऋप्राजनि शांश्रौ ३, २०,
 ४; काश्रौ २५, २, २४; आपश्रौ;
 प्र...अजनिष्वहि वाधूश्रौ ४,
 १९: ४६.
 प्रजनयति ऋबौश्रौ १३, ७: १९;
 १४, २४: ३६××; भाश्रौ ६,
 १०, ७; हिश्रौ १५, १, ७६;
 प्रजनयन्ति वाधूश्रौ ४, ८२: २;
 ऋजनयतु आपश्रौ ९, ६, ७;
 बौश्रौ ९, १६: ११××; हिश्रौ
 १५, २, १४; प्र...जनय, प्र
 (जनय) आपमं १, १४, ३;
 ऋजनयावहै^d आणु १, ७, ६;
 कौश्रु १, ८, १८; शाणु १, १३, ४;
 पाणु; प्रजनयेत् अप ६३, ३, ५.
 ऋजनयिष्येते^a माश्रौ १, ५, २,
 ४; वाश्रौ १, ४, १, १९; ऋजन-
 यिष्यतः^e माश्रौ १, ५, २, ४;
 वाश्रौ १, ४, १, १९; प्रजनयिष्येथे

हिश्रौ ६, ५, १०^१; प्रजन-
 यिष्यथः^e आपश्रौ ५, ८, ८;
 बौश्रौ २, १५: १४; हिश्रौ ६, ५,
 १०.
 प्रजनयां/कृ, प्रजनयामकः पा
 ३, १, ४२^१.
 प्र-जन^१- नः वैश्रौ २०, १: ३;
 -नस्य पावा ४, १, ९२; -ने पा
 ३, १ १०४; ३, ७१; ६, १, ५५;
 -नेन निसू ८, २: २८.
 प्रजन-संबन्धा (न्य-अ)पेक्षा-
 क्षा हिश्रौ ३, १, ५.
 प्र-जनन, ना^१- ऋनम् शांश्रौ ४, १३,
 १; आपश्रौ ६, ११, ५; १८, ६, २;
 २०, १८, ४; बौश्रौ; लाश्रौ ३, ५,
 ५^१; -नस्य वाधूश्रौ ४, ३१:
 ६; ९^०: ७; ११६: ५; -नाम्
 कौसू ६९, २०; -ऋनाय बौश्रौ २,
 १३: ५; १८, १०: ६; १४; जैश्रौ;
 -मे वैश्रौ १, १०: ९; १०, १०:
 ६; हिश्रौ १४, ४, १०; वाध ८,
 ११; -नेन आपश्रौ २०, १८, ४;
 माश्रौ ५, २, २, १५.
 प्रजनन-कर्मन्- र्थं या ११, ३१.
 प्रजनन-काम- -मः आपश्रौ २२,
 ६, १; हिश्रौ १७, २, ४६; -माः
 कौसू १९, २.
 प्रजनन-निमित्त(त>)त्ता^१- -त्ता
 बौध २, ९, २.
 प्रजनन-यज्ञ- -ज्ञस्य या ३, ४.
 प्रजनना(न-अ)र्थ- -र्थः भाणु १,
 ११: ५.

ऋ-जनयत्- -यन् आपश्रौ १२, २२,
 ८^१; बौश्रौ ७, १३: २०; २२;
 हिश्रौ ८, ७, १४^२; -यन्तः शांश्रौ
 १६, २३, १३; -यन्तौ वाधूश्रौ
 ४, २७: १७.
 प्रजनयन्ती- -न्तीः वाधूश्रौ ४,
 ९७: ११.
 ऋ-जनयितवे आपश्रौ ५, १, ४;
 बौश्रौ २, ६: ३४; हिश्रौ ३, २, ३.
 प्र-जनयिष्यमाण- -णः शाणु १, १९,
 २^१; -णाः आश्रौ १०, ५, १२.
 प्र-जनिष्यु- पा ३, २, १३६.
 प्र-जनिष्यमाण- -णः कौश्रु १, १२,
 २^१.
 प्र(ज >)जा^१- -जया आश्रौ १,
 ३, २८^१; ६, १२, ४^१; १०, ५, १२;
 शांश्रौ १, ४, ५××; २, ११, ५^१;
 ९, ५, १^१; काश्रौ; ऋआपश्रौ १^१,
 १२, ११; १४; १७; ५, १४, ५^१;
 ६, १९, ७^०; ९, १४, १^१; ऋबौश्रौ
 ३, ८: १४^१; २१: १२^१; ८, १७:
 ३^१; १४, ८: २८^१; १७, ३: २^१;
 ऋमाश्रौ १, १२, ६^१; ३, १२,
 ७××^१; ४, २१, ५^१; ऋवाश्रौ
 १, २, २, १७^१; ३, २, २५^०;
 ऋवैश्रौ २, ८: ११^०; ३, ७: ८^१; ७,
 १३: ७^१; १७, १५: ३^१; ऋहिश्रौ १,
 ३, ३४^१; ३, ४, २८^१; ६, ४, २३^१;
 ६, १९^०; ८, १, ७६^१; ९, ७, २१^१;
 १३, २, ९^१; १६, ५, १^०; ऋवैश्रौ
 १५: ८^१; २०: ३^१; वैताश्रौ १३,
 २३^१; आपमं १, ९, ४^१;

a) परस्परं पाभे. b) पाभे. वैप १, २१२२ p द्र.। c) पाभे. वैप १, २१२२ q द्र.। d) पाभे.
 वैप १, ६३३ g द्र.। e) परस्परं पाभे.। f) =प्रजनन-। g) वैप १ द्र.। h) अभ्यात् संप्र इति पाठः।
 यनि. क अभ्यातमम् इति क शोधः। i) विप.। बस.। j) परस्परं पाभे.। k) पाभे. वैप १, २१२४ d द्र.।
 l) पाभे. वैप १, २१२४ e द्र.। m) पाभे. वै १, २१२४ j द्र.। n) पाभे. वैप १, २१२४ f द्र.। o) पाभे.
 वैप १, २१२४ g द्र.। p) पाभे. वैप १, १६८८ i द्र.। q) पाभे. वैप १ रूच्या मा १२, ७ टि. द्र.। r) पाभे.
 वैप १, २१२४ o द्र.।

कौट १,९,१७^क; आमिष्ट १,
१,३:२७^प; जैष्ट १,२२:४^क;
-जा आश्रौ २, ५, १४; शाश्रौ
१४,७, १××; आपश्रौ; या ३,
१; -जा: आश्रौ १०, ३, १२;
११, ६, ८; शाश्रौ; ऋआपश्रौ ४,
१,१०^०; १२,२२,८^२; ऋश्रौ
४,६:३५^०; ७, १३:२२^१; ११,
४:१९^०; ऋमाश्रौ ४, २, २^०;
७, १३, ४^०; वाश्रौ १, ६, ५,
१^०; ऋश्रौ १०, १३:११^०; १५,
२८:७^१; ८^१; ऋश्रौ १२, ५^०;
८, ७, १४^२; कौट १,२, ३^०;
गो २, १८^०; ऋया १०, ३४;
१४, १६; -जानाम् आश्रौ ६,
१४, १६^०; शाश्रौ ४, १०, १^०;
आपश्रौ ५, १, ७××; २२, १७, १०;
बौश्रौ; हिश्रौ १७, ६, ४४^१; या
१०, ४२; -ऋभि: आश्रौ २,
३, २७^१; शाश्रौ; वैताश्रौ २५, १२^१;
कौस् १२४, ४^१; -ऋभ्य: शाश्रौ
३, २०, २; काश्रौ ७, ७, १७;
आपश्रौ; आष्ट १, ७, १९^१; कौट
१, ८, २८^१; काष्ट २५, ४२^१;
माष्ट १, ११, १८^१; वाष्ट १४,
२३^१; जैष्ट १, २१:२९^१;
-ऋजाम् आश्रौ १, ११, १;
८××; शाश्रौ; आपश्रौ १७, १३,
२^१; २१, १५, १६^१; माश्रौ ६, २,

३, ८^१; वैताश्रौ २५, ११^१; आष्ट
१, ७, ६^१; कौट १, ८, १८^१;
शाष्ट १, ६, ६^०; १३, ४^१; पाष्ट; या
९, २२^१; ११, ७; २२; -ऋजाया:
आश्रौ २, ५, १२^१; शाश्रौ २, १५,
५^१; ९, २८, ३^१××; आपमं;
कौट १, १४, ६^१; बौष्ट १, १०,
४^१; या ८, ५; -जायाम् शाश्रौ
१६, २३, ६; १४; काश्रौ; या
४, १७; -ऋजयै शाश्रौ ७,
५, १४; १३, १२, १३^१; १७,
१२, १; आपश्रौ; -जासु काश्रौ
४, १५, १५; आपश्रौ ५, २, १^१;
बौश्रौ.
प्रजा-काम, मा- -म: आश्रौ १,
१०, ६^१; ९, ७, २८××; काश्रौ;
हिश्रौ १७, २, ४५^१; -मम्
आपश्रौ १४, १३, १०; २२, ४,
२××; हिश्रौ; -मस्य शाश्रौ १,
१५, ३; १४, २२, २५; काश्रौ;
-मा आश्रौ १, ११, २; माश्रौ
४, १, ३३^१; -मा: आश्रौ १२,
५, ६; आपश्रौ; -मानाम् शाश्रौ
१, ७, ३; काश्रौ २४, २, १३; २२;
३५; बौश्रौ १६, ४: २; माश्रौ
४, १, ३; -माय आपमं २, ११,
४^१; -माया: कौस् ३५, १७;
-मौ काष्ट ३०, ४.
प्रजाकाम-पशुकाम- -मयो:

काश्रौ २२, ११, १२; -मस्य
आपश्रौ ५, २८, १२; १०, ४,
४^१.
प्रजा-क्षय^१- -ये अशां १७, २.
प्रजाक्षय-कर- -रम् अप
३०^२, १, ७.
प्रजा-गुप्ति- -स्ये आपध २, २६,
४; हिध २, ५, १९९.
ऋप्रजा- (ह्व >) ऋ- -ऋ
आपमं १, १०, ३; ६; पाष्ट १,
११, २; ४; बौष्ट १, ६, १२;
भाष्ट १, १९: १४ जैष्ट १, २२:
१५.
प्रजा-तन्तु- -न्तुम् आमिष्ट १,
६, १: १^१.
प्रजा-दान- -नम् आपध २, २३,
८; हिध २, ५, १६१.
प्रजा(जा-आ)दि- -दीन् अश्व
७, ३३.
प्रजा-धर- -०र विध ९, ६, ६४.
प्रजा-निश्रेयस^५- -सम् बौष्ट १,
७, ४६^१.
प्रजा-निः, ऋ^५ श्रेयस- -सम्
आपध ९, १^१; आपध १, ९, १३;
हिध १, ३, १३; -साय आपध
२, १६, २; हिध २, ५, २^१.
प्रजा-पति- पाग ४, ४, ४८;
-तये आश्रौ २, ९, ९^१; ऋश्रौ
७, १८, ५; १३, १२, ८; काश्रौ;

- a) पामे. वैप १, २१२४ c द्र.। b) पामे. वैप १, २१२४ f द्र.। c) पामे. वैप १, २१२५ h द्र.।
d) पामे. वैप १, २१२५ e द्र.। e) सपा. प्रजा: < > प्रजाम् इति पामे.। f) पामे. वैप १, २१२६ h द्र.।
g) °ताम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ २२, १७, १०)। h) पामे. वैप १, २१२४ g द्र.। i) पामे.
वैप १, २१२४ e द्र.। j) पामे. पृ १५४९ w द्र.। k) पामे. वैप २, ३खं. वृताय तैवा ३, ७, ७, ११ टि. द्र.।
l) पामे. वैप १, २१२६ d द्र.। m) सपा. प्रजां भूतिम् < > प्रजातिम् < > प्रजापतिम् इति पामे.। n) पामे.
वैप १ यज्जम् तै ३, ५, १, १ टि. द्र.। o) पाठः? °जा: इति शोधः (तु. C., सपा. तै ३, ५, २, ३ तां १, १०, १ च)।
p) पामे. वैप १, २१२८ e द्र.। q) पामे. वैप १, २१२८ i द्र.। r) पामे. वैप १, २१२८ k द्र.। s) सपा.
आपश्रौ २२, ५, १८ स्वर्गकामः इति पामे.। t) उप. < √क्षि [क्षये]। u) उप. = निःश्रेयस-। v) परस्परं
शामे.। w) आपध. पाठः। x) °सा च इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपध.)।

या १२, ८; -तिः ऋश्रौ १, ११, ७; २, २, ४××; शाश्रौ २, ६, ७××; ९, ५, ११; काश्रौ; बौश्रौ १७, ३; २१; माश्रौ १, ४, २, १२१; हिश्रौ ९, ७, २१; जैश्रौ १५; ११; वैताश्रौ २७, १६; पाश्रु १, ८, ८; माश्रु १, १०, १३; १४, १६; कौसू १२४, ४; अप १, ४, १; २, १, ७; ऋश्र २, १, १०; २, ३, ३८; ५४; ९, ८४; १०१; शुश्र २, १; ३८१; ३, २; अश्र २, ३०; ४, ३५; ६, ११; निघ ३, १७; या १०, ४२; वेज्यो ३२; -तिना काश्रौ २०, ३, १०; आपश्रौ; आपमं २, ५, २२; बौश्र ५, २६; -तिम् आश्रौ २, ३, १९; ८, १३, २६; १०, ९, ५; शाश्रौ; हिश्रौ १६, ५, १४; १८, ४, ६५; वैताश्रौ ३, २०; शंघ ११६; ३६; अश्र १, १५; -तीन् शंघ ११६; ३०; -तौ आश्रौ २, १४, १२; ३, १०, २३; शाश्रौ १, ४, ५××; १६, ७, ३; काश्रौ २, २, ११; १५, ६, ११; आपश्रौ १, १०, ८; २, ११, २××; ९, २, ४; १२, ४; १३, ६, ११; १२, १२; १८, १६, १४; बौश्रौ १, २१; २४××;

२, १३; ८; ३, ११; २७; ५, १५; ३२; १२, ११; ११; भाश्रौ; माश्रौ १, १, २, ३८; वाश्रौ १, २, ३, ३१; वैश्रौ १६, ८; ७; २०, ५; ३; २५; ६; हिश्रौ २, ६, २; ९, २, १७; १३, ६, ३३; १५, ७, २१; वैताश्रौ १, ३; २, १२; ७, १२; आपमं १, ११, ४; २, २२, १९; आश्रु १, ४, ४; १४, ३; २, ४, १४; कौश्रु १, ८, २६; ११, ४; १४, ६; शाश्रु १, १८, ४; २२, ७; आपश्रु १, १, ४; ५१; ५, ४; १३; २, १, १; ४; २; ४; ५; २४; २, ४; ३; ५; ३; ४, १; ५; २; ८; ५; १०; ५, १; २९; ७, २; २६; ९; २९; ३, २, २; ९; ६; १०; काश्रु २२, २; ३४, ४; ३६, १; बौश्रु १, ४, ३३; ४, २, १; माश्रु १, ६; १६; १४; १५; २८; ८; २, २; १२; ६; १३; ३२; ८; ३, १९; १४; वैश्रु १, १७; २; २, ९; ८; ४; ३; १४; ६; ९; हिश्रु १, ३, ६; ८, १६; ९, ७; १७, ६; १८, ६; १९, ८; २६, १४; २७, १; २८, १; २, १, ३; २, २; ४, १०; ५, २; ६, २; १५, १३; गोश्रु ४, ६, ९; जैश्रु १,

४; १३, २०; ३१; कौसू ५, ९; अप ४५, १, २४; अशां १८, ७; शुश्र १, ६१५; ३, ४०; अश्र ७, ८०; या १०, ४३; उसू ८, ३५; -तेः ऋश्रौ १, १३, ४; ३, ११, ११; शाश्रौ; आपश्रौ २१, १२, ३१; हिश्रौ १६, ४, ३५; शुश्र १, १५५; १६३; १७२; २११; २३०; २, ४; ३६२; ३, ७७; चाश्र १; ६; १६; -तौ आपश्रौ ६, ९, १; ११, १, ६; बौश्रौ.

प्राजापत- पा ४, ४, ४८.

प्राजापत्य, त्या- -त्यः

आश्रौ २, १४, ११; ३, ८, ६; शाश्रौ; विघ २४, १८; ऋश्र २, ५, ३३; १०, १९; १२१; १३०; १६१; १७७; १८३; १८४; शुश्र १, १४; ६१८; ३, ४४; साश्र १, १७१; -त्यम् आश्रौ ३, ४, १२; १०, ३, ६; शाश्रौ; बौश्रौ १३, ३६; ११; लुसू १, २; ८; ३; ३; १०; १९; ४; ६; ११; ३०; २, ३; ६; ४; ११; अप ५७, ४, १; ७०, १६, ५; शंघ ५४; १५२; ३९५; ४०१; ४०६; ४०८; ४५०; ४६०; विघ

a) पाभे. वैप १, २१२९ ० द्र. । b) पाठः ? ऋश्रु इति शोघः (तु. गोत्रा २, १, ७) । c) एकतरत्र पाठः ? ऋश्रु इति C. शोघः । d) पाभे. वैप २, ३ खं. बृहस्पतिः मंत्रा १, २, २१ टि. द्र. । e) सपा. ऋश्रु << ऋश्रु इति पाभे. । f) = नक्षत्र-देवता- । g) = देवता- । h) = ऋषि-विशेष- । i) यज्ञ-नामन्- । j) सपा. हिश्रु १, १३, १९ ब्रह्मगा इति पाभे. । k) पाभे. पृ १६५८ m द्र. । l) पाभे. वैप २, ३ खं. प्राजापतिम् गोत्रा २, १, ७ टि. द्र. । m) ऋश्रु इति पाठः ? यनि. शोघः । n) पाभे. वैप १, २१३१ a द्र. । o) ऋश्रु इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. पूर्व स्थलम्) । p) ऋश्रु इति C. । q) विप. (सूक्त-; स्थाली-पाक-; उदुम्बर- प्रसृ.) ; व्यप. । वैप १ द्र. । r) = त्रिवाह-विशेष- । s) प्राजा इति पाठः ? यनि. शोघः । t) = साम-विशेष- । u) = नक्षत्र- (रोहिणी-) । v) = कर्म-विशेष- । w) = तीर्थ-विशेष- । x) = व्रत-विशेष- ।

२२, १६^अ; ३८, ७^ब; ५१, ४५^द;
 ५२, १७^क; ७०; ६२, १०; वैध २^ग,
 १, २; ६, २; काष २७१: ६^घ;
 -त्यया^द आपश्रौ ९, २, ४; २०, १;
 १२, ८, ९^ङ; १३, १२, १२; बौश्रौ;
 वैश्रौ १५, ९: ११; -त्यस्य शांश्रौ
 ९, २३, ९; १६, ७, ४; काश्रौ;
 आपश्रौ १६, ७, ११; वैश्रौ १८,
 ५: १४^च; वृदे ८, ८०^छ; चाश २:
 १४^ज; ३०: ६^झ; -त्या शांश्रौ १४,
 ३, १९; आपश्रौ ६, ३१, ११^ञ;
 १९, १६, १०; बौश्रौ; अशां १६,
 १^ट; ऋअ २, १०, १०^ड; वृदे ७,
 ४९^ण; ऋप्रा १७, ९; माशि १, ४;
 याशि १, ५०; पिं २, ५;
 उनिस् ३: १९; -त्या: आश्रौ
 ३, ८, १; १०, ९, ५; शांश्रौ;
 या ७, ४; -त्यात् आपश्रौ १६,
 १३, ५; बौश्रौ २५, १८: १०;
 वैश्रौ; गौध ४, ३२^म; -त्यान्
 काश्रौ १४, २, १३; आपश्रौ १८,
 २, ३; १३; २०, २२, ४; बौश्रौ;
 वाध १४, १६; २४; ३०;
 -त्यानाम् काश्रौ १४, २, २०;
 २०, ८, २; बौश्रौ; -त्यानि
 आपश्रौ २, १०, ४^न; १८, १,
 १५; बौश्रौ; निस् १, १२: ६;
 आमिगृ १, २, १: ९^त; बौगृ ३,
 १, २१^थ; शुअ १, ५७२; उनिस्
 ८: २४; -त्याभिः शांश्रौ १३,
 ५, ७; १२, ९; आपश्रौ; -^{त्}त्या-
 भ्याम् अप ४६, १०, २६; अश्र

१९, २३; -त्याम् आपश्रौ १७,
 ९, ३०; १९, २१, १; बौश्रौ २,
 १३: ७; १०, ३६: ८^थxx;
 १३, २३: १^द; माश्रौ; वैश्रौ
 १९, ६: ७^ध; हिश्रौ २२, ४, १^न;
 अप ७०^त, १३, २^ज; अशां १७,
 २^ञ; विध २६, १^च; -त्याय
 आपश्रौ २१, १०, १; हिश्रौ १६,
 ४, १४; -त्यायाः पिं २, ११;
 -त्यायाम्^ज अशां १८, ३; १९,
 २; -त्यायै बौश्रौ २०, २१: ६;
 ८; -त्यासु बौश्रौ १६, ३१:
 १७; १९; -त्ये आश्रौ ३, २, ८;
 ४, १२; शांश्रौ; वैगृ २, १०:
 १०^ब; अप ३३, ४, १^प; वाध
 १२, ४७^ल; १७, ६१^प; गौध ४,
 ७^म; -त्येन शांश्रौ १३, २०, ८;
 आपश्रौ ६, १७, १०^त; १६, ८,
 २^क; २२, २२, १५^ग; माश्रौ;
 आमिगृ ३, १२, १: ५^ब; वैगृ ३, १:
 १४^म; वाध १८, १६^द; २७, १७^ब;
 शंघ २६^क; बौध ४, ३०^ब; विध
 २४, ३६^म; -^{त्}त्येभ्यः आमिगृ २, ३,
 ५; मागृ २, ७, १; -त्येपु वैश्रौ
 १७, १६: ५; मीस् १०, ४, ६;
 -त्यैः मीस् ११, ३, ४५; -त्यौ
 काश्रौ २०, ८, १५; बौश्रौ १८,
 ४५: ४१.

प्राजापती- न्या
 भागृ ३, २: १२; -त्या: निस्
 ४, ९: ५.

प्राजापत्य-द्वय- न्येन

शंघ ४४९^२.

प्राजापत्य-प्रथम^त-
 -मान् वैश्रौ १८, ४: १४.

प्राजापत्य-भाजन-
 -नम् आमिगृ २, ३, १:
 ११.

प्राजापत्य(त्य-ऋ)च्-
 -त्यर्चा काश्रौ २५, १४, १८;
 माश्रौ ३, २, ७.

प्राजापत्य-वपा-
 -पानाम् काश्रौ २०, ७, ९.

प्राजापत्य-वर्जम् वाश्रौ
 २, १, २, १२.

प्राजापत्य-व्रत-
 -बन्ध- न्धम् वैगृ २, ९: १०;
 १२: १६.

प्राजापत्य-व्रत-बन्ध-
 -ना(न-आ)दि- दि वैध २,
 ३, २.

प्राजापत्य-सूक्त-
 -क्तम् वैध २, ३, २.

प्राजापत्या-नायत्री-
 -व्यः अश्र १९, २३; -व्यौ अश्र
 १९, २२.

प्राजापत्या-जगती-
 -त्यौ अश्र १५, ४.

प्राजापत्या-त्रिष्टुम्-
 -ष्टुम्: अश्र १९, १८; -ष्टुमौ
 अश्र १५, १२.

प्राजापत्या(त्य-आ)
 दि-> न्यादि-मूलहोम- मः
 वैगृ १, १८: १४.

a) १त्यव्रतम् इति जीतं. b) = व्रत-विशेष-। c) = तीर्थ-विशेष-। d) = ऋच्- [< प्रजापते ऋ
 १०, १२१, १०]। e) अप्रा (तु. भाष्यम्) इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. वैश्रौ १५, ९: ११; C. च)। f) १तस्य
 इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.)। g) = प्रजापति-पुत्र-। h) = ऋषि-विशेष-। i) = इष्टि-विशेष-।
 j) = महाशान्ति-विशेष-। k) = प्रजापति-दुहितृ- (दक्षिणा-। l) = प्रजापति-दुहितृ- (विकुण्ठा-। m) = विवाह-
 विशेष-। n) = काण्ड-विशेष-। o) = इष्टका-विशेष-। p) = नक्षत्र- (रोहिणी-। q) = मुहूर्त-विशेष-।
 r) = तृच-। s) = षडह-विशेष-। t) विप.। बस.।

प्राजापत्यादि-वेद-
 व्रत- -तानि वैष्ट ६, ११ : ६.
 ?प्राजापत्याद्यपात्र-
 -त्रम् वाश्रौ ३, ४, २, १४.
 प्राजापत्या(त्या-अ)
 सुष्टुभ्- -ष्टुभः अथ ११, ३;
 १२, ५(३; ५) × ×; -ष्टुभौ अथ
 १३, ४(२-४; ६); १५, १२; १३.
 प्राजापत्या-बृहती-
 -स्यौ अथ ९, ३; १५, ११.
 प्राजापत्या(त्य-आ)
 इवमेधिक- -के वृदे २, १५३.
 प्राजापत्यो (त्या-उ)
 षिणह्- -षिणहः अथ १५, १६;
 -षिणहौ अथ १२, ५ (६); १५,
 १७.
 प्राजापति-काम- -मः निसू
 ६, ६ : २१; ८ : ३५.
 प्राजापतिकाम-यज्ञ- -ज्ञः
 निसू २, ३ : १७.
 प्राजापतिकाम-सत्र-
 -त्रम् निसू १०, ४ : १; १३ : ७.
 प्राजापतिकामसत्र-
 त्व- -त्वात् निसू १०, १३; १२.
 प्राजापति-गीत- -तौ बौध
 २, ४, १५.
 प्राजापति-गृहपति- -तयः
 आश्रौ ८, १३, ७; १०^१.
 †प्राजापति-गृहीत, ता-
 -तया^१ बौश्रौ १०, ३५ : ६;
 १४, २२ : ११; -तेन^१ वाश्रौ
 ३, २, १, ३२.
 प्राजापति-च्छन्दस- -सानि
 वाधुश्रौ ४, १००^३ : १.

प्राजापति-तस्(ः) वृदे ७, ५०.
 प्राजापति-त्व- -त्वेन शुभ्र ३,
 ८१.
 प्राजापति-देव(त >) वा^१-
 -ताः वृदे ८, १०८.
 †प्राजापति-परिवाद- -दः
 आपश्रौ २१, १२, १.
 २प्राजापति-परिवाद^१ - -दान्
 आपश्रौ २१, १२, २^०; -दानाम्
 हिश्रौ १६, ४, ३५^०.
 प्राजापति-पीत- -तम् वाश्रौ
 ३, २, २, ३१.
 प्राजापति-पुरोग^१ - -गान् वैष्ट
 १, १३ : १.
 प्राजापति-प्रवाद- -दः निसू
 ६, ३ : ५.
 प्राजापति-मुख- -खात् वाअ
 ४२ : १९.
 प्राजापति-युक्त- -क्तः बौश्रौ
 ३, २३ : ७^१.
 प्राजापति-राजन्^१ - -जानः
 शाश्रौ ४, २१, १२^१.
 प्राजापति-रूप- -वेण शुभ
 १, ४९९.
 प्राजापति-संस्ताव- -वेषु निसू
 ४, ६ : ७^१; -वौ निसू ७, १२ :
 ४^१.
 †प्राजापति-सु(छ >) षा-
 -ष्टानाम् आपश्रौ ५, १, ७; वैश्रौ
 १, ७ : ३.
 प्राजापति-हृदय^१ - -यम्^६
 काश्रौ १८, ३, २; लाश्रौ १, ५,
 १६.
 प्राजापतिहृदय-स्थान-

-ने लाश्रौ १, ५, १८^१.
 प्राजापती(ति-ई)प्सा- -प्सया
 निसू ६, १० : ३६; -प्साम्
 निसू ६, १० : ३२; १०, ३ : १;
 १३ : १६.
 प्राजापतेर-अयन- -नम्
 बौश्रौ १६, १६; ४-६; २६, १७; ९.
 प्राजापतेर्(अयन)- -नम्
 काश्रौ २४, ५, १९; लाश्रौ १०,
 १३, १३.
 प्राजापतेर्-गूर्द^१ - -र्देन जैश्रौ
 ४ : ७.
 प्राजापतेर्-द्वादशसंवत्सर^१-
 -रम् आश्रौ १२, ५, १५; शाश्रौ
 १३, २८, ५; काश्रौ २४, ५, १९;
 हिश्रौ १८, ४, १२^१; -रेण
 आपश्रौ २३, ११, ८^१.
 प्राजापतेर्-हृदय- -यम् द्राश्रौ
 २, १, २०^६; २८; गौपि १, १, ९;
 -येन बौश्रौ १०, ४९ : १५;
 माश्रौ ६, २, ४, ९; वाश्रौ २,
 २, ३, १३; वैश्रौ १९, ६ : ६१.
 प्राजापतेर्हृदय-स्थान-
 -ने द्राश्रौ २, १, २४^१.
 प्राजापतेस-तनू^१ - -नूः
 आश्रौ ८, १३, १२^१; -न्वम्
 शाश्रौ १०, १९, २^{१२}.
 प्राजापतेः-सहस्रसंवत्सर-
 -रम् शाश्रौ १३, २९, ३२; निसू
 १०, १३ : १५; -रयोः आपश्रौ
 १९, १५, ७; -रेण आपश्रौ २३,
 १४, १२; हिश्रौ १८, ४, ६६.
 (प्राजापतेः)सहस्रसंवत्सर-
 -रम् शाश्रौ १३, २९, ३२.

a) परस्परं पाभे. । b) विप. । बस. । c) परस्परं पाभे. । d) प्रजाति^० इति संस्कृतुः टि. । e) प्रजातिसं^० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. संस्कृतुः टि.) । f) = साम-विशेष- । g) सपा. णिहं <> णेहं <> णेः साम इति पाभे. । h) सपा. णिहं <> णेहं इति पाभे. । i) पृ १३१८ रद्वादशसंवत्सर- इति नेष्टम् । j) सपा. णम् <> णेण इति पाभे. । k) = मन्त्र-विशेष- (तु. भाष्यम्) । l) पृ ११५६ सस्थ. तन्ः इति नेष्टम् ।

प्रजापतेः-सामन्- -म^a
 आपश्रौ १७, १२, ११; हिश्रौ
 १२,२,१३.
 प्रजा-परिपालन- -नम् विध
 ३,२.
 प्रजा-पशु-काम- > ^मवैश्य-
 रथकृत्- -ताम् काश्रौ ४,७,७.
 प्रजा-पशव(शु-अ)न्न-काम-
 -मस्य अशां १७,२.
 प्रजा-पशव(शु-अ)न्न-यशस-
 काम- -मस्य काश्रौ ४,४,१.
 प्रजा-पालन- -नम् वाध २,
 १७; सुध ७.
 प्रजापालन-दुष्टनिग्रह-युद्ध-
 -द्वानि वैध १, १, ७.
 प्रजा-भाग्यो(स्य-उ)द्वव^b- -वम्
 अप ५२,१४,४.
 प्रजाभाङ्गिरतः^c कौसू २२,९.
 प्रजा(जा-अ)भिराम^d- -मः
 शंघ २४४.
 प्रजा-मेधा- -धयोः पा ५,४,
 १२२.
 प्रजा(जा-अ)र्थ- > ^{र्थि}न्-
 -र्थिनाम् वृदे ३,३२; -र्थी अप
 ७०^e, १३,२.
 प्रजार्थि-होम- -मम् आग्नि
 २,५,६: १.
 प्रजा-वत्- -वत् शाश्रौ २,२२,
 ४; आपश्रौ ६,२३,१; बौग ४,
 ३,४; -वतः वृदे ८,८०; -वता
 या ११,२४^f; -वन्तः शाश्रौ
 १५,२७,१; आपश्रौ; -वन्तम्

आग्नि २, १, ५: ९^f; -वान्
 काश्रौ २३,३,१^f; आपश्रौ; ऋष
 २,१०,१८३^g.
 प्रजावती-(>प्रजावत-
 पा.)पाग ४, ४, ४८; -०ति
 ऋसू २४, १३; ३९, ९××;
 -^{वती} आपश्रौ ३, १०, ९; ४,
 १३, ३; भाश्रौ; कौसू ५, २^h;
 -^{वती}: आपश्रौ १, ११, १०^h;
 बौश्रौ १, १: १२; ३: १६^h;
 भाश्रौ १, १२, ३^h; हिश्रौ १,
 ३, १९^h; कौसू; या ५, २;
 -^{वती}म् आपमं १,७,९; बौग
 १,५,५; ४,२,१२.
 प्रजावज्-जीवपुत्र^m-
 -त्राभ्याम् आगृ १, १३, ६; -त्रौ
 वृदे ५,९२.
 प्रजा-वृद्धि- -द्धिः आपध २,
 ७,४; हिध २,२,२५.
 प्रजा-व्यूढ-पशु-व्यूढ- -द्धस्य
 आपश्रौ ५,२८,१२.
 प्रजा-संस्कार- -राः बौग २, ६,
 १८.
 प्रजा-सनिⁱ- -नि शाश्रौ ४,
 १३, १; आपश्रौ ६, ११, ५;
 बौश्रौ; -निः वैताश्रौ १९,१६.
 प्रजा-संतान- -नम् बौध २, ९,
 १०.
 प्रजासहस्रकर्मन्- -र्मभ्यः
 आग्नि १, ६, १: १५; वैगृ ३,
 २: ८.
 प्रजा-सुख- -खे विध ३, ९८.

प्रजा-स्थान- -नम् निस् ४,६:७.
 प्रजा-स्थापनⁱ- -नम् अप १,
 ४३,१०.
 प्रजा-हित- -तम् अप ५२, ११,
 २; -तेषु बौश्रौ १८, २०: ८.
 प्रजे(जा-ई)श- -शाय वैगृ २,
 १: ९^f.
 प्रजे(जा-उ)त्पत्या(ति-आ)
 सुपूर्व^k- -व्येण हिगृ २, १७,७.
 प्र-जात,ता- -^{वत}म् अप ११,१,६;
 १३, १, ७; अशां १९, १; अश्र
 १९,२६; -ता वाधुश्रौ ४, ३६:
 ३; वाध १७, ७८^l; बौध २, १,
 ३८; -^{वत}ताः आपश्रौ १,२४,५;
 बौश्रौ १, ९: ९; भाश्रौ; -०ताः
 माश्रौ २, ३,३,७^l; -तान् बौश्रौ
 १७,२८: १७; हिश्रौ १२,८,७;
 आपशु १२, ६; -तानाम् अप
 ६८,२,४१; -तायाः काश्रौ २५,
 ११, १८; -तायाम् शाश्रौ ३,४,
 १४; -ते काश्रौ २०, ३, २०;
 आपश्रौ; -तौ वाधुश्रौ ४,१९:४३
 प्र-जाति- -तिः चाञ्ज ६: २^m;
 -तिभिः वैश्रौ ८, ५: १६^m;
 -तिम् आपश्रौ १०,२,११×ⁿ;
 २३,१४,११ⁿ; माश्रौ १,४, २,
 ६; आपध; -तीः बौश्रौ ४, ५:
 १०^m; -तेः क्षुसू ३, १४: १५;
 -^{वत}्यै शाश्रौ १६, २२, २६;
 आपश्रौ ५,६,१; बौश्रौ.
 प्रजाति-काम- -मः आश्रौ ९,
 ७, २९; शाश्रौ ४, १३, १××;

a) पांमे. पृ १६६१ f द्र. । b) विप. । षस. > बस. । c) आः अं > संधिन्यायेन
 यनि. इति संस्कृतुः टि. । d) विप. । उस. । e) = ऋषि-विशेष. । f) तु. वैप १, २१३३ g l.
 g) पांमे. वैप २, ३खं. प्रजावतीः तैत्रा ३,७,४,१४ टि. द्र. । h) द्रस. । i) वैप १ द्र. ।
 j) उप. करणे कृत. । k) जनन-क्रम- इति भाष्यम्, old. च । प्रजे^o इति Būht
 (ZDMG ५२,८७) शोधः? । l) पांमे. वैप १, ९९८ p द्र. । m) = मन्त्र-विशेष. । n) पांमे.
 पृ १६५८ m द्र. ।

बौश्रौः-मस्य आश्रौ १०,१,२;
काश्रौ २२,१०,१३; २३,१,१४;
-माः आश्रौ ११, ३, ६; शाश्रौ
१४, ६०,१; -मानाम् शाश्रौ
१३, २८,४; काश्रौ २४,३, २४.

प्रजातिकाम-यज्ञ- -ज्ञः

निस् ७,७ : २३; ८,३ : १; -ज्ञे
निस् ७,७ : २५.

प्रजातिकामयज्ञ-स्व-

-त्वात् निस् ७,७:२७; ८,३ : २.

†प्र-जाव(र>)री-रीः^१ माश्रौ १,
१,३,७; माय १,१२,३.

प्र-जनन- प्रमृ. प्र√जन् द्र.

प्र√जम् > प्र-जमित-> ता(त-श्च)
झि^१-मयः या ७, २४.

प्र√जम्, प्रजम्भयेत् आपशु १९,९.

प्र-जा- प्रमृ. प्र√जन् द्र.

प्र-जागर- प्र√गृ(अवबोधने) द्र.

प्र-जाति- प्रमृ. प्र√जन् द्र.

प्रजानक^१- -कः काय २०,२.

प्र√जि, प्र(जय) अत्र ६,१२६^१.

प्रजैषम् शाश्रौ १८,२१,८^१.

प्र-जय- -यम् शाश्रौ १८,२१,८^१.

प्र√जि, जिन्व्, प्र...जिनोषि^१ आपर्म
२,१८,९; या ११,३७^१.

प्रजिन्वसि या ११, ३७;

प्रजिन्वन् आश्रौ ४, १३, ७^१;

प्र(जिन्वन्) ऋअ २, १, ७१^१.

प्र-जिगांसत्- प्र√गम् द्र.

‡प्रजिघाति सु २९,२.

प्र√जीव, प्रजीवतात् भाश्रौ १, १०,
१०^१.

प्र-जीवसे हिपि १८ : ५^१.

प्र√जु, प्रजवेते, †प्र...जवेते या ९,

३९; †प्र(जवेते) ऋअ २, ३,
३३; वृदे ४, १०५.

प्रजावयति या ९, १७.

प्र-जव^१- -वः या ११, २०^१; -वेतु
या १, ९; १३, १३.

प्र-जविन्- पा ३, २, १५६.

प्र√जृम्, प्रजृम्भयेत् हिशु ६, २९.

प्र√ज्ञा^१, प्र(जानाति)अत्र १५, १२^१;

प्रजानन्ति बौश्रौ १४, ५ : ३१;

वाधूश्रौ ४, ६४^१; ७, ९; प्रजानीम

जैय २, १ : २४; प्रजानीयात्

बौश्रौ १६, २७ : १७; प्रजानीयुः

आपध २, १५, २१; हिष २, ३, ५५

प्रज्ञायते आमिपि ३, ९, २ : १०;

आपय ८, १; बौपि १, १० :

१०××; प्रज्ञायन्ते वाधूश्रौ ४,

४५ : ३; प्रज्ञायेत आपश्रौ ९,

११, २२; हिपि २३ : १८.

प्रज्ञापयति या ११, २७.

प्रजिज्ञासीत बौश्रौ २४, ६ : ५.

†प्र-जानत्- नन् आश्रौ ३, १०, ८;

१२, २२; शाश्रौ; आपश्रौ ६, २६,

७^१××; ९, २, ६^१; भाश्रौ ९, ३,

८^१; हिश्रौ १५, १, ४५^१; या ७,

२७; ८, २०; ९, १५; -नन्तः

आपश्रौ ७, १२, १०; १५, ४; १६,

२९, १; बौश्रौ.

†प्रजानती- ती आपश्रौ १६,

२९, १; बौश्रौ १६, २७ : १८;

वैश्रौ; -तीः आपश्रौ ४, ४, ४;

भाश्रौ ४, ५, ५; वाश्रौ.

प्र-ज्ञ- पाग ५, ४, ३८; -ज्ञाः

कौशि ५९; अत्र ५५, ५, ३.

‡प्राज्ञ- पा ५, ४, ३८; -ज्ञः

काय ४६ : १०; आमिपि २,

५, १ : १२; जैय २, ९ : ६; अत्र

१२, १, ८; शंघ १९१; २३५;

मैत्र १; चव्यू ४ : २०; या १२,

३७^१; -ज्ञम् अत्र ७०, १, १;

-ज्ञाः अत्र ३०^१, २, ९; कौशि

३; नाशि १, ४, १२.

प्राज्ञ-ता- -ताम् माशि १६,

१०.

प्राज्ञ-सेवन- -नात् माशि

१६, १४.

प्र-ज्ञा- पाग ५, २, ९७; १००;

-ज्ञया आमिपि १, १, ४ : ३^१;

हिपि १, ७, २^१; जैय १, १२ :

४०^१; या २, २५; ६, १३××;

-ज्ञा आश्रौ ३, ९, १^१; भाय १,

११ : १^१; माय; या ५, १४;

१०, ४१; -ज्ञाम् कौय २, ५, १;

कप्र १, १०, ४; शंघ; या २,

२८; ७, २७; -ज्ञायाः निघ

३, ९; -ज्ञायाम् भाय १, ११ :

३^१; माय १, ७, ७; वाय १०,

६; -ज्ञायै आश्रौ ३, ५, ४; जैय

२, ८ : ७; बौध ३, ९, ५.

२प्राज्ञ- पा ५, २, १०१.

प्रज्ञा-नामन्- -म या १०, ३४;

-मानि या ३, १३.

प्रज्ञा-ल- पा ५, २, ९७.

प्रज्ञा-वत्- पा ५, २, १००;

-वान् वैश्रौ १२, १ : १.

प्रज्ञावत्-स्व- -स्वम् या १०,

३४.

प्रज्ञि-ल- पा ५, २, १००.

प्र-ज्ञात, ता- -तः शाश्रौ १८, २४

a) पामे. पृ १६६२ g द्र.। b) विप.। बस.। c) = देवता-विशेष-। व्यु. ?। d) पामे. वैप १,
६३१ k द्र.। e) वैप १, २१३४ b द्र.। f) 'जीवि' इति पाठः ? यनि. शोधः। g) वैप १, २१३४ f द्र.।
h) पा ३, २, ६ पराच्छः द्र.। i) पामे. वैप १, २१३४ m द्र.। j) = (सुष्ठुस्थान-) आत्मन्- (तु. मां ११)।
k) प्रां इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. माय.।)

१६; बौश्रौ ३, १२ : १; १२××;
-तम् आपश्रौ १, ६, ८; १४,
६××; बौश्रौ; -तया काश्रौ ६,
६, ८; -ता शाश्रौ १८, २४, १७;
१८; काश्रौ; -ता: काश्रौ २२,
११, २२; बौश्रौ ३, १ : ६; १०,
१२ : ९; ११, १ : १२; -तान्
आपश्रौ ११, ६, ३; १२, ८, ४;
२०, १२, १०; भाश्रौ; -तानि
बौश्रौ २, ९ : ३२; भाश्रौ; -ताम्
बौश्रौ १२, १४ : ७; हिश्रौ ५,
१, १६; आश्रिण्ट; -ते आपश्रौ
१, ११, १०; बौश्रौ; -तौ बौश्रौ
२, ९ : ३३; हिश्रौ.

प्रज्ञात-तम- -मम् या २, १९.

प्रज्ञात-दक्षि(णा>)ण^६ -णः
आश्रौ १२, १५, १०.

प्रज्ञात-वृष्ट^७ -ष्ठः लुसू २,
१० : १३.

प्रज्ञात-स्तोम^८ -मम् बौश्रौ
२६, १६ : १७.

प्रज्ञाता(त-अ)गिनष्ठा (छ-अ)
श्रि^९ -श्रिः आपश्रौ ७, ३, २.

प्रज्ञाता(त-अ)प्र, प्रा^{१०} -अम्
शाश्रौ १७, १, १३; -प्रा: द्राश्रौ
५, २, ३; लाश्रौ २, ६, १; निस्
१, ११ : ६.

प्रज्ञाते(त-इ)ष्टप्र(छि-अ)ति-
पत्ति- -तौ काश्रौ २५, ४, २१.

?प्रज्ञातो(त-उ)स्पर्श- -न्नः हिध
२, ५, ४९^{११}.

प्र-ज्ञाति- -त्यै हिश्रौ ६, १, ६.

प्र-ज्ञात्- -ता क्षुसू ३, १४ : १२;
या १०, २७.

प्र-ज्ञान- -नम् बौग १, ४, ३१;
भाग १, १७ : १२१; अप १,

४६, १; या ४, १०; १२, ७;
कौश्रि १०; -नानि या ८, २०;
९, १५; ३३××; -नाय अश्र ११,
३१.

प्रज्ञान-वत् या ५, १५.

प्रज्ञान-वत्- -वन्तः या ४, १०.

?प्रज्ञानाम्^{१२} अश्र १३, २१.

प्र-ज्ञायमान- -ने गोग ४, ४, २५.

प्र-ज्ञु- पा ५, ४, १२९.

प्र-ज्य^{१३} -ज्यम् बौश्रौ २४, १२ : १;
२५, ४ : १.

प्र-ज्योति^{१४} -तिषु बौश्रौ १८, ४० :
२०.

प्र \sqrt ज्वल्, प्रज्वलति अप २१, ७, ४;
प्रज्वलन्ति अप ७०^३, ८, ३; ७१,
१४, ५; १५, ३; ७२, ४, ४;

प्रज्वलेत् अप ७०^१, १९, ७.

प्रज्वलयन्ति आपश्रौ १०, २९,
८; भाश्रौ १०, २०, ५; वैश्रौ
१२, २१ : ३; हिश्रौ ७, ३, २०;

प्रज्वालयत् आग ४, ४ : १;
प्रज्वालयेत् काग ४५, ४; अप
१८, ३, ८; प्रज्वलयेयुः लाश्रौ ९,
७, १५.

प्र-ज्वलत्- -लन् अप २१, ७, २.

प्र-ज्वलन्ती- -न्ती अप ६९, १, ४.

प्र-ज्वलन- -ने अप ७१, २, १.

प्र-ज्वलयत्- -यन्तः माग २, १,
२^{१६}.

प्र-ज्वलयित्वा हिश्रौ ९, ४, २७;
आश्रिण्ट १, ६, ३ : ५०××; हिग.

प्र-ज्वलित- -तः भाग २, ५ : ४;
-तम् आश्रिण्ट ३, ६, १ : ३; बौपि
१, ८ : ३; जैग १, २० : ७; -ते
आपश्रौ १५, ८, १११; बौश्रौ ९,
७ : २४; भाश्रौ; -तैः अप ४,

५, ६.

प्रज्वलिता(त-अ)ग्नि^{१७} - -स्यः या
७, २४.

प्र-ज्वल्य आश्रौ २, २, १^{१८}; ५, १.

प्र-ज्वालय बौश्रौ २७, ७ : ३; माश्रौ.

प्र-ज्वालयमान-> °न-वपुस्-

-पुः अप २४, ६, ४.

?प्रञ्चि सुध ८.

†प्र \sqrt ण (<न)श्, प्र^{१९} नक्षन्त
आश्रौ ८, ११, १; प्र(नक्षन्त)
शाश्रौ १०, १०, ४; ऋश्र २, ७,
४२.

प्र \sqrt ण (<न)म्, प्रणमामि सु १, २;
प्रणमेत् वैश्रौ १, १ : ११; वैग ३,
१३ : ११××.

प्रणामयेत् आश्रौ ५, ६, १; ११.

प्र-णत्- -तः आश्रिण्ट २, ६, १ : ४;

वाध ३, ३०; शंघ ३७; ९५;

१०३; बौध १, ५, १५; -ताय
अप १९^२, ५, ८.

प्र-णति- -तौ विध २३, ६१.

प्र-णम् वैश्रौ २, १० : १७; आश्रिण्ट.

प्र-णाम- -मः वैग ३, २२ : ६;

-मम् बौग ३, १२, १४; वैग;

प्रणाम-वत्- -वान् सु ३१, ६.

प्र-णय- प्रम्. प्र \sqrt णी द्र.

प्र-णव- प्रम्. प्र \sqrt णु द्र.

†?प्र-णवत्- -वन्तम् वैग ३, १७ :

१२; ४, १४ : ८.

प्र \sqrt ण (<न)श् (व्याप्तौ), †प्रणक्

आपश्रौ ६, १७, १२; हिश्रौ ६, ६,

१६; प्र^{२०} आनट या ११, २५^१.

प्र \sqrt ण (<न)श् (अदर्शने), प्रणश्यति

विध ५७, ७; प्रणश्यन्ति अप

६८, २, ५२; प्र^{२१} नश्यसि या

९, ३०^१; प्रणश्यतु अप ४०, ५;

a) बस. उप. = २दक्षिणा-। b) बस.। c) बस.>कस.। d) सपा. आपध २, १७, २१ शूद्रोत्पन्नः

इति पाभे.। e) वैप १ द्र.। f) बस. उप. = ज्या। g) °लन्तः इति पाठः? यनि. शोचः [L. Knauer].

४; प्रणश्येत् अप ३७, ४, १;
 प्र...नश्येत् वाधूश्रौ २, २० : १.
 प्रणाशयेत् बौश्रौ २८, ११ : १६;
 बौध १, १, १५.
 प्र-णाश- -शम् अप ८, १, ७; -शे
 बौश्रौ २८, ११ : ६.
 प्र-नष्ट, ष्टा- -ष्टम् गौध १०, ३५;
 -ष्टा वाध १, ३८.
 प्रनष्ट-स्वामिक- -कम् बौध १,
 १०, १६.
 प्रनष्टे(ष्ट-इ) न्दु-दिवाकर- -रौ
 अप ६४, ७, २.
 प्र√णि(<नि)जू, प्राणिजन् आपश्रौ
 ६, २०, २^३.
 प्र-णि(<नि) √घा> प्रणि-धि^३-
 -धिम् वैष्ट १, २० : ११; ४, १ :
 १७; -धी वैष्ट १, ११ : ७; १३;
 २० : १६.
 प्रणि-हित-> ण्ता (त-आ)स्मन्^०-
 -स्मा आपध १, ४, २९; हिध १,
 १, १४८.
 प्र-णि(<नि) √पत्> प्रणि-पत्य
 गौपि २, ६, १४; अप.
 प्र-णि(<नि) √हन्, प्रणिहन्त्ये शुप्र
 १, १२४; ४, १४०.
 प्र√णी (<नी), प्रणयते काठश्रौ
 २९; बौश्रौ १७, ३३ : ५; प्रणयति
 काश्रौ ५, ४, २; ६, २, ३; ८, ३,
 १९; १८, ३, १५; आपश्रौ;
 प्रणयतः आपश्रौ ८, ५, २२; ६,
 ७; बौश्रौ; प्र(नयन्ते) साञ्च १,
 ४७८^१; प्रणयन्ति आश्रौ ३, १२,
 २४; शाश्रौ ३, १४, ८; ५, १४, १;
 जैश्रौ; प्रणयामि बौश्रौ २४, २५;
 ९^१; भाश्रौ; शाण् १, ७, ९^१; प्र...

नयन्त ऋषा ८, ४^१; ऋप्रणयतु
 आपश्रौ १, १६, ८; भाश्रौ १, १८,
 ६; माश्रौ; ऋप्रणयन्तु आपश्रौ १२,
 २२, १^२; बौश्रौ ७, १३ : २०; २२;
 माश्रौ; ऋप्रणय आश्रौ १, १२,
 १२; काश्रौ २, २, ८^२; आपश्रौ;
 प्र...नय आपमं २, ११, २८^१; ऋ
 प्रणयत आश्रौ ४, ८, २३^१; ऋ
 ऋप्र(नयत) आश्रौ ३, ७, ५;
 शाश्रौ; प्रणयानि आपश्रौ १,
 १६, ८^१; प्रणयेत् आश्रौ २,
 २, ३; ६; ६, २४^४; आपश्रौ;
 प्रणयेयुः हिश्रौ १५, ६, ८; लुस्
 १, १० : १८.
 प्रणिनाय बौश्रौ ४, १ : २७^१; ऋ
 ऋप्रणेश्यामि^६ आश्रौ १, १२, १२;
 काश्रौ २, ३, २; आपश्रौ; प्रणेषि
 बौश्रौ ३, ३० : २०^१; प्रणीयात्
 वाधूश्रौ २, १० : १२.
 प्रणीयते आश्रौ १, १२, २६;
 शाश्रौ ३, १५, २१; वैश्रौ १०,
 ६ : ७; हिश्रौ ४, २, २२; या
 ७, १४.
 प्र(निनीषति) साञ्च १, ५८^१.
 प्र-णय^१- पाग ५, २, १३१; -यः
 या २, १४.
 प्रणयिन्- पा ५, २, १३१.
 प्र-णयत्- -यन् आपश्रौ ८, १, ६;
 ऋबौश्रौ २, १० : ८; २४, २५ :
 ९; भाश्रौ; -यन्तः साञ्च १,
 ७४^१; ऋप्र(णयन्तः) साञ्च १,
 ७४; उनिस् ४ : ११.
 प्र-णयन- -नम् काश्रौ ५, ४, ४;
 आपश्रौ ८, १, ८; ९, ७, २; सोस्
 ७, ३, १९; २३; -नात् आश्रौ

४, २, १२; आपश्रौ १५, १६, ७;
 बौश्रौ; -नाय वैताश्रौ १५, १४;
 -ने आश्रौ १, १२, २९.
 प्रणयनी- -नी वाश्रौ १, ६,
 २, ६.
 प्रणयन-वर्जम् आपश्रौ ९, १, १४;
 भाश्रौ ९, १, १४; हिश्रौ १५,
 १, १४.
 प्रणयन्ता(न-आ)दि- -दि काठश्रौ
 ६३.
 प्रणयनीय- -यः बौश्रौ ३, १ :
 १४; -यम् काश्रौ १, ३, २१;
 आपश्रौ.
 प्रणयनीया (य-आ)घान-
 -नम् काश्रौ ८, ६, २८.
 प्रणयनीयाघाना(न-आ)
 दि- -दि काश्रौ १९, २, ४.
 प्र-णयितुम् आपश्रौ १९, ४, १;
 हिश्रौ १३, ८, ३५.
 प्र-णयिस्त्वा जैष्ट १, ११ : २; २,
 १ : ११.
 प्र-णाट्य- पा ३, १, १२८; -ट्यः
 वाधूश्रौ ३, १८ : १६; ९२ : ७^१;
 -ट्यम् वाधूश्रौ ३, ९२ : ९;
 -ट्यान् वाधूश्रौ ३, ९२ : ४.
 ऋप्र-णी^३- -णीः आश्रौ १, ३, ६;
 शाश्रौ १, ४, २०; ७, ९, ३; -ण्यः
 ऋषा ५, ५४.
 प्र-णीत, ता^१- -तः भाश्रौ ४, ३, १;
 कौस् ८९, १५; अप्रायः -तम्
 माष्ट २, १३, ६^१; -तस्य बौश्रौ
 २, ७ : २०; वाश्रौ १, २,
 ३, २; -ता भाश्रौ १, ८, ६,
 २६; वैश्रौ ११, ८ : ४; -ताः
 आश्रौ १, १, ४; शाश्रौ १, ४, १;

a) पामे. वैप १, २१३५ ज द्र.। b) = प्रणीता-पात्र-। गस.। c) बस.। d) सपा. कौष्ट १,
 ३, २ दधामि इति पामे.। e) पामे. वैप २, ३३६. प्रणेश्यामः शांता ६, १२ टि. द्र.। f) उप. भावे कर्तरि च
 कृत.। g) प्रां इति पाठः इ यनि. शोधः। h) वैप १ द्र.। i) नाप. स्त्री. = अत्, [उपचारात्] पात्र-।
 वैप ४-प्र २७

१८, २४, २७; काश्रौ; -तानाम्
बौश्रौ २७, १ : १२^२; माश्रौ १,
२, ३, १३; वाश्रौ; -ताभिः
आपश्रौ १, २४, ३; बौश्रौ २६,
३२ : ९; भाश्रौ १, २५, २;
-ताभ्यः आपश्रौ १, २४, ५;
बौश्रौ; -ताम् बौश्रौ २४, ३७ :
४; वाण १, १२; वैण ४, १ : ५;
-तायाम् वैण १, १३ : १०;
२० : ४; ६; -तासु शाश्रौ ४,
७, १८; काश्रौ १, ७, १८;
आपश्रौ; -ते आश्रौ ३, १२,
२७; आपश्रौ.
प्रणीता-काल- ले शाश्रौ ४,
७, १.
प्रणीता-चरु- -रुः शाण ५, ८, ३.
प्रणीता(त-आ)दि- -दि काश्रौ
५, ४, १९; ८, २, १६; मीसू ९,
१, २३.
प्रणीता(ता-अ)दुहरण- -णम्
काश्रौ ५, ८, २३.
प्रणीता(ता-अ)प- -ताद्भ्यः
बौण १, ४, ३८.
प्रणीता-पत्नीसंनहना (न-अ)मि-
मन्थना(न-आ)श्रुत-प्रत्याश्रुत-
प्रेष-यजमानवाचन-होतृषदन-
वरण-प्राशिन्ना(त्र-अ)ङ्गुलिपर्वा-
ज्जना(ग-अ)वान्तरेडाभागा-
(ग-अ)परान्ग्य(मि-अ) वभृथ-
-थान् काश्रौ ५, ४, ३१.
प्रणीता-पात्र- -त्रम् वाश्रौ १,
२, ४, ४; बौण ४, १, ५.
प्रणीता-प्रणयन^१- -नम् शाश्रौ
४, १४, २४; काश्रौ २५, ७, २८;
आपश्रौ; -ने आमिण १, ६, १ :
२७.

प्रणीता-प्रोक्षण-वत् आमिण २,
३, ४ : ८.
प्रणीता(ता-अ)र्थ- -र्थे मीसू ९,
४, ३३.
प्रणीता-लोक- -केन बौश्रौ २४,
१५ : १०.
प्रणीता-वत् भाण १, ३ : ४; ३,
१६ : ४.
प्रणीतावद्-उपचार^२- -रम्
भाण ३, १६ : ४.
प्रणीता-वर्जम् वैश्रौ १६, २३ : ४.
प्रणीता-शेष- -षम् वाश्रौ १, १,
४, २१.
प्रणीतो(ता-उ)त्कर- -रौ काश्रौ
१, ३, ४२.
प्रणीतो(ता-उ)दकुम्भ- -म्भम्
वाण १४, ६.
प्रणीति- -नीः कौसू ५६, १६;
-तौ वाश्रौ ३, २, ४, १०^३.
?प्रणीनात् बौश्रौ २३, २ : १८.
प्रणीय आश्रौ १, १, २××; शाश्रौ.
प्रणीय- पा ३, १, १२३.
प्रणीयमान, ना- -नम् द्राश्रौ १४, ४,
१२; लाश्रौ ४, ९, १७; ५, ८, १२;
-नयोः वैताश्रौ ८, १७; -नस्य
माश्रौ १, ५, ४, ८; ६, २, ५, ७;
-नाः आपश्रौ ४, ४, ४; भाश्रौ
४, ५, ५; वाश्रौ; -नानाम् आपश्रौ
१४, ८, ६; बौश्रौ २७, १ : १२;
शाश्रौ ९, २४, ९^४; -ः नानाम्याम्
शाश्रौ ५, १४, ७; आपश्रौ ११,
१७, २^३; बौश्रौ; -ः नानाय काश्रौ
८, ७, ४; आपश्रौ ७, ६, ४^२;
बौश्रौ; -नासु आपश्रौ १, १६,
७; ४, २, ७; बौश्रौ; -ने शाश्रौ

४, ६, १३; ८, १५, १०;
काश्रौ; -ः नानाम्याः आपश्रौ १६,
२१, ३^{२०}; बौश्रौ १०, २७ : ११;
माश्रौ ६, १, ६, १४^०; वाश्रौ २,
१, ६, ५^०; वैश्रौ १८, १६ : २८^०;
हिश्रौ ११, ७, ४^{२०}; -नौ माश्रौ
५, २, १६, ८; द्राश्रौ.
प्रणेत्(व्य>)व्या- -व्या याप, २३.
प्रणेत्- -ः नानाम्याः आपश्रौ ३, ७, ११;
आपश्रौ १, १४, ३; शुप्रा २, १६८;
-तारः शंघ ३; -ः नानाम्याः वैताश्रौ
४२, ८; अत्र २०, ४६; -तारौ
या ६, १३; -तृभिः बौश्रौ १८,
४० : २२; -तृन् बौश्रौ १८,
४० : १७.
प्रणेष्यत्- -ष्यत्सु आश्रौ ४, १०,
१; बौश्रौ २०, १ : ४१; द्राश्रौ
१५, १, १; लाश्रौ ५, ९, १;
-ष्यन् बौश्रौ ११, २ : ११;
१२××; माश्रौ; -ष्यन्तम् वाश्रौ
१, १, ५, १०; -ष्यन्तौ हिश्रौ ५,
२, १०.
प्र०णी(<नी)क्ष्(व्यधने)>प्रणीक्ष्य
आपश्रौ ७, २२, ९; ९, १९, ४.
प्र०णु,णु (<नु,णु), ऋप्र(नवन्त)
ऋअ २, १०, १७६; वृदे ८, ७४.
प्रणौति शाश्रौ ७, १०, ७; २५,
६××; आपश्रौ; प्रणुवन्ति आश्रौ
६, ४, ३; ४; प्रणुयात् आश्रौ २,
१४, २९; ६, ३, ६××; शाश्रौ
६, ३, १०; १८, १४, ५; प्रणौयात्
बौश्रौ १४, १० : २३.
ऋप्रणोनुमः आश्रौ ७, ८, १; शाश्रौ
१२, ११, २०; ऋप्रा ५, ५७.
प्रणोनुवुः ऋप्रा ५, ५७.
प्रणव^५- -वः आश्रौ २, १५, १४.

a) = चमस-विशेष- । उस. । b) विप. । बस. । c) सप्र. णाम्यः <> णेभ्यः इति पाठे. ।

d) वैप १ द. ।

५, ९, १०××; शांश्रौ; शुभ्रा ३,
५१; पा ८, २, ८९; -वम् आपश्रौ
२४, १३, १२; बौश्रौ; शंघ ११६:
५६^a; -वयो: लाश्रौ १, ३, ६^b;
-वस्य शैशि ३५९; ३५१; -वात्
आश्रौ १, १२, १५; शांश्रौ; -वे
आश्रौ ५, ९, ६; ७, ११, ३२;
शांश्रौ; -वेऽ-वे आश्रौ ५, ९, ७;
आपश्रौ २, १२, ४; बौश्रौ; -वेन
आश्रौ १, २, १३; २७××;
शांश्रौ; -वेषु आश्रौ ४, ६, ३^c;
८, ३, २१; शांश्रौ ५, ९, १६^c;
-वै: आपश्रौ १५, ८, १०; भाश्रौ
११, ८, १४.
प्रणव-नामन्-मानि द्राश्रौ १,
३, २९.
प्रणवा(व-आख्या>)ख्य^e-
-ख्यस्य शुभ्र ४, १२६.
प्रणवा(व-आ)ख्या-ख्या शंघ
१०७.
प्रणवा(व-आ)त्मक^e-कः बौघ
२, १०, ६९.
प्रणवा(व-आ)दि-दि आश्रौ १,
१२, १४; जैश्रौका ११५; वैगृ
१, ७: ९; कप्र २, ९, २४;
-दिमि: d वैघ २, ८, ४.
प्रणवादि-(क>)का-का:
बौश्रौ २८, ११: ९.
प्रणवा(व-आ)घ^e-घम् वैघ
२, ११, ७; -घा: अप ४२, १, ९;
वाघ २५, १०; कौशि ७२.
प्रणवा(व-अ)न्त-न्तम् काश्रौ
१९, ७, ७; -न्तयो: द्राश्रौ १,

३, ६^b.
२प्रणवा(व-अ)न्त,न्ता^e-न्त:
आश्रौ ५, ९, ९; १०; ७, ११,
३२; -न्तया वैश्रौ २, ९: १३;
वैताश्रौ ३०, २७; -न्तेन वैश्रौ
९, ११: १४.
प्रणवा(व-अ)न्वि(त>)ता-
-ता बौघ ४, ६, १.
प्रणवा(व-अ)वसान-नयो:
काश्रौ ९, १३, २९.
प्रणवो(व-उ)च्चारण-णेन
आमिगृ २, ४, १२: ९.
प्रणवो(व-उ)परि कौशि ७२.
प्रणवन-> णीय-य: शांश्रौ
७, २६, १०.
प्रणुत-तेषु माश्रौ २, ४, २, २५^f.
प्रणुत्य आश्रौ ४, ६, २××; शांश्रौ.
प्र√णु(<तु)द्, णप्रणुनोत्तु^g बौश्रौ
२, ९: ३; माश्रौ; हिश्रौ २, ७,
१७^h; जैगृ २, २: ४.
प्रणुदते बौश्रौ २५, ६: ४;
वाधूश्रौ ४, ६३: १२; प्रणुदति
कौसू ४८, ५; णप्रणुदति शांश्रौ
४, ४, २^e; आपश्रौ; णप्रणुदात्
आश्रौ २, ६, २^e; माश्रौ; वाश्रौ
१, ३, ७, २०^g; णप्रणुदत्^g
बौगृ ३, ५, १२-१४; प्रणुदस्व
आपश्रौ १, ८, ७^f; प्र...
नुदस्व कौसू ४८, ५^f; णप्रणु-
(द>)दा आपश्रौ १७, ३, २;
बौश्रौ १०, ४५: १; माश्रौ;
प्र...नुदावहै भागृ १, ७: १४^f;
प्राणुदत् अश्र २, ३४; ४, २२;

णप्राणुदन्त आपश्रौ २१, ११, ५;
६; वाधूश्रौ.
प्रणुदत्-दन् वृदे २, ६३.
प्रणुदान-न: शुभ्रा ३, ८८.
प्रणुघ सु १२, १.
प्रणोद-द: बौश्रौ १८, ४६: १.
प्रणोदम् भागृ २, १७, १^h.
प्रणेत-प्रम्. प्र√णी द.
प्रणय(णि<नि|√अ)स् (क्षिण्ये) >
प्रणय(णि-अस्त>)स्ता-स्ता
तैप्र २, २०.
प्रणयस्त-गीति^e-ति छुसू ३,
३: १२; -तीनि निस् २, ३:
१४.
प्र-त^h-> प्रत-त(त>)वी-ती
निस् २, ९: २१.
प्र-त-प्र√तन् द.
णप्र-तक्चन्^h-क्वा शांश्रौ ६, १२, ८;
आपश्रौ ११, १४, १०; बौश्रौ.
प्र√तक्ष्, प्र...तक्षण्यु: बौश्रौ १४,
२८: ५; ६.
प्रतत्-> णप्रतद्वचसु^h-सू अप
४८, ११५; निघ ४, ३; या ६,
२१^h.
प्र-ततामह^h-णं^h वैताश्रौ २२,
२२; कौसू ८८, ११; अप ४४,
४, ५; अश्र १८, ४; -हस्य कौसू
८८, ८; -०हा: णकौसू ८८,
२४; २५.
प्र√तन्, प्रतनुते बौश्रौ २, ७: ६^f;
प्रतनोति आपश्रौ २१, १७, ११;
कौसू २०, १; णप्रतनोषि बौश्रौ
१०, ३२: ५; वैश्रौ १८, १७:

a) = भृगु-भेद-। सप्र. अप २१९, २५ प्रसवम् इति। b) सपा. वयो: <> वान्तयो: इति पामे.।
c) विप.। वस.। d) 'वाद्यादि' इति पाठः? यनि. शोघ: [तु. C., संस्कृत: टि. च]। e) पामे. वैप १,
२१३८ C द्र.। f) 'क्तु इति पाठः? यनि. शोघ: [तु. बौश्रौ. प्रम्.]। g) परस्परं पामे.। h) प्रमो^g इति
पाठः? यनि. शोघ: (तु. सपा. ऋ १०, १६५, ५; BC., Knauer)। i) प्र त्व्यसीम् (ऋ १, १४३, १)
इत्यस्याधावयवानुकरणम्। j) वैप १ द्र.।

३३; बौध ३, ९, ११.
 प्रतायते आपश्रौ २०, ९, १२;
 १३, १४; बौश्रौ.
 २प्र-त^१ - -तानि कौशि ३०.
 प्र-तत - -तः हिघ १, १, १२३; २,
 २, २२; -तम् बौश्रौ ९, ६: १५;
 -ते आपश्रौ ९, ४, ४; बौश्रौ
 २३, १: १५; भाश्रौ.
 प्र-तत्य पावा ६, ४, ३७.
 प्र-तन्वान- -नस्य जुसू १, ४: ३०.
 प्र√तप्, प्रतपति काश्रौ ६, ६, १२;
 माश्रौ १, २, ५, २; वैश्रौ; प्रत-
 पतः वाधूश्रौ ४, २८^१: २; प्रत-
 पेत् वैताश्रौ १२, ३.
 प्रतप्येरन् आमिष्ट २, ५, ९:
 १३; जैष्ट २, ६: ११.
 प्रतापयेत् विघ ७१, ३७.
 प्र-तप- > ^१पो(प-उ)ल्लेखन-
 -नम् काघ २७८: ३.
 प्र-तपन- पाग ३, ४, ७४; -नम्
 काश्रौ २, ३, ११.
 प्रतपने (> ^१ने√कृ पा.) पाग
 १, ४, ७४.
 प्र-तप्त- > ^१प्त-कनक-प्र(भा >)
 भ- -मा: अप ५२, ६, २.
 प्र-तप्य काश्रौ २, ६, ३९; माश्रौ;
 प्रतप्यऽप्रतप्य काश्रौ २, ६, ४०.
 प्र-ताप- > ^१प-वत्- -वान् अप
 ५२, १०, १.
 प्र-तापन- -नम् कप्र १, ८, १४.
 प्र-ताप्य आपश्रौ ६, ८, ४; माश्रौ.
 प्र-तम्^१ - -मः या २, २२.
 १प्र-तर^१ - > ^१प्रतरम्^१ आश्रौ ७,

९, ३; वाश्रौ ९, ३, ४; १२, १२,
 ५; आपश्रौ; माश्रौ १, ५, २,
 ११^१; वाश्रौ १, ४, २, १^१;
 आग् २, ९, २^१; माग् २, ७,
 ५^१; प्र(तरम्) वृदे ७, ४०.
^१प्रतराम् आश्रौ १, ४, ८; आपश्रौ
 ५, ९, १०^१; बौश्रौ; हिश्रौ ३, ३,
 ३०^१; आपमं २, ११, २८^१;
 आमिष्ट ३^१, ७, १: २०; २१.
 २प्रतर^१ - (> प्रातरीय- पा.) पाग ४,
 २, ८०.
 प्र-तर्दन- प्र√तृद् द्र.
^१प्र-तवस्^१ - -वसः आश्रौ ५, २०, ६;
 -वसे वैताश्रौ ३१, १९.
 प्र-तान^१ - पाग २, ४, ६९.
 प्रताम् पाग १, १, ३७.
 प्रति^१ आश्रौ २, ३, १४; ८, ३^१××;
 शाश्रौ; बौश्रौ ८, १९: १९^१;
 दाश्रौ १२, २, २३^१; ६५, २,
 २०^१; लाश्रौ ४, १०, २६^१;
 ५, १०, २०^१ विघ ६०, २२^१;
 या १, ३; २, ६××; ऋप्रा १२,
 २०^१; १५, १७^१; शुप्रा ६, १०^१;
 २४^१; तैप्रा १, १७^१; पा १, ४,
 ३७; ९०××; पाग १, ४, ५८^१;
 प्रतिऽप्रति या १३, १०.
 प्रति- -ति: पा १, ४, ९२; -तिना
 पा २, १, ९; -ते: पा ५, ४, ८२;
 ६, १, २५; १४१; २, १९३.
 १प्रतिक^१ - पावा ५, १, २५.
 २प्रतिक- (> प्रातिक्य- पा.) पाग ५,
 १, १२८.
 प्रति-कण्ठ^१ - -ण्ठम् ऋप्रा १, ५४^१.

प्रतिकण्ठक- पा ४, ४, ४०.
 प्रति√कम्, प्रतिकामयते या ११,
 १५.
 प्रति-कामिन्- -मिनम् शाश्रौ ७,
 ६, ९.
 प्रति-कर्मन्^१ - -र्म काश्रौ १, ३, २७;
 भीसू ३, ५, १६; १८; ११, १, २.
 प्रतिकर्म-इक्षिन्- -क्षिन्: शुअ २, ९.
 प्रतिकर्म-विभाग- -गेन शुअ १,
 १३.
 प्रतिकर्म-लोम^१ - -मा: काश्रौ २२,
 ७, २१.
 प्रति-कर्ष- प्रति√कृप् द्र.
 प्रति-कारुड^१ - -ण्डम् बौध १, २, ३.
 प्रति-काम^१ - -मम् आश्रौ ९, १०, ७;
 काश्रौ ४, ५, १५; द्राष्ट १, २, २३.
 प्रति-कार- प्रति√कृ द्र.
 प्रति-कारक^१ - -कम् पावा १, ४, २३.
 प्रति√काश् > प्र(ति >) ^१की-काश-
 -शः वैताश्रौ ११, १३^१; कौसू
 ८२, ११.
 प्रति√कीर्ति (< कीर्ति-), प्रतिकी-
 र्यन्ते वृदे ७, १३९.
 प्रति-कुम्भ^१ - -भम् कप्र ३, ९, १५.
 प्रति-कूल^१ - पाग ५, १, २४^१; -लम्
 वाधूश्रौ ३, ५५: १; ४, ८५: १५;
 शंघ ७९.
 प्रातिकूलिक- पा ४, ४, २८.
 प्रातिकूल्य- पा ५, १, १२४.
 प्रातिकूल-वृत्ति^१ - -त्ति: शंघ ४१४.
 प्रति√कृ, प्रतिकरोति भाश्रौ ८, ६,
 २; प्रतिकुर्वन्ति वाधूश्रौ ४, १०:
 ६; प्रतिकुर्यात् शंघ २७०;

a) कर्त्तरि ङः प्र. उसं. (पा ३, २, १०१)। b) =मुख्य-। अतिशयने तमप् प्र.। c) वैप १ द्र.।
 d) पाभे. वैप १, २१३९ l द्र.। e) पाभे. वैप १, २१३९ j द्र.। f) पाभे. वैप १, २१३९ o द्र.। g) प्रातर-
 इति [पक्षे] भाण्डा.। h) व्यप.। व्यु. ?। i) पाभे. वैप १, २१४१ l द्र.। j) आभिमुख्ये कप्र.।
 k) तु. मनुः [४, ४८]। l) अत्र्य.। m) =कार्षापशिक्र.। n) अस.। o) =निपातन-। p) विप.। बस.।
 q) विप.। प्रास.। r) तु. पागम.।

प्रतिकुर्वीरन् बौश्रौ २३, ११ : ४;
 प्रतिकुर्युः गौध १२, ३७.
 प्रतिकार्षीः जैगृ १, २ : २१†.
 प्रति-कार- -रम् शंघ १४५.
 प्रतिकारौ(र-औ)षध- -धात् शंघ
 ३३५.
 प्रति-क्रिया- -याः आज्यो ५, ७.
 ?प्रतिकृतः वाश्रौ ३, २, ३, ३६.
 प्रति-कृति^a- -तिम् आपश्रौ १, २५,
 ४; भाश्रौ १, २६, २; वैश्रौ ४,
 १० : ७; हिश्रौ; -तौ पा ५, ३,
 ९६.
 प्रति-कृत्तिका- पा ६, २, १९३.
 प्रति ✓ कृष्, प्रतिकृष्येत मीसू ५, १,
 २७.
 प्रति-कर्ष- -र्वः मीसू १०, ५, ६२;
 ६५; ६८; ११, २, ५५; -र्वम्
 मीसू १०, ५, ६९.
 प्रति-कृष्ट- > ष्ट-तर, रा- -रम्
 वैश्रौ १४, १० : ५; हिश्रौ ७, ७,
 २; ३३; -राम् आपश्रौ २, १०,
 २३; भाश्रौ.
 प्रति-कृष्य बौश्रौ ६, ५ : १३××;
 वैश्रौ.
 प्रति-कृष्णाजिन^b- -नम् काश्रौ २,
 ५, २.
 प्रति ✓ क्लृप्, प्रतिकल्पयेत् निस्
 ५, ९ : ११; २०.
 प्रत्यकल्पयिष्यत् निस् १०, ७ :
 १५.
 †प्रतिचाक्लृपत्^c आश्रौ ८, ९,
 ७; शाश्रौ १०, ११, ९.
 प्रति-क्लृप्त- -तम् आपश्रौ ९, १४,
 ६; हिश्रौ १५, ४, १३.
 प्रति ✓ क्रम्, प्रतिक्रामति निस् १,

१ : ५; १०; १५.
 प्रति-क्रान्त- -न्तम् वाधूश्रौ ३,
 ३९ : २३.
 प्रति-क्रामत्- -मस्सु वाधूश्रौ ४,
 १०८ : ३.
 प्रति-क्रामस् आपश्रौ २, १७, ५.
 प्रति-क्रिया- प्रति ✓ कृ द्र.
 प्रति-क्षत्र^d- -त्रः ऋअ २, ५, ४६;
 शुअ ३, २०८.
 प्रति ✓ क्षिप् पा १, ३, ८०.
 प्रति-खेटक- पा ६, २, १९३.
 प्रति ✓ ख्या > प्रति-ख्यात्, ता- -तः
 बौश्रौ २५, ६ : १६; अप्राय ३,
 ३†; -ताः बौश्रौ २५, ६ : १२.
 प्रति-ख्याय बौश्रौ १४, २३ : ७;
 १८, ४८ : १२.
 प्रति ✓ गच्छ, गम्, प्रतिगच्छन्ति
 वैश्रौ १४, १६ : १; हिश्रौ ७,
 ८, २९.
 प्रतिजगाम वृदे ७, ३.
 प्रति-गर्- प्रम्. प्रति ✓ गृ (शब्दे) द्र.
 प्रति ✓ गर्ज्, प्रतिगर्जति अप ६१,
 १, २१; प्रतिगर्जेत् अप १,
 ३६, १.
 प्रति-गर्जन- -नम् अप ६१, १, १९;
 -ने अप ६१, १, २४.
 प्रति ✓ गा, प्रतिगाम् आपश्रौ २, १,
 १†.
 प्रति-गार्य प्रति ✓ गृ (शब्दे) द्र.
 प्रति ✓ गृ (अवबोधने) > जागृ,
 †प्रतिजागृहि आपश्रौ ६, १, ३;
 भाश्रौ ६, ७, ४.
 प्रति ✓ गृ, गृ (शब्दे), प्रतिगृणाति आश्रौ
 ८, १३, ८××; शाश्रौ; प्रतिगृणन्ति
 काश्रौ २२, १०, ६; आपश्रौ २२,

१०, १५; हिश्रौ १७, ४, ३३;
 प्रति...गृणीहि या ४, १६†;
 प्रतिगृणीयात् बौश्रौ २१, २३ :
 ४; २२; भाश्रौ ६, ११, ३.
 प्रति-गर्^e- -रः आश्रौ ५, ९, ४;
 १०××; शाश्रौ; -रम् शाश्रौ १२,
 २३, ३; बौश्रौ; -रस्य शाश्रौ १०,
 ५, १४; -राः आश्रौ ८, ३, १९;
 २१; २३; वैताश्रौ ३२, २४;
 -राय माश्रौ २, ४, २, २३; ४०;
 ६, १३; -रे बौश्रौ १४, १० : ७;
 १३; वाधूश्रौ; -रेण वाधूश्रौ ४,
 ८९ : २७; -रौ आश्रौ ५, २०,
 ६; ८, ३, २४; २५; वैताश्रौ ३२,
 २७; २९.
 प्रति-गरितृ- -रित्ते आश्रौ ९, ३, १५;
 शाश्रौ १५, २७, १.
 प्रति-गरिष्यत्- -व्यति काश्रौ १९,
 ६, २६; -व्यन् काश्रौ १९, ५,
 ७; आपश्रौ.
 प्रति-गार्य आपश्रौ १२, २७, १८××;
 बौश्रौ.
 प्रति-गृणत्- -णते बौध २, १०, ६६.
 प्रति ✓ गृभ्, ह, ग्रम्, ह, प्रति-
 ग्रहेत् आश्रिगृ ३, १२, १ : १६.
 प्रतिगृष्णामि आश्रौ ६, १२,
 २†; प्रतिगृष्णीहि. शाश्रौ १२,
 १९, २†; प्रति...गृभाय कौस्
 ६०, २८; †प्रतिगृष्णीत माश्रौ
 ६, १, १, ४०^f; ४, ३३†; वाश्रौ
 २, १, १, ३०^g; हिश्रौ ११, ५,
 ८^h; प्रत्यगृभ्णन् शाश्रौ १२, १९,
 १†; †प्रति...अग्रभीत् आश्रौ
 ५, ७, ५; शाश्रौ ७, ६, ६; प्रति...
 अग्रभीष्टाम् या ६, १६†;

a) नाप. । प्रास. । b) अस्. । c) पाभे. वैप १, २१४३ h द्र. । d) व्यप. । e) वैप १ द्र. ।
 f) पाभे. वैप १, २१४४ & द्र. । g) पाभे. वैप १, २१४४ f द्र. । h) पाभे. वैप १, २१४४ g द्र. ।
 i) पाभे. वैप १, २१४४ i द्र. ।

प्रति...अगृभीषत शुभ्रा ६, ७[†];
 प्रतिगृह्णीते बौगृ १, १०, ९;
 प्रतिगृह्णाति शांश्रौ ४, २१, ७;
 ७, १८, १; १६, १८, ९; काश्रौ;
 प्रतिगृह्णीतः काश्रौ १०, २, २७;
 प्रतिगृह्णन्ति ऋष्यश्रौ ७, १२,
 १०; १५, ४; बौश्रौ ४, ६:
 २३[†]; वैश्रौ १०, १० : १[†];
 कौगृ; प्रतिगृह्णामि ऋष्यश्रौ १,
 १३, १; ३, १, १७; ५, १३,
 १५[†]; शांश्रौ; हिश्रौ १०, ६,
 ९[†]; मागृ १, ८, ६[†]; हिगृ १,
 १३, १९[†]; कौसू ५६, ३[†];
 प्रतिगृह्णातु आश्रौ ५, १३,
 १५; ऋष्यश्रौ १, २०, ११[†];
 बौश्रौ १, ६:२६[†]×; ऋष्यश्रौ
 १, २२, ७[†]; २३, ८[†]; हिश्रौ १०,
 ६, ९; वेताश्रौ ४, ३[†]; पागृ;
 प्रतिगृह्णन्तु माश्रौ १, ८, ३,
 ३[†]; भागृ २, १५ : १०[†];
 वैगृ; प्रतिगृहाण वृदे ५, ७९;
 ऋष्यश्रौ...गृहाण[†] आपमं १, १२,
 ७; आमिगृ १, ५, ५ : १४;
 हिगृ १, २५, १; अषाय २, ५;
 अप ३७, ५, ८; प्रतिगृह्णीत आपश्रौ
 १६, ३, १४; १२, ११[†]; बौश्रौ;
 प्रतिगृह्णानि वागृ १०, १६[†];
 ऋष्यश्रौ...गृह्णाम आपश्रौ १४, १२,
 ६; हिश्रौ १०, ६, ६; ऋष्यश्रौ...
 आपश्रौ १४, १२, ६; हिश्रौ १०,
 ६, ६; प्रतिगृह्णीयात् आपश्रौ १४,
 ११, १; ४; १२, २; बौश्रौ; प्रति...

गृह्णीयात् आपश्रौ १३, ७, १२;
 प्रतिगृह्णीयुः आमिगृ २, ३, ३ :
 २१; वैगृ ५, ६ : १९; प्रति...
 गृह्णीयुः आपश्रौ १३, ७, १५.
 प्रतिजग्राह वृदे ६, २३; प्रति-
 जगृहुः वाघ ५, ८.
 प्रतिगृह्णते बौघ २, ८, १७.
 प्रतिग्राहयति वैताश्रौ ३४, १४;
 बौगृ २, ११, २१.
 प्रति-गृहीत, ता- -तः वाघ १५, ९;
 -तम् बौश्रौ १६, २७ : ८; २१,
 १० : १६; बौघ १, ११, २९;
 -ता पागृ ३, १५, २१; -तायाम्
 वैश्रौ ७, ३ : ९; -त्ते आपश्रौ
 ३, ४, ४.
 प्रति-गृह्णत्- -हृतः बौघ २, २,
 ८०; -ऋष्यश्रौ ७, १८,
 १-५; कौगृ १, ८, १३.
 प्रति-गृह्णान- -नः अप ४१, ३, ११;
 वाघ ६, ३२.
 प्रति-गृह्ण आश्रौ १, ७, ३; १३, १××;
 शांश्रौ.
 प्रति-गृह्ण- पा, पावा ३, १, ११८;
 -ह्यम् आपश्रौ १३, ७, १४;
 बौगृ १, ७, २२; -ह्याणि आपघ
 १, १८, १; हिघ १, ५, ७१.
 प्रति-ग्रह[†]- -हः आश्रौ ५, ५, ११;
 आमिगृ २, ६, २ : ६; वाघ; बौघ
 २, ५, ३[†]; -हम् बौश्रौ १८,
 २४ : २; लाश्रौ १०, १७, १७;
 आमिगृ; -हे बौश्रौ २१, १० :
 १३; कौगृ ३, ९, १२; शांश्रौ;

-हेण विघ ५७, ७.
 प्रतिग्रह-प्रसङ्ग- -ङ्गम् विघ ५७,
 ६.
 प्रतिग्रह-मार्जन-वासःपरिधान-
 वर्जम् आमिगृ १, ६, ३ : ५९.
 प्रतिग्रह-विधि- -धिम् विघ
 ५७, ८.
 प्रतिग्रह-समर्थ- -र्थः विघ ५७,
 ९.
 प्रतिग्रह(ह-इ)ष्टका[†]- -काः बौश्रौ
 २९, ७ : ५४.
 १प्रति-ग्रहण- -णम् काठश्रौ १२२;
 हिश्रौ १०, ६, ७; बौगृ; -णाः
 आपश्रौ १४, १२, ५[†].
 प्रति-ग्रहीतृ- -ता आश्रौ ५, १३,
 १५; शांश्रौ ४, ७, १५; आपश्रौ
 १४, ११, २; हिश्रौ; -तारम्
 आपश्रौ १६, ३५, १; बौश्रौ ६,
 ८ : ९; वैश्रौ १९, १ : ९; हिश्रौ
 ११, ८, २१; -त्रे आपश्रौ १४,
 ११ : २; हिश्रौ १०, ६, ९;
 कौसू ६८, २३.
 प्रति-ग्रहीष्यत्- -ष्यन् आपश्रौ १४,
 ११, १; माश्रौ ५, २, १, २१;
 हिश्रौ १०, ६, १; द्रागृ ४, ४,
 ५[†]; वाघ १५, ६[†].
 प्रति-ग्रहीष्यमाण- -णः बौघ ४,
 २, ४.
 प्रति-ग्राहक- -कान् निस् ८, ६ :
 ५९.
 प्रति-ग्राहयिष्यत्- -ष्यन् आगृ ४,
 ७, १४.

a) पासे. वैप १, २१४४ n द्र. । b) पासे. वैप १, १२३७ o द्र. । c) प्रती[†] इति पाठः? यनि. शोधः (तु. Knauer) । d) पासे. पृ १००० i द्र. । e) सप्र. कौसू ५६, २; ५७, ४ प्रयच्छामि इति पासे. । f) पासे. वैप १, ९२५ r द्र. । g) पासे. वैप १, १४५३ j द्र. । h) पासे. पृ १९९ q द्र. । i) पासे. वैप १, २१४४ g द्र. । j) पासे. वैप १, २१४५ m द्र. । k) उप. भावाद्यर्थे अर् प्र. (पा ३, ३, ५८) । l) पासे. वैप १, २१४५ k द्र. । m) = इष्टका-विशेष- । मलो. कस. । पूष. ? । n) = मन्त्र- । उप. करणे कृत. । o) ण्यु[†] इति पाठः ? यनि. शोधः ।

प्रति-ग्राहिन- ही बौश्रौ १३, ३३ :
३; हिश्रौ २२, ५, १२.
प्रति-ग्राह्य बौध २, ८, ७.
प्रति-ग्राह्य- ह्यम् वैश्रौ १६, ८ : ३;
बाध ५, ९; -ह्यस्य बौध २, ३, ८.
प्रति-जिघृक्षत्- -क्षन् गौध २४, २.
प्रति√गृह् प्रति√गृम् द्र.
प्रति-गृह^१- ह्यम् काश्रौ १५, ३, २.
प्रति-गृहीत- प्रभृ. प्रति√गृम् द्र.
प्रति√गृ प्रति√गृ (शब्दे) द्र.
प्रति√गृ (निगरणे), प्रतिजार्मि या
१०, ३३.
प्रतिजागर या १०, ३३ कृ^१.
प्रति√गै, प्रतिजगुः बुदे ८, ३८.
प्रति√ग्रभ्, ह्य, प्रति-ग्रह- , १प्रति-
ग्रहण- प्रति√गृम् द्र.
२प्रति-ग्रहण^१- -ण्यश् हिश्रौ ८, ७, ४०.
प्रति-ग्रहीत- प्रभृ. प्रति√गृम् द्र.
प्रतिग्रामन्ति आश्रौ ८, १३, ३१.
प्रति-ग्राहक- प्रभृ. प्रति√गृम् द्र.
प्रति-घ- प्रति√हृन् द्र.
प्रति√घस्, प्रतिजक्षुः बौश्रौ १८,
२९ : १९.
प्रति-घात- प्रति√हृन् द्र.
प्रति√घृष् > प्रति-घोषि(न् >)णी-
-ण्यः शांश्रौ ४, १९, ८.
प्रति√घृष् > प्रति-घृष्ट- > ष्ट-
दर्श(न् >)ना^१- -०ने सु ६, २.
प्रति-घ्नान- प्रति√हृन् द्र.
प्रति√चक्ष्, प्रति... चष्टे भाश्रौ १०,
२, २; ऋप्रतिचक्ष्व आश्रौ ३, ५,
७; कौश्रौ ३, ७, १०; शांश्रौ ४,
५, ८; अप ४६, ६, ३; अत्र ८, ४.
प्रति-चमस^१- -सम् माश्रौ २, ५, १,
३५.

प्रति-चमस-गणो(ण-उ)न्नयन^१-
-न्म् वैश्रौ १७, ४ : ५.
प्रति√चर, प्रतिचरति बौश्रौ १७,
१५ : १२; १६ : २, ५; ८; प्रति...
चरन्ति माश्रौ ५, १, ६, ३१.
प्रति-चार- -रः वाश्रौ ३, २, २, ३०.
प्रति-चिति^१- -ति काश्रौ १२, २, १;
१६, ७, २१.
प्रति√चेष्ट् > प्रति-चेष्टित- -तानि
अप ५३, १, १.
प्रति-चोदन- -न्म् आश्रौ १, ३, १७.
प्रति√च्छद्, छद्, प्रतिछादयति
कौसू ७९, २४.
प्रति-च्छन्न, ज्ञा- -न्नम् आपध २,
१८, १५; हिध २, ५, ६८; -न्नानि
आपध ३, १४; -न्नम् आपध
२, ६.
प्रति-च्छाय बौश्रौ ४, २ : २७ x x;
आश्रिय.
प्रति-च्छन्दस्^१- -न्दः उनिसू ३ : ७.
प्रति-च्छन्दस्^१- -सम् उनिसू १ : ४.
प्रति-च्छा, छाया^१, या- -याम् आश्रिय
२, ४, ६ : ३३; -ये अप ७२,
३, ८.
प्रति√च्छिद् > प्रतिच्छिद्य शांश्रौ
१, ६, ६; काठश्रौ १०.
प्रति-च्छिन्न- > ञ्ना(ञ-अ)प्र^१-
-प्रम् बौश्रौ ३, २८ : ३ जैश्रौ २ :
४; ८ : १३.
प्रति√जन्, प्रतिजायते शैशि ३०९.
प्रति-जनिष्यमाण- -णान् बौश्रौ
१७, २८ : १७; हिश्रौ १२, ८, ७;
आपध १२, ६१; हिद्य ४, २८ क.
१प्रति-जन^१- (> प्रातिजनीन- पा.)
पाग ४, ४, ९९.

२प्रति-जन^१- पा ६, २, १९३.
प्रति√जप्, प्रतिजपति हिश्रौ १५, ५,
२७; गोश्रौ १, ३, १९; कौसू ४२,
२२; ७७, १०; प्रतिजपेत् अप
१८, ३, २.
प्रतिजाप्सीः जैश्रौ १, २ : २०.
प्रति-जपित- -ते हिश्रौ १५, ५, २७.
प्रति-जाप- -पः कौसू ३६, २५.
प्रति-जिघृक्षत्- प्रति√गृम् द्र.
प्रति√जुष्, प्रति... जुषवाम् शांश्रौ
३, १८, १५; आपश्रौ ८, २०, ५;
प्रति... जुषस्व आपमं २, १५,
१८; २०; पाश्रु ३, ४, ७^१; आश्रिय;
प्रति(जुषेत्) उसू ३, १.
प्रतिजोषयेते या ८, १५^१.
प्रति-जुह्वत्- प्रति√हु द्र.
प्रति√ज्ञा^१, प्रतिजानीते आश्रौ १, २३,
१६; आपध २, ६, २^१; हिध २,
२, २^१; प्रति... जानीते भाश्रौ
१०, २, २; भाश्रु २, २५ : १५;
प्रतिजानते निसू १, ३ : २३;
गौध ११, १८; ऋषा १६, ४६;
नाशि २, ५, २; प्रतिजानन्ति
नाशि १, ८, ७; ऋप्रतिजानीहि
शांश्रौ २, १६, २; बौश्रौ १४,
१९ : २५; भाश्रौ; प्रतिजानीयात्
आश्रु १, १३, ३; माशि ९, ९;
१२, ९; नाशि २, ५, १०.
प्रति-जानत्- -न्म् कौसू ४९, १६.
प्रति-जाना(न् >)ना- -नाम् जैश्रु
१, २१ : ३३.
प्रति-ज्ञा- -ज्ञा चव्यू २ : ३०^१;
नाशि २, ७, १०; ११; -ज्ञाम्
विध ८, ३८.
प्रतिज्ञ^१- -ज्ञम् शौच १, १.

a) अस. । b) वैप १ द्र. । c) विप. । बस. । d) अस. > षस. > षस. । e) अस.

समासान्तप् टच् प्र. उंसं. (पा ५, ४, १०३) । f) प्रास. नपुंसकत्वम् (पा २, ४, २५) । g) प्रास. । h) पाभे.
वैप १, २१४६ f द्र. । i) पा १, ३, ४६ परामृष्टः द्र. । j) = प्रतिज्ञासूत्र- (परिशिष्ट-भेद-) । k) तस्येदमीयः प्र. ।

प्रति-ज्ञात- -तानि आपश्चौ २०,
१९,७; -तेषु अप ६६,१,१.
प्रति-ज्ञान- -नम् शौच १, ८; -ने
पा १,३,५२; पात्रा १, ३, २२.
प्रति-ज्ञाय भाश्चौ १७, २,३.
प्रति-तन्त्र^a- -न्त्रम् आपश्चौ २४, १,
२९; बौश्रौ २८, ४: १; हिश्रौ
१,१, ६५; मीस् १२, १, ३५;
४२.
प्रति ✓ तप, प्रतिवपति शांश्रौ २, १७,
३; आपश्चौ १,३,३; २, ५, १;
बौश्रौ; प्रतिवप आपश्चौ ६, २१,
११; प्रतिवपेत् आपश्चौ २,३,९;
३, १०,५; बौश्रौ २०, २: १६-
१८१; वैश्रौ २०, २: ४.
प्रति-तपन- -ने बौश्रौ २०, २: १५.
प्रति-तप्य शांश्रौ २, ८, ११××;
आपश्चौ.
प्रति-तप्यमा(न >)ना- -नायै
बौश्रौ ४,७: २; ११,५: ४××.
प्रति-तर- > त्राम् वाधूश्रौ ४,
१०८: ५.
प्रति-तारक^a- -कम् बौश्रौ २२, ८:
३३.
प्रति ✓ तिञ्, प्रतिवितिगिध आपश्चौ
६, २१, ११^b.
प्रति-तिष्ठत्- °ष्ठमान- प्रति ✓ छा द्र.
प्रति ✓ लृप् > प्रति-तर्पण- -णम्
वाश्रौ १, १, १, २१.
प्रति-त्र्यह^a- -हम् बौध २, १, ६३;
गौध २३, २.

प्रति, तीथि^c- > प्राति, तीथि^dथे
(य >) यी^e- -यी आगृ २,
४, ४; कौगृ २, ५, ३; शांगृ ४,
१०, ३; अप ४३, ४, २५.
प्रति-दक्षिण^{a,f}- -णम् मीस् ११,
४, २.
प्रति ✓ दध्, प्रतिदध्नुयात् दाध १,
२३.
प्रति ✓ दध्, प्रति...दधति हिश्रौ
१६, ७, १७^g.
प्रति-दधान- प्रति ✓ धा द्र.
प्रति-दर्श- °र्शन- प्रति ✓ दृश् द्र.
प्रति ✓ दह, प्रति...दह ऋप्रा ८,
२४१; प्रति(दह) जैगृ २, ७: ६१.
प्रतिधाक्षीत् बौश्रौ २, ५: ५१.
प्रति-दह्यमान- -नात् सु ८, ५.
प्रति ✓ दा(दाने), प्रति...ददाति
आपश्चौ २१, २२, ५^h; प्रति...
ददामि भाश्चौ २, ५, १८^h.
प्रति-दान- -नात् पावा ५, २, १४.
प्रति-दाप्य- -प्यम् आपध २, २६,
८; हिध २, ५, २०३.
प्रति-दिन^a- -नम् अप १८^g, १९, ३^g.
प्रति ✓ दिव् > प्रति-दिवन्- पाठ १,
१५६.
प्रति-दिवस^a- -सम् आमिगृ २, १,
४: २४; विध ४७, ७.
प्रति ✓ दिश, प्रतिदिशति निसू ४,
९: १६; प्रतिदिशन्ति निसू २,
३: १.
प्रति-दिश^a- -दिक् वैगृ १, ८: ४;

-दिश: भाश्चौ ७, २०, ७^h!
प्रतिदिग्-द्वार, रा^g- -रम् काश्रौ ७,
१, १७; -राम् वैश्रौ १२, ४: ९.
प्रति-दिश^k- -शम् आश्रौ १, ११, ७;
१२, ३५××; शांश्रौ ३, २१, ७^h!
काश्रौ ५, ४, १०; ९, ९, ५^m××;
आपश्चौ; वैताश्रौ २९, १३ⁿ.
प्रति ✓ दुह, *धुष्, प्रतिदुग्धाम् या
१, ७.
प्रति...दुहीयत् या १, ७ⁿ१^o.
प्रति-दुह^o- -दुह: माश्रौ ५, २, ११,
२४; -दुहा शांश्रौ १३, ६, ३^p;
काश्रौ २२, ९, ९^p; ११, ९;
काश्रौसं २९: २४; माश्रौ ३, ६,
५^p; ५, २, ११, ४; -दुहि आपश्चौ
२०, २५, २; -धुक् आश्रौ ६, ८,
९; काश्रौ ७, ८, ८^q; आपश्चौ.
प्रतिधुक्-श्रुति- -ते: काश्रौ ५,
११, ७.
प्रति-धुष्- -धुषा आपश्चौ १४, २४,
१४^p; २२, १०, ५^p; १२, २०^q;
हिश्रौ १५, ६, १७^p; १७, ४, २१^p;
२५^p; ५, २३.
प्रति ✓ दृश्, प्रतिददर्श बौश्रौ १८,
४५: १७.
प्रतिदृश्येते आपमं २, १६, १२^q.
प्रति...भदर्शि शांश्रौ ६, ५,
८^q; १^qप्रति(भदर्शि) आश्रौ ४;
१४, २; शांश्रौ ६, ५, २××;
प्रति(अदृशन्) अश्र २, ७, ७८^q;
प्रति...भदृशम् आश्रौ ५, १,

a) अस. । b) पामे. वैप १, ११४१ ज द्र. । c) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । वस. इति वंरा २ ।
d) आगृ. पाठः । e) = ऋषिका- (वडवा-) । अपत्ये ढक् प्र. (पा ४, १, १२३) । f) उप. = २दक्षिणा- ।
g) सप्र. प्रति... दधति <> प्रति...ददाति [°धाति इत्यपि मूको.] इति पामे. । h) सप्रा. तैश्चा २, ३, १ प्रति...
दधामि इति पामे. । i) पाठः ? । सपा. तै १, ३, १०, २ सप्र. प्रदिशः इति पामे. । j) विप. । वस. । k) अस.
समासान्तपृ ट्च् प्र. (पा ५, ४, १०७) । l) तु. आश्रौ २, ५, ७ भाष्यम्; वैतु. शांश्रौ. भाष्यम् c. न द्वि. युक्तः कप्र.
प्रतिः इति । m) तु. चौसं. । n) शोषः पृ १२२६ m द्र. । o) वैप १ द्र. । p) सप्र. प्रतिदुहा <>
प्रतिधुषा इति पामे. ।

१०फं; प्रति (अदृश्म्) शांश्रौ
६, ७, ४फं.
प्रति-दर्श- -शांय शांश्रौ ४, १८, ७.
प्रति-दर्शन- -नम् या ७, ३१.
प्रति-दृश्य काण्ट २७, ३.
प्रति-दृश्यमा (न >) ना- -नासु
आश्रौ ५, १, १०.
प्रति-दृ(श्य >)श्या- -श्यायै बौश्रौ
२८, ४: १६; आमिण्ट २, २, १:
७१^भ.
प्रति-देवत^ब- -नम् काश्रौ १५, १०,
१२: २०, ८, ४; २१, १, १६;
वाश्रौ ३, २, ६, ५०.
प्रति-देह^ब- -हम् अप ३६, १५, १.
प्रति-दोष^प- -षम् निस् २, १३:
२९फं.
प्रति-द्रव्य^ब- -व्यम् काण्ट ५२, ७.
प्रति-द्वार^ब- -रम् भाश्रौ ८, १५, ४;
वैण्ट ३, ७: १८.
प्रति√धा, प्रतिद्घाति आपश्रौ १, ४,
११; भाश्रौ १, ४, ६ माश्रौ;
प्रति(दघाति) बौध ४, २, ११^{फं};
प्रति...दघति बौध ४, २, ११^{फं};
प्रतिदधामि वाण्ट १५, ११^{फं};
फंप्रति...दधामि बौश्रौ ३, १५:
१८; २५; प्रतिदधम: आश्रौ ३,
१४, १०^{फं}; प्रति...दघातु कौण्ट
१, १२, ६^{फं}; फंप्रतिघत्स्व द्राश्रौ
१०, २, ९; १०; लाश्रौ ३, १०, ८;
९; प्रतिघत्त गोण्ट २, ७, २०^{फं};
प्रत्यघत्ताम् वाधूश्रौ ४, ९९:
४-६; १२; भाशि ११३;
प्रति...दधीमहि ऋपा ८, ४४^{फं};

प्रतिदध्यात् शांण्ट १, १५, १०.
प्रत्यधास्यताम् वाधूश्रौ ४, ९९:
९.
प्रतिधीयते बौश्रौ १०, १२: १;
प्रति...धीयते वाधूश्रौ ४, ९९:
१२; फंप्रतिधीयताम् आपश्रौ
१४, ३३, ८^३; हिश्रौ १५, ८,
१४^३; शांण्ट ४, १८, ४^३; पाण्ट ३,
२, १२^३; अप्राय ६, १^३६.
फंप्रति...अघायि आपश्रौ १८,
१२, ९; बौश्रौ १०, ५६: ९; वाश्रौ.
प्रति-दधान- -नम् द्राश्रौ १, २, १०;
लाश्रौ ३, १०, ९.
प्रति-धातवे^० बौश्रौ ८, १९: १२^{फं}.
प्रति-धान- -नेन या ५, ११^भ.
प्रति-धाय वाश्रौ १, २, १, २१.
प्रति-धि^०- -धि: वैताश्रौ २०,
१३^{फं}.
प्रति-धीयमान- -नम् या ११, ८^{फं}.
प्रति-हित, ता- -त: आपश्रौ १८,
१७, ३; १८, १४; बौश्रौ १२,
११: ११××; वाश्रौ; -नम्
आपश्रौ १८, १६, १४; हिश्रौ
१३, ६, ३३; -तस्य बौश्रौ १२,
११: १०; १२: ८; १३: २३;
वाश्रौ ३, ३, ३, ३७; -ता:
बौश्रौ २६, १०: १४; या १२,
३७^{फं}; -तानाम् बौश्रौ १५, २४:
२०; २५: ५××; -ताभ्याम्
आपश्रौ २२, १२, ८; -ताम्
बौश्रौ १८, ४८: १२; -ताय
आपश्रौ १८, १८, १४; बौश्रौ;
-तासु माश्रौ ३, ८, ४; -ते बौश्रौ

१२, ११: १०; -तेषु कौस्
७५, १३.
प्रति√धाष् (गतौ), प्रतिधावतात् अप
१४, १, १३^{फं}.
प्रति√धी > दीधि, प्रति...दीधिम
या ६, ८^{फं}.
प्रति√धुष् प्रति√दुह द्र.
प्रति√धृष् > प्रति-धृष्य- -व्य: हिश्रौ
१४, १, २८^{फं}.
प्रति√धे, प्रतिधयीत भाण्ट ३, ६:
२१; प्रतिधयेत् बौण्ट ३, ६, १.
प्रतिधापयति भाण्ट १, २५: ९.
फंप्रति-धा^०- -धा या ५, ११^{फं}.
प्रति-धाप्य आपण्ट १५, ५.
प्रति-नक्षत्र^ब- -त्रम् अप १, ४२, ५;
१८^३, १९, १.
फंप्रति√नद्, प्रतिनदति अप १,
३२, १०.
प्रति√नद्, प्रतिनदन्ति आपमं
२, २०, २७; २९; पाण्ट ३, २, २;
आमिण्ट; फंप्रतिनन्दन्तु हिण्ट २,
१४, ४.
प्रति-नन्दि- -ता: आपण्ट २, १६.
प्रति-नन्ध वैश्रौ १२, १८: १३.
प्रति√नम्, प्रतिनाताम् ऋपा ९,
४६^{फं}.
प्रति-नमस्- > प्रतिनमस्√कृ,
प्रतिनमस्कुर्वात् अप्राय २, ९^३.
प्रति-नमस्कार^१- -रेभ्य: शांश्रौ ६,
२, २.
प्रति-नयत्- प्रति√नी द्र.
प्रति√नह > प्रति^भ L, ती-नाह^०-
-हम्^१ आपश्रौ १६, १८, ४;

a) प्रती^० इति पाठः? यनि. शोघः। b) अस.। c) वैप १ द्र.। d) पाभे. वैप १, २१४८ a द्र.।
e) पाभे. घृ १९९ व द्र.। f) सपा. प्रतिधीयताम् <> प्रतिभूषन्ताम् इति पाभे.। g) सकृत् प्रतिही^०
इति पाठः? यनि. शोघः (तु. आपश्रौ १४, ३३, ८^३)। h) वैप १, २१४९ d द्र.। i) पाभे. वैप १, २१४८ j द्र.।
j) पाभे. वैप १, २१४८ o द्र.। k) पाभे. वैप १, २१४८ p द्र.। l) विप.। बस.। m) वैश्रौ. पाठः।
n) पाभे. वैप १, २१४९ j द्र.।
वैप-प्र-२८.

वैश्रौ १८, १५ : १२; हिश्रौ ११,
६, २६.
प्रति-नामन्^१- -म काण्ड ५२, ७.
प्रति-नामधेय^२- -यम् मीसू ३, ७,
२२.
प्रति-नि√गद् > प्रतिनि-गद्य काश्रौ
६, १०, २३; आपश्रौ.
प्रति-नि√ग्रह > प्रतिनि-ग्राह^३-
-ह्यम् आपश्रौ १२, २०, १९^{०d};
हिश्रौ ८, ६, १९; -ह्याः आपश्रौ
१२, २१, २२; -ह्याणाम् आपश्रौ
१२, २१, १०; -ह्यान् माश्रौ २,
३, ८, २.
प्रति-नि√धा, प्रतिनिद्धाति आपश्रौ
१०, १३, ९; १६, ६, ३; बौश्रौ
२८, ९ : १६; वाश्रौ; प्रतिनिद-
ध्यात् शाश्रौ ३, २०, ९××;
माश्रौ.
प्रतिनि-धान- -न्म् वैश्रौ १८, ४ :
४; -नेन काण्ड ४१ : ४.
प्रतिनि-धाय काश्रौ २५, १४, २८;
माश्रौ १, १, ३, १; या १२, १०.
प्रतिनि-धि^४- -धयः बौश्रौ २८,
६ : १५; वैश्रौ २०, ३५ : ६;
हिश्रौ १५, ८, ७; -धिः आपश्रौ
३, १०, २; शाश्रौ ३, १९, २;
काश्रौ; -धिम् वैश्रौ ११, ११ :
२; २०, ३५ : ७; -धिषु आपश्रौ
३, २, १९; हिश्रौ ३, ७, ५३;
निसू ३, १० : ३८; -धी वैश्र २,
१७ : ४; ३, ११ : ४; -धीन्
बौश्र ४, ९, १५; -धीनाम् शाश्रौ
३, २०, १०; -धी काश्रौ १,
४, १५; मीसू ६, ३, ३३; ९, ३,
२६.

प्रातिनिधिक^५- -कः काश्रौ
२५, १३, ४१.
प्रतिनिधि-प्रतिदान- -नयोः पा
१, ४, ९२; -ने पा २, ३, ११.
प्रति-नि√नी, प्रतिनिनयति अप ४५,
१, १३.
प्रतिनि-नीय वैश्रौ ६, २ : ८.
प्रति√निन्द > प्रति-निन्दित-
-ताः भाण्ड १, १२ : १६.
प्रति-नि√यम् > प्रतिनि-यत् - तः
आप्रिय २, ६, ४ : १९; -तानाम्
आप्रिय २, ६, ४ : १६; शंघ
१३२.
प्रति-निर्√अस् (क्षेपणे), प्रतिनिर-
स्यति आपश्रौ ३, १०, ४; भाश्रौ
१, २४, २; ३, ९, ८; भाण्ड ३, १८ :
२०.
प्रतिनिर्-अस्य आप्रिय २, ७, ९ :
१५.
प्रति-निर्√ग्रह > प्रतिनिर्-ग्राह^६-
-ह्यम् बौश्रौ ७, १२ : १८^d; २२;
३५××; वैश्रौ १५, २५ : १४^d;
हिश्रौ ८, ६, १७; -ह्याणाम् बौश्रौ
१४, १० : ३५; २१, १९ :
१९; -ह्यान् बौश्रौ २१, १९ :
२०.
प्रतिनिर्ग्राह-यात्र- -त्रस्य वैश्रौ
१५, २६ : ७.
प्रति-निर्√वप्, प्रतिनिर्वपति आपश्रौ
१८, १०, २८; बौश्रौ १२, ५ :
१०; १८; हिश्रौ १३, ४, १४^१;
कौसू ४८, २७; प्रतिनिर्वपेत्
बौश्रौ १३, १६ : २.
प्रति-निर्√वेष्ट, प्रतिनिर्वेष्टयते
बौश्रौ २५, २ : ३.

प्रति-नि√विश > प्रतिनि-वेश^७-
-शेन बौध ४, १, २२.
प्रति-नि√वृत्, प्रतिनिर्वर्ते विष
६७, ३३.
प्रतिनिर्वर्तयत बौश्रौ १४, १४ :
१७.
प्रति-निश- -राम् अप ७, १, १३.
प्रति-निष्√कृ > प्रतिनिष्-कार- -रम्
निसू ४, ७ : २७.
प्रति-निष्√क्रम, प्रतिनिष्कामति
आपश्रौ ३, २०, १०; १४, १०;
९; हिश्रौ २, ८, ४३××; प्रति-
निष्कामेत् आपश्रौ ५, १, १४.
प्रति-निष्√पू, प्रतिनिष्पुनाति कौसू
१४, २०.
प्रति√नी, प्रतिनयति भाश्रौ ११, ३,
१; माश्रौ १, ६, १, १८; वाश्रौ १,
२, २, ३३××; प्रतिनयेत् भाश्रौ
१२, १, ५.
प्रति-नयत् - यन् काश्रौ ५, ५, १२.
प्रति-नीय कौसू १९, १९; २०,
२५××.
प्रति√नुद्, प्रतिनुदति हिश्रौ ७, ५,
११; ऋति...नुदे आपश्रौ १३,
१८, ९; बौश्रौ १४, २० : १७;
२०; २४; प्रतिनुदत वाश्रौ १, ३,
६, ३^१; हिश्रौ २, ४, ८; प्रति-
नुदेत् माश्रौ ३, १, १४.
प्रति-नु(त्)त्ता- -ताम् आपश्रौ
१३, ७, १२.
प्रति-नोद- -दः^१ बौश्रौ १८, ४८ :
५; -दाः निसू ३, १३ : ८.
प्रति-न्यूङ्ङि^८- -ङ्ङः शाश्रौ १०, ५, १४.
√प्रतिन्यूङ्ङि, प्रतिन्यूङ्ङयति शाश्रौ
१२, १३, ३.

a) अस. । b) विप. > नाप. (पात्र). c) ०निर्ग्रा^० इति सा [तै. पृ २२७९] । d) सप्र. परस्परं प्राप्ते. । e) नाप. । गस. उप. क्रि. प्र. । f) = प्रति-निधि- । स्वाथे उक् प्र. । g) = प्रतिकूलता- । h) = एकाह-विशेष- । i) प्रास. ।

प्रतिपक्ष^a - क्षम् काण्ड ४५: १४.

प्रतिपञ्चाह^b - न्हम् लाश्रौ १०, ४, ९.

प्रतिपथ^c - पावा ५, ४, १०७.

प्रतिपथिक- , प्रातिपथिक- पा ४, ४, ४२.

प्रतिपद् , प्राति (अपञ्चाहि) काश्रौ ७, ९, ४; शुभ्र १, २८३.

प्रतिपद्यते आश्रौ २, १७, २, ४;

६, ५, १७; शाश्रौ ५, १५, ९, ४, ४;

काश्रौ; आपश्रौ १३, १६, १२^b;

शांश्रु ४, ८, १२^c; या ७, २३;

१४, ७; ८; प्रतिपद्यन्ते बौश्रौ

४, २: ४०; ६: २६, ४, ४;

वाधुश्रौ; प्रातिपद्यताम् आश्रु

१, ५, ४; पाण्ड २, ६, २१^d; प्रत्य-

पद्यत वृद्धे ३, १५०; प्रतिपद्येत

शांश्रौ १५, २, ५; आपश्रौ २१, ३,

८; बौश्रौ; प्रतिपद्येरन् वाधुश्रौ

४, १०७:७; वैश्रौ २१, १०: ५;

हिश्रौ १५, ६, २२.

प्रतिपेदे या २, १०; प्रतिपत्स्या-

महे निसू ४, २: २.

प्रतिपादयति आपश्रौ २, १९, ८;

८, १२, ६^e × ४; वैश्रौ; प्रतिपाद-

यामि आमिश्रु १, ६, १: १६;

प्रतिपादयेत् आपश्रौ १२, १०,

१४; १३, ७ × ४; हिश्रौ.

प्रतिपाद्येत शंघ ३३२.

प्रत्यपित्सीत् निसू ५, ८: १५.

प्रतिपत्त्यन् - न्यम् आपध २, १०,

१०; हिध २, ४, १०.

प्रतिपत्ति- पावाण ३, ३, १०८;

-त्ति: आश्रौ २, १९, ७; आपश्रौ

१९, ८, १३; काठश्रौ; -त्ति मीसू

८, ४, २७; -त्त: गौध १८, २४;

-त्तौ बौण्ड ३, २, ५५.

प्रतिपत्ति-त्व- -त्वात् मीसू ११,

४, ३५.

प्रतिपत्ति-दर्शन- -नात् मीसू

११, ३, ९.

प्रतिपत्ति-भेद- -दात् ऋप्रा

१४, ६८.

प्रतिपत्ति-यथोक्त- -क्तम् अप

६९, ६, ४.

प्रतिपत्ति-विधान- -नात् मीसू

११, ३, ३३.

प्रतिपत्त्य(त्ति-अ)र्थ- -र्थम् पावा

१, ४, २.

प्रतिपत्तुम् ऋप्रा १४, ६४.

प्रतिपत्त्यत् - न्यम् आमिश्रु ३,

७, ४: ३२; बौपि २, ४, १८.

प्रतिपद् - पाण्ड ४, ३, १६; पावाण ३,

३, १०८; -पत् आश्रौ ६, ५, ६^f;

१०, १०, ४^g; ६; शांश्रौ ३, २०,

६^h; २, २०, ७ⁱ; १०, ३, ११^j; ५,

६^k × ४; काश्रौ २५, १३, ३४^l;

१४, ११^m; बौश्रौ; लाश्रौ ४,

६, १४ⁿ; ७, १^o; -पत्सु बौश्रौ

१६, ३: २७; २३, १०: ५;

-पद्: शांश्रौ ११, १२, ९;

आपश्रौ; -पदम् आपश्रौ १४,

२२, ८; २३, १५; बौश्रौ; माण्ड

१, ४, १०¹; आज्यो ६, ९²;

-पदा निसू ७, १०: १४; ८,

२: ११; -पदाम् आश्रौ ५,

९, २२³; शांश्रौ ९, २०, ६; निसू

९, १३: ४५; -पदि आपश्रौ ४,

९, २⁴; बौश्रौ २८, १२: २१⁵;

२९, ८: ५⁶; काण्ड ४८, १⁷;

माण्ड २, १८, १⁸; हिपि २१:

७⁹; अप १८¹⁰, ६, १; विध ७८,

३६¹¹; -पदे आश्रौ ६, ५, २०;

शांश्रौ ९, २०, २८; -पदो: वैध

२, ११, ७¹²; -पदौ द्राश्रौ ८, १,

२०¹³; लाश्रौ ४, ५, १९¹⁴; छसू;

-पद्भि: निसू ४, ४: ८¹⁵.

प्रतिपद्¹⁶ - पा ४, ३, १६;

-द: अप ५०, ३, २; -दम् शांश्रौ

७, १९, ८; -दा: छसू १, ३:

१७.

प्रतिपद्-ता- -ताम् निसू ५,

६: २.

प्रतिपद्-प्रभृति- -ति अप १८¹⁷,

२, १.

प्रतिपद्-समारोहणीय¹⁸-

-यानाम् शांश्रौ ६, ६, १७.

प्रतिपद्-सोम- -म: अप ७२,

३, १३.

प्रतिपद्-अनुचर- -रयो: शांश्रौ

८, ७, १०; -रा: आश्रौ ५, १४,

७; ८; ७, ६, ७; शांश्रौ १०, ९, ५;

१५; -रेभ्य: आश्रौ ५, १०, १३;

-रौ आश्रौ ५, १४, ४ × ४; शांश्रौ.

प्रतिपद्-आदि- -दिषु अप ६३,

३, ८.

प्रतिपद्य आश्रौ १, ३, ६; शांश्रौ;

कौण्ड ३, ९, ५५¹⁹.

प्रतिपन्न- पाण्ड ६, २, १४६; -न्न:

हिश्रौ १०, ३, ३२; -न्न आपध

a) अस. । b) पासे. पृ १६५४ d द. । c) सपा. कौण्ड ३, ९, ५५ प्रतिपद्य इति पासे. । d) सपा. माण्ड १, ९, २७ प्रतिमुच्यताम् इति पासे. । e) पासे. पृ ३२३ g द. । f) वैप १ द. । g) = आद्या-ऋच्- । h) = प्रतिपत्ति- (तु. आश्रौ ३, १०, २२ भाष्यम्) । i) = तिथि-विशेष- । j) = तुच- इति भाष्यम् । k) = प्रारम्भ- इति (पक्षे) भाष्यम् । l) प्रतिपदि ऽप्रतिपदि इति Knauer. । m) विप. (चन्द्र-, तुच-) । n) = अद्यन्त- (तु. भाष्यम्, C. व) ।

२, १६, २५; हिध २, ५, २४.
प्रतिपन्न-रश्मि^a - रश्मिः या ५,

८.

प्रति-पादयितुम् शंभ २५३.

प्रति-पादयितृ- ता आपध २, २०,
१९; हिध २, ५, १०५.

प्रति-पादि (त >) ता- ता विध
१५, ६.

प्रति-पाद्य बौश्रौ २४, २१ : ९; हिश्रौ.

प्रति-पद्^b - दम् गौपि १, ४, १५;

चव्यु २ : २८^c; पावा १, ४, २.

प्रतिपदिक- -कम् पा १, २.

४५; पावा १, ४, १; -कस्य पा

१, २, ४७; पावा ४, १, १४७××;

-कात् अप्रा २, २, ५; पा ४, १, १;

पावा ४, १, १७; -कानाम् पावा

१, २, ६४; -केन पावा ४, १, १४.

प्रतिपदिक-ग्रहण- -गम्

पावा १, २, ४७; ४, १, १; -णे

पावा ४, १, १.

प्रतिपदिक-स्व- स्वम् पावा

१, २, ४५; २, ४, ८१; ३, २,

१२४; -त्वात् पावा ५, ३, ६८.

प्रतिपदिक-निर्देश- -शः

पावा ५, ३, २०.

प्रतिपदिक-प्रतिषेध- -धः

पावा १, ३, ३; ३, १, ९१××.

प्रतिपदिक-मात्र- -त्रात्

पावा ४, २, ३४.

प्रतिपदिक-विज्ञान- -नात्

पावा ५, १, ५९; २, ५९; ७, १, २.

प्रतिपदिक-विशेषण-त्व-

-त्वात् पावा ४, १, ३; ३४.

प्रतिपदिक-सामानाधि-

करण्य- -ण्ये पावा २, ३, १.

प्रतिपदिका(क-अ)णवय-

त्यादि-निवृत्त्य(ति-अ)र्थ-

-र्थः पावा १, ३, १^d.

प्रतिपदिका(क-अ)न्त-

-न्तस्य पा ८, २, ७; पावा ८, ४,

११.

प्रतिपदिकागत-सुम्-

विभक्ति- -क्तितु पा ८, ४, ११.

प्रतिपदिका(क-अ)र्थ- पा

२, ३, ४६.

प्रतिपदिकार्थ-त्व- -त्वात्

पावा ४, १, ३.

प्रतिपदिकै(क-ए)का(क-अ)

न्त- -न्तः पावा २, १, २.

१प्रतिपद्-विधान- -नात् पावा २,

४, १२; ८, २, ७२.

२प्रतिपद्-विधा (न >) ना^e - ना

पावा २, २, १०.

प्रतिपद्-विध्य(धि-अ)र्थ- -र्थम्

पावा ३, ३, ११; १३.

प्रतिपदो(द-उ)क्त- -क्तस्य पावा ६,

२, २.

प्रति-पद्म- प्रति√पद् द्र.

प्रति-परा√हृ, प्रतिपराहरन्ति वाधूश्रौ

३, ६१ : २.

प्रति-परि√कृष् > प्रतिपरि-कृष्य

माश्रौ ५, २, ३, १.

प्रति-परि√क्रम, प्रतिपरिक्रामन्ति

माश्रौ १, ७, ६, ३९.

प्रतिपरि-क्रम्य माश्रौ १, १, २,

११××.

प्रति-परि√व्ये, प्रतिपरिव्ययति

आपश्रौ १०, ९, १४.

प्रति-परि√हृ, प्रतिपरिहरति माश्रौ

१, १, २, ४१; ७, ६, ३९; वाश्रौ १,

२, ३, १४; प्रतिपरिहरन्ति बौश्रौ

४, ९ : २०; प्रतिपरिहरेत् बौश्रौ

२०, ३० : ६; ७.

प्रतिपरि-हरण- -णे बौश्रौ २०, ३० :

६.

प्रति-परी(रि√इ), प्रतिपर्येति काश्रौ

५, ८, २९; ६, ५, ४××; आपश्रौ;

प्रतिपरियन्ति आपश्रौ १४, २२,

२; १५, ८, १४××; बौश्रौ;

प्रतिपरियुः आपश्रौ १५, १७,

९^g; भाश्रौ ११, १७, १२; १३^g;

वैश्रौ.

प्रतिपरी(रि-इ)न्य वाधूश्रौ ३, ९० :

४; ८; वाश्रौ १, ४, ४, १०××;

क्षुसू.

प्रतिपर्या(रि-अ)यस्^e वैश्रौ १०,

१२ : ६.

प्रति-परे(रा√इ) > प्रतिपरे (रा-इ)

त्य भाश्रौ ३, १, १२; हिश्रौ ४,

५, ४७.

प्रति-पर्याय^b -यस् वाश्रौ १, १, १,

७१; माश्रु १, ७, ३.

प्रति-पर्या (रि-अ) √वृत्, प्रति-

पर्यावर्तते माश्रौ १, १, २,

२६××.

प्रतिपर्या-वृत्त्य शाश्रौ ४, ४, १४;

माश्रौ १, २, २, ५; कौसू ८८,

२१.

प्रति-पर्या(रि-अ) √हृ > प्रतिपर्या-

हृत्य शाश्रौ ७, ५, ४; बौश्रौ १,

१२ : ४४××; माश्रौ.

प्रति-पर्वन्^b -र्वं सु ३१, ७.

प्रतिपवा(वि-अ)वभृथ^a - थ्याः काश्रौ

२२, ७, १६.

प्रति√पश, प्रतिपश्यति बौश्रौ ३,

२४ : १५; प्रति (पश्यति) अथ

९, ६ (५)†; †प्रतिपश्यामि^f

आश्रौ ८, १४, १८; आपश्रौ ३,

a) विप. । बस. । b) अस्. । c) = उपाङ्ग-विशेषण । d) 'काणपय' इति Kielhorn, भाण्डा. च ।

e) = पर्यभि-कारम् । f) पाभे. वैप १, २१५० h, २१६२ f द्र. ।

१९, ६; बौश्रौ.
 प्रति-पश्यत्- -श्यन् गौघ ९, १३.
 प्रति-पशु^१- -शु आपश्रौ १४, ७, ४;
 १८, २, १६; बौश्रौ २६, ११;
 १२; माश्रौ ५, २, १२, ३०^{१०};
 वाश्रौ ३, २, ६, १; ४४; ४५; ४७;
 वैश्रौ.
 प्रति✓पा(पाने) > प्रति, ती^१-पान^१-
 > प्रतिपान^१- -नम् माश्रु
 २, ११, १७^१.
 प्रतीपाना(न-अ)र्थ- -र्थम् आपघ
 १, २८, २१; हिघ १, ७, ५७.
 प्रति✓पा^१ > प्रति-पाव(त् >)री^१-
 -र्यः वाघूश्रौ ३, १०० : ३.
 प्रति-पाद^१- -दम् साश्र २, ११८२.
 प्रतिपादो(द-उ) क-देवताक^१-
 -कम् अश्र ७, ३०.
 प्रति-पादयितुम्, °दयितृ-, °दिता-,
 °घ प्रति✓पद् द्र.
 प्रति✓पालि (< पाल-), प्रति-
 पात्यन्ते जैश्रौका ३४.
 प्रति-पिण्ड^१- -ण्डम् काश्रौ ४, १,
 १६; माश्रौ १, १, २, २९; ३०;
 वाश्रौ १, २, ३, २६; कौघ.
 प्रति✓पिप्, प्रतिपिनष्टि या ३, २१.
 प्रति-पुर- पा ६, २, १९३.
 प्रति-पुरुष^१- -षम् शाश्रौ १७, ४, ७;
 काश्रौ ८, १, १८; आपश्रौ.
 प्रति✓पूज्, प्रतिपूज्यन्ते आज्यो १४,
 १०.
 प्रत्यपूजयत् वृदे ४, ११५.
 प्रति-पूज्य अप १, ३१, ५.
 प्रति-पूरुष^१- -षम् बौश्रौ ५, ५ : ६;

१६ : १; २६, २५ : १५; भाश्रौ.
 प्रति-पूर्वक^१- -कम् वृदे ५, ९०.
 प्रति✓पृ, प्रतिपूर्येत वाश्रौ २, १, ३,
 ३१; माश्रु २, ११, ५.
 प्रति...पूरयन्ति बौश्रौ १५,
 १ : ४; प्रति...पूरयत् बौश्रौ
 ६, २३ : ६१; प्रतिपूरयेत् आश्रु
 २, ८, २.
 प्रति✓प्रच्छ > प्रति-प्रश्न- -श्नात्
 वैताश्रौ ३७, १; -श्ने वैताश्रौ
 ३८, ५^१.
 प्रति-प्रणव^१- -वम् काश्रौ ३, १,
 १० × ×.
 प्रति-प्रतीक^१- -कम् आश्रौ ५, २०,
 ६; कप्र २, १, ७.
 प्रति-प्र✓दा(दाने) > प्रतिप्र-दाय
 आश्रौ ६, १२, २.
 प्रति-प्रधान^१- -नम् मीसू ११, १,
 ६१; २, २; ४, ४१.
 प्रतिप्रधान-भाव- -वः मीसू ११,
 १, ४.
 प्रति-प्रभ^१- -भः ऋश्र २, ५, ४९.
 प्रति-प्र✓यच्छ्, प्रतिप्रयच्छेत् आश्रौ
 ५, १२, १३; द्राश्रौ १३, २, ४;
 लाश्रौ ५, २, ८; आश्रु १, ८, ९.
 प्रति-प्रयोग^१- -गम् कप्र १, ५, १^{१०}; ७.
 प्रति-प्र✓वच् > प्रति-प्रोक्त^१- -क्ते
 कप्र १, ४, ९.
 प्रति-प्र✓वृत्, प्रतिप्रवर्तयति कौसू
 १४, २; प्रतिप्रवर्तयेत् अप ३७,
 १, ११.
 प्रति-प्र✓सू (प्रसवे) > प्रतिप्र-सव-
 -वः मीसू २, ४, २८; -वात्

मीसू ६, ६, २५; ७, १९ × ×.
 प्रतिप्र-सूत- -तः पावा ४, ३, ३६^१.
 प्रति-प्र ✓सृप्, प्रतिप्रसर्पन्ति आश्रौ
 ५, ११, ४.
 प्रतिप्र-सृष्य आश्रौ ५, ७, ११; १३,
 १९; ६, ५, ४.
 प्रति-प्र ✓स्था > प्रतिप्र-स्थान^१-
 पाउभो २, १, १४६; -^१०तः
 काश्रौ ६, ५, २६; ९, ७, ४;
 आपश्रौ; -ता आश्रौ २, १७,
 १५; ४, १, ६; शाश्रौ; -तारः
 बौश्रौ १५, १६ : ६; १९ :
 १२ × ×; वाघूश्रौ ३, ८२ : २;
 -तारम् काश्रौ ९, १३, १९;
 आपश्रौ १०, १, ९^१; बौश्रौ; -तः
 आश्रौ ९, ४, १३; १२, ९, ६;
 काश्रौ; -त्रे काश्रौ ५, ५, २१ × ×;
 आपश्रौ.
 प्रतिप्रस्थान-प्रसुख^१- -खाः वैश्रौ
 १७, १७ : ५.
 प्रतिप्रस्थान-सुख्य^१- -ख्यान
 वाश्रौ ३, २, १, १४.
 प्रतिप्रस्थात्रा(त्-आ)दि- -दीन
 काश्रौ १२, २, १७.
 प्रतिप्र-स्थान- -नम् आपश्रौ १२,
 २१, २१; भाश्रौ ११, ३ : ६;
 हिश्रौ ८, ६, ३८; २४, १, १८;
 -नात् आपश्रौ १५, ३, ११; वैश्रौ
 १३, ४ : ५; -ने माश्रौ २, ३,
 ८, ९; ४, २, १६; ६, ६; -नेन
 आपश्रौ १२, २१, १८; माश्रौ.
 प्रतिप्रस्थान-ग्रह- -हः वैश्रौ १५,
 २७ : १; ५^१.

a) अस्. । b) ञ्जुव्य इति समस्तः पाठः? यनि. व्य इति च शोधः (तु. सपा. वाश्रौ ३, २, ६, ४७) ।
 c) आपघ. हिघ. पाठः । d) भाप. । e) विप. । तस्येदमीयः अण् प्र. । f) प्रति इति बसं. । g) धा.
 शोघने वृत्तिः । h) विप. (सिकता-) । i) विप. । बस. । j) वैप १ द्र. । k) बस. पूष. = प्रतिनिधि- (तु.
 संस्कृतुः टि.) । l) 'श्नात् इति C. । m) = ऋषि-विशेष- । n) 'तियो' इति BI. । o) = प्रत्यभिवादन- ।
 p) तु. पासि. । q) प्रतिस्था इति पाठः? यनि. शोधः ।

प्रति-प्रा(प्र/अ)श् (भोजने) >प्रति-
प्रा(प्र-अ)शित- न्तम् कौसू ३८,
१८.
प्रति-प्रा (प्र/अ)स् (क्षिपणे) >प्रति-
प्रा(प्र-अ)स्य काश्रौ ६,५,४.
प्रति/प्री > प्रति-प्री^a - प्रियम्^b
आपश्रौ १०, ६, ८; भाश्रौ १०,
४,५; वैश्रौ १२,७ : १.
प्रति/वध्,न्ध्, प्रतिबन्धीयात् वैश्रौ
२०,५ : १.
प्रत्यबन्ध्यत वृदे ६,१४.
प्रति-ब(द्व >)ढा- न्दाम् आमिष्ट
३,५,३ : २.
प्रति-बन्ध्यमान- न्तम् बौश्रौ २६,
५ : २३.
प्रति-बन्ध- > न्ध-कर- -राणि
अप ६५,३,१.
प्रति-बन्धिन्- -न्धि पा ६,२,६.
प्रति-विम्ब- (> म्बित- पा.) पाग
५,२,३६.
प्रति-बीज^c - जम् आपश्रौ ६, २९,
१५.
प्रति/बुध्, प्रति (अबुधन्) ऋप्रा २,
७,८०^f.
प्रतिबुध्येत शंघ १३३; १३४.
प्रति-बुध्य भाश्रौ १०, ११, १२;
हिश्रौ.
प्रति-बोध^d - -धः मागृ २, १५,
१^f.
प्रति-बोधन- न्तम् अप ६८,२,१६.
प्रतिबोधना(न-अ)थै- थैम्
अप ७२,५,३.
प्रति-बोधिन्- पाठभौ २,१,१११;

पाग ३,३,३.
रप्रतिबोध^e - (> प्रातिबोध- L >
धायन-] पा. यक्र.) पाग ४,१,
१०४; १००.
प्रति/ब्रू, प्रतिब्रूयात् आपश्रौ १४,
२०, ८; बौश्रौ १८, २६ : २२;
२२, १ : १०; माश्रौ; प्रतिब्रूयुः
आमिष्ट २,३,२ : १२; वैगृ.
प्रति/भक्ष्, प्रतिभक्षयति आपश्रौ १२,
२५, २२×४; वैश्रौ १६,२०:६;
प्रतिभक्षयतः आपश्रौ १२, २७,
९; १३,८,२; वैश्रौ १५, ३५ :
८; प्रतिभक्षयेत् आश्रौ ५,८,९;
बौश्रौ २१,२० : २२; २३.
प्रति-भक्षण- -णे बौश्रौ २१, २० :
२२.
प्रति-भक्षित- -न्तम् आश्रौ ५,६,३;
शाश्रौ ७,४,१५.
प्रति-भय^f - -यम् आगृ १, १२,५;३,
७,१०; -ये गोगृ ४,९,८.
प्रतिभय-जन(न>)ना^g -नाः अप
७०^h, ११, २९.
प्रतिभय-ता- -ता अप ७०^h, ११,
१४.
प्रति/भा, प्रतिभाहि द्वाश्रौ ३,
४,२०; लाश्रौ १,१२,५.
प्रतिबभौ या ४,६.
प्रति-भा- -भा, -भाम् या १४,४.
प्रति-भाति- > ति-लिङ्गⁱ -ङ्गः
या १४,३.
प्रतिभातु^j - -तुः ऋअ २,५,४८.
प्रति/भाप्, प्रत्यभाषत वृदे ४,१२;
५,१०१; ७,१५०^k.

प्रति/भिद् > प्रति-भिन्- -न्तम्
गो २,१७^l.
प्रति/भू, प्रति...भवति वाधूश्रौ ३,
४ : १३; प्रतिभवन्ति वाधूश्रौ
३,४ : १४.
प्रति-भू^l - पाग ५,१,१२४; -भुवः
विध ६,४२; -भुवे, -भूः विध
६,४३.
प्रातिभाष्य- पा ५, १, १२४;
-व्यम् वाध १६,३१; विध ६,
४१.
प्रातिभाष्य-वणिक्-शुल्क-
मद्य-द्युत-दण्ड- -ण्डाः गौध
१२,२८.
प्रति-भूत् - न्तम् सुध १३.
प्रति/भूष्, प्रति(भूषति) आश्रौ ४,
१५, २; १०; साअ १, ४१८;
प्रतिभूषन्ति आमिष्ट २, १,
५ : ११^m; प्रतिभूषन्ताम् कौगृ
४,४,१०ⁿ.
प्रति/भृ(=हृ), प्रति...भर आपश्रौ
१४,२९,२^o; प्रति(भर) आश्रौ
५,७,६; ८,१२,६; शाश्रौ.
प्रतिभ्याम्^k चाअ १५ : ९.
प्रति/मन् > प्रति-मन्वान- -नः
आश्रौ १०, ९, २^l; शाश्रौ १६,
६,१; लाश्रौ ९,१०, १२; वैताश्रौ.
प्रति-मन्त्र^a - -न्त्रम् काश्रौ २, ५, ६;
२६×४; आपश्रौ; -न्त्रेण वैगृ
५,६ : ७.
प्रतिमन्त्र-त्व- -त्वात् मीसू १०,
३,२६.
प्रतिमन्त्र-लिङ्ग- -ङ्गैः हिपि १६ : ५.

a) विप. (अन्न-). गस. (तु. वैप १ अभि-प्री-). b) सप्र. हिश्रौ १०, १, ३९ प्रियम् इति पाभे. ।
c) अस. । d) नाप. । कर्तरि अच् प्र. । e) = ऋषि-विशेष- । f) प्रास. वा बस. वा (तु. अभा.) । g) उप.
कर्तरि प्र. । h) विप. । बस. । i) = लमक- । उप. कर्तरि प्र. । j) पाभे. पृ १६७३ f द्र. ।
k) पाठः ? प्रति त्यन्नाम इति शोधः (तु. सप्र. मै २,६,१२ प्रमृ., संस्कृतुः टि. च) । l) 'वन्वा' इति पाठः ? यनि.
शोधः (तु. सपा. मा २३,५२) ।

प्रतिमन्त्रो(न्त्र-उ)क्त-देवता->
 व(त्य>)व्या-स्या-अश्र
 १०,६; ७.
प्रति√मन्त्रि(<मन्त्र-), प्रतिमन्त्र-
 येत वौश्रौ १, ९ : ७; ६, १५ :
 २७; १६ : १२; जैश्रौ; प्रतिमन्त्र-
 येत वौश्रौ २०, ८ : ३१; द्राश्रौ
 १, १, १०; ११, २, ३××; लाश्रौ;
 प्रतिमन्त्रयेत् गौश्र २, २, १३;
 प्रतिमन्त्रयेरन् द्राश्रौ ६, २, ५;
 लाश्रौ २, १०, ५.
 प्रति-मन्त्रण- -णम् कौश्र ९०, २६.
 प्रतिमन्त्रणा(ण-अन्त्र)न्त- -न्तम्
 कौश्र ६८, ३३.
 प्रति-मन्त्रित- -न्ते कौश्र ६६, ३××.
 प्रति-मन्त्र्य भाग २, २४ : १; २५ :
 ३; कौश्र ९०, ९.
प्रति-महाव्याहृति^१- -ति काश्रौ २०,
 ५, १६; २५, १, १२; -तिभिः
 पाश्र १, १५, ५०.
प्रति√मा (माने), प्रतिमिमीते कौश्र
 २०, ६; प्रति (मिमीते) अश्र ९,
 १०; प्रतिमिमीते या ५, १२.
 प्रति-मा^२- -मया आपश्रौ ४,
 ५, ४; ९, १३, ६; भाश्रौ ४, ६,
 ७; वैश्रौ; -मया आपश्रौ १६,
 २८, १; वौश्रौ; पाश्र ३, २, २०;
 -माम् आपश्रौ १७, ९, ३; ३^०;
 वाश्रौ; आमिश्र २, ४, १० : १२;
 -मायाः हिश्रौ ७, १, ३१;
 -मायाम् आमिश्र २, ४, १० :
 ४; -मासु कप्र १, १, १४.
 प्रतिमा-भूत- -न्ताः शुश्र १, ८.

प्रतिमा(मा-आ)राम-कृप-संक्रम-
 ध्वज-सेतु-तिपान-भङ्ग- -ङ्गेषु
 शंघ ३२७.
 प्रतिमो(मा-उ)परि देताश्रौ ३३, ८
 प्रति-माण- -णम् वौश्र २, ११,
 ३३^१h.
 प्रति-मान^१- -नम् आश्रौ ९, ५,
 १६; विध १०, ५; -नानि
 या ५, १२; ११, २१^१××.
 प्रतिमान-पुरुष- -वौ विध १०,
 ६.
प्रति-मानु^१- -न्तु गौश्र २८, १७.
प्रति-मास^१- -सम् वाध १९, २८;
 शंघ २५२; विध ६, २××.
 प्रतिमासिक- -कम् कप्र २, ५, १३.
 प्रतिमास्य- -स्यानि कप्र २, ५, ८.
प्रति√मि (क्षेपणे), प्रतिमिन्वन्ति
 वाधूश्रौ ३, ६९ : २९.
प्रति√मीव्, प्रतिमीवति आपश्रौ १९,
 २५, १८; वौश्रौ १२, ३८ : २;
 हिश्रौ २२, ६, ३.
प्रति-मुख^१- -खम् वौश्रौ १, १६ :
 ८; १०××; आपध २, १२, ११;
 हिध २, ४, ४८.
प्रति√मुच्, ङ्च्, प्रतिमुञ्चते आश्रौ
 ४, ९, ५; शाश्रौ ३, ११, १४;
 काश्रौ; या १२, १३^३; प्रति
 (मुञ्चते) शाश्रौ ५, १३, ७; १;
 प्रतिमुञ्चति शाश्रौ १६, १, ६;
 काश्रौ ६, १, २८^६; ३, ४; आपश्रौ;
 प्रतिमुञ्चन्ति आश्रौ ६, १०, ४;
 वौश्रौ १७, ४१ : ११; वाश्रौ ३,
 २, १, २४; हिश्रौ १४, ३, २२;

आमिश्र १, २, ४; ५; १; प्रतिमुञ्चे
 वौश्रौ १७, ४२ : ३; आमिश्र
 १, ३, ५ : ६; भाग २, २२ :
 ५; हिश्र १, ११, ४; प्रति-
 मुञ्चामि आपश्रौ ७, १७, ७;
 वौश्रौ ४, ६ : ४०××; आपमं
 १, ४, ११^३; आमिश्र; प्रति...
 मुञ्चते वैताश्रौ ३८, ६^३; प्रति-
 मुञ्च पाश्र २, २, ११; वौश्र २,
 ५, ७; प्रतिमुञ्चतम् कौश्र ५८,
 १^३; प्रत्यमुञ्चत् शाश्रौ १४,
 ७, १; अपं १ : २१; प्रति-
 मुञ्चति वाधूश्रौ ३, १०१ : ७;
 हिश्र १, १६, १६; प्रतिमुञ्चेत्
 आपश्रौ १०, ८, १४; प्रतिमुञ्चेत्
 लाश्रौ ९, २, ९; द्राश्र ३, १, २२.
 प्रतिमुञ्चते अप २०, ७, ४; प्रति-
 मुञ्चताम् माश्र १, ९, २७^०;
 प्रतिमुञ्चते शंघ ४२.
 प्रति-मुक्त, क्ता- -क्तम् आश्रौ ९, ९,
 ८; काश्रौ २०, १, २०; द्राश्रौ;
 -क्त्या लाश्रौ ९, २, १२.
 प्रति-मुच्य, > च्या काश्रौ २, ७,
 २××; आपश्रौ; माश्रौ १, १, २,
 ८^१.
 प्रति-मुञ्चत्- -ञ्चत् काश्रौ २०, १,
 ९; वौश्र २, ५, ७; १६.
 प्रति-मुञ्चमान- -नाः आश्रौ २,
 ६, २; शाश्रौ ४, ४, २; आपश्रौ.
 प्रति-मोचन- > ण-प्रभृति-
 -ति माश्रौ ६, १, ४, २४.
प्रति√मुद्, प्रतिमोद्ध्वम् वौश्रौ
 १०, ४ : २४; वैश्रौ १८, १ : ५५.

a) बस. 1 b) अस. 1 c) णि इति लाघासं. 1 d) वैप १ द्र. 1 e) पाभे. वैप १, २१५२ h द्र. 1
 f) = सोपान- (तु. सप्र. मनु ९, २८५) 1 g) प्रथमानम् इति पाठः? (तु. १९२० संस्करणम्, तैत्रा २, ५, ८, १२ च) 1
 h) पाभे. वैप १, २३९७ i द्र. 1 j) पाभे. वैप १, २१०१ n द्र. 1 j) अस. उप. = जननी- 1 k) तु. चौसं. 1
 l) सपा. आपमं २, ८, १० अपिनहे इति पाभे. 1 m) पाभे. वैप १, २१५३ ० द्र. 1 n) पाभे. वैप १,
 २१५३ g द्र. 1 o) पाभे. पृ १६७५ d द्र. 1

प्रति√मृज्, प्रतिमाष्टि आपश्चौ २, ८,
५; ३, ६, ८; १८, ३, २; भाश्चौ।

प्रति√यज्, प्रतियजति आपश्चौ १४,
७, ९; बौश्चौ १५, ३४: ६; भाश्चौ
७, २०, ७; ८, ३, १५; माश्चौ;
प्रतियजेत् आपश्चौ ७, २५, १४;
बौश्चौ २०, ३०: ११×५.

प्रती(ति-इ)ञ्य आपश्चौ ८, ३, १२.

१ प्रतियज्ञांश- शो वाश्चौ ३, ४, ३,
१७.

प्रति√यत्, ऋप्रति...यातयामः^a
आपश्चौ १३, २२, ५; बौश्चौ ४,
११: १५.

प्रति-यत्^b- ल्ने पा २, ३, ५३.

प्रतियत्-वैकृत-वाक्याध्याहार-
-रेषु पा ६, १, १३९.

प्रति√या > प्रति-यायिन्- पाउभो
२, १, २९०; पाग ३, ३, ३.

प्रति√यु (बन्धने), प्रतियौति आपश्चौ
२, ८, ५; बौश्चौ ८, २०: २१;
वैश्चौ; बौग् १, ८, १००.

ऋप्रति-युत्- -त्: ^d आपश्चौ ८, ८,
१८×५; बौश्चौ।

प्रति√युज्, प्रतियुज्यते वाध २६,
१९^२.

१ प्रति-योग- -गात् वृदे ३, ५२.

प्रति-योगिन्- पा ३, ३, ३.

प्रति√युष् > प्रति-योधिन्- पाग ३,
३, ३.

प्रति-यूप^e- -पम् काश्चौ २०, ४, २१;
आपश्चौ १४, ५, २०; हिश्चौ।

२ प्रति-योग^e- -गम् पावा १, ३, ११.

प्रति-योजन^e- -नम् दाश्चौ ६, ३, ६.
प्र-तिर- प्र√तृ द्र.

प्रति√रक्ष् > ऋप्रति-रक्षत्- -क्षन्
बौश्चौ ८, १९: १८.

१ प्रति-रथ^f- -थः ऋश्च २, ५, ४७.

२ प्रति-रथ^e- -थम् वाश्चौ ३, १, २,
९.

प्रति-राज^g- -जेन अप १, ९, १.

प्रति-राजन्- पाग ६, २, १९३;
-जभ्यः आपश्चौ १८, २२, ३;
बौश्चौ १२, १९: १३; हिश्चौ
१३, ७, २५; -जा वाधूश्चौ ३,
६९: ४.

प्रति√राध्, प्रतिराध्नुवन्ति बौश्चौ
१६, ३०: ७.

प्रति-राद्ध- -द्धः^h आपध १, २४,
२१; हिध १, ६, ६९; गौध २२,
७.

प्रति, तीⁱराध¹- -धः वृदे १, ३७;
५५; -धाः शाश्चौ १२, २१, २^k;
-धान् वैताश्चौ ३२, २२^k.

प्रति-राष्ट¹- -ष्टस्य हिश्चौ १४, २,
४३; ६, १०: २८.

प्रति√रिद्ध्, ऋप्रति...रिहन्ति आश्चौ
४, ७, ४; शाश्चौ ५, १०, २३.

प्रति√रुध् > प्रति-रुद्ध- -द्धस्य अप
३३, २, ३.

प्रति, > तीⁱरोध- पावाग ६, ३,
१२२.

प्रति-रोधिन्- पाग ३, ३, ३.

प्रति-रूप^m- -पम् शाश्चौ ८, १६, ३;
* कौस् ४६, ३; विध ६६, ४; -पा:

आपश्चौ १, ८, ७ⁿ; -पान् माग्
२, १०, २.

प्रतिरूप-कⁿ- > १ प्रतिरूपक-
वृत्ति- -त्तिः सुधप ८६: २.

२ प्रतिरूपक-वृत्ति^o- -त्तिः शंघ
३९०.

प्रतिरूप-विक्रय- > ^oयिक- -कस्य
विध ५, १२४.

प्रति-रोटक- पाग ६, २, १९३.

ऋप्र√तिल्, प्रतिलामि शाश्चौ १६,
४, १^p; प्रतिलानि आश्चौ १०,
८, १०^p.

प्रति√लभ्, प्रतिलभन्ते भाश्चौ ८,
२१, ११; माश्चौ १, ७, ७, ८.

प्रति-लभ्य आपश्चौ ८, १८, ४; माश्चौ।

प्रति√लिप्, म्प्, प्रतिलिम्पति बौश्चौ
१४, ७: ९; १९; २९.

प्रति-लेपम् बौश्चौ ९, ३: २३;
१०, ६: १; वैश्चौ १८, १: ७७.

प्रति√ली > प्रति-लीन- -नः कौग्
३, १, ५; शाग् ३, १, १२.

प्रति√लु, प्रतिलुनाति माश्चौ १, १,
१, ३४; वाश्चौ १, २, १, १६.

प्रति√लुप्, म्प्, प्रतिलुम्पन्ति बौध
२, ८, १५.

प्रति√लुभ् > प्रति-लोभय(त् >)
न्ती- -न्ती या ९, ३३^q.

प्रति-लोभयमा(न् >) ना- -ना या
९, ३३.

प्रति-ल्लोम, मा(ब्राम्.)^r- पा ४, ४, २८;
५, ४, ७५; पाग २, ४, ६९^r; -मः
आश्चौ ११, ३, ८; काश्चौ; बौध

a) पाभे. वैप १, १८१६ a द्र.। b) = गुणान्तराधान-। c) सप्र. आपश्चौ १९, १०, ५ प्रत्यस्यति इति, आपश्चौ १३, २२, ५ प्रत्यसित्वा इति च पाभे.। d) पाभे. वैप १, २१५४ a द्र.। e) अस.। f) = ऋधि-विशेष-। g) प्रास. समासान्तप् टच् प्र.। h) पाभे. पृ २२५ j द्र.। i) शाश्चौ. पाठः। j) वैप २, ३ खं. द्र.। k) = [कौन्तापीय-] मन्त्र-। l) प्रास.। m) विप., नाप.। वैप १ द्र.। n) स्वाथेर्ष.। o) विप.। बस.। p) पाभे. वैप १, २१५४ k द्र.। q) पाभे. वैप १, २१५३ n द्र.। r) विप., नाप.। व्यु. वैप १, २१२ m, २१५४ n च द्र.।

१, ९, १०^a; वैध ३, ११, २^b;
-मस्^p आश्रौ २, ११, ४; काश्रौ
१३, २, १५; १४, १, ६××;
आपश्रौ; या १, २; -मया
अप ३१, ८, ५; -माः आश्रौ
११, ३, ८; काश्रौ १५, ४,
२८××; द्राश्रौ; गौध ४, १७^b;
पा २, ४, ६९^c; -मात्^a वैध ३,
११, २; गौध ४, २५; -मान्
द्राश्रौ ८, ३, २४; लाश्रौ ४, ७,
५; -मानि निस् ६, ५: २१;
-माम् अप ३१, ९, ४; -मासु
बौध १, ८, ८; विध १५, ३७;
१६, ३; गौध २८, ४६; -मे
आश्रौ १२, ५, ३; काश्रौ २४,
४, १५; -मेषु अप ५९, १, ८;
वैध ३, १३, ८^a; ऋप्रा २, १०;
-मैः आश्रौ १२, ३, ५; द्राश्रौ;
-मौ बौश्रौ २६, ३३: ५.
प्रतिलोमी^d- म्याम् वैध
३, ११, २.
प्रातिलोमिक- पा ४, ४, २८.
प्रातिलोम्य- म्यम् या १, ३^e;
-म्ये पा ५, ४, ६४.
प्रातिलोम्य-गुणा (ए-आ)
श्रित-तः वाध १८, ७.
प्रतिलोम-क-धर्म- माणाम् वाध
१, ११^f.
प्रतिलोम-कृ(त>)ता- तया हिपि
११: ४.
प्रतिलोम- (ग>)गा^g- गः अप
५८^h, ४, १३; ६४, ६, ६.
प्रतिलोम-प्रतिकृति- त्या अप १,
३२, १०.

प्रतिलोमा(म-अ)नुलोम- -मानि
काश्रौ २४, २, १७.
प्रतिलोमा(म-अ)न्तराल-त्राय-
-स्थानाम् वैध २, १५, ९.
√प्रतिलोमि, प्रतिलोमयेत् अप ३४,
१, १.
प्रतिलोमै(म-ए)कान्तरा(रा-अ)
वस्कन्दन^k- -ने शंघ ३३०.
प्रति-लोम(न् >)नी^d- -नी अप
५८^h, ४, ६.
प्रति√वच्, √प्रतिवोचासि आश्रौ १०,
९, २; शाश्रौ १६, ६, १; लाश्रौ
९, १०, ११.
प्रत्युवाच शाश्रौ १५, १७, १;
वौश्रौ १६, २७: २४××; अप;
प्रयूनु: बौश्रौ १८, ४८: १३;
वृदे ६, २१; या २, २५.
प्रति-वक्तृ- -क्ता बौध १, १, ९.
प्रति-वचन^l- -नः आपश्रौ ८, ३,
१४; १२, २४, १५××; माश्रौ;
-नम् आपश्रौ ११, १२, ४; वौश्रौ;
या ६, १५; -नाथ बौश्रौ १८,
२६: २२; -ने वैश्रौ ८, ७: १३.
प्रति-वाक्य^l- -क्यम् वृदे १, ३७; ५०.
प्रति-वाचक- -काम् वैगृ १, ६: ३.
प्रत्यु(ति-उ)क्त- -क्तः आश्रौ ५, १,
१४; शाश्रौ ६, ७, १०; या १,
१४; -क्ते हिश्रौ १४, १, २८.
प्रत्यु(ति-उ)क्त्वा आपश्रौ १२, ६,
५××; वैश्रौ.
प्रत्यु(ति-उ)च्य हिश्रौ १, ३, ४०.
प्रति-वत्- -वन्ति माश्रौ ३, ७, ४.
प्रति-वत्सर^k- -रम् विध २१, २२.
प्रति√वद्, प्रतिवदेत् अप १, ३६, ६.

प्रति-वदत्- -दतः वैगृ २, २: २१.
प्रति-वादयत्- -यन् आपश्रौ २१,
१८, १२; हिश्रौ १६, ६, २०.
प्रति-वादिन्- -दिनः विध ८, ११.
प्रति√वप्, प्रतिवपति भागृ २, २८:
३; प्रतिवपेत् आश्रौ ३, १०,
१४.
प्रति-वर^k- -रम् वाधुश्रौ ४, ९४:
७××; हिश्रौ १७, ६, २८.
प्रति-वर्ग^k- -र्गम् काश्रौ ९, ४, १८.
प्रति-वर्ण^k- -र्णम् गौध १२, १३;
पावा १, ४, १०९; पापवा ५,
१४.
प्रति-वषट्कार^k- -रम् आश्रौ ५, ५,
२२; काश्रौ ४, ४, १३××; माश्रौ.
प्रति√वस्(आच्छादने)>प्रतिवसन-
>नीय- -यम् बौश्रौ १२, ४:
१०; -ये बौश्रौ ५, ९: १६××.
प्रति√वह् > प्र(ति>) ती-वाह-
-हः कौस् ७९, २९.
प्रत्यु(ति-उ)ह्य शाश्रौ २, ८, १५;
काश्रौ; लाश्रौ ३, ३, ३ⁱ.
√प्रत्यु(ति-उ)ढ, ढा- -ढम् आपश्रौ
६, ६, १०; भाश्रौ ६, १०, ११;
माश्रौ; -ढाः आपश्रौ ६, ६, १०;
माश्रौ १, ६, १, २२; वाश्रौ.
प्रत्युह-सुरी(ष>)षा^m- -षया
बौश्रौ १०, ४८: २.
प्रति-चात^k- -तम् काश्रौ २५, १०,
२३; वाश्रौ ३, ४, ५, १९;
आपध १, ३०, २०; हिध १, ८,
१७.
प्रति-वादयत्-^oदिन्- प्रति√वद् द्र.
प्रति√वाञ्, प्रतिवाञ्शयेत् लाश्रौ ९,

a) = जाति-विशेष-। b) कचिन् वा. किवि.। c) बहु. < प्रातिलोमि-। d) = प्रतिलोम-जातिका-।
स्त्री. डीष् प्र. (पा ४, १, ६३)। e) कृष्णपण्डितमनुसरतः Büh. यनि. पाठः ? (तु. केचन मूको. 'धर्माणः इति)।
f) उप. < √गम्। g) वस्र. >सस.। h) प्रास. समासन्ताऽभावः वसं. (पा ५, ४, ७५)।
i) भाप., नाप. (मन्त्र-)। j) = प्रति-वचन-। k) अस.। l) सपा. द्राश्रौ ७, ३, ३, प्रत्युह्य इति पाभे.। m) वस.।
वैष-प्र-२९

८, १६.
प्रति-वि√कृ, प्रतिविकुर्वीरन् बौश्रौ
 २३, १८ : १७.
प्रति-वि√कम् > प्रतिवि-कम्प्य हिश्रौ
 ७, ५, १२.
प्रति√विद् (ज्ञाने), †प्रति...वेत्तु
 आपश्रौ १, २०, ६; बौश्रौ १, ६ :
 १४××; माश्रौ; †प्रति (वेत्तु)
 काश्रौ २, ४, ५; १७; शुश्र ३, ५९.
 प्रतिवेदयते भाट्ट ३, १२ : ११;
 प्रतिवेदयन्ति अप ७०^३, ११, ८;
 १३; १८-२०; †प्रतिवेदयामः^३
 आमिष्ट २, ४, ४ : १४; बौध ३,
 ७, ११; †प्रतिवेदय^३ माश्रौ १, ८,
 ३, १; वाश्रौ १, ६, ४, १;
 प्रतिवेदयाम कौसु ४२, १७^३.
 प्रति-वेदन- -ने अप ४८, ५२.
प्रति√विद् (लाभे) > प्रति-वित्त-
 -त्ता: माश्रौ २, ३, ७, ३१.
प्रति-विद्य^० -द्यम् गौध १६, ५०.
प्रति√विघ् (=√व्यघ्), प्रति-
 विध्यामि माट्ट १, ११, ९^३.
प्रति-वि√घा > प्रतिवि-घान- >
 ण-कुशल- -लः शंघ २४४.
प्रति-वि-परी (रि√इ), प्रति-
 विपर्यन्ति^३ काश्रौ ५, ९, २.
प्रति-वि√भञ्ज > प्रतिवि-भञ्ज काश्रौ
 ४, १०, १२; १३, ४, १४; आपश्रौ.
 प्रतिवि-भाग- -गः काश्रौ १०, २,
 २३; -गात् काश्रौ २, ७, ११.
 प्रतिवि-भाग-शस्(ः) देवि २, १.
प्रति-वि√भू, प्रतिविभवन्ति निसू

२, ३ : ३३; प्रतिव्यभवन्त्यत् निसू
 २, ३ : ३०.
प्रति-वि√वद्, प्रतिविवदेत् आपश्रौ
 १०, २७, ६.
प्रति-वि√शिष् > प्रतिवि-शेष- -षः
 शुप्रा ८, ५०.
प्रति-वि√श्वस्, प्रतिविश्वसन्तु काट्ट
 ९, १०^३.
प्रति√विष् > प्रति-वेषण- -गम्
 आमिष्ट २, ७, ९:५.
प्रति√वी, प्रति...व्यन्तु अप्राय ६,
 १^३.
प्रति-वी (वि√ई) क्ष्, प्रतिवीक्षत्
 द्राश्रौ ६, १, १७; लाश्रौ २, ९, १४.
प्रति-वृत्ति^३ -त्ति ऋप्रा १३, ४८.
प्रति-वेद^३ -दम् पाट्ट २, ५, १४; शंघ
 ३९; बौध १, १, १; २, २.
प्रति L, ती^३ J-वेश, शा^३ पावाग ६,
 ३, १२१; -शः माश्रौ १, ७, ५,
 २७; लाश्रौ ८, २, १२; बौगृ २,
 ६, १४^३; -शम् आपश्रौ ८,
 १०, १०^३; बौश्रौ ५, १० : १६^३;
 २४, ३२ : ७^३; माश्रौ ८, ११,
 १६^३; वाश्रौ १, ७, ३, १५^३;
 वैश्रौ ९, २ : ९^३; हिश्रौ ५, ३,
 १०^३; बौपि १, १२ : २^३; -शस्य
 बौश्रौ २१, ३ : २९^३; -†शाः
 आश्रौ २, ५, ९; आपश्रौ; -शात्
 भाश्रौ ८, १२, १७^३; -शानि
 वायूश्रौ ३, ७५ : १२; -शाम्
 वायूश्रौ ३, २० : ७; द्राश्रौ ३, २,
 १८; लाश्रौ १, १०, १३.

प्रतिविश्य^३ - > ष्य-ब्राह्मण-
 -णे विध ५, ९४.
प्रतिवेश-पक्व^३ -क्वस्य हिश्रौ ५,
 ३, २८; -कान् वैश्रौ ९, ३ : १.
प्रति√वेष्ट, प्रतिवेष्टयन्ति बौश्रौ १४,
 १८ : ५^३.
प्रति-वेष्टमान- -नाः बौश्रौ १४, १८ :
 ५^३.
प्रति-वेष्टित- -त्सु शौच १, २२.
प्रति-वेष्टय शुप्रा १, ७८; तैप्रा २,
 ३७.
प्रति-वेष्टम्भ^३ -म्भम् निसू ६, ९:५.
प्रति-व्यू (वि√ऊ) ह्, प्रतिव्यूहामः
 बौश्रौ २६, १५ : १.
प्रतिव्यू(वि-ऊ)ह- -हम् बौश्रौ २६,
 १५ : २.
प्रति√व्ये > प्रति-वीत- > ष्त-त
 (म>)मा- -मया वैताश्रौ २२,
 १२.
प्रति-शब्द^३ -ब्दम् मीसू ९, २, १७.
प्रति-शाक्-(> प्रतिशाक्य-पावा.)
 पावाग ४, ३, ५८^०.
प्रति-शाख^३ - (> प्रतिशाख्य-
 पावा.) पावाग ४, ३, ५८^०.
 प्रातिशाख्या(ख्य-आ) दि-
 शास्त्र-ज्ञ- -ज्ञः कौशि ५७.
प्रति-शिरस्^३ -रः काश्रौ १७, ५, ७.
प्रति-शिल्प^३ -ल्पानि शाश्रौ १२,
 ७, ४.
प्रति√शी > प्रति-शीव(र>)री^३-
 -०रि हिपि १ : १६^३.
 †प्रतिशुक्ल माशि १३, ७.

a) पाभे. वैप १, २१५५ b द्र.। b) पाभे. वैप १, २१४१८ द्र.। c) अस. उप. = विद्या-।
 d) नैप्र. < षरियन्ति । पाप्र. पूर्व धातोरुपसर्गेण योग इति । e) सपा. प्रतिविश्वसन्तु <> प्रतिश्वसन्तु इति
 पाभे.। f) पाभे. वैप १, २१५५ j द्र.। g) अस.। h) द्राश्रौ. लाश्रौ. पाठः। i) वैप १ द्र.। j) =(उप-
 चारात्) श्रोदन- (तु. रुद्रदत्तः)। k) वा. क्वि.। =समीप-। l) तान्त्रमविकः व्यः प्र. उस्. (पावा ४, ३, ५८)।
 m) पूष. =(आहवनीयगार्हपत्य-प्रातिवेश्यात्) दक्षिणामि- (तु. रुद्रदत्तः [आपश्रौ ८, १०, १०])। n) उप-
 =साम-विशेष-। o) परस्परं. पाभे.। p) तु. पासि.। q) प्रास.।

प्रति√शुच् (दीर्घ), प्रतिशोच
आपश्रौ ६, २१, ११†.

प्रति√शुष् > प्रति-शुष्क- > °ष्का
(ष्क-श्च)प्र^१- -ग्रम् जेश्रौ २ :
४×४.

प्रति√श्रु, श्रु (श्रवणे)^२, प्रतिश्रुगोति
शांश्रौ ५, १, १०; १०, १३,
२७×४; अश्र २, ६(६)†; प्रति-
श्रुगुणात् पाण् २, ५, २९.
प्रतिश्रावयति वाश्रौ ३, ३, ३,
२५.

१ प्रति-श्रवण- -णम् गौध २, ३१;
-णे पा ८, २, ९९.

प्रति-श्रुत्^३- -पावाग ३, ३, १०८^d.
प्रातिश्रुत्क^४- -कानि तैप्रा
२, ३.

प्रतिश्रुत्- (क>) क^५- -कयै
भाशि १९.

प्रति-श्रुत्- -तस्य विध ५, १७८;
-ते कौण् १, ३, १; ६, १; शाण्
१, ७, १; ९, १९.

प्रतिश्रुता (त-आ) दि- -दिषु
शाण् ५, १०, ३.

प्रति-श्रुति- -ति: वैताश्रौ ४३, ४७;
अप १, ५०, १०^२.

प्रति-श्रुत्य गौध ५, २४.

प्रति√श्रु, श्रु (हिंसायाम्), प्रति-
श्रुणाति आपश्रौ ३, ६, १०; बौश्रौ
१, १९; २५; माश्रौ ३, ६, २;
†प्रति...श्रुणीहि या ४, १९^१; ६,
३; प्रति (श्रुणाहि) साश्र १,
९५†.

प्रतिशीर्यते आपश्रौ १८, १५, ४.

प्रति-शोष^६- -षम् हिश्रौ ८, ७, ४०;

प्रति-शौच^७- -चम् बौध १, ४, १५^१.

प्रति√श्यै > प्रति-शीन- , °नवत्-
पा ६, १, २५.

प्रति√श्रम्, प्रतिश्रमेत् आश्रिण् २, ७,
६: १३.

२ प्रति-श्रवण- पा ६, २, १९३.

प्रति√श्रि > प्रति-श्रय^१- -यम् विध
६७, ४६; -ये अय ४०, १, ७.

प्रति√श्वस्, †प्रतिश्वसन्तु^१ माण् १,
४, ९; वाण् ८, ७.

प्रति√ष (<सि)ञ्च्, प्रतिषजेत् लाश्रौ
१०, २०, २.

प्रति-षज्य बौश्रौ १२, १४: ८.

प्रति√ष (<सि)द् > प्रति-षादन- ने
बौश्रौ १७, ४६: ३.

प्रति-षाण्मास^१- -सम् वैश्रौ १०,
१: २^६.

प्रति√षि (<सि)च्, ङच्, प्रतिषि-
ञ्चति आपश्रौ ६, ६, ७; १५, ३; ५;
६; हिश्रौ ३, ७, ३१; प्रतिषिञ्चत्
कौसू ६८, ६; ८; ९.

प्रतिषिञ्चयात् आश्रौ २, ३, ५.

प्रति-षिक्त, क्ता- -क्तम् आपश्रौ ६,
१५, ६; हिश्रौ ३, ७, ३२; -†क्ता:

आपश्रौ ६, २०, २^३; माश्रौ.

प्रति-षिच्य आपश्रौ ६, २०, २.

प्रति-षिच्य^१- -च्यम् आपश्रौ ६, ६,
३; हिश्रौ ३, ७, ३२^२.

प्रति-षेक- > °क काल- -ले वैश्रौ
२, ९: ५.

प्रति-षेकम् आपश्रौ ६, १५, २;
हिश्रौ ३, ७, ११५.

प्रति-षेचन- -नात् हिश्रौ ३, ७,
११४.

प्रति√षि (<सि)घ्, प्रतिषधते माशि

१२, १; प्रतिषधति वृदे ७, १३;

या १, २^३; ४; मीसू ३, ५, २३;

प्रतिषधन्ति याशि १, ७५; प्रति-

षेधेत् आपव १, ८, २०^४.

प्रतिषिध्यते वैध ४, ८, ६; वृदे

४, १११×४; प्रतिषिध्येत हिश्रौ

३, ८, ४५; या २, १४.

प्रतिषेधयति बौश्रौ २६, ३०:

१५; १७; प्रतिषेधयन्ति बौश्रौ

२४, १४: ११; आपव १, २८,

३; हिध १, ७, ३९; प्रतिषेधयेत्

आण् ४, ८, ३३; हिध १, २,

१०८^४.

प्रति-षिद्ध, द्वा- -द्वा: शंघ ३०३;

मीसू ६, ५, ४२^४; -द्दम् काश्रौ

१, ६, ८; माश्रौ; या २, १४;

-द्दस्य पावा ७, २, ३७; मीसू

१०, ३, ७१; -द्दा या २, ११;

-द्दा: वाश्रौ १, ६, ३, २६; -द्दान्

बौध ४, २, ९; -द्दानाम् आपव

१, ३१, १४; हिध १, ६, ४४;

मीसू ६, २, २१; -द्दानि आपश्रौ

५, १६, ७; माश्रौ; -द्दे आपश्रौ

२४, २, ३८; काठश्रौ; -द्देन

शौच ४, ५६; -द्देभ्य: हिश्रौ

३, १, २२; -द्दौ हिश्रौ ३, ४,

४४; निसू ५, ५: ८.

प्रतिषिद्ध-त्व- -त्वात् पावा ३, ३,

१३; ४, १, ७×४; मीसू.

प्रतिषिद्ध-भोजन- -ने सुध

२३.

प्रतिषिद्ध-मन्त्रयोग^०- -ने गौध

२२, ३५.

a) बस.। b) पा १, ३, ५९; ४, ४० परामृष्ट: द्र.। c) वैप १ द्र.। d) तु. पागम.। e) तदहृतीयषु

ठञ् > क: प्र. (पा ५, १, ६३; ७, ३, ५१)। f) पामे. वैप १, २१५६ ० द्र.। g) अस.। h) च्व जलान्तरेण इति मैसू.।

i) उप. अधिकरणे प्र.। j) पामे. पृ १६८२ ० द्र.। k) षण्मासम् इति संस्कृतु: टि.। l) कथ् प्र. उस्.

(पा ३, १, १०९)। m) परस्परं पामे.। n) षेधात् इति जीसं. प्रमृ.। o) पूष. = अनाधिकारिन्-।

प्रतिषिद्ध-वर्जम् बौध २,६,१७;
 गौध ३,३०; ५,२.
 प्रतिषिद्ध-वाङ्मनस्- -नसोः
 गौध २५,१२.
 प्रतिषिद्ध-विज्ञान- -नात् मीस्
 १०,८,४४.
 प्रतिषिद्ध-सेवन- -नम् गौध
 १२,३.
 प्रतिषिद्ध-सेवा- -वायास् गौध
 १२,२४.
 प्रतिषिद्धा(द्ध-ञ्)र्थ- -र्थम्
 पावा ६,३,४१.
 प्रति-षिध्य आपश्चौ ८,१५,१२; वैश्रौ.
 प्रति-षेध- -यः शांश्रौ २, १, ४;
 आपश्चौ २४, १२, ४; हिश्रौ;
 -धम् पावा ८, १, ५१; -घयोः
 पा ३, ४, १८^३; -घस्य अप
 ४८, १२६; पावा ५, १, २०; ७,
 २, १०; ६३; मीस् १०, ७, ४२;
 -धात् आपश्चौ २४, ४, १; २;
 अप्सा; -धेन भाश्रौ ६, १५,
 ६; -धेषु मीस् ६, २, २१.
 प्रतिषेध-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा ६,
 ४, ५२; ७, २, ६२.
 प्रतिषेध-वचन- -नात् पावा ८,
 १, ५५.
 प्रतिषेध-वत् मीस् १०, ७, ४०.
 प्रतिषेध-विषय- -यात् पावा १,
 १, ४४.
 प्रतिषेध-व्यवहित- -न्तः या ९,
 १०.
 प्रतिषेध-संज्ञा-करण- -णात्
 पावा १, १, ४४.

प्रतिषेध-संनियुक्त-वचन- -नम्
 पावा ७, ३, ३.
 प्रतिषेध-संप्रत्यय- -यः पावा १,
 १, ४४.
 प्रतिषेध-सामर्थ्य- -ध्यात् पावा
 ७, ३, ८५.
 प्रतिषेधा(ध-ञ्) धिकार- -रे
 पावा ८, १, ५५; ४, ३२.
 प्रतिषेधा(ध-ञ्)नर्थक्य- -क्यस्
 पावा २, २, १४; ३, ३, १५१××.
 १प्रतिषेधा(ध-ञ्)र्थ- -र्थः पाप्रवा
 ५, १६; -र्थम् पावा २, ३, ८××.
 २प्रतिषेधा (ध-ञ्) र्थ- >
 र्थीय- -यः या १, ४.
 प्रतिषेधो(ध-ञ्)पदेश- -शौ वृदे
 १, ३८; ५२.
 प्रतिषेधक- -कः तैप्रा २२, ८.
 प्रतिषेधन- -ने सुधप ८७ : ३.
 प्रतिषेध्य- -ध्यम् पावा २, २, १४.
 प्रति√षि(<सि)च्, प्रतिषीव्यति
 माश्रौ २, २, २, ३५; ३, ३१;
 प्रतिषीव्येत् आपश्चौ १०, ८, १३;
 १४; काठश्रौ.
 प्रति-षीव्य माश्रौ २, २, २, ३५; ३, ३१
 प्रति-षीव्य- पा ३, १, १२३.
 प्रति-षेक-, °कम्, °षेचन- प्रति
 √षिच् द्र.
 प्रति-ष् (<स्) √कञ् (गतिशा-
 सनयोः) > °ष्-कश्- -शः पा
 ६, १, १५२.
 प्रति-ष् (<स्) √कृ (विक्षेपे) > °ष्-
 किरत्- -रन् द्राष्ट ४, ४, ४.
 प्रतिष्ठमा(न>)ना- प्र√स्था द्र.
 प्रति√ष्टा (<स्था), प्रतितिष्ठति

शांश्रौ १५, ४, ४; १६, २२, १३;
 आपश्चौ; कौष्ट ३, २, ६^१;
 ऋप्रति...तिष्ठति बौश्रौ १४, २ :
 ९××; वाधूश्रौ ४, १५ : १०;
 ९०:१९; ऋप्रति(तिष्ठति) भाशि
 ८५; प्रति...प्रतितिष्ठति शांश्रौ
 १०, १८, ८; प्रतितिष्ठन्ते वाधूश्रौ
 ४, ५१ : ४; प्रतितिष्ठन्ति
 आपश्चौ २१, १५, १××; बौश्रौ;
 प्रति...प्रतितिष्ठन्ति शांश्रौ १०,
 १८, ८; ऋप्रति(तिष्ठामि) आपश्चौ
 ९, १४, २^३; १९, १०, २; बौश्रौ;
 ऋप्रति(तिष्ठामि) काश्रौ १९, ४,
 २३; आपश्चौ ९, १४, २^३××;
 बौश्रौ; प्रतितिष्ठति कौस् ९८, २^१;
 प्रतितिष्ठतु आपमं २, ११, १६^१;
 प्रतितिष्ठस्व कौष्ट ३, ३, १^१;
 ऋप्रतितिष्ठ, > ष्टा आपश्चौ २,
 ११, १^१; ७, ६, ७^६; ९, १८, १;
 बौश्रौ १, १४ : ५^१; ४, ३ :
 १६^६; ६, २८ : ४४^६; ७, १ :
 २३^६; २० : ४^६; माश्रौ २, १०,
 ४^१; ७, ५, ४^६; माश्रौ; वैश्रौ
 १०, ६ : ३^६; १४, ९ : ९^६; हिश्रौ
 १, ८, २५^१; ४, २, १७^६; शांष्ट ३,
 ३, १^१; प्रतितिष्ठाम वाधूश्रौ
 ३, ३९ : २२; प्रत्यतिष्ठत् शांश्रौ
 १४, ९, १; ७४, १; बौश्रौ १८,
 ३४:७××; प्रत्यतिष्ठताम् शांश्रौ
 १४, ४२, १८; प्रतितिष्ठत आपध
 १, २४, १४; हिध १, ६, ६३;
 प्रतितिष्ठत् आपश्चौ १७, २४, ८;
 २२, ४, २०^१; बौश्रौ १८, ३४ :
 ५××; हिश्रौ १२, ७, २१^१.

a) = प्रतिषेध-वाचिन्-। b) कस.। c) = पुरोयायिन्-। d) सपा. °तिष्ठति <> °तिष्ठ इति पामे.।
 e) पामे. वैप १, १८८^७ द्र.। f) सपा. °तिष्ठ (तैप्रा ३, ७, ५, ३ च) <> °तिष्ठन् इति पामे.। g) सपा. प्रतितिष्ठ
 (तैप्रा २, ५, ८, १२ च) <> प्रति...ष्टात् इति पामे.। h) प्रतिष्ठेत् इति पाठः! यनि. शोधः (तु. सपा. आपश्चौ
 १७, २४, ८)।

प्रतिरस्थौ बौश्रौ १८, ४७:११;
 प्रतिघास्यति माश्रौ ६, २, ५,
 २४; ऋष्यघात् आपश्रौ ७, ६,
 ७; माश्रौ ७, ५, ५; वाधुश्रौ ३,
 १९:१६; वाश्रौ १, ६, २, ४;
 हिश्रौ ४, २, १७; प्रति...घात्
 माश्रौ १, ७, ३, ४२ः^१; प्रति...
 अस्थुः भाग १, २७: ६ः.
 प्रतिघापयते आपश्रौ १८, ६, १;
 १९, १३, २४; हिश्रौ १३, २, १५;
 २३, २, ५०; प्रतिघापयति शाश्रौ
 १७, १६, ५; आपश्रौ २, ११, १;
 ६, २, १××; बौश्रौ; या १४, ३०;
 प्रति...स्थापयति, प्रति^२(स्थाप-
 यति) बौश्रौ १४, २:२७^१; प्रति-
 घापयतः वैश्रौ ८, ९:११; प्रतिघा-
 पयन्ति शाश्रौ १६, १०, १६; भाशि
 ७०; प्रतिघापयामि वैश्रु ४, ११:
 १३; ऋष्यघापय माश्रौ ३, ११,
 १; हिश्रौ २, ६, ६; प्रतिघापयानि
 बौश्रौ १८, ३३: १४^१; प्रति-
 घापयेत् बौश्रौ २७, १: ३; २९,
 १३:२; वैश्रौ; प्रतिघिपेत् आम्रिष्ट
 २, ४, ७: ५; १६.
 प्रति...अतिष्ठिपन् माश्रौ १, ४,
 १, २६^१; प्रत्यतिष्ठिपम् वाधुश्रौ
 ४, ६: ४.
 प्रति-तिष्ठन्- षन् माश्रौ १, २, ६,
 २२^१; द्राग ४, ४, ५; षन्तः
 आश्रौ ११, ४, ८; १२, ९, १६;
 बौश्रौ १६, ११: ४; -ः षन्तम्
 गोग ४, ६, ११; द्राग ४, १, २५.

प्रति-तिष्ठमान- -नः गोग ४, १०, २.
 प्रति-ष्ठा^१- -ष्ठयोः हिपि ६: ६^१;
 -ष्ठा आश्रौ ५, ७, ५^१; शाश्रौ
 ६, ३, ८^१××; १७, १३, ५^१;
 काश्रौ; कौस् १३७, २८^१; अप
 ४८, ६७^१; ऋश्र १, ४, ८^१; शुश्र
 ५, २१^१; अश्र ६, १६^१; निघ ३,
 २^१; या १४, १०; ऋप्रा १७,
 ५^१; पि ३, १५^१; उनिस् १:
 १२^१; -ष्ठाः कौस् २०, ७^१;
 -ष्ठास् शाश्रौ १४, ५; आपश्रौ;
 माश्रौ १, ४, ३, १^१××;
 वाश्रौ १, १, ४, ९^१××; -ष्ठायाः
 बौश्रौ १४, २: १४; अप १९,
 १, २; -ष्ठायास् शाश्रौ २, ११,
 ६^१; ४, १०, ३^१; १६, २२, १३;
 पा ६, १, १४६^१; -ष्ठावै शाश्रौ
 १, ५, ९××^१; काश्रौ; -ष्ठे शाश्रौ
 १६, २०, २; आपमं; अप ४८,
 ६०^१.
 प्रतिष्ठा-क्वाम- -मः आश्रौ १०,
 ३, १; शाश्रौ १४, ९, १××; आपश्रौ;
 -मम् वाधुश्रौ ४, ९०: १७;
 ९०^१: ८; -मस्य शाश्रौ १४, ११,
 १××; काश्रौ; -माः आश्रौ ११,
 २, ३; ८××; आपश्रौ; -मानाम्
 आश्रौ ११, ३, १××; काश्रौ.
 प्रतिष्ठाकाम-यज्ञ^१- -ज्ञः
 निस् ९, १: १.
 प्रतिष्ठाकाम-सन्न- -न्नम्
 निस् १०, ४: १४; -न्ने निस्
 १०, ३: १०.

प्रतिष्ठा(घा-ञ्)र्थ- -र्थः निस् ४,
 ९: ४; १३.
 प्रतिष्ठा-वन्- -वान् हिश्रौ ६,
 ४, १^१.
 प्रतिष्ठा-वि(घा>)घ^१- >
 षन्तरम् निस् ६, ८: २७.
 प्रतिष्ठा-शील- -लम् या १४,
 १०.
 प्रतिष्ठा-स्तोम- -मम् निस् ७,
 ६: १८.
 प्रतिष्ठा(घा-उ)क्त- -क्तः निस्
 ४, ९: २७.
 ऋष्यघा-न^१- -नम् आपश्रौ १६,
 ३३, ५^१; वैश्रौ १८, २१: २४^१;
 हिश्रौ ११, ८, ३^१; पाग ३, १५,
 २३; -ः ऋश्रौ अप १, ४१, ४; ५;
 अशां ११, ४; ५.
 प्रतिष्ठापन- -नम् माश्रौ ४, १, १९;
 -नेन विघ २३, ३४.
 प्रतिष्ठापम् जैश्रौ ५: ८; २१: ९.
 प्रतिष्ठापयत्- -यत् बौश्रौ २०,
 २०: ४.
 प्रतिष्ठाप्य आश्रौ ८, १४, १२;
 आपश्रौ.
 प्रतिष्ठाप्य- -प्यम् निस् २, १०:
 ८; ३, ४: ६.
 प्रति-घाय निस् ९, ९: २४; अप.
 प्रति-घित, ता- -तः ऋश्रौ १७,
 ३८: ४, ६; ७××; वाधुश्रौ;
 -तम् आपश्रौ ६, ३०, १;
 १५, १०, १०; बौश्रौ; -ता
 आपश्रौ ९, १५, २१; १४, ३३.

a) पामे. पृ १६८४ g द्र.। b) पामे. पृ १६८४ f द्र.। c) आप. विप. नाप. च। वैप १ द्र.।
 d) = [शरीरावयव-विशेष-] श्रोणि-। तु. पामे.।। e) सप्र. बौपि १, ६: ६ ओण्योः इति पामे.। f) पामे. वैप २,
 ३खं. प्रतिष्ठा ऐशा ५, १, २ टि. द्र.। g) पामे. वैप १, २०४३ p द्र.। h) = हस्व-। i) = छन्दो-विशेष-।
 j) विप. (वैप १, २१५८ g द्र.)। k) सकृत् पामे. पृ १५५३ a द्र., अन्यत्र प्रतिष्ठा गमेयम् <> प्रतिष्ठावान्
 भूयासम् इति पामे.। l) = स्थान-। m) = दावापृथिवी-। n) नाप.। o) बस.। p) उप. भावावयवै
 प्र.। q) = शरीरावयव-।

२१; वाधूश्रौ; -ता: अप ८, १, ६; २२, ६, ४; विध २३, ५७; शौच ४, १०५; -तानि माश्रौ ६, १, ७, २८; क्षुसू ३, २: ४; -ताम् बौश्रौ २, १८: १६१; माश्रौ ९, १८, ८; आश्रित्य; -तायाम् आपश्रौ २, ७, ३; माश्रौ २, ७, ९; वैश्रौ ५, ४: १५; हिश्रौ १, ७, ४६; -ते आपश्रौ १, ७, १०; वाधूश्रौ; -तेऽन्ते जैश्रौ ५:८; २१:९; -तौ विध ५२, १६; या १४, ३०.
 प्रति-ष्ठिति- ऋति: आपश्रौ ५, १८, २; हिश्रौ ६, ५, १६; ऋत्या: बौश्रौ १३, १०: ४; १४, २: १४; -त्ये शाश्रौ १५, १, ४०×४; बौश्रौ.
 प्रति√ष्णा(<स्ना)>प्रति-ष्ण- > प्रति(ष्ण-क>)ष्णक^३- पाग ८, ३, ९८.
 प्रति-ष्णात- -तम् पा ८, ३, ९०.
 प्रति√ष्फु(<स्फु)इ, प्रतिष्फुर ऋपा ५, १७१.
 श्रुप्रति-संवत्सर^b- -रम् वैश्रौ १०, १: १; अप १७, १, १; वैध १, ५, ३.
 श्रुप्रति-संवत्सर^c- -राम्^d पाग १, ३, २; द्राग ४, ४, २५.
 प्रति-सं√वद् >प्रति-सं-वादिन्- -दिनम् ह्य १, १५, ६१^०.

प्रति-सं√वस् (निवासे), प्रतिसं- व- सीत बौश्रौ २४, १२: १४.
 प्रति-सं√विश्र्, प्रतिसंविश्रति आश्रित्य १, ६, ३: ६६; प्रति-संविश्रेत वाध १२, ४६; गौध.
 श्रुप्रति-संस्कार^b- -रम् आपश्रौ १४, ५, ४; हिश्रौ ९, ८, २.
 प्रति-सं-स्√कृ > २प्रति-संस्कार^c- -र: शोध ३२७.
 प्रति-संस्तुत^b- -तम् काश्रौ ५, ५, ७.
 प्रतिसं-हिता- प्रति-सं√धा द्र.
 प्रति-सं√हृ, प्रतिसंहरेत् आपध १, ८, ७; हिध १, २, ९५.
 प्रतिसं-हार- -रे वैश्र ५, १: १७.
 प्रतिसं-हृत्य अप १३, ३, ३.
 प्रति-सं√ख्या>प्रतिसं-ख्याय काश्रौ २५, ४, १४; आपश्रौ ९, १५, १४^६×४; बौश्रौ.
 प्रतिसं-ख्यायम् बौश्रौ २७, १३: १०^६.
 प्रति-सं√चर्, प्रतिसंचरेत् काठश्रौ ९९.
 प्रति-सदृक्ष^h- -क्षम् शोध ११६: ५३^{११}; -क्षास: शुपा ३, ८११.
 प्रति-सदृक्ष^h- -दृक् शुपा ३, ८११^१.
 ?प्रतिसंधनीय^k- -यम् आश्रयो ८, ५.
 प्रति-सं√धा, प्रतिसंध्यात् आश्रौ १, २, १.
 प्रति-संहि(त>)वा- -ताम् आपश्रु १७, ६; हिश्रु ५, ४७.

प्रति-सं-नि√विश्र् > प्रतिसं- नि- विष्ट- -ष्टा: अप ७०^३, ११, २२.
 प्रति-सम्√अस् (क्षेपणे), प्रति- समस्यति आपश्रौ ११, ५, ७; १८, ९, ५; माश्रौ १, २१, ३; हिश्रौ १३, ३, २८.
 प्रतिसम्-अस्य बौश्रौ २६, ३३: ५.
 प्रति-सम्-आ√नी > प्रतिसमा-नीय आपश्रौ ७, १४, ८^१.
 प्रति-सम्√इध् > प्रतिसम्-एधन^m- > नीय, याम्ⁿ- -यम् बौश्रौ १०, २१: १५; वैश्रौ १८, १२: २५; -याम् बौश्रौ २२, ३: १४.
 प्रति-सम्√ईच्, प्रतिसमीक्षते जैश्रौ १९: १९.
 प्रति-सम्√ऊह् > प्रतिसम्-ऊह्य बौश्रौ २३, ४: १०.
 प्रति-सं√भक्ष्, प्रतिसंभक्षत: वैश्रौ १५, ३५: ५.
 प्रति-सं√मृच्, प्रतिसंमाष्टि हिश्रौ १३, १, २८.
 प्रति-सवन^b- -नम् काश्रौ २२, ९, ४.
 प्रति-साम- पा ५, ४, ७५.
 प्रति-सामिधेनि^b- -नि वैश्रौ ६, १: २.
 प्रति-सामिधेनीⁿ- -नी: हिश्रौ २, १, ४^०.
 प्रति-साय^b- -यम् गोग ३, ५, ३२; जैश्र १, १९: २४; बौध २, ३, ४३.

a) विप. > नाप. [(प्रतिष्णानकर्त्री-) स्त्री- (तु. न्यासः, वाच., PW.; वैतु. पागम. [प्रति√ष्णा > अधिकरणे] प्रति-ष्णा-> यनि. [द्रोणी-] इति)]. b) अस. । c) विप. । प्रतिगत- (अभिगत- [अतिथिरूपेण]) संवत्सरेण [अपवर्गे तु.] संवत्सरं समाच्यैव इति कृत्वा प्रास. (वैतु. WAG [२, १०२ d], Old. प्र. अस. [प्रतिवर्षम्] इति ?) । d) पाभे. पृ १५३० b द्र. । e) छन्दस्तः प्रतिवादिनम् इति संस्कृतुः टि. शोधः । f) भाप. । g) सपा. 'ख्याय<>' ख्यायम् इति पाभे. । h) वैप १ द्र. । i) अपु २१९, ३२ अदक्षः इति । j) पाभे. वैप १, २१४७ n द्र. । k) प्रतिसंधानीय-> छन्दस्तः यनि. । l) सप्र. हिश्रौ ४, ३, ३३ समानीय इति पाभे. । m) विप. > नाप. । n) प्रास. । o) सप्र. आपश्रौ २, १२, ६ परिधानीयायाम् इति पाभे. ।

प्रति-साहस्र^१ - स्नाणि आपश्रौ १८,
८, ६.

प्रति-सुत्वन्^२ -> प्रातिसुत्वन्-
-नम् शाश्रौ १२, १८, २०.

प्रति-सूक्त^३ - क्तम् वाश्रौ २, २, ५,
२६; अत्र २, १९.

प्रति-सूर्य^४ -> र्थ-क-कः अप
६५, २, ११; -कैः अप ६५, २, ३.

प्रतिसूर्य-मत्स्य^५ - मत्स्यः^६ हिघ १,
३, ८२.

प्रति√सु>प्रति-सर, रा^७ - पाग २,
४, ३१^६; -फः कौसु १९, २२;
३९, ७; अप; -रम् वैश्रौ १, ४,
१३^६; कौघ १, ८, ८^६; शाण्ड १, १२,
८^६; हिपि १८ : २१^६; अप; -रस्य

अशां २२, १^६; -राः^६ हिपि १७:
२०; शुअ २, १४४; -रान् बौघ
१, ८, ९^६; -राम्^६ वैघ २, २:
३×४; -रैः अप ३३, ६, १२.

प्रतिसर-दधि-मधु-घृत - तम्
माघ २, १४, २५.

प्रतिसर-दधि-मधु-मोःक-स्व-
स्तिक-नन्द्यावर्त-व(त>)ती^८-
-स्याम् माघ २, ६, ४.

प्रति√सृ>प्रति-सृष्य आश्रौ ५,
१७, ६^१.

प्रति-सू^९ क पा ६, १, १४१.

प्रति-स्तो^{१०} -त्रम् वैश्रौ २१, ९:५.

प्रति-स्तोत्रीय^{११} -यम् जैश्रौका १७८.

प्रति-स्तोम^{१२} -मम् बौश्रौ ७, ३:२४.

प्रति-स्थान^{१३} -नम् अप १८^२, १९, ४.

प्रति-स्नान^{१४} -नम् विघ ४६, ४.

प्रति√स्पश> ऋप्रति-स्पश^{१५} -शाः
आपश्रौ १७, ९, ६; बौश्रौ १०, २:

१; वैश्रौ १८, १४ : ४×४; तैप्रा
६, १२.

प्रति-स्पाशन^{१६} - नम् अप्रा ३, १,
७^६.

प्रति√स्सु, प्रतिस्मरेथाम् शौच ८, ४,
७^६.

प्रति-स्रोत^{१७} -> त-व(ह>)हा-
-हाः अप ६४, ६, ६; ७०^३, २३,
३; ७०^३, ११, १६^१.

प्रति-स्रोतस्^{१८} -तः अप ६७, ६,
३; ७१, १४, २.

प्रतिस्रोतो-गामि(न् >)नी- न्यः
अप ७२, ३, ७.

प्रति-स्व^{१९} -स्वम् आश्रौ ५, १७, ५;
६, १२, ७; ऋप्रा ११, २०.

प्रति-स्वर^{२०} -रे या ७, २३.

प्रति-स्वाहाकार^{२१} -रम् काश्रौ १८,
५, १६; आपघ १५, ६.

प्रति√हन, प्रतिहन्ति माश्रौ १, २२,
४; प्रतिहन्मि या ३, १०^६;
प्रतिहन्यात् वाध २०, १३.

प्रतिहन्यते आम्रिण २, ५, १ :
४८; जैघ २, ९ : ३६.

प्रति-घ^{२२} -घैः अप ६५, २, ३.

प्रति-घात - तम् आपघ २, ५,
११; हिघ २, १, ९२.

प्रति-घ्ना(न>)ना- नाः अअ
११, ९.

प्रति-हत - तः सु २७, ३; आशि ८,
७; -तम् सु २७, ३; वैघ १, ७:३.

प्रतिहत^{२३} - तः तैप्रा २०,
३; कौशि ८.

प्रतिहता(त-अ)भि-
(धा>)घ^{२४} -घः कौशि १५.

प्रतिहत-श(म्या>)म्य^{२५} -न्ये
आपश्रौ ११, ६, ३.

प्रति-हत्य कौघ २०, ७.

प्रति-हन्तु- न्ता शंघ ३७७ : २;
४१४.

प्रति-हरण- °हर्ष- प्रति√ह द्र.
प्रति√हर्ष, प्रतिहर्षते या ११,
१५^६; ऋतिहर्ष आश्रौ २,
१४, १२; ४, १०, ३×४; हिश्रौ
१४, ४, ३८.

१-२प्रति-हार- प्रति√ह द्र.
प्रति-हित- प्रति√धा द्र.
प्रति√हु, प्रतिजुहोति बौश्रौ ३,
१४ : ८; ८, २२ : १४×४;
प्रतिजुहुयात् बौश्रौ २१, २६ :
१८; १९^३; २४, ३१ : ११; गोघ.
प्रतिहौपीः जैघ १, २ : २०^६.

प्रति-जुह्व- ह्वन् बौश्रौ २४,
१७ : ७.

प्रति√हृ, प्रतिहरते हिघ १, ११, १;
८; प्रतिहरति बौश्रौ १६, ७ :
१०; माश्रौ १, ३, ५, १४; हिश्रौ;
प्रतिहरन्ति भाश्रौ २, ७, १०;
प्रतिहर आपश्रौ ६, २१, १^६;
प्रतिहरेत् लाश्रौ ७, ६, ७; ३, १;
प्रतिहरेयुः द्राश्रौ ३, ३, ८; ५, ३,
१०; लाश्रौ १, ११, १; २, ७, ९.

प्रतिहारयति निस् ३, १३ : ११;
४, १ : २६; प्रतिहारयेत् द्राश्रौ
१२, ३, १६; लाश्रौ ४, ११, १६.

प्रति-हरण- णाय अप्राय २, २; ३;
-णेन कौसु ७१, १३.

प्रति-हर्ष^{२६} - पाउमो २, १, १४६;
पाग ५, १, १२९; -०तः जैश्रौ

a) प्रास. । b) वैप१ द्र. । c) पासे. वैप १, २१६० a द्र. । d) अस्. । e) = सूर्यप्रतिविम्बसदृश- । f) व्यु.
पासे. च पृ ६०१ f, g द्र. । g) = करसूत्र- । धा. गतौ वृत्तिः । h) नन्द्यावर्त- = गोधूमविकार- इति भाष्यम् ।
i) तु. आन. । j) *स्रोतोवहाः इति संस्कृतुः टि. । k) उप. = उपताप- । l) उप. कररो अ् प्र., धा.
घाऽऽदेशश्च (पा ३, ३, ८४) । m) = स्वरित-भेद- । स्वार्थे अण् प्र. । n) बस. । o) = ऋत्विग्-विशेष- ।

१४: ९; -र्ता आश्रौ ४, १, ६;
शांश्रौ १३, १४, १; ८; काश्रौ;
-र्तारः बौश्रौ ७, ८, १०; -र्तारम्
काश्रौ ११, १, १८; आपश्रौ; -र्तुः
आश्रौ ९, ४, १०; १२, ९, ४;
आपश्रौ; -र्त्रे काश्रौ १०, २,
३६; आपश्रौ १३, ६, २; माश्रौ.

प्रतिहर्त्र- पा ५, १, १२९.
प्रतिहर्तु-पोत्-नेष्टृ(ष्टृ-श्)च्छा-
वाक्-कभ्यः लाश्रौ ९, १, १२^२.

१प्रति, ती^१हार^२- रः आश्रौ ५,
१०, ३; आपश्रौ; ऋप्रा १४,
२३^१; -रस्य लाश्रौ ६, ११, २;
निसू २, ८: ३१; -राः लाश्रौ
७, ५, १; -राव् शांश्रौ ७, १०,
२; माश्रौ; -रे जैश्रौ १७: २४;
-क्रेण आपश्रौ १७, १०, १;
वैश्रौ १९, ६: १५^१.

प्रतिहारिक^३- कम् लाश्रौ
७, ७, ३३.

प्रतिहार-व (त>) तो- ल्यः
लाश्रौ ६, १, १७.

प्रतिहार-वेला- ल्यायाम् द्राश्रौ
६, ३, २, ४, ८; लाश्रौ.

प्रतिहार-स्थान- नम् लाश्रौ
६, १०, २२.

प्रतिहारो(र-उ)पाय- यात् निसू
४, १: ३१; -यान् निसू ४, १:
२६.

२प्रति-हार^१-> प्रतिहार-विभू-
षित- तम् अप ५, ४, ४.

प्रति-हृत- ते शांश्रौ १७, १७, १३.

प्रति-हृत्य हिश्रौ ५, ४, २८××.

प्रति-ह्रियमाण- णे जैश्रौ १७: २४.

प्रती-हारम्^४ कौसू २९, २२.

प्रति-होम^५- मः मीसू ६, ५, ४०; ४३;
-मम् आश्रौ २, ५, १६; आश्रिण
२, ७, ९: ३४; भागू ३, २०:
३; -मे बौश्रौ २१, २६: १८.

प्रति✓ह्रस्व, प्रतिह्रसेत्^६ वैश्रौ १८,
१६: ७५; बौछु ७: ४; प्रति-
ह्रसेत् हिछु ३, ३६^१; प्रतिह्रसीत
आपछु ९, १७^१.

प्रति-ह्रसमा (न>)ना- नासु
आपश्रौ २, १२, ५; भाश्रौ ६,
१६, ५.

प्रति✓ह्र, ऋप्रति (हुवे) आश्रौ ६, ४,
१०; ८, १०, १; १२, ६; शांश्रौ.

प्रती(ति✓इ), प्रत्येति शांश्रौ १६, २४,
११; आपश्रौ ६, २५, ३; बौश्रौ
८, ९: १८^१; २६, २९: ९;

भाश्रौ; हिश्रौ ९, ३, ९^१××;
प्रतियन्ति भाश्रौ ५, २१, १२;

८, १०, ८; वैश्रौ; या १२, ७;
प्रति...यन्ति या १२, ७^१;

प्रति...एमि ऋप्र २, १, १७१^१;

प्रति(एमि) वृदे ४, ५५^१; प्रति-
यन्तु शांश्रौ १५, २४, १^१;

प्रति...यन्तु मागू १, १३, ८^१;

प्रति(इहि) वृदे ८, ७^१; प्रत्यायन्
शांश्रौ १२, १९, १^१; प्रतीयात्
आश्रौ १, १, १२××; शांश्रौ;

प्रतीयुः भाश्रौ ६, १५, ११; वैश्रौ
२१, ९: ७; प्रतीयाम् निसू २,

४: २१^१; ६, १: १२××.

प्रतीयाय शांश्रौ १५, २२, १^१.

प्रतीयते वाश्रौ १, १, ११; वृदे;

प्रतीयेत शांश्रौ १, २, २१××;
द्राश्रौ; या १, १६; मीसू ९, २,
१३^१; प्रतीयेरन् आपगू २, १५;
मीसू १, ३, ७××.

प्रती(ति-इ)त्- तः शांश्रौ १५,
२६, १; हिपि २: ४; अप २०,
२, ८; -ताः आपश्रौ ८, ११, १०;
भाश्रौ ८, १२, २१; हिश्रौ ५, ३,
३३.

प्रतीता(त-अ)र्थ- र्यानि या
१, १३; १४.

प्रती(ति-इ)ति- त्या शांश्रौ ८, २४,
१^१.

प्रती(ति-इ)त्य आपश्रौ ५, १, ७^१;
बौश्रौ; आगू ३, १०, ११^१.

प्रतीय^७ सु ३०, ३.

प्रती(ति-ई)यमान- ने पा १, ३, ७७

प्रत्य(ति-अ)य (बप्रा).^८- पाग
५, २, ३६; -यः निसू ३, ९:
२४^१; ४, ९: ८^१; ९, ९: २८;

ऋप्रा २, ५६^१; ९, ३४; नाशि
२, २, ४^१; ६, ३; पा १, २, ४१^१;

३, १, १; पावा; -यम् बौश्रौ
२३, १२: २३; निसू ३, ९:
२५; ४, ९: ९; मीसू २, ४,
३०; -यस्य अप्रा २, १, १^१; पा
१, १, ६१; ३, ६; पावा ३,
२, १२४××; -याः पा ३,
४, १; -यात् काश्रौ २२, ३,

a) °दृच्छ इति पाठः? यनि. शोधः। b) शांश्रौ. वैताश्रौ. पाठः। c) वैप १ द्र.। d) =वर्ष-दोष-
(अतिप्रत्यन्)। e) विप. (गीत-)। f) =द्वार-पाल-। g) =प्रदक्षिणम् (तु. आपश्रौ २, ६, ७ हिश्रौ
१, ७, ३८ पुनराहारम् इति)। h) =पूरक-होम-। प्रास.। i) परस्परं पाभे.। j) पाभे. वैप १, २१६१ i द्र.।
k) °मः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. संस्कृतुः टि., उत्तरं स्थलम्)। l) प्रयुज्येत इति जीसं. प्रष्ट.। m) पाभे.
वैप १, २१६६ g द्र.। n) एकादेशस्याऽसिद्धत्वाभाक्त्वं ङसं. (पा ६, १, ८६) ह्रस्वत्वाभावे तुग्य-अभावः। o) भाप.,
नाप. (पारिभाषिक-संज्ञा-। अप्रा. प्रष्ट.)। उप. भावायर्थेषु अच् प्र.। p) =पर-।

४४; २५, १, ३; तैप्रा ५, ७^३;
पा ३, ३, १०२; ६, १, १९२; ४,
१०६; मीसू ४, ३, १६; १०, ३,
४८; -ये बौश्रौ २२, २: ५; निस्
३, ९: २५; ४, ९: ९; विघ; पा १,
४, १३; ६, १, ७९; -येन बौश्रौ
२४, १: १; १२; पावा १, २,
४५; ५, ३, ८३; नाशि २, ६, २;
-येषु ऋप्रा ४, ४५^३; माशि ९,
७; १३, १०; नाशि २, ४, ४;
-बौ पावा ४, २, ३६^०.

प्रत्ययिक^१ -का: गौध १३,
२.

प्रत्यय- -यस्य पा ८, २, ६२;
-यात् पा ३, १, ३५; पावा ७, २,
४८; -ये पा ३, ४, ६१××.

प्रत्यय^२ पावा १, १, २१.

प्रत्यय-ग्रहण- -णम् पावा १,
१, ६१; ७२××; -ण^३ पावा १,
४, १३; १४; ५, २, ४६; ७, १, ९६.

प्रत्ययग्रहणो (ण-ञ)पचार-
-रेषु पावा ४, १, १.

प्रत्यय-त्व- -त्वात् निस् ९,
९: २९.

प्रत्यय-दर्शन- -नात् नाशि १,
८, ४.

प्रत्यय-नियम- -मे पावा १, ३,
१२; ४, २१; ३, १, २; ४, ६७.

प्रत्यय-पर-त्व- -त्वे पावा ८, ३,
७९.

प्रत्यय-पर-वचन- -नात् पावा
३, ४, ६७.

प्रत्यय-प्रतिषेध- -घ: पावा १,
१, ४६.

प्रत्यय-प्रसङ्ग- -ङ्ग: पावा ३, १,

१२.

प्रत्यय-मन्त्र^४- -न्त्रान् बौश्रौ
२३, १०: १०^२.

प्रत्यय-मात्र-प्रसङ्ग- -ङ्ग: पावा
४, २, ३४; ६, ४, १४१.

प्रत्यय-लक्षण- -णम् पा १, १,
६२.

प्रत्ययलक्षण-त्व- -त्वात्
पावा १, २, ४५; ६, ४, १३२.

प्रत्ययलक्षण-प्रतिषेध- -घ:
पावा १, १, ६०; ३, ४, ११०;

-धस्य पावा १, १, ११××.

प्रत्ययलक्षण-वचन- -नम्
पावा १, १, ६२.

प्रत्यय-लोप- -प: पावा २, ४,
७०; -पे पा, पावा १, १, ६२.

प्रत्ययलोपिन्- -पिन: अप्रा
२, २, ३; ४.

प्रत्यय-वचन- -नात् पावा ५,
३, ६७.

प्रत्यय-वत् > ष्-अनुदेश-
-शे पावा ६, ३, ६७^३.

प्रत्यय-विज्ञान- -नम् पावा ५,
३, ५५.

प्रत्यय-विधान- -नम् पावा २,
४, ८१××; -नस्य पावा ४, ४,
७६; -नात् पावा ३, १, ७××;

-ने पावा ४, २, ५५; ३, १.

प्रत्ययविधाना(न-आ)नर्थ-
क्य- -क्यम् पावा ४, ४, ६७; ७६.

प्रत्ययविधाना(न-आ)नुप-
पत्ति- -त्ति: पावा ३, १, १; ५, ३,
६७××.

प्रत्यय-विधि- -धि: पा १, ४,
१३; पावा १, ४, २; ६, १, ४५;

-धौ पावा ४, १, १; २, ३, २८××.

प्रत्ययविध्य(धि-ञ)धे- -र्धम्
पावा ६, १, ५०; ७, १, ५८.

प्रत्यय-सकार- -स्य शौच २,
८७.

प्रत्यय-संज्ञा-संनियोग- -नात्,
-ने पावा ३, १, ३; -गेन पावा
५, ३, ८८.

प्रत्यय-संनियुक्त- -क्तम् पावा
४, ३, २३.

प्रत्यय-सवर्ण^५- -र्णम् शुप्रा ३, ९.

प्रत्यय-स्थ- -स्थात् पा ७, ३, ४४.

प्रत्यय-स्वर- -र: पावा ६, १,
१५४.

प्रत्ययस्वर-भाव- -व: पावा
६, १, १५४.

प्रत्ययस्वरा(र-ञ)भाव- -व:
पावा ३, १, ३; ६, १, १५४.

प्रत्यया(य-ञ)दर्शन- -नम् पावा
१, १, ६२; -नात् पावा ३, १, २.

प्रत्यया(य-आ)दि- -दीनाम्
पा ७, १, २; -दे: ऋप्रा १४,
५९; पावा ४, १, १५८; २, ९१.

प्रत्यया(य-आ)शुद्धात्त्व- -त्वात्
पावा ३, १, ३.

प्रत्यया(य-अ)धिकार- -नात्
पावा ७, १, ३; -रे पावा ३, १, १.

प्रत्यया(य-ञ)नियम- -म: पावा
३, १, २.

प्रत्यया(य-ञ)नुपपत्ति- -त्तौ
पावा ५, २, १२.

प्रत्यया(य-ञ)नुपपत्ति- -त्ति:
पावा ३, ३, १६१; ५, १, २; १३.

प्रत्यया(य-ञ)न्त^६- -न्तात् पावा
४, १, ९३^३; ३, १५३.

a) = अकार- इति सोमयार्थः, = पर- इति गार्ग्यगोपालः। b) = पर-। c) तु. पाका.। d) = विश्वस्त-।

तेनचरतीत्यर्थे ष्क प्र. (पा ४, ४, ८)। e) = अङ्गसंज्ञा-सूत्र-। बस. इति कैयटः। f) पूष. अर्थः?। g) पूष.
= पर-। h) विप.। बस.।

वैप-प्र-३०

प्रत्ययान्त-निपातन- ने
पावा २,४,७०.
प्रत्यय(य-अ)न्तर- -रम् अप्रा
१,२,१४; २,१,८;९; -रे पावा
५,२,४८; ४९; -रेषु पावा १,
३,१.
प्रत्यान्तर-करण- -णम् पावा
५,४,११३; ६,४,५५.
प्रत्ययान्तर-प्राप्ति- -सिः
पावा ४,१,९३.
प्रत्यया(य-अ)र्थ- -र्थस्य पावा
१, ३, १; -र्थे ऋप्रा ६, ३४;
पावा ३,३, १६१; -र्थेन पावा
४,१,१.
प्रत्ययार्थ-निर्देश- -शाः पावा
३,१,१९.
प्रत्ययार्थ-परिग्रहा(ह-अ)र्थ-
-र्थम् पावा ३,१,२६.
प्रत्ययार्थ-बहुत्व- -त्वे पावा
२,४,६२.
प्रत्ययार्थ-विशेषण- -णम् पावा
३,१,१२.
प्रत्ययार्था(र्थ-अ)भाव-
-वात् पावा ४,१,४५.
प्रत्यया(य-अ)वधारण- -णात्
पावा २,३,५०.
प्रत्यया(य-अ)विशेष- -षात्
काश्रौ २२,३,४६.
प्रत्यया(य-अ)व्यवस्था- -स्था
पावा १,१,५१.
प्रत्यया(य-अ)श्रय^१-त्व- -त्वात्
पावा १,१,४.
प्रत्ययित- पा ५,२,३६.
प्रत्ययित-पुरुषा(ष-अ)धि-
ष्ठित- -तम् शंघ ३२०.

प्रत्यये(य-ए)कादेश- -शाः पावा
६,१,८४.
प्रत्ययो(य-उ)त्तरपद- -दयोः पा
७,२,९८; पावा २,१, ५१^२××.
प्रत्ययो(य-उ)त्वत्ति- -त्तिः पावा
४,१,९३.
प्रत्ययो(य-उ)दात्तत्व- -त्वे पावा
८,१,७१.
प्रत्य(ति-अ)यन- पाग ८,१, २७.
प्रत्ये(ति-ए)तव्य,व्या- -व्यम् निस्
२, १०: २६^२; -व्या अपश्रौ
१९,१८,५; हिश्रौ २२, २, ४;
-व्याः आपश्रौ २१, १२, ३;
वाघ १,१०; उनिस् ७: २.
प्रत्ये(ति-ए)तुम् निस् २,४: ३८××.
प्रतीक^b- पाउमो २, २, २०; -कः
अत्र २, १२; शुअ ३, १०५;
-कम् बौश्रौ १५, २४: ७; सु
१७,४६; आगृ ३,१२, ३; पागृ
३,१५,२३^०; या ७,३१६; -केन
बौश्रौ १३, ३५: ५^१.
प्रतीक-ग्रहण- -णम् शाश्रौ १,
१७,१.
प्रतीक-चोदित,ता- -तम् शुअ ३,
२४४; -ताः शुअ ३,१४६; -ते
शुअ ३,१५०; १७८.
प्रतीक-वत्- -वते बौश्रौ १३, ३५:
३^१; १८,४८: ६.
प्रतीको(क-उ)क्त,का- -क्तम् शुअ
४,४१; -क्ताः शुअ २,१७८××;
-क्ते शुअ ३, २१७; २३३.
प्रतीकाश- प्रति✓काश् द्र.
प्रती(ति/इ)क्ष,प्रतीक्षते काश्रौ २, २,
१३; आपश्रौ १, ११, १०××;
बौश्रौ; प्रतीक्षन्ते वाघ ११,२५;

कंप्रतीक्षे आश्रौ १, १३, १^d××;
शाश्रौ ४,७,४^d; ७,४,४^e; काश्रौ;
वैताश्रौ ३,८^f; कौस् ९१, २^f;
कंप्रतीक्षन्ताम्^१ आपमं १,१,८;
बौगृ; प्रतीक्षत कप्र १,६,७; २,६,
४; अप; प्रतीक्षेरन् शांगृ ६,३,४.
प्रती(ति-ई)क्षा- -क्षा आपव २,२२,
१७; हिघ २,५,१४८.
प्रती(ति-ई)क्ष्य शाश्रौ ४, ७, ४;
७,४,४; आपश्रौ.
प्रती(ति/इ)च्छ,प्रतीच्छामि आपघ
१,२२,६; हिघ १,६,६.
प्रती(ति-इ)त- प्रभृ. प्रती(ति/इ)द्र.
प्रतीथि- प्रतिथि- द्र.
प्रतीप,पा^h- पाग ३, १, १८; ५, २,
१३१^१; ६, २, १७०; -पः
काठश्रौ १०८; १०९; माश्रौ २,
२, ५, १४; -पम्^१ शाश्रौ १२,
१८,१; १३,२९, ११; आपश्रौ;
-पा अप ६७,६,४; -पाः अप
७०^२,१९,१.
प्रतीपिक- पा ४,४,२८.
प्रतीप-सार(शि>)णी^k- -णीम्
वाश्रौ ३,३,२,१०.
✓प्रतीपाय पा ३,१,१८.
प्रतीपिन्- पा ५,२, १३१.
प्रतीय, ०यमान- प्रती(ति/इ)द्र
प्रती-राघ- प्रति✓राघ् द्र.
प्रती-रोध- प्रति✓रुध् द्र.
प्रती-वाह- प्रति✓वह् द्र.
प्रती-वेश- प्रतिवेश- द्र.
प्रती(ति-इ)ष्टक^१- -कम् काश्रौ १७,१,
१५; मीस् ९,१, २६.
प्रती(ति-इ)ष्टि^१- -ष्टि काश्रौ १५,८,५;
काश्रौसं ३: ६.

a) विप. । बस. । b) पुं. न. च । वैप १द्र. । c) पाभे. वैप १ शरीरम् खि ४,८,५ टि. द्र. । d) पाभे. वैप १,
२१६२f द्र. । e) पाभे. वैप १ परि. अख्येषम् टि. द्र. । f) पाभे. वैप १, २१५०h द्र. । g) पाभे. वैप १,
२१६२ e द्र. । h) विप. । वैप १द्र. । i) प्रमीप- इति पाका. । j) क्रिवि. । k) = २अप- । उस. । l) अस. ।

प्रती-हार-^१रम् प्रति^२ह द्र.
 प्र^३तुद्^४>प्र-तुद्^५- तुदाम् आपध
 १,१७,३३; हिध १,५,६४.
 प्र-तुद्^६- -दान् शंघ ४२६.
 प्रतुद-विष्कर-जालपाद- -दाः
 गौध १७, ३३.
 प्र-तोद्^७- -दः काश्रौ २२, ४, ११;
 आपश्रौ २२, ५, ५; हिश्रौ; -दम्
 शंघ ७२; ऋञ्च २, ६, ७५.
 प्रतोद्-दण्ड- -ण्डः बौश्रौ १८,
 २४: १२.
 प्रतोद्-परिषेवण- -णम् बौश्रौ
 १८, २४: १२.
 प्रतोद्-पाणि^८- -णिः बौश्रौ १, १,
 २४.
 प्र^९तुर^{१०}>प्र-तूर्त्^{११}- पा ८, २, ६१;
 पाग ५, २, ६२; -र्त्तम् काश्रौ
 १६, २, ९; आपश्रौ.
 प्रतूर्त्क- पा ५, २, ६२.
 प्र-तूर्त्ति- पाग ६, २, ११८^d; -र्त्तिः
 काश्रौ १७, १०, १०; बौश्रौ;
 -र्त्तिषु आश्रौ ७, ३, १९××;
 शाश्रौ.
 प्र^{१२}तू^{१३}(^{१४}तु^{१५}र्त्^{१६})>प्र-तूर्त्व^{१७}- -र्वन्
 काश्रौ १६, २, १०; बौश्रौ १०,
 २: ९; शुञ्च २, १९.
 प्र^{१८}तृद्^{१९}>प्र-तूर्त्न^{२०}- -०न विध ९८,
 ४९; -नः ऋञ्च २, ९, ९६; १०,
 १७९; साञ्च १, ५३२××.
 प्र-तृद्य काश्रौ ६, ७, १४.
 प्र^{२१}तृत्^{२२}, प्र(तरति) बौश्रौ १३, ४२:
 ३; साञ्च १, १०८; २, ११७२;

प्रतर आमिग ३, ८, २: ४७;
 बौपि १, १५: ४; प्रतरत्>ता^{२३}
 आमिग ३, ६, १: २४; बौपि १,
 ९: १; कौसू ७१, २४; ८६,
 २७.
 प्रतिरते बौश्रौ १९, ५: ३०;
 प्र^{२४}तिरते या ११, ६६;
 प्र (तिरते) आश्रौ ७, ८, १;
 शाश्रौ १२, १०, ७; आपश्रौ १९,
 २७, १७; हिश्रौ २२, ६, २६;
 प्र^{२५}तिरसि ऋप्रा ८, ४६;
 प्र^{२६}तिरामः^{२७} आपश्रौ १६,
 १६, ४; वैश्रौ १८, १४: १४;
 प्रतिरन्तु आपश्रौ १६, १६, ४;
 वैश्रौ १८, १४: १५; काग २७,
 ३; या १२, ३९; प्रतिर>रा
 या १०, ४०^f; ऋप्रा ८, ४;
 प्र^{२८}तिर आश्रौ ५, १९, ३^१;
 शाश्रौ; प्र^{२९}तिरत या ११,
 ३६; प्र^{३०}तिराम काग २७,
 ३^३; प्र^{३१}तिरत् या ६,
 १६; प्र^{३२}तिरेत ऋप्रा ५,
 ५८.
 प्र^{३३}तिरिषत् आश्रौ ४, १२,
 २^१; ५, १, १७; आपश्रौ; हिश्रौ
 १५, १, ७१^१; अप्राय २,
 ७^१; अप ४६, ३, ४^१;
 भाशि १०^१; ३५^१; प्र^{३४}तिरिषत्
 कौसू ११७, ४^१; प्र^{३५}तिरिषः
 शाश्रौ ६, ७, १०^१; ९, २७, २^१;
 आमिग २, १, ५: ८^१; या ११,
 ३०^१; आपमं २, १५, १५^१;

आग १, १६, ५^१; कौश्रौ १, १९,
 १०^१; शांग १, २७, ७^१; जैग १,
 १०: ३^१; प्र^{३६}तिरिः वैताश्रौ
 १९, १०; या ४, ७.
 प्रतारि शाश्रौ १६, १३, ५;
 आपश्रौ ६, २२, १^३; ऋञ्च २,
 १०, ५९; वृदे ७, ९१.
 प्र^{३७}तिरण^{३८}- -णः बौश्रौ ६, १७:
 १२; आपमं २, १५, २०; पाग;
 या ९, १२; -णम् अशां १९,
 ७; -णे अप ४८, १०५^३.
 प्र^{३९}तिरणी- -णी कौसू ७७,
 २०; -णीम् कौश्रौ ३, २, ३; ३;
 शांग ३, २, ५; ६; पाग ३, ४, ४.
 प्र^{४०}तिरत्- -रताम्^{४१} काश्रौ १३,
 ३, २६; आपश्रौ २१, २०, ३;
 वाश्रौ ३, २, ५, ४३; हिश्रौ १६,
 ६, ४१; -रत् कौसू ९९, २.
 प्र^{४२}तिर(त)>ता^{४३}- -ता^{४४} वैताश्रौ
 ३४, ९.
 प्र^{४५}तिरि^{४६}- -रेभ्यः बौश्रौ ९, ११:
 १०; वैश्रौ १३, १३: ११.
 प्र^{४७}तिरि^{४८}- -रन् आपश्रौ २, २१,
 १; ३, ११, २; बौश्रौ; -रन्तौ
 माश्रौ २, १, ४, २७.
 प्र^{४९}तिरि^{५०}माग २, १, १३^१.
 प्र^{५१}त्ता(वप्रा.)^{५२}- -पावा ५, ४, २५^१;
 -त्तः कौसू ४६, २५^१; अप्राय ६,
 ९; अञ्च ६, ११०^१; या ३, १६;
 १२, ३२^१; अत्रा ३, ४, १^१;
 -त्तम् आपश्रौ ६, ८, ११^१××;
 बौश्रौ; निस् ६, २: २७^१; ५:

a) = पक्षि-विशेष-। गस। b) वैप १ द्र.। c) विप.। बस.। d) प्रश्रुति- इति पाका.। e) विप.
 (विष्णु- [विध.])। शिष्टं वैप १ द्र.। f) पामे. वैप १, २१६३ i द्र.। g) पामे. वैप १, २१६३ j द्र.। h) पामे.
 वैप १, २१६४ c द्र.। i) पामे. वैप १, २१६३ l द्र.। j) पामे. वैप १, २१६४ d द्र.। k) पाठः ? रिषत्
 इति शोधः (तु. सा. [ऐसा २, २०], C. च)। l) वैप १, २१६४ e द्र.। m) पामे. वैप १, २१६४ f द्र.।
 n) = संप्राम-। o) परस्परं पामे.। p) विप.। उप. कर्तरि अतत् प्र. उस्सं. (पाउ ३, ११०)। q) विप. > नाप.।
 उप. कर्तरि कः प्र. उस्सं. (पा ३, १, १३५)। r) पामे. वैप १, २१३९ j द्र.। s) विशेष उत्तरत्र टि. द्र.। t) तु. पाका.।

१९^a; ७, ३: १३^b; ऋषा
१७, ५^a; -कलस्य आश्रौ ४,
१५, २; ८, १०, १; शाश्रौ;
-कलाम् अत्र ६, १३६; अपं
३: १३; -तानि अप्राय ६,
३^c; -कलाम् शाश्रौ २, ११, २;
काश्रौ; -तासः सात्र १, ५०२^f;
-कलाम् आश्रौ १, ५, ३५; शाश्रौ;
-लेषु आश्रौ ८, १०, ३^f; -स्तैः
निसू २, ३: ३३^f.

कल-था आश्रौ २, १९, २४××;
शाश्रौ; या ३, १६^g; पा ५,
३, १११.

कल-वत् आपश्रौ ६, ३१, १२;
बौश्रौ १३, २४: ११××; वैश्रौ.

कल-वत्-वन्निः बौपि २, ९, ६;
११, ३.

कलवती^h-त्यः निसू १, १३:
१२; ७, ११: २७; -त्याम् वृद्धे
६, ४६.

कला(ल-अ)रुप^h-पः लाश्रौ
१०, ३, १७; निसू ९, १०: ३१××

कल(ल)ला-वार्कजम्^h-भम्
लाश्रौ १०, ४, ९.

कल्य(ति-अं)गु-पा ६, २, १९३.

कल्यक-प्रत्य(ति/अ)च्, ङ्च् द्र.

कल्य(ति-अ)क्ष, क्षा^h-पाग ५, ४, ३८;
पावा ५, ४, १०७; -क्षः शाश्रौ
५, १०, २९; बौश्रौ २१, १२:
८; या ३, ५; -क्षम् आश्रौ १, ३,
१६××; शाश्रौ; आपमं १, १७,
९^h; या १३, १२; मीसू ११,
१, २७^h; -क्षयोः क्षुसू २, १४:

१३; -क्षस्य क्षुसू २, १३: ३;
५××; -क्षा शंघ २५१;
-क्षणां क्षुसू २, १४: ८;
-क्षाणि बौश्रौ २२, २: २१;
२२; हिश्रौ ३, ८, ३९; क्षुसू २,
१२: २; १७; -क्षात् काश्रौ १,
८, १३; मीसू ७, ३, ४; -क्षाम्याम्
निसू ४, ६: ११; -क्षे निसू ८,
७: २७; -क्षेण लाश्रौ १०, १६,
३; वाघ; -क्षेषु क्षुसू २, १२:
२, १६.

प्रत्यक्ष-पा ५, ४, ३८.

प्रत्यक्ष-कारि-ग्रहण-गम्, -गस्य
पावा ४, ३, १०४.

प्रत्यक्ष-कृ(त>)ता-ता: या ७,
१-३.

प्रत्यक्ष-तम-मम् वाधुश्रौ ४, ९९:
६.

प्रत्यक्ष-तस(ः) शंघ ३२५.

प्रत्यक्ष-त्व-त्वात् मीसू ७, ४, १५.

प्रत्यक्ष-दृश्य-दृश्यम् या ७, ४.

प्रत्यक्ष-देव-वा: विध १९, २०;
-वेषु विध १९, २३.

प्रत्यक्ष-नामन्-मा माश्रौ २, १, २,
२९.

प्रत्यक्ष-परोक्ष-क्षिप्र-चिर-न्यस्तो-
(स्त-उ)दात्त-कृष्टा(ष्ट-अ)कृष्ट-
ष्टानाम् लाश्रौ ६, १०, १९.

प्रत्यक्ष-पृष्ठ^o-ष्टः आश्रौ ८, ४, २२.

प्रत्यक्ष-प्राङ्गण-पृष्ठ^o-ष्टः जुसू २,
१३: ८; १२.

प्रत्यक्ष-फल-त्व-त्वात् आपघ २,
२३, ९; हिघ २, ५, १६२.

प्रत्यक्ष-बृहती-ती: शाश्रौ १८, ९-
११, १; -त्यः शाश्रौ १८, ८,
२××.

प्रत्यक्ष-भक्षम् काश्रौ १९, ५, १०;
द्राश्रौ १२, ४, २१; लाश्रौ ४,
१२, १५.

प्रत्यक्ष-लवण-गम् विध ७९, १२.

प्रत्यक्ष-वत् बौश्रौ २१, १२: ८;
आपघ २, १२, २१; हिघ २, ४,
५८.

प्रत्यक्ष-वाचि-त्व-त्वात् पावा ४,
३, १२०.

प्रत्यक्ष-विकार-रः लाश्रौ १०, १०,
४; -रात् लाश्रौ ९, ११, १४.

प्रत्यक्ष-विधान-नात् गौघ ३, ३६;
आपशु ८, २; हिशु ३, ३; मीसू.

प्रत्यक्ष-विभक्ति^h-क्ति निसू ३, ९:
१३.

प्रत्यक्ष-विहित-तम् शाश्रौ ३,
१९, ८; लाश्रौ १०, २०, ११.

प्रत्यक्ष-शिष्ट-त्व-त्वात् मीसू ५,
४, २२; ६, ७, ९××.

प्रत्यक्ष-श्रुता(त-आ)घात-तानि
भाश्रौ ६, १६, ३.

प्रत्यक्ष-संयोग-गात् मीसू ५, २,
२१; ११, ४, २१.

प्रत्यक्षा(क्ष-आ)पक्व्य-पृष्ठ^o-ष्टः
जुसू २, १३: २; ६.

प्रत्यक्षा(क्ष-आ)म्नात-ता: हिश्रौ
६, ४, ४२.

प्रत्यक्षा(क्ष-आ)र्थ-र्थः वैश्रौ
१७, १०: ११; -र्थानि आपश्रौ
१४, ५, ४; हिश्रौ ९, ८, २.

a) = दन्तो-विशेष-। b) = साम-विशेष-। c) पाभे. वैप १, २१६५ j द्र.। d) पाभे. वैप १,
२१६५ g द्र.। e) पाभे. वैप १, १९११ k द्र.। f) प्रयत्नैः इति मूको.। g) = ऋच्-। h) विप.। बस.।
i) उप. = वृच्- (द्र. सप्र. तां ११, १, १)। j) = साम-द्वय-। k) वैप १ द्र.। l) प्रत्यक्षभावे तद्वति च वृत्तिः।
m) पाभे. वैप १, २२९६ e द्र.। n) श्वेतः इति जीसं. प्रभृ.। o) = एकाह-विशेष-। बस.। p) = षडह-
कस. > बस.

प्रत्यक्षो(क्ष-उ)क्त- -क्तम् आश्रौ
११,६,१२.
प्रत्यक्षो(क्ष-उ)पदेश- -शात् मीसू
३,५,३४.
प्रत्यक्षो(क्ष-उ)पाङ्ग्य-पृष्ठ^३- -ष्ठः
लुसू २,१३:१४;१७.
प्रत्य(ति-अ)ग्नि^३- -ग्नि काश्रौ १२,३,
२; २५, ७, १२; वैश्रौ २०,२:
४; कौसू २१,१९.
प्रत्यग्रथ^३->प्रत्यग्रथि- पा ४, १,
१७३.
१प्रत्य(ति-अ)ङ्ग^३- -ङ्गम् वैषू १, २:
१२; मीसू १०,७,२; ११,४,४९;
-ङ्गानाम^३ माश्रौ ५,२, ९,४.
२प्रत्य(ति-अ)ङ्ग^३- -ङ्गानि या ७,४.
प्रत्यङ्ग-भावन- -वात् मीसू ६, ६,
१५.
?प्रत्यङ्गिरः अप ३,१,१०.
प्रत्यङ्गिरस^३- -सः अत्र १०,१.
प्रत्य(ति/अ)च्,ञ्च्>प्रत्य(ति-अ)-
क्त,क्ता- -क्तः या १२, ३३;
-क्तम् या ७, ३१; १२, ३३;
-क्ते या ८,१५.
प्रत्य(ति-अ)च्,ञ्च्^३- -तीचः काश्रौ
३, ५, १०; आपश्रौ ३, ५, १;
११,७,३; बौश्रौ; -तीचा बौश्रौ
३,६:१८; ७, ५:४४; -तीचि
जैश्रौका २२; द्राश्रौ १, २, २८;
लाश्रौ १,२,२१; -त्यक् आश्रौ १,
११,४; शांश्रौ १८,२१,७; काश्रौ;
वाश्रौ १,२,४,४२^३; -त्यङ् शाश्रौ

२, ७, १३; काश्रौ ९, ११,१०;
आपश्रौ; या १२, २४^३†; -त्यञ्चः
शाश्रौ ६, १२, १३†; आपश्रौ;
-त्यञ्चम् शाश्रौ ४,३,७; ५,१३,
३; काश्रौ; आपश्रौ ६,२१,११†;
१८, १४, १२†; या ५,
३†; -तृत्वञ्चाश्च^३ अप्रा १,
१, ५; शौच १, १०५; -त्यञ्चि
काश्रौ ९, १, ४; १७, ५, १३;
आपश्रौ; -त्यञ्चौ आपश्रौ १,
२२,२××; काठश्रौ ३४, बौश्रौ.
प्रतीची^३- -ची आश्रौ १०,
१०, १०; शाश्रौ १६, ९, २०;
काश्रौ २०, ४, २७; आपश्रौ;
या ३, ५††; ८, १५†; -चीः
आपश्रौ १६, २१, १†××;
बौश्रौ; -चीम् शाश्रौ २, ९,
१०××; काश्रौ; आपश्रौ १,१९,
५^३; भाश्रौ १, २१,३^३; माश्रौ
१,२,२,८^३; हिश्रौ १,५, ४४^३;
-च्यः बौश्रौ १२, ८:३; वृदे
७,११५; -च्या शाश्रौ ४, ११,
४†; आपश्रौ; -च्याः कौसू
४९,८; अप्राय ६,९; †अत्र ९,
३××; -च्याम् आश्रौ १, ११,
७†; शांश्रौ ६,३,३†; आपश्रौ
२२, १६, ४; बौश्रौ ३, २०,
१४†××; वाश्रौ; -च्यै बौश्रौ
३, २८:४; १८, ५२:२;
बौषू; -च्यौ बौश्रु १०:२८.
प्रतीची-स्थ- -स्थान्

अत्र ३,२६.
प्रतीचीन^३- -नः कौसू ६६,
२१†; -नम् आपश्रौ २, ७,
१२××; बौश्रौ; -नाः बौश्रौ
२४,३६:११; -ने वृदे ७,१८†.
प्रतीचीन-प्रीव,वा^३- -चम्^३
आपश्रौ १,१९,४; बौश्रौ १, ६:
१३; भाश्रौ; -वया बौश्रौ ६,
१५:४.
प्रतीचीन-पाठ^३- -इम्
बौश्रौ २०, २८:१५.
प्रतीचीन-प्रजन(न >)
ना^३०- -नाम्^३ बौश्रौ २,१६:
३१; वैश्रौ.
प्रतीचीन-प्रवण^३- -णम्
बौश्रौ २,६:३१.
‡प्रतीचीन-फल^३- -लः कौसू
४६,४९; अप १८^३,५, २; ३२,
१,२; अत्र ७,६५; अपं २:७३.
प्रतीचीन-बिल,ला^३- -लम्
बौश्रौ ९, १२:२१; १५:१८;
३२; वैश्रौ १३, १४:५; १३;
१४; -लाम् बौश्रौ ९, १५:४;
-ले बौश्रौ ९,१५:६.
प्रतीचीन-शिरस^३- -रसम्
बौश्रौ^३ ४, ६:३३; २०, २८:
१४; आश्रिष्ट ३, २,५:६^३.
प्रतीचीनशिरसी- -सीम्^३
बौश्रौ २, ९:३०; आश्रिष्ट २,
५,८:४; बौषू २,७,८;११,९.
प्रतीचीन-स्तोम^३- -मः बौश्रौ

a) = षडह-। कस. > बस. । b) अस. । c) = जनपदशब्दत्रिय-। व्यु. ? । d) अम्-अभावः
उसं. (पा २,४,८३) । e) प्रास. । f) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ? । g) वैप १ द्र. । h) सप्र. प्रत्यक् <>
प्रतीचीम् इति पाभे. । i) पाभे. वैप १,२१६६ h द्र. । j) पाभे. वैप १, २१६६ i द्र. । k) वैप १ निर्दिष्टयोः
समावेशः द्र. । l) पाभे. वैप १,२१६७७७ द्र. । m) विप. । बस. । n) सप्र. प्रतीचीनप्रीवम् <> प्रत्यग्-
प्रीवम् इति पाभे. । o) उप. = प्रजननस्थानीय-गर्त- । p) सप्र. प्रतीचीनप्र° <> प्रत्यङ्प्र° इति पाभे. ।
q) सपा. प्रतीचीनशि° <> प्रत्यक्शि° इति पाभे. । r) सप्र. प्रतीचीनशिरसम् <> प्रतीचीनशिरसीम् <>
प्रत्यक्शिरसम् <> प्रत्यक्शिरसीम् <> प्रत्यक्श्रीपीम् इति पाभे. ।

१२,२०:१७; २६, २:९; ३,
९; १५; वाश्रौ ३, ३, ४, ४१;
निस्र ७, ६:१^०; -माय वौश्रौ
१२,२०:६; २६, २:१३; -मे
वैताश्रौ ३२, ११^०.

प्रतीचीना(न-अ)ग्र,प्रा^०-

-ग्रम् बौश्रौ ९, १५:८; १५;
३४; -प्रा: बौश्रौ ९, १५:१३;
२७; -प्रे बौश्रौ ९, १५:१२;
१७; २४.

प्रतीचीने(न-इडा>)ड^०-

-डम् लाश्रौ ७, २, १; निस्र
३, १०:१०; -डानि लाश्रौ
७, ८, १६.

प्रतीच्य- पा ४, २, १०१; -च्यम्
माश्रौ ५, १, १, ९; निघ ३, २५^१;
-च्येन वैश्रौ १२, १२:११;
-च्यौ वैश्रौ १३, ११:३.

प्रत्यक्-तर- -रम् आश्रु १, १०,
१७.

प्रत्यक्-प(द>)दी^०- -दीम्
गोश्रु ३, १०, २५.

प्रत्यक्-पाश^०- -शम् माश्रौ ६,
१, ७, २.

प्रत्यक्-प्रजन(न>)ना^०- -नाम्
वाश्रौ १, ६, ४, ८^०.

प्रत्यक्-शिरस्^०- -रसम् शाश्रौ
४, १७, ११; काश्रौ ६, ५, १५;
आपश्रौ ७, १६, ५^०; वाश्रौ १, ६,
५, २^०; वैश्रौ १०, १३:१०^०;
हिश्रौ ४, ३, ५२^०; आश्रु १, ११,
१०; भाश्रु २, १६:७^०; हिश्रु २,
१५, ४^१.

प्रत्यक्शिरसी- -सीम्^१ हिपि
५:१; द्राश्रु ३, ४, ६.

प्रत्यक्-शी(र्षि>)र्षी^०- -र्षीम्
कौस्रु ४४, १३^१.

प्रत्यक्-संस्थ^०- -स्थम् द्राश्रौ ५,
२, १४; लाश्रौ २, ६, ८; निस्र.
प्रत्यक्-सामन्- -म्न: बौश्रौ
२६, १६:११.

प्रत्यक्-स्थल^०- -लम् कप्र ३, १,
१९.

प्रत्यक्-अग्र,प्रा^०- -ग्रम् कप्र
३, १, १९; -ग्रामि: निस्र १, ११;
२४; -ग्राम् माश्रौ १, १, १, २२.

प्रत्यक्-अपवर्ग^०- -र्गम् आश्रौ
१, २५, १५; २, ९, २; भाश्रौ;
-र्गाणि आश्रु १, २, २:२७;
हिश्रु २, १९, ७.

प्रत्यक्-अर्थ- -र्थस्य अप १, ३५,
२.

प्रत्यक्-आत्मन्^०- -त्मनि मीस्
३, ७, २०.

प्रत्यक्-आवृत्त- -त्त: बौश्रौ २४,
२८:२; जैश्रौ १३:१२; २१.

प्रत्यक्-आशिस्- -शिष: आपश्रौ
४, १, ३; वाश्रौ १, १, २, १२;
वैश्रौ ३, १:७; हिश्रौ ६, १, ८;

-शिषम् आपश्रु ११, ४; -शी:
बौश्रौ २०, २:२७.

प्रत्यक्-उत्तर^१-> ०-शिरस्^०-
-रा: वैध ३, १, ४.

प्रत्यक्-उदच्,ञ्च्^१- -दक् आश्रौ
१, ११, १०; २, ६, ४××.

१प्रत्यगुदीची^१- -ची:
काश्रु ११, १.

प्रत्यगुदग्-ग्रीव^०- -वम्
हिश्रौ २, ७, ११; -वे आपश्रौ १,
७, १०.

२प्रत्यग्-उदीची^१- -चीम् द्राश्रु
४, २, ७.

प्रत्यग्-ग्रीव^०- -वम् काश्रौ २,
४, ३; वाश्रौ १, २, ४, ४२^१.

प्रत्यग्-दक्षिण^१-तस् (:) काश्रौ
२, ७, १.

प्रत्यग्-दक्षिणा^१ आश्रौ १, ३,
३१; वाश्रौ १, १, ५, ७××.

प्रत्यग्दक्षिणा-प्रवण- -णम्
आश्रु ४, १, ८.

प्रत्यग्-दक्षिणा^१- -णाम् आश्रौ
८, १४, १४.

प्रत्यग्-द(ण्ड>)ण्डा^०- -ण्डाम्
शाश्रौ २, ९, १४; वाश्रौ १, ३,
३, ३०.

प्रत्यग्-द(शा>)शा^०- -शेन
आश्रौ ६, १०, ६.

प्रत्यग्-द्वार, रा^०- -रम् माश्रौ ६,
१, ७, १; हिश्रौ ७, १, २९; गोश्रु
४, ७, १७; -रा: माश्रौ ६, १, ८,
१०; -राणि आश्रु २, ६, ३;
६; बौध २, ५, १८.

१प्रत्यग्-भिषज्^३- -षक् अप
१, ४१, ३; अशां ११, ३.

प्रत्यग्-वृत्त- -त्तानि कौस्रु १२४,
५.

प्रत्यङ्-मुख^०- -ख: आश्रौ ३,
१२, १८; काश्रौ ४, १३, ३; ८,
६, १७; आपश्रौ; -खम् काठश्रौ
५५; बौश्रौ; -खस्य आश्रु १,
१०, १६; भाश्रु १, ७:२; -खा:
आपश्रौ १३, ८, १०; बौश्रौ;
-खान वैश्रु ४, ३:९; -खाय
पाश्रु २, ३, ३; भाश्रु १, ९:५;
-खे वाश्रौ २, २, ४, १७; हिश्रौ

a) =एकाह-विशेष-। b) विप.। बस.। c) =साम-विशेष-। बस.। d) पाभे. पृ १६९३ p द्र.।

e) पाभे. पृ १६९३ q द्र.। f) पाभे. पृ १६९३ r द्र.। g) उप. =समाप्ति-। h) कस.। i) =वायव्य-
कोण-। बस.। j) विप. (२अप्-)। k) पाभे. पृ १६९३ n द्र.। l) =नैर्ऋती- दिश-। बस.। m) =नक्षत्र-विशेष-।

३,४,३६; -खेभ्यः पाठ २,१०,
१८; -लौ काश्रौ ९,७,२; ११,१.
प्रत्यङ्मुखी- -खी काश्रौ ५,
५,१०; वैश्रौ ८,१२ : ५; मागृ
१, ८, २; -खीः अश्रौ ५, ८;
-खीम् काश्रौ ७, ८, १९; माश्रौ;
-ख्याः शांगृ १,१३,१; भागृ १,
१५ : २; हिगृ १,२०,१.
प्रत्य(ति/अ)ञ्, ञ्च्, प्रत्यनक्ति
काश्रौ २,८,१६; बौश्रौ १,१६ :
१५; १७ : ६; ११××; भाश्रौ;
प्रत्यङ्क्तः बौश्रौ ५, ८ : ३१;
प्रत्यनक्ति आपश्रौ २,१९,६;
बौश्रौ; प्रत्यञ्ज्यात् आपश्रौ २१,
८,१०; बौश्रौ २०,१२ : १०.
प्रत्य(ति-अ)ञ्ज्य आपश्रौ २, ११,
३; बौश्रौ.
प्रत्य(ति-अ)ञ्जन^a- -नः^b बौश्रौ १,
१७ : २; -ने बौश्रौ २०, १२ :
१०.
प्रत्य(ति-अ)जिर- पा ६,२,१९३.
प्रत्य(ति-अ)ति/क्रम, प्रत्यतिक्रामति
वाश्रौ १,३,४,१३.
प्रत्यति-क्रम्य आपश्रौ १४,८,९.
प्रत्य(ति-अ)ति/ह, प्रत्यतिहारयेत्
गोगृ ४,३,३०.
प्रत्य(ति-अ)धिकरण^c- णम् पावा
२,४,१.
प्रत्य(ति-अ)धिदेवता^d- -ताः जैगृ
२,९ : १८.
प्रत्य(ति-अ)धी(धि/इ), प्रत्यधीयोत
बौश्रौ २४,१५ : ९.
प्रत्यधी(धि-इ)त्य बौश्रौ २०,
१७ : २६.
प्रत्य(ति-अ)नन्तर^e-त्व- -त्वात्

बौध २,२,६९; ७२.
प्रत्य(ति-अ)नीक^d- -केषु बौश्रौ २०,
२६ : २१.
प्रत्य(ति-अ)नुवाक^c- -कम् कागृ
५२,७.
प्रत्य(ति-अ)न्त^e- -न्तात् द्राश्रौ २,
१,२२; लाश्रौ १,५,१८××.
२प्रत्य(ति-अ)न्त- -न्तात् कौसृ ३४,
१७; -न्तेषु शंघ २५१^h.
प्रत्य(ति-अ)न्न^c- -न्नम् वाश्रौ ३, ४,
२, ४.
प्रत्य(ति-अ)प/कृष् > प्रत्यप-कृष-
-र्षः निस् २,१३ : ३९.
प्रत्य(ति-अ)प/क्रम, प्रत्यपक्रामति
वाश्रौ १,१,४,२३.
प्रत्य(ति-अ)पा(प/अ)न्, प्रत्यपा-
निति भागृ १,२० : ५.
प्रत्य(ति-अ)पि/सृञ्, प्रत्यपिसृजति
आपश्रौ ७,१९,७.
प्रत्यपि-सृज्य आपश्रौ १, १०, १४;
७,१५,३; हिश्रौ २,७,५६.
प्रत्य(ति-अ)पो(प/ऊ)र्ण, प्रत्य-
पोर्णुतेⁱ बौश्रौ ६, १५ : १०;
२५, ८ : १६; वैश्रौ १२, १९ :
१२; हिश्रौ १०,३,२५.
प्रत्य(ति-अ)ब्द^c- -ब्दम् कप्र ३, ८,
१७; विध ५९,९.
प्रत्याब्दिक^l- -कम् कप्र ३, ५, ७;
१४.
प्रत्य(ति-अ)भि/सृ, प्रत्यभिधारयति
आपश्रौ २, २१, ५; माश्रौ २,
१४,६××; भाश्रौ; प्रत्यभिधार-
येत् वाश्रौ १,१,१, ३५; हिश्रौ.
प्रत्यभि-धारण- -णम् काश्रौ १, ९,
११; कौगृ १,८,२२.

प्रत्यभि-चार्य आपश्रौ २,१४,१३××;
भाश्रौ.
प्रत्य(ति-अ)भि/चर्, प्रत्यभिचरति
शाश्रौ १४,२२,२२; बौश्रौ १३,
१५ : ३.
प्रत्यभि-चरत्- -रन्तम् बौश्रौ २३,
२ : १२.
प्रत्य(ति-अ)भि/नन्द, प्रत्यभि-
नन्दयन्ति विध १९,२३.
प्रत्य(ति-अ)भि/मिथ्, मेथ्, प्रत्य-
भिमेथयति आश्रौ १०, ८, ११;
१३; शाश्रौ १६,३, ३७; प्रत्य-
भिमेथन्ति शाश्रौ १६, ४, ५;
१३, ११; प्रत्यभिमेथेयुः लाश्रौ
९,१०,४; ६.
प्रत्यभि-मेथन- -ने शाश्रौ १६,४,६.
प्रत्य(ति-अ)भि/सृञ्, प्रत्यभि-
सृशीत बौश्रौ २०,२५ : २४.
प्रत्यभिसृशते बौश्रौ १, २ : १३;
३, २१ : ११××; बौगृ; प्रत्य-
भिसृशति आपश्रौ १४, २१, ५;
बौश्रौ ७, १८ : ७××; भाश्रौ;
प्रत्यभिसृशन्ते बौश्रौ ७, १५ :
१२; १७ : १६××; प्रत्यभिसृ-
शन्ति वैताश्रौ १९,१८; प्रत्यभि-
सृशेत् आपगृ १३, ६; प्रत्यभि-
सृशेरन् गोगृ ३,८,१८.
प्रत्यभि-मर्शन^a- -नः^b बौश्रौ १५,
३६ : १७; २१, ४ : २; ३;
-नाः^b बौश्रौ १०,५९ : ६; ११,
१३ : ७; १५,१८ : २०; ३६ :
१७; १७, २ : ३; -ने बौश्रौ
२१,२० : २४; द्राश्रौ ५,१,२०;
लाश्रौ २, ५, १६; -नौ^b बौश्रौ
१२,१६ : १९; १८ : २३.

a) उप. भावे करणे च कृत् । b) =मन्त्र-विशेष । c) अस. । d) प्रास. । e) पूष. =अत्यन्त- ।
f) =कोण- । g) =यावदन्तम् । h) =सीमान्त-प्रदेश- । i) सप्र. आपश्रौ १०,२६,१७ अपोर्णुते इति पाठे. ।
j) तात्रभक्तिके ठञि उप. वृद्धिः उस्. (पा ७, ३,२०) ।

प्रत्यभिर्मर्शन-मन्त्र- -न्त्रः
भाश्रौ ६, १६, १८.
प्रत्यभि-मृश्य आपश्रौ ७, २, ९××;
वैश्रौ.
प्रत्य(ति-अ)भि √रुह > प्रत्यभि-
रूढ- -ढम् हिश्रौ १३, ८, ४४.
प्रत्य(ति-अ)भिलेख्य-विरोध^१- -धे
वाध १६, १५.
प्रत्य(ति-अ)भि √वद्, प्रत्यभिवदेत्
आपध १, १४, २०; हिध १, ४,
४९.
प्रत्यभि-वाद- -दः बौध १, २, ४७;
-इम् वाध १३, ४६; -दे पा ८,
२, ८३.
प्रत्य(ति-अ)भि √ष (<स)ञ्ज्, प्रत्य-
भिषजति काठश्रौ १२२.
प्रत्य(ति-अ)भि-र्हि √कृ, प्रत्यभिहि-
ङ्कुर्वन्ति आपश्रौ २०, १३, ७;
हिश्रौ १४, ३, १२.
प्रत्य(ति-अ)भ्य(भि-अ)नु √ज्ञा >
प्रत्यभ्यनु-ज्ञा- -ज्ञा आण्ट ४, ७,
१९.
प्रत्य(ति-अ)मित्र^२- -त्रम् बौश्रौ १४,
१८ : २.
प्रत्य(ति-अ)य- १ प्रत्य(ति-अ)यन-
प्रम्, प्रती(ति √इ) द्र.
२ प्रत्य(ति-अ)यन^३- -नम् वैश्रौ १०,
१ : १; विध ५९, ५.
प्रत्य(ति-अ)क^४- -कम् वैध २, १०, २.
प्रत्य(ति √अ)र्च^५, प्रत्यर्च आपश्रौ ६,
२१, ११.
१ प्रत्य(ति-अ)र्थ^६- -र्थम् पावा १, २,
६४^३; मीसू ६, १, ३××.
२ प्रत्य(ति-अ)र्थ^७- -र्थः निसू २, ३ :
२२.

प्रत्य(ति-अ)र्थ^८-, प्रत्यर्ध-पुर^९- पा
६, २, १९३.
प्रत्य(ति-अ)र्धि^{१०}-ता- -ताम् निसू ८,
११ : ७.
प्रत्य(ति-अ)लं √कृ, प्रत्यलंकुर्वीत
आपध १, ३२, ६; हिध १, ८,
४८.
प्रत्य(ति-अ)व √दो (अवखण्डने),
प्रत्यवधेत् भाश्रौ ७, १६, ६.
१ प्रत्यवदास्यामि आपश्रौ २,
१८, ९; बौश्रौ १, १६ : १४;
भाश्रौ २, १७, ९; माश्रौ.
प्रत्य(ति-अ)व √घा, प्रत्यवदधाति
बौश्रौ १०, १८ : ६; वैश्रौ १८,
११ : १६; हिश्रौ २, ७, ५८××;
प्रत्यवदध्यात् बौश्रौ २२, ३ :
२७.
प्रत्यव-धाय शाश्रौ ४, ९, ३; आपश्रौ.
प्रत्य(ति-अ)व √नी > प्रत्यव-नीय
बौश्रौ ६, ३ : २२; १०, १२ :
१५; भाश्रौ.
प्रत्य(ति-अ)व √भुज् (कौटिल्ये)
प्रत्यव-भुज्य कौसू २०, २४.
प्रत्य(ति-अ)व √मृज् > प्रत्यव-मृज्य
माश्रौ २, २, २, ९.
प्रत्य(ति-अ)वयव^{११}- -वम् पावा १,
१, १.
प्रत्य(ति-अ)व √रुह > रोपि, प्रत्य-
वरोहते वैश्रौ १७, १५ : ७;
प्रत्यवरोहति शाश्रौ १६, १७, ७;
आपश्रौ १७, १९, ११^१; १८, ५,
२०; बौश्रौ; कौगृ ३, १, १०^१;
प्रत्यवरोहन्ति शाश्रौ १६, १८,
१६; पागृ ३, २, ६; ११; बौगृ
१, १, ११; प्रत्यवरोह आपश्रौ ३,

१०, ८^१; प्रत्यवरोहाम पागृ ३,
२, १०; प्रत्यवरोहेत् आपश्रौ ६,
१३, ८××; बौश्रौ; प्रत्यवरोहेम
मागृ २, ७, ४^१.
प्रत्यवरोहो वैश्रौ १८, ४५ :
२८.
प्रत्यवरोपयन्ति जैगृ १, २२ : ४.
प्रत्यव-रुह आपश्रौ १७, १३, ६;
२३, ११; १९, १०, २; वाधूश्रौ.
प्रत्यव-रूढ- -ढः आपमं २, १८,
२; -ढम् आपश्रौ २२, १०,
६; हिश्रौ १७, ४, २४.
प्रत्यवरूढ-पर्या(य >)या^{१२}- -या
निसू १, १० : २२.
प्रत्यव-रोक्ष्यत्- -क्ष्यन् भागृ २, २ :
१४.
प्रत्यव-रोप्य जैगृ १, २२ : ६.
प्रत्यव-रोहं^{१३}- -हः लाश्रौ ९, १२, १६;
निसू १०, १२ : १०; या ७, २३;
२४; -हात् कौगृ ४, २, ३^१;
-हान् काश्रौ १८, १, ५; आपश्रौ;
-हे निसू २, ९ : ३४; -हेण
वाश्रौ १, ३, ७, १०^३; लाश्रौ ८,
५, २५; वृदे १, १०२; -हेभ्यः
काश्रौ १८, १, ४; वाश्रौ २, २,
३, ५; -हैः वाश्रौ १, ३, ६, ७.
प्रत्यवरोह-संज्ञक^{१४}- काः शुअ
२, २६०.
प्रत्यवरोहा(ह-अ)र्थ- -र्थं निसू
३, ९ : ४५.
प्रत्यव-रोहण- -णम्^{१५} बौश्रौ २४, ४ :
३; आगृ २, ३, १; बौगृ; -णात्
आगृ २, १, १४; शांगृ ४, १५,
१९^१; -णे शाश्रौ १६, १७, ८.
प्रत्यवरोहण-तसः (ः) बौश्रौ ११,

a) प्रास. > षस. । b) अस्. । c) प्रास. । d) पृ ३६७ m द्र. । e) वैप १ द्र. । f) पाभे.
पृ ३९७ b द्र. । g) पाभे. वैप २, ३ खं उपावरोहे तैत्रा २, ५, ८, ८ टि. द्र. । h) विप. । बस. । i) भाप., नाप.
(मन्त्र-). j) सपा. °हात् <> °हणात् इति पाभे. । k) = पाकयज्ञसंस्था- । अधिकरणे कृत प्र. ।

१२: ५; १८, १७: २७; २२,
१५: ७.
प्रत्यवरोहणा(ण-अ)भिव्वादन-
ने लाश्रौ ८, १२, २.
प्रत्यवरोहणीय^१ - -यः शाश्रौ
१४, ११, १; वैताश्रौ ३६, १०;
-येन आपश्रौ १८, ७, १७, बौश्रौ.
प्रत्यव-रोहन्- -हन् आपश्रौ १६,
२१, १४.
प्रत्यव-रोहिन्- -हिणः निस् १,
१०: २१; -हीणि लाश्रौ ९,
१२: १५; निस् १, ६: १३.
प्रत्यवरोहिणी- पाग ४, १, ४१.
प्रत्यव-रोह्य आपश्रौ १, १८, ४.
प्रत्य(ति-अ)व √सिच्, प्रत्यव-
सिच्यन्ते आपश्रौ १८, १३, ८.
प्रत्य(ति-अ)व √सृज्, प्रत्यवसृजति
माश्रौ १, ३, ४, १४; ८, ४,
२१; २, ३, ३, २२.
प्रत्य (ति-अ)व √सो, प्रत्यवस्यति
आपश्रौ ९, १, २२; प्रत्यवस्येत्
बौश्रौ २१, २६: १६; २२, १७:
११; हिश्रौ १४, ६, १३××.
प्रत्यव-सान- -ने बौश्रौ २१, २६:
१६; २२, १७: ११.
प्रत्य(ति-अ)व √स्था, प्रत्यवस्था-
पयति माश्रौ ४, २, ३३.
प्रत्यव-स्थाय माश्रौ २, ३, २, ३३; ३,
१८××; वाश्रौ १, १, ५२.
प्रत्यव-स्थित- -ताय बौश्रौ २६,
९: १४.
प्रत्य(ति-अ)व √हृ, प्रत्यवहरति हिश्रौ
२, १, १२; प्रत्यवहरेत् गो २, ५.
प्रत्यव-हृत्य गौध ११, २४; २७.

प्रत्य(ति-अ)वे (व √इ) > प्रत्यवा
(व-आ)य- -यः वैश्रौ २०, १:
२; आपध २, १३, ८; हिध २,
३, ८; -यात् काश्रौ १, ६, ८.
प्रत्यवे(व-इ)त- -तः निस् ३, ११:
२०.
प्रत्यवेत-स्वर- -राणाम् लाश्रौ
७, ८, १; ३.
प्रत्य(ति-अ)वे(व √ई) क्ष्, प्रत्यवेक्षते
आपश्रौ २, १, ५, बौश्रौ १, २:
७××; माश्रौ; प्रत्यवेक्षेत वाधुश्रौ
३, १०: ४; २३: ३; ४; वैश्रौ.
प्रत्यवे(व-ई)क्षितव्य- -व्याः शंघ
२५२.
प्रत्यवे(व-ई)क्ष्य आपश्रौ २, २, ३.
प्रत्य(ति √अ)श्र(व्याप्तौ) > प्रत्य
(ति-अष्ट >) ष्टा- -ष्टा कौस्
१०६, ७^३फं.
प्रत्य(ति √अ)स् (क्षेपणे), प्रत्यस्यति
आपश्रौ ६, १५, ५; १०, २८,
१××; बौश्रौ; माश्रौ १, २, २,
८^१; २५^१; शांत् १, ८, २१^१;
प्रत्यस्यन्ति माश्रौ १, ७, ४, ४२,
प्रत्यस्येत् आपश्रौ १५, १९, २;
बौश्रौ २३, २: २५××; माश्रौ.
प्रत्य(ति-अ)सन- -नम् बौश्रौ २१,
३: ७; २३, १६: २१; माश्रौ;
-ने भाग् ३, १८: ७.
प्रत्यसन-काल- -ले माश्रौ ६,
१४, १६; हिश्रौ ३, ७, ११५.
प्रत्य(ति-अ)सित्वा आश्रौ ८, १२,
१४, आपश्रौ.
प्रत्य(ति-अ)स्त- -स्त^१ आपश्रौ
१०, २८, १; बौश्रौ ६, १५: ३०;

८, २०: २२; माश्रौ; -स्तम्
काश्रौ १५, ५, २४^१; वाश्रौ.
प्रत्य(ति-अ)स्य शाश्रौ २, ७, १२;
बौश्रौ; कौग् १, ४, ५^१.
प्रत्य(ति-अ)हृ^१ - -हृम् काश्रौ १, ७, ७;
२२, ७, १४××; काग् ७; हिध
२, ५, १५६^१.
प्रत्यहा(ह-अ)भ्यस्त- -स्ते: विध
४६, २०.
प्रत्या (ति-आ) √क्रम्, प्रत्याक्रामति
आपश्रौ २, १४, १०; माश्रौ २,
१३, १५; वैश्रौ ६, ३: ११.
प्रत्या-क्रम्य आपश्रौ २, १७, ६; १८,
९××; काठश्रौ.
प्रत्या(ति-आ) √ख्या, प्रत्याख्यास्यति
बौश्रौ ६, ७: २०^१फं; भाग् १०,
१०: १.
प्रत्या-ख्यात- -तः वृदे ५, ६०.
प्रत्या-ख्यान- -नम् वृदे ७, १५३.
प्रत्या-ख्याय या २, २६.
प्रत्या-ख्यायन् वौश्रौ १४, ३: १८,
२०××.
प्रत्या-ख्येय- -यः वाधुश्रौ ३, ९२:
२.
प्रत्या(ति-आ) √गम्, प्रत्याजगाम
निस् ८, ४: ३२.
प्रत्या-गत, ता- -तः शंघ ३०३; -ताः
गोग् ३, ६, २; द्राग् ३, १, ४३;
-तान् काग् ४५, ११; -ताय द्राग्
३, १, ३०; -तासु शांत् ३, ९, ३;
-ते काश्रौ २१, ४, ७.
प्रत्या-गत्य वैध २, ११, १.
प्रत्या(ति-आ) √गृ, गृ (शब्दे), प्रत्यागृ-
णाति शाश्रौ १७, ४, ६;

a) = क्रतु-विशेष- । तदस्यप्रयोजनमित्यर्थे छ > ईयः प्र. उसं. (पा ५, १, १११) । b) सप्र. वाश्रौ १, २, ४, ४२ अनभिमुजन् इति पाभे. । c) न प्रत्यस्यति इत्यस्य स्थाने सप्र. वाश्रौ १, २, ४, ६१ अनभिमुजन् इति पाभे. । d) सपा. ष्यति <> ष्य इति पाभे. । e) पाभे. वैप १, २१५४ & द्र. । f) पाभे. वैप १, १८१६ f द्र. । g) अस. वा. क्तिवि. । h) पाभे. पृ २३३ ० द्र. ।
वैप४-प्र-३१

बौध्रौ २६, १४:६; वाध्रौ ४,
२६:२४; १००:१६; प्रत्या-
गुणन्ति बौध्रौ १८, २९:२२;
प्रत्यागृणीतात् शाश्रौ १७, १४,
३३.
प्रत्यागर्तुम् बौध्रौ १८, २९:२०.
प्रत्या(ति-आ) √चक्ष्, प्रत्याचष्टे
शाश्रौ ५, १, १०; ऋश्र; प्रति...
आचष्टे भाग २, २५: १५१;
प्रत्याचक्षते हिश्रौ १७, १, १४;
प्रत्याचक्षीत काश्रौ २२, १, ३२;
आपश्रौ १७, २६, १९; वैश्रौ;
प्रत्याचक्षीयाताम् आपध २, ४,
१३; हिध २, १, ६६.
प्रत्याचक्षे या ११, ३४.
प्रत्याचक्षि वृदे ५, ७७.
†प्रत्या-चक्षाण- -गानाम् आपध १,
३, २६; हिध १, १, १०१.
प्रत्या(ति-आ) √च्छिद् > प्रत्या-
च्छेद्य बौध्रौ १४, १९: २४^{११};
आमिध ३, ६, १: १२^{११}; बौपि
१, ८: ११.
प्रत्या-जिहीषिमाण- प्रत्या(ति-आ)
√हृ द्र.
प्रत्या(ति-आ) √तप् > प्रत्या-
(ति-आ)ताप- -वे काश्रौ १५,
४, ३३.
प्रत्या(ति-आ) √तृद् > प्रत्या-तृष्ण-
-णम् माश्रौ ६, १, ७, १२.
प्रत्या(ति-आ) र्त्स^b > त्स-वचन-
-न्म् पावा १, १, ५०.
प्रत्यात्मिक^c - -कान् शांगृ ६, ६, १२.
प्रत्या(ति-आ) √दा, प्रत्यादत्ते शाश्रौ
७, २५, १४; हिश्रौ ७, २, ७४;
या ५, १९; प्रत्याददीत बौध्रौ

२२, ४: ९; १०××; बौश्रु.
प्रत्या-दान- -ने उस् ३, ५.
प्रत्यादाना(न-आ)दि- -दि
आश्रौ ५, १५, ९.
प्रत्यादाना(न-अ)वसान- -नयो:
ऋप्रा १०, ५; उस् ३, ६.
प्रत्या-दाय आश्रौ ६, ४, ४; शाश्रौ.
प्रत्या(ति-आ)दित्य^d - -त्यः अप ६१,
१, २६; -त्यम् अय ७०^e, २३, ११
प्रत्या(ति-आ) √धाव् (गतौ), प्रत्याधा-
वन्ति आपश्रौ ६, २५, ४^२१.
प्रत्या-धावत्- -वतः आपश्रौ १८,
४, २१.
प्रत्या(ति-आ) √नह्, प्रत्यानहति
आपश्रौ १०, २७, १०; बौश्रौ ६,
१५: २६; माश्रौ; प्रत्यानहोत्
बौश्रौ २१, १२: २०.
प्रत्या-नहन- -ने बौश्रौ २१, १२: २०.
प्रत्या(ति-आ) √नी, प्रत्यानयति शाश्रौ
२, ७, ११; बौश्रौ.
प्रत्या-नीय शाश्रौ २, ८, १०; आपश्रौ;
कौश्रु १, ७, १^{१०}.
†प्रत्या(ति-आ)नीक^f - -काय शांगृ १,
११, ४^{१०}.
प्रत्या(ति-आ) √पद् > प्रत्या-पत्ति-
-त्तिः वाध १५, १९; आपध;
पावा ६, ३, ३३; -त्तौ पावा ८,
४, ६८.
प्रत्या(ति-आ) √प्याय् > प्रत्या-प्या-
ययत्- -यन्तः निसू ४, ९: २२.
प्रत्या(ति-आ) √मन्, स्या, प्रत्यामनेत्
मीस् ६, ४, ३१.
प्रत्यान्नायुः ऋप्रा १५, १५.
प्रत्या-न्नात्- > त्त-प्रायश्चित्त^g-
-न्ताः बौश्रौ २०, २३: ११.

प्रत्या-न्नात्- -न्म् ताश्रौ ९, ७, ४:
-नात् आपश्रौ २४, ४, २.
प्रत्या-न्नाय- -यः शाश्रौ १४, ५१,
६; आपश्रौ; -याः निसू २, ८:
३; -येन माश्रौ ६, १५, ६.
प्रत्यान्नाय-प्रतिषेधा (ध-अ) धं-
लोप- -पैः वाश्रौ १, १, १, ६७.
प्रत्या-यत्- -प्रम्. प्रत्ये (त्या √इ) द्र.
प्रत्या(ति-आ) √या > प्रत्या-याय
आपश्रौ २१, १९, १७; हिश्रौ.
प्रत्या(ति-आ) √रभ्, रभ् > प्रत्या-
रभ्य माश्रौ ६, २, ४, २.
‡प्रत्या-रम्भ- -म्भः कौस् १४१,
४१^२; उस् ५, ४; ७, २०^{११}; -म्भे
पा ८, १, ३१.
प्रत्यारम्भ-निवात- -तेषु अप
३४, १, १.
प्रत्यारम्भन्- -म्भी माशि ३, ७.
२प्रत्या(ति-आ) रम्भ^h - -म्भम् मीस्
११, १, २०.
प्रत्या(ति-आ) √रुह् > प्रत्या-रोप्य
आपश्रौ १२, ९, ८.
प्रत्या(ति-आ) र्ध्रपुरⁱ - पा ६, २,
१९३.
प्रत्या(ति-आ) √रुम् > प्रत्या-रु-
(व्य >) र्ध्र- -र्ध्रान् आश्रौ
१, ७, ५.
प्रत्या(ति-आ) √लिख्, प्रत्यालिखेत्
आपश्रु १२, ३; हिश्रु ४, २५.
प्रत्या-लिख्य बौश्रु १९: ४.
प्रत्या(ति-आ) √वप्, प्रत्यावपति
माश्रौ ६, १, ४, ३४; वाश्रौ २, १,
३, ३५; मागृ; प्रत्या-वपन्ति कौस्
२१, ४.
प्रत्या(ति-आ) √वृत्, †प्रत्यावर्तय-

a) यथाक्रमं प्रत्याच्छेद्याम्, प्रच्छेद्येन इति पाठौ? यनि. शोधः (तु. बौपि.) । b) अस्. । c) मत्वर्थीषु ठन् प्र. ।
d) = सूर्यप्रतिबिम्ब-सदृश- । प्रास. । e) परस्परं पाभे. । f) विप. । प्रास. उप. स्वार्थे प्र.; वैतु. Old. नाप.
इति? । g) विप. । बस. । h) तु. सस्थ. टि. यथापदम् । i) र्म्भक^१ इति अच्यु. । j) प्रास. । पृ ३६७ m द्र. ।

आपश्रौ २०, १६, १४; हिश्रौ.
 प्रत्या(ति-आ)√व्रज्, प्रत्याव्रजेत्
 द्राश्रौ १२, १, ७; १४, ४, ३;
 लाश्रौ ४, ९, ४; ५, ८, ३; ९, १,
 २४; प्रत्याव्रजेयुः द्राश्रौ ११,
 ४, १८; १२, ३, ११; लाश्रौ.
 प्रत्या-व्रजत्- -जन् जैश्रौ ५ : १५;
 * द्राश्रौ २, २, १५; लाश्रौ १, ६, ११.
 प्रत्या-व्रजि(त>)ता- -तायाम्
 जैश्रु १, २१ : १८.
 प्रत्या-व्रज्य द्राश्रौ २, १, १५××;
 लाश्रौ.
 प्रत्या(ति-आ)√श्रु, प्रत्याश्रावयति
 आपश्रौ २, १५, ४; ८, १५, ११;
 बौश्रौ ५, १४ : ३××; भाश्रौ;
 प्रत्याश्रावयेत् आश्रौ १, ४,
 १३××; बौश्रौ ३, २१ : २९.
 प्रत्या-श्रवण- -णात् काश्रौ ३, ३,
 १४.
 प्रत्या-श्राव- -वः शुभ्रा ४, ८५†.
 प्रत्या-श्रावण- -णम् आश्रौ २, १९,
 १८; वैताश्रौ १, १०; ९, १२;
 -णात् आपश्रौ २, १६, २; ७, २७,
 ५; वाश्रौ १, १, ४७; हिश्रौ.
 प्रत्या-श्रावित- -तः वैश्रौ ७, ६ : ४;
 -ते काश्रौ ३, ३, १५; आपश्रौ
 २, १६, २; १७, ४××; भाश्रौ.
 प्रत्याश्रावित-घर्म- -र्मस्य हिश्रौ
 २४, ४, ८.
 प्रत्या-श्रुत्- -तः वाश्रौ १, ३, ४, १८;
 ६, ७; -ते वाश्रौ १, १, १, ४७.
 प्रत्या(ति-आ)सु, प्रत्यास्व आपश्रौ
 १२, ५, २†.
 प्रत्या(ति-आ)सुद्, प्रत्यासादयति
 वाश्रौ १, ३, २, १०; ६, ४; २४.
 प्रत्या-सन्न- -न्नः आपध २, १४, २;

हिध २, ३, १३; -न्नम् अप ५०,
 ७, ५; -न्नस्य वैश्रौ २०, २३ : १.
 प्रत्यासन्न-बन्धु- -न्धुः हिपि
 २ : ३; २२ : ३.
 प्रत्या(ति-आ)√सिच्, ङच्,
 प्रत्यासिञ्चति कौसू ९, ३; ५.
 प्रत्या-सिच्य अप ४५, २, १९.
 प्रत्या(ति-आ)√सु > प्रत्या-सारिन्-
 पावा ३, २, ७८^b.
 प्रत्या-सुत्- -तेषु आपश्रौ १८, ५,
 १; हिश्रौ १३, १, ५८.
 प्रत्या(ति-आ)√सेच्, प्रत्यासेवेते वा
 ८, १५.
 प्रत्या(ति-आ)ह्, प्रत्याह आश्रौ ५,
 ५, २६××; शाश्रौ.
 प्रत्याहुः काश्रौ २०, ६, १९;
 आपश्रौ.
 प्रत्या(ति-आ)√हन्, †प्रत्याहन्ति
 अप ४६, ६, ३; अन्न ८, १०५.
 प्रत्या(ति-आ)हुति^c- -ति आपश्रौ
 १४, २९, ३; २४, ३, ६; काठश्रौ
 ७०; भाश्रौ ३, १०, १†^d; वैश्रौ.
 प्रत्या(ति-आ)√ह्, प्रत्याहरति माश्रौ
 २, ३, ३, १०; वाश्रौ १, २, ३, ३७;
 हिश्रौ; या १४, ४; प्रत्याहरन्ति
 शाश्रौ १५, १३, १५; अप ७०^e,
 ३, २××; प्रत्याहरेत् निसू ९,
 ११ : ११; जैश्रु २, ८ : ३;
 प्रत्याहरेयुः लाश्रौ ९, १, १७.
 प्रत्याहरिष्यत् निसू ९, ११ : १०.
 प्रत्याहारिष्यत् निसू ३, ११ :
 २०.
 प्रत्या-जिहीषमाण- -णस्य चाञ
 १४ : ३.
 प्रत्या-हरत्- -रन्तम् वैश्रौ ३, ७ :
 १२.

प्रत्या-हार- -रः निसू ५, १ : १०;
 ६, २ : ४; -रे पाप्रवा ५, १६^e.
 प्रत्याहार-ग्रहण- -णे पावा १,
 १, ६९.
 प्रत्याहारा(र-अ)नुबन्ध-
 -न्धानाम् पाप्रवा ५, १६.
 प्रत्या-हृत, ता- -तः शाश्रौ १४,
 ४१-४२, ४; -ता निसू ३, ११ : ६.
 प्रत्या-हृत्य आश्रौ १, ७, ५; काश्रौ.
 प्रत्या(ति-आ)√ह्वे, प्रत्याह्वयेते आपश्रौ
 १२, २७, १२; बौश्रौ ७, १७ :
 ४××; वैश्रौ.
 प्रत्यु(ति-उ)क्ष्, प्रत्युक्षति आपश्रौ
 १२, ८, ८; भाश्रौ २, ८, १;
 वाश्रौ.
 प्रत्यु(ति-उ)क्ष्य आपश्रौ २, ८, ३;
 बौश्रौ.
 प्रत्यु(ति-उ)च्√चर् > प्रत्युच्-चार्य
 ऋप्रा १५, १३.
 प्रत्युत्क्रान्तानुवाक- -काः चाञ
 १७ : १६.
 प्रत्युत्था(ति-उद्√स्था), प्रत्युत्थिति
 वाधूश्रौ ४, ८९ : ५; १४; वैश्रौ;
 या १४, ३०; प्रत्युत्थिष्येत् माश्रौ
 ६, २, ६, २५; वाश्रौ ३, १,
 २, ४५; ४६; आपध.
 प्रत्युत्-थान- -न्म आग्रिण ३, ९,
 ३ : १५; बौपि २, ७, १४; विध.
 प्रत्युत्थाना(न-आ)सन-वाक्-
 सूनुता(ता-अ)नसूया- -याभिः
 वाध ८, १२.
 प्रत्युत्-थाय अप ४१, २, २; नाध १३,
 ४१; आपध १, १४, ११†; १७;
 बौध १, २, ४६; वैध १, ४, १,
 प्रत्यु(ति-उद् >)त्√पत्, प्रत्युत्प-
 तन्ति वाधूश्रौ ४, ९६ : ३१.

a) पाभे. वैप २, ३खं प्रत्युपतिष्ठसि काश ४, ९, ३, १४ टि. द्र. । b) तु. पाका. । c) अस. ।
 d) °ती इति पाठः? यनि. शोधः । e) तु. पाम. । f) सप्र. हिध १, ४, ४३ अप्युत्थाय (अभ्यु^o) इति पाभे. ।

प्रत्यु(ति-उद् >) त्/पद्, प्रत्युत्पाद-
येत् मीस् १०, ६, ७९.
प्रत्यु(ति-उद् >) त्/सृज्, प्रत्यु-
त्सृजेत् लाश्रौ १, १, २०; २, ११;
प्रत्युत्सृजेयुः हिश्रौ १७, ६, २८.
प्रत्यु(ति-उ)द्-आ/व्रज्, प्रत्युदा-
व्रजन्ति कौस् ६८, ३९; १४०,
२०.
प्रत्यु(ति-उ)द्-आ/हृ, प्रत्युदाहरति
भाश्रौ १, १०, ४.
प्रत्यु(ति-उ)द्/इ (गतौ), ङप्रत्युदैव
आश्रौ २, १९, ३२; शाश्रौ ३,
१७, १; काश्रौ २५, ६, ७; अप्रा
३, २, ५.
प्रत्यु(ति-उ)द्/ऊह् > प्रत्युद्-ऊह
आपश्रौ १२, ५, ७; वैश्रौ १५,
७ : ४.
प्रत्यु(ति-उ)द्/गम् > प्रत्युद्-गम्य
विध २८, १९.
प्रत्यु(ति-उ)द्/गृह्, प्रत्युद्गृह्णीयात्
लाश्रौ ७, ८, १.
प्रत्यु(ति-उ)द्/गै > प्रत्युद्-गीत-
न्तः लाश्रौ ७, ८, १८.
प्रत्यु(ति-उ)द्/घृ (<हृ) > प्रत्युद्-
घार-रः वाध १५, १७; २१.
प्रत्यु(ति-उ)प/कृष् > प्रत्युप-कर्षम्
माश्रौ २, २, २, ३०.
प्रत्यु(ति-उ)प/क्रम्, प्रत्युपक्रामति
माश्रौ १, ३, ४, ३०; ३१; ८, ५, १.
प्रत्यु(ति-उ)प/घा, प्रत्युपदधाति
बौश्रौ १०, २४ : १०; निस् ७,
१० : १३.
प्रत्यु(ति-उ)प/नम् > प्रत्युप-नत-
न्तम् भाश्रौ ७, ८, १२; हिश्रौ.
प्रत्यु(ति-उ)प/नह् > प्रत्युप-नह-

-द्धे हिश्रौ ७, ३, ८०.
प्रत्युप-नह्य आपश्रौ २१, ५, ५;
हिश्रौ.
प्रत्यु(ति-उ)प/लम्ब्, ङप्रत्युपल-
म्बस्व बौश्रौ ७, ३ : ९××; वैश्रौ.
प्रत्यु(ति-उ)प/वद् > प्रत्युपो(प-उ)
दि(ति >)ता-न्ता निस् २, ९ :
३८ङ्.
प्रत्यु(ति-उ)प/विश्, प्रत्युपवेशयते
आपध १, १९, १; हिध १, ५,
१०३.
प्रत्युप-विष्ट- -ष्टः आपध १, १९, १;
हिध १, ५, १०३.
प्रत्युप-वेशन- -नम् द्राश्रौ ४, ४, १०;
लाश्रौ २, ४, ५.
प्रत्यु(ति-उ)प/शी, प्रत्युपशेते
निस् ६, ४ : ३.
प्रत्यु(ति-उ)पसद्^a - -दम् काश्रौ २३,
२, १८.
प्रत्यु(ति-उ)प/स्था, प्रत्युपतिष्ठसै
काश्रौ १, ३, ३ङ्^b; प्रत्युपतिष्ठेत्
बौश्रौ २०, २३ : ३; ५××.
प्रत्युप-स्थान- -ने बौश्रौ २१, १२ :
२६.
प्रत्युप-स्थिति- > षति-हेतुक^c-
-कम् काश्रु ४३ : २०; ४५ :
१०.
प्रत्यु(ति-उ)प/स्पृश् > प्रत्युप-स्प-
शन्^d - -नानि गोश्र १, २, ३१.
प्रत्युप-स्पृश्य गोश्र १, २, २८; द्राश्रु
१, १, १२.
प्रत्यु(ति-उ)प/ह्वे, प्रत्युपह्वयते
आपश्रौ २४, १४, १५.
प्रत्युप-ह्व- -वम् वैश्रौ १५, ३३ :
१२ङ्.

प्रत्युप-ह्वय शाश्रौ ७, ६, ९.
प्रत्यु(ति-उ)पा(प-आ)/कृ > प्रत्युपा-
करण- -णे गोश्र ३, ३, १६.
प्रत्यु(ति-उ)पा(प/आ)स्, ङप्रत्युपा-
स्व माश्रौ २, ३, २, ९; प्रत्युपास्व
हिश्रौ ८, १, ५८.
प्रत्यु(ति-उ)पे(प/इ), प्रत्युपेयात्
कौस् ४६, १८.
प्रत्युपेयाय बौश्रौ १८, ४५ : ९.
प्रत्युपा(प-अ)य- -यः अप्र २ : ६.
प्रत्युपोद्विता- प्रत्यु(ति-उ)प/वद् द्र.
प्रत्यु(ति/उ)ब्ज्, प्रत्युब्जति बौश्रौ
९, ५ : ३४.
प्रत्यु(ति-उ)रस- -पा ५, ४, ८२.
प्रत्यु(ति/उ)ष्, प्रत्युषति वाश्रौ १,
६, ५, २९; प्रति...ओषति बौश्रौ
३, ९ : १५.
ङप्रत्यु(ति-उ)ष्ट- -ष्टम् आश्रौ २,
३, ९; काश्रौ; -ष्टा माश्रौ १,
२, १, २२ङ्^f; -ष्टाः^f आश्रौ
२, ३, ९; आपश्रौ.
ङप्रत्यो(ति-ओ)ष(त >)न्ती- -न्तीः
आपश्रौ ४, ६, ४; भाश्रौ ४, ९,
२; हिश्रौ.
प्रत्यु(ति-उ)ष्टू- -पा ६, २, १९३.
प्रत्युह्य, प्रत्युह- प्रति/वह् द्र.
प्रत्युप- पाउभोष्ट २, ३, १६७; -षः^g
अप ४३, ५, ७; शंघ ११६ : ६३.
प्रत्यु(ति/ऊ)ह् (प्रापणे), प्रत्युहते या
२, ९; प्रत्युहति बौश्रौ १, १९ :
१७; १४, २२ : १६; माश्रौ-
प्रत्युहत् वाधूश्रौ ४^h, २६^h : ९;
१०; १२; प्रत्युहन्^h वाधूश्रौ ४,
१०^h : १३; प्रत्युह वाधूश्रौ
४, २६^h : ८; १०; १२; प्रति...

a) अस्. समासान्तपृ टच् प्र. । वा. क्वि. । b) पाभे. वैप २, ३खं. प्रत्युपतिष्ठासै काश्र ४, ९, ३, १४ टि. द्र. । c) विप. । वस. । d) विप. (निमित्त-). । e) पाभे. वैप १, १८२१ m द्र. । f) पाभे. वैप १, २१७० ष्ट द्र. । g) = वसु-विशेष- । व्यु. ? । h) = प्रत्यौ (उ. संस्कृते. टि.) ।

औहत या २, ९^क; प्रत्युहेत्
 बौश्रौ २०, १४ : ९.
 प्रत्यु(ति-ऊ)हन- नम् शाश्रौ ४,
 १५, ६; कौष्ट ५, ४, ९.
 प्रत्यु(ति-ऊ)हमान- नम् निसू ९,
 २ : ४; -नाः निसू ९, ५ : ४.
 प्रत्यु(ति-ऊ)ह्य आपश्रौ ६, ६, १०;
 बौश्रौ; द्वाश्रौ ७, ३, ३^३.
 प्रत्यु(ति-ऊ)ह्य > प्रत्यु(ति-ऊ)ह- नः
 या ५, १०; १५; ७, २१; -तम्
 या २, २५; -तस्य या ३, ४;
 -ताः या ४, २७.
 प्रत्युच- स्युचः या १३, ११^२.
 प्रत्यु(ति-ऊ)च^{७०}- चम् आश्रौ २,
 १३, ९; ६, ४, २; काश्रौ.
 प्रत्यु(ति-ऊ)तु^७- तु काश्रौ २०, ८,
 ३०; वैताश्रौ ३७, ८; आश्रिण
 १, ७, ४ : ९.
 प्रत्यु(ति-ऊ)घ्, प्रत्याधि वृदे ७,
 ७५.
 प्रत्ये(ति-आ-इ), प्रत्यायन्ति शाश्रौ
 ४, ६, १२; १५, ४××; आपश्रौ;
 प्रत्ये(ति-आ-इ)तन^१ आश्रौ
 ८, ५, १२^१; प्रत्येयात् आश्रौ
 २, ७, १०; ४, १०, १३; काश्रौ.
 प्रत्यायत्- यन्तः आश्रौ ३, ६,
 २५.
 प्रत्या(त्या-अ)यन- नम् आपश्रौ
 १९, ४, १०; हिश्रौ १३, ८, ४३;
 -नौ^९ आपश्रौ १, ५, १; हिश्रौ

१, २, ५४.
 प्रत्यायना(न-अ)न्त^१- न्तान्
 हिश्रौ ९, ३, ५४; १०, ५, ९.
 प्रत्ये(त्या-इ)व्य आश्रौ १, ४, २; २,
 ५, ३××; शाश्रौ.
 प्रत्ये(ति-ए)क^७- कम् शाश्रौ १५,
 ५, ६; १७, ४, ८; वैश्रौ.
 प्रत्येक-दान- नेन विध ६७,
 ४६.
 प्रत्येतव्य- तुम् प्रती(ति-इ) द्र.
 प्रत्येत्यादि जैश्रौका १७७.
 प्रत्ये(ति-ए)नस्^९- नस्ति शाश्रौ ४,
 १६, ११; कौष्ट ५, ८, १०; पा
 ६, २, २७; ६०; -नाः शाश्रौ ४,
 १६, १०; कौष्ट ५, ८, ९.
 प्रत्ये(ति-ए)वयामरुत्^१- रुत् आश्रौ
 ८, ४, ११.
 प्रत्येषन्ती- प्रत्यु(ति-उ)ष् द्र.
 प्र-त्वक्षस्^१- क्षसः आश्रौ ५, २०,
 ६; शाश्रौ ८, ६, ४; ऋञ्च २, १,
 ८७.
 प्रत्वर^१- रः आज्यो ९, ४; -रम्
 आज्यो ९, ७; -रे आज्यो १०,
 ७; ११, ४; -रेषु आज्यो १०, १.
 प्रथ्, प्रथ- √पृथ् द्र.
 प्रथ^१- थः ऋञ्च २, १०, १८१.
 प्रथन- √पृथ् द्र.
 प्रथम, मा^१- पाउ ५, ६८; पाग ४,
 २, ६३^६; -म जैश्रौप ९^१; -मः
 आश्रौ १, ५, १३; १६; २,

२, ४^१; ११, ८^१××; शाश्रौ;
 आपश्रौ १२, २३, ८^१; आपमं
 १, ३, १^१; पाग; या २,
 २२^१; १०, १०^१; पा १, ४,
 १०८; -मःऽमः काश्रौ १२,
 २, ५; १५, २, १६; -मम्
 आश्रौ १२, १; २१××; १०,
 ९, ५^१; शाश्रौ; माग १, २२,
 २^१; गोष्ट २, १, ६^१; या
 ३, ९^१; ७, १४××; -मम्ऽ-
 मम् शाश्रौ ९, २०, ६; काश्रौ,
 -मया आश्रौ १, ९, १; शाश्रौ
 ४, २, ३; १८, १, १०; आपश्रौ;
 या ९, ८; पावा २, २, १८^६;
 -मयोः शाश्रौ १०, ९, १५××;
 आपश्रौ; पा^१ ६, १, १०२; ७, १,
 २८; -मस्मिन् काग ८, २;
 -मस्य आश्रौ २, १०, २२; ४, ६,
 ३^१××; शाश्रौ; आपश्रौ २०,
 २३, ४^१; बौश्रौ १५, ३८; १^१; १^१;
 हिश्रौ १४, ५, १३^१; पा २, ४,
 ८५^१; ६, १, १; -मस्यऽमस्यनिसू
 ५, ११; १२; ३५; -मस्या अज
 ५, ३; -मस्याः आपश्रौ १६, २१,
 २; -मस्याम् आश्रौ ४, ८, १८;
 वृदे ८, ९५; -मस्यै^१ वाधुश्रौ ४;
 ५८ : ४, -मा आश्रौ २, १०,
 २२^१; ९, ११, १९; शाश्रौ;
 काश्रौ ९, ११, १^१; आपश्रौ
 १६, १८, ७^१; १७, २,

a) पाभे. पृ १६८१। द्र.। b) अस.। c) समासान्तः अः प्र.। d) वैप १६.। e) = मन्त्र-
 विशेष-। f) विप.। बस.। g) प्रास. वा बस. वा (तु. पाका ६, २, २७)। h) = सूक्त-विशेष-। बस. पूष.
 = प्रत्यावृत्त-। i) पाठः ? = प्रत्यरि-नक्षत्र- (तु. शोधपत्रे शिवदत्तः)। j) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। k) = ग्रन्थ-विशेष-
 (तु. पागम.)। l) पाठः ? 'मम् (क्रि. वि.) इति शोधः संभाव्यते। m) पाभे. वैप २, ३ खं. जन्म्यन् तैत्रा २, ४,
 ६, १२ टि. द्र.। n) पाभे. वैप १, २१७१। द्र.। o) पाभे. वैप १, २१७१। ह द्र.। p) पाभे. वैप १, २१७१। क
 द्र.। q) पाभे. वैप २, ३ खं. प्र... युयोतन मंब्रा १, ६, १४ टि. द्र.। r) पाभे. वैप २, ३ खं परमेष्ठि तैत्रा १, ५,
 ५, १ टि. द्र.। s) = विभक्ति-। t) सर्वनामसंज्ञा उरसं. (पा १, १, ३३)। u) पाभे. वैप १, २१७३। ह द्र.।
 v) पाभे. वैप १, ७७२। ब द्र.। w) पारिभाषिक-संज्ञा-। x) अत्र. पाठः। y) वैप १, २१७३। i द्र.।

१२१^३; वैश्रौ १२, ४: ६१^३; हिश्रौ
१२, १, २६१^३; पाण्डु; ३, ३, ५१^३;
आमिण्ड ३, २, २: २१^३; बौण्ड २,
११, ३३१^३; ऋभाण्ड २, १७:
११^३; या ६, १; ८, १२१^३; पा
२, ३, ४६^३; ८, १, ५९; -मा:
शांश्रौ ४, १०, २१^३; काश्रौ; या २,
२२१^३; ५, २५१^३; पा १, १,
३३; -मात् आश्रौ २, १६,
१२; ६, ६, १२××; शांश्रौ;
पा ४, १, ८२; -मान् आश्रौ ९,
१०, ४; शांश्रौ; -मानाम् शांश्रौ
१३, १०, ८; वाश्रौ ३, ४, ५, ५;
-मानि आश्रौ ६, ४, २; वाश्रौ;
या १२, ४११^३; -माभिः लाश्रौ
६, २, १; अश्र ३, २१××;
-माभ्याम् आपश्रौ ५, ११, ६;
१४, ३, १४; बौश्रौ; -मात्
आश्रौ २, ४, १८××; शांश्रौ;
आज्यो ६, १^३; -माय आश्रौ ४,
६, ३; १०, ११^३; शांश्रौ; -माया:
आश्रौ ४, १, २६; शांश्रौ; अप्रा^३
२, २, ३; ५; पा^३ ७, २, ८८; ८,
१, २६; पावा १, २, ४३^३;
-मायाम् आश्रौ २, १, १९; १८,
३; शांश्रौ; -मायै शांश्रौ १०,
६, ३; १८, २०, १; २; -मासु
लाश्रौ ६, ८, १२; -मे आश्रौ
२, १०, २२; ६, ४, २××;
शांश्रौ; या ७, ८; १४, १६१^३;
पा १, १, ३३; ४, १, २०; -मेन
आश्रौ ६, १३, १०; शांश्रौ;
-मेभ्यः लाश्रौ ७, ७, ३; अप्;
-मेषु आश्रौ ५, १०, १६; शांश्रौ
७, २६, १२; ९, ७, १; -मैः शांश्रौ
१३, १०, ७; द्राश्रौ; -मौ आश्रौ

११, ३, १; काश्रौ; या ८, १२.
प्राथमिक- पा ४, २, ६३; ३,
७२.
प्राथम्य- न्यात् मीसू ९, १, ३३.
प्रथम-कल्प- ल्येन उनिसू १: २९.
प्रथम-कृत- त्तम् आपश्रौ १५, ३,
१७; ४, ६; भाश्रौ; -तान् माश्रौ
२, २, २, १३; ५, ५, १७; हिश्रौ
९, ६, २५.
प्रथमकृता(त-अ)ग्निहोत्र-
विधान- न्नेन वैश्रौ २१, ९: ८.
प्रथम-कृति- तौ निसू २, १३: ८.
प्रथम-नाभ- भै कौण्ड १, १४, १;
शाण्ड १, २२, १; पाण्ड १, १५, ३;
गोण्ड २, ७, २; द्राण्ड २, २, १७.
प्रथमगर्भिणी- ण्याः भाण्ड १,
२१: १.
प्रथम-ना(भे >)भां- भां:
आपश्रौ १२, ८, ११; -भायाः
आमिण्ड २, १, २: १; बौण्ड १,
१०, १; हिण्ड २, १, २.
प्रथम-प्रथित- तान् आपश्रौ ११,
६, ३; १३, २४, १४.
प्रथम-ग्रहण- णे शुप्रा १, ६४.
प्रथम-चतुर्थ- र्थयोः शांश्रौ १२,
१६, २; -र्थाभ्याम् काश्रौ ३, ३,
७; -थौ अप् २: १४.
प्रथम-चतुर्था(र्थ-अ)ष्टम-द्वादश-
-शेषु वैताश्रौ ३२, १५.
प्रथम-चित्ति- त्तेः काश्रौ १७, ३,
१७; -तौ वैश्रौ १८, १७: ३६.
प्रथमचित्ति-वत् बौश्रौ १९, १०:
५५.
प्रथम-चोद्वन- नात् काश्रौ ९, ११,
११.
प्रथम-ज, जा^३- जः शांश्रौ ३, १२,

१२; १३, २४; काश्रौ ४, ६, ९;
भाश्रौ; -जम् आपश्रौ ६, ३०,
७××; बौश्रौ; -जयोः कौसू
५१, ११; -जस्य कौसू २३, १४;
-जा अप् १, ३७, ५१^३; -जान्
आपश्रौ २०, १४, १०; हिश्रौ.
प्रथम-जन्मन्- न्म वैण्ड ६, ७: १.
प्रथम-जा- जाः आपश्रौ ४, ७, २;
२२, १७, १०; बौश्रौ; अशां ७,
५१^३; या १४, १××; -जंजाः
आपश्रौ १६, १, ३; वैश्रौ १८,
१: ९; हिश्रौ ११, १, ६; -जाम्
भाशि ८०.
प्रथम-जात- तस्य गोण्ड ३, ६, ३;
द्राण्ड ३, १, ४४.
प्रथम-तन्त्र- न्त्रम् निसू ९, ४: ९.
प्रथम-तस(ः) वैश्रौ ५, ९: ३; लाश्रौ
९, ८, १८; निसू.
प्रथम-तृतीय- न्ययोः लाश्रौ ७, २,
३; -यौ शांश्रौ ७, २७, १९;
काश्रौसं ५: ५.
प्रथमतृतीय-वर्जम् काश्रौ २४,
२, ३७.
प्रथमतृतीया(य-आ)दि-
-दीनाम् पावा ६, ४, १२०.
प्रथमतृतीया-पञ्चम-सप्तम-नवम-
-मेषु गौध १४, ३८.
प्रथम-त्व- त्वे पावा ६, १, १.
प्रथम-दशम- मे लुसू २, १६: ४.
प्रथम-दशम-पञ्चम- माः अपं ४:
१२.
प्रथम-देवता- ताम् आपश्रौ १, ३, ७.
प्रथम-द्वितीय- न्ययोः लाश्रौ ८, ३,
२; निसू ९, ४: ७; -याः उस्
१, ७; आशि ४, २; -याभ्याम्
आश्रौ ८, २, १०^३; -ये आश्रौ ८,

a) पाभे. वैप १, १४५१ h द्र.। b) = विभक्ति-विशेष-। c) = प्रतिपद्- (तिथि-)। d) पाभे. वैप १, २१७४ b द्र.। e) विप.। वस.। f) वैप १ द्र.। g) सप्र. जा <> जाः इति पाभे.।

२,५;लाश्रौ ७,५,९; -द्यौ शाश्रौ
३, १३, २६; द्राश्रौ ५, १, २, ११;
लाश्रौ २, ५, १७; आशि ४, २.
प्रथम-द्वितीय-तृतीय-चतुर्थी (र्थ-उ)
त्तम- -मा: तैप्रा १, ११.
प्रथम-धार^{a,b}- -रस्य कौसू २१, ९.
प्रथम-नवम- -माभ्याम् लाश्रौ ६,
१२, २.
प्रथम-निवृत्ति- -त्ति: पावा ६, १, २.
प्रथम-निहत- -तात् आपश्रौ ११,
४, १३.
प्रथम-पञ्चक- -केन विध ७३, ५.
प्रथम-पञ्चम- -मौ ऋप्रा १, ३९.
प्रथम-पर^a- -र: तैप्रा १४, १७; -रे
तैप्रा २१, १६.^c
प्रथम-परापातित- -तम् काठश्रौ
५२^d.
प्रथम-परापातित- -तम् वैश्रौ १०,
७: ४^e; ८: ६; हिश्रौ ४, २, ४३.
प्रथम-परापातिन्- -तिनम् आपश्रौ
७, २, ५^e; ९, १०.
प्रथम-परिधि- -द्यौ काश्रौ २६, ६,
१२.
प्रथम-पर्याय- -यस्य वैश्रौ १६, १:
१२.
प्रथम-पुरुष- -ष: पावा २, ३, १;
-षै: या ७, १.
प्रथम-पूरण- -णयो: पा ६, २, १६२.
प्रथम-पूर्व^a- -र्व: तैप्रा ५, ३८.
प्रथम-प्रतिषेध- -घ: पावा १, ४,
१०८.
प्रथम-प्रतीक-त्व- -त्वेन अत्र १,
३^g.
प्रथम-प्रतीक(क-क) किका^h- -का

अत्र १, ३.
प्रथम-प्रयोग- -नो शांगृ ४, १३, ४^e;
-गेषु गोगृ ४, ५, ११.
प्रथम-प्रवदⁱ- -दस्य कौसू १०, १७.
प्रथम-प्लुत- -तम् आपश्रौ १२, ७,
११.
प्रथम-भाजू^h- -भाजम् आश्रौ ३,
८, १; शाश्रौ ९, २७, ७; १३, ४, ३.
प्रथम-भाव-ग्रहण- -णम् पावा १,
३, १.
प्रथम-भाविन्- -विन: ऋप्रा ३, १६.
प्रथम-मण्डले(ल-ई)ष्टका- -कायाम्
जैश्रौप ८.
प्रथम-मध्यमो(म-उ)त्तम, मा^h-
-मा: पा १, ४, १०१; -मानाम्
पावा १, २, ६४; -मासु वैश्रौ
१९, ५: १७.
प्रथममध्यमोत्तम-पञ्चक- -कै:
विध ७३, ८.
प्रथममध्यमोत्तम-संज्ञा-
-ज्ञायाम् पावा १, ४, १०१.
प्रथम-मन्थन- -ने वैश्रौ १, १: २५.
प्रथम-मास- -सम् काश्रौ १८, २४,
४.
प्रथम-यज्ञ- -ज्ञ: शाश्रौ ५, ९, १;
आपश्रौ १०, २, ३; -ज्ञे काश्रौ
२६, ७, ५३; आपश्रौ ११, २, ६;
माश्रौ; -ज्ञेन आश्रौ ४, ८, १६;
-ज्ञौ आपश्रौ २२, ६, ३.
प्रथम-युवती- -तीम् वाध २, ३५.
प्रथम-योग- -नो कौगृ ३, १३, १०^e.
प्रथम-लिङ्ग-ग्रहण- -णम् पावा १,
४, ३.
प्रथम-रूत- -नम् वाश्रौ १, २, १,

१७.
प्रथम-वचन- -नम् पावा ४, १, ८२.
प्रथम-वर्ज^a- -र्जानाम् काश्रौसं ५:
४.
प्रथम-वास्य^b- -स्यम् आपसं २,
६, १५^c; आमिष्ट १, १, ४: १८^c;
२०; वागृ.
प्रथम-विज्ञान- -ने पावा ६, १, २.
प्रथम-व्रत- -तम् वाधुश्रौ ४, ३८:
७; ९.
प्रथम-शकल- -लम् काश्रौ ६, १,
१३; २, १३; १९.
प्रथम-शल्क- -लकम् वाश्रौ १, ६,
१, ११; ३, ४.
प्रथम-श्राद्ध- -द्धस्य कागृ ६६, १.
प्रथम-षष्ठ-सप्तमो(म-उ)त्तम- -मा:
आश्रौ १२, ५, १०; -मानि
आश्रौ ११, ५, ७.
प्रथम-संवि(त>)ताⁱ- -त्ता काश्रौ
१६, ३, २०.
प्रथम-संस्था- -स्था वाश्रौ ३, २, १,
२८.
प्रथम-सप्तम- -मयो: आपश्रौ २१,
२५, ४.
प्रथम-सप्तमो(म-उ)त्तम- -मा:
काश्रौ २४, ३, २१.
प्रथम-समावृत्त- -त्ते या ७, २३.
प्रथम-समिद्ध- -द्धे काश्रौ ४, १५,
१५.
प्रथम-संपात->प्रथमसांपातिकⁱ-
-केषु आश्रौ ९, २, ५.
प्रथम-सामन्- -म जैश्रौका ५०.
प्रथम-साहस^h- -स: शंघ २६३;
-सम् विध ५, ३२; ६२x५.

a) विप. । बस. । b) उप. = धारा- । c) परस्परं पाभे. । d) 'मः प्रती० इति पाठः? यनि.
शोधः (तु. उत्तरं प्राति.) । e) सपा. 'मप्रयोगे<>'मयोगे इति पाभे. । f) विप. । उस. अजन्तम् ।
g) वैप १ द्र. । h) पारिभाषिक-संज्ञा- [पा.] । i) उप. < सं/विद् [जाभे] । j) विप. । तदहर्तीये
ठकि प्र. उप. वृद्धिः उरसं. (पा ७, ३, १७) । k) = दण्ड-विशेष- । बस. ।

प्रथम-सोम- -मे वौश्रौ २२, ७ :
 २५; -मेन वौश्रौ २३, १६; २५.
 प्रथम-स्कन्ध- -न्धम् वैश्रौ १५, ९; ३.
 प्रथम-स्थान- -नेन काश्रौ ३, १, ३;
 ९, ६, १६.
 प्रथम-स्पर्श^a- -श्र्यः दंवि १, १०.
 प्रथम-स्वर^b- -रैः द्राश्रौ ६, १, १६;
 लाश्रौ २, ९, १२.
 प्रथमा(म-अ)क्षर-लोप- -पम् लाश्रौ
 ६, १०, १४.
 प्रथमा(म-अ)गामिन्- -मिनः या
 ११, १३; १२, ३५; -मिनौ या
 १२, १; -मी या ८, ४; ९, १×४.
 प्रथमागामिनी- -नी या ११,
 २२.
 प्रथमा(म-अ)ग्निहोत्र- -त्रम् माश्रौ
 १, ६, २, ३; -त्राय माश्रौ १, ६,
 १, ५३.
 प्रथमा-चतुर्थी- -थ्यौ अश्रौ ४, ११.
 प्रथमा-तृतीया- -थ्ये शाश्रौ २, ५,
 १८; १०, १०, ४; ११, ५;
 अश्रौ ३, २९.
 प्रथमा(म-अ)दि-त्व- -त्वम् अप
 ४७, १, १४.
 प्रथमा(म-अ)दिश^c- -वे या ४, २५.
 प्रथमा(म-अ)द्विवचन- -नम् पावा
 ६, १, २.
 प्रथमा-निर्दिष्ट- -ष्टम् पा, पावा १,
 २, ४३.
 प्रथमा-निर्देश- -शः पावा १, २, ४३.
 प्रथमा(मा-अ)नुपपत्ति- -त्तिः
 पावा २, ३, ९.
 प्रथमा(म, मा-अ)न्त^a- -न्तम् उस्
 ७, १४; शुप्रा ७, १०; अश्रौ २,
 ४, १४; -न्तानि शौच १, ८;
 पावा २, १, १७.

प्रथमा(म, मा-अ)न्त्य, न्त्या-
 -न्त्याभ्यास् अश्रौ ६, ९७; -न्त्ये
 काश्रौ १७, ४, ९; १९, ७, २;
 -न्त्यौ काश्रौ १३, २, १.
 प्रथमान्त्य-संयोग- -नात् मीस्
 १०, ४, ५५.
 प्रथमा-प्रतिषेध- -धे पावा ३, २,
 १२४.
 प्रथमा-बहुवचन- -ने या १, ८; ५,
 २३.
 प्रथमा-भाव- -वः पावा २, ३, १२,
 ४६.
 प्रथमा(म-अ)र्थ- -र्थम् पावा १, १,
 २१.
 प्रथमा-लक्षण- -णे पावा २, ३, ४६.
 प्रथमा-वर्जम् कौस् ३५, १३; अश्रौ
 २, २४.
 प्रथमा-विधान- -नस्य पावा २, ३,
 १.
 प्रथमा-विधि- -धिः पावा २, ३,
 ४६^c; ५०.
 प्रथमा(म-अ)स्तमित- -ते शाश्रौ २,
 ७, १; काश्रौ ४, १५, ११; हिश्रौ.
 प्रथमा(म-अ)हार- -रे काश्रौ १६,
 १, ३; -रेण आपश्रु ११, १६;
 हिश्रु ४, २०.
 प्रथमे(म-इ)ष्टका- -काः माश्रौ ६,
 १, ६, १३.
 प्रथमै(मा-ए)कवचन- -नम् पावा
 ८, १, १२.
 प्रथमो(म-उ)च्चारण-लक्षण- -गम्
 शैशि ९९.
 प्रथमो(म, मा-उ)त्तम, मा- -मयोः
 शाश्रौ १, १, १८; १२, १२, १०;
 २६, २; काश्रौ; -माः शुप्रा १,
 ८५; शौच १, ६; -मान् आश्रौ

६, ६, ५; २, ५, ५; -माभ्याम्
 वैश्रौ १, १३ : ६; हिश्रौ ३, ४,
 ३८; वैताश्रौ; या ११, १६; -मे
 आश्रौ १, २, १९; आश्रौ; -मौ
 आश्रौ ७, ११, १२; शाश्रौ;
 -मौऽ-मौ काश्रौ २४, ५, ९.
 प्रथमोत्तम-वर्ग-> श्रौ- -ये
 ऋप्रा ४, ३३; शैशि २१५.
 प्रथमोत्तमा(म-अ)नुवाक- -कौ
 आश्रु १, २, २ : ४१.
 प्रथमो(म-उ)त्तर- -रयोः माश्रौ
 ११, २१, ४.
 प्रथमो(म-उ)त्पतित- -तम् माश्रौ
 १, ८, १, ८; २१×४.
 प्रथमो(म-उ)दिष्ट- -ष्टे गोश्रु २, ८,
 ६.
 प्रथमो(म-उ)दृष्ट- -तम् काश्रु
 ६४, १; जैश्रु २, १ : ४.
 प्रथमो(म-उ)द्वव^d- -वम् वौघ ४,
 ८, ५.
 प्रथमो(म-उ)द्वपन- -नस्य काश्रु
 ७१, ११.
 प्रथमो(म-उ)पदि(ष्ट>)ष्टा- -ष्टे
 शाश्रौ १, १७, ७.
 प्रथमो(म-उ)पवेशन- -ने आश्रौ १,
 ३, ३२.
 प्रथमो(म-उ)पहित- -ते माश्रौ १, २,
 ६, २३.
 प्रथमो(म-अ)पका-> श्रौ-
 -दाः आपश्रौ १७, ५, १६; वैश्रौ
 १८, २१ : १८.
 प्रथमस्या अश्रौ ५, ३.
 प्रथमान- √पृथ् द.
 प्रथमोमौ^e अश्रौ १२, ५(१).
 प्रथयत्- , थयित्वा, थस्- , थस्तु- ,
 थित- प्रच्. √पृथ् द.

a) विप. । वस. । b) = अकार- । c) उप. = उच्चारण- (तु. स्क.) । d) वैप १ द. । e) पाठः ? ।
 प्रथमा, उमौ इति W. शोधः ? ।

अ-दक्षिण,णा^a- पाग २, १, १७;
 -गः अग २४, ३, ५; ७०^b,
 २, १^b; -गम्^c आश्रौ २, ५,
 ३; ५, १२, ७××; शाश्रौ ४,
 १६, १०; ७, ५, ४; काश्रौ १, ७,
 २५; ३, ८, १७××; आपश्रौ १,
 १२, ३; २, ५, ६××; ७, ११,
 ५^d; काठश्रौ १४३; काश्रौसं
 २८ : १; बौश्रौ १, ४ : २४;
 १४ : २××; माश्रौ १, १, १२^e;
 ४, ७××; माश्रौ १, १, १, ४;
 ४४××; वाश्रौ १, १, १, ७७; २,
 २, २××; वैश्रौ १, १ : १०; १३;
 १××; हिश्रौ १, १, ५३; २,
 ४४××; जैश्रौ ६ : १२; जैश्रौका
 ७७; ७८; द्राश्रौ २, १, २२; ३, २,
 २××; लाश्रौ १, ५, १८; १०,
 १××; वैताश्रौ २, २०; १०, १८;
 छुसू १, ११ : १०; निसू १,
 ११ : १२; आश्रु १, ७, ६; १७,
 ७××; कौश्रु १, ३, २; ५, ४××;
 शांश्रु १, ७, ११; ८, १७××; पाश्रु
 १, ५, १; २, १, १७××; वैश्रु ६५:
 ६; आश्रिण १, १, १ : ४१; २ :
 ३५××; आपश्रु १, ४; ५, १××;
 काश्रु २४, ११; १२××; काश्रुठ
 ४१ : २०; बौश्रु १, १, २३; २,
 १७××; बौपि १, ४ : ४; भाश्रु
 १, ८ : १६; १० : ६××; माश्रु
 १, २, ३; १, १३××; वाश्रु ५, २२;
 १४, १४××; वैश्रु १, ३ : ९;
 १६××; हिश्रु १, २, १०; ४, ४××;
 हिपि १८ : १२; गोश्रु १, ३, ४;
 १३××; गौपि १, ३, २२; २, ४,

३; जैश्रु १, ३ : ७; ४ : २९××;
 द्राश्रु १, २, ११; १९××; कप्र २,
 ५, १८; कौसू २, ११; ७, १४××;
 अप १, ३१, ८; ४, ४, ५××; वाघ
 १२, ४२; शंघ १३३; बौघ १,
 ४, ३; २, ५, ६××; विघ ७३,
 २३; २६; वैघ २, २, ३; ४××;
 गौघ २, ६६; आपश्रु २, ३; १४,
 ५; बौश्रु १८ : ११; हिश्रु ३,
 २२; ४, ४६; ऋश्रु १५, २१;
 -णस्य वैश्रौ २०, २ : ९; -णा
 माश्रौ १, १, ३, ४२; अप ४१,
 ३, १२; ७०^f, २, ३; -णाः
 कौश्रु १, ८, १९; शांश्रु १,
 १३, ९; -णानि आश्रिण २, ६,
 ८ : ४१; -णाम् अप १, ३५, ३;
 २०, ६, ८; चाअ ३० : ३; -णे
 अप ५३, ६, २; -णौ कौश्रु १,
 १, १०; शांश्रु १, ५, ९.
 प्रादक्षिण्य^g- -ण्यम् अप १,
 ३२, १; ७०^h, ३, ४; -ण्याः अप
 १, ३२, ३
 प्रदक्षिण-गतिⁱ- -तिः अप ७०ⁱ,
 ४, ५.
 प्रदक्षिण-ग्रन्थि- -न्थिम् कौश्रु १,
 ४, ३.
 प्रदक्षिण-नमस्कार- -रौ वैश्रु ४,
 १ : ८.
 प्रदक्षिण-मुख^j- -खम् अप १, ३१, १,
 प्रदक्षिणा-नामन- -नात् या १, ७.
 प्रदक्षिणा(ण-अ)न्त^k- -न्तम् अप
 ४०, १, १०.
 प्रदक्षिणा(ण-अ)भिसुख- -खाः शंघ
 ३४४.

१ प्रदक्षिणा(ण-अ)वर्त- -ते अशां
 १५, ६.
 प्रदक्षिणावर्त-शुभ^l- -भाः अप
 ५९, १, १४.
 २ प्रदक्षिणा(ण-आ)व (ते >) तौ^m-
 -ताम् भाश्रौ १०, ६, १३.
 प्रदक्षिणा(ण-आ)वृत्- -वृत्त माश्रौ
 ६, १, ५, ४०ⁿ.
 प्रदक्षिणी^o/कृ, प्रदक्षिणीकुर्वते वैश्रौ
 १८, १ : २०; ५२; प्रद-
 क्षिणी...कुर्वते बौश्रौ १०, २ :
 ११; ४ : २१; प्रदक्षिणीकुर्वत
 हिघ २, ४, ४८^o; प्रदक्षिणीकुर्यात्
 आपघ २, १२, ११^o; विघ ६३,
 २६.
 प्रदक्षिणी-कृत्य आश्रिण ३, ११,
 २ : १८; आपश्रु २१, ९; बौश्रु.
 प्रदक्षिणी(ण-उ)क^p- -कम् वैश्रौ
 १२, ४ : ३.
 प्रदक्षिणित्^q ऋश्रु २, २, ४३; या
 ८, १९.
 प्रदति- -ती, -तीन् अप १, १०, ३.
 प्र-दत्त- प्र√दा द्र.
 प्र-दर- प्र√दृ द्र.
 प्र-दर्शक- प्रश्रु. प्र√दृ द्र.
 प्र-द्वय^r- -व्यात् काश्रौ २५, ४, ३२१.
 प्र√दृश > प्र-दृशन- पाग ८, १, २७.
 प्र√दह, प्रदहन्ति बौश्रौ १४, १९ : ७;
 सु ८, ३; अप ५८, १, २; प्रदहतु
 वैताश्रौ १४, ११; प्रदह जैश्रु १,
 ४ : ४^q; प्रदहेत् निसू ४, २ : २९.
 प्रघक्ष्यति निसू ४, ३ : १६^r;
 द्राश्रु २, ५, ३०^s; प्र...घक्ष्यति
 बौश्रौ २, १७ : ९^t.

a) भाप., विघ. । उत्तरपक्षे तद्वत्ते वृत्तेः । वैप १ द्र. ।
 c) प्रायेण क्रिवि. । d) पृ १२०७ h द्र. । e) सार्थे ष्यञ् प्र. । f) वस. । g) विग. (मेघ-)
 h) पामे. पृ १२२६ f द्र. । i) परस्परं पामे. । j) वैप १ द्र. । k) =दावानल- (वैप २, ३५, द्र.) ।
 l) प्रघक्ष्यति इति संस्कृतुः टि. । m) ण्ति इति आन. ? ।

प्रदहन्ते अप ५८, १, १; ५.
 †प्र-दहन् - हन् वैताश्रौ ६, ७; १४,
 १; अप २४, ४, ४.
 प्र-दहन - नम् काश्रौ २६, १, २६.
 प्रदहनो(न-उ)हरण- गे काश्रौ
 १६, ४, १७.
 प्र-दहस्^१ (:) बौश्रौ १४, १९ : ६.
 †प्र-धक्षत् - चन्तस् निसू ४, ३; १९.
 प्र✓दा^१, प्रददाति वैश्रौ १, १५ : ३;
 हिश्रौ १०, ३, २९; काग १६, ३;
 २८, ५; प्र...ददामि आग १,
 १५, १°; †प्रदत्ता^१ कौसू ११५,
 २°; प्रदद्यात् जैग २, १ : ७;
 अप्राय ३, ७; अप.
 प्रददौ बौश्रौ १८, ४७ : १७;
 २१; प्रददुः कौसू १३५, १°;
 प्रदास्यसि वाधूश्रौ ४, ४९ : ३;
 ४; प्रदास्यामि वाधूश्रौ ४, २६ :
 ६; गौपि २, ४, १८; वाध १७,
 १७; प्रादात् वृदे ३, १८××; या
 ३, ६; †प्रादाः आपश्रौ १, १०,
 १४°; बौश्रौ २, ११ : १२°;
 भाश्रौ १, १०, १°; वाधूश्रौ ४,
 २६ : १३°; हिश्रौ २, ७, ५६°.
 प्रदीयेते हिश्रौ ३, ८, २७; आपघ
 २, २७, ३; हिघ २, ५, २२; या
 ३, ६; प्रदीयन्ते वैश्रौ ६, ७ : ७;
 १० : ४; हिश्रौ २, २, ३३; ४५;
 या २, १८; प्रदीयेत बौश्रौ १३,
 १४ : ४; २६, ५ : २२; प्र...
 दीयेत आपश्रौ ५, ३, १२; भाश्रौ
 ५, १, १५; हिश्रौ ३, २, १४;

प्रदीयेरन् मीसू ४, १, ७.
 प्र...दद्विरे आश्रौ ८, ११, १°;
 †प्र (दद्विरे) शाश्रौ १०, ९, ४;
 ऋअ २, ७, ९०; ३, २, ७; वृदे.
 प्रदापयति लाश्रौ ९, ८, २; आमिग
 २, ३, २ : ८; प्रदापय बौश्रौ ९,
 ९ : ८°; प्रदापयेत् आमिग २,
 ४, ५ : २६; कप्र १, २, ७; अप.
 प्रदेदीयेत वाधूश्रौ ४, ३८ : ८;
 ४९ : ७.
 प्र-त्त,त्ता- -त्तः आग ४, ७, ११°;
 आमिग ३, ३, १ : २८°; †वैपि^१
 २, ९, ६; ११, ३; -त्तम् आश्रौ ५,
 ७, २; काश्रौ; या २, १; -त्तया
 हिश्रौ १०, २, १०°; -त्तयोः
 द्राश्रौ १२, १, २१; लाश्रौ ४,
 ९, १५; -त्तस्य बौश्रौ २५,
 २४ : १६°; -त्ता हिश्रौ २,
 ३, १५; -त्तानाम् पाग ३,
 १०, ४२; ४७; वाध; -त्ताम्
 पाग १, ४, १५; -त्तायाम् बौश्रौ
 ९, ९ : ११; जैश्रौ २३ : १०;
 जैश्रौका ५७; -त्तासु आग ४,
 ४, २३; बौध १, ५, ९४; -त्ते
 काश्रौ ८, ६, २८; तैप्रा ४, ११°;
 -त्तेऽ-त्ते काश्रौ १६, ६, ८°;
 -त्तेन काश्रौ १५, ७, १३.
 प्र-त्त-द्वैवत^१ - -त्तम् आपश्रौ ९,
 १५, १३; भाश्रौ ९, १७, १४;
 हिश्रौ १५, ४, ३३.
 प्र-त्त-दोष- -वे शाश्रौ ३, २०,
 १३.

प्र-दत्त- -त्तम् अप १२, १, १०.
 प्र-दातव्य,व्या- -व्यम् बौध २,
 ३, ६१; -व्याः काग ७, ३६.
 प्र-दात्- -त्तः जैग १, १२ : २१°;
 -ता आश्रौ ३, १३, १३;
 आपश्रौ; -†तास्म शाश्रौ ७,
 १८, ९; बौश्रौ; -त्रे आश्रौ ८,
 १४, ४°; शाश्रौ ३, २, २°;
 काश्रौ.
 प्र-दातोस(:) बौश्रौ १४, ४ : ३६.
 प्र-दान^१ - -न्तः^१ आपश्रौ २२, २६,
 ४; हिश्रौ २३, ४, २०; -नम्
 शाश्रौ १, १६, ७××; काश्रौ;
 -नस्य मीसू ११, २, २३°; -नात्
 काश्रौ ६, ९, २; भाश्रौ; -नानाम्
 आश्रौ ३, ७, १; मीसू १०, ३,
 ५०; -नानि आश्रौ ३, ४, ४°;
 बौश्रौ २६, ११ : १६°; -ने
 बौश्रौ २०, १६ : ५२××; -नेन
 विध ९२, १५; या २, ११; ६, ९.
 प्रदान-काल- -ले जैश्रौ २६ : ४.
 प्रदान-तस(:) बौश्रौ २०, ६ : २;
 २३, २ : २××.
 प्रदान-दर्शन- -नम् मीसू ९, ४,
 ३०!°.
 प्रदान-न्याय-त्व^१ - -स्वात् मीसू
 १०, ७, ६.
 प्रदान-प्रतिग्रह- -हौ बौश्रौ १५,
 २७ : ५; ९.
 प्रदान-मात्र- -त्रम् बौग २, ११,
 ५५; ५६; बौपि ३, ६, ९°.
 प्रदान-वत् मीसू १०, २, २; १६.

a) गस. उप. कसुन् प्र. । b) पा ३, २, ६ परामृष्टः द्र. । c) सपा. कौय १, १६, ७
 शांग १, २४, ४ प्र...यच्छामि इति पाभे. । d) पाठः ? प्रदत्ताम् (लोपि प्रपुर) इति शोधः (तु. पै १, ९१, ४) ।
 e) पाभे. वैप १, २१७६ a द्र. । f) प्रत्ययेहि इति पाठः ? प्रत्तः स्वघयेहि इति शोधः (तु. आग., अंशतः
 आमिग.) । g) विप. । शेषं पृ २७७ g टि. द्र., बस. वेति भाष्यम् । h) उप. भावाद्यर्थे प्र. । i) = मन्त्र- ।
 j) प्रधा^१ इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. जीसं. प्रसृ.) । k) नाप. = याग- । l) = प्रदेय-द्रव्य- ।
 m) बस. । नत्वात् इति जीसं. प्रसृ. ।

प्रदान-विक्रय-त्याग- -नेषु वाध
१५, २.
प्रदान-विधि- -धिम् काट्ट १५, १
प्रदान-विप्रकर्ष- -र्षः मीसू ११,
२, ६१.
प्रदाना(न-अ)न्त^३- -न्तानि कौसू
१४, २४; १५, ३; ७; १६, २३.
प्रदाना(न-अ)भिमर्शन- -नानि
कौसू ३६, २५.
प्रदाना(न-अ)र्थ-विधान^१- -नम्
मीसू ९, ४, ४२.
प्र-दाय आश्रौ १, ११, १××; शांश्रौ.
प्र-दास्यत्- -स्यन् बौश्रौ १०, १६ :
१२××; वैश्रौ १८, ९ : १; ४.
प्र-दीयमान, ना- -नम् आपश्रौ १०,
२३, ५; भाश्रौ १०, १५, १४;
हिश्रौ ६, ४, ४; ७, २, ३०; -नान्
आपश्रौ १८, १४, १२; -ने वैश्रौ
१, ८ : ३; हिश्रौ ६, ५, १०;
-नेषु हिश्रौ ३, ५, ८.
प्र-दे(य>)या- -या अप४, २, ११.
प्रा(<प्र)-दाय वृदे ३, २४.
प्र-दातव्य- प्रम्. प्र√दा द्र.
प्र-दाव^२- -वात्^२ माश्रौ ६, १, ३, २७^१.
प्र-दाव्य^२- -व्यः बौश्रौ १४, २६ :
१९^१; -व्यम् बौश्रौ १४, १३ :
१६; -^१व्यात्^२ आपश्रौ १६, ९,
८; वैश्रौ १८, ७ : १०; हिश्रौ
११, ३, १०; -^१व्याय आमिष्ट
२, ७, ९ : २३; २४; भागृ ३,
१९ : ९; १०; -व्ये आपश्रौ
१३, २४ : १६; बौश्रौ; -व्येन
शांश्रौ ३, ४, ५; आपश्रौ.

प्र-दिग्ध- प्र√दिह द्र.
प्र-दिक्^२- -दिवि^२ ऋप्रा ८, ४६;
-दिवे आपश्रौ ५, ६, ३^१.
प्र-दिक्^२: आश्रौ ५, ५, १९; शांश्रौ ७,
१७, १०; हिश्रौ ३, २, ५६; अप
४८, ७०; निघ ३, २७; या ४,
८; ६, १७; ८, १९^१.
प्र√दिश, प्रदिशति अप्राय २, ९;
प्रदिशन्ति छुस् २, १६ : १४; ३,
१६ : १; या १, १; २, २.
प्र (अदिशि) वृदे ५, ४२^१.
प्रदिश्यन्ते लाश्रौ १०, १०, ३;
प्रदिश्येत शांश्रौ १४, १, २.
प्र-दिश^२- -दिक्षु वैश्रौ १८, २० :
३८; -^१दिशः आश्रौ २, १४,
१२; १०, ९, ५; काश्रौ २, १, ३;
आपश्रौ; ^१या ८, २२; ९, १७^१.
११, ४१^१; -^१दिशम् आपश्रौ
५, १४, ५; १७, १५, १; बौश्रौ;
-^१दिशा या ८, ९; १२^१; -^१दिशि
आमिष्ट २, १, ५ : ११;
या ८, २१^१; -दिशे अप ७७,
१, ४.
प्र-दिशत्- -^१शन् आपश्रौ ९, ८, ८;
बौश्रौ १३, ४३ : १६; पाय;
-शन्तौ या ८, १२.
प्र-दिष्ट, ष्टा- -ष्टम् शांश्रौ १२, ७, ३;
बौश्रौ १३, १ : १; भाय; -ष्टा
काश्रौसं ३ : ६; वृदे १, ७२;
-ष्टानि वृदे ३, ४९.
प्रदिष्ट-त्व- -त्वात् मीसू १०, ७,
६४.
प्र-देश^२- -शः बौश्रौ २१, ३ : १३;

निस् ८, ८ : ११; २३; या १,
१३; १४; मीसू ९, २, ५; -शाः
बौश्रौ २९, ८ : २५; या १, १७;
-शात् मीसू ११, ३, ११; -शान्
आश्रौ १०, ५, १५; हिश्रौ ३, ८,
२०; -शे शांश्रौ १२, ३, १६;
जैश्रौका; -शेन छुस् २, १६ :
१८; ३, १६ : १७.
प्रदेशिक^२- -कः कौसू ९४,
१७; १२०, १३; १२६, १३;
अशां २९, ४; -कम् या १, १४;
-केन या १, १२××.
प्रदेश-त्व- -त्वात् मीसू ९, ४,
१०.
प्रदेश-शास्त्र- -क्षेषु ऋप्रा ११,
६८.
प्र-देशि(न् >)नी^१- -नी कौशि ३८;
-नीम् हिश्रौ २१, २, ५२^१;
-न्या शांश्रौ २, ९, १४; काट्ट
२४, ११; कप्र १, १, ६; -न्याः
आश्रौ १, ७, १; वैष्ट १, २ : ७;
माशि ४, १३; -न्याम् शांश्रौ
१, १०, १; आमिष्ट २, ६, १ : ९;
माशि २, ११^१; नाशि १, ७, ३.
प्रदेशिनी-मूल-निविष्ट-^१मूर्धन्-
-र्षा शैशि १७७.
प्रदेशिन्य(नी-अ)ङ्गुलि- -लौ
वैश्रौ ६, ११ : ११^१.
प्रदेशिन्य(नी-अ)ङ्गुष्ठ- -ष्ठयोः
वैष्ट १, ५ : ७; वाध ३, ६८; शंघ
५४; -ष्टाभ्याम् आमिष्ट २, ६,
१ : २०.
प्रा(<प्र)-देश^२- -शः आश्रौ २, १९,

a) वस. । b) ०^१ वि° इति आन. । c) वैप १ द्र. । d) सपा. प्रदावात् (मै ३, १, ९ च) <>
प्रदाव्यात् इति पाठे. । e) पाठे. वैप १, २०९१ d द्र. । f) पाठे. वैप १, २१७८ b द्र. । g) भाप., नाप. ।
उप. घञ् प्र. । h) विप. [या.] , नाप. (प्रान्ताधिपति- [कौसू. अशां.]) । i) =तर्जनी- [अङ्गुलि-] । j) पृ ६१ b टि.
०^१प्रदेशिनीम् इति पाठः ? ०^१, प्रदेशि° इति शोध इति द्र. । k) प्रा° इति पाठः ? यनि. शोधः । l) ०^१लौ...पर्वणोः
इत्यस्य स्थाने सप्र. आश्रौ १, ७, १ प्रदेशिन्याः पर्वणी इति, काश्रौ ३, ४, ६ आपश्रौ ३, २, ३ अङ्गुलिपर्वणी इति च पाठे. ।

११; काश्रौ ५,३, १०; आपश्रौ;
-शम् आश्रौ १,३, २२; शाश्रौ;
-शस्य माशि २, ११; याशि १,
५३; -शात् कप्र १, ८, १८;
-शान् आपश्रौ १४, २८, ६; -शे
आपश्रौ १, ६, ६; काठश्रौ; -शेन
शाश्रौ १, ५, ८××; आपश्रौ;
-शैः माश्रौ ४, ३, ४०; अत्राय
४, १; -शौ बौशु १ : ६.
प्रादेश-द्वय- -यम् कप्र १, ८,
१९.
प्रादेश-पा(द्व>)दी^१- -द्याम्
काश्रौ १३, ३, ४^b.
प्रादेश-मध्य^१- -ध्यान् वैश्रौ
१४, ७ : ४.
प्रादेश-मात्र,त्रा- -त्रः वाश्रौ ३,
३, १, ३१; हिश्रौ १३, ३, ४४;
काशु ७, १०; चव्यू ४ : १६;
-त्रम् काश्रौ २६, १, १७;
आपश्रौ; -त्राः शाश्रौ १७, २, ७;
बौश्रौ; -त्राणि काश्रौ ९, २,
१४; आपश्रौ १२, १, ४; माश्रौ;
-त्रान् काश्रौ ८, ५, ६; २६, २,
१८; आपश्रौ; -त्रे शाश्रौ १७,
१५, १२; काश्रौ; -त्रेण शाश्रौ
१७, ४, ७; १०, १३; आपश्रौ ८,
५, १०; भाश्रौ ८, ४, ८; -त्रैः
आपश्रौ १६, ११, १; वैश्रौ १८,
९ : ३; हिश्रौ ११, ४, २; -त्रौ
आपश्रौ १, ११, ६; भाश्रौ.
प्रादेशमात्रा- -त्री काश्रौ
१६, २, ५; माश्रौ २, ३, १, १८;
-त्रीः काश्रौ १६, ४, ३३; बौश्रौ;
-त्रीम् शाश्रौ २, ८, २२; काश्रौ;
-त्र्यः आपश्रौ ५, ५, १०; भाश्रौ.

प्रादेशमात्रि(क>)
का- -का कप्र १, ६, १०.
प्रादेशमात्र-प(द्व>)दी^१-
-दा^० वैश्रौ १८, ६ : ५.
प्रादेशमात्र-पा(द्व>)दी^१-
-दा^० आपश्रौ १६, १०, १६;
वाश्रौ २, १, ३, ४; हिश्रौ ११,
३, ३८.
?प्रादेशमात्राभिघारिता-
नाम्यादिभिः^d जैगृ २, ९ : २२.
प्रादेशमात्रा(त्र-अ)रत्निमात्र-
-त्रे काठश्रौ ११८.
प्रादेश-सुख^१- -खाः हिश्रौ ७,
६, १^०; आपशु ७, २; बौशु ४ :
११; हिशु २, ४८^१; -खान्
आपश्रौ ११, ११, १^०; बौश्रौ ६,
२६:१२^०××; वैश्रौ १४, ७:३^०.
?प्रादेशमूलविस्तृतम् वैश्रौ ११,
८ : ११.
प्रादेश-विस्तृत- -तम् वैश्रौ ११,
१० : ३.
प्रादेश-व्यास^१- -सौ बौशु १२ :
५.
प्रादेश-स(म>)मा- -मान्
काश्रौ ५, ३, ३१.
प्रादेश-संमित,ता- -तः
आपश्रौ १, ६, १०; बौश्रौ १, ३ :
४; भाश्रौ १, ६, १३; हिश्रौ १,
३, ४; -तम् वैश्रौ १०, ७ : १०;
-ताः वैश्रौ १, ८ : १४.
प्रादेश-सविशेष- -षेण बौशु
१२ : ९.
प्रादेशा(श-अ)न्त^१- -न्तम् अप
३६, २१, १.
प्रादेशा(श-अ)न्तराल^१- -लाः

हिश्रौ ७, ६, १^१; आपशु ७, २;
बौशु ४ : ११; हिशु २, ४८;
-लान् आपश्रौ ११, ११, १^१.
प्रादेशा(श-अ)न्तस्पाद^१^१-
-दान् बौश्रौ ६, २६:१२^१; १३^१.
प्रादेशा(श-अ)या(म>)मा^१-
-माः गोगृ ४, २, १७.
प्रादेशा(श-अ)र्ध- -र्धम् वैश्रौ
११, ८ : १२.
प्रादेशा(श-अ)वम- -मम् बौश्रौ
४, १ : २८.
प्रादेशो(श-उ)वेश-गामिन्-
-मिनम् माशि २, १०; याशि १,
५२.
प्रादेशो(श-उ)पवेशन- -ने आश्रौ
४, ८, ३.
प्रदिग्-^१, दिशन्-^१, दिष्ट- प्र०दिग् द्व
प्र०दिह्, प्रदिग्ध कौसू २९, २३.
प्र-दि(ग्ध>)ग्धा- -ग्धा आपश्रौ
१६, १०, १६; हिश्रौ ११, ३, ३८;
-ग्धाम् आपश्रौ १७, १७, ८.
?प्रदीक्षितारितितस्ते वाश्रौ ३, २,
४, १०.
प्र०दीप^१, प्रदीप्यते अप ७०^२, ७, ९;
७१, ९, ४; बौध २, ७, १५; या
७, २३; प्रदीप्यन्ते अप ७०^२,
७, ८; २३; २१, ३; ७१, ९, ५.
प्रदीपयति आपश्रौ १५, ७, ३^१;
भाश्रौ ११, ७, ७; प्रदीपयेत् अप
७, १, ५; अशां १५, १.
प्र-दीप^१- पाप ५, १, ४; -पान् अप
६, १, ७; १९^२, २, ३; -वैः अप
२१, ६, ६; ६८, ५, २१.
प्रदीप-वत् कप्र १, १, १; मीसू.
११, १, ६०.

a) विप. । बस. । b) तु. चौसं. । ^१पाद्यायाम् इति अच्यु. ? । c) परस्परं पाभे. । d) पाठः ?
अप्रादेशमात्राम्, अभिघारिताम्, भाज्यादिभिः इति त्रि-पदः शोधः (तु. सप्र. आश्रित २, ५, १ : ३३) । e) परस्परं
पाभे. । f) परस्परं पाभे. । g) उप. = अन्तराल- (तु. पाभे.) । h) नाप. । उप. कर्त्तरि क्त. ।

प्रदीपीय-^१दीप्य- पा ५, १, ४.
 प्रदीपित->^२पित-पथ^३- -थम्
 अप ६४, २, १.
 प्रदीप्त,सा- -सः अप ३८, ३, २;
 ७०^३, २, २; -सम् काश्रौ ८, ७,
 १; आगृ ३, १०, ११; -साः अप
 ६५, १, ७; -साम् आश्रौ २, ३,
 १६; काश्रौ ४, १४, १४; वैताश्रौ
 ७, १०; अप ४५, १, १९; -सै
 आश्रौ १, ४, ९; -सैः अप ६३,
 २, ३.
 प्रदीप्त-तम- -मे काश्रौ ४, १५,
 १७.
 प्रदीप्त-लक्षण^४- -गाः अप ५८,
 १, ६.
 प्रदीप्ता(स-अ)प्र^५- -अः अप २४,
 ३, ४.
 प्रदीप्ता(स-अ)यःपिण्ड-लोह-
 कण्टक-शयन^६- -नानि शंघ
 ३७४.
 प्रदीप्ते(स-इ)न्द्रयष्टि-पाद-
 भन^७- -ने अप ७२, ३, ८.
 प्रदीप्य आपश्रौ १५, ३, १७; १३,
 ३^३; भाश्रौ; प्रदीप्यःप्रदीप्य
 काश्रौ १०, ६, १४; २६, ७, ३.
 प्रदीपमान- प्र^८दा द्र.
 प्र^९दुष् > प्र^{१०}दुष्ट- -ष्टे अप ७०^३,
 ११, २६.
 प्र^{११}दुह्, प्र^{१२}दुहते बौश्रौ १४, ५ :
 ४९; माश्रौ २, ३, ६, १५.
 प्र^{१३}दृ, दृ(बधा.) > प्र^{१४}दर^{१५}- -रः बौश्रौ
 ९, ४ : २१; १७ : ९××; वैश्रौ
 १३, ६ : ७; -रात् काश्रौ २१,
 ४, १०; वाध ३, ३५; -रे

आपश्रौ १४, १३, १४××; बौश्रौ.
 प्रदुरो(र-उ)दक- -के आपध १,
 १५, ५; हिध १, ४, ६४.
 प्र^{१६}दृश्, प्रदृश्यते अप १, ५, ७; ३२,
 ३××; वृदे २, १३२; नाशि २,
 २, १७; प्रदृश्यन्ते अप ५२, ८,
 २; ६४, ५, ५××; कौशि २४.
 प्रदर्शयति वैश्रौ ५, ३ : १३;
 प्रदर्शयेत् आमिगृ २, ७, ६ : ३१;
 शंघ १०९; विध २३, ३७; ऋप्रा.
 प्र^{१७}दर्शक- -कः ऋप्रा १०, १५.
 प्र^{१८}दर्शन- -नम् अप ६४, ३, २; ५,
 ६; ७०^३, १६, १; ऋप्रा ११, २७;
 माशि १०, २.
 प्र^{१९}दर्शी(न >)ना^{२०}- -नाः अप ५८,
 १, ५.
 प्र^{२१}दर्शित, ता- -तम् जैश्रौका १२१;
 -ताः अप २३, १, २; वृदे ५,
 २५.
 प्र^{२२}देया- प्र^{२३}दा द्र.
 प्र^{२४}देश- प्र^{२५}ष्ट. प्र^{२६}दिश् द्र.
 प्र^{२७}दो(षा >)ष^{२८}- -षः कौसू १४१,
 ३५^३; -षम् माश्रौ १, ६, १, ८;
 वाश्रौ १, ५, २, ७; पागृ ३, ४, ८;
 -षात् अप ६३, १, ९; -षे आपश्रौ
 ६, ४, ८; बौश्रौ; कौसू १४१,
 ३७^३.
 प्रादोष-, षिक- पा ४, ३, १४.
 प्रादोषक- पा ४, ३, २८.
 प्रादोष-चारि(त् >)णी- -णी भागृ
 १, २३ : १६^३.
 प्रादोषा(ष-अ)न्त^{२१}- -न्तः आश्रौ
 ३, १२, १; वैश्रौ २, २ : ११.
 प्र^{२२}दोष^{२२}- -षः अप २०, ७, ८.

प्रदोहन^{२३}-> प्रादोहनि- (> ^{२४}हना-
 यन- पा.) पाग २, ४, ६१.
 प्र^{२५}द्युत्, प्रद्योतयति बौगृ २, ८, २.
 प्र^{२६}द्युस्^{२६}- पाग ४, १, ९६; -द्युस् शंघ
 ११६ : ६५; -न्याय विध ६७, २.
 प्राद्युस्त्रि- पा ४, १, ९६.
 प्र^{२७}दु, प्र^{२८}द्वव आश्रौ ६, ४, १०;
 शाश्रौ १८, १३, ७; आमिगृ ३,
 ६, ३ : २५; ७, ४ : १६; बौपि;
 प्र^{२९}द्व उनिस् ५ : ३०;
 प्र (द्व) ऋत्र २, ९, ८७;
 साम् १, ५२३^३; प्र^{३०}द्व (अद्ववत्)
 शाश्रौ १२, २, १४; आगृ ३, १२,
 १२; प्रद्वनेत् द्राश्रौ ११, ३, १३;
 लाश्रौ ४, ३, १४.
 प्रदुद्राव या १२, १०.
 प्र^{३१}द्वव^{३१}- -वाणाम् वाश्रौ ३, ८३ :
 २.
 प्र^{३२}द्वव- पा ३, ३, २७; -वान्^{३२}
 बौश्रौ १५, ६ : २३; ९ : १२.
 प्र^{३३}द्वविन्- पा ३, २, १४५.
 प्र^{३४}द्वविणी- -णी कौसू ८९, ९.
 प्र^{३५}द्विष्, प्रद्विष अप ३६, ९, ३.
 प्रि^{३६}क्षत्- प्र^{३७}द्वह द्र.
 प्र^{३८}धन् > प्र^{३९}धन^{३९}- -नः या ९,
 २३; -ने या ९, २३^३क^३.
 प्र^{४०}धन्व्, प्रधन्वति बौश्रौ १४, ८ :
 ३६; प्रधन्व > न्वा ऋप्रा ८, ७;
 साम् १, ५६७^३; प्र (धन्व) ऋत्र
 २, ९, १०९.
 प्र (अधन्विषुः) ऋत्र २, ९, २४;
 साम् २, ३११.
 प्र^{४१}धम्, प्रधमन्ति बौश्रौ १५, ३७ : ४.
 प्र^{४२}धा, प्रदध्यात् अप्राय २, ९.

a) विप. । बस. । b) कस. > द्वस. > बज. । c) कस. > षस. > षस. । d) वैप १ द्र. ।
 e) पदोषे (प्रदोषो इति सूत्रे.) पाठः ? यनि. शोधः । f) पूष. = कालपरिमाण- इति [पक्षे] भाष्यम् ।
 g) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । प्र-दो इति MW. । h) व्यप. । व्यु. ? । i) = प्र-दाव- । j) = मन्त्र-
 विशेष-, (उपचारात्) होम- ।

प्रधान, ना^१ - नः भाग्य १, ११ : ५;
 अप ७०^३, ७, ९××; -नम् शाश्रौ
 १, १६, ३; काश्रौ; -नस्य हिश्रौ
 १, १, ६३; कप्र; -ना वैगृ ३,
 २० : २; अप ५९, १, ८; विघ
 ९९, ४; -नाः वैगृ २, १२ : ५;
 अप; -नात् आश्रौ २, ११, १६;
 आश्रौ २, २१, ३; मीसू १०, १,
 ५; -नात् वैगृ २, १३ : १५××;
 वैघ २, १, ९; -नानाम् वाश्रौ
 १, १, १, ६५; ००; हिश्रौ; -नानि
 आश्रौ ३, १६, १०××; वाश्रौ;
 -ने शुप्रा २, २७; पावा; -०ने
 विघ ९९, ३; -नेन मीसू ४, ३,
 ३८; ६, ३, ३; ११, २, ७; -नेषु
 वाश्रौ १, १, ५, १४; वृदे ५, ९६;
 मीसू ४, ४, ३२; -नैः आपध २,
 ८, १३; हिघ २, १, ११५.
 प्राधान्य- न्यम् कप्र ३, १०,
 ९; वृदे १, ७५××; मीसू;
 -न्यात् काश्रौ ५, ११, १९; १५,
 ४, १८××; -न्ये हिश्रौ १७, १,
 २६; -न्येन वृदे १, ६; या १,
 २०; २, १३; २४; ११, २.
 प्राधान्य-तस् (:) वृदे ५,
 १०७; ८, ६२.
 प्राधान्य-स्तनित- -तानि
 अप ६४, ५, २.
 प्राधान्य-स्तुति^१ -ति
 या ७, १३; -तीनाम् या १, २०;
 ७, १.
 प्रधान-कर्मन्- -र्मणि पावा १,
 ४, ५१.
 प्रधानकर्मा(र्म-अ)र्थ-त्व-
 -त्वात् मीसू ११, १, ५३.

प्रधान-कारिन्- -रिणः वाश्रौ १,
 १, १, १४.
 १प्रधान-काल- -ले आशिपि १,
 ७, ४ : १०.
 २प्रधान-काल^१- -लेषु बौगृ ३,
 २, ५.
 प्रधानकाल-त्व- -त्वात्
 काश्रौ ४, ७, २२; २६, ६, २८;
 मीसू ११, १, ६८.
 प्रधान-गुणभू(त>)ता- -ताः
 वृदे ५, ९६.
 प्रधान-तर->र-च्छन्दस्^१७-
 -सः निसू ७, ५ : १३.
 प्रधान-तस् (:) बौघ १, १०, ३७;
 वृदे ५, ११०××; मीसू १, ४, ३.
 प्रधान-ता- -ता अप २२, ६, ४.
 प्रधान-त्व- -त्वम् कप्र ३, १०,
 १०; -त्वात् पागृ २, ५, २०;
 मीसू ३, ७, १९××; -त्वे अप
 ७०, १, ६.
 प्रधान-देवता- -ताः मागृ २, ६,
 ४; -ताभ्यः हिपि २० : १२;
 -ताम् बौश्रौ २९, २ : ५.
 प्रधान-द्रव्य-व्यापत्ति- -त्तौ
 काश्रौ १, ७, २७.
 प्रधान-पूरणी-ग्रहण- -गम् पावा
 ५, ४, ११६; ६, ३, ३३.
 प्रधान-प्रत्ययार्थ-वचन^१- -नम्
 पा १, २, ५६.
 प्रधान-भाव- -वात् पावा २, १,
 ५७; ३, ४, १०२.
 प्रधान-भूत- -तानाम् आश्रौ
 ३, १४, ६; -तानि मीसू २, ४, ७.
 प्रधानभूत-त्व- -त्वात् मीसू
 ६, २, ५; १०, ८, ३६.

प्रधान-याग- -गात् वैश्रौ २०,
 १९ : ५.
 प्रधान-योग- -गात् काश्रौ १,
 ४, १७.
 प्रधान-लोप- -णे अप्राय ४, २.
 प्रधान-वत् मीसू ६, ४, ४; ११,
 २, ६; ३, ३१.
 प्रधान-वैगुण्य- -प्यात् मीसू
 १२, १, १५.
 प्रधान-शब्द-त्व- -त्वात् मीसू
 ५, २, १९; ११, २, १०; ४, २४.
 प्रधान-शब्द-संयोग- -गात्
 मीसू ४, ३, २४^०; १०, ८, ५३.
 प्रधान-संयोग- -गात् मीसू १०,
 १, ४.
 प्रधान-संनिपात- -त्ते हिश्रौ १,
 ६, ४१.
 प्रधान-हविस- -वीषि आश्रौ २,
 १५, ८.
 प्रधान-होम-मन्त्र- -न्त्रान्
 वैताश्रौ १, ४.
 प्रधाना(न-अ)ङ्ग- -ङ्गे या ९, ३१.
 प्रधाना(न-अ)दि- -दौ बौगृ ४,
 ५, ५; -दौ-डौ बौगृ ३, १३,
 २; ४, ६, २.
 प्रधाना(न-अ)न्त- -न्ते बौगृ ४,
 ५, ६.
 प्रधाना(न-अ)नन्तर्थ- -र्थम्
 हिश्रौ २२, ४, २०.
 प्रधाना(न-अ)पवर्ग- -र्गे मीसू
 ११, ३, १७.
 १प्रधाना(न-अ)र्थ- -र्थम् अप
 ६२, ४, ७^१.
 २प्रधाना(न-अ)र्थ^१०- -र्थः कप्र
 ३, १०, १४; -र्थम् मीसू १०, ३,

a) विप., नाप. । कर्त्रार्थे कृत् (तु. अभा.) । b) बस. । c) विप. समासान्तः अक्ष प्र. उक्तं. (पा ५, ४, ७५) । d) कस. > कस. (तु. पासि.) । e) 'संप्रयो' इति जीसं. प्रत्य. । f) पाठः ? विधानार्थम् इति शोधः (तु. संस्कृतः टि.) ।

११; -र्थस्य मीस् ११,३,१८.
 प्रधानार्था(र्थ-अ) भिसंयोग-
 -गात् मीस् ११,२,४.
 प्रधाना(न-अ)वन्मृथ- -थः अप
 ३३,७,६.
 प्रधाना(न-आ)हुति- -त्तिः वाश्रौ
 १,३,४,२९; आग्नि १, ६, २ :
 ८; ३,११, ४ : ११; आप ५.
 प्रधानाहुति-काल-तस् (:)
 जैश्रौका ४०; ६४.
 प्रधानाहुति-वेला- -लायाम्
 जैश्रौका ३९.
 प्रधाने(न-इ)ज्या- -ज्यायाः
 काश्रौ २५,५,१५.
 प्रधानो(न-उ)पसर्जन- -नानाम्
 पावा २,१,६९.
 प्रधि^अ- -धयः या ४, २७^क; ४;
 -धिः या ४, २७; -^कधी क्रप्रा
 २, ७२; तैप्रा ४, १२; -धीन्
 बौशु ७ : १२; -धीनाम् बौशु
 १८:५;२१:५; -धौ आप १३,
 २; बौशु १६:६; हिशु ४,३४.
 प्रधि-क- -कम् आप ७, ८;
 हिशु २,५८.
 प्रधि-प्रकार^प- -रे माश्रौ २, २,
 ३,३५.
 प्रधि-मध्य(ग>)मा^०- -माः
 बौशु १८ : ५; २१ : ५; -माम्
 बौशु १८ : ७.
 प्रधि-मुख^प- -खे आप ११,
 १३,१; हिश्रौ ७,६,२८.
 प्रधि-युक्त- -क्तानि बौशु १६:२.

प्रध्य(धि-अ)नीक- -केषु बौशु
 ७ : १३; १६ : ७.
 १प्र-हित- -तः या ४, २७; -तम्
 आश्रौ ३,१०,१६^द.
 प्र-धान- प्र√धा द्र.
 प्र√धाव् (गतौ), प्रधावति शाश्रौ ३,
 ८,२७^क; अप ५८^२, २, ७५^ख;
 प्र...धावतु आप १,१५,६.
 प्र√धाव् (शुद्धौ), प्रधावते आग्नि १,
 ३,३ : ६^०; प्रधावतः आप १,
 ८,१६; १३,२१,२.
 प्रधावयेत् कप्र १,१०,२.
 प्र-धाव्य बौश्रौ १७, ४० : २१;
 आग्नि १,३,३ : ६.
 प्र√धास्^१, प्रधास्येत् भाश्रौ १०,
 १२,१४^६.
 प्र-धुर^प- -रे आप १२, २, १२;
 ६,११; माश्रौ.
 प्र√धूमाय (<धूम-), प्रधूमायन्ति
 अप ७२,४,४.
 प्र√धु, प्रधारयन्तु आग् ३,१२,१४^क.
 प्र√धृष् > प्र-धृष्यमाण- -णाः आश्रौ
 २,११,१८.
 प्र-धृष्टि- -ष्टिः शाश्रौ ८,२४, ३^क.
 प्र√धे, प्रधापयेत् माग् १, १७, ७;
 वाग् २,९.
 प्र√ध्वै, प्रध्यायत गोग् ३,१०,१७^क.
 प्र√ध्वंस्, प्रध्वंसयते बौश्रौ ४,११ :
 १२; १६; २०; १४, १३ : १८;
 प्रध्वंसयति वैश्रौ १३,१७ : १०;
 हिश्रौ १,५, ६३; २४, ६, १२;
 प्रध्वंसयेत् बौग् ४, २, ६; हिग्

१,१६,४^क.
 †प्र√नम्, प्रनभताम् अप्रा ३,१, ७;
 प्रनभस्व कौस् ४१,१; १०३,३;
 अप ६५,३,२; ४; अअ.
 †प्रनाकाफान^१ आश्रौ २,१०,१४.
 प्र√नृत्, प्रनृत्यन्ति अप ७०^३,८, ३.
 प्र-नृत्त- > †त्त-प्रतमार्जारिवाग्राह-
 (ह-अ)नुग (त>)ता- -ताः
 अप ५८^२,३,१.
 †प्रन्यतिशिलपे वाश्रौ ३,२,२,१४.
 प्र√पच् > प्र-पाक्^१- -कम् कौस्
 ८३,१४; ८४,३.
 प्र√पञ्च् > प्र-पञ्च- पाग ८,१,२७.
 प्र√पट्, प्रपठ्यते अप २३,११, २.
 प्र-पठित- -तम् उस् ८,३६.
 †प्र-पण^अ- -णः शौव ४, ९७; -णम्^क
 भाग् २, २६ : ७; हिग्.
 †प्र-पणत्- -णन् आप २,२२,४^क.
 प्र√पत् (गतौ), प्रपतति अप ३७,
 १७,१; प्रपतन्ति अप ५१, ४,
 २; ५७,२,४; ६८, १, ४७; या
 २, ६; प्रपतात् माग् २,१७,
 १^क; प्रपतात् या २, ६^क; †प्रपत
 भाग् २, २८ : १६; कौस् १८,
 १६; अप; प्रपतत अअ ६,
 ८३^क; अप २ : ५६; प्रपताम्
 पु ८,४; प्रपतेत् आप १, २२,
 २१, १०; बौश्रौ ९, १७ : ६;
 १६; वाधुश्रौ; या ७, ३^क; प्र...
 पतेत् वाधुश्रौ २, २० : १;
 प्रपतेयाताम् अप्राय ६, १.
 प्र (पिपतिषति) अअ १२,२^क।

a) वैप १ द्र.। b) बस.। c) = इष्टका-। d) पाभे. वैप २,३खं. प्र-नृत्तम् तैत्रा १, ४, ४,
 १० टि. द्र.। e) सपा. बौश्रौ १७, ४० : २१ विधावयते इति, बौग् १, ३, ३० विधावते इति च पाभे.।
 f) = प्र√धा (प्र√हा [त्यागे])। g) सप्र. वैश्रौ १२, १४ : ९ खरवा स्वयं प्रयाति इति पाभे.। h) नाप.।
 प्रास. समासान्तः अच् प्र. (पा ५, ४, ७४)। i) पाठः ?। पाभे. वैप २, ३खं. †कनात्काभाम् तैत्रा २, ४, ६, ५
 टि. द्र.। j) उप. कर्मणि षल् प्र.। k) पाभे. वैप १, २१८०gg, २१५० b चद्र.। l) पाभे. वैप १, २१८० k द्र.।
 m) पाभे. वैप १, २१८० i द्र.।

प्र-पतत्- -ततः काण्ड ४०, १३;
वाण्ड ४, १४.
प्र-पतन- पाग ३, ४, ७४.
प्र-पतित, ता- -तः अत्राय २, ९;
-तम् वाधूश्रौ ३, ७७ : २; -ता
वाधूश्रौ २, २० : ६.
प्र-पात- -ते पावा ३, ३, १०४.
प्र-पथ^a- -थात् वाधूश्रौ ३, १८ : ११;
-कथे आश्रौ ३, ७, ८; शाश्रौ
१५, १९, १; बौश्रौ; या ११,
४६.
प्र√पद्, प्रपद्यते आश्रौ १, १, ४; ५,
१२, १; आपश्रौ; कौण्ड ३, ३, ६^b;
प्रपद्यते बौश्रौ ७, ११ : ३; बौध
१, ७, २१; वेज्यो ७; प्रपद्यन्ते
बौश्रौ ७, ११ : १०××; माश्रौ;
कंप्रपद्ये आश्रौ १, २, १; ४, ८^c;
२, ५, १७^d; शाश्रौ; वैश्रौ १८,
१४ : १५^e; हिश्रौ ६, ७, ८^f;
आपमं १, १०, ३^g; कौण्ड ३,
४, ३^h; काण्ड २७, ३ⁱ; बौण्ड
१, ५, ७^j; ६, १२^k; माण्ड १, १९ :
१४^l; १७^m; माण्ड २, ११,
१६ⁿ; वाण्ड १५, १७^o; प्रपद्यामि
अप २०, ६, १; प्रपद्येताम् सु २,
२; प्रपद्यस्व वृदे ६, २२; प्र^p
पद्यस्व बौण्ड २, ६, १४; प्रापद्यत
वाधूश्रौ ४, २६ : २८; २९××;
प्रपद्येत आश्रौ २, ५, १७;
आपश्रौ १२, २६, १४; बौश्रौ;
शाण्ड ३, ४, ९^q; प्रपद्यत्
शंघ १०३; प्रपद्येरन् वैश्रौ १२,
१२ : १; वैण्ड ५, ६ : ८; बौध

१, ७, १७; प्रपद्येयम् माण्ड २,
१३, ६^r.
प्रापस्सत बौश्रौ ७, ७ : १५.
प्रपाद्यति आपश्रौ ११, १७, ८;
१२, ६, १××; बौश्रौ; प्रपाद्यन्ति
शाश्रौ ५, ६, ४; वैश्रौ; प्रपाद्यति
हिश्रौ १०, ४, १३; माण्ड १, १४,
१; प्रपाद्येत् बौश्रौ २५, ९ :
१३××; वाण्ड २, १; १५, १४.
प्र-पत्स्यमान- -नाः शाश्रौ ६, १२,
१२.
प्र-पद्^s- -पदः शाश्रौ ६, २, १.
प्र-पद्^t- -दः गोण्ड ४, ५, ७; -दम्
गोण्ड ४, ५, १४; द्राण्ड १, २, २२;
४, १, ७; कप्र १, ९, ५.
प्र-पदन- -नम् बौश्रौ २४, २८ : १;
२७, १२ : १९; वाधूश्रौ ३, ८^u :
२; जैश्रौ ८ : ३; -नस्य जैश्रौ
१३ : १; १८ : १.
प्रपदना(न-अ)न्त- -न्तम्
वैताश्रौ १, १९.
प्रपदनीय- पावा ५, १, १११;
-यः कौण्ड ३, ४, ३^v.
प्र-पद्य आश्रौ १, १, २३××; शाश्रौ.
प्र-पद्यमान, ना- -नः काठश्रौ १४०;
-नम् आश्रौ ४, १०, ५; बौश्रौ
२५, २० : १३; -नान् वैण्ड ५,
६ : ६; -नाम् वृदे ७, १३१;
-ने भाण्ड १, २३ : २०^w.
प्र-पद्य, ज्ञा^x- -ज्ञः बौश्रौ ४, ४ : ११;
२५, २० : १०; अप ४, ३, ५;
-ज्ञम् गोण्ड ३, ५, ७; जैण्ड १,
१९ : २६; वृदे ६, १५२; -ज्ञा

बौश्रौ ६, २६ : २९; विध १,
५८; -ज्ञाः बौश्रौ १७, १२ : २;
-ज्ञे बौश्रौ ६, २४ : १३;
जैश्रौ ३ : ९.
प्रपद्य-द्विः पक्क-पर्युषित- -तानि
द्राण्ड ३, १, ३६.
प्र-पादयत्- -यन् आपण्ड ६, ८.
प्र-पाद्य आपश्रौ ३, १, १६; ६, १०,
२०; काश्रौ; शाण्ड १, १५, ९^y.
प्र-पाद्यमान, ना- -नाम् वैताश्रौ १३,
५; -नासु आपश्रौ १४, ९, ३;
हिश्रौ १०, ८, ४१; -ने आश्रौ ४,
४, ५; १०, १३; शाश्रौ ५, १४,
१७, २२.
प्र-पद्^z- -दात् कौसू ७, १७××;
-कृदाभ्याम् आपमं १, १७, ४;
अत्र ११, ३(२); -देन आश्रौ १,
१, २३; ४, ४, २; शाश्रौ.
प्र-पद्^{aa}- -दः माशि १४, ७^z.
प्र√पण्, प्रपश्यन्ति अप ६८, १, १३;
प्रपश्यामि विध २०, २२;
कंप्रपश्य^{bb} आपश्रौ १८, ६, ४;
वाश्रौ ३, १, २, २४; हिश्रौ १३,
२, १८; प्रापश्यन् या ७, २९^{cc}.
प्र√पा(पाने), प्रपिबन्ति या ११, ५.
प्रपाययति काण्ड ३४, ६.
प्र-पा^{dd}- पावा ३, ३, ५८; -कृपा अत्र
३, ३०; ऋप्रा २, ५९; तैप्रा १०,
१३; अत्रा २, २, १५; -पाः वाध
१९, १८; -पाम् कौसू १२, ९;
१९, ३.
प्रपा(पा-अ)न्त^{ee}- -न्तानि कौसू
३५, १९.

a) वैप १ द्र. । b) सपा. ष्वेत <> ष्वेत इति पाभे. । c) पाभे. वैप १, १०२४ d द्र. ।
d) पाभे. वैप २, ३खं. उपधावामि मंत्रा १, ४, १ टि. द्र. । e) =मन्त्र-विशेष- । f) वैप २, ३खं. द्र. ।
g) सपा. शाण्ड ३, ५, ३ प्रवचनीयः इति पाभे. । h) ष्वा^o इति पाठः ? यनि. शोघः । i) उप. कर्तरि क्त. ।
j) सपा. कौण्ड १, ९, १३ प्रवेद्य इति पाभे. । k) =पादाप्र- । प्रास. । l) बस. । m) उप. =सुबन्तदि- ।
n) प्रपश्येत् इति C. । o) ब्र^o इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. संस्कृतैः टि.) ।

प्र√पा (रक्षणे), प्र...पाहि बौगृ २, ६, १४^{अ^२ब}.

प्र-पात- प्र√पत् द्र.

प्र-पादयत्- प्रमृ. प्र√पद् द्र.

प्र-पितामह^० - ^०ह आश्रौ २, ६, २४; आपश्रौ १, ९, १५; बौश्रौ २, १० : २५^६; २६; ३, १० : २२^६; ५, १५ : ६×५^६; २४, ३२ : १८^६; वाश्रौ १, २, ३, १६^६; १८; हिश्रौ २, ७, २७^६; आपमं २, १९, १६; २०, १०^६; आगृ; आमिगृ ३, १, ३ : ७^६; भागृ २, १३ : १^६; हिगृ २, १२, ३^६; -हः बौश्रौ २४, २६ : १४; जैश्रौ; -हस् आपश्रौ २, २१, ७^६; बौश्रौ; -हस्य शाश्रौ ४, ४, ४; बौश्रौ; -^०हाः आश्रौ २, ६, १४; आपश्रौ; -^०हाः जैश्रौ १८ : १७; आमिगृ ३, १, ३ : १५; १६; भागृ २, ११ : ६; -^०हात् बौश्रौ २, १० : ६^६; माश्रौ १, ७, ६, ४६; आपमं २, १९, ६^६; आमिगृ ३, १, १ : १८^६; बौगृ २, ११, २७^६; भागृ २, ११ : १७^६; हिगृ २, १०, ७^६; विघ ७५, ६९; -हान् आमिगृ २, ६, ३ : ४६×५; वैगृ ४, ६ : ३; बौघ २, ५, २८^६; -^०हानाम् आमिगृ ३, १, २ : २०; २, ३ : ९; बौघ; -हाय आश्रौ २, ६, १५; ६, १२, ९^६; बौश्रौ; माश्रौ २, ५, ४, ११^६;

-हे विघ ७५, ३; -हेमिः भागृ ३, १७ : ९; -^०हेभ्यः आपश्रौ १, ९, ९; बौश्रौ; आमिगृ ३, १, ३ : १०^६; कौसू ७३, ६६; -^०हैः बौश्रौ ६, ३१ : २२; बौपि २, १२, ४.

प्रपितामही- ^०हि आपमं २, २०, १३^६; -^०ही आपमं २, १९, ५; आमिगृ ३, १, १ : २२; हिगृ २, १०, ७; -हीः आमिगृ २, ६, ३ : ४७; ५१; बौघ २, ५, १८^६; -हीभ्यः आमिगृ १, २, २ : ३२×५; बौगृ २, ११, ३४^६; -ह्यः आपमं २, २०, ७^६; -ह्यै शंघ ११६ : ७३; विघ ६७, २३; ७४, १.

^०प्रपितामह-पत्नी- ^०लीभ्यः वैगृ १, ४ : २०; ४, ४ : १०.

प्रपितामह-प्रभृति- ^०तीन् आपश्रौ १, ९, ४.

प्रपितामहा(ह-आ)दि- ^०दि आपघ १, २, ५; हिघ १, १, ३८.

^०प्रपित्व(त-न्)^० - स्वम् शाश्रौ १४, ४९, ३; -^०त्वे^० आपमं १, १४, ४; अप ४८, ६०; ११७; निघ ३, २९; या ३, २०.

प्र√पिष् > प्र-पिष्ट- ^०ष्टानाम् काश्रौ ५, १, ४.

प्रपिष्ट-तम- ^०मैः या ६, १२^१.

प्र√पीड > प्र-पीड्य काश्रौ २४, ३, ३६; आपश्रौ.

प्र-युट^० - ^०टे कौसू २५, ३०.

प्रपुनाट्- पाडभो २, २, १००.

प्र√पुष्, प्र (पुष्यन्ति) शाश्रौ ९, २४, ९^६.

प्र√पू > प्र-पावन- ^०नः अप ३८, १, ३.

प्र-पुन्वत्- ^०न्वद्भ्यः^१, ^०न्वन्तः^१ आपमं २, १८, ३८.

प्र√पूज्, प्रपूजयेत् अप १९^२, ५, ३.

प्र-पूजित- ^०ते अप ३८, १, २.

प्र√पृ, प्रपूरयेत् आमिगृ २, ४, ७ : ६.

प्र-पूर्य आमिगृ २, ४, ७ : १७.

प्र-पौत्र^० - ^०त्रः बौघ १, ५, ९५; -^०त्राः निसू १०, ९ : २३; गोपि १, ७, ९^६.

प्र√प्याय्, ^०प्यै, प्रप्यायते या ११, ४२; प्रप्यायस्व^० हिगृ २, ४, ३^६; ^०प्रप्यायस्व^० आपमं २, १३, २; आमिगृ २, १, ४ : १८; भागृ १, २५ : १०.

प्र-पीन, ना- ^०नीन्^० माश्रौ ६, २, ६, २०; वाश्रौ २, २, ५, ६; वागृ १, ३१; शुभा ३, ९०; -^०नीना आपश्रौ ४, १०, ७; माश्रौ; -^०नीनाः आपमं १, १४, ७^०; अत्रा ३, १, ७^०; -^०ने आपश्रौ २१, २०, ७^०.

^०प्र-प्यात् - ^०तस्^० आपश्रौ १६, १२, ११; हिश्रौ ११, ५, ७.

प्र√पुथ् > प्र-प्रोथ^० - ^०थयोः^२ वैश्रौ १७, १३ : ५; -^०थेषु^२ आपश्रौ

- a) पामे. वैप २, ३खं. प्र...माहि तैत्रा ७, ४, ३ टि. द्र. । b) भाहि इति सूको. । c) नप. ।
 प्रास. । d) पामे. वैप १, २१३९ b द्र. । e) पामे. वैप १, २१८२ l द्र. । f) पामे. पृ १५७३ ष द्र. ।
 g) सपा. °हाय<> °हेभ्यः इति पामे. । h) वैप १, ६६२ h द्र. । i) वैप १, २१८२ o द्र. ।
 j) तु. दु. राज. । वैतु. ल. °पिष्^० इति । k) =हृ- पुट- । प्रास. । l) सपा. हिगृ २, ९, २ प्रयुन्व^० इति
 पामे. । m) परस्परं पामे. । n) पामे. वैप १, २१८३ j द्र. । o) पामे. वैप १, २१८३ f द्र. ।
 p) पामे. वैप १, २१८३ k द्र. । q) वैप १ द्र. । r) सप्र. आपश्रौ १८, ४, १५ °थेषु^२.
 इति पामे. ।

१८, ४, १५; वाश्रौ ३, १, १, ४३;
 हिश्रौ १२, १, ५०; ६१.
 प्र√लु, प्रप्लावयन्ति बौश्रौ ६, २: ८;
 ३: ७; कौसू ४६, २८; ४८, ६;
 प्रप्लावयन्ति बौश्रौ ८, २०: १६;
 प्रप्लावयेत् बौश्रौ २९, १३: १३;
 प्रप्लावयेयुः बौश्रौ २१, २४: २४.
 प्र-प्लावन- -ने बौश्रौ २१, २४:
 २१; २५: १.
 प्र-प्लाव्य बौश्रौ १२, १६: २२; हिश्रौ
 १०, ५, ३०; पाण १, १२, ५.
 प्र-फवि, वी^a - -कृष्यन् बौग १, ६, २२;
 वाध २, ३४^b; ३५^b; भाशि ५८^b.
 †प्रफवि-दा- -दा:० आपश्रौ १७,
 ५, १६; वैश्रौ १८, २१: १७.
 †प्रफवी-दा- -दा: हिश्रौ ११, ८,
 १०^c.
 प्र√फुल्ल्, प्रफुल्लेते याशि २, ६५.
 प्र√बध्, न्ध्, प्रबध्नाति आपश्रौ
 २१, १७, १३^d; कौसू २६, ३२;
 प्रबध्नन्ति आपश्रौ १८, ४, ४;
 २१, १८, १०; हिश्रौ १६, ६, १०^d.
 प्र-बद्ध, द्दा- -द्धम् अप ७०^e, १८, १;
 -द्धस्य अप १, ३२, २; -द्दाम्
 आपश्रौ १९, ३, ६; -द्धेन अप
 ७१, ३, १.
 प्रबद्ध-विल्लना(न-आ)घ(दि-
 अर्थ^f) - -धैम् पावा ४, १, ५२.
 प्रबद्धा(द्ध-अ)ङ्गुष्ठ- -घ्नाभ्याम्
 कौसू ३५, २७.
 प्र-बध्य शाश्रौ ३, १९, ९; आपश्रौ.

प्र-बन्धन् - -न्धान् हिश्रौ १६, ६, २५^g.
 प्र-बन्धन- -नम् बौश्रौ १०, २२:
 १०; १५.
 प्र-बल्^h - -लम् अप ५५, २, ३.
 प्र√बाध्, प्रबाधते या ३, ८.
 प्र-बाधित- -ते सु २, २.
 प्र-बाधि(न् >)वी- -न्धौ बौग ३,
 ११, १.
 प्र-बाहुⁱ - -हुषु विध २२, ७७.
 प्रबाहुक्^j आपश्रौ १२, १, १२; १३××;
 बौश्रौ १, १६: ८; ११; २०, १३:
 ७; ८; भाश्रौ.
 प्रबाहुक्म^k पाग १, १, ३७.
 †प्र√बुध्, प्रबुध्यताम्^k आपमं १,
 ४, ८; आमिगृ १, ५, २: ५३;
 बौग; प्रबुध्यस्व कौसू ७७, १३;
 अप ४६, ४, १; ६, ५.
 (प्र)अभुलिसि अग्र २०, १४२.
 प्रबोधयन्ति काश्रौ ९, १, १;
 प्रबोधयेत् कौसू ७३, १; ७७,
 १३; विध ७१, ५६.
 प्र-बुद्ध, द्दा- -द्धः बौध ३, ८, १९;
 नाशि २, ८, १; -†द्दाय शुपा
 ६, २६; -द्दायाः अप ३५, १,
 ३†; -द्धे विध १, १.
 प्रबुद्ध-यजुस- -जुः बौश्रौ ६,
 ७: ५; १९; २१, १०: १०××.
 प्र-बुध्^l - -बुधे बौश्रौ ६, ७: २†.
 प्र-बुध्य आपश्रौ १०, १८, २××;
 भाश्रौ १०, ११, ११; वैश्रौ १२,
 ११: ५.

प्र-बुध्यत् - -ध्यन् माश्रौ २, १, ३,
 ११.
 प्र-बोद्धव्य- -न्यम् कौशि ७०.
 प्र-बोध^m - -धः आपमं २, १६, १४.
 प्र-बोधित- -तः अप ८, १, २; -ताः
 वैताश्रौ १६, ४.
 प्र-बोधिन् - पाउमो २, २, २९१.
 प्र√बृह्, प्रबृहति बौश्रौ १४, १२: ४;
 †प्रबृहन्तुⁿ बौश्रौ १४, १२:
 ५-७; हिश्रौ ८, २, ३८.
 प्र-बृहम्^o काश्रौ २, ७, २३^o.
 प्र-बृह्य काश्रौ ६, ८, २ⁿ; हिश्रौ ८,
 ३, ७.
 प्र√ब्रू, प्र...ब्रवथ वाधश्रौ ३, ७५: ४.
 प्रब्रूते बौश्रौ ३, २७: ३२; २४,
 १: ३; प्रब्रूथे या ५, ८; †प्रब्र-
 वीमि आपश्रौ ६, ११, १६^p;
 शाश्रौ १०, १, १३^p; काश्रौ २,
 १, १८; २, १; १२, ६, २८^p;
 आपश्रौ ३, १८, ४^q××; २१,
 ६, १^p; काश्रौसं; या ७, २३;
 १०, ४२; ११, ४३; †प्रब्रूमः
 आपश्रौ १०, २५, १; बौश्रौ ६,
 ५: ३०; भाश्रौ; या ८, १९;
 †प्रब्रूहि शाश्रौ १५, १७, १५;
 काश्रौ ७, ८, १३; कौसू; †प्र...
 ब्रूहि आपश्रौ १, १३, ३; भाश्रौ
 १, १३, ६; हिश्रौ १, ३, ३८;
 †प्रब्रूतात् शाश्रौ १७, १४, ४;
 काश्रौ; आपश्रौ २१, ५, १६^p;
 †प्र...ब्रूतात्^r आपश्रौ १, १०,

a) वैप १ द्र. । b) पामे. वैप १, २१८३ t द्र. । c) पामे. वैप १, २१८३ s द्र. । d) सपा.
 ष्नाति <> ष्नान्ति इति पामे. । e) सपा. प्रबध्नन्ति <> प्रबन्धान् इति पामे. । f) प्रवृ^o इति सूको. ।
 g) उप. कर्मणि घञ् प्र. । h) वस. । i) नाप. । प्रास. । j) = प्रबाहुक् । k) सपा. वैप १ विबुध्यताम् खि
 २, ११, २ टि. द्र. । l) व्यप. (ऋषि-) उप. कर्तरि अच् प्र. । m) सपा. तै ३, ३, ३, १ प्रबृहन्तु इति पामे. ।
 वैप १, २२१० p अपि द्र. । n) धा. उद्यमने वृतिः । o) प्रबृहन् इति चौसं. । पामे. वैप २, ३खं माश १, ३, ३, १०
 प्रबृहम् टि. द्र. । p) सप्र. प्रब्रवीमि <> प्रब्रूतात् इति पामे. । q) पामे. वैप २, ३खं. आचक्ष्व ऐवा ७, १३ टि. द्र. ।
 r) पामे. वैप १, २१८५ ० द्र. ।

६; बौश्रौ; ङप्र...भूत आपश्रौ
२४, १३, ३; बौश्रौ ३, २८ : ११;
हिश्रौ २१, १, २; २, २४; ङप्रब्र-
वाम, > मा आपश्रौ ५, १७, ४;
हिश्रौ ३, ४, ४८; आपमं २, ५,
१९^१; आमिग; ङप्रब्रवीत्
वाधूश्रौ ४, १०८ : २२; २४;
ऋअ २, १, १९१; प्राब्रुवन् लाश्रौ
८, ४, ६^१; ङप्रब्रुवीत् आगृ ३,
१०, १; गोगृ १, ४, २८; ङप्रब्रू-
यात् आश्रौ ८, १४, १; काश्रौ
१२, ३, १९; आपश्रौ; प्रब्रूयाताम्
बौश्रौ १७, ४ : १३^१; प्रब्रुवीरन्
निसू ६, ११ : २५^१; ङप्रब्रूयुः
बौश्रौ १६, ४ : ११; वैश्रौ १८,
१ : ५४; लाश्रौ ८, ३, १२; १३;
पागृ.

प्र-ब्रुवन्-वन् निसू ४, ८ : २१.
ङप्र-ब्रुवाण-णः आगृ ३, १०, ९;
आपध १, २९, १०; हिध १, ७,
५७; याए, ४; १०, २२; प्र(ब्रुवाणः)
साअ १, ५२४; २, ४६६.

प्र√भज् > प्र-भाग- -गः काश्रौ
६, ७, ९.

प्रभाग-पाद^b- -दः या २, ७.
प्रभागपाद-सामान्य-
-न्यात् या २, ७.

प्र√भज्ज्, प्रभज्येत् मागृ २, १५, ६०.
प्रभज्यन्ते^d अप ७१, १०, १;
प्रभज्येत् अप ३७, २०, १^१.

प्र-भग्न- -घ्नम् निसू ६, १० : २१^१.
प्र-भञ्जन- -नेन कौसू १३५, ९^१.

प्र-भर्वी^e- -र्व्यम् आपमं १, १०, १^१.
प्र√भस्^f, ङप्र...भस्त् बौश्रौ ३, ३;
३; ऋप्रा ५, १८.

प्र√भा, ङप्र...भाति^h आमिगृ ३,
६, १ : २०; बौपि १, ८ : १७;
ङप्र(भाति)^h हिपि ७:१०; भाशि
१२१; प्रभाहि आपश्रौ ५, २, ४^१.

प्र-भा- -भया विध १, २८^१; -भा
विध ९९, ४; -भानाम् अप ६४,
३, ६; -ङभाम् अप २४, २, ३;
६२, ८, २; वृदे ६, १२६.
ङप्रभा(भा-अ)न्वित- -ताः अप
५२, ६, ३; -तानि अप ५२,
११, १.

प्रभा-युत- -ताः विध १, २७^१.
ङप्र-भात्- -ते वैश्रौ १, १० : ७, ९,
१२ : ५; वैगृ ४, ११ : १०; अप
३१, ६, १; वाध ४, २६; शंघ.
प्रभातिक^l- -के अप ६८, २,
५९^१.

प्र-भा(त् >)न्ती- -न्त्याम् शांश्रौ
२, ६, ३^१.

प्र-भाव- -वयत्- प्र√भू द्र.

प्र√भाष्, प्रभाषन्ते अप ६४, १०, २.

प्र-भाष्य वैश्रौ २०, ५ : २.

प्र-भास^k- -सः अप ४३, ५, ८; ५२,
५, २; १०, १; -सम् शंघ ११६;
६३; -से विध ८५, २६^१.

ङप्र√भिद्, प्र...भिन्दन्ति बौश्रौ
१५, १ : ३; ङप्र...भिन्दत्
बौश्रौ ६, २३ : ६.

ङप्र-भिन्दत्- -न्दन् आश्रौ ८, १४,

४; बौश्रौ ६, ३० : २४.
प्र-भिन्न- -न्नम् आपश्रौ ५, १, ७;
-ञौ सु १४, १.

प्र-भु- प्र√भू द्र.
प्र√भुज् (कौटिल्ये) > प्र-भुज्य
काठश्रौ १५६; माश्रौ १, २, ५,
११; वाश्रौ.

प्र√भू^m, प्रभवते अप २, १, २;
प्रभवति काश्रौ २५, ५, २१;
आपश्रौ ९, १६, १२; भाश्रौ; पा
४, ३, ८३; ५, १, १०१; प्र...
भवति वाधूश्रौ ४, ११८ : ४^१;
प्रभवतः वाध १५, २; प्रभवन्ति
लाश्रौ १०, ६, १३; शंघ ३७३;
आध १, २३, २; हिध १, ६, १०;
प्रभवेत् आपश्रौ ९, १५, ९;
हिश्रौ १०, ७, ३; १५, ४, २९.

ङप्रभूयासम्ⁿ बौश्रौ ३, २० : ४;
भाश्रौ ४, १९, ५; वाश्रौ १, १, ४,
९; प्र (भूयासम्) आपश्रौ ६, ६,
८^१; ङप्र...भूत् बौश्रौ १७,
५० : ११; २८, २ : ३४.

प्रभावय काश्रौ १०, ६, २१;
बौश्रौ ७, १८-१९:१×१; वैश्रौ.

प्र-भव- -वः आश्रौ ८, १३, ३१;
पा १, ४, ३१^०; -वम् वृदे १,
६१^०; -वय बौश्रौ १६, ३५ : १.
प्रभव्य^p- -व्यम् लाश्रौ १०, १९,
९.

प्र-भवत्- -वत्सु सु ९, २.

प्र-भविष्णु- -ष्णु विध ९७, १९.

प्र-भाव^q- -वः आश्रौ ६, २०;

a) पाभे. वैप १, २१८५ d द्र. b) षस. पू. = कार्षापण. c) तु. Knauer । बसं.
प्रभजेत् इति ? । d) कर्मकर्तृरि रूपम् । e) = प्रफर्त्ति- (वैप १ द्र.) । इह < प्र√भर्व् इति विशेषः । f) पाभे.
वैप १, २१८३८ द्र. g) वैप १ द्र. h) पाभे. वैप १, २१८५० द्र. i) = प्रातः-काल- । j) विप. ।
तात्रभविकृष् ठन् प्र. उसं. । k) = वसु-विशेष- । व्यु. ? । l) = तीर्थ-विशेष- । m) या २, ७, ३, १३ परासृष्टः द्र. *
n) पाभे. वैप १, २१२२ p द्र. o) = उत्पत्ति-स्थान- । अपादाने कृत् । p) विप. । तत्रभविकः यद् प्र. *
q) प्रास. इति पाका. प्रच. [३, ३, २४] ।

-चम् अप ६९, १, ५; -चस्य
बुदे ४, ८२; -वात् बुदे १, ३४;
८, ३४.

प्र-भावयत्- -यन् काश्रौ १०, ६,
१४; -यन्तः काश्रौ २५, १२, २५.

प्र-मु^०- पा ३, २, १८०; -भवः हिश्रौ
१६, ८, १४; -भु वाधुश्रौ ३,
८३ : १०; ४, ७४ : २९; -भुः
आपश्रौ १२, १२, १३१; हिश्रौ
८, ३, ४२१; अप्रायः या १४,
११; -भुम् शंघ ११६ : ५७^०;
आपध १, २२, ६; विध १, ५८;
हिध १, ६, ६; या १४, ३०;
-भूणि हिष्ट १, २५, ११; -भो
अप ४, २, १०××; बुदे ६, ५४;
-भोः ऋप्रा ५, ३९१; -भौ पा
७, २, २१.

†प्रभवी^०- -स्वी आपश्रौ
५, १५, २; बौश्रौ २, १८ : ९;
हिश्रौ ६, ५, १५.

प्रमु-ता- -ता मीसू १०, ३, ८.

प्रमु-त्व- -त्वम् बुदे २, ६; ७,
६०; -त्वात् मीसू ६, ६, २७××.

†प्रमु-मत्- -मतः आपश्रौ १३,
१२, २; बौश्रौ ८, १२ : १६;
वैश्रौ १६, १३ : १५; हिश्रौ ९,
३, ४९; -मते बौश्रौ ९, १० :
११.

प्र(मु>)भू-वसु^०- -सुः ऋष २,
५, ३५; ९, ३५; साञ्च १, ४९०.

प्र-मु^०- -भुवः पाठ २, १७, १५^०;
-†भूः आपश्रौ ६, १८, २; २०,
५, ९; ११, १; बौश्रौ.
प्र-मु-त्व- -त्वात् काश्रौ ८, ८,

२९; ९, ५, ५; २२, १, ३९.
प्र-भूत्, ता- पाग ५, २, ६२; पावाग
४, ४, १; -तः भाश्रौ ८, १२,
१६; या १४, २९; -†तम् शाश्रौ
८, २१, ३; आपश्रौ १९, ६, ९;
बौश्रौ; -ताः वैश्रौ १३, ७ : २१;
-तान् आपश्रौ १५, ५, २०; १९,
१, ५; माश्रौ; -तानाम् विध
२३, ३१; -तानि भाश्रौ ११,
५, १५; -ताम् वैश्रौ ६, ११ :
२; बुदे ७, ६०; -तेन आपश्रौ
५, ५, ९××; बौश्रौ; -तेषु माश्रौ
६, १, ३, २२.

प्राभूतिक- पावा ४, ४, १.

प्रभूतक- पा ५, २, ६२.

प्रभूत-काम- -मानाम् चाञ्च
३० : ९.

प्रभूत-बल-वर्धन- -नम् अप
७, १, ३.

?प्रभूतमृष्टतस्^० (:) अप ४४, ३,
१०.

प्रभूत-यवसे(स-इ)न्धनो(न-उ)
दका(क-अ) विच्छिन्न-सांपरा-
यिक^०- -कः शंघ २५३.

प्रभूत-लम्ब-केश- -शः अप
६९, २, १.

प्रभूता(त-अ)र्थ- -र्थम् नाशि १,
३, १.

प्रभूतै(त-ए)घो(घ-उ)दक- -के
आपध १, १५, २२; हिध १, ४,
८१.

प्रभूतै(त-ए)घो(घ-उ)दक-यव-
स-कुश-मालयो(त्य-उ)पनिष्क-
मण^०- -गम् गौध ९, ६५^०.

प्रभूतै(त-ए)घो(घ-उ)दक-यवस-
समि-व-कुश-मालयो(त्य-उ)पनि-
ष्कमण^०- -गम् गौध २, ३,
५१^०.

१प्र-भूति- -ति अप ७०^३, ११,
२४; -त्वै बौश्रौ २, ८, २८^०.

?प्रभूतगभीतवसति या १४, ३१.

२प्र-भूति- -तिः आपश्रौ ५, १५, २;
बौश्रौ २, १८ : ९; हिश्रौ ६, ५ :
१५.

प्र√भृ(=√हृबधा.), †प्रभरे अञ्च
१९, ४२^{१६}; या ९, १०; †प्र(भरे)
आश्रौ ४, १३, ७^३; शाश्रौ; आपश्रौ
५, ५, ८^१; बौश्रौ २, १४ : ५^१; भाश्रौ
५, ३, ९^१; माश्रौ १, ५, १, १६^१;
वाश्रौ १, ४, १, ६^१; वैश्रौ १, ५ :
१३^१; हिश्रौ ३, २, ४४^१; प्रभ-
रामि वाच ५, २८^१; †प्र(भरा-
महे) शाश्रौ १०, ११, ८; साञ्च
२, ९४६; प्र...भरस्व शाश्रौ १२,
१४, ११; †प्र(भरस्व) शाश्रौ
१२, १०, १२; ऋञ्च २, ७, ८८;
†प्रभर, > रा वैताश्रौ १६, १; या
६, २०^१; †प्र(भर, > रा) शाश्रौ
१४, ३, ८; ऋञ्च २, ९, १०३;
†प्र...भरध्वम् आश्रौ ३, ७, ५;
७, ११, ३४; शाश्रौ; †प्र(भरध्वम्)
आश्रौ २, १६, ११; शाश्रौ;
†प्र...भरत्, > ता आश्रौ ३,
३, १; १८, १५××; आपश्रौ;
†प्र(भरत्, > ता) आश्रौ २, १६,
७, १७, ३; शाश्रौ; चाञ्च ४१, १२;
(प्र)भरता तैप्रा ३, ११; प्रो(प्र-उ
[भरत>ता])शाश्रौ १२, ३, १०;

a) वैप १ द्र.। b) =साध्य-विशेष-। c) नाप. (अभिन्तनू-).। d) =ऋषि-विशेष-। बस.।
e) = (उपचारात्) देवता-। f) पाठः?। तमुद्धितः इति संस्कृतः टि.। g) कस. >द्वस. > बस. >कस.।
h) बस. >द्वस.। उपनिष्कमण- =विहार-स्थल-। i) परस्परं पाभे.। j) नाप. (अभिन्तनू-).। बस.। k) वैप १,
२१८७ द्र.। l) वैप १, २१८७ i द्र.।

ऋत्र २, ८, ६२; †प्रभरमे^भ
आमिगृ ३, ८, २:४३; बौपि १,
१५:५०; हिपि १५:१८.

†प्र-भृत- -तम्^१ आपश्चौ ९, १०,
१७; बौश्रौ १४, २५:४; भाश्रौ
९, १४, ९; वैश्रौ २०, २०:२;
हिश्रौ १५, ३, २७; -तस्य या
११, ४९.

प्र-भृति- -तयः निसू ९, ९:४७;
-ति^१ बौश्रौ १९, ६:८-१०××;
माश्रौ; -ति: शागृ २, ७, २६^d;
-तिभि: भाश्रौ ११, २१, ४;
-तिम् क्षुसू १, ६१३; -ती:^१
आपश्चौ १५, २०, ४; बौश्रौ ९,
१९:२६; भागृ ३, ६:१०;
७:६.

प्रभृति- -तयः पावा १, ३, १०;
५, २, ९४; -ति: अत्र ८, १०;
१५, १४; -तिभ्य: पा २, ४,
७२; -तिषु अप १:१३; -तीन्
अत्रभू ८; -तीनाम् पावा १,
४, ५२; ७, ४, ८२; -तीनि अप्रा
३, १, १४.

प्र-भृथ^१- -फि ७; -थस्य या ११,
४९[†].

†प्रभोजनाद्यरञ्जी सुघ २३.

प्र√भ्रंश, प्रम...अंशेरन्^१ काश्रौ २३,
१, १९; आपश्चौ २२, १३, १९;
वैश्रौ १७, ५:४; हिश्रौ १७, ५,
३८.

प्र-भंशुक- -का: हिश्रौ २१, २,
५३[†].

प्र-अष्ट- -ष्टै: अप ७०^२, १४, २.

प्रभष्ट-ग्रह-नक्षत्र- -त्रै: अप
७०^२, १५, १.

प्र√भ्राञ् > †प्र-भ्राञ्- -भ्राट् आपश्चौ
१६, ३०, १; वैश्रौ १८, २०:
४१; हिश्रौ ११, ८, ४.

†प्र-भ्राजमान, ता^१- -ना: बौश्रौ
१९, १०:२४; -नाम् अप
४६, ६, ३; -नानाम् बौश्रौ १९,
१०:४१.

†प्रभ्राजमानी- -नीनाम् बौश्रौ
१९, १०:४२; -न्य: बौश्रौ
१९, १०:२४.

प्रमंहिष्ठीय^१- -यम् वाश्रौ १२, २५,
४; लाश्रौ ६, ११, ४; क्षुसू २, १५:
२३; निसू ७, १२:१९; -ये
निसू ३, १२:१.

प्रमंहिष्ठीय-वत्- -वन्ति निसू ६,
४:१.

प्रमगन्द^१- -न्द; -नन्दस्य या ६,
३२[†].

†प्र-मति^१- -ति: बौश्रौ १७, ४०:२;
द्राश्रौ ७, २, ७; लाश्रौ; -तिम्
आश्रौ १, ६, १; ३, ७, १३.

प्र-मत्य प्र√मत् द्र.

प्र√मथ्, न्थ्, प्रमथन्तु बौगृ २, ७,
१९[†].

प्रमथन्तु आमिगृ २, ५, ३:
२६[†].

प्रममाथ बौश्रौ १८, ४५:६;
प्रमथिद्यन अप्राय १, ४.

प्र-मथ्य वाघ १, ३४.

प्रमथ्य-हरण- -णानि आश्रयो ४,
१२,

प्र-मथ्य- -थ्य: कप्र १, ७, ७.

प्र-मथ्य^१- -न्य: कप्र १, ७, ५; १३;
अप २२, ७, १; -न्यम् वैश्रौ
१, १:२७; १०, १०:६.

प्रमथ्या(न्थ-अ)प्र- -ग्रम् कप्र १,
८, २.

प्र-मथ्यन- -नम् बौश्रौ २७, ८:७.

प्र-माथम् बौश्रौ १८, २४:१६;
४५:५.

प्र-माथिन्- पा ३, २, १४५.

प्र√मद्, न्द्, प्रमाद्यते सु २२, १^२
प्रमाद्यति वाघूश्रौ ४, ३४:५;
प्रमाद्येत् बौश्रौ २४, २३:७;
वाघूश्रौ ४, ३४:४.

प्रममाद् आपश्चौ १, ९, ९[†];
प्रमद: जैगृ १, २:१७[†].

प्रमन्दयते बौश्रौ १२, २०:२;
प्रमन्दयति बौश्रौ १८, १९:५;

प्र-मत्त, ता- -त्त: आपश्चौ ३, १८,
८; १४, ८, ४; भाश्रौ; -त्तम्
अप २, ६, २; ३०^२, २, ७; -त्तस्य
या ३, २; -त्ता: बौश्रौ ९, १७:
१४; वैश्रौ ७, ११:९[†]; हिश्रौ

२, ६, ७[†]; -त्तानाम् आगृ १,
६, ७; अप्राय २, ५[†]; -त्ताम्
वैगृ ३, १:१०; बौध १, ११,
९.
प्रमत्त-रज्जु^m- -ज्जुम् कौसू ३८,
२६.
प्रमत्तो(त्त-उ)क्त- -क्ते गौध १३,
११.

प्र-मद्, दा^m- पा ३, ३, ६८; -दम्
वाघूश्रौ ४, ३४:९; -दान् अप

a) पाभे. वैप १, २१८७ k द्र. । b) पाभे. वैप २, ३खं. प्रभृतम् तैब्रा १, ४, ४, १० टि. द्र. । c) वा.

क्रिवि. । d) पाभे. वृ १६४६ l द्र. । e) = आद्य-यजुस्- । f) वैप १ द्र. । g) विशेष: वैप २, ३खं.

तैब्रा २, ७, १४, ३ टि. द्र. । h) विप., नाप. (स्द्र., स्द्राणी-). i) वैप २, ३खं. द्र. । j) परस्परं पाभे. ।

k) = मन्थन-दृष्ट- । उप. करणे घञ् प्र. । l) उत्तरेण संधिरार्पः । m) = चाक्रिक-रज्जु- इति केनावः

तु. भू (LIII) । पू. अर्थः? । n) उप. भावे कर्तरि च प्र. ।

प२, ३, १; -दे वाधूश्री ४, ३४ :
४.

प्र-मदक- -कः या ६, ३२^क.

प्र-मदन^१- -नम् कौसु ७८, ९^१; -ने
मायु १, ९, २८^१.

प्र-मन्द^१-> प्रमन्दो(न्द-उ)वीर-
शलब्धु(ली-उ)पधान-शकधूम^१-
-माः कौसु ८, १७.

प्र-माद- -दः वृदे १, ५६; -दम्
आमिगु २, ६, ७ : ३९; -दात्
आमिगु २, ६, ५ : ४; ७, ६ :
१६; कागुः; -दे वैगु २, १५ :
११; आपध २, २८, ८; द्विगु २,
६, ८; -देषु बौध ४, ३, १; ४, १.
प्रमाद-त्स (:) अप ३७, ४,
१××; शंघ ३९५; बौध २, २,
६८.

प्रमादा(द-अ)पह्व- -वौ वृदे १,
३८.

प्रमादिक- -कम् कप्र ३, ८, १६.

प्र√मन्, प्रमन्महे शुअ ४, ११;

प्र(मन्महे) ऋअ २, १, ६२.

प्र-मन्स पावा ६, ४, ३७.

प्र-मर्दन- प्र√सृद् द.

प्र√मा (माने)^६, प्रमिमीत द्विश्रौ ३,
३, १३^क.

प्र-मा^१- -मया आपश्रौ ४, ५, ४; ९,
१३, ६; भाश्रौ; -मा आपश्रौ १५,
८, २××; बौश्रौ; ऋपा १७, १९.

प्र-माण^१- -णम् आपश्रौ २४, १,
३०; बौश्रौ २, ३ : ७; बौश्रौप्र
५४ : ८; भाश्रौ; काशु १, १२^१;

२, १४^१; आशु ३, ७^१; द्विश्रु १,
४६^१; -णात् काशु १, २३;
बौशु १ : १७; २८; मैअ ३०;
-णानि बौश्रौ २७, ४ : २८;
भाश्रौ ७, २, ६; अप २३, ६,
४; ४६, १, ८; -गे बौश्रौ २०,
१६ : १२; काशु १, २४; पा ३,
४, ५१^६; ४, १, २४××; पावा ५,
२, ३७; -णेन बौश्रौ २७, ४ :
३०; भाश्रौ; -णेषु काश्रौ १८,
१, ५××.

प्रामाण्य- -ण्यस् या १४, ६.

प्रमाण-त्स (:) कप्र ३, ८, १२;
अप २३, २, ३××.

प्रमाण-परिमाण- -णाभ्याम्
पावा ५, २, ३७.

प्रमाण-मा(त्र>)त्री^१- -त्रीम्
आपशु १, ११; द्विश्रु १, २१.

प्रमाण-वर्जित- -ते वैगु ६, १ : ७.

प्रमाण-विभाग- -गः काशु २,
१६.

प्रमाणा(ण-अ)र्थ- -र्थम् लाश्रौ
६, १, ११.

प्रमाणा(ण-अ)र्द्ध- -र्द्धम् काशु
१, १४; -र्द्धे काशु १, १६.

प्रमाणित- -त्स अप ३ : ३.

प्र-माय शाश्रौ १७, १०, ४; बौश्रौ;
कौगु १, ४, १^म.

प्र-मित- -त्स काश्रौ २२, ८, १६.
प्र-मेय- -यम् काशु ७, १९; वेज्यो
२४.

प्र-मातामह^१- -हाय शंघ ११६ : ७३.

प्रमातामही- -ह्यै शंघ ११६ : ७४.

प्र-माथम्, प्थिन्- प्र√मथ् द.
प्र-मापण- , प्माप्य, प्मायुक- प्र√मि,
मी द.

प्र-मार- प्र√सृ, मृ द.
प्र-मार्जन- , प्मार्ज्य प्र√सृ, मृ द.

प्र√मि (प्रक्षेपणे) > प्र-मित्- -मितः
मायु १, २७ : ११^क.

प्र√मि, मी, प्रमीयते बौश्रौ १४, ६ :
११; १८××; वाधूश्रौ; प्रमी-
यन्ते बौश्रौ ३३, ४ : ७; आमिगु

२, ५, ९ : १२; जैगु २, ६ : ९;
वृदे ४, १२०; प्रमीयातै आपमं
१, ८, ५; प्रमीयेत आश्रौ ३, १०,
१०; १८; शाश्रौ; प्र...मीयेत

भाश्रौ ११, १८, ११; प्रमीयेत्
आपश्रौ ९, ३, १७; बौश्रौ.

प्रा(<प्र)...मिनोति^० आपश्रौ
१४, २९, ३; द्विश्रौ १५, ७, १६.

प्रमिनाति, प्रमिनन्ति अप्रा ३,
१, ७^क; प्र(मिनन्ति) काश्रौ ८,
९, २^क; प्रमिनाम आश्रौ ३,
१३, १२; आपश्रौ १४, २८,
४××; बौश्रौ.

प्रमिनीत् अप्रा ३, १, ७^क.

प्र(मिमय) शैशि १८४^क.

प्रमायि बौश्रौ ३, ६ : १४; कागु
२८, ४; प्रमेष्महि आपश्रौ ६,
२१, १^क.

प्रमापयत् या ५, ९; प्रमापयेत्
वाध २०, ४१.

प्र-मापण- -णे शंघ ४०९; विध

a) उप. भावादौ प्र. ।

b) = फलमोदकादि- इति केशवः ।

c) = कर्म-विशेष- (तु. पाभे.) ।

प्रमोदस्थान- इति भाष्यम् MW. च ।

d) सप्र. प्रमदने <> प्रवदने इति पाभे. ।

e) = श्लेषविशेष- ।

f) द्रस । शल्ली- = श्ववित्त-शलाका-, उपधान- = उपधानह-, शकधूम- = ब्राह्मण- इति दारिलः ।

g) या १०, २१ परामृष्टः द्र. ।

h) भाष., नाप. (छन्दो-विशेष-). ।

i) = प्रमाण-रज्जु- ।

j) = प्रक्रमादि- ।

k) = आयाम- ।

l) पूष. = आयाम- ।

m) सपा. शांशु १, ८, १४ मापयित्वा इति पाभे. ।

n) प्रास. ।

o) पाभे. वैप १, २१९० C द्र. ।

५०,४६.

प्र-माप्य शंघ ३८२; ४०९.

प्र-मायुक- -कः आपश्रौ २,१४,२; १२,१३,१०××; बौश्रौ; या ३, ५; -काः बौश्रौ १४, ९ : २; ३; आगृ २,७,११; -कान् गोपृ ४,७,२१.

†प्र-मिये^३ आश्रौ ४, ११, ६; शांश्रौ ९, २६, ३; १६, १, २१.

प्र-मीत- -तः आपश्रौ ९, ११, २२; हिश्रौ १५, ३, ३७; हिपि २३ : १८; -तम् आपश्रौ ९, ११, १७; वैश्रौ; -तयोः बौपि २, ४, ७; -तस्य आश्रौ ३, १०, १७; आपश्रौ; -ताः हिपि २० : ८; -तानाम् आमिगृ ३, ७, ४ : ५; बौपि; -ते भागृ ३, १ : ४; हिपि २३ : १०.

प्रमीता(त-अ)हन्- -हनि कप्र ३, ५, ७.

प्र√मिह् > प्र-मेह^b > प्र-मेहिन्-
-ही शंघ ३७८.

प्र-मेहण^c -णम् कौसू २५, १०.

प्रमीप- (> प्रमीपिन्-) प्रतीप-
टि. द्र.

प्र-मुख^d -खाः अप्राय ६, ७.

प्रमुख-तस् (:) वैगृ ५, १५ : २.

प्र√मुञ्,ञ्च्, †प्रसुमोक्तु आपश्रौ ७, १७, ५; बौश्रौ ४, ६ : ३९××; भाश्रौ; †प्रसुमुग्धि बौश्रौ ८, १९ : १६^e; आपमं १, ४, १४; आमिगृ १, ५, ४ : ९; अप्राय ४, १. प्रसुञ्चित आश्रौ ९, ३, १२; काश्रौ; †प्र...मुञ्चामि^f आश्रौ १, ११,

३××; शांश्रौ; †प्र...मुञ्चामि आपमं १, ४, ५; ५, ७; बौगृ १, ४, १८; प्र...मुञ्चातु आगृ १, ७, १३^g; कौगृ १, ११, ४^h; शांगृ १, १८, ३ⁱ; कागृ; †प्रसुञ्चतु आश्रौ २, ७, ११; शांश्रौ; प्र...मुञ्चन्तु आपमं १, ७, ९^j; बौगृ १, ५, ५^k; ४, २, १२^l; अप ४२, २, ३; प्रसुञ्च > ज्ञा अप २०, ७, ८; तैप्रा ३, ८^m; प्र...मुञ्चतम् ऋप्रा ५, ५९ⁿ; प्रामुञ्चत् शांश्रौ १४, ७, १.

प्रसुमुचतुः या ५, २१; प्रमोचिरे वृदे ६, १५.

प्रसुच्यते सु ३१, ६; कप्र २, १०, ८; अतः प्रसुच्येते बौध ४, ६, ६; प्रसुच्यन्ते वाध २५, ३; प्रसुच्येत याशि १, ३२; प्रसुच्येय > या सु ११, ५.

प्रमोचयेत् कप्र २, ८, २२.

प्र-मुक्त- -कः आपध १, ९, १३; हिध १, ५, ११७; -क्तयोः वैताश्रौ ९, २१.

प्रमुक्त-त्व- -त्वात् कौसू १, ८.

प्र-मुक्ति^h - -क्तीः आपश्रौ २०, १२, ४.

प्र-मुच्य काश्रौ १६, ३, १४; काठश्रौ.

प्र-मुच्यमान- -नः वैताश्रौ १०, १७; -नम् बौश्रौ ४, ६ : ३८; वैताश्रौ १०, १६; -नान् बौश्रौ ११, ४ : २२; १५, २९ : १८; -ने आपश्रौ ७, १५, ६; -नेषु वाश्रौ १, ६, ५, ७.

प्रमुच्यमान-होम- -मान् वैताश्रौ

१०, १७.

†प्र-मुञ्चमान- -नाःⁱ आपश्रौ ७, १५, ६; बौश्रौ ४, ६ : २५; माश्रौ १, ८, ३, ३.

प्र-मोचयत्- -यन् विध ५, १९५.

प्र-मोचि(न् >) नी- -नी शंघ ४५४.

प्र√मुद्, प्रमोदते अप १, ४९, ८.

प्र-मुदित- -तः †वाश्रौ ३, २, ७, ४५; ८, ३; सु १४, १; अप २४, ३, ३.

प्र-मोद^h - -दः आमिगृ १, ५, १ : ९ⁱ; अप २०, ७, ८; ६८, ५, १३; -दाय हिपि १२ : ३^j.

प्र-मोदिन्- -दिनाम् अप ३१, १०, ५.

प्र√मुप्, †प्रमोषीः बौश्रौ १७, ४० : ९; वाश्रौ २, २, ५, ७; आपमं.

प्र√सू (गाती), प्रसुमूत् अप १, ४१, ४; †प्रमोतⁱ अशां ११, ४.

प्र√सृ, मृ, †प्रसृणीहि आमिगृ १, १, २ : २४; ५, ३ : १७; कागृ.

†प्र-मार- -रेण अत्र ११, ८.

प्र-मृग- पाग २, १, १७.

प्र-मृचु^k - -चुः अप ५२, ९, ५.

प्र√मृज्, प्रमाष्टि काश्रौ १७, ३, १३; आपश्रौ; प्रसृजीत पागृ २, ७, १६; प्रसृज्यात् वाध ११, २२; विध ६२, ७.

प्रमाक्ष्यते पागृ २, ६, १७^l.

प्र-मार्जन- -नम् सुधप ८७ : १२.

प्र-मार्ज्य वैगृ ४, ४ : ७, ५, ३ : ८; शंघ ४३९.

प्र-मृज्य काश्रौ ९, ४, ३८; आपश्रौ २, ११, १; १५, १०, ६; भाश्रौ.

प्र-मृष्ट- -ष्टम् काश्रौ ७, ५, १५.

a) वैप १ द्र.। b) =रोग-विशेष-। c) नाप. (मेहन-साधन-] ओषधि-। d) प्रास.। e) पामे. वैप. १, २१९१ c द्र.। f) पामे. वैप १, २१९१ h द्र.। g) पामे. वैप १, १८९४ a द्र.। h) =आहुति-विशेष-। i) पामे. वैप १, २१९१ o द्र.। j) पाठः? प्रसुमूत् इति शोधः (तु. अप.]; संस्कृतुः टि. प्रसुमोच इति शोधः?)। k) व्यय.। व्यु. ?। l) सपा. आपमं २, ७, १९ प्रवेक्ष्यति इति पामे.।

प्र√मृण् > प्र-मृ(ण)ण-
 -णाभिः बौश्रौ २८, १ : १२१^३.
 प्र√मृद् > प्र-मृद- -ने अप ४०,
 २, ८.
 प्र-मृदित- -तेषु बौश्रौ २६, ३२ : १.
 प्र√मृश्र > प्र-मृश- -शतः आपमं
 २, १३, १२; आसिगृ २, १, ३ :
 २०; भागृ १, २३ : १३; हिगृ २,
 ३, ७.
 प्र√मृष- प्र-मृष्यते या ४, १४.
 प्र-मृषे^३ माश्रौ ३, ८, १; अप्राय
 ६, २; या ६, १४^४.
 प्र-मृष्ट- प्र√मृज् द.
 प्र-मृये- प्र√मा द.
 प्र-मृहे- , हण- , हिन- प्र√मिह् द.
 प्र-मृचयत्- प्र-मृ. प्र√सुन् द.
 प्र-मृद- प्र-मृ. प्र√सुद् द.
 प्र√मृस्ते > प्र-मृशय वैश्रौ १२, ७ : ४;
 १६, २२ : १.
 प्र-यत्^३ > प्र-यक्ष-तम- -प्रमम्
 आश्रौ ४, ७, ४; शाश्रौ ५, १०, ८.
 प्र√यच्छ्, यम्, प्र-यच्छते सु १८,
 १; प्र-यच्छति आश्रौ १, १०, २;
 ५, १२, ६; शाश्रौ; पा, पावा ४,
 ४, ३०; प्र-यच्छति बौश्रौ
 १०, ५ : १४; तैपा ७, १६;
 प्र-यच्छतः काश्रौ १४, ४, १५;
 बौश्रौ ६, ७ : १४; प्र-यच्छन्ति
 काश्रौ २६, ६, २४; बौश्रौ;
 प्र-यच्छन्ति माश्रौ ६, ४,
 ४^०; अप्रा १, १, १४; प्र-यच्छामि
 आश्रौ ३, १, १६; शाश्रौ ५, १५,
 ८; काश्रौ; आपश्रौ २२, २६, २६^०;

बौश्रौ १८^०, ९ : ४; ११, १८; २५;
 हिश्रौ २३, ४, १८^०; कौसै^० ५६,
 २; ५७, ४; प्र-यच्छामि
 कौगृ १, १६, ७^०; शांगृ १, २४,
 ४^१; प्र-यच्छत् भागृ १, १३ :
 ५^१; प्र-यच्छतु शाश्रौ ४, १८,
 २; शांगृ २, १०, ४; वागृ;
 प्र(यच्छतु) शुभ्र १, ५८३^१; प्र-
 यच्छन्तु हिश्रौ ६, ६, १६^०; प्र-
 यच्छस्व अपथ, ३, ३; प्र-यच्छ बौश्रौ
 ६, ३१ : २०; जैगृ १, १२ : २१;
 कौसै १, २४××; प्र-यच्छ हिश्रौ
 २, ८, ४२^१; प्र-यच्छतात् बौश्रौ
 १२, १२ : १६; प्र-यच्छत बौश्रौ
 ६, २१ : २३; २२ : ४××; विष
 २०, ३३; ३४; प्र-यच्छत बौश्रौ
 ६, ३० : १; प्र-यच्छत् शाश्रौ १४,
 ५०-५१, १; बौश्रौ १४, १६ :
 १०^१××; माश्रौ; या १२, ८^१;
 प्र-यच्छताम् वाधूश्रौ ४, १९ : ४४;
 प्र-यच्छन् वाधूश्रौ ३, २१ : ६; अप
 १^२, १, १; या १३, १२; प्र-यच्छेत्
 आश्रौ २, ४, १६××; शाश्रौ.
 प्र-यच्छि आगृ १, १५, ३; पागृ
 १, १८, ४; या ६, ७.
 प्र-यच्छत्- -च्छन् काश्रौ ६, ४, ११;
 ७, ८, २०××; आपश्रौ.
 प्र-यत्, ता- -तः आसिगृ २, ४, ११ :
 ४; कप्र १, ८, ३; अप; -प्र-तम्
 आश्रौ २, १४, ३१; शाश्रौ १,
 १७, १९; आपश्रौ ३, ११, २६;
 माश्रौ; -ता भागृ ३, १२ : ९;
 -ताः वैश्रौ २०, २३ : ४; हिगि;

-तान् वैगृ ६७ : १२; -ताभिः
 हिगि १७ : १६^१; -ताम् बौश्रौ
 १३, ३२ : ८^१; -तैः अप ७०^३,
 ३, ५.
 प्रायत्य^३- -त्यम् वाध ३,
 ५६; बौध १, ५, ५८.
 प्रायत्य-ब्रह्मचर्यं-काल-
 चर्या^३- -र्यया आपध १, ३१,
 १९^१; हिगि १, ८, ३८.
 प्रयत-पाणि^३- -णिः सु १९, ६;
 बौगृ २, २, १०^१.
 प्रयत-वस्त्र, स्त्रा^३- -स्त्रः भागृ २,
 ३२ : ३; हिगृ १, १४, २; १७,
 ६; -स्त्राम् आसिगृ २, १, १ :
 ७; २ : ८; भागृ १, २० : १०; हिगृ.
 प्रयत(त-त्र)जलि^३- -लिः बौध
 २, १, ३४; ४, २, ११.
 प्रयत(त-त्र)त्मन्^३- -त्मनाम्
 वाध २६, १४; -त्मा अप ६८,
 ३, ७.
 प्र-यति^३- -तिः काश्रौ १९, ५,
 १०; आपश्रौ १९, १०, २; वाश्रौ;
 -ती या ६, ९^१.
 प्र-यन्तु- -न्तः ऋपा १, १०^२१.
 प्र-यमण^३- -णम् आसिगृ २, ६, २ :
 १४; आपध १, १५, १०; २२;
 बौध २, ५, ८; हिगि १, ४, ६९, ८१
 प्र√यज्, प्र-यजति वैश्रौ १६, १६ :
 ६; प्र-यज्य शाश्रौ १, ६, २;
 आपश्रौ ३, २०, ८; बौश्रौ.
 प्र-यज्य यक्षि आपश्रौ ३, २०,
 १०^३; बौश्रौ १३, ३५ : ४;
 माश्रौ ३, १८, ११^३; प्र(यक्षि)

a) प्रसृ^० इति पाठः? यनि. शोधः (तु. खि ३, १०, ५)। b) वैप १ द.। c) पाभे. वैप १, २१९४ a द.। d) पाभे. वैप १, १८१२ e द.। e) पाभे. पृ १६७० e द.। f) पाभे. पृ १७०६ e द.। g) पाभे. वैप १, २१९८० द.। h) भावे व्यञ् प्र.। i) दस. > मलो. कस.। j) छे^० इति पाठः? यनि. शोधः। k) बस.। l) भाप. [शौच- (तु. बौध. भाष्यम्; वैतु. आपध. भाष्यम् = आचमन- [करणे कृदिति]]। m) पाभे. वैप १, २१३६ c द.।

ऋञ् २, १०, ४१; ऋप्र(इयक्षसि)
 आश्रौ ३, ८, १; शाश्रौ २, २३,
 ११; बौश्रौ.
 प्र-यजन- पाग ८, १, २७; ६९.
 प्र-याज- -जः शाश्रौ १५, १, २६;
 आपश्रौ २१, २, ६; २४, ११, १६;
 बौश्रौ; -जम् शाश्रौ ५, १८, ४;
 वैश्रौ; -जाः आश्रौ २, १६, ९××;
 शाश्रौ; या ८, २२^१; -जात्
 बौश्रौ ३, १५ : २६; वाश्रौ १,
 ७, ५, १४; वैश्रौ ५, ४ : १;
 -जान् शाश्रौ १, ६, १६××;
 काश्रौ; या ८, २२^१; -जानाम्
 आपश्रौ ४, ७, ११××; बौश्रौ;
 -जाय भाश्रौ ७, १५, ११; -जे
 आश्रौ २, १९, ९; शाश्रौ; -जेऽजे
 आपश्रौ १९, २१, १०; बौश्रौ
 १३, २४ : ५; ६; माश्रौ; -जेन
 आपश्रौ ५, २८, ८; माश्रौ;
 -जेभ्यः आश्रौ १, १२, ३४;
 काश्रौ; -जेषु शाश्रौ २, ५,
 १०××; काश्रौ; -जैः आश्रौ १,
 ५, १; आपश्रौ.
 प्रायाजिक^१ -कस्य वाश्रौ ३,
 १, २, २९.
 प्रायाज-प्रतिषेध- -धे मीस् ९,
 ४, ५४.
 प्रायाज-प्रभृति- -ति आपश्रौ १३,
 २४, १०; माश्रौ ५, १, ३, २२.
 प्रायाज-प्रैष- -षाः काश्रौ १९, ६,
 १४; वाश्रौ ३, २, ८, ९; शुञ् ३,
 १०२; १०६.
 प्रायाज-याज्या- -ज्याः शाश्रौ
 १, ७, ६; ५, १६, ५.

प्रायाज-वत् काश्रौ ५, ९, २२;
 आपश्रौ १०, २१, १०; मीस्.
 प्रायाज-शेष- -षेण वैश्रौ ६, ७ :
 ६; १०, १६ : ६; हिश्रौ २, २,
 ३२; ४, ४, ३५.
 प्रायाजा(ज-आ)दि- -दिः शाश्रौ
 ८, ११, १०.
 प्रायाजादि-वपान्त- -न्ते
 वैश्रौ १४, १७ : १२.
 प्रायाजाद्य (दि-अ) नुयाजा
 (न्त>)न्ता- -न्ता आश्रौ ६,
 १३, ४.
 प्रायाजा (ज-अ)नुमन्त्रण- -णम्
 काश्रौ ३, ३, २.
 प्रायाजा (ज-अ)नुयाज- -जाः
 वृदे ८, १०३; या ८, २१; -जान्
 आश्रौ २, ८, ५; शाश्रौ; -जानाम्
 चाञ् ४१ : २१; -जेषु माश्रौ
 १, ६, ५, ९; २, ५, ५, २५; वाश्रौ
 १, १, ५, १४; -जौ आश्रौ २,
 १९, १२; पा ७, ३, ६२.
 प्रायाजानुयाज-प्रैष- -षाः
 काश्रौ १९, ६, १०.
 प्रायाजानुयाज-विष्टुद्धि- -द्धौ
 माश्रौ १, ४, १, २८.
 प्रायाजा (ज-अ)नूयाज- -जाः
 आपश्रौ ८, ६, १८; २०, ६; बौश्रौ;
 -जानाम् बौश्रौ २७, २ : ११;
 -जेषु भाश्रौ ३, १५, ४; वैश्रौ;
 -जौ भाश्रौ ८, १२, ६.
 प्रायाजा(ज-अ)भाव- -वात् काय
 १३, १०.
 ऋप्र-यज्यु^१ -ज्यवः आश्रौ ७, ७, ८;
 शाश्रौ १०, ८, १५; १८, २३, ३;

ऋञ् २, ५, ५५.
 प्र√यत्, प्रयतेत् लाश्रौ ८, ८, १;
 प्रयतेरन् आश्रौ ४, १२, ३.
 प्र-यतन- -नम् आशि ७, ५.
 प्र-यत्- -त्तः कौशि २९; आशि
 १, ३××; -त्तम् ऋप्रा १४, ३५;
 -त्तात् आमिण् २, ७, ६ : १;
 विष ८१, १०××; -त्तेन बौश्रौ
 २७, ११ : १४; वैण् ५, १५; १९;
 कप.
 प्रयत्न-तस (ः) आमिण् २, ६, ७ :
 १३; ७, ६ : १५; कप.
 प्रयत्न-निष्पत्ति- -न्तेः मीस् १,
 ३, २५.
 प्रयत्न-श्रित- -तः आशि ८, १.
 प्रयत्न-विशेष- -वात् तैप्रा १७, ७.
 प्रयत्न-सामान्य- -न्यात् पावा १,
 १, ९.
 प्रयत्ना(त्-अ)नुप्रदान-तस (ः)
 पाशि १०.
 प्रयत्नो(त्-अ)त्सर्ग- -र्गो वाच
 २३, ४.
 प्र-यत्- -प्रे(प्र√इ) द्र.
 प्र-यत- -प्रथ्. प्र√यच्छ् द्र.
 प्रयताभिरक्ता^१ हिपि १७ : १६^१.
 प्र√यस् > प्र-यस्यत्- -प्यन् आश्रौ
 २, १०, १४.
 प्र√यम्, प्र-यमण- प्र√यच्छ् द्र.
 प्र√यस् > प्र-यस्य(त् >)न्ती-
 -न्ती अञ् १२, ५(४)१.
 ऋप्र-यास- -साय^१ बौश्रौ १५, २ :
 १५; ३५ : ५××; आमिण्.
 ऋप्रयस्^१ -यः आपश्रौ १६, ६, ७;
 वाश्रौ २, १, ५, २०; हिश्रौ ११,

a) वैप १ द्र. । b) तस्येदमीयष् ठक् प्र. । c) भाप., नाप. । d) पाठः (तु. तैआ ६, ५, १
 प्र...क्ता)? प्रयता(त-अ)भिरकृ-> -क्ता (विप. [यय-], षस.) इति शेषः (वैतु. भा [तैआ.] प्रयताभिः, अकृ-
 [भक्तान् प्रति] गन्तु-) > -क्ता इति, सा. अक्ता-> -क्ता (विप. [यमी]) इति तत्र विशेषः । e) पाथे. वैप १, २१९
 द्र. । f) वैप १, २१९७ b द्र. ।
 वैप-प्र-३४

१,७३; -यांसि आश्रौ ७,८,१.
 प्र√यस-वत्- वन्तः ऋअ २, ५,
 २०; -वान् आश्रौ ३,१२,१५×;
 शाश्रौ ५,१०,१८; या २,१३.
 प्र√या, प्रयाति आपश्रौ १, १, ९;
 १०,१९,६××; बौश्रौ; प्र(याति)
 ऋअ २,१०,८; वृदे ६,१४७^१;
 साअ १, ७१; प्रयान्ति आपश्रौ
 ७,२८,४; बौश्रौ १७,४० : ११;
 वैश्रौ; ऋप्र...यासि आश्रौ २,
 २०, ४××; शाश्रौ; लाश्रौ ५,
 २, १०^२; प्र(यासि) वृअ ३,
 ८४^१; प्रयात् विध ६३, ३३;
 प्रयातु आश्रौ ८,११,४; शाश्रौ
 २,५,३; प्रयाहि आश्रौ ६, ११,
 ९^१; ऋप्र...याहि आपश्रौ १६,
 १२,६; बौश्रौ; ऋप्र(याहि) काश्रौ
 १६, ६, १८; वाश्रौ; प्रयायात्
 आपश्रौ ५, ३, २३; ७, ९××;
 बौश्रौ; ऋप्रयायाः द्राश्रौ १०,
 २, १३; लाश्रौ ३, १०, १४;
 प्रयायाम् बौश्रौ १८, ४८ : १३.
 प्रययौ विध १, ३३; प्रययुः
 बौश्रौ १८, २६ : १०; आमिष्ट
 ३, ८, १ : २२; २३; बौपि १,
 १४ : २०; २१; १५ : १; प्रया-
 स्यति हिश्रौ १३, ६, ४; ऋप्र-
 (अयासीत्) क्षुस् ३, १० : ३६;
 ऋअ २,१,१०; साअ १,५३६;
 ऋप्रो(प्र-उ [अयासीत्]) जैश्रौका
 ४०; साअ १,५५७.
 प्रयापयति वाश्रौ २,१,३, २९.
 प्रयियासेत् भाग ३,३ : १२.

प्र-न्याण^१ -णः आपश्रौ १०,१९,८;
 -ऋणस् आपश्रौ २१,२,९^०; या
 १२,१३; वृप्र ६,८; तैषा ७, ६;
 १२,४; -णस्य बौश्रौ ६,९ : १;
 १०,१७ : १; -णे आपश्रौ २४,
 १,४१; बौश्रौ.
 प्रयाण-काल- -ले वैगृ ५,१ : ९;
 १६.
 प्रयाण-यजुस्- -जुः बौश्रौ २१,
 १० : १०; २२,८ : २६.
 प्रयाणो(रा-उ)पपत्ति- -त्तौ
 आश्रौ ३,१०,३.
 प्र-यात्- -याति हिश्रौ ३, २, ५९;
 -यान्तः हिश्रौ ९, ५, १६;
 -यान्तस् बौश्रौ ४,१ : २२;
 वैश्रौ १२,१४ : १०^१.
 प्र-यात्- -तः अप १, ३१, ६; ६७,
 ६,३; -तस् हिश्रौ ७,१,६५^१;
 हिपि १८ : २५; -तस्य सु १,
 ४; आज्यो ३, १; -ताः अप
 ७०^३, ९, ४; -ते बौश्रौ १४,
 १९ : २०; -तेषु वृदे ५, ७२.
 प्र-याप्य वाण १५,४.
 प्र-याय माश्रौ १,६,३, ४; द्राण ३,
 १,२९.
 प्र-यायिन्- पाउभो २, १, २९०;
 -यी अप ५१,४,२.
 प्र-यास्यत्- -स्यन् आपश्रौ ६, २८,
 १; ५××; बौश्रौ.
 प्र-यै पा ३,४,१०.
 प्रयाण^१ -गम् शंघ ११६ : १३; -गे
 शंघ १९४; विध ८५,२८.
 प्र-याज- प्रष्ट. प्र√यज् द.

प्र√यु, प्रयौति आपश्रौ २,८, ५; ७,
 २५,४; ५; बौश्रौ ४, ९ : १७^१;
 माश्रौ ७, १४, १२; १९, १३;
 २०, १^१; वाश्रौ; या ४, १९;
 प्रयौयात्^१ बौश्रौ २५, ३२ :
 १२; २२; २८.
 ऋप्र...युयोतन्^१ आपमं २, ३,
 १; हिगृ १,५, १; जैगृ १, १२ :
 २६.
 ऋप्र-युत्- -युतः आपश्रौ १२, ३,
 २; हिश्रौ ८,१,४१; जैश्रौ ९०,८.
 ऋप्र-युत्,वा- पाग ६,२, १४७^१;
 -ऋतस्^१ काश्रौ ६,८,११; वृअ १,
 ४०४; -ऋता^१ आपश्रौ ७,२०,
 ४; माश्रौ; -ताः वैताश्रौ ३८,
 ५^१; -तात् माश्रौ २,३,७,८.
 २प्र-युत्^१ - पाग २,४, ३१^१; -तस्
 लुस् २,९ : १७; अप ४८,६६^१;
 या ३,१०; -तात् वाश्रौ ३, ४,
 २,१०; -तानि शाश्रौ १४, ८२,
 २; बौश्रौप्र ५४ : १०; -ताय
 वाश्रौ ३, ४, २, ११^१; -ते शाश्रौ
 १५, ११, ४; आपश्रौ १६, ३१,
 १^१; बौश्रौ.
 ऋप्र-युत्ति- -त्ति^१ आश्रौ ३,१३,१८;
 माश्रौ २, ५, ४, ९; वैताश्रौ २३,
 १२.
 प्र-युत्य वाश्रौ २,२,४, ९.
 प्र-युन्वत्- -न्वद्भ्यः, -०न्वन्तः
 हिगृ २,९, २^१.
 प्र-युव(त>)ती- -ती या ९, २६;
 -तीम् या १०, २९.
 प्र-यूय बौपि १, ३ : १५; २२; ३०.

a) पामे. वैप १,२१९७ f द्र. । b) भाप., नाप. (मन्त्र-) । c) सपा. हिश्रौ १६,१,३३
 प्रायणम् इति पामे. । d) सपा. प्रयान्तस् <> प्रयातम् इति पामे. । e) = तीर्थ-विशेष- । व्यु. ? । बस. इति
 शक. । f) सपा. प्रयौति <> प्रयौयात् इति पामे. । g) = प्रयुयात् । h) पामे. वैप २, ३खं. प्र...युयोतन्
 मंत्रा १,६,१४ टि. द्र. । i) प्र-युक्त- इति पाका. । j) पामे. वैप १,२१९८ l द्र. । k) वैप १ द्र. । l) वृ-
 आमम. । m) पामे. वैप १, २१९८ ० द्र. । n) पामे. पृ १७१३ l द्र. ।

प्रयुच्छ्, प्रयुच्छसि आश्रौ ७, ४,
४; आपश्रौ ६, १८, १×४; बौश्रौ.
प्रयुञ्, प्रयुञ्क्ते आश्रौ २, ३, ३;
बौश्रौ १३, १०:३१; वाधूश्रौ; या
७, १; प्रयुनक्ति आपश्रौ १, ७, ५;
११, ४×४; काठश्रौ; हिश्रौ १३,
१, १३^३१; प्रयुञ्क्तः माश्रौ ८,
५, ५; वैश्रौ ८, १०:२; हिश्रौ ५,
२, २०; प्रयुञ्जते वाधूश्रौ ३, ८३:
१; कौश्रु; प्रयुनक्तु बौश्रौ २,
९: १३१; प्रयुञ्जीत काश्रौ २२,
११, ३१; आपश्रौ १४, १४, १२;
बौश्रौ; प्रयुञ्ज्यात् जैश्रु २, ८:
१६; कप्र ३, ६, ५; अश्रु; प्रयुञ्ज्युः
अप ३०, २, २; प्रयुञ्जीमहि
बौश्रौ २, ८, १११.
प्रयुञ्जे ऋश्रु २, १०, ३३;
वृदे ७, ३४.
प्रयुञ्जते आपश्रौ २, १७, ५;
हिश्रौ १५, ७, २५; लाश्रौ;
प्रयुञ्जते निस् २, ५: ३४;
प्रयुञ्जन्ते शाश्रौ १५, ११, ५;
आपश्रौ; प्रयुञ्जन्ते तैषा ७,
६६; भाशि १०८; प्रयुञ्जताम्
आश्रौ १, १, ४; १४, ३; बौश्रौ;
प्रयुञ्जेत निस् १, ११: ३; मैश्रु
५; प्रयुञ्जेरन् आपश्रौ १४, १५,
३; हिश्रौ १०, ७, २५×४; निस्,
प्रयोजयेत् आपश्रौ ७, १२, ३;
बौश्रौ २, २: १७; अप.
अयुक्त, क्त- पा ६, २, १४७०; -क्तः
वृदे २, ६९; आशि १, २; -क्तम्
हिश्रौ २१, २, ४५; निस् २, ५: २०;
अप्राय; -क्ता अप ३२, १, १२;
४१, २, १३; -क्ता अप ३७, १,

६१; -क्तानाम् आपश्रौ ९, १३,
१३; २०, १०, ८; माश्रौ; -क्तानि
निस् १०, ३: ३८; अप १, २२,
३; शंघ ४१७^१; या १२, ३०;
आज्यो ४, १३; मीस् १, ३, ७;
-क्त्याम् अप ७०, १, ९; -क्ते
वाश्रौ ३, २, १, २७; वैश्रौ १४,
५: ६; -क्ते अप ७, १, १.
प्रयुक्त-तम- -मानि निस् १०,
३: २२.
प्रयुक्त-न्व- -त्वात् मीस् ३, ७,
३९; ६, ६, ३१×४.
प्रयुक्त-पूर्व- -र्वे आपश्रौ ११, ६,
३; हिश्रौ ७, ५, १.
प्रयुक्त-प्रतिषेध- -धः निस् ५,
३: ४.
प्रयुञ् - -युक् वाधूश्रौ ४, २९:
४; -युजः वाश्रौ ३, ३, ४, ३५;
-प्रयुञ्ज^१ बौश्रौ १०, १३:
१-३; माश्रौ ६, १, ३, २०; माश्रु
१, ६, २; २३, ६; -प्रयुञ्जे आपश्रौ
१०, ८, ५×४; बौश्रौ.
प्रयुञ् - -जेषु बौश्रौ २४,
११: ५.
प्रयुग्-हविस- -वीषि काश्रौ
१५, ९, ७.
प्रयुजां-हविस- -विभिः आपश्रौ
१८, २२, ५; २२, २५, १३; बौश्रौ
१२, १९: १५; १९; १८, ५:
१७; १८; ६: १९; २०; हिश्रौ
१३, ७, २३; २३, ४, ८.
प्रयुजत् - -जन् वाश्रौ १, ३, ७, २०.
प्रयुज्य शाश्रौ १५, १२, ८; आपश्रौ
१, १५, ७×४; काश्रौसं.
प्रयुज्यमान- -नाः हिश्रौ १, १,

१३; -ने पा ८, २, १०१.
प्रयुञ्जत् - -जन् गौषि २, ४, ७, ८.
प्रयुञ्जती - -ती ऋश्रु २, ५,
४७१,
प्रयुञ्जान- -नः आश्रौ २, १२, ६;
बौश्रौ २८, २: ५८; लाश्रौ;
-नस्य शाश्रौ ३, ८, ५.
प्रयोक्तव्य, व्या- -व्यः अप ३१,
४, ४; माशि १३, १०; याशि;
-व्यम् नाशि १, १, २; -व्या
अप ७०^३, ६, ५; कौशि ६४;
६६; -व्याः बौश्रौ २६, ५:
१; २७, ६: २४; अप; -व्ये वृदे
३, ३१.
प्रयोक्तृ- -क्तृरि मीस् ३, ७, १८;
-क्ता अप ३१, ७, ४ -क्तुः ऋश्रु
१३, १३; पाना ३, २, १११.
प्रयोक्ष्यमाण- -णः आश्रौ २, १५,
१; -णानाम् आपश्रौ २०, १०,
८; हिश्रौ १४, ३, ५.
प्रयोग^१ - पाग ५, १, ६४; ७, ३,
२०; -गः आश्रौ २, १४, ३;
शाश्रौ; या ७, ३१; -गम् आपश्रौ
२०, १०, ८; अप ३३, ४, १;
मीस् ११, १, ६४; -गस्य
जैश्रौका २१५; अप ४७, २, ८;
गौध; -गाणाम् निस् २, ८:
७; -गात् वैश्रौ १३, ६: १३;
अप ३६, २, ६; आपध; -गान्
माशि ४, ९; १५, २; पाशि २७;
नाशि २, ८, १२; १७; -माय मीस्
६, २, ७; -गे वाश्रौ १, १, १, १;
हिश्रौ; -गेण बौश्रौ २७, ४: २७;
-गेषु माशि ६, ४, ८.
प्रायोगिक- पा ५, १, ६४

a) पा १, ३, ६४ परामृष्टः द्र.। b) पाभे. पृ ५६९० द्र.। c) पृ १७२२ i द्र.। d) पृष्ठे इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. मदनपारिजातः [७३४]) । e) वैप १ द्र.। f) पाभे. वैप १, २१९९ i द्र.। g) = (प्रयुग्हविःसंबन्धिनः) यज्ञ-विशेषः । h) आप.।

७,३,२०.
 प्रयोग- नो पावा २,३,१;६६.
 प्रयोग-ग्रहण- गम् पावा ८,२,
 ८५.
 प्रयोग-चोदना- ना मीस् ११,
 २,३६.
 प्रयोगचोदना(ना-अ)भाव-
 न्वात् मीस् १,३,३०.
 प्रयोग-तस् (ः) वृदे १,५९; मीस्
 ११,३,२१.
 प्रयोग-दीपिका- -काम् वैश्रौका
 ५.
 प्रयोग-नियमा(म-अ)र्थ- -र्थस्
 पावा १,४,८०; ३,१,२.
 प्रयोग-निर्देश- -शात् मीस् ११,
 ३,२३.
 प्रयोग-पृथक्त्व- -कत्वे हिश्रौ १,
 १,७०.
 प्रयोग-भूत-त्व- -त्वात् मीस् २,
 २,१६.
 प्रयोग-रूप-सामर्थ्य- -थ्यात्
 मीस् ५,१,१६.
 प्रयोग-वचना(न-अ)भाव-
 न्वात् मीस् ५,३,२७.
 प्रयोग-वचनै(न-ए)कत्व- -त्वात्
 मीस् ६,३,४; ११,१,३५××.
 प्रयोग-विद्- -वित् वृदे १,
 १२; माशि ४,१४.
 प्रयोग-शास्त्र- -स्त्रम् मीस् १,३,
 ११.
 प्रयोग-संनिकर्ष- -र्षः मीस् १,
 १,२६.
 प्रयोग-समवायित्व- -त्वात् मीस्
 ६,८,३९.
 प्रयोग-साधारण्य- -ण्यात् मीस्
 ११,३,२६.

प्रयोग-सामर्थ्य- -थ्यात् मीस्
 २,१,२९.
 प्रयोग-सौष्ठव- -त्वात् माशि
 १५,४.
 प्रयोगा(ग-अ)न्तर- -रे मीस् ६,
 ५,५२.
 प्रयोगा(ग-अ)न्यत्व- -त्वात्
 पावा ३.
 प्रयोगा(ग-अ)र्थ- -र्थे ऋषा १३,
 ४९; पाशि ३०; माशि.
 प्रयोगिन्- > गि-न्त्व- -त्वात्
 काश्रौ १,५,७.
 प्रयोगै(ग-ए)कत्व- -त्वे मीस् ४,
 २,३१.
 प्रयोगो(ग-उ)त्पत्त्य(त्ति-अ)
 शास्त्रत्व- -त्वात् मीस् १,३,२४.
 २प्र-योग^१- -गः ऋषा २, ८,
 १०२; सात्र १, १९; २१; चात्र
 १६ : ११.
 प्र-योजक- -कः पावा ३,१,२६.
 प्रयोजकत्व- -त्वात् मीस् ११,
 ३,३८.
 प्र-योजन- -नम् हिश्रौ ८,१,४०;
 बौध ३,१,१४; अत्रा; पा ५,१,
 १०९; -नात् भाश्रौ ६, १६,
 ६××; -ने आपध २, २६, ३;
 हिध २, ५, १९८; -नेन पावा
 ५,१,१२; मीस् ४,३,२९;३४.
 प्रयोजन-योद्ध- -द्धभ्यः पा
 ४,२,५६.
 प्रयोजन-वत्- -वत् मीस् १०,
 ४,३६.
 प्रयोजना(न-अ)न्यत्व- -त्वम्
 मीस् २,३,२४.
 प्रयोजना(न-अ)भिसंबन्ध-
 -न्धात् मीस् ११,१,१.

प्रयोजना(न-अ)र्थ- -र्थम् मीस्
 २,३,२.
 प्रयोजनै(न-ए)कत्व- -त्वात्
 मीस् ३,६,३८; ११,४,७;४५.
 प्र-योजयत्- -यत् विध ६७, ३७.
 प्र-योजयित्- -ता आपध २, २९,
 १; हिध २,६,१४.
 प्र-योज्य,ज्या- पा ७,३,६८; -ज्यः
 कप्र ३, ४, ७; अत्र ३३, ३, १;
 अशां २३, १; गौध २, ४३;
 -ज्यम् कागृउ ४४ : १०; माशि
 ४, ६; आज्यो ५, ८; -ज्याः
 कौशि ५९.
 प्र०युध् प्रयोधयेत् आगृ ३,१२,१६.
 प्र-यै प्र०या द्र.
 प्र-योक्तव्य- प्रथ. प्र०युज् द्र.
 †प्रयोज्यामः^० दंवि १,३.
 प्र-रथ- पाग २,१,१७.
 प्र०रद्, प्र...रदत् ऋषा २,४६†.
 प्र०रम्, प्ररमयति या २,१८.
 प्र०राध् > प्र-राध्य- -ध्यम् आश्रौ
 ९,९,१२†.
 †प्र०रिच्, प्ररिचिचे बौश्रौ १३,२८:
 १८; १९; प्र...रिचिचे ऋषा २,
 ३८; प्र (रिचिक्ले) सात्र १,३,१२;
 प्र (रिचिाधे) आश्रौ ३,७, १३;
 शाश्रौ १, ८, ११; ६, १०, ९;
 माश्रौ ५,२,८,३१; प्रारिचत् या
 ३,६६†.
 प्र-रेक^१- -कः आपश्रौ १८, १३,
 २२; -कम् आपश्रौ १८, १६,
 १३; बौश्रौ १०, ५४ : ११××;
 वैश्रौ १९, ६ : १२०; -काः
 बौश्रौ १२, ८ : २४; -के बौश्रौ
 १८, १८ : १०; -कैः वैश्रौ १९,
 ६ : १२४.

a) उप. <√विद् [ज्ञाने]। b) व्यप. (ऋषि-)। वैप १ द्र. । c) पाठः? प्रयोज्याः, तद् इति
 द्विभ्यः शोधः विमृश्यः। सत्थ. †दन्त्याः > दन्त्यात् इत्यपरः शोधः (तु. संस्कर्तुः टि.)। d) =संपात-

प्र√रुच्, प्ररोचयति माश्रौ १,७,३,
२३××; वाश्रौ १,६,१,२९.
प्र√रुज् > प्र-रुज्य बौश्रौ १,१८:२.
प्र√रुद्, प्ररोदिति अप ७०^३, ११,
३०.
प्र-रुद(त् >)न्ती- -न्त्याम् शांघ
१,१५,२.
प्र√रुघ् > प्र-रोघन^१- -नम् भाशि
४७^१.
प्र√रुह्, प्ररोहति काघ २७६: ६;
२८०: ६;७; प्ररोहन्ते अप १०,
१,२१; प्ररोहसि शांघ ६,६,९^b;
प्ररोहन्तु पागृ ३, १५, २०;
प्ररोहेत अप ७०,१०,३; प्ररोहेयु:
अप ६७,२,२.
प्र-रुह- > ङ-कक्ष^०- -क्षे आपश्रौ
८,५,२.
प्र-रोप्य बौश्रौ २१, २४: १९.
प्र-रोह^d- पाग ४, ४, ६२^०; -हः,
-हम्, -हाय वैताश्रौ २६, ११.
प्रारोह- पा ४, ४, ६२.
प्र-रोहण- (> णीय- पा.) पाग
५, १, ११.
†प्र-रोह(त् >)न्ती^b- -न्ती आपश्रौ
१६, २४, १; बौश्रौ; वैश्रौ १८,
१७: ३१^१; हिश्रौ.
प्र-रेक- प्र√रिच् द.
प्र√रेज्, प्र (रेजते) माश्रौ ५, १, ६,
४३^१.
प्र√रुल्, प्रलपन्ति अप ७०^३, ७, १८.
प्र-रुाप- -प: वृदे १, ३७; ५५.
प्र-रुापिन्- पा ३, २, १४५; -पिन:
अप ६८, १, ३८^२.
प्र√रुम्ब > प्र-लम्ब^१- -म्ब: अप

५३, ३, १.
प्रलम्ब-ज(ङ्घा >)ङ्घा^१-
-ङ्घा: बौश्रौप्र २५: २.
प्र√रुम्भ् > प्र-लम्भन- -ने पा
१, ३, ६९.
प्रलम्भन-शालीनीकरण- -णयो:
पावा ६, १, ४८.
प्र-रुलाट^१- -टे बौश्रौ १०, ३०: ११;
वैश्रौ १८, १७: १५.
प्र√रुलिख्, प्रलिखते वौगृ १, ७, २८;
प्रलिखति पागृ २, १४, १५;
†प्रलिखताम्, प्रलिखन्ताम् कौगृ
४, २, ३; शांघ ४, १५, ७;
प्रलिखस्व पागृ २, १४, १६^१.
प्र-लिख्य कौसू ७६, ५.
प्र√रुलिप्, म्, प्रलिम्पते काश्रौ
१५, ६, ८; प्रलिम्पति माश्रौ ६,
१, २, २६; कौसू २६, २९××;
प्रलिम्पन्ति बौश्रौ १५, ३०:
१२; वाधूश्रौ ३, ८१: ५; हिश्रौ
१४, ४, १८; प्रलिम्पताम्,
प्रलिम्पन्ताम् शांघ ४, १५, ८^१.
प्र-लिष्य शांश्रौ ४, १५, २२; आपश्रौ.
प्र-ले(पक >)पिका- (> प्रालेपि-
का- पा.) पाग ४, ४, ४८.
प्र-लेप्स्यमान- -न: भागृ २, २०: ३.
प्रलिश^१- -श: सु २३, ३.
प्र√रुलिह्, प्रलेहयेत् बौश्रौ २३, १:
४४; ४५.
प्र-लेहन- -नात् गोगृ ३, ६, ३; द्रागृ
३, १, ४५.
प्र√रुली, प्रलीयते अप ६८, २, २५;
६९, ६, ४; ७०^३, ९, ३; प्रलीयन्ते
अप ६८, २, ३४.

प्र-लय- -यम् अप ७१, १९, ४; वृदे
१, ६१.
प्रालेय- पा ७, ३, २.
प्रलया(य-ञ्)न्त^१- -न्तम् वैघ
१, ११, ४.
प्र√रुलुप्, प्रलुप्येत याशि १, ७९.
प्र√रुलुम्, प्रलुभे शांघ ३, १३, ५^१;
†प्रलुभोम्^१ बौश्रौ २, १०: ६;
आपमं २, १९, १××; कौगृ ३,
१५, ५; आग्रिप् ३, १, १: २०;
बौगृ २, ११, २८; हिगृ २, १०, ७.
प्रवक- √प्रु द.
प्र-वकल^१- -लानि बौश्रौ १५, १४: १.
प्र-वकत्- प्रच्. प्र√वच् द.
प्र√वच्^०, †प्र (विवक्तिम्) शांश्रौ १०,
५, २४; ऋअ २, ७, ६; वृदे ५,
१६१.
प्रोवाच आश्रौ १२, ९, १८;
शांश्रौ १४, १२, २××; वाधूश्रौ
या १०, ३२; १४, १; प्रोचुं
शांश्रौ १४, ४०, १; बौश्रौ:
प्र...ववक्षे या ५, ८^१; प्रवक्ष्ये
हिपि १७: १; प्रवक्ष्यामि आमिगृ
२, ५, १: ५; ७, ७: १;
जैगृ; प्रवक्ष्याम: वाधूश्रौ ४, ११:
१३; अशां २०, १; या ९, ३^१.
†प्र (वोचति) ऋअ २, १०, ७५;
वृदे ७, ११५; †प्र...वोच > चा
वृदे ५, ११९; ऋप्रा ८, २९; प्र
(वोच > चा) ऋअ २, ६, ५५^१;
प्र...वोचेयम् या १०, ४२^१; †प्र
(वोचेयम्) वृदे ४, ४; †प्र-
वोच: माश्रौ १०, २, २^१; वैश्रौ
१२, १: ११; भागृ २, २५:

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १, २२०१ b द्र. । c) बस. उप. = गुल्म- । d) भावे कर्तारि च कृत् । e) पुरोह- इति पाठः । f) न्ति इति पाठः ? यनि. शोधः । g) उप. कर्तारि प्र. । h) = ऋषि-विशेष- । बस. । i) प्रास. । j) सभा. कौगृ ४, २, ३ अनुलि^० इति पाभे. । k) व्यप. । व्यु. ? । l) बस. वा. क्रि.वि. । m) परस्परं पाभे. । n) बस. उप. = वल्कल- । o) पावा ७, ३, ६६ परामृष्टः द्र. ।

१२^३, १३; †प्रवोचः बौश्रौ ९,
१६ : २८; १४, २० : ४; प्र...
वोचः या ८, २०†^१; प्रवोचत
ऋप्रा ८, ३†; †प्र (वोचत)
आश्रौ ६, ४, १०; शाश्रौ; †प्रावो-
चम्^१ माश्रौ १, ४, ३, १७; वाश्रौ
१, १, ४, ३३; ३४; †प्र... भवोचम्
अप्राय ६, ८; ९; †प्र (भवोचम्)
माश्रौ ४, ४, ३८; काय ४९, १;
७१, १४; †प्रवोचम् आश्रौ ५,
२०, ६^०; बौश्रौ; या ७, २; ३;
११, ४३; ऋप्रा ८, ३^०; प्रा-
(<प्र)वोचम् अत्रा २, ३,
१†; †प्र...वोचम् बौश्रौ १७,
४४ : १४; वाधूश्रौ; †प्र (वोचम्)
आश्रौ ८, १, १७; ९, ५, १६;
शाश्रौ; प्र...भवोचाम वाधूश्रौ
३, १ : १०†.
प्रोच्यते निस् ६, २ : ११; विध
९७, १५; नाशि १, ८, २;
प्र (उच्यते) साञ्च १, ५७३†^१;
प्रोच्यते ऋप्रा १७, ४१.
प्रवक्ष्यते अप ५८^३, १, ७; प्रव-
क्ष्यन्ते काध २७५ : १.
प्रवाचयेत जैश्रौ १ : २०; प्रवा-
चयेत् गोग १, ३, १७; कप्र २,
८, २३.
प्र-वक्तृ- पा २, १, ६५; -वक्त्रे
आश्रौ १, २, १†; आपगृ १३,
२०.
प्र-वक्ष्यत्- -क्ष्यत्सु आश्रौ ४, ४,
२; -क्ष्यन् बृदे ५, ७३.
प्र-वचन- पाग ८, १ २७; -नम्

द्राश्रौ १, २, १२; लाश्रौ १, २, ७;
पाग; या ४, २५; -नात् मीस्
१, १, ३०; -ने द्राश्रौ १, २, १५;
लाश्रौ १, २, ९; साञ्च १, २६७.
प्रावचन^१- -नः छुप्रा १,
१३२; नाशि १, १, ८.
प्रवचन-कर्तृ- -र्तृभ्यः आम्रिगृ १,
२, २ : ३०; हिगृ २, २०, १.
प्रवचन-कार- -राय बौगृ ३, ९,
६.
प्रवचन-प्रतिषेध- -धः मीस् १२,
३, २१^१.
प्रवचन-याजन-प्रतिग्रह- -हाः
गौध १०, २.
प्रवचन-युक्त- -क्तः आपध १,
३२, १; हिध १, ८, ४३.
प्रवचन-लक्षण^१- -त्व- -त्वात्
मीस् १२, ३, २४.
प्रवचन-शेष- -षः हिश्रौ २१, २,
३५.
प्रवचनीय- -यः शांगृ ३, ५, ३^१;
-याः चव्यू २ : ३८.
प्र-वाच्य^१- पा ७, ३, ६६; -च्या
आम्रिगृ २, ३, ५ : १९†.
प्रो(प्र-उ)क्त, क्ता- -क्तः कप्र २, ३, ४;
३, ८, ११; अप ८, २, १××; अशाः;
-क्तम् बौश्रौ १७, ४३ : १६××;
आपगृ; पा ४, ३, १०१; -क्ता
कप्र १, ३, १; ७, २; अप; -क्ताः
कागृ ४२ : १५; वैगृ १, ८ : ९;
कप्र; -क्तात् पा ४, २, ६४^१;
-क्तानि अप ४, १, २३; ६९, ६,
१; -क्त्याम् द्राश्रौ १, २, १८;

लाश्रौ १, २, १२; -क्ते आश्रौ ५,
१०, २; शाश्रौ १७, १७, ११;
काश्रौ; -क्तेषु बौश्रौ १, ७ : १;
-क्तौ अप २३, ५, १.
प्रोक्त-ग्रहण- -णम् पावा ४, ३,
१०१.
प्रोक्त-व(त् >)ती^१- -त्यः निस्
६, ९ : १.
प्रोक्ता(क्त-आ)दि- -दयः पापवा
१३.
प्रोक्ता(क्त-अ)धिकार- -रे पावा
४, ३, ६६.
प्रो(प्र-उ)च्य वाधूश्रौ ३, १ : ९;
वैश्रौ २१, ६ : ८; हिश्रौ.
प्रो(प्र-उ)च्यमान- -नम् अप ७०^३,
१, ४; -नाः शैशि २०^३.
प्र-चण, णा^१- पा ८, ४, ५; -णः तैप्रा
१, ४७^३; -णम् बौश्रौ १८, ४८ :
२३; वैगृ; -णाम् बौश्रौ ६, २३;
७^१; २४, २४ : १५; माश्रौ २,
२, १२; हिश्रौ १, ६, ९६.
प्रवण-वत् मीस् १, ३, २२.
प्रवण-व(त् >)वी- -ति या ११,
३७.
‡प्रवणजाः या ९, ८^०.
†१प्र-वत्^१- -वतः आश्रौ २, १९, २२;
आम्रिगृ ३, ५, २ : १; बौपि १, २ :
१; कौसू ८१, ३४; या १०,
२०†^१; -वतः अप ३२, १,
१४; अअ १, १४; -वता बौगृ
२, ६, १३; -वते बौश्रौ १३,
३५ : २; १८, ४८ : २; हिश्रौ २२,
५, २०.

a) पाभे. वैप १, २१८४ I द्र.। b) पाभे. वैप १, २२०२ G द्र.। c) पाभे. वैप १, २२०२ a द्र.।
d) पाभे. वैप १, २२०२ i द्र.। e) विप.। भवार्थे इदमर्थे वा अण् प्र.। f) प्रायव इति जीसं. प्रयासं, प्राव
इति केवलानन्दः। g) वस.। h) सप्र. कौगृ ३, ४, ३ प्रपदनीयः इति पाभे.। i) वैप १ द्र.। j) = प्रोक्ता-
र्थक-प्रत्यय-। k) = ऋच्-। l) वैप १ द्र. (वैतु. गोपालयज्वा <प्र√वन् इति)। m) = स्वरित-पर्याय-।
n) प्रणवाम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. भाश्रौ.)। o) तु. राज.। १^० इति लसं.। p) वैप १ निदिष्टयोः समावेशः द्र.।

†प्रवत्-व(त>)ती- -०ति आपमं
२, १८, ९; या ११, ३७६.
२प्रवत्^a- -वन्ति निसू ४, १२: २१.
प्रवती- -ती निसू ७, २: ५;
८, ५: १६; -तीभिः निसू ७, २:
३०; -त्यः निसू ७, २: ५; ३१;
-त्या निसू ७, २: ११.
प्रवद्-भार्गव^b- -वम् जैश्रौ २४:
४; द्राश्रौ २, २, २२; लाश्रौ १, ६,
२०; लूसू ३, १०: २९.
प्रवद्भार्गव-सामन्- -म जैश्रौका
४०.
प्रवद्-योनि^c- -नि निसू ७, २:
२१.
†प्रवताऽऽयन्ति^d वौष्ट २, ६, १३;
कौसू ५६, १७.
प्रवत्स्यत्- -प्रष्ट. प्रवस् द.
प्रवद्, प्रवदति वाग् १३, ३; या
१४, १; †प्र^eवदति आपश्रौ
५, १९, ३; हिश्रौ ३, ५, ४;
†प्र(वदति) आश्रौ ५, १४, ६;
शाश्रौ; प्रवदन्ति वाग् १३, ५;
कप्र १, ८, २०; अप; प्रवदतु वाग्
१३, ३†; प्रवदन्तु द्राश्रौ ११,
२, १; लाश्रौ ४, १, ११; प्र^e
वदन्तु आश्रौ ५, १२, ९†; या ९,
९; †प्र(वदन्तु) ऋअ २, १०, ९४;
बुदे ७, १४६; †प्रवद द्राश्रौ ११,
१, ५; लाश्रौ ४, १, ५; प्र^eवद
शाश्रौ १, ६, २†; प्र^eवदाम या
९, ९†; प्रवदेत् माश्रौ ६, ९, ७;
हिश्रौ ३, ७, ९.
†प्र^eवदिष्यामि शाश्रौ १७,
१७, १; द्राश्रौ ११, २, ११; लाश्रौ

४, २, १०; प्रावादिषुः या ९, ६;
प्र^eवदिषुः या ९, ६†.
प्रवाद्यते काग् १७, २; वाग्
१३, ४; प्रवाद्यति शाश्रौ १७,
१४, ८; प्रवाद्यन्ति शाश्रौ १७,
१४, ९.
प्रवदन- -नात् शाश्रौ ४, २१, २२;
१७, १७, ३; -ने वाग् १३, १०†.
प्रवदित्- -त्ता हिश्रौ १७, ७, १५.
प्रवदितोस्(ः) काश्रौ ९, १, १०;
आपश्रौ १२, ३, १४; वौश्रौ.
प्रवाद- -दाः बुदे ३, ६५××; या
७, २३; ८, २; ऋप्रा ४, ६१; ९,
३५; -दात् आश्रौ ४, १३, १;
-देन निसू २, ३: २४; बुदे २,
१८; -देषु बुदे ३, ४६; ऋप्रा १३,
२४; -दौ ऋप्रा २, ७४.
प्रवाद-बहुल-त्व- -न्वात् बुदे ४,
४३.
प्रवादिन्- -पा ३, २, १४५; -दिनः
ऋप्रा ११, ४०.
प्रवन्, †प्र^eवन्वे वौश्रौ १७, ३:
४; हिश्रौ ९, ७, २१.
प्रवप् (बधा.), प्रवपते माश्रौ २, १,
१, २४; प्रवपति आपश्रौ १०, ५,
८; वौश्रौ; †प्रवपे वौश्रौ २, ८:
७; ६, २: ३; माश्रौ; प्रवपेत्
आपश्रौ १६, १३, ४; वाश्रौ.
प्रवापयेत् आज्यो ३, ३.
प्रवपत्- -पतः वौश्रौ १८, १९:
७; वौष्ट २, ४, १४; माग् १, २१,
८; -पत् पाग् २, १३, ७.
प्रवपन्- -ने कौष्ट १, २१, १८;
शाग् १, २८, २१; -नौ वाग् ४,

१६.
प्रो (प्र-उ) प्य वैश्रौ १२, ६: १.
प्रवयस्^f -यसः आग् ४, २, २; ५, ३;
आग्नि ३, ५, ३: ९; वौपि १, ३:
८; -यसम् हिश्रौ ६, ८, ८; -याः
आपश्रौ ८, ७, ५; १२, ५; माश्रौ
८, ९, ११; अप ४८, ७०†;
निघ ३, २७†.
प्रवय्या- प्रव^gवी द.
१प्रव-र- प्रव^g(वरणे) द.
२प्रव-र- प्रव^g(आच्छादने) द.
प्रवरण-, ०रित्वा प्रव^g(वरणे) द.
प्रवर्ग-, ०र्य- प्रव^gवृज द.
प्रव^gवर्ण, प्रवर्णते ऋअ ३, २.
प्रवर्त- -प्रष्ट. प्रव^gवृत् द.
प्रवर्धन-, ०धमान- प्रव^gवृष्ट द.
प्रवर्धमाण- प्रव^g(वरणे) द.
प्रवर्षण-, ०र्षत्- प्रव^gवृष्ट द.
प्रव^gवल्ह>प्रवल्ह-> ०ल्हक->
०ल्हिका^h- -का बुदे १, ३५;
५७; -काः शाश्रौ १२, २१, ३;
वैताश्रौ ३२, २१.
प्रवल्हिका(का-आ)दि- -दिषु
वैताश्रौ ३२, २४.
प्रवल्हिव, ता- -त्स् अप ४८,
१४५; या ७, ११; -ता या
१३, ८.
†प्रव^gवृश, प्र(वष्ट) साअ १, ५५३^k.
प्र (विषट्) साअ १, ७८^l.
प्रव^gवस् (*आत्रायाम्), प्रवसति शाश्रौ
२, १५, ६; ४, १३, ४; वौश्रौ;
प्रवसामि वाश्रौ ३, ५: २;
प्रवसेत् आपश्रौ ३, १३, ४; ६;
२५, २, ९, ४, १५; माश्रौ.

a) पू. = प्र-शब्द- । b) = साम-विशेष- । c) वस- । d) शोधः वैप २, ३खं. द. ।
e) = कर्म-विशेष- । f) पासे. पृ १७१८ d द. । g) भाप., नाप. (मन्त्र-). h) विप., नाप. ।
बस. उप. = आयुस्- । i) पुराण-नामन्- । j) = प्रह्लिका- । <प्रव(ल्ह)>ल्ही- इति (पक्षे) अभा. ।
k) पासे. वैप १, २२०४ l द. । l) वैप १, २२०४ m द. ।

प्रवस्स्यामि आपश्रौ ६, २७, २;
वैश्रौ २, १० : १६; हिश्रौ ६, ७,
८; प्रावात्सम्^a वैश्रौ २, १० :
१७; प्रावात्स्यम्^b आपश्रौ ६,
२७, २; हिश्रौ ६, ७, ८.

प्रवासयति वैगृ ४, ४ : २४; ६ :
९; प्रवासयेत् अप ७१, ७, २.

प्र-वत्स्यत्- -स्यतः वैश्रौ २, १० :
१४; चात्र २:१६; -स्यन् श्राश्रौ
२, ५, १; शाश्रौ २, १४, ११; काश्रौ
प्रवत्स्यद्-उपस्थान- -नम्
आपश्रौ ६, २७, १; शुश्र १,
२००; चात्र ७ : ५; -ने आपश्रौ
६, २६, २; -नेन काठश्रौ २०;
२१.

प्र-वसत्- -सतः काठश्रौ २१;
बौश्रौ २०, २ : ५××; भाश्रौ;
-सति आपश्रौ १, १७, ३; बौश्रौ;
-सन् श्राश्रौ २, ५, १९; शाश्रौ;
हिपि २३ : ३.

प्र-वसथ^c- -थम् आपश्रौ ६, २४, ५;
भाश्रौ ६, ४, ८; वाधश्रौ २, ६ :
१; ३, १८ : ७; -थात् भाश्रौ
६, ५, ८.

प्रवसथ-कल्प- -ल्पः भापृ ३,
३ : १२.

प्रवसथा(थ-आ)हुति- -तिम्
बौश्रौ २०, २३ : १५; -तौ
बौश्रौ २०, २३ : ९.

प्र-वसित- -ते विध ६, २७; २५, ९,
प्रवसिता(त-अ)गिनहोत्रिन-
-त्री विध ६८, ६.

प्र-वास- पाग ४, ४, १०३; ५,
१, ९७; १०१; पावाग ५, १,
९७; -सः हिश्रौ ६, ७, ४; १७,

२, ३१; -सम् आश्रौ २, ५, ७;
आपश्रौ; -सात् माश्रौ ६, २,
६, २६; आगृ; -से आपश्रौ ९,
४, १७; २२, ५, ४; हिश्रौ; -सेषु
कप्र ३, ५, ४.

प्रावास- पा, पावा ५, १, ९७.

प्रावासिक- पा ४, ४, १०३;
५, १, १०१.

प्रावास-निमित्त- -त्तम् बौश्रौ
२९, ९ : ४.

प्रावासा(स-आ)गमन- -नम्
वैगृ ३, २२ : ४.

प्रावासागमन-पिण्डवर्धन-

-नयोः वैगृ ६, ५ : ५.

प्र-वासिन्- पा ३, २, १४५; -सिनः
कागृ ४१ : ९.

प्रो(प्र-उ)षित,ता- -तः आपश्रौ ९,
११, २२; काश्रौ २५, ८, ८;
पागृ; -तम् कप्र १, ६, ७; ८;
-ताम् आनिगृ २, ७, १० :
१३; -तायाम् हिश्रौ ८, १, ४६;
-ते काश्रौ ३, ६, ९; आशिगृ ३,
९, ३ : १६; बौपि २, ७, १५;
शंघ ३४१.

प्रोषित-प(ति >)ली^e- -ली
वाध १७, ७५.

प्रोषित-भर्तृका^f- -काणाम् शंघ
३४१.

प्रो(प्र-उ)षिवस्- -वांसम् आपश्रौ
६, २५, ४१; -ऽषुषः^g भाश्रौ ६,
६, ३.

प्रो(प्र-उ)ष्य आश्रौ २, ५, १४; शाश्रौ.
प्रोष्य-पापीयस्- पाग २, १,
७२.

प्रवसत्यवसति^h बौपि २, ६, ९.

प्र√वहृⁱ, प्रवहन्ति हिश्रौ ३, ८, ४;

१३, ५, १४; या १४, ३४; प्रव-
हताम् आपमं १, २, ८; कागृ
२५, ५; बौगृ १, ५, ३; जैगृ १,
२२ : २; प्रवहन्तु बौश्रौ २,

८ : १०××; आगृ २, ४, १४;

प्र(वहन्तु) अश्र १६, ११;
प्रवह आश्रौ ६, ३, १; शाश्रौ

९, ५, २; आगृ २, ६, ५; प्र^{...}
वह > हा बौश्रौ २, १० : १५;

बौगृ २, ११, ३२; प्रवहतात्
आपश्रौ १, २१, २; बौश्रौ;

प्रवहत् आश्रौ ३, ५, २××;
काश्रौ; प्रवहेत् आपघ १, ११, ८;

दिध १, ३, ६५; प्रवहेयुः आपश्रौ
६, २, ८, ४; भाश्रौ ६, ६, १२.

प्रवह्यति गोगृ ३, ७, १४.

प्रवाह्यते कागृ २६, ५; प्रवाह-
यति आपश्रौ १, १०, ७; भाश्रौ

१, ९, १२; ७, २, १; माश्रौ;
प्रवाहयन्ति हिगृ १, २२, १;

दिपि १८ : १९; प्रवाहयामि
अप २०, ७, ९१; प्रवाहेयत् आश्रौ

२, ७, ९; अप ४०, ६, १३; प्र^{...}
वाहयेत् आपग ५, १२.

प्रवह(त् >)न्ती- -न्तीनाम् वाश्रौ
३, ३, २, १५.

प्र-वाहण^h- -ः शाश्रौ ६, १२,
११; बौश्रौ ६, २९ : ६; भाश्रौ;

-णम्ⁱ वैगृ १, २० : ८××;
-णाय काठश्रौ १५३; बौश्रौ

२५, १९ : ३१.

प्रवाहणी- -णीम् वाश्रौ १, २,
३, ३२; हिश्रौ ५, ४, ८८; -ण्या
आपश्रौ १, १०, ७.

a) परस्परं पामे. b) वैप १ द्र. c) बस. d) पाठः ? प्रोषितः इति शोघः (तु. रुद्रदत्तः
आपश्रौ ६, २६, ७)। e) पाठः ? प्रवत्स्यत्- > -स्यन् इति शोघः (तु. B., सप्र. हिपि २३ : ३ प्रवसन् इति
पामे.)। f) पा १, ३, ८१ परागृष्टः द्र. g) उप. भावे कर्तारि करणे च प्र. h) = परि-वेचन-।

प्र-वाहन- नस् वाधूश्रौ ३, ७६ :
 १०.
 प्र-वाहित- तः अप २०, ७, ९.
 प्र-वाहिन्- -हणः शाश्रौ १२,
 १४, ११.
 प्र-वाह्य बौश्रौ २, १० : ३९; ५,
 १५ : २२; आमिष्ट.
 प्रो(प्र-ऊ)ह- पाग २, १, १७.
 प्रो(प्र-ऊ)ह्यमाण- ञः तैप्रा ७, ६१;
 -णयोः हिश्रौ १०, ८, १९;
 -ङ्गाय^० आपश्रौ १०, २८, ४;
 बौश्रौ ६, १६ : १; माश्रौ १०,
 १४, १६; माश्रौ २, १, ४, २९;
 वैश्रौ १२, २० : ५, १३९; हिश्रौ
 ७, ३, १७; -णे वैताश्रौ १३,
 ११.
 प्रो(प्र-ऊ)ह्यमान- नः अप्राय
 ३, १.
 प्रौ(प्र-ऊ)ह- पावा ६, १, ८९.
 प्रौह-पाद्- नः शंघ २२६; विघ
 ६८, ४९; गौघ १६, १७; -शे
 कौसू १७१, ४०.
 प्रौ(प्र-ऊ)हि- पावा ६, १, ८९.
 प्र√वा, ङ्ङ्प्र^०वान्ति आश्रौ २, १५,
 २; आमिष्ट ३, ८, २ : १६;
 बौपि १, १५ : २५; हिपि १५ :
 ११.
 प्र-वा^०- -वा वैताश्रौ २२, ४१.
 प्र-वात्- -ते बौश्रौ ९, ३ : २३; १०,
 ६ : १; वैश्रौ १८, १ : ७७.
 ङ्ङ्प्रवाते(त-ए)ज^०-जाः या ९,

८६.
 प्र-वाच्य- प्र√वच् द.
 प्रवाट^० आपश्रौ २४, १४, १२.
 प्र-वाद-, -दिन्- प्र√वच् द.
 प्रवाल^०- पाग २, ४, ३१.
 प्रवाल-वस्त्र-नाश- -शः अप ६७,
 ५, १.
 प्र-वास- प्रम्. प्र√वस् द.
 प्रवास L, ह^० [> ँसि(, ँहि)-
 [र>]नी- पा.] पाग ५, २,
 १३५.
 प्र-वासिन्- प्र√वस् द.
 प्र-वाहण- प्र√वह् द.
 प्रवाहण^०- पाग ४, १, १२३.
 प्रावाहणि-> णायन- पा.)
 पाग २, ४, ६१.
 प्रावाहणेय- पा ४, १, १२३; ७,
 ३, २८.
 प्रावाहणेय- पा ४, १, १२३; ७, ३,
 २८; -याः बौश्रौ १७ : ८.
 प्रवाहा^१ वाश्रौ १, ४, २, ५.
 प्रावाहिका^१ पाग १, १, ३७.
 प्रविक-> प्राविक्य- पा.) पाग ५,
 १, १२८.
 प्र-विग्रह^१- -हेण ऋप्रा १५, १६.
 प्र√विच् > प्र-वेक- -कः निसू ४, २ :
 २८.
 प्र-वि√चर् > प्रवि-चार- > चारा
 (र-अ)र्थ- -र्थस् बौश्रौ २७,
 ११ : १५; २९, ८ : २६.
 प्र√विद्(ज्ञाने), ङ्ङ्प्रविच्च आपमं २,

१९, ७; आमिष्ट ३, १, २ : १; हिष्ट
 २, ११, १.
 ङ्ङ्प्र-विद्वस्- -द्वान् आपश्रौ १६,
 २६, ६; १२×४; वैश्रौ; आमिष्ट ३,
 ५, ४ : ११^m; बौपि १, ३ : २०^m.
 प्र√विद्(लोभे), प्र(अविदत्) ऋच २,
 ३, ५७.
 प्रविदान-कल्प- -व्येन बौश्रौ २४,
 ३२ : १३; १६.
 प्र√विध् व्यध्, प्रविध्यते माश्रौ १, २,
 २, २१; प्रविध्यति आपश्रौ १३,
 २०, १२; १२ ४, ९; १, ७; माश्रौ;
 प्रविध्यन्ति आपश्रौ २१, ५, १३;
 माश्रौ २, २, २, ७; प्रविध्येत्
 बौश्रौ २२, ५ : १०; २२, १० :
 ७; माश्रौ ६, १, ३, ११; द्राश्रौ
 ४, १, ७; ताश्रौ २, १, ६.
 ङ्ङ्प्र-विद्ध- -द्धः माश्रौ १, २, २, २१;
 वाश्रौ १, २, ४, ५६; -द्धस्
 आपश्रौ १, २०, ८; वैश्रौ ४, ७ : ७.
 प्र-विध्य आपश्रौ १३, २०, १४;
 माश्रौ.
 प्र-विध्यन्त^०- > ँन्त-नामन्^०-
 -नामन्ः अत्र ३, २६.
 प्र-व्याघ^०- -वान् आपश्रौ १८, ३,
 १४; वैश्रौ १७, १२ : २; हिश्रौ
 १३, १, ३६.
 प्र-वि√धा > प्रवि-धान- > न-
 शत- -तैः विध २०, ४६.
 प्र√विप्, वेप्, प्रवेपयन्ति हिश्रौ २२,
 ३, १९.^१

a) वैप १ द. । b) पाभे. वैप २, ३ खं. प्रोह्यमाणाय ऐत्रा १, १३ टि. द. । c) पाठः ? (तु. संख्य. टि. L√बी>। शयानः) । d) पाभे. वैप १, २२०५ p द. । e) पाठः ? प्र√वृञ् > प्रवृक् (लुङि मपु१) इति शोधः । सपा. बौश्रौ ३, २८ : १८ प्रवृट् इत्येतदनु शोधार्हः (तु. ऐत्रा ३, ८ प्रमृक्षः L<प्र√मृञ् हिंसायाम्, J, OLZDMG ५६, ५५४) । f) = विद्रुम-, पल्लव- इति पागम. । व्यु. ? । g) भाण्डा. पासि. पाठः । h) तु. पाका. । i) = ऋषि-विशेष । व्यु. ? । j) पाठः ? । सप्र. माश्रौ १, ५, २, १४ विपेशलाः इति । k) प्रबा^० इति भारवा. BFG. । l) प्रास. । m) पाभे. वैप १, २१३४ l द. । n) प्र-विध्यत्- > -व्यन्तः (शौ ३, २६, ४) इत्यस्यानुकरणम् । o) बस. । p) विप. । उप. करणे घञ् प्र. ।

प्रवेपिन्-पिणः या ९, ८.
 प्रवि/भञ्ज > प्रवि-भक्त->
 क्त-त्व- -त्वात् मीसू ९, ४, १;
 १०, ४, ४२.
 प्रवि-भञ्ज वृद्धे २, १०६; या २, २.
 प्रवि-भञ्जमान- -नः आशि १, १.
 प्रवि-भाग-> -ग-ञ- -ञः चव्यू
 २: ४०.
 प्र-वि/मुच् > प्रवि-मुक्त-> -क्त-
 पाप्- -पः अप ११, २, ५.
 प्रविमुक्त-व(त्स) > -त्सा-
 -त्सायाः गो २, २२.
 प्रवि-मुच्य अप १३, ३, ११.
 प्रवि/यु > प्रवि-युत- -त्म् या ९,
 २६.
 प्र-वि/ली, प्रविलीयते अप ६९, ९, ३.
 प्र-वि/वृत्, प्र(विवाहते) सात्र १,
 ५१^१.
 प्र/विश्, प्रविशति शाश्रौ १५, १७,
 १^१; १७, १३, ११; काश्रौ;
 प्रविशतः वैश्रौ १४, १६: ४;
 प्रविशन्ति काश्रौ १०, ४, १^१;
 ९, २६; आपश्रौ; ङप्रविशामि
 आपश्रौ १६, १९, १^१; वैश्रौ १८,
 १६: ७; ८^१; ९; हिश्रौ; प्रविशा-
 मसि कौसू १०४, २^१; ङप्रवि-
 शतु वौग १, ४, ३; मागृ १,
 १७: ११x४; प्रविशतात् पागृ
 १, ८, १२^१; ङप्रविशस्व बौश्रौ
 २७, ७: ५; अप २२, ९, २;
 ङप्रविशा आपश्रौ ३, १४, ३^१;
 सु ३०, ६; बौगृ २, ६, १०; गोगृ
 २, ८, १४; ङप्रविशतम् कौसू
 २२, ९; अत्र ३, ११^१; ७, ५३;
 ङप्रविशानि आपश्रौ ९, ६, १२;

१४, २६, १; वैश्रौ; प्राविशत्
 बौश्रौ १८, ३३: ११^१; वाधूश्रौ
 ४, ३०: १३; ६४^१: २; वृद्धे ७,
 ६२; प्राविशताम् वाधूश्रौ ४,
 १९: २८; ङप्रविशाः आपश्रौ
 १, ६, १; बौश्रौ; प्रविशेत् जैश्रौका
 ६३; द्राश्रौ १२, १, १५x४;
 लाश्रौ; प्रविशेयुः द्राश्रौ ४, ३,
 १०x४; लाश्रौ; प्रविशेयम् सु
 ३०, ५.
 प्रविशेत् कौसू २२, ९^१; प्रवेक्ष्यति
 आपमं २, ७, १९^१.
 प्रवेशयति काश्रौ ६, ३, १४x४;
 आपश्रौ; प्रवेशयन्ति काश्रौ ७,
 ९, २८; कागृ ५२, ९; प्रावेशयन्
 बौश्रौ १४, १: ७; प्रवेशयेत्
 आपश्रौ १९, १७, १७; बौश्रौ १४,
 १५: १९; २२, ३: २६; हिश्रौ;
 प्रवेशेयुः लाश्रौ ८, ९, १७.
 प्र-विशिविष- वांसम् तैप्रा १६,
 १३^१.
 प्र-विशत्- -शन् हिश्रौ १०, २, १;
 निसू ४, ३: ९; कौगृ ३, ४, २;
 शागृ ३, ५, २; -शन्तः द्राश्रौ ३,
 १, १०; लाश्रौ १, ९, १०; शंघ
 ३४५; -शन्तम् आपश्रौ १२,
 २६, १६; वैश्रौ १५, ३४: ३;
 हिश्रौ ८, ८, १०.
 प्र-विशिवस्- -वांसम् अप्रा २, ३,
 १९^१.
 प्र-विश्य काश्रौ ५, ९, १८x४;
 आपश्रौ.
 प्र-विष्ट, ष्टा- -ष्टः आश्रौ २, ९, १०;
 ८, १४, ४; काश्रौ; -ङष्टम्
 आपश्रौ ४, ८, ३; भाश्रौ ४, १२,

२; हिश्रौ ६, २, १९; -ङष्टा
 बौश्रौ २, ६: २७; १०, १३:
 २०; आपमं; -ङष्टाः आपश्रौ
 १, ८, ७; ४, १, ८; भाश्रौ; -ष्टान्
 अप ७०^३, ६, ३; -ष्टाम् आपश्रौ
 ५, १, ७^१; -ष्टायाम् विध ६, ७;
 -ष्टे मागृ २, १७, १; वैगृ ७,
 ५: ११; १२; विध ६, २५;
 -ष्टेऽष्टे आपगृ १५, ६^१; -ष्टेषु
 द्राश्रौ १५, १, १७; लाश्रौ ५, ९,
 १५; -ष्टौ आमिगृ १, ५, ४: ४९.
 प्रविष्ट-भस्मन्- -स्म वैश्रौ १८,
 ११: १४.
 प्र-वेश- -शः कौसू १४०, २; -शम्
 अप ७१, १५, ९; -शे आज्यो ५,
 २.
 प्रवेशा(श-आ)दि- -दि जैश्रौका
 १५७; १८३.
 प्र-वेशक- -कम् वैध १, ९, १५.
 प्र-वेशन- पाग ५, १, ९७; १११;
 -नम् काश्रौ ४, १५, २८; ११,
 १, २२; बौश्रौ १४, १५: १९;
 पागृ.
 प्रावेशन- पा ५, १, ९७.
 प्रवेशन-संमार्जन- -ने द्राश्रौ ३,
 ४, ३५; लाश्रौ १, १२, २०.
 प्रवेशना(न-आ)दि- -दि पागृ.
 ३, १०, ३७.
 प्रवेशनीय- पा ५, १, १११.
 प्रवेशनो(न-ञ)पवेशन- -ने द्राश्रौ
 ४, ४, ७; लाश्रौ २, ४, ३.
 प्र-वेशित- -तेषु द्राश्रौ १५, १, १४;
 २, १०; लाश्रौ ५, ९, १२; १०,
 १०.
 प्र-वेश्य काश्रौ १०, ७, ३x४; काश्रौ;

a) बस. । b) पामे. वैप १, २२०७ e द्र. । c) शक्ति इति पाठः? यनि. शोधः (तु. चौसं.) ।
 d) पामे. वैप १, २१८१ j द्र. । e) ष्त इति पाठः? यनि. शोधः (तु. शौ ३, ११, ५) । f) पामे. पृ १७१९ k
 द्र. । g) पामे. वैप १, २२०८ d द्र. । h) कस.।

कौट १, ९, १३^३.

प्र-वेश्यमान, ना- नम् द्राश्रौ १४,

१, १७; लाश्रौ ५, ६, १; -ना:

द्राश्रौ ३, १, ८; लाश्रौ १, ९, ८.

प्र-वेष्टव्य- -व्यम् आश्रिण् २, ६, २:

४; बौध २, ५, २; आज्यो १०, ७.

प्र√वी > प्र-व(व्य) > यया- पा ६,

१, ८३.

प्र-वी(त) > ता- -ता हिश्रौ १३, ३,

४०.

प्र-वीयमा(ण) > णा- -णा हिश्रौ

१३, ३, ४०.

प्र-चीण- पाग २, १, ४०.

प्र-चीय प्र√व्ये द्र.

प्र√वृ (वरणे), प्रवृणीते आश्रौ १,

३, १; काश्रौ ३, २, ७; ९, ८,

७; आपश्रौ; ऋप्र(वृणीमहे)

वृदे ६, ४३; साञ्ज १, ५९^७;

प्रवृणीष्व वाश्रौ १, १, ५, ११^१;

प्रवृणीत आश्रौ १२, १३, ३;

आपश्रौ २४, १०, १७; बौश्रौ

२४, २८ : ६; प्रवृणीयात् बौश्रौ

२०, १२ : २६; माश्रौ १, ३, १,

२८; प्रवृणीरन् आश्रौ १२, १५,

५; आपश्रौ २४, १०, १२; १३;

हिश्रौ.

प्रवरयेत् बौश्रौ २४, २८ : ६.

१ प्र-वर^०- पाग २, ४, ३१; -र:

आश्रौ १२, १३, ५^६; आपश्रौ;

वैध ४, ८, ४६; आज्यो १३, ७^६;

-रम् आपश्रौ २४, ११, १७;

बौश्रौ १, १५ : २६××; भाश्रौ;

-रयो: भाश्रौ ४, १३, १; -रस्य

हिश्रौ २१, २, ९; मीस् ३, ५,

४७; -रा: आश्रौ १२, १०, ५;

बौश्रौ ५४ : ११; द्राश्रौ ३,

४, ३३; लाश्रौ १, १२, १९;

-राणाम् वैध ४, १, २; -रात्

आपश्रौ ७, १४, ३; ८, १४,

२०××; बौश्रौ; -रान् आपश्रौ

२४, ५, १; २६, २५ : १५;

बौश्रौप्र; -राय आपश्रौ २, १५,

१; ३^१; भाश्रौ; -रे आपश्रौ

३, १९, ३; काश्रौसं ३२ : ११;

बौश्रौ; वैताश्रौ २, १५^१;

-रेण आपश्रौ २, १६, १०; २४, ५, ९^१;

साश्रौ; -रेषु बौश्रौप्र २ : ४;

-रै: वाधुश्रौ ४, ८५ : १२.

प्रवर-काल- -ले वैध ४, १, ३.

प्रवर-ज्ञान- -ने बौश्रौप्र ५४ : १६.

प्रवर-वत् मीस् ३, ५, ४५.

प्रवर-शेष^१- -ष: वैश्रौ ६, ५ :

३; हिश्रौ २, १, ५९; -षम्

आपश्रौ २, १६, ११.

प्रवर-संवादा (द-आ) श्रावण-सं-

प्रैष- -षेभ्य: हिश्रौ १, १, २६.

प्रवरा (र-अ) ध्याय- > ध्यायो-

(य-उ) कथशास्त्र-कृतुसंख्या-नि-

गम- -मा: चव्यू २ : ३१.

प्रवरा(र-आ) लुपूर्य- -र्यम्

बौश्रौ १६, २ : १०; -व्येण

शाश्रौ ६, ९, १६.

प्रवरो(र-ऊ) ह-नामधेयग्रहण-

-णानि आपश्रौ २४, १, ३५.

प्र-वरण- > ण-वेला- -ल्लायाम्

वाश्रौ ३, २, १, २१.

प्र-वरिखा आश्रौ ४, १, १७.

प्र-वर्यमाण- -णे वाश्रौ १, १, २, ३१.

प्र-वृणान- -नम् आश्रौ १, ३, २३^१.

प्र-वृत्- -वृत्तम् वैताश्रौ २६, ८^१;

-वृत्ते माश्रौ १, ८, ३, १४; २;

१, ५, १७; २, ५, ७.

प्र-वृत्- -न्त: शांश्रौ १, ६, २; बौश्रौ

९, १८ : २९; -त-ऽत: आपश्रौ

११, २०, १; बौश्रौ ७, ९ : १३;

माश्रौ २, ३, ६, १८; हिश्रौ ७,

८, ४४; -ता: वैताश्रौ १८, ५.

प्रवृत्-होम^१- -मयो: लुस् १,

८ : १४; -मान् जैश्रौ १० : ३;

-मौ काश्रौ ९, ८, १५^१; आपश्रौ

११, २०, १; द्राश्रौ ३, ३, १७;

लाश्रौ १, ११, ९^१.

प्रवृत्ता(त-आ) हुति- -तिम्

बौश्रौ १४, २१ : २७; -ती शांश्रौ

६, ९, १६; ९, १९, ४; बौश्रौ १४,

५ : ३७; -ती: आश्रौ ३, १,

१३; ५, ३, १२; बौश्रौ ७, ९ :

१४; वैताश्रौ १८, ५.

१ प्र-वृत्त्य काश्रौ ६, ४, ३; भाश्रौ.

प्र-वियमाण- -णम् बौश्रौ ३, १८ :

२; -णयो: भाश्रौ ४, १३, १;

-णे वैताश्रौ २, १५^१.

प्र√वृ(आच्छादने) > २ प्र-वर- पा ३,

३, ५४.

प्रा(< प्र) वरण^१- -णम् बौश्रौ

१७, ३९ : ४^३; अप १, ४९, ५;

अशां १३, ३; आपध.

प्रा(< प्र) वार^१- -रम् पा ३, ३,

५४; आश्रिण् १, ३, १ : ४^३.

a) पामे. पृ १७१२ j द्र. । b) पामे. वैप १, २२०९ a द्र. । c) = प्रधान-पुख- । भावे कर्मणि वा कृत् । प्रास. इत्यपि प्रवादः (तु. आज्यो.) । d) भाप. । e) पृ १२१६ e द्र. f) विप. (ल. प्रकृष्ट- । पुत्र-) । g) पामे. वैप १, २२०९ e द्र. । h) पूष. = प्रवर-निगद- (तु. रुद्रदत्तः) । i) सप्त. वा मलो. कस. वा । j) ञ्च इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. PW.) । k) पामे. वैप १, २२०९ f द्र. । l) उप. भावे करणे वा कृत् । m) परस्परं पामे. । n) उप. करणे कृत् ।

प्रा(<प्र)-वृत्,ता- -तः काश्रौ २२,
६, ४; आपश्रौ २२, ७, २४;
जैश्रौ; -तस् अप ३३, ६, ५;
-ता अप्रा ३, ४, १; -ताः या
१४, १०[†]; शुप्रा ५, ३७; -तास्
गोगृ २, १, १८.

प्रावृत्-कण्ठ^० -णठः बौध १,
५, १५.

प्रा(<प्र)-वृत्त्य आपश्रौ ७, २४, ९;
हिश्रौ १७, ३, २३; कप्र.

प्र√वृह्, वृह् (वधा.), प्रवृहेते^० अप
६३, २, ७.

प्रवृहति^० आपश्रौ १२, ७, १९;
माश्रौ; प्र(वृहथः) वृदे ४, ८४[†];
†प्रवृहामि^१ वाश्रौ ३, ५, ३;
चात्र ३० : २५; †प्रवृहन्तु^१
आपश्रौ १२, ८, १; वैश्रौ १५,
१० : १; प्रवृहेत् बौश्रौ २३, ५ :
३३.

प्रवृहयति काश्रौ ८८^०.

प्र-वृहण- -णे बौश्रौ २३, ५ : ३३.

प्र-वृह्य आपश्रौ ७, २०, ४; २३, ७;
काश्रौ.

प्र-वृक्- प्र√वृज् द्र.

प्र√वृज्, प्रवृणक्ति^१ आपश्रौ १५,
१२, १०; १२; १६, ९, ४;
बौश्रौ; प्रवृज्जन्ति माश्रौ २, २,
१, १४; ४, १, ४, प्रवृद्धि सु
१५, ३; प्रवृज्यात् काश्रौ १६,
७, ६; २६, ७, ५२; आपश्रौ.

प्रवृज्यते वाधुश्रौ ३, ९ : २०;
या ५, २८; ८, ९.

†प्रवावृजे शुभ्र ३, २०५; या ५,
२८^{कृ}.

प्र-वर्ग^१ -र्गे शुभ्र ४, १७४.

प्रावर्गिक^१ -कस् बौश्रौ २०, २;
४; -कात् बौश्रौ २०, २ : ३.

प्र-वर्ग्य^१ -र्ग्यः शांश्रौ ५, १०, ३५;
१४, ४०, १८; बौश्रौ; वागृ ७,
१७[†]; -र्ग्यस् शांश्रौ ५, १०, ३६;
काश्रौ ८, ३, १८^क; आपश्रौ;

बौश्रौ ९, १९ : १५[†]; बौगृ ३,
४, ९[†]; मागृ १, २३, २१[†];

-र्ग्यस्य बौश्रौ ६, २० : १××;
माश्रौ २, २, ५, २८; वैश्रौ १६,
४ : २; -र्ग्यात् वैताश्रौ ४, २३;

-र्ग्याय आपश्रौ १५, २१, १५;
बौश्रौ ९, १९ : ६[†]; २० : २६;
माश्रौ; बौगृ ३, ४, ३[†]; -र्ग्ये

आपश्रौ १५, २, ९; १३; १६,
२४, १५; बौश्रौ; -र्ग्येण आश्रौ

४, ६, १; काश्रौ; आपश्रौ १५, ६,
१[†]; बौश्रौ ९, ६ : १[†]; १२ :

९; २३; १७ : ३; माश्रौ ११,
६, १[†]; वैश्रौ १३, ७ : २६[†];

हिश्रौ २४, २, ७[†]; जैश्रौ २३ :
५[†]; -र्ग्येषु हिश्रौ १७, ४, १६;

वृदे ५, ३५.

प्रवर्ग्य-कल्प- -ल्पम् माश्रौ ४,
१, १; -ल्पे मागृ १, ४, १४.

प्रवर्ग्य-चरण- -णम् काश्रौ २६,
२, २.

प्रवर्ग्य-देवता- -ताः बौश्रौ ९,
१९ : १४; २१; ३०; ४०××;

बौगृ; -ताभ्यः बौश्रौ ९, १९
५××; बौगृ.

प्रवर्ग्य-पशु-कर्मन्- -र्मणि
जैश्रौका ३४.

प्रवर्ग्य-पात्र- -त्राणि आश्रौ १२,
४, ५; वैश्रौ १३, ६ : ११;

-त्रेभ्यः आपश्रौ १५, १, १२;
भाश्रौ ११, १, १७; वैश्रौ १३, १ :

१८; हिश्रौ २४, १, ८.

प्रवर्ग्य-प्रायश्चित्त- -त्तानि वैश्रौ
१३, १४ : ९.

प्रवर्ग्य-वत् बौश्रौ १९, १० : १४.

प्रवर्ग्य-वत्- -वति काश्रौ
१०३; बौश्रौ ९, १८ : १; वैश्रौ;

-वान् आश्रौ ५, १३, १; शांश्रौ.
प्रवर्ग्य-वती- -त्यः माश्रौ ६,
१, ५, २६.

प्रवर्ग्य-संभरण- -णे वैश्रौ १८,
१ : १५.

प्रवर्ग्य-संभार- -रान् वैश्रौ १३,
८ : ३.

प्रवर्ग्य-सामन्^१ -स्रः द्राश्रौ ६,
४, २; लाश्रौ २, १२, २.

प्रवर्ग्य(र्ग्य-अ)नुवाक्य^१ -क्येन
वाश्रौ २, २, ३, २५.

प्रवर्ग्य(र्ग्य-अ)र्थ- -र्थस् जैश्रौका
४६; -र्थान् वैश्रौ १३, ७ : ८.

प्रवर्ग्य(र्ग्य-आ)वर्त-भूषण^०-
-णः विध १, ८.

प्रवर्ग्य(र्ग्य-उ)सादन^१- -नम्
काश्रौ १८, ३, ९; २६, ७, १.

प्रवर्ग्य(र्ग्य-उ)द्वसन- -नानि

a) बस. । b) धा. वृद्धौ वृत्तिः । c) धा. हिंसायां वृत्तिः । d) पामे. वैप १, २२१० p द्र. ।

e) सप्र. काश्रौ ७, ९, २३ उद्बृहति इति पामे. । f) वैप १ द्र. । g) = प्र-वर्ग्य- । उप. कर्मणि प्र. ।

h) = पयस्- । तान्नमविकृष् ठक् प्र. । i) = कर्म-विशेष- (आश्रौ ४, ६, १ प्रभृ.) । उप. अधिकरणे प्र. । शिष्टं वैप

१ द्र. । j) सप्र. ष्यः<> ष्यम् इति पामे. । k) = (उपचारात्) पात्र- (तु. विद्याधरः) । l) = (उपचारात्)

देवता- । m) पामे. वैप १, २२०९ j द्र. । n) कस. । o) विप. (विष्णु-) । षस.>बस. । आवर्त- = माला-

(तु. कृष्णपरिडतः) । p) = कर्म-विशेष- । बस. पूष. = पात्र- ।

जैश्रीका ३४.

प्रवर्ग्यो(र्ग्य-उ)द्वासन- -ने

जैश्रीका ६८.

प्रवर्ग्यो(र्ग्य-उ)पसद्- पाग २,
४, १४; -सदः द्राश्रौ १४, ३, ९;
लाश्रौ ५, ७, ८; -सदोः वाश्रौ
२, २, ५, १७; -सदौ काश्रौ ८,
२, १४; आपश्रौ ११, ४, ११××;
बौश्रौ; -सद्भ्याम् आपश्रौ ११,
४, १; १५, १२, ४; बौश्रौ ६, २१:
२४××; भाश्रौ.

प्रवर्ग्योपसच्-चित्ति-होम^१-

-मः हिश्रौ १२, १, १.

प्रवृक्त- -क्ते बौश्रौ २९, ११ : १८.

प्रवृज्य आपश्रौ ९, २०, १; १५,
१२, १३××; बौश्रौ.

प्रवृज्य- -ज्यः आपश्रौ १५, १८,
१३-१५; भाश्रौ ११, १९, २; ६.

प्रवृज्यमान, ना- -नस्य आपश्रौ ९,
१२, ९; -नायाम् हिश्रौ १०, ८,
१२.

प्रवृञ्जन- -नम् आपश्रौ १५, १८,
११; भाश्रौ ११, १९, १; -नानि
भाश्रौ ११, १९, ७; -ने बौश्रौ
१७, २८ : ४; २२, २ : १३;
-नैः आपश्रौ १५, १८, १६;
भाश्रौ ११, १९, ७.

प्रवृञ्जनीय- -यम् काश्रौ २६,
७, १४; बौश्रौ ९, ५ : १६; वैश्रौ
१३, ७ : २४; -ये बौश्रौ ९, ५ :
२२××; वैश्रौ १३, ९ : ७; -यौ
काश्रौ २६, ७, ४१.

प्रवृञ्जनीयो(य-उ)द्वासनीय-

-यौ वैश्रौ १३, १५ : ९.

प्रवृट्^b बौश्रौ ३, २८ : १८.

प्रवृत्, प्रवर्तते लाश्रौ १०, ३, १३;
निसू ९, १० : ११; बौपि; प्रवर्तते
आश्रौ ७, १, ११; प्रवर्तन्ते याशि
२, ७८; प्रवर्तते वेगु ६, १३ : ५;
द्रागु ४, २, ७; अयः प्रवर्तैरेन् गोश्रु
४, ७, ३; मीसू ६, २, २३; २४.
प्रवर्तयति बौश्रौ २, १७:४७××;
माश्रौ; प्रवर्तयन्ति आश्रौ ४, ९,
१; आपश्रौ ११, ६, ११; बौश्रौ;
प्रवर्तयामि आपश्रौ १२, १६, ७;
प्रवर्तय ऋश्रु २, ७, १०४; वृदे
६, ३१; अश्रु ८, ४; प्रवर्तयेत्
काश्रौ २५, १४, ८; आपश्रौ १२,
१६, ७; बौश्रौ; प्रवर्तयेयुः बौश्रौ
१४, ३ : २; वैश्रौ १४, ५ : १८;
तेषां ४, ५२कं.

प्रवर्त- -र्तम् आपश्रौ १९, २३,
११; १३; २४, २; बौश्रौ १३,
३१ : ६××; आशिगु १, ३, ४ :
१८; -तौ बौश्रौ १७, २९ : ५;
४१ : १२; जैश्रौ.

प्रवर्तक- -कः शंघ ३७८.

प्रवर्तन- -ने बौघ २, १, ७.

प्रवर्तम् आपश्रौ ११, ८, २; हिश्रौ
७, ५, २७; ७, २१.

प्रवर्तमान- -नम् बौश्रौ १७, ४३ :
३; आशिगु १, ४, १-१६; शंघ ८३.

प्रवर्तयत्- -यन् वैघ २, ५, ५; वृदे
२, ६१.

प्रवर्तयन्ती- -न्तीम् गोश्रु २,
१, १९.

प्रवर्तित- -तः मीसू १०, ३, ४;
-तम् अय ३७, १९, २.

प्रवर्त्यमान- -नम् वाश्रौ ३, ४, १,
५०; -कान्भ्याम् वाश्रौ ५, १३,
२; काश्रौ ८, ४, १; आपश्रौ ११,
६, १०^३; बौश्रौ ६, २५ : १;
माश्रौ २, २, २, १६; वैश्रौ १४,
५ : १६; हिश्रौ ७, ५, ५^२; -ने
द्राश्रौ १४, ४, १५; लाश्रौ ५,
८, १४; वैताश्रौ १५, ११.

प्रवृत्^d- -वृत्, -वृत्तम्, -वृत्ते
वैताश्रौ २६, ८कं.

प्रवृत्त, चा- -त्तः बौश्रौ ९, १७ :
६; १४, ७ : १××; शंघ ३७७ :
३; बौघ ४, ७, १; -त्तम् काश्रौ
१, ४, १४; बौश्रौ; -त्तस्य वैश्रौ
१४, १६ : ५; हिश्रौ; -त्ता
अप्राय ६, ३^१; विघ २३, ६१;
-त्ताः अप्राय ६, २; -त्तानाम्
अय ६४, ४, ७; -त्तानि आपघ २,
२२, ३; २३, २; हिघ २, ५,
१३३; १५७; -त्तायान् बौश्रौ
२९, ११ : ९; जैश्रीका ६४; -त्ते
आश्रौ १२, ४, २२; शांश्रौ; या
१, ९; -त्तेषु शांश्रौ १३, ३, १;
-त्तौ शांश्रौ १६, १८, ८.

प्रवृत्त-त्व- -त्वात् मीसू ३, ५,
४७; ८, १, ३^०; ४, १८^०; ९, ४, ३९.
प्रवृत्त-वरण^e- -णात् मीसू १२,
१, ३५.

प्रवृत्त-शि(खा >)ख^६- -खाः
आगु ४, २, ९^६.

प्रवृत्त(त्त-अ)प्र^f- -प्रान् वाघ

a) मलो. कस. > सस. । b) पृ १७२९ e द्र. । c) पाभे. वैप २, ३खं. प्रवर्त्यमानाभ्याम् टि. द्र. ।
d) वैप १ द्र. । e) प्रवृत्तित्वात् इति जीसं. प्रसृ. । f) सस. । g) विप. (अमात्य-) । बस. पूष. = विलस्त- ।
h) सप्र. आश्रौ १०, ८, ८ इतरान् प्रवृत्त्य इति, बौपि १, ३ : १६; २३ प्रकीर्णकेशाः इति, हिपि १ : १५ केशान्
प्रकीर्य इति, हिपि २ : १३ सव्यान् प्रसृत्य इति, बौपि १, ४० सव्यतः केशान् प्रकीर्य इति च पाभे. । i) विप. ।
बस. पूष. = छिन्न- ।

१५, १२.

प्रवृत्ता(त-अ)तिपत्ति- -त्तौ
अप्राय ४, ४.

प्रवृत्ता(त-आ)शिन^२- -शिनः
बोध ३, ३, ९; ११.

प्र-वृत्ति- -त्तयः कौट १, ३, १०;
शांणु १, ८, ५; -त्तिः शांश्रौ ३,
१९, ७; कौसू; वैध १, ९, १२;
१३; मीसू ६, ३, १; ७, १, ७;
-त्तिभिः या २, २१; १३, १३;
-त्तेः काश्रौ १, २, ११; मीसू ९,
४, ५४; -त्तौ माश्रौ १, ३, ५,
२९; पावा; मीसू १०, ८, ६०^३;
-त्त्या मीसू ५, १, ८; ४, ३; ६, ५,
११; ७, ४, १९.

प्रवृत्ति-कारण- -णम् आपध १,
४, ९; हिघ १, १, १२८.

प्रवृत्ति-तस् (-) पावा ३, १, ७.

प्रवृत्ति-लक्षण^०- -णः हिश्रौ ३,
१, २४.

प्रवृत्ति-लिङ्ग^१- -ङ्गेन मीसू ८,
३, ४.

प्र-वृत्त्य^० आश्रौ १०, ८, ८^१; कौसू
२४, २१^१.

प्र-वृत्तिक^०- -कानाम् सुध ५.

प्र√वृध्, प्रवर्धते अप १, ९, ५; ७;
प्रवर्धन्ते वाधूश्रौ ४, १०३^२;
१०; अप ६६, ३, ४; प्रावर्धन्त
वाधूश्रौ ४, १०३^२: ९.

प्रवर्धन्ते वाधूश्रौ ४, १०३^२: ९.

प्रवर्धयति हिश्रौ १३, ३, ३^१.

प्रवर्धयते या ११, ६; ३६; प्र-
वर्धयति आपश्रौ १६, १७, १२;
१८, १२, १; वैश्रौ; प्रवर्धयन्ति
हिश्रौ १३, ५, १; प्रवर्धयतु या

१०, ३५; प्रवर्धयन्तु या १२,

३९; प्रवर्धय या ४, ७; १०, ४०;

११, ३०.

प्र-वर्धन- -ने अप ७२, ३, १०.

प्र-वर्धमान- -नः अप १८^२, १, १.

प्र-वृद्ध, द्वा- पाग ६, २, १४७; -द्वाः

अप १, ६, ९; -द्वाम् या ११,

११; -द्वाः अप ६५, १, ९.

प्रवृद्ध-चेतस्^०- -तसः या ९,

२०; -ताः या ८, ५.

प्रवृद्ध-प(द>)दा^१- -दा निसू

१, ४: ८.

?प्रवृद्ध-स्कन्धशाखा(खा-अ)-

न्वित-पावनि(?)तलरुह-

-हान् अप ६५, १, ९.

प्र-वृद्धि- -द्धये अप १, ४०, ३; -द्धौ

काश्रौ ३, २, २२; ५, १५; ८, ३, ४.

प्र√वृश्च् (<वृश्च्) प्रवृश्चति

आपश्रौ १४, १४, १; वौश्रौ १४,

१८: १४; प्रवृश्च अत्र १२, ५

(७)†; प्रवृश्चेयुः वौश्रौ १४,

२८: ४; ५.

प्र√वृष्, प्रवर्षति अप ६२, ४, ३; ६५,

१, ८××; प्र-वर्षति कौसू

१२७, ११; प्रवर्षेयुः अप ५९, १,

१८.

प्र-वर्षण- -णे अप ७१, १, ५.

प्र-वर्षत्- -र्षति विध ६३, ४३.

प्रा (<प्र) -वृष्^१- पाउवृ २, ५७;

-वृट् आपश्रौ ८, ४, १३†;

-वृषा आश्रौ ४, १२, २†;

-वृषि काश्रौ ६, १, १; आपश्रौ.

प्रावृट्-काल- -ले विध ७८, ५२.

प्रावृट्-शरद्- -रदौ वैश्रौ १,

१९: १३.

प्रावृषिक- पा ४, ३, २६.

प्रावृषि-ज- पा ६, ३, १५.

प्रावृषीण^१- -णे वाधूश्रौ ३, ६९:

८.

प्रावृषेण्य- पा ४, ३, १७.

प्र√वृह् प्र√वृह् द्र.

प्र√वृ, प्रवयति काश्रौ १५, ५, ४;

आपश्रौ २१, १७, ९; वौश्रौ;

प्रवयन्ति शांश्रौ १७, ३, ७.

प्रो(प्र-उ)-त- -तम् बोध २, ७, १५.

प्रो(प्र-उ)त्य वौश्रौ १७, ४१: ६;

१२; आग्निगृ.

प्र-वेक- प्र√विच् द्र.

?प्रवेणतः^१ वौश्रौ २६, ५: ३०.

प्र√वेप्, प्र-वेपिन्- प्र√विप् द्र.

प्र-वेशा-^०वेसाक- प्रश्. प्र√विश् द्र.

प्र√वेष्ट्, प्रवेष्टयते हिश्रौ १०, २, ९;

प्रवेष्टयति वौश्रौ ४, ४: ३९××;

माश्रौ; प्रवेष्टयन्ति वौश्रौ ११,

६: २७; १२, ७: ३७; प्रवेष्ट-

येत् आपश्रौ ७, ११, ८; वौश्रौ

१७, १३: १३; हिश्रौ ४, २, ७०.

प्र-वेष्ट्य आपश्रौ ७, ११, ९; वौश्रौ

१, ३: ३; हिश्रौ.

प्र-वेष्टव्य- प्र√विश् द्र.

प्र√व्यथ् > प्र-व्यथित- -तः वृदे ५,

१८.

प्र√व्यघ्, प्र-व्याघ- प्र√विध् द्र.

प्र√व्ये > प्र-वीय आपश्रौ ७, ११, ९.

प्र√वृज्, प्रवृजते काठश्रौ ३४; प्रवृजति

आपश्रौ २४, १२, १०; वाधूश्रौ

२, ६: ४; वैश्रौ; प्रवृजामि वाधूश्रौ

३, ५: ३; प्रवृजेत् आश्रौ २, ५,

a) = वानप्रस्थाविशेष-।

b) प्रकृतौ इति जीसं.।

c) बस.।

d) प्रवृत्^० इति आन.।

e) धा. विहंसने वृत्तिः। f) प्रवृत्त्य इति आन.। g) पासे. पृ १७३३ h द्र.। h) प्रवृत्त्य इति संस्कृतुः टि.।

i) प्रवृत्त्यति इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र. आपश्रौ १८, १२, १ प्रवर्धयति इति पासे.)। j) वैप १ द्र.।

k) विप. (आधृत्य-।) ख > ईनः प्र. उस्. (पा ४, ३, १७)। l) पाठः? प्रवृणतः (उभयोः पार्श्वयोः) इति भवस्वामी।

४; शांश्रौ १६, १६, १; बौश्रौ;
प्रव्रजेरन् वाध १९, ३४; प्रव्रजेयुः
लाश्रौ ८, ८, ६; भायु २, २७ : १.
प्रवव्राज बौश्रौ १८, ४४ : २२;
४७ : १६.
प्र...व्रजेयुः^a वाधूश्रौ ३, १०६;
७.

प्र-व्रजन्- -जत्सु शांश्रौ ५, १०, १४;
-जन् वाधूश्रौ ४, ८९ : ३३;
द्विगु १, १६, १७^b.

प्र-व्रजन- > न-मन्त्र- -न्त्रः वाश्रौ
३, २, ६, ४५.

प्र-व्रजित्, ता- पाग २, १, ७०; -तः
आपध १, १८, ३१^c; -तस्य
बौश्रौ २०, २३, ६; -तायाः विध
३६, ७; -तायाम् बौश्रौ १८,
४५ : १३; ३२; -ते वाध १९,
३७; विध ६, २७; गौध १८, १७
प्रव्रजिता-गमन- -ने शंघ ३७७;
१९.

प्र-व्रजिष्यत्- -ष्यतः लाश्रौ १०,
१९, ११.

प्र-व्रज्य विध ९६, १.

प्र-व्राज^d- -जम् बौश्रौ १८, ४४;
२३.

प्र-व्रियमाण- प्र०वृ (वरणे) द्र.

प्र०वृत्ति, वृत्ती, प्र...अवृत्तीनात् वाधूश्रौ
४, ३० : २^e; ४; प्रवृत्तिनीयात्
आपश्रौ १३, ७, १२.

प्र०शंस, ऋप्रशंसति शांश्रौ १२,
१६, १; काश्रौ १३, ३, ७; आपश्रौ;
या ९, ८; प्र...शंसति तैप्रा ७,
१६^f; प्रशंसन्ति बौश्रौ २, १४;
९; १५, ४ : ६; वैश्रौ; प्र...

शंसामि या ५, ९^g; ऋप्र(शंसामि)
आश्रौ ३, १३, १४××; शांश्रौ;
प्रशंस > सा ऋप्रा ७, ३१;
प्रशंसेयुः वाध २१८.

प्रशशंस ऋध २, ५, ६१; ऋप्र-
शंसिषः छुसू १, ३ : १५; या
१४, २८^h; ऋप्रा १८, २; प्र-
शंसीः या १४, २८; ऋप्र...
शंसिषम् आश्रौ ६, २, ६; आपश्रौ
१४, २, १३; बौश्रौ १७, ३ : ४;
द्विगु ९, ७, २१; ऋप्र (शंसिषम्)
आश्रौ ६, ४, १०; शांश्रौ.

प्रशस्यते कप्र १, ६, १२××; अप;
ऋप्र (शस्यते) ऋध २, १,
१३८; वृदे ४, ७; प्रशस्यन्ते या
९, ९.

प्र-शंसत्- -ऋसन् आपध २, २४, ९;
बौध २, ६, ३६ⁱ; द्विगु २, ५,
१७३.

प्र-शंसा- -सा आपश्रौ २४, १, ३३^j;
बौश्रौ २, १५ : ६××; द्विगु;
-साम् या ४, २४; ९, १०;
-सायाम् पा ३, २, १३३; ५, ३,
६६; ४, ४०; ६, २, ६३; ७, १,
६६.

प्रशंसा-कीर्तन-गान-शेषण-

वृत्ति^k- -त्तिः वैध ३, १३,
११.

प्रशंसा-नामन्- -म या ५, ८.

प्रशंसा(सा-अ)र्थ- -र्थम् मीसू
१०, ८, ६८.

प्रशंसा-वचन- -नैः पा २, १,
६६.

प्र-शंस्य वैगु ४, ११ : ५.

प्र-शस्त, स्ता- -स्त बौश्रौ ९, ७ :
२^l; -स्तः बौश्रौ २३, ४ : २२;

अप ७०^m, २, ५; द्विगु २, ५,
७५ⁿ; -स्तम् आपश्रौ १४, १६,
१; १९, ३, २; बौश्रौ; द्विगु १, ८,
३२^o; या ५, १०^p; -स्ता अप

२६, ४, १; ३०, १, ४;
आज्यो ६, ४; -स्ताः बौश्रौप्र
१४, १; आप्र २, १०, ८^q;

भायु; -स्तानाम् वाध १४,
१५^r; गौध १७, १; -स्तानि
अप १, ३१, ३; विध ७९,
२२; गौध २७, १२; -स्ताम्

ऋप्रा १५, १; -शस्तः^s आपध
२, १९, ३^t; -शस्तम्^u आपध
१, ३१, १२^v.

प्रशस्त-मङ्गल्य-देवायतन-चतुष्प-
था(थ-आ)दि^w- -दीम् गौध
९, ६६.

प्रशस्त-लक्षण^x- -णम् अप १,
४२, ३.

प्रशस्त-स्वप्न^y-ता- -ताम् अप
६८, ३, ८.

प्रशस्तो(स्त-उ)र्वी-समुद्भव^z-
-वः कप्र १, ७, १.

ऋप्र-शस्ति- -स्तयः आपश्रौ १४,
३३, ६^{aa}; माश्रौ ६, २, २, २१^{ab};
वाश्रौ २, ३, २, १^{ac}; द्विगु १५,
८, ४^{ad}; -स्तिभिः या १०,
५^{ae}; -स्तिषु बौश्रौ ११, ६;
२०.

प्रशस्ति-कृत्^{af}- -कृत् उस् ८,
३०^{ag}.

प्र-शस्य वृदे ४, ६०.

a) पाठः ? ऋजेयुः इति शोधः विमृश्यः । b) पृ २८७ g द्र. । c) पाभे. पृ ४०९ f द्र. ।

d) न. नाप. (प्रदेश-). उप. अधिकरणे घञ् प्र. । e) द्रस. > बस. । f) सप्र. शस्तः <> शस्तः इति पाभे. ।

g) परस्परं पाभे. । h) सादृश्यात् वावि. इति WAG (१, ३९). । i) मङ्गल्य- = द्विघृतादि- । j) बस. ।

k) कस. > बस. । l) वैप १ द्र. ।

प्र-शस्य- -स्यः वृदे ३, ३; या १, १६; ८, ७; ११, ३९; १३, १२; -स्यम् बौध २, ८, १; -स्यस्य अप ४८, ६२; निघ ३, ८; पा ५, ३, ६; -स्ये अप ४८, ६०; पा ४, ४, १२२.
 प्रशास्य-तम- -मः बाध १, ३.
 प्रशास्य-नामन्- -मानि निघ ३, ८; या ३, १२.
 प्र√शद्, प्रशातयति भाश्रौ १, ६, ९.
 प्र-शात्वन्- पाठ ४, ११७.
 प्र-शात्य आपश्रौ १, ६, ७; हिश्रौ १, ३, १.
 प्र√शम्, प्रशाम्यति अप ९, ३, ५; ७०, ९, ६; प्रशाम्यन्ति आज्यो १४, ९.
 प्रशामयन्ति आज्यो १४, ८;
 प्रशामय अप ३६, १, ६; ११; ११;
 प्रशामयेत् विध ३, ६८.
 प्रशामयत् वृदे ४, ५२.
 प्र-शाम- -मम् अप ३१, ३, ५.
 प्र-शान् ^a पाग १, १, ३७.
 प्र-शान्त- -न्तः जैगृ १, १२ : ६८;
 शैशि १५३; याशि १, २३;
 नाशि १, ६, १२; -न्तम् बाध ६, ३०.
 प्रशान्ता(न्त-श्रा)त्मन् ^b- -त्मा विघ ९७, १.
 प्र-शान्ति- -न्तिः अप ७०^३, ११, २३.
 प्र√शस् (हिंसायाम्) > ङप्र-शस् ^c-

-शसा आश्रौ ३, ३, १; शांश्रौ ५, १७, ५; माश्रौ ५, २, ९, ४.
 २प्र-शस्य भागृ २, १५ : ३.
 प्र-शस्त-, प्र-शास्ति-, १प्र-शस्य प्रभृ.
 प्र√शंस् द्र.
 प्र-शात्य प्र√शद् द्र.
 प्र√शास्, प्रशास्ति या ३, ४;
 प्रशासति अप ५०, ४, ७; ङप्र...
 शास्ति ऋप्रा १४, ३६; ४७.
 प्र-शासन- -नम् या ५, ११.
 प्र-शास्तृ- पाठमो २, १, १४५; पा ६, ४, ११; पाग ५, १, १२९^d;
 -ङस्तः आश्रौ ५, २, ११; ११, १; शांश्रौ; -स्ता आश्रौ ५, ५, १७××; शांश्रौ^o १, ४, ५; ७, १४, ९; आपश्रौ १६, १५, ७; बौश्रौ; अप्राय ६, २; ङप्र...
 आश्रौ ३, १, १६; बौश्रौ; -स्तारौ काश्रौ ९, ८, ९; आपश्रौ; -स्तुः काश्रौ ११, १, २४; आपश्रौ; -स्त्रा दाश्रौ ५, २, २०; लाश्रौ २, ६, १३; -स्त्रे काश्रौ ९, १४, ९;
 बौश्रौ ८, ६ : १०; वैश्रौ १५, ३० : ११; -ङस्तोः आश्रौ ३, १, १६; १७; शांश्रौ.
 प्रशास्त्र- पा ५, १, १२९;
 -इस्त्रात्^e काश्रौ ९, ८, ९;
 काठश्रौ १३१.
 प्रशास्तृ-धिष्य- -ष्यम् काश्रौ ११, १, २७.
 ङप्रशास्त्र^b- -स्त्रात् आपश्रौ ७,

१४, ५; ११, १९, ८; काठश्रौ १३०; बौश्रौ ४, ६ : ९; ७, ९ : ७; भाश्रौ ७, ११, ५; माश्रौ २, ३, ६, १७; वैश्रौ १०, १० : १९; हिश्रौ ७, ८, ४२.
 प्रशास्त्रा(स्तृ-श्रा)दि- -ङीन् काश्रौ ९, ११, ७; -ङीनाम् वैताश्रौ २२, ६.
 प्रशास्त्रीय- -यम् आपश्रौ ११, १४, ४; हिश्रौ ८, १, ७३; ९, १, २१; १०, ८, ४९; -ये हिश्रौ १२, ६, २६.
 प्र-शास्य वृदे ४, ९५.
 ङप्र-शिष्टि- -ष्टौ आश्रौ २, ११, ८^१.
 ङप्र-शिस- -शिषम् आपश्रौ २, २०, ६^१; बौश्रौ २४, २९ : १८; भाश्रौ २, १९, १; हिश्रौ २, ५, ४७; -शिषा आश्रौ ३, १, १६; १७; शांश्रौ; वैताश्रौ ३, ९^३; सु २१, २; कौसू २, २१^१××.
 प्र√शिष, प्रशिष्यात् आश्रौ १२, ९, ९.
 प्र-शीर्य प्र√शृ, शृ द्र.
 प्रशुकीय^१- -यम् शांश्रौ १०, १३, १८.
 प्र√शुच् (दीप्तौ), प्र...शोचेत् आपमं १, ९, ३^m.
 प्र√शुम्, प्र...शुम्भन्ते आश्रौ ७, ७, ४; ङशांश्रौ ११, ७, १२; १२, १५; ऋअ ३, १८^१; प्र(शुम्भन्ते) ऋअ २, १, ८५; वृदे ३, १२१.
 प्र√शृ (< श्रा) > प्र-शृत- -तम् कौसू ३०, १५.

a) मकारस्य नकारादेशः (पा ८, २, ६४) । b) वस. । c) वैप १ द्र. । d) प्रशं इति भारुडा. ? (तु. पा. ऋ. प्रभृ.) । e) श्त आ^० इति पाठे ह्रस्वः प्रकृतिभावश्च उरसं. (पा ६, १, १२७ [तु. O.]) । f) प्रशं इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. सपा. ऋ २, ५, ४) । g) पाठः ? प्रशास्त्रात् इति शोघः (तु. सपा. खि ५, ७, ५, ६ आपश्रौ ७, १४, ५ प्रभृ.) । h) कर्मणि अच् प्र. उरसं. (पा ५, १, १२९ [तु. वैप १, १८४ c e]) । i) प्रविष्टौ इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. आन., सपा. तैत्रा २, ४, ६, १२ प्रशिष्टिम् इति पाभे.) । j) प्रा^० इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. तैत्रा ३, ७, ५, ११ बौश्रौ. प्रभृ. BC. च) । k) पाभे. वैप २, ३४, प्रशिषा गोत्रा २, १, २ टि. द्र. । l) =सूक्त- । <प्र शृक् (ऋ ७, ३४, १) । m) =प्रसविषीष्ट इति हरदत्तः (भू [LXIX]) ? ।

†प्र√श्रु,श्रु (हिंसायाम्), प्र...
 श्रुणामि अत्र २, ३२; प्र...
 श्रुणीहि अत्र १०, ३.
 प्र-शीर्यं काश्रौ ३, ४, ४.
 †प्र√श्रु(=श्रु), प्रप्र...श्रुणे^a आश्रौ
 ४, ५, ३; बौश्रौ १०, १७: १२;
 प्रप्र(श्रुणे)^a बौश्रौ १२, ३५: ३;
 वाश्रौ २, १, ३, २४; वैश्रौ.
 प्र-श्रुत- प्र√श्रु(<श्रु) द्र.
 प्र√श्रुत्, प्रश्रुतन्ति वाधूश्रौ ४,
 ७४ : ५; प्राश्रुतत् वाधूश्रौ ४,
 ९४ : २; ९४^{२-५} : १.
 प्रश्रुतयति बौश्रौ २, ९ : ६;
 ९, २ : २९^२××; वैश्रौ १३,
 १३ : १०.
 प्र-श्रुत्य आपश्रौ २, १९, ७; वैश्रौ
 १३, १३ : ८.
 प्र-श्रुत- प्रश्रु. √पृच्छ् द्र.
 प्र√श्रि, प्रश्रयते हिद्य १, ५, १०३;
 प्रश्रयति काश्रौसं २८ : ४.
 प्र-श्रित- -तः वाधूश्रौ ४, २६^२ : ६.
 प्र-श्रित्य बौश्रौ ७, ५ : ९; ८, १ : ६.
 प्र√श्रिलष् > प्र-श्रिलष्ट- पाग ६, २,
 १४६; -ष्ट.^b ऋप्रा ३, ३४;
 शुप्रा १, ११६; तैप्रा २०, ५;
 बौशि २३६; याशि १, ७६; ८१;
 कौशि ८; १६; नाशि १, ८, १०;
 २, १, ९; -†ष्टम् शाश्रौ १२,
 १३, ५^b; निसू १, ७ : ३२^०;
 ऋप्रा २, ६^a; ३, १८^b; नाशि
 २, १, ६^b; -ष्टस्य कौशि १९^b;
 -ष्टाः ऋप्रा २, २०^०; -ष्टात्
 ऋप्रा १३, २६^०; -ष्टेषु ऋप्रा
 ३, १४^०.

प्राश्रिलष्ट^c- -ष्टः शौच ३,
 ५६.
 प्राश्रिलष्ट-निर्देश- -शात् पावा २,
 ४, ८५.
 प्राश्रिलष्ट-प्रातिहृत- -तयोः तैप्रा
 २०, ११.
 प्र-श्लेष^d- -षः ऋप्रा १०, २०; -वे
 ऋप्रा ३, १३; शुप्रा ५, ३३.
 प्रष्टय- √पृच्छ् द्र.
 प्रष्टि^e- -ष्टिम् शाश्रौ १२, १६, १[†]^६;
 बौश्रौ १३, ६ : २५××; -ष्टी
 आपश्रौ २०, १६, २; बौश्रौ २०,
 २० : १६^b; दाश्रौ ५, ३, २६;
 १०, ४, १४^१; लाश्रौ २, ७, २३, ३,
 १३, १४^१; -ष्टीः बौश्रौ २०,
 १३ : १७^b.
 प्रष्टि-वाहिन^f- -हिनम् आपश्रौ
 १८, ३, ३; १७, १; बौश्रौ; -ही
 आपश्रौ १८, ९, १३; बौश्रौ १८,
 २० : ७; १९; हिश्रौ १३, ३,
 ३६.
 प्रष्टय(ष्टि-अ)न्तर- -स्योः दाश्रौ
 ३, ४, ७.
 प्र-ष्ट प्र√स्था द्र.
 प्रष्टीला^g- -लाम् वाधूश्रौ ३, १०३: १; २
 १०.
 प्र√ष्टीव्, प्रष्टीवन्ति आश्रौ ६, १३,
 १०.
 √प्रस् पावा. भ्वा. आत्म. विस्तारे.
 प्र√सज् प्र√सह् द्र.
 प्र-सं√ख्या > प्रसं-ख्यान- -नात्
 आपश्रौ २४, २, ३७; मीसू ३, ४,
 ७××.
 प्रसं-ख्याय आश्रौ ९, १, ९; ३, १९;
 हिश्रौ ७, २, ६२; आश्रु.

प्र√सज्, †प्र...सक्ष् > क्षवा ऋप्रा
 ४, ६४; ७, ३३.
 प्र√सज्, ङ्, प्रसजति बौश्रौ ११,
 ३: ३४; प्रसजेत् लाश्रौ १०, ४, ३.
 प्रसज्यते पावा १, १, १९; २, ९;
 प्रसज्येत निसू ६, ९ : २०; अप
 ४४, २, २.
 प्र-सक्त- -क्तान् वैश्रौ १४, ५ : १०.
 प्रसक्ता (क्त-अ)दर्शन- -नस्य
 पावा १, १, ६०.
 प्र-सङ्ग- -ङ्गः काश्रौ १, ४, ८; पावा
 १, २, २२××; मीसू; -ङ्गात्
 आश्रौ १, १, २२; काश्रौ; -ङ्गे
 बौश्रौ २९, ८ : १०; पावा १,
 १, ५१; -ङ्गेन बौश्रौ २७, ११ :
 १३; १६; अप; -ङ्गौ पावा १,
 ४, २.
 प्रासङ्गिक- -कम् आपश्रौ
 १२, २५, १४; कप १, ५, ११;
 वाध १९, २९; मीसू ५, १, २८;
 -के मीसू ९, ४, २६.
 प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा ४, १, १५;
 ४८××; -ङ्गे पावा ४, १, ८५.
 प्रसङ्ग- (ज >) जा- -जा वृदे ३,
 २८.
 प्रसङ्ग-तस(ः) वृदे ५, १७१.
 प्रसङ्ग-परिकीर्तन- -नात् वृदे
 १, २२.
 प्रसङ्ग-सामर्थ्य- -र्थ्यात् पावा
 १, १, ४४.
 प्र-सज्य > -ज्य-प्रतिषेध- -धात्
 पावा १, १, ४४; २, १; -धे पावा
 ७, ३, ८५.
 प्रा-सङ्ग^h- -ऋत् ५, २, ८.

a) वैप १ द्र. । b) = स्वरित-भेद- । c) = संधि-भेद- । d) विप. (पद-) । e) नाप. । स्वार्थे अण् प्र. ।
 f) भाप. । g) पामे. वैप १, २१०९० द्र. । h) = आहुति-विशेष- । i) = (उद्गातृषा श्वेवर्तित्वात्) प्रस्तोतृ-
 प्रतिहर्तृ- । j) = आच्छादित-भूमि- । व्यु. ? । प्र√स्तु > प्र-स्तित्- (भाप.) + धा- (भाप.) > नैप्र. यनि. ? ।
 k) = युग-भेद- । कर्मणि घञि पूष. दीर्घः ।

प्रासङ्ग्य- पा ४, ४, ७६;
 -ह्यः बौश्रौ १८, ३५: ७^१;
 -ङ्गौ बौश्रौ २६, ११: १३^१.
 प्र√सज्ज् (<√सस्ज्), प्रसज्जेत
 वाध ११, २७; बौध २, ८, २१.
 प्र-सं√सक्ष्, प्रसंक्षीत द्राश्रौ ६, १,
 ९; लाश्रौ २, ९, ६.
 प्र√सद्, प्रसदीदत् ऋत्र २, १०,
 ४६; सात्र १, ७७; उनिस् ४:
 ११; प्रसदीदतु अप २०, ६, ३;
 प्रसदीदन्तु अमिश्र २, ३, २: १०;
 ३: २५; वैश्र ४, ४: ५; जैश्र १,
 ६: ९; प्रसदीदत् अपामं १, १,
 १; बौश्र १, १, १४.
 प्रसादयेत् गोपि २, ६, १४; वाध
 २१, २८^१.
 प्रसादयाम् √अस, प्रसादया-
 मास वृदे ८, ३.
 अ-सत्त्वन्- पाउना ४, १२७.
 प्रसख काश्रौ १६, ६, २९; आपश्रौ
 १६, १२, १२; बौश्रौ.
 प्र-सन्न, न्ना- न्नः अप ७०^३, ५, ३;
 वैध २, १४, ९; वृदे ५, १९;
 -न्नम् नाशि १, ३, १^१, ४^२, ४^३, ४^४;
 -न्नाअप १, ४५, ५; -न्नाः आमिश्र
 २, ३, ३: २६; अप ६२, १, ८;
 ७०^३, ३, ३; वृदे ६, ८९; -न्नानाम्
 बौश्रौ २६, २: ३; -न्नानि अप
 ५२, ११, २; -न्ने अप ६८, २, ५०;
 -न्नेन अप ७०^३, २, ४; विध ९८,
 १०२; -न्नेषु अप ५२, ११, ३.
 प्रसन्न-ता- -ताम् अप २१, ७, ६.
 प्रसन्न-मनस्- -नाः आपध २,

१७, ४; हिध २, ५, ३२.
 प्रसन्न-हृदय- -यः आमिश्र २,
 ५, ४: १७; बौध ४, ६, १०.
 प्रसन्ना(न्न-अ)चिस्- -चिः अप
 २४, ३, ५; ७०^३, ४, २.
 प्र-साद- -दः आमिश्र ३, ३, १:
 १०; ११; -दम् गोश्र ४, ५, १९;
 ८, ९; -दात् वाध २१, २८;
 -दे अप ४८, २८; -देन अप
 १३, ५, २^३; विध १९, २२.
 प्रसाद-तस्(ः) जैश्रौका २; ऋत्र
 ३, २.
 प्र-सादन- -नम् अप ७०, ७, ५.
 प्र-सादयत्- -यन् अप १, ३८, ४^१;
 अशां ८, ४^१; वृदे ४, ९०.
 प्र-साद्य बौश्र २, ११, ४४; बौपि
 २, ९, २१; ११, ८; विध.
 प्रा-साद- ऋत ५, २, ८; पावा ६,
 ३, १२२; -दः अप ७०^३, १०, २;
 -दम् अप ३०^३, २, ७; ७०^३, २०,
 १; -दात् आमिश्र २, ४, ३: ८^१;
 अप ६८, ५, २; -दान् शाश्रौ
 १६, १८, १३; वृदे ६, ५६;
 -दानि अप ७१, १५, ३; -दे
 अप ७०^३, ६, १०; आपध १, १७,
 ७^१; हिध^१ १, ५, ३९^१.
 प्रासाद-गोपुर-मुख- -खाः अप
 ७०^३, ११, २१.
 प्रासाद-तोरण-ध्वज- -जेषु अप
 ७२, ३, ७.
 प्रासाद-तोरणा (ए-अ)द्वाल-द्वार-
 प्रासादवेदमन्- -श्मनाम् अप
 ७०^३, १४, १.

प्रासाद-तोरणा(ए-अ)दि-
 -दीनि अप ५७, २, ४.
 प्रासाद-ध्वज-तोरण- -णे अप
 ७०^३, १३, ५.
 प्रासाद-ध्वज-शाला- -लासु
 अप ७०^३, ९, ६.
 प्रासाद-माला- -लासु विध ९९,
 १०.
 प्रासादा(द-अ)दि- -दिषु अप
 ७०^३, २१, १.
 प्रासादा(द-अ)दि-विमान-
 -नानाम् अप ७१, २, २.
 प्र-सदस्- -दसि माश्रौ २, ४, २, २०;
 ६, १०; वाश्रौ ३, २, ३, ३; ५, ४०.
 प्र-सं√धा > प्रसं-धान- -नम् शौच
 ४, १११; १२२; -नाय बौश्रौ
 २८, ११: १२.
 प्र-सम्√ईक्ष् > प्रसम्-ईक्ष्य विध
 ५१, ७२.
 प्र-सं√पश् > प्रसं-पश्यत्- -श्यन्
 वाश्रौ १, १, १, ९.
 प्र-संप्र√मुक्ष्, प्र-संप्रमुच्यते शाश्रौ
 १४, ७, १^१.
 प्र-सयन- प्र√सि द्र.
 प्र-सर्ग- , प्र-सर्ज(न >) नी-
 प्र√सज् द्र.
 प्र-सर्प- , प्र-सर्पक- प्रभृ. प्र√सप् द्र.
 प्र-सर्माण- प्र√स द्र.
 प्र-सलवि- -वि शाश्रौ १७, १४,
 १६; १५, ४.
 प्रसलवि-स् (ष्ट >) ष्टा- -ष्टाम् वैश्र
 ६५, ६; -ष्टामिः शाश्रौ १७, २, ९.
 ?प्रसली जैश्रौ ६: १०.

a) विप. (प्रासङ्ग्ययुक्त-] अश्वरथ-) । तद्वति वृत्तिः । b) विप. > नाप. (उष्टृ-) ।
 c) सपा. ऋ १०, ३२, १ प्रसदीदतः इति पाठे । d) = गानगुणवृत्तिविशेष- । e) बस. । f) अर्थः? ।
 g) = दासुमय-मन्त्र- इति हरदत्तः । h) प्र० इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपध.) । i) द्रस. > बस. ।
 j) = सदः-प्रदेश-विशेष- । प्रास. । k) = प्रदक्षिण- । अस. वा. क्रिवि. । l) = प्रसलवि- (तु. संस्कृत-
 ननुवादः [१०]) ।

इप्रसव वैगु ५,४ : ३६०.

प्र-सव^१- -वः शांश्रौ ६,८, ८; १३; १९, ६; काश्रौ ७, १, २५; आपश्रौ; -वम् आपश्रौ २२, ४, १२××; बौश्रौ; -वाः आपध १, १३, ८; हिध १,४, २२; -वात् काश्रौ ७,३,१०; बौश्रौ ३,२४ : १४; जैश्रौका १६१; वैताश्रौ ३, ६; -^१वानाम् शांश्रौ ७, १०, १; १५, २२, १; आपश्रौ १८, १२, ६^b; बौश्रौ १०, ५६ : १^b; वाश्रौ ३,३, २, १^b; हिश्रौ १३, ५, ४^b; वैताश्रौ; चाश्र १५ : ६^b; -वाय आपश्रौ १७, २, ६०; वैश्रौ १४, १५ : ६०; चाश्र ४० : ७०; या २, १९; ७, २०; १३, ४; १४, ३३; -^१वे आश्रौ १, १३, १; शांश्रौ ४, ७, ५; ६, ८, ६०; काश्रौ ११, १, १९०; आपश्रौ; अप ३२, १, १४; या २, २६; ६, ७; -^१वेन शांश्रौ ४, ५, १××; आपश्रौ.

प्रसव-द्वय- -ये जैश्रौका ११५.

प्रसव-प्रभृति- -ति शांश्रौ ८, १५, ५.

प्रसव-संयुक्त- -क्तम् बौश्रौ २५, ९ : ३.

प्रसव-संनिपात- -ते आश्रौ ६, ६, ११.

प्रसवो(व-उ)थान^d- -नम् चव्यू २, ३२.

प्र-सवितृ-,^०विन्- प्र^०सू(वचा.) द्र.

१ प्र-सव्य^०- -व्यम् आश्रौ ६, १०, १३; १७; १२, ७; शांश्रौ १३, ११, ४; आपश्रौ; -व्यान् जैगु २, १ : ७; -व्ये अप ५१, २, ४; -व्येन आगु ४, ७, १२; -व्येषू कौसू २३, ३१.

प्रसव्या(व्य-आ)वृ(त्त)ता^०- -त्तया हिपि १३:१०; -त्ताः हिपि १५ : ६.

प्रसव्यो(व्य-उ)पमथित^०- -तः हिपि १५ : १६^b.

२ प्र-सव्य- प्र^०सू द्र.

प्र^०सह^०सघ्, प्रासवेत् वाधूश्रौ ३, १७ : ४.

प्र^०सहस्व अप्रा ३, ४, १; ^१प्र(सहस्व) कौसू ३६; ३३; अप ७, १, ५; अप^० २ : ७३; प्रसहेत् सु २१, ३.

^१प्रससाहिषे आश्रौ १, ६, १××; शांश्रौ; प्रसाक्षते या ११, २१^१.

प्र-सहन- -ने पा १, ३, ३३; पाग १, ४, ७४^१.

प्रसहने^०कृ पा १, ४, ७४.

प्र-सहान- -नः ऋप्रा ९, १८^१.

प्र-सह्य वैगु ३, १ : १०; अप ५३, १, २; बौध.

प्रसह्य-तस्कर- -राणाम् विध ५, १६.

प्र-सह्य^k- -ह्ये काश्रौ २३, ४, २१; आपश्रौ १०, १९, ३०; २०, ७,

१७; २२, २१, ८; माश्रौ.

प्र-साह^०- -साहम् ऋप्रा ९, ४८^१. प्रा(<प्र)-साह^०- -वाट् अप्रा ३, ४, १०.

प्रा(<प्र)-सह^०- -सहः ऋप्रा ९, ४०; -सहा^१ काश्रौ २३, ४, २१; आपश्रौ ९, २०, ६××; २२, २१, ८; वाधूश्रौ; हिश्रौ १७, ७, २९^१.

प्रा(<प्र)-सह^०- -हात् भाग १, १३, १५; वाग १५, ११.

प्र-साद-,^०दन- प्रथ्, प्र^०सू द्र.

प्र^०साध्, प्रसाधयेत् कागु ३१, २^०; प्रसाधयतु या १२, १८; प्रसाधयेत् निसू ५, ११:८; विध ७, १३. प्र...सोषधाति या १२, १८^१.

प्र-साधन^०- पावा ३, ३, १२३; -नः वाश्रौ १, ५, ४, ३०^१; -^१नम् आपश्रौ १६, ३५, ५; वाश्रौ २, १, ८, १६; हिश्रौ ११, ८, २३.

प्रसाधनी- -^१न्यै^० आपनं २, ८, ७; आश्रिगु १, १, १ : ५३; ५, १ : ४१; भाग.

प्रसाधन-कर्मन्^०- -सां याद, २१ प्रसाधना(न-आ)च्छादन-स्नापनो(न-उ)च्छिष्ट-वर्जम् बौध १, २, ३८^०.

प्रसाधनो(न-उ)च्छादन-स्नापनो(न-उ)च्छिष्टभोजन^०- -नानि बौध १, २, ३६^०.

प्र-साधि(न् >)नी- -न्यै बौगु १, ३, ३९^१.

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १, २२१४ q द्र. । c) पाभे. वैप १, २२१५ d द्र. ।

d) = परिशिष्ट-विशेष- । e) = अग्रदक्षिण- । प्रास. । f) क्वचिद् वा. क्विवि. । g) सुप्सुपीयः समासः । h) सस्थ. उपमथितः इति नेष्टम् (वैतु. संस्कृतुः सूची ^०व्या [क्विवि.], उप^० इति द्वे पदे ?) । i) पाभे. वैप १, २२१५ i द्र. । j) ^०हस^० इति पाका. । k) विप. । गस. । l) वा. क्विवि. । m) प्र^० इति पाठः ? यनि. बोधः (तु. आपश्रौ २२, २१, ८) । n) उप. भावे अच् प्र. । वा. क्विवि. । o) घा. अलंकरणे वृत्तिः । p) उप. भावाद्यर्थे प्र. । q) सप्र. ^०धन्यै <> ^०धिन्यै इति पाभे. । r) बस. । s) ^०वैवम् इति मैसू. । t) द्रस. । उच्छादन- = छत्रधारण- । u) ^०बनाच्छा^० इति मैसू. ।

प्र-साध्य आपश्रौ १५, २१, ७.
 †प्र-सामविद्^० - वित् आप १, ३९,
 ५; ४१, ६; अशौ २, ५; ११, ६.
 प्र-सार-^० षण- प्रसू. प्र√सू द्र.
 प्र-साव- प्र√सू (बधा.) द्र.
 प्र-साह- प्र√सू द्र.
 प्र√सि^० > प्र-सयन- -नात् या ६,
 १२.
 प्र-सित- -ते पा ५, २, ६६.
 प्र-सिति^० - -ति: या ६, १२६;
 -^०तिम् आश्रौ ४, ६, ३; आपश्रौ
 १, २१, ७^०; बौश्रौ; या ६, १२६;
 -स्या या ६, १२; -स्या: वाश्रौ
 १, ३, ७, १२^०; -स्यै बौश्रौ
 १, २०: २४^०.
 प्र√सिञ्च्, ञ्च्, प्रसिञ्चति बौश्रौ
 १७, ४०: २८; आमिग्य ३, १,
 १: ९; भाग २, ११: ९; हिग्य
 २, १०, ६; प्रसिञ्चन्ति पाठ ३,
 १०, २१; प्रसिञ्चामि कौसू
 १२२, ३^०; प्रसिञ्चेत् गोप्य १, ३,
 १; १२; द्राग्य १, २, १७; कौसू
 १२२, ३; प्रसिञ्चेरन् शंघ ३४४;
 प्रसिञ्च्यु: भाश्रौ २, १५, ४; कौग्य
 ५, ४, ३.
 †प्रसिच्यते आश्रौ २, १६, १९;
 बौश्रौ ५, ४: १५; भाश्रौ.
 प्रसेचयति वैश्रौ ५, ५: ९.
 प्र-सिच्य वैश्रौ ५, ५: ८; जैग्य.
 प्र-सिञ्चत् - -ञ्चन् कौसू ४०, १; ९.
 प्र-सेक^० - -कम् बौश्रौ १०, ५०:
 २; ५४: १^०; ५; १५, ३५:
 १^०; ९; आमिग्य ३, ६, ४: ५^०;

बौपि १, १३: ५^०; -कस्य बौश्रौ
 २२, १०: १०; १४.
 प्र-सेचन^० - -नम् वैश्रौ १२, ६:
 ११३^०.
 प्रसेचन-वत्^० - -वती आपश्रौ
 १५, ३, १०; भाश्रौ ११, ३, ५.
 प्र√सिघ्, प्रसिध्यति वाधूश्रौ ३,
 ६१: ३^०; वैताश्रौ ८, १६; कौशि
 ८०; प्रसिध्यत: ऋप्रा ११, ७०.
 प्र-सिद्ध, द्वा- -द्वा: बौश्रौ ५, ९:
 १८××; माश्रौ; -द्वास् आपश्रौ
 १२, २६, १४^०; बौश्रौ; बौपि २,
 ३, ६^०; या ६, १६; -द्वा बौश्रौ
 ३, १: १०××; आमिग्य; -द्वा:
 बौश्रौ २, ७: २३××; सु १, ३;
 -द्वानि बौश्रौ २, ७: २२;
 -द्वे पावा ३, १, ४५; -द्वेन
 बौश्रौ १२, २०: १××; मीसू
 ११, २, ६२; -द्वाै बौश्रौ १५,
 ११: १५.
 प्रसिद्ध-ग्रहण^० - -त्व- -त्वात् मीसू
 ७, २, १३; १०, १, ३५; ६,
 ५६.
 प्रसिद्ध-भास्^० - -भा: या ६, ४.
 प्रसिद्ध-संनिधान- -नात् मीसू
 २, ४, २४.
 †प्रसिद्धा(द्ध-आ) चार^० - -र:
 हिघ २, ५, १६३.
 †प्रसिद्धा(द्ध-अ)न्त- -न्तेन मीसू
 २, ४, ५५^०.
 प्र-सिध्यत् - -ध्यत: ऋप्रा ११, ६७.
 प्र-सेधमान- -ना:^० लाश्रौ ८, ६, ८.
 प्र√सु (प्रसवैश्वर्ययो:), प्रसौति शांश्रौ

४, ६-७, १७; काश्रौ २, २, ८××;
 आपश्रौ; †प्रसुहि^० आश्रौ ५,
 ११, १; शांश्रौ ७, १४, ९; काश्रौ.
 प्र√सु(अभिषेवे), प्रसुनोति वाधूश्रौ ४,
 ४०: ६; प्रसुनुयु: आश्रौ १२,
 ४, १०.
 प्र-सुत- -त: काश्रौ ७, १, २१;
 आपश्रौ १०, १५, १^०××; बौश्रौ:
 -तस्य बौश्रौ २५, १६: ३;
 -ता: आपश्रौ २३, ११, ७; बौश्रौ
 १६, ३: १××; -ते काश्रौ ६,
 ६, २५; ८, १५; आपश्रौ ११,
 १३, ११; -^०तेन आपश्रौ २३,
 १४, १६; बौश्रौ १७, १९: १०;
 हिश्रौ १८, ४, ६८.
 प्र-सुत- प्र√स्वप् द्र.
 प्र-सुवत्- प्र√सू (बधा.) द्र.
 प्र√सू(बधा.)^०, प्रसूते आमिग्य २, ५,
 २: ५; शंघ १६.
 प्रसूयते आमिग्य २, ७, ६: ४;
 अप १, ४४, ७××; प्रसूयन्ते अप
 ७१, ७, ४; प्रसूयेत अप ६८,
 २, ३३; ७१, ६, १.
 प्रसुवति माश्रौ १, ५, ५, ११; अप
 ४१, ५, ५; या १२, १३; प्रसुवामसि
 अप १^०, १, ५; प्रसुवाति वाधूश्रौ
 ४, १०३: १०^०; †प्रसुवै^०
 शांश्रौ १६, १, १८; २०; †प्र
 (सुवतु) आश्रौ ५, १२, १०;
 २४; ऋप्रा २, १०, १७५; बृदे ८,
 ७४; †प्रसुव आपश्रौ १२, २९,
 १४^०; १८, २, १०; काठश्रौ
 १४^०; बौश्रौ ११, २: ३^०;

a) नाप. 1 प्रास. 1 b) वैप १ द्र. 1 c) पाभे. वैप १, २२१६० द्र. 1 d) = [आनयनार्थ-]सुवादि-
 मुख- (तु. रुद्रतः [आपश्रौ १५, ३, १०])। करणे घञ् प्र. 1 e) सप्र. प्रसेकम् <> प्रसेचनम् इति पाभे. 1
 f) भाप. > वा. क्रिवि. 1 g) विप. (दोग्र-). 1 h) सिद्धम् इति B. 1 i) बस. 1 j) पाठः? सपा. आपश्रौ
 २, २३, १० विरुद्ध आचारः इति। 1 k) पाठः? प्रसिद्धां तेन इति शोधः (तु. जीसं.)। 1 l) = त्रासयन्तः इति भाष्यम् 1
 m) सपा. प्रसुहि <> प्रसुव इति पाभे. 1 n) पृ. ५७१ g द्र. 1

माश्रौ २,४,३, ३०^a; ६, २७^a;
 ६, १, १,६; वाधूश्रौ; हिश्रौ^b ८,
 ८, ६३; ९, २, ३८; ४, ६३;
 ऋप्र...सुव आपश्रौ ३, २ : ८;
 बौश्रौ ३, २६ : ७××; भाश्रौ;
 प्रासुवत् शाश्रौ ८, १८, ११;
 वाधूश्रौ ४, १०३ : ११; प्रसौ-
 यान् बौश्रौ २३, ७ : २७; प्रसु-
 वीरन् आश्रौ २, १८, ८.
 प्रासावीत् या १२, १३ऋः;
 ऋप्रासावीः आमिष्ट १, १, ४ :
 ६××; आपष्ट.
 प्र-सवि(वीऋप्रा.)न्-त्ता आश्रौ
 १०,६, ८; शाश्रौ १६, १, १८;
 आपश्रौ; ऋप्रा ९, ५२; या १०,
 ३१; -तारम् या ७, ३१; -त्रे
 शाश्रौ १५, १४, ४××; काश्रौ.
 प्र-सविन्- पा ३, २, १५७.
 २प्र-सव्य^b- -व्यः अप ५१, ५, ५.
 प्र-साव^c- -वात् बौश्रौ २९, ८ : ५.
 प्र-सुवत्- -वन् बौश्रौ १४, २० : ८.
 ऋप्र-सू^d- -सूः आपमं १, १३, ३;
 हिष्ट १, २५, १; -स्वः आपमं
 १, ९, ३.
 प्रसू^e-मय- -यम्^f आपश्रौ ८, १,
 १०; बौश्रौ ५, १ : ७××; भाश्रौ
 ८, १, १३; वैश्रौ ८, ३ : १३.
 प्र-सूत्, ता- पाग ५, २, ६२^g; -तः
 ऋशाश्रौ १, ४, ५; ४, ७, १७;
 काश्रौ २, २, ११××; आपश्रौ;
 वैताश्रौ ३, ९^h; भाष्ट १, ७ :
 ९^h; कौसू २, २१^h; या ९,
 १४^h; -ऋतम् आष्ट १, १५, १;

कौष्ट १, १६, ७; वांष्ट १, २४, ४;
 -ऋता या २, ५; १९; ९, १९;
 -ऋताः आश्रौ ५, २, १४ⁱ; काश्रौ
 ५, २, १४; आपश्रौ; द्राश्रौ १५,
 ३, ९ⁱ; लाश्रौ ५, ११, ९ⁱ;
 -तानाम् काश्रौ ९, १४, २०ⁱ;
 -ताम् अशां १३, ४; -तायाम्
 आमिष्ट २, ७, ४ : २; बौष्ट ४,
 ११, १; अप ७२, २, ७; विध
 १७, २१; -तासु विध २२, ४३;
 -ते द्राश्रौ ७, ३, २९; लाश्रौ ३,
 ३, २९^j; सु ३, ५; वैध २, १५,
 ५; -तौ बौश्रौ ५, ८ : १०.
 प्रसूतक- पा ५, २, ६२.
 प्रसूता(त-श्च)न्त^k- -न्तम् काश्रौ
 १०, ३, २४.
 प्र-सूति- -तिः अप ७०^l, ११, २६;
 गौध ८, ३; बृदे १, ९६; ३, ३०.
 प्र-सून^m- -नः माश्रौ १, ७, १, ९ⁿ;
 -नम् हिश्रौ ५, १, ९ⁿ.
 प्र-सूयमान(>)ना- -ना विध ८८,
 १; -नाम् अप ९, ३, १.
 प्र√सूद्, प्रसूदयति बौश्रौ ४, १ : २६.
 प्र-सूद्- प्रा-सूद्- ऋत ५, २, ८^o.
 प्र√सू, प्र...सिखते शुप्रा ६, ७^o;
 ऋप्र...सिसुतम् आश्रौ ३, ८, १;
 बौश्रौ १८, १७ : १३; ऋप्र-
 (सिसुतम्) शाश्रौ ८, १२, ८; ९,
 २७, २; काश्रौ.
 ऋप्र...सस्ते आश्रौ ३, ७, ६; ८,
 ९, २; ऋप्र (सस्ते) शाश्रौ ६, १०,
 २; १०, ९, ४; ११, ५; ऋअ २,
 ७, ९५; बृदे ६, १९.

प्रसारयति बौष्ट १, २, २१; प्र...
 सारय बौश्रौ ६, ३१ : २०^p;
 प्रसारयेत् विध ८७, १; प्रसार-
 यीत् आपष्ट १, ६, ३; प्रसारयेत्
 गौध ९, १४.

ऋप्र-सर्वाण- -णः वैशि ११६;
 -णम् अप्रा ३, २, १०.

प्र-सार्- -रः याशि १, ६४.

प्र-सार्ण^q- -णम् अप्रा ३, १, १३;

माशि ४, १३; पावा १, १, ४;

-णे पावा १, १, ३; ६, ४, १३३.

प्रसारण^r पावा ६, १, १२.

प्रसारण-ग्रहण- -णम् पावा ६,
 १, ३७.

प्रसारण-प्रकरण- -णे पावा ६,
 १, ३७.

प्रसारण-प्रतिषेध- -धात् पावा
 ६, १, ३३.

प्रसारणप्रतिषेधा(घ-अर्थ)-

-र्थम् पावा ६, १, ३७.

प्रसारण-प्राप्ति- -प्तिः पावा ६,
 १, ३७.

प्रसारणा(ण-अ)दि- -दिषु पावा
 ७, २, १.

प्रसारणिन्- -णिभ्यः पावा ३,
 २, ३.

प्र-सारयत्- -यन् वाश्रौ ३, ४, ४,
 १५.

प्र-सारित, ता- -तम् वाध ३, ४६;
 बौध १, ५, ४८; विध २३, ४८;
 वैध ३, ४, ६; -तया वैश्रौ १२,
 १७ : १७; हिश्रौ ७, २, ३९;
 -ताम् द्राष्ट ३, १, ४९.

a) पामे. पृ १७४० m द्र.। b) उप. कृत्यः यत् प्र.। c) = अभ्यनुज्ञा-। उप. भावे घल् प्र.।
 d) वैषर् द्र.। e) प्रस्- = पुष्प-। f) सप्र. प्रसूमयत् <> प्रसूनः <> प्रसूनम् <> काश्रौ ५, १, २०
 कुशाप्रस्वः इति पामे.। g) तु. पासि. [निसा.]। h) पामे. वैप २, ३खं. प्रसूतः गोत्रा २, १, २ टि. द्र.।
 i) पामे. वैप १, २२१५ d द्र.। j) = सुत्या- इति भाष्यम्?। k) बस.। l) विप. (प्रस्तर-, बहिस्-)
 m) पामे. वैप १, २२१७ n द्र.। n) भाप., नाप. (पारिभाषिक-संज्ञा- [पा.])।

प्रसारित-द(शा>)शा^a- -शाम्
काशौ ७, २, १६.
प्रसारित-पाद^a- -दः शांग् ४, ८,
७; बौध १, ५, १५; वैध २, १२, ३.
प्रसारितपादो(द-उ)पस्थकृतो
(त-उ)पाश्रित^b- -तस्य वाध
१३, २३.
प्रसारित-सुजद्वय^a- -स्यस्य विध
११, ३.
प्र-सारिन्- पा ३, २, १४५; -रिणा
अप्रा ३, ४, १०.
प्र-सार्य आपश्रौ १५, १९, ४; २२,
२८, १०४; बौश्रौ.
प्र-सार्यमा(ण>)णा- -णाम् गोघृ
३, ६, ७.
प्र-सत्, ता- -तम् हिश्रौ २१, २,
५३^२फ; -तात् वाध १५, २०^d;
-ताम् शाश्रौ १६, १, २; आगृ १,
१३, ४^e; -तायाम् द्रागृ ३, ४,
११; -ते द्राश्रौ ९, ३, २३^f;
-तेन आगृ १, १३, २^g६.
प्रसृ^h-यावक^h- -कः वाध २२,
११; बौध ३, १०, १२; गौध १९,
१४; -कम् बौध ३, ५, ४, ६, १ⁱ.
प्रसृता (त-आ)कृति^a- -तिः
आपश्रौ ६, ३, ७.
प्र-सृति^j- -तिना कौसू ६७, २६;
-तिम्^k माश्रौ १, २, २, ३०;
वाश्रौ १, २, ४, ६६; बौगृ १,

६, २६.
प्रसृति-त्रय- -यम् विध १४, २.
प्रसृति^l-यावक^h- -कम् विध
४८, १ⁱ.
प्र-सृ^l->प्रसृ-ता- -ता कौशि ४.
प्र√सृज्, ङप्रसृजत^m अप १, ४०, १;
अशां १०, १.
प्रसृजति या १०, ४ⁿफ; प्र...
सृजन्ति हिश्रौ १७, ७, २५-२७;
प्रासृजत् या १, ७^o; प्र...असृ-
जत् या १, ७ⁿ.
प्रससृज या १०, ४ⁿफ; प्र...
असृजत् निसू ९, ५: ७ⁿ;
प्र(असृजत्) शैशि ३३४ⁿफ; प्र...
असृजन् नुसू ३, १०: ३४ⁿफ;
ङप्र(असृजन्) सात्र १, ५३४; २,
३३६; प्र(असृजन्) ऋत्र २, ९,
१७ⁿफ.
प्रसृज्यन्ते आपगृ २, १६; भागृ
१, १२: १६; प्रसृज्येत लाश्रौ
१०, १९, १; गोघृ १, ५, २२.
प्र-सृ^o- -गे शाश्रौ ३, २१, ७.
प्र-सृज(न>)नी^o- -नी कौसू २९,
५.
प्र-सृज्यमान- -नम् निसू ३, १२: २.
प्र-सृ(ष्ट>)ष्टा- -ष्टाः आगृ ४, ७,
१५.
प्रसृष्ट-वृषण^a- -णः जैगृ १, १२:
३ⁿफ.

प्र-सृश्यमाण- -णः आगृ ३, १०, १.
प्र-सृष्टवै वाधश्रौ ४, ७५: २२; ३४.
प्र√सृप्, प्रसृपति माश्रौ २, ५, १, १;
वाश्रौ ३, ३, ४, १८^oफ; अप ७१,
४, ३; प्रसृपतः बौश्रौ १२, १८:
७; प्रसृपन्ति आश्रौ ५, ३, २१;
शाश्रौ ६, १२, १××; आपश्रौ
१२, २९, १५; १८, २१, ५^o;
२२, ९, १७; काश्रौसं; ङप्रसृपत्तु
बौश्रौ १७, ४०: २३; आगृ १,
३, ३: ७; प्रसृपत शाश्रौ ६, १३,
३ⁿफ; प्रसृपाणि शाश्रौ १५, १४,
७ⁿफ; प्रसृपत् आपश्रौ १३, ६,
१७ⁿफ; बौश्रौ २१, १९: ४; ७;
प्रसृप्युः शाश्रौ १५, १४, ६;
लाश्रौ ९, २, ५^o.
प्रसृपयति बौगृ ४, ४, ९.
प्र-सृप- > प्रासृपिक^r- -कस्य
मीसू १०, २, ३५.
प्र-सृपक- -काः आश्रौ ५, ३, २३;
हिश्रौ १०, ४, ६२; जैश्रौका १६८;
-काणाम् आपश्रौ १३, ६, १७;
-केभ्यः आपश्रौ ११, ९, ८××;
बौश्रौ.
प्रासृपक^r- -कम् माश्रौ २, ४,
५, १५.
प्र-सृपण- -णम् बौश्रौ २५, १९:
६; -णात् आश्रौ ५, १, २.
प्रसृपण-प्रभृति- -तयः बौश्रौ

a) बस. । b) दस. (तु. मनु: [४, ११२]) । c) = संप्रसारण- । d) = नदी- । सप्र. गौध २०,
१० स्रवन्तीभ्यः इति पाभे. । e) = परिमाण-विशेष- । f) सप्र. लाश्रौ ३, ७, ८ प्रभृते इति पाभे. ।
g) वैतु. St. old. च दधिप्र इति पूर्वेषु समस्तमिति । h) उप. = यवविकार- । i) सपा. °सृत^o
<>°सृति° इति पाभे. । j) भाप., नाप. (परिमाण-विशेष-) । k) पाभे. वैप १, २२१६८ द्र. ।
l) उप. कर्त्तरि कः प्र. । m) °तः इति पाठः ? यनि. शोधः । n) = प्र-वास- (तु. सप्र. आश्रौ
२, ५, ७) । o) = प्रथि- इति केशवः । p) पाठः ? । सप्र. तां १८, ९, ४ आपश्रौ १८, २१, ५
प्रसृपन्ति इति, हिश्रौ १३, ७, १३ संप्रसृपन्ति इति, लाश्रौ ९, २, ५ प्रसृप्युः इति पाभे. । q) भाप. ।
r) तस्येदमीय^३ ठक् प्र. । प्रसृ° इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आन. प्रसृ.) । s) = (प्रसृपकसंबन्धिन-) द्रव्य- ।
तस्येदमीयः अण् प्र. ।

२६, २: ९.

प्रसर्पण-मन्त्र- -नैः वैश्रौ १६,

५: ८; हिश्रौ ९, २, ७.

प्र-सर्पत्- -र्पन्तः वैताश्रौ १८, १२.

प्र-सर्पित्- -र्पिणाम् आश्रौ ५, ३, २६.

प्र-सृप्त- -सः शाश्रौ ७, ७, ४;

आपश्रौ १३, ९, ३; -सम् बौश्रौ

२१, १९: ७; -साः आपश्रौ १३,

१५, ६; -साय आपश्रौ १३, ७,

८; -सेभ्यः काश्रौ १०, २, ३२;

-सेषु आपश्रौ २१, १०, २;

हिश्रौ १६, ४, ५५.

प्र-सृप्य आश्रौ १, ४, ३; ५, ३,

२३××; शाश्रौ.

प्र-सृप्यत्- -स्यन्तः^५ हिश्रौ ८, ५,

१५; वैताश्रौ १८, ११.

प्र-सृप्यत्- -प्यन् आपश्रौ १२,

२०, ६; -प्यन्तः^६ आपश्रौ

१२, १८, १६; लाश्रौ ८, ९, १२^७.

प्र-सेक-प्र-सेचन- प्र√सिच् द्र.

प्र-सेधमान- प्र√सिष् द्र.

प्र-^८। प्रा^९से(ना>)न^८- ऋत ५, २,

८; -नेन माश्रौ ६, १, २, २७^८.

प्रसोदरी^९- -यै वैश्रु ३, १६: ६.

प्रस्कण्व^{१०}- पा ६, १, १५३; -ण्वः

शाश्रौ १६, ११, २६; ऋञ्च २,

१, ४४; ८, ४९××; वृदे; साञ्च

१, ९६^१; या ३, १७; -ण्वम्

शाश्रौ १६, ११, २५; -ण्वस्य

ऋञ्च २, ८, ५५; शुञ्च २, ४१८;

या ३, १७^१.

प्र√स्कन्द, प्रस्कन्दति बौश्रौ ८, ९:

२३; प्रस्कन्द कौसू २५, २८^१;

प्रस्कन्देत् आपश्रौ १३, ९, ९;

वैश्रौ १६, ११: ७; हिश्रौ ९, ३,

१५; अप ४०, ६, ६^१.

प्रस्कन्दयति बौश्रौ १, ६: २६;

७: १४^१××; भाश्रौ; प्रस्कन्दयस्व

माश्रौ २, ५, १, ११; प्रस्कन्दयेत्

बौश्रौ २०, ७: १८××; वैश्रौ

४, ८: १०.

प्र-स्कन्दत्- -न्दतः आपश्रौ १, २०,

८; हिश्रौ १४, १, ४०.

प्र-स्कन्दन्^{११}- पाग ३, ४, ७४;

-नात् बौश्रौ २०, ६: २८××;

-ने बौश्रौ २१, १७: १

प्रस्कन्दना(न-अ)न्त^{१२}- न्तः

बौश्रौ २५, ३१: ७; -न्तम्

बौश्रौ २४, ३३: ३××.

प्र-स्कन्दयित्वा आपश्रौ १, २०, ११;

२१, ७.

प्र-स्कन्ध गौघ २१, २२.

प्र-स्कञ्च- -ञ्चात् आपश्रौ ९, १७,

१^१; -ञ्चान् भाश्रौ १, २२, ८;

-ञ्चानि भाश्रौ १, २३, ९.

प्रस्तन्ति वाश्रौ ३, १, २, ४४.

प्र-स्तर- प्र-स्तर- प्रसृ. प्र√स्तु, स्तृ

द्र.

प्र-स्तीत- , स्तीम- प्र√स्त्यै द्र.

प्र-स्तीर्ण- , र्थं प्र√स्तु, स्तृ द्र.

प्र√स्तु, ऋप्र^{१३}स्तवते आश्रौ ६, ७,

८; ९, ९, ११; आपश्रौ ११, ९,

१; हिश्रौ ७, ५, ३५; १०, ३, ४१;

ऋप्र (स्तवते) शाश्रौ ५, ७, ३;

१३, ९, २; १५, ३, ५; काश्रौ.

प्रस्तौति बौश्रौ १६, ७: ९;

हिश्रौ १६, ४, २०; निसू २,

१०: १; १५; ऋप्र (स्तुवे)

आश्रौ ३, ८, १; शाश्रौ ८, ३,

११; काश्रौ; ऋप्रस्तुहि आपश्रौ

१२, १७, १३××; वैश्रौ; ऋप्र-

(स्तोत>त) आश्रौ ६, ४, १०;

शाश्रौ १२, १, ३: ४; १८, १३, ६;

ऋञ्च; प्रस्तुयात् द्राश्रौ ११, ४,

४; लाश्रौ ४, ४, ४; ७, ६,

१३.

प्र^{१४}अस्ताविषम् कौसू १०७, २^१.

प्रस्तावयति निसू ३, १३: ११;

४, १: २५; ७, २: १३; १७;

प्रस्तावयन्ति निसू ४, १: २६;

प्रस्तावयामः निसू ४, १: २८.

प्र-स्ताव- पा ३, ३, २७; -वा^१

आपश्रौ २१, १०, ४; लाश्रौ ६,

१, १५××; निसू ४, १: २७;

वृदे ८, १२२; -वा^१ जैश्रौका

११७; द्राश्रौ; -वा^१ द्राश्रौ ३, ४,

२५; लाश्रौ १, १२, ११; ७, ८, ७;

-वे जैश्रौका ११७; निसू ४, १:

३५^२; ३८; -ऋवेन आपश्रौ १७,

१०, १; वैश्रौ १९, ६: १३; -वैः

द्राश्रु ३, २, २१.

प्रस्ताविक^{१५}- -के लाश्रौ ७,

६, ११.

प्रस्ताव-निमित्त^{१६}- -त्तः निसू

४, १: ३४.

प्रस्ताव-प्रतिहार-णि (<नि)

धन- -नानाम् लाश्रौ ७, ९, ६.

प्रस्ताव-शान्ध- (न्ति-अर्थ>)

र्था- -र्था लाश्रौ ९, ७, ५; निसू

२, १३: ४१.

प्रस्तावा(व-अ)न्त- -न्तेषु द्राश्रौ

५, २, ९; लाश्रौ २, ६, ४.

a) परस्परं पाप्मे । b) ष्यन्तः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सस्थ. भक्षयिष्यन्तः) । c) ऋत. पाठः ।

d) वैप १ द्र. । e) = भूमि-देवता- । व्यु. ? । f) प्रा^{१७} इति पाठः? यनि. शोधः (तु. ऋञ्च २, १, ४४) ।

g) उप. भावे अपादाने वा प्र. । h) बस. । i) = (सामादौ प्रस्तोतृ-प्रस्तूयमाना-) भक्ति- (तु. लाश्रौ ७, ६, १३) ।

j) तस्येदमीयष् ठक् प्र. ।

प्रस्तावान्त-लक्षण- -णम्
लाश्रौ ६, १०, १.
प्रस्तावा(व-ञ)वधि^६- -धि^७
जैश्रौका १५१.
प्र-स्ताव्य^८- -व्ये लाश्रौ ६, १,
२०.
प्र-स्तुव, ता- -तः निस् १०, ६ :
१६; -फँतम् आपश्रौ १९, १२,
५; बौश्रौ १९, ३ : १३; हिश्रौ
२३, २, १६; -ताः वैश्रौ ६, ५ :
९; -तायाम् बौश्रौ ७, ८ :
१३; ८, २ : २०××; वैश्रौ;
-तासु काठश्रौ ५९; -ते बौश्रौ
८, ८ : ८××; माश्रौ; हिश्रौ १६,
३, १९^९; २३^९; २९^९; ४०^९;
लाश्रौ ३, ७, ८^९; -तेऽ-ने
जैश्रौका १५४; -तेषु शंघ
१२.
प्र-स्तुत्य जैश्रौका १२४; द्राश्रौ ५, २,
१८; ९, ४, ९; लाश्रौ; प्रस्तुत्य-
ऽप्रस्तुत्य माश्रौ ५, २, ९, ५.
प्र-स्तुयमान- -ने जैश्रौ १७ : १८;
जैश्रौका १२३; द्राश्रौ ६, १, १५;
लाश्रौ २, ९, ११.
प्र-स्तोवृ^१- पाउभो २, १, १४५;
-फँतः काश्रौ २६, २, २५;
आपश्रौ १३, २०, ३××; बौश्रौ;
-ना आपश्रौ ४, १, ६; शाश्रौ ५,
१२, ३××; काश्रौ; लाश्रौ १, ५,
१; ९, १; १४; जैश्रौका ३४६;
वैताश्रौ ११, ३; -ताम् शाश्रौ
१७, १४, ४; आपश्रौ; -तुः
आश्रौ ९, ४, १०; १२, ९, २;

बौश्रौ; -त्रा काश्रौ ११, १, १९;
जैश्रौका ४६××; द्राश्रौ १५, २,
१९; लाश्रौ ५, १०, १९; -त्रे
काश्रौ ९, ६, ३४; १५, ८, २३;
आपश्रौ.
प्रस्तोता-प्रतिहर्तु- -तारौ शाश्रौ
१७, १४, ६; बौश्रौ १७, १८ : २;
१९ : २; जैश्रौ २ : १३××;
-तृभ्याम् बौश्रौ १२, १८ : १५;
जैश्रौका १०९.
प्रस्तोतृ-प्रदास्तृ-ब्राह्मणाच्छं सि-
पोतृ-नेष्टृ (ष्टृ-ञ)च्छावाको(क-
उ) श्चेतृ-प्रावस्तुतृ-सुब्रह्मण्य-
-ण्येभ्यः काश्रौ १०, २, ३१.
प्रस्तोतृ-मैत्रावरुण-प्रतिप्रस्थातृ-
ब्राह्मणाच्छंसिन्- -सिभ्यः लाश्रौ
९, १, १०.
प्रस्तोतृ-सुब्रह्मण्य- -ण्यौ द्राश्रौ
१, १, १३; लाश्रौ १, १, १३.
प्र-स्√तुम् पावा ६, १, १५७.
प्र√स्तु, स्तु, प्रस्तृणात्ति कौस् ८७,
२७.
प्र-स्तर^१- -रः काश्रौ ५, १, २०^१;
८, १, १०; २२, १०, २४; आपश्रौ;
-रम् आश्रौ २, १९, २२^१; ५,
२०, ६; काश्रौ; बौश्रौ ५, १ :
७^१; कौश्रु ४, ४, १०^१; -रयोः
बौश्रौ ५, ६ : ७; -रस्य काश्रौ
८, ६, २७; आपश्रौ ८, १४, ७;
बौश्रौ; -रात् आपश्रौ ३, ७, ५;
काठश्रौ १३; बौश्रौ १, १९, २१;
भाश्रौ ३, ६, ९^१; ४, १८, ४^१;
माश्रौ; -रान् वैश्रौ १८, १६ :

८५; हिश्रु २, ६१××; -राय
बौश्रौ १, २ : ९××; माश्रौ १,
१, १, २९; ३२; -रे आश्रौ ४,
५, ७; शाश्रौ ५, ८, ५; १०,
३६; काश्रौ; वाघ ४, १४^१; -रेण
बौश्रौ ६, १८:३××; वाघश्रौ ४,
२६^१; ६; वैश्रौ ७, १०:६; -रैः
अप ३३, ७, ७^१; -रौ बौश्रौ ५,
६ : ३; ६.
प्र-स्तर^१- -रम् शुभ्र १, ९८;
-रे शुभ्र १, १०६; १२७.
प्र-स्तर^१- -रीम् शुभ्र १,
१२८.
प्र-स्तर-ग्रहण- -णम् काश्रौ २,
७, १८.
प्र-स्तर-तृण- -णे आपश्रौ ४, १२,
८.
प्र-स्तर-परिधि- -धि आपश्रौ
११, २, ११; १८, २०, २०; बौश्रौ
४, १० : १४××; माश्रौ १२, २,
९; हिश्रौ ७, ४, २; -धीन् बौश्रौ
२३, ९; ३५; माश्रौ १, ७, ५, १०.
प्र-स्तर-पाणि^१- -णिः आपश्रौ
२, ९, ५; बौश्रौ १, १३ : १९××;
-णी बौश्रौ ५, ६ : ४.
प्र-स्तर-बर्हिस्^०- -र्हिः आपश्रौ
२, १८, ३; वैश्रौ ६, ८ : ९; हिश्रौ
२, २, २३; ७, ४, २.
प्र-स्तर-बर्हिर्-विद्यति-पवित्र-यूप-
रदाना-शालाक-परिस्तरणा (ए-
ञ)न्तर्धाना(न-ञ)सन-शयन-
स्तोत्रोपाकरण(ए-ञ)र्थ- -र्याः
बौश्रौ २८, १३ : १०.

a) वस. । b) वा. क्वि. । c) अर्हार्थे कृत्यः यत् प्र. । d) पाठः? अ-प्रस्तुतम् इति आपश्रौ २१, ७, १० पाभे. (तु. ०.) । e) सप्र. द्राश्रौ ९, ३, २३ प्रस्ते इति पाभे. । f) = ऋत्विग्-विशेष- । g) पाठः? त्रा इति शोषः । h) वैप १ द्र. । i) सप्र. प्रस्तरः <> प्रस्तरम् <> बर्हिः इति पाभे. । j) सपा. शांश्रु ४, १८, ५. स्रस्तरम् इति पाभे. । k) पुस्तात् इति पाठः? यनि. शोषः (तु. सप्र. आपश्रौ ३, ७, ५) । l) = कट- । m) अर्थः? । n) सत्यदेवतीयः षण् प्र. । o) मलो. कस. ।

प्रस्तर-भूय^१- -यम् बौश्रौ २०,
२४: ३९; २४, ३३: २२.
प्रस्तर-मात्र- -त्रम् काश्रौ ५, ८,
२९.
प्रस्तर-मूल- -लानि आपश्रौ २,
९, १४; -लैः वाश्रौ १, ३, ३, १९.
प्रस्तर-वत् काश्रौ ३, ७, ११;
आपश्रौ ३, १४, ७; आपृष्ट ७,
१३; बौष्ट १, ४, ३६; नीसू ११,
३, १०.
प्रस्तर-हस्त^२- -स्तः वाश्रौ १,
३, ३, १४.
प्रस्तरा(र-आ)दान^३- -नम्
काश्रौ ३, ६, ४.
प्रस्तरा(र-अ)नुप्रहरण- -णम्
काश्रौ ४, २, ४२.
प्रस्तरी^४√कृ > प्रस्तरी-कृत्य
वैश्रौ ९, ५: ९.
प्रस्तरे-घा- -घाः बौश्रौ १,
१९: ३७; कौसू ६, ९.
प्रस्तार^५- पा ३, ३, ३२; -रः
आपृष्ट १७, ३; ९; बौष्ट ८:
२१××; हिष्ट ५, ४२; ५२;
-रम् बौष्ट ७: १३; १६: ६;
-रान् आपृष्ट ७, ११××; बौष्ट;
-रे वैश्रौ १८, १६: ८२; आपृष्ट
७, ६××; बौष्ट.
प्रास्तारिक- पा ४, ४, ७२.
प्रस्तार-पङ्क्ति^६- -ङ्क्तयः अत्र
८, २१; -ङ्क्तिः निसू १, ३:
७; ऋत्र १, ८, ६; २, १,

१६४××; शुत्र; अत्र २, ४;
६; ९××; ऋत्रा १६, ६०;
उनिसू १: ४३; पिं ३, ४१;
-क्ती ऋत्र २, १, ८८; १०, १३२;
अत्र १४, २.
प्रस्तारपाङ्क्ति^७- -ङ्क्तम्
ऋत्र २, १०, १३.
प्र-स्तोर्ण- -र्णम् शौच १, २४; -र्णौ
निसू १, ३: ८.
प्र-स्तोर्थ कौसू १, ३६.
प्र-स्तृण(त>)ती- -ती अत्र ८, ७१.
प्र-स्तोक^८- -कः शाश्रौ १६, ११,
१२; ऋत्र २, ६, ४७; वृदे ५,
१२४; १४०; -कस्य ऋत्र २, ६,
४७; -के शाश्रौ १६, ११, ११.
प्र-स्तोत- प्रष्ट. प्र√स्तु द्र.
प्र√स्त्ये > प्र-स्तीत- प्र-स्तीतवत्-
प्र-स्तीम- प्र-स्तीमवत्- पा ६,
१, २३; ८, २, ५४.
प्र√स्था^९, प्रप्रतिष्ठ आश्रौ १, १३, ७;
शाश्रौ ४, ७, १७; काश्रौ;
प्र...तिष्ठत हिपि १८: ४१;
प्रतिष्ठत वाध १०, १; प्रतिष्ठेत्
वैश्रौ २१, ४: ७; प्रतिष्ठेयाताम्
वैष्ट ५, १: २९; प्रतिष्ठेरन् आमिष्ट
३, ५, ५: ३; बौपि १, ४: ३.
प्रस्थास्यति बौध ३, १, ९;
प्रस्थास्यामि^१ शाश्रौ ४, ७, १६;
काश्रौ ३, ५, १; ६, ९, ७; प्रस्था-
स्यामः^२ आश्रौ १, १३, ६; आपश्रौ
३, ४, ५××; बौश्रौ; प्र...अस्थात्

आश्रौ ८, ९, २१; प्र(अस्थात्)
वृदे ६, १८१; प्र...अस्थुः
आश्रौ ६, ५, २४; या ६, १६;
प्र(अस्थुः) शाश्रौ ९, २०, ३२१.
प्रस्थापयति आपश्रौ १, २, ४;
भाश्रौ १, २, १५; ८, १, ११;
हिश्रौ १, २, १६; प्रस्थापयताम्
हिष्ट १, १८, ११; प्रस्थापयेत्
आपश्रौ १४, ४, ९; काष्ट ४५, ६.
प्रस्थापयाम् √अस(मुवि),
प्रस्थापयामास वृदे ५, १३६.
प्र-तिष्ठमा(न>)ना- -नाः आष्ट
२, १०, ५; कौष्ट ३, ५, ४; शाष्ट
३, ९, १; हिष्ट १, १८, १; कौसू
२१, १०; -नाम् कौसू ९२, १५;
-नायाम् कौष्ट १, ९, १; शाष्ट
१, १५, १.
प्र-ष्ठ- पा ८, ३, ९२.
प्र-स्थ^३- (ब्रमा) पावा ३, ३, ५८;
-स्थः वेज्यो ८^४; -स्थम् अप ३३,
३, ३^५; विध ९०, १; -स्थयोः
बौश्रौ २३, ५: १३^६; -स्थान्
बौश्रौ २६, २४: १३^७; -स्थानि
अप ७०^८, १०, १^९; -स्थे बौश्रौ
१७, १८: ८^{१०}; -स्थेन आमिष्ट
२, ४, १०: २२.
प्रस्थ-चतुर्भाष^{११}- -नाम् आमिष्ट
२, ३, १: ११.
प्रस्थचतुर्भाष-तण्डुल-पा
(क>)का^{१२}- -का वैश्रौ ११, ९:
१३.

a) उप. भावे क्यप् प्र. । b) बस. । c) उप. <आ/दा (दाने) । d) = स्तर- (तद् इति नभा.) । e) = छन्दो-विशेष- । बस. । f) विप. (सूक्त-) । तस्येदमिथे अणि उप. वृद्धिः । g) वैप १ द्र. । h) पा १, ३, २२ परामृष्टः द्र. । i) पाशे. वैप १, २२२०० द्र. । j) उप. कत्राद्यर्थेषु कः प्र. । विशेष उत्तरेषु टि. द्र. । k) = ([उपचारात्] प्रस्थ-परिमित-जलनिर्गमनौपयिक-) काल-परिमाण- । l) = [द्वान्त्रिंशत्पत्रमाख-] परिमाण- विशेष- । m) = सौमान्तरित- इति संस्कृतेः सूची । n) = क्रमावस्थित-पञ्च- इति संस्कृतेः टि. । o) पाठः ६. प्रस्थानि भूतानि > स्थाने प्रभूतानि इति संस्कृतेः टि. ?शोधः । p) = खण्डवप्रस्थ- (स्थान-विशेष-) । q) विप. षस. उप. प्रमाणे प्र. लुक् । r) कस. > बस. ।

प्रस्थ-चरुस्थाली- लीम्
 आमिष्ट २,३,१:१२.
 प्रस्थ-तण्डुल- लैः वैष्ट ५, ७ :
 १०.
 प्रस्थतण्डुल-पा(क>)का^१-
 -का वैश्रौ ११,९,१३.
 प्रस्थ-पयः-पूर(र्यो>)र्णा- र्णा
 वैश्रौ ११,८:६.
 प्रस्थ-रुर-वहा(ह-अ)न्त- न्तात्
 पा ४,२,१२२.
 प्रस्थ-पूर्ण,र्णा- र्णः वैश्रौ ११,
 ९:१५; -र्णम् वैश्रौ ११, ८:
 १३; -र्णा वैश्रौ ११, ९:७.
 प्रस्था(स्थ-अ)र्ध-तण्डुल-पा
 (क>)का^१- -का वैश्रौ ११,९:
 १३.
 प्रस्था(स्थ-अ)र्धो(र्ध-उ)दक-
 पू(र्यो>)र्ण^१- -र्णा वैश्रौ ११,
 ८,५.
 प्रस्थो(स्थ-उ)त्तरपद^१ पा ४,२,
 ११०.
 प्रस्थान- नात् वाश्रौ १,१,५,१४;
 -ने बौश्रौ २०, १४:२१०;
 आज्यो ५,२; ६,१.
 प्रास्थानिक^१- -कम् काष्ट
 २३,१; अप १८^२,२,७.
 प्रस्थान-काल- -ले विष्ट ६३,३९
 प्रस्थानी(व>)या- -याम्
 द्राश्रौ १२,४,१; लाश्रौ ४,१२,
 १; -यायाः द्राश्रौ १२,२,३२;
 लाश्रौ ४,११,२.
 प्र-स्थाय आश्रौ ५, ७, ३; शाश्रौ.
 प्र-स्थायिन्- पाठ ४, ९; पाग ३,

३,३.
 प्रस्थावत्^१- -वत् वाध २, ३४;
 तैप्रा ३,५.
 प्रस्थावृ^१- -वानः भाग १,७:
 १२^१.
 प्र-स्थित,ता- -तः आज्यो ६, ४;
 -तम् काश्रौ ६, ६, २५××;
 बौश्रौ; -तस्य बौश्रौ १३, २६:
 ११; या ७, ६; -ता या ६,
 १६^१; -ताः शाश्रौ^१ ७, ५,
 ११^१; आपश्रौ १, २, ८; भाश्रौ
 १, २, १८; हिश्रौ १, २, १९;
 वैताश्रौ १९,२०^१; -तान् शाश्रौ^१
 ७, ५, १९; १७, १५××;
 काश्रौ; -तानाम् शाश्रौ १०, ७,
 ७^१; १४, ५२, २××; आपश्रौ
 १, २, ५; हिश्रौ १, २, १८;
 -तानि या ६, १६; -ताम् जैष्ट
 १,२२:१; -तायाः अप ३५,१,
 ३^१; -तेषु बौश्रौ १६, ३:२८;
 हिश्रौ ८, ७, ५; -तैः हिश्रौ ९,
 ३,४८; वैताश्रौ १९, ५.
 प्रस्थित-याज्या^१- -ज्याः आश्रौ
 ५, ५, १८; वैताश्रौ २१,२१^१;
 निस् ३, १:२४; -ज्यानाम्
 आश्रौ ८,१,१; वैताश्रौ ३१,२७;
 -ज्याभिः आश्रौ ५,५,१५; निस्
 ३,१:२६; -ज्यासु आश्रौ ५,५,
 २०.
 प्रस्थितयाज्या-होम- -मान्
 वैताश्रौ २२,२१.
 प्रस्थित-होम- -मान् वैताश्रौ
 २१,२२.

प्र√स्ना, प्रस्नायात् जैष्ट १,१६:५५
 १७:५.
 प्र-स्नातृ- -तारौ या ६,१७.
 प्र-स्नेय- -याः या १, ९^२; -यात्
 काश्रौ २०,२,१३.
 प्र√स्निह् > प्र-स्निग्ध- -ग्धे अप
 ६३, १,८.
 प्र√स्तु, प्रस्तौतु बौश्रौ ८, १०:११.
 प्र-स्तवन- -ने बौध १,५,४९.
 प्र-स्तु(त>)ता- -ता जैश्रौ ३:
 १९; २१××; -तायाम् वैश्रौ
 १६,१२:२२.
 प्र√स्फुर > प्र-स्फुरत्- -रन्तः अप
 ६४,६,१०.
 प्र√स्मि, प्रस्मयते या ९,१४.
 प्र√स्यन्द्, प्रस्यन्देरन् आश्रु २, ७,
 १२; ४,१,१५.
 प्रसस्यन्दिरे या २,१६.
 प्रो (प्र-उ) अस्यान् ऋत्र २,
 ९,८९^१.
 प्र (असिष्यदत्) ऋत्र २, ९,
 ७८^१.
 प्र-स्यन्दिन्- -न्दिनि गौध १६,४२.
 प्रस्यन्दिनी- -न्याम् आपश्रौ
 १६, ९,८; वैश्रौ १८,७:१०.
 प्र-स्र- प्र√स्र द्र.
 प्र√स्रंस > प्र-स्रस्य आपश्रौ १४,
 २२,१:२; वैश्रौ; हिपि २:१३^म.
 प्र-स्रक्ष्यमाण- प्र√स्र्ज द्र.
 प्र-स्रप्स्यत्- प्र√स्र्प द्र.
 प्र-स्रव- प्रष्ट. प्र√स्रु द्र.
 प्र-स्रष्टवै प्र√स्र्ज द्र.
 प्र-स्राव-, व्य प्र√स्रु द्र.

a) बस. । b) षस. > कस. > बस. । c) = कर्मावसाने इति संस्कृतुः टि. । d) = कर्म-विशेष- ।
 तदस्यप्रयोजनमित्यर्थे ङक् प्र. (पा ५, १, १०९) । e) वैप १ द्र. । f) पाभे. वैप १, २२२० a द्र. ।
 g) = (तदाव्य-) सोमचमस- । h) पाठः? एतान् इति शोधः (तु. उत्तरं स्थलम्, C. च) । i) पाठः?
 एतन् इति शोधः (तु. C.) j) = (सोमचमसपानार्था-) याज्या- । k) मलो. कस. । l) ज्या इति पाठः?
 कनि. शोधः (तु. C.) । m) पाभे. पृ १७३३ f द्र. ।

प्र√सु, प्रस्रवन्ति आपश्रौ ४, ४, ४;
 बौश्रौ; कौसू ९, २^३; ४१, १४^३;
 अप ३२, १, २६^३; अत्र ६, २४^३;
 प्रस्रवेत् अप ६४, ८, १.
 प्रस्रावयति आपश्रौ ५, ५, ५;
 हिश्रौ २, ४, ४२; १०, २, ३०;
 प्र(सावयन्ति) ऋअ २, ९, १६^३.
 प्र-स्रव- -वे विध २३, ४९.
 प्र-स्रवण^०- -णम्^० आश्रौ १२,
 ६, २७; शाश्रौ १३, २९, २०;
 आपश्रौ २३, १३, ४; ५; हिश्रौ
 १८, ४, ३९^३; -णानि^० काठश्रौ
 ७; माश्रौ १, २, १, ६; लाश्रौ
 ९, २, २८^३; काण्ड ४६: ४;
 -णे^० बौश्रौ १६, २९: १६; ३०:
 ८; वाध २८, ८^३; शंघ १७७^३;
 -णेन माश्रौ १, ३, २, २०^०;
 -णेभ्यः वैवृ ६७: १३^३; माण्ड
 २, १४, २४^३; -णेषु विध ८५,
 ५७^३.
 प्रास्रवण^१- -णम् लाश्रौ १०,
 १७, १२; १७, १४^३; -णे काश्रौ
 २४, ६, ७^३.
 प्रस्रवण-देवखाल-सरोवर- -रेवु
 विध ६४, १६.
 प्र-स्रवत्- -वत् विध ६४, १७.
 प्र-स्राव- पा ३, ३, २७.
 प्र-स्राव्य हिय १, १४, २; द्राण्ड ३,
 ४, १९.
 प्र√स्वप > प्रस्वापयाम् √अस,

प्रस्वापयामास वृदे ६, १३.
 प्र-सुप्त- -सा: अप १, ८, १०.
 प्र-स्वाप-> ^०स्वापो(प-उ)थ्यान्^१-
 -नम् शंघ २४९.
 प्र-स्वापि(न् >)नी^३- -न्यः ऋअ
 २, ७, ५५; वृदे ६, २.
 प्र√स्विद्, प्रस्विद्यन्ते अप ७०^३, ८,
 ३; प्रस्विद्यन्ते अप ७२, ४, ४.
 प्र√स्वृ, प्रस्वरति ऋप्रा १५, ५;
 प्रस्वरेत् द्राश्रौ ३, ४, २^३.
 प्र-स्वार^१- -रः ऋप्रा १५, ५.
 प्र√हन्, प्रहन्ति आपश्रौ २०, ३, १२;
 बौश्रौ १५, ५: २९; हिश्रौ १४,
 १, ३३; प्र (जहि) अत्र १२, ५
 (६)^३; प्रहण्यात् हिश्रौ १४, १,
 ३४.
 प्रवान् आपश्रौ ६, २१, १^३.
 प्राधानि पावा ८, ४, २.
 प्र-घण-, प्र-घाण- पा ३, ३, ७९.
 प्रघाण-रूप^३- -पाणि हिश्रौ ७,
 १, ३१.
 प्र-घात- -तः भाशि ३८^३.
 प्रघात-कम्प-निर्घात- -ता: अप
 ६४, ५, ९.
 प्र-हर-, ण- प्रसृ. प्र√हृ द्र.
 प्र-हर्ष-, णि- प्रसृ. प्र√हृष द्र.
 प्र√हृस्, प्रहसन्ति अप ७१, १०, १;
 प्रहसेव् माण्ड २, १५, ६; प्रह-
 सेयुः अप ७१, १३, १.
 प्र-हसत्- -सन् अप २४, ४, २.

प्र-हसन- पाग ८, १, २७; -ने पाग
 १, ४, ७४^०.
 प्रहसने^०/कृ पा १, ४, ७४.
 प्र-हास- -से कप्र १, २, १३; पा १,
 ४, १०६; ८, १, ४६.
 प्रहासो(स-उ)द्वीक्षण-क्रिया-
 -या अप ६४, ६, २.
 प्र-हस्त^३- -स्तम् जैवृ १, २१: १.
 प्रहस्त-मात्र- -त्राणि काठश्रौ ७;
 काण्ड ४६: ४.
 प्रहस्तक^३- -कः शाश्रौ १८, ४, ८; ५,
 ९; ११.
 प्र√हा (त्यागे), प्रजहाति बौश्रौ ६,
 २८: २२.
 प्रहसीत् आपश्रौ ६, २५, २^३;
 ९, ७, ६^३; बौश्रौ २४, ३०:
 २१^३; भाश्रौ ६, ५, ५^३××; हिश्रौ
 ६, ७, ५^३××; काय; प्रहसीः
 आश्रौ २, ५, ७^३; ३, १२, ७^३;
 माश्रौ १, ६, ३, १८^३; वैश्रौ.
 प्रहीयते आउयो १२, ८.
 प्र-जहित^३- -तम् लाश्रौ २, २, २२^३;
 -तेषु बौश्रौ २६, ३२: १^३.
 प्राजहित^३- -तः शुअ १, ३४८; ९,
 -तम् आपश्रौ ११, १५, १; २१,
 ३; १३, २५, ३; वैश्रौ १४, १३:
 ९××; हिश्रौ ७, ८: ६३; १०,
 ३, ४२^३; जैश्रौ; द्राश्रौ ४, २,
 १३^३; -तस्य मीसु १२, १, १३;
 -तात् वैश्रौ १०, १३: ४.

a) पाप्मे. वैप १, २२२१ । द्र. । b) भाप., नाप. । विशेषः उत्तरेषु टि. द्र. । c) = (।सरस्वत्याः। उद्गम-स्थान-
 ।=प्लाक्ष-।) । d) सप्र. प्रस्रवणम् <> प्रास्रवणम् <> प्रास्रवणे इति पाप्मे. । e) = प्र-सेक- ।
 f) = लोमन्- । g) = दुग्ध-प्रक्षरण- । h) = निर्मल- । i) स्वार्थे ञ्ण प्र. । j) समाहारे द्रस. । k) = ऋवृ- ।
 l) = ओकार-शब्द- । m) पाप्मे. वैप १, २११६ । द्र. । n) वस. । o) तु. पाक्व. । p) नाप. । प्रास. ।
 q) वैप २, ३३^३. द्र. । r) पाप्मे. वैप २, ३३^३. प्रहसीत् तैत्रा १, २, १, २७ टि. द्र. । s) पाप्मे. वैप १, २, २२२ ७
 द्र. । t) = (।पालीशाल-। अग्नि-। तु. भाष्यम्, म मा ५, ३३ च।) । u) सपा. प्र <> प्रा?
 इति पाप्मे. । v) = प्रपक्वेषु (यवेषु) इति संस्कृतुः टि. । w) णि इति षाटः ? यन्नि. शेषः (तु-
 आपश्रौ. प्रसृ.) ।

प्र-हास्यत्- स्यन्तः बौश्रौ ६, २९ : २२.
 प्र-हीण- -णः नाशि १, १, ६; -णम् गौध ३, १९.
 प्रहीण-द्रव्य^१- -व्याणि वाध १६, १९.
 प्रहीण-स्वामिक^२- -कानि शंघ ३०१.
 प्र√हा (वधा.), प्रजिहति शाश्रौ १२, १७, ११^०.
 प्रजिहति सु ३१, २.
 प्रहापयति^३ माश्रौ १, ८, १, १०; वाश्रौ १, ६, १, १२; वैश्रौ.
 प्र-हाण- -णः शाश्रौ ५, १६, ४^०; -णम् माश्रौ १, ८, १, ४^१; -णाः माश्रौ २, ३, ६, १.
 प्र-हा^४- -हाम् अत्र ७, ५०^१.
 प्र-हार- प्रघ्. प्र√ह द्र.
 प्र√हि (गतौ), ङप्र (हिषे) शाश्रौ ६, ४, ५; ऋअ २, ७, ७.
 प्रहिणोति आपश्रौ ५, १५, ३; १७, ८; १८, २२, ३; बौश्रौ;
 प्रहिण्वन्ति आपश्रौ २१, ४, ४;
 ङप्रहिणोमि आश्रौ ३, ११, ६;
 शाश्रौ ४, ११, ६; आपश्रौ;
 पाण्ड १, ३, १४^५; प्रहिण्वः आपश्रौ १०, १२, ४; हिश्रौ १०, २, ४३^१;
 प्रहिण्वः सु ६, ५; ङप्रहिणुवात् आमिण्ड ३, ६, १ : ३; बौपि १, ८ : ३; ङप्रहिणुत् आमिण्ड ३, १, १ : १०; माण्ड २, ११ : १०;
 हिण्ड २, १०, ६; ङया ६, २२; ७, २०; १२, ५; प्र... हिनोत् या

७, २०^१; प्र (हिनोत्) ऋअ २, १०, १८^६; वृदे ८, ८८; प्र... हिनव > वा ऋप्रा ८, १५;
 प्राहिणोत् वृदे ८, २५; प्राहिण्वन् सु १२, ४; प्रहिणुयात् आपश्रौ ६, १५, ११; बौश्रौ १३, १० : ५; हिश्रौ.
 प्राहैषीत् बौश्रौ २२, २१ : १०; २३, २ : ८.
 २प्र-हित, ता- -तः काश्रौ १४, ५, ३०; १५, ७, २४; सु ८, २; माण्ड २, १७, १^१; -तम् वाधुश्रौ ३, ६९ : ९; ११; १३; वृदे ६, १५०; -ता या ११, २५; -ताम् ऋअ २, १०, १०८; वृदे ४, २५.
 प्रहित-नाम- -०म पाण्ड ३, १५, १९.
 प्र-हित्य बौश्रौ १३, १० : ७.
 प्रहि- पाठ ४, १३५.
 प्रहिण^५- -णः याशि २, ७८.
 १प्र-हित- प्र√धा द्र.
 प्र√हु (दाना^०), प्रहुति वाश्रौ ३, ४, २, २.
 प्रहावयति आपश्रौ १५, ११, १; वैश्रौ १३, १३ : २.
 प्र-हुत्^६- -तः बौश्रौ २४, ४ : २; कौण्ड १, १, ३; ६, ७; शाण्ड; -ताः आण्ड १, १, २; -तानाम् काण्ड १३, ५.
 प्रहुता(त-अ)नुकृति- -तिः बौण्ड ३, ५, १.
 ङप्र-हुति- -तिम् आश्रौ २, २०, ४; ३, ८, १.

प्र√ह, प्रहरति काश्रौ २, ६, ९; ३४x५.
 आपश्रौ; प्रहरन्ति बौश्रौ ६, ३० : २०; १४, ३ : ६; वाधुश्रौ ४, १६ : ७; ङप्रहरामि काश्रौ ९, ४, ११; वैश्रौ १५, ११ : १५; सु २७, १; प्रहरामि बौश्रौ १५, ५ : २८^१; प्रहर ङकौसु ४६, ५३; ५४; ङप्रहराम^१ पाण्ड १, ४, १६; काण्ड २५, २२; या ३, २१; प्र... अहरन् वाधुश्रौ ४, ६४^१ : १; प्रहरेत् आज्यो १०, ५; प्रहरेत् आश्रौ १२, ६, ७; आपश्रौ; प्रहरेयुः माश्रौ ५, १, ६, ४; वैश्रौ २०, २२ : ४; द्राश्रौ ६, ३, २०; ताश्रौ २, ११, १४; ङप्रहरेम^१ आपमं १, ११, ६; आमिण्ड १, ५, ३; १२; बौण्ड १, ७, ४४; माण्ड १, १५, १५; हिण्ड १, २०, २; जैण्ड १, २१ : १३.
 ङप्र (हर्मि) आश्रौ ७, ४, ८; शाश्रौ १२, ४, १७.
 प्रहरिष्यति वाध २७, ६; प्रहा. ^{११} तैप्रा ८, ८.
 प्रहियते वाधुश्रौ ४, ३२ : १४.
 प्र... हारयन्ति हिण्ड १, २२, १; प्र... हारयेत् आपण्ड ५, १२.
 प्र-हर^{१२}- -रे कप्र २, ६, ७.
 प्र-हरण- -णः^० आपश्रौ २, २, १; -णम्^{१३} पा ४, २, ५७; ४, ५७; -णैण^{१४} अप ३६, १, ६-११.
 प्रहरण-शेष- -वः काश्रौ २, ६, १३.
 प्रहरणा(ण-आ)दि- -दि काश्रौ

a) मलो. कस. पूष. = प्रहीणस्वामिक- b) बस. । c) धा. गतौ वृत्तिः । d) धा. वर्षापने वृत्तिः ।
 e) अर्थः? । = कुवक- इति भाष्यम्, = प्रणत- इति ०. (तु. शांत्रा २८, २) । f) पामे. पृ ५७५ g द्र. । g) वैप ३ द्र. । h) पामे. वैप १, २२२२ m द्र. । i) ण्यः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.) । j) = रङ्ग- विशेष- [= अशुनासिक-] । व्यु. ? । k) = पाकयज्ञ-विशेष- । l) पामे. वैप १, २२२३ r द्र. । m) पामे. वैप १, २२२४ d द्र. । n) = याम- । अधिकरणे षः प्र. । o) = मन्त्र-विशेष- । p) = आयुध- ।

२,६,१४.
 प्रहरणा(ण-अ)र्थ-र्थेभ्यः पावा
 २,२,३६.
 प्र-हरत्- -रन् आपश्चौ ७, १३, ५;
 बौश्रौ ४, ५ : १३; वैश्रौ.
 प्र-हरिष्यत्- -ष्यन् काश्रौ ९, ४,
 १३; भाश्रौ ७, १०, ४; वाश्रौ.
 प्र-हार- > -र-दान- -ने विध ५, ६९.
 ग्रहारो(र-उ)द्यम- -मे शंघ ३१५
 प्र-हृत, ता- -तः वाधूश्रौ ४, १६ :
 १; ८; -तम् काश्रौ २५, २,
 १७; वैश्रौ २०, ७ : १; वैताश्रौ
 ८, १०; -ता वाध १७, ७३;
 बौध ४, १, १७; -तान् वैश्रौ ७,
 ७ : ११; १०, २१ : १५; -ते
 वैताश्रौ २, ४; -तेषु आपश्चौ
 १३, १७, १; वैश्रौ १६, २० : ९;
 हिश्रौ ५, १, ३३ x.
 प्र-हृत्य शाश्रौ १७, ७, ११; काश्रौ.
 प्र-ह्रियमाण, णा- -णम् काश्रौ २५,
 २, १६; आपश्चौ ४, १२, ७;
 बौश्रौ; -णाम्याम् काश्रौ ५, ४,
 ७; -णाय शाश्रौ ३, १३,
 १७; काश्रौ; माश्रौ ५, १, ३, ३१;
 -णासु हिश्रौ १४, २, ३२; -णे
 आपश्चौ ४, ९, ६; १२, ८; माश्रौ;
 -णेभ्यः काश्रौ १७, ३, ३१;
 -णेषु माश्रौ १, ४, २, २०; वाश्रौ
 १, १, ४, ५; हिश्रौ ६, ३, १९.
 प्र-हृत^b- (> प्राहृतायन- पा.) पाग
 ४, १, ११०.

प्र√हृष्, प्रहृष्येत् बौपि ३, १, २.
 प्रहृष्य अप १७, २, १३; प्रहृष-
 येत् विध ७१, ६३.
 प्र-हृष- -र्षम्^d माग २, ६, ७^c;
 -र्षान् काग ५७, ६^{eff}.
 प्र-हृषित-> -त-मनस्- -नाः वृदे
 ६, ६०.
 †प्र-हृषिन्- -र्षिणः आपश्चौ १२,
 ११, ९; हिश्रौ ८, ३, १७; चाअ
 ३० : १३.
 प्र-हृष्ट, ष्टा- -ष्टः अप ६८, ४, २; वृदे
 ४, ३; -ष्टा विध ९९, १; आज्यो
 १२, १०; -ष्टे विध ९९, ११; १७.
 प्रहृलि- पाञ्च ४, ११८.
 प्र√ह्लाद् > प्र-ह्लाद्-> प्राह्लादि^h-
 -दिः बौध २, ६, ३०.
 प्रह्लाद्-तनय- -यान् वृदे ७, ५३.
 प्र√हृ^h > प्र-हृ^h- पाञ्च १, १५३; -हृः
 आश्रौ ३, १, २०; आपश्चौ १२, ११,
 २; २७, १३; काठश्रौ; -हृम् वृदे
 ८, ४; -ह्लाः काश्रौ ९, ६, ३१;
 आपश्चौ १२, १६, १७; वैश्रौ १५,
 १९ : ३; हिश्रौ ८, ४, ४५; -हृ
 शाश्रौ १७, ५, ५; शांय १, ८,
 २१; -हृण कप्र १, १, १०.
 प्रहृ^h√कृ > प्रहृ^h-कृत्य कौय १,
 ४, ५ⁱ.
 प्र√हृ^h, प्र^h...अहृ^h या २, २५^h.
 †प्रहृयसे कौय १२७, ७; या ३,
 १०; १०, ३६.
 †प्रा पाधा. अदा. पर. पूरणे, प्राति^k

†अप ४८, १३; १४.
 प्राउग- प्रउग- द्र.
 प्राकट्य- प्रकट- द्र.
 प्राकरणिक- प्र√कृ द्र.
 प्राकार्षिक- प्र√कृष् द्र.
 प्राकाम्य- प्र-काम- द्र.
 प्रा-कार- प्रच्. प्र√कृ द्र.
 प्रा-काश- प्र√काश् द्र.
 प्राकृत- प्रच्. प्र√कृ द्र.
 प्राकृतायन- रप्रकृत- द्र.
 प्राकृती- प्र√कृ द्र.
 प्रागद्य- प्रगदिन्- द्र.
 प्रागहि¹- > प्रागहीय^m- -यम् शाश्रौ
 ४, २, ११.
 प्रागाथ- प्रच्. १, २ प्रागाथिक-
 प्र√गा द्र.
 †प्रागापरमेत्यरं कृषतनुक्रम- -मेण
 अअभू ८.
 १ प्रा(प्र-अ)प्रⁿ- -अम् या ३, १७.
 प्राप्र-तम- -मम् कौय ९, ८.
 २ प्रा(प्र-अ)प्रⁿ- -अम् अप २३, ४, २.
 प्राग्वंशि^b- -शयः बौश्रौ १७ : २.
 प्राङ्क्य^p- > षङ्क्य-पृष्ठ^q- -ञौ
 सुसू २, १३ : ७.
 प्रा(प्र√अ)च्, ज्च्, प्राञ्चयति या
 १४, २३.
 प्रा(प्र-अ)च्, ज्च्- प्राक् आश्रौ
 १, २, २४; १०, ६ x x; शाश्रौ;
 काश्रौ ९, ४, १८^h; बौश्रौ ७, ६ :
 ९^h; माश्रौ २, ३, ४, ४^h; वैश्रौ
 १२, ११ : १^h; १४, १० : ४^h;

a) ष्चाय इति पाठः ? यनि. शोषः । b) व्यप. । व्यु. ? । c) = हेषारव- । d) प्रा^o इति बसं. ।
 e) परस्परं पामे. । f) = घातादिक- इति देवपालः, = कोश- इति आदित्यदर्शनः । g) = कपिल- [असुर-] ।
 h) उप. ङ. प्र. असं. (तु. PW. प्रच्.; वैतु. पासि [३, २, ३] शक. < प्र√हृ इति, पाञ्च वृहा [त्यगे] इति) ।
 i) सपा. प्रहृ कृत्वा <> प्रहृकृत्य इति पामे. । j) वैप १, २२२ x ऽ द्र. । k) घा. दाने
 वृत्तिः । l) = आचार्य-विशेष- । m) तस्येदमीयः छः प्र. । n) प्रास. । o) बस. । p) व्यु. ?
 < प्र√अहृ इति ? । q) = षडह-विशेष- । बस. । r) = प्राची-दिश- । s) सप्र. प्राक् <> प्राङ्
 इति पामे. ।

१५,११: १२^फ; १९,६: ९५^ड;
 हिश्रौ ८,३,७^फ; जैश्रौ ३: ६^ड;
 आगृ २,१,९^फ; ३,२,२^ड; पागृ
 १, ३, २४^ड; ८, १०^ड; आमिगृ
 १,३,३: १^ड; २,४, ९: १२^ड;
 ५,१: १९^ड; कौसृ १,१३^ड; वाध
 ३, २६^ड; या २,२२; १२,१३;
 पा १,४,५६: ८०; २, १,३××;
 प्राङ्^ड शाश्रौ ३, १३,३०; ४,
 ३,७××; १७, ७, ११^ड; काश्रौ;
 आपश्रौ १०, १५, ९^ड; जैश्रौका
 २४^ड; या १४, २३^फ; याशि
 २, ८^फ; ४१; प्राच: ऋश्रौ^ड ७,
 ४,७; ८, ३, २; शाश्रौ; द्राश्रौ
 १०, २, ५; वैताश्रौ ३२,
 १३^फ; शांगृ ६, ५, ६^फ;
 ऋश्र २, १०, १३१^फ; प्राचा
 बौश्रौ १, १९: ११; २, १७:
 ३०××; हिश्रौ ४, २, ४२; ७,
 ६, २६; प्राचाम् पा १, १,
 ७५; २, ४, ६०××; पावा ७,
 ३,४५; मीसृ ११,२,५५; प्राचि
 हिश्रौ १७,४,३४; द्राश्रौ १, २,
 २७; लाश्रौ १,२, २०; ५, ५,
 १३^ड; बौश्रु ४: २१; ऋश्रौ
 काश्रौ ८,४,३; बौश्रौ ६, २५:
 २; वैश्रौ १४,५: १८^ड; हिश्रौ
 ७,५, ६^ड; शुश्र १, ३२१; तैप्रा
 ४,३३; प्राञ्च: आश्रौ १, १, ८;

शाश्रौ १०, २१, १६; काश्रौ;
 लाश्रौ ३, १०, ५^ड; प्राञ्चम्
 आश्रौ ३, १२, २५××; शाश्रौ;
 आपश्रौ १८, १४, १३^फ; वाश्रौ
 ३,३,२,४०^फ××; प्राञ्चा हिश्रौ
 ६, ६, १७^फ; प्राञ्चि आश्रौ
 २, १९, ४; काश्रौ १, ७, २४^म;
 ६,२,१८; निसृ १,५: ८; २२;
 बौश्रु १०: १२; प्राञ्चौ शाश्रौ
 १,६,१०××; काश्रौ।

प्राची,ञ्ची- -०चि आश्रौ
 ५,१३,१४^ड××; -ची आश्रौ १६,
 १२,४××; शाश्रौ; ऋश्रौ १९,
 १४, १४^म; १५^ड; बौश्रौ १९,
 ६: १५^ड××; ऋश्रौ २३, ३,
 १२^म; २६^ड; -ची: आश्रौ ८,
 ३, ३०; शाश्रौ ४, ११, ६××;
 काश्रौ; आपश्रौ २१, २०, ३^फ;
 बौश्रौ १६, २३: ५^फ; वाश्रौ
 ३,२,५, ४३^फ; हिश्रौ १६, ६,
 ४१^फ; -चीभि: बौश्रौ १०,३६:
 १६××; आपश्रु; -चीम् आश्रौ
 ५, १३, १४^ड; ६, १४, १६;
 शाश्रौ; या ११, ११^फ; -च्य:
 काश्रौ १३, ३, २६^फ; बौश्रौ
 १२, ८: ३; वैताश्रौ ३४, ९^फ;
 आगृ; -च्या शाश्रौ ४, ११,
 ४^फ; आपश्रौ १७,७,६^फ; बौश्रौ;
 माश्रौ १, ४, ३, ८^फ; -च्या:

काश्रौ २५,६,२; कौसृ ४९,७^फ;
 अय; -च्याम् आश्रौ १,११,७^फ;
 शाश्रौ ६, ३, १^फ; आपश्रौ ४,
 १४,४^फ××; बौश्रौ ३, २०:
 १२^फ; भाश्रौ ४, २०, ४^फ;
 वैश्रौ ७,१२: ९^फ; जैगृ १,४:
 १९^फ; अश्र ४, ४०^ड?; -च्यै
 बौश्रौ १८, ५२: १; बौगृ २,८,
 ३६^फ; भागृ; -च्यो: काश्रौ १७,
 ४, ११; -च्यौ काश्रौ १७, १२,
 १५; वैश्रौ ८, ९: २××; आपश्रु;
 -ञ्च्यौ शाश्रौ १७, ५, २.

प्राची-वत् काश्रु १,२१.
 प्राची-वर्तमान- -नस्य
 द्राश्रौ १४,१,१५^ड.
 प्राची-स्थ- -स्थान् अश्र
 ३,२६.

प्राच्य(ची-अ)न्त^ड-
 -न्तयो: काश्रु १,६.

प्राच्य(ची-अ)र्थ- -र्थ:
 बौश्रु १: १८.

प्राच्य(ची-ञ्)र्धा(र्ध्व-अ)
 वाची- -वीभ्य: गोगृ ४,७,३७.
 प्राक्-काल-> ल्वा(ल-अ)
 वकृत- -तस् काश्रौसं ३१: १.

प्राक्कालीन^ड- पागवा ४,२,
 ११६.

प्राक्-कूल^ड- -लान् बौगृ १, २,
 ४; -लानाम् आगृ ३, २, २;

a) = प्राची-दिश- ।

b) सप्र. आपश्रौ १७, १६, १ आ इति पामे. ।

c) सप्र. बौगृ १,

१३, २७ प्राङ्सुख: इति पामे. ।

d) कचित् वा. किवि. ।

e) प्राक् इति C. शोध: ? (तु. पामे. वैप १, २, २२५।) ।

f) पामे. पृ १७४९ t द्र. ।

g) प्राङ् इति पाठ: ? यनि. शोध: ।

h) पामे. वैप १, १९१७ h द्र. ।

i) सपा. 'चिचर्त' <> 'चीचर्त' इति पामे. ।

j) पाठ: ? प्राच: इति शोध: (तु. द्राश्रौ १०, २, ५) ।

k) पामे.

वैप १, २, २२६ d द्र. ।

l) पाठ: ? प्राङ्, च इति शोध: (तु. सपा. मै १, ५, ४ आपश्रौ ६, १९, १) ।

m) सप्र.

प्राञ्चि <> प्रागपवर्गाणि <> प्राङ्न्यायानि इति पामे. ।

n) सपा. प्राचि <> प्राची (तैत्रा ३, ११, ९, ८^३ च) इति

पामे. । o) पामे. वैप २, ३३. प्राची तैत्रा ३, ११, ९, ८ टि. द्र. ।

p) सपा. प्राची: <> प्राच्य: इति पामे. ।

q) पामे. वैप १, २, २२७ a द्र. ।

r) 'च्यम्' इति पाठ: ? यनि. शोध: ।

s) उप. = प्रतीची- (तु. भाष्यम्) ।

t) तु. पागम. । u) वस. उप. = अग्र- ।

आग्निगृ २, ६, ४ : ३; -लेषु आगृ
३, ५, ११; गोगृ ४, ५, १४;
गौघ १, ५६.
प्राक्-चुबुक^१ - कम् हिश्रौ ११,
७, ५५.
प्राक्-छाय^२ - ये विध ७८, ५३.
प्राक्-तन - नम् निसू ३, २ :
१३; -नेन वैश्रौ ११, २ : ४.
प्राक्-तन्त्र^३ - न्त्रम् कौसू ६,
३४^४; अप ११, १, ४×४.
प्राक्-तूल^५ - लान् बौश्रौ २, १ :
२; मागृ १, ८, ३; -ले माश्रौ
१, ३, ४, ३; -लेषु जैगृ २, ८ : ८.
प्राक्-त्व - त्वे बौश्रौ २१,
७ : ८.
प्राक्-पश्चिम^६ - मम् वैगृ १,
८ : २.
प्राक्-पान^७ - शम् आश्रौ १,
११, ४.
प्राक्-प्रणीत - तेन काघ २७४ :
६.
प्राक्-प्रवण, णा^८ - णम् काश्रौ
७, १, १३; आपश्रौ १०, २०, १;
वैश्रौ १२, ४ : २; -णाम् काश्रौ
२, ६, १; आपश्रौ २, ३, ९; -णे
वैगृ १, ८ : १.
प्राक्-शस (ः) बौश्रौ ६, २६ : ८;
गोगृ १, ७, २३; ८, ५; कप्र १, ८,
१४.
प्राक्-शिरस्^९ - रः वैगृ ४, १० :
१३^१; -रसः पागृ ३, २, १३;
-रसम् शाश्रौ ४, १७, ११; काश्रौ;
-राः माश्रौ २, १, ३, १०;
वैश्रौ १, १ : २८; आगृ.
प्राक्-शिलष्ट^{१०} - ष्टः माशि ७, २^१;

४^१; ८, २.
प्राक्-शिलष्ट-जात्य-क्षैप्र - प्राः
माशि ८, ५^१.
प्राक्-सं(स्था)स्थ^{११} - स्थम् काश्रौ
२, १, ६; ४, १५, ७; ५, ८, ३१;
द्राश्रौ; -स्थानि बौश्रौ २०, १३ :
१३; आगृ १, १०, १७.
प्राक्-समास^{१२} - सम् द्राश्रौ ५,
२, ९; लाश्रौ २, ६, ४; निसू १,
११ : १९.
प्राक्-सिद्ध-त्व - स्वात् शंध ७.
?प्राक्सौत्या काश्रौसं ३४ : १.
प्राग्-अग्र - > अग्रिक - कम्
वैगृ १, ३ : ३.
प्राग्-अग्र, प्रा^{१३} - अग्रम् काश्रौ
१, ३, १६; आपश्रौ १, १२, ३;
२, १, ५×५; माश्रौ; -प्राः वैश्रौ
११, ११ : ४; जैश्रौका १५४;
-ग्रान् आगृ १, १७, ११;
आमिगृ २, ३, २ : ५; बौगृ;
-ग्रामिः निसू १, ११ : २३;
-ग्राम् वैश्रौ १४, ४ : ६; -अग्राम्
शंध ५४; -ग्रे काश्रौ १, ३, १५;
काठश्रौ ४९; कौगृ १, ४, ४;
शांगृ १, ८, १६; -ग्रेषु कौगृ ३,
३, १×४; शांगृ; -ग्रैः आपश्रौ
१, १४, १४; ६, ३, ५; माश्रौ;
-ग्रौ आपश्रौ २, ९, ५; वैश्रौ ५,
६ : ११; कप्र २, ५, २०.
प्रागप्र-ता - ता शाश्रौ ४,
६, ८.
प्रागप्रो(प्र-उ)दगप्र - ग्रान्
आगृ २, ८, १५; कागृ ११, २;
१५, ३.
प्राग्-अन्त, न्ता^{१४} - न्तम्^१ वैगृ

१, ११ : ५; १४ : ५×५; -न्ताः
वैश्रौ १, ८ : १४; वैगृ ६, १४ : ७.
प्राग्-अपवर्ग^{१५} - र्गः बौगृ २,
११, १६; -र्गम् आपश्रौ २, ९,
२; माश्रौ; -गर्गिण आपश्रौ २४,
२, १५^१; बौश्रौ २, २ : १७^१;
वाश्रौ १, १, १, ७७^१; आमिगृ १,
२, २ : १५; हिगृ २, १९, ३.
प्राग्-आदि^{१६} - दि^१ वैश्रौ १, १ :
११; आमिगृ १, ६, ३ : २०; ४८;
७, ३ : ८; वैगृ ४, १ : ४.
प्राग्-आघ (त >) ता - ताम्
कागृ १८, १; कौसू १३७, ५;
८; -ते आगृ १, ३, १; कौसू
१३७, ३.
प्राग्-आया(म >) मा^{१७} - माः
आपश्रु ७, ६; हिगृ २, ५४.
प्राग्-आवृत्त - त्तः बौश्रौ २४,
२८ : १; जैश्रौ १३ : ११; २६ : ५.
प्राग्-आहुति - त्तेः शांगृ १, ३,
१६.
प्राग्-ई (षा >) ष^{१८} - षम्
आपश्रौ १, ७, ६; १७, ५×५; बौश्रौ.
प्राग्-उक्त - क्ते अप्राय ५, ३;
-क्तैः वृदे २, ७१.
प्रागुक्त(क्त-ऋ)र्षि - र्षिः
अग्र १, ११; २१×४.
प्रागुक्त(क्त-ऋ)र्षि-गण^{१९} -
-णम् अग्र २, १०.
प्रागुक्त(क्त-ऋ)र्षि-छन्दो-
देवता - > ष्वत्य - त्यम् अथ
७, ९२.
प्राग्-उत्तरा(र-अ)ग्र^{२०} - ग्रम्^१
वैश्रौ २, १ : १५; वैगृ १, १० :
१२; -ग्रान् वैगृ १, १० : १४;

a) बस. । b) = प्राबुमुखी-ज्जया- (तु. शक. [गजच्छया-]) । c) कस. उप. = विधि- । d) बस. उप. अग्र-
e) पंस. वा. क्रिवि. । f) वा. क्रिवि. । g) = स्वरित-विशेष- । h) प्राश्लिष्टः इति संस्कृतेः टि. । i) 'क्षैप्राणान्
इति पाठः ? यनि. शोचः (तु. संस्कृतेः टि.) । j) पाभे. पृ १७५० m द. । k) बस. उप. पस. । l) दस. > बस. ।

-मौ वैष्ट २,५ : ५; ३,२३: ७.
 १प्राग्-उदच्,ञ्च्^a- दक् आश्रौ
 १,१,४; २,३,१८××; आपश्रौ;
 -दञ्च्^b शाश्रौ ४,१५,१; वाश्रौ
 १, ७, ४,५९; कौष्ट ५, ३, २८;
 -दञ्चम् काश्रौ १६, ५, १४;
 वाश्रौ;-दञ्चि शाश्रौ ४,११,७^b;
 -दीचः^c काश्रौ १६,३,१४; माष्ट
 १,२१,१०.

१प्रागुदीची^d- -ची
 आपश्रौ १,१,१०; -ची: शाश्रौ
 २,९,१४; माश्रौ; -चीम् काश्रौ
 ४,२, ४; हिश्रौ १, २, ८; काष्ट
 २५,४७.

प्रागुदक्-प्रवण,णा^e- -णम्
 शाश्रौ ५, २, २; आपश्रौ १०,
 २०,१; बौश्रौ २५,५:४; हिश्रौ;
 -णा: अप २४, १, ७; -णाम्
 आपश्रौ २,२,९; वाश्रौ १,३, २,
 १; वैश्रौ ५,१ : ५; -णे आमिष्ट
 १,१,१ : ८; हिष्ट १,१,९; अप
 १८,१,१; २१,४,४.

प्रागुदङ्-मुख^f- -ख: माश्रौ
 १,३,१,३१; ६,२,२; वाश्रौ १,
 ५,४,४; जैश्रौका ६३.

प्रागुदीचीन- -नम् वाश्रौ १,
 ७,४,३.

२प्राग्-उदच्^d- -दग्भि: काश्रौ
 ४,१३,१५; २६,३,९.

प्रागुदग्-अग्र^g- -आ: आमिष्ट
 १,१, १ : १२; बौष्ट १, ३, ६;
 हिष्ट १, १, १३; -ग्रै: आमिष्ट

१,७,३ : ९; आपष्ट १,१३.
 प्रागुदग्-अपवर्ग- -र्गम् कौसू
 १,१५.

२प्राग्-उदीची^a- -चीम्
 शाश्रौ २, ९, १४; वाश्रौ १, ५,
 २,४६; शांष्ट २,१२, ११; बैष्ट;
 -च्यम् शाश्रौ ४,१७,३; माश्रौ
 १,७,७,४; कौष्ट.

३प्राग्-उदीची^d- -च्यो: आश्रौ
 २,४,१३.

प्राग्-ग(त>)ता- -ताया: कप्र
 १,६,९.

प्राग्-गा(मक>)मिका^e- -का:
 बाध १९,२४.

प्राग्-नामि(न् >)नी- -नी
 बाध १७,६२.

प्राग्-ग्रन्थि^f- -न्थि काश्रौ ५,
 ८,२७.

प्राग्-ग्रीव^g- -वम् शाश्रौ ४,१६,
 २; माश्रौ ६, १, १, २५; वैश्रौ;
 -वाणि काश्रौ १, १०, ४; -वे
 माश्रौ १, ५, १, १७××; माष्ट
 १,११,१९; १४,७.

प्राग्-(हु>)धुत-शेष^h- -वेण
 काश्रौ ४,२,३३.

प्राग्-(हो>)धोम- -मान्
 आपश्रौ १४,१८,२.

प्राग्-ज्योतिषⁱ- -षम् शांष्ट
 ६,२,१.

प्राग्-दक्षिण,णा^k- -णम् कौसू
 ७१, २१; ८०, ४३××; -णा^l
 आश्रौ २, ६, २; काश्रौ १६, ५,

१७; वाश्रौ १,२, ३, १; -णाम्
 कौष्ट ५, २, १३^b; कौसू ८४,१५.

प्राग्दक्षिण-मु (ख >)खा^e-
 -खा वाश्रौ १,२,३,५^l.

प्राग्दक्षिणा(ए-अ)ग्र^e- -ग्रै:
 वाश्रौ १, २, ३, ३.

प्राग्दक्षिणा-चार^e- -रा:
 माश्रौ १,१,२,१; ७,६,१.

प्राग्दक्षिणा (णा-अन् >)
 ची^l- -चीम् शाश्रौ ४,१४,९.

प्राग्दक्षिणा-प्रवण^e- -णम्
 आष्ट ४,१,७.

प्राग्दक्षिणा-मुख^e- -ख:
 जैष्ट २,१ : ११.

प्राग्दक्षिणा(णा-आ)यत-
 -तम् जैष्ट २, २ : १.

प्राग्दक्षिणा (णा-आ)
 यतन^l- -ने आमिष्ट ३, ११,
 १ : २.

प्राग्-दण्ड,ण्डा^e- -ण्डम् आश्रौ
 १, १३, १; शांश्रौ ४, ७, ६;
 आपश्रौ; -ण्डया शांश्रौ २, ९,
 १४; आपश्रौ ६, ११, ५; हिश्रौ
 ३,७,९२.

प्राग्-द(शा >)श^e- -शम् काश्रौ
 ७,७,९; आपश्रौ १०, २४,७^m;
 -शे माश्रौ २, १, ४, ३; -शेन
 माश्रौ २,२,४,२२.

प्राग्-दृष्ट-दोषⁿ- -षम् विष्ट ९,
 १८.

प्राग्-द्वार,रा^e- -रम् माश्रौ ६,
 १, १, २५; हिश्रौ ७, १, २९

a) = ईशान-कोण-। बस.।

b) तात्पर्यात् विप.।

c) विप.। बस.।

d) द्रस.।

e) = विधवा-।उस. पूष. = पितृ-गृह-।

f) विप.। सुप्सुपीयः समासः >पंस.। यनि. अत्रग्रहः (तु. B.W. M.W.;

वैतु. कर्कविद्याधरौ उप. हुत-शेष- इति)।

g) समासान्तः अच् प्र. उर्स. (पावा ५, ४, ७५)।

h) = आग्नेयी-

दिश-। बस.।

i) सप्र. आपश्रौ १,७,१० भाश्रौ १,७, ५ हिश्रौ २,७,१२ दक्षिणाप्राची

तिष्ठन्ती इति पाप्मे.।

j) सप्र. आपश्रौ १,७,१० भाश्रौ १,७, ५ हिश्रौ २,७,१२ दक्षिणाप्राची

तिष्ठन्ती इति पाप्मे.।

k) विप. (चित्ति-).।

l) मले. कस.।

m) सप्र. प्राग्दशम् <>.

प्राचीनग्रीवदशम् <> प्राचीनदशम् इति पाप्मे.।

n) तस. > बस.

शांत् ६,२,६; काग्; -रा वैश्रौ
१२, ४ : ११; -रा: माश्रौ ६,
१, ८, १०; -राणि आमिग् २,
६,३ : ११; अप १, २७, ३;
१८^३, २, ८; बौध २, ५, १६; -रे
काश्रौ १६, ३, १३; २६, १,
१४.

प्राग्द्वार-प्रत्यग्द्वार- -रेषु
कौस् २४, ३; ३४, ३.

प्राग्-धातु-वचन- -नम् पावा
१, ४, ८०.

प्राग्-बहुवीहि-ग्रहण- -णम्
पावा ५, ४, ६९.

प्राग्-भाग- -णम् कौस् २१,
१८.

प्राग्-भेद^६- -दौ बौशु १२ : ६.

प्राग्-याम्या(भ्य-अ)पर-सौम्य-
-म्यानाम् अप ६४, २, ८.

प्राग्-रात्रा (त्र-अ) पररात्र-
-त्रेषु शंघ ३७१; विध ९७,
१६.

प्राग्-वंश^७- -शान् वैश्रौ १४,
११ : ६.

प्राग्-वंश^८- -शा: बौशु ४ : १;
-शम् काश्रौ ७, १, १५; ८, ४,
२१; आपश्रौ; -^९शस्य आपश्रौ

१०, ३, ४; ११, ४, १२; वाश्रौ;
-शाव आपश्रौ १०, ७, ५; माश्रौ

२, १, २, ३३; -शाय माश्रौ २,
२, ४, ११; -शे आपश्रौ १०,
२१, १८^{१०} × ×; बौश्रौ.

प्राग्वंश-काय^{११}- -य: विध
१, ७.

प्राग्वंश-वेदि-मान- -नानि

काशु १, १९.
प्राग्-वचन- -नम् पावा १, २,
११; ४, ५६ × ×; -ने पावा ५,
१, १.

प्राग्वचना(न-आ)नर्थक्य-
-क्यम् पावा ५, ३, ९४; ८, २,
८६.

प्राग्-वत् विध २१, ९; ऋअ २,
८, १.

प्राग्-वत्प्रभृत्येडान्तः वैश्रौ
१४, १८ : ९.

प्राग्-वदन^{१२}- -न: जैश्रौका १७;
३८.

प्राग्-वाहि(न् >)नी- -नी
गौपि १, ५, ३२.

प्राङ्-भावृत्त- -त्त: बौश्रौ ३,
३० : ११^{१३}; -त्तस्य बौश्रौ २,
८ : ६.

प्राङ्-उच्चार^{१४}- -र: बौश्रौ २,
२० : ४.

प्राङ्-न्याय- -यम् माश्रौ १, १,
१, ६; -यानि काश्रौ १, १, १३;

माश्रौ १, १, १२^{१४}; हिश्रौ १, १,
५३^{१५}.

प्राङ्-मुख- > ख-करण-
-णम् द्राश्रौ १, २, २२; लाश्रौ १,
२, १६.

प्राङ्-मुख^{१६}- -ख: आश्रौ १,
१, ४; शाश्रौ ४, २१, २; आपश्रौ

६, २, १ × ×; बौश्रौ; अप्राय १,
३^{१७}; अप २२, ७, ५^{१८}; -खम्

आपश्रौ १७, १९, १०; १९,
९, १३; काठश्रौ; -खयो:

विध ७३, १३; -खस्य बौश्रौ ६,

१ : २६ × ×; भाग्; -खा: माश्रौ
२, ३, ७, ६; कौग् १, २, २; शाग्
१, ६, ४; बौग् १, २, ३; -खान्
आमिग् ३, ११, ३ : ७; बौग् २,
११, १५; १६; वैग्; -खानाम्
कौस् ८२, १; -खाय जैग् १, १९:
३३; -खे वाश्रौ २, २, ४, १७;
कौग् २, ७, २०; ४, १, ३; शाग्
२, १२, ४; -खेन कप्र २, ८, १२;
-खेभ्य: विध ७३, २७; -खेषु
विध ७३, २५; -खै: जैश्रौका
१३३; -खौ हिग् १, २२, ९;
विध ७३, ३.

प्राङ्मुखी- -खी वैश्रौ
१५, ७ : २; ७; आमिग् २, ४,
९ : ५; कप्र १, ७, १; -खी: बौशु
१० : ३०; -खीम् माश्रौ १,
६, १, १४; वैश्रौ ५, ३ : ४;
-ख्या: आग् १, ७, ३; कौग् १,
८, १४, १७; शाग्.

प्राङ्मुखा(ख-अ)प्रतस् (:)
विध ७३, २६.

प्राङ्-शायिन्- -यी काश्रौ ५,
२, २१^{१६}.

प्राचीन,ना^{१७}- -नम् आपश्रौ ५, ४,
३; ६, ३०, ७ × ×; बौश्रौ; या २,
२२; ^{१८} ८, ९; १२; -ना काश्रौसं

३५ : ८; -ना: बौश्रौ २४,
३६ : ११; वाश्रौ २, १, ६, ९;

-नान् वैश्रौ १७, १२ : २;
-नानि अत्र ५, ६; -ने वैश्रौ ८,
५ : १२.

प्राचीन-कण्टक^{१९}- -कान्
कौस् ३५, २३.

a) बस. । b) मलो. कस. । c) विप., नाप. (पत्नीशालादि- L तु. काशु १, १९ भाष्यम् ।) ।

बस. । d) ष्वृतः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. उत्तरं स्थलम्) । e) पाप्मे. पृ १७५० m द. । f) उत्तरेख

संधिरार्थः । g) पृ ११० सस्य. षञ्घःशायी इति नेष्टम् (तु. देवयाज्ञिकः; वैतु. MW. अघःप्राङ्शायिन्-> -यी इति) ।

h) अर्थः व्यु. च ? । उप. = मदनी-कण्टक- इति दारिलः, = बदरी-कण्टक- इति केशवः ।

प्राचीन-क(र्ण)ण^{अ०}-
 -र्णाः बौश्रौ ६, २५ : १६; २७ :
 १५; वैश्रौ १४, ६ : ९; -र्णाम्
 आपश्रौ ११, ९, १३; १०, १;
 बौश्रौ; हिश्रौ ७, ७, ७.
 प्राचीन-कु(म्ब)म्बा^{अ०}-
 -म्बया बौश्रौ ४, २ : ७; ९;
 -म्बाम् हिश्रौ ४, १, ४३^३;
 आम्रियु; -म्बे भागृ १, ३ : १२.
 प्राचीन-ग्री(वा)व^{अ०}-वम्
 आपश्रौ १०, ८, १५; २०, १३××;
 बौश्रौ; -वे आपश्रौ ५, ५, १;
 १६, २१, २; हिश्रौ ११, ७, २;
 -वेण शाश्रौ १७, ५, ९; बौश्रौ.
 प्राचीनग्रीवदश-शम्
 भाश्रौ १०, १६, ६^६.
 प्राचीन-द(ण्ड)ण्ड^{अ०}-
 -ण्डया बौश्रौ २, १८ : ३७; २, ६ :
 २४; २०, २० : १९; भाश्रौ ६,
 १३, ८; वैश्रौ २, ५ : १०.
 प्राचीन-द(शा)शा^{अ०}-
 -शम्^६ बौश्रौ ६, १४ : ९; वैश्रौ
 १२, १७ : १४; हिश्रौ ७, २, ३९;
 -शेन बौगृ १, ८, ६.
 प्राचीन-पुष्क(र)रा^{अ०}-
 -राः बौश्रौ २०, १६ : ७; ९^१;
 -रे बौश्रौ २०, १४ : १०.
 प्राचीन-प्रवण,ण^{अ०}-णम्
 शाश्रौ ५, २, १; आपश्रौ ५, ४,
 १^१; भाश्रौ ५, २, ११; माश्रौ
 २, १, १, ३; हिश्रौ १०, १, २२;

-णाम् वैश्रौ ५, १ : ५; -णे
 काश्रौ ५, १, १६; आपश्रौ.
 प्राचीन-प्रसूत-तानि कागृ
 ७२, १.
 प्राचीन-प्रोष्ठप(द)दा^{अ०}-
 -दयोः अप १, १०, ८.
 प्राचीन-बिल^{अ०}-लम् बौश्रौ
 ९, १० : ३३; ११ : २५××;
 वैश्रौ १२, १४ : ५; १३; -लौ
 बौश्रौ ९, ५ : २७.
 प्राचीन-मालुक^{अ०}-कम् माश्रौ
 २, १, १, ३४.
 प्राचीन-मात्र^{अ०}-त्रम् भाश्रौ
 १०, ६, ८; -त्रा^६ आपश्रौ
 १०, ९, ११.
 प्राचीन-मुख^{अ०}-खम् वैश्रौ
 १८, १८ : १०.
 प्राचीन-योग^{अ०}-योग्य-
 पा.) पाग ४, १, १०५; -ग्याः
 बौश्रौप्र ४ : १; चञ्चू ३ : ७.
 प्राचीन-रात्र^{अ०}-त्रे वाश्रौ
 १, ७, ३ : २०.
 प्राचीन-वंश,शा^{अ०}-शम्
 आपश्रौ १०, ५, १; ११, ९, ४;
 भाश्रौ १०, ३, १; माश्रौ; -शा
 बौश्रौ ६, १ : १०; -शाम् बौश्रौ
 १५, १ : ११; २५, ५ : ५; वैश्रौ
 १२, ४ : ९; ५ : ६.
 प्राचीन-शिरस्^{अ०}-रसम्
 बौश्रौ २०, २८ : १६.
 प्राचीन-स्तोम-माः बौश्रौ

१८, ४२ : ७.
 प्राचीन-हरण-णात् आश्रौ
 ३, ११, १०.
 प्राचीना(न-अ)ग्र^{अ०}ग्र^{अ०}-ग्रम्
 बौश्रौ १, ३ : १२; ४, ६ : ५५;
 -ग्राः आम्रियु १, ७, ३ : ३;
 -ग्राणि बौश्रौ ९, १ : ११; १०,
 ३ : १०; -ग्रान् वैश्रौ १८,
 १ : ३३; -ग्राम् वैश्रौ १४,
 १० : ९; -ग्रे आम्रियु २, ४, ६ :
 ६; -ग्रेषु वैश्रौ १३, १ : १३;
 -ग्रैः शाश्रौ १७, १०, १४.
 प्राचीना(न-अ)पवीत^{अ०}-
 पतिन्-ती शाश्रौ १, १, ७; ३,
 १६, ११.
 प्राचीना(न-अ)र्थ^{अ०}-र्थस्य
 अप १, ३५, २.
 प्राचीना(न-अ)ववीत^{अ०}-
 तम् माश्रौ २, ५, २, ४; -तानि
 माश्रौ १, ७, ६, २७; ३८, २, ५, १,
 ३६.
 प्राचीनाववीतिन्-तिनः
 माश्रौ २, ५, १, ३५; -ती माश्रौ
 २, ५, २, ३.
 प्राचीना(न-अ)वीत^{अ०}-तम्
 बौश्रौ ३, १० : ६; १८××; वाचश्रौ
 ३, ११ : ६; वैश्रौ १८, ३ : ७;
 हिश्रौ १०, ५, ९; आम्रियु १,
 ६, २ : ४××; बौगृ २, ११, ४९;
 भागृ २, ११ : २; हिपि १८ : १३;
 अप्राय ६, ७; -तानि आपश्रौ ८,

a) बस. । b) उप. = छुद्रशाखामूल- इति भाष्यम् (हिश्रौ.) । c) उप. = रकुम्ब- । d) पाभे. १७५२ m द्र. । e) = पूर्व-प्रोष्ठपदा- । f) विप. (क्षौम- [= क्षौम-वस्त्र-]) । बस. । उप. अर्थः व्यु. च? । C. (आपश्रौ. [तु. h]) = दश- (प्रान्तभाग-तु. उदीचीन-दश-] इति) ? । भाप. (बन्धनग्रन्थि-) इति कृत्वा (√बध् [बन्धने] > भावे) *बध्- > [स्वाथे] *बध्- > नैप्र. मालुक- इति मतम् ? । g) -त्रम् इति क्वि. । बस. अप. नैप्र. < *बध्- इति विशेषः। शेषं f द्र. । h) पाठः ? -त्रम् इति शोधः (तु. भाश्रौ.); वेतु. C. तु१ < मालु- इति कृत्वा विप. इति ? । सस्य. √दीक्ष् इत्यस्य वसने वृत्तिः ? । i) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । j) नाप. (सामन्-) । k) तस. (पा २, २, १) । l) = राम्-वंश- । m) वैप. १, २२२७ k द्र. । n) वैप. १ द्र. ।

<p>१५,१,१६,१५१; बौश्रौ. प्राचीनावीतिन्- तिनः आश्रौ २, १९, १६; काश्रौ १९, ३, १७; आपश्रौ; -तिना आम्रि ३, ७, ४ : ३३; ३४; आपश्रु; -ती आश्रौ २, ३, २१×; काश्रौ; वैश्रु ६६ : ८^{१३}. प्राचीनौ (न-श्रौ)द्वजि^१- -जिः नाशि २, ८, ५. प्राच्य^८- पा ४, २, १०१; -च्यानाम् अप ५२, ९, ५; -च्येषु काश्रौ २२, २, २४; या २, २. प्राच्य^९ पा ४, १, १७८. प्राच्य-कठ^१- -ठाः चव्यु २:३. प्राच्य-पञ्चाल-उपधा- निभो(भ-उ)द(य>)या^९- -याः ऋप्रा २, ८१. प्राच्य-पञ्चाल-पदवृत्ति^१- -त्तयः ऋप्रा २, ३३. प्राच्य-भरत^९- -तेषु पा २, ४, ६६; ४, २, ११३; ८, ३, ७५. प्राच्यभरत-संज्ञा- -ज्ञा ऋत ५, २, ५. प्राच्य-रथ^१- -थः लाश्रौ ८, ६, ९. प्राच्यो(च्य-उ)द्रीच्य-नैर्क- त्य- -त्याः चव्यु २ : ३४. प्रा(प्र-अ)चमन^१- -नात् आम्रि ३,</p>	<p>११, २ : ५. प्रा(प्र-अ)चार्य^१- -र्याय आपध १, ८, १९; हिध १, २, १०७. प्राचिक्य- प्रचिक- द्र. प्राचुर्य- प्रचुर- द्र. प्राचुल-, च्य- प्रचुल- द्र. प्राचेतस- २प्रचेतस- द्र. २प्राच्य^१- (>)च्यायन- पा.) पाग ४, १, ११०. प्रा(प्र/अ)ञ्, प्राञ्जति काश्रौ ७, ९, १२; १५, ६, १८; पाश्रु ३, १४, ७. प्राञ्ज्यात् आपश्रौ ५, २३, ३^६; प्राञ्ज्यात् आपश्रौ ९, १०, ६^१. प्रा(प्र-अ)जन^१- -नेन गोग २, १, १३. प्राञ्जहा(°हा/कृ पा.), प्राञ्ज्या(°यां /कृ पा.) पाग १, ४, ७४. प्राञ्जहित- प्र/हा(त्यागे) द्र. प्राञ्जापत-, प्राञ्जापती-, प्राञ्जापत्य- प्रश्रु. प्र/ञ्जन् द्र. १-२ प्राञ्ज- प्र/ञ्जा द्र. प्राञ्जयति^१ या १४, २३^१. प्रा(प्र-अ)ञ्जलि^०- -लिः माश्रौ २, १, २, ६; गोग १, ६, १६; द्राश्रु; चव्यु ३ : ७^१. प्राञ्जलि-स्थित^१- -तम् वृदे ८, ४. प्राटा[,डा]^१हति^६-(>)त्तायन- पा.) पा २, ४, ६१^१.</p>	<p>प्राङ्-विवाक- √पृच्छ द्र. प्रा(प्र/अ)च्, ञ्च् > ए, प्राणति, प्राणन्ति शौच ४, ५७^१. प्राणिति माश्रौ २, १३, १३; वाधूश्रौ; प्राणिहि कौश्रु १, १६, ३; शांश्रु १, २४, २; प्राण्यात् वैश्रौ २०, २ : ६; प्राणित् ऋप्रा ५, ५७^१. प्रा(प्र-अ)णत्- -णत् आपश्रौ १७, २१, ८; हिश्रौ १२, ६, २६^{११}; हिपि १२ : ११^{११}; कौस् १३३, ३; -णत्: शाश्रौ ३, १४, ७; काश्रौ २०, ५, २; आपश्रौ; काश्रौसं २६ : ३^{११}; -णता आपश्रौ १२, ८, ६; वाश्रौ ३, २, ५, ११; -णते अश्रु ११, ४. प्रा(प्र-अ)ण्य आपश्रौ ६, १०, १; १२, ८, ६×; माश्रौ. प्राण^१- पाग ४, १, ९९; पाश्रु १, १६, ११^१; -ण्ण आश्रौ २, ९, १०; ५, २, १; बौश्रौ; आपमं २, ४, १४^१; -ण्णः आश्रौ २, १०, ४; ८, १३, ९; शाश्रौ; आपश्रौ ७, १४, २^६; बौश्रौ ४, ६ : ५^१; माश्रौ ७, ११, ३^१; माश्रौ १, ३, १, २२^१; वाश्रौ २, २, ३, १८^१; वैश्रौ १०, १० : १५^१; हिश्रौ ४, ३, २५^१; काश्रु ४१, १८^१; हिश्रु १, १३, १७^१; श्रुया</p>
---	--	---

a) °त् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. संस्कृतुः टि.) । b) मलो. कस. उप. = आचार्य-विशेष- ।

c) तत्रभवीयः यत् प्र. । d) = शाखा-विशेष- । e) द्वस. > वस. > वस. । f) द्वस. > वस. । g) द्वस. ।
 h) कस. । i) प्रास. । j) = ऋषि-विशेष- । k) पाभे. वैप २, ३खं. प्राञ्ज्यात् लुश्रु ९१:२३ टि. द्र. । l) पाभे.
 वैप १, २२३९ C द्र. । m) = प्र-तोद- । उप. करणे कृत् । n) प्राङ् चै(च-ए)ति वा प्राङ् चयति वेति R.N. ।
 o) वस. । p) = साम-विशेष- । q) पूष. क्रिवि. । r) <प्राडाहत्- (<√प्रच्छ+आ/हृ) इति पागम. ।
 s) व्यप. । व्यु. ? । t) प्राण° इति पाका., प्राटा° इति वामनः (तु. पागम.) । u) ण्णात् इति पाठः ? यनि. शोधः [तु.
 आपश्रौ.] । v) प्राणत्प्रः इति पाठः ? यनि. शोधः [तु. संस्कृतुः टि.] । w) वैप १ द्र. । x) पृ २६५ C द्र. । y) सपा.
 प्राण<>प्राणः इति पाभे. । z) पाभे. वैप १, २२२९ b द्र. । a^१) सपा. आपश्रौ २, १४, १३ यज्ञः इति पाभे. ।
 b^१) प्राणः इति पाठः ? प्राणान् इति शोधः ? तु. माश्रौ ६, २, ४, १२ । c^१) सप्र. पाश्रु ३, १५, २१^१; २२^१ ब्रह्मा इति पाभे. ।

१४, ५, २०; -णम् आश्रौ १, ४, ८; २, ४, १४; ३, ३, ११^०××; शाश्रौ ४, ७, ११××; ५, १७, ३^०; काश्रौ ४, ८, २६; ९, ४, २८^०××; ऋआपश्रौ २, ४, ५××; ५, १२, २०; ऋवौश्रौ १, ८: ९××; २, १७: ३६०; भाश्रौ ५, ९, ८^०××; माश्रौ १, २, ५, ३××; २, ६, १, ५०^०; वाधूश्रौ; हिश्रौ ३, ४, ३८^०; शंघ ११६: ६१०; बौध १, ४, १२^०; या ११, १८; १४, १०; -णस्य ऋआपश्रौ १५, १४, १; २१, २०, २^०; बौश्रौ; -ऋणा^० निस् ७, ३: ३२; साश्र १, ५००; -णा: शाश्रौ १६, २६, २३; आपश्रौ; या ८, २२^०; १०, ४४; -णात् आपश्रौ १६, ३२, ३^०; बौश्रौ; -णान् आश्रौ १, १३, १^०; शाश्रौ; -ऋणानाम् वाधूश्रौ ४, ९५: २; कौश्र ३, ५, २; शाश्र ३, ८, ५; आश्रिगु; -ऋणाय आश्रौ १, ७, २; ६, ९, १; शाश्रौ; आपश्रौ २, २०, ५^०; बौश्रौ १, १७: १३^०; भाश्रौ २, १८, १६^०; हिश्रौ २, ५, ४५^०; आश्रिगु १, ७, ३: २५^०; या ५, २७^०; -ऋणे आश्रौ २, ४, १४^०; काश्रौ; आपश्रौ १२, ११, ७^०; ९^०; १५, ११, ४^०; बौश्रौ ९, ११: ३^०; १८, ३६: ९^०; भाश्रौ ११, ११, ४^०; हिश्रौ

८, ३, २७^०; -ऋणेन आश्रौ ५, ६, १^०; शाश्रौ १, ११, १^०××; १७, १७, १^०; काश्रौ; आपश्रौ ६, २५, २^०; बौश्रौ २४, ३०: २०^०; भाश्रौ ६, ५, ५^०; माश्रौ १, ३, १, २२^०; हिश्रौ ६, ७, ५^०; -ऋणभ्यः काश्रौ २६, ७, ४९; माश्र १, २७: १९; शुश्र ४, ११३; -णेषु आश्रौ १२, ९, १६; आपश्रौ; हिश्र २, १७, ४^०; या १४, ३०; -णैः आपश्रौ १, १६, ८; ४, १०, १^०××; बौश्रौ; या १०, ८. प्राणग्रह^० -हाणाम् आपश्रौ २१, १३, ९^०; बौश्रौ १४, २२: ७; २३, ८: ४; -हैः बौश्रौ २३, १९: ३५; २५, १७: १८. प्राणग्रह-पर्याय- -र्याणाम् वाश्रौ ३, २, १, ३२. प्राणग्रह-मान- -नानि हिश्रौ १६, २, १०^०. प्राणच्छेत्- -त्तुः वाध ३, १५. प्राणन्याग- -नात् विध ४३, ३२. प्राणथ^० -पाठ ३, ११३; -थेन बौश्रौ १०, ४: ५^०. प्राण-द, दा- -ऋदः आश्र २, ४, १४; माश्र २, ८, ६; -दा अप ३१, ३, ३. ऋप्राण-दा- -दाः काश्रौ १८, ३, ७; आपश्रौ १७, ५, १६; १३, ६; बौश्रौ. प्राण-दृष्टि- -ष्टिः वृदे ८, १३५.

प्राण-देव(ता>)त^०- -ताः या ८, २२. प्राण-देवता->थ्व, त्या- -त्या शुश्र १, ४३२; -त्यानि शुश्र २, २००; ५, ८०; -त्ये शुश्र २, २८१. प्राण-देव- -शम् वाश्रौ १, ६, ४, १९; माश्र १, २२, ६; -शे बौश्रौ २१, ८: १७; २१; माश्रौ १, ८, ३, १२. प्राण-धर्मन्- -र्मणि कप्र ३, ३, ४. प्राण-नामन्- -म या ३, ८. प्राण-निवह- -हान् आपश्रौ १९, १३, १४^०; हिश्रौ २३, २, ५०. प्राण-पति- (>पत-पा.) पाग ४, १, ८४. प्राण-परायण^० -णः शंघ ४११. ऋप्राण-पा^० -पाः शाश्रौ ४, ७, ११; काश्रौ १९, ५, ९; आपश्रौ १२, २१, २; बौश्रौ ७, ५: ४४; शुश्र २, ४२९. प्राण-प्रभृति- -तिभिः द्राश्रौ १०, १, ४; लाश्रौ ३, ९, ४. प्राण-बाधा-भय- -यात् शंघ ४४३; -थेषु वाध ६, १३. प्राण-भक्ष^० -क्षः आश्रौ ३, ९, ६; शाश्रौ ५, १०, २८; -क्षम् आश्रौ २, ७, ३××; शाश्रौ; काश्रौ १०, ८, ६^०; द्राश्रौ १२, ४, २०^०; लाश्रौ ४, १२, १५^०; ८, ८, २^०; -क्षान् आश्रौ २, १९, ३०××;

- a) पामे. वैप १, ६४२ b द्र. 1 b) पामे. वैप १, २२३२ a द्र. 1 c) पामे. वैप २, ३खं. प्राणम् तैत्रा १, २, १, २४ टि. द्र. 1 d) पामे. पृ ३३९ ० द्र. 1 e) = अङ्गिरसामन्यतम- 1 f) प्राणान् इति चौसं. 1 g) पामे. वैप १, ११६० m द्र. 1 h) पामे. वैप २, ३खं. प्राणाय तैत्रा ३, ७, ५, १३ टि. द्र. 1 i) पामे. पृ ३३९ k द्र. 1 j) पामे. वैप २, ३खं. वाचा ऐश्रा ५, १, ५^० टि. द्र. 1 k) पामे. वैप २, ३खं. प्राणेन तैत्रा १, २, १, २७ टि. द्र. 1 l) सपा. आपश्रौ २, १४, १३ यज्ञेन इति पामे. 1 m) पामे. वैप १, २२३२ f द्र. 1 n) पामे. वैप १, २२३१ h द्र. 1 o) वैप १ द्र. 1 p) सप्र. ऋणां मानानि<>ह-मानानि इति पामे. 1 q) वस. 1 r) ऋद्विवात् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. हिश्रौ.) 1 s) तुष. उप. = अथप्राण- 1 t) वा. क्रि. वि. 1

शांश्रौ; -क्षेण माश्रौ ४, ३, ३५;
 ५, २, १६, ६.
 प्राण-भूत- -तः वृदे २, ५२.
 प्राण-भृत्^a- -भृत् वाधूश्रौ ३, ५३ :
 २१; -भृत्: काश्रौ १७, ६,
 ३××; आपश्रौ; -भृत्स ह्रिश्रौ
 १२, ८, ७; -भृत्ताम् कौसू
 १२५, ९१; -भृद्भयः काश्रौ १७,
 ८, १३; ९, १२.
 प्राणभृज्-जति-> प्राणभृज्जा-
 ति-व्योवचन^० पा ५, १, १२९.
 प्राणभृद्-देवता-> ^०व्य-
 -स्यानि शुभ्र २, १७७.
 प्राण-मय- -यम् वाधूश्रौ २, १६:६.
 प्राण-मार्ग- -गेषु वैगृ ५, ३ : २४.
 प्राण-यात्रा-> ^०त्रा-मात्र- -त्रम्
 वैघ ३, ५, १३; ७, ७.
 प्राणयात्रिक^b- -कम् बौध २,
 १०, ५२.
 प्राणयात्रिक-मा(त्रा>)त्र^c-
 -त्रः वाध १०, २२.
 प्राण-लाभ- -भे गौध २२, ६.
 प्राण-वत् वृदे ७, ८२.
 प्राण-व(त्>)वी^d- -वी वैगृ १,
 १४ : ११; -^०वीन् काश्रौ ४,
 १४, १३; वैताश्रौ ७, ९; अप
 ४५, १, १८.
 प्राण-विप्रशोग- -गात् आपध २,
 ११, १९.
 प्राण-वियोग- -गात् हिध २, ४,
 १७^e.
 प्राण-विलोप- -पः निसू ७, २ : २.
 प्राण-वृत्ति- -त्तम् आपध १, २९,
 १; २, २१, १०; हिध १, ७, ५७;

२, ५, ११९.
 प्राणवृत्त्य(ति-अ)र्थ- -र्थम् शंघ
 ३९४.
 प्राण-संशय- -ये गोगृ ३, २, २१;
 जैगृ १, १७ : ५; आपध.
 प्राण-संतत- -तः आश्रौ २, १५, १४;
 -तम् आश्रौ २, १७, ५.
 प्राण-संवेह- -हे आज्यो १०, १.
 प्राण-संमर्शन- -नम् शांश्रौ ४, २१,
 २०; ८, ९, ८.
 प्राण-संमित, ता- -तः आगृ १, १९,
 १३; शांश्रौ २, १, २१^f; कप्र ३,
 ९, १६; -तम् जैगृ १, ७ : ५;
 १२ : ५२. -ताम् आश्रौ १, ७,
 ६; २, ३, १५.
 प्राण-सूक्त- -क्तम् अघ ४४, ४, २;
 -क्तस्य अशां २३, ५१; -क्तेन
 अशां २५, ११.
 प्राण-सूत्र- -त्रेण कागृ २९, ११.
 प्राण-स्थान- -नम् आग्निगृ १, ६, ३ :
 १४; -नेषु आग्निगृ ३, ४, ३ :
 १०; बौपि.
 प्राण-ह(र>)रा- -रा आज्यो ५,
 १३.
 प्राणा(रा-अ)ख्या- -ख्या शौच ४,
 ३९.
 प्राणा(रा-अ)ग्निहोत्र^g- -त्रम् वैगृ २,
 १८ : १३.
 प्राणाग्निहोत्र-मन्त्र- -न्त्रान्
 बौध २, ७, २७.
 प्राणाग्निहोत्र-लोप- -पेन बौध
 २, ७, २४.
 प्राणाग्निहोत्र-विधान- -नम् वैगृ
 २, १८ : १.

प्राणाग्निहोत्र-विधि- -धिना वैघ
 ३, ७, ७.
 प्राणा(रा-अ)व्यय- -ये वाध १६,
 ३६.
 प्राणा(रा-अ)दि- -दि भाशि ४१.
 प्राणा(रा^h-अ)घा-> ^०घा- -घाः
 अशां २३, ३.
 प्राणा(रा-अ)न्त-> ^०न्तिक^h- -कः
 वाध ३०, १०; -कम् गौध २०,
 १४.
 प्राणा(रा-अ)पान- -नम् वाश्रौ
 २, १, ७, २०; -नयोः वौश्रौ
 १४, ४ : २१; आपध २, २०, १;
 आगृ ३, १०, ४; ६ⁱ; कौगृ;
 -नाः अश्रौ ११, ३, (२)^j;
 -नाभ्याम् आपश्रौ २, ८, ६;
 वौश्रौ १४, ८ : ३४; भाश्रौ २,
 ८, ९; माश्रौ २, ३, ७, १^k; वाश्रौ;
 -ने माश्रौ १, ६, १, ३५^l; कौगृ २,
 ८, ९^l; -नैः अश्रौ ११, ३, (२);
 -नौ आश्रौ १, ५, १७××; काश्रौ;
 शांश्रौ २, १८, ३^l; -० नौ आपश्रौ
 १४, १९, ३^l; वौश्रौ.
 प्राणापाना(न-अ)वसुद्धि- -द्वयै
 कौसू ८०, ३०; ४१.
 प्राणा(रा-अ)पान-व्यान- -नाः निसू
 ८, १२ : ५.
 प्राणा(ग-अ)पान-व्यानो(न-उ)दान-
 समान- -नाः गौध ३, ८, १६^l.
 प्राणा(ग-अ)पान-समानो(न-उ)दान-
 व्यान- -नान् शंघ ११६ : २३.
 प्राणा(रा-अ)पाना(न-अ)युर्-
 देवता-> ^०व्य- -स्यानि अश्रौ
 २, १७.

a) वैप १ द. । नाप. [पा.] । b) मत्वर्थीयषु ठन् प्र. । c) बस. । d) = अग्निरश्मि-विशेष- ।
 e) परस्परं पाभे. । f) सपा. कौगृ २, १, २१ प्राणान्तिकः इति पाभे. । g) सप्त. उप. = आहुति- । h) प्राणाय
 (शौ ११, ६, १) इत्यस्य प्रतीकम् । i) पाठः? (तु. old., सपा. कौगृ २, ८, ९ 'ने इति, शांश्रौ २, १८, ३ 'नौ
 इति च पाभे.) । j) 'नः इति पाठः? यनि. शोघः (तु. शौ ११, ४, ७) । k) पाभे. वैप १, २२३१ i द. ।

प्राणा(ण-आ)यत्तन^३- नानि भाश्रौ
३,६,११; १८,२; वैश्रौ ७, ७:
१××; हिश्रौ; -नेषु शांश्रौ ४,
१४,१६; काश्रौ; वौषि ३,३,५^४.
प्राणायत्तन-मर्मन्- -मौषि वैश्र
५,१:१९.

प्राणायन^८- पा ४, १, ९९; -फँन:
वौश्रौ १०,३५: ४; १४,२२: ९.

प्राणा(ण-आ)याम- -मः आमिष्ट २,
७,९:३४; मागृ ३,२०: ३; वैश्र
२,४: ६××; कप्र; -मम् वैश्रौ
२,४: ८; वैश्र; शंघ ११६:
५७^४; -मा: वाध १०, ५; २६,
४; बौध; -मान् वैश्रौ १, ४:
३; आमिष्ट; -मेन वैश्र ४, १:
११; १८; विध ५०, ४७; वैध २,
२, ३; सुध ५१; -मै: वौगृ २,
९, ४; वाध २५, ३××; बौध.
प्राणायाम-त्रय- -यम् विध
५४, २३; सुध २६; सुधप ८६: ८.
प्राणायाम-धारणा-ध्यान-नित्य-
-स्य: विध ९६, २४.

प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-
(ण-आ)दि- -दय: वैध १, १०,
८.

प्राणायाम-शत- -तम् वाध २३,
३१; शंघ ४१२; बौध.

प्राणायाम-शस्(ः) आपध १,
२६, १५; बौध २, ४, ६.

प्राणायामा(म-अ)श्रीन्धन-भैक्षा-
चरण-स्थाना(न-आ)सन-शयनो
(न-उ)पस्पर्शन-सुमनस्- -नस:
बौगृ ३, ३, २३.

प्राणायामा(म-आ)दि- -दय:
वैध १, १०, ८.

प्राणायामा(म-आ)सन-प्रत्या-
हार-धारणा-युक्त- -क्त: वैध १,
९, १३.

प्राणा(ण-आ)युस्- -यु: अश्र २,
१७.

प्राणा(ण-आ)वन^९- -नाय अश्र ५,
३०.

प्राणा(ण-आ)हुति- ति: आमिष्ट
२, ४, १०: २६; -तिम् आमिष्ट
२, ४, १०: ३४; -ती बौश्रौ
१४, ४: १९; ३४; -ती:
आपश्रौ १५, ७, ३; बौश्रौ ९,
६: २४××; भाश्रौ.

प्राणिन्- -नण आश्रौ ५, १३, १५;
शांश्रौ ७, १८, ७; माश्रौ ३, १,
२१; ५, २, १४, ११; कौसू १४१,
१३; -गिन: शांश्रौ १६, १५,
८; अय ७०^३, १२, २; आपध
१, २२, ४; हिध १, ६, ४; या
६, ३६; -गिनाम् शांश्रौ १५,
१७, ११; कौसू; -गिनि पावा
४, १, ४२.

प्राणि^९ पा ४, ३, १५४.

प्राणि-तूर्थ-सेना(न-अ)ङ्ग-
-ज्ञानाम् पा, पावा २, ४, २.

प्राणि-प्रतिषेध- -ध: पावा ४,
३, १५४.

प्राणि-भू-पुण्य-सोम-विक्र-
यिन्^१- -धी विध ५४, १७.

प्राणि-वध- -ध: वाध ४, ७;
विध ५१, ७१; -धात् वाध
६, २५.

प्राणि-विशेष- -ष: शंघ ३७७:
३.

प्राणि-स्थ- -स्थात् पा ५, २,

९६; १२८.
प्राणि-हिंसा - -साम् अय १९^३,
५, ५.

प्राणिहिंसा-पर- -र: विध
५२, १७.

प्राण्य(णि-अ)ङ्ग- -ज्ञात् पावा
५, २, १२८^६; पागवा ४, १, ४५.

प्राण्यो(णि-ओ)षधि-वृक्ष-
-क्षेभ्य: पा ४, ३, १३५; पावा
४, ३, १३२.

प्राणो(ण-ई)श्वर- -र: आमिष्ट २,
५, ३: १५; बौगृ ३, ७, १४.

प्राणो(ण-उ)क्त, क्त- -क्त्या निस्
५, ८: १५; -क्ता: निस् ७, २:
१.

प्राणो(ण-उ)क्म- -म: कागृउ
४५: ८.

प्राणो(ण-उ)क्कान्ति- -न्ति: वैश्र
५, ६: १६; ७, ९: १.

प्राणो(ण-उ)दान- -दानौ शुश्र १,
२५६.

प्राणो(ण-उ)पस्पर्शन- -नम् गौध
१, ५४.

प्राणन्त- पाउ ३, १२७.

प्राणपत-, -न्ति- प्रभृ. प्राण- द्र.

प्रा(< प्र)णाह^९- -हस्य अप्रा ३, ४,
११.

प्राणाहति- (> ष्वायन-) प्रादा-
हति- टि. द्र.

प्रातर(,; स)^९- पाउ ५, ५९; पाग
१, १, ३७; -त: आश्रौ २, २, ५;
४, २३; १६, १; ३, १२, २;
४^५××; शांश्रौ २, ६, १; ११××;
काश्रौ २, १, १६; ४, २, ३६××;
आपश्रौ १, १, २; १२, ४; ३, १६,

a) = इन्द्रिय-स्थान-। b) तु. B.। c) वैप १ द्र.। d) = साध्य-विशेष-। सप्र. अयु २१९, -

२५ प्राण: इति। e) उप. < अर् [रक्षणे]। f) जीसं. ण्य-लोम-वि^९ इति!। g) तु. पावा. पासि.।

h) पाभे. वैप १, १५७६ k द्र.।

१२-१४××; २, ७, ४^{११};
काष्ठश्रौ; बौश्रौ २८, १२: ७^२१^१;
माश्रौ ४, १, ३; ५, १०,
१२××; माश्रौ १, १, ३, २२;
६, १, १××; ३, ३, ६^२१^१;
वाधूश्रौ ३, २५: ४; १४××;
वाश्रौ १, ५, २, ४××; वैश्रौ १, ७:
१६; १४: ६; २, २, १३^२१^१;
हिश्रौ १, २, १; ४, २०××;
१५, २, २१^११; जैश्रौ २२:
१६; वैताश्रौ १, १६; ७, १०××;
निसू ४, ३: १९; आपसं १,
१४, १^६; आगृ १, ९, ७; ३, ७, ५;
कौगृ १, १, १; १०, २२××;
शांगृ १, १, ११; ५, ४,
५^११; पागृ १, ९, ४; आमिगृ १,
६, ३: ५१; ७, २: २××; आपगृ
७, २१; १८, १××; कागृ २, ३;
५, ११××; बौगृ २, ६, २१;
३, ४, २२; बौपि १, १: ५; ६××;
भागृ १, १८: १४; २, ७: २७××;
मागृ १, २, ५; वैगृ १, ३: १४;
५, ६: २२××; हियृ १, १७,
४; १९, ३××; हिपि १४: १४;
२१: ८; गोगृ १, १, २८; ३,
११××; जैगृ १, १३: ७; १६:
२××; द्रागृ १, ५, १५; २, ३,
१××; गो १, ६; २, २८; कप्र १,
२, १; १०, १××; कौसू १,
३६××; ७२, २९^१; अप्रागृ
१, २; ४, ३××; अप १^२, १, २;
४, १, १××; वाध २३, २३;
४३××; शंघ ९८; १३२^२××;
आपध २, २९, ७; बौध २, १, ६४;

६५××; विध ४६, १०; ६१, १६;
वैध १, ७, ५; २, ६, २××; हिध
१, २, १२^०; ६, २०; अपं
२: २८; ऋया ७, २७; १२, ५;
याशि ४, २; ५××; याशि १,
३६; नाशि २, ८, ३; मीसू ६,
५, ४४; प्रातःऽप्रातः कौसू १७,
२८; अप ८, १, २.
प्रातः-कर्मन्-र्मगा बौश्रौ २६,
१३: ८.
प्रातर्-अभिहोत्र-भक्ति-क्ति:
बौश्रौ २५, १६: ४.
प्रातर्-अनुवाक^d-कः आश्रौ ४,
१५, २; ८, ६, २; शांश्रौ; -कम्
आश्रौ ४, १३, ६; शांश्रौ; -कस्य
शांश्रौ ११, १३, ५; १४, ५१, ७;
काश्रौसं; -कात् आपश्रौ १२,
३, ९; १७, २३, १; बौश्रौ; -काय
आश्रौ ४, १३, १; शांश्रौ; -के
आश्रौ ६, ९, १; शांश्रौ; -केन
बौश्रौ १६, ३: १५; -कैः^e
आपश्रौ ४, ९, २; माश्रौ ४,
१२, ४; १८, ७; वाश्रौ १, १, २,
२८; हिश्रौ ६, ३, २; १०.
प्रातर्नुवाक-काल-ले वाश्रौ १,
१, ६, २.
प्रातर्नुवाक-न्याय-येन आश्रौ
६, ५, ८.
प्रातर्नुवाक-प्रतिपद्^f-पदि
आश्रौ ७, ११, १.
प्रातर्नुवाक-प्रभृति-ति शांश्रौ
६, १, २५; १४, ५१, ४.
प्रातर्नुवाक-मन्त्र-न्त्रे वैश्रौ
१५, ४: ३.

प्रातर्नुवाक-वेला-लयाम्
शांश्रौ १६, १८, १६.
प्रातर्नुवाका(क-आ)दि-दि
आश्रौ १, १२, १९.
प्रातर्नुवाकाद्यु(दि-उ)द्वसा-
नीयान्त-न्तानि आश्रौ ७, १,
४.
प्रातर्नुवाका(क-अन्त>)न्ता^h-
न्ता द्राश्रौ १, ३, ३०.
प्रातर्नुवाको(क-उ)पक्रमण-
वेला-लयाम् द्राश्रौ १, ३,
१८^h.
प्रातर्नुवाको(क-उ)पक्रम-वेला-
लयाम् लाश्रौ १, ३, १८^h.
प्रातर्नुवाको(क-उ)पाकरण-
णम् काश्रौ ९, १, १०; -णात्
द्राश्रौ २, २, ४३.
प्रातर्-अन्त^h-न्तम् कप्र २, ९, १.
प्रातर्-अपवर्ग^h-र्गम् बौश्रौ २४,
३०: १; आमिगृ ३, ५, १: ५;
बौपि १, १: ४; -र्गाणि बौश्रौ
२५, ७: ७.
प्रातर्-अभिवाद-दम् आपध १, ५,
१२^०.
प्रातर्-अवनेक [ग]^d-कैनेⁱ
आपश्रौ ६, २०, १; माश्रौ ६, २,
१; ३, १०; हिश्रौ ६, ६, २१;
-गेन वाश्रौ १, ५, ४, १८^१.
प्रातर्-अह्न^l-ह्नस्य गोपृ ४, ६,
१०; द्रागृ ४, १, २३.
प्रातर्-आगामिन्-मिन् या ५,
१९.
प्रातर्-आचाम^k-मम् बौश्रौ १५,
३: ५.

a) पाभे. वैप १, १५७६ k द्र. । b) अष्टाविंशे सूत्रे संनिवेशः समुचित इति C. (LZDMG ५१, १३५)। c) सप्र. प्रातः<>प्रातर्भिवादम् इति पाभे. । d) वैप १ द्र. । e) पाभे. वैप १, २१७४ p द्र. । f) उप. = आद्या-ऋच्- । g) वस. । h) परस्परं पाभे. । i) पाभे. वैप १, २२३४ h द्र. । j) वैप २, ३खं. द्र. । k) उप. = आचमन- ।

प्रातर्-आश- -शम् वीथ २,७,२६;
-शात् कौस् १४१, ३४; वाघ;
-शान् वाघ २७,१६; गौध २६,
२; -शे हिश्री ६,१,१४; अत्राय
४,४.
√प्रातराश्र^३, प्रातराशेत् वाग्
१७,२१.

प्रातर्-आहार- -रम् शंघ ४४४.

प्रातर्-आहुति^४- -त्पे वीश्री ३,४:
४; -ति: काश्री २५, ७, १;
वाधूश्री; -तिम् वीश्री २९, ७:
४; वाधूश्री; -ती वैग् ३, ६:
२; -ती: अप २३, ८, ४; -ते:
माश्री ९, ८, ९; माश्री; -तौ
शाश्री १६, १, १०; माश्री ९,
८, ९; द्राश्री; -त्या वाधूश्री ३,
२९: ५×५; निस् २, ५: ६;
३१; -त्याम् काश्री २०, १, १९;
-त्यै वाधूश्री ३, ३४: २; ३५:
३.

प्रातराहुति-काल- -ल: वीश्री
२८,१२: ५; वैश्री २, २: १५;
-लात् वीश्री २८,१२: ४; वैश्री
२,२: १४.

प्रातराहुति-श्रुति- -ते: काश्री
१०,९,२३.

प्रातराहुत्यु(ति-अ)न्त- -न्ते
काश्री २४,७,३.

प्रातराहुत्यु(ति-उ)पक्रम- -मा:
लाश्री १०,११,३.

प्रातर्-इत्वन- -०त्व: या ५,
१९४; -त्वना या ४,१७.

प्रातर्-इष्टि- -ष्टिभि: हिश्री १४,
२,१८.

प्रातर्-उपक्रम- -माणि वीश्री २५,
७: ७.

प्रातर्-उपस्थान- -ने वाश्री १, ५,
४,८.

प्रातर्-जप- -पेन कौस् ६५,१६.

प्रातर्-जित^५- -जितम् आपमं १,
१३, १; वाग् ५, १५; वृदे ५,
१७०; अत्र ३, १६; या १२,
१४.

प्रातर्-दुग्ध^६- -ग्धम् आपश्री
१०,१७,५.

प्रातर्-दोह^७- -ह: वीश्री १९, ५:
३८; २७,१३: ६; -हम् काश्री
४, २, ३८; ७,४,२६; आपश्री;
-हस्य वैश्री २०, ३: ५; हिश्री
५,१, १६×५; -हा: हिश्री २,
६,५३; -हात् माश्री ८, २, १;
-हाभ्याम् आपश्री ३,१६, १३;
-हाय आपश्री १,१४,७; वीश्री;
-हे आपश्री ८, २, ५; ९, १,
२९; काश्रीसं; -हेन आपश्री ९,
१,२८; माश्री; -हौ हिश्री ५,२,
२८.

प्रातर्दोह-पात्र- -त्राणि आपश्री
१,१५,९; १२,४, ३; माश्री १,
१६,४; हिश्री १,४, ४०.

प्रातर्दोह-वत् आपश्री ८,१०,३;
२०,४; वीश्री २८,४: ८; वैश्री
८,४: ९.

प्रातर्दोह-विकार- -र: हिश्री ४,
५, ६२; -रम् आपश्री ८, ५,
३३.

प्रातर्दोह-स्थान- -ने अत्राय ४,
१.

प्रातर्दोहिक- -कानि वाश्री १,
२,४,४.

प्रातर्-दोहन- -नम् काश्री ४, २,
३७.

प्रातर्-बलि- -लौ वैग् ७,६: ७.

प्रातर्-भास- -भासाम् कप्र १,९,१.

प्रातर्-मन्त्र- -न्त्रेण वीश्री ९,१२:
१६.

प्रातर्-माध्यदिना(न-आख्या >)

स्थ^१- -स्थयो: जैश्रीका १४३.

प्रातर्-यज्ञ- -यस्य वैश्री २, २:
१७५.

प्रातर्-यावन्^८- -वभि: आपश्री ५,
७,६; शाश्री ७, ७, २; आपश्री;
-वभ्य: शाश्री २,८,२१; ६, ३,
९; काश्री; -वाण: आपश्री ६,
८,४; वीश्री ३, ५: १६; माश्री
६, ११, ७; हिश्री ३, ७, ५१;
-वाणम् वाधूश्री ४, ८५: १२;
-वाणा आपश्री ९, ११, १५;
शाश्री ५,९,२२; ऋअ २,५,७७;
-व्य: शैशि ७३.

प्रातर्-युज- -युजा^९ आपश्री ४,
१५, २; ५, ५, १२; शाश्री; या
१२, ४४; -युजौ^९ वैश्री १६,
१५: १०; हिश्री ९,३,५९.

प्रातर्-योगिन- -गिनौ या १२,४.

प्रातर्-वेष^{१०}- -षाय आपश्री १,
१४,६; हिश्री १,३,५७.

प्रातर्-हस्तम् वाश्री ३,४,५,५.

प्रातर्-हुत- -ते वाश्री १, २, ४,
१.

प्रातर्-होम^{११}- -म: हिश्री ९,६,३३;
कप्र २,९, ६; ३, २, २; -मम्
आपश्री १३, २५, ९; वीश्री;
-मानाम् काग् ४५: १९; -मे
वैग् ६,४: ५; १५: ५; -मेषु
अप २३,७,३.
प्रातर्होम-काला(ल-अ)नति-
क्रम- -म: कप्र ३,८,८.

a) क्तिबन्त: नाघा. b) वैप २,३खं. द्र. c) वस. d) वैप १द्र. e) = प्रातर्-दुग्ध-
f) इस. > वस. g) पामे. वैप १,२२३५ bद्र. 1

प्रातर्होमा (म-अ)न्त- -न्ते वैगु
६, २० : ५.

प्रातः-सन्ध्या- -न्ध्याम् आमिगु २,
६, ८ : ४२; शंघ १२७.

प्रातः-समिद्-धो(<हो)म- -मे
वैगु ६, ८ : १०.

प्रातः-सव- -वस्य काश्रौ ९, ९,
५^b; ६^b; १०, १२^c; काठश्रौ
१३^b.

प्रातः-सव- -नम् आश्रौ ५,
१, ४; ९, १०, १; शाश्रौ ७, २६,
१५××; काश्रौ; निसू ७, ४: ४५^क;
या ७, ८; -नस्य बौश्रौ ७, १५:
९^क××; माश्रौ; -नात् शाश्रौ

६, १३; १२; १३, ७, १; काश्रौ;
माश्रौ २, ४, ३, २९^क; -नाय
आपश्रौ १२, ९, ७××; बौश्रौ;
-ने आश्रौ ५, २, १२××; शाश्रौ;

काश्रौ ९, ३, १८^क; २४, ४, १^क;
आपश्रौ १२, २९, १३^क; बौश्रौ
७, ८ : १^क; १४, ५ : ९^क;
वैश्रौ १५, ३८ : १३^क; हिश्रौ

८, २, ४०^क; ८, ६२^क; निसू
३, ६: २८; ७, ७ : ३१; अश्र ६,
४७^क; -नेन शाश्रौ ७, १७, १४;
८, २, १२; आपश्रौ १३, १, २;

हिश्रौ ९, १, २; निसू ३, ६: १०^क.
प्रातःसवन-तृतीयसवन- -नानि
शाश्रौ १०, ११, १०.

प्रातःसवन-प्रभृति- -ति काश्रौ
१०, ५, ७.

प्रातःसवन-भाज- -भाजः
वाधुश्रौ ४, ७६ : ३.

प्रातःसवन-सध्य- -त्व- -त्वात्
मीसू ११, ३, १३.

प्रातःसवन-योग- -नम् पाशि७.

प्रातःसवन-वत् आपश्रौ १३,
१०, ५; १४, १, ८; वैश्रौ १६,
१० : ११; वैताश्रौ २६, ४.

प्रातःसवनिक- -कः शाश्रौ ७,
१९, ७; ८, ३, ६; बौश्रौ २५,
२३ : ५; माश्रौ २, ३, २, ३;
-कम् बौश्रौ २५, १९:६; माश्रौ

२, ३, १, १९; २, ३५; -कात्
माश्रौ २, ३, ४, २२; -के आपश्रौ
१४, १९, ११; माश्रौ २, ३, ४,
१२; ५, १४; -केषु आश्रौ ९, २,
६××; -कैः बौश्रौ २५, १६:११.

प्रातःसवनिकी- -क्यः आश्रौ
५, ५, १८.

प्रातःसवनीय, या- -याः वाधुश्रौ
४, २९^क : ६; -यात् काश्रौसं
२९ : ११; -यान् शाश्रौ १४,
२, १७; १३, ४; काश्रौ; -यानाम्
बौश्रौ १८, २२ : ३; -येषु बौश्रौ
१८, ३७ : १५.

प्रातः-साव- -वस्य आश्रौ ५, ५,
१५; शाश्रौ ७, ४, २; आपश्रौ
१२, २०, १५^b; २३, ४^c; बौश्रौ
७, १२ : ७^b; ११^b; १४ : १०^c;

२१, १९ : १५^b; माश्रौ २, ३,
७, ९^b; ४, १, २१^c; वैश्रौ १५,
२५ : ६^b; ७^b; २९ : १०^c;
हिश्रौ ८, ६, २^b; ७, २२^c.

प्रातः-सूक्त- -क्तम् अश्र ३, १६.

प्रातः-स्नान- -नम् शंघ १००;
१०१.

प्रातःस्नान-शील- -लः विध
६४, ९.

प्रातः-स्नायिन्- -यी शंघ १०१;

विध ९०, २९.

प्रातरग्नि^० प्रभृ, प्रातरा^० प्रभृ.
प्रातर्- -द्र.

प्रातरीय- -प्रतर- -द्र.

प्रातरूप^०, ^०तर्ज^० प्रभृ. प्रातर्- -द्र.

प्रातः सव- प्रभृ. प्रातर्- -द्र.

प्रातिकण्ठिक- -प्रति-कण्ठ- -द्र.

प्रातिकूलिक-; ^०कूल्य-प्रतिकूल- -द्र.

प्रातिक्य- -प्रतिक- -द्र.

प्रातिजनीन- -प्रतिजन- -द्र.

प्रातिज्ञ- -प्रति/ज्ञा द्र.

प्रातिमितधानाशने अप १८^२,
६, ३.

प्रातिथेयी- -प्रतिथि- -द्र.

प्रातिनिधिक- -प्रति-नि/धा द्र.

प्रातिपथिक- -प्रतिपथ- -द्र.

प्रातिपद- -प्रति/पद् द्र.

प्रातिपदिक- -प्रभृ. प्रतिपद- -द्र.

प्रातिपान- -प्रति/पा (पाने) द्र.

प्रातिबोध- ^०धायन-^२प्रतिबोध- -द्र.

प्रातिभाव्य- -प्रभृ. प्रति/भू द्र.

प्रातिलोमिक-; ^०लोम्य-प्रतिलोम- -द्र.

प्रातिवेश्य- -प्रतिवेश- -द्र.

प्रातिशाक्य- -प्रतिशाक- -द्र.

प्रातिशाख्य- -प्रभृ. प्रतिशाख- -द्र.

प्रातिश्रुत्क- -प्रति/श्रु(श्रवणे) द्र.

प्रातिष्णात्री^१ - -त्रीः वाधुश्रौ ३, ९२ : ७.
३; -त्रीम् वाधुश्रौ ३, ९२ : ७.

प्रातिसुत्वन्- -प्रति-सुत्वन्- -द्र.

प्रातिहन्त- -प्रति/हन् द्र.

प्रातिहर्ष-; ^०हारिक- -प्रति/हृ द्र.

प्रातीथेयी- -प्रति [ती] थि- -द्र.

प्रातीपिक- -प्रतीप- -द्र.

प्रात्यक्ष- -प्रत्यक्ष- -द्र.

प्रात्यग्रथि- -प्रत्यग्रथ- -द्र.

a) वैप १ द्र.। b) सपा. ^०सवस्य <> ^०सावस्य इति पाठे.। c) पाठे. वैप २, ३खं. प्रातःसवस्य
माश्र ४, २, १, २३ टि. द्र.। d) निसू. बौध. पाठः। e) पाठे. वैप १, २२३ पां। द्र.। f) बस.।
g) तात्रभविकः प्र.। h) पाठः? प्रतिष्णात्री- इति संस्कृतुः सूची।

प्रात्ययम् वाश्रौ ३, ४, ५, ५.

प्रात्ययिक- प्रती(ति/इ) द्र.

प्राथमिक-, अथ- प्रथम- द्र.

प्रादक्षिण्य- प्रदक्षिण- द्र.

प्रादाय प्र/दा द्र.

प्रादि- प्रच्. प्र द्र.

प्रादुरादि^१- श्चिः शुभ्र ३, ६०.

प्रादुस् (ः, र्, ष्) ^२ वाधूश्रौ ४, ७५:

१८; ३०; माण १, १४, ३; अण

७२, ४, ३; वाध १६, २४; शंघ

२४३, वृदे ५, ६७; ७, ४५; ६३;

आ २, ८; ७, २३; २९; १४, २;

पाग १, १, ३७; ४, ६१; ७४.

प्रादुर/सू > प्रादुर-भाव- -वः

अप ६३, २, ८; -वात् आपय

८, १३; -वे आण ३, ५, २; कौण

३, ७, २; शाण ४, ५, २; पाण.

प्रादुर्भाव-गमन- -नेषु अप

७२, ४, ५.

प्रादुर्भावा(व-अ)न्त^३- -न्तात्

लाश्रौ १०, १७, ९.

प्रादुर-भूत- -तः माण २, १३,

६१; -तेषु आपश्रौ ७, २०, ३;

माश्रौ १, २१, ८; वाश्रौ.

प्रादुष्/कृ पा १, ४, ७४.

प्रादुष्-करण- -णम् शाश्रौ २,

६, ४; कप्र १, ९, १.

प्रादुष्करण-वेला- -लायाः

गोण १, १, २४.

प्रादुष्करण-हवनकाल- -लौ^४

शाण १, १, १२.

प्रादुष्करण-होमकाल- -लौ^४

आण १, ९, ४.

प्रादुष्-कृत- -तेषु कौसू १४१,

१६.

प्रादुष्कृता(त-अ)प्ति- -धिषु

गौध १६, २३.

प्रादुष्-कृत्य गोण १, १, २७; २८;

द्राण १, ५, ७.

प्रादेश-, श्चिक- प्रच्. प्र/दिश द्र.

प्रादोष-, षिक- १प्रदोष- द्र.

प्रादोहनयन-, हनि- प्रदोहन- द्र.

प्रायुञ्जि- प्रयुञ्ज- द्र.

प्रा(प्र-आ)√घा, प्रादध्युः अणाय २, ९.

प्राधान्य- प्रच्. प्र/घा द्र.

प्रा(प्र-अ)धी (धि/इ), प्राधीयते^५

जैण १, १४ : ११^६; प्राधीयीरन्

शाण ६, २, १०; ३, ७; द्राण ३, २,

२०^६.

प्राधी(धि-इ)त- -तस्य गौध १६,

४४; -ते विध ९३, ३.

प्राध्य(धि-अ)यन- -नम् कौण २, ६,

५; ३, ८, ४; शाण २, १०, १४.

प्रा(प्र-अ)ध्व^७- -ध्वम् वाधूश्रौ ४, १ :

२; ३; ५; ८; आपध १, २२, ८;

हिष १, ६, ८

प्राध्वम् √कृ पा १, ४, ७८.

प्रा(प्र-अ)ध्वन^८- -ने आपश्रौ १७, १८,

११.

प्रानून^९- -नात् बौध १, १, ३०.

प्रा(प्र-अ)न्त^१- पाग २, १, १७^६;

-न्तानि कौसू ९०, ४; -न्ते

अप ६४, १, ९; याधि १, ५५, २;

७५; -न्तैः कौसू २, १९.

प्रान्त-पु(ष्य >)प्पा^१- पावा ४, १, ४.

२प्रान्त^१- पाग ४, १, ११०^७.

प्रान्तायन- पा ४, १, ११०; -नाः

बौश्रौ प्र ३ : ४.

प्रा(प्र/आ)प्, प्राप्नोति आश्रौ ३,

१०, ३१^८; शाश्रौ १५, १६, ७;

१८, १; काश्रौ; आपश्रौ^९ २, ४,

११; भाश्रौ ९, ५, २२^{१०}; हिश्रौ

१५, १, ७५^{११}; पा ५, २, ८; प्र^{११}

आप्नोति शाश्रौ १६, २९, ११;

हिश्रौ १७, ७, १४; प्राप्नुवन्ति

आपश्रौ २३, १३, ४; हिश्रौ १८,

४, ३९; आणियुः प्राप्नोतु

शाश्रौ १५, १८, १; आणियु

३, ३, २ : १०^{१२}xx; बौण;

प्राप्नवानि आणियु ३, ३, २ :

११xx; वैण ४, ३ : १२; गौणि

२, २, २५; प्राप्नवानि प्राप्नवानि

बौण २, ११, २०^{१३}; प्राप्नुयात्

शाश्रौ ३, ८, १४; आपश्रौ; प्राप्नुयुः

माश्रौ ३, ५, १४^{१४}; द्राश्रौ ३,

१, १२; लाश्रौ १, ९, १३; शंघ ५.

प्राप शाश्रौ १५, १८, १; १६;

२९, ६; शुभ्र १, १; प्राप्स्यन्ति

सु ३०, ६; अप २३, १४, २;

प्राप्स्यसि वृदे ७, १५२; प्राप्स्यथ

वृदे ६, १०; प्रापत् शाश्रौ १५,

१८, १; आपश्रौ १४, २६, ११;

आण ४, ४, २-४; अणाय ३, १०;

प्रापन् आपमं २, १५, ३; आण

२, ८, १६; कौण ३, २, ६; शाण

३, ३, १; माण २, ११, १२; प्रापम्

a) व्यप. । व्यु. ? ।

b) वैप १ द्र. ।

c) वा. √अस्, √कृ, √भू इत्येतद्भ्युक्तं द्र. ।

d) उप. = अन्तर- । e) परस्परं पाभे. । f) प्र^० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. संस्कृतः टि.) । g) परस्परं

पाभे. । h) प्रास. समासान्तः अच् प्र. (पा ५, ४, ८५) । बन्धनेनाऽऽनुकूल्ये वा. क्रिवि. (वैतु. अभा. <प्राप्र-आ-

ध्वन्- इति) । i) नाप. (देश-विशेष- [वैतु. MW. तद्वासिन्-]) । व्यु. ? । j) नाप. । प्रास. (तु. शक.) वा बस.

वेति पागम. । k) तु. पागम. । l) = औषधि-विशेष- । m) धक्षान्त- (परि. द्र.) इति पाका. ।

n) पाभे. वैप २, ३खं. प्राप्नोति तैत्रा ३, ७, ३, ६ टि. द्र. ।

कौस् ६२, १५५; प्रा(प्र-आ)आ-
आ।)प्स्यत् वाधूश्रौ ३, २२: १३.
प्राप्यते बौश्रौ २९, ८: १५; अप
३१, १, २; ४; बौध २, १०, ५७.
प्र...आपयते हिश्रौ १०, ५, ३८;
प्रापयन्ति कौस् १७, १४; प्राप-
येत् गोघ २, १, २१; अप १, ४९,
४; १२, १, १०^१; प्रायेयुः
अप्राय २, ९^२.
प्रेप्सति बौश्रौ १७, २३: ११;
१२.
प्रा(प्र-आ)पक-कम् पावा १, १,
७०; ३, ४, ११०.
प्रा(प्र-आ)पण-णम् मीस् ६, ८,
२०; -णात् आपश्रौ ७, १८, ११;
मीस् ५, १, ३३××.
प्रापणा(ण-अ)न्त-न्ते काश्रौ
१७, ४, १०; १८, २, ९.
प्रा(प्र-आ)स,सा-सः निस् २, ५:
८; १५; कप्र ३, २, ७; अप;
-सम् बौपि २, १०, ७; वैघ ३,
७: २६; अप; पा ५, १, १०४;
-सस्य अप ४८, ११७; या ३,
२०; -सा वृदे ३, १३; ७, ४३;
-साः काश्रौ १६, ३, ३०; जैश्रौका
१६७; बौध २, ३, ५७; विध ५१,
६३; -सान् वाश्रौ ३, २, ५,
५०; -सानि कौशि ५१; -साम्
जैघ १, २२: ३; -सायाम् कौघ
१, ९, १७; शांघ १, १५, २२^१;
-से काश्रौ २६, ४, ६; आपश्रौ
१०, १०, २; वैश्रौ; या ३, २०;
-सेषु गोघ २, ४, ५; मीस् ११,
१, ११; -सौ विध ६७, ३७.
प्राप्त-काल-ले काण्ड ३९:

३; वाध १६, ९.
प्राप्त-काल^२-> ल-त्व-
-त्वात् काश्रौ ७, १, २२; १२, ६,
२९; मीस् ६, ५, ३८.
प्राप्त-गृह-वृत्त,त्त^३-त्तस्य वैघ
५, ९: ९; -त्ताम् वैघ ५, ९: ११.
प्राप्त-त्व-त्वात् पावा ६, १, २.
प्राप्त-निमित्त^४-न्ते आपध २,
२८, १३; हिध २, ६, १२.
प्राप्तनिमित्त-त्व-त्वात्
मीस् ६, ४, १२; ५, ५०.
प्राप्त-प्रतिषिद्धत्व-त्वात् मीस्
१०, ८, १.
प्राप्त-प्रतिषेध-वः पावा ६,
४, १७१.
प्राप्त-यौव(न>)ना^५-नाम्
वैघ ५, ९: १०.
प्राप्त-लुप्त^६-सौ नाशि २, ५, ६.
प्राप्त-वसु^७-सू या ६, २१.
प्राप्त-सत्त्व^८-त्वम् अप ७, १, ७.
प्राप्त-स्थान^९-नाः निस् ७, ५:
४; ८, १०: १३^{१०}.
प्राप्ता(स-आ)दि-दिषु पावा २,
४, २६.
प्राप्ता(स-आ)पन्न-न्ने पा २, २,
४.
प्राप्ता(स-आ)पन्ना(न्न-अ)लंपूर्व-
गतिसमास-सेषु पावा २, ४,
२६.
प्राप्ता(स-आ)र्थ^{११}-र्थः विध ६,
२१.
प्रा(प्र-आ)सवत्-वन्तः विध ४७,
१०; -वान् वैघ ५, १५: ११.
प्रा(प्र-आ)सि-सिः जैश्रौका
१४०; अत्र ११, ७^१; मीस् १०,

५, १३; -सेः काश्रौ ७, ५, २१;
मीस् १०, ७, ४१.
प्राप्ति-प्रतिषेध-धात् पावा ६,
१, ३७.
प्रा(प्र-आ)प्नुम् काण्ड ४२: २०;
बौध ४, ७, ४.
प्रा(प्र-आ)प्य आश्रौ ४, १०, ९;
१३, ४×४; शाश्रौ.
प्रे(प्र-ई)प्सत्-प्सन्तः बौश्रौ १३,
२२: ५^१.
प्रे(प्र-ई)प्सा-प्सा या ६, ३२;
-प्सायाम् अप ४८, ५५.
प्रेप्सा-कर्मन्^{१२}-र्मणः या २,
१०; ४, ९; -र्मा या ७, १७.
प्रे(प्र-ई)प्सु-प्सुः वृदे ८, १३; या
६, ३२.
प्रा...प्रायताम्^{१३} अप्राय ५, ५^१.
प्राबंधायाः दंवि २, ६.
प्रा(प्र-आ)मि/भू, प्र...मिमियासम्
आपश्रौ ६, १८, २; हिश्रौ ६, ६,
१७.
प्रा(प्र-अ)मि/हे, प्राभिह्वयामि या २,
२५.
प्राभूतिक-प्र/भू. द.
प्रामाण्य-प्र/मा. द.
प्राय^{१४}-पाग ८, १, २७; पावाग २, ३,
१८; -यात् मीस् १, २, ११;
३, ४, ४; -ये शाश्रौ ७, २६,
६; पा, पावा ५, २, ८२; -येण
शाश्रौ ७, २५, २; २७, १६; अप.
प्राय-दर्शन-नम् पावा २, ३, २३;
-नात् मीस् २, ३, १६; ३, ३, २०.
प्राय-भव-वः पा, पावा ४, ३, ३९;
प्रायभव-ग्रहण-णम् पावा ४,
३, ३९.

a) सायाः इति पाठः? यनि. शोघः (तु. कौघ.) । b) बस. । c) बस.>षस. । d) बस.
उप. भाप. । e) प्राप्ति इति पाठः? (तु. संस्कृतः टि.) । f) सप्र. काठ ३५, ४ प्र...जायताम् इति पाठे. ।
g) = प्रायस्- (वैप १. द.) । व्यु. ? ।

शुभ्राय-नचन- नात् पावा ३, ३,
 ११९; १२३; मीसू २, २, १२.
 शुभ्राय-शस् (:) अय ५२, २, ४;
 ६८, १, ३६; वृदे ३, ५२; १५१.
 शुभ्राय(अ-आ)पत्ति- -त्ते: मीसू १२,
 ३, २१^१.
 शुभ्राय(प्र-अ)य- , अण- प्रसृ. प्रे(प्र✓इ)
 द्र.
 शुभ्रायत्य- प्र✓यच्छ् द्र.
 शुभ्रायश्चित्ति- शुभ्रायस्- द्र.
 शुभ्रायस्(ः, श्)^b -य: द्राश्रौ १२, २, ३४;
 लाश्रौ ४, ११, ३; ऋश्रा १६, १××
 शुभ्रायश्चित्त^b - पाग ६, ३, १०८^०;
 पागवा ६, १, १५०^६; -त्त: भाश्रौ
 ९, १०, १२; -त्तम् आश्रौ ६, ८,
 ७; ८, १२, १४; शाश्रौ २, ७, ६;
 ३, १९, १; ७, ८; २१, १, १२;
 ५, १७, १२; काश्रौ १, २,
 २२; २५, १, १; ५, ५; आश्रौ
 ९, ११, २९; ७, ११; १०, १२^२;
 १५, ८; २०, २; १४, २५, ३; ५^१;
 २६, ७; ८; १५, १९, ६; बौश्रौ
 १, २० : १८; ४, १० : २०;
 २०, १९ : ३३; ३४; ३६;
 २३ : १०; १४; २६ : ३६;
 २३, ४ : २१; ८ : २७; २४,
 २२ : १२; ३३ : १४; ३७ : १५;
 ३८ : ४; २६, ५ : ५; २७,
 २ : २; ४ : ९; ५ : ६; १२ : २;
 २९, १ : ५; २ : २; ८; १२-१४;
 १८; ३ : ८; १२-१४; ४ : ६;
 १३; २५; १२ : १९; भाश्रौ ९,
 १, १; २, १४; ६, १३; ११, १३;
 १६, ८; १७, १०; ११, २०, २;
 भाश्रौ ३, १, ४; २२; वाश्रौ ३,
 १९ : १८; १०६ : ५; ६; ४, ८८;
 २; वैश्रौ २०, १ : ५; ११ : ६;

१३ : १०; १४ : ६; ३९ : ४;
 ११; २१, ११ : ३; १३ : ५; १५;
 ४; १८ : ६; हिश्रौ ३, १, २७;
 १५, १, १; १२; ३२; २, ३३; ३, ३;
 ४, २८; ५, ११; १२; ६, २३; ४१;
 ७, २४; २५; ८, ४८^१; द्राश्रौ
 १२, ३, १; २^१; लाश्रौ ४, १०, ५;
 ११, ४; निम् ६, ९ : ९; १२ :
 २३; शाश्रु २, १३, ३; पाश्रु ३,
 १२, ११; आश्रु १, ६, ३ : ४;
 ५५; ६०; २, ४, ७ : १३; ५, ४ :
 ५; ६, ५ : ३; ७, १ : ६; ४ : ८;
 १५; ९ : ३३; ४१; ३, २, १ : १२;
 बौश्रु २, ९, ८; ४, ६, १; ७, १^२; ९,
 ७-१०; १२; १०, १^२; ३^३; ११, १;
 २; वैपि २, ६, १२; ८, १; भाश्रु
 २, १६ : २; ३, १५ : १३^१; २० :
 २; २१ : ४; भाश्रु २, १४, २२;
 वाश्रु १, १; वैश्रु ६, १ : १; १४;
 ३ : ६; ४ : ९; १३; ५ : १; ११ :
 ६; १२ : ११; १३ : ८; १४ : २;
 ३; १५ : १०; १६ : १५; १७ :
 ११; १८ : ७; १९ : १; २; २० :
 १; ७; ३ : ६; ८; ४ : १४; १८;
 २०; ७ : ७; ८ : ९; हिपि २३ :
 १४; गोश्रु १, ९, १६; ३, २, २९;
 जैश्रु १, १२ : ५७; द्राश्रु १, ३,
 १५; २, २, १४; कप्र २, ९, १९;
 १०, १६; ३, ४, ५; ६, १६; १८;
 ८, ९; अश्राय १, १; ३; ५, १; अय
 ३३, १, ४-६; ३७, ८, १; वाध ५,
 ४; १६, ३५; १७, ६६; २०, १;
 २२, २; २३, ४७; २५, २; शंघ
 ४७; ३७९; ३९१; ३९२^२; ३९४;
 ३९५^१; ४४३; आश्रु १, १, ३४;
 २, ६; २५, १४; २, २, ८; बौध १,
 ५, १२३; २, १, ६३; ३, १०, ४;

विध २२, ९; ३२, २; ४१, ५; ४२,
 २; ४५, ३३; ५२, १४; ५४, १;
 २७; २९; ३४; हिध १, १, ३२;
 ३९; ७, ११; २, १, ३०; गौध १९,
 ४; २०, १४; २२, १; २४, १; ९;
 २५, ९; काध २७० : ८; २७१ :
 ३; ५; २७२ : ८; २७३ : १; २७४ :
 ४; २७६ : ३; ८; २७८ : १०;
 सुधप ८४ : १०; ११; ऋश्रु २,
 १०, १६२; १६५; अश्रु २०, ९६;
 अश्रा ३, ४, १^१; मीसू २, ४, २१;
 ६, ४, १०; ५, ४५; ४९, ६, ३५, ९,
 ४, २६; -त्तस्य निम् ६, १२ :
 २४; -त्तात् बौध २, ७, २५;
 -त्तानाम् अश्राय ६, १०; -त्तानि
 काश्रौ २५, १४, ३५; आपश्रौ ९,
 १, २; १५, १७, १०; बौश्रौ १,
 २१ : ९; २०, २३ : १२; २७,
 १ : १; २८, ९ : २८; १० : १;
 ११; २९, ३ : १; भाश्रौ ९, १,
 २; ११, १८, १; भाश्रौ ३, १, १;
 वैश्रौ २०, १ : ८; हिश्रौ १५,
 १, २; आश्रु २, ७, ८ : १; ९ :
 १; बौश्रु ४, १, १; ८, १; वैश्रु ३,
 ८ : ३; अश्राय १, १; ३, ७; ६,
 ९; शंघ २६१; बौध १, १,
 १६; २, १, १; ४, १, १;
 ३, १; ३; ३, १; ४, १; सुध ६६;
 चाश्रु ३८ : २; -त्ताय बौश्रौ ९,
 २ : ३२; ४ : २५; १७ : १२; १०,
 ८ : ८; १३ : १३; वैश्रौ
 १३, १ : १८; -त्ते आश्रौ १, १,
 १६; वैश्रौ २०, २६ : ३^१; बौश्रु
 २, ५, ६५; वैश्रु ६, १ : १३; कप्र
 ३, ८, ७; बौध २, ७, २५; सुधप
 ८५ : ५; -त्तेन वाध २१, १२;
 गौध २०, १०; -त्तेषु शाश्रौ ३,

a) श्योपपत्तेः इति जीसं. प्रयासं. । b) वैप १ द्र. । c) तु. पागमं. । d) तु. पाका. पासि. ।

१९,६; काश्रौ १,८,११; अप्राय
५,५; मीसू १२,३,१६.
प्रायश्चित्त-करण-गे बौश्रौ २०,
१८ : ३०; २६ : ३५; २२, ३ :
१८; २३, ४ : १९; ८ : १९; २६.
प्रायश्चित्त-कर्मन्-र्म काश्रौसं
३३ : १९.
प्रायश्चित्त-कृत्य-त्ये निसू ६,
१० : ३५; ७, ७ : ४०.
प्रायश्चित्त-दर्शन-नात् शांगृ
१, ३, ९.
प्रायश्चित्त-देवता-ताः शुअ ४,
११५^६;
प्रायश्चित्त-महाबो(णा >)ण^६-
णः विध १, ५^६.
प्रायश्चित्त-वत्-वति आपव १,
१८, ११; हिध १, ५, ८०.
प्रायश्चित्त-विधान-नात् काश्रौ
१, २, १९; मीसू ६, ३, ७; ६, २९.
प्रायश्चित्त-श्रुति-तेः काश्रौ ४,
३, १५.
प्रायश्चित्त-संयोग-गात् काश्रौ
२५, १४, ३२.
प्रायश्चित्त-समुच्चय-यम् बौश्रौ
२९, १२ : १; बौगृ ४, ९, १.
प्रायश्चित्ता(त-आ)ज्याहुति-
-तीः गोगृ २, ५, २; गौध २५,
३.
प्रायश्चित्ता(त-आ)दि-दि
आमिगृ १, ६, ३ : २६; वैगृ ३,
२३ : १३.
प्रायश्चित्ता(त-आ)न्त-न्ते वैगृ
७, ३ : ९; विध ५१, ४.
प्रायश्चित्ता(त-आ)र्थ-र्थः बौश्रौ

२४, १५ : ४; आपव १, २४, ४^६;
-र्थम् हिध १, ६, ५३^६; वृदे ८,
६९; -र्याः निसू ६, १२ : २२;
-र्थे निसू ८, ६ : ७; -र्थेन निसू
६, ३ : ८.
प्रायश्चित्ता(त-आ)र्थक-कः कप्र
२, ९, ११.
प्रायश्चित्ता(त-आ)र्थ-र्थम् विध
५४, ३३.
प्रायश्चित्ता(त-आ)हुति-त्तयः
वाश्रौ १, १, ४, १३; ६, ४; शुअ
४, १२१; -ती शाश्रौ ३, १९, ३;
-तीः शाश्रौ ८, ८, १०; वाश्रौ १,
३, ७, २०; वागृ १, २९; २, १०;
वैगृ ६, १५ : ६; जैगृ १, ४ : ६.
प्रायश्चित्ति(क>)की-क्यः
आश्रौ २, १५, ४.
प्रायश्चित्तिन्-त्ती हिश्रौ १०,
७, १८; कागृउ ४६ : ११; गौध
१२, ४५.
√प्रायश्चित्तीय, प्रायश्चित्तीयते
याशि २, ११६.
प्रायश्चित्ती(य>)या-याम्
आमिगृ २, ७, २ : २२; ३, २, ५ :
२; ७ : ३; वैगृ ६, १६ : ८.
प्रायश्चित्ते(त-इ)ष्टि-ष्टिः माश्रौ
५, १, १, २; -ष्टीनाम् आश्रौ ३,
१३, १४.
प्रायश्चित्ति^६-पाग ६, ३, १०९^६;
पागवा ६, १, १५७^६; -त्तयः
जैगृ १, २२ : २१; २२; -त्तिः
आश्रौ ३, १०, १; आपवश्रौ ५,
२९, १३; ९, ४, १३; ८, ३;
१५, १५; २१; १०, १७, ७; बौश्रौ

३, १४ : १६; १४, ३ : २०;
२६ : २१; २९ : १५; २८;
१५, ८ : १५; १८, ११ : २२;
२७, ३ : ५; ९; ५ : २; १२; ९ :
१०; १० : १; ११ : ४; १२ :
२६; १३ : ११; २८, ६ : ११;
२९, १ : १६; ४ : ९; १५; ११;
११; १२ : १४; माश्रौ ९, १७,
८; १०, १०, २; माश्रौ २, १, ३,
१; ५, १, १, २७; ५, २९; ६३;
६, २५; ४२; ७, २९; ९, २७;
१०, १६; ३६; ४२; ५८; ६५;
२, १, २६; ७, १४; २६; वाधृश्रौ
२, १३ : ६; ३, ४४ : २; ५;
४६ : २; ३; १८; वैश्रौ १२,
१३ : ९; १८, ७ : ५; २०, ३५ :
३; हिश्रौ १५, १, ४१; २, २८;
४, २७; ३५; ३९-४१; ५, ६;
†आपमं १, १०, ३; ६; कौगृ १,
११, ४^६; २, ८, ३; वागृ १, १८,
३^६; ६, २, ११; पागृ १, १०,
४; ११, २^६; †आमिगृ १, ५,
५ : १; ३, ५; ७; कागृ २८, ४^६;
बौगृ १, ६, १२; ४, ५, १; ८, १;
जौपि ३, १, १०; †भागृ १, १९;
१३; १७; हिगृ १, २४, १^६;
जैगृ १, १३ : १०; †२२ : १४;
१६; १८; १९; द्रागृ १, ४, १२; २;
कौसू ९४, १८; ९५, ५; ९६, ५;
९८, ४; ९९, ५; १००, ४; १०१,
४; १०२, ५; १०३, ४; १०४,
४; १०५, २; १०७, ४; १०८,
४; १०९, १०; ११०, ८; १११,
१०; ११२, ३; ११३, ४; ११४,

a) ष्ठा इति म (सा ३९, ५) । b) विप. (विष्णु-) । बस. । c) प्रायश्चित्तमयोवीरः इति जीसं. ।
d) सप्र. ०र्थः <> ०र्थम् इति पाभे. । e) वा. क्रिवि. । f) बस. । g) विप. > नाप. (इष्टि-विशेष-) ।
तस्येदमोयषु ठक् प्र. । h) वैप १ द्र. । i) तु. पागम. । j) तु. पाका. पासि. । k) पाभे. वैप २, ३खं. प्रायश्चित्ते
(सं१) मंत्रा १, ४, १ टि. द्र. ।

४; ११५, ३; ११७, ५; ११८, २; १२१, २; १२३, २; १२४, ७; १२५, ४; १२६-१२७, १४; १२८, ६; १२९, ४; १३०, ३; १३१, ३; १३२, २; १३३, ८; १३४, २; १३५, १२; १३६, १३; १३७, ४५; अप्राय १, २; ३; ५; २, १; २-५; ७; ९; ३, ८; ४, २; अप ३७, १, ११; २, १; ३, १; ४, २; ६, १; ७, १; ८, २; ९, ४; २०, १; बौध २, १, ५१; २, ६५; -त्तिभिः कप्र २, ९, १३; -त्तिम् काश्रौ १६, ६, ३१; आपश्रौ ९, १६, १२; भाश्रौ ९, १८, ३; १९, ६; ९; वाधूश्रौ २, १३; ४; ३, ४६; ३; १३; हिश्रौ १५, ४, ५; अप्राय २, २, ३; अप २९, २, २; अप्रा ३, ४, १; -त्तिः हिश्र १, २३, ११; जैश्र १, ११; २२; २२; १३; अप्राय ३, १०; -त्तिनाम् वाधूश्रौ ३, ४४; १; -त्तिं आपामं १, १०, ३-६; पाश्र १, ११, २; अप्राय १, ५, ५; १; ३; ५; ७; ६, ३; ६१; काश्र २८, ४; बौश्र १, ६, १२-१५; भाश्र १, १९; १३; १६; हिश्र १, २४, १; गोश्र २, ५, २; जैश्र १, २२; १३; १५; १७; १९; वैश्र २, १, ९. प्रायश्चित्त-कल्प- -ल्पः माश्रौ ५, १, ५, ३. प्रायश्चित्त-पर्यन्त- -न्तम् हिश्र १, २३, ११. प्रायश्चित्त-सामन्- -म निस्सू ५, १; १७; ८, २; १५; ६; ४१;

९; ३३. प्रायश्चित्त्य(त्ति-अ)न्त^b- -न्तम् काश्रौ १७, १, १. प्राय(स्य>)स्था^c- -स्या ऋप्रा १६, ६५. प्रायो-दर्शन- -नम् पावा २, ३, २३. प्रायो-देव(त>)वा^b- -ता या ७, ४. प्रायश्चित्त- प्र[✓]युज् द्र. प्रायुज- प्र[✓]युज् द्र. प्रा(प्र-अ)युस्^d- -युः आपश्रौ ६, १९, १; हिश्रौ ६, ६, १७. प्रायोगिक- प्र[✓]युज् द्र. प्रा(प्र[✓]अ)रु प्र[✓]इयमिं आश्रौ ६, ४, १०; बौश्रौ १३, ३५; ४; प्र(इयमिं)शाश्रौ ९, १८, ५; १४, ५४, २; वैताश्रौ २६, १०. प्र(आहः) ऋअ २, ३, ७. प्रा(प्र-आ)[✓]रभ,म् > प्रा-रब्ध, बधा- -ब्धम् वैश्रौ २०, १८; ५; -ब्धायाम् वैश्रौ २०, ४; २; -ब्धे वैश्रौ १६, १; ८; २०, ४; ३. प्रा-रभ्य अप ७०, ११, २. प्रा-रम्भण- (> रम्भणीय- पा.) पाग ५, १, १११. प्रा-रम्भमाण- -णः अप ३०^३, १, १. प्रारोह- प्र[✓]रुह द्र. प्रारोहि^e- -हयः बौश्रौ प्र ४९; ३. प्रा(प्र[✓]अ)र्च. प्रार्चन्ति या ५, ५; प्र[✓] अर्चन्ति लाश्रौ ६, ४, १२; प्र(अर्चन्ति) साअ २, ९२५; प्र[✓] अर्चन् आश्रौ ८, ९, २; प्र[✓] (अर्चन्) ऋअ २, ७, ४३; प्र[✓] अर्च, > चा आश्रौ ५, ९, २१; या ११, ९७; प्रा(अर्च, >

चा) आश्रौ ४, १३, ७; ५, ९, १५××; शाश्रौ; प्रा(अर्च, > चा ऋप्रा ७, ३०; ३४; शुप्रा ३, १७; ४, ७८; प्रा(अर्च आश्रौ ६, २, ९; या ४, २४; ११, ९; प्र[✓] अर्चत > ता या ४, २४; प्रा(अर्चत, > ता) आश्रौ ५, १४, १८; ८, ७, २३; शाश्रौ; प्रा(प्र-अ)र्चत] आश्रौ ६, २, ६; शाश्रौ ९, ६, १२; बौश्रौ १३, १४; ११; माश्रौ. प्रा(प्र[✓]अ)र्च, प्रार्चयति वृदे २, ३७; या ३, ५. प्रा(प्र-अ)र्चयित्- -ता या १०, १०. प्रार्जित-> त-होष^f-> षिन्- -षिणौ या ५, २२. प्रा(प्र-अ)र्ण- पावा ६, १, ८८. प्रा(प्र[✓]अ)र्थ, प्रार्थयते अप ४१, ३, १; वैश्र १, ७, ८; प्रार्थयति अत्र ७, ७८; ८१; प्रार्थयन्ते वैश्र १, ९, २-४; अप्रार्थयत्^g अत्र १, ८; ९××; प्रार्थयत् अत्र २, १३; १९, ७२; प्रार्थयेत् हिश्र १, २, ६६^h; प्रार्थयेत् कप्र २, ४, ९; आपव १, ७, ९^h; प्रार्थयेध्वम् अप ३१, २, २. प्रा(प्र-अ)र्थन- -नम् अत्र ५, ६. प्रार्थनीय- -यम् अत्र २, १८. प्रा(प्र-अ)र्थना- -नासु कप्र १, ४, ९. प्रा(प्र-अ)र्थयत्- -यन् अत्र ३, १५. प्रा(प्र-अ)र्थयमाण- -णः कौसू १८, ३०; ३१. प्रा(प्र-अ)र्थयमान- -नः अप ३१, २, ४. प्रा(प्र-अ)र्थित- -तः वैश्र २, ६; १६;

a) पाप्मे. वैप २, ३खं. मंत्रा १, ४, १-४ टि. द्र. । b) बस. । c) भवार्थे यत् प्र. (तु. भाष्यम्) । d) वैप १ द्र. । e) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ? । f) कस. । उप. वैप १, १८०० e द्र. । g) पाठः प्रा(प्र-आ)र्च इति श्लोकः (तु. अत्र २, १३) । h) परस्परं पाप्मे. ।

प्रार्थित-प्रदान- -नेन विध २४,
२२.
प्रा(प्र-अ)र्ध्व अर्ध ४, ३९; ५, २४.
प्रा(प्र/अ)र्द्ध, प्रार्द्धयति या ६, ३२.
प्रा(प्र-अ)र्द्धक- -कः या ६, ३२.
प्रा(प्र/अ)र्ष, प्रार्षयति माश्रौ १, १, १,
१८; ७, १, ८; प्रार्षयतु आपश्रौ
१, २, ४; बौश्रौ.
प्रा(प्र-अ)र्षण- -णः आपमं २, ११,
२७.
प्रार्(प्र/अ)र्ष, प्र(अर्षति) ऋअ २, ९,
२०^b; ३४; प्र(अर्षन्ति) ऋअ २,
९, ८६; ३, २९; प्र(अर्षन्ति) ऋअ
२, ९, ४४; साअ १, ५०९; उस्
५, ४.
प्रालेपिका- प्र/लिप् द.
प्रालेय- प्र/ली द.
प्रा(प्र/अ)व, प्रावति भाश्रौ ९, १३,
१; प्र...अवतु शाश्रौ ८, १६,
१^३क; प्र(अवतु) शाश्रौ ८, १६,
१^३; १७, १; १८, १××; बौश्रौ;
प्रा(प्र-अ)वताम्^१ आश्रौ ३, १२,
२३; भाश्रौ ९, १३, १; माश्रौ;
प्र...अवताम्, प्र(अवताम्)
शाश्रौ ८, १९, १^३क; प्रावन्तु
या १२, ४५^३; प्र...अवन्तु
शाश्रौ ८, २०, १^३क; प्र
(अवन्तु) शाश्रौ ८, २०, १^३; २१,
१; २३, १; प्र...अव वाश्रौ
४, ४७; ७; आपमं १, ३, ५; पाय;
प्रार्(प्र-अ)वतस् आपश्रौ ४, ४,
१; भाश्रौ ४, ४, ३; हिश्रौ ६, १,
२६; प्रा(प्र-अ)वत, >ता शुप्रा

३, ९७^३; प्रा(प्र-अ)वन् या ६,
२^३.
प्र(प्र...अविध) आश्रौ ७, १२,
१६; शाश्रौ १०, ६, १६; ऋअ
२, ८, ३७; ऋप्रा १७, ३६.
प्र...अविषत् आश्रौ २, २०,
४; ऋप्रा ५, ५९; प्र...अविषुः^d
शाश्रौ १२, २४, १.
प्रार्(प्र-अ)वितु- -ता वृदे ३, ७९;
-तारः काश्रौ ३, २, १३; आपश्रौ
२, १६, ११^३; बौश्रौ १, १५ :
३०; भाश्रौ.
प्रार्(प्र-अ)वित्र- -त्रम् आश्रौ १,
४, १०; ५, ३, ९; शाश्रौ १, ६,
१४.
प्रा(प्र-अ)व्य- -व्यम् बौश्रौ ९, १० :
२१.
प्रावचन- प्र/वच् द.
प्रार्(प्र-अ)वण- -णमिः ऋप्रा ९, ५०; शुप्रा
३, १०५××; तैप्रा ३, ५; ७, ७.
प्रा(प्र-अ)व/निञ्, प्र(अवनेनिांघ)
कौस् ६४, ९^३.
प्रा(प्र-अ)व/यम् (नियमने), प्र-
(अव...अर्थस्त) ऋअ २, १, ५६.
प्रावरण- प्र/वृ (आच्छादने) द.
प्रा(प्र-अ)व/सृष्ट>प्राव-रुद्धि-द्धयै
हिश्रौ १७, ५, ३२^३.
प्रावर्गिक- प्र/वृच् द.
प्रा-वर्षिन्- प्र/वृष् (परि.) द.
प्रावार- प्र/वृ (आच्छादने) द.
प्रावास- प्र/वस् (यात्रायाम्)
द.
प्रावाहणायन-, णि-, ण्य-

२प्रवाहरण- द.
प्रावाहार्य- -याः बौश्रौ ४१ : ३.
प्राविक्य- प्रविक- द.
प्रा(प्र-अ)/विष्, प्राविवेश वृदे ६,
१२.
प्रा-वृत्-, ण्य प्र/वृ (आच्छादने)द.
प्रावृष्-, णिक- प्र/वृष् द.
प्रार्(प्र-अ)व- -पाः^h ऋअ २, १०, ३४;
वृदे ७, ३६; या ९, ८६; -पौ
वाश्रौ ३, ३, ४, १९^३.
प्रावेपिन्- -पी आपश्रौ २२, १२,
६.
प्रावेशन- प्र/विश द.
प्रा(प्र/अ)ञ् (व्याप्तौ), प्र(अइयाः)
शाश्रौ १०, ६, १८; ऋअ २,
५, ४२; वृदे ५, ३८; शैशि
५५.
प्राश्यति द्राश्रौ २, ३, १०; लाश्रौ
१, ७, ९.
प्राश्रुते या २, १४.
प्रा(प्र-अ)ष्ट->ष्ट-वर्ण-ग(र्भे)>
भार्- -भार्ः या १०, ३९.
प्रा(प्र/अ)श् (भोजने), प्राश्नाति
शाश्रौ ४, १३, ३; ७, ७, ३; काश्रौ
२, २, १६; ३, ४, १७××;
आपश्रौ; प्राश्नीतः आपश्रौ ३, ९,
९; बौश्रौ १, २० : १७; ४, १० :
१८; माश्रौ; प्राश्नन्ति शाश्रौ ३,
१६, २५; काश्रौ ३, ४, १९××;
आपश्रौ; शांष्ट ४, ५, १०^३;
प्रार्(प्र-अ)नामि आश्रौ १, ७, २^३;
१३, १××; शाश्रौ १, १०,
२^३××; आपश्रौ; प्रार्(प्र-अ)नातु

a) वैप १ द.। b) पाभे. वैप १, २२११ e द.। c) पाभे. वैप १, २२३८ i द.। d) पाभे.
वैप १, २२३९ o द.। e) वैप २, ३खं. द.। f) सप्र. आपश्रौ २२, १३, ११ ब्राह्मणस्य इति पाभे.। g) व्यव.।
व्यु. ?। h) वैप १, २२४० o द.। i) वैप १, २२४० d द.। j) विप. (प्रकरणात्) अश्वरथ-। अर्थः ?।
आदर्शखचित-। जै १३४। वा धात्वनुविद्ध-। आपश्रौ। वेति ?o.। k) कस. >वस.। l) सपा. प्राश्नन्ति <>
प्राश्य इति पाभे.। m) पाभे. वैप २, ३खं. अश्वनामि माश १, ८, १, १४; १५ टि. द.।

आपश्रौ ६, ३०, १०^३; बौश्रौ ३,
१२: ९^३; माश्रौ ६, १७, १७^३;
माश्रौ १, ६, ४, २६^३; वाश्रौ १,
५, ५, ८^३; वैश्रौ ८, २: ९^३;
हिश्रौ ६, ८, १^३; आपमं २, १०,
७^३; पागृ ३, १, ४^३××; बौगृ^३
१, २, ४८; ४९; गोगृ ३, ८, २०^३;
जैगृ १, २४: ९^३; द्रागृ ३, ३,
८^३; या १२, ९९; †प्राशनन्तु
द्राश्रौ १३, ३, १७; लाश्रौ ५, ४,
२; कागृ ६३, १३; प्राशनाहि
अग्राय २, ४^३; प्राशनीत बौश्रौ
६, १२: २; वाधूश्रौ ४, ६७: ३;
प्राशनीम वाधूश्रौ ४, ६७: २;
प्राशनन् वाधूश्रौ ४, ६७: ४;
प्राशनीयात् आश्रौ १, ७, ८; १०,
८××; शाश्रौ; प्राशनीयाताम्
बौश्रौ २०, २: ११; माश्रौ १,
४, १, १०; बौगृ ४, १२, ६;
प्राशनीयु: आश्रौ ५, ७, १०××;
बौश्रौ.
†प्राशिष्यन्ते द्राश्रौ १३, ३, १७;
लाश्रौ ५, ४, २; प्राशत् जैगृ २,
१: ३८; प्राश्री: शौच १,
१०५^३; प्रा (प्र-अ)शिषम्
कौसू २२, २-४^३.
प्राश्यते मीसू १०, ६, ३३.
प्राशयति पागृ १, ११, ५; १६,
४^३; वैगृ ६४: ३; आमिगृ २,
१, १: १०; ४: २^३××; बौगृ
२, १, ७^३; ३, ५; भागृ १, २४:
१०^३; २७: २०; २२; वैगृ; हिगृ
२, ३, ९^३; प्राशयन्ति आपगृ
१२, १; हिगृ १, ४, १०; १२;

†प्राशयामि आपश्रौ १, १०, १०;
हिश्रौ २, ७, ५९; आपमं; प्राश-
येत् आश्रौ २, ७, १३; आपश्रौ
१, १०, १६; बौश्रौ; प्राशयेयु:
द्राश्रौ १२, १, १९; लाश्रौ ४, ९,
१३; जैगृ २, २: २९.
प्रा(प्र-अ)श^३->√प्राशापि^३,
प्राशापयति मागृ १, १७, ४^३; २,
३, ६.
प्रा(प्र-अ)शन- -नम् शाश्रौ ४, ७,
१९; काश्रौ १२, ३, २०; आपश्रौ;
-नात् भाश्रौ ६, १७, १५; -ने
आपश्रौ ६, ३१, ७; बौश्रौ.
प्राशन-कर्मन्- -र्म जैगृ १, १०:
१.
प्राशन-कल्प- -ल्प: भागृ १,
२७: २०.
प्राशन-मन्त्र- -न्त्र: बौश्रौ २४,
३३: ९; बौगृ ३, ७, २६.
प्राशना(न-अ)न्त- -न्ते पागृ १,
५, १२; १९, ५××.
प्राशना(न-अर्थ>)थि^३- -थि:
भागृ २, १: १०.
प्राशनार्थीय- -यम् शागृ
३, ८, २.
प्राशनो(न-उ)स्तेचन-परिषेचन-
-नानि आपश्रौ ९, ११, १२; वैश्रौ
२०, २१: ७.
प्रा(प्र-अ)शयित्वा आपगृ १५, ४^३;
गोगृ ३, ८, ७; वैघ.
प्रा(प्र-अ)शित, ता^३- -त: वाधूश्रौ २,
१५: २; कौगृ १, १, ३^३; शागृ
१, ५, १^३; १०, ८^३; पागृ १, ४,
१^३; कागृ १३, २^३; जैगृ १, १:

४^३; -तस् वैताश्रौ ३, १२; जैगृ
१, १२: १८; कौसू ६५, १४;
७४, २०; -तानाम् कागृ १३, ६;
-ताभि: वाघ ३, ३३; बौघ १, ५,
१८; -तायाम् आपश्रौ ३, २, ११;
१३, ११, ५; वैश्रौ; -ते आपश्रौ
३, २, १०; बौश्रौ.
प्रा(प्र-अ)शितवत्- -वत्सु हिश्रौ
३, २, ४९; -वद्भ्य: आपश्रौ ५,
७, ३××; भाश्रौ.
प्रा(प्र-अ)शितुम् वाधूश्रौ ४, १०८:
४; ५.
प्रा(प्र-अ)शितु- पात्राग ५, १, १०५;
-तृणाम् आपश्रौ ९, १५, १९;
भाश्रौ ९, १८, ७; हिश्रौ १५, ४,
३९.
१प्राशित्र- पात्रा ५, १, १०५^३.
२प्रा(प्र-अ)शि[.शी^३]त्र^३- -त्रम्
आश्रौ १, १३, १; शाश्रौ ४, ७,
४; ७; २१, ६; काश्रौ २, २,
१३; ३, ४, १××; आपश्रौ
३, १, १; २××; बौश्रौ १, १७:
२६; १८: १७^३××; भाश्रौ २,
१९, ९; ३, २, ७××; माश्रौ १,
३, ३, २; ४, २, ८××; वाधूश्रौ ४,
३: ३; ४६: ३; वाश्रौ १, १, ३,
८^३; ५, १६××; वैश्रौ ६, १०:
११; १२: १४××; हिश्रौ २,
३, १; ५××; द्राश्रौ १२, ३, ९;
१३, २, २; लाश्रौ ४, ११, १०;
५, २, ६; वैताश्रौ ३, ७; १२; वैगृ;
या १२, १४^३; -त्रस्य बौश्रौ
२०, १३: ३२; माश्रौ ५, २, १०,
११; -त्राय बौश्रौ १३, २३: -

a) पाभे. वैप २, ३खं. प्राशनात् तैत्रा २, ४, ८, ७ टि. द्र. । b) सप्र. प्राशयति<>प्राशापयति<> प्राशयित्वा<>कागृ ३४, ६ प्रपाययति इति पाभे. । c) उप. भावे प्र. । d) आपुस्-आगम: उस्. [पात्रा ३, १, २५ (तु. WSR. ?); वैतु. BW. MW. <प्रा प्र√अश्रु [व्यातौ] इति ?] । e) बस. । f) उप. अघिकरणे कर्मणि च प्र. । g) = पाक-यज्ञ- । h) तु. पाका. पासि. । i) बौश्रौ २०, २४: २६ पाठ: ? । j) = (ब्रह्मणे दीयमान-) हविस्- । शेषं वैप १ द्र. ।

१०; -त्रे आपश्चौ १९, २१, ५^१;
 ६; वौश्रौ।
 प्राशित्र-पात्र- -त्रम् वैश्रौ ११,
 ८: ७.
 प्राशित्र-भाग- -गात् द्राश्रौ
 १३, २, ३; लाश्रौ ५, २ ७.
 प्राशित्र-वत् वैताश्रौ १२, १५.
 प्राशित्र-हरण^१- -णम् आश्रौ १,
 १३, १; शांश्रौ ४, १४, २३;
 काश्रौ; -णस्य वौश्रौ २०, १०:
 ३; -णात् माश्रौ १, ७, ६, ३;
 -णे काश्रौ २५, ७, २७×४; वौश्रौ।
 प्राशित्रा(त्र-आ)कृति^२- -ति
 वैश्रौ १४, १५: १.
 प्राशित्रा(त्र-अ)वदान- -नम्
 काश्रौ १, १, १७; वैश्रौ ९, ९: ६.
 प्रा(प्र-अ)शिष्यन्- -ष्यन् वौश्रौ ३,
 २९: १४; वाश्रौ १, १, ५, ४;
 कौश्रु ३, ५, १; शांश्रु २, ८, १.
 प्रा(प्र-अ)शिष्यमाण- -णे आश्रौ १,
 ४, १.
 प्रा(प्र-अ)श्नन्- -श्नन्सु द्राश्रौ १२,
 ४, ८; लाश्रौ ४, १२, ८; -श्नन्तः
 वौश्रौ १३, २३: ११; -श्नन्तम्
 आपश्रौ १९, २४, ८; २२, २६,
 ७; हिश्रौ।
 प्रा(प्र-अ)श्य आश्रौ २, ९, १०×४;
 शांश्रौ; कौश्रु ३, ७, १२^१।
 प्रा(प्र-अ)श्य- -श्यः आपश्रौ १, ९,
 १३^३; भाश्रौ १, ९, ६^३; हिश्रौ ९,
 ४, १३; -श्यम् काश्रौ ५, ९, ३१.
 प्रा(प्र-अ)श्यमा(न>)ना- -नाम्
 वौश्रौ ३, १८: २५; वैश्रौ ७,
 १: १३.

प्राश्- √पृच्छ् द्र.
 √प्राश्<> प्राश- -शम् अप्रा ३,
 ४, १^१।
 प्राशान- प्रच्. प्रा(प्र√अ)श्(भोजने)
 द्र.
 प्राशातिक^१- -कात् आपश्रौ ४, ३, ८;
 भाश्रौ ४, ४, ६; हिश्रौ ६, १, ३७.
 प्राशाख- प्र√शास् द्र.
 प्रा(प्र-अ)शित- प्रच्. प्रा(प्र√अ)-
 श्(भोजने) द्र.
 प्रा(प्र-आ)शु^१- -शु आपश्रौ ७, १३, ३;
 -शुः निघ २, १५^१; या १, ७.
 प्राशू^२- -शूः वौश्रौ ९, २: ७^१।
 ऋप्राशुङ्ग^३- -ङ्गः आपश्रौ १२, १६,
 १६; -ङ्गाः आश्रौ २०, १४, १२;
 १५, ३; हिश्रौ १४, ३, १८^३।
 प्रा(प्र-अ)श्य प्रच्. प्रा(प्र√अ)श्
 (भोजने) द्र.
 प्राशिलिष्ट- प्र√शिल्ष द्र.
 प्रा-षाह- प्र√सह द्र.
 प्रा(प्र-अ)ष्ट- प्रच्. प्रा(प्र√अ)श्
 (व्याप्तौ) द्र.
 ऋप्रा(प्र√अ)सु(भुवि), प्रा(प्र-अ)सि
 वौश्रौ २८, २: ४७; प्र...अस्तु
 आश्रौ ३, १२, ९; ४, ११, ६;
 वैश्रौ २, १३: ६; आपमं २, १५,
 १; या २, १३; प्र(अस्तु) आपश्रौ
 ६, १८, १; १३, ४, ६; वैश्रौ।
 प्रा(प्र√अ)सु(क्षिपणे), प्रास्यति शांश्रौ
 १७, १०, १३; काश्रौ ५, २, ५; ९,
 २९×४; आपश्रौ; प्रास्यतः काश्रौ
 ९, १०, ११; प्रास्यन्ति शांश्रौ ३,
 १६, २६; काश्रौ १२, ३, ६; हिश्रौ
 १६, २, २१; प्र(अस्यथ) ऋअ २,

१, ३९^१; प्रास्यत् वृदे ५, ९९;
 प्रास्येत् वौश्रौ २१, २१: २३;
 २६, २१: ४; ७; वाघुश्रौ;
 प्रास्येयुः लाश्रौ १०, १७, १२.
 प्रा(प्र-अ)सन- -नम् काश्रौ २, ६,
 ४४; १२, १, २२; २३, ४, २४;
 आपश्रौ १३, १८, ७; वैश्रौ १६,
 २२: ११; -न्ने वौश्रौ २१, २१:
 २२; २४: १६; वैताश्रौ २८,
 २७^१।
 प्रासन-वत् मीसु ४, २, १६.
 प्रा(प्र-अ)स्त- -स्तः वौश्रौ ८, ९: ५;
 १४, ६: २३; -स्तम्-स्तम्
 आपश्रौ ३, १०, ४; -स्तात्
 काश्रौ १६, ६, २९; -स्तानि
 द्राश्रौ ६, ३, २३; लाश्रौ २, ११,
 १६; वृदे ५, १७.
 प्रास्त-क्वच^१- -चाः वौश्रौ १५,
 ७: २०.
 प्रा(प्र-अ)स्य काश्रौ ३, ६, १४; ७,
 १३; ४, १, ७×४; आपश्रौ।
 प्रा(प्र-अ)स्यत्- -स्यन् काश्रौ ५, २, ४.
 प्रासङ्ग- प्रच्. प्र√सञ्, ङ्च् द्र.
 प्रासर्पक-, णिक- प्र√सृप् द्र.
 प्रा-सह-, -सह- प्र√सह द्र.
 प्रा-साद्- प्रच्. प्र√सद् द्र.
 प्रा-सूद्- प्र√सूद् द्र.
 प्रासेन- प्र-सेन- द्र.
 प्रास्तर-, °स्तारिक- प्र√स्तु, स्तृ द्र.
 प्रास्ताविक- प्र√स्तु द्र.
 प्रास्थानिक- प्र√स्था द्र.
 प्रा(प्र-आ)√स्यन्द् प्रास्यन्देत् वाघुश्रौ
 ४, ९०^२: ५; ७.
 ऋप्रा(आ...असिष्यदन्त) ऋअ

a) ऋ, अद्यौ इति द्वे पदे (तु. सप्र. हिश्रौ २२, ४, २ भाष्यम्, O. च; वैत. Garbe प्राशित्रेष्टि- >
 -ष्टौ इति) । b) = पात्र-विशेष- । उप. कारणे प्र. । c) बस. पूष. = पात्र- । d) पाप्मे. पृ १७६७ । द. ।
 e) वैप १ द. । f) नाप. (घान्य-विशेष-) । व्यु. ? । <प्र-शात्- इति रुद्रतः g) = क्षिप्र- । प्रास. (तु. दे.) ।
 h) पाठः ? प्रास्ताम् इति ? O. (तु. सा [शौ ६, ६३, १]) । C. [पक्षे] दिशि इति ? । i) बस. ।

२, ९, ६८; ३, २९; साअ १, ५६३.

प्रास्त्रवण- प्र√सु द्र.

प्रा(प्र√आ)ह, प्राह आश्रौ ६, ११, १६; १२, ९, १४; शाश्रौ ७, १०, २; १७, १७, १०; आपश्रौ ३, २०, ८^१; १०, १, २; १४, ९, ७^१; २२, ४, ५; बौश्रौ ३, २६ : ७^१××; १४, ९; २५^१; २८^१; भाश्रौ ३, १८, ८^१; माश्रौ; वैश्रौ १७, ६ : ६^१; हिश्रौ २, ८, ३८^१; १०, ८, ४४^१; या १, १६; ८, २१; प्राहुः शाश्रौ ४, ७, १७^१; बौश्रौ १, ३ : १८××; वाश्रौ; द्राश्रौ १२, ४, १^१; लाश्रौ ४, १२, १^१; या १, ३.

प्राहृतायन- २प्रहृत- द्र.

प्रा(प्र-अ)हृ^१- पाग २, १, १७; -हृ जैग १, १४ : ११.

प्राहृ-तन- पा ४, ३, २३.

प्राहृदि- प्र√हृद् द्र.

प्रिय- √प्री द्र.

प्रियक^१- (> प्रैयक- पा.) पाग ४, १, १०४.

√प्रियकाय प्रभृ. √प्री द्र.

प्रियङ्गु^d- पाउभो २, १, ४८; -ङ्गवः बौश्रौ २४, ५ : १६; २८, १३ : १; अम १, ४३, ९; अशां १२, २; शुप्रा ५, ३७^१; -ङ्गुः अप ५, २, १; -ङ्गुभिः विध ८०, १; -ङ्गुम् अप ७, १, ६.

प्रैयङ्गव^d- वम् बौश्रौ १३, २० :

७; अप १, २८, २; भासि २८;

-वेण आम्रिय २, १, १ : १३;

हिय २, २, ६.

!प्रियङ्गव- -वे^० माश्रौ ५, १, ६, ३९.

प्रियङ्गु-तण्डुल- -लान् आपश्रौ २०, १०, ५; हिश्रौ १४, ३, ३; कौसु ३२, २.

प्रियङ्गुतण्डुल-चर्मन्^d- -माणि बौश्रौ १५, १६ : ५.

प्रियङ्गु-दूर्वा-गौरसर्षप- -पाणाम् वागु १४, ६.

प्रियङ्गु-यद्व-श्यामाक-नीवारा(र-आ) दि- -दिभिः वैध १, ७, ५.

प्रियङ्गु(ङ्गु-अ)णु- -णवः आपश्रौ १६, १९, १३.

प्रियन्तम- प्रभृ. √प्री द्र.

√प्री^१ पाधा. दिवा. आत्म. प्रीतौ; क्वा.

उभ. तर्पणे कान्तौ च; चुरा. उभ.

तर्पणे, ऋषिग्रीहि आश्रौ १, ६, ३;

शाश्रौ १, ९, १; ५, १९, २१;

आपश्रौ; पिप्रीत हिश्रौ १, ७, ४०^१

प्रीयेते शंघ ४५७^२; प्रीयेते शंघ

४५७^३; प्रीयन्ते जैग २, १ :

३३^१; शंघ ४५७^३; विध ८०,

१; प्रीयताम् आम्रिय २, ३, ४ : १^२;

वाध २८, १९; ऋषियन्ताम्

शांघ ४, ४, १२^१; आम्रिय^१ २, ३,

२ : ११; ४ : ६^२; बौग ३, १, १२^२;

१२, ३^१; माग २, १४, २९; जैग

१, ६ : १०^१; विध ७३, २७.

ऋषियताम् वैग १, ६ : ५, ६^१;

प्रियेताम् बौग २, ५, ५४^१;

ऋषियन्ताम्^१ वैश्रौ १, ४ : ९;

बौग १, १, २४; भाग ३, १६; ५;

वैग ६, २ : १४.

प्रीणाति शाश्रौ १५, ५, ६; १६,

१, १२××; या ५, १७; प्रीणन्ति

हिध २, ५, २३; गौघ १५, १४१;

या १, २०; प्रीणांमि शाश्रौ २,

९, १२^१××; आपश्रौ; माश्रौ १,

६, १, ४८^१; ऋषीणातु आपश्रौ

२, २०, ६; बौश्रौ; ऋषीणीताम्

बौश्रौ ३, १८ : ११; माश्रौ १, ४, १,

२७; वाश्रौ १, १, ३, १; ऋषीणन्तु.

बौश्रौ ३, १८ : ९; माश्रौ १, ४,

१, २७; वाश्रौ १, १, ३, १; वैग

१, २ : १९; ऋषीणीहि आपश्रौ

६, ११, ५; १७, २२, २; बौश्रौ;

ऋषीणांमि बौश्रौ २४, २९ : २०;

माश्रौ २, १९, १; हिश्रौ २, ५,

४७; अशीणात् शाश्रौ १४, ७, १;

प्रीणीत या ५, २६^१.

प्रीयताम् आम्रिय २, ४, ६ : ३७.

प्रीणयति विध ९१, ५; प्रीणयन्तु

माग २, १४, २९^१; ऋषीण(य>)-

या आग ४, ७, ११; आम्रिय

३, ३, १ : २९; ३०; बौपि २, ९,

६; ११, ३; गौपि २, ३, १८^१;

प्रीणयेत् अप ७०, ३, ४.

?अपिप्रेत्^{२०} हिश्रौ ६, ३, ११^१;

ऋषिप्रेः आश्रौ १, ८, ७;

शाश्रौ १, १३, ३; आपश्रौ;

ऋषिप्रेम्^२ आपश्रौ ४, १२, ३^१;

माश्रौ ४, १७, ६^१; वैश्रौ ७, ५ : ९.

प्र^d-> प्रेमन्- पा ५, १, १२२; ६,

४, १५७.

प्रेयस्- पा ६, ४, १५७;

-यांसः बौश्रौ १८, १३ : १५;

a) पाभे. वैप १, २२४२ 1 द्र. । b) = प्रातर्- । c) = ऋषि-विशेष- । d) वैप १ द्र. ।

e) पाठः ? प्रैयङ्गव- > -वे इति शोधः । f) उप. = [चर्म-मय-] मान-पात्र- । g) या १, २०; ८, ४ पावा ७,

३, ३७ परागृहः द्र. । h) पाभे. पृ १६२५ 11 द्र. । i) परस्परं पाभे. । j) सपा. प्रीयन्ताम् <> प्रियन्ताम् इति

पाभे. । k) तु. मैसू [१९२०] । प्रिय^० इति मैसू [१९०४] । l) पाभे. पृ १११५ ८ द्र. । m) वैतु. C. य्याहि इत्येकं

क्लिप. इति ! । n) पाभे. वैप १, १४६४ ८ द्र. । o) 'द्व' अ^० इत्येवं सतः लैवि. द्र. । p) = अविप्रयम् (तु. वैप १) ।

प्रेयसी-०सि वौश्रौ १६,
२६:१४^१; -^१सी आपश्रौ
५, २६, ५; हिश्रौ ३, ६, ५;
अप्रा ३,४,७.

प्रेष्ठ-पा ६,४,१५७; -ष्ठः वौश्रौ
९,७:४^१; -^१ष्ठम् आश्रौ ४,१३,
७; ७,८, १; शाश्रौ; -ष्टाः आगृ
२,६,१४.

प्रिय,घा^१- पा ३,१,१३५; पाग ५,
१, १२२; ६, ३, ३४; -यः
आश्रौ २,३,१४; ५,१३, १४^१;
शाश्रौ; माश्रौ ३, ४, १^१;
आमिगृ ३,६,३:१९^१; वौपि १,
११:१६^१; पा ४,४,९५; -यम्
^१आश्रौ १, ९, ५; २,८,३××;
शाश्रौ; आपश्रौ २, ११, ६^१;
वैश्रौ ५,९:४^१; हिश्रौ १, ८,
२९^१; आपमं २, ४, २^१;
आपध २,७,१४^१; हिध २, २,
३३^१; ^१पा ९,१८:११,३९:१२,
९; -यया वौश्रौ १४,२९:१४^१;
-यस्य आपश्रौ ४,१६, ४; पावा
२,२, ३५; -या ^१आश्रौ १, ३,
१४××; शाश्रौ; या ३,१७; -याः
^१आपश्रौ ५, १०, २××; वौश्रौ;
या ३, १७; -^१याणाम् काश्रौ
२०, ६, १३; वौश्रौ १५, २९:
२५; कौसू ६२, १९; -^१याणि
वाश्रौ ३, १२:४; ४,
९४^१:८; हिश्रौ; या ४, १६;
-यात् आपध १, ८, १४; हिध
१, २, १०२; -यान् आश्रौ ५,
१७, ३^१; -^१याम् शाश्रौ १८,
२१, ११; काश्रौ १२, २, २४;

वौश्रौ; -याय आश्रौ ७, ७, ७;
आपश्रौ; -यादाः वौश्रौ २८,
२:३०^१; -यायै आपश्रौ २२,
२, १६; वौश्रौ २८, २:१४;
हिश्रौ १७, १, ३२; -^१यासु
आश्रौ २, १२, ५; ७, १०, ५;
वौश्रौ २८, २:२९; हिश्रौ ६,
३, २; -^१ये आपश्रौ २, १०,
३०; २,१,१७^१; वौश्रौ; -^१ये
आमिगृ ३, ५, ६:६; वौपि १,
४:२३; -^१येण शाश्रौ २,
११,५^१; काश्रौ २, ८, १९; ५,
४,२७; आपश्रौ; कौगृ ३,६,९^१;
शागृ ३, ११, १४^१; पागृ ३, ९,
६^१; कागृ ५२, ५^१; विध ८६,
१६^१; -^१येभ्यः काश्रौ १०, ४,
११; आपश्रौ १३, १०, १^१; वौश्रौ;
-यैः विध ९६,३७.
प्रियं-वद्,दा- पा ३, २, ३८;
-दा कप्र २,१०,४; -दाः अप
६८,१,२३.

√प्रियकाम्य > प्रियकाम्या-
-न्यया वृदे ६,१४९.

प्रिय-कार- पा ३,२,४४.
प्रियं-कर- पा ३, २, ४४; -रः
अप २१,७,५.

प्रिय-तम, मा- -^१मः माश्रौ १,
७, ४, ११; आमिगृ २, ६, ६:
२४; -^१मम् आश्रौ ४, १५, २;
१०; शाश्रौ; -मस्य काठश्रौ
१९; -मा वौश्रौ १३, ४:८;
दाश्रौ ७,२, ८; लाश्रौ; -^१माम्
आमिगृ ३,८, ३:३; वौपि १,
१५:७५; -माय काश्रौ १५,

६, १०; माश्रौ २, ५, ४, ३३;
अप १३, ३, १३; -^१मे आपश्रौ
१६, ७, ४; वैश्रौ १८, ५:३;
हिश्रौ ११, २, २.

प्रिय-ता- -ताम् विध २१,७३.
प्रिय-न्व- -न्वम् वृदे ४,७०.

प्रिय-दर्शन^१- -न्म अप ३,३,८^१.
^१प्रियघा^१ आपश्रौ ७, १५, ७;
वौश्रौ ४, ६:३०; माश्रौ ७,
१२,११; हिश्रौ ४,३,४७.

^१प्रिय-धामन्^१- -मभ्यः काश्रौ
१०,४,११; आपश्रौ १३, १०,
१^१; वौश्रौ ८,१०:६;८; माश्रौ;
-स्तः आश्रौ ५,१७,३.

प्रिय-प्रिय- पा ८,१,१३.

प्रिय-मेघ^१- -घः ऋअ २,८,२;
६८××; छुअ; या ३, १७^१;
-^१धाः^१ आपश्रौ ६, २, १; या
४,३.

प्रैयमेघ- -घः ऋअ २,
१०, ७५; -घस्य चाअ^१ ६:
१; २; -घाः भाशि २८^१.

प्रियमेघ-वत् या ३, १७^१.

प्रिय-रूप^१क- (> प्रैयरूपक-
पा.) पाग ५, १, १३३.

^१प्रिय-व(त्>)ती- -ती वौश्रौ
१३,२०:८; हिश्रौ ६,३,२.

प्रिय-वद्य^१- -द्येन आपश्रौ १४,
१२,९^१.

प्रिय-वादिन्- -दिने हिपि १८:
२३.

प्रियवादिनी- -नीषु विध
९९, २१.

प्रिय-व्रत^१- -तः छुअ ४, १६१;

- a) वैप १ द्र.। b) पाभे. वैप १, २२४४ e द्र.। c) पाभे. वैप १, २२४४ j द्र.। d) पाभे. वैप
१, १४७४ g द्र.। e) सपा. हिध २, २, ३३ कामः इति पाभे.। f) सपा. आपध २,७,१४ मनः इति पाभे.।
g) पाभे. वैप १, २२४६ h द्र.। h) बस.। i) वैप १, २२४७ k द्र.। j) ष्यमेघसः इति पाठः? यन्नि.
शोधः। k) तु. पागम.। l) उप. <√वद्। m) सपा. प्रियवद्येन<>प्रियोद्येन इति पाभे.।

-कृतिभ्यः काश्रौ १०, ४, ११;
 आपश्रौ १३, १०, ११; बौश्रौ.
 प्रिय-स्व(स्वि>)खी- खीम्
 माशि १६, ४.
 प्रिय-हित- तम् विध ३१, ५;
 -तयोः गौध २, ३७.
 प्रियहित-कर्मन्- माणि
 वैध १, २, ६.
 प्रियहिता(त-आ)चरण- गम्
 विध २८, ७.
 प्रिया/कृ पा ५, ४, ६३.
 प्रिया(य-आ)दि- -दिपु पावा ४,
 १, १.
 प्रिया(य-अ)प्रिय- -ये हिध २,
 ५, १२२.
 प्रियाप्रिय-विपर्यय- -यान्
 शंघ ३७०.
 प्रियो(य-उ)घा- -घेन हिश्रौ
 १०, ६, ४^b.
 प्रियन्ताम्-अन्त- -न्ताः वैगु १,
 ७ : २^d.
 प्रीणत्- -गन्तः बौश्रौ १६, ११ : ३.
 प्रीणयित्वा विध १०, १०; २४; २६;
 प्रीणाति-> ण्ति-निगम- -मौ या
 ५, २४.
 प्रीत, ता- -तः शाश्रौ १४, ७, ११;
 आपश्रौ १६, ३५, ५१; बौश्रौ;
 अप २०, ५, ४; ३१, ४, १; -कृता
 बौश्रौ ३, १८ : १०; माश्रौ १,
 ४, १, २७; वाश्रौ १, १, ३, १;
 ऋअ २, ८, १; -कृताः आपश्रौ
 ५, १८, १; बौश्रौ ३, १८ : ९;
 माश्रौ ; विध ४८, १०^{em} ;
 -कृतौ बौश्रौ ३, १८ : ११; माश्रौ
 १, ४, १, २७; वाश्रौ.

प्रीत-मनस्- -नाः अप १, ४०,
 ११.
 प्रीत-मानस- -सः अप ७०, ३,
 ४.
 प्रीता(त-आ)स्मन्- -त्सा अप
 ४१, ४, ४; वृदे ४, ५५.
 प्रीति- -तये शंघ ४५७; -तिः आगृ
 १, १, ४^२; आपघ १, ४, १०××;
 हिध; या १०, १०; २८; ४६;
 -तिम् बौश्रौ १८, २९ : १५;
 कौघ; -तौ अप ४८, ३०; या
 ११, ९; पा ६, २, १६; -त्या वृदे
 ४, १; ७६; -त्यै शाश्रौ १६, ३,
 १७××.
 प्रीति-कर्मन्- -र्मा या ६, २२;
 १४, २४.
 प्रीति-दाय- -यः विध ५८,
 ९^१.
 प्रीति-प्रधान-त्व- -त्वात् मीस्
 ९, १, १०.
 प्रीति-मत्- -मान् अप ३१,
 १०, १.
 प्रीति-वर्धन- -नः शंघ १८६.
 प्रीत्य(ति-अ)धै-त्व- -त्वात्
 मीस् १०, २, १३.
 प्रीत्यु(ति-उ)पलब्धि-तस् (ः)
 आपघ १, १२, ११; हिध १, ४,
 १२.
 प्रीयमाण- -णः पा १, ४, ३३.
 प्रीरे(ण>)णी- -ण्यः कौस् ३६,
 १०; अअ ६, ८९; अत्रा ३, ४,
 १.
 प्रीरे- -ता शाश्रौ ८, १७, १; बौश्रौ
 ८, १६ : ११; २६, ३१ : १५.
 √प्रु^३ पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ, प्रवते

निघ २, १४^१.
 प्रवक- पा, पावा ३, १, १४९.
 √प्रु^३ पाधा. भ्वा. पर. मर्दने.
 √प्रुथू (शब्दे)^१, प्रोथतः बौश्रौ १५,
 ३ : ६; कृप्रोथत्^१ काश्रौ १७,
 १२, २४; आपश्रौ १७, ३, ९;
 बौश्रौ १०, ४६ : ४८; माश्रौ ६,
 २, ३, १७; वाश्रौ २, २, २, १७;
 वैश्रौ १२, ४ : १८; हिश्रौ १२,
 १, ४४; छुअ २, २४२.
 प्रोथत्- -थते भाशि ५६^१; -थन्
 माश्रौ २, ५, ३, ८.
 प्रोथयित्वा आघ २, १२, २; हिध
 २, ४, ३७.
 प्रोथ्य आश्रौ ६, १३, १०.
 √प्रुष् पाधा. भ्वा. पर. दाहे; क्वा.
 पर. स्नेहनसेवनपुररोधु.
 √प्रुष् (प्रवर्षणे), प्रुष>षा ऋपा ८,
 १५^१.
 प्रुषत्- -षन्तः शाश्रौ १२, २३, ११^१.
 प्रुषित- -तस् भागृ २, ३०, १६.
 प्रु(ष्व >)ष्वा- पाउ १, १५१;
 -ष्वाः काश्रौ १५, ४, ३५;
 -ष्वाणाम् आपश्रौ १८, १३, १३;
 वाश्रौ ३, ३, २, २१.
 प्रे(प्र√इ), प्रैति बौश्रौ ९, २ : ८××;
 वाधुश्रौ ; कृप्र...एति शाश्रौ
 ६, ४, ११××; ऋअ २, १,
 १४४; अअ १८, ४; कृप्र
 (एति) छुस् ३, १० : ३२; ऋअ
 २, ९, ९६; साअ १, ५३३;
 प्रयन्ति वैश्रौ १६, ५ : ७; १४ :
 ४; लाश्रौ १०, ४, ४^१; निस् ८,
 ११ : २५××; कृप्र (यन्ति)
 शाश्रौ ७, १५, १४; निस्

a) उप. √वद् + भावे क्यप् (पा ३, १, १०६) । b) पामे. पृ १७७१ m द्र. । c) वस. पूष. क्रिप. । d) ण्तः इति पाठः ? यनि. शोघः । e) पामे. वैप १, १९८८ a द्र. । f) पीताः इति जीसं. । g) वस. । h) मलो. कस. । i) ष्यम् इति जीसं. । j) वैप १ द्र. । k) पा १, ३, ८६; ७, ४, ८१ परामृष्टः द्र. । l) वैप १, २२४९ ० द्र. ।

८, ५ : १५^०; ऋञ्ज २, ९,
३३××; वृदे ७, २३; साञ्ज २,
११११; ऋँतु आश्रौ^० ४, ७,
४; १०, ३; ७, ३, १; शाश्रौ^०
५, १०, १४; १४, १०; १०,
४, ७; काश्रौ ९, ११, ३××;
२६^०, १, १३; ५, १७; आपश्रौ
१५, १, ७^०; बौश्रौ ९, २ : ८^०;
माश्रौ ११, १, १०^०; माश्रौ ४,
१, ९^०; वैश्रौ १३, १ : १०^०××;
हिश्रौ २४, १, ५^०; माश्रु २, ११,
१७^०; प्र...एतु आश्रौ ५, १,
८; शाश्रौ ११, १३, १६; बौश्रौ
९, २ : ८^०; आपमं; ऋँ (एतु)
आश्रौ ५, १०, २८××; शाश्रौ;
ऋँताम् आश्रौ ४, ९, ४; ८, ९,
५; शाश्रौ ५, १३, ४; १०, ९,
१६; प्र (इताम्) वृदे ४, १२^०;
ऋँयन्तु आश्रौ ९, ५, ५; शाश्रौ;
बौश्रौ ९, २ : ७^०; माश्रौ ५, १,
९, २३^०; या १०, ३०^०; प्र...
यन्तु अप ७, १, ८^०; ऋँ (यन्तु)
काश्रौ ९, ११, ३^०; कौसू ३१, ४;
ऋञ्ज; ऋँहि आश्रौ ४, ४, २;
शाश्रौ ५, ६, २; आपश्रौ
२, ६, ५××; १५, १०, ७^०;
२२, २६, १५^०; या ९,
३३; प्र...इहि अप १८^०, १,
५^०; ऋँहिरेहि^० आश्रौ ६, १०,
१९^०; आश्रु ४, ४, ६^०; ऋँतम्
काश्रौ ८, ४, ३; आपश्रौ ११, ६,
११; बौश्रौ; ऋँत, > ता आपश्रौ
१, १०, ६; १९, २०, १०^०; बौश्रौ

३, ११; १९××; १३, २१ : ४^०;
माश्रौ; माश्रौ ५, १, ८, ११^०; हिश्रौ
२२, ३, २७^०; वृदे ८, १४^०; शुञ्ज
२, २८^०; अञ्ज ३, १९^०; या ७,
२; ऋँप्रा ८, ३१^०; शुप्रा ३,
१२९^०; प्रायन् या ५, २५^०;
प्रेयात् काश्रौ २५, ८, ८; वाधूश्रौ
२, ९ : ५; द्राश्रौ; प्रेयाम् लाश्रौ
८, ८, १.
ऋँयुः अञ्ज ५, ८; ११, १०.
प्र-यत्- -यतः या ३, २^०; -यति
कौसू ६, ३^०; -यन्तः माश्रौ १,
७, ४, ३५; -यन्तम् वृदे ७, १९.
२मा(प्र-ञ्ज)य^०- -यम् अप्रा २, ४,
१६^०; -ये आपश्रौ १२, २४,
१६^०.
प्राया(य-ञ्ज)नाशक-शास्त्रा(स्त्र-ञ्ज)
श्रि-विषो(ष-उ)दको (क-उ)-
द्वन्धन-प्रपतन- -नैः गौष १४,
११.
१प्रा(प्र-ञ्ज)यण^०- -णम् वाधूश्रौ ३,
१० : २; हिश्रौ १६, १, ३३^०;
जैश्रौ १६ : ८; निस्.
प्रायण काल- -ले गौषि १, १, १.
प्रायण-तस्(ः) निस् ४, ५; १; २.
प्रायणा(ण-ञ्ज)र्थ- -र्थम् निस् ७,
२ : २०; -र्थे निस् ४, १२ : ३०;
१३ : २.
प्रायणीय, या^०- -यः आश्रौ ८,
१३, ३१; ११, १, २××; शाश्रौ;
-यम् आश्रौ १२, ६, ३; शाश्रौ;
-यया आश्रौ ६, १४, २; शाश्रौ ८,
१२, १; आपश्रौ; -यस्य आपश्रौ

१३, २३, ५; काठश्रौ १६०; बौश्रौ;
-या आश्रौ ४, ३, १; शाश्रौ ५,
४, ७; बौश्रौ; -यात् आश्रौ ११,
२, १०; काश्रौ; -याम् आश्रौ ६,
१४, ५; बौश्रौ ६, १० : १४××;
-यायाः आपश्रौ १०, २१, १××,
बौश्रौ; -यायाम् आपश्रौ १०,
४, १०; ११^०; २२, ९, २०;
बौश्रौ; -ये शाश्रौ १०, १, १२;
काश्रौ; -येन बौश्रौ ९, ५ :
१०^०××; माश्रौ.
प्रायणीय-चतुर्विंश- -शाम्^०
वैताश्रौ ३१, ७; -शे आश्रौ ११,
७, २०.
प्रायणीयचतुर्विंश-वर्जम्
वैताश्रौ ३१, ८.
प्रायणीय-वत् आपश्रौ २१,
१३, १; वैश्रौ १६, २७ : ५.
प्रायणीय-स्थान- -ने आश्रौ
११, २, १२.
प्रायणीय-स्थाली- -स्थाम्
वैश्रौ १६, २७ : ६.
प्रायणीय-हविष्कृद्-अन्त^०-
-न्ते काश्रौ १७, २, ६.
प्रायणीया(या-आ)तिथ्यो-
(थ्या-उ)पसद्- -ससु काश्रौ
२२, ९, ३.
प्रायणीया(य-आ)दि- -दि
वैश्रौ १२, १५ : ४; वैताश्रौ २८,
२९.
प्रायणीया(य-ञ्ज)न्त- -न्ते
काश्रौ १७, २, ७.
प्रायणीया-प्रभृति- -ति माश्रौ

a) पाभे. वैप १, २१३५० द्र.। b) पाभे. पृ ७८३ h द्र.। c) पाभे. पृ ७८३ m द्र.। d) पाभे.
वैप १, २२५० b द्र.। e) पाभे. वैप १, २२४९ r द्र.। f) वैप २, ३ खं. प्रेहि तैत्रा ४, ८, ४ टि. द्र.। g) वैप
२, ३ खं. प्रेहि तैत्रा २, ७, ८, १ टि. द्र.। h) वैप १ द्र.। i) पाभे. वैप १, २१९७ k द्र.। j) = काल-। उप.
कर्त्तरिः कृत इति भाष्यम्। k) भाप. (प्रारम्भ-), नाप. (स्यु-).। l) विप., नाप. (याग-, इष्टि-)। m) समा-
हारे द्रस.। n) सस. > षस.।

६, १, ५, २५; वाश्रौ २, १, ४, ३१; -तिषु हिश्रौ ७, १, ७६.

प्रायणीया(य-आ) रम्भणीय-
-यौ बौश्रौ १६, १४: १०: ३६: १०×४.

प्रायणीया-वत् आश्रौ ४, १, २५; काश्रौ १०, ९, ११; आपश्रौ १३, २३, १; वैताश्रौ २४, ८.

प्रायणीयो(य-उ)द्वयनीय-
-ययो: आश्रौ १२, ७, ७; शांश्रौ १०, १, १८; आपश्रौ २१, १३, ७; २३, ७; बौश्रौ; -याभ्याम् बौश्रौ २६, १५: २; -ये या १३, ७; -यौ शांश्रौ १२, ६, १; आपश्रौ.

प्रायणीयोदयनीय-वर्जम्
काश्रौ १०, १, १७.

†२प्रा (प्र-अ) यण^१ - गाय आपश्रौ २०, ६, २; ११, २; बौश्रौ १५, ६: २४.

प्रे(प्र-इ) त, ता^१ - ०त पाण्डु ३, १०, २८; बौपि २, ९, १३; -त: काठश्रौ १५; पाण्डु; †बौपि २, ९, ५^०; ११, २^०; -तम् माश्रौ ५, २, ६, १९^१; निस् २, ९: ३४; आण्डु; -तस्य शांश्रौ ४, १४, ४; वाधूश्रौ ३, ३०: ६; आण्डु; -†ता बौपि २, ९, ५×४; -ता: आश्रौ २, ६, १९^१; वाश्रौ १, २, ३, २९^१; आण्डु; -†०ता: आण्डु ३, ४, १: १८; बौपि ३, २, ९; ३, १; वैण्डु ५, ३: ९; गौपि १, २, ११; -तात् विध २२, ८६; -तानाम् अप ३६, १, ७; गौध २८, २८; -ताम् बौपि २,

९, ६; ११, ३; -ताय पाण्डु ३, १०, २१; २७; ४९; वैण्डु; -ताया: वैण्डु ७, ४: ६; शंध २९५; -†तायै बौपि २, ९, ५; ११, २; -ते आश्रौ ९, ११, २३; जुण्डु, १: १२; कौण्डु ३, १४, १७^०; ५, १, ७; शांण्डु २, ७; पाण्डु ३, १०, २; १४; हिपि २०: ६; गोण्डु १, १, १२; ३, ३, २३; द्राण्डु ३, २, २९; कौण्डु ८०, ६; वाध ४, ३४; ३६; ७, ५; १३, ३९; १९, २९; बौध १, ५, ९३; विध ५, १८६; ६, २७; २८, ४४; गौध १६, ३२; २८, २९; -०ते बौपि २, ९, १३; -तेन अप ६८, २, ४५; -तेभ्य: आश्रौ २, ६, १८; काश्रौ ४, १, २३; -तेषु वाध ११, २४; आपध २, १५, २; हिध २, ३, ३२; -तौ विध ७५, ५. प्रेत-क^१ - के आण्डु ३, १०, २: ११; वैण्डु १, ६: ८; ६, ४: ३; ७, ५: ७; वैध २, १४, १७. प्रेत-कर्मन् - मं गौपि १, ३, ८; -मणि वैण्डु ७, ४: १७; -मणि गौध २०, २; १५. प्रेतकर्म-च्छेद - द: वाध २३, १४. प्रेत-कार्य - र्याणि शंध २९४; ४४०. प्रेत-क्रिया - याम् वाध २३, १६. प्रेत-वृत्ति - वृत्ति: बौपि २, १०, ३; -सिम् बौपि २, १०, ५. प्रेत-त्व - त्वम् शंध ३५६. प्रेत-धूम - मम् वैध ३, ३, १.

प्रेत-नामगोत्र - त्राभ्याम् विध २१, ४. प्रेत-निमित्त - त्तम् वैण्डु ७, ७: ४. प्रेत-पक्ष^१ - च्चे शंध २३९; २४०. प्रेत-पत्ति - त्ति: अप ६७, ३, ५. प्रेत-पत्नी - ली आण्डु ३, ६, २: ७; बौपि १, ९: १६; हिपि ८: १०; वाध १७, ५५; बौध २, २, ६०. प्रेत-पात्र - त्रम् शांण्डु ४, ३, ६; आण्डु ३, ११, ३: ३; २२; बौपि २, ११, ८; १२, २; भाण्डु. प्रेतपात्रो(त्र-उ)दक - कम् वैण्डु ७, ८: ८. प्रेत-पाद्य-पात्र - त्रे विध २१, १४. प्रेत-पिण्ड - ण्डम् आण्डु ३, ११, ३: १५; २३; बौपि. प्रेत-पिण्ड-क्रिया - वर्जम् शंध ३५१. प्रेत-पितृ^१ - ता माण्डु २, १, १. प्रेत-पूजा - जा वैण्डु ४, ७: १०. †प्रेतबन्धक - कम् वैध ३, १५, ११^१. प्रेत-राज - जाय गौपि १, ६, ७^१. प्रेत-लोक-गत - तस्य विध २०, ३३. प्रेत-विधान - नम् आण्डु ३, ११, ४: ४१; बौपि ३, ७, १. प्रेत-आद्ध - द्धे काण्डु ४५: ६; -द्धेषु आण्डु ३, ३, १: ९; १४. प्रेत-संस्कार - रम् बौपि ३, ८, २.

a) वैप १ द्र.। b) = [प्रायेण] मृत-। c) पाभे. पृ १५७३ I द्र.। d) पाभे. वैप १ इयेनम् तै २, ४, ७, १ टि. द्र.। e) त्त: इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. शांण्डु २, ७)। f) स्तार्थे क: प्र.। g) = पितृ-पक्ष-। h) बस.। i) पाठ: ? प्रेतम् अबन्धुकम् इति C. शोध: (तु. मनु: [१०, ५५])।

प्रेतसंस्कार-विधि- -धिम्
 आसिण् ३,१०,४ : २.
 प्रेत-संकल्ल- -सम् आपध १,
 १०,२८; हिध १,३,५५.
 प्रेत-स्नान- -ने कप्र १,१०,७.
 प्रेत-स्पर्शिन- -शिनः पाण् ३,
 १०, ३५; -शिनम् कौण् ३,११,
 ३७; शाण् ४, ११, ५; -शिनि
 शाण् ४,७,४७.
 प्रेत-स्युष्ट- -शानि शंघ ३४५.
 प्रेता(त-आ)कार- -रम् बौपि २,
 १०,२.
 प्रेता(त-अ)ग्नि- -ग्निषु माश्रौ ३,
 ८,४.
 प्रेता(त-आ)धान- -नम् गौपि
 १,१,२५.
 प्रेता(त-अ)नुगत-मा(र्ग)>
 गर्गा- -र्गाः अप ५८^२,४,११.
 प्रेता(त-अ)नुगमन- -नम् विध
 २२,६५; वृदे ७,१४.
 प्रेता(त-अ)न्न- -न्ने आपध १,
 ११,२५; हिध १,३,७५.
 प्रेता(त-आ)प्यायन-काल- -लः
 वैण् ५,१४ : ३.
 प्रेता(त-अ)र्थ- -र्थम् वैण् ७,८ : १.
 प्रेता(त-अ)लंकरण- -णे शंघ
 ३६२.
 प्रेता(त-अ)लंकार- -रान् आश्रौ
 ६,१०,१.
 प्रेता(त-आ)वाहन- -नात् बौपि
 २,११,४.
 प्रेतावाहना(न-अ)न्त^५-

-न्तम् बौपि २,१०,२.
 प्रेता(त-आ)शिस्- -शिषः वृदे
 ६,१५८.
 प्रेताहार^६- -रैः विध २२,८५.
 प्रेता(त-आ)हुति- -तिम् बौपि
 २,१०,२; -तीः आसिण् ३,९,
 २ : ६१; बौपि २,५,५.
 प्रेतो(त-उ)पस्पर्शन- -ने गौध
 १४,२२.
 प्रे(प्र-इ)ति^d- -तिः वैताश्रौ २०,
 १३^०.
 †प्रेति-वत्- -वन्ति आपधौ
 १४,१९,४; बौश्रौ १४,४ : २९;
 वैश्रौ २१,५ : १०; हिश्रौ १५,
 ५,१८.
 प्रे(प्र-इ)त्य् अप १०, १, २१; वाघ.
 प्रे(प्र-इ)यत्- -यन् वाधूश्रौ ४,२६^५ :
 १६.
 प्रे(प्र-ए)ष्यत्- -ष्यन् आश्रौ ४,
 १५,८^१.
 प्रेहि>^७हि-कटा^७-, °हि-कर्दमा-,
 °हि-द्वितीया-, °हि-वाणिजा-,
 °हि-स्वागता- पा, पाग २, १,
 ७२.
 प्रे(प्र√ई), †प्र (ईमहे) आश्रौ ४,१३,
 ७; शाश्रौ ६,४,७; १४, ५३,५;
 ऋश्र २,१,३६; ३,१६; ऋप्रा.
 प्रे(प्र√ई)क्ष्, प्रेक्षते काश्रौ २, ३,
 १६××; आपधौ; †प्रेक्षे^h आपधौ
 १,१७,९; ३,१९, ५; बौश्रौ १,
 ५ : ३; १२; भाश्रौ १, १९, ९;
 माश्रौ १,२, १, २९; वाश्रौ १,

२,४, २७; हिश्रौ २, ८, १९;
 †प्रेक्षथाः काश्रौ ८, ४, २७^१;
 प्रेक्षेत बौश्रौ २५,१ : २१^१; काण्
 १,१८; माण्; प्रेक्षेत् द्राण् २, ३,
 २०××; प्रेक्षेरन् काठश्रौ ८५.
 प्रेक्षयति काश्रौ १९, २, ३०;
 प्रेक्षयेत् जैण् १, २१ : ३३^१.
 प्रे(प्र-ई)क्षक- -कान् माण् १, १२,
 १; जैण् १, २१ : ३१.
 प्रे(प्र-ई)क्षण- -णम् माश्रौ २,१,३,
 ५५.
 प्रेक्षण-प्रतिप्रेक्षण- -णयोः आपध
 १,९,११; हिध १,३,११.
 प्रे(प्र-ई)क्षत्- -क्षन् द्राण् ३,२,१०;
 १२.
 प्रे(प्र-ई)क्षमाण,णा- -णः आपधौ
 १५, २१, ८; बौश्रौ ३, २७ :
 २४; ९, २० : १८; भाश्रौ; -णम्
 काश्रौ ८,४, २४; वाण् ५, २०;
 माश्रौ २,३, ७, ३; -णाम् वाण्
 १४,२,३; -णे द्राण् २, ४, ११;
 ४,१,१३^१.
 प्रेक्षमाण-समीक्षण- -णे माश्रौ
 ४, ३,४२.
 प्रे(प्र-ई)क्षित- -तम् गौध १७,११^१;
 सुधप ८८ : ३.
 प्रे(प्र-ई)क्ष्य शाश्रौ १, ६, ११; बौश्रौ
 २०, ५ : ३१; वैश्रौ.
 प्रे(प्र-ई)क्ष्य- -क्ष्यः सु ५,५.
 प्रे(प्र-ई)क्ष्यमा(ण)>णा- -णाम् सु
 २६,२.
 प्रेक्षा- पाग ४,२,८०; ६,२,८५^१.

a) वृत्स.>बस. b) बस.। c) नाप. (शव-वाहक-). उस. उप. (√वह [प्रापणे]>कर्तरि) *वहार-
 >नैप्र. *अहार- इति वा *वाह-कार- >नैप्र. *आहार- इति वा (वैतु. मेधातिथिः [मनुः ५,६४] पूष. दीर्घः
 उंस. [पा ६, ३,१२२] इतीव इ). यनि. >नैप्र. प्रेतहार- (तु. मनुः [निसा.] इति कृत्वाऽऽर्वाकरोऽसौ पर्याय इति ।
 d) वैप १ द्र.। e) पाभे. वैप १,२२५१ h द्र.। f) †प्रेष्यत्स्व^० पाठः? यनि. शोधः (तु. ब्रान.)। g) प्रोह-
 कटा- इति पाका.। h) पाभे. वैप १,२१६२ f द्र.। i) पाभे. पृ ३६४ i द्र.। j) सवा. विध ५१,१७ अवे-
 क्षितम् इति पाभे.। k) प्रेक्षाक- इति पासि., पुंसा- इति पाका.।

प्रेक्षिन्- पा ४,२,८०.
 प्रे(प्र√इ)ङ्ख्, प्रेङ्खयत् शांश्रौ १७,
 १६,७फं.
 प्रे (L, ष्ले^१ प्र, ष्ल-ई)ङ्ख्, ङ्ख^१ -ङ्खम्
 शांश्रौ १७, १७, ४; १८, २१, ५;
 आपश्रौ २१, १७, १३; बौश्रौ १६,
 २० : ४; २१ : ३; वाश्रौ ३, २,
 ५, ५२; हिश्रौ १६, ६, १०;
 -ङ्खयोः बौध २, ३, ३५; -ङ्खाः
 अत्र ४, ३७फं; -ङ्खे काश्रौ १३,
 ३, २; -ङ्खौ आपध १, ३१, १४;
 हिध १, ८, ३६.
 प्रेङ्ख-फलक- -कम् शांश्रौ १७,
 १, २; १०, १०××; -कात् शांश्रौ
 १७, १५, १२; -के शांश्रौ १७,
 १५, ११; १६, ७.
 प्रेङ्ख-मिश्र- -अम् वांश्रौ १७,
 ७, ११०; १८, २४, १४.
 प्रेङ्ख-स्थूणा- -गाम् शांश्रौ १७,
 १०, ११; १२; ११, ४; -णायाम्
 शांश्रौ १७, १०, १६.
 प्रेङ्खा-ताण्डव- > ण्डव-विहार-
 चित्रदर्शना(न-अ)ङ्खानागो(ग-उ)
 दान-यान-विवृतशयनो(न-उ)कृ-
 ष्टपानभोजन-कन्दुकक्रीडा-धूप-
 गन्ध-मालया(ल्य-अ)लंकार-दन्त-
 धावना(न-अ)ङ्खना(न-आ)दि-
 -दीनाम् शंभ ३४१.
 प्रेङ्खा(ङ्ख-अ)वट^१ -टौ शांश्रौ
 १७, १०, २; ४.
 प्रेङ्खोल^१ > > प्रेङ्खोलो > प्रे-
 ङ्खोलन- नम् आपध २, २०,
 १३; हिध २, ५, १००.

प्रे(प्र-ई)ङ्खण- -णे माश्रौ ४, ३, २१.
 प्रे(प्र√इ)ङ्, ङ्, ङ् (इडे) आश्रौ ३, ८,
 १; ८, ८, ४; वैश्रौ १६, १५ :
 ११; ऋअ २, ७, ५३; वृदे ६, २.
 प्रेणी- √श्री द्र.
 प्रेत-, प्रेति- प्रे(प्र√इ) द्र.
 प्रेतु- √प्री द्र.
 प्रेत्य प्रे(प्र√इ) द्र.
 प्रे(प्र√इ)ष् > ङ् प्रे(प्र-इ)ङ्- -ङ्दः
 आश्रौ २, १, ३०; शांश्रौ २, २,
 १५; आपश्रौ.
 प्रेघा^१ माश्रौ १, ८, ३, २६फं.
 प्रेप्सत्- प्रसृ. प्रा(प्र√आ)प् द्र.
 प्रेत्यत्- प्रे(प्र√इ) द्र.
 प्रे(प्र√इ)र्, प्रेरते आपभं २, १७, ४फं;
 ङ् प्र... ईरते आश्रौ २, १८, ४;
 शांश्रौ १२, १४, १; हिश्रौ १२,
 ६, ६; प्र(ईरते) शांश्रौ ३, १५,
 ९फं.
 प्रेरयति बौश्रौ १, १ : ११; या
 १४, १४; पाशि ६; प्र... ईरयति
 या १४, १४फं; प्र(ईरयामि)
 आश्रौ ३, ८, ११फं; ङ् प्र... ईरय, >
 या अपभं २ : ६१; ऋआ ८, ३०;
 ङ् प्र(ईरय) आश्रौ ४, १३, ७; ८,
 ११, ४; शांश्रौ.
 प्रे(प्र-ई)रि(त >)ता- -ताः वैश्रौ ३,
 ३ : ६.
 प्रे(प्र-ई)रितवत्- -वतः या ७, २६;
 ११, ४८.
 प्रे(प्र-ई)रि^१ - पाउ ४, ११७.
 प्रेत्स्वरीपाः^१ वाश्रौ १, २, १, ९.
 √प्रेष् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.

प्रे(प्र√इ)ष्(गतौ), प्रेषयति आश्रौ ३,
 २, ४; ६, १४; शांश्रौ ५, १६,
 ४××; ७, ८, २फं^१; काश्रौ;
 आपश्रौ २२, १६, ९फं^१; हिश्रौ
 १७, ६, ३३फं; प्रेष्यतः काश्रौ ९,
 १३, १३; वैश्रौ १०, २१ : ६;
 ङ् प्र(इष्ये) आश्रौ ८, ८, ४; ऋअ २,
 ४, ३३; ३, २४; वृदे ५, १; ङ् प्रेष्य
 आश्रौ ३, २, १०××; शांश्रौ;
 पा २, ३, ६१; ८, २, ९१; ङ् प्रेष्य
 ऽपेष्य आपश्रौ ७, १४, ७; २६,
 १३; बौश्रौ; प्रेष्येत आश्रौ ८, १,
 ६; काठश्रौ १४१; बौश्रौ.
 ?अप्रैषोत्^१ अत्र ६, १३४.
 प्रेषयस्व सु ८, १.
 ङ् प्र(प्र-इ)ष्- प्रेषा ऋअ २, ९, ९७;
 ३, २९.
 प्रे(प्र-ए)षण^१ (> प्रैषणिक- पा.)
 पाग ४, ४, १२; ५, १, ६४.
 प्रे(प्र-इ)षित- -तः आश्रौ १, १, २७;
 ५, ३××; काश्रौ; या ८, ८; -तः
 ऽ-तः आश्रौ ५, ५, १५; ८, ४;
 -तस्य विध ५, ११२; -ङ्ताः
 आपश्रौ १२, १०, २; वैश्रौ १५,
 ११ : १८; हिश्रौ; -ते काश्रौ ५,
 ५, ५; हिश्रौ ३, ७, ५; कौस्
 ११४, २फं.
 प्रे(प्र-इ)ष्य^१ - ष्यः गौध ६, १३;
 -ष्यम् हिश्र १, १४, २; -ष्याः
 काश्र ६५, ८; बौग; -ष्यान्
 बौध १, ५, ८०; -ष्येषु अप ७१,
 १७, ६.
 प्रेष्या(ध्य-अ)न्तेवासिन्- -सिनः

a) आपश्रौ. बौश्रौ. वैश्रौ. हिश्रौ. आपध. पाठः । b) वैप १ द्र. । c) पूष. = प्रेङ्खन्धनार्थ-
 रज्ज्वादि- इति भाष्यम् । d) मलो. कस. । e) प्रेङ्ख-दोल- [तृस.] > नैप्र. यनि. । f) वैप १ द्र. ।
 g) पाठः ? शोधः वैप १, २२५२ g द्र. । h) पाभे. वैप २, ३६. यजन्ते शांश्रौ १३, ९ टि. द्र. । i) प्रै^१ इति
 पाठः ? यनि. शोधः (तु. हिश्रौ १७, ६, ३३) । j) पाठः ? प्रैषीत् इति शोधः संभाव्यत । k) उप. भावे करणे
 च कृत् । l) विप., नाप. । उप. क्यप् प्र. (तु. FV. प्रसृ.; वैतु. पासि. [पावा ६, १, ८८] < प्रे(प्र√इ)ष् इति) ।

हिण् १, २२, १४५.
 प्रेष्या(ष्य-अ)मात्य- -त्याः
 हिश्रौ ५, २, ३४.
 प्रेष्या(ष्य-अ)र्थ- -र्थे ऋत ३,
 ४, ७.
 प्रेष्या(ष्य-अ)हत- -तम् गौघ
 ९, ५७.
 प्रै(प्र-ए)ष^२- पावा ६, १, ८८; -षः
 आश्रौ ३, ४, ३; ९, ३××;
 शाश्रौ; वृदे १, ३५; ५७;
 -षम् आश्रौ ३, २, १०××;
 माश्रौ; -षाः आश्रौ ३, २, २;
 ४, ८××; शाश्रौ; या ५, ३;
 -षात् आश्रौ ३, १, २१; काश्रौ
 १०, १, १५; भाश्रौ ८, २, ५;
 -षान् आश्रौ ३, १, २०; शाश्रौ;
 -षाय बौध ३, ८, ६; -षे
 माश्रौ २, ४, २, ४××; हिश्रौ;
 -षेऽ-षे जैश्रौका २०७; -षेण
 आश्रौ ५, ४, ५; आपश्रौ २१,
 ७, १५; माश्रौ २, ४, २, ११;
 हिश्रौ १६, ३, ३४; -षेषु आश्रौ
 ४, १, १३; शाश्रौ; -षैः आश्रौ ३,
 २, ४; वाधुश्रौ ४, १९ : ३४;
 वृदे २, १५२; -षौ आश्रौ ५, ५,
 ३; ६; शाश्रौ ७, २, ३.
 प्रैष-कर- -रः आपघ १, १८,
 २८^b.
 प्रैष-कार- -रः बौश्रौ १, ९ : ५.
 प्रैष-कृत्- -कृत् भाण् १, ७ : ३;
 १५ : ३; कौस् २६, ४××; हिघ
 १, ५, ९६^b; -कृतः लाश्रौ ९, ८,
 ६; -कृतम् कौस् ८७, ५; १२;

-कृते अप ४, ४, ४.
 प्रैष-गत- -तम् वृदे २, १५४.
 प्रैष-चरण- -णम् निस् १०,
 ११ : ४.
 प्रैष-दर्शन- -नात् काश्रौ १९, ४,
 ३.
 †प्रैष-निविद्- -विदः आपश्रौ
 १६, ३२, ४; वैश्रौ १८, २१ : ११.
 प्रैष-प्रतीक-याज्य^c- -ज्याः
 आपश्रौ ८, २, १५.
 प्रैष-वचन- -नात् आश्रौ ३,
 १, १८.
 प्रैष-वत्- -वन्तः बौश्रौ १७,
 ५५ : १२; ५६ : १२; १८××;
 -वन्तौ बौश्रौ १७, ५७ : २८;
 -वान् बौश्रौ १०, ५५ : १२;
 ५९ : ७××; वाश्रौ १, ७, ५,
 २२^d.
 प्रैष-वर्जम् आपश्रौ ८, ३, १.
 प्रैष-शेष- -षम् वैश्रौ १६, १८ :
 ५.
 प्रैष-संनिधान- -नात् मीस् ३,
 ७, ४५.
 प्रैष-स-लि(ङ्)ज्ञा^e- -ज्ञाभिः
 आश्रौ ३, २, ५.
 प्रैष-सूक्त- -क्तम् आश्रौ ३, २,
 ३; ६, १२; ५, ८, ३; वृदे २,
 १५२; १५४.
 प्रैषा(ष-अ)तिसर्ग-प्रासकाल-
 -लेषु पा ३, ३, १६३.
 प्रैषा(ष-अ)दि- -दिः आश्रौ ३,
 ८, ७; -दिषु पावा ३, ३, १६३.
 प्रैषा(ष-अ)नुवचन^f- -नम् मीस्

३, ७, ४४.
 †प्रैषा(ष-अ)नुवाचन- -ने काश्रौ
 १, ९, १६.
 २प्रैषा(ष-अ)नुवाचन^g- -नयोः
 काश्रौ १०, ४, ११.
 प्रैषा(ष-अ)न्त- -न्ते शाश्रौ ७,
 ८, ६; आपश्रौ १२, २७, ७.
 प्रैषिक^h- -कम् या ८, २२.
 प्रैषो(ष-उ)त्(र >)राⁱ- -रया
 आपश्रौ २१, ७, १५.
 प्रैषो(ष-उ)वचय- -यः काश्रौ
 १०, १, १८.
 प्रै(प्र-ए)षण- -णम् आमिण् २, ७,
 ११ : १८^j; -ईणान् चाश्र ४१ : १५
 प्रैषणी^k- -ण्याः अप्रा २, १,
 ११; ३, २०; ३, ३, १९.
 प्रै(प्र-ए)ष्य- पावा ६, १, ८८.
 प्रैष्यो(ष्य-अ)कार- -रौ हिश्रौ
 २१, २, ३४.
 †प्रैष्^l- -ष्टान् वाश्रौ ३, १, २, ३.
 †प्रैष्नी^m आमिण् ३, ७, २ : ९.
 प्रैष्यत्-प्रैहि-कटा- प्रम्. प्रे(प्र✓इ)
 द्र.
 प्रैयक- प्रियक- द्र.
 प्रैयङ्गव- प्रियङ्गु- द्र.
 प्रैयमेध-, प्रैयरूपक- ✓प्री द्र.
 †प्रैष्यन्ⁿ अप्रा २, ४, १५^{††}.
 प्रो(प्र-उ)क्त- प्र✓वच् द्र.
 प्रो(प्र✓उ)क्ष्, प्रोचति काश्रौ २, ७,
 १६; ५, ३, ३२××; आपश्रौ;
 प्रोक्षतः बौश्रौ ५, ६ : १; २^o;
 प्रोक्षन्ति बौश्रौ १५, ५ : १७;
 १९; २४; २६; २६ : १६; प्रोक्षे

a) वैप १ द्र. । b) सपा. करः <> कृत् इति पाभे. । c) बस. > कस. । d) च्व इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. बौश्रौ १०, ५९ : ७) । e) तुस. > बस. । f) समाहारे द्वस. । g) द्वस. । h) तात्रभविकष् ठक् प्र. । i) बस. । j) णे इति संस्कर्तुः टि. । k) =लेट्-लकार- । l) विप. > नाप. (अश्व-) व्यु. ? । m) प्रोष्ठिनीम् इति शोधः विमृश्यः (तु. आपश्रौ १८, ६, ४) । सपा. बौपि १, १७ : २९ †प्रोष्ठान् इति पाभे. । n) पाभे. वैप १, १७१७ ८ द्र. ।

आपश्रौ ३, १९, ३; †प्रोक्षामि
शांश्रौ ४, १७, ८; काश्रौ ६, २,
१६६; आपश्रौ १, १९, १^a; ७,
१३, १०^b××; काश्रौसं; वौश्रौ
१, ६: ८^a; ४, ५: २०^c; माश्रौ
७, १०, १०^d, माश्रौ १, २, २, २^e;
वाश्रौ १, २, ४, ३८^f; वैश्रौ १०,
१०: १३^g; हिश्रौ ४, ३, २०^h;
कौसू २, १५ⁱ; †प्रोक्ष काश्रौ २,
२, ९; आपश्रौ ३, १९, ३; माश्रौ;
प्रोक्षेत् आपश्रौ १२, ३, ५××;
वौश्रौ; प्रोक्षेयुः आपश्रौ २०, ८, २.
प्रोक्षिष्यामि आपश्रौ १, १९, १;
माश्रौ १, २०, १०××; वाश्रौ;
प्रौक्षी: वौश्रौ २४, २५: १२.
प्रोक्षयते आपश्रौ १, १, १: २०^j.
प्रोक्षयति वैश्रौ १, ३: १०; ७:
११××; प्रोक्षयेत् आपश्रौ २, ३,
४: ८; ५, २: १३; वैश्रौ.
प्रो(प्र-उ)क्ष^e-क्षे हिश्रौ १, १, ३८;
२, ८, १४; -क्षेण वौश्रौ १५,
२६: १४.
प्रोक्षा(क्ष-आ)दि^f-दि आपश्रौ
५, २०, ५; ६, २९, १४.
प्रोक्षा(क्ष-अ)न्त,न्ता^f-न्तम्
माश्रौ १२, ५, १०; -न्ताम्
आपश्रौ ७, ६, ३; माश्रौ ७, ४, ५;
६, १^g.
प्रो(प्र-उ)क्षण-णम् शांश्रौ ४, २०,
४; काश्रौ २, ३, ३५; ८, ६, २६;
आपश्रौ; -णात् माश्रौ १२, ६,
५; माश्रौ; -णे काश्रौ ६, ३, २०;
आपश्रौ ७, १२, ९; वौश्रौ २०,

४: ६××; -णेन वौश्रौ २५,
३०: १४; माश्रौ १, ५, ५, १९;
अप; -णै: वैश्रौ २, १२: ३××.
प्रोक्षणी^h-णी: काश्रौ २,
३, ३९; ६, २५××; आपश्रौ;
-णीनाम् आपश्रौ ८, १४, ३××;
वौश्रौ; -णीभि: काश्रौ ६, ३,
२७; वौश्रौ ४, २: ४१××;
माश्रौ; -णीभ्य: काश्रौ २, ७, ५;
-णीस् माश्रौ १, १, ३, १; वाश्रौ;
-णीषु वौश्रौ १, १२: ४९××;
माश्रौ; -ण्य: वौश्रौ २४, २५:
११^h; ३६: ४; २५, २: ५.
प्रोक्षणी-कुम्भ-म्भे
वैश्रौ ९, ४: ११.
प्रोक्षणी-धानⁱ-नम्
वौश्रौ १, १३: १३; ४, ५: २३;
११, ३: ३५.
प्रोक्षणीधानी^k-नी
माश्रौ ११, ५, १२; वैश्रौ १३, ७:
११; १७: ३^l; हिश्रौ २४, २,
५; -नीम् आपश्रौ १५, १५, १;
माश्रौ ११, १५, ७; हिश्रौ २४,
६, १२; -न्या: आपश्रौ १५, ५,
१०; -न्याम् माश्रौ ११, ६, १.
प्रोक्षणी-पात्र-त्रम् वौपि
२, ९, २; भाग १, २: १०.
प्रोक्षणी-भाजन-नम्
आपश्रौ ८, १३, १७.
प्रोक्षणी-वत् आपश्रौ १,
१६, ५; २४, ३; वैश्रौ ४, ९: १२.
प्रोक्षणी-शेष-षम्
आपश्रौ १, १९, ३; २, ८, ३××;

८, १०, ५^l; वाश्रौ १, ३, ३, ६^l.
-वेण वौश्रौ २४, ३६: १५; वाश्रौ:
१, ६, ३, १८; वैश्रौ ८, १०: ७.
प्रोक्षणी-संस्कार-र:
आपश्रौ १, १९.
प्रोक्षणी-हस्त^m-स्त:
वौश्रौ २५, १२: ६; १५: १९.
प्रोक्षण्य(णी-अ) भिमन्त्र-
णा(रा-आ)दि-दि वैश्रौ १४,
१७: ५.
प्रोक्षण्य(णी-अ) वनय-
न->°न-यवप्रासन-बर्हिरवस्तर-
ण-सुवाभिहोम-मान् वैश्रौ
१४, ८: १२.
प्रोक्षण्य(णी-अ)वशेष-
षम् माश्रौ ८, ११, २२; १२, २,
२०; हिश्रौ १, ७, ५९××.
प्रोक्षण्यु(णी-उ)च्छेष-
षम् वैश्रौ १०, ५: २^m.
प्रोक्षण्यु(णी-उ)द्वेकⁿ-
केण आपश्रौ ८, १३, १८; माश्रौ
८, १५, १६; हिश्रौ ५, २, २५;
४, ३०.
प्रोक्षण-काल-ले वैश्रौ १८, ४:
६.
प्रोक्षण-कूर्च^o-र्चम् वैश्रौ १,
८: ७.
प्रोक्षण-तस(ः) वौश्रौ १०, १०:
११.
प्रोक्षण-प्रभृति-ति वौश्रौ २४,
३५: ३; माश्रौ १, ८, १, २२;
२, २, ३, ४; -तिना वौश्रौ २६,
६: ४; -तीनि वैश्रौ १, १५:

a) पांमे. वैप १, २२५४ g द्र. । b) पांमे. वैप १, १२३८ b द्र. । c) पांमे. वैप १, २२५४ h द्र. ।
d) पाठः! ण्ते इति शोधः । e) उप. भावे प्र. । f) वस. । g) ण्ता इति पाठः! यनि. शोधः (तु. पूर्व
स्थलम्) । h) नाप. (२अप्, [उपचारात्] पात्र-) । उप. करणे कृत् । i) 'क्षि' इति पाठः! यनि. शोधः ।
j) नाप. (पात्र-) । कास. उप. अधिकरणे कृत् । k) = सुगु-भेद- । l) परस्परं पांमे. । m) ञ्नाम् इति पाठः!
यनि. शोधः । n) = प्रोक्षणी-शेष- । o) मलो. कस. ।

५; हिश्रौ ३, ५, १०.
 प्रोक्षण-मार्जन- -ने हिश्रौ २२,
 ३, ७.
 प्रोक्षणा(ण-आ)दि- -दि काश्रौ
 ८, ८, २३; काठश्रौ ८८; आगृ ४,
 ८, १६.
 प्रोक्षणा(ण-अ)वनेषु- -षम्
 हिश्रौ ५, ३, १५^b.
 प्रोक्षणो(ण-उ)गाकरण-वज्रम्
 आगृ २, ४, १३.
 प्रोक्षणो(ण-उ)ल्लेखना(न-आ)
 दि- -दि वैगृ ४, १० : ६.
 प्रो(प्र-उ)क्षत्- -क्षन् आपश्रौ १,
 १८, १; ९, १०, ९; बौश्रौ;
 -क्षन्तम् माश्रौ ५, २, १५, १२.
 प्रो(प्र-उ)क्षमाण- -णानाम् विध
 ६८, ४६.
 प्रो(प्र-उ)क्षयित्वा आमिगृ ३, १०,
 २ : १३.
 प्रो(प्र-उ)क्षित, ता- -तम् ऋश्रौ
 १५, ७ : १८; २९ : ६; ७; जैगृ
 १, १ : ८^क; वैध २, १५ : ३;
 -ताः शाश्रौ १४, ६२, ३; काश्रौ
 २, ३, ३५^क; बौश्रौ; -तान्
 आपश्रौ २२, २०, १२; हिश्रौ
 १७, ७, २३; २५-२७; -तानाम्
 बौगृ ४, २, ५; -तानि आपश्रौ
 १५, ६, ५; माश्रौ ११, ६, ७;
 वैश्रौ; -ताभ्याम् काश्रौ ९, १०,
 ३; आपश्रौ १२, २२, २; बौश्रौ;
 -ताम् भागृ २, १६ : ७; हिगृ
 २, १५, ४; -तेषु वैश्रौ १०, ७ :
 ६; १५, ४ : ९; हिश्रौ २, ४,
 २९××; -तौ काश्रौ ९, १०,

११; आपश्रौ.
 ऋप्रोक्षिता(त-अ)प्रोक्षित- -तान्
 हिश्रौ ८, ७, १; ९, २, ५; -तैः
 बौश्रौ ७, १३ : ७; ८, ४ : ३;
 वैश्रौ १५, २७ : १४; १६, ४ :
 १२; -तौ काश्रौ ९, १०, ३६.
 प्रोक्षिते(त-इ)धम-शकल-
 -लाभ्याम् माश्रौ २, ४, १, ९.
 प्रो(प्र-उ)क्षिव्यत्- -व्यन्तम् वाश्रौ
 १, १, ५, ११.
 प्रो(प्र-उ)क्ष्य आपश्रौ १, १०, १४××;
 बौश्रौ; आपध १, १६, ७^०.
 प्रो(प्र-उ)क्ष्यमाण- -णम् वैश्रौ ५,
 ५ : ७; हिश्रौ ६, २, ९; -णानि
 आपश्रौ १, ११, १०.
 प्रो(प्र-उ)च्य, च्यमान् प्र√वच् द्र.
 प्रो(प्र-उ)ढ- प्र√वह् द्र.
 प्रो(प्र-उ)त- प्र√वे द्र.
 प्रो(प्र-उद् >)त् √कृष् > प्रोत्-कृ-
 (ष्ट>)ष्टा- -ष्टाः अप ५५, ६, ४.
 प्रो(प्र-उद् >)त् √फुल् > प्रोत्-
 फुल्ल- > ल्ल-कुसुदा(द-आ)
 कार^द- -राः अप ६८, १, ३३.
 प्रोफुल्लो(ल्ल-उ)त्पलकुन्देन्दु-
 कुसुदा(द-आ)भो(भ-उ)त्प-
 ल-द्युति^०- -तिः अप २४, ३,
 २.
 प्रो(प्र-उ)त्य प्र√वे द्र.
 प्रो(प्र-उद् >)त् √सृज्, प्र...उत्सृ-
 जन्ति हिश्रौ १४, ३, ५५^१.
 प्रोथ्य पाधा. स्वा. उभ. पर्याप्तौ.
 प्रोथ- पाठ २, १२; पाग २, ४, ३१.
 प्रोथत्- प्रथ्. प्रथ् द्र.
 प्रो(प्र-उ)दक^०- -कम् बौश्रौ १७, ३१ :

१५; गोष्ट १, ३, ७; -कयोः आपध
 १, १०, २७; हिध १, ३, ५४.
 प्रोदकी^०भू > प्रोदकी-भाव-
 -वात् आपध २, १९, ८; हिध
 २, ५, ८०.
 प्रो(प्र-उ)द् √यम्, ऋप्र(उदयस्त)
 आश्रौ ८, ६, १३; शाश्रौ ११,
 १४, १६.
 प्रो(प्र-उ)प√स्तु, प्र...उपस्तुहि बौपि
 १, १५ : ७^१.
 प्रो(प्र-उ)प√स्तु, प्र...उपस्तुहि
 आमिगृ ३, ८, १ : २८^१.
 प्रो(प्र-उ)पै(प√इ), प्र...उपयन्तु ऋप्रा
 ८, ५^१.
 प्रो(प्र-उ)प्य प्र√वप् द्र.
 प्रो(प्र-उ)भ^१ > प्रो(प्र-उ)भ्यं शाश्रौ
 ४, १४, १३.
 प्रो(प्र-उ)र्णु, प्रोर्णुते काश्रौ ७, ३, २४;
 १०, ७, २; २६, ३, २; आपश्रौ;
 प्रोर्णोति बौश्रौ ४, ६ : ६२××.
 भाश्रौ; प्रोर्णोति काश्रौ ६, ६, १११;
 प्रोर्णुवन्ति आश्रौ ६, १०, ६;
 प्रोर्णुवीमि सु ११, ४; ऋप्रोर्णोति
 आपश्रौ १९, १४, १३; बौश्रौ
 १९, ६ : १२; हिश्रौ २३, २, १११;
 ऋप्रोर्णुवाताम्^१ माश्रौ १, ८, ४,
 १५; वाश्रौ ३, ४, ४, १५; ऋप्रोर्णु-
 वायाम् कौसु ४४, ३४^१; ऋप्रोर्णुवा-
 थाम् आपश्रौ ७, १९, १; बौश्रौ
 ४, ६ : ६२; माश्रौ ७, १४, १३;
 वैश्रौ १०, १५ : २; हिश्रौ ४, ४,
 १८; प्रोर्णुयात् बौश्रौ २५, ३२ :
 ५; ७××.
 प्रो(प्र-उ)र्णुत्य वैश्रौ १६, १८ : १२^१;

a) पू. = प्रोक्षणी-। b) पाभे. पृ १७७८ l द्र.। c) पाभे. पृ ३२९ a द्र.। d) कस. > बस.।
 e) कस. > दस. > बस. > कस. > बस.। पाठः? उ. संस्कृतः दि. 'दामोऽनल' इति। f) सप्त.
 आपश्रौ २०, १७, ५ उत्सृजन्ति इति पाभे.। g) मलो. बस.। h) पाभे. वैप १, २१८९ k द्र.। i) घा. बन्धने
 वृत्तिः। j) पाभे. वैप १, २२५५ f द्र.। k) पाभे. पृ ९ v द्र.।

प्रोषादसाविरसि मागृ २,७,११.
 प्रोषित- विवस-प्र√वस्(यात्रायाम्)
 द्र.
 †प्रोष्ठ- छम् आपश्चौ २२, २८, ४;
 बौश्रौ १८, १९: ४५; ५; हिश्रौ
 २३, ४, ४४; बौगृ २, ४, ४;
 -घाम् बौपि १,१७: २९.
 †प्रोष्ठ-पद-दा- पा ५, ४, १२०;
 -दयोः आश्रौ २, १, १०; अप
 १, ८, ७××; अशां १३, ४; अप
 १, ११, ५१; -दा: हिश्रौ ३, २,
 ४; अप१, ८, ६; -दाम्यः शांगृ १,
 २६, २४; २५; -दाम्याम् अशां
 १२, ४; -दासु माश्रौ १, ५, १, ७;
 कौगृ ४, ४, २; शांगृ ४, १७, २;
 -द्वे कौसृ १४०, २; अप १, ३,
 १; -द्वेभ्यः वैगृ ३, २०: १०;
 ११; -द्वेषु आपश्चौ ५, ३, १४;
 बौश्रौ २८, ४: १२; भाश्रौ ५, १,
 १८; हिश्रौ ३, २, १९; -द्वैः आगृ
 २, १०, ३; भागृ १, २२, २; -द्वौ
 अ १, २, १, १४, १; ५७, १, १.
 †प्रौष्ठपद-
 प्रौष्ठपदा- -दाम्यः पागृ
 २, १५, २.
 प्रौष्ठपदी- -दी विध
 ७६, १; -दीम् वागृ ८, १;
 मोगृ ३, १; द्रागृ ३, २, १४;
 -घाम् पागृ २, १५, १; जैगृ
 १, १४, १; कौसृ १४२, २; वाघ.
 †प्रौष्ठपद- -द्वे
 कप्र ३, ९, ३; अप १९, १, २.
 प्रौष्ठपदिक- पा ४, २, ३५.

२प्रोष्ठपद- > षदी- -दीम्
 गौघृ १६, १; -घा: आगृ २, ५, ९.
 प्रोष्ठपद-हस्त- -स्तौ वैगृ २, ५:
 १.
 प्रोष्ठपदा-द्वय- -यम् अशां ६, ३.
 प्रोष्ठपदा-यु(क्त >)क्ता-
 -क्त्यायाम् विध ९०, १४.
 प्रोष्ठपदि- प्रोह्य-पदि- टि. द्र.
 प्रोष्ठपाद- पा ७, ३, १८.
 प्रोष्ठि(र >)नी- -नीम् आपश्चौ
 १८, ६, ४; वाश्रौ ३, १, २, २४^१;
 हिश्रौ १३, २, १८.
 २प्रोष्ठ- (> प्रौष्ठ- पा.) पाग ४,
 १, ११२.
 प्रोष्ठिक- (> प्रौष्ठिक- पा.) पाग
 ४, १, ११२.
 प्रो(प्र-उ)ष्य प्र√वस्(यात्रायाम्) द्र.
 प्रो(प्र√ऊह्(प्रापणे), प्रोहति काश्रौ
 २, ५, ७; आपश्चौ १, २१, ६××;
 बौश्रौ; या १, १५; प्रोहलः वैश्रौ
 १४, ६: ११; प्रोहन्ति बौश्रौ
 ६, २५: १७; २७: १५; निसृ
 ८, १: १६; प्रोहामि शांश्रौ ४,
 ९, ५; प्रोहन्तु जैश्रौ ९: १; २^२;
 प्रोहाणि आ १, १५^१; प्रोहेत्
 बौश्रौ २०, ७: १६; १७; जैश्रौका;
 प्रोहेयुः द्राश्रौ ३, १, १८; २०;
 लाश्रौ १, ९, २०; २२.
 प्रोह > °ह-कटा- प्रेहि-कटा- टि. द्र.
 प्रोह-कपर्दा-, °ह-कर्दमा- पाग
 २, १, ७२.
 प्रो(प्र-ऊ)हण- -णम् हिश्रौ २, ५, ४.
 प्रो(प्र-ऊ)ह्य काश्रौ ९, ५, १२;

काठश्रौ १२४; वैश्रौ.
 प्रोह्य-> प्रोह्य-पदि- पा, पाग २, १,
 ७२^६; ५, ४, १२८^१.
 प्रौ(प्र-ऊ)ह- पावा ६, १, ८८; -हेण
 बौश्रौ २४, ६: ६; १०.
 प्रोह्यमाण-, °मान- प्र√वह् द्र.
 प्रौग^म-> °गा(ग-आ)कृति^१- -तिम्
 मागृ १, ६, २.
 प्रौह- प्र√वह् द्र.
 प्रौहकलायन^२- -ना: बौश्रौप्र ५: २.
 प्रौहि- प्र√वह् द्र.
 २प्रौष्ठ-> ३प्रौष्ठ- २प्रोष्ठ- टि. द्र.
 १प्रौष्ठक-> २प्रौष्ठक- प्रोष्ठिक- टि. द्र.
 १-३प्रौष्ठपद-, °पदिक- °पदी-
 १ प्रोष्ठ- द्र.
 √प्लक्ष^३(बधा.)वाधा. भ्वा. उभ. अदने.
 प्लक्ष्णोति आसिगृ^५ ३, ५, ४: ४;
 १२; १९.
 १प्लक्ष^४- पाठ ३, ६३; पाग ४, २,
 ९१; ३, १६२; -क्षः गोगृ ४, ७,
 २२; कौगृ २, ६, ९; अप २६,
 ५, ७; -क्षम् गोगृ ४, ७, २०;
 -क्षस्य पावा २, २, २९; -क्षात्
 गोगृ ४, ७, २१; -क्षे अप ७१,
 १६, १; -क्षेण पावा १, २, ६४;
 २, २, २९.
 १प्लक्ष- पा ४, ३, १६२; -क्षः
 बौश्रौ २३, ७: २१; -क्षम्
 बौश्रौ १२, ४: ३; १४, १८: ७.
 प्लक्षी- -क्षीः अप ६५,
 ३, ५; -क्षीम् काठश्रौ ५२.
 प्लक्षकीय- पा ४, २, ९१.
 प्लक्षन्त्व- -न्वात् पावा २, २, २९.

a) वैप १ द्र.। b) पामे. पृ १७७७ m द्र.। c)=[तन्नक्षत्रीय-] देवता-विशेष-। d) =(माद्रपद-
 मासस्य) पौर्णमासी-। e) =भाद्रपद-मास-। f) =प्रौष्ठ-पदी-। वृद्धयभावश्छान्दसः। g) प्रौष्ठपद्यु इति पाठः ?
 यनि. शोघः (तु. जीसं.)। h) ष्ठ इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. आपश्चौ.)। i) व्यप.। व्यु. ?। २प्रौष्ठ- इति
 ष्का.। j) व्यप.। व्यु. ?। प्रौष्ठक-, मोष्ठक- इति [पक्षे] पासि.। k) तु. पागम.। l) प्रोष्ठपदि- इति
 षासि.। m) लौवि. <प्रउग-। n) बस.। o) =ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। p) तु. BFG.। q) घा. छेदने वृत्तिः ?

प्लक्ष-द्वीप^a-पम् शंघ ११६: ५.

प्लक्ष-पवित्र-पादुका->का (का-
आ) सन-वैणवदण्ड-शिक्य-कम-
ण्डल्व (लु-अ)लातुपात्र-त्रम्
आमिष्ट २,७,११:३.

प्लक्ष-व(न>)ण- पा ८,४,५.

प्लक्ष-शाखा-न्ख्या आपश्रौ ७,
१२, ८; बौश्रौ २०, २७: ६,
वैश्रौ १०,१२:९; हिश्रौ ४, ३,
४:४७; -खा: काश्रौ ६, २, ७;
हिश्रौ ९, ८, ३६; १३, १, २४;

-खाभि: आपश्रौ ७, ६, ३x४;
वैश्रौ; -खाम् आपश्रौ ७, ८, ३;
१२, ५; बौश्रौ; -खाया: माश्रौ

१,८,५, १८; -खायाम् आपश्रौ
७, २०, ४; २३, १२; बौश्रौ;
-खासु काश्रौ ६, ८, ७; आपश्रौ.
प्लक्षशाखा(खा-अ)प्र-अण वाश्रौ
३,४,३,२४.

प्लक्षशाखा-वत्-वति गोग्र ४,
१,९.

प्लक्षशाखो (खा-उ)त्तर-बर्हि
स्^b-हिं: भाश्रौ ७,१८,८०.

प्लक्षा(क्ष-अ)प्र-अम् वैध २,४,२.

प्लक्षो(क्ष-उ)दुम्बर-रस्य कौसु
२२,२; ७५,१९.

२प्लक्ष^{d,e}->प्लाक्षि-क्षय: बौश्रौप्र
४८:३; -चे: तैप्रा १४, १०.

प्लाक्षायण-णस्य तैप्रा १४,
११.

प्लाक्षि-कौण्डिन्य-गौतम-पौष्क-
रसादि-दीनाम् तैप्रा ५,३८.

प्लाक्षि-प्लाक्षायण-णयो:

तैप्रा ९,६; १४,११; १८,५.

३प्लक्ष^f-क्षम् हिश्रौ १८, ४, ३९^g;

लाश्रौ १०, १७, १२; १४; -क्षे
काश्रौ २४,६,७.

२प्लाक्ष^h-क्षम् आश्रौ १२,६,२७;

शाश्रौ १३, २९, २०; आपश्रौ

२३,१३,४; ५; -क्षे बौश्रौ १६,

२९: १५; ३०: ८.

प्लुतिⁱ->प्लुत^j-न्त: ऋअ २, १०,

६३; शुअ २,४५३.

प्लु(<प्र)-योग->प्लायोमि^k-गि:

शाश्रौ १६,११,१७; ऋअ २,८,

१; शैशि ७०^l.

√प्लु^m पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.

१प्लाक्ष-०श्री-१प्लक्ष-द्र.

प्लायवत्-प्रसु. √प्लु द्र.

प्लाशिⁿ-शिम्य: आपमं १,१७,३३^o.

प्लाशुक^p-कानाम् काश्रौ १५,४,५.

√प्लिह् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.

√प्ली(=०व्ली,व्ली)^m पाधा. कया.

पर. गतौ, वरणे^q धरणे^r च

प्लीहन्^k-पाउ १, १५९; -हा विध

९६,९१; -हानम् आपश्रौ ७,

२२,६; २४,१२; भाश्रौ.

प्लीह(ह>)हा-कर्ण^k-र्ण: शुप्रा ३,

१२९.

प्लीहाकर्णी-ऋत ५,१,३.

√प्लु^o पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ,

प्लुते वैताश्रौ १९,७; वाध १३,

४६; निघ; प्लुवन्ते आमिष्ट ३,६,

१: ३२; ३: ३६; ऋप्रा ९,१;

प्लुवसे आपमं २,१६, ५^l; भाग

२, ७: १५; ऋवामहे काश्रौ

१३,३,२६; आपश्रौ; प्लुवस्व या

९, ७^l; प्लुते माग १, १, १४;

प्लुवेत् बौध १, २, ४१; प्लुवेरन्

अप ३७,१६,१.

प्लुवयति काश्रौ १०,९,१; १९,

५,१३; २०,२,२; वैध ३, १५,

१; प्लुवयेत् आश्रौ १, ५, ७;

शाश्रौ १, २, १; हिश्रौ.

प्लुव(वप्रा.)-पाग ३,१,१३४; -व:

वाधूश्रौ ३, ३१: २^p; निसु ६,

१०: २८^q; अप ६४, ३, ५^r;

आपध १,१७,३३^s; हिघ १,५,

६४^s; -वम् आपश्रौ २२, ४,

२७^t; वाधूश्रौ^o ३, ३१: ३; ५;

जैश्रौप ६^p; लाश्रौ ८, ५, १४^p;

निसु^p ४, १२: ३४; ३७; कौग

३,१३,१७^p; शांग्र ४,१४, ५^p;

आमिष्ट ३, ८, २: ४६^p; काग

४५, १०^q; बौपि १, १५:

५३^p; माग २, १, १४^p;

हिपि १५: २०^p; अप २१,

५,४; शंघ ४२६^e.

प्लुवं-र्ण^e-गा: अप ७७^r, १८,४.

प्लुव-रूप^u-पम् आग १,१२,६.

प्लुवा(व-अ)तिप्लुत^v-ता: निसु

४,१२: ३७.

प्लुवाक-पाउना ४,१४.

प्लुवन-नम् हिश्रौ २१, २, ३४;

शंघ १८३^e; आपध १, ५, १७;

हिघ १,२,१८; -नेन वाध १४,

a) =द्वीप-विशेष-। b) बस.>कस. (तु. हिश्रौ ४, ५, ३ भाष्यम्)। c) ँं ब० इति संस्कर्तुः टि.।

d) व्यप.। व्यु. ?। e) वैप २, ३खं. द्र.। f) = (सरस्वत्याः) उद्गम-स्थान-। g) स्वार्थे प्र.। h) व्यप.

(गय-।) अपत्यार्थे प्र.। i) वैप १, २२०० d द्र.। j) तु. BPG.। √प्व (यद्र.) इति (पक्षे) BPG.।

k) वैप १ द्र.। l) पाभे. वैप १, २२५६ g द्र.। m) पा ७, ३, ८० परामृष्टः द्र.। n) तु. BPG.।

o) पा ६, ४, ५८; ७, ४, ८१ परामृष्टः द्र.। p) = नौका-। q) = साम-विशेष-। r) भाप.। s) = जल-वायस-।

t) नाप.। उप.<√गम्। u) बस.। v) उप. = तीर्ण-।

२६.
 प्लावयत्- -यन् आश्रौ १, ३, ६; ४,
 १३.
 प्लावयित्वा आमिष्ट ३, ४, ५: ४;
 बौपि ३, १०, १; गौपि.
 प्लाव्यमान- -नम् वैताश्रौ ३०, २.
 प्लुत^१- -तः आश्रौ ७, ११, १३;
 शाश्रौ १, १, १९; ऋप्रा; पा ८,
 २, ८२; -तम् ऋप्रा ९, ३२;
 उस् १, ११; शुप्रा; -ताः हिश्रौ
 २१, २, ३४; शुप्रा ८, ३५;
 -तानाम् अप्रा १, १, ५; पावा
 ८, ३, ४१; -तानि शौच १,
 १०५; -तेन शाश्रौ १, १, ४२;
 -तैः ऋप्रा ७, ३३; -तौ पा ८,
 २, १०६; पाप्रा ४, १२.
 प्लुत-कार्य-प्रतिषेधा(ध-अ)
 र्थ- -र्थम् पावा ६, १, १२७.
 प्लुत-वर्ष- -र्वम् तैप्रा १, ४;
 -र्वस्य पावा ६, १, ७६.
 प्लुत-प्रकृतिभाव-वचन- -नम्
 पावा ६, १, १२३.
 प्लुत-प्रगृह- -ह्याः पा ६, १,
 १२५; -ह्येषु पावा ६, १, १२३.
 प्लुत-प्रग्रह- -हौ तैप्रा १०, २४.
 प्लुत-प्रतिषेध- -धे पावा ६, १,
 २७.
 प्लुत-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा ८, २,
 ८६.
 प्लुत-वचन- -नम् पावा ८, २,
 १०६.
 प्लुत-वर्जम् शुप्रा ७, २.
 प्लुत-विकार- -रे पावा ८, २,

१०७.
 प्लुत-विधान- -ने पावा ८, २,
 ८६.
 प्लुत-संज्ञा- -ज्ञा पाप्रा ४, ३.
 प्लुत-स्वर- -रस्य शौच ४, ६.
 प्लुता(त-अ)कारा(र-अ)न्त^०-
 -न्तम् ऋप्रा ५, ५८.
 प्लुता(त-अ)दि- -दि ऋप्रा
 १०, ७; ११, १०; २५; -दिः
 आश्रौ ५, ९, ६; शाश्रौ १, २, २;
 उस् ४, ९; -दीनि ऋप्रा १०, ३.
 प्लुतादि-प्रभृति- -तीनि
 ऋप्रा १०, ४.
 प्लुतो(त-उ)प(ध>)धा^०- -धा
 ऋप्रा २, ६६.
 प्लुतोपधा (धा-अन्त >)
 न्ता^०- -न्ताः ऋप्रा २, ६७.
 प्लुतो(त-उ)पाचरित- -ते ऋप्रा
 १०, २०; ११, ३८.
 १प्लुति- -तयः आश्रौ २, १९,
 २०; -तिः शाश्रौ १, २, ३;
 वैताश्रौ ३२, १५; ऋप्रा.
 प्लुत्य(ति-अ)र्थ- -र्थम् पावा ८,
 २, ८५.
 प्लुत्या(ति-अ)दि- -दयः
 पाप्रा २, ४; -दिषु पाप्रा ४, २.
 २प्लुति^१- -तिम् अप ४३, ३, १४१.
 √प्लुष् पाधा. भ्वा. दिवा. पर. दाहे;
 कया. पर. स्नेहनसेवनपूरणेषु.
 प्लुक्षि- पाउ ३, १५५.
 √प्लेव् पाधा. भ्वा. आत्म. सेवने.
 √प्सा^१ पाधा. अदा. पर. भक्षणे,
 ऋप्रा ४८, १५; निघ २,

१४.
 प्सान->प्सानीय- -यः या ५,
 १४.
 प्सु^१६- प्सुः निघ ३, ७१.
फ
 फ^१->फ-सवर्ण- -र्णम् याशि २, ३८.
 √फक् पाधा. भ्वा. पर. नीचैर्गतौ.
 फट्, लृ^१ शाश्रौ १२, २३, २१; अप्राश्रौ
 १२, ११, १०१; हिश्रौ ८, ३,
 ३११; १०, ७, १६; ऋप्रा ४७,
 २१; ११६, ७; ऋप्रा ३६, १, ४;
 ९, ३; पाग १, ४, ५७.
 फट्-कार- -रः अप ३१, ९, १; ३४,
 १, ६; ३६, २, ५; -रम् अप ४०,
 २, ८,
 फट्कार-प्रभृति- -ति अप्राय
 ६, ६.
 √फण्(बधा.)^१पाधा. भ्वा. पर. गतौ-
 फणति निघ २, १४१.
 फाणयेत् द्राघ ३, १, ६^१; फाण,
 येयुः लाश्रौ १०, ४, १०^१म.
 फण, णा^०- -णेन कौष्ट ४, २, ३;
 शांष्ट ४, १५, ७.
 फणा-भृत्^०- -भृत्ः अप ६४,
 ८, ८.
 फणित्- -णिनाम् सु २८, १^०.
 फाणित^१२- -तम् अशां १३, २;
 -तेन अप १, ४८, ६.
 फाणित-पृथक्-तण्डुल-करम्ब-भरु-
 ज-सन्तु-शाक-मांस-पिष्ट-क्षीर-वि-
 कारौ(र-ओ)षधि-वनस्पति-मूल-
 फल-वर्जम् आपध १, १७, १९-

- a) पारिभाषिक-संज्ञा-। b) बस.। c) कस. > बस.। d) = ऋषि-विशेष-। e) तु. BEG.।
 f) तु. वैप १, २२५६ U। g) रूप-नामन्-। व्यु. ?। < √ स्फुर इति दे.। h) = वर्ष-। i) शाश्रौ. पाठः।
 j) वैप १ द्र.। k) या २, २८ पा ६, ४, १२५ परासृष्टः द्र.। l) धा. कथने वृत्तिः। m) णेयुः इति पाठः ?
 यनि. शोधः (तु. भाष्यम्)। n) नाप.। कर्तरि अच् प्र.। o) णी० इति पाठः ? यनि. शोधः।
 p) = इक्षु-विकार- (नभा. राब इति)।

फण्ट^३- पा ७, २, १८; -ण्टम्
जैग १, ११ : ५^{१०}; कौसू २५,
१८; -ण्टान् कौसू २८, १४;
-ण्टौ कौसू ४०, १५.
१फण्टा (रट-आ)हृत्- >
हृत्ति- -त्तेः पावा ४, १, १५०.
२फण्टाहृत्- , हृताग्रनि-
पा ४, १, १५०.

फण्ड- पाठवृ १, ११४.

फणक^१- कः अप ५२, ५, ३.

फर्करक- (>की- पा.) पाग ४, १,
४१.

फर्फरीक- पाठ ४, २०.

√फल^६, पाधा. भ्वा. पर. निष्पत्तौ, विश-
रणे, फलते वाध ६, ७^३; फलति
अप ७०, १०, १; फलन्ति बौश्रौ
१७, ३१, १४^३; अप ६४, १०, ६;
७०^३, ६, १.

फल^१- पाग १, ४, ६१^६; २, ४, ३१;
४, २, ८०, ९०; ५, २, ३६; १३६^१;
-लम् आपश्रौ २२, २, ५; काश्रौ
१३, ४, १२; हिश्रौ; हिध १, २, ७; २,
५, १६५^१; या १४, ७; ३२;
मीसू ४, ३, ३^१; -लस्य मीसू
१, २, १७; २, २, २५; ६, ३,
२१; -लात् वैध २, ५, ५; वृदे
८, १३४; पावा ४, १, ६४;
-लानाम् आपश्रौ ६, ३१, ७;
बौश्रौ २८, १३ : १७; वाग १५,
२०; गोगृ १, ९, ७; -लानि
शांश्रौ २, २, २६; हिश्रौ; या ९,
८; -लाभ्याम् जैगृ १, ५ : ५;

-लाय अप ५८, १, ५; -ले अप
६४, ८, ७××; या ५, १२; पा ४,
३, १६१; -लेन वाध ६, ३९;
मीसू ३, ४, २४; -लैभ्यः भाशि
५८; -लेषु विध ९९, १६; -लैः
बौश्रौ २८, १३ : २२; आमिगृ;
फल-कर्तृ-संबन्ध- -न्धात् मीसू
११, ४, १८.

फल-कर्म-देश-काल-द्रव्य-देवता-
गुण-सामान्य- -न्त्ये काश्रौ १,
७, ३.

फल-काम- -मः मीसू ६, २, १०.

फल-खादिन्^६- -दिनः वैध १,
८, १^१.

फल-ग्रहि^१- -हयः आपश्रौ १६,
२०, ४; हिश्रौ ११, ६, ५०; -हिः
आपश्रौ १०, १०, ४××; भाश्रौ;
-हैः वाश्रौ २, १, १, ४.

फल-ग्रहिष्णु- -ष्णुः शांश्रौ १७,
१, १८.

फल-चमस^३- -सः मीसू ३, ५,
४८.

फलचमस-विधान- -नात्
मीसू १२, ४, ४४.

फल-तस्^(ः) कौसू २५, १७;
आपध २, २२, ५; २३, २; हिध
२, ५, १५७.

फल-द- -दम् विध ३०, २९;
आज्यो ७, ६; -दानाम् विध
५०, ४८; -दौ कौशि ४१.

फल-दर्शन- -नात् मीसू ६, ३,
२५.

फल-देवता- -त्योः मीसू ९, १, ४.
फल-नियम-कर्तृ-समुदाय-
-यस्य मीसू ८, १, २०.

फल-निर्वृत्ति- -त्तिः काश्रौ १,
२, १८; -त्तेः मीसू २, १, २७^३.
फल-परिवृद्धि- -द्धिः आपध २,
२, ४^०.

फल-पर्वन्- -र्वणोः पावा ४, ३,
१६.

फल-पाक-शुष्- -शुषाम् पावा
४, ३, १६६.

फल-पातन- -ने वाध २८, ८;
विध २३, ४९.

फल-पुष्प- -ष्पम् अप ७०^३, ६,
१; ७, ४; ८, २; -ष्पयोः अप
७०^३, ४, ५; ७, २३; -ष्पाणि
अप ७०^३, ४, ३; -ष्पेभ्यः शंघ
२१९.

फलपुष्प-ता- -ता अप ७०^३,
८, २.

फलपुष्प-दा- -दाः अप ७१,
१५, २.

फलपुष्पो(ष-उ)ङ्गव-
-वानाम् विध ५०, ४९.

फल-पूर्ण- -र्णम् अप २०, ३, ४.
फल-प्रचयन-> णो(न-उ)ङ्-
पानावेक्षण-वर्षतिधावनो(न-उ)

पानत्स्वयंहरण- -णानि द्रागृ ३,
१, ३९.

फल-प्रद, दा- -दम् शंघ ४११;
-दा विध ३०, ३९; -दे अशां
६, ५.

a) = कषाय-भेद-। वैप २, ३खं. द्र. । b) णिस्फा^० इति पाठः ? णिभः फा^० इति शोचः (तु. संस्कृतः टि., द्रागृ ३, १, ६ च) । c) व्यप. । व्यु. ? । = गोग्र-विशेष- इति वापाभा. । d) = ग्रह-विशेष- । e) पा ७, ४, ८७; ८८ पावा ६, ४, १२० परामृष्टः द्र. । f) वैप १ द्र. । g) फल- इति पाका. । h) तु. पागम. । i) शोचः पृ १३९ j द्र. । j) तु. जीसं. । k) = वानप्रस्थ-विशेष- । l) शैलफलखा^० इति C., अफलखा^० इति भाष्यम् (तु. C.) । m) मलो. कस. । n) णत्तिः इति जीसं. । o) सप्र. फलपरिवृद्धिः <> फलवृद्धिः इति पाभे. ।

फल-प्रदर्शन- नम् वृदे ३, १५१.

फल-भक्ष^१ -क्षः हिश्रौ १७, १, १३; जैगु २, ८ : २४; बौध ३, ९, १७; -क्षाः बौध ३, ३, ३.

फलभक्ष-ता- -ता वाध २२, ११; बौध ३, १०, १२; गौध १९, १४.

फल-भाज्- -भाक् कप्र २, ४, १८.

फल-भूमन्- -मा मीस् ११, १, २९.

फल-भूयस्व- -स्त्वम् आगु ४, ७, ३.

फल-भेद-तस् (ः) अप २७, २, ५.

फल-मय- -यानाम् वाध ३, ५४; बौध १, ५, ३१.

फल-मिश्र- -आणाम् मागु १, १४, ९.

फल-मूल-पुष्प- -ष्पम् अप १, ६, ३.

फल-मूल-शाक- -कम् वैध २, ४, ५.

फल-मूला(ल-अ)शन- -नैः विध ५१, ७७.

फल-युक्त- -क्तानाम् काश्रौ १, २, १०; -क्तानि काश्रौ १, १, २.

फल-योग- -गात् काश्रौ १, ६, ९; ७, १९.

फल-वत्- पा ५, २, १३६; -वत् अप २१, १, १; मीस् ३, २, २२;

४, ४, ७; -वतः कौगु १, ९, ७; ३, १, ९; शांगु १, १५, ६; ३, १, १५; मागु १, ७, ९; -वता मीस्

३, २, २२; -वस्तिः अप २१, ४,

१; -वन्तः अप ७१, १५, १; आज्यो २, १०; -वन्ति आपध १, १, ६; ४, २९; हिध १, १, ६; १४८; आज्यो ४, १३; -वान् बौगु १, ८, ३.

फलवती- -ती नाशि २, ८, २८; -तीः आगु २, ६, ९;

-तीम् गोगु ३, ९, ४; -तीषु आपश्रौ १६, ३, १४; वैश्रौ १८,

१ : ५६; हिश्रौ ११, १, ४१.

फलवत्-ता- -ताम् मीस् ६, १, २१.

फलवत्-त्व- -त्वम् मीस् ४, ४, ३४; -त्वात् बौध २, ९, १४^२.

फल-वन्त^१ -न्तः बौगु १, ८, ३.

फल-विशेष- -षः काश्रौ १, १०, ११; आपध १, ३०, ५××; हिध.

फल-वृक्ष^१ -क्षाणाम् अप ६८, २, १५.

फलवृक्ष-शाखा- -खया द्रागु २, २, २५.

फल-वृद्धि- -द्धिः हिध २, १, २६^d.

फल-शातन- -ने बौध १, ५, ४९.

फल-श्रुति- -तिः मीस् ३, ७, ९; ४, ३, १; -त्तेः भागु ३, १८ : २, मीस् २, २, २५.

फल-स- पा ४, २, ८०.

फल-संयुक्त- -क्तेषु काश्रौ १, ५, १६.

फल-संयोग- -गः मीस् ४, ३, ३६; -गात् मीस् ३, ७, ६.

फल-समवाय- -यात् मीस् ६, ३, २१.

फल-संभव^१ -वानाम् विध २३, २८.

फल-सिद्ध-त्व- -त्वात् मीस् ३, ८, ९^f.

फल-सेना-वनस्पति-मृग-शकुन्त-क्षुद्रजन्तु-धान्य-तृण- -णानाम् पावा २, ४, १२.

फल-स्नान^१ -नम् अप १९^३, ४, ३.

फल-हरितधान्य-शाका(क-आ) दान- -ने गौध १२, १५.

फला(ल-अ)दि- -दीनि अप ३०^२, २, ५.

फला(ल-अ)धिकार- -रात् काश्रौ १०, ५, १२; २०, ८, २६.

फला(ल-अ)नुपरोध- -धेन पागु २, १७, ६.

फला(ल-अ)न्यत्व- -त्वम् मीस् ११, १, ५; ३२.

फला(ल-अ)न्वित- -तैः आमिगु २, ३, ३ : ९.

फला(ल-अ)पहारिन्- -री शंघ ३७८.

फला(ल-अ)फल-> फ(लक->)लिका^१ - पावा, पावाग २, १, ६९.

फला(ल-अ)भाव- -वात् मीस् १, २, ३; ११, १, १२; -वे आपध २, २८, १; हिध २, ६, १.

फला(ल-अ)रम्भ-निवृत्ति- -त्तेः मीस् ११, १, ३२^h.

फला(ल-अ)र्थ- -र्थे आपध १, २०, ३; हिध १, ६, १७; -र्थेने मीस् २, ३, २६^f.

फलार्थ-त्व- -त्वात् मीस् ३,

a) विप., नाप. (वानप्रस्थ- [पचमानक-])। b) तु. वैप १, २४०२ i। c) मलो. कस.। d) पाभे.

पु १७८३ p द्र.। e) विप. > नाप. (पात्र-)। f) षसिद्धि^० इति जीसं.। g) तु. पात्र.। h) फलस्या^० इति जीसं. प्रमृ.। i) मलो. कस. वा षस. वा।

१,४; ६,१,४.

फलार्थिन्- > पर्थिन्-त्व-

-त्वात् काश्रौ १, २, १०; मीस् ६,१,२०; २,१५.

फला(ल-अ)थैवाद्- -उम् मीस् ४,३,१५.

फला(ल-आ)वली-समुद्भूत-वनसंघ-समाचित- -तम् विध १,३९.

फला(ल-अ)शिन- -शी विध १५,८.

फला(ल-अ)श्रुति- -त्रेः काश्रौ १३,४,११; मीस् ४,३,९.

फला(ल-आ)हार- -रः अप ५, ३,३; ३१,७,२.

फलित- पा ५,२,३६.

फलिन्- पा ५,२,१३६; -लिनः अप ५७,३,४; -ली अप ७०^२, ८,१.

फालिनी- -नी कौघ १, १४,८; शांघ १, २२, १०; पाघ १,१५,६; याशि २,११२.

फलिन- पावा ५,२,१२२.

फलीय- पा ४,२,९०.

फले-ग्रहि- पा ३, २, २६; -हिः शांश्रौ १५,१९,१.

फले-पाक,का-,पाकु- पाग ७, ३,५३.

फलै(ल-ए)कत्व- -त्वात् मीस् ११,२,२२.

फलो(ल-उ)त्तम- -मैः कौघ १, ७,१^७.

फलो(ल-उ)त्तर- -रैः काघ २०, २; २१,१^७; ३६,१.

फलो(ल-उ)त्साहा(ह-अ)

विशेष- -घात् मीस् ६, १, १४.

१फलो(ल-उ)दक^०- -केन बौघ ३, ९, ९; भाघ ३, ११ : १०; हिघ २,२०,७.

२फलो(ल-उ)दक^०- -कम् आमिघ २,७,१० : १४.

फलो(ल-उ)पगम-द्रुम- -च्छेदिन्^०- -दी विध ५, ४५.

फलो(ल-उ)पदेश- -राः मीस् ४,३,२४.

फलक^०- पाग २,४,३१; ४,२, ८०^६;

-कम् शांश्रौ १७,१०,४; वाश्रौ ३,२,५,५३; -कयोः काश्रौ २०, २,२०; बौश्रौ ६,२८ : ४३×४;

वैश्रौ; -कानि शांश्रौ १७, १, ९; अप १,९,१०; आपश्रु १९, १०; हिश्रु ६, ३०; -के काश्रौ ७, ९, ४; आपश्रौ २१, १७, १४; -केषु बौश्रौ १०,१७ : ६.

फलक-पुर- पा ६,२,१०१.

फलका(क-अ)भिस्ती(र्ण) > णां^६- णां बौश्रौ १०,१२ : ६^७।

फलका(क-आ)स्तीर्ण,णां^६- -र्णः काश्रौ २२,४, १६; आपश्रौ २२, ५,५; हिश्रौ १७,२, ३३; लाश्रौ ८, ६, ९; -णां^७ आपश्रौ १६,

१०, १६; वाश्रौ २, १, ३, ४; वैश्रौ १८,६ : ६; हिश्रौ ११,३, ३८.

फलकिन्- पा ४,२,८०.

फलका- फलक- टि. द.

फलादि- प्रसृ. √फल् द.

फलि^१- (> फालेय- पा.) पाग ४,१, १३६.

फालिग^६- -नाः निघ १, १०; -गम् आपमं २,२२,३^१.

फालिङ्गु^१- -ङ्गवे आमिघ १,२,२ : २८; बौघ ३,९,६; भाघ ३,११ : १.

फालित- प्रसृ. √फल् द.

फली पाग १,४,६१ > फली √कृ^६ पा १, ४,६१; फलीकरोति काश्रौ २, ४,२२; ४,१, ५; आपश्रौ.

फली-करण^६- -गाः अत्र ११, ३१; -णात्^३ भाश्रौ ५,१४, ५; ८, १, २०; ५, १२; १५,१७;

-णान् आपश्रौ ३,१०,१; बौश्रौ १, २० : २३; भाश्रौ; -णानाम् शांश्रौ १३,३,५; गोघ १,४,३०;

द्राघ १,५, ३२१; -णानि माश्रौ १,३,५,१२; वाश्रौ १,३,७,१२; -णैः कौस् ४३,२.

फलीकरण-तुष-बुसा(स-अ) वतक्षण- -णानि कौस् १४, १५; ४२,२१.

फलीकरण-मिश्र- -श्रान् पाघ १,१६,२३; आपघ १५, ६; काघ. फलीकरण-मुष्टि- -ष्टिम्

a) मजो. कस. । b) सर्वसुरभिभिः फलोत्तमैः इत्यस्य स्थाने सपा. शांघ १,११,२ सर्वौषधिफलोत्तमैः सुरभिभिः इति, काघ २१,१ सर्वगन्धैः फलोत्तरैः इति च पाभे. । c) समाहारे द्रस. । d) बस. > कस. > उस. । e) बघा. । नाप. । व्यु. ? < √फल् इति अभा., < फल- इति शक. । f) तु. पागम. । का- इति भागडा., हलका- इत्यपि [पक्षे] भागडा. । g) तृस. (तु. सा लतां १७, १,१४।) । h) सप्र. °काभिस्तीर्णा <> °कास्तीर्णा इति पाभे. । i) पृ ११८९ सस्थ. तीर्णा इति नेष्टम् । j) व्यप. । व्यु. ? । k) वैष १ द. । l) अर्थः ? । सपा. हिघ १, १४, ७ शोफमलीकम् इति, भाघ २, २८ : ३ परिघम् इति च पाभे. । m) भाप. ।

आपृ २३, १; भागृ २, २६: १०.

फलीकरण-होम- मः बौश्रौ
२४, २९: १३; -मस् आपृश्रौ
३, १०, १; बौश्रौ १, २०: २३;
वाधूश्रौ ३, ४१: १५; ४, ३: ४;
-मस्य बौश्रौ २०, ३१: ११; -मे
आपृश्रौ ४, १३, ७; भाश्रौ ४, १९,
७; हिश्रौ ६, ४, ३; -मेन बौश्रौ ४,
१०: २०; ६, ३: १९; २५, ६: १२.

फलीकरणहोम-प्रभृति-
-ति बौगृ २, १, २०.

फलीकरणा(रा-अ)न्त^२-
-न्तम् माश्रौ १, ६, ४, ९.
फली-कर्तव्य आपृश्रौ १, २०,
११; बौश्रौ १, ६: २७; भाश्रौ
१, २२, ९; वैश्रौ ४, ७: १५;
हिश्रौ १, ५, ७, १.

फली-कृत- -तान् शाश्रौ ४, ३,
७; आपृश्रौ; -तानाम् भाश्रौ
५, १४, ६; ८, १, २१; वाश्रौ;
-तेषु बौश्रौ १, ७: १; वैश्रौ.

फली-कृत्य काश्रौ २, ४, २३; वैश्रौ.
फली-क्रियमाण- -णानाम्
आपृश्रौ १, २२, २; बौश्रौ १,
६: २८; भाश्रौ.

फलीय- ✓फल् द्र.

फल् (> ल्) ✓कृ पा.) फल्- टि. द्र.

फले-ग्रहि- प्रभृ. ✓फल् द्र.

✓फ(ल् >) ल् (बधा.) > फल्गु^१-

पाउ १, १८; -ल्गु अप १, ९, ९०.

फल्गु-तीर्थ^२- -र्थे विध ८५, २२.

फल्गु-पात्र^३- -त्राणि विध ७९,
२२; -त्रेण विध ७९, २४.

१फल्गुन- पाउ ३, ५६.

१फल्गुनी^१- पाउमो २, २, २०२;
-नी बौगृ १, १, २०; भागृ २,
१८: ६; तैत्रा ४, १२^क;
-नीभ्याम् भाश्रौ ५, २, ७; शांय
१, २६, ९; १०; आपृगृ ३, २^क;
भागृ १, १२: १७^क; वैगृ ३,
२०: ५, ६; अशां १२, २; -नीषु
आश्रौ २, १, १०; कौसू ७५, ५^क;
१३९, १४; अपृ १, ७, १; २; -न्यः
माश्रौ १, ५, १, ५; अप १, २, १;
-न्योः आपृश्रौ ५, ३, ८; बौश्रौ
२, १२: १३^क × ×; माश्रौ;
-न्यो हिश्रौ ३, २, ४^२; अप १,
१, २ × ×; अशां ८, ५.

१फल्गुन-

१फल्गुनी^१- -नी अप
१, १, २; -नीभिः आगृ २,
१०, ३^क; -नीम् अशां २, ५;
-न्यौ अप १, ३, १; ३३, ११.

२फल्गुनी^१- -नी

आपृश्रौ ८, २१, ४; वाधूश्रौ ३,
६९: ३०; हिश्रौ ५, ६, ६; विध
९०, ७; गौध १६, ३७; -न्याः
आश्रौ ९, ३, २; आपृश्रौ; -न्याम्
आश्रौ २, १४, ३; शाश्रौ ३, ८,
१ × ×; काश्रौ; -न्यै बौश्रौ १२,
१: १ × ×; वाधूश्रौ ३, ६९: २.

फल्गुनी-पक्ष- -क्षस्य

लाश्रौ ९, १, २.

फल्गुनीपक्ष-यज

नीय- -ये काश्रौ १५, ३, ३५.

फल्गुनी-प्रयोग^३-

-नास्य शाश्रौ ३, १४-१५, १.

फल्गुनी-शुक्ल-

-क्लस्य काश्रौ २०, १, २.

फल्गुनी-समापन^३-

-नान् वाश्रौ १, ७, ५, ९.

फाल्गुन्यु(नी-उ)द्दह-

ष्ट^२- -ष्टे काश्रौ ५, ११, १६.

फाल्गुन्यु(नी-उ)पव-

सथ^१- -थे काश्रौ ५, ११, १८.

२फल्गुन^३- पा

४, २, २३; -नस्य शाश्रौ १३,

१९, ४; -ने बौगृ २, ११, ३.

फाल्गुना(न-आ)

दि- -दि आश्रौ ८, १४, २१.

फाल्गुना(न-आ)

रम्भण^३- -णान् वाश्रौ १, ७, ९^क

फाल्गुना(न-आ)

षाढ-कार्तिक-पूर्वपक्ष- -क्षेषु

अप २०, १, २.

फाल्गुना(न-आ)

ष्टमी- -न्याम् कप्र २, ७, २३.

फाल्गुनिक- पा ४, २,

२३; -कस्य काश्रौसं २९: १४^०.

२फल्गुन- पा ४, ३, ३४.

२फल्गुनी-पावा ४, ३, ३४

फल्गुनी-द्वितय- -यस्य अशां

६, १.

फल्गुनी-पूर्णमास^३- -से

आपृश्रौ ५, ३, १६^१.

फल्गुनी-प्रभृति- -तीनि

शाश्रौ २, १, ९.

फल्गुनी-प्रोष्ठपदा- -दानाम्

पा १, २, ६०.

a) बस. । b) वैप १ द्र. । c) = पूर्वा-फल्गुनी- (नक्षत्र-) । d) = तीर्थ-विशेष- । e) पूष. = वृक्ष-
विशेष- । f) वैप १, २२५८ k द्र. । g) पाभे. वैप १, २२५८ l द्र. । h) पाभे. वैप १, २२५८ n द्र. ।
i) ण्योः इति पाठः? यनि. शोधः । j) स्वार्थे षण् प्र. । k) फ० इति आन. । l) = पौर्णमासी- । m) = मास-
विशेष- । n) पाठः? ण्युन्या इति शोधः (तु. प्रकरणम्) । o) विप. (घृत-) । p) षस. उप. = चन्द्र-दर्शन-
(फाल्गुनशुक्लप्रतिपद्-). बस. । q) षस. उप. = प्राकालीनाऽह्न- (फाल्गुनशुक्लनवतुर्दशी-). ।

फल्गुनी-यु(त>)ता- ता
विध ९०,७.
फ-सवर्ण- फ-द्र.
फाणित-, फाण्ट- प्रभृ. ✓फण् द्र.
१फाल^१- लम् पागृ २, १३, ४; कागृ
७१, ४; कौस् २०, ५^२†; अशां
१९, ८; -फाला^२ आश्रौ २, २०,
४; शाश्रौ; -लेन कौस् २४, २;
३३, ९; बौध ३, २, ३.
फाल-कृष्ट, घा^३- -ष्टम् वाध २, ३; बौध
२, ६, १७; गौध ३, ३२; -घायाम्
विध ६०, ४; -ष्टे अप १०, १, २१.
फाल-चमस^४- से कौस् ३५, ४.
फाला(ल-आ)कृ(ष्ट>)घा- -ष्टमि:
आमिगृ २, ७, १० : ७.
२फाल^५->फाली- पागम ५८.
फालि- पाठभो २, १, १६६.
फाली > फाली ✓कृ > फाली-
करण^६- -?णान्^७ शाश्रौ १३, ३, ५.
फालेय- फलि- द्र.
१-२फाल्गुन- ✓*फल्गु द्र.
३फाल्गुन^८- नानि आश्रौ ६, ८,
५; १२; आपश्रौ १४, २४, १२;
बौश्रौ १४, २९ : १७; १८; २४,
१, १६; हिश्रौ १५, ६, १५^२.
?फाल्गुन-पा(च>)ची^९- -चीभ्याम्
बौश्रौ १८, ९:२३; -च्यौ बौश्रौ
१८, ८ : ७.
फाल्गुनिक-, नी- प्रभृ. ✓*फल्गु द्र.
✓फुल् (= ✓फल्) > फुल- पा ८,
२, २५.

फौलि^१- पावा ८, २, ४२.
फुलवत्- पा ८, २, ५५.
✓फुल् पाधा. तुदा. पर. संवलने.
✓फुल्ल^२ पाधा. भ्वा. पर. विकसने.
फुल- ✓फल् द्र.
फेन^३- पाठ ३, ३; पाग ३, १, १२^४; १३
५, २, ९७^५; १००^६; -नः लाश्रौ
८, ३, १४; -नम् काश्रौ १६, ३,
१६; आमिगृ ३, ३, २ : ६; -नान्
कौस् ४६, २८†; -नेन साश्र १,
२११†; भाशि ५८†; याशि २,
६५†; -नेषु कौस् ४६, २८.
फेन-प^७- -पः वैध १, ७, २; ८.
फेन-प्र(ख्या>)ख्य^८- -ख्यः कप्र
३, ३, ६.
फेन-बुदबुद- -द्वैः शंघ ६१.
फेन-ल-, फेन-वत्- पा ५, २, ९७;
९९.
✓फेनाय पा, पावा ३, १, १२; १३.
फेनिल- पा ५, २, ९९; १००.
✓फेल् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
फौलि- ✓फल् > फुल- द्र.
ब
ब^१->ब-कार- -रः दंवि २, ११; -रे
दंवि १, २.
✓बंह > बंह- > बंहिष्ठ^२- पा ६, ४,
१५७; फि ७; -ष्टः निघ ३,
३†; -†ष्टम् आश्रौ २ १४, ११;
३, ८, १; शाश्रौ ८, १२, ८.
१वक^३- (> बाकायन- पा.) पाग ४, १,

९९.
२वक^४- -कः मागृ २, १४, २९.
३वक^५- फि १४; -कः आमिगृ २, ५,
२ : १; विध ४४, ३५; -कम्
शंघ ४२६; -कः अप ७०^६, ६,
४; -कानाम् बौगृ १, ८ : ८;
-कैः अप ७०^६, ६, १०.
बक-बलाका-हंस-प्लव-चक्रवाक-
कारण्डव-गृहचक्र-कपोत-पारा-
वत-पाण्डुसुक-सारिका-सारस-
दिट्ठिभो(भ-उ)ल्ल-कङ्क-रक्तपाद-
चाष-भास-वायस-कौकिल-शाङ्-
ववलि-कुक्कुट-हारीत-मक्षण-
गे शंघ ४२३.
बक-वत् अप ६४, ५, ३.
बक-व्रत- > °त-पर^७- -रः विध
९३, ९.
बकव्रतिक- -कै विध ९३, ७.
बकव्रतिन्- -तिनः विध ९३, १०
४वक- (> कोय-) नैवाकव- दि. द्र.
वकनख^८- > °ख- गुदपरिणद्ध-, °ख-
श्वगुदप^९ पा, पाग २, ४, ६८.
वकसकथ^{१०}- पा, पाग २, ४, ६३.
बकुर^{११}- -रः अप ४८, ११५†; निघ
४, ३†; या ६, २५†; -रेण या
६, २६†.
बकुल^{१२}- (> प्लित- पा.) पाग ५, २, ३६
बकोट- पाठभो २, २, ११२.
बज^{१३}- -जः दंवि २, ८†.
बज-पिङ्ग- -ङ्गौ अशां २१, ४.
१बजाबोजा^{१४}- -जा हिगृ २, ३, ७†.

a) वैप १ द्र. । b) पामे. वैप १, २२५८† द्र. । c) मलो. कस. । d) = खण्ड- । व्यु. ? । e) = फलीकरण- ।
f) पाठः ? ण्वात् इति C. (तु. k [शांत्रा १८, १२ मूको. अमु।] । g) = तृण-विशेष- इति रुद्रदत्तः (तु. P.W. प्रभृ.),
= श्रोषधि- इति नारायणः । h) विप. । अर्थः ? । पू. = वृक्ष- इति सूची ? । i) व्यप. । j) ✓फुल् इति [पक्षे]
B.P.G. । k) तु. पागम. । l) = [सपत्नीक-] वानप्रस्थ- । उप. < ✓पा [पाने] । m) बस. । n) = वर्ष-
विशेष- । o) = देवता-विशेष- । p) = जलचर-विशेष- । q) पाका. पाठः । r) वक्रसकथ-, वकसस्थ- इति
पासि. । s) = पुष्प-विशेष- । व्यु. ? । t) नाप. ([? बाला महरणकृन्-] राक्षसी-) । व्यु. ? । *स्वज- (बाल-) †
अपभृ(त्य >) त्या- > *स्वजाऽपभृत्या- > नैप्र. यनि. इति कृत्वा तत्परः शोधः (तु. पृ ९६०) ।

वट् वट् द्र.

वट्, वट्, वट्, वट् आश्रौ ६, ५, २, ७, ६;
 १४, १८; ७, ४, ३, ९, ५, २;
 शाश्रौ २, २८, १३; ११, १३,
 २७; ३०; १२, ९, १५; १३, ८,
 २; १८, २३, १४; काश्रौ २५,
 १३, ६; आपश्रौ ४, ४, ४; १३,
 ४, २; १२, ४; १४, १८, १०; १५,
 १०, ११^d; १६, १७, १७; १७,
 १३, ६; वौश्रौ ९, ९: २४; १०:
 १९^d; २१; १०, ५०: १४^d;
 १३, २४: १२; १४, २५: २६;
 माश्रौ ११, १०, ११^d; माश्रौ ६,
 २, ४, १७; १८; ५, ३, २^d; वाश्रौ १,
 १, २, १६; २, २, ३, २१; वैश्रौ
 १३, १२: १७^d; १६, १४: १: ७;
 १८, १४: ३०; १९, ६: ६९;
 हिश्रौ ६, १, ५१; ९, ३, ५०; ११,
 ६, ३१; १२, ४, ७; १५, ५, १२;
 द्राश्रौ ८, २, ३, २; लाश्रौ ४, ६,
 २३; वैताश्रौ ३३, ६; १६;
 क्षुस् १, १०: ८; आपमं २, १८,
 १; सु २२, १; हिश्रु २, १७, ९; अप
 ४८, ७१; ऋश्रु २, १, १४१; ५,
 ६७; ८४; वृद्वै ५, ८८; शुश्रु ३,
 १९९; साश्रु १, २७६; अश्रु १३,
 २; २०, ५८; निघ ३, १०;
 या ११, ३७^f; माशि १४, ३;
 दंवि २, २; उनिस् ७: १४; १६;
 पाग १, ४, ५७.

बटव- पाउमो २, १, ३५.

बठर^{em}- पाग २, ३, ३८.

बडभीकार- वडभीका- द्र.

वडवा- वडवा- द्र.

वडा [ला^g] आश्रौ ६, ४, १०^f.

वण् पाधा. भ्वा. पर. शब्दे.

वण्ड, ण्डा^b- पाउ १, ११४; -ण्ड:

शाश्रौ १६, १८, १८; -ण्डा:
 आपश्रौ २२, ४, २४; हिश्रौ १७,
 २, २८.

वण्ड-खलति- ती शाश्रौ १७, ६, १.

वित^b शाश्रौ १५, ५, १३; अश्रु १८,
 १; या ६, २७^d; २८; दंवि २,
 ५; ङ्पाग १, १, ३७; ४, ५७.

वित^b- त- अश्रु १८, १; निघ ४, ३;
 या ६, २८^f; दंवि २, ५.

वट् पाधा. भ्वा. पर. स्थैर्यै.

शिवद^b- पाग ४, १, ४१; ५, २, २४;
 ६, २, ८७; -रेण वैश्रु २, १४: ५;
 -रै: वैश्रौ ३, ८: ८; हिश्रौ १,
 ३, ५३.

बदरी- पाउमो २, ३, ३८;

पा ४, १, ४१; पाग ६, २, ८५.

बदरी-शाखा- खा कप्र

३, ९, १०.

बादर- र- आपग ११, १६;

आपध १, २, ३८; हिघ १, १,

६९; -रम् बौश्रौ १७, ३९: ४;

४१: ५; आपग.

बादर-मणि- णिम् आमिग

१, ३, १: ४; ३: १८.

बदर-कुण- पा ५, २, २४.

बदर-प्रस्थ- पा ६, २, ८७.

बदर-सक्तु- क्तुमि: आपश्रौ १९,

२, १०; बौश्रौ १७, ३४: ११;

माश्रौ ५, २, ११, १६; वाश्रौ ३,

२, ७, २१; हिश्रौ १३, ८, २३^d;

-क्तूर वैश्रौ ११, ४: १.

बदरा(र-आ)दि-फल-मि(श्र >)

श्रा- -श्रा: अप ३०^d, १, १७.

बदर^l- पाग ४, १, ९९.

बादरायण- पा ४, १, ९९; -ण:

हिश्रौ १६, ७, २३; २२, ४, २०;

हिश्रु १, २५, ४; मीस् ५, २,

१९××; -णस्य मीस् १, १, ५;

-णा: बौश्रौप्र २०: २.

बादरायणि^l- णि: अश्रु ४, ३७; ७,

५९; १०९.

बादरि- रि: बौश्रौप्र ४८: ७;

बौश्रु १, ४, ४४^f; अप ३०^d, १,

३; मीस् ३, १, ३; ६, १, २७; ८,

३, ६; ९, २, ३३.

बद्ध-, वध् द्र.

श्वद्धक->बाद्धकि^l- (> कायन-

पा.) पाग २, ४, ६१.

श्वद्ध-क, बद्ध्वा, बद्धधान- वध्

द्र.

बद्ध^h- द्रम् वाध्श्रौ ३, २४: ११;

१२^d; १३^d; क्षुस् २, ९: २०;

-वृद्वानि वाध्श्रौ ३, २४: ११;

दंवि २, ५^d; -द्वे दंवि २, ५^d.

वित्^l- द्वा^m द्राश्रौ १, १, २५;

लाश्रौ १, १, २३.

वध्, न्य् पाधा. भ्वा. आत्म., क्वा.

पर. बन्धने, बध्नाते काश्रौ ७,

३, २२××; बौश्रौ; बध्नाति

काश्रौ ४, २, १५; ८, १; आपश्रौ;

बध्नाते: वैश्रौ १४, ६: १२;

बध्नन्ति शाश्रौ १७, ३, ८××;

a) भाश्रौ. माश्रौ. वैश्रौ. शुश्रु. प्रश्रु. पाठः। b) वैप १ द्र.। c) ऋश्रु. पाठः। d) पाभे. वैप १, ८२५ & द्र.। हिश्रौ २४, ४, ९ वषट् इति विशेषः। e) वृ. पागम.। f) वट- इति भाण्डा. पाका.। g) आन. पाठः। h) = विकलाङ्गः। i) व्यप.। j) फिज् प्र. उत्सं. (पा ४, १, १५४)। k) वैप १, २२६० C द्र.। l) वैप २, ३खं. द्र.। m) सवा. आपश्रौ १०, १, ५ प्रश्रु. पद्वा इति पाभे.। x) या १०, ४ पा ३, १, ६; ४, ४१ परामृष्टः द्र.।

आपश्रौ; ऋब्रामि आपश्रौ १९,
२०, १५; बौश्रौ १३, २२ : ९;
माश्रौ; अश्र १, ३५^a; ब्रामात
अश्र १९, ४६^b; बध्ने वाधूश्रौ
४, ९ : २; ३; ऋब्रामात आपश्रौ
१०, २२, १००; वैश्रौ; ऋब्रामि
द्राश्रौ १०, २, ८; लाश्रौ ३,
१०, ७; ऋब्रामात आपश्रौ २,
१, ६; २०, ३, ४; काश्रौ; ऋब्र-
भ्रामि^d बौश्रौ १, २० : २८;
आपमं १, ५, १७; ऋब्रामात
शाश्रौ १६, ९, १०; काश्रौ ३, ८,
२; आपमं; ऋब्रामात शाश्रौ १६,
९, १३^c; अश्र १०, ९; अश्रान्
अश्र १, ३५; ब्रामात वाधूश्रौ ३,
१०१ : ४; आश्र ३, ८, १६;
आश्रिण २, १, ३ : १९^e; हिण २,
३, ७^f; गोण ४, ९, ८; ब्रामायात्
कौण ५, ३, २४; वैण २, ११ : ८ x x,
अप; ब्रामियुः लाश्रौ ९, ९, ५.
बधिये दंवि २, २^g; ऋब्राम्यामि
आपश्रौ २०, ३, ३; काश्रौ २०,
१, २५; बौश्रौ १५, ४ : १२;
हिश्रौ १४, १, २७.
बध्यते आपमं १, ६, ८^h; अप
६८, ५, ४; बध्यन्ते आपश्रौ २४,
२, २७; वाधूश्रौ ४, १३ : ४;
ऋब्राम्याताम् वौण १, ५, १०; काण
३३, ४; बध्यन्ताम् आश्रिण ३,
८, २ : ७ⁱ.
बन्धयति वैण २, ९ : ११; कौसू
६९, २; बन्धयामि वैण २, ११ :
७^j; बन्धयेत् वैण ६, ३ : ३;
आपध २, २७, १८.

बीभत्सन्ते काश्रौ २५, ५, २५;
वाध ५, ९; बीभत्सेत काश्रौ २५,
४, ९; बीभत्सेयाताम् द्राश्रौ ४,
४, २१; लाश्रौ २, ४, १२.
बद्ध, द्वा- -द्धः आश्रौ ४, ११, ६;
शाश्रौ १२, १६, १^k; आपश्रौ;
ऋया २, २८; १३, ७; -द्धम्
आपश्रौ २०, ३, ६; बौश्रौ ६, २४ :
१६; हिश्रौ; या १०, ३२^l;
-द्वा आपश्रौ १९, २७, ४; हिश्रौ
२२, ६, १७; बौपि १, ३ : २; वृदे
७, १३५; -द्वाः वाधूश्रौ ४, १३ :
३; द्राश्रौ; या १०, ४४; -ऋदान्
आपश्रौ ६, २२, १; या ४, ३;
-द्धानि सु २६, ४; -द्दाम् हिश्रौ
७, २, २३; बौपि १, ३ : २; हिपि
१, २ : ९; -द्दाय आपश्रौ २०,
७, ८; हिश्रौ १४, २, २१; कौसू
५२, ४; -द्धे आश्र १, ७, १६.
बद्ध-क^m -कम् दंवि १, १२ⁿ.
बद्ध-कौतुक, का^o -कः आश्रिण
१, ६, १ : ८; -काम् आश्रिण १,
६, १ : ११.
बद्ध-जिह्व^p -द्धः माशि १५, २;
पाशि २७; शैशि १६३; याशि
१, २७; नाशि २, ८, १२.
बद्ध-मेख(ला >)ख^q -लम्
कौसू ५६, ८.
बद्ध-व(त्स >)त्सा^r -त्साम्
गोण ३, ६, ७.
बद्ध-वीर^s -राः बौश्रौ १३,
२२ : १०^t.
बद्ध-शि(खा >)ख^u -खः
आश्रिण २, ६, १ : २; -खम्

बौण २, ५, ७; -खाः बौपि ३, ४,
१७; -खेन कण १, १, ४.
बद्ध-श्रोत्र^v -त्रः या १०, ४१.
बद्ध-हित- -तयोः शुप्रा २, ४४.
बद्धा-भक्षयति-नेय- -येषु पा ५,
२, ९.
बद्ध्वा आश्रौ ८, १४, १२; काश्रौ.
ऋब्रद्बवान^w -नः शाश्रौ ६, ६, ६;
-नान् या १०, ९; ऋप्रा ४, ६६.
बधिर^x -पाठ १, ५१; पाण २, २,
३८; ५, १, १२३; -रः ऋआपश्रौ
१२, ५, ६; १६, ८, १४; आश्रिण;
या १०, ४१^y; -रस्य या १०,
४१; नाशि २, ८, १७; -रा या
१०, ४१^z; -राः विध ४५,
३३.
बाधिर्य- पा ५, १, १२३;
-र्यम् बौश्रौ २, ५ : ६^{aa}.
बधिर-ता-, बधिर-त्व-, बधिरि-
मन्- पा ५, १, १२३.
बधत्- -धत् आश्रौ ३, ६, १७;
शाश्रौ ६, १, १६.
बध्यत्- -ध्यतः कौसू १३७, १६^{ab};
वृदे ५, १३४.
ऋब्रध्यमान- -नम् आपश्रौ ७, १५,
६; बौश्रौ ४, ६ : २४; माश्रौ;
-नाः बौश्रौ ४, ६ : २४; वैश्रौ
१०, १२ : ५; हिश्रौ ४, ३, ४३;
-नान् माश्रौ ५, २, १३, १; -नौ
माश्रौ ५, २, १३, १.
बन्ध^c -पाण ६, १, १६०; -न्धम्
वैण ६, ११ : ३; अप ३६, २, ३;
शुप्रा ३, १२९^d; -न्धात् कौसू
३९, १५; -न्धाताम् सुध ५७^e;

- a) पाभे. वैप १, ६६८ f द्र.। b) पाभे. वैप १, २२६० i द्र.। c) पाभे. वैप १, २२६० j द्र.।
d) पाभे. वैप १, २२६० l द्र.। e) पाभे. वैप २, ३खं. अश्रान्तात् माश्र १३, ५, ४, ४ टि. द्र.। f) पाभे. वैप २,
३खं. अश्रान्तात् माश्र १३, ५, ४, ४ टि. द्र.। g) पाभे. पृ १०००० o द्र.। h) वैप १ द्र.। i) वस. ४
j) पाठः ? मध्यतः इति शोधः (तु. वैप १, २४२७ j)। k) पाभे. वैप १, १९७१ p द्र.। l) नुटितः पाठः ।

-न्धे पा ६, ३, १३; -कन्धेषु
आपमं १, ६, ८; कागृ ३१, ४;
बौगृ १, ५, १०.

बन्धथ- पाठभो २, २, १५८.

बन्धन- -नम् काश्रौस ३५ : १४;
कौसु ८९, १०^क; दंवि २, ७^क;
पा, पावा ५, २, ७९; -कान्
आपश्रौ ८, १८, ३; बौश्रौ; या
१४, ३५^क; -ने आमिगृ २, १,
१ : १६^क; हिगृ २, २, ७^क; पा
१, ४, ७८; ४, ४, ९६; -नैः भागृ
१, २, २२ : १७^क.

बन्धन-पायना(न-आ)चमन-प्रदे-
हन- -नम् कौसु ३१, २६.

बन्धन-पायना(न-आ)चमन-
> न-शङ्कुधानज्वाल- -लेन
कौसु २७, २९.

बन्धन-बध-क्लेश- -शान् विध
५१, ६९.

बन्धन-रक्षिन्^१ -क्षिणः शंघ
४३४.

बन्धन-स्थ- -स्थाः अप १९^१,
५, ६.

बन्धना(न-आ)गार^२ -रम् विध
६३, २३.

१ बन्धु^३ - पाठ १, १०; पाग ५, ४,
३८; -न्धु जैगृ २, २ : ९^६; दंवि २,
१०^क; -न्धुः काश्रौ ७, ६, १८^क;
आपश्रौ; कया ४, २१^क; ६, ७;
दंवि १, ८^क; -न्धुनि पा ५, ४,
९; ६, १, १४; २, १०९; -न्धुभिः
विध २०, ३७; -न्धुन्यः वैगृ ३,
१ : ८; -न्धुम् दंवि २, ५^क;

-न्धू आपश्रौ १, ९, ६^{१७};
-न्धून् वाध १५, ६; १९, ३२;
बौध; -कन्धोः आपश्रौ २४, ५,
२; हिश्रौ २१, ३, २.

बान्धव-पा ५, ४, ३८; -वः
मागृ १, ७, ६; ७; विध २०,
३९; -वम् भागृ १, ११ : १; ३;
वागृ १०, ५; विध १९, ६; -वाः
आपश्रौ ९, ११, २३; आमिगृ;
-वान् वैगृ ५, १ : ४; विध २०,
३८; -वानाम् आमिगृ ३, ७, ४ :
१; शंघ ४५५; विध २०, ३२;
-वे भागृ १, ११ : ३; वागृ १०, ६;
-वेन वृदे १, ७; -वैः वैगृ २,
१७ : ३; ३, २ : १०; कप्र.

बान्धव-संनिधि- -धौ वैगृ
६, २ : ९; १०; १४ : ४.

बन्धु-गामिन्- -मि विध १७,
१०.

बन्धु-ज्ञान- -ने कागृउ ३९ : १४.

बन्धु-ज्यानि- -निम् वैश्रौ १,
१९ : २.

बन्धु-ता- पा ४, २, ४३.

बन्धु-दत्त- -त्तम् विध १७, १८.

बन्धु-दायाद- -दाः शंघ २९१.

बन्धु-नामन्- -म माश्रौ १, १,
२, २२^६; -मानि माश्रौ १, ९, १६.

बन्धु-पक्ष-क्षय- -न्यम् आज्यो
७, १०.
बन्धु-पति- (> बान्धुपत- पा.)
पाग ४, १, ८४.
बन्धु-परिक्लेश- -शम् आज्यो
७, १०.

बन्धु-मत्- -मन्तः वाधुश्रौ ४,
१८ : २४; २७; जैश्रौ १ : १२;
-मन्तम् जैश्रौ १ : १३; कौसु
५५, ११; १२; -मान् वाधुश्रौ
४, १८ : २०; २१; ३१; हिश्रौ
७, ३, २१.

बन्धुमती- -ती हिश्रौ ७,
२, १६; -तीम् मागृ १, ७, ८;
वागृ १०, ८; -त्यः चाञ्च ४० : ६.
बन्धु-मैत्री^१ - (> बान्धुमैत्रिक-
पावा.) पावाग ४, ४, १.

बन्धु-शील-लक्षण-संपन्न, वा-
-न्नम् आपगृ ३, १९; -न्नम्
आपगृ ३, १८.

बन्धु-शील-श्रुता(त-आ)रोग्य-
-न्याणि आपध २, ११, १७; हिध
२, ४, ३२.

बन्धु-संनिकृष्ट- -ष्टम् वाध १५,
६.

१ बन्धुर^१ - पाठ १, ४१; -रम् दंवि
२, ४^क.

बन्ध्य- -न्ध्यः अप ३७, ९, ९; अशां
२५, १^क.

१ वाबध्यमान- -नान् या १०, ९.

१ वीभत्स, त्सा^१ - त्साः आपश्रौ
१०, १४, १; बौश्रौ २८, ९ : १६;
वैश्रौ २१, २ : ३; -त्साभ्यः
काश्रौ २५, ११, २७; -त्से आश्रौ
३, ११, २१; -त्सैः आश्रौ ३,
१०, २०.

वीभत्समान- -नः आपध २, ५, ४;
हिध २, १, ८४.

१ वीभत्सु- -त्सवः कौसु ७३, १८;

a) भाप., नाप. । b) पाभे. वैप २, ३खं. पड्वींशः मंत्रा १, ३, १० टि. द्र. । c) पाठः ? षमनम्,

शङ्कु^० इति द्वे पदे (तु. सा [शौ ३, ७ भू.] केशवश्च ; वैतु. दारिलः यनि. समस्तमितीव) । d) पूष. = कारा- ।

e) = कारा- । f) वैप १ द्र. । g) सप्र. बन्धु, अज्ञानतः <> बन्धून् विद्यात् <> बन्धुनाम न विदितम्

<> बन्धुनामानि न विन्देत इति पाभे. । h) पाभे. वैप १, ८७८ f द्र. । i) बन्धून् इति C. शोधः ? ।

j) तु. पागम. । k) कर्तारि अच् प्र. ।

बोध १, ५, ६२.
 बौध (त्य्य >) त्त्या^१ - न्त्या: बौश्रौ
 १९, १०: ६२.
 बधक^१ > १बाधक, का^१ - क: शांश्रौ
 १४, २२, १४; काश्रौ २२, ३, ९;
 आपश्रौ २२, ४, १५; हिश्रौ १७,
 २, २१; -कम् बौश्रौ १४, १६:
 १; आश्रित्य २, ५, ५: १^१;
 कौस् ३६, ३६; -का: आश्रित्य
 २, ५, ५: २^१; -कान् बौश्रौ १४,
 १६: २; ३; कौस् ४९, २१;
 -कानि बौश्रौ १८, ३६: २;
 -कायाम् आश्रित्य २, ५, ५: ३;
 -के कौस् १६, १९^१; -केन बौश्रौ
 १४, १६: ५; ६; आश्रित्य २, ५, ५:
 २^१; कौस् ४७, ४८: ११६, ६.
 बाधकी - की अप्राय २, ९;
 -कीम् कौस् ४७, १३; -क्याम्
 बौश्रौ १४, १६: ६.
 बाधक-दण्ड- -ण्डानि कौस् १६,
 १७.
 बाधिर- पाठवृ ४, १७३.
 १बाधिर- √बध् द्र.
 २बाधिर- (> बाधिरक- पा.) पाग ४,
 २, ८०.
 बाधिरक^१- पा, पाग २, ४, ६९.
 बाधिर-ता- -रन्व- √बध् द्र.
 बाधिरिका^१- (> बाधिरिक- पा.)
 पाग ४, १, ११२.
 बाधिरिमन्-, बधन्त- √बध् द्र.
 बध्न्य- -ध्न्यम् दंवि १, १०^१.

बध्यत्- प्रभृ. √बध् द्र.
 बन्धक^१- पाग ४, १, ४१^१.
 बन्धकी^१- पाग २, १, ७०; ४,
 १, १२३; १२६; पा ४, १, ४१.
 बान्धकित्य- पा ४, १,
 १२६.
 बान्धकेय- पा ४, १, १२३.
 बान्धकिक^१- (> कायन- पा.)
 पाग २, ४, ६१.
 बन्धय-, बन्धन- प्रभृ. √बध्, द्र.
 बन्धा (> बन्धा/√कृ पा.) पाग १,
 ४, ६१.
 बन्धा^१- (> बान्धायनि- पा.) पाग
 ४, १, १५४^१.
 १बन्धु- √बध् द्र.
 २बन्धु^१- -न्धु: निघ २, १०^१.
 ३बन्धु^१- पाग ४, १, १५४; -न्धु: ऋअ
 २, ५, २४; शुअ १, १९२××;
 साअ १, ४४८; -न्धो: चाअ
 ३०: १९.
 बान्धवायनि- पा ४, १, १५४.
 बन्धु-प्रभृति- -त्य: वृदे ३, ५९;
 -तीम् वृदे ७, ८६.
 बन्ध्वा (न्धु-आ)दि- -दीन् ऋअ २,
 १०, ५६.
 ४बन्धु- > २बन्धु-र- पागम ४३१.
 बन्धुका- (> कित्- पा.) पाग ४,
 २, ८०.
 बन्धु-गामिन्- √बध् द्र.
 बन्धुजीव^१- > एव-क^० - > क-वत्
 अप ५८, १, ७.

बन्धुजीवा (व-अ) घ (र >) रा^१-
 -राम् विध १, २२.
 बन्धु-ज्ञान- प्रभृ. १बन्धुर- √बध्
 द्र.
 बन्धुक^१- पाठ ४, ४१.
 बन्धुक-निर्गुण्डी-शिशु-तित्त्व-
 तित्दुक-ज- -जम् विध ६१,
 ३.
 बन्धूर- पाठवृ १, ४१.
 बन्ध्य- √बध् द्र.
 बप्सत्- √भस् द्र.
 १^१बभु- -भु: हिश्रौ ६, ७, ८; हिट् १,
 २९, १.
 बभूवस्-, बभूवुषी- √भू द्र.
 बभ्रि- √भृ द्र.
 १बभ्रु, भू^१- पाठ १, २२; पाग ५, २,
 १००; ३, १०८; -^१भ्रवः
 आपश्रौ २०, १४, ७^१; हिश्रौ १४,
 ३, १६^१; वैताश्रौ; -^१भ्रवे आश्रौ
 ३, ८, १; निस् ९, ३: ३३; अप
 ६६, ३, २; साअ २, ७९४; -भ्रु
 ऋप्रा १७, १४; -भ्रु: आश्रौ ८,
 ७, २४^१; शांश्रौ १०, ११, ८^१;
 काश्रौ १५, २, १५^१; ९, ५^१;
 आपश्रौ ६, ३१, ५^१; २२, १५,
 ३; वाधूश्रौ ४, ९६: १२^१;
 वाश्रौ १, ५, ५, २^१; ३, ३, १, ३०^१;
 ४, ३, १७^१; हिश्रौ; भाए २, ३२:
 १२^१; अप ४०, ५, १^१; या १२,
 ४०^१; -^१भ्रुणा कौस् ४६, ५५;
 अप १, ३६, ७; -भ्रुस् आपश्रौ

a) विप. (रअप्-तु. तैआ १, २६, ७)। b) = वृक्ष-विशेष-। c) विकारार्थे अण् प्र. (पा ४, ३, १३७ [वैतु. P.W. प्रभृ. < २बाधक- इति])। d) बाधः इति पाठः? यनि. शोषः (तु. बौश्रौ)। e) कः इति पाठः? यनि. शोषः। f) = [बाधक-प्रज्वालित-] अग्नि- (तु. दारितः)। g) अबाध^० इति पाठः? यनि. शोषः (तु. बौश्रौ)। h) व्यप.। i) व्यु. ? < √बन्ध् इति अभा. शक.। j) तु. पागम.। k) = तैविरिणी-। l) बान्धकिक- इति पाका.। m) धन-नामन्-। n) = [रक्तवर्ण-] पुष्प-। व्यु. ?। < बन्धु- + जीव- इति अभा.। o) स्वार्थे प्र.। p) वस. उप. = अथरोष्ठ-। q) पाभे. वैप १, २२७०। द्र.। r) वैप १ द्र.। s) पाभे. वैप १, २२६३। द्र.। t) नाप. (गो-).। u) = देवता-।

१४,६,१३, काठश्रौ ८३; बौश्रौ;
-भ्रुवे बौश्रौ १४, २१ : २९^०;
-भ्रू^० या ४, १५^०; -भ्रूः काश्रौ
७, ६, १२^०; माश्रौ १, ५, २, १५^०;
-भ्रूणाम् या ९, २८^०; -भ्रूणि
वाधुश्रौ ३, १०१ : ३; -भ्रून्
आपश्रौ २०, १४, १३^०; हिश्रौ
१४, ३, १८^०; अप ६३, १, २;
-भ्रूम्^१ वाधुश्रौ ४, ३५ : २;
-भ्रूः कौसू २६, ४३; अश्र २,
९; -भ्रुवोः या ४, १५.
बाभ्रुक- पा ५, ३, १०८.
बभ्रु-क(र्ण) > णी- ण्याम् बौश्रौ
२०, २५ : ५^०.
बभ्रु-तूल^०- लानि माश्रौ ३, ६, ४^०.
भ्रु-नीकाश- शाः शुप्रा ३, ९०;
१२९.
बभ्रु-पिङ्गल^०- लः अश्र ६, १४.
बभ्रु-पिपीलिका- कानाम् कौसू
११६, ३.
बभ्रु-मत्- पा ५, २, १००.
बभ्रु-मूत्र- त्रेण आपश्र २३, ४^०;
भाग २, २८ : ५.
भ्रु-श्लो(मत्) > म्नी^०- स्त्री
आपश्रौ १०, २२, ४; हिश्रौ ७,
३, १६.
बभ्रु-व(स्) > स्सा^१- स्सायै बौश्रौ
१४, २१ : २९.
बभ्रु-वर्ण > णी- णां नाम् या
९, २८.
बभ्रु-श- पा ५, २, १००.

बभ्रु(भ्रू-भ्र)नूकाश^१- शान् आश्रौ
२०, १४, १३^०.
२बभ्रु^०- पाग ४, १, १०५; -भ्रुवे
आमिगृ १, २, २ : २२; बौगृ ३,
९, ५; भागृ ३, १० : ७; हिगृ २,
१९, ६; -भ्रुः ऋश्र २, ५, ३०;
-भ्रुम् वृदे ५, ३३.
बाभ्रव- > व-दानच्युत-, व-
शालङ्कायन- पा, पाग ६, २,
३७.
बाभ्रव्य- पा ४, १, १०५; १०६;
पाग ४, २, ५३; -व्यः ऋप्रा
११, ६५; -व्यम् कौगृ २, ५, ३;
शागृ ६, १, १; -व्याः बौश्रौप्र३१:
८; -व्याय आश्रौ १२, ९, १८.
बाभ्रव्यक- पा ४, २, ५३.
बभ्रु-बाभ्रव्य- न्यौ अप ४३, ४,
२०.
बभ्रुय भागृ २, ३२ : १२.
बभ्रुपव्यैः दंवि २, ४.
बभ्रव- > वस्वा-विश्ववयस्^०- पा, पाग
६, २, १४०^१; -यसोः चाश्र ४ :
५.
भ्रुमरि^०- रिः शाश्रौ ६, १२, २०;
बौश्रौ ६, २९ : १२; वैश्रौ १४,
१२ : १२; जैश्रौ १३ : १६; -०रे
बौश्रौ ६, १५ : १५^०.
ब्रियः दंवि २, २.
भ्रुवा, व^१ रासि, सी^०- सिसि हिश्रौ
१०, ७, ३^०; -सी आश्रौ ९, ४,
१७; आपश्रौ १८, १०, २३;

लाश्रौ ९, २, १५; -सीम् आपश्रौ
१४, १३, ३^०.
ब[.व]रु^०-पाग ३, ४, ७४^०; -रुः ऋश्र
२, १०, ९६; वृदे ६, ६६^०; -०रो
वृदे ६, ६३^०; -रोः शाश्रौ ११,
१४, २६; ऋश्र २, ८, २४^०.
ब[.व]र्कर^१- पाउभो २, ३, ६४; -रम्
काश्रौसं ३५ : १५; -रस्य काश्रौसं
३६ : १; वैश्रौ १३, ८ : १४^०;
हिश्रौ २४, २, १०^०; -राय^०
आश्रौ १५, ६, १६; भाश्रौ ११,
६, १२.
वर्करी(र-उ)त्सर्ग- र्गः काश्रौसं
३५ : १४.
वर्करी(र-उ)न्वयन- नम् काश्रौसं
३५ : १४.
बर्जह^० > बर्जह^०- ह्ये दंवि २, २^०.
वर्ब^० पाधा. भ्वा. पर. गतो.
वर्वर^०, वर्वर^०- पाउ २, १२१; पाउभो
२, ३, ३५; पाग २, २, ३८; ४, २,
८०^०; १२७^०; ३, ९३.
वार्बर- पा ४, ३, ९३.
वार्बरीय- पा ४, २, ८०.
वर्वर-ता- ता ऋप्रा १४, २६.
वर्वर-तीर^०- राः अप ५६, १, ५.
वर्वर^०- स्र्वेषु तैप्रा २, १८.
वर्ह^० पाधा. भ्वा. पर. प्राधान्ये; चुरा.
पर. हिंसायाम्, उभ. भाषायाम्.
१, २ वर्ह^०, वर्हणा- प्रम्. वृह
(बधा.)द्र.
बळ् बळ् द्र.

a) = घेतु-। b) वैप १ द्र.। c) भ्रुः इति चौसं.। d) विप. (शर्करा-। e) पाभे. पृ १३५२ & द्र.। f) णि इति ईसंस्कृतुः टि.। g) = ऋषि-विशेष-। h) भ्रू इति Winternitz.। i) बस.। j) तु. पाका.। लम्बावि^० इति भारुडा. प्रम्.। k) पाभे. वैप १, २२६४ q द्र.। l) हिश्रौ. पाठः। m) परस्परं पाभे.। n) व्यप.। o) अर्थः ?। वह- इति भारुडा.। p) व^० इति पाठः। q) पाउभो. काश्रौसं. पाठः। r) = छगल-। व्यु. ? < वृक् (आदाने) इति अभा.। s) नाप.। व्यु. ? < वृ इति पाउ., < वृ इति पाउभो., < वर्ब इति पाउवृ ३, १३१। t) पाउ. पाठः। u) वर्वर- इति पाका.। v) देश-विशेष-। w) वैप १, २२६५ g द्र.।

√बल् पाथा. भ्वा. पर. प्राणने धा-
न्यावरोधने च; जु. उम. प्राणने.

१बल्- पाग २,४, ३१; ५, २, १३६;
पागवा ५, २, ९७; -लस् आश्रौ
६, ३, १; १२, २; शाश्रौ ३, ७,
४^{१०}; १४, ५८, १; ६४, १; १८, ३,
२^{१०}; ११, २; ऋकाश्रौ ५, १२,
१२^०; १३, १^१×५; आश्रौ; या
३, ९^{१०}; ६, २३×५; -लस्य वृदे
२, ६; ३, ६२; निघ २, ९; या ५,
२५; ९, २५×५; -लात् सु ९,
२; वाघ १७, ७३; शंघ; या ६,
२८; ७, २^१; १०, १०; -लानि
या ४, ५; -ऋलाय शाश्रौ ४, ५,
१; आश्रौ; कागृ ४१, १३^१;
-ले बौश्रौ २६, ५ : २१; दंवि
१, ५^१; २, १०; -लेन हिश्रौ
१५, ५, ४^१; वैताश्रौ; ऋबोध २,
१, ३७^०; ४, २, ११^०; या ६, ८;
८, २×५.

बल-काम- -मः शाश्रौ १४, ५८, १;
६४, १^२; काश्रौ ४, १५, २३;
सुसु; -मस्य आपश्रौ ६, १५,
१; वाश्रौ १, ५, ३, १; वाश्रौ.

बल-कृति- -तिः अप ४८, १४०;
या ७, १०; ८, २; -त्या वृदे १,
८७.

बल-क्षोम- -भः अप ६३, ३, १०.

बल-(ज>)जा^१- -जायाम् आपश्रौ
३, ४, ८; हिश्रौ २, ३, ४९.

१बल्-द^१- -०द आपश्रौ ५, २४, ४;
माश्रौ ५, १६, १; माश्रौ १, ५,

६, २; वाश्रौ १, ४, ४, ४७; हिश्रौ
३, ५, २५.

बल-दा^१- -दाः दंवि १, ६^१.

बल-दावन्^१- -वा कौसू ७२, १८^{१०}.

बल-धन- -नयोः या ८, २.

बल-धा- -धा(१धाः^१) जैगृ १, २ :
१६^१.

बल-नामन्- -म या २, २४; ९, २५;
-मानि निघ २, ९; या ३, ९.

बल-पति^१- -तिः काश्रौ ५, १३,
१^१.

बल-पुष्टि-कर- -रम् वृदे ८, ३२.

बल-प्रती(क>)का^१- -का या १०,
२१.

बल-प्रवा(द>)दा^१- -दाः निस् ६,
११ : ८.

बल-भू- -भूः जैगृ १, २ : १६^१.

बल-वत्- पा ५, २, १३६; -वत्
लाश्रौ ७, १२, ५; विघ २७, ७;

शुप्रा १, १५९; -वतः कौसू ४,
१^१; -वता बौगृ ४, ४, ९;

-वत्सु या १, २०; -ऋवन्तिः
बौगृ २, ७, १६; हिगृ २, ८, २;

चाग्र १७ : ११^{१०}; -वन्तः अप
१८, ३, ११; -वन्तम् सु १४, २;

-वान् बौश्रौ ५, १३ : १६×५.
बलवती- -ती शंघ ३३३;

या ९, १०; आज्यो ७, १९;
-तीम् द्राश्रौ ३, २, १८; लाश्रौ

१, १०, १३.
बलवत्-त(म>)मा- -मम्
आपमं १, १५, १^{१०}.

बलवन्-तर- -रः वृदे ५, ९४;
पाप्रवा ५, १६; आज्यो ७, १९;

-रम् ऋप्रा १७, २१.

बलिष्ठ- -ष्टम् निस् ९, ७ : १५;
आश्रिय २, ७, ६ : ३७^२.

बलिष्ठ-त(म>)मा- -मया
वैताश्रौ २०, २१.

बलीयस्- -यः आपश्रौ २१, १,
२०; २४, ३, ४६; ४७; १४, ६;

बौश्रौ; आपमं २, २, ११^{१०}; शागृ
२, १, २९^{१०}; पागृ २, २, ११^{१०};

आश्रिय १, २, ४०^{१०}; बौगृ
२, ५, १६^{१०}; भागृ १, ६ :
११^{१०}; दागृ ५, ९^{१०}; -यसे

दंवि १, ७^१; -यांसः कौसू ७६,
२०; -यांसम् बौश्रौ २७, ११ :

१०; लुसृ २, ११ : ३१; -यांसि
माश्रौ ६, १६, ३; -यांसौ माश्रौ

६, १६, २; हिश्रौ ३, ८, ३८;
-यान् आश्रौ १, १, २२; ५, ६;

आपश्रौ.
बलीयसी- -सी आपघ

१, ४, ८; हिघ १, १, १२७;
-स्या वैताश्रौ २०, २१.

बलीयस्-त्व- -त्वम् पावा
३, १, ६७; ७, १, १.

बल-वर्तिन्- -र्ती या ९, १०.

बल-वित्त- -त्तयोः वृदे ३, ६१.

बल-विशेष- -षेण आपघ २, १०,
१६; हिघ २, ४, १६.

बल-सामर्थ्य- -र्थ्यम् याशि २,
१०७; नाशि २, ८, २१.

- a) वैप १ द्र. 1 b) पामे. वैप २, ३खं. बलम् माश ११, ४, ३, ७ टि. द्र. 1 c) पामे. वैप १ वनम्
कौ ३, १, ३ टि. द्र. 1 d) सपा. पागृ २, २, ११ बलीयः इति पामे. 1 e) पामे. वैप १, १६९६ ० द्र. 1
f) = धान्य-राशि- 1 = वंशबन्धन-रज्जु- इति (पक्षे) रुद्रदत्तः 1 g) पामे. वैप १, २२६६ १ द्र. 1 h) पाठः ? यनि.
शोघः (तु. ०.) 1 i) पामे. वैप २, ३खं. बलसात् मंत्रा २, ४, ६ टि. द्र. 1 j) वस. 1 k) पामे. वैप २, ३खं.
बलभृत् मंत्रा २, ४, ६ टि. द्र. 1 l) पामे. वैप १, २२६८ b द्र. 1 m) *मन्त्रिः इति पाठः ? यनि. शोघः
(तु. सप्र. मै २, ९, १) 1 n) पामे. वैप १, २२६६ ० द्र. 1 o) पामे. पृ १३५३ i द्र.

बलात्-कार- -रम् विध ५, १८४.
 बलाकारो(र-उ)पमु(क्त>)
 का- -क्ता वाध २८, २.
 बला(ल-अ)बल- -लम् अप ५८,
 १, ७; माशि ७, १; आज्यो ७,
 २२; -लानि आज्यो ७, २३.
 बलिन्- पा ५, २, १३६; -फ़लिनः
 आपमं १, ९, २; मागृ १, १४, ८;
 दंवि २, ४; -लिनम् सु८, १०; ३१,
 ७; -लिनौ बौश्रौ १८, ४५; १८;
 -ली वृदे ६, ११४; दंवि १, ७०.
 बल्ल- पावा ५, २, ७; १२२.
 १बलय^१- -ल्यम् द्रागृ ४, २, १०.
 रबल^२- -लः आज्यो १, ९; -लेन
 आज्यो २, ११.
 रेबल- (>बल-कुण-) कुबल- टि. द्र.
 धबल- बल- द्र.
 पबल- (> बल-स-, रबलय- पा.)
 पाग ४, २, ८०.
 दबल^३- -लः या ९, १०^४; दंवि २, १०?
 बलका^५- -क्ता याशि १, ७१; -काम
 याशि १, ७१.
 बल-काम- प्रभृ. १बल- द्र.
 बलक्ष^६- -क्षम् आपश्रौ २०, १३, १२;
 बौश्रौ १५, २३; ७; २६; ८;
 लाश्रौ ८, ६, १६.
 बलक्षी^७- -क्ष्याः आपश्रौ १०, २६,
 १२; भाश्रौ १०, १७, १८.
 बल-क्षोभ- प्रभृ. १बल- द्र.
 बला^८- -ला अप ५, १, ५.
 बलाक, का^९- पाउ ४, १४; पाग ४,
 १, ९६; ५, २, ११६; -कः शंघ
 ३७७ : २०; -का विघ ४४,
 २५; -काः शंघ ४२६.

बालाकि- पा ४, १, ९६.
 बलाका-वत्-, बलाकिन्- पा ५, २,
 ११६.
 बलाया^{१०}- -या नाशि १, २, ९.
 फ़बलास^{११}- -सम् दंवि १, ६; -सस्य
 अप ३२, १, ७.
 बलास-देवता->^{१२}त्य- -त्यम् अग्र
 ६, १४.
 बलाह- (>बालाहक- पा.) पाग ४,
 २, ८०.
 ब, व^{१३}लाहक^१- पाग ६, ३, १०८;
 -फ़कः अप ४८, १००; निघ १,
 १०; -कैः अप ६१, १, १५.
 रबलि^{१४}- पाउ ४, १२४; -लयः आपगृ
 ८, ४; मागृ; -लिः आपश्रौ १६,
 ३२, ४०; वैश्रौ; -लिना आपश्रौ
 १३, २२, ५०; फ़बौश्रौ ४, ११ :
 ९; १४; वैघ १, ४, ४; -लिभिः
 कप्र २, ४, ८; अप ७०^३, १६, २;
 -लिम् बौश्रौ १७, ४४; ७०;
 आपमं; -ली जैगृ १, २३ :
 २; -लीन् द्राश्रौ १२, १, ६;
 लाश्रौ ४, ९, ४; आगृ; -लीनाम्
 आपध २, ३, १५; १८; हिघ
 २, १, ४६; ४८; -लेः आगृ २,
 १, १०.
 १बालेय- पा ५, १, १३.
 बलि-कर- पा ३, २, २१.
 बलि-कर्मन्- -मै पागृ २, १७, १७;
 वैगृ ७, ६; १२; जैगृ २, ९; १;
 कप्र; -मैणः कप्र २, ४, ६; -मैणा
 कौगृ १, ६, ७; शागृ १, १०, ७;
 -मैणि कप्र १, ५, २.
 बलिकर्म-समन्वित- -तम् कप्र

२, ९, ३.
 बलि-तन्त्र- -न्त्रम् गोगृ १, ४, २३;
 २४.
 बलि-दान- -नम् वैगृ ४, २ : ७;
 ५, १० : ६×४; कप्र २, ३, ११;
 गौघ १०, २३.
 बलिदान-प्रदाना(न-अ)थं-
 -थम् कप्र २, ३, ११.
 बलि-दैवत- -तानि द्रागृ १, ५, ३३.
 बलि-निर्वपण- -णम् वैगृ ५, ११ :
 ८.
 बलि-निर्वापण- -णम् वैगृ ७, ३ :
 १०; ७ : १.
 बलि-गुष्पो(ष्य-उ)पहार- -रैः अप
 ७०, ७, ५.
 बलि-मि(य>)या^१- -यासु विघ
 ९९, २१.
 बलि-भोजिन्- -जिनः आमिगृ २,
 ४, ८ : ८.
 बलि-मत- -मतः काश्रौसं ५ :
 १५; -मते काश्रौसं ३ : ५०;
 ५ : १५; १६०; -मान् अशां
 १५, ३०.
 बलि-मन्त्र- -न्त्रः मागृ ३, १२ : १;
 -न्त्रस्य आपगृ १९, ४.
 बलि-रक्षित- -ताभ्याम् पावा २,
 १, ३६.
 बलि-वर्जम् कप्र ३, ९, १२.
 बलि-विधि- -धिम् आमिगृ २, ४,
 ८ : १.
 बलि-शेष- -षम् वैगृ ३, ७ : २३;
 गोगृ १, ४, १२; -षस्य कप्र ३,
 ९, ७.
 बलि-स्थान- -ने वैगृ ५, ७ : १०.

a) विप. (श्रवसान- [निवास-स्थान-]) । तद्धितः यत् प्र. । b) = मुहूर्त-विशेष- । c) अर्थः व्यु. च? । d) अ-बलः इत्यस्य उप. इति स्क. । e) = ऊष्मवृत्ति-विशेष- । f) वैप १ द्र. । g) = ओषधि-विशेष- । h) = मूर्च्छना-विशेष- । i) निघ. पाठः । j) = मेघ- । k) वैप १, २२६७ p. द्र. । l) बस. ।

बलि-हरण (बप्रा.)^a -गम् बौश्रौ
२४, ४ : ३^b; आगृ १, २, ३;
पागृ; बौगृ १, १, १^b; १०^b;
११, १^b; २, ८, १^b; १, २६; ४, ९,
२^b; वैगृ; -गणस्य वागृ १७, १९;
गोगृ १, ४, २७.

बलिहरणी- -णीम् आगृ २,
१, २.

बलिहरणा(ण-अ)नुकृति^c -ति:
बौगृ ३, ९, १; १०, १; -तीनि
बौगृ ३, ७, २९.

बलि-हार^a -रः मागृ २, १६, ३१.
बलि-हृत्^d -हृतः बौश्रौ ३, १६:
२७; भाश्रौ ४, ९, २; मागृ २,
८, ४; कौसू ३, १.

बल्य(लि-अ)न्त- -न्ते कप्र १, ७.
बल्य(लि-अ)र्थ- -र्थम् विध ३, २२.
बल्या(लि-२आ)घ^e -घाः अप ३६,
८, २.

बल्यु(लि-उ)पहार- -रैः अप २१,
६, ६; ६८, ५, २१.

बबलि^f - (> २बालेय- पा.) पागृ ४,
१, १३६.

बलिन- १बल-द्र.

बलि, लीवर्दी^g - फि ६४ -र्द्वैः
बौश्रौ ३, २३ : ८; २६, ११ :
१९^h; भाश्रौ ५, ८, १४; शंघ
३७७ : १६; -द्वैम् बौश्रौ २५,
३० : १; भाश्रौ १०, १९, १३;
हिश्रौ ७, ३, १४; -र्दाः कौगृ ३,
१०, ३५; शांगृ २, १६, ४; -र्दान्
आपश्रौ १६, १८, ३××; वैश्रौ;
-र्दाघ^h आपश्रौ २०, २१, ६;

बौश्रौ १५, ३५ : ७; २६, ११ :
१७.

बलिष्ठ- बलीयस्- १बल-द्र.

बलीवर्दीⁱ - (> बालीवर्दिनेय-) पाग
४, १, १२६.

बलीवर्दिन्^j - (> बालीवर्दिनेय- पा.)
पाग ४, १, १२३.

बलीवर्दी^k - (> बालीवर्दिनेय-)

बलूक- बलूक-द्र.

बलूल- १बल-द्र.

बल्कश, स^l -शस्य बौश्रौ १७,
३६ : ५; -सम् आपश्रौ १९,
४, ८.

बल्व, ल्व^m जⁿ - पाउभो २, २, ९२;
पांग ४, २, ८०; ३, १४२^k; ५, १,
५०; -र्जम् कौसू ७८, ३^o; अप्रा
३, ४, १; दंवि २, २; -जस्य अप
२३, १, ५; -जान् आपश्रौ १९,
१९, ४; बौश्रौ; -जानाम् बौश्रौ
२३, २ : ९.

बाल्वज- -जम् काश्रौ २६, २, ८.

बाल्वजी- -जी काश्रु ७, १३;
-ज्या हिपि १३ : ९.

बाल्वजिक- पा ४, २, ८०; ५,
१, ५०.

बल्वज-भार-> बाल्वजभारिक-
पा ५, १, ५०.

बल्व, ल्व^p ज-मय- पा ४, ३,
१४४^q.

बल्वूथ^r -थे शांश्रौ १८, १४, ५१.

बल्वूल^s -लः सु २३, ३.

१बल्य- १बल-द्र.

२बल्य- ५बल-द्र.

बल्लभ- बल्लभ-द्र.

√बल्ल् पाधा. भ्वा. आत्म. प्राधान्ये;
चुरा. उभ. भा. पा. याम्.

बल्लिक^t -कान्^u दंवि २, ६१^v.

बव^w -वम् आज्यो ४, २; ५; -वस्य
आज्यो ५, १६; -वेन आज्यो ५,
२.

व[.व^x]क्य^y - पाग ४, १, ८६; -ये
दंवि २, ९१.

वा[.वा^z]क्य- पा ४, १, ८६.

बक्क्यणी- पा २, १, ६५.

१वस्त(बप्रा.)^d - पाउभो २, २, १३०;
-स्तः काश्रौ ८, १, १^o; आपश्रौ
१७, १, ८^o; बौश्रौ १०, ३८ :
१८^o; वाधूश्रौ; -स्तम् आपश्रौ
१८, २१, ७; बौश्रौ; -स्तस्य
आपश्रौ १६, २७, १२; १८;
बौश्रौ; -स्तान् काश्रौ १४, ८,
१३; -स्ते बौश्रौ २, ५ : ४^o;
-स्तेन शांश्रौ १५, १२, ३;
अप्राय ५, ६.

वास्त- -स्तम् वैगृ २, ४ :
४^o; -स्ते वैश्रौ १७, १५ :
१०.

बस्त-चर्मन्- -र्मलाश्रौ ८, ११, २२;
-र्मणा काश्रौ १४, ५, १७;
-र्मणि काश्रौ १४, ५, १५; १८,
५, १२; हिश्रौ १२, ६, ९.

बस्त-पूर्व-पर^t -रः भाशि ६४.

बस्ता(स्त-अ)जिन^u -नम् आपश्रौ
१८, ५, २१; बौश्रौ ११, २××;
माश्रौ; -ने आपश्रौ १७, १९,
६××; बौश्रौ.

a) = बलि-दान-। b) पाकयज्ञ-संस्था-। c) बस-। d) वैप १ द्र-। e) व्यप-। f) वैप
२, ३खं. द्र-। g) °लि° इति पाठः। h) = परिवत्सर- इति तैत्रा [३, ८, २०, ५], ०. [पक्षे] चन्द्र- इति। पाभे.
वैप १, २२६८ f द्र-। i) °वर्दी- इति पाका-। j) भाखडा. प्रभृ. पाठः। k) तु. पाका-। l) = सर्प-विशेष-।
m) °कानि इति पाठः? यनि. शोधः (तु. संस्कृतुः टि., शौ ५, २२, ७ च)। n) = करण-विशेष-। o) पाका. पाठः।
p) तु. चौसं.। व° इति अच्यु-। q) °स्तवम् इति पाठः? यनि. शोधः। r) बस, > द्रस-।

२वस्त^a-(>बास्तायन- पा.) पाग
४,१,११०.

वस्त-वासिन्^b-सिनः दंवि १, ९१.

१वस्ति^c- पा, पाग २,४, ६३.

२वस्ति-वस्ति-द्र.

बहिस्(ः, र, श्, ष्)^d- -हिः आश्रौ
८,१४,३; १०,८,२; शाश्रौ; पा
२, १, १२; बहिः-हिः काश्रौ
१६,२,२३.

बाहीक-पात्रा ४,१,८५.

बाह्य, ह्य^e-पात्रा ४, १, ८५;

-ह्यः कौसू ७६,९; आशि^f ३,२;

४, १; ११; -ह्यम् बौश्रौ २५,

१ : १६; माश्रौ; आशि ८, २६^g;

-ह्याः आपश्रौ २१,९, ३; २४,

२, १३; वाश्रौ; -ह्यानाम् विध

१६, १८; -ह्यानि बौगृ २, २ :

१३; -ह्याम् आपश्रौ १६, ३२,

२; १९, ११, ६; ऋशि^h ११,

१, २६; २३, २, ६; -ह्याम् ऽ-ह्याम्

आपश्रौ १६, ३, १; ३२, १; वैश्रौ;

-ह्यायाम् आपश्रौ १९, १२, १;

हिश्रौ २३, २, १२; -ह्ये काश्रौ

२६, ७, १८; आपश्रौ ७, ३, ८;

अप; -ह्येनⁱ काश्रौ १८, ३, ६;

बौश्रौ; -ह्येषु आपप १, ९, १८;

हिध १, ३, १८.

बाह्य-तसः(ः) शाश्रौ १४,

१३, ४; आपश्रौ २, ४, ५××;

बौश्रौ.

बाह्यतो-लोमन्^j- -ञा

शाश्रौ १७, ३, ५.

बाह्य-वाच्^k- -वाक् माशि

१२, ५.

बाह्य-विशे(ष>)षा^l-

-षाः आपश्रु २०, ५; ९; १४;

हिश्रु ६, ४३; ४९; ५४^m;

-षाभ्याम् आपश्रु २०, ८; हिश्रु

६, ४८; -षे आपश्रु २०, ५;

हिश्रु ६, ४५.

बाह्य-सविशे(ष>)षाⁿ-

-षे बौश्रु १४ : ३.

बाह्य-हुत- -तम् कौगृ १, ६,

७; शागृ १, १०, ९.

बाह्यां(ह्य-अं)स^o- -सः गोगृ

१, २, २०.

बाह्या(ह्य-अ)ङ्गुष्ठ^p- -ष्ठम्

माशि २, १.

बाह्या(ह्य-अ)भ्यन्तर-मध्य-

तसः(ः) अय ६३, ४, १०.

बहिः-कक्ष^q- -क्षः शंघ २२६.

बहिः-परिधि^r- -धि आपश्रौ ९, २,

९; १६, १××; बौश्रौ.

बहिः-पूर्व^s- -र्वः जैश्रौका १२१.

बहिर्-भङ्ग-लक्षण-त्व- -त्वात्

पात्रा १, १, ४७; २, ४७; ३, १,

३××.

बहिर्-आञ्जन^t- -नम् बौश्रौ ९, ११;

१५; वैश्रौ १३, १३ : १३^u!

बहिर्-उपसत्क^v- -त्कः बौश्रौ २५,

२८ : २२; -त्कम् बौश्रौ २५,

२८ : २०.

बहिर्-ऋच्^w- -चम् निस् ३, ११ :

२१.

बहिर्-ग्राम^x- -मे अप ३३, ४, ३.

बहिर्ग्राम-निवसन- -नम् विध

१६, १४.

बहिर्-जानु^y- -नुः बौध १, ५, १५.

बहिर्-जानु-कर^z- -रः शंघ २२६.

बहिर्-ज्योतिस्^{aa}- -तिः वाधूश्रौ

३, २५ : १; ५.

बहिर्-गि(<नि)घन^{ab}- -नम् निस्

४, ७ : २२; -नस्य निस् ४, ७ :

२८; -नानाम् निस् ४, ७ : २५;

-नानि निस् २, ३ : ३; ५; १०.

बहिर्गिघन-स्थान- -ने निस् ४,

७ : २३.

बहिर्-द्वार- -रे वागृ २, ११.

बहिर्-धा वाधूश्रौ ४, २३ : ४; शुप्रफ

५, २०^{ac}.

बहिर्धा-भाव- -वात् काश्रौ ९,

१, ८.

बहिर्-निर्वाध^{ad}- -धम् वैश्रौ १८,

७ : २९^{ae}; -धान् आपश्रौ १६,

१०, ९^{af}.

बहिर्-भस्मन्^{ag}- -स्म माश्रौ १, २,

३, २.

बहिर्-भाग- -गम् निस् ३, ५ : १;

२; ४; ६; ६ : २३.

बहिर्-मण्डल- (स्थ>)स्था^{ah}-

-स्थाभिः शागृ ६, २, ९.

बहिर्-योग- पाग २, ४, ६३^{ai};

-गेण पात्रा १, १, ३६.

बहिर्योगो(ग-उ)पसंभ्यान-

-नयोः पा १, १, ३६.

बहिर्-लोम^{aj}- पा ५, ४, ११७;

-मम् वैश्रौ १२, ८ : ७; -मा-

भ्याम् आपश्रौ १०, ८, १२.

बहिर्-लोमन्^{ak}- -म आपश्रौ १७,

a) व्यप. । b) वैप १ द्र. । c) =बाह्य-प्रयत्न- । d) वा. क्तिवि. । e) बस. ।

f) वा^o इति पाठः? यनि. शोघः । g) =बहिष्पवमान- । h) तु. पृ २१६ t । i) ०रञ्ज इति पाठः? यनि.

शोघः (तु. बौश्रौ.) । j) अस. । k) बस. >द्वस. । l) उप. =सामभक्ति- । m) पामे. वैप १,

२३६९ ० द्र. । n) अस. >उस. । o) बहिर्योग- इति पाका. । p) बस. (तु. वैप १, २३४ d) ।

q) तु. पृ २१९ ।

२६, १४^{११}; आपघ १, २८, १९;
 २१; हिघ १, ७, ५४; ५७; -ञ्जा
 बौश्रौ २१, १२ : २१; हिश्रौ ७,
 ३, ५; -ञ्जी काठश्रौ ७६.
 बहिर्-विध^b - धम् आपश्रौ १६,
 २०, ५; वैश्रौ १८, १६ : २२;
 हिश्रौ ११, ६, ५२.
 बहिर्-विराज^c - जस् बौश्रौ २४,
 ३३ : ९; १२.
 बहिर्-विशासन^e - नम्^d भाश्रौ १,
 २१, १; वैश्रौ ४, ६ : ९; १२,
 १९ : २३; हिश्रौ १, ५, ४२.
 बहिर्-वेद् - दे आपघ १, १३, १२;
 हिघ १, ४, २६.
 बहिर्-वेदि^e - दि आश्रौ १, १२,
 ४; ४, ८, २८××; शाश्रौ.
 बहिर्वेदिक^f - कानि काश्रौ
 २२, १, ४०.
 बहिर्वेदि-सद् - सदः आश्रौ
 १२, ८, २०.
 बहिश्-शौच^g - चम् बौध १, ५, ४.
 बहिः-शर्क^h - रात् बौश्रौ १०,
 २५ : १७××.
 बहिः-शालाⁱ - लायाः वागृ २,
 १४, ११; -लायाम् शागृ १, ५,
 २; पागृ १, ४, २.
 बहिष्-कर्मन्^j - मं शाश्रौ ७, ७, ४;
 १७, १३.
 बहिष्-टात् भाश्रौ ७, ८, १२; वाधूश्रौ
 ४, ७८ : ३.
 बहिष्टाद्-विशासन^e - नम्^d

आश्रौ १, १९, ३; १०, २७, १०;
 १९, २७, ११.
 बहिष्टान्-निर्वाध^e - धम् हिश्रौ
 ११, ३, २६?†।
 बहि-(स्थ>)ष्ट^l - ष्टः हिपि २० :
 ४; -ष्टे हिश्रौ ४, २, ५७^k.
 बहिष्-पत्नीसंयाज^m - स्व- स्वात्
 लाश्रौ १०, ३, १.
 बहिष्-पद्-लक्षणⁿ - गे पात्रा ८,
 २, ६.
 बहिष्-परिधि^o - धि आश्रौ १, १२,
 ३४; ३, १३, १६; काश्रौ १९, ३,
 २०; काश्रौसं.
 बहिष्-पल- वर्हिष्पल- टि. द्र.
 बहिष्-पवमान^p - नः आश्रौ १०, ३,
 ११; शाश्रौ ९, २१, १××; आपश्रौ;
 -नम् आपश्रौ १४, २६, ३; २०,
 १३, ४; बौश्रौ; -नस्य माश्रौ
 २, ३, ६, ८; लाश्रौ; -नात् आश्रौ
 १, ४, २; आपश्रौ; -नाय काश्रौ
 २०, ५, ३; आपश्रौ; -ने शाश्रौ
 ५, १०, ३५××; बौश्रौ; मीसू ५,
 ३, ५७^m; -नेन शाश्रौ ६, ८, ३;
 वाधूश्रौ.
 बहिष्पवमानीय^p - यम्
 जैश्रौ १३ : ७.
 बहिष्पवमान-देश- शः शुश्र
 १, ३४२; -शम् वैश्रौ १४, १३;
 ४.
 बहिष्पवमान(न-ऋ)र्च^q - नर्चः
 द्राश्रौ ४, १, १०; लाश्रौ २, १, ९.

बहिष्पवमान-चत् आपश्रौ १३,
 २, ७.
 बहिष्पवमान-संयोग- -गः
 लाश्रौ ७, ११, २२.
 बहिष्पवमान-समाधि- -धये
 निसू ७, ६ : १४.
 बहिष्पवमान-स्तोत्र- -त्रम् वैश्रौ
 १७, ६ : ७.
 बहिष्पवमाना(न-आ)स्ताव-
 -चम् आपश्रौ ११, १४, १०;
 १२, १९, ७.
 बहिष्-पिण्ड^r - ण्डम् काश्रौ १६,
 ५, १.
 बहिष्-तन्व^s - न्वम् बौशु ६:९†.
 बहि-स्प-न्या>)न्व^t - न्वम् बौशु
 २ : १५; १९.
 बहिस्-संध्य-त्व- त्वम् गौध २,
 १६.
 बहिः-सदन^u - नम् वैश्रौ १५, २३ :
 १९.
 बहिः-सदस^v - दः शाश्रौ १७, ४, २.
 बहिः-सदस^v - सम् बौश्रौ ७, १० :
 १३; ११, ४××; वैश्रौ.
 बहिः-स्तायिन् - यी विध ८९, ३.
 बहिः-स्वार^w - रम् क्षुसू ३, १० :
 ९; १७; ४४; ४५; निसू ६, ८ :
 ४२; ८, ६ : ४७; -रस्य क्षुसू ३,
 १० : ९; १७.
 बहु^x - पाउ १, २९; पा ६, २, ३०;
 पाग ४, १, ४५; ५, १, १२२;
 -ह्वः आश्रौ १, ११, १†; ३,

a) षमः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. संस्कृतः टि.) । b) पृ २२० h द्र. । c) बस. । d) सपा. बहिर्विशासनम्
 <>बहिष्टाद्-विशासनम् इति पाठे. । e) वैप १ द्र. । f) तत्रभवतीयः प्र. । g) मलो. कस. । h) अस. ।
 i) बहिष्पिण्ड इति पाठः? यनि. शोधः (तु. वैप १, २२६९ ० पाठे.) । j) उस. पूष. विसर्गलोः (पावा ८, ३, ३६) ।
 k) = बहिर्भाग- । बहिष्टात् इति मूले. । सप्र. आपश्रौ ७, १०, ११ मूलम् इति पाठे. । l) मलो. कस. > बस. ।
 लक्षणशब्देऽवयवार्थके सति (तु. कैयटः) उप. षस. । m) तु. जीसं. । n) इदमर्थे छण् प्र. उसं. (पावा ४, २,
 १३८) । o) उप. = बुद्बुद्- (तु. विद्याधरः) । p) उप. पृ ११६० b द्र. । q) पृ २२० t द्र. ।
 r) अस. पाक्षिकः समासान्तश्च ट्च् प्र. (पा ५, ४, १०७) । वा. क्विप्. । s) नाप. । बस. ।

१,१०×; शांश्रौ; -हु^३ आश्रौ २, १८, ८; १०, ८, ११; णशांश्रौ १२, १६, १; १६, ४, ४^७; ६; १७, १७, १^३; काश्रौ; -हु: शांश्रौ १०, १४, २; काश्रौ; आपश्रौ ६, २७, ३^०; कौश्र ३, ४, ५^१; शांश्र ३, ७, २^१; -हुन: या २, ७; -हुना निस् १०, ७; २९; -हुभि: वाधूश्रौ ३, ८८; १३; २१; -णुभ्य: आमिण् ३, ५, २; १; वौषि १, २; १; वृदे ४, १०१; या १०, २०; -हुम् वाश्रौ ३, २, १, २५; -हुषु आश्रौ २, १, ६; काश्रौ ६, ३, १६; ८, २, ३; वौश्रौ; पा १, ४, २१××; -हून् शांश्रौ १६, ३, २८; आपश्रौ ६, २४, ८^{१०}××; वौश्रौ; हिश्रौ ६, ७, २^१; -हूनाम् आश्रौ २, १, ६; शांश्रौ ९, २२, ६; वौश्रौ; -हूनि काण्ड ३९: ५; भाण्ड; या ७, ५; ११, १६; २१; -हो: शांश्रौ १७, १७, १^१; आपश्रौ; पा ५, ४, २. बह्वी- पा ४, १, ४५; -ह्वी: णआपश्रौ १, २, ९; ११, १××; वौश्रौ; -ह्वीनाम् आपश्रौ २०, १६, ८^१; वौश्रौ २४, ३१: ८; हिश्रौ १४, ३, ३१^१; वाध; या ९, १४^१; -ह्वीभि: आपश्रौ १३, १७, २; वैश्रौ; -ह्वीम् आपमं १, ८, ३; ११, ७; -ह्वीषु वृदे १, ४४; -ह्वय: वौश्रौ १५, ३: १;

वृदे ३, ८२; -ह्वया वाश्रौ २, १, २, १२. बहु-कर^६- पा, पावा ३, २, २१. बहु-कर्म-तम- -म: या ६, १३. बहु-काम- -मा: शांश्रौ १०, २१, १५. बहु-कार- -०र काश्रौ १५, ७, १०^१. बहु-कृष्णाजिन्^१- -न: या ३, १९. बहु-क्रम- -मम् ऋप्रा ११, २५; २५. -मे ऋप्रा ११, २५; ३५. बहु-क्षी(र>)रा^१- -रा: अप ५७, ३, ४. बहु-गण^० पा १, १, २३. बहु-गामिन्- -मिनौ या १४, २३^२. बहु-गुण^१- पा, पाग ६, २, १७६; -गानि वौष १, २, ३. णबहु(गु>)गू^१- -वै आपश्रौ २०, ४, ३; वौश्रौ १५, ५: २०; हिश्रौ १४, १, ३८. बहु-ग्रहण- -णम् पावा ५, १, ३१; -णे पावा ५, ३, २. बहु-चारिन्- -री अत्र ११, ३(२)। बहुचारिणी- -णी कौसू ३७, ९. बहु-छन्दोमान- पा, पाग ६, २, १७६. बहु-ज- -ज: या १४, २९^१; ३१. बहु-ज(न>)ना^१- -नायाम् आपश्रौ १३, ९, २. बहु-जव^१- -०वा: या १२, ४३. बहु-जात- -त: या १२, ३६. बहु-जाया- -याम् आमिण् ३, १०, ३: १; ६.

बहु-ज्ञ- -ज्ञम् वाध ६, ३०; -ज्ञेन वौष १, १, १३. बहु-तय- -यम् वौश्रौ ६, ६: २६; वाधूश्रौ ३, ७६: १५; १७; -यान् वाधूश्रौ ३, ७६: १२; १८; -यानि वाधूश्रौ ३, ७६: ११. बहुतयी- -यी: वाधूश्रौ ३, ७६: ११; १२; १८. बहु-ता- -तया भाण्ड २, २८: ४. बहु-तिथ- पा ५, २, ५२. बहु-तो(य>)या^१- -यासु विध ८५, ६५. बहु-त्रि- > णुत्रि-वर्ष^६- -वर्षस्य ताश्रौ ८, ३, ९^१. बहु-स्व- -स्वम् वाश्रौ ३, २, ६, ४०; अप ६३, १, ४; विध ८, ३९; वृदे १, १२; -स्वात् कप्र २, २, १२; -त्वे कौशि ११. बहुत्व-श्रुति- -त्वे: मीसू ३, ५, २६. बहुत्वा (त्व-अ) भाव- -वात् पावा २, २, २९. बहुत्वै(त्व-ए)कत्व-लक्षि(त>) ता- -ता: वृदे ३, ३५. बहु-दक्षिण, णा^१- -णाम् अप ५४, २, ४; ६४, १०, १०^३××; -णेन माश्रौ ५, १, १, ३७. बहु-दस्यु^३- -स्यव: शांश्रौ १५, २६, १. बहु-दात-तर- -रौ या ६, ९. णबहु-दास-सु(सू^३)रु(ष>)षा^०- -षायै आपश्रौ २०, ४, ३; वौश्रौ

- a) कचित् वा. क्विन्. । b) पाभे. वैप १ (परि.) बहु मा २३, ३१ टि. द्र. । c) पाभे. वैप १, २२७०। द्र. । d) णु इति पाठः १ यनि. शोषः (तु. सपा. मा ३, ४२ प्रच.) । e) पाभे. वैप १, २२७०। द्र. । f) पाभे. वैप १, २२७१०। द्र. । g) उप. टः वा अच् वा प्र. । h) पाभे. वैप १, २२४७०। द्र. । i) बस. । j) बहुजः शब्दो भवति इत्यस्य स्थाने दु. बहुशब्दा भवन्ति इति । k) विप. (सारङ्-)। बस. पूष. (विप. = ईषदपूर्णा-श्रित्व-विशिष्ट-) बहुच प्र. तस्य च पुरस्ताद् योगः (पा ५, ३, ६७) । l) बस. उप. = २दक्षिणा- । m) = विश्वामित्र-सुत-। कस. । n) हिश्रौ. पाठः । o) बस. > दस. ।

१५, ५ : २२; हिश्रौ १४, १, ३८.
 १ बहु-देवत, ता^० - तः भाश्रौ ६, १५,
 ९; -ताः आपश्रौ २४, ३, ४३;
 वृदे १, ७५; -ताम् शाश्रौ ३, ६,
 १; -तायाम् या ११, ११; १२,
 ३२; -ते मीस् ९, २, ४३; -तेषु
 काण्ड ४७, ११; वृदे ४, ७.
 २ बहु-देवता-> वृत्त्य, त्या - त्यम्
 अत्र १, २६; २, १३xx; -त्या
 शुभ्र ४, २२; अत्र ३, १६xx;
 -त्याः अत्र ३, २१; १९, ४३;
 -त्याम् शुभ्र ४, ३५; -त्ये अत्र
 १, ९; २, १; ४, ४; ६, १०४.
 बहु-दैव^० - वे वृदे ३, ४१.
 बहु-दैवत^० - तः वृदे ६, ८४; -तम्
 वृदे २, १२८; १३३; ३, ४३;
 चात्र ८ : २; या १२, ४०; अत्र
 ६, ४१; -तेषु वृदे ३, १२८.
 बहु-द्वार^० - रस्य बोध १, १, १३.
 बहु-धा ङ आपश्रौ ७, ४, ५^०; १७,
 १३, २; बौश्रौ; हिश्रौ ४, १,
 ६१^०; आपसं २, १, ८^०; हिण्ड
 २, ६, १२^०; या ७, ४; १८^०xx.
 ङ बहु-धान्य^० - न्यः आपश्रौ २२,
 १६, ९; हिश्रौ १७, ६, ३३.
 २ बहु-धान्य^० - न्यम् कौस् २०,
 ५^०.
 बहु-घार^० - रे या ५, २.
 बहु-धी^० - धीः या ६, १३.
 बहु-नामन् - मानि निघ ३, १; या
 ३, १३.
 बहु-निष्क^०, ^० नैष्किक - पावा ५,

१, ३०.
 बहु-पक्ष्य(क्षि-अ)नावास^० - सस्
 वैश्रौ १, १ : ९.
 बहु-प(त्रक>)त्रिका^० - काम् वौपि
 १, ४ : ७.
 बहु-पर्ण, र्णा^० - णः वौश्रौ ४, १ :
 १६; वैश्रौ १०, १ : १३; -र्णम्
 भाश्रौ ७, १ : ८; माश्रौ १, ८,
 १, ४; हिश्रौ ४, १, १५; -र्णा
 वौश्रौ १, १ : ९; भाश्रौ १, २, ९;
 ७, ९, ९; -र्णाम् आपश्रौ १, १,
 ८xx; भाश्रौ.
 बहु-पर्ण-शाख, खा^० - खम् आपश्रौ
 ७, १, १७^०; -खाम् आपश्रौ ७,
 १२, ५.
 बहु-पलाश, शा^० - शः निस् १, ११;
 १८; -शाम् वाश्रौ १, २, १, २.
 बहु-पलाश-शा(खा>)ख^० -
 खम् वाश्रौ १, ६, १, ७^०.
 बहु-पण्डु - शुम् भाण्ड १, ११ : ११;
 -शू आपश्रौ २२, ६, ४; हिश्रौ
 १७, २, ४९; -शोः पाण्ड १, २,
 ३; गौध १८, २९.
 बहु-पाद, दा^० - दाः ऋप्रा १७, ४;
 -दानाम् ऋप्रा १७, ४८; -दे
 आपध १, ८, ९; हिध १, २, १७.
 १ बहु-पुत्र, त्रा^० - त्रः भाश्रौ ४, २१,
 ८; वैश्रौ ७, १३ : १२; हिश्रौ ६,
 ४, २८; ६, १७; आपध २, १६,
 २०^०; -त्रस्य शंघ २८४; -त्राः
 माण्ड १, १२, ३^०.
 बहुपुत्री^० - त्रीम् आमिण्ड ३,

५, ५ : ७^०.
 बहु-पुष्ट^० - ष्टः आपश्रौ ५, १४, १;
 माश्रौ १, ६, १, ६; हिश्रौ ३, ४,
 २३; गो १, २२; २, २४; -ष्टस्य
 माश्रौ ५, १, १, १६.
 बहु-पूरुष^० - षन् कौस् २०, ५^०.
 बहु-प्रकार^० - रे वृदे १, १९.
 बहु-प्रकृति^० - त्विः पावा २, ४, १२;
 -तौ शुप्रा ५, ७.
 बहु-प्रजस^० - ज्ञाः या २, ८; पा
 ५, ४, १२३.
 बहु-प्रधा(न>)ना^० - नाः वृदे ४,
 ८.
 बहु-भक्ति-वादिन् - दीनि या ७,
 २४^०.
 बहु-भा(या >)र्ष^० - र्यस्य
 आपश्रौ १६, ४, ५; हिश्रौ ११,
 १, ४८; कप्र ३, १, ४.
 बहु-भार्या - र्यासु विघ २६, १.
 बहु-भाषिन् - (>बाहुभाष्य-पा.)
 पाण्ड ५, १, १२४.
 बहु-भोक्नु - क्तुः कप्र २, ५, २.
 बहु-भो(ग>)गा^० - गा आप्यो
 १३, १०.
 बहु-भत्स्य^० - त्स्ये कौस् ४७, ३७.
 बहु-मध्य-गत - तानि ऋप्रा १०,
 ८; उस् ४, ७.
 बहु-मन्त्र^० - न्त्रम् आपश्रौ २४, १,
 ४४;
 बहु-माष-ति(त् >)ला^० - लायै
 आपश्रौ २०, ४, ३; बौश्रौ १५, ५ :
 २१; हिश्रौ १४, १, ३८.

a) बस. । b) पामे. वैप १, २०४५ h द्र. । c) पामे. वैप २, ३४. बहुधा तैत्रा २, ७, १७, ३ टि. द्र. ।
 d) वैप १ द्र. । e) वैप १, २२७२ e द्र. । f) बस. (तु. वैप १ भूरिधारा-; वैतु. स्क., [पक्षे] दु. उस.
 इति) । g) तु. पाका. । h) कस. > बस. । i) = शोषधि-विशेष- । बस. । j) बस. > द्रस. । k) सपा.
 बहुपर्णशा^० <> बहुपलाशाशा^० इति पामे. । l) सपा. हिध २, ५, २० बहुपत्यः इति पामे. । m) = शोषधि-
 विशेष- । खी. डीण् प्र. (पा ४, १, ६३) । n) पाठः ? पत्रीम् इति शोषः (तु. सप्र. बौपि १, ४ : ७ पत्रिकाम्
 इति पामे.) । o) कस. ।

बहु-मित्र^०- -त्रः आशय २, १६,
२०; हिध २, ५, २०.
बहु-याजक- -कः शंघ ३७७ : १४.
†बहु-याजिन्- -जितः हिश्रौ २१, २,
५; गोष्ट १, १, १६; द्राष्ट १, ५,
५; विध ८२, १२; -जिनम्
आमिष्ट २, ७, ११ : ११;
-जिनाम् वाधुश्रौ ३, २४ : १३;
-जी आपश्रौ ११, २०, ११;
१२; बौश्रौ.
बहु-याज्य^०- -ज्यस्य वाध १४, १७.
बहु-र[=ल]^०-> ७-मध्य- -ध्यम्^०
आश्रौ ५, १, १५†.
बहु-रथ^०- -थः या ११, २३.
†बहु-रायस्पो (ष >)षा^०- -षाचै
आपश्रौ २०, ४, ३; बौश्रौ १५,
५ : २२; हिश्रौ १४, १, ३८.
बहु-रुद्र-देवता-> ७-व्य, त्या-
-त्याः शुअ २, २५९; २६५;
-त्यानि शुअ २, २६०.
बहु-रूप, पा^०- -पः कौस् १२७, २;
-पम् शाश्रौ १३, ४, १; काश्रौ
२५, १०, १; आपश्रौ ९, १९, १५;
१४, २४, १; बौश्रौ; -पा आपश्रौ
१३, २३, १२; कौस् १२६, ५;
-पाः काश्रौ २०, ४, २६; आपश्रौ
८, १३, १९; २०, १४, ७†^०;
१२†; १५, ३†^०; बौश्रौ ५,
११ : १६; वाधुश्रौ ३, ३२ : ३;
वैश्रौ ९, ५ : ५; †हिश्रौ^० १४,
३, १६; १८^२; आमिष्ट २, ५, ३;
२६†; बौष्ट ३, ७ : १९; या
११, १७; -पाम् हिश्रौ ९, ६,
१५; -पे अष ७२, १, ४.
बहुरूप-क- -कैः अष ५४, २, ५;

५५, १, ६.
बहुरूप-स्व- -स्वम् वृदे ६, ५५.
†बहु-ल, ला^०- -पाग ४, २, ७५; ५,
१, १२२; १२३; १३३; -लः
अष ६२, २, २; -लम्^० शाश्रौ
१५, १७, १†; १७, ६, ५; काश्रौ
२, ७, २०; आपश्रौ २, ९, २××;
बौश्रौ; पा २, १, ३२; ५७××;
-†ला आपश्रौ १६, १४, ५; वाश्रौ
२, १, ५, २०; वैश्रौ १८, १२ :
१३; निस् २, १० : २२\$; -लाः
†आपश्रौ १, ५, ५; १२, ११;
१४; भाश्रौ; -लान् अप्रा ३, ४,
१†^०; -लानि सु २५, ६; कौशि
३०; -लाम् शाश्रौ ४, १३, १†;
आपश्रौ ६, ११, ५†; बौश्रौ;
-लायाम् अप ५९, १, १२; -ले
बौश्रौ ६, ३० : २; तैप्रा ४, ११;
निघ ३, ३०†.
वाहुल- पा ४, २, ७५.
वाहुलक- पा ५, १, १३३.
वाहुल्य- पा ५, १, १२३;
-ल्ये पा २, ४, २२.
बहुल-तम- -मः वाधुश्रौ ४,
८४ : ११.
बहुल-ता- पा ५, १, १२३.
बहुल-तृण^०- -णे काश्रौ २५, ७,
१५.
बहुल-स्व- पा ५, १, १२३.
बहुल-पर्ण^०- -र्णम् काश्रौ ६, १,
८.
बहुल-पला(श>)शा^०- -शाम्
काश्रौ ४, २, ४.
बहुल-वचन- -नस्य पावा २, १,
५८; ६, ३, १३; -नात् पावा ८,

३, ५९.

बहुल-वर्मन्^०- -र्मा शाश्रौ ८,
२४, १†.

बहुल(ल-त्र)भिमान^०- -नः
हिश्रौ ९, २, २४†.

बहुलिमन्- पा ५, १, १२३.

बहुलौ(ल-त्रो)षधि^०- -धि बौश्रौ
२५, ५ : ३; बौपि ३, २, ८.

बहुलौषधि-क- -कम् अष्ट
४, १, १३.

बहु-वचन- -नस् या ४, ३; १२, ७;

अप्रा १, २, १; २, २, ५†; शौच
१, ७८; पा १, २, ५८; ४, २१;

८, १, ७४; -नस्य पा १, २,
६३; ८, १, २१; पावा १, २, ५१;

-नात् द्राश्रौ १२, ३, ६; मीस्
११, ४, ५३; -नानि माश्रौ ५,

२, ९, ४; -ने पा ४, ३, १००;

पा, पावा ७, ३, १०३; ८, २, ८१;

-नेन या ११, १६; मीस् ११,
१, ३८.

बहुवचन-लोप-> लोपिन्-

-पिषु पावा ४, १, १६३.

बहुवचन-विषय- -यात् पा ४,
२, १२५; पावा ४, २, ५२.

बहुवचना(ल-त्र)न्त- -न्तस्य
पावा २, ४, ६२; ४, १, ८९; ८, ३,
८१.

बहु-वत् आश्रौ ५, ४, ७; शाश्रौ;
या २, २४†; २७; ११, १६; पा
१, २, ५८.

बहु-व(त>)ती- -ती वाश्रौ ३, २,
६, ३९.

बहु-वर्ष-द- -दः अष ३६, २२, १;
६५, ३, ३.

a) वस. । b) उस. उप. कर्तरि ण्यत् प्र. उत्सं. (पा ३, ४, ६८) । c) वैप २, ३खं. द्र. ।

d) पाभे. वैप २, ३खं. एवा २, २० टि. द्र. । e) पाभे. वैप १, २०१८ f) द्र. । f) वैप १ द्र. । g) क्वचित् वा.
क्वि. । h) पाभे. वैप १, २२७२ u द्र. । i) = द्यावापृथिवी- ।

बहु-वारि-भय- -यम् अप ५९, १, १२.

बहु-विक्षेप- -पम् या ६, ३३.

बहु-विद्- -वित् आश्रौ ३, १२, १६; आपश्रौ ९, ७, १; १०; ९, ६; भाश्रौ; -विदः बौश्रौ १९, ४; ३६; -विदम् माश्रौ ५, २, १४, २२; -विदा शाश्रौ ३, १९, ९; -विदे वैश्रौ २१, १: ११.

बहुवित्तम- -मः वाधूश्रौ ४, ८४: १२.

बहु-विध- -धम् बृदे ५, ६३; कौशि ७०; -धा: वैध १, ८, १; कौशि २४; -धान् अप ६३, १, १; -धै: कप्र ३, १, १०; अप ६८, ५, २२; ७०, ८, ५.

बहु-व्याल-मृग- -नो शंघ ४४३.

बहु-व्रीहि- -हि: बृदे २, १०५; पा २, २, २३; पावा; -है: पा ४, १, १२; २५; ५८; पावा; -हौ पा १, १, २८; २९; २, २, ३५; ५, ४, ७३; ११३; ६, १, १४; २, १०६; १३८; १६२; १९७; पावा.

बहुव्रीहि-कृत-त्व- -त्वात् पावा २, १, २४.

बहुव्रीहि-ग्रहण- -णम् पावा ५, ४, ६९.

बहुव्रीहि-निर्देश- -शः पावा ३, २, १११; ६, १, १; १८६; १९०; -शात् पावा ६, ३, ८१; -शो पावा ६, १, १.

बहुव्रीहि-प्रतिषेध- -धः पावा १, ४, १; -धे पावा ४, १, ७.

बहुव्रीहि-वत् पा ८, १, ९; पावा २, १, ५१.

बहुव्रीहिवत्-त्व- -त्वे पावा ८, १, ९.

बहुव्रीह्य(हि अ)धिकार- -रात् पावा ४, १, ५४.

बहुव्रीह्य(हि-अ)र्थ- -र्थम् पावा १, ४, १.

बहु-व्रीहि-य(व >)वा- -वायै आपश्रौ २०, ४, ३; बौश्रौ १५, ५: २१; हिश्रौ १४, १, ३८.

बहु-शब्द- -ब्दान् द्राश्रौ ४, २, १९; लाश्रौ २, २, २७.

बहु-शस् (:) वैश्रौ २०, ३१: ४; जैश्रौका १७७; कौस्.

बहु-शस्त्र-भङ्ग- -ङ्गः अप ७२, ३, १०.

बहु-शास्, खा- -स्वः बौश्रौ ४, १: १६; वैश्रौ १०, २: १३; -स्वम् भाश्रौ ७, १, ८; माश्रौ; -स्वाम् आपश्रौ १, १, ८; ९; माश्रौ.

बहु-शि(खा >)ख- -खा: भाग १, २८: ३१.

बहु-शीर्ष- -र्षा: अप ७०, ४, ४.

बहु-श्लङ्ग- -ङ्गा: या २, ७.

बहु-श्रुत- -तः वाध ३, ९; शंघ; -तम् वाध ६, ४४; विध ५, १८९;

-ताय वाध ३, ९; -तै: बौध २, १०, ५७.

बाहुश्रुत्य- -त्येन बृदे ८, १३०.

बहु-श्रुति- -ति भाशि ७६.

बहु-श्रुति- -ते: काश्रौ २४, ५, २२; द्राश्रौ १२, २, १७; लाश्रौ ४, १०, १८; मीसू ३, ७, २६.

बहु-संवत्सर- -रे शाश्रौ १३, २७, ५.

बहु-सदश- -शम् लुसू ३, ३: १३;

४: ११.

बहु-सदशी- -श्यः लुसू ३, ७: ९.

बहु-संभा(र >)रा- -राम् अप ७२, ५, २.

बहु-सर्पिक- -ष्कम् विध ८६, १८.

बहु-सर्व-घ(न >)ना- -नायै बौश्रौ १५, ५: २३१.

बहु-सुवर्णक- -के काशु ७, २९.

बहु-सुव(र >)री- -री आशि २, १, ५: १९; ऋप्रा ५, २७;

-री: हिद्य १, १८, २.

बहु-स्वार- -रस्य तैप्रा ४, ४०.

बहु-स्वार- -र: याशि १, ८२.

बहु-हस्ति(क >)का- -कायै आपश्रौ २०, ४, ३; बौश्रौ १५, ५: २२; हिश्रौ १४, १, ३८.

बहु-हिरण्य, ण्या- -ण्यः काश्रौ २२, ८, २५; -ण्ययै आपश्रौ २०, ४, ३; बौश्रौ १५, ५: २१; हिश्रौ १४, १, ३८; -ण्येन आपश्रौ २२, ९, १९; हिश्रौ १७, ४, १४.

बहु(हु-उ)द्रक, का- -का या ११, ४०; -का: वैध १, ९, १; ३;

या ५, ६.

बहु(हु-ऊन >)ना- -ना: ऋश्र ३, ९; श्रुश्र ५, ९.

बहु(हु-ऊ)र्ज- -हूर्जि पावा ७, १, ७२.

बहु(हु-अ)चर- -रम् ऋप्रा १४, ४३.

बहु(हु-अ)क्षर(र-अ)न्त्य- -न्त्यै: ऋप्रा ५, १२.

बहु(हु-अ)च्- -ह्वचः पा २, ४, ६६×४; पावा ६, २, ८२.

बहुच-पूर्वपद- -दात् पा ४,

a) बस. ।

b) वैप १ द्र. ।

c) बस. > द्रस. ।

d) नाप. (समासभेद-) । बस. ? ।

e) सर्वो बहुस्वारः इत्यस्य स्थाने सप्ता. नाशि २, १, ४ सर्वबहु इति पाभे. ।

f) नाप. (वानप्रस्थ-विशेष-) ।

g) कस > बस. ।

वैप-प्र-४४

४,६४; पावा ६,१,८४.
 बहुञ्-अङ्- -ज्ञात् पा ४, २,
 ७२.
 बहुञ्-अर्थ- -र्थम् पावा ४, १,
 ५४.
 १बहु(हु-अ)जा(जा-अ) वि(क>)
 का^१- -कायै आपश्रौ २०, ४, ३;
 बौश्रौ १५, ५ : २०; हिश्रौ १४,
 १, ३८.
 बहु(हु-अ)ध्याय^१- पा ६, २, १७६.
 १बहु(हु-अ)वृ^१- -वृ वैध २, १५, ४.
 बहु(हु-अ)वृ, चा^१- -वृम् आश्र २,
 ७, ९; -वृम् अप ७२, ५, २.
 बहु(हु-अ)ज-दक्षिण, गा^१- -गः अप
 ७०^१, ४, १; -गाम् अप ७०^१,
 १३, १.
 बहु(हु-अ)पत्य^१- -त्यः आपध २,
 १६, १२; हिध २, ५, १२; २०^०;
 -त्यस्य शंघ ७४; -त्याः वाश्रौ
 १, १, १, २३.
 बहु(हु-अ)मिधान^१-ज- -जः ऋपा
 १३, २२.
 बहु(हु-अ)वर्ध^१- -वर्धम् हिश्रौ ७, २,
 ६११.
 बहु(हु-अ)र्थ-त्व- -त्वात् पावा २,
 ४, ६२; मीसू ६, ७, २४; ११,
 १, ४९.
 बहु(हु-अ)ल्पा(ल्प-अ)र्थ- -र्थस्य
 पावा ६, ३, ३४; -र्थात् पा, पावा
 ५, ४, ४२.
 १बहु(हु-अध>)धा^१- -धायै
 आपश्रौ २०, ४, ३; बौश्रौ १५,

५ : २०; हिश्रौ १४, १, ३८.
 बहु(हु-अ)कार^१- -रः अप ५३, ५,
 १.
 बहु(हु-अ)ज्य^१- -ज्याभ्याम्
 आपश्रौ २, ५, ११.
 बहु(हु-अ)व्य-तर->रा (र-आ)
 चा(दि-अ)र्थ- -र्थः पावा २, १,
 ६९.
 बहु(हु-आ)दि- -दीनाम् पावा १,
 १, २३.
 बहु(हु-आ)प्- -ह्रापः वैध ३, ४,
 ११.
 बहु(हु-आ)शिन्->शि-दुर्भाग-
 -गाः अप ६८, १, १०.
 बहु(हु-ई)वि(क>)का^१- -का अप
 ५२, १, ६; १५.
 बहु(हु-ऋ)च्^१- -हृचाम् आशिप ३,
 ७, ४ : ९; बौषि २, ३, १८^१.
 बहु(हु-ऋ)च्^१- -चः अप २, २, ४;
 ४, ३; ४; शंघ २००; -चम्
 अप ३, ३, ३; अज १९, १^१;
 -चाः आपश्रौ ६, २७, २; १३;
 २४, १०; निस् १, २ : १४; २,
 २ : ८x; साअ २, ६५६; शैशि
 ३३९; -चानाम् पाश्र २, १०,
 १९; ऋअ ३, २; -चैः ऋअ ३,
 १४.
 बाहुव्य- पा ४, ३, १२९;
 -च्यम् शाश्रौ १, १, १५.
 बहुच-ब्राह्मण^१- -णम् आपश्रौ १,
 २०, १०; ५, १५, १; ६, १३, ९;
 १५, १६; ३१, १३; ८, ५, २; ११

२, १०; १२, १७, २; १८, ८, ७.
 बहुच-वाजसनेयिन्- -यिनाम्
 आपश्रौ ८, १५, १२.
 बहु(हु-ए)क-धातु-ज- -जम् वृदे
 २, १०३.
 बहु(हु-ओ)षधिक^१- -के कौश्र १,
 २१, २१; १शाश्रु^१ १, २८, २३;
 ४, ६, ३.
 बहुकीट- (>बाहुकीट- पा.) पाग
 ४, २, ११०^m.
 १बहु-ल- बहु-द्र.
 २बहुल^m- -लः भाश्र २, १५ : २;
 -लस्य अप ५०, ९, ५; -ले
 वेज्यो ९.
 बहुला^१- (> ३बहुल- पा.) पा ४, ३,
 ३४.
 बहुलिमन्- बहु-द्र.
 बहुदरि^m- -रयः बौश्रौ ४३ : ५.
 १बहु दंवि १, ९१.
 बाकायन- १वक-द्र.
 बाड् वाट् द्र.
 १बाड् पाधा. भ्वा. आत्म. आह्लाव्ये..
 बाडव- वडवा-द्र.
 १बाड् (< १बाह्) > बाड^m- पा
 ७, २, १८.
 १बाण^m- पाग २, ४, ३१^१; -णः आपमं
 १, १२, ९१; सु २३, २; कौश्र १,
 १२, ६१; शाश्र १, १९, ६१; हिश्रु
 १, २५, ११; -णम् बौश्रौ २२,
 ५ : १०; जैश्र २, ९ : १२; कौसू
 ३५, ३; -णाः आश्र ३, १२,
 १९१; भाश्र १, २८ : २१; अप

a) वस. । b) वस. > दस. । c) कष. । d) कस. > वस. उप. = २दक्षिणा- । । e) पाभे. पृ १७९९ । । f) बहुवचन- । g) वैप १द्र. । h) वस. उप. समासान्तस्य प्र. अभावः उसं. (पा ५, ४, ७४) । i) बहुव-
 चानाम् इति R. । j) अनद्येतर्यपि समासान्तः अः प्र. उसं. (पा ५, ४, ७४) । k) उप. = २ब्राह्मण- ।
 l) बहु इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. कौश्र.) । m) बाहु इति पाका. । n) = कृष्ण-पक्ष- । व्यु. ? ।
 o) = कृत्तिका-नक्षत्र- (तु. वापाभा.) । p) = ऋषि-विशेष- । q) तु. वैप १, ४५६० । r) वैप १ निर्दिष्टानां,
 समावेशः द्र. । s) तु. पाका. । चारबाण- इति भाण्डा. प्रभृ. ।

७०^३, २१, ५; ७१, १४, ४; उनिस्
 ७ : ३१^१; -णे दंवि १, ५^१.
 बाणL, पा^१प (रां) ^१णी^१ - गींम्
 कौस् ३६, १९; ३८; अश्र ३, १८.
 बाण-मुख- -खम् सु २३, १.
 बाण-वत्- -वत् बौश्रौ १०, २३ :
 १७; २३; -वतः आपश्रौ १८,
 १४, ११; वाश्रौ ३, ३, २, ३९;
 -वङ्गिः शाश्रौ १४, २२, ११;
 बौश्रौ १८, २४ : ८; -वन्तः
 काश्रौ २२, १०, २५; आपश्रौ
 १८, १०, २७; २२, ४, २२; माश्रौ
 ५, १, ९, १८; हिश्रौ १३, ४, १३;
 -वाच तैप्रा ९, २१; १३, ९.
 बाणा(रा-आ)कार- -रम् आमिष्ट
 २, ५, १ : १८.
 बाणौ(रा-ओ)घ- -घैः विघ ४३, ४२.
 र्बा, वा^१ण^१ - -०ण द्राश्रौ ११, १,
 ५; ६; लाश्रौ ४, १, ५; ६; -णः
 आपश्रौ २१, १७, १०; बौश्रौ
 २३, ११ : २८; हिश्रौ १६, ६, ९;
 तैप्रा १३, १२^१; भाशि ६३^१; -
 णम् आपश्रौ २१, १८, ९; बौश्रौ
 १६, २० : ५; २१ : ५; वाश्रौ
 ३, २, ५, २५; द्राश्रौ ११, १, १०;
 दंवि २, ८^१; -णस्य द्राश्रौ १०,
 ४, १५^२; लाश्रौ ३, १२, १५^२;
 -णेन काश्रौ १३, २, २५; हिश्रौ
 १६, ६, १५.
 बाण-भेरी-मृदङ्ग-गती(र्त-आ)र्त^१-
 शब्द- -ब्देषु गौघ १६, ७.
 बाण-शब्द- -ब्दस् माष्ट १, १०,
 ७^१; -ब्दे कौष्ट ३, ९, २६; वाघ

१३, २१.
 वापाकर्णी- ऋत ५, १, ३.
 वादर- प्रमृ. १वदर- द्र.
 वादरायण- प्रमृ. २वदर- द्र.
 वादकायन-, वादकि- १वदक- द्र.
 वाघ^१ पाथा. भ्वा. आत्म. लोडने,
 वाघते आश्रौ ८, १०, ३; शाश्रौ
 १०, ११, ९; १२, २४, २; आपमं
 १, १५, १; बाघन्ते शाश्रौ २, ८,
 ६^१; जैष्ट २, ६ : ११; आमिष्ट
 २, ५, ९ : १३; बाघसे आष्ट ३,
 ७, १^१; वाघे शाश्रौ २, ८, ६;
 दंवि १, ८; बाघताम् माष्ट २,
 १८, २^१; वाघन्ताम्^१ आपमं
 २, २२, ११; भाष्ट २, ३० : १५;
 हिष्ट १, १६, ७; वाघस्व आपश्रौ
 ७, ६, ७; बौश्रौ ८, १९ : १५;
 वैश्रौ १०, ६ : ३; बाघध्वम् बौश्रौ
 १२, ९ : २३; लबाघन्त भाशि
 ५१^१.
 बाघ्यते अप ७०^३, २, ४; मीस्
 ३, २, ८; बाघ्यन्ते अप ५१, ५,
 १; २; विघ ४३, ४१.
 बाघ- -घः कप्र ३, ९, १६; अप
 ४८, १०३^१; निघ २, ९^१.
 र्बाघक- -कस्य पावा ३, १, १४.
 बाघक-बाघना(न-अ)र्थ- -र्थम्
 पावा ३, ३, ४३; ४४.
 बाघक-विषय- -ये पावा ३, १,
 १४.
 वाघमान, ना- -दः^१ आपश्रौ १६,
 १६, १; वैश्रौ १८, १४ : ८;
 -नाम् माष्ट १, १४, १६^१.

बाधित- -त्म् कप्र ३, ९, १६.
 बाधित-त्व- -त्वात् पावा १, १,
 ४४.
 बाधितुम् वृदे ७, ५४.
 बाध्य- -ध्वः आपध २, २६, १८; २८,
 १०; हिध २, ५, २१३; ६, १०.
 बाध्यमान- -नाः वृदे ७, ५५.
 र्बाधक- प्रमृ. बधक- द्र.
 र्बाधक- √बाध^१ द्र.
 र्बाधकाशाध्यने^१ अप २४, १, ६.
 बाधकी- बधक- द्र.
 वाघते^१ अप्राय ४, १.
 बाधिरक- र्बधिर- द्र.
 बाधिरिक- बधिरिका- द्र.
 बाधिर्य- √बध^१ द्र.
 वान्धकायन-, कि-, किनेय-, केय-
 बन्धक- द्र.
 वान्धव- प्रमृ. √बध^१ द्र.
 वान्धवायनि- र्बन्धु- द्र.
 वान्धायनि- बन्धा- द्र.
 वान्धुक्य^१ -क्याः बौश्रौ १५ : २.
 वान्धुपत-, वान्धुमैत्रिक-, बाबध्य-
 मान- √बध^१ द्र.
 वाभ्रव-, ष्य-, ष्यक- र्बन्धु- द्र.
 वाभ्रुक- १वभ्रु- द्र.
 वावैर- प्रमृ. ववैर- द्र.
 वार्ह^१ -र्हाः बौश्रौ ३ : ३.
 वार्हत-, र्हदगन- प्रमृ. √वृह^१ द्र.
 वार्हस्पत्य- वृहस्पति- द्र.
 वाल्^१ आपश्रौ ९, १९, ४; बौश्रौ १४,
 १४ : २२; वैश्रौ.
 र्बाल, लाल^१ -पाग ५, १, १२२; १२३;
 १२८^१; -लः कप्र २, २, ९; अप

a) कौस्. पाठः । b) नार. (ओषधि विशेष-) । बस. उप. = २आकार- । d) आपश्रौ. हिश्रौ.
 गौघ. द्राश्रौ. प्रमृ. पाठः । e) नाप. (वीणा-विशेष-) । f) गर्त- = रथ- इति भाष्यम् । g) पाभे. वैप १ (परि.)
 लुदन्तु शौ ६, १२४, २ टि. द्र. । h) = १बल- । i) वैप १, २२७४ व द्र. । j) पाभे. वैप १, १०८० h
 द्र. । k) पाठः ? । कसाघनेन इति संस्कृतः टि. । l) पाठः ? । सपा. ऋ १, २५, २१ जीवसे इति पाभे. ।
 m) = ऋषि-विशेष- । n) वैप १ द्र. । o) बा L, वा^१ लुमन्द- इति पासि. ।

२,१,५; शंघ ३५६; विध ५४,
३३; या ६, ३१, ९, १०६; -लम्
वैगु ३, २२ : ७; कप्र २, २, ९;
-लस्य वैगु ५, १० : १; अशां
१७, ५; शंघ २३; याशि १, ७४;
-ला अप ७०^३, ७, ३; वाध १७,
७४; -लाः कौगु ३, १०, ३५;
शांगु २, १६, ४; अमिगु २, ५,
९ : ११; जैगु २, ६ : ९; वृदे
४, १२०; -लान् कौगु ३, १०,
२४^३; गोगु ४, ८, ३१; अप ५३,
२, ३; आपध २, ४, १२^३;
-लानाम् अमिगु २, ४, ६ : ४२;
अप ६४, १०, २; ६५, २, ९; ७०^३,
८, २; शंघ ३००; ३०१; बौध
४, ५, ७; -ले अमिगु ३, ७, ४ :
३; बौपि २, ३, ८; शंघ; -लेन
वैगु ६, ५ : २; -लैः बौश्रौ २७,
११ : १६; १९; वाध ३, ४५.
१बाल-क- कान् विध ६८, २५.
बालक-प्रव्रजित-वृद्ध- -द्वेभ्यः
शंघ ७८.
बाल-कृत- -तम् वैगु १, २१; १०^३.
बाल-ग्रह- -हान् शंघ ११६ : २६.
बाल-अ- -घान् विध ५४, ३२.
बाल-ज्येष्ठ- -ष्टाः पागु २, ९, १३.
बाल-तर- -रस्य शंघ ३९२.
बाल-ता- पा ५, १, १२३.
बाल-त्व- पा ५, १, १२३; -त्वे
अप ९, २, ७; ३८, ३, ५.
बाल-देशान्तरित-प्रव्रजिता(त-अ)
सपिण्ड- -गडानाम् गौध १४,
४२.

बाल-धन- -नः वाध १६, १८^३;
-नम् गौध १०, ४५; -नानि
शंघ ३००.
बाल-धूर्त- -तम् विध ४८, २२^६.
बाल-बन्धन- -नः^१ आपमं २,
१६, १; पागु १, १६, २४; भागु
२, ७ : ७.
बाल-भाव- -वात् वृदे ४, ३.
बाल-मानस-ग- -ध्वान्त- > ण्त-
विपाटन-पटीय(स् >)सी-
-सीम् जैश्रौका ५.
बाल-वत्स- -त्सस्य याशि १, ६९.
बाल-वृत्त- -त्तम् बौध ३, ६, ८^३.
बाल-वृद्ध- पाग २, ४, ४१^६; -द्धान्
बौध २, ७, १९; -द्धानाम् अप
२२, १०, ४; ४१, ३, ९; -द्वौ
विध ५, १८९.
बाल-वृद्ध-मत्तो(त-उ)न्मत्तो(त-उ)
पहतदेह-भाराक्रान्त-स्त्री-स्ना-
तक-प्रव्रजित- -तेभ्यः शंघ ८६.
बाल-वृद्ध-रोगार्त-श्रा(न्त >)न्ता-
न्तः(ऽन्ताः^१) शंघ १४५.
बाल-वृद्धा(द्ध-अ)तुर- -रेषु वाध
२३, ४३.
बाल-वृद्धा(द्ध-अ)नाथा(थ-अ)र्त-
श्रान्त- -न्तान् वैध १, ४, २^३.
बाल-व्याधिता(त-अ)र्त- -तैः विध
६३, १३.
बाल-स्त्री-धन- -नानि शंघ ३००.
बाल-स्त्री-परिगत- -तानि शंघ
१६९.
बाला(ल-अ)कृति^६ -तिः अप
५०, ६, ५.

बाला(ल-अ)तप- -पम् वैध ३,
३, १.
बालातप-सेवा- -नाम् विध ७१,
४६.
बाला(ल-अ)नाथ-स्त्री-धन- -नानि
विध ३, ६५.
बाला(ल-अ)र्क-बोधित-सरोरुह-
गर्भ-गन्ध^६ - -न्धाः अप २४,
६, २.
बाला(ल-अ)र्क-वर्णा(र्ण)-आभा
>)म- -मः अप २९, १, ५.
बालिमन्- पा ५, १, १२३.
१बाल्य- पा ५, १, १२३; १२८;
-रुधे अमिगु २, ४, ५ : २३;
अप ९, ३, ३; बौध ४, ७, ८; विध
९६, ३४.
बाल्य-व्यौवन-वार्धक्य- -क्येषु
विध २५, १३.
२बाल^०- पाग ४, १, १५४.
बालायन^०- -नाः बौश्रौप्र ३ : ८;
४७ : ३.
बालायनि- पा ४, १, १५४.
२बाल्य- -रुधाः बौश्रौप्र ७ : २.
३बाल्य- -यः बौश्रौप्र ६ : १.
३बाल- १बाल-द्र.
३बालक- (>ष्य-पा.) पाग ४-
२, ४९.
बालखिल्य- बालखिल्य-द्र.
बालन्दन^०- -नस्य चाश्र १६ : १६.
बालव^०- -वम् आज्यो ४, ५; ५, ३;
-वस्य आज्यो ५, १६.
बालाकि- बलाक, का-द्र.
बालाहक- बलाह-द्र.

a) सपा. शांगु २, १४, २१ कुमारान् इति पाभे. । b) पाभे. पृ ८८३ p द्र. । c) [=बालपीठक-] अमुर-विशेष-। षस. वा उस. वा । d) बस. । e) मनुः ८, १५० णम् इति । f) मलो. कस. । g) सपा. बालधूर्तम् <> बालवृत्तम् इति पाभे. । h) =बाल-ग्रह-। उस. । i) पाभे. पृ १४४६ I द्र. । j) 'वृद्धम् इति मैत्र. । k) तु. पागम. । l) पाठः? यनि. शोघः । m) 'द्धाननाथार्ताश्रमा' इति C. । n) कस. > कस. > कस. > षस. > बस. । o) व्यप. । p) फ्रू प्र. उसं. (पा ४, १, ९९) । q) =करण-विशेष- ।

बालिश^a- पाउमो २, ३, १४७; पाग ५, १, १२४; -शरय या ४, २०.
 बालिश्य- पा ५, १, १२४.
 बालीवदिनेय- बलीवदी- द्र.
 बालीवदिनेय- बलीवदी- द्र.
 बालीवर्देय- बलीवर्दिन्- द्र.
 श्वालेय- श्वलि- द्र.
 श्वालेय- श्वलि- द्र.
 बाल्वज- प्रभृ. बल्वज- द्र.
 बाल्ही (ह्नी)क^b- पा, पाग ५, ३, ११७; -का: अप १, ७, ८; -कान् अप ५०, २, ४.
 बाष्क^c- ष्कान्^d आपश्रौ २०, १४, १०; हिश्रौ १४, ३, १७.
 बाष्कय- बष्कय- द्र
 बाष्कल^e- लम् आण ३, ४, ४; शाण्ट ४, १०, ३; -ला: बौश्रौ प्र ८: १; २१: १; वृदे ८, ८५; चव्यू १: ८.
 बाष्कलक^f- क: ऋअ ३, २१; -के ऋअ ३, ३६.
 बाष्कलेय- य: बौश्रौ प्र ६: २.
 बाष्प- पाउ ३, २८.
 √बाष्पाय पा ३, १, १६.
 बास्त- श्वस्त- द्र.
 बास्तायन- श्वस्त- द्र.
 √बाह् पाधा. भ्वा. आत्म. प्रयत्ने.
 बाहव^h- वा आश्रौ ३, ८, १; शाश्रौ ८, १२, ८; ९, २, २; काश्रौ.
 बाहवि- श्वबाहु- द्र.
 बाहिवैदिक-, °हिष्पवमानीय-, °हीक- बहिस्- द्र.

श्वबाहु^b- पाउ १, २७; -ङ्हव: कौस् १६, २१; अत्र ११, ९; अप ३: ४८; ४: २७; शुपा ४. ६४; दंवि १, १२; -ङ्हु: आश्रौ १२, ९, ७; शाश्रौ; -हुभ्याम् ङ् आश्रौ १, १३, १; ३, १, १६; १७; शाश्रौ ४, ७, ५ङ्; आपश्रौ; -हुम् शाश्रौ १, ६, ५ङ्; ४, १२, १०ङ्; १६, ७; आपश्रौ; या ४, २०ङ्; ९, १५; दंवि १, ८ङ्; -हुवो: आपश्रौ २०, १३, १२; २२, २८, ९ङ्; बौश्रौ; -हू आश्रौ ३, ३, १ङ्; ९, ४; शाश्रौ ५, १७, ५ङ्; आपश्रौ; -हून् माश्रौ ६, १, ३, ३०ङ्; वाश्रौ २, १, २, २९ङ्; द्राश्रौ ३, १, १०; लाश्रौ १, ९, ११; -ङ्हौ आपश्रौ ७, १३, ८; १२, ११, १०; हिश्रौ; -हो: शाश्रौ ४, १५, १३; काश्रौ; माश्रौ ५, २, १५, २०ङ्; वाश्रौ १, १, ५, १९ङ्; वैश्रौ.
 श्वबाहु-क^k- क: बौध २, ३, ४६.
 बाहु-क- पा ३, २, २१.
 बाहु-गृहीत- तम् कौस् ५५, १६.
 बाहु-च्युत^l- त: माश्रौ २, ४, ३, २९^m; हिश्रौ ९, ५, ३६; वैताश्रौ १६, १७^m; २४, १.
 बाहु-छेद- दे अप ६८, २, १०.
 बाहु-दाक्षिण्य- ग्यात् निस् ७, ४: १६; ५: ५.
 बाहु-द्वय- यम् विध ९६, ९०.
 बाहु-नामन्- म या ५, २५; -मानि

निध २, ४; या ३, ८.
 बाहु-प्रमाण- णे वैश्रौ ११, ८: ३.
 बाहुप्रमाण-दण्डⁿ- ण्डानि वैश्रौ १३, ७: १८.
 बाहु-प्रशंसा- सा मीस् ९, ४, २३.
 बाहु-बल->°बलिन्- पावा ५, २, १३५.
 बाहु-मात्र,त्रा- त्रम् शाश्रौ १७, १, १०; माश्रौ; -त्रा कप्र १, ८, १२; अप २२, २, ३; २३, ६, १; -त्रा: आपश्रौ १५, ५, १३ङ्; काठश्रौ; -त्रान् काश्रौ २, ८, १; ८, ५, १०; आपश्रौ; -त्रे माश्रौ २, २, ३, ३५; ४, ४; -त्रौ वौश्रौ २०, ३: १०.
 बाहुमात्री- त्रौ आपश्रौ ६, ३, ६; -त्रीम् काश्रौ १७, ४, १२; हिश्रौ ११, १, ११; -त्र्य: काश्रौ १, ३, ३८; आपश्रौ १, १५, १२; हिश्रौ १, ४, ३२; -त्र्या कौस् ४७, २४.
 बाहुमात्रा(त्र-अ)न्तर^o- रान् माश्रौ २, २, ४, ४.
 बाहुमात्रा(त्र-आ)याम- मे वैश्रौ ११, ७: १०.
 बाहु-मूल-सामान्य- न्यात् या २, २.
 बाहु-वीर->°र्थ^p- र्थे दंवि १, ९ङ्; -र्थेण वाध २६, १६.
 बाहु-वृक्त^q- क्त: ऋअ २, ५, ७१.
 बाहु-संज्ञक^r- कम् अशा १, ५ङ्.
 बाहु(हु-अ)ङ्क^s- ङ्के: दंवि १, ९ङ्.

a) = मूर्ख-। व्यु. ? <बलिश- इति अभा., <श्वबाल- + √वी इति स्क. दु. [या.]। b) = आयुध- जीविसंघविशेष- (तु. वापाभा ४६१)। c) = एकहायन-वत्स- इति !संस्कृते: सूची। व्यु. ?। d) पाप्मे. वैप १, २२६८ ष द्र.। e) व्यप.। f) = [ऋग्वेदीय-] शाखा-विशेष-, तदध्येतृ- वा। g) विप. (बाष्कल-शाखीय-। कम-)। चरणेऽर्थे वुञ् प्र. उत्सं. (पा ४, ३, १२८)। h) वैप १ द्र.। i) पाप्मे. वैप १, २२७६ f द्र.। j) पाप्मे. वैप १, २२७६ d द्र.। k) तरत्यर्थे ठञ् प्र. (पा ४, ४, ७)। l) सप्र. मनु: ४, ७७ बाहुभ्याम् इति। m) पाप्मे. वैप १, १२६८ ष द्र.। n) बस.। o) पूष. = आर्द्रा-नक्षत्र-।

बाहू(हु-अ)न्त- -न्तात् पा ४, १, ६७.
 रबाहु^१- पाग ४, १, ९६; २, ८०^२;
 -ह्वः^० बौश्रौप्र ४६ : २.
 बाहवि- पा ४, १, ९६.
 बाहवि-नागर्य-गौतम-शाकलय-
 वात्रव्य-माण्डव्य-माण्डूकेय-
 -याः आण्य ३, ४, ४.
 रबाहु-क- पा ४, २, ८०^२.
 र्बाहुक- १वाहु- द्र.
 बाहुकीट- बहुकीट- द्र.
 बाहुभाष्य- बहु- द्र.
 बाहुमित्रायण^१- णः बौश्रौप्र ३ : १३.
 बाहुल-, लक- बहु- द्र.
 बाहुलकि^१- -क्यः बौश्रौप्र १९ : १.
 बाहुल्य-, बाहुश्रुत्य- बहु- द्र.
 बाह्य. ह्या- वहिस्- द्र.
 बाह्यकि^१- -क्यः बौश्रौप्र ३ : ४.
 बाह्योग^१- -गाः बौश्रौप्र १७ : २.
 बाहूच्य- बहु- द्र.
 √बिद् पाधा. भ्वा. पर. आक्रोशे.
 बिट^१- -म् या ६, ३०^१ कृ; -ठे या ६, ३०.
 बि, वि^१डाल^१- पाठ १, ११८;
 -लः पावा ३, २, ८४; -लानाम्
 अप ६४, ७, ५.
 बिडाल-नकुल-काक- कानाम् सुघ
 ४३.
 बिडाल-मत्स्य-मज्ज^१- -जानाम् अप

६४, ५, ४.
 बिडालो(ल-उ)लक- -कयोः अप
 ६४, ६, ९.
 बिडाल-काक-नकुला(ल-आ)खू(खु-
 उ)च्छिष्ट-भक्षण- णे विघ
 ५१, ४६.
 बिडाल-व्रत- > बैडालव्रतिक-
 -कः विघ ९३, ८; -कान् विघ
 ८२, ५; -के विघ ९३, ७.
 बि, वि^१द्^१- पाग ४, १, १०४;
 ११०^१; -दाः^१ बौश्रौप्र १ : ३;
 ४ : १; ४; ५ : ५; -दानाम्^१
 आश्रौ १२, १०, ९; पा ४, १,
 १०४.
 बै, वै^१द्- पाग ४, १, ७३; -०द्
 बौश्रौप्र ४ : ५; -दः बौश्रौप्र
 ४१ : १०.
 १बैदी- पा ४, १, ७३.
 बै, वै^१द्-त्रिरात्र^१- -त्रः निस्
 ८, ८ : २४; -त्रम् आश्रौ १०,
 २, १०; -त्रे द्राश्रौ ४, १, १६;
 लाश्रौ २, २, ४; ९, ७, ८; निस्
 ३, ७ : ७; -त्रेण आपश्रौ २२,
 १८, ४; हिश्रौ १७, ७, १.
 बैद-स्वरसामन्^१- -म्नोः
 वैताश्रौ ४१, ४.
 बै, वै^१द्वायन- पा ४, १, ११०;
 -नाः बौश्रौप्र ४३ : ४.
 बिद-वत् बौश्रौप्र ४ : ५.
 बिदल^१- > बैदल^१- लः आपश्रौ

१९, ६, २; हिश्रौ २३, १, ११;
 -लम् आपश्रौ १९, ६, ३; हिश्रौ
 २३, १, १२.
 बैदल-क- -कान् बौश्रौ २१,
 २६ : ६.
 √विन्द पाधा. भ्वा. पर. अवयवे.
 विन्द^१- -न्दः या ६, ३२.
 विन्दवि^१- (> १ विन्दवीय-)
 रविन्दवीय- रविन्दु- द्र.
 रविन्दु^१- पाठमो २, १, १०; -न्दवः
 आपध १, १६, १२; बौध १, ५,
 ८९^१; विघ २३, ५४; हिघ १,
 ५, ११; -न्दुः आपश्रौ १३, ९,
 ९; वैश्रौ १६, ११ : ७; २६ : ५;
 आपण्य २३, ८; या २, १; दंवि २,
 ३^१; -न्दुना कौसू १३, ११;
 -न्दुम् माश्रौ ३, ६, १२; -न्दुन्
 बौश्रौ ८, २० : १८.
 विन्दु-मत्- -मत् काश्रौ २५, २, १०.
 विन्दु-सिक्त- -क्तम् या १४, ३०^१.
 रविन्दु(वपा.)- पाग २, ४, ६७; ४, १,
 १०४^१; ५, ३, ११६^१; -न्दवे काण्य
 ४, २०^१; -न्दुः ऋअ २, ८, १४;
 ९, ३०; सात्र १, १४९; १७४.
 बैन्दव- पा २, ४, ६७; ४, १,
 १०४.
 रविन्दवीय- पा ५, ३, ११६.
 विन्दुक^१- -के विघ ८५, १२^१.
 विन्दुसरस्^१- > १ः प्रमुख^१- -खानि
 शंघ ११६ : ११^१।

a) व्यप. । b) सकृत् स्थूलबाहु- इति पाका. । c) बहु. < बाहवि- । d) = अन्तरिक्ष- ।
 MW. निष्क- इति । e) पाठ. विघ. पाठः । f) = मार्जार- । व्यु. ? < √बिद् (आक्रोशे) इति प्रायिकम् ।
 g) मज्ज- = जलजन्तु- ? । h) बौश्रौप्र. निस्. पाठः । i) व्यप. । व्यु. ? < √बिद्, न्द इति MW. ।
 j) विदापुट- इति पाका. BPG. PW. प्रच. । k) बहु. < बैद- । l) निस्. वैताश्रौ. पाठः । m) = अहीन-
 विशेष- । n) पूष. = बैद-त्रिरात्र- । o) बौश्रौप्र. पाठः । p) = वंश-खण्ड- । व्यु. ? < √बिद्, न्द, इति
 वाच. PW. MW. । q) विकारार्थे प्र. । r) = इषु- । s) पृ ६९८ द्र. । t) वैप १ द्र. । u) तु.
 राज., शिवसं. । १न्दुः सिं इति ल. ? । v) = आयुधजीविंसघविशेष- । w) = देवता-विशेष- । x) = तीर्थ-
 विशेष- । y) बिल्के इति जीसं. । z) बस. । a^१) 'सराप्र' इति पाठः ? यनि. शोचः (तु. वीरमित्रोदयः [२, ३५६])

विभीत L, द^a क^b- पाउभो २, २, ३९;
पाग ४, ३, १५४; -कः वाधूश्रौ
४, ५९^२ : १.

वैभीत L, द^a क- पा ४, ३, १५४;
-कः आश्रौ ९, ७, ७; शांश्रौ १४,
२२, १५.

विभीदक-तिल्वक-बाधक-नीव-
निम्ब-राजवृक्ष-शालमलय (लि-अ)
रल-दधित्थ-कोविदार-श्लेष्मात-
क-वज्रम् गोष्ट १, ५, १६.

विभेदादि- √भिद् द्र.

विभ्यत्- √भी द्र.

विभ्यस्यत्- √भ्यस् द्र.

विभ्युषी- √भी द्र.

विभ्रत्- √भ्र द्र.

श्विम्ब^c- पाउ ४, ९५^d; पाग २, ४,
३१; ४, १, ४१; -म्बस्थ^e वैष्ट
४, ११ : १३; १६.

विम्बी^f- पा ४, १, ४१.

विम्ब-क^h- -काः अप ५२, २, ३.

रविम्ब^g- > वैम्बकि- पावा ४, १,
९७; -कयः बौश्रौ ४१ : ३.

√विल् पाधा. तुदा. पर. भेदने; चुरा.
पर. क्षेपे.

श्विलⁱ- लम् शांश्रौ १२, १७, ११;
काश्रौ १६, ४, ३; आपश्रौ २, ४, ४;
६, ११^१; ७, ३×; बौश्रौ; -लयोः
वैश्रौ १८, १८ : १३; -लात्
आपश्रौ १६, ४, ११; अप २३,
३, २; -लानि बौश्रौ २४, २७ :
१५; १६; -ले शांश्रौ ५, ९, ८;
आपश्रौ ७, १२, १४; १२, १६,
११; २९, ९; १३, १०, १०;
वैश्रौ; -लेन बौश्रौ ९, १ : ९;

१०, १ : ८; २५, २९ : १;
वैश्रौ १३, ४ : १.

विल-बाह्य- -ह्यम् अप २३, ३, ३.

विल-वत्- -वन्ति आग्निष्ट १, १, १ :
२८; भाग्य १, ३ : ४; हिष्ट १, १,
२४.

विल-वासिन्- -सिनाम् अप ६५,
२, ७.

विल-शब्द- -न्दे दंवि १, ५.

विला (ल-अ) र्व- -र्वे अप २३,
२, ४.

विलार्ध-तस् (:) अप २३, ३, ३.

विला (ल-अ) वका (श >) शा¹-
-शाम् भाश्रौ १०, ५, १२^१; ३;
हिश्रौ ७, १, ४३.

विले-शय- -यः विध ४४, १३.

रविल- (> विल-स- , बैलायन-) पाग
४, २, ८०^२.

विलिश¹- -शम् सु १७, २.

विल्म²- पाउभो २, २, २४३; -ल्सम्
या १, २०^३.

विलम-ग्रहण- -णाय या १, २०.

श्विल्व^m- पाउ ४, ९५; पाग ४, २,
८०ⁿ; ९१; ३, १३६; ६, ४, १५३;

-ल्वः शांश्रौ १२, २४, २१;

वाधूश्रौ ४, ६४^५ : ८; वैश्रौ १०,
१ : ११; अप २३, ६, ५; -ल्वम्

अप ३३, ५, ८; या १, १४;

-ल्वे विध ९९, १२; -ल्वैः

अप ३१, ६, ४; शंघ ४४८.

श्वैल्व- पाग ४, ३, १३६;

पाग ४, २, ८०^m; -ल्वः शांश्रौ

१५, १, १६; आपश्रौ १८, १, ८;

वाधूश्रौ ४, ६४^५ : ८; वैश्रौ;

-ल्वम् आपश्रौ ७, १, १६; १२,
१, १२; बौश्रौ ७, ६ : ४६; भाश्रौ;

-ल्वः शांश्रौ १६, ३, २; १२, ३;

आपश्रौ; -ल्वान् बौश्रौ १५,
१४ : ३; २३ : १; वाश्रौ ३, ४,
१, ५५; हिश्रौ १४, २, ४०;

-ल्वानाम् वाधूश्रौ ३, ८१ : ५;

-ल्वानि बौश्रौ १५, १४ : १;

वाधूश्रौ ३, ७६ : ७; -ल्वे हिश्रौ

१४, ५, ११; -ल्वेन काश्रौ ९,
६, ११.

बैल्व-खादिर-पालाश- -शाः

काश्रौ २०, ४, १९.

बैल्व-पालाश- -शौ गौध

१, २४.

बैल्व-पालाश-खादिरा(र-

आ)श्वत्थ-पैलवौ(व-श्रौ)दुम्बर-

-राः शंघ ३६^{१०}.

श्वैल्वक- पा ४, २, ८०.

विल्वकीय- पा ४, २, ९१.

श्वैल्वक- पा ६, ४, १५३.

विल्व-गुल्म-लता- -ताः आउयो २,
१०.

विल्व-गौरसर्षप- -पाः अप ३३, १,
७.

विल्व-तण्डुल- -लैः बौध १, ५,
३२.

विल्व-तस (:) अप ३६, २, ४.

विल्व-पद्मो(घ-उ)पल- -लानाम्
अप ७०, ४, ८.

विल्व-पलाश- -शयोः अप ३६, २,
४.

विल्व-पलाश-खादिर-रोहीतको(क-

उ)दुम्बर- -राणाम् वाश्रौ १२, २,

a) शांश्रौ. गोष्ट. पाठः। b) = वृक्ष-विशेष- (नमा. बहेडा)। c) वप्रा.। व्यु. ?। d) < √वी।

e) = प्रतिमा-। f) वैप १ द्र.। g) = वनस्पति-विशेष- इति पागम.। h) स्वार्थे प्र.। i) व्यप.।

j) वस.। k) °शम् इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. हिश्रौ.)। l) = विडिश-। व्यु. ? < बलिम्- + √शो

इति अभा.। m) वैप १, २२७८ k द्र.। n) श्वैल्व- इति पाका.। o) बि° इति पाठः ? यनि. शोघः।

१,३०; ६,१,५.
 बिल्व-प्रमाणक^a - कान् कप्र १, ३,
 १४.
 बिल्व-मात्र- -त्रम् गोय ४,१,१२.
 बिल्व-वृक्ष- -क्षम् अप ३६,२१,१;
 -क्षस्य अप २६,५,२.
 बिल्व-शाखा- -खायाम् वौष्ट २,
 ६: १२.
 बिल्व्वा(ल्व-अ)कृति^b - -ति: अप
 २३,१,४.
 बिल्व्वा(ल्व-अ)द्- -द: या १, १४.
 बिल्व्वा(ल्व-अ)दि- -दिपु पावा ४,
 ३,१३४.
 बिल्व्वा(ल्व-अ)भ्यवहार- -रेण विध
 ४६,१६.
 बिल्व्वा(ल्व-अ)शिन- -शिन: वैध १,
 ८,१.
 बिल्व्वा(ल्व-अ)हार^a - -र: अप ५,
 ३,३.
 रबिल्व^b - -ल्वयो: हिश्रौ ११, ६,
 २८^c.
 रबिल्वला^d - -ले अप ४८, ११६^e;
 दंवि २,२.
 रबिल्व^f, बिल्वयति निघ २,१४^g.
 बिस^d - पाउभो २,३, १७९; पाग ४,
 २, ८०^h; ८६; ५, ३, १३५;
 -रसम् या २, २४ⁱ; दंवि २,
 ५; -सानि शंघ ४४८.
 बिस-स्ना^d - स्ना या २, २४^j.
 बिस-वत्- पा ४,२, ८६.
 बिसवती^k - -वत्य: वौश्रौ १८,
 ४५: २४.
 बिसा(स-अ)भ्यवहार- -रेण विध

४६,१५.
 बिसि(न >)नी- पा ५,२,१३५.
 बिसिल- पा ४,२, ८०.
 बिसो(स-ऊ)र्णा- -र्णाया: आपध १,
 २३,२; हिध १,६,१०.
 बिस्त- विस्त- द्र.
 र्वीज^d - पाउभो २, २, ८६; पाग ४,
 २, ८०; ५, १, २; २, १७^e;
 -जम् शाश्रौ १५, १७, १^f;
 र्वीज^d - जम् शाश्रौ २०, ८, १३; १२, ८;
 वौश्रौ; अप ४८, ८७^g; निघ २,
 २^h; -जम्-जम् वौश्रौ २५,
 ३१: ३; ७; भाश्रौ ६, १६,
 २७; -जस्य आपध २, २, ४;
 हिध २, १, २६; -जान् आमिष्ट
 २, ५, १२: ३ⁱ; -जानि आपमं
 १, १३, २^j; ३; कौष्ट; -जे हिश्रौ
 ३, ८, ६९.
 बीज-ग्रहण- -णे आज्यो १२, १०.
 बीज-निवपन- -नम् आमिष्ट २, ५,
 १२: १.
 बीज-पूर^m - > रक- > क-
 माष- -षम् सुधप ८८: ५.
 बीज-भेद- -दे मीस् ११, ३, १४.
 बीजरुहाⁿ (> बीजरुहाⁿ कृ पा.)
 पाग १, ४, ७४.
 बीज-ल- पा ५, २, ९७.
 बीज-वत्- -वत: आग २, १०, २.
 बीज-वध- -धम् गौघ ३, २३.
 बीज-वपन- > नीय^o - -यस्य काय
 ७१, ८.
 बीज-वर- -रम् सु ३, १.
 बीज-वाप- > र्वीजवापि- (> र्वीज-

वापीय- पा.) पाग ४, ३, १३१^p;
 ५, ३, ११६^q.
 बीज-वापिन्- (> र्वीजवापि- पा.)
 पाग ४, २, ८०.
 बीज-होम- -म: वैश्रौ १, १२: ११;
 १३: १३.
 बीजा^r कृ पा ५, ४, ५८.
 बीजा(ज-अ)र्थ- -र्था: आपध २,
 २४, ६; हिध २, ५, १७१.
 बीजिक- पा ४, २, ८०.
 बीजिन्- -जिन: वाय १०, २; गौघ
 ४, ४.
 बीजि-क्षेत्रिक- -कयो: शंघ
 २८९.
 बीजो(ज-उ)पहरण- -णम् कौस्
 २४, १.
 बीजौ(ज-ओ)षधि-महाफल^r - -ल:
 विध १, ६.
 बीज्य- पा ५, १, २.
 र्वीज^p - (> र्वीज्य- पा.) पाग ४, १,
 १२३.
 बीभत्स- प्रम्. र्विध् द्र.
 बीरिट^d - -टम् कृया ५, २७; २८;
 -रुटे विध ४, २; या ५, २८;
 -टेन या ६, ३०.
 बुक्- (> बुकिन्- पा.) पाग ४, २,
 ८०.
 र्वुक्क^s पाधा. भ्वा. पर. भषणे; चुरा.
 पर. भाषणे.
 र्वुजेवुज: दंवि २, ५.
 र्वुड्^s पाधा. तुदा. पर. संवरणे.
 बुद्बुद्.दा^d - पाउभो २, २, १७२;
 -दा: या १४, ६; -दाभि:

a) बस. । b) अर्थ: व्यु. च? । c) पामे. वैप १, २०-२१ d) द्र. । d) वैप १ द्र. । e) वि^o
 इति संस्कृता । f) या २, २४ परासृष्ट: द्र. । g) धा. गतौ वृत्ति: । भेदने वा वृद्धौ वा वृत्तिरिति या. । h) विश-
 विस- इति पाका. । i) = पुष्करणी-विशेष- । j) पृ १११७ e द्र. । k) = अपत्य- । l) अर्थचार्दित्वम् उंसं. ।
 m) = फल-विशेष- । नमा. अनार । n) वी^o इति पाका. । o) = यज्ञ-विशेष- । तदस्यप्रयोजनमित्यर्थे छ: प्र. ।
 p) व्यप. । q) = आयुषजीविसंघविशेष- । r) द्रस. > बस. । s) तु. BPG. ।

आमिष्ट २, ६, १ : ४^a.
 बुद्बुदोदरि^b -रयः बौध्रौष ४९ : ३.
 √बुध्^c पाधा. भ्रा. पर. अवगमने,
 उभ. अवबोधने; दिवा. आत्म.
 अवगमने, बोधामसि वाश्रौ ३,
 ३, ३, ११; बोधाति ऋप्रा ८,
 ३२१; ऋबोधत् ऋअ २, ४, १५;
 वृदे ४, १२९; ऋबोधत् आपमं
 २, ११, १०; आमिष्ट २, १, ५ :
 १३; या ११, ३१; ऋबोध, >
 धा काश्रौ १६, ६, ३०; आपश्रौ
 १६, ११, १२^d; १३, १; माश्रौ;
 या १०, ८.
 बुध्यते आपश्रौ १४, ९, ३; हिश्रौ
 १०, ८, ३९; बुध्यति अप ६८,
 २, ३; बुध्यन्ते बौश्रौ ७, १:१××;
 हिश्रौ ८, १, १; अनुध्यत वृदे
 ५, ६९; बुध्यते वृदे ३, ४८;
 बुध्यत् अप ६८, २, २२;
 बुध्येरन् वैश्रौ १४, २० : १०.
 बुबुधे वृदे ६, १००; १५०;
 ऋबोधि आश्रौ ४, १३, ७; १५,
 २; शाश्रौ; अनुधन् शाश्रौ ८,
 २०, ११; ऋबुधन् शाश्रौ ११,
 ९, ७; ऋअ २, १०, ३५; वृदे ७,
 ३७.
 बोधयति आपश्रौ ६, १, ३; आपमं
 २, १४, २१^e; भाष्ट १, २३ :
 १७^f; कौसू ५९, १८; ऋबोधय
 शाश्रौ २, ५, १३; आपश्रौ ५,
 २८, १०; १६, ७, ६१^g; बौश्रौ;
 ऋबोधयत बौश्रौ २, १४ :
 १३; १०, १७ : ११; बोधयेत्
 वैताश्रौ ५, ९; आपध १, ४, २५;
 हिध १, १, १४४; २, ५, २३७.

ऋबोधयिष्यति आपश्रौ ६, २७,
 १; वैश्रौ; बोधयिष्यन्ति बौष्ट ४,
 ९, १५; ऋबुबुधत् शाश्रौ १२,
 १५, २; या ४, १७.
 बोधयाम् √अस्, बोधयामास
 वृदे ६, ३७.
 ऋबुबोधति आपमं १, १, १; बौष्ट
 १, १, १४.
 बुद्ध- -हे आपध २, २१, १४; १६;
 हिध २, ५, १२३; १२५.
 बुद्ध-शास्त्र- -स्त्रात् मीसू १, २,
 ३३.
 बुद्धि- -द्धये वैष्ट ५, ३ : २०^h;
 -द्धिः बौश्रौ २९, ८ : १४; वैष्ट;
 -द्धिम् वैष्ट १, १९ : १२; वैध
 १, १२, १४; २, ६, १; या १, ४;
 -द्धेः अप ४८, ८४; शंघ १६२;
 -द्धौ पावा १, ४, १०९ⁱ; -द्धया
 बौध १, १, १६; वृदे ८, १३०;
 या १३, ११; १४, ६; पाशि ६
 बुद्धि-काम- -मः कौशि ६२.
 बुद्धि-कार-(>बौद्धिकार्थ- पा.)
 पाग ४, १, १५१.
 बुद्धि-जन्मन्- -न्म मीसू १, १,
 ४.
 बुद्धि-दीपि(न् >)नी- -नीम्
 माशि १६, १६.
 बुद्धि-पूर्व- -र्वम् आपध १, ४,
 २५; २, २५, ११; २६, १९;
 हिध १, १, १४४; २, ५, २१४.
 बुद्धि-मत्- -मतः या १३, ३५;
 १४, २२; -मते शाश्रौ २, ५,
 १३; आष्ट १, ५, २; -मात् अप
 ५२, १०, ५; ६२, १, १; २;
 आज्यो ७, १४.

बुद्धिमद्-इन्दुमत्- -मन्तो
 आश्रौ २, ८, ८.
 बुद्धि-मोह- -हम् आज्यो ७, ९.
 बुद्धि-रूप-शील-लक्षण-संप
 (त्र >)आ- -आम् आष्ट १,
 ५, ३.
 बुद्धि-वाच्- -वाक् अप ७०^j,
 २३, १४.
 बुद्धि-शक्ति-समेत- -तः कौशि
 ५७.
 बुद्धी(द्धि-इ)न्द्रिय- -याणि विध
 ९६, ९४.
 बुद्धवा आपश्रौ १२, १, १; वैश्रौ.
 बुध्^k- -धः आमिष्ट २, ४, १० : ५;
 ७, ६ : ३६; ३, १२, १ : ११;
 १२; काष्ट; -धाः आमिष्ट ३,
 १०, ४ : २१; अप; -धैः कप ३,
 ५, ३; अप.
 बुधा(ध-आ)दि- -दीनाम् पाव
 ३, १, १३५.
 बुध्^l- -धः वैष्ट ४, १३ : ३; जैष्ट;
 आज्यो ७, १०; -धम् वैष्ट १, ४ :
 ९^m; जैष्ट २, ९ : १०; शंघ
 ११६ : ४८; बौध २, ५,
 २३ⁿ; -धस्य अप ७०^o, २३,
 १४; आज्यो ८, ५; -धाय
 आमिष्ट २, ५, १ : १६; १९;
 २६; ३५; ४५; वैष्ट; -धे अप
 ६३, ४, ३; ७१, ७, ४.
 बौध- -धाः अप ५२, ३, १;
 -धे विध ७८, ४.
 बुध-बन्धन- -ने अप ५१, ४, २.
 बुध-बृहस्पति- -ती आज्यो ८, १.
 बुध-वार- -रे वैष्ट २, १२ : २.
 बुध्^p- -धः बौश्रौ १८, २६ : ५३

a) विप. (२अप-). तद्वति वृत्तिः। b) व्यप.। c) पा १, ३, ८६; ३, १, ६१ परामृष्टः द्र.। d) पामे.
 वैप १, २२७९ m द्र.। e) पामे. पृ ९९७ Q द्र.। f) पामे. वैप १, २२८० C द्र.। g) नाप.। कर्त्तरि कः प्र.।
 h) =प्रह-विशेष-। i) व्यप. (ऋषि- [सौम्य-])।

ऋञ् २, १०, १०१; शुञ् २, १२३^१; अञ् २०, १३७.
 बुध-गविन्त्रि- -तौ ऋञ् २, ५, १; शुञ् २, २३०; साञ् १, ७३.
 बुधन्^२ > बुधन्-वन्^१ -वान्
 भाश्रौ ५, २०, ६.
 बुधन्वती^१ - त्ती वैश्रौ १, २० : ३.
 बुधान-पाञ् २, १०; -तः या १०, ४१^१क^१.
 ऋबुध्य^१ -०ध्य^१ माश्रौ १, ६, ३, ७; १४.
 बुध्यमान- -नेषु आपश्रौ १४, ९, ३; हिश्रौ १०, ८, ३९.
 बोद्धव्य^१, व्या- -व्यः अप ५८^२, ३, ९; ६८, २, १८; -व्याः अप ५८^१; ४, १२; १८.
 १बोध^१ - पाग ४, ३, ९२^६; -घः
 आपमं २, १६, १४^१क^१; माय २, १५, १^१क^१; चाञ् ३८ : ७^१; ४२ : २०^१; अञ् ८, १^१.
 बौधेय^१ - न्याः चव्यू २ : ३७.
 १बौध्य- पा ४, १, १०७^१.
 -व्याः बौश्रौप्र ३१ : १०.
 २बौध्य- पा ४, ३, ९२.
 ऋबोध-प्रतीबोध- -धौ^१ अत्रा ३, १, ७; शौच ४, १६.
 २बोध^१ > बोध-व(त् >)ती^१ -
 तीभ्याम् आपश्रौ १६, १३, १^१; हिश्रौ ११, ५, १२.
 बोधत् > बोधत्-व(त् >)ती^१ -

-ऋतीभ्याम्^१ माश्रौ ६, १, ४, ३५; वैश्रौ १८, ११ : १८.
 बोधन्-मनस्^१ - -नाः साञ् १, १४०^१क^१.
 बोधन- -नात् काश्रौ २२, ४, १.
 बोधयत्- -यन् या १०, ४१.
 बोधयन्ती- -न्ती या ४, १६^१क^१;
 बोधयितृ- -०तः या १०, ८.
 बोधित- -तः माशि १०, १; १२, २; -ते वृदे ८, ७.
 बोध्य, ध्या- -ध्यः अप ४७, १, १९; -ध्यम् अप ४७, १, १५; -ध्याः
 अप १ : ३२; ४ : ८^१क^१; १७; ५ : १३; १९.
 बुध्न्^१ - पाञ् ३, ५; -ध्नः बौश्रौ १०, ५४ : २; १५, ३५ : ३; -ध्नम्
 बौश्रौ ९, ३ : १२; भाश्रौ; या १०, ४४^१क^१; -ऋध्नात् आश्रौ
 ४, ६, ३^०; बौश्रौ १३, २७ : ७; ८; ११; हिश्रौ २२, ४, १३; -ध्ने
 शाश्रौ १४, ५७, ८^१क^१; वृदे ५, १६६; या १०, ४४^१क^१; -ध्नेन
 शाश्रौ २, ९, ६; आपश्रौ ९, २, ९; भाश्रौ ९, ४, १; हिश्रौ १५, १, ४८.
 बुध्न-व(त् >)ती^१ -ती बौश्रौ १३, २७ : ६; १०.
 १बुध्निय^१ - न्या तैप्रा १०, १३^१क^१.
 ऋबुध्निय(२अहि)- -०य आपश्रौ ५, १८, २; बौश्रौ; -यः आपश्रौ

१, २२, २; ४, २, १; ११, १५, १;
 बौश्रौ ६, २९ : २१; भाश्रौ;
 -यम् बौश्रौ १२, ११ : ७;
 -याय आपश्रौ ५, १८, २; हिश्रौ ६, ५, १६; वैश्र ३, २० : ११; ५, २ : ३०.
 ऋबुध्न्य, धन्या- -०ध्न्य^१ आपश्रौ ६, २४, ३; ६; २६, २; ५; हिश्रौ ६, ७, २; ७; -ध्न्यः जैश्रौ १३ : २३; -ध्न्या आश्रौ २, १८, ४; शाश्रौ ३, १५, ९; -ध्न्याः आश्रौ ४, ६, ३; ५, ९, ५; दंवि १, १२; -ध्न्यात् अञ् ४, २.
 ऋबुध्न्य(२अहि)- -०ध्न्य आपश्रौ ५, १२, २; वाश्रौ १, ४, ४, १; ५, ४, २७; ३६; वैश्रौ १, १४; १६; -ध्न्यः आश्रौ ५, २०, ६; शाश्रौ ६, १२, २६; ८, ६, ८; आपश्रौ; वृदे १, १२६^१क^१; या १०, ४४^१क^१; वेज्यो ३४; -ध्न्यम् वृदे ५, १६५.
 √बुध्^१ पाधा. भ्वा. उभ. निशामने.
 बुध्^१ - न्दः निघ ४, ३^१क^१; या ६, ३२; ३३^१क^१; -ऋन्दम् साञ् १, २१६; या ६, ३४; -न्देन या ६, ३४.
 बुभुक्षमाण- प्रच. √भुञ् द.
 बुभूषा- √भृ द.
 बुभूषत्, -षा, -षु- √भृ द.
 बुर्वु^१ - रम् निघ १, १२^१क^१.
 ऋबु(त् >)ला^१ - ला^१ माश्रौ ६, २, २, १०; वाश्रौ २, १, २५.
 ऋबुस^१ - सम् अप ४८, ७५; निघ

a) बुधसौ^१ इति पाठः? यत्नि. च सौम्यः इति च द्वि-पदः शोधः। b) वैष १, २२८० l द्र.।

- c) वैष १, २२८० m द्र.। d) वैष १ द्र.। e) पामे. वैष १, २०४२ f द्र.। f) वज्रा.। विशेषः टि. द्र.।
 भावे कर्तरि वा प्र.। g) = प्रदेश-विशेष-। h) = ऋषि-विशेष-। i) बोधः प्रबोधः इत्यस्य स्थाने
 संपा. शौ ५, ३०, १० प्रच. बोधप्रतीबोधौ इति पामे.। j) भाप.। k) = वाजसेनयशाखा-भेद-।
 l) पामे. वैष १, २२८० n द्र.। m) बस.। n) पामे. वैष १, २२८० k द्र.। o) पामे. वैष १,
 २३८१.० द्र.। p) पामे. वैष १, २२८१ g द्र.। q) √बुध् इति BPG.। r) = उदक-।
 s) पामे. वैष १, १६५४ ० द्र.।

१, १२; या ५, १९^क.
 रबुस-(>बुस-स- पा.) पाग ४, २,
 ८०.
 √बुस्त पाधा. चुरा. उभ.आदरानाद-
 रयोः.
 बुस्त- पाग २, ४, ३१.
 √बृह् पाधा. भ्वा. पर. वृद्धौ शब्दे
 च; चुरा. उभ. भाषायाम्.
 बृहण^ब -०ण विध १, ५५^०.
 बृवत्^द->बृवद्-उक्थ^द-न्थः या ६,
 ४^३^क; -न्थम् साञ्च १, २१७;
 निघ ४, ३; या ६, ४.
 बृवु^द-बुः शांश्रौ १६, ११, १२^क; ऋञ्च
 २, ६, ४५; -बौ शांश्रौ १६, ११,
 ११.
 बृवु-स्तुति- -तिः वृदे ५, १०८.
 ष्ववृक्^द -कम् अप ४८, ७५; निघ
 १, १२; या २, २२^क.
 बृस^०-पाग ४, १, ४१^१.
 बृसी- पा ४, १, ४१; पाग ६, ३,
 १०८; -सीः शांश्रौ १७, ४, ७;
 १७, ४; बौश्रौ १६, २०-२१ :
 ४; -सीभ्यः शांश्रौ १७, ६, ६;
 -सोस् द्राण ३, ५, १०^१^२^३;
 -सीषु काश्रौ १३, ३, १^१; -स्यौ
 शांश्रौ १७, १४, ६.
 √बृह् (बधा. I = √बृह् I) पाधा. भ्वा.
 पर. वृद्धौ; तुदा. पर. उद्यमने.
 बृह^द->बर्हिष्ठ-ष्ठम् आश्रौ ५, ९,
 २१^क?.
 १बर्ह->बर्ह-वत्-(>बार्हवत्-
 पा.) पाग ५, २, ६१.

२बर्ह^१->बर्हिण^क- पाउवृ २, ४९;
 पावा ५, २, १२२.
 बर्हिण- वा, पाग ४, ३, १५२.
 बर्हि^क- -र्हिणः अ ५८^१, २,
 ८; -र्ही विध ४४, ३२.
 ष्वर्ह(ण>)ण^द-ण^द निघ ४, ३;
 या ६, १८^क.
 ष्वर्हि->बर्हि-ष(<न)द्^द-
 -ष्वन्त आश्रौ १, ४, ८; निघ ३,
 ३; -ष्वदः आश्रौ २, १९, २१९;
 आपश्रौ ८, १५, १९९; बौश्रौ १,
 १९ : ३७; ५, १४ : १०; माश्रौ;
 कौस् ६, ९^१; -ष्वम् शांश्रौ ४,
 ९, २; काश्रौ ३, ४, १०; आपश्रौ;
 -ष्वाम् शांश्रौ ३, १६, ६; काश्रौ
 १५, १०, १६; १९, ३, २४; -ष्वदे
 बौश्रौ १०, ५० : १४; -ष्वद्भ्यः
 शांश्रौ ३, १६, २; काश्रौ ५,
 ८, ११; ९, ६; आपश्रौ ८, १३,
 १६; २०, १४, १३^म; बौश्रौ.
 बर्हि^स- पाउ २, १०९; पाग ५, १,
 २; -र्हिः आश्रौ १, १, २३××;
 शांश्रौ; आपश्रौ ८, १, १०^न.
 भाश्रौ ८, १, १२^न; वैश्रौ ८, ३;
 १३^न; हिश्रौ ५, १, ९^न; शुञ्च
 २, ४३१^०; ष्वनिघ १, ३^प; १२;
 ५, २^न; या ५, २८^क; ६, १४^क;
 ७, २०^क; ष्व^८, ९^क; १३^क; १४,
 ११^३^प; -र्हिभ्याम् आपश्रौ ७,
 १२, ८; १२, १७, ९; २८, ५;
 बौश्रौ; -र्हिषः शांश्रौ १, १५, १५;
 काश्रौ; -र्हिषा आपश्रौ १, ७, १३;

२, ९, २××; बौश्रौ; -र्हिषाम् वैण
 ५, १३ : १४; कौस् १३७, ३६;
 -र्हिषि आश्रौ २, १९, ३०; ३,
 १४, १३^१; ५, २, ८; शांश्रौ;
 आश्रौ १८, २, १६^१; -र्हिषी
 आपश्रौ ७, १२, ५; बौश्रौ; -र्हिषे
 बौश्रौ १, १३ : ६; माश्रौ १, २,
 ५, २३; -र्हिषाः बौश्रौ ५,
 ६ : ७; हिश्रौ ४, ३, ५२; ४, १३;
 -र्हिषि काश्रौ २, २, १५; ६, २,
 १८; आपश्रौ ९, १७, १^क; १४,
 ७, ४; बौश्रौ.
 बर्हिः-कल्प- -खेन वैश्रौ ३, ५ :
 ४.
 बर्हिः-परिधि- -धि काश्रौ ५, ९,
 २९.
 बर्हिः-प्रभृति- -ति बौश्रौ २४,
 ३२ : ८; ९; २४; २५.
 बर्हिर्-अग्र- -ग्रम् वैश्रौ ५, ५ :
 ६; -प्राणि वैश्रौ ५, ५ : ८.
 बर्हिर्-अन्त- -न्तम् काश्रौ ८,
 ६, २५.
 बर्हिर्-आज्य- -ज्ययोः मीस् १,
 ४, १०.
 बर्हिर्-आदि- -दि भाश्रौ ७, ६,
 १^२.
 बर्हिर्-आहरण- -णस्य वाश्रौ
 १, १, २, ७.
 बर्हिर्-उक्ति- -क्तौ वैश्रौ ११,
 १० : ७.
 बर्हिर्-बन्ध- -न्धम् वैण १,
 १० : ८.

a) पावा ६, ४, २४ परामृष्टः द्र. । b) कर्तरि प्र. । c) वृ० इति जीसं. । d) वैप १ द्र. ।
 e) = [दर्भमय-] आसन- । व्यु. ? √बृ + √सद् इति पा ६, ३, १०९ । f) पृ १६४२ f द्र. । g) ब्र० इति पाठः इ
 यनि. शोषः । h) कूर्मफलक- वा कट- वेति भाष्यम् । i) वशीषु इति चौसं. । j) = मयूर-पिच्छ- । घा.
 वृद्धौ वृत्तिः । k) = मयूर- । l) पाभे. वैप १, १९ ३६ X द्र. । m) पाभे. वैप १, २२ ८२ I द्र. । n) पाभे.
 पृ १७४४ i द्र. । o) = आश्री-देवता- । p) अन्तरिक्ष-नामन्- । q) पाठः ? बर्हिषि इति शोषः (तु. सप्र.
 आपश्रौ १४, ७, ४; C. च) । r) बस. वा. क्वि. ।

बर्हिर-बन्धन- ने वैपृ १, १० :
 ५.
 बर्हिर-मुष्टि- -ष्टिम् आपश्रौ १२,
 १७, ४; ७; बौश्रौ.
 बर्हिर-मूल- -लेभ्यः आपश्रौ २,
 ९, १४.
 बर्हिर-यजुस्^५- -जुषा बौश्रौ
 २५, १० : १७; ११:१; २५:२.
 बर्हिर-लवन^६- -नः बौश्रौ २४,
 ७ : ४.
 बर्हिर-लाव^६- -वः बौश्रौ २०,
 ३ : २२; २५; -वम् बौश्रौ २,
 १९ : १.
 बर्हिर-वपाश्रपणी-कुम्भी-हृदय-
 शूल-स्रक्षशाखा- -खाः वैश्रौ
 १७, १० : ८.
 बर्हिर-वर्जम् काश्रौ ५, ११, ३;
 १०, ८, २५; ३२.
 बर्हिर-हस्त^६- -स्तम् बौश्रौ ४, ४;
 ७; १५; ६, २६ : २७; २७ : ३;
 २८:१; -स्तेन बौश्रौ ८, १० : ५.
 बर्हिर-होम- -मात् काश्रौ १९,
 ५, ११; वैताश्रौ ३१, २०.
 बर्हिष्-चतुष्टय- -यम् बौश्रौ ६,
 १२ : ३.
 बर्हिं-(स्थ>)ष्ट- पा ८, ३, ९७,
 बर्हिष्-या, १^७ल- पाग ८, ३,
 ४८^१.
 बर्हिष्-मत्- -मन्तम् माश्रौ ५,
 १, ३, २३; -मन्तो आश्रौ २,
 १९, १२; ६, १३, ४.

बर्हिष्मती- -ती अप्राय ६,
 ९; -त्याम् कप्र ३, २, ३.
 बर्हिस्-तृण- -णेन काश्रौ ७,
 ६, ६.
 बर्हिः-संयोग- -गात् काश्रौ ५,
 ८, ३६.
 बर्हिः-संनहन^७- -नानि बौश्रौ
 १, १३ : १६.
 बर्हिः-स्तरण-मन्त्र- -न्त्रेण
 वाश्रौ १, ३, ३, ९.
 बर्हिः-स्थान- -ने आपश्रौ १४,
 ३, २; २०, १३, १०; २१, ६,
 १७; ७, ३; ९; ८, ४; हिश्रौ १६,
 ३, ३९.
 बृह- (>बृह-क-) पावा ५, ४, ३.
 बृहत्^८- पाठ २, ८४; पाग ३, १,
 १२; ४, १, ४१; ८६; ५, ४, ३;
 -हत् आश्रौ ४, ११, ६१; १३,
 ७^३१; ५, १३, ६^११×५; ८,
 ६, ८^११; ९, ९, १४^११; शाश्रौ
 १, ११, १^३; ५, ९, १९^११;
 ७, १५, ११; १६, ८^११×५;
 काश्रौ ४, ९, १३; १६, ५, १९;
 १८, ३, २; २५, १३, १२; आपश्रौ
 २, १४, १०; ५, ६, ३; ७, ४,
 ५^११×५; बौश्रौ; अप ४८, ६८^११;
 १४१^११; या १, ७; २, १२; ५,
 १९^११^११; ६, १४^११^१; ७, २^११; १०;
 ऋषा; -^१हत्-हत् काश्रौ १०,
 १, ९; आपश्रौ १३, १, १०; माश्रौ
 २, ४, ४, ७; हिश्रौ ९, १, ८;

-^१हत्-हत्-हत् बौश्रौ ८, १ =
 १७, १८, ३० : १; -हत्: आश्रौ
 ४, १, २३; ७, ३, १८; ८, ७, ४; ११,
 १; १२, १९; शाश्रौ; आपश्रौ १८,
 ६, १५^१; या ९, ८^११^१; १०, ११;
 -हत् आश्रौ १, ७, ७^११; आपश्रौ;
 -हत्मा हिश्रौ ८, ६, ३३^११; विध
 १, ५५; -हत्ति शाश्रौ ११, १३,
 २१; ३२; १४, ५; आपश्रौ; -हत्ते
 आश्रौ ४, १३, ७; ५, १४, १८;
 शाश्रौ १७, १३, ३^११; आपश्रौ १४,
 ३४, ५^११; बौश्रौ; -^१हत्ति: साश्र
 १, ३७; ऋषा १६, ७३; १८, १४;
 शैशि २६६; -^१हत्भ्यः माश्रौ
 १, ८, ६, २२; ६, २, ४, ३^११;
 -हत् आश्रौ ३, १२, २९; ४,
 १३, ७; शाश्रौ ६, ४, ५; १०,
 ११, ९^११; काश्रौ; माश्रौ २, १,
 २, १५^११; -^१हन्तः आश्रौ
 ७, ४, ४; शाश्रौ १२, ५, १८; ९,
 ११; १८, ६, २; आपश्रौ; -हन्तम्
^१आश्रौ २, ८, ३; ३, ७, १५; ८, १;
 आपश्रौ; -हन्ता वाश्रौ १, १, ६,
 ६^११; -हन्तो वृदे २, ३, ९.
 बृहती^९- पा ४, १, ४१;
 पाग ४, ३, १६४^९; -०न्ति
 वाधूश्रौ ४, २६^९; ५; -ती^९
 आश्रौ २, १०, २१^९; १४, २२;
 ३, ८, १^९; ४, १२, २^९१; ८, ५,
 १५; १२, ९, १५; शाश्रौ; आपमं
 २, १७, १८^९; भागृ १, ६ : ७;

a) मलो. कस. । b) उस. उप. करणे कृत् । c) विप.>नाप. । उप. कर्त्तरी कृत् । d) = बर्हिर-
 मुष्टि- । e) पाका. पाठः । f) बर्हिष्पल- इति [पक्षे] पासि. । g) नाप. । h) वैप १ द्र. । i) पाभे.
 वैप १, २२८५ h द्र. । j) पाभे. वैप १, २२८५ f द्र. । k) = महत्- । l) = सामन्- । m) पाभे. वैप १,
 १२३२ a द्र. । n) सपा. बृहतः स्तोत्रम् <> बृहत्स्तोत्राय इति पाभे. । o) पाभे. वैप २, ३३३. बृहते तैश्चा २,
 १२, १ टि. द्र. । p) पाभे. वैप १, २२८७ h द्र. । q) पाभे. वैप १, २२८६ d द्र. । r) पाभे. वैप १,
 २२८७ l द्र. । s) = बृह-भेद- । t) कचित् वृ १ द्र. । u) पाभे. वैप १, २२८८ h द्र. ।
 v) पाभे. वैप १, १९० b द्र. ।

कौस् ३५, ४^a; कासु ५, ६^c;
 ऋ २, २५; ७, १२^f; ८, ११^f;
 ९, २९^f; पिं ३, २६; -तीः
 काश्रौ १७, १२, ९^c; आपश्रौ १७,
 २, ४^c; ४, १०; बौश्रौ १०, ४०:
 १३^c × ×; वैश्रौ; -ऋंतीः बौश्रौ
 ६, ४ : ४; भाश्रौ १०, ५, १०;
 बाधूश्रौ ४, २९ : १०; -तीनाम्
 ऋ ४, ३; उनिसू २ : ३४;
 -तीभिः आश्रौ ६, ३, ७;
 माश्रौ ६, २, २, २१; वाश्रौ
 २, २, १, ३१; बौश्रु^d १४:
 ४ × ×; -तीभ्यः निसू ३, १२:
 ४८; -तीम् आश्रौ २, १०,
 २१; शाश्रौ; -तीषु काश्रौ २५,
 १३, ६^d; द्राश्रौ; लाश्रौ ७, ३, ७^d;
 -त्यः आश्रौ ८, ५, १४; शाश्रौ
 ७, २५, १४; १२, ९, १०; आपश्रौ;
 -त्या आपश्रौ १९, २२, १३;
 बौश्रौ १८, ३१ : १०; माश्रौ; या
 २, २५; -त्याः निसू १, ३ : १३;
 कौश्र १, १५, १^b; शांश्र १, २३, १^b;
 पाश्र १, १३, १^b; शुश्र ४, १३७;
 उनिसू ८ : १९; -त्याम् शाश्रौ ७,
 २५, ४; काश्रौ १९, ५, २^d; बाधूश्रौ
 ४, ७० : १६; वाश्रौ; -त्यै हिश्रौ
 २, ८, १^f; वैताश्रौ १, १८; -त्यौ
 वाधूश्रौ ४, २६^d : ९; ११; १२;
 द्राश्रौ; या ८, ११.
 बृहति-क(>)का^e-
 पा ५, ४, ६.
 बृहती-कारम् आश्रौ
 ५, १५, ७; ११; शाश्रौ १२, ६, १.
 बृहती-क्षय^f- -यः
 निसू ५, ४ : १०; -यात् लाश्रौ

१०, ६, ११; ७, ६.
 बृहती-न(र्भ>)
 र्भा^g- -र्भा अश्र १, १४; २,
 ३५ × ×.
 बृहती-ग्रहण- -गम्
 लाश्रौ १०, ७, ७.
 ऋहती-च्छन्दस्^h-
 -न्दसः जैश्रौ १५; १३; -न्दासि
 भाश्रौ १०, १८, १०.
 बृहती-त्रिष्टुम्-
 -ष्टुभोः लाश्रौ १०, ७, ४.
 बृहती-पूर्वⁱ- -र्वः
 ऋप्रा १८, १.
 बृहती-फल- -लम्
 आमिष्ट ३, ६, ३ : ५; १३; बौपि
 १, ११ : ४; ११; हिपि ९ : ६.
 बृहती-मुख^j- -खः
 ऋप्रा १८, ११.
 बृहती-विपरी(त>)
 ता^b- -ते ऋश्र १, ११, ५.
 बृहती-सतोबृहती-
 -त्यौ ऋश्र १, ११, २; शुश्र ३,
 १९९.
 बृहती-संप(ञ>)ञा-
 -ञाः काश्रौ २२, ११, २१;
 लाश्रौ ९, ४, ३५.
 बृहती-सहस्र- -सम्
 शाश्रौ ९, २०, २९; १८, २१, १.
 बृहत्य(ती-ञ)लुष्टु-
 भू- -ष्टुभोः लाश्रौ ९, १२, ८.
 बृहत्य(ती-ञ)न्त^k-
 -न्तम् ऋश्र २, ६, ४२; ८, ७८;
 १०, ९३.
 बृहत्य(ती-ञ)न्तर-
 श्रुति- -तेः काश्रौ १७, १२, १०.

बृहत्या(ती-आ)दि^l-
 -दि ऋश्र २, ७, १४; -दिः ऋप्रा
 १८, २१; -दी ऋश्र २, १, १७९.
 बृहत्युत्त(म>)मा-
 -मे निसू ५, ७ : ६.
 बार्हत्- पा ४, १, ८६; -तः
 आश्रौ ४, १२, १; बाश्रौ ७, २५,
 ४; १०, ६, ५; ऋश्र १, ११, २;
 ऋप्रा १८, १; ११; -तम् आश्रौ
 ४, १३, ७; १४-१५, २; ७, १२, ७;
 शाश्रौ; -तस्य शाश्रौ ९, ५, १२;
 क्षुस्; -तात् निसू ४, १३ : २२;
 ६, २ : ७; -तानाम् आश्रौ १०,
 ५, २१; शाश्रौ ७, २५, १२; १२,
 ६, १; द्राश्रौ ८, १, २३; लाश्रौ
 ४, ५, २०; ८, ५, ९; १०,
 १, १५; वैताश्रौ २२, ९;
 -तानि आश्रौ ८, ४, ८; क्षुस्
 १, १ : ११; २ : ५ × ×; निसू २,
 ३ : ३; ४; ७; ८ × ×; -ऋताय शाश्रौ
 ९, २७, १; बौश्रौ; -ते आश्रौ ५,
 १५, ६; शाश्रौ; -तेन निसू १०,
 ४ : ११; -तेभ्यः निसू ६, २ :
 १२; -तेषु क्षुस् ३, १४ : ३; ६;
 १०; १४; निसू ६, ३ : १५; ४ :
 २; ७, ४ : २; ९, ४ : ३०; ३४;
 -तौ वैताश्रौ ३१, १८; ३३, १०.
 बार्हती^m- -ती निसू
 ३, ११ : ४; नाशि १, २, १०;
 -तीनाम् शाश्रौ ९, २०, ६;
 -तीम् शाश्रौ १८, ८, १.
 बार्हत्-न(र्भ>)र्भाⁿ-
 -र्भा अश्र १, ८; १३, २.
 बार्हत्-प(र>)रा^o- -रा
 अश्र ११, ७.

a) पाठः? 'ती,पला' इति द्वि-पदः शोधः। b) नाप. (ओषधि-)। c) = इष्टकान्विशेष-।
 d) = ऋक्-। e) = उत्तरीय-वन्न-। f) उप. <√क्षि [अये]। g) वस.। h) उप. = सतोबृहती-।
 i) विप. (लोक, सूक्त, स्तोत्र-प्रभृ.)। वैप १ द्र.। j) विप., नाप. (मूर्च्छना-[नाशि.])।

बार्हन्-राथन्तर- रम्
शांश्रौ १, २, १८.

बार्हन्राथन्तर-ता-
-नायाम् आश्रौ १०, ५, २०.

बार्हन्-लिङ्ग, क्वा^१ - -क्वाः
निसू ६, २ : १४; -क्वां निसू
६, २ : १२.

बार्हन्-वैराज-ना(र्भे >)
र्भा- -र्भा अत्र १२, २.

बार्हन्-स्तोम- -मान्
निसू ७, ५ : २.

बार्हन्ता(त-आ)नुष्टुभ^१-
-भः ऋप्रा १८, २, १.

बृहच्-चक्र^१ - -काणि बौश्रौ १५,
१४ : ७.

बृहच्-छन्द- -न्दम् शांश्रौ ७,
१५, ११; -व्देऽ-व्दे आश्रौ ५,
१२, २०.

बृहच्-छरीर^१ - -रः चव्यू ४ :
१७.

बृहच्-छा(खा >)ख^१ - -खम् सु
१३, ५.

बृहच्-छिरस्^१ > श्रो-रोमश-
ऋषि-रोहित-राजीव- -वाः बौष
१, ५, १३४^१.

बृहच्-छुक्^१ - -ऋः अत्र ६, ५३.
†बृहच्-छुवस्^१ - -वाः या ६, १८.

बृहत्-क- पागवा ५, ४, ३.

बृहत्-कण्टारि^१ > ऋ-कण्टका^१-
-काः अप्र १८, १, १६.

बृहत्-तन्त्र > बार्हन्तन्त्र^१-
-न्त्रम् निसू ६, ६ : १२.

बृहत्-तृण- -णैः गोयु ४, ७, १०;
द्रायु ४, २, १०.

बृहत्-पत्र^१ > ऋ-क्षुद्रपशु-
स्वस्य(स्ति-अ)र्थ- -र्थम् कप्र
१, ५, ८.

बृहत्पत्र-स्वस्ययन-काम-
-मः गोयु ४, ५, २९; द्रायु ४, १,
१४.

बृहत्-पूर्व-ग्रन्थि^१ - -न्थिभिः
कप्र १, ७, ६.

बृहत्-पला(श >)शा^१ - -०शे
अत्र ६, ३०^१.

बृहत्-पूर्व- -र्वे निसू ४, ६ : १५.

बृहत्-पृष्ठ^१ - -ष्ठः आश्रौ ८, ५,
१; ९, ३, ८; २४; शांश्रौ ११,
१०, १; १५, १; आपश्रौ २२, १,
५; वाश्रौ ३, २, १, ४४; ३, ७;

हिश्रौ १७, १, ८; द्राश्रौ ८, ३, १;
१५; लाश्रौ ४, ७, १; ३; १०,
१३, ६; १४, ३; ८; क्षुस् १, ४ :

२०; २, १ : १०; -ष्ठम् आश्रौ
७, ३, ९^१ १^१ १^१; शांश्रौ १०, ३, १;
९, १; ११, १; ११, २, १; १३,
१; १२, २७, ४; १४, १३, १२;

द्राश्रौ ८, ३, ३३; लाश्रौ ४, ७,
११; २, १५ : २०; निसू ७, ६ :
३; १० : २०; ८, ४ : १६; ९,
६ : १८; -ष्ठस्य शांश्रौ ७, १४,
१; ११, १५, ३; ८; १४, १३, १३;
३८, ८; निसू ८, २ : ३; -ष्टाः
क्षुस् २, ३ : १; निसू ४, १२ :
२५; -ष्टात् शांश्रौ १४, ८, ९;

११; २०, २२, ३; २१, ८, १२;
२२, २, ५^२ २^२ २^२; बौश्रौ; -मानम्
आपश्रौ १०, २, ७; २१, ६, १३;
१५, १०^३; २३, १२, १८; बौश्रौ;
अत्र ५, १९^१; -म्ना आपश्रौ

१२, १; बौश्रौ ११, १३ : १७;
२५, ३४ : १३.

२बृहत्-सामन्^१ - -मा शांश्रौ
१३, २९, ८; आपश्रौ १२, १४,
१; २०, २२, ८; २१, ८, १२;
२२, २, ५^२ २^२ २^२; बौश्रौ; -मानम्
आपश्रौ १०, २, ७; २१, ६, १३;
१५, १०^३; २३, १२, १८; बौश्रौ;
अत्र ५, १९^१; -म्ना आपश्रौ

१२, १; बौश्रौ ११, १३ : १७;
२५, ३४ : १३.

२बृहत्-सामन्^१ - -मा शांश्रौ
१३, २९, ८; आपश्रौ १२, १४,
१; २०, २२, ८; २१, ८, १२;
२२, २, ५^२ २^२ २^२; बौश्रौ; -मानम्
आपश्रौ १०, २, ७; २१, ६, १३;
१५, १०^३; २३, १२, १८; बौश्रौ;
अत्र ५, १९^१; -म्ना आपश्रौ

१२, १; बौश्रौ ११, १३ : १७;
२५, ३४ : १३.

२बृहत्-सामन्^१ - -मा शांश्रौ
१३, २९, ८; आपश्रौ १२, १४,
१; २०, २२, ८; २१, ८, १२;
२२, २, ५^२ २^२ २^२; बौश्रौ; -मानम्
आपश्रौ १०, २, ७; २१, ६, १३;
१५, १०^३; २३, १२, १८; बौश्रौ;
अत्र ५, १९^१; -म्ना आपश्रौ

१२, १; बौश्रौ ११, १३ : १७;
२५, ३४ : १३.

२बृहत्-सामन्^१ - -मा शांश्रौ
१३, २९, ८; आपश्रौ १२, १४,
१; २०, २२, ८; २१, ८, १२;
२२, २, ५^२ २^२ २^२; बौश्रौ; -मानम्
आपश्रौ १०, २, ७; २१, ६, १३;
१५, १०^३; २३, १२, १८; बौश्रौ;
अत्र ५, १९^१; -म्ना आपश्रौ

१२, १; बौश्रौ ११, १३ : १७;
२५, ३४ : १३.

a) बस. । b) विप. । कस. । c) नाप. (मत्स्य-). । बस. । d) र्मी बृहच्छिरोमश इति मैसू.

Büh. च, र्मीबृहच्छिरोमश इति Hultsch । e) = ऋषि-विशेष- । बस. उप. = दीप्ति- । f) नाप. (ओषधि-). ।

g) मलो. कस. । h) = साम-भेद-? । बार्हन्तम्, तन्त्रम् इति संस्कृतुः टि. पाठः । i) कस. उप. = वाहन-

(हस्त्यस्वादि-). । j) कस. > पस. । k) वैप १ द्र. । l) कस. (तु. सा [ऐत्रा ४, ३१]). । m) भिन्ने द्वे

पदे इत्यपरः पक्षः (तु. Haug, K. [ऐत्रा.] अत्रैव दशमे सूत्रे रथन्तरम् इति च यत्रापि पृष्ठम् इत्यावर्तते) ।

n) सकृत् सपा. हिश्रौ १७, १, २३ रथन्तरम् इति पाठे. । o) वैप १, २२८९ । द्र. ।

१०, २, ६; २२, ९, ११; १०, ३; ६; १२, १७; १३, ८; हिथ्रौ; -मिन् हिथ्रौ ८, ४, २.
 बार्हत्सा(म>)मा^१ -०मे दंवि २, ७.
 बृहत्-स्तोत्र^b -त्राय वैश्रौ १७, १६: ८०.
 बृहत्-स्तोत्रीय^d -या: निम् ५, ७: ५; -ये निम् ५, ४: १७.
 बृहद्-अग्नि^e -पाग ४, १, १०५^f; २, १११; -मिन्: बौश्रौप्र३३: २.
 बार्हद्गन्य- पा ४, १, १०५.
 बार्हद्गन- पा ४, २, १११.
 बृहदाग्नेय^g -यम् लाश्रौ ६, ११, ४.
 बृहद्-अग्निष्टोम-सामन्^h -मा क्षुसू २, १: १८; ५: १७.
 बृहद्-अतिरात्र- त्रे निम् २, ८: १५.
 बृहद्-अनुष्टुप्कⁱ - ष्कम् द्राश्रौ ८, १, १०; लाश्रौ ४, ५, १०;
 -फा: लुसू २, २: १.
 बृहद्-आसि-> षिन्ता- तया निम् ४, ६: १९.
 बृहद्-ईप्सा- ष्स्या निम् २, ११: ५.
 बृहद्-उक्थ^{2e} -क्थ: ऋञ्च २, १०, ५४; वृदे; -कथानाम¹ आश्रौ १२, ११, १; -कथाय आग्निगृ १, २, २: २०; बौगृ ३, १, ५; भागृ ३, १०: ४; हिगृ २, १९, ६;

-क्ये वृदे २, १३१.
 बार्हदुकथ-०क्थ^k आश्रौ १२, ११, १; हिथ्रौ २१, ३, ९.
 बृहदुकथ-वत्^k हिथ्रौ २१, ३, ९.
 बृहद्-उक्थ्य^l -> बार्हदुकथ्य- ०क्थ्य^k आपश्रौ २४, ६, १७.
 बृहदुकथ्य-वत् आपश्रौ २४, ६, १७.
 बृहद्-उक्ष^m -उक्षे वौश्रौ ८, १३: १०ⁿ.
 बृहद्-ओप(व>)सा^m -शा लुसू २, १०: १७, ११: ७.
 बृहद्-गर्भ¹ -र्भम् लाश्रौ ९, ५, २४.
 बृहद्-गिरस^o -> बार्हद्गिरस- स: साञ्च १, ६.
 बृहद्-गिरि² -> बार्हद्गिर² -रम् लाश्रौ १०, २, १४; निम् ३, १०: ४; ४, ३: २७; ३४, ५, २: ९; -रस्य लाश्रौ १०, २, १५; निम् ४, ३: २९.
 बार्हद्गिर-रायोवाजीय- ये लाश्रौ ७, २, १; निम् ४, ३: ३०.
 बृहद्-गु^o -> बार्हद्ग(व>) वी^o -वी अप १, ३, १.
 बृहद्-प्रावन्^o -वा^p काश्रौ २, ४, ११; बौश्रौ ६, २९: १; माश्रौ १, २, २, १२; वाश्रौ १, २, ४, ४६.
 बृहद्-दिव- व: ऋञ्च २, १०, १२०; शुञ्च ३, २४१; साञ्च

२, ८३३; अञ्च ५, ३.
 बृहद्-दि(व>)वा- वा शाश्रौ १०, ७, १२; या १२, ४९^q.
 बृहद्-ध(<ह)स्ति-रथ^d -थम् अप १, ४९, १; १४, १, १६.
 बृहद्-ब्रह्म-सामन्- मा लाश्रौ १०, १४, ८.
 बृहद्-भक्ति-त्व- न्वात् निम् ६, ६: १२.
 बृहद्-भानु^a -०नो द्राश्रौ १, ४, ५; लाश्रौ १, ४, २.
 बृहद्-भास^a -भा: आपश्रौ २, १४, १०ⁿ.
 बृहद्-रथन्तर^a -रम् लुसू २, ५: २६; -रयो: आश्रौ ५, १५, १२; शाश्रौ; -राभ्याम् आपश्रौ १७, १२, १०; बौश्रौ १६, १६: १; वैश्रौ; -रे आश्रौ ८, ५, १६; ६, ८; शाश्रौ; लाश्रौ ३, १२, ६^r.
 बृहद्-रथन्तर-वर्म- र्मानि निम् ८, ७: २८.
 बृहद्-रथन्तर-पुरस्ताज्ज्यो- तिस² -ति: क्षुसू २, १२: २२; २५.
 बृहद्-रथन्तर-वृष्ट¹ -ष्ट: शाश्रौ १६, ३०, ६; काश्रौ; -ष्टम् निम् ६, ४: ७; -ष्टस्य शाश्रौ १०, ८, २१; -ष्टा: शाश्रौ १४, ८४, ३; निम् ५, २: २१; २२; -ष्टान् निम् ८, ३: ८; -ष्टानाम् शाश्रौ ११, १३; १२, ९; -ष्टानि क्षुसू २, १५: ६; ३, १:

a) वैप १ द्र. । b) = बृहत्पृष्ट-1 कस. । c) पामे. पृ १८१२ n द्र. । d) मलो. कस. । e) = ऋषि-विशेष-1 । f) बृहद्भि- इति पाका. । g) = साम-विशेष-1 । h) कस. > बस. । i) बस. । j) बहु. < बार्हदुकथ-1 । k) परस्परं पामे. । l) पामे. वैप १, २२९० f द्र. । m) वैप २, ३खं. द्र. । n) = आर्द्रा-नक्षत्र-1 । o) पामे. वैप १, २२९० 0 द्र. । p) वैप १ निर्विष्टानां समावेश: द्र. । q) वैतु. दु. पदद्वयमिति । r) पामे. वैप २, ३खं. बृहत् एणा ८, १७ टि. द्र. । s) = षडह-विशेष-1 ।

३; -छे शांशौ १०, ११, १४.
 बार्हद्वयन्तरपृष्ठ^a - छात्र
 निम् ९, २: ११.
 बृहद्वयन्तर-पृष्ठ^b - छयः
 निम् ९, १: २१.
 बार्हद्वयन्तरपृष्ठ^c -
 -छयात् निम् ५, १: ५; ७, ३:
 १५; ९, १३: ४६; १०, ६: १७;
 -छयान् निम् ९, ३: ५.
 बृहद्वयन्तर-वत् मीस् ६, ६, ९.
 बृहद्वयन्तर-सामन्^d - मा
 आश्रौ २१, ८, १२; -म्ना हिश्रौ
 १७, ५, २१.
 बृहद्वयन्तरो (र-उ) परिष्ठा-
 ज्योतिस्^e - ति: जुस् २, १२:
 २२: २७.
 बृहद्-रथन्तर-कालेय-स्तोत्री-
 य^f - न्या: लाश्रौ १०, ६, ४; ७,
 ८; १४; निम् ५, ३: ९; ४:
 १२.
 ऋहद्-रायस्^g - ?य: माश्रौ २,
 २, ३, ६; ८.
 बृहद्-रि^h - रये वैताश्रौ २५,
 ७^१.
 ऋहद्-वत् - वते आपश्रौ
 १२, १५, ११; बौश्रौ ७, ७: १२;
 २६, ३१: ४; माश्रौ २, ३, ५, १;
 वैश्रौ १५, १७: ८; हिश्रौ ८, ४,
 २८.
 बृहद्-योनिⁱ - नि निम्
 ९, ५: २४.
 ऋहद्-वयस्^j - यस: शांश्रौ
 ८, २३, १; -या: आपश्रौ १७,

६, १; बौश्रौ ३, १३: ११; हिश्रौ.
 बृहद्-वारवन्तीय- ये लाश्रौ
 ९, ५, १५.
 बृहद्-वैराज- -जाभ्याम् आश्रौ
 ९, ११, ६.
 बृहन्-निधन^k - नम् क्षुस् २,
 १०: १२; ११: ४; निम् १,
 १३: १३; १०, १: २८; -नानि
 निम् १, १३: १३; -नेन निम्
 ७, १२: ११.
 ऋहन्-मति^l - ति: ऋअ २,
 ९, ३९; साअ २, २४८.
 बृहन्-महत् - हतो: पावा ६, १,
 १६९.
 √बृहाय पा ३, १, १२.
 ब्रह्मन्^m - पाउ छ, १४६; पाग छ,
 ३, ११८^१; -ह्य, > ह्या ऋआश्रौ
 १, ७, ७^१; छ, १, २३××; ऋशांश्रौ
 १, १२, १^१; छ, ९, २××; १६,
 ५, २^१; काश्रौ; आपश्रौ २३, १४,
 १६^१; बौश्रौ १७, ४४: १६^२;
 माश्रौ ५, २, ११, १४××;
 वाधूश्रौ छ, ३६: ७; ३७:
 २९××; हिश्रौ २, ४, ७; ५,
 ४७^३; ६, २, ११; जैश्रौप २;
 जैश्रौका ५०; ६७; ७७; ७८;
 आपमं २, १४, ८; १५, ६; आगृ
 ३, २, २; पागृ १, १६, ६;
 २, १०, २२; आमिगृ १, ५,
 २: ३८^४; ४०^५; २, ६, ८:
 २१^६××; बौगृ १, ३, ३४××;
 बौपि २, २, २; ३, ५, २;
 १०, १; मागृ १, २, २; वैगृ २,

२: ५; ३, १७: ५; ५, ९:
 ७; हिपि १९: १४; जैगृ २,
 ८: १९; ९: १५; १८; कअ
 १, १०, ४; २, ४, १०; ३, २, १६;
 अत्राय ३, ३; ५, ६; अय १, २, २;
 १७, १××; छ८, ८८^७; ५७,
 ३, ६^८; वाध २, १२^९; छ, २; ५; १०,
 ५; २५, ४; ११; शंघ छ६२; आपघ
 १, ५, २; ९, १३; १३, ६; ७; ११;
 १८; बौघ १, २, ५०^{१०}; ५२;
 १०, २××; विघ ५५, १७^{११};
 ६८, ३९; वैघ ३, ७, ६; १३^{१२};
 हिघ १, २, २××; गौघ २,
 ९; वृदे १, ६२; २, ४०^{१३};
 शुअ; ऋनिघ २, ७^{१४}; १०^{१५};
 या १, ८^{१६}; २, ११; छ, ६;
 ६, २२^{१७}; १३, १३; १४, १;
 ३; १०; ११; ३५^{१८}; ऋप्र;
 -ह्यअ-ह्य शैशि ३४१^{१९}; -ह्यण:
 आश्रौ १, १२, १××; शांश्रौ
 छ, ६, १५; ७, १८××; काश्रौ
 ७, १, ९; ९, ११, ३××;
 आपश्रौ १, १५, ५××; बौश्रौ २,
 ३: १०; ५, १०: २५; ६, ३:
 १२; ३१: ६××; माश्रौ १,
 ११, ६; माश्रौ १, ५, ५, १७;
 २, २, ४, १८××; वाधूश्रौ ३, २४:
 १०; छ, ३५: ४; ६२: ५-७; हिश्रौ
 १३, ४, ४; ५, २; १४, ४, ३२××;
 जैश्रौ ९: १७××; द्राश्रौ छ, २,
 १२; ३, ६××; लाश्रौ २, २,
 २१; ३, ६××; वैताश्रौ ११, ३;
 ३६, २३; ऋआपमं १, १४, १××;

a) स्वार्ये अण् प्र.। b) वस.। c) = षडह-विशेष-। d) द्रस. > षस.। e) वैप १ द्र.।
 f) पाभे. वैप १, २२९० p द्र.। g) व्यप.। h) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र.। विशेषः टि. द्र.। i) २ ब्राह्मण-
 इति पागम.। j) पाभे. वैप १, २२९२ g द्र.। k) पाभे. वैप १, २२९२ c द्र.। l) तु. सपा. तैत्रा ३, १२, ९,
 ७; वैतु. BC. ब्रह्मनामा इति। m) सपा. ब्रह्म संमितम् (तैत्रा १०, २६, १ च) <> ब्रह्मसंमिते इति पाभे.।
 n) = अअ-। o) = ब्रह्म-बल-। p) = धन-।

कौट १, ५, २९; पाट १, ५, १०^१;
 ३, १५, २३^२; आसि १, ५, २:
 २७^१; कौट १, २, ३४××; माट
 १, ७, २; २२, ६××; वाट ५, ५;
 २१××; ऋक् १, १९: १२; ऋक्
 १, ११, १०××; गौपि २, ४, १;
 कौस् ३, २; ५४, २१; ८२, ५××;
 अप्राय १, ३; अप १, ६, १××;
 शंघ ८९; बौध २, ५, ११; ४,
 ६, १××; विध २०, १५; ५५,
 १५; वैध १, ११, १०^३; ३, ११,
 ३; गौध १, ६१; ८, २२; २३;
 १०, ४; वृदे १, १२२××; शुभ्र
 १, १९४××; चात्रम् २; ५;
 चात्र १: १××; सात्र १,
 ३२१××; अत्र ६, ६; निध ५,
 ४; या ३, ११××; ऋप्रा १६,
 १२; कौशि ७१; पा ५, १,
 १३६; ४, १०४; मीस् १०, ३,
 ७२; -^१ब्रह्मणः आश्रौ ४, ६,
 ३××; शाश्रौ; -^१ब्रह्मणा आश्रौ १,
 ६, १; २, १, १७××; शाश्रौ;
 काश्रौ २६, २, २६^१; आपश्रौ
 १६, ३३, १०^१; बौश्रौ २, ६:
 ३५; १२: १०××; माश्रौ १,
 ५, १, ९; हिश्रौ ३, २, १; वैताश्रौ
 ५, ७; आपमं २, २२, १३^१;
 हिश्र १, १३: १९^१; १६, ६^१;
 जैश्र १, १२: ५; ७; या ५, १४;
 -^१ब्रह्मणम् कौस् ६५, १२^१;

-^१ब्रह्मणि शाश्रौ ४, १०, ३^१;
 आपश्रौ ६, ९, १; २२, १०,
 १४; बौश्रौ; हिश्र १, ५, १३^१;
 १०, ६^१××; आपघ १, १३, १६;
 बौध २, ७, १२; वैध १, ११,
 १४; हिघ १, ४, ३०; कौशि
 ८१; पावा ६, ३, ८५; -^१ब्रह्मे
 आश्रौ ५, १, ८^१; १२, १५,
 १२^१; शाश्रौ १४, १६, ८; काश्रौ;
 आपमं २, ८, ४^१; १२,
 ६^१; आसि १, १, २: ४५^१;
 ४६^१; ४८^१××; २, १, ४:
 ६^१; बौपि १: ५, ६; भाट
 १, १९: ५××; माट १, १०,
 ४××; वाट ५, ३९××; वैट
 १, १५: १०; २, १०: ८; १२:
 १२××; हिश्र १, ४, ६; ८^१××;
 २, ३, १०^१; गोश्र १, ९,
 १××; जैश्र २, ८: ६; द्राश्र
 २, १, २९; कप्र १, ८, १०; २, ४,
 १-५; ५, १; कौस् ५६, १३; ८३,
 ३२; अप्राय २, ६××; अप २,
 १, १××; शंघ २१; १३२; बौध
 २, १०, ४५; विध ६७, १९;
 वैध ३, ७, ६; गौध ५, १५××;
 या १४, ३५; शुभ्र ४, ७५;
 मीस् १०, ३, ६५; -^१ब्रह्मन् आपश्रौ
 १६, १, ३××; बौश्रौ; -^१ब्रह्मन्
 आश्रौ १, १२, १२××; शाश्रौ;
 या २, ४××; -^१ब्रह्मण्यः आपश्रौ

२४, १२, ६; हिश्रौ; -^१ब्रह्म
 आश्रौ १, ४, १; १२, ९; १३, ६;
 २, १६, २०; ४, १, ६××; शाश्रौ;
 काश्रौ २, १, १८^१; ३, ४, २४; ४,
 ९, ६; ५, ६, ३३; ९, १०××;
 आपश्रौ २, ८, ७; ३, ३, ११;
 १८, १; ४; २०, ७××; २२, १७,
 १०^१; माश्रौ १, ८, १, १^१;
 हिश्रौ १७, ६, ४४^१; पाट ३,
 १५, २१^१; २२^१; कौट ३,
 १०, ६^१; कौस् १७, ६^१; ६८, ७^१;
 ७५, १३^१; १४०, ४^१; अप २,
 २, ४^१; ३, १, ८^१; १०, १, १^१;
 १७, २, १^१; १२, १, ३^१; ३१, १,
 ३^१××; ४०, ५, १^१; ६६, १, ३^१;
 ७०^१, १, २^१; वाघ ३०, ५^१; शंघ
 १४१^१××; वृदे ३, १८; ६, १३६;
 ७, ७०; शुभ्र ४, १२६^१; १२७;
 १४६; सात्र २, २९४^१; अत्रम्
 १; २^१; ३^१; अत्र १, ७; ३, ११;
 १२; १४××; या १, ८^१;
 २, १२^१; ७, ५^१; १४, १३^१;
 अप्रा; -^१ब्रह्मणः आश्रौ ८, ११,
 १; शाश्रौ; या ५, ५; ११, ४;
 -^१ब्रह्मणः शाश्रौ १५, १७,
 १; जैश्रौ ३: १७; द्राश्रौ १, ३,
 १०; लाश्रौ १, ३, ३^१;
 आपमं; -^१ब्रह्मणम् आश्रौ १, १,
 १६××; शाश्रौ; काश्रौ २, १,
 १८^१; -^१ब्रह्मणि आश्रौ ५,

- a) पामे. वैप १, २२९३ d द्र. । b) ब्रह्मणाऽनु इत्यस्य स्थाने ब्रह्मानु इति चौरसं । c) सकृत्
 पामे. वैप १, १५९३ i द्र. । d) पामे. वैप १, १३३३ ० द्र. । e) पामे. पृ १६५९ j द्र. । f) पामे. वैप
 १, ६८९ b द्र. । g) सपा. ब्रह्मणि <> ब्रह्मणे इति पामे. । h) = २ब्रह्मण- । < ब्रह्मणे
 इति वा ब्रह्मणि इति वा [आपमं भू XXIV] । i) पामे. वैप १, २२९४ c द्र. । j) = पुरोधस्- ।
 k) पामे. वैप २, ३खं. ब्रह्म तां २१, ३, ७ टि. द्र. । l) पामे. वैप २, ३खं. हुविः तैआ ३, ६, १ टि. द्र. ।
 m) पामे. पृ १७५५ ०^१ द्र. । n) 'ह्रद' इति पाठः? यनि. शोषः (तु. तां २५, १५, ३ बौश्रौ १७, १८: १) ।
 o) = प्रजापतिः । p) = ऋत्विज्- । q) व्यप. (ऋषि-) । r) = [देव-पुरोधस्-] बृहस्पति- ।
 s) ब्रह्मण इति पाठः? यनि. शोषः (तु. द्राश्रौ.) ।

१६, २××^a; शाश्रौ; आपश्रौ
 १५, ११, २^b; बौश्रौ ९, ११ :
 १^b; १४, १२ : ३०; भाश्रौ
 ११, ११, १^b; या १२, ३४^c;
 -ह्राणिऽ-ह्राणि काश्रौसं छ :
 १५^f; -ह्यणौ वैश्रौ १०, १ :
 ५; -श्रौह्राश्च आपश्रौ १८,
 १८, १०; बौश्रौ १२, १५ : १-४.
 ब्राह्म^g - ह्यः आश्र १, ६,
 १^h; वैश्रु; कौसू ७९, ३२^h;
 ऋअ २, १०, १०९^g; १६२^g; पा
 ६, ४, १७१; -ह्राम् हिश्रौ १४,
 ४, ३८^f; आश्रिण २, ६, १८; वैश्रु
 १, ४ : २४; ५ : ८; ९ : १; छ,
 ३ : १५; ५, ३ : ३; ६, २-३ :
 ३; ४ : १२; ५ : ३; ७; ७ : ९;
 १४; ११ : ४; ११; १२ : ५; ८;
 १८ : ९; अप ५७, २, १; वाघ
 ३, २६; शंघ ११; ५४; बौध १,
 ५, १२; विध ५७, ७; ६२, २;
 वैध २, ३, २; वृदे ८, १८; शुअ
 छ, २१७; -ह्रस्य पावा ६, ४,
 १७१; -ह्ये वैश्रु २, १० : १३;
 ३, २ : ७; जैश्रु २, ८ : २८; अप
 ३०, ४, ३^h; शंघ ४२^h; आपघ
 २, ११, १७; बौध २, १०, २२;
 ३, ९, २०; विध ६०, १; हिध २,
 ४, ३२; -ह्येण माश्रु १, ७, ११;
 वाश्रु १०, ११; वैश्रु १, २ : ६; ५;

९; १३ : १; वाघ १, २१; २०,
 ४५; बौध १, ५, ११; विध २४,
 ३३; ६२, ६; वैध २, १३, ५.
 ब्राह्मीⁱ - ह्यी वैताश्रौ
 छ ३, ४७; अश्र १, ४४, १०^f; ५०,
 १०^g; अशां १६, १^h; वृदे ६,
 १५२; शुअ २, ३८४; साश्र १,
 ३२१; ६२५; अश्र ८, १०(५); ९,
 १; १५, १; ५××; -ह्यीभिः हिश्रौ
 १२, ६, २६; -ह्यीम् अप ७२,
 ५, २; अशां १७, १^h; वाघ
 २७, ११^f; शंघ ३९६^f; वृदे छ,
 ११३; शुअ ३, ५८; -ह्ययः
 वृदे ८, १०९; उनिसू ३ : १५;
 ८ : २८; पिं २, १५; -ह्ययाम्^k
 अशां १८, २; १९, २.
 ब्राह्मी-नायत्री-
 -श्र्यः अश्र १५, २; ५.
 ब्राह्मी-वृत्त- -तम्
 वैश्रु ३, १५ : ९.
 ब्राह्मी-पुत्र^l - -त्रः
 वैश्रु ३, १ : १५; बौध १, ११,
 १८; विध २४, २९; गौध छ,
 ३३^l.
 ब्राह्मी-रस-वि-
 पक्क- -केन शंघ ३९६.
 ब्राह्म-देवा(या-अ)नुसं-
 तान^m - > ँतानिन्ⁿ - नी
 हिध २, ५, ५०.

ब्राह्मदेवाः^o हिध २, ४,
 ४१.
 ब्राह्म-व्रत- -तम् वैश्रु
 २, ११ : १; १३ : १६; -तस्य
 वैश्रु २, १० : ९.
 ब्राह्मक- पा छ, ३, ११८.
 ब्राह्मण^p - -गम् आपश्रौ
 १०, १२, ८; १७, १९, ८; २४,
 १०, १८^g; काठश्रौ २४; बौश्रौ
 १, १ : ३; ९ : १५××; बौश्रौप्र
 ५४ : १६; वाश्रुश्रौ २, १० : ३;
 ११ : ४××; वाश्रौ २, १, ६,
 ३०; वैश्रौ ११, ५; ३××; हिश्रौ
 १२, ३, ७; २१, ३, १८^g;
 जैश्रौ ७ : ९; ८ : २७; द्राश्रौ
 ३, ४, ३; ४××; लाश्रौ छ, ५, ६;
 ७, १२, ३-६××; निसू २, ६ :
 ३५; १० : ११××; आश्रु १, १,
 ४; छ, ७, २२; शांश्रु ६, ३, १४;
 आश्रिण १, १, २ : ४६××;
 आपश्रु १५, १०; बौश्रु १, ७,
 ३६××; बौपि १, १६ : ११××;
 वैश्रु छ, १० : ३××; हिपि २१ :
 १३; गौपि २, ४, १२; जैश्रु २,
 ४ : १३; कौसू ६, २२; अप १९,
 ३, ९××; आपघ १, १, १०××;
 बौध १, २, ५८^g××; हिध १, १,
 १०××; बौश्रु ५ : ११××; शुअ
 ३, १३६; चाश्रु ९; १; साश्र १,

a) तु. आन. । b) पाभे. वैप १, १८६४ m द्र. । c) वप्रा. । विप. (ओकार- प्रह- मधुपर्क- प्रश्रु.), नाप. (विवाह-भेद- ब्रह्मचारि-भेद- [वैध १, ३, १; ३], तीर्थ-विशेष- [आश्रिण २, ६, १ : १८ प्रश्रु.], आसन- विशेष- [वैश्रु १, ४ : २४ प्रश्रु.] प्रश्रु.) । अपत्ये तस्येदमादयर्थे वा अण प्र. टिलोप-प्रतिप्रसवः (पा ६, ४, १७०; १७१) च ।
 d) ह्ययः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सूको.) । e) व्यप. (ऋषि-). f) पाभे. वैप १, २२९८ m द्र. ।
 g) = ब्रह्म-लोक- । h) = मुहूर्त-विशेष- । i) विप. (ऋक्, वाच्- प्रश्रु.), नाप. । j) = ओषधि-विशेष- ।
 k) = शान्ति-विशेष- । l) पूष. = (ब्राह्मविवाहोढा-) स्त्री- । m) = ब्राह्मविवाहोढा-संतति- । तृस. > षस. । सपा. ब्राह्मदे^o <> ब्रह्मदे^o इति पाभे. । n) पाठः? ँतान- > -नः इति शोधः (तु. भाष्यम्, पाभे. च) । o) ब्राह्म- ऽऽर्षदेवास इत्येवं शोधितस्वरूपोपक्रमस् स्वधिकारिणः इत्युत्तरांशः पाठ इहाऽप्रामाणिकः (तु. आपघ २, १२, ४) अनन्वितश्च सन् सूत्रेण गतपूर्वेण २, ४, ३८ तच्छेषतया वा तद्व्याख्यानविधया वा योज्यः । p) एतस्संज्ञक-ग्रन्थ-विशेष- । वैप १ द्र. ।

२६७××; या १, १६; ३,
२०××; -णात् बौश्रौ २, १७;
१०××; वैताश्रौ ४३, ४५;
आमिष्ट १, ३, २ : ५××; बौश्रु
१, ३, ८; बौश्रु ६ : १३; वृदे;
-णानि आपश्रौ २४, १, ३२;
हिश्रौ १, ८; आग; चाञ्च ३० :
११^३; छ२ : १४; या ७, २४^१;
-णं बौश्रौ १२, ९ : ११^१; हिश्रौ
१०, ८, ५४; १४, ४, ३२; शांश्रु; पा
२, ३, ६०; ५, १, ६२; -णेन
आपश्रौ १२, १७, १०; बौश्रौ;
या १, १५; १६.

ब्राह्मण-कल्प- -ल्येषु पा,
पावा ४, ३, १०५.

ब्राह्मण-चोदित, ता- -ता
निसू ६, ८ : ३.

ब्राह्मण-चोदित-त्व-
-त्वात् निसू ४, १३ : ४.

ब्राह्मण-(ज>)जा^३-जा
बौश्रौ २०, १ : ४८.

ब्राह्मण-पठित- -तान्
चाञ्च ३० : १.

ब्राह्मण-प्रतिषिद्ध-
-द्वानि आपृष्ट ८, १२; भाष्ट १,
२० : ९.

ब्राह्मण-लिङ्ग^८- -ज्ञाः कौसू
१, ६.

ब्राह्मण-वचन- -नम् अप
४४, ४, ९.

ब्राह्मण-वत् निसू ६, ७ :
२२.

ब्राह्मण-वत्- -वतः बौश्रौ
१६, १९ : ८; १०; -वताम् बौश्रौ
४, १ : २८; -वन्तः बौश्रौ २४,

७ : १५; हिश्रौ १, १, १८; -वान्
बौश्रौ २३, १३ : ७.

ब्राह्मणवती^१- -त्यः
मीसू ५, ३, १९.

ब्राह्मण-वाद- -दः निसू
२, २ : १९; -दाः या २, १६.

ब्राह्मण-विधि- -धिः
कौसू १, ४.

ब्राह्मणविधि-विहि-
त- -तानि बौश्रौ २७, २ : २१.

ब्राह्मण-विप्रतिपत्ति-
-त्या निसू २, १ : ३०.

ब्राह्मण-विहित- -ताः
निसू ६, ८ : ४; -तात् द्राश्रौ ३,
२, १०; लाश्रौ १, १०, ७; -ते
लाश्रौ १०, १०, ५; -तेषु मीसू
१२, ३, ३१.

ब्राह्मण-व्याख्यात, ता-
-तः आपश्रौ १२, १५, १६; हिश्रौ
२३, ३, ३५; -तम् माश्रौ १, ६,
४, २०; ३, १, २५××; वाश्रौ
१, ४, ३, २१××; वैश्रौ; -ता
वाश्रौ २, २, ५, २७^३; -ताः
आपश्रौ १२, १४, ४××; माश्रौ;
-तान्माश्रौ १०, १३, ६; हिश्रौ.

ब्राह्मण-शब्द- -दः मीसू
२, १, ३१.

ब्राह्मण-शेष- -षः
आपश्रौ २४, १, ३३.

ब्राह्मण-श्रुति^८- -तेः मीसू
६, १, २६.

ब्राह्मणसंस्तुता मैत्र
१५.

ब्राह्मण-समाह्वय- -येन
निसू २, १२ : ३.

ब्राह्मण-संपन्न, ज्ञा- -ज्ञम्
बौश्रौ १७, २७ : २; -जाः बौश्रौ
१४, ८ : १७; ३१; -ज्ञाम् बौश्रौ
१०, १ : २.

ब्राह्मण-स्वर^१- -रः भासू
३, १५; २५; २७.

ब्राह्मणस्वर-संस्कार-
नियम- -मः भासू १, १.

ब्राह्मणाच्-छंमिन्^६-
-०सिन् वैताश्रौ १२, ५; -सिनः
आश्रौ ७, २, ३; ४, ३××; शांश्रौ;
-सिनम् काश्रौ ९, ८, १०; ११,
८; आपश्रौ; -सिना काठश्रौ
१४२; बौश्रौ; -सिने शांश्रौ १२,
९, ८; १३, १०, ९××; काश्रौ;
-सी आश्रौ ४, १, ६; ५, ३,
२१××; शांश्रौ.

ब्राह्मणाच्छंसि-ग्रान-
स्तोत्र- > -स्तोत्रीय^३- -ये काश्रौ
२४, ४, ४५.

ब्राह्मणाच्छंसि-चमस-
-सम् बौश्रौ १७, ८ : २; ८; १२;
-से वैश्रौ १५, ३८ : ४; हिश्रौ
८, ८, ५५; -सैः वाश्रौ ३, १, २,
३०.

ब्राह्मणाच्छंसिचम-
स-मुख्य^८- -ख्यः आपश्रौ १४,
३, १०; -ख्यान् आपश्रौ १२,
२९, ४; काठश्रौ १४४; माश्रौ
२, ४, ३, १५; वैश्रौ १५, ३८ : २;
हिश्रौ ८, ८, ५४; ९, ७, ४२.

ब्राह्मणाच्छंसि-पोतृ-
नेष्टृ (ष्टृ-श्च) छावाक- कानाम्
काश्रौ ८, ६, १९; वैश्रौ १४, १२ :
१२.

a) ष्णा [ः] इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. चाञ्च ७ : ५; ११ : १)। b) विप. (इष्टि-। c) वस.।

d) विप. (इष्टका-। e) कासं. जीसं. पूष. = २ब्राह्मण- इति ?। f) = भाषिक-स्वर-। g) वैष १ द.। h) विप.
(कर्मन्ते)। छ > ईषः प्र. (पा ५, १, १३५)।

ब्राह्मणाच्छंसि-प्रभृ-
ति-तीनाम् द्राश्री ४, २, ९;
साश्री २, २, १८.

ब्राह्मणाच्छंसिय- ये
आपश्री १७, २१, ३.

ब्राह्मणाच्छंस्य^०-
-स्यम् माश्री २, २, ४, ४; -स्ये
काश्री १८, ६, ११; माश्री ६, २,
६, २; वाश्री २, २, ४, २३.

ब्राह्मणाच्छंस्य (सि-अ)
धीत्व-पोवृ- -तारः काश्री ७,
१, ९.

ब्राह्मणा(रा-अ)नुत्रक-
कः शुअ २, ३७६.

ब्राह्मणा(रा-अ)नुसार-
-रेण शुअ १, १३.

ब्राह्मणा(ण-अ)भिविधि-
(त >) वा- -ताः वौश्री १४,
१५ : २; २२, २० : २४.

ब्राह्मणा(रा-अ)वैष्य-छ-
न्दो-दैवत-विद्^०- -वित् ऋअ
१, १, १.

ब्राह्मणा(सा-अ)वेक्ष^०-
-क्षः आपृ २, १०; ३, ३.

ब्राह्मणिक- पा ४, ३,
७२.

ब्राह्मणो(रा-उ)क, क्ता-
-कम् वौश्री २७, २, २; वैताश्री;
-क्ताः काश्री १८, ६, ६; काश्रीसं;

-कान् वैताश्री १७, ११;
-कानाम् निसू २, ९ : ३१;

-कानि वैश्री १, १ : ५××;
१३, १८ : २^१; -केन वैताश्री
३१, १.

२ब्राह्मण^०- पाग २, १, ५९;

४, १, ७३; ५, १, १२४; -फं०ण
आश्री १, २, २७; शाश्री; -णः
आश्री २, १, १२××; शाश्री; निसू

२, ६ : ३६; ८ : १८××; फंआपमं
१, १०, ३; ६; २, १०, ७; १३,
१२^०; सु १६, ५; १७, १; आपृ

१, १९, ११; ३, ८, ११; कौश्री १,
२१, १२^१; ३, १०, ३५××;
शांगृ २, १७, २; ४, ७, ५५××;

पागृ १, ३, ११; ११, २^१; २, ३,
७; ५, २; ३, ४, १२^१; आमिगृ १,
५, ५ : १^१××; बौश्री १, २,
४९^१××; वौपि २, २, २××;

भागृ १, १ : ७××; मागृ १, २,
६××; वागृ ३, २, ५, २८; वैगृ १,
१ : १३; २, ८ : २; ६, १२ : १××;

फंहिय १, २४, १^१; २, ३, ७^०××;
हिपि ५ : ८; १९ : ९^१; गोश्री १,
४, १६; ९, १८××; गौपि २, ७,
३६; फंजैगृ १, २ : १८; १९; १२ :

५४××; द्रागृ १, ३, ५; २, ४,
१०××; कप्र १, १०, १२; २, १,
१५××; कौसू १३, ७; २८, १^१;

५७, १६; १९××; अप्राय ५, १;
६, ६; अप १, २५, २; ४३, ६××;
वाघ १, ४०; ४५^३××; शंघ १०-

१२; ७२; ८६××; आपघ १,
३, २८; ५, १६; १४, २५^२××;
बौघ १, १, ११; २, १८; ५७^१××;

विघ २, १; ३, ५८; ७९××; वैघ
२, १०, १; ३, ११, ३; हिघ १, १,
१०३; २, १६; ४, ५४^३××;

गौघ २, २६; ७, ३; २५; ८,
१××; काघ २७३ : ३; ८××;
सुघ १३; ६७; आपशु; या १,

१६; फं७, २४; ३१; -ह्णम्
आश्री ३, ११, ३; शाश्री; सु
११, ३××; आगृ १, १९, १××;
कौश्री २, १, १; ३, १३, ९; शांगृ
२, १, १; पागृ २, २, १; आमिगृ
१, १, १ : २; ४××; आपृ
१, २१××; कागृ ४३, ४;
बौगृ २, ५, २××; भागृ १,
१ : ५××; मागृ १, ३, १^१;
वागृ ५, १; वैगृ २, १ : २××;
हिगृ १, १, २××; गोश्री २, १०,
१××; गौपि १, १, ३; जैगृ १,
२ : १९^१××; द्रागृ २, ४, १;
कप्र २, ५, ७; कौसू ६७, १××; अप
१, ९, १××; वाघ २, ८^१; ४,
३××; शंघ ३१; ३२××; आपघ
१, १, १९^३××; बौघ १, २, ८××;
विघ ३, ७३××; हिघ १, १,
२०××; गौघ ११, १२; शुअ १,
४८४; ३, १३६; अत्र ४, ४०; ५,
१८^०××; या २, ४^१; शैशि १३७;
याशि १, ३; -णयोः वाघ १२,
३०; -णस्य आश्री ४, १५, ४;
शाश्री; आपश्री २२, १३, ११^१;
शुसू २, १ : १; २; निसू ७, १ :
५××; सु १६, ४; आगृ १, १९,
५××; कौश्री १, ८, ३३××; शांगृ
१, १४, १३××; पागृ १, ४, ८××;
आमिगृ १, १, १ : १६××; आपृ
११, १६; कागृ ४१, १××; बौगृ
२, ५, ३××; बौपि १, ५ : ७××;
भागृ १, २ : ६××; वागृ ५, ३××;
वैगृ २, ४ : १××; हिगृ १, १,
१७^२××; हिपि ५ : ९; गोश्री
१, १, १६××; गौपि २, ३, ३७^१;

a) वैप १ द. १. b) उप. <√विद् [ज्ञाने]। c) विप. ([ब्राह्मण-दृष्ट-] विधि-)। d) णि इति पाठः? यनि. शोघः। e) सपा. आमिगृ २, १, ३ : २० ब्राह्मणान् इति पाठे.। f) णाः इति पाठः? यनि. शोघः (वृ. संस्कर्तुः टि.)। g) शोघः ब्राह्मणवीम् टि. द.। h) पाठे. पृ १७६७ f द.।

जैगृ १, ११ : १९××; कप्र ३, ८, १२××; कौसू ५, १५, ५७, १०××; अप्राय ५, २; अप ३०^२, २, २; वाध १, २४××; शंघ १६××; आपध १, १, २७××; वौध १, ५, १२३××; विध २, ५××; वैध १, १, ५××; हिध १, १, २४××; गौध १, ७××; सुधप ८५ : ६; पावा १, ४, २३; मीसू ५, ४, १०××; -णाः शांश्रौ १५, १४, ९××; काश्रौ; सु ४, ४××; कौगृ ३, ९, ५०; वैगृ ६७ : ६; आम्रिगृ २, ३, ३ : २८××; बौगृ ३, ८ : १; बौपि, १, १५ : १; वागृ १७, १७^२; वैगृ ५, १३ : ३; जैगृ २, ९ : ४; कौसू ६, २६××; अप ५, ४, ५××; वाध ६, २५××; शंघ १११××; आपध २, १६, ३; बौध २, १, ३५××; विध १९, ५××; वैध ३, ११, ३; वृदे ५, १५८; चात्र ३०:१; निघ ३, १३^२; या २, १०; ३, १६××; याशि २, १; नाशि १, ४, ३; मीसू ३, ५, ५४; -फं०णाः आश्रौ ५, ७, ३; शांश्रौ ७, ६, ३; आपश्रौ; कागृ ४३, ५; कौसू ९१, २०; -णात् काश्रौ ९, ८, १०^२; आपश्रौ; वैगृ १, १ : १२××; कौसू ४२, १२; वाध १, ४३; शंघ २६०; ३२९; बौध १, ४, १××; वैध ३, १२ : ४; -णान् आश्रौ ३, १४, १××; शांश्रौ; सु १४, ५; आगृ १, २२, १८××; कौगृ १, १७, ६××; शांगृ १, २५, १××; पागृ १, १६, १०; १७, १××; आम्रिगृ १, १, १ : ६××; २,

१, ३ : २०^२; आपगृ ९, ४××; कागृ १२, २××; बौगृ १, १, १४××; बौपि २, ९, १४××; भागृ १, २१ : १३××; मागृ १, ६, ४^२××; वागृ ४, २६××; वैगृ २, १ : ४××; हिगृ १, १, ६××; गोगृ १, ९, ५××; गौपि १, ३, ११××; जैगृ १, ६ : ३××; द्रागृ १, १, ३××; कप्र २, ९, ४; कौसू ६, २३××; अप्राय २, ९; अप १, ३१, ५××; अशां १२, ६××; वाध २, ५××; शंघ १२८××; आपध २, १०, १५××; बौध १, ११, ३१; विध २१, १××; वैध ३, ९, २××; हिध १, ८, १७××; गौध १०, ९; अत्र १०, ७^२; -णानाम् आश्रौ ६, ११, १६; काश्रौ १, ६, १३; आपश्रौ; आपमं २, ५, १××; कौगृ ३, १४, २××; शांगृ ४, १, ४; आम्रिगृ २, ३, ३ : १५××; आपगृ १४, ६××; कागृ ४१, २१^२; बौगृ २, ५, ६४××; बौपि २, २, १××; भागृ १, १० : ९^२××; वैगृ ३, १८ : ६××; हिगृ २, ११, ४^२; गोगृ ४, ३, २८; गौपि २, ४, १^२; कौसू १, ८; कप्र ३, ९, ९; अप १, ६, ८××; वाध १४, २४; शंघ १४९××; बौध १, ५, ५६××; विध १७, १४××; काध २७०:३; सुधप ८८ : १; आज्यो ५, ३; मीसू ६, ६, १८××; -णाय आश्रौ २, १, ४××; शांश्रौ; आगृ १, २४, ११××; कौगृ २, ३, २××; शांगृ २, ५, ४; पागृ २, ३, ७××; आम्रिगृ २, २, ५:२०××; आपगृ १३, ५; कागृ

४१, १२××; बौगृ १, २, २१; बौपि १, ७ : ४; मागृ १, १८, ४; वागृ ५, २६××; हिगृ २, ६, १३; गोगृ १, ४, २५××; जैगृ १, १९:४१; द्रागृ १, ५, ३८××; कौसू १७, १९××, अप्राय ४, ४; अप ७, १, ११××; वाध ४, ८; शंघ ८६××; आपध २, ४, १६; बौध २, ३, ५०; विध ५०, ३३××; हिध २, १, ६९; गौध २०, १३; या ७, १३; -णासः बौध २, ६, ३४^२; -णे आपश्रौ १७, २६, १८; बौश्रौ; कौगृ १, ६, ७; शांगृ १, १०, ८××; मागृ २, २१ : १९; वागृ १३, ३; जैगृ २, १ : ३२; अप ४, २, ११××; या १३, ९; पा ५, १, ६२; पावा ३, १, १३१; -णेन शांश्रौ ३, १९, ९; आपश्रौ; सु १७, २; कौगृ ३, १२, १; आम्रिगृ २, ४, ६ : ३७××; बौगृ १, ७, १××; वैगृ ६, १२ : १२; कौसू ७३, १८; अप्राय ५, ६; अप ३२, १, १२^२; शंघ ७५××; आपध १, ९, १३^२; हिध १, ३, १३^२××; गौध ९, १९; अत्र ४, १९^२; -णेभ्यः आश्रौ ६, ११, १६^२; शांश्रौ; आगृ १, ८, १३××; कौगृ १, ८, २९××; शांगृ १, १४, ११××; आम्रिगृ २, ३, २ : ८××; आपगृ २२, २; बौगृ १, ४, ३८××; बौपि १, ६:१०××; वैगृ २, ८ : ४××; जैगृ १, ६ : ७××; गो १, २९; अप्राय ३, ७××; अप १, ४९, ५××; अशां १३, १; आपध २, २६, १; बौध २, ६, ५××; विध ३, २६××; हिध २, ५, १९६;

गौध ५, ४४xx; काथ २७० :
 ८xx; सुध ५३; ऋञ्ज ३, ३;
 अञ्ज ९, ४र्; -णेणु शांश्रौ १४,
 ३३, ९; बौश्रौ; आमिगृ १, ३,
 ४ : १५र्xx; बौगृ १, २, ४९;
 कप्र ३, ८, २१; कौसू ६५,
 १५xx; अप्राय ६, ६; शंघ
 २४४; बौघ १, १०, २; विघ ३,
 ९६xx; या १३, ९; -णैः
 ऋआपमं २, १४, ८^३xx; पागृ
 १, १६, ६र्; आमिगृ २, ३, ५ :
 ९xx; मागृ २, १७ : ३र्; बौपि
 २, १०, २; हिगृ २, १५, ९र्;
 हिपि २० : ५; अप्राय ४, १;
 अप ७०^१, ११, १; विघ ३,
 ७२xx; वैघ ३, ८ : १; -णौ
 आपश्रौ २०, ७, १; वैश्रौ १२, १ :
 १५; हिश्रौ १४, २, ६; बौपि २,
 ११, २.
 ब्राह्मणी^१- पा ४, १,
 ७३; -णी द्रागृ २, २, २२; वाघ
 १७, ७८; २१, ११; शंघ ६५;
 ३४१; गौघ ४, १८; आज्यो १२,
 १; -र्णीः आपमं २, ११, १३^०;
 आमिगृ २, १, २ : १२^०; बौगृ
 १, १०, ११^०; भागृ १, २१ : ७^०;
 १३; हिगृ २, १, ३^०; -णीनाम्
 आपश्रौ ५, ११, ७; बौश्रौ २, १६ :
 ४५; भाश्रौ ५, ६, ७; हिश्रौ ३, ४,
 ७; -णीभ्यः अशां १३, ३; -णीम्
 बौश्रौ ५ ५४ : ६; वैगृ ६, १२ : १;
 अप ३६, ५, ३; वाघ २०, ३४;
 २१, १-३; आज्यो ३, ६; -ण्यः
 आगृ १, १४, ८; गोगृ २, ४, ६;

७, १२; वैघ ३, ११, ३; साञ्ज
 १, ९२; -ण्या शांश्रौ १७, १५,
 १२; लाश्रौ ९, २, ६; शंघ ४००;
 -ण्याः आगृ १, ७, २१; वाघ
 १७, ४८; २१, १-३; -ण्याम्
 बौगृ १, ७, १; वैगृ १, १ : १२;
 ६, ७ : १; वाघ १८, १; ४; ६;
 शंघ ३९९; ४०१; आपघ २,
 १७, २१; बौघ १, ९, ६-८; वैघ
 ३, ११, ३; १३, ११; १४, ७;
 हिघ २, ५, ४९.

ब्राह्मणी-क्षत्रिया-
 वैश्या- -श्यासु वाघ १७, ४७.

ब्राह्मणी-नामिन्-
 -मी शंघ ३७७ : ६.

ब्राह्मणी-पुत्र- -त्रः
 विघ १८, २; ३९; -त्राः विघ
 १६, ६; -त्रेण गौघ २८, ३८;
 -त्रौ विघ १८, ३८.

१ब्राह्मण-क- पा ५, २,
 ७१.

२ब्राह्मणक- पा ४, ३,
 ११८^१.

ब्राह्मण-कन्या- -न्या
 आमिगृ २, ४, ९ : २.

√ब्राह्मणकाम्य>
 °काम्या- -म्या बौघ २, १०, ६०.

ब्राह्मण-कुमार- -रस्य वृदे
 ५, १५.

ब्राह्मण-कुल- -लम् वाश्रौ
 १, ५, ३, ११; गोगृ २, ३, १; -ले
 द्रागृ १, ४, २; वाघ १०, २४.

ब्राह्मण-क्षत्रिय- -ययोः
 शांश्रौ १, १, ३; -यौ विघ १८,

१२.
 ब्राह्मण-क्षत्रिय-विट्-
 छद्- -द्वात् बौघ २, ३, ११.
 ब्राह्मण-क्षत्रिय-विट्-
 शूद्र- -द्राः बौघ १, ८, १^०.
 ब्राह्मण-क्षत्रिय-विश-
 -विशाम् वाघ २१, १२.
 ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-
 -श्याः वैश्रौ १२, १२ : १;
 वाघ २, २; विघ १८, २८;
 -श्यानाम् आमिगृ ३, १०, २ :
 ११; सुध ५; १०; -श्यैः वाघ
 १८, ८.

ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-
 रथकार- -राणाम् वाश्रौ १, १,
 १, ४.

ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-
 शूद्र- -द्राः वाघ २, १; आपघ १,
 १, ४; वैघ १, १, २; हिघ १, १, ४.

ब्राह्मण-ना(व>)वी^१-
 -वीः हिघ १, ६, ६९^६; -व्यः
 आपघ १, २४, २^{१२}.

ब्राह्मण-गान- -नम् वाश्रौ
 ३, ४, १, ४१.

ब्राह्मण-गृह- -हे शंघ
 ४०३; -हेषु शंघ ३९७; ४०४.

ब्राह्मण-जात- -तम्
 आपश्रौ २०, ५, १५; हिश्रौ १४,
 १, ४७.

ब्राह्मण-शुद्ध- -ष्टम् कौगृ
 १, १६, १५; शांश्रौ १, २४, ६.

ब्राह्मण-तर्पण- -णम् मागृ
 १, १९, ५; २, १४, ३२; सुधप
 ८६ : ४; अप ६८, २, ६१; शंघ

a) पाठे. वैप १, २२९९ ० द्र. । b) विप. ([ब्रह्मसंवन्धिनी-] प्रजा- [आपमं २, ११, १३ प्रमृ.], ऋच्- [साञ्ज १, ९२ प्रमृ.]), नाप. (ब्राह्मण-स्त्री- [वाघ १७, ७८ प्रमृ.]) । c) सपा. पागृ १, १५, ८ मातृषीः इति पाठे. । d) तु. पागम. । e) °वैश्याम् इति सूको. । f) वैप १ ब्राह्मणवी- टि. द्र. । g) परस्परं पाठे. । h) उपा- रेण संभिरार्थः ।

३९०; गौध २६, १७; -णैः
विध ४९, २.

ब्राह्मणतर्पणा (ण-ञ)
न्त,न्ता^१-न्तम् काश्रौसं ५:१;
८:१८; -न्ताः काश्रौसं ६:२०.

ब्राह्मण-दण्ड- -ण्डः गौध
१२, ४३; -ण्डौ गौध १, २४.

ब्राह्मण-दार- -रान् वाध
२१, १६.

ब्राह्मण-दूषण- -णम्
वाध ६, २४.

ब्राह्मण-दूषयित्- -ता
विध ५, १८.

ब्राह्मण-देवता-सर्वभूत-
परीवादा(द-आ)क्रोश^२- -शान्
हिध २, १, १४^०.

ब्राह्मण-द्वेष्ट- -ष्टे या
६, ११.

ब्राह्मण-धन- -नम्
वैताश्रौ ३४, १८.

ब्राह्मणधन-वर्जम् विध
१७, १३.

ब्राह्मण-निमन्त्रणा (ण-
आ)दि- -दि वैय ४, ७:२.

ब्राह्मण-परिणी(त >)
ता^१- -तायाम् शंघ ३९९.

ब्राह्मण-पाणि-> ण्य
(णि-ञ)जकण-स्तम्बा(म्ब-ञ)र्-
म्बाप्सु आश्रौ ३, १४, १६.

ब्राह्मण-पुङ्गव- -वे अप
९, ३, १.

ब्राह्मण-पूजन- -नम् विध
५९, ३०.

ब्राह्मण-प्रिय- -०य विध
९८, ३०.

ब्राह्मण-ब्रह्मवर्चसकाम-
-मयोः काश्रौ ४, ७, ५.

ब्राह्मण-श्रुव^३- -त्रे विध
९३, २.

ब्राह्मण-भोजन- -नम्
कौय १, ७, ४××; शांय ४, १६;
५××; पाय १, २, १३××; माय १,
२०, ५; वैय ६, ५: ४; शंघ ४४०;
-ने आय १, १, २; -नैः वौय
३, १२, ९.

ब्राह्मणभोजन-
सुवर्ण-पशु-दान^४- -नानि वैय
६, ६: ५; ७: ७.

ब्राह्मणभोजना(न-ञ)
र्थ- -र्थम् आम्रिष्ट ३, ३, १: १९.

ब्राह्मण-मात्र- -त्रम्
आपध १, २४, ७; हिध १, ६, ५६.

ब्राह्मण-यज्ञ- -ज्ञः काश्रौ
१९, १, १.

ब्राह्मण-राजन्य- -न्ययोः
काश्रौ २१, १, २; आपश्रौ २४,
१, १; हिश्रौ ३, १, ७; -न्यौ
हिश्रौ १४, २, १८; वाध २, ४०.

ब्राह्मणराजन्य-वत्
गौध १२, ११.

ब्राह्मण-राजन्य-वैश्य-
-श्यानाम् काश्रौ १, १, ६; आपश्रौ
१०, १२, १२.

ब्राह्मण-राजन्य-वैश्य-रथ-
कार- -रेषु बौध १, ३, ९.

ब्राह्मण-राजन्य-वैश्य-
शूद्र- -द्राः आपश्रौ १८, १९, २.

ब्राह्मण-लक्षण- -णम्
वाध ६, २३.

ब्राह्मण-वचन- -नात्

माय १, १३, १९; आपध २, १,
१९; हिध २, १, १८.

ब्राह्मण-वत् बौध २, १,
११; या ३, १६^५; पाग १, १,
३७.

ब्राह्मण-वत्सा-> वत्सा-
ब्राह्मणीवत्स- -त्सयोः पावा १,
२, ६८.

ब्राह्मण-वध- -धे बौध
१, १०, १९; गौध २२, १०.

ब्राह्मण-वर्चस^६- -सम्
अप १, १७, १; -सेन वैताश्रौ
१९, १६.

ब्राह्मण-वर्जम् विध ३,
६३; ५, १××; गौध ११, १.

ब्राह्मण-वासिष्ठ- -ष्ठे
पागवा ४, १, १९^६.

ब्राह्मण-विधवा- -वा
आम्रिष्ट २, ४, ९: २.

ब्राह्मण-विहित- -ताः
हिश्रौ ३, १, ८.

ब्राह्मण-वृत्ति- -त्तिः
सुध ६.

ब्राह्मणवृत्ति-श्र- -श्रः
शंघ ३७६; ४०४; विध ५४,
१५.

ब्राह्मण-वैश्य- -श्यौ
वाध ३, २४; विध १८, १४.

ब्राह्मण-शासन- -नात्
वृदे ७, १४.

ब्राह्मण-शूद्र- -द्रौ विध
१८, १६.

ब्राह्मण-संज्ञक- -कः
आम्रिष्ट ३, १०, १: २; बौपि ३,
५, १^१.

a) बस. । b) दस. > षस. > दस. । c) सपा. आपध २, ५, १३ सर्वभू^० इति पाठे. । d) विप. (शुद्धा-). e) उस. उप. <√बृ। f) दस. > दस. > षस. । g) वैप १ द. । h) ष्योः इति पाठा. । i) षितः इति B. ।

ब्राह्मण-संनिधि- -बौ
 आसिष्ट २, ७, ११:८; ३, १२, १:
 १७.
 ब्राह्मण-सप्तक- -कम्
 विष ९०, १०.
 ब्राह्मण-संपद्- -पद्म्
 वाघ ११, २८; बौध २, ८, २२.
 ब्राह्मण-संभाष, पा^१- -षः
 भाग्य २, ३२ : ३; हिग्य १, १४,
 २; १७, ६; -षाम् आसिष्ट २, १,
 १ : ७; २ : ८; भाग्य १, २०:११;
 हिग्य १, २४, ८××.
 ब्राह्मण-संभाषा- -षा
 आषध २, २, ९; हिध २, १, ३१.
 ब्राह्मण-सात् कप्र २, ८,
 ११.
 ब्राह्मण-सामन्- -म
 निसू ७, ५ : ३३.
 ब्राह्मण-सुवर्ण-हरण-
 -गम् विध ३५, १; -णे वाघ
 २०, ४१.
 ब्राह्मण-सुवर्णा (र्ण-अ)
 पहरण- -गम् वाघ १, २०.
 ब्राह्मण-सूत-मागध-च-
 षडाल- -लान् गौध ४, १८.
 ब्राह्मण-स्व- -स्वम् बौध
 १, ५, १०१; १०२^२; -स्वानि
 आषध २, २६, २; हिध २, ५,
 १९७.
 ब्राह्मण-हस्त- -स्ते काश्रौ
 २५, ४, २; -स्तेषु अप ४४,
 ३, २; ४; ४, ७; शंघ २१४.
 ब्राह्मण(ण-आ)क्रोश-
 -शे गौध १२, ६.
 ब्राह्मण(ण-अ)मि-

-श्री शंघ ४११; ४३९.
 ब्राह्मणा (ण-अ) अलि-
 -लियु वैग्य ६६ : ७.
 ब्राह्मणा (ण-अ) तिक्रम-
 -मः कप्र २, ५, ९^७; वाघ ३, १०;
 बौध १, ५, ८३; -मेण बौध १,
 ५, ८२.
 ब्राह्मणा (ण-आ) दि-
 -दिषु पावा ५, १, १२४; -दीन्
 काश्रौ २१, १, ७; १२; -दीनाम्
 बौध २, २, ५२; विध २२, ८.
 ब्राह्मणादि-चतुष्टय-
 -ये अप ३६, ८, २.
 ब्राह्मणादि-हत- -ते
 कप्र २, ७, ९.
 ब्राह्मणादि-हीन-हत-
 -तः वैग्य ५, ११ : ३.
 ब्राह्मणा (ण-२आ) घ-
 -घ्याः बौध १, २, १९; वैध ३,
 १५, १४; -घैः वैग्य ७, ४ : १०;
 वैध ३, ९, १.
 ब्राह्मणा (ण-अ) नुजात-
 -तः विध ७३, १०.
 ब्राह्मणा (ण-अ) नुमत-
 -तः भाग्य २, ५ : ६; विध ४२,
 २; -ते शंघ ३९५; -तेन विध
 ८१, १८.
 ब्राह्मणा (ण-अ) न्तरित-
 -तम् विध २३, ४८.
 ब्राह्मणा(ण-अ) पसद्-
 -दाः विध ८२, ३०.
 ब्राह्मणा (ण-अ) भिन्या-
 हार- -रः सुघप ८६ : १४^०.
 ब्राह्मणा (ण-अ) भिदां-
 सन- -ने गौध २१, १७.

ब्राह्मणा (ण-अ) भिआ-
 वण- -णे सु १, ५.
 ब्राह्मणा (ण-अ) मिहित-
 -तम् विध १९, २२.
 ब्राह्मणायन- पा ४, १,
 १९; -नः^१ कौसू ३३, १९;
 -नम् कौसू ७८, ८; -नाः हिधि
 १४ : १०.
 ब्राह्मणा(ण-अ)र्थ- -र्थः
 विध १७, १४; -र्थे वाघ २०,
 २७; बौध २, २, ७१; विध १६,
 १८.
 ब्राह्मणा (ण-अ) पित्त-
 -तानाम् हिश्रौ २, १, ५५.
 ब्राह्मणा (ण-अ) शौच-
 -चे विध २२, १४; १५.
 ब्राह्मणा (ण-आ) श्रय^१-
 -याः आसिष्ट ३, १०, ४ : २२.
 ब्राह्मणे (ण-इ) न्द्र-
 -न्द्राणाम् वेज्यो २.
 ब्राह्मणो (ण-उ) च्छिष्ट-
 मार्जन- -नात् विध ९१, १८.
 ब्राह्मणो (ण-उ) च्छिष्टा
 (ष्ट-अ)शन- -ने शंघ ३९६;
 विध ५१, ५२.
 ब्राह्मणो (ण-उ) पवा-
 सन- -नम् वाश्रौ १, ४, ३, ४२;
 ब्राह्मण्य- पा ४, २, ४२;
 ५, १, १२४; -ण्यम् बौग्य ३,
 १३, ९; कप्र २, १, १५; ४, १०^०;
 अप ४१, ४, ६; ७; -ण्यात् विध
 ५४, २७.
 ब्राह्मण्या (ण्य-आ)
 दि-व्यवहार- -रः सुघ ४२^०.
 ब्राह्मि^१- -ह्यये हिश्रौ १४,

a) बस.। b) ष्णामि^० इति जीर्ण.। c) सप्र. ष्णामिन्याहा^० <> ष्ण्यादिव्यवहा^० इति पाभे.।

d) नाप.। जीवत्पिनुको वा जीवत्स्थविरभ्रातुको वा जीवत्स्थविरतरो वेति दारिद्र्यः।

e) ब्रह्म^० इति सूको.।

f) वैप १३.।

४,३८१.
 ब्राह्मण^१ -> °ह्य-वायव्य-
 -व्ययोः अशां ६,३.
 ब्रह्म-ऋषि- -षीन् शंघ ११६ :
 ३१.
 ब्रह्म-कर्मन्- -र्मं शांश्री ४,६,१;
 ८, १५, १५; -र्मणि वृदे ५,
 १५८.
 ब्रह्मकर्म-समाधि^२ - -धयः
 अप ३०, १,५.
 ब्रह्म-कर्मा(र्म-आ)ःम-देवता-
 > °ल्य- -त्यम् अत्र ५,२४.
 ब्रह्म-काण्ड- -ण्डम् अत्र
 १९, १.
 ब्रह्म-काय- > °यिक^३ - -ोक
 विध ९८,३८.
 ब्रह्म-कीर्ति^४ - -र्तिम् आमिष्ट २,
 ७,६ : ११.
 ब्रह्म-कूर्च^५ - -र्चः अप ३८,३,२;
 बौध ४, ५, २५; -र्चम् आमिष्ट
 २,७, ७ : १.
 ब्रह्मकूर्च-विधि- -धिम् अप
 ३८,१,१.
 ब्रह्मकूर्चो(र्व-उ)दक- -कात्
 आमिष्ट २,७, ७ : २१.
 ब्रह्म-कृत- (> ब्राह्मकृतेय-
 | > °तेयी- | पा. यक.) पाग ४,
 १,१२३; ७३^६.
 ब्रह्म-कृति^७ - -तिम् आश्री ६, २,
 ६१.
 ब्रह्म-कोप-मय- -यः अप ५२,
 १४,१.
 ब्रह्म-कोश- -शः पाण्ड ३, १५,

२३४; -शम् बौश्री ३, २३ :
 १०; पाण्ड ३, १५, २३.
 ब्रह्म-क्षत्र- -त्राम्याम् बौश्री
 १८, २ : १०; -त्रे शांश्री १४,
 २९,२.
 ब्रह्मक्षत्र-सुखा (स्-आ)
 चह^८ - -हः अप ५०,६,३.
 ब्रह्म-क्षत्र-विश्व- -विशाम् शंघ
 १७८.
 ब्रह्म-क्षत्रिय-विद्-शूद्र- -द्रान्
 अप ६३,३,८.
 ब्रह्मक्षत्रियविद्-शूद्र-विनाश-
 -शः अप ६४,८,४; -शाय अप
 ५८,१,८.
 ब्रह्म-क्षत्रिय-वैश्य- -श्यानाम्
 आज्यो २,८.
 ब्रह्म-ग(व>)वी^९ - -वीः अपंशः
 ३५१; -वीभ्याम् कौत् ४८,१३;
 -वीम् अत्र ५,१८^{११}; -व्याम्
 अपं २ : ४४; ५ : १११.
 ब्रह्मगवी-देव(ता>)त^{१०} -
 -ताः अत्र १२,५.
 ब्रह्मगवी-देवता-> °ल्य-
 -त्ये अत्र ५,१९.
 ब्रह्मगवी-ब्रह्मज्य^{११} - -ज्यम्
 अत्र ५,१९.
 ब्रह्म-गव्य^{१२} - -व्यम् अत्र ४,२१.
 ब्रह्म-गुप्त- पाग ४,१,११२^{१३};
 ५,३,११६^{१४}.
 ब्राह्मगुप्त- पा ४, १,
 ११२.
 ब्राह्मगुप्तीय- पा ५,
 ३,११६.

ब्रह्मगुप्तीय- पा ५, ३,११६.
 ब्रह्म-ग्रन्थि-यु(त>)ता-
 -ताम् ऋण्ड ४३ : २.
 ब्रह्म-घोष- -घेण अप ८,१,२.
 ब्रह्म-घ्न- -घ्नेन कप्र ३, १, ७.
 ब्रह्म-चमस- -सम् आपश्री १४,
 १०,७; वैश्री १५,३० : १२.
 ब्रह्म-चर्थ^{१५} - -र्थम् शांश्री ३,१३,
 ३०; आपश्री ४,१,२××; बौश्री;
 आपमं २,३,२६; आण्ड १, २२,
 १; कौण्ड २, ७, ५; १२; १९१;
 शाण्ड १,१७,५; २,१,१९; ११,
 ६××; पाण्ड २, १, २४; २, ६;
 ६,२; आमिष्ट १, १, ३ : ३१;
 २, ६, ५ : २६; ७, ४ : १६××;
 आपण्ड ८, ८; ९, ४; ११, ११;
 काण्ड २,४; १९,२; ३०, १××;
 बौण्ड २,६,१७; ९,२४; बौण्ड १,
 ९ : १४; ३, ४, २२; भाण्ड १,
 १० : १३; ३, ५ : २; ६ : २०;
 १२ : ५; माण्ड १, १, १८; २,
 ६; १४,१४××; वाण्ड ५, १६१;
 ३४; ६,१४××; हिण्ड १,५,२१;
 हिण्ड ८ : १०; गोण्ड २,१०,१९१;
 जैण्ड १, २ : १८१; १२ : २४१;
 १७ : २; द्राण्ड ४,२,४; कप्र ३,
 ६, १४; ऋण्ड ५५, ९; ७३,
 १०; १३५, ९××; शंघ ३९;
 ११६ : १९××; आपध १, १,
 २८; २, ६××; बौध १, २, ५५;
 ५७^{१६}; ५८^{१७}××; विध २५,१४;
 २८, ४७××; हिण्ड १, १, २६;
 ३९××; गौध २, ११; ५२××;

a) साऽऽस्यदेवतीयः ष्यः प्र. उत्सं. (पा ४, १, ८५) । b) बस. । c) विप. (विष्णु-) ।
 d) =(पञ्चगव्यनिर्वर्त्य-) कृच्छ्र-विशेष- । e) ब्राह्मणकृतेय- इति भाण्डा. । f) वैप १,२२९५ b द्र. ।
 g) पाशे. वैप २, ३खं. ब्रह्मणः तैआ ७, ४, १ टि. द्र. । h) षस. >उस. । i) वैप १ द्र. । j) °वीब्रा°
 इति पाठः ? यनि. च ब्रा° चेति शोषः । k) समाहारे द्रस. । l) पाठः ? ब्रह्मा, ग° इति द्विपदः शोषः (तु-
 सात्., प्रकरसं च) । m) तु. पागम. । n) ब्राह्म° इति पागम. ।

ऋअ २, ३, १; या ६, २५; पा ५, १, १४; मीसू ६, १, २४; -ञे शांष्ट २, ११, १३; भाग्य ३, १: ३; विध २५, १७; -फँर्येण कौष्ट ३, १२, १८; अप १, ३८, १; अशां ८, १; वाघ १६, ४८; बौध २, ६, ३५; ९, ७.

ब्रह्मचर्य-क्षति- -ति: आमिष्ट २, ७, १: ३.

ब्रह्मचर्य-युक्त- -क्त: आपष्ट ९, १०.

ब्रह्मचर्य-वन्- -वन्ति बौश्रौ २६, १: ५; -वान् वाघ ११, ४८; आपघ २, २१, ८; १९; बौध २, १०, २; हिध २, ५, ११७; १२८.

ब्रह्मचर्य-विधि- -धि: आपघ १, २, १८; हिध १, १, ५१.

ब्रह्मचर्य-व्रत- -तम् वैध २, २, ६.

ब्रह्मचर्या(र्य-अ)न्त- -न्ते काष्ट १९, ३; जैष्ट १, १७: ८.

ब्रह्मचर्या(र्य-आ)श्रम- > णिन्- -मी विध ५१, ४३.

ब्रह्मचर्यो(र्य-उ)पपन्न- -न्नम् वाघ २, ९; विध २९, १०; या २, ४.

ब्रह्म-चारिन्- -पाग ५, १, १३०; -रिण: आश्रौ १०, ७, ९; शांश्रौ १६, २, २६; निसू ८, ४: ३४; आपमं २, २, १; कौष्ट २, ३, १८; शांष्ट २, ६, ८; पाष्ट २, १०, १४xx; आमिष्ट २, ७, ४: ४; बौष्ट २, ६, १०फँxx;

हिष्ट १, १५, ३फँ; हिपि १४: १०; कप्र ३, ५, ६; कौसू ५६, १४फँxx; अप १९, ३, २xx; वाघ ६, २०xx; आपघ १, २, १७; ५, १०^dxx; बौध २, १, २४xx; विध २५, १७; वैध १, ३, १xx; हिध १, १, ४४^exx; गौध ३, ४xx; या ५, २; -रिणम् आश्रौ ८, १४, १; वाश्रौ; -रिणा कप्र ३, ६, १४; विध २८, ४१; -रिणाम् वाघ ६, १९; विध २८, १; ६०, २६; -रिणि अप ३६, १, ४फँxx; हिध १, २, १०^d; पा ५, २, १३४xx; -रिणे आपश्रौ १३, १९, ९; बौश्रौ; -रिणौ आमिष्ट १, ८, १०; आमिष्ट १, ६, ३: ४३; बौष्ट १, ५, १५xx; भाग्य; -फँरिन् बौष्ट १, ८, ६; कौसू ५६, १२; -फँरिभि: आपमं २, ६, १; आमिष्ट १, १, ३: २८; हिष्ट १, ५, १३; अप ३०^३, १, २; -रिभ्य: कौसू ११, ६; ५५, १४फँ; -री आश्रौ ८, १४, १४; काश्रौ; आपमं २, ६, १४^f; आष्ट १, २२, २फँ; कौष्ट २, २, १५फँ; पाष्ट २, ३, २फँ; शांष्ट २, ४, २, ५फँ; गोष्ट २, १०, २९फँ; द्राष्ट २, ४, १९फँ.

ब्रह्मचारिणी- -णी

माश्रौ १०, ९, ९; वैध २, ३, १; आज्यो १२, ३; -णीम् आमिष्ट १, ६, १: २; हिष्ट १, १९, २; अप ३६, १, २.

ब्रह्मचारिण- पा ५, १,

१३०.

ब्रह्मचारि-कल्प- -ल्पेन आष्ट ३, ५, १५; आमिष्ट २, ४, ४: ४; काष्ट ४३, २; बौध ३, ७, ६.

ब्रह्मचारि-गत- -तम् बौध १, ५, ४८.

ब्रह्मचारि-गृहस्थ-वानप्रस्थ-परिव्राजक- -का: वाघ ७, २.

ब्रह्मचारि-त्व- -त्वात् मीसू १०, ६, ३२.

ब्रह्मचारि-धर्मन्- -र्माणि वैष्ट २, ८: १३.

ब्रह्मचारि-वानप्रस्थ-भिक्षु-गुर्विणी-तीर्थानुसारिन्- -रिणाम् विध ५, १३२.

ब्रह्मचारि-वास- -स: आपघ १, २, ११^f; हिध २, ५, १११^h; ११५.

ब्रह्मचारि-वासस- -स: हिष्ट १, ९, १०.

ब्रह्मचारि-व्रत- -तम् वैष्ट ५, ७: ५.

ब्रह्मचारि-व्रत- -त: काठश्रौ २४; काश्रौसं २८: १७.

ब्रह्मचारि-संघ- -घम् आपघ १, ३, २६; हिध १, १, १०१.

ब्रह्मचारि-सांपद- -दानि कौसू ११, १.

ब्रह्म-चित्- -चित् बौश्रौ १९, ७: ६०; ८: ३; -चित्त: बौश्रौ १९, ७: १.

ब्रह्म-चोदन- -नौ बौश्रौ ६, १५: २८; माश्रौ २, १, ४, २७.

a) सपा. चरिते ऋ इत्यस्य स्थाने कौष्ट २, ७, १७ चरितब्रह्मचर्ये इति पाठे. । b) वैप १ द्र. । c) चन्द्र-मते पाठः (तु. पागम.) । सब्रह्मचारिन्- इति भागडा. प्रसू. । d) सपा. णिणः <> णिणि इति पाठे. । e) सपा. णिणः वासः <> णिवासः इति पाठे. । f) पाठे. वैप २, ३६. ब्रह्मचारी माश ११, ५, ४, ५ टि. द्र. । g) उप. <√वस(निवासे)> । h) सपा. आपघ २, २१, ३ वासः इति पाठे. । i) वस. । j) उप. <संपद्- । k) नाप. (चित्ति-) उप. ।

ब्रह्मजज्ञान^१-> न-सूक्त- -क्तेन
अप १९^१, २, ५; ३, ४.

ब्रह्मजज्ञाना(न-आ)दि- -दि
वैगृ २, २ : ५.

ब्रह्मजज्ञानीय^२- -ये जैगृ २,
८ : १०.

ब्रह्म-जन्मन्- -न्म विध ३०, ४४.

ब्रह्म-जप- -पः आश्रौ १, १२,
१०; २९; -पम् मागृ १, १०;
१९; कौसू ३, ८; १३७, ४०.

ब्रह्म-जाया- -या ऋग्र २, १०,
१०९; वृदे २, ८२; ८, ३६;
-याम् अग्र ५, १७.

ब्रह्मजाया-देवता-> ष्य-
-त्यम् अग्र ५, १७.

ब्रह्म-ज्य^३- -र्ज्यम् अग्र १२,
५ (३); -र्ज्यस्य आपश्रौ
१३, १, ११; हिश्रौ ९, १, १०;
-ज्येषु कौसू १४१, ७.

र्ज्यब्रह्म-ज्येषु^४- -ष्टा अप ३७,
६, १; ४६, २, ६; ९, २१; १०,
२०; अग्र १९, २२.

र्ज्यब्रह्म-ज्योतिस्^५- -तिः आपश्रौ
११, १५, १; बौश्रौ ६, २९ : २०;
वैश्रौ १४, १३ : ७; हिश्रौ १०,
३, ४२; आमिगृ २, ५, ३ : २०;
बौगृ ३, ७, १६.

ब्रह्मणस्-पति-> ब्राह्मणस्पत्य,
त्या^६- -त्यः आश्रौ ५, १४, ६;
शाश्रौ १०, ३, ७; ४, ७; माश्रौ
५, २, १०, ३३; शुभ्र ४, ३८;
-त्यम् शाश्रौ ७, १९, ११;
आपश्रौ; -त्यस्य हिश्रौ २२, ४,

१०; -त्या साग्र १, ५६; १३९;
अग्र ८, ६; -त्याः शाश्रौ ७, २६,
२; ऋग्र २, १, १८; -त्यानाम्

आश्रौ ७, ३, ५; -त्यानि अग्र
१९, ६१; -त्याभिः हिश्रौ ६,
६, १६; -त्ये ऋग्र २, १०,
१५५; -त्यौ आश्रौ ७, ३, १.

ब्राह्मणस्पत्य-सामन्-
-म जैश्रौका ५९.

ब्रह्मणो(राः-अ)यन- -नम् बौश्रौ
१७, २७ : ६.

ब्रह्मण्य- पा ५, १, ७; -ण्य
विध ९८, ३६; -ण्यम् अप २०,
५, ३.

ब्रह्मण्य-पित्र^७- -त्रैः अप
२०, २, ९.

र्ज्यब्रह्मण-वत् काश्रौ ३, २, १३;
आपश्रौ.

ब्रह्मण-वत्- -वते शाश्रौ ९, २२,
२; ४; बौश्रौ २३, ९ : १०;
वाधूश्रौ ४, १०८ : ९१; -वन्तः
बौश्रौ १८, ४६ : ४^३; १४; १५;
तैषा १३, १३१; भाशि ६३१;
-वान् आश्रौ ४, १, २२.

ब्रह्मण्वती^८-> ष्या(ती-आ)
दि- -दीनाम् शौच ४, ९९.

ब्रह्म-तर्पण- -णम् वैगृ १, ५ : ९.
ब्रह्म-तस् (ः) अप्राय ४, १.

ब्रह्म-ता- पा ५, १, १३६.

ब्रह्म-तीर्थ^९- -र्थेन शंघ ९२.

ब्रह्म-स्व- पा ५, १, १३६; -त्वम्
काश्रौ २, २, २२; ११, १,
१; आपश्रौ ३, २०, ११^३xx;

बौश्रौ; -र्त्वे बौश्रौ २७, ६ : १५;
वैश्रौ २०, ३० : १०; -त्वेन बौश्रौ
२, ३ : १९.

ब्रह्मत्व-कारिन्- -रिभिः
शाश्रौ १२, २, १०; ताश्रौ ४, १०,
१०.

ब्रह्मत्व-नियम- -मात् मौस्
६, ६, २४.

ब्रह्मत्व-प्रातिहर्त्रे^१- -त्रे काश्रौ
२४, ४, ४४.

ब्रह्म-दृ^{११}- -दृः विध ३०, ४४.

ब्रह्म-दृग्ढा(एह-आ)दि- -युक्त-
-कानाम् कप्र ३, ५, १६.

ब्रह्म-दृत्त- पाय ४, १, ९९^{११};
-त्तम् वैगृ २, ७ : १३.

ब्राह्मदत्तायन- पा ४, १, ९९.

ब्रह्म-दान- -नम् कप्र २, ४,
१९; -ने मौस् १०, ३, ७०.

ब्रह्म-दे(य)>या^{१२}- -या अप
४१, ६, ५, ६; -याम् वागृ १०,
१६; -यायाः कागृ १५, १.

ब्रह्मदेया(या-अ)नुसंतान^{१३}-
-नः^{१४} वाध ३, १९; शंघ २००;
विध ८३, १५^१; गौध १५,
२८.

ब्रह्मदेया-पति- -तिः शंघ
२००.

ब्रह्मदेया-पितृ- -ता मागृ १,
८, ६.

ब्रह्मदेया-प्रदायक- -कः शंघ
२००.

ब्रह्म-देवता-> ष्य^{१५}- -त्यः
अप १, ४, ६.

a) < ब्रह्म ज्ञानम् (मा १३, ३) । b) = साम-विशेष- । मत्वर्थीयः छः प्र. (पा ५, २, ५९) ।

c) वैप १ द्र. । d) कस. समासान्तः अः प्र. उस्. (पा ५, ४, ७४) । e) = तीर्थ-विशेष- । f) तु. नौसं. ।

प्रति^१ इति अच्यु. १ । g) उप. < √दा (दाने) । h) व्यप. । i) = (ब्राह्मविधिना देया-) कन्या- ।

j) = पक्षिपावन-भेद- । षस. उप. = संतति- । k) पाभे. पृ १८१८ m द्र. । l) वैतु. टीकाकारः (तु. Jolly)

ष्य-अ इति कृत्वा बस. पू. = वेदाध्यापन-, उप. भाप. इति । m) विप. (अभिजिन्-नक्षत्र-) ।

ब्रह्म-देव-भूत-पितृ-नर-यज्ञ-
-ज्ञान विध ५९, २०.
ब्रह्म-देव(व-ऋ)षि-पितृ-तृप्स्य-
(मि-अ)र्थ- -र्थम् वैगृ ३, २ :
७.
ब्रह्म-दैवत्य- -त्यम् वैघ २, १,
९; चव्यु ४ : २४; -त्यौ वैगृ
३, १७ : ६.
†ब्रह्म-द्विष्- -द्विषः द्राश्रौ १०,
२, १६; अशां १५, ५; -द्विषे या
६, ३; ११०.
ब्रह्म-नुत्त- -त्तम् अत्रा ३, १,
७.
ब्रह्म-पति- -तिः काश्रौ ५, १३,
११.
†ब्रह्म-पत्नी- -नीषु आश्रिगृ २,
५, ३ : २०; बौगृ ३, ७, १६.
ब्रह्म-पद- -दम् वैगृ २, १८ :
१५; ५, १ : १०.
ब्रह्म-पर- -रे शौच २, ६६.
ब्रह्म-पलाश- -शाः चव्यु ४ : २.
ब्रह्म-पा- -पाः आपश्रौ ४, ११,
११.
ब्रह्म-पार्षद- -दान् बौध २, ५,
२०.
ब्रह्मपार्षदो- -दीः बौध २,
५, २०.
†ब्रह्म-पुत्र- -०त्र कागृ ४१,
१७; -त्रः आपमं १, १३, १०;
बौगृ ४, २, ९; हिगृ १, १६, १८;
-त्रम् आश्रौ २, १८, १२५;
-त्रान् आश्रिगृ २, ४, ८ : १०;
-त्रेभ्यः आश्रिगृ २, ४, ८ : ५.
ब्रह्म-पुरुष- -षः शंघ २०१;

-†षेभ्यः आगृ १, २, ६; आश्रिगृ
१, ७, २ : ५; कागृ ५४, १५;
मागृ २, १२, १६; वैगृ ३, ७ :
१०; विघ ६७, १९.
ब्रह्म-पुरोहित- -त्तम् वाघ १९,
४.
†ब्रह्म-पूत, ता- -तः बौध २, ४,
२४; १०, १५; -ता बौध २, ५,
११; -ताः आपश्रौ ४, ४, ४;
भाश्रौ ४, ५, ५; वाश्रौ १, १, २,
१७; वैश्रौ ४, ३ : ५; हिश्रौ १,
४, ५६; ६, १, ५१.
ब्रह्म-प्रजापति- पा, पाग २, ४,
१४; -तिभ्याम् कौसू १३९, ६;
-ती पागृ ३, ४, ८.
ब्रह्मप्रजापत्या(ति-आ)दि-
-दीनाम् पावा ६, ३, २५.
ब्रह्मप्रजापत्योः (अयन-)
लाश्रौ १०, १३, ८६.
ब्रह्म-प्रथम- -मान् वैश्रौ १२,
१ : ४.
ब्रह्म-प्रवा(द >)दा- -दाः निसू
६, ७ : ४८; ८, ६ : १३.
ब्रह्म-प्रवेशना(न-आ)दि- -दि
आश्रिगृ १, ६, १ : १०; ७, ३ :
११.
ब्रह्म-प्रशास्तृ- -स्तृभ्याम्
जैश्रौका ११५.
ब्रह्म-प्रसूत- -त्तम् गौध ११,
१६.
ब्रह्म-प्रिष- -०य विघ ९८,
३७; -याय आश्रिगृ ३, ११, ४ :
४०.
ब्रह्म-प्रोक्षि(त >)ता- -ताः

वौश्रौ २४, २५ : १३.
ब्रह्म-बन्धु, न्यु- -न्धवे काश्रौ
२२, ४, २४; लाश्रौ ८, ६, २८;
-न्धुः बौश्रौ १८, २५ : ५-८;
हिषि १४ : ३; गोगृ २, ६, ८;
कप्र ३, ६, ६; -न्धौ शाश्रौ १६,
२९, ८; -न्ध्वाम् गौध २२, २८.
ब्रह्म-बल- -लम् माश्रौ ५, १,
९, १९.
ब्रह्म-भक्ष- -क्षाणाम् मीसू १०,
२, १७.
ब्रह्म-भाग- -गाः बौश्रौ २५, ६ ;
९; -गम् आश्रौ १, १३, २;
आपश्रौ ३, २०, ६; १०; बौश्रौ
१, १८ : १८; ३, २५ : ११×४;
भाश्रौ ३, १८, ५; माश्रौ १,
३, ३, १९; ५, २, १५, २२;
वाश्रौ १, ३, ५, १३; वैश्रौ
७, १४ : १०; हिश्रौ २, ८, ३६;
४१; द्राश्रौ १२, ३, १७; लाश्रौ
४, ११, १७; -गस्य शाश्रौ ४,
७, १९; -गे आश्रौ १, १३, ५;
शाश्रौ १, १२, ९.
ब्रह्मभारायज्ञमानभाग-
-गाभ्याम् माश्रौ १, ५, ६, ७; ५,
२, २, २१; -गौ वाश्रौ १, ३, ५,
१३.
ब्रह्म-भाजन- -नम् बौध २,
१०, ७२.
ब्रह्म-भूत- -तः जैगृ २, ८ : २१;
अप २२, १०, ५; बौध २, ४, २४;
३, ९, १५; या १४, १०; -तम्
विघ ४९, ८; -ताः वाघ १९,
४८.

a) वैप १ द्र. । b) बस. । c) अथर्ववेदशाखाविशेष- । उप. ? । d) उप. <√पा (रक्षणे) ।

e) = देवता-विशेष- । f) = अषाढ-कोय- । समासः ? । g) 'प्राजा' इति पाठः ? यनि. शोधः (द्र. Bw. M. W.) ।

h) उप. < प्र√सू (प्ररणे) । i) विप. (विष्णु-) । षस. वा बस. वा । j) उप. = पात्र- इति Būh., = पात्र-
वा श्रौ- वेति भोविन्दः । k) कस. (पा. २, १, ५९) ।

ब्रह्म-भूय^a- -याय बौध २, ७, २८; १०, ७१; चव्यु २: ३४.
 ब्रह्म-मय- -यः शुभ्र ४, २१९;
 याशि २, ११५.
 ब्रह्म-मुक्त- -क्तात् वैगृ ५, १: २५.
 ब्रह्म-मेघ^b- -धः हिपि १९: १; १४; -धेन वैगृ ७, १: १०; वैध ३, ८, ४.
 ब्रह्म-यजमान- -नयोः काश्रौ १, ८, २७; ५, ८, ३; आपश्रौ; -नाभ्याम् माश्रौ ४, २, ५; वाश्रौ १, २, ४, १; -नौ आश्रौ १, १२, ३५; ३, ३, ६; काश्रौ.
 ब्रह्मयजमान-भाग- -नौ आपश्रौ ३, ३, ९; भाश्रौ ३, ३, ८; वैश्रौ ७, २: १०; हिश्रौ २, ३, ३६.
 ब्रह्म-यजमाना(न-अ)ध्वर्यु- -र्यवः वैश्रौ १६, २: १७.
 ब्रह्म-यज्ञ^c- -ज्ञः आगृ ३, १, २; ३४; कौगृ; कप्र. २, ३, ३४; -ज्ञम् वैगृ १, ४: २४; ६, ८: २; १५: २; बौध; -ज्ञस्य बौध २, ६, ८; -ज्ञाः आमिगृ २, ६, २: २८; बौध २, ५, १४; -ज्ञात् कप्र २, ४, १२; १९; -ज्ञाय वैगृ ३, ७: ६; -जे शुभ्र ३, १४७; -ज्ञेन बौगृ २, ९, १५; भागृ ३, १५: २६; -ज्ञैः आमिगृ २, ६, २: २९; बौध २, ५, १५.
 ब्रह्मयज्ञ-तस् (:) आमिगृ २, ६, ५: १७.
 ब्रह्मयज्ञ-विहीन- -ने वैगृ

६, ८: १.
 ब्रह्मयज्ञा(ज्ञ-आ)द्य(दि-अ)तु क्रम- -मात् आमिगृ २, ६, ७: १.
 ब्रह्मयज्ञा(ज्ञ-आ)रम्म- -म्मे शुभ्र ४, १९६.
 ब्रह्म-याग- -गः अष १९^२, ५, ९; -गम् अष १९^२, १, ३.
 ब्रह्मयाग-विधि- -धिः अष १९^२, ५, ८; -धिम् अष १९^२, १, १.
 ऋब्रह्म-यातु^d- -तुः चात्र ३८: ८.
 ऋब्रह्म-युज्^e- -युजा आश्रौ ७, ४, ७; वैताश्रौ ३५, १३.
 ब्रह्म-योनि- -निः अष ३०, ३, १; -निम् शांणु ६, १, १; आमिगृ २, ५, ३: २३; बौगृ ३, ७, १७.
 ब्रह्म-राज- -राट् नाशि १, ५, १७.
 ब्रह्म रात्रि, त्री- -त्रिम् बौध २, १०, २१; -त्री बौगृ २, १, १९^१; -त्र्यान् विध १, १.
 ब्रह्म-राशि- -शिः शुभ्र ८, २५^६; -शोः अष ५२, ७, १.
 ब्रह्म-रूप- -रूप विध ९८, २९; -रूप याशि २, ११४.
 ब्रह्म(द्वा-ऋ)र्षि- -र्षयः विध २०, २६; वैध ३, ११, ३; ४, ८, ५; -र्षिम् शांणु ६, १, १; ऋअ १, २, ३; -र्षीन् आमिगृ २, ६, ३: ३६; बौध २, ५, २७.
 ब्रह्मर्षि-गृह- -हेषु वैध १, ९, ३.
 ब्रह्मर्षि-ता- -ताम् वृदे ४,

१५.
 ब्रह्मर्षि-वंश- -शानाम् वैध ४, ८, ७.
 ब्रह्म-लोक^f- -कः वाध २९, ४; -कम् माश्रौ २, २, ४, ८; वाधुश्रौ ४, ३७: १५; लाश्रौ; या १४, ९; -कान् वाध ८, १७; १०, ३१^२; बौध; -कान् विध ९२, ७; -के बौधुश्रौ ५४: १९^२; अष १, ५०, १०; बौध ४, ८, १५; १६; चव्यु.
 ब्रह्मलोक-काम- -मेन विध ३०, ३१.
 ब्रह्मलौकिक- -कः शंभ ११.
 ब्रह्म-वत् वैताश्रौ १, ७; आपध १, ५, ७; हिध १, २, ७.
 ब्रह्म-व(त् >)ती- -त्यः अष ४६, ७, ४.
 ब्रह्म-वच^g- -द्यम् शांश्रौ १६, ४, ७; १३, १६.
 ब्रह्म-वध- -धः अष ५०, ७, १.
 ऋब्रह्म-वनि^h- -नि काश्रौ ६, ३, ९; शुभ्र १, ३७२; शुभ्र ३, ९०; -निम्ⁱ आपश्रौ ७, १०, १२; बौश्रौ ४, ४: ३२x४; माश्रौ.
 ?ब्रह्मवचवृत्^j भागृ १, १: ८.
 ब्रह्म-वचस्- -चसि आपमं २, ११, १६.
 ?ब्रह्मवचस्-काम- -मः अत्र ७, १६.
 ब्रह्मवचस्-विन्- -विनः विध ७८, ४६; -विनिम् बौश्रौ १७, ४१: ८; १७; आपमं २, ७, २५.

a) उप. भाष. । b) = संस्कार-विशेष- । c) = पञ्चमहायज्ञाऽन्यतम- । d) = मन्त्र-संज्ञा- (कोऽसि कं [काठ ३७, १४]) । e) वैष १ द्र. । f) = मातृ-विशेष- । g) = वेद-राशि- । h) पाप्मे. वैष १, २३०३ ० अ. ५ । i) पाठः ? ब्रह्मवचंयेत्, यत् इति त्रिपदः संस्कृतुः टि. शोधः । ब्रह्मवचं-वृत्- > -वृत् इति तु विमुश्यम् । j) समासान्त-त्रिकल्पः उत्सं. (पा ५, ४, ७८) । k) 'चंसका' इति w. सात. ।

ब्रह्मवर्चस्विनी- नी
 आगृ १, ५, ५.
 ब्रह्मवर्चस^१- पा ५, ४, ७८;
 -सम् शाश्रौ १४, २, ४; ९;
 ४२, १२; १३××; काश्रौ ५, १३,
 १^३फ^३; आपश्रौ ५, २, ४; १०,
 २८, ५^३××; बौश्रौ; वाघ^१
 १, १३; १५; शंघ ७^१; आपघ
 १, ३, २६^३; बौघ १, १, २८^१;
 ३, २, ५; ४, २, ११; हिघ १,
 १, १०१^३; -सस्य बौश्रौ २,
 १८: ३९; ३, ७: १०; -सात्
 बौश्रौ २८, ११: १५; -सानि
 आपश्रौ २०, १२, ७^६; १५, ३८:
 २; -^३साय आश्रौ १, ३, २३;
 शाश्रौ; -से शाश्रौ १५, ४, ४;
 जैश्रौ ९: ११^३; -^३सेन आपश्रौ
 ४, ८, १××; बौश्रौ.
 ब्रह्मवर्चस-काम- -म: आश्रौ
 ९, ५, ३; शाश्रौ; -मम् आपश्रौ
 १७, १९, ६××; वाश्रौ; -मस्य
 शाश्रौ २, १०, ३××; काश्रौ; -मा:
 आश्रौ ११, २, १०××; आपश्रौ;
 -मानाम् काश्रौ २४, २, ५;
 हिश्रौ १६, २, १७.
 ब्रह्मवर्चसकाम-वीर्यकाम-
 प्रजाकाम-प्रतिष्ठाकाम-मानाम्
 आश्रौ १०, १, ७.
 ब्रह्मवर्चस-वीर्या(र्य-अ)न्ना-
 च-प्रतिष्ठा-काम-मानाम्
 काश्रौ २२, ४, ३१.
 ब्रह्मवर्चसिन्- -सिन:
 आपश्रौ २३, २, १९; हिश्रौ
 १८, १, २४; आपघ २, १६,

१०; हिघ २, ५, ११; -सिनम्
 आग्निगृ १, ३, ४: २; ११
 मागृ २, २१: ४; हिगृ १, १०
 ६^३; ११, ३; -सी काश्रौ ३,
 ३, ५^३; आपश्रौ ५, ३, ३; ६,
 २३, १^३××; बौश्रौ.
 ब्रह्मवर्चस्य^१- पावा ५, १,
 ३९; -स्यम् कौगृ १, २, ३^३;
 द्रागृ ४, २, ९; विघ ७८, १०.
 ब्रह्मवर्चसन्^६- -माणि आपश्रौ
 १६, १८, ७; वैश्रौ १८, १६: ५;
 हिश्रौ ११, ६, २९.
 ऋब्रह्मवाद्- -दम् आपश्रौ ५,
 २, ४; वैश्रौ १, ७: ७.
 ब्रह्मवादिन्- पावा ३, २, ७८;
 -दिन: बौश्रौ १४, २: ६××;
 वाधूश्रौ ३, १०: १××; वैगृ १,
 १५: ८××; कप्र १, १०, ९; बौघ;
 -दिना अप १३, ५, ५; -दिनाम्
 विघ १, ५७; -दिभि: अप ७०^३,
 ११, १; विघ ९३, १२; -दिघु
 वाघ २, ४१; बौघ १, ५, ७९.
 ब्रह्मवादिनी- नी साञ्च २,
 ४४१; -न्य: वृदे २, ८४.
 ब्रह्मवाद्य^१- पा ३, १, १२३;
 -द्यम् आपश्रौ २१, १०, १२^३;
 वाधूश्रौ ४, ६४: ७.
 ब्रह्मवाहस^१- -०ह: ऋप्रा ७,
 ३१^३.
 ब्रह्म-विक्रयिन्- -यी शंघ २०१.
 ब्रह्म-विद्- -वित् हिपि १: १३;
 -विद: आपश्रौ १०, ७, १३^३;
 बौश्रौ; हिपि १: १३; आपघ
 २, १७, ४; हिघ २, ५, ३२;

-विदा कौसू ७३, १८^३;
 -विदाम् अप ६९, १, १.
 ब्रह्मवित्-तम- -मा: अप
 १३, ५, १.
 ब्रह्म-विद्या(द्या-अ)पकारिन्-
 -रिण: शंघ २३०.
 ब्रह्मविराट्पोऽन्य: अञ्च २,
 १२.
 ब्रह्म-वृद्धि- -द्धिम् अप ५०, ५,
 ६; आपघ १, ३, ९^३; हिघ १,
 १, ८१^३.
 ब्रह्म-वेद^१- -द: अप १, १५, १;
 -दाय अप २, १, १; ३३, १,
 १; अञ्च ८; -दे अप २३,
 १, २; -^३देन कौगृ १, १०, १;
 शांगृ १, १६, ३.
 ब्रह्मवेद-ज्ञ- -ज्ञ: अप २, २, ३.
 ब्रह्मवेद-तसु(ः) अप २, २, १.
 ब्रह्मवेद-विद्- -वित् वैताश्रौ
 १, १; अप ३, ३, ७.
 ब्रह्म-वैखानस- -सानाम् बौघ
 ३, ३, १८.
 ब्रह्म-न्यतिरिक्त- -क्तम् वैघ १,
 ११, १०.
 ब्रह्म-व्रत- -न्ते अप्राय ३, १^३; ६,
 ७.
 ब्रह्म-शब्द- -ब्दम् दंवि २, ८.
 ब्रह्म-शरीर- -रम् वैगृ ३, २१: ८.
 ब्रह्म-शीर्ष^१- -र्ष: विघ १, ३.
 ऋब्रह्म-संशित,ता^१- -त: आश्रौ
 १, ३, ६; शाश्रौ १, ४, १९;
 आपश्रौ ३, १४, ३^३; हिश्रौ २,
 ६: ३४^३; तैप्रा १६, २५^३;
 -०ते शुप्रा २, २०^३.

a) पृ १८२९ i टि. द्र. । b) सकृत् पाभे. वैप २, ३खं. ब्रह्म तैप्रा २, ५, ७, ४ टि. द्र. । c) पाभे.

वैप २, ३खं. ब्रह्मवर्चसम् तैप्रा ३, ७, ७, १३ टि. द्र. । d) =(उपचारात्) प्रदेश-विशेष- । e) =(उपचारात्)
 होम-विशेष- । f) वैप १ द्र. । g) =होम-विशेष- । h) =अथर्व-वेद- । i) बस. । j) पाभे. वैप १,
 २२१५ इ द्र. ।

ब्रह्म-सत्र- -त्रस्य जैगृ २, ८ : २७.

१ ब्रह्म-सदन^१- -नम् शाश्रौ ६, १२, २२; काश्रौ २, १, २१; आपश्रौ १२, २०, ७; बौश्रौ ३, २३ : २; ६, २९ : २०; भाश्रौ ४, ५, २; वैश्रौ; -नात् काश्रौ २, १, २२; आपश्रौ ३, १८, ४१; भाश्रौ ३, १४, २; हिश्रौ २, ८, ३; हिगृ १, १, २२; -नाथ बौश्रौ ३, २३ : ३१; -ने आश्रौ १, १२, ९; १३, ६; काश्रौ २, २, १; आपश्रौ १७, २१, ७१; भाश्रौ ३, १४, ३; वैश्रौ १६, ७ : ११; हिश्रौ १०, ५, ५२; १२, ६, २६१; ऋश्रौ ३, ८; १३७, ४०; आपथ २, ४, ४; हिगृ २, १, ५७.

२ ब्रह्म-सदन(>)ना^१- -नाः बौश्रौ १९, १० : ३६.

ब्रह्म-संतानक^१- -काः अप ५२, ४, ३.

ब्रह्म-संमि(त>)ता- -०ते मागृ १, २, २^१.

ब्रह्म-समूह- -हम् बौपि २, १०, ३.

१ ब्रह्म-सर्व^१- -वः निसू ७, १ : ५; ७.

ब्रह्म-साम^१- -मम् आपश्रौ १८, २०, २२; बौश्रौ १२, १८ : १८; १६, १४ : १७; २६, १४ : ११; हिश्रौ १३, ७, १०; -मेन अप्राय ६, ३.

ब्रह्मसाम-त्व- -त्वात् लाश्रौ १०, ४, ४.

ब्रह्मसाम-पृष्ठ^१- -ष्ठः क्षुस् २,

१४ : १५; १७; -ष्टौ क्षुस् २, ९ : २४.

ब्रह्मसाम-प्रभृति- -ति निसू ३, ७ : ३.

ब्रह्मसाम-भूत- -तस्य लाश्रौ १०, ६, १.

ब्रह्मसाम-स्तोत्रीय- -यः निसू ७, ३ : १८.

ब्रह्मसामा(म-अ)च्छावाकसा- मन्- -मनी क्षुस् १, १० : ३;

-मभ्याम् क्षुस् १, ५ : १५; १० : ६.

ब्रह्मसामिक- -काः क्षुस् १, ४ : १.

ब्रह्म-सामन्^१- -म आश्रौ ६, ८, १२; ८, ६, १६; शाश्रौ; -मनी

क्षुस् २, ४ : ३; ५ : २x४; निसू १०, १ : २०; २४; -मभ्याम्

निसू ७, ४; ३९; -मानि क्षुस् २, १४ : १६^३; ३, १४ : ३; ६; ९; १३; १७; लाश्रौ १०, ८, ६;

निसू ६, ३ : ६; ५ : ९; -मनः क्षुस् १, ५ : २६; २, ४ : १८;

निसू ३, ७ : २; -मना शाश्रौ १५, १, २४; काश्रौ २५, १२, १६; आपश्रौ १४, २५, ७; ८;

वैश्रौ २१, ११ : ४; ५; हिश्रौ १५, ६, २५; -मनाम् निसू ३, ३ : २६; -मनि आपश्रौ १८, ६, ७; वाश्रौ ३, १, २, २८; वैश्रौ

१७, १० : ८; १६ : ४; हिश्रौ १३, २, २२; द्राश्रौ ६, २, २;

लाश्रौ २, १०, २; निसू २, ४ : १९; ३५; मीसू ११, ३, ४९.

ब्रह्म-साम(म-ऋ)री-यजुस्-

छन्दस्- -न्दः ऋषा १७, १८.

ब्रह्म-सावर्ण^१- -र्णम् शंथ ११६ : ४६.

ब्रह्म-सुवर्चला^१- -लाम् विध ५१, ३२; ४६.

ब्रह्म-सूक्त- -क्तम् अत्र १, ३२; -क्तेन बौगृ २, ५, ३१; अप १९^३, ४, ४.

ब्रह्म-सूत्र^१- -त्रस्य आमिगृ २, ७, १ : १०.

ब्रह्म-सोम- -सौ वैगृ १, ९ : १७; ११ : ११; ६, १ : ९.

ब्रह्म-स्तम्भ^१- -म्भाः बौश्रौप्र १७ : १२.

ब्रह्म-स्तेय- -यम् विध ३०, ४२.

ब्रह्म-स्थल- -ले आमिगृ २, ६, ४ : २१; २५; शंथ १३२^३.

ब्रह्म-स्थान- -नात् वैगृ ३, १६ : ११.

ब्रह्मस्थान-वत् निसू ९, १० : ३९.

ब्रह्म-स्व- -स्वम् वाध १७, ८५; ८६^३; बौध १, ५, १०२^३.

ब्रह्मस्व-न्यासा(स-अ) पहरण^१- -णम् बौध २, १, ४१.

ब्रह्म-हत्या^१- -त्या बौश्रौ २, ५ : १५१; वाधूश्रौ ४, ६० : ८; विध ३५, १; -त्याम् बौश्रौ २, ११ : २११; वाधूश्रौ; बौगृ ३, ८, ६;

वाध २, ४२; २२, ६१; आपथ १, २५, ११; बौध १, ५, ७९;

२, १०, २१; ३, १०, ८१; हिध १, ७, ७; गौध १९, १०; या ६, २७; -त्यायाः वैश्रौ १८, १ : २;

-त्यायाम् विध ५, ४; -ऋत्यायै

a) षस. उप. = आसन-। b) = इष्टका-विशेष-। c) = प्रह-विशेष-। d) पाप्मे. पृ १८१६ III द्र.।

e) वैप १ द्र.। f) वैकल्पिकः समासान्तः प्र.। g) = षडह-विशेष-। h) = मनु-विशेष-। i) = श्रोषधि-द्वय- (तु. शंथ ३९६). मलो. कस.। j) नाप. (यज्ञोपवीत-).। k) = ऋषि-विशेष-। l) द्रस. > षस.।

बौधौ २९, ११: ४; वाश्रौ ३,
४, ५, १७^३; द्विश्रौ १४, ५, ४^३;
वैगृ १, ७, २२.

ब्रह्महत्या-गुरुतल्पगमन-
स्वर्णस्तेय-सुरापान- न्नेपु
बौध १, १०, १८.

ब्रह्महत्या(त्या-२आ)घ- -घैः
वैगृ ६, १४: ३.

ब्रह्महत्या-व्रत- -तम् शंघ
३८९; विध ५४, ९.

ब्रह्महत्या-सम- -मानि विध
३६, १.

ब्रह्महत्या-सुरापान-स्तेय-गुरु-
तल्प- -ल्पेपु गौध २४, १२.

ब्रह्म-हृत्^३ पा ३, २, ८७; -ह्रः
गौध २२, १; -ह्राम् विध १०,
९८; -हणि शंघ ३८३; -हा

वाध ३, १७; २०, ४४; २७, १८;
शंघ ११३; ३७५; ३७७: १;
३७९; ३८७; ४४१; ४५४;

विध ४५, ३; ५५, २; सुध ५३;
वृदे ६, १५२.

ब्रह्मह-संस्तुत- -न्ताः आपध
१, १, ३२; द्विध १, १, ३०.

ब्रह्मह-सुराप-गुरुतल्पग-मात्-
पितृयोनिंसंबन्धाग-स्तेन-नास्तिक-
निन्दितकर्मभ्यासि-पतितात्या-

ग्य(गि-आ)पतितत्यागिन्-
-गिनः गौध २१, १.

ब्रह्मह-सुराप-सुवर्णस्तेय-
गुरुतल्पग- -गानाम् सुध ५२.

ब्रह्म-हृदय^३ येन बौध २, ४, ८.
ब्रह्मा(ह्र-आ)गार- -रात् काश्रौ
१५, ८, १४; -रे काश्रौ १५, ४, ३.

ब्रह्मा(ह्र-आ)ञ्जलि- -लिम् वैगृ

१, ४: २५; २, १२: १९.

ब्रह्माञ्जलि-कृत^६- -तः आगृ
३, ५, ११.

ब्रह्मा(ह्र-आ)ण्ड- -ण्डम् शंघ
११६: ६७.

ब्रह्माण्डा(ण्ड-आ)ग्नि-
-ग्निः अप ३, १, ८.

ब्रह्मातिथि^३- -थिः ऋञ २, ८,
५; साश्र १, २१९.

ब्रह्मा(ह्र-आ)त्म-दैवत- -तम्
अश्र २, १; -ते अश्र ७, १०४.

ब्रह्मा(ह्र-आ)दि- -दि अप ७०,
१२, ६; -दिसु वैगृ ६, १२: ६; ९;

विध १७, १९; पावा ३, २, ८७;
-दीन् काश्रौ १२, २, १५; वैश्रौ
१३, ७: २८.

ब्रह्मादि-देव- -वानाम् वैगृ ३,
२२: १२.

ब्रह्मा(ह्र-आ)दित्य- -त्यम् अश्र
५, ६.

ब्रह्मा(ह्र-२आ)घ- -घाः वैगृ १,
२०: ३; ऋप्र १, १०, ८; -घैः
अप २२, ८, ३.

ब्रह्मा(ह्र-आ)धिगुप्त- -सः आगृ
२, ४, १४^६.

ब्रह्मा(ह्र-आ)नुज्ञात- -तः काश्रौ
३, ५, ५; २०, १, २६; पागृ ३, ४,
६; -ताः पागृ ३, २, ११; १५.

ब्रह्मा(ह्र-आ)नुवचन- -ने गौध
१, ५९.

ब्रह्मा(ह्र-आ)न्वाधान- -नम् बौध
२, १०, १९^१.

ब्रह्मा(ह्र-आ)भिगुप्त- -सः पागृ
३, ३, ६^६.

ब्रह्मा(ह्र-आ)भिगूर्त- -तम् मागृ

२, ८, ६^६.

ब्रह्मा(ह्र-आ)मन्त्रणा(ण-आ)
दि- -दि काश्रौ ५, ९, २२.

ब्रह्मा(ह्र-आ)यतन- -नम् बौध
१, ७, २३; -नात् मागृ १, २:
१३; -ने आश्रिगृ १, १, १: १३;

मागृ १, २: ३; द्विगृ १, १, १४;
जैगृ १, २३: ११; बौध २, १०,
२०.

ब्रह्मायतन-वात- -तेषु अप
५८^३, ४, २.

ब्रह्मायतनी(य>)या^३- -या
लाश्रौ ६, ६, ८; १८; छुम् १, २:
१२; १६; ८: १७; २, ३: ११;

निसू १, १०: २३; -याम् लाश्रौ
६, ६, ४; ७, ३; ८, २.

ब्रह्मा(ह्र-आ)युस्- -युषा विध
२०, १६.

ब्रह्मा(ह्र-आ)रम्भा(म्भ-आ)वसा-
न- -नयोः विध ३०, ३२.

ब्रह्मा(ह्र-आ)वर्त^३- -र्तम् अप
५६, १, ९.

ब्रह्मा(ह्र-आ)श्रम^३- >०मिन्-
-मी शंघ १५९: १४.

ब्रह्मा(ह्र-आ)सन- -नम् आश्रौ
४, १०, ११; पागृ १, १, २; द्रागृ
१, १, २६; कौसू २, १८; ३, ५;
१३७, ३३; ३७; शुश्र १, ३४६;

-नात् आश्रिगृ १, १, १: २३;
-ने माश्रौ ५, २, १५, ९; द्राश्रौ
१५, ४, १; लाश्रौ ५, १२, ८; गोगृ
१, ६, ३१.

ब्रह्मास्कन्द^३- -न्दः अश्र ४, ३, १.

ब्रह्मा(ह्र-आ)हुति- -तीः काश्रौसं
६: १८.

a) पामे. वैप १, २३०४ g द.। b) वैप १ द.। c) षन्: इति जीसं.। d) = अं भू: अं

सुष: इति अनुवाक- इति भाष्यम्। e) बस.। f) = ऋषि-विशेष-। g) सप. षिगुप्त: <> षिगुप्त: <>
षिगूर्तम् इति पाठे.। h) = सप्तदशस्तोम-विष्टुति-। i) नाप. (देस-).। j) = ब्राह्मणप्रस्थाश्रम-।

ब्रह्मिष्ठ-ष्ठः आपश्रौ ३, १८, १; -ष्ठम् काश्रौ २, १, १७; वाश्रौ १, १, ५, १; वैश्रौ ४, १ : १६; हिश्रौ ६, १, ४७.
 ब्रह्मो(ह्य-उक्त >)का-क्ताः कौस् ८२, ९.
 ब्रह्मो(ह्य-उ)ज्झ^१-ज्झः वाघ १, १८; २०, १२; -ज्झम् कप्र ३, १, ८; -ज्झे वौश्रौ २, ५ : २३१.
 ब्रह्मो(ह्य-उ)ज्झ^२-ज्झम् आपध १, २१, ८; हिघ १, ६, ३८.
 ब्रह्मो(ह्य-ओ)दन->ब्राह्मोद-निक^०-कम् आमिघ ३, ७, ४ : २८.
 ब्रह्मो(ह्य-उ)द्गातृ-तारौ काश्रौ २०, ७, ११; हिश्रौ १४, २, १०.
 ब्रह्मो(ह्य-उ)द्गातृ-होतृ-तृभ्यः काश्रौ १०, २, २५.
 ब्रह्मो(ह्य-उ)द्गातृ-होतृ-यजन-चमस-सानाम् काठश्रौ १३८.
 ब्रह्मो(ह्य-उ)द्गातृ-होत्र(तृ-अ) ध्वयु-ब्राह्मणाच्छंसि-प्रस्तोतृ-मैत्रावरुण-प्रतिप्रस्थातृ-पोतृ-प्रति हर्ष(तृ-अ)च्छावाक-नेष्टृ(ष्टृ-अ) शीतृ-सुब्रह्मण्य-ग्रावस्तुद्-उञ्जेतृ-तृन् काश्रौ ७, १, ७.
 ब्रह्मो(ह्य-उ)द्य^१-द्यम् आश्रौ ८, १३, १३; १०, ९, १; काश्रौ १२, ४, १९; वौश्रौ १५, २८ : २९;

वाश्रौ ३, ४, ३, ५०; हिश्रौ १४, ४, ३२; द्राश्रौ ९, ४, १२; लाश्रौ ३, ८, ७; ९, १०, ८; निस् ४, ९ : १७; कौस् ३८, २५; शुभ्र ३, ३७; -द्यात् वताश्रौ ३६, ३३; ३८, ५; -द्याय आपश्रौ २०, १९, ६; -द्ये निस् ४ ९ : १५; शुभ्र ३, २४.
 ब्रह्मो(ह्य-उ)पवेशन-नम् माघ १, १०, १; -ननिन द्राश्रौ ४, ४, १०; लाश्रौ २, ४, ५.
 ब्रह्मौ(ह्य-ओ)दन^०-नः काश्रौ ४, ८, ७१; २०, ८, २९; वौश्रौ २, १४ : ९१; १५, ४ : ७; वैश्रौ १, ६ : २१; वताश्रौ ५, ४; काघ १३, ६; -नम् काश्रौ २०, १, ४; आपश्रौ ५, ५, १; ९××; वौश्रौ; -नस्य वौश्रौ २०, १६ : २४××; वाश्रौ १, १, ५, ४; हिश्रौ १४, १, २०; -नात् आपश्रौ ५, ५, ८; वैश्रौ १, ५, १२; -नान् आपश्रौ २०, २३, ८; ९; माश्रौ ५, २, १०, ११; वाश्रौ ३, ४, ५, २८; हिश्रौ १४, ५, १५; -ने आश्रौ १, ४, १; भाश्रौ ५, ३, १२; वाश्रौ ३, ४, १, १४; -नेन वौश्रौ ३, ३ : २१; २४, १९ : ९; वैश्रौ १, २० : १५; -नेषु वौध १, ६, ३०; -नैः वौश्रौ १५, ३८ : ५.
 ब्रह्मौदनिक^१-कः वैश्रौ १, ६ : १२; -कस्य माश्रौ ५, २, १५, २५६; -कान् वौश्रौ २, १२ : ८; १०, ५० : ७.

ब्रह्मौदनिक^२-कम् आपश्रौ ५, ४, १२; ५, १; वौश्रौ २, ७ : १२; माश्रौ १, ५, १, १४; वाश्रौ १, ४, १, ११; वैश्रौ १, ५ : ३; ५; ८ : ७; हिश्रौ ३, २, ३५; ××; -कस्य^१ वैश्रौ १, १० : ७; हिश्रौ ३, २, ४२; -कात् आपश्रौ ५, १०, ७; हिश्रौ ३, ३, ६; ६, ५, २६; -के माश्रौ १, ५, २, ७; ३, १, ३५; वैश्रौ १, ६ : ७; ७ : १५; हिश्रौ ३, २, ५२; ३, २; -केन आपश्रौ ५, ७, ७.
 ब्रह्मौदनिक-लक्षण^१-णे वाश्रौ १, ४, १, २३.
 ब्रह्मौदन-मित-तम् कौस् ६८, ५.
 ब्रह्मौदन-शेष-षम् आपश्रौ ५, ५, १०; -षे भाश्रौ ५, ३, १२.
 ब्रह्मौदनिक^३-कम् अश्र ११, १.
 ब्रह्मौदनिक^४-कः वौश्रौ २९, १२ : ७; -कम् भाश्रौ ५, ३, १; वौपि २, ४, १४; कौस् ६०, १; ६७, १८; -कस्य भाश्रौ ५, ६, १; -कात् भाश्रौ ५, २, २४.
 ब्रह्मौदनो(न-उ)च्छेष-शेष आपश्रौ २०, २, ८.
 बृहत्-प्रस्. √बृह् (बधा.) द.
 बृहस्पति(बषा.)^०-पाग ६, २, १४०; पावा ६, १, १५७; -तये श्राश्रौ ४, ७, १७१××; आपश्रौ; माश्रौ ५, १, ७, ४९; आमिघ १, २, २ :

a) विघ. > नाप. उप. कर्तरि प्र. । b) षस. उप. भाप. । c) = ब्रह्मौदनिक- । d) उप. < √वृह् । e) वैप १ द. । f) तस्येदमीयः ठक् प्र. । g) स्वार्थे प्र. । h) = अग्नि-विशेष- । प्रयोजनार्थे ठञ् प्र. (तु. रुद्रदत्तः [आपश्रौ ५, ४, १२]) । i) सपा. ब्राह्मौ <> ब्रह्मौ इति पाभे. । j) सपा. ब्राह्मौ <> ब्रह्मौ इति पाभे. । k) सपा. ब्राह्मौदनिकात् <> ब्रह्मौदनिकात् इति पाभे. । l) वस. । m) मत्वर्थे ठञ् प्र. । n) = ब्रह्मौदनिक- । प्रयोजनार्थे ठञ् प्र. उस्. (पा ५, १, १०९) । o) वैप १ द. । विशेषः टि. द. ।

८; २^a, ५, १: १६; ११; २७;
 ३५; ४५; वैश्व २, १२: १३^b;
 ३, २०: ४; ४, १४: १२^a; वैश्व^c
 २, ९: १२; २३; २६; ३०;
 ३३; -ति: आश्रौ १, १२, ९^f;
 १३, ६^f; २, ११, २-४××; शाश्रौ;
 बौश्रौ १८, ४५: १४६; १६^g;
 ३३^h; ३५^g; ४६: ३^d; ४७:
 ४^d; १०^d; निस् ७, १: ११^d,
 आय १, २१, ७^f; शाश्व २,
 ४, १^f; पाश्व २, २, ७^f;
 माश्व १, २२, १०^f; वैश्व ४, १३:
 ३^a; हिश्व १, ५, ११^f; कौस्
 १०८, २^f; अप ३३, १, २^d;
 ५१, १, ४^a; २, १^a; ७०^h, ९, ५;
 ७०^h, २, १^g; ११, १^g; ऋश्व २,
 १०, ७१^h; ७२^h; वृदे २, ३९^f;
 ३, १३३^d; १३७^h; १५६^h;
 ४, १२^h; १३^h; ५, १०२××; ६,
 ११२^h; ८, २५^d; शुश्व १, १२०^h;
 ४, १३७^h; अश्व १०, ९^h; १^h; या
 २, १२^f××; १०, ११^f; शुश्रा २,
 ४७^f; ३, ५२; अश्रा ३, ४, १^f;
 पि ३, ६३^h; उनिस् ८: १८^h;
 आश्रौ ७, ९^h; वेज्यो ३२^h;
 -कतिना आपश्रौ १८, ४, ८××;
 बौश्रौ; वृदे ६, ११०^d; -तिम्
 आश्रौ २, ११, ४^f; शाश्रौ ६, ३,
 ५; १४, २३, १^d; ३२, १^d; ३८, १^d;
 काश्रौ; अप १, ४, २^h; ४, १, २१^d;
 ७, १, २^d; शंघ ११६: ४१^b; शौघ
 २५, २; शुश्व ४, २०४^h; अश्व ३,

२६^h; या ६, २३^f; नाशि २, ६,
 ५; -०ते आश्रौ १, १२, ९××;
 शाश्रौ; माश्रौ २, ३, ७, ४^m; या
 ४, २५^f; -ते: आश्रौ १, १३,
 १^f; शाश्रौ १६, १७, १; काश्रौ २,
 २, १^f; आपश्रौ २, १८, ४^f××;
 अप ४८, ९४; बौघ ३, ९, १३;
 वृदे ४, १४२; ५, १०२; ७, १३७;
 ८, १०५^h; शुश्व १, ५५२^h; चाश्व
 १५: २^h; निघ १, १५^f; या
 ११, १२^f; -तौ अप ६३, ४,
 २^a; ७१, १७, १.
 बार्हस्पत्य, त्या^{op} - इत्य जैश्रौका
 १५; -०त्य^b आश्रौ १२, ११,
 ५××; आपश्रौ २४, ६, १८××;
 बौश्रौ १७: १९××; हिश्रौ २१,
 ३, १०^h; वैघ ४, ३, १; २; -त्य:
 आश्रौ ३, ९, २; शाश्रौ; कौश्व
 ३, १०, ३२; शाश्व २, १५, ५;
 ऋश्व २, ६, १; ४४××; शुश्व १,
 २१०; ४९५××; साश्व १, ९;
 १९××; या ४, २१; -त्यम् आश्रौ
 १२, ८, ३७; काश्रौ; वाघ २८,
 १३; शंघ १०५; विघ ५६, १७;
 -त्यस्य शाश्रौ ६, १०, ५; काश्रौ;
 -स्या आश्रौ ९, २, ७; ९, ६^h;
 काश्रौ; वैताश्रौ २७, ४^h; ३६, ५^h;
 कौस् ३, १०^f; अशां १६, १^h;
 -त्या: शाश्रौ १६, ९, ३१; आपश्रौ;
 -त्याम् आपश्रौ ७, १२, ३; १०,
 १६, ३××; माश्रौ अशां १७,
 १^h; -त्यायाम् आश्रौ ९, ४, ६^h;

अशां १८-१९, २^h; -त्ये बौश्रौ
 १७, ३९: १०; आमिश्व १, ३,
 १: ११; अप ३३, १, ७; वृदे
 ७, १०७; १०८; -त्येन आपश्रौ
 ४, ७, २^f; बौश्रौ १२, ६: १४;
 माश्रौ ४, ११, १; हिश्रौ ६, २,
 १७; १३, ४, २९; -त्येभ्य:
 कौश्व ३, १०, ६; शाश्व २, १४,
 ७; -त्यै: विघ ९०, ३; -त्यौ
 आपश्रौ २०, १३, १२; बौश्रौ
 १५, २३: ७; २६: ८; हिश्रौ
 १४, २, १४.
 बार्हस्पत्य-त्रयोद(श>)
 शा^d -शा: बौश्रौ १०, २७: ३.
 बार्हस्पत्य-वर्जम् आपश्रौ
 १९, ८, २; वाश्रौ ३, २, ७, ६९;
 हिश्रौ २३, १, २९.
 बार्हस्पत्या-मैत्रावरुणी-
 सौर्या(र्था-आ)श्विनी- न्य:
 काश्रौ २२, ७, २०^h.
 बार्हस्पत्यौ(त्य-श्रो)दन-
 देवता^h -> त्य- त्या: अश्व
 ११, ३.
 बृहस्पति-जाया(या-अ)पहरण-
 गम् अश्व ५, १७.
 बृहस्पति-देवता-> त्य- त्ये
 अश्व ६, ३९.
 बृहस्पति-नेत्र^o -त्रा: भाग २, ६:
 ८^f.
 †बृहस्पति-पुरोहित^o -ता: हिश्व.
 २, १७, ४^h; -०ता: आपश्रौ १६,
 १, ३; वैश्रौ १८, १: ८; हिश्रौ

a) = ग्रह-विशेष-। b) = स्मृतिकार-विशेष-। c) = पुस्त्रव-पुरोहित-। d) = देव-पुरोहित-।
 e) पाभे. वैप २, ३खं बृहस्पति: मंत्रा १, २, २१ टि. द्र.। f) पाभे. वैप १, १२४२ गृ द्र.। g) = आचार्य-
 विशेष-। h) = ऋषि-विशेष-। i) व्यप.। j) = [बृहती-छन्दस:] देवता-। k) = पुष्य-देवता-। l) ऋति:
 इति पाठ: ? यनि. शोघ:। m) पाभे. वैप १, २३०५ b द्र.। n) पाभे. वैप १, २३०७ i द्र.। o) वैप १ द्र.।
 p) विशेष: टि. द्र.। q) = इष्टि-विशेष-। r) = शान्ति-विशेष-। s) बस.। t) तु. चौसं.।
 स्वमे इति अश्व्यु. ?। u) निप. (पर्याय-। v) पाभे. वैप १, २३०८ g द्र.।

११, १, ६; चाअ ३८: १४.
 बृहस्पति-प्रचोदित- -ता: वृदे ३,
 १३६.
 †बृहस्पति-प्रसूत^a- -त: आश्रौ १,
 १२, १२; १३, ७; बौश्रौ ३, १६:
 १; १७, ३९; ११; वाश्रौ १, १, ५,
 १०; आश्रिण्ट १, ३, १: १२; कौस्
 ९, ९.
 बृहस्पति-बुध- -धौ अप ५२, ११, ५.
 बृहस्पति-बुध(ध-इ)न्दु- -न्दव: अप
 ६८, १, ४.
 †बृहस्पति-मत्- -मत: काश्रौ १०,
 ५, ९; ७, १३; वैताश्रौ १४, ७;
 -मते शाश्रौ ६, ७, १०; -मन्तम्
 शाश्रौ ६, ९, १३^b; -मान् काश्रौ
 १०, ७, १३.
 बृहस्पति-युक्त- -क्तान् अश्र ३, २६.
 बृहस्पति-राजन्^c- -जान: काय २४,
 १२१.
 बृहस्पति-वचस्- -वच: अप ४, २,
 ११; ७०^d, ११, ३६.
 बृहस्पति-वत् आपश्रौ २४, ६, १८;
 ७, ४; ६; बौश्रौ १७: २०;
 १८: ३; १९: ८; हिश्रौ २१,
 ३, १०^e; वैध ४, ३, १.
 †बृहस्पति-वत्- -वत: आपश्रौ १३,
 १२, २; बौश्रौ ८, १२: १७;
 वैश्रौ; -वते आश्रौ ५, १, १५;
 हिश्रौ १६, ८, २३; -वन्तम् आश्रौ
 ५, ३, १०^b.
 बृहस्पतिवती^d- -त्या आपश्रौ ५,
 २७, १३; बौश्रौ ६, ९: ४; १४,

१: २०.
 बृहस्पति-शिरस्^e- -रसम् कौस्
 ४९, १५; -रसि अं ५: ९.
 बृहस्पति-सर्व^f- पाग ८, ३, ११०;
 -व: शाश्रौ १५, ४, १; ३; काश्रौ
 २२, ५, ११××; आपश्रौ २२,
 ७, ५××; माश्रौ ४, १, ३; हिश्रौ
 १७, ३, ४××; -वम् शाश्रौ
 १३, २१, ६; वैताश्रौ २७,
 १७; निस् १०, १३: २०;
 -वे शाश्रौ १५, २, १५; बौश्रौ
 २३, १८: १; २६, ८: ४; वैताश्रौ
 ३९, ३; -वेन आश्रौ ९, ५, ३××;
 काश्रौ १४, १, २; आपश्रौ १८,
 ७, १७; वौश्रौ १८, १: १××;
 वाश्रौ ३, १, २, ४६; वैश्रौ १७,
 १८: १०; लाश्रौ ८, ७, ४××.
 बृहस्पतिसवे(व-इ)न्द्रस्तुत्-
 -स्तुतौ आश्रौ १२, १, ४.
 †बृहस्पति-सुत^g- -तस्य काश्रौ
 १०, ६, १६; आपश्रौ १३, १४,
 ७; बौश्रौ.
 †बृहस्पति-सुत^h- -ता: अप ५२,
 २, ४.
 बृहस्पति-स्तुति- -ति: वृदे ४, ८५.
 बृहस्पत्या(ति-आ)दि- -दीनाम् अश्र
 १, १, ४.
 बृहस्पत्यु(ति-उ)शनस्- -नसो: अप
 ३, १, १३.
 √बृ^h पाधा. कथा. पर. भरयो.
 वैक-नाटⁱ- -न्या: या ६, २६^g; -†यान्
 अप ४८, ११५; निघ ४, ३; या

६, २६.
 †वैकुरा^j- -रा दाश्रौ ३, ३, १७;
 लाश्रौ १, ११, ९; निघ १, ११.
 †वैकुरि^k- -रय: आश्रिण्ट १, ५, २:
 ४२; वैश्र १, १८: ४.
 √वैश्र^l पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
 √वैह^m पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.
 वैकिⁿ- (> वैकायन- पा.) पाग २, ४,
 ६१.
 १-२वैजवापि-, वैजवापीय- †बीज-
 द्र.
 वैजि^o- (> वैजीय- पा.) पाग ४, २,
 १३८.
 वैजेय- †बीज- द्र.
 वैडालव्रतिक- विडाल- द्र.
 वैडालिकर्णक^p- (> क-कन्थ-
 पा.) पाग ६, २, १२५.
 वैडालिकर्णि^q- (> णि-कन्थ-
 पा.) पाग ६, २, १२५.
 वैद- विद- द्र.
 वैदल-, †लक- विदल- द्र.
 वैदायन-, †वैदी- विद- द्र.
 †वैदी- (> वैदिका-, †की-) वैदि-
 टि. द्र.
 वैन्दव- †विन्दु- द्र.
 वैभीत[.द]क- विभीतक- द्र.
 वैम्बकि- †विम्ब- द्र.
 वैलायन- †विल- द्र.
 †वैल्व- प्रभृ. †विल्व- द्र.
 †वैल्व^r- (> वैल्वायन- पा.) पाग ४,
 १, ११०.
 १-२ वैल्वक- †विल्व- द्र.

a) वैप १ द्र. । b) पामे. वैप २, ३खं. बृहस्पतिमन्तम् शांता १२, ७ टि. द्र. । c) बस. ।
 d) = ऋच्- । e) विप. > नाप. (ओदन-, पर्याय-) । बस. । f) = ऋतु-विशेष- । g) उप. = पुत्र- ।
 h) तु. BFG. । i) वैप २, ३खं. द्र. । j) पामे. वैप १, २३०८ ० द्र. । k) व्यप. । तु. पाका. ।
 वैकि- इति भाण्डा. प्रभृ., वैकि- इति [पक्षे] पासि. । l) वैदिजि- इति पाका., वैजि- इति पासि. ।
 m) वैडा इति पासि., वैडालिकर्ण- इति पाका. । n) वैडा इति पासि., वैता इति पाका. । o) = ऋषि-
 विशेष- । वैल्य- इति पाका., [पक्षे] पासि. ।

बैल्वकि- (> काशन- पा.) पाग
२, ४, ६१.

बैल्वज [ल^१]- (> जक, लक-
पा.) पाग ४, २, ५३.

बैल्वयत- (> ल्या- पा, पावा.) पाग
४, १, ८०; पावाग ४, १, ७९.

बैल्ववन- (> नक- पा, पावा)
पाग ४, २, ५३; पावा ४, २, ५२.

बैल्वायन- बैल्व- द.

बोद्धव्य- १-२ बोध- प्रसृ. √बुध् द.

बोधायन- बोधायन- द.

बोधि^१ आपश्रौ ६, १७, ८; १६, १३,
१; बोश्रौ १०, १८ : १०^२; वैश्रौ
१८, ११ : १८; हिश्रौ ११, ५,
१२; वैताश्रौ ३६, २७; आपमं
१, ४, १३; आमिगृ १, ५, ४;
६; शुभ्र २, १०३; दंघि १, ८.

बोधित- बोध्य- √बुध् द.

बौढ्य- > बौढ्य-विहार- रः हिगृ
२, १, १.

बोध- √बुध् द.

बौ, बो^१ धायन- नः बोश्रौ ४,
११ : ३०; ७, ४ : २३; ११,
२ : २८; १४, १५ : २०××;
बौगृ १, ७, ४७××; बौपि ३,
८, २××; बौध १, ३, १३××;
-नम् आमिगृ २, ६, ३ : ३९;
बौध २, ५, २७^१; -नस्य बोश्रौ
२०, १ : ५१××; बोश्रौप्र १ :
७; ३१ : १; ५४ : ८; आमिगृ
३, ६, २ : ३; बौपि १, ९ : १३;
-नाः चव्यू २ : ३६; -नाय

बौगृ ३, ९, ६; भागृ ३, ११ : ३^१.

बोधेय- १-२ बोध्य- √बुध् द.

बौमुक्ष- √भुज् (पालने) द.

√ब्रण^१ पाधा. भ्वा. पर. शब्दे.

ब्रघ्न^१- पाठ ३, ५; -^१घ्न शाश्रौ ४,
९, २; काश्रौ ३, ४, १०; आपश्रौ;
-^१घ्नः आपश्रौ ५, १४, १३; २१,
९, १५^१; भाश्रौ; अप ४८, ६८^१;
९३^१; ९८^१; निघ १, १४^१; ३, ३^१;
-^१घ्नम् आश्रौ ६, ४, १०; शाश्रौ;
माश्रौ १, ३, ५, २६^१; -^१घ्नस्य
आश्रौ ६, २, १२; ११, ३, ७;
शाश्रौ; -^१घ्ने^१ आपश्रौ ३, १३,
५; भाश्रौ २, ८, ८; ३, १२, ३;
हिश्रौ २, ६, ३०.

ब्रघ्न-लोक- कः अश्र ११, ३,
(३)^१.

ब्रघ्न^१- (> ब्राघ्नायन- | > न्य-
पा ५, ३, ११३ | पा.) पाग ४, १,
९८.

ब्रह्म-ऋषि- प्रसृ., ब्रह्मन्- प्रसृ.,
ब्राह्म- ब्राह्मक- प्रसृ. √बृह्
(बधा.) द.

ब्राह्मगमनेष्व्यादीनि शंघ ४७.

ब्राह्मगुप्त- ष्ठीय- १-२ ब्राह्मण-
ब्राह्मी- प्रसृ. √बृह् (बधा.) द.

ब्रुव- ब्रुवत्- ब्रुवाण- √ब्रू द.

√ब्रू^१ पाधा. अदा. उभ. व्यक्तायां
वाचि, ब्रवत् या १४, २६^१;
ब्रवसि वाधूश्रौ ४, ७५ : १९;
२१; २२; १०८ : २१.
ब्रूते याशि १, ९; ब्रवीति वैध २,

१२, ५; शुभ्र २, ३९०; बृत्तः
काश्रौ ३, ६, १५; ब्रुवते आश्रौ
१२, ११, १; १२, १; ४; १३, १;
शाश्रौ ६, १, ३; आपश्रौ; ^१ब्रवीषि
बौश्रौ १८, ४७ : १५; सु ६, ४;
ब्रुवे कप्र २, ५, १५; ^१ब्रवीमि
आश्रौ २, ९, १०; आपश्रौ; या
११, ७; १४, २८^१; ब्रूमहे निसृ ९,
७ : २१; ब्रूमः निसृ ९, ७ : २२;
^१कौसृ ९, २, ४; अप; या ११,
३८; ३९××; ब्रवीतु अप ५१,
१, १; वृदे १, ५२^१; ^१ब्रुवन्तु
आश्रौ २, १६, ७; १८, १५;
शाश्रौ; आमिगृ १, ५, ५ :
११××^१; ब्रूहि ^१शाश्रौ १,
१४, १; ११; १५, १८, १;
काश्रौ; पा ८, २, ९१; ^१ब्रूतात्^१
काश्रौ ६, ८, १; बोश्रौ ६, १४ :
५; ६; ७^१; ८, २० : १८^१××;
माश्रौ २, १, ४, ६^१; वाधूश्रौ
३, ७९ : २२^१; २३; २४;
^१ब्रुवाणि आश्रौ २, ८, ७; ६, १,
२; ७, ८, १; शाश्रौ; अब्रवीत्
आश्रौ २, १३, ४; शाश्रौ १२,
२०, २^१; २४, २^१; आपश्रौ; या
९, २०; अब्रूताम् वाधूश्रौ ४, २ :
५; ७; ९; १९ : ४१××; वृदे ३,
२१; तैप्रा ४, ५२; अब्रुवन् शाश्रौ
१२, १६, १^१; १४, ८-९, १;
१५, १७, १; आपश्रौ; या १३,
१२; ^१ब्रुवन् निसृ ९, ९ : ५२;
अब्रवीः आपमं २, १६, ४; भागृ.

a) व्यप. । b) पाका. पासि. पाठः । c) वैकल्पयत- इति [पक्षे] पाका. । व्यु? बिल्व-वत्-> √बैल्व
>यनि. इति पागम. । d) वैप १ द. । e) = पलाश-पर्ण- वा कर्मनामन्-वेति भाष्यम् । f) प्रायेण आमिगृ.
बौगृ. बौषि. बौध. पाठः । g) = ऋषि-विशेष- । < बौधि- (पा ४, १, १०१) । h) तु. BPG. । i) सपा.
हिश्रौ १६, ४, १३ ?दशुः (परि.) इति पाभे. । j) = महत्- । k) = अश्व- । l) = अन्तरिक्ष- । m) पाभे.
वैप १ लोके शौ ७, १०४, १ टि. द. । n) या २, २२; ५, १९ पा २, ३, ६१; ४, ५३; ३, ४, ८४; ७, ३, ९३ पावा १, ४,
५१ पराम्णः द. । o) मयु १ रूपम् । p) वैप १, २३१० । द. । q) पाभे. वैप १, २३११ d द. ।

२,७: १५; ब्रुवीत निसू ४, ११:
११; १८; गोष्ट ३, ५, २७; दृयात्
आश्रौ ३, १, २०××; शांश्रौ;
या १, ४; ब्रुयुः शांश्रौ ३, १७,
४; काश्रौ; ऋयाः शांश्रौ १५,
२५, १^३; वाध; या २, ४^२.

ब्रुव^b— पा ६, ३, ४३; पाग ८, १,
२७; पागम ११४.

ब्रुवत्—वतः बौध १, १०, ३२;—वति
काश्रौ २, १२, ११;—वद्भिः
वृदे १, १०;—वन् आश्रौ ५, १,
१४; काश्रौ ८, २, १२; ११,
१, ९; बौश्रौ;—वन्तम् जैश्रौका
६; वृदे १, ९.

ब्रुवती—व्यः अप्र ३६, २५,
४.

ब्रुवाण—०ण जैश्रौ ३: १६; ७:
३; जैश्रौका ८६; द्राश्रौ १, ३, ७;
—णः आश्रौ ३, ११, २२^{१०};
माश्रौ; अप्राय ४, ३^{१०}; आपध २,
७, १७;—णम् आष्ट ४, ८, ३०^१;
वृदे १, १३०.

√ब्रूस पाधा. चुरा. पर. हिंसायाम्.
√ब्ली^d (= √प्ली, व्ली) पाधा. क्र्या.
पर. गतौ, वरणे धरणे च.

भ

भ^०— भः भाशि ५८.

भ-कार—>श(र-आ)दि—दिभिः
द्राश्रौ ६, १, १६; लाश्रौ २, ९,
१२;—दौ शुप्रा ५, १३.

भ-मर^r—रम् दंवि १, ४.

भ-व- -वौ अप्रा ३, २, ३२.

भ-म- √भा द.

भ, भक्त- √भञ् द.

√भक्ष^० पाधा. भ्वा. उभ. ^h; चुरा. पर.

अदने, भक्षति काश्रौ २, ११,

११^१; भक्षामहे विध ८०, १४.

भक्षयते माश्रौ १, ३, ३, १६; ७,

२, १८; भक्षयति शांश्रौ ७, ४,

१४××; काश्रौ; भक्षयतः काश्रौ

२, १२, ३; आपश्रौ १२,

२५, २^१; ३; माश्रौ; भक्षयन्ते

माश्रौ १, ७, ६, ४०; भक्षयन्ति

आश्रौ ५, ८, ८××; शांश्रौ;

भक्षयामि आश्रौ २, १६,

१९××; ६, १२, ११^१; शांश्रौ;

भक्षयामसि आश्रौ ५, २,

८; भक्षयताम्^k वाश्रौ ३, २,

७, ७६; भक्षयन्तु शांश्रौ

४, २१, ८-१२; आपश्रौ;

भक्षय आपश्रौ १२, २६, ७;

माश्रौ २, ४, १, ५५; वैश्रौ;

भक्षयत आपश्रौ ५, २५, २०;

माश्रौ; अभक्षयम् या ११, १२^१;

भक्षयेत् आश्रौ २, ४, ५; ७, ३;

१६, १९××; शांश्रौ; भक्षयेयुः

आश्रौ ४, ७, ४; ५, ६, २५××;

शांश्रौ; भक्षयेथाः सु १३, ५.

भक्षयिष्यति बौश्रौ १८, २९ :

१८; सु १७, ३; भक्षयिष्यामः

द्राश्रौ ६, ३, १६; लाश्रौ २, ११,

१०; निसू ३, ६ : २९.

भक्षयां √कृ, भक्षयान्कृः बौश्रौ

१८, २९ : १७.

विभक्षयिष्यत् आपश्रौ १२, २४,
५.

भक्ष^१— पाग ६, १, १५६;—०क्ष

काश्रौ २, ११, २०; आपश्रौ;

—क्षः ऋश्रौ १, ७, ७^१××;

शांश्रौ; द्राश्रौ ७, १, २८^{१०};

या ९, ८^१; १०, ३;—क्षम्

आश्रौ ४, ७, ४××; शांश्रौ

२, ६, २१^१; काश्रौ;—क्षस्य

आश्रौ ५, ६, २३; ६, १३,

९^१; आपश्रौ; हिपि १८ :

२३; पावा ६, ३, ६९;—क्षाः

शांश्रौ ३, २०, १३; आपश्रौ;

निसू ९, ८ : ७; सु १८,

४; पा ४, २, १६; ४, ६५;

पावा ४, ४, ६५;—क्षाणाम्

आपश्रौ ६, ३०, ९; २०; बौश्रौ;

—क्षाणि^१ अप्राय ३, ५;—क्षाम्

आश्रौ २, ९, ११; १२, ८,

४०; शांश्रौ;—क्षाय काश्रौ १०,

९, २९; आपश्रौ ४, १०, ७××;

बौश्रौ;—क्षे शांश्रौ ६, ८, १४^१;

हिश्रौ;—क्षेभ्यः वैश्रौ १३, ४ :

१; द्राश्रौ ७, २, ११^१; लाश्रौ

३, २, ११^१;—क्षेषु आश्रौ २,

१९, ३०; ६, १०, २१××:

काश्रौ;—क्षैः बौश्रौ ७, १८ ;

१८××; शांष्ट २, ८, २^०.

भक्ष-काल—ले अप्राय ३, ५.

भक्ष^० √कृ^p > भक्ष-कार— पावा

६, ३, ६९.

a) पामे. वैप २, ३खं. ब्रूयात् ऐत्रा ७, १७ टि. द्र.। b) कर्त्तरि ञच् प्र. (तु. पाका.)। c) पामे.
वैप १, २१३४ III द्र.। d) तु. माधा. BPG.। e) = वर्ण-विशेष-। f) बस.। g) पावा १, ४, ५२;
३, २, १ परामृष्टः द्र.। h) तु. BPG.। i) भक्षय^० इति चौसं.। j) पामे. वैप १, २३१२ II द्र.।
k) पाठः ? °षे^० इति संभाव्यते। l) भाप., नाप. (सोम- [आपश्रौ १२, ७, १४ प्रमृ.]। वैप १ द्र.।
m) सपा. लाश्रौ ३, १, २७ भक्ष्यः इति पामे.। n) अर्धर्वादित्वम् उरसं.। o) सपा. भक्षैः <> मैक्षैः
इति पामे.। p) वैप १ द्र.।

भक्ष-कृत^a - -तस्य आश्रौ
 ६, १३, ९; आपश्रौ ८, ३, १६; ७,
 १०; बौश्रौ ८, १७, १९; भाश्रौ
 ८, ९, १५^b; हिश्रौ ५, १, ४१;
 २, ६१; ६२; -ता: बौश्रौ २०,
 २१: २८.
 भक्ष-च्छा, छ^cन्दस्- -न्दोमि:
 द्राश्रौ ७, १, ३०; लाश्रौ ३, १, २९.
 भक्ष-नप^d - -प: आश्रौ ३, ९, ५;
 ४, ७, ४; ५, १३, ६; ६, ३, २२; ७,
 ३, २३; -पान् अप्राय ३, ५.
 भक्ष-पवमान-परिधि-कपाल-
 मन्त्र- -न्त्राणाम् मीसू १०, ५,
 ८८.
 भक्ष-प्रतिषेध- -घ: मीसू १०,
 ७, ३५; -धात् काश्रौ १, २, ८;
 ८, १, ६.
 भक्ष-प्रमृति- -ति काश्रौ ९, १४,
 १.
 भक्ष-प्रैषा(ष-आ)च्छादन-संज्ञस-
 होम-द्वेष- -षम् मीसू ६, ८, ३०.
 भक्ष-भक्षण- -णम् आश्रौ २,
 १९, १२; अप्राय ३, १०.
 भक्ष-भोज्य- -ज्येषु अप ६४, ७,
 १०; -ज्यै: अप १९^e, ५, ३.
 भक्ष-भोज्या(ज्य-अ)न्न-पान-
 -नम् अप ७०^f, ९, ४.
 भक्ष-मन्त्र- -न्त्र: शाश्रौ ३, ८,
 २७xx; आपश्रौ; -न्त्रम् आपश्रौ
 १३, १४, १४xx; वैश्रौ; -न्त्रा:
 हिश्रौ १६, २, १४; -न्त्रान्
 लाश्रौ ८, ९, १३; -न्त्रेण शाश्रौ
 ७, ५, १; वैश्रौ १५, ३३: ५;
 हिश्रौ ८, २, १८.

भक्ष-रहित- -तस्य बौश्रौ २७,
 ५: ९^g.
 भक्ष-वत्- -वन्तम् हिश्रौ १५,
 ७, ९.
 भक्ष-वर्जम् काश्रौ १३, २, १४.
 भक्ष-विकार- -र: मीसू ३, ५,
 ४८.
 भक्ष-व्यवाय- -ये हिश्रौ ८, ७,
 ४०.
 भक्ष-शब्दा(व्द-अ)नभिसंबन्ध-
 -धात् मीसू १०, ७, १५.
 भक्ष-शेष- -षान् माश्रौ २, ४, १,
 ४६.
 भक्ष-संचर- -र: माश्रौ ५, २,
 १६, १७.
 भक्ष-हरण- -णम् काश्रौ ९, ५,
 २७.
 भक्षा(क्ष-अ)नुवाक^h- -क: बौश्रौ
 १४, ८: ३७.
 भक्षा(क्ष-अ)न्त-रहित- -त:
 वैश्रौ २०, २६: १०^e.
 भक्षा(क्ष-अ)न्तरित- -त: वैश्रौ
 २०, २६: १०; -तस्य बौश्रौ
 २७, ५: ९.
 भक्षा(क्ष-अ)पनय- -य: आपश्रौ
 १९, २१, ८.
 भक्षा(क्ष-अ)भक्ष- -क्षस्य
 वाधुश्रौ ४, ४९: २.
 भक्षा(क्ष-अ)र्थ- -र्थ: मीसू ३, ४,
 ५०; -र्था: बौश्रौ २६, ३०: ५;
 -र्थानि बौश्रौ २३, ३: १८; २०.
 भक्षार्थ-न्ता- -ता मीसू ३, २,
 २४.
 भक्षा(क्ष-आ)वृत्- -वृता लाश्रौ

८, १०, १०^h.
 भक्षा(क्ष-अ)श्रवण- -णात् मीसू
 ३, ४, ४८.
 भक्षो(क्ष-उ)पाय- -य: आश्रौ
 ४, ७, ४.
 भक्षण^h - -ण: आपश्रौ २२,
 २६, ४; हिश्रौ २३, ४, २०;
 -णम् आश्रौ ५, ५, ११; २२;
 काश्रौ; -णस्य जैश्रौ २१: १२;
 -णा चात्र ३०: २२ⁱ; -णात्
 माश्रौ २, ४, २, ४१; ५, १, ४९;
 ४, ३, २६; जैश्रौका १४१; विष
 ५१, ५२; मीसू ८, २, ३; -णात्
 या ६, २७; -णे बौश्रौ २१, २:
 ५; १३: १९xx; जैश्रौका १४०.
 भक्षण-काल- -ले आपश्रौ १८,
 २१, ३; हिश्रौ १३, ७, १३.
 भक्षण-परिषेचन- -ने आपश्रौ
 ८, १६, ११.
 भक्षणा(ण-अ)न्त^l- -न्तानि
 कौसू ११, ११.
 भक्षणा(ण-आ)प्यायन-सादन-
 -नानि आपश्रौ १२, २८, ३;
 वैश्रौ १५, ३६: ९^k.
 भक्षणा(ण-अ)प्रेक- -काय
 भाश्रौ १, १९, १२.
 भक्षणीय- -यम् अप्राय ६, ३;
 वैध २, १५, ६.
 भक्षमाण- -णम् शाश्रौ १५, १९, १.
 भक्षयत्- -यन् बौश्रौ २०, १२:
 १४; २१, २०: २५; सु १८, १;
 अप ३६, २, ६; -यन्त: काश्रौ
 २२, ४, ८; आपश्रौ ८, ३, १६^l;
 भाश्रौ; -यन्तम् आपश्रौ १४,

a) सुमागमः उरसं. (पावा ६, ३, ६९)। b) श्क्षृ इति पाठः? यनि. शोषः (तु.
 आश्रौ. प्रभू.)। c) लाश्रौ. पाठः। d) नाप. (मन्त्र-)। e) सप्र. भक्षरहितस्य <> भक्षान्तरहितः
 इति पाठे.। f) = अनुवाक-। षस.। g) वृताः इति पाठः? यनि. शोषः। h) भावे करणे च कृत् ।
 i) पाठ्युदितः। j) वस.। k) णि इति पाठः? यनि. शोषः (तु. आपश्रौ.)।

३०, ४; वैश्रौ.
 भक्षयितृ- ता विध ५, १७३;
 ५१, ७८.
 भक्षयित्वा आश्रौ २, ४, १२××;
 शाश्रौ; भक्षयित्वाऽभक्षयित्वा
 माश्रौ २, ४, १, ३८.
 भक्षयिव्यत्- -प्यन् जैश्रौ १४: ६;
 -प्यन्तः शाश्रौ ७, ४, १३;
 काश्रौ २२, ८, १९; २४, ३, १३;
 लाश्रौ ८, ९, १२.
 भक्षा-(>भाक्ष- पा.) पाग ४,
 ४, ६२.
 भक्षित- -तः वायुश्रौ ४, ८६: १२;
 १३; अप्राय ३, ३; -तम् शाश्रौ
 ७, ४, १५; माशि १५, ६; पाशि
 २५; नाशि २, ८, १०; -तस्य
 आश्रौ ६, १३, ९; शाश्रौ;
 -तान् आपश्रौ १२, २५, ४; २४;
 वैश्रौ १५, ३३: ६; -तानाम्
 आपश्रौ १२, २७, १०; हिश्रौ ८,
 ७, ६४; -तानि वैश्रौ १५, ३२:
 ८; -ते वैश्रौ १५, ३७: १२; जैश्रौ
 १६: ३; १८: १५; जैश्रौका
 १३८; १७९; वैताश्रौ १९, १८;
 -तेषु जैश्रौ १७: १; १९: १;
 १९; जैश्रौका १९६.
 भक्षिता(त-आ)प्यायित- -तम्
 शाश्रौ ७, ७, ३; आपश्रौ १२, २६,
 ८; वैश्रौ १५, ३३: १७; हिश्रौ
 ८, ७, ७६; -तान् आपश्रौ १२,
 २५, २७.

६, २२; शंघ ११६: ५९९^१;
 भक्षिन्- -क्षिणः आश्रौ २, ९, ११;
 ५, १३, ३; ६, ३, २०; ७, ३, २४.
 भक्षिवन्^b- -वाणः आपश्रौ ३, २,
 ११; माश्रौ ३, २, ४; हिश्रौ ६, ३, २.
 भक्ष्य- फि ७७; -क्ष्यः लाश्रौ ३, १,
 २७^०; नु १३, १; १७, ३;
 १८, ४; -क्ष्यम् जैश्रौका १३७;
 लाश्रौ; -क्ष्याः निसू ६, १३:
 २८; शंघ २२२; २२४; वाध
 १४, ३९; बौध; -क्ष्याणाम् बौश्रौ
 २८, १३: १८; बौध १, ५, ६१;
 -क्ष्यान् शंघ २२३; -क्ष्ये
 आपध २, ५, ५; विध;
 पा ७, ३, ६९; -क्ष्येण पा
 २, १, ३५; -क्ष्यैः आपध २, ६,
 १४^d; -क्ष्यौ वाध १४, ४६.
 भक्ष्य-द्रव्य- -व्यैः आमिष्ट ३,
 ३, १: १३.
 भक्ष्य-भोज्य- -ज्यानि आज्यो
 ७, १.
 भक्ष्यभोज्या(ज्य-आ)दिक-
 -कम् शंघ २३३.
 भक्ष्य-भोज्य-पान-शय्या (व्या-
 आ) सन-पुष्प-मूल-फल-
 -खानाम् विध ५२, ८.
 भक्ष्य-मांस- -सम् शंघ २२२.
 भक्ष्य-वर्जम् विध २२, ७०.
 भक्ष्य-विशेष- -षान् निसू ६,
 १३: ३४; बौष्ट २, ११, १५.
 भक्ष्यमाण- -णः अप्राय ३, ३;

-णम् सु १३, ३; -णाः अप्र
 ६१, १, ११; विध ४२, ३४; ४०;
 -णे अप्र ७०, ५, २.
 रभक्ष- ✓भक्ष् द.
 रभक्ष^e- >भाक्षि- -क्षिः बौश्रौप्र
 ४६: ३.
 भक्ष-काल- प्रष्ट. ✓भक्ष् द.
 भक्षाली- (>भाक्षालक- पा.) पाग
 ४, २, १२७.
 भक्षानृत- प्रष्ट. ✓भक्ष् द.
 भक्षस्थली- (>भाक्षस्थलक-
 पा.) पाग ४, २, १२७.
 भग, गार्- पाग २, ४, ३१६; ४, १, ४५;
 ५६; -ङ्ग आपमं १, १४, ३^१;
 ५^{२b}; बौष्ट २, ६, १०^३; १२;
 जैष्ट २, ३^३; ७^३; -ङ्गः आश्रौ ८,
 १, २३; २, ५, ५^१; शाश्रौ; आपश्रौ
 ८, १८, ४^१; माश्रौ १, ३, ४, २३^k;
 वाश्रौ १, ३, ६, १६^k; आपमं १, १,
 २^१; १६, १^{२b}; आमिष्ट १, ५, १:
 २^१××; काष्ट २५, १^१; बौष्ट १,
 १, १५^१; वाष्ट १०, ७^१; अप्र १,
 ४, ३९ⁿ; ४८, ९०^०; बृदे ५,
 १४७^१; १६८, १६९; ६, ८^१;
 ७, ११४^२; ८, १२८××; साभ;
 निध २, १०^०; या १, ७^३क^१;
 ६, १३^१; ३१क^१; १२, १३; १४^३;
 ३६; आज्यो १, १०^१; वेज्यो
 ३२ⁿ; -ङ्गम् आश्रौ २, १०,
 ३××; शाश्रौ; काश्रौ ५, १३,
 १^२; माश्रौ १, २, ५, १२^०; ८,

a) भावे अह् प्र. उसं. (पा ३, ३, १०४)। b) कर्तरि वनिष् प्र.। c) पाभे. पृ १८३७ m द्र.।
 d) रक्षैर्भक्ष्यैः इत्यस्य स्थाने सपा. हिघ २, २, १५ शक्तिविषयेण इति पाभे.। e) = ऋषि-विशेष-। f) वैष १ द्र.।
 g) = योनि- इति पागम.। h) पाभे. वैष १, २३१३ ० द्र.। i) भागः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आन.,
 सपा. ऋ ५, ५१, ११ च)। j) पाभे. वैष १, २३१४ e द्र.। k) पाभे. वैष १, २०२९ h द्र.। l) पाभे.
 वैष १, २३१४ a द्र.। m) पाभे. वैष १, २३१४ c द्र.। n) = पूर्वफल्गुनी-देवता-। o) = घन-। p) = अदिति-
 पुत्र-। q) = मुहूर्त-विशेष-। r) पाभे. वैष २, ३खं. भृगम् मात्र ११, ४, ३, १५ टि. द्र.। s) पाभे. वैष २,
 ३खं. धनम् तैत्रा ३, ३, ११, २ टि. द्र.। t) = द्वादशादित्याऽन्यतम-।

ऋञ्च २,७,४१^६; या ३,१६;६,
१३; १२,१४^३; -गया गोय
१,३,१८; -ङ्गस्य आपश्रौ ६,
२२,१; ८, १८, ४; भाश्रौ; या
२,१३;२,३१^६; -ङ्गाय आश्रौ
४,५,७; शाश्रौ ५,८,५; आपश्रौ
११,१,१२; १८, १०, १४^३××;
बौश्रौ ५,१६; ३,१××; १२,५:
२०^०; हिश्रौ १२,४,५^०; द्राश्रौ;
वैश्र ३, २०: ६^०; -गे आपश्रौ
१६,३०,१; बौश्रौ ७, ५: २२;
१४,४: ३८^०; माश्रौ २, ३, ३,
७; वैश्रौ १८, २: ४६; हिश्रौ
११,८,४; आज्यो ३,५^०; -गेन
बौश्रौ ५, १७: ३^०; वैश्रौ ९,
११: ११^०; आपमं; या ४, ९;
आज्यो ३,६^०.

भगी- पा ४,१,४५.
१भगा- -गः वाश्रौ ३, ३, १,
३५^०; ऋञ्च २, ७, ३८; वृदे ५,
१६७; -गस्य वृदे ३, ४५;
-गानि या ७,२३.

भागी- गी ऋञ्च २, १,
२४; वृदे ३, ९८; साञ्च
१,४३५.

१भाग्य^६- न्यम् बौश्रौ १७,
३९: १२; -न्ये बौश्रौ १७, ३९:
१२; विध ७८, १६.

भाग्य-महा-भा(ग>)गा^६-
-०गे अशां २,४.

२भाग्य^१-> ३भाग्य^१- न्यः

बौश्रौ १७,३९: १३.
भग-काम,मा- -मः भाश्रौ ५, १५,
११; -माः काश्रौ ५, १०, १५;
-मायै बौश्रौ ५, १७: ३; २१,
६: ३.

भग-देवता-> ल्य,त्या- न्यम्
अञ्च ६, १२९; -त्याः शुञ्च ४,
२३; अञ्च ३, १६.

भग-दैवत- -तः वृदे ५, १६९.

भग-नक्षत्र- -त्राणि काय १९,७.

भग-दर^६- पाग २,४,३१^१; पावा
३,२,४१^०.

भग-पति- -तिः काश्रौ ५,१३,१^०.

भग-प्रमथन^०- नाय अप ३६, ९,
१०^०.

भग-भक्त- -क्तः शंष ३७७: ३^००;
-क्तस्य वृदे ३,९८^०.

भग-वत्- -०वः काश्रौ ६, ८, १;
बौश्रौ; -वतः अप ३, १, १२;

४०, ३, १; पावा ८, ४, ६८;

-वते बौय २,८,३५^०; शैशि

४; -०वन् आग्नि ३, १२,

१: १९^०; ङ्माग^१ १, १९, ४;

२, १४, ३१; अप; -ङ्गवन्तः

काश्रौ २५,१, १८; आपश्रौ; या

११,४४; -वन्तम् बौश्रौ १७,

४५: ३; आग्नि; -वन्ति अशां

६, ७; -वान् वाधुश्रौ ३, ९४:

९; आपमं १, १४, ५; शांय ३,

७, ३^०; आग्नि.

भगवती- -ङ्गंति काश्रौ

२५,१, १८^०; बौश्रौ १८, ४४:
१४; १८; माय २, १४, ३०;
-ङ्गवती आश्रौ^१ ३, ११, ४;
४, ७, ४; काश्रौ २६, ६, २४;
आपश्रौ; हिश्रौ १५,२,३^०; काय
२४,१९^०; अत्राय २,४^०; -तीम्
अप ४,३,४; -त्यः, -त्या गो
२,१०^०.

भागव(त>)ती- >०ती-

भागवत- पा, पाग २, ४, ११.

भगवत्-तम- -ङ्गमः^० बौश्रौ ३,
१४: १; पाय ३,२,७.

भगवत्-तर- -रः शांय ३, ७,
३^०.

भगवत्-पाद-मध्य- -ध्ये विध
९८,२.

भग-वायु- न्यू साञ्च २,४३३.

भग-संयुक्त- -क्तम् भाय १, १२:
११.

भगा(ग-आ)दि- -दीन् अञ्च ३,
२०.

भगा(ग-अ)न्तर- -रम् वृदे ७, ४६.

भगा(ग-अ)स्थि^०- -स्थि विध ९६,
६८.

भगा(ग-आ)स्थ^०- -स्थः विध ४५,
२४^०.

भगिन्- -गिनः वैश्रौ १,१७: १३;

-गिने शांश्रौ २,४,६^०; आपश्रौ

५,२३,६; भाश्रौ ५, १५, ११;

माश्रौ १,५, ६, १९; वाश्रौ १,

४,४, ४२; वैश्रौ १, १७: १०;

- a) भा० इति पाठः? यनि. शोधः (तु. ऋ ७, ४१, १) । b) सप्र. भगाय<>भागः इति पाठे ।
c) =पूर्वफल्गुनी-देवता- । d) भागे इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र. तै ३,१,८,२) । e) =मुहूर्त-विशेष- ।
f) सास्यदेवतीयः अण प्र. । g) सास्यदेवतीयष् ऋण प्र. उंसं. (पा ४,२,३०) । h) कस.>बस. । i) भावे
ष्यञ् प्र. । j) =भास्यवत्- । k) =रोग-विशेष- । l) तु. पागम. । m) तु. पाका. । n) पाठे. वैप २,
३खं. भगपतिः माश ११, ४,३,१५ टि. द्र. । o) =देव-विशेष- । p) पूष. =योनि- । q) सप्र. भगभक्तः
<> भगास्यः इति पाठे. । r) पाठे. वैप १,२३१५ । द्र. । s) पाठे. वैप १ श्रेष्ठतमः तै १,५,१०,२ टि. द्र. ।
t) पाठे. वैप १,२३१६ & द्र. । u) पाठे. वैप १, २३१६ ० द्र. । v) बस. ।

हिश्रौ ३, ५, २२ ^३ ; -गी आश्रौ २, ८, २; आप्रश्रौ ५, ३, ९; २३, ६; माश्रौ ५, १, १३; वाश्रौ १, ४, ४, ४२; हिश्रौ ३, २, १२; ५, २२.	भागिनिय- -यः सुधप ८५: ३. भागिनेयी- -यी बौध २, २, ६४.	भञ्जिन्- > भञ्जि-त्व- -त्वात् मीस् ४, ४, ११.
भगो(भ-उ)त्तर- -राणि शुप्रा २, २१.	भगिनी-भर्तु- -पाप ६, २, ८१.	भञ्जय- पा ५, १, ६६; २, ४; -ङ्ग्येन ^{१०} आप्रश्रौ १२, ११, १०; हिश्रौ ८, ३, ३१.
†भग् ^{११} - -न्यः आम्रिय १, ३, १: १४; -न्ये आम्रिय १, ३, १: १३.	भगिनी-वत् बौश्रौप्र ५४: ६.	भङ्ग, ङ्गय ^{११} श्ववस् ^{१२} - -ङ्-वः ^{१३} आपश्रौ १६, ६, ४ ^३ ; माश्रौ ६, १, २, २६ ^३ ; वाश्रौ २, १, १, ५० ^३ ; हिश्रौ ११, १, ६९ ^३ ; -वसः चाश्र ३८: १५.
भग-काम- प्रभृ. भग- द.	भगिनी-शुल्क- -लक्ष्म् गौध २८, २६.	भङ्गुर- √भञ्ज द्र.
भगल, ला- पाउभो २, ३, ९९; पाग ४, १, ९६ ^६ ; २, ८० ^६ .	भगिनी-सपत्नी- -न्यः सुधप ८५: ३.	†भङ्गयश्चिन ^{१४} - -नौ आपश्रौ २१, २०, ३; हिश्रौ १६, ६, ४१.
भागलक- पा ४, २, ८०.	भग्न- √भञ्ज द्र.	भञ्जुण्ड ^{१५} - -गढान् शंघ २२०.
भागलि- पा ४, १, ९६; -लिः वैताश्रौ १, ३; २२, १; २८, १२; कौस् १७, २७; अश्र ६, ५२.	भ-ग्रह- प्रभृ. √भा द्र.	√भञ्ज (वधा.) ^{१५} पाधा. भ्वा. उभ. सेवायाम्; चुरा. उभ. विश्राणने, भजते निसू ९, ८: २०; ऋअ ३, ३७; वृदे १, ५; ७८x४; या ७, १८; २०; ३१; याशि १, ७३;
भग-वत्- प्रभृ. भग- द.	भङ्ग, ङ्ग(वप्रा.) ^{१६} - पाग ४, १, ४१ ^६ ; ५, १, ३९ ^६ ; ६६; -ङ्गः ^{१७} अ्रप ७० ^६ , १४, २; ७१, १५, ९; ७२, ३, १०;	भजति अ्रप ४८, ५५ ^{१७} ; वाघ १, ४४ ^{१७} ; वृदे ३, १४; भजते वृदे १, ११३; या ७, १८; २०; ३१ ^{१७} ; ऋप्रा १८, ३४; भजन्ते शांश्रौ १३, १२, १३ ^{१७} ; बौश्रौ २४, ३: ६; वाश्रौ ३, २, २, ४२ ^{१७} ; निसू ५, ६: २; ८, ५: ३० ^{१७} ; आम्रिय ३, १, १: ११ ^{१७} ; भाश्र २, ११: ११ ^{१७} ; हिश्र २, १०, ६ ^{१७} ; अ्रप; भजन्ति शंघ २७३; वृदे २, ७३; ७४; †भजामहे हिश्रौ १२,
भगला ^१ - पाउभो २, ३, १०३; पा ६, २, २९; -लम् पाय २, ७, १२; गौध ९, २२; पा ६, २, १३७.	-ङ्गम् बौश्रौ १८, ३६: ६ ^{१८} ; -ङ्गे अ्रप २३, ११, २ ^१ ; -ङ्गेन बौश्रौ १८, ३६: ७ ^{१८} .	
भगिनी ^१ - नी आम्रिय १, ७, १: १२; काय २३, २; शंघ ४३; बौध २, २, ६४; विध ३२, ७; वैध २, ११, २; -नीम् बौय ३, ३, २१; सुधप ८७: ५; -नीषु आपध १, १४, ९ ^१ ; -न्यः सुधप ८५: ३; -न्यै या ३, ६; -न्यौ सु २, १.	भङ्गी- पा ४, १, ४१.	
	भाङ्ग ^{१९} - क्लानि कौस् १६, १६; -ङ्गे कौस् ४७, ३९.	
	भाङ्ग-(ज्या>)ज्य ^{२०} - -ज्येन कौस् ३५, २८.	
	भाङ्ग-मौङ्ग- -जान् कौस् १४, २८.	
	भाङ्गिक- पा ५, १, ३९.	
	भाङ्गिन- पा ५, २, ४.	
	भङ्ग-ऋष्याद्-सेवन ^{२१} - -नम् अ्रप ६४, ६, ८.	
	भङ्गा-कट- पावा ५, २, २९.	

a) सास्यदेवतीयः यत् प्र. उसं. (पा ४, २, ३१)। b) व्यप.। c) भलग- इति [पक्षे] भासडा., पासि.। d) = कपाल-। e) नाप. (स्वसु-)। व्यु. ?। <(√भञ्ज [वधा.]>) भग- (कल्याण-, यत्न-) इति प्रायोवादः ?। (√भञ्ज [संबन्धे]) *अ (भ्रा) गि (रु>) नी-> यनि. (तु. रञ्जु-, √लम्) इति मतम्। f) सपा. आतृषु भगिनीषु<> आतृभगिनीषु इति पाभे.। g) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.। h) तु. पागम.। i) भङ्गा- इति पागम.। j) = नाश-। k) = मादक-वीरुध्-। l) पाभे. वैप १, २३१६ d द्र.। m) विकारार्थे अण् प्र.। n) बस.। o) द्रस. > षस.। p) स्वायें प्र. (वैतु. हिश्रौ. भाष्यम् तस्मै-द्वितीयः प्र. इति)। q) आपश्रौ. हिश्रौ. पाठः। r) वैप १ द्र.। s) पाभे. वैप १, २३१६ f द्र.। t) = फल-विशेष-। u) या १, ७; ३, १६ पा ३, २, ६२ पावा ६, ४, १२० परामृष्टः द्र.। v) धा. प्रेप्सायां वृत्तिः। w) पाभे. वैप १, १५४० d द्र.। x) उत...भजन्ते> सपा. शौ १८, ४, ४० उप...सुचन्ते [तु. वैप १] इति पाभे.।

६,६; गोष्ठ ४,५,३; जैष्ठ १, १ : १७; भजन्त शशि ६२१;
 ऋभजन्तम् आपश्रौ ४, ११, १;
 भाश्रौ; भजन्तु अप १, २६, २१;
 भजस्व अप २०, ६, १; वृदे ७,
 ६५; भजतम् अशां ८, ४;
 ऋभजध्वम् आपश्रौ २१, १२, ३;
 हिश्रौ १६, ४, ३५; जैष्ठ २, १ :
 २९; अभजन् वृदे ७, १४३;
 भजेत् वैष्ट ६, ७ : १३; आपध
 १, २०, ८; २, २९, १४; हिष १,
 ६, २२; भजेत् अप ६८, २, २३;
 विध १८, ४३; वैध ३, १३, ७;
 भजेन् लाश्रौ ७, ५, २१; विध
 १७, २२; गौध २१, १६; २८,
 १; २१; ४२; भजेमहि शाश्रौ
 १२, २४, ६१.
 ऋभक्षि आपमं १, १४, २; या
 १२, १४.
 भजे निस् २, ९ : ७; भेजिरे अप
 १, ८, २; ५; ८; ९; १०; आपध
 २, २३, ४; हिष २, ५, १५८;
 १५९; भक्षत या ६, ८१;
 भक्षीष्ट शाश्रौ १५, २६, ११;
 ऋभक्षीय शाश्रौ २, ११, ६४;
 आपश्रौ; ऋभक्षीमहि वाग् ५,
 १५; अप १, २६, ५; या ४, ७;
 अभक्त माश्रौ ३, २, २१;
 ऋभक्त आपश्रौ ४, ११, १; भाश्रौ.
 भाज्य आमिष्ट १, ५, १ : ९१;
 ऋभाज्यत जैश्रौ १२ : ४; आपमं
 २, ७, १४; भाजयेत् गौध १०,
 २२.

अविभाजयिषीत् निस् ६, ८ :
 २५४^b.
 १भक्त^c-क्तम् आश्रौ २, १, ४;
 बौश्रौ; -क्तस्य दाश्रौ १, ५, ३,
 ११; कौस् ४७, १७; -क्तानि
 गोष्ठ ४, ५, १०; द्राग् ४, १, १;
 -क्ते कौस् २८, ९; ३६, ३३;
 ४७, २३; अप ७०^d, ७, १३१;
 -क्तेन आपश्रौ ६, १९, ११; गोष्ठ
 १, ९, ५; कौस् ५४, २२; ६८,
 ४०; १३६, १२; १४०, २१;
 अप ७२, ४, ७; अशां १२, ६.
 भाक्त- पा ४, ४, ६८; १००.
 भाक्तिक- पा ४, ४, ६८;
 -काः आपध २, ९, १०^d.
 भक्त-पात्र- -त्रे अप ७०, ५, ३.
 भक्त-यातन- -नात् कौस् २१,
 ५.
 भक्त-शरण^e- -णस् आग् २, ७,
 ८.
 भक्ता(क्त-आख्या >) ख्य^f-
 -ख्याः पा ६, २, ७१.
 भक्ता(क्त-अ)पचय- -येन आपध
 १, २५, ८; हिष १, ७, ४.
 २भक्त, क्त^g- -क्तानाम् अप १९, ८,
 ८; २०, ५, ४; अशां २, २; ३,
 १; ४, २; -क्तम् वृदे ४, २५.
 भक्त-बल^h- -लः शंघ २४४.
 भक्त-वल्ल, ला- -ल विध १,
 ५७; -ला शंघ ४४१.
 भक्ति(वप्रा.)ⁱ- पाग ४, २, ९५; ६, ३,
 ३३; -क्तयः लाश्रौ १०, ९, १०;
 निस् ६, ७; ६५; -क्तिः निस् ३,

५; ६; ७, १ : ८; ८, १० : ४११;
 वृदे १, ७३; कौशि ७८; ऋप्रा
 १७, १३; पा ४, ३, ९५; मीस्
 ३, ८, ४३; -क्तिम् द्राश्रौ ३, ४,
 १२; -क्ती निस् १०, १० : १७;
 -क्तीः वृदे १, ७६; -क्त्या बौश्रौ
 २६, १४ : ९; १३; वैष्ट ४, १२ :
 १३; अप १, ७, ८××; कप्र १,
 १, १६; २, ६; शंघ ३७××; विध
 ८६, १५; वैध २, ४, ५; वृदे १,
 ६; ऋप्रा १७, ६; १८, ५९; मीस्
 ४, ४, २८; ६, १, १९××.
 भाक्तेयक- पा ४, २, ९५.
 भक्ति-कर- पा ३, २, २१.
 भक्ति-तन्त्र- -न्त्रयोः निस् ७,
 ६ : ८.
 भक्ति-तसः (:) वृदे ५, १७२;
 ऋप्रा १८, ६२.
 भक्ति-ता- -ता भाशि ४.
 भक्ति-त्व- -त्वात् मीस् ६, ५,
 ३४; ७, ३, १४.
 भक्ति^j, क्ती^k-द्यावापृथिवी-
 > व्य^k- -व्यम्^l आपश्रौ ९,
 १९, ६; वैश्रौ २७, ३७ : ११;
 -व्येन आपश्रौ ९, १९, ७.
 भक्तीद्यावापृथिवीय^k- -व्यम्
 हिश्रौ १५, ८, १९^l.
 भक्ति-पान^m- -त्व- -त्वात् मीस्
 ३, २, ४३.
 भक्ति-पूर्वकⁿ- -कम् अप ६९,
 ९, ३.
 भक्ति-मात्र- -त्रम् या ८, २;
 २२; -त्रेण निस् ४, १३ : ७.

a) पामे. वैप २, ३खं. अस्क्त तत्रा १, ४, ३, ३ टि. द्र. । b) अविभा^o इति पाठः ? यनि. शोघः ।
 c) =अञ्ज- । वैप १ द्र. । d) सपा. हिष २, १, १२५ भृत्याः इति पामे. । e) नाप. (महानस-) । f) बस. ।
 g) =सेवक- । h) =विभाग-, सामभक्ति- (लाश्रौ. प्रभृ.), लक्षणावृत्ति- (मीस्.), धर्म- (वृदे. या.), सेवा- (वैष्ट.
 प्रभृ.), स्वरभक्ति- (कौशि.) प्रभृ. । i) वैश्रौ. पाठः । j) ईद् आदेशः उसं. (पा ६, ३, २७) । k) पूष. अर्थः ?
 यक. यत्, छः प्र. उसं. (पा ४, २, ३२) । l) परस्परं पामे. । m) तुस. ।

भक्ति-लोप-दर्शन- -नात् लाश्रौ
६, १, १४.
†भक्ति-वृम्^१- -वानः^२ आपश्रौ
४, १३, ७; भाश्रौ ४, १९, ७.
भक्ति-शेष- -पः अप ४८, १४७;
-षम् या ७, ११.
भक्ति-साहचर्य- -र्यम् या ७, ८.
भक्त्य(क्ति-अ)नुक्रम- -मात्
मीस् १०, ८, ३१.
भक्त्य(क्ति-अ)न्तर- -राणि द्राश्रौ
३, ४, ७.

भजन- -नम् अप १, ३८, ४.
भजनीय- -यम् या ४, १०.
भजमान, ना- -नाः विध १७, २२;
-नासु बौश्रौ २२, ६ : १३.
२भाग^३- पाग ५, १, ६६; -गः
†आश्रौ १, १३, ४; ४, ७, ४; ९,
११, १९; शाश्रौ; सु २८, २;
कौगृ ५, ३, २५†^०; †आमिगृ ३,
६, १ : ९; ७, ४; १३; †बौषि १,
८ : ८; २, ४, १^०; हिपि ७ :
७†^०; काश्रु ६, ९; बौश्रु १ :
३४; ३ : २८; हिश्रु ३, ३२;
वृदे ३, ८९; शुअ १, १४७†^०;
-†गम् आश्रौ १, ७, ८†^०××;
शाश्रौ; काश्रौ ३, ४, २५; आपश्रौ
४, ११, १^०; भाश्रौ ४, १६, २^०;
माश्रौ १, १, १, १९†; ३, ३४†^०; ७,
१, ८†; १२†; वाश्रौ १, २, १,
७†; २, ३२†; हिश्रौ १, ३,
५२†; ६, ३, ३^०; वैताश्रौ १०,
१५†; कौगृ ६४, ७†; या ३, १२;
४, २६†; कौशि ६; शुप्रा २,

४३; -गयोः बौश्रु ३ : ८; ११;
१९ : १०; -गस्य काश्रौ १०,
२, २†^०; आपश्रौ १३, ४, १४†;
बौश्रौ; -गाः निस् ३, ५;
२२××; आमिगृ; या ८,
२२†; -गात् दंवि २, १;
-गात् शाश्रौ ३, १६, २६;
१७, १३, ६; काश्रौ; -गानाम्
निस् ३, ६ : २; ९ : २४; -नो
आपश्रौ १८, ४, १५†; बौश्रौ; पा
५, ३, ४८; -गेन आपश्रौ १४,
५, १०; १५, ९, १२†; बौश्रौ;
-गेषु निस् ३, ५ : ३; ११;
९, ८ : ३१; -गैः बौश्रु १९, २;
-गौ बौश्रौ २, १२, २५; ६, २६;
९; माश्रौ १, ३, ३, २३; ७, १,
९; वैश्रौ १०, १९ : ५; शंघ
२६८; २६९; २९१; बौश्रु ५;
८; ७; १७; १८; याति २, ११०.
भाग-कर्मन्- -र्मणी पा ४, ४,
१२०.
भाग-नृतीया(य-आ)या(म>)
मा- -माः बौश्रु १९ : ६.
भाग-दुव^४- -घम् आपश्रौ १८,
१९, ६; बौश्रौ १२, १५ : ८;
वाश्रौ ३, ३, १, ३७; हिश्रौ १३,
६, ३१; -घस्य काश्रौ १५, ३,
११; बौश्रौ १२, ५ : २९; २६,
१ : १४†.
भाग-दुह- -धुक् बौश्रौ १२,
१५ : ९.
†भाग-घ^५- -घान्^१ आपश्रौ १,
१०, ६; बौश्रौ; -घे तैप्रा ४, ११;

-घेन बौश्रौ १३, १० : ४.
‡भागवातिक^६- -कम् वाश्रौ ३,
३, १, ३७†.
भाग-घेय^७- -पावा ५, ४, २५;
३६; -यम् आश्रौ ८, १४,
४†^३; †आपश्रौ १, २१, २;
२, २०, ६; ५, ८, ७; ११, ५, ३;
१४, ३२, ५; २४, १३, ३; बौश्रौ;
भाग २, ३२ : १९†^३; मागृ १,
११, ६†^०; वागृ १४, २†^०;
या १४, ३०; -यस्य या ९, ३१;
-†यात् आपश्रौ ६, ८, ११;
जैश्रौ १९ : ६; -यानि आश्रौ
७, ९, २; ८, २, १३; शाश्रौ १२,
११, १७; -याघ वाधूश्रौ ४,
१०३ : १४; -†ये बौश्रौ १३,
१९ : ११; भाशि ९५; -येन
बौश्रौ १३, १९ : १३; १४, १९ :
१८.
भागघेयी- पा ४, १, ३०;
-†यीः^८ आपश्रौ ११, २१, ३-५;
बौश्रौ ६, ३३ : ६; ८; ११; माश्रौ
१, ७, ३, २०; २, २, ५, ३४†;
वाधूश्रौ ४, ७० : १०; ११†; वाश्रौ
१, ६, १, ३२; वैश्रौ १४, १९ : ५;
८; २० : २; हिश्रौ ७, ८, ६३;
६५; १५, ५, ४.
भाग-परिहरणा(ण-आ)दि- -दि
काश्रौ २, २, ३.
भाग-पर्वन्- -र्वणि निस् ३, ७ :
१७.
भाग-लामिन्^९- -मी बौश्रौ
२६, १ : १५†.

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १, २३१७ d द्र. । c) पाभे. वैप १, २३१८ c द्र. । d) = देवता-विशेष- ।
e) पाभे. वैप २, ३३६ भागम् तैत्रा ३, ७, ५, ९ टि. द्र. । f) पाभे. वैप १, १६२३ b द्र. । g) पाभे. वैप १, १५७१
i द्र. । h) तु. चौ. वं. । i) पाभे. वैप १, २३१९ e द्र. । j) *दा- इति शेषः । *दत्- > दात्- (प्रदान-)>
(तत्कारकेऽर्थे) दातिक- इति द्र. । k) सप्र. भागघातिकम् <> भागलामी इति पाभे. । l) पाभे. वैप १, २३१८ k द्र. ।
m) पाभे. वैप १ वाजम् तै ३, ५, ६, १ टि. द्र. । n) पाभे. वैप १, २३१८ e द्र. । o) = भागलास-प्रयोजक- ।

भाग-विपर्यय- -यः निसू ८,
५:१९; -यात् निसू ८,५:२२.
भाग-विलोप- -ये निसू ६,१०:
११; ८,४:४.
भाग-विशेष- -यः गौध २८,१७.
भाग-नास- (-) कौसू १३५, ९१;
अप्राय २, ६; अत्र ३३, ३, ६;
आज्यो ९, ३.
भाग-संतान- -नाय निसू ८,
४:४.
भाग-समाप्ति- -सौ निसू ९,
१०:१९.
भाग-सामान्त^०- -न्ताः निसू
१,१२:१.
भाग-स्तोम^०- -साः निसू १,
१०:८; -मान् निसू ७,७:११;
८, १०:१२; १०, ४:६;
-सानाम् निसू १०,५:८; १६.
भाग-हारिन्- -रिणः विध १५,
३४.
भाग(ग-अ)भाम^०- -मेन निसू
९,७:१६.
भाग(ग-अ)त्मन्- -त्मना वैज्यो
१२.
भाग(ग-अ)न्त- -न्ते निसू ३,
९:२१.
भाग(ग-अ)न्वित- -तम् निसू
८,६:१४; ९,१:५५; -तानि
निसू ४,१२:१४; ८, ५:२३;
६:३८.
भाग(ग-अ)पहारिन् (>)भी-
-प्यः विध १८, ३४.
भाग(ग-अ)र्ध- -र्धम् कौश ३,

१०, ३५; शांठ २, १६; ६.
भाग(ग-अ)र्ध-ज्यास- -सम्
बौध १९:२.
भाग(ग-अ)र्ह- -र्हम् गौध
२८,४५.
भाग(ग^०-अ)वगाढ-विस्तार^०-
-न्स् वैशू ५,३:११.
भागिक- पा ५,१,४९.
१भागिन्- -गिनः बौश्रौ २९,३:
१०; आपध २,९,५; १४, १४;
२९, १; हिध २, १, १२०; ३,
२५; ६,१४; -ङ्गिनम् आपश्रौ
६,८,११^१; बौश्रौ १४,३:१०;
आपसं २, ६, १२^३; -गिनाम्
बौश्रौ ३, ६:१४^१; -ङ्गी
आपश्रौ ४, ११, १; भाश्रौ ४,
१६, २; हिश्रौ ६, ३, ३; विध
९०,२६.
भागिनी- -नीम् आपश्रौ
९,१५,२३; बौश्रौ २७, १:७;
९; २९, ४:१; ३; भाश्रौ ९,
१८,१२; साश्रौ ३, १, ३; वैश्रौ
२०,२५:२; हिश्रौ १५,४,४३;
अप्राय ४, १; -न्यै वैश्रौ २१,
३:६.
भागिनी-देवता-
-तानाम् वैश्रौ २०,२५:१.
भागि-त्व- -त्वम् मीसू १,
३,२५; -त्वात् मीसू ४,४,३४;
७,३,२; ४,७; १०,२, ५९; ३,
४७.
भागो(ग^०-उ)द्धत- -तम् वैशू ५,
१३:१२.

४भाग्य- पा ५,१,४९; ६६.
२भागिन्- पा ३,२,१४२.
भाज्- भाक् वृदे १,१००.
भाज->भाजी^०- पा ४,१,४२.
१भाजन^१- -न्स् शांठ २, १२,
१५^१; विध ९०,१५; -नानि बौध
३,२,८; -ने अप ३०^३,२,५;
६८,२,३; शंध २२६.
भाजन-वत्- -वत् या ४, १०;
-वति या ११,१९.
भाजनवती- -ती या १२,
१७.
√भज्^३ पाधा. र्धा. पर. आसर्दने;
जुरा. उभ. भाषायाम्, अभाङ्क्षीः
सु १४,५.
भज्यते अप ७१, १६, ४;
भज्यन्ते अप ५५,६,२; ६४,७.
६; भज्येत हिश्रौ १५, ८, ३५;
कौसू ५७,७.
अभाजि, अभञ्जि पा ६,४,३३.
भग्न- -न्ते बौश्रौ २७, २:१२;
अप २३,४, १; ७२,२, ६; बौध
१,४,६.
भग्न-नष्ट-दुष्ट-विपरीत-स्फु-
टित- -तेषु बौश्रौ ४,८,१^१.
भग्न-पृष्ठ-शिरो-ग्रीव^०- -वाः
विध ४३,४४.
भग्न-प्राकार-तोरण^०- -गम् अप
७०^३,२३,८.
भग्न-स्फुटित-वृत्त- -क्षाणाम्
अप ७०,४,७.
भग्न(ग-अ)क्ष^०- -क्षः अप ७२,
२,८.

a) कस. । b) =स्तोम-विशेष- । c) पूष. =भागसामान्त- ? । d) =चतुरङ्गुल-प्रमाण- ।
e) बस.>दस. । वा. क्वि. । f) सपा. ०न्म् <> ०नाम् इति पाभे. । g) पाभे. वैप १, २३१६ d. ।
h) =पक्-व्यञ्जन- । घा. पाके वृत्तिः । i) =पात्र- । घा. धारणे वृत्तिः । j) सपा. कौश २, ७, २७ आज्य-
भाजनम् इति पाभे. । k) पा ७, ४, ८६ परामृष्टः द्र. । l) पृ १०९ p. द्र. । m) बस.>दस. । n) बस-
रूप. = २, अक्ष- ।

भग्ना(भ-आशा >)श^३- शः
विध ६७, ३३.
भङ्गुर- पा ३, २, १६१.
भङ्गुर(र >)रा-वत्^३- वतः
बौश्रौ ३, ९ : १०^०; भाश्रौ ६,
३, ३^०; बौश्र १, ४, ११^०; ऋषा
९, ११; तैप्रा ३, ५^०; -वताम्
शुषा ३, ९७^०.
भञ्जन- पाग ६, ३, ११६.
भञ्ज(न >)ना-गिरि- पा ६, ३,
११६; ऋत ४, ७, १०.
भञ्जना(न-आ)दि- न्दौ अप
३६, ३०, २.
√भद् पाथा. भ्वा. पर. सूतौ परि-
भाषणे च.
भटिल- पाउना १, ५३.
भट्ट- (> भट्टी- पा.) पाग ४, १,
४१.
भडित^३- पा, पाग २, ४, ६३; पाग
४, १, १०५; ११०; २, १११.
भाडितायन- पा ४, १, ११०; -नः
द्राश्रौ १०, १, १^०.
भाडित्य- पा ४, १, १०५.
भाडित- पा ४, २, १११.
भडिल^३- पाउ १, ५४; पा, पाग २,
४, ६३; पाग ४, १, ११०.
भाडिलायन- पा ४, १, ११०.
√भण् पाथा. भ्वा. पर. शब्दे, भणति
निघ ३, १४^१.
भण्यते वृदे ३, ५४.
भण- > √भणाय^३, भणायते निघ

३, १४^१.
भणिति- पागम ४४५.
√भषट्^३ पाथा. नुरा. उभ. प्रतारणे.
√भषट् पाथा. भ्वा. आत्म. परिभा-
षणे; नुरा. उभ. कल्याणे.
भषट्- पाउमो २, २, ११५.
भषण्ड^३- ण्डानि आश्रौ ६, २८, २.
भषण्ड^३- पाउमो २, २, ११७^३;
-ण्डम् वैश्रौ २, ११ : ३; हिश्रौ
३, ८, ३; अप २३, १३, ३;
-ण्डात् पावा ३, १, २०;
-ण्डानाम् सुधम ८७ : १६;
-ण्डानि वैश्रौ ११, १० : २;
वैश्र ३, १६ : २; शंघ १८३;
-ण्डे आपृष्ट ६, ४; बौध २, १,
२१; विध ६८, ४९.
भाण्ड-लेप- -यः शंघ १४०.
भाण्डा(ण्ड-अ)गार-पति-
-तिम् अप ५, ५, ४.
भाण्डा(ण्ड-अ)धिक^३- के अप
७१, १७, ४.
√भाण्डि पा ३, १, २०.
भेषण्ड^३- (> रभाण्ड- पा.) पाग
४, १, ११२^१.
भरिडक^३- (> भाण्डिकायन- पा.)
पाग ४, १, ११०.
भण्डित^३- पा, पाग २, ४, ६३; पाग
४, १, १०५; ११०; २, १११.
भाण्डितायन- पा ४, १, ११०; -नः
लाश्रौ ३, ९, १^०; ६, ६, १५.
भाण्डित्य- पा ४, १, १०५.

भाण्डित- पा ४, २, १११.
भाण्डिल^३- पाउ १, ५४; पा, पाग २,
४, ६३; पाग ४, १, ११०.
भाण्डिलायन- पा ४, १, ११०.
भण्डु- (> भाण्डव- पा.) पाग ४,
२, ७७.
√भद्, न्द^३ (वधा.)^३ पाथा. भ्वा.
आत्म. कल्याणे सुले च, ऋभन्दते
अप ४८, ९^३; निघ १, १६^०; ३,
१४^३; या ५, २.
भदन्त- पाउ ३, १३०.
भद्र, द्वा^३- पाउ २, २८; पाग १,
४, ७४^०; ३, १, १२^३; ४, १, ३५;
-ऋद्रः आश्रौ ७, ८, १; शाश्रौ
१२, ११, १९; २४, ८^३; काश्रौ;
-ऋद्रम् आश्रौ १, ९, १; २, ७,
९x; शाश्रौ; बौश्र १६, २२ : १^३;
छस् ३, २ : ३५^३; साग २, ८,
६^३; या १, १८; ४, ९; ९, ५^३;
१२, १३; -द्रम् ऽ-द्रम् जैश्रौ
११ : ४; -ऋद्रया^३ आपमं २, २,
१०^३; बौश्र २, ५, १४^३; अप्रा;
-ऋद्रस्य आश्रौ २, ८, १४;
शाश्रौ १२, २०, २; -ऋद्रा आश्रौ
३, १३, १४; ८, १३, १३; काश्रौ;
या ४, ९; १२, १७; ३९;
ऽआज्यो^३ ६, ८; ९; -ऋद्राः
आश्रौ ५, १८, ५; शाश्रौ; -द्राणि
ऋद्रापमं १, १३, २; ३; कौश्र १,
१२, ६^३; शांश्र १, १९, ६^३; शंघ
२४५; -ऋद्रात् आश्रौ २, ९,

a) बस. । b) वैप १ द्र. । c) पाभे. वैप १, २३२० j द्र. । d) व्यप. । e) सपा. ंडिता^३
<> ंडिता^३ इति पाभे. । f) पावा ७, ४, ३ परामृष्टः द्र. । g) धा. गतौ वृतिः । h) तु. BPG. ।
i) = १भाजन- । j) स्वाधिकः अण् प्र. (पा ५, ४, ३८) । k) <√भा । l) तु. पाका. । जम्भ-
इति भाण्डा. प्रमृ. । m) या ५, २ परामृष्टः द्र. । n) धा. अर्वायां वृतिः । o) धा. ज्वलने वृतिः । p) विप.,
नाप. । वैप १ द्र. । q) डान्तं द्र. । r) तु. पागम. । s) = साम-भेद- । t) उत भद्रमस्तु इत्यस्य स्थाने
सप्र. आगृ २, ४, १४ अभयं विश्वमस्तु इति, पागृ ३, ३, ६ अकृन्तद्विश्वमस्तु इति च पाभे. (पृ १३० अयं विशेषः द्र.) ।
u) पाभे. वैप २, ३३. भद्रे मंत्रा १, ६, २८ टि. द्र. । v) = तिथि-विशेष- ।

१०; ४, ४, २; शाश्रौ; - ऋदान्
हिश्रौ ६, ३, २; आपमं १, ८, २;
कौश्र ३, ४, ३; कांश्र ३, ५, ३;
बौश्र १, ५, ६; - द्वास् शाश्रौ
१०, १९, २^३; कप्र २, ५, ११;
अप ४, ३, ४; आज्यो ६, १२^०;
- द्वाय कौस् ५८, १^३क; - द्वायाम्
आज्यो ७, २^०; - द्वायै कौस्
३९, ९क; - ऋद्रे वाश्रौ ३, २, ५,
४३; आपमं २, १२, ९; या ११,
१९; - ऋद्रे काश्र ४१, ११^०;
माश्र १, २२, ७^०; वाश्र ५, ७^०;
जैश्र १, १२: ४८^०; अप ४, ३,
५७; - ऋद्रेण आपश्रौ १८, ७, १;
बौश्रौ ११, ११: १; वाश्रौ ३,
१, २, ३६; वैश्रौ १७, १७: ३;
हिश्रौ १३, २, ३०^०; या ११, २४;
शुश्र ६, ३०; - ऋद्रेभिः आश्रौ
४, १४, २; शाश्रौ ६, ५, ४; - द्वास्^०
हिपि १८: ११.
भद्र-काली^० - ली अप ७१,
१७, ७; - लीम् काश्र १९, ७;
- ल्यै कौश्र ३, १०, १४; कांश्र
२, १४, १४; वैश्र ३, ७: १८.
भद्रकाली-पूजन- > न-
चित्रकर्मा(र्षे-अ)ङ्गविद्या-तृशेषो-
षण-मर्दन-वृत्ति^० - त्तिः वैश्र
३, १३, १^६.
ऋभद्र-कृत् - कृत् वैश्र १, १८: ९.
भद्र-करण- पावा ६, ३, ६९.
भद्र-ऋ(र>)री- ०रि काश्र

५४, ४; निध ६७, ८.
भद्र-दास(ण>)गा^० - गया
अप १८, ३, १.
भद्र-प(ति>)ली- पा४, १, २५
भद्र-प(द>)दा^० - ०दे अशां
५, ४.
भाद्रप(द>)दी- >
भाद्रपद^० - दे याशि २, ६०.
भद्रपदो(दा-उ) त्त(र>)
रा^० - राम्, - ०रे अशां ५, ५.
भद्र-पीठ- ठे पाश्र १, १५, ४;
काश्र १७, १; जैश्र १, ७: ४.
भद्र-मातृ- > भाद्रमातृ- पा
४, १, ११५.
भद्र-सुञ्ज^० - > भाद्रमौञ्जी^०-
-ञ्जीम् कौस् ५६, १; ५७, १.
भद्र-सुस्त^० - स्तैः अप १, ४५, ८.
ऋभद्र-वाच्य^० - च्याय काश्रौ ३,
६, २; आपश्रौ ३, ६, ५; बौश्रौ १,
१९: २३; भाश्रौ ३, ५, १६, भाश्रौ
१, ३, ४, १२; वाश्रौ १, ३, ६, ७;
हिश्रौ २, ४, २०; शुश्र २, ४०.
भद्र-वाह्य- ह्यानि आज्यो ७,
२^०.
भद्र-शर्मन्- (> भाद्रशर्मि-
पा.) पाग ४, १, ९६.
ऋभद्र-शोचि^० - ०चे आपमं २,
११, २८; शुश्र ४, ६५.
भद्र-श्रेयस्^० - न्यसी खुस् ३, २:
३४; - न्यसोः लाश्रौ ७, ७, १७.
भद्र-श्रेयः-स्वस्त्य^० - स्त्याः

कौस् १३७, २६.
भद्रा-√कृ^० पा १, ४, ७४; पावा
५, ४, ६७.
भ(द>)दा-व(त् >)ती^०-
-०ति कौस् ३९, ९क.
भद्रा(द-अ)ह^० - ऋहम् अप १^२,
१, १; २^३; ३.
भन्द- > ण्दिष्ट- ऋष्टः शाश्रौ ७,
१०, १३^६; अश्र ३, २, ३३.
भन्दत्- > ण्दद्-इष्टि^० - ष्यः
शाश्रौ ८, २३, १क.
भन्दन- > णीय- ये या ११, १९.
ऋभन्दना^० - नाः निध ४, २; या
५, २क.
भन्दमान- ऋनः^० आपश्रौ १४,
११, ४; हिश्रौ १०, ६, ९.
भद्र- √भद्, न्द् द
भद्रक^० - कान् अप ५०, २, ४.
भद्रण^० - णाः बौश्रौ प्र २०: १.
√भन् (वधा.), भनते अप ४८, ९;
भनति अप ४८, ६; ९.
भन^० - नः या २, १४.
√भन्द √भद् द.
भन्द्यश्व^० - > भान्द्यश्व- श्वस्य चाश्र
४२: ४.
भ-पर- १भ- द.
भ-प्रशस्ता- √भा द.
१-२भय- √भी द.
भयजात^० - > भायजात्य- त्यः निस्
८, ४: २९.
भयमान-, भयानक- √भी द.

a) = प्रजापतितनू-विशेष-। b) = तिथि-विशेष-। c) पाभे. पृ १८४५ प ६.। d) सप्रणवो निर्देशः (भद्रम् [ऋ १०, १४, १२])। e) = देवी-विशेष-। f) द्रस. > वस.। g) षूजामात्रकर्मा इति रत्ना.। h) = ओषधि-विशेष-। i) = नक्षत्र-विशेष-। j) = मास-विशेष-। k) = नक्षत्र- (उत्तर-भाद्रपदा-)। कस. परप्रयोगः उस्. (पा २, २, ३१)। l) तुणविशेषयोः द्रस.। m) विकारे अण प्र.। n) वैप १ द्र.। o) ष्वा इति पाठः? यनि. शोषः। p) (सामविशेषयोः) द्रस.। q) (मन्त्रप्रतीकानाम्) द्रस. (तु. संस्कृतः टि.)। r) सुष्ठने वृत्तिः। s) = देवी-विशेष-। t) पाभे. वैप १, २३२२ ऋ द्र.। u) पाभे. वैप १, २३२३ ष द्र.। v) = जनपद-विशेष-। w) व्यप.। x) वैप्र. < नभस्- > -भः।

भ-युञ्ज- √भा द्र.	२, २०.	८, १२; -नः ऋञ् २, ९, ६८;
भय- प्रभृ. √भी द्र	भरुञी- पा ४, १, ४५.	शुञ् २, ९४; मात्र १, ७७;
भर ^१ - पाग ५, २, ३६; -रः या ४,	भारुजिक- पा ५, ३, १०८.	५६३; -नस्य चाञ् १६:
२४ ^० ; -रम् या २, १७; ३, ९;	भरुण्ड ^१ ->भारुण्ड ^१ - गडानि वध	१६१ ^० ; -नाः बौश्रौप्र ४३: १२.
-राणाम् आश्रौ ७, २, १७ ^१ ;	२८, १२; शंघ १०५; विध ५६,	भालन्दनक- पा ४, २, ८०.
- ^१ त्रे ^१ अत्र ४८, १०५; निघ २,	१३.	भलन्दन-वन् बौश्रौप्र ५३: २; वैध
१७; - ^१ त्रेषु आश्रौ १२, १९,	भारुण्डेष ^१ - -वाः बौश्रौप्र १७: ७.	४, ८, १२ ^१ .
१९; बौश्रौ १३, २०: ६; १८,	१, २भर्ग-भर्गम्- √भृज् (दीप्तौ) द्र.	√भल्ल् पाथा. भ्वा. आत्म. परिभाषण-
१४: ५; हिश्रौ २२, ३, १७;	भर्तव्य-, भर्तुम् √भृ द्र.	हिंसादानेषु.
निस् ८, १: २०; या ४, २४ ^० ;	भर्तृ ^१ - (>भार्थ्य- पा.) पाग ४,	भल्ल- पाठनाट ४, ११७; पाग ४, २,
भरित- पा ५, २, ३६.	१, १५१.	७५; २, ८० ^० ; - ^१ लाय गोष्ट
भरेपु-जा ^१ - -जाम् बौश्रौ १८, ५: ११	२भर्तु- प्रभृ. √भृ द्र.	४, ६, १३; द्राष्ट ४, २, २ ^१ .
भरक- पाठभो २, २, ७.	√भर्त्स ^१ पाथा. चुरा. आत्म. तर्जने.	भाल- पा ४, २, ७५.
भरट- (> ष्टिक- पा.) पाठ ४,	भर्त्सन- -ने पा, पावा ८, २, ९५.	भालेय- पा ४, २, ८०.
१०४; पाग ४, ४, १६.	भर्भर- पाठभो २, ३, ३५.	भल्लकीय- (>भा ^१ पा.) पाग ४, १,
१, २भरण-, णिक-, णी-, णीय-	√भर्च ^१ (वधा.) ^१ पाथा. भ्वा. पर. हिंसा-	८६.
√भरण्य √भृ द्र.	याम्, ^१ भर्चति ^१ अत्र ४८ १५;	भल्लपाल- (>भाल्लपालेय- पा.) पाग
भरण्ड- पाठ १, १२९.	निघ २, ८.	४, २, ८०.
भरत्-, भरद्वसु-, भरद्वाज- प्रभृ.	√भल् पाथा. भ्वा. आत्म. परिभाषण-	भल्लवि-> भाल्लवि ^१ - > १भाल-
√भृ द्र.	हिंसादानेषु, चुरा. आत्म.	वेय ^१ - -यः शुञ् ४, १८७.
भा, भा ^१ रम ^१ - (> भारमेय- पा.)	आभण्डने.	भाल्लवि-ब्राह्मण ^१ - णम् द्राश्रौ
पाग ४, १, १२३.	भल ^१ - - ^१ लाय गोष्ट ४, ६, १३; द्राष्ट	३, ४, २; -णे वृदे ५, २३.
भरमाण- √भृ द्र.	४, २, २ ^१ .	भाल्लवि-स्तोम- -साः बौश्रौ
भरिञ ^१ - पाठना ४, १८१; - ^१ त्रे अत्र	भलग- (>भालगक- पा.) भगल-	१८, २७: १.
४८, ८१; निघ २, ४.	टि. द्र.	२भाल्लवे(य<)>यी ^१ - -यी वृदे
भरिभ्रत्-, भरिमन्- प्रभृ. √भृ द्र.	भलन्दन ^१ - पा, पाग २, ४, ६३ ^० ; पाग	५, १५९.
भरु- पाठ १, ७.	४, १, ११२; २, ८० ^० .	भाल्लविन् ^१ - -विनः निस् ३, ६:
भरुज, जा- पाठभो २, २, ९२; पाग	भालन्दन- पा ४, १, ११२;	२७; ५, १: ७; ६, ३: १६; ७,
४, १, ४५; ५, ३, १०८; -जा या	-०न बौश्रौप्र ५३, १; वैध ४,	५: ११; वाध १, १४; बौध १,

a) वैप १ द्र. b) संश्राम-नामन्-। c) पाका. पाठः। d) व्यप.। e) नाप. (लृष्ट-। यव-। व्यु. ? <भ्रस्ज् इति दु., <√भृज् [भर्जने] इति स्क.। f) = साम-भेद। तेनदृष्टीयः प्र.। g) अपत्यार्थे ढक् प्र.। h) तु. पागम.। i) या ९, २३ परामृष्टः द्र.। j) धा. अदने वृत्तिः। k) वैप २, ३खं. द्र.। l) BC. फलाय इति ?। m) = ऋषि-विशेष-। n) कलन्दन- इति भोजः (तु. पागम.)। o) अर्थः ?। p) बा^१ इति पाठः ? यनि. शोधः। q) भाल^१ इति पाठः ? यनि. शोधः। r) फलाय इति BC.। s) = भाल्लविन्-। वैप ३ द्र.। t) ढक् प्र. उंसं. (पा ४, १, १२३)। u) उप. = १ब्राह्मण-। v) विप. (श्रुति-। तेनप्रोक्तमित्यर्थे प्र. उंसं.। w) = ब्राह्मण-विशेष-, आचार्य-विशेष-। पूर्वै कल्पे प्रोक्तार्थे णिनिः प्र. (पा ४, ३, १०५), अन्यत्र प्रोक्तप्रत्ययान्तात् तदधीति तद्वदेत्यर्थे प्र. लृक् (पा ४, २, ६४ [वैतु-न्यासकारः <भाल्लव- इति, पासि. <भल्लु- इति])।

१, २७; -विनास् निसू ३, ३:
 १५.
 भल्लवि-क^१ -कस् अप्रश्नौ २१,
 १६, १५; -के हिश्रौ १६, ६, ३.
 भल्लतक- पाउमो २, २, ४२.
 भल्लु. ल्लूक- पाउ ४, ४१.
 रभ-व- १भ- द.
 रभव^१ -वः अप ४३, ५, १९; अत्र;
 वेज्यो १०^०; -वस् वाश्रौ २, २,
 ४, १२; आप्रिय; अप १, ३७, ४^०;
 अशा ७, ४^०; -वस्य आपमं
 २, १८, २२; आप्रिय; -वाय
 शाश्रौ ४, १८, ५××; आपमं; माण
 १, ११, १८^१.
 भवावी- पा ४, १, ४९; -शै
 शाश्रौ ४, १९, ५^१; पाण ३, ८,
 १०.
 भव-त्रात- -तः जैश्रौका १७२^०.
 भवत्रात-वचस- -चः जैश्रौका
 २१५; -चसि जैश्रौका ३१^१.
 भव-शर्व- -वाश्रियाम् वाश्रौ ४, २०,
 १^१; -वौ अत्र ४, २८.
 भव-शर्व-पशुपत्यु(ति-उ)प्र-रुद्र-
 महादेवे(व-ई)शान- -नानाम्
 कौसू ५१, ८.
 भवा-रुद्र^१ -द्रौ अत्र ११, २^१.
 ऋभवा-शर्व^१ -०र्वा अप ३२, १,
 ३१; -वौ अप ३२, १, १७;
 अत्र १०, १; -ऋं०वौ वैताश्रौ
 २९, १०; कौसू २८, ८××; अप.
 भवाशर्वीय^१ -यस् अप ४२,
 २, १०.
 भवो(व-उ)रुद्र^१ -०व अप २०, ६,

१^१.
 रभ-व- √भू द.
 रभवत्^१ - पाउ १, ६३; -वतः पाण
 २, २, २०; पावा १, १, २७;
 -ऋवता आप्रिय ३, ३, १ : १०;
 ११; -वत्सु गौपि २, ३, ३५;
 -वद्विः अप ३०^०, १, २; -वत्सयः
 काण ६५, ६; विध ७४, ८;
 -०वन् गौध ६, १४; -वन्तः
 आप्रश्नौ ८, १५, १७^१; आपमं;
 -वन्तस् पाण १, ३, ४^१; पावा
 ३, ३, १६१; -ऋवान् बौश्रौ २,
 ३ : १९; आण; गोण २, १०,
 ३४^१.
 भवती- -०ति बौण २, ५,
 ४९-५१; वाण; -ती कौसू ५७,
 १७; -ऋतीभ्यः काण ६५, ७;
 हिण १, १८, ३; विध ७४, ८;
 -ऋत्यः आपमं २, २०, २२;
 काण ६५, ७.
 भवति-म(ध्य >)ध्वा^१-
 -ध्याम् वाण ५, २८.
 भवत्य (ति-अन्त्य >)
 न्या^१ - न्याम् वाण ५, २८.
 भावक्- पा ४, २, ११५.
 भवच्छ (<श)ब्द- -ब्दः गौध
 २, ४३.
 भवत्-पुरोहित^१ -तौ बृदे ५, १२६.
 भवत्-पू (र्व >)वा^१ -र्व्या जैण
 १, १२ : ५४; ५६; आप्रध १,
 ३, २८, हिध १, १, १०३; -वाम्
 पाण २, ५, २; वाध ११, ६८;
 बौध १, २, १७; १८; २, १०,

४३.
 भवद्-अन्त^१ - न्तस् विध २७,
 २५.
 भवद्-अ(न्त्य >)न्या^१ - न्यया
 जैण १, १२ : ५५; आप्रध १, ३,
 ३०; हिध १, १, १०५; -न्याम्
 पाण २, ५, ४; वाध ११, ७०;
 बौध १, २, १८.
 भवद्-आदि- -दिभिः पावा ५,
 ३, १४.
 भवद्-भाष^१ - -द्यस् विध २७,
 २५.
 भवदीय- पा ४, २, ११५.
 भवन्-मध्य, ध्या^१ - -ध्यस् विध २७,
 २५; -ध्यया आप्रध १, ३, २९;
 हिध १, १, १०४; -ध्याम् पाण
 २, ५, ३; वाध ११, ६९; बौध १,
 २, १८.
 भवन्-मध्य(स >)मा^१ - -मया जैण
 १, १२ : ५५.
 रभ-वत्- √भू द.
 रभ-वताः^१ अप १, ७, ४.
 भवन- √भू द.
 भवन्त- पाउ ३, १२८.
 भवन्ति- प्रमृ. √भू द.
 भवाक- पाउना ४, १६.
 रभवान् वाधुश्रौ ३, १० : ३.
 भवितव्य- , भवित्- प्रमृ. √भू द.
 भ-शेष- √भा द.
 √भष् पाधा. भ्वा. पर. भर्त्सने.
 १भष- पा ३, १, १३४.
 रभष^१ - (>भषी- पा.) पाण ४, १,
 ४१.

a) = १ब्राह्मण-। स्वार्थिकः प्र.। b) यक. वैप १, २३२५h, m, d.। c) = आर्द्रानक्षत्र-देवता-। d) पाभे.
 वैप २, ३खं. पशुभ्यः तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द्र.। e) अतः इति पाठः ? यनि. शोधः [तु. M.W.]। f) एवचः
 इति पाठः ? यनि. शोधः। g) = सूक्त-विशेष-। h) बस.। i) वैप २, ३खं. भवोद्भववाध तैत्रा १०, ४३, १
 टि. द्र.। j) वैप ३ द्र.। k) सपा. भवान् <> भोः <> भोः इति पाभे.। l) बस. पू. सं. द्र.।
 m) उप. = २आद्य-। n) भरताः ? इति संस्कृतां। o) तु. पागम.।

३भप^a-> १भात्य^b-> ००य-नात्य-
-न्यौ अत्र ४३, ४, १९.
√भस् (वधा.)^c पाया. जु. पर.
भस्तेनदीपयोः, ऋभस्ति आपथौ
१४, २९, ३२^d; हिश्रौ १५,
७, १६^e; आपथिष्ठ; अत्र ४८,
१५^f; निघ २, ८^g; ऋभस्ति^h
अत्र ४८, १५; निघ २, ८;
ऋभस्ति^h अत्र ४८, १५; निघ
२, ८; या ५, १२.
ऋभस्यः^h अत्र ४८, १५; निघ
२, ८; या ५, २२.
वपसन्-ⁱ वपता या ९, ३६^f.
वपसन्ती-ⁱ वी या ६, ४^f.
भस्त्र, छा- पाउ ४, १६८; पाग २,
४, ३१^f; ४, २, ९०; ४, १६;
-छाम् लाश्रौ ६, २, १२;
-छायाः निसू ७, ११ : ११.
भस्त्र-क<>का- पा ७, ३, ४७.
भस्त्र-फल<>ला^h- पावा ४,
१, ४; ६४.
भस्त्र-ग्रहण-ⁱ णम् पावा ७, ३,
४७.
भस्त्रा-न्याय-ⁱ यः निसू १, १० :
२१; -यम् निसू १, १० : २७.
भस्त्रिक- पा ४, ४, १६.
भस्त्रिका- पा ७, ३, ४७.
भस्त्रिय- पा ४, २, ९०.
१भस्त्र^h- पाउ ४, १४५; -स्म
काश्रौ १७, १, ६^f; आपथौ
१, २५, १२; २, ११, १५^x;
बौश्रौः -स्मनः काश्रौ २५, ४,
१९; आपथौ १६, १२, १२;

बौश्रौः -स्मना आश्रौ ३, १०,
१४; १२, २२; काश्रौ ३, १९,
१५; काश्रौः आपथौ ७, २७,
४^f; बौश्रौ ४, १० : १३^f;
भाश्रौ ७, २२, १^f; हिश्रौ ४, ५,
४४^f; -स्मनि शश्रौ १३,
१२, ७; काश्रौ.
भस्त्र-करीष-कृष्ट-च्छाया-पथि-
काम्य-ⁱ म्येषु गौध ९, ४५.
भस्त्र-केश-तुष-कपाला (ल-अ)
मेव्य-ⁱ ध्यानि गौध ९, १६^f.
भस्त्र-जल-ⁱ लैः दैध २, १५, ४.
भस्त्र-तस् (<:) कप्र ३, ४, ११^f.
भस्त्र-तुषा(प-अ)धिष्ठान-ⁱ नम्
आपथ २, २०, ११; हिध २, ५,
९८.
भस्त्र-परिमाज्जन-> ०ज्जन-प्रदा-
हन-तक्षण-धावन-ⁱ नानि वाध
३, ४९.
भस्त्र-प्रवेशन-ⁱ नम् आपथौ
१६, १३, २; हिश्रौ ११, ५, १३.
भस्त्र-मिश्र-ⁱ श्रान् बौश्रौ १,
१० : ३; ५, ११ : १८; १२, ६;
९; बौश्र २, ८, ६; ३, १२, ७;
बौपि २, ९, ४; १७; ११, ६.
भस्त्र-मिश्रि(त<)>ता-ⁱ ताभिः
काध २७७ : ८.
भस्त्र-मुष्टि-ⁱ छी माश्रौ ६, १,
४, ३४; वाश्रौ २, १, ३, ३५.
भस्त्र-र^l-ⁱ राः बौश्रौ २४,
१४ : १.
भस्त्र-राजि-ⁱ ज्या आश्रौ ३,
१०, १५.

भस्त्र-राजि-ⁱ शिम् गौपि १,
६, २.
भस्त्र-शेष-ⁱ यम् अत्र ४०, ५,
५.
भस्त्र-न्यमारोपण-ⁱ णम् आपथिष्ठ
२, ७, ४ : १३; बौश्र ४, ९, १२;
१०, २.
भस्त्र-न्यात् वैश्र ५, १२ : १३;
पाग १, ४, ५७.
भस्त्र-स्तान-ⁱ नम्; -नेन अत्र
४०, ४, १.
भस्त्रा(स्म-अ)ङ्गार-ⁱ रान् गौपि
१, ५, १४.
भस्त्रा(स्म-अ)न्त-ⁱ न्ते आश्रौ
३, ११, २०; काश्रौ ८, ८, ११;
बौश्रौ ९, ११ : १३; वैश्रौ १३,
१३ : १२; द्राश्रौ ६, ३, १९;
लाश्रौ २, ११, १३; वैताश्रौ २३,
१३.
भस्त्रा(स्म-अ) स्थि-रोम-तुष-
कपाला(ल-अ)पस्तान^h-ⁱ नानि
बौध २, ३, ३७.
भस्त्रा(स्म-अ)स्थि(स्थि-अ)इमा-
(स्म-अ)ङ्गार-ⁱ राः अत्र ७२, १,
६.
भस्त्री√कृ, भस्त्रीकरोति या
७, २०; १४, ३३.
भस्त्री√भू, भस्त्रीभवति
वाध ६, ३२.
भस्त्री(स्म-उ)त्कर-ⁱ रम् आपथौ
९, ११, १९; हिश्रौ १५, ३, ३९.
भस्त्री(स्म-उ)दक-ⁱ केन शंघ
१६७.

a) = ऋषि-विशेष-। b) यञ् प्र. उत्सं. (पा ४, १, १०५)। c) या ५, १२ पा ६, ४, १०० परामृष्टः
द्र.। d) सकृत् गभस्ति इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. हिश्रौ. वैप १, २३२६ अ च)। e) घा. अनेन वृत्तिः।
f) तु. पागम.। g) = ओषधि-विशेष-। h) वैप १ द्र.। i) पापि. वैप १, २३२६ द्र.। j) °श-नख-तु°
इति श्रुत्. पाठः। k) भस्त्रनः इति जीसं.। l) सादश्ये रः प्र. उत्सं. (पा ५, २, १०७ [तु. सूची])।
m) द्रस.। अस्तान- = स्नानापागतजल-।

भस्मो(स्म-उ)द्वृत्^१-नस् काश्रौ
४, १५, ३३.

भस्मो(स्म-उ)द्वपन-नस् काश्रौ
१६, ६, १.

भस्मोद्वपना(न-आ)दि-दि
काश्रौ १६, ६, ३.

भस्मो(स्म-उ)द्वाप^२-पे काश्रौ
२५, २, २५.

भसद्^३-पाठ १, १३०; -सन् काय
३०, ६; वायु १६, २; -सदः
वाश्रौ ३, २, ५, ४९; -सदस्
आपश्रौ १, १९, ५; भाश्रौ १,
२१, ३; साश्रौ १, २, २, ८; २५;

वाश्रौ १, २, ४, ४२; हिश्रौ १, ५,
४४; काय ३०, ५; माय १, १४,
१७; -सदि साश्रौ १, ८, ३, १२;

वैश्रौ १०, १० : १७; हिश्रौ ४,
३, २५; गो २, २६.

भासद्^४-दात् आपमं १, १७,
४^५.

भसत्-तस् (:) आपश्रौ १०, ९, ३;
भाश्रौ १०, ५, १५; माश्रौ २, १,
२, ५; वैश्रौ १२, ८ : १०^६;

हिश्रौ १०, २, ६^७; आय ४,
८, ८.

भसद्-देश-शस् वाश्रौ १, ६, ४,
१९; माय १, २० : ८.

भस्त्र, स्त्रा-, भस्त्रक-, भस्त्रीय-,
भस्म-करीष^८ प्रस्., १भस्मन्-

√भस् द्र.
२भस्मन्^९- (> भास्मायन-

। > ^{१०}न्य- पा ५, ३, ११३। पा.)
पाग ४, १, ९८.

√भा^१ पाधा. अदा. पर. दीर्घा, भाति
वायुश्रौ ४, २६ : २६; अप १,
५०, ९; अशां १३, ५; वीथ ४,
८, २; विष ८, २८; या २, १४;

३, १०; भान्ति वृदे २, ६४; या
११, १५; ऋभाति आपश्रौ १५,
८, १२; वीश्रौ ९, ८ : १३; भाश्रौ
११, ८, १६; वैश्रौ १३, ९ : १३;

हिश्रौ २४, ३, ६; भाशि १२०;
अभात् वायुश्रौ ४, २६ : २८;
२९; ३१; ३२; ३५; ३८; मायुः
आश्रौ ११, ६, ४; भायाः^{११}

वायुश्रौ ४, ५० : ७.

२भ^{१२}- भाति कौय १, १७, ३; शांय
१, २५, ५; भेषु अप ५८^{१३}, ४, ४.

भ-ग्रह^{१४}- ऋहस् आभि २, ५,
३ : २१; वीय ३, ७, १६.

भ-प्रशा(स्त >)स्ता- स्ताम्
कौय २, ७, ८; शांय २, ११, ९.

भ-युज्^{१५}- युक् वेज्यो ३९.

भ-शेष- ष- वेज्यो २७.

भ-समूह- ह्येन वेज्यो २०.

भा(भ-अं)श- श्वाः वेज्यो १५.

भांशा(श-अ)ष्टक-स्थान-
-ने वेज्यो १९.

भा(भ-अ)दान- नस् वेज्यो
१७.

भादानि(क >)का^{१६}- काः
वेज्यो २१.

भा(भ-अ)र्व- र्धे वेज्यो २७.

भा^{१७}- भाभिः अप ५८^{१४}, १, ४.

भा-व(त >)ती^{१८}- ती अप
४८, ११०^{१५}.

भात्-> भान्ती- न्तीः सु२५, ५.
भात्- पाठ १, ७३.

१भात्^{१९}- पाठ ३, ३२; -ऋन्वे
आश्रौ ३, ७, ५; वैश्रौ १८, ५ :

१०; -ऋनुः आश्रौ ४, १५, २;
आपश्रौ १५, १७, ५^{२०}; वीश्रौ ९,
१७ : ३६^{२१}; भाश्रौ ११, १७,
५^{२२}; वायुश्रौ ३, ४७ : १; वैश्रौ

१८, १७ : ४६^{२३}; अप १, ११,
२; ४८, १११^{२४}; निघ १,
९^{२५};

-नुना आपमं २, ११,
२४^{२६}; शंथ ११५; ऋअ २, ५,
३७^{२७}; या १२, ७; -नुभिः

वैश्रौ १३, २० : ९^{२८}; -ऋनुम्
आश्रौ १, ११, ९; २, २, १४; ३,
१०, १५; ५, २०, ६; वाश्रौ ३,
३, ५^{२९}; वीश्रौ ३, ३० : १२; ८,
१५ : ६; १४, १५ : १५; आय

४, ६, ७; अप्राय १, ३; या १२,
७; -नोः शौच ३, ८७.

भानु-मत्- -मतः या १४, २५;
-मन्ति या १४, २५; -मान्
वैश्रौ २६, २९ : ६.

भानुमती^{३०}- ती शाश्रौ
११, १३, १५.

भानुमतिन्^{३१}- ती
शाश्रौ १४, ३६, १.

भानुमत्-तम- -मम् अप १,
९, ५.

भानु-शब्द- -ब्दे ऋप्रा ५, ४९.

भानू(नु-उ)पस्थिति- -तिम्
जैश्रौका १३२.

ऋभान्त- न्तः काश्रौ १७, १०, ८;

a) बस. । b) उप. = राशि- । c) वैप १ द्र. । d) पाभे. वैप १, २३२६ ऽ द्र. । e) व्यप. ।

f) पा, पावा ८, ४, ३४ परामृष्टः द्र. । g) पाठः ? भायात् इति शोधः (तु. प्रकरणम्) । h) = नक्षत्र- । कः प्र.
उसं. (पा ३, १, १३५) । i) उप. कर्तरि क्त । j) विप. (कला-) । मत्वर्थीयष् ठन् प्र. । k) भावे अङ् प्र. ।

l) = उपस्- । m) शोषार्थं वैप १, १७९४ द्र द्र. । n) = अहन- । o) पाभे. वैप १, १२७३ ० द्र. ।

p) = ऋच्- (ऋ ४, १३, २) ।

बौश्रौ १०, ४२:३; माश्रौ ६, २, १, २३; वाश्रौ २, २, १, १७.	भोग्र- -त्रेण मसू ३७, ६९ ^० .	क्रोधे, ऋभामने अत्र ४८, १८; निघ २, १२.
भूमाम ^१ - पाठ १, १४०९; -मः अत्र ४८, १८; निघ २, १३; -माय अत्र १८, ४; -मेन वाश्रौ १, ५, १, ९.	भाङ्ग- प्रसू. भङ्ग- द्र.	भामण्य ^१ - -ण्यः बौश्रौ १७: १६.
भूमामित ^१ - -तः भाग ३, १२: २२ ^b ; त्रैप्रा १२, ८ ^० .	भाङ्गाश्विन ^d - -नः बौश्रौ १८, १३:३.	भामित ^१ ; भामिन- √भा द्र.
भामिन ^१ - -मिनः या १४, २५ ^१ .	भाङ्गिक-; भाङ्गिन- भङ्ग- द्र.	भायजात्य- भयजात- द्र.
भांश- √भा द्र.	√भाञ् पाधा. चुरा. उभ. वृथक्कर्मणि.	भायिन् ^२ - -यी अत्र ४८, १५ ^१ .
भा-कृजीक- √भाम् द्र.	भाञ्-; भाज- √भञ् द्र.	भार-; भारक- √भृ द्र.
भाक्-; -क्तिक-; -क्तेयक- √भञ् द्र.	भाजक पाग १, १, ३७.	भारङ्गि ^१ ; ङ्गी ^१ - (> ङ्गि, ङ्गी [क >]। का-; -की- पा.) पाग ४, २, ११६.
भाक्ष- √भक्ष > भक्षा- द्र.	भाजन- √भञ् द्र.	भारण-; भारत- √भृ द्र.
भाक्षालक- भक्षाली- द्र.	रभाजन- पा, पाग २, ४, ६७; ४, १, १०४.	भारती ^१ - -ती अत्र ४८, १०२ ^१ ; वृदे ३, १३; निघ २, ११ ^१ ; या ८, १३ ^१ ; -तीम वृदे ५, १०१; -कृत्यै ^१ अत्रश्रौ १२, ४, ६; वैश्रौ १५, ४: ६; हिश्रौ ८, १, ५०.
भाक्षस्थलक- भक्षस्थली- द्र.	भाडित-; -तायन-; -त्य- भडित- द्र.	भारती-वत्- -वत्ते माश्रौ २, ३, २, २ ^१ .
भाक्षि- रभक्ष- द्र.	भाडिलायन- भडिल- द्र.	भारती-; -तेय-; भारद्वाज- √भृ द्र.
भभाग- भग द्र.	भभाण्ड- रभण्ड- द्र.	भारम- (> भैय-) भरम- द्र.
रभाग- प्रसू. √भञ् द्र.	रभाण्ड- रभण्ड- द्र.	भाराम ^१ - -राः शंघ ११६: १७.
भागन्ति ^d - -न्तयः बौश्रौ ६: ४; २७: २.	रेभारड l, ण्डल ^१]- (> भाण्डी [, ण्डली]- पा.) पाग ४, १, ४१.	भाराम-; -रिन्- प्रसू. √भृ द्र.
भागलक-; -लि- भगल- द्र.	भाण्ड-लेप- प्रसू. रभण्ड- द्र.	भारिष्टकि ^d - -कयः बौश्रौ ३१: ६.
भागवत-; -वती- भग- द्र.	भाण्डव- भण्डु- द्र.	भारजिक- भरज- द्र.
भागिक-; १, २ भागिन्-; भागिनी- √भञ् द्र.	भाण्डागार ^० , √भाण्डि रभण्ड- द्र.	भारण्ड-; भारण्डेय- भरण्ड- द्र.
भागिनेय-; -यी- भागिनी- द्र.	भाण्डि- (> भाण्डि-शाला- पा.) पाग ६, २, ८६.	भारण्य ^d - -ण्यः बौश्रौ २०: ३.
भागी- भग- द्र.	भाण्डिकायन- भण्डिक- द्र.	भार्गव- प्रसू. भृगु- द्र.
भागुरि ^d - -रयः बौश्रौ ४१: १५; -रिः बौश्रौ ४३: ५; वृदे ३, १००; ५, ४०; ६, ८६; -रिस् जैमू १, १४: ९.	भाण्डित-; -तायन-; -त्य- भण्डित- द्र.	भार्गव-; -गी- √भृज् (दीप्ति) द्र.
भागुरित्थि ^d - -त्थयः बौश्रौ ६: ४.	भाण्डिलायन- भण्डिल- द्र.	भार्तिक- √भृ द्र.
भागुरित्थायन- -नाः बौश्रौ ४७: ४.	भातु- √भा द्र.	भार्ज्य- १ भर्तृ- द्र.
१-३भाग्य- भग- द्र.	भात- (> -त्र-) भ्रातृ- टि. द्र.	भार्थ- √भा द्र.
४भाग्य- √भञ् द्र.	भादान-; -निका- √भा द्र.	भार्थश्व- √भृम् द्र.
	भाद्रपद-; -दी-; भाद्रमातुर- प्रसू. √भद्र द्र.	भार्थी- √भृ द्र.
	१भानु- √भा द्र.	भार्थ्य- १ भृष- द्र.
	२भानु ^d - -नोः चात्र १६: ६.	
	भान्त- √भा द्र.	
	भान्द्यश्व- भन्द्यश्व- द्र.	
	√भाम् पाधा. भ्वा. आत्म, चुरा. उभ.	

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १, २३२८ a द्र. । c) पाभे. वैप १, २३२८ b द्र. । d) ऋषि-विशेष- ।
e) पाठः? भासेन इति शोधः (तु. ससू ३५, ३८) । f) पक्षान्तरे पाठः । g) यज्ञ-नामन्- । h) सस्य. निघ ३,
१७ नार्थः इति पाभे. (तु. नाथी इति मूको.) । i) तु. पागम. । j) तारङ्गि- इत्यन्ये (तु. पागम.) ।
k) सपा. भार्त्यै <> भारतीवते इति पाभे. । l) = अप्सरो-विशेष- ।

भालकायनि^a- निः वीश्रौप्र ४४:२.
 भालगक- भलग- द्र.
 भालन्दन-^०नक- भलगन्दन- द्र.
 भालु- पाउवृ १, ५.
 भालुक्थ-^०न्याः वीश्रौप्र ४८:७.
 भाल्ल- भल्ल- द्र.
 भाल्लकीय- भल्लकीय- द्र.
 भाल्लपालेय- भल्लपाल- द्र.
 भाल्लवि-^०विक-^०विन्-^१, २भाल्ल-
 वेय- भल्लवि- द्र.
 भाल्लेय- भल्ल- द्र.
 भाव- √भू द्र.
 भाव(त् >)ती- √भा द्र.
 भावत्क- १भवत्- द्र.
 भावन-^०ना- पृथु. √भू द्र.
 भावयव्य-^०न्यम् ऋअ २, १, १२६;
 -व्यस्य वृदे ३, १५५; या ९,
 १०; -व्यात् वृदे ३, १५०;
 -व्याय वृदे ३, १५६^३; -व्ये
 शाश्रौ १६, १, ५.
 भावयव्य- रोम (श >)शा-
 -शयोः ऋअ २, १, १२६.
 भावयव्य-सुत-^०तः वृदे ३, १४३.
 भावयित्वा भावित- √भू द्र.
 भावित्र- पाउ ४, १७१.
 श्भाविन्^b- व्री शुप्रा १, ४६; ४,
 ४७; -विभ्यः शुप्रा ३, ५६.
 भाव्यु(वि-उ)प(धा >)ष^c-^०घः
 शुप्रा १, ४६; ३, २२; ४, ३५;
 -घम् शुप्रा ७, ९.
 २भाविन्- √भू द्र.
 श्भावुक- पाउभो २, २, २६.
 २भावुक- √भू द्र.
 श्भाव्य^d-^०न्यस्य वृदे ३, १४०.

२भाव्य- √भू द्र.
 √भाप्^e पाधा. भ्वा. आत्म. व्य-
 क्तायां वाचि, भापते वाधूश्रौ
 ४, ३० : २२; भापन्ते वाधूश्रौ
 ४, ३० : २१; या २, २; अभा-
 षत विध १, ४८; ६३; वृदे ५,
 १२७; भाषेत वाधूश्रौ २, १७ :
 १; ४, ३० : २२; गोयु १, ४,
 २; ६, १७; जैयुः भाषेरन् द्राश्रौ
 ७, ३, १२; लाश्रौ ३, ३, १४.
 बभाषे विध ९९, ७; वृदे ५,
 ३२.
 भाष्यते अप ४७, १, २०; २,
 १; या २, २; ३; ६, ३०; ३१;
 याशि २, ४; भाष्यन्ते या २, २^३.
 भाषमा(रा >)णा-^०णा या ५, २.
 भाषा^f-^०घाम् आपध २, ३, २;
 द्विध २, १, ३३; -घायाम् या
 १, ४; ५^३; ऋत ३, ४, ६; ४,
 ७, ८; पा ३, २, १०८; ४, १,
 ६२xx; पावा २, ३, ६९; ३,
 २, १०८xx.
 भाषा-स्वरो(र^g-उ)पदेश-^०शेषु
 मीसू १२, ३, २०^h.
 भाषिकⁱ-^०कः भासू १, ४;
 -कम् शायु ६, २, १३; -कस्य
 मीसू १२, ३, २१; -काः या
 २, २; -के भासू १, १७; -केभ्यः
 या २, २.
 भाषिक-श्रुति-^०तिः मीसू
 १२, ३, २१.
 भाषिक-स्वर-^०रः काश्रौ
 १, ८, १७.
 भाषण-^०गम् अप ६४, ३, ४.

भाषित-^०तः कप्र ३, ७, ६; -तम्
 अप ६४, ३, ४; विध १००, १;
 अप्रा २, ३, २८; याशि २, ११७;
 -तानि अप ६४, ५, १०; -तेन
 अप २३, १४, १.
 भाषित-पुंस्क^०-^०स्कम् पा ७,
 १, ७४; -स्कात् पा ६, ३, ३४.
 भाषितपुंस्क-विज्ञान-^०नात्
 पावा ७, १, ७४.
 भाषितपुंस्का(स्क-अ)नुप-
 पत्ति-^०त्तिः पावा ६, ३, ३३.
 भाषित्वा वैयु ५, १ : ४.
 २भाव्य^१-^०व्येषु शुप्रा १, १९.
 श्भाष्य- ३भष- द्र.
 √भास्^e पाधा. भ्वा. आत्म. दीप्तौ.
 भास्^k-^०पा ३, २, १७७; भांसि
 या ५, २७; ऋभाः आश्रौ ४,
 ६, ३; शाश्रौ; या ६, १२xx;
 भासः या ५, २८; १२,
 ७; भासम् या २, १३; १४^३;
 ५, १९; भासा आपश्रौ ५, २,
 ४^३; या २, १३; १४^३; ४, १६;
 ६, १७^३; भासाघ् या २, १४^३;
 ३, १६; ऋभासे काश्रौ १७, ५,
 १०; आपश्रौ; भासोः या ७,
 २३.
 ऋभा-ऋजीक^d-^०कः निघ ४,
 ३; या ६, ४.
 भास-ऋ^d-^०पा ३, २, २१;
 पाग ८, ३, ४८; -रः वीश्रौप्र
 ६ : २^a; अप १, ५०, ९; ६१,
 १, १७; ६४, २, ३; अशां १३,
 ५; वाध ११, ३६; या ६, २६;
 -रम् आपश्रित २, ४, ११ : १४;

a) = ऋषि-विशेष- । b) = [अकराउय-] स्वर-संज्ञा- । c) बस- । d) वैप १ द्र- । e) पा ७, ४,
 ३ परामृष्टः द्र- । f) भाप- । g) = भाषिक-स्वर- । h) श्देशे इति जीसं- । i) विप-
 ([भाषा-प्रसिद्ध-] धातु- [या २, २]), नाप- (ब्राह्मण-स्वर-) । तत्रविदितेऽर्थे ऋ प्र- उसं- (पा ५, १, ४३) ।
 j) = विश्लेषण-प्रत्यय- । k) भावाद्यर्थे क्तिप् प्र- ।

जैगृ २, ९ : १४; अप ५२, ४, १; -रा: अप २२, ७, ३; -राय अप १२, १, १; -रे अप ५३, ४, ४; ५, ३.

भास्करा(र-अ)ङ्गारक- -कौ आमिगृ २, ५, १ : ९; जैगृ २, ९ : ४.

भास्करे(र-इ)न्दु-द्वय- -यम् अप ६४, ६, ६.

भास्-वत्- -वतः भाश्रौ ५, ११, ७; ६, ४, ९; ५, ९; वाश्रौ १, ५, ४, २७; ३५; हिश्रौ ६, ७, २; -वति या २, ६.

भास्वती^a- -ती अप ४८, ११०^b; निघ १, ८^b; या ९, २६; -ती: पागृ ३, ३, ५^c; -तीम् काश्रौ ४, १४, १३; वैयाश्रौ ७, ९; अप ४५, १, १८; -त्यः निघ १, १३^c.

भास^d- -से अप ७२, १, ६.

भासन- -नम् या १, २०.

भासनो(न-उ)पसंभाषा-ज्ञान-यत्न-विमत्यु(ति-उ)पमन्त्रण- -णेषु पा १, ३, ४७.

भासन्त- पाउ ३, १२८.

भासमान- -नः या ६, २५; ३२.

भासयत्- -यन् वृदे २, ६२.

भासयन्त- पाउभो २, २, १३८.

भासुर- पा ३, २, १६१.

भास्वर- पा ३, २, १७५; -०२ विघ ९८, ४२.

रभास^e- -सः बौश्रौ १६, १४ : १७; -सम् आश्रौ ८, ६, २१; वाघ २८, १३; शंघ १०५; -से लाश्रौ ६,

१२, ५; -मेन लाश्रौ ७, ५, १२.

भास-निधन- -ने लाश्रौ ७, ६, १९.

भास-वैरूप- -पयोः लाश्रौ ६, १२, ५.

रेभास^f- -स्यस्य अप ७०^g, ३, ४.

भासद्- भसद्- इ.

भास्कर- √भास् द्र.

भास्त्रायण-(> णक- पा.) पाग ४, २, ८०.

भास्मायन- -न्य- रभस्नन्- इ.

भि^h वैश्रौ २१, २ : ७.

√भिष्ⁱ पावा भ्वा. आत्म. भिक्षायाम्

अलोभे लोभे च, भिक्षने भाश्रौ १०, १२, ४; कौगृ २, ३ १३;

शोगृ २, ६, ४; वौगृ २, ५, ४८;

भागृ १, १० : १; २; वौघ १, २,

५७^j; भिक्षस्व वगृ २, ५,

४७^k; भिक्षेन आगृ १, २२, ४;

६; पागृ २, ५, २; ७, ६; आमिगृ

१, १, ४ : १८^l; वौगृ २, ५, ४९;

हिगृ १, ७, १३^m; जैगृ १, १२:

५४ⁿ; आपघ १, ३ २८; वौघ

१, २, १८; ५७^o; २, ६, २४; विघ

२६, ५; हिघ १, १, १०३;

भिक्षेत् आमिगृ २, ४, ४ : ८;

शंघ १४२; वौघ ३, ७, १०.

भिक्ष-(> √ भिक्ष्य पा) पाग ३, १, २७.

भिक्षण- -णम् आपघ २, १०, ३;

हिघ २, ४, ३; -णे आपघ २,

१०, १; हिघ २, ४, १.

भिक्षमाण- -णः आपघ १, ३, २५;

हिघ १, १, १००; -णेषु वौघ

२, ३, १९; गौघ ५, २३.

भिक्षा- पाग ४, २, ३८; ३, ७३;

-क्षवा जैगृ २, ५ : १८; -क्षा

आपघ १, ४, १४; १९, ७; हिघ

१, २, ७१; ५, १०९; -क्षाम्

वौश्रौ १७, ३९ : २८; आगृ;

-क्षायाम् आपघ १, ७, १४;

हिघ १, २, ७१.

भैक्ष- पा ४, २, २८; ३, ७३;

-क्षम् कौगृ २, ३, १६; शोगृ;

-क्षस्य कागृ १, ३२; कौसू ५७,

२९; वौघ १, २, ५७^p; -क्षात्

आपघ १, ३, ४२; हिघ १, १,

१११; -क्षाय वौश्रौ २६, ९ :

१४; गौघ २२, ३; -क्षेण^q विघ

२८, ५०; ५४, १३; १५; -क्षैः

कौगृ २, ६, ३^r.

भैक्ष-चर- -राः वाघ ३,

४.

भैक्ष-चरण- -णम् कागृ

१, ३०; जैगृ १, १८ : २; विघ^s

२७, २५; २८, ९^t; ५२; वैघ १,

३, ३; ९, ७; गौघ २, ४२.

भैक्ष-चर्या- -र्या वाघ

२०, १८; शंघ ३७२; ४४३;

वौघ २, १, ४७; १०, ४२; -र्याम्

वौघ २, १०, ४५.

भैक्ष-पात्र- -त्रम् वैगृ २,

८ : २.

भैक्ष-भक्ष- -क्षः जैगृ २,

८ : २२.

भैक्ष-सुज- -सुक् अप

३६, २०, १; विघ ५३, ९^u.

भैक्ष-लब्ध- -ब्धे वाघ

१९, ३७.

a) वैप १ द्र. b) =उषम्. c) नदी-नामन्. d) भाप. e) =पक्षि-विशेष. f) पाठः ?

हि इति शोघः (तु. सपा. बौश्रौ २८, ९ : २१)। सप्र. शौ ७, १०५, १ विघे. g) पावा १, ४, ५१ परामृष्टः द्र.।

h) सपा. भिक्षस्व <> भिक्षेत् इति पाठे. i) भैक्ष्येग इति जीसं. j) पाठे. पृ १८३७ ० द्र.। k) 'क्ष्य'

इति जीसं. l) 'क्ष्या' इति जीसं.।

भैक्षाक्ष-आ)चरण-
-णम् कौशु^२ २,३,१८; ७, २१;
आप्तिगृ २, ७, १ : १३; वैध १,
२,९.
भैक्षाचरणा(ग-ञ)-
न्त^१-न्तम् कौशु २,३,९.
भैक्षा(क्ष-आ)चर्य- -र्यम्
वौशु २,५,४५५.
भैक्षाचर्य-वृत्ति^१-
-त्तिः वागृ ६,२०.
भैक्षा(क्ष-आ)चार्य-
वृत्ति^१- -त्तिः वागृ १,४^०; मागृ
१,१,२^०.
भैक्षा(क्ष-ञ)ञ- -ञम्
वैध १,२,९.
भैक्षा(क्ष-ञ)भ्यवहरण-
-णम् विध २८,१०^०.
भैक्षा(क्ष-आ)शिन्- -शी
आप्तिगृ २, ७, ११ : १४; सुधप
८५ : ५.
भैक्षा(क्ष-आ)हार^१- -रः
वौशु २,५,७२; अप ३६,२२,१;
वैध ४,५,२७; सुव ५६.
भैक्ष्य^१- -क्ष्यम् शंघ ४०३.
भैक्ष्य-चर्य- -र्यम् वागृ
५,२८.
भैक्ष्य वृत्ति^१- -त्तिः वागृ
६,१५.
भिक्षा-काल- -काल वैध ३,
७,४.
भिक्षा(क्ष-ञ)प्र- -ग्रम् वैध ३,
७,६.
भिक्षा-ग्रहण- -णम् पावा ३,२,
१६.
भिक्षा-चर- पा ३,२,१७.

भिक्षा-चरण- -णम् शांगृ २,६,
८,१२,६.
भिक्षाचरण-स्वाध्याय-
लोप- -पे वौशु ४, ११,१.
भिक्षा-चर्य- -र्यम् हिथौ १०,
३,२; आपमं २, ६, १४^१; पागृ
३, १२, ८; आप्तिगृ १, १, ४ :
१७^१; ३०; मागृ १,९; ९^१; ३;
४ : १५; हिगृ १,७, १२; ८,२;
आपध १, ३, २५; हिध १,१,
१०; -र्ये आपध १, २६, ११;
हिध १,७,२२.
भिक्षाचर्य-चरण- -णम् पागृ
२,५,१.
भिक्षा-चर्या- -र्या पागृ २,५,
११.
भिक्षा-दान- -नम् गौध ५,१९.
भिक्षा(क्ष-आ)दि- -दिगृ पावा
३,१,२६; ४,२,३८.
भिक्षा(क्ष-ञ)ञ^१- -ञः वैध २,
१२,६.
भिक्षा-पात्र- -त्रम् वैध २,५,
८,६,२; ८,३; ३,६,९; ८,२.
भिक्षा-बलि-परिश्रान्त- -न्तः
वौध २, १०, १६.
भिक्षा-म(ध्व) > ध्या^१- -ध्याम्
वौध १, २, १७.
भिक्षा (क्षा-ञ) र्थ- -र्थम्
विध ९६,२.
२भिक्षा(क्षा-ञ)र्थ- > र्थिन्-
-र्थी वाध १६, ३३; शंघ ३८७;
वौध २,१०,६४; गौध ३, १४.
भिक्षा (क्षा-ञ)शिन्^१- -शी
वैध २, ८, ७.
भिक्षा (क्षा-आ) श्रम- -मम्

वैध २, ७, ४.
भिक्षा(क्षा-आ)हार^१- -रः सुध
५३.
भिक्षाक- पा ३,२, १५५.
भिक्षित- -न्तम् शंघ १४२; विध
५९,१०.
भिक्षित(व्य) > च्या- -व्याम् वौध
१,२,५७.
भिक्षितुम् वैध ३, ७, ५.
भिक्षित्वा कौशु २, ६, २; शांगृ.
भिक्षु- पा ३,२,१६८; पाग ५,४,
२९^१; -क्ष्वे विध ५९, १४;
-क्षुः वौध २, १०, १७; विध
५२,२७; वैध; ऋञ २, १०,
११७^१; -क्षुन् वैध १, ४, २;
-क्षोः वैध २,९, ७; ३,९,१;
भिक्षु-क- पा ५, ४, २९; पाग
२,२, ३८; ४,१, ४१^१; २,४५;
-कः वौध २, १०, १६; -कम्
विध ५९, १८; ८१, १८; ९६,
५; -काः वाध ८, १६; वैध १,
९,१; -कान् पागृ २, ९, १२;
-कैः वाध २१, ३३.
भिक्षुकी- पा ४,१, ४१.
भिक्षुक- पा ४,२,४५.
भिक्षु-नट-सूत्र- -त्रयोः पा ४,
३,११०.
भिक्षु-वत् वैध २, ५, ८; ३, ५,
१३
भिक्ष्व(क्षु-ञ)भाव- -वे विध
५९,१६.
√भिद्^१ पाधा. रूधा. उभ. विदारणे,
भिद्यात् अप १९,१,१३.
भिनत्ति भाश्रौ २, १०, ८; वैश्रौ
७,४ : ९; कौशु; या ११, २४;

a) सपा. भैक्षा <> भिक्षा इति पाठे. । b) बस. । c) परस्परं पाठे. । d) द्वस. > बस. (तु. भाष्यम्) । e) 'क्ष्या' इति जीवं. । f) स्वार्थे ष्यञ् प्र. उस्. (पावा ५, १, १२४) । g) मलो. कस. । h) = वानप्रस्थ-भेद । i) तु. पागम. । j) = ऋषि-विशेष- । k) पा ३, २, ६१ परामृष्टः द्र. ।

भिन्दन्ति कौम् ८६, १५; काद्य
 ७, ३१; या ५, ५१; भिनदमि
 कौम् २२, २४१; शैशि २५३;
 भिन्धि शार्थौ १२, १, ४१; वौश्रौ;
 वृदे ७, १४९; ऋमिन्त् वौश्रौ
 १०, ५९: १०; आमिष्ट २, ५,
 ११: २०; अप्राय ६, २; अमि-
 नत् वौश्रौ १८, ३१: १९; आपमं
 २, ११, २६१, वृदे ७, १५०;
 या ७, २३; ऋषा २, ४४१;
 अमिनः वौश्रौ १६, २५: ४१;
 भिन्धात् वौश्रौ २५, ३४: ५;
 माश्रौ ३, ५, ६; द्विश्रौ १५, २, ६;
 द्विष्ट ५, २७.
 ऋभिभेद आश्रौ ६, ३, १; शार्थौ;
 ऋभिभुः द्विश्रौ ९, ५, ३७;
 वैताश्रौ २४, १; वृदे ६, ६४;
 भेत्स्यति कौम् ११६, ७१;
 ऋभित्याः काश्रौ १६, ४, ३१;
 आपश्रौ १६, ९, ४; वौश्रौ.
 भिद्यते^a वौश्रौ ३, १५:
 १४; ९, ४: २४××; वैश्रौ;
 भिद्यन्ते वैश्रौ १७, १०: ९;
 भिद्यताम् आश्रौ ३, १४, १२;
 काश्रौ २५, ५, २९; आपश्रौ;
 भिद्यत काश्रौ २५, २, २५;
 आपश्रौ; माष्ट २, १५, ५^b.
 ऋभेदि आपश्रौ १६, ५, ३; ११;
 वौश्रौ.
 विभेद > ऋ(द-आ)दि- दिषु
 दंवि २, १०.
 भित्त- न्तम् पा ८, २, ५९.
 भित्ति^c- पावाग ३, ३, १०८; -त्ति:
 वैश्रौ ११, ८: १२; -त्तिम्
 काश्रौ ८, ३, २१.

भित्तिका- पाठ ३, १४७.
 भित्त्वा काश्रौ १७, ७, ३०; आपश्रौ;
 भिद्- भिदा जैश्रौका १४२.
 भिदा- पाग, पागवा ३, ३, १०४.
 भिदि- पाठ ४, १४३.
 भिदिर- पाठ १, ५१.
 भिदु- पाठ १, २३.
 भिदुर- पा ३, २, १६२.
 भिद्य- वा ३, १, ११५.
 भिद्यमा(न >)ना- ना मु ३, २.
 भिद्- पाठ २, १३.
 भिन्द^d- न्दः या ६, ३२.
 ऋभिन्दन् - न्दन् आश्रौ १७,
 १८, १; या ३, २०; -न्दन्:
 शुपा ३, १२९.
 भिन्दान- नाः आष्ट ३, १०,
 १११^e.
 भिन्दु^f- न्दवः वाधूश्रौ ३, ३७:
 ३; -ऋन्तुः आश्रौ ७, ८, ३; शार्थौ
 १२, २६, २१; आपश्रौ १३, २०,
 ११६; गौपि २, ४, ७; -न्दूनाम्
 द्विश्रौ ९, ५, ३९१^g.
 भिन्दि > ऋन्दि- लव (ण >)णा-
 पाग २, १, ७२.
 भिन्न, न्ना- न्तः या ९, १२; -न्तम्
 आश्रौ ३, ११, ६; १४, १०; शार्थौ
 १३, १२, १३; काश्रौ २५, ५,
 २९; वैश्रौ २०, २८: ३; शांष्ट ५,
 ८, ३; ४; आमिष्ट २, ७, ९: १२;
 माष्ट ३, १८: १६; वेज्यो २७;
 -न्तया विध ६३, ४७; -न्ना
 अप २२, ३, २; २३, ३, ५; नाशि
 २, ६, ७; -न्नाः अप ६८, १,
 ४२; ७०^h, १६, ३; -न्नानाम् अप
 ७०, १, २; -न्नाम् वाश्रौ २, १,

६, ३; द्विश्रौ ११, ५, २०; वौश्रु
 ७: १; -न्नाम् वौश्रौ २२, २: ५;
 -न्ने वौश्रौ २०, २३: २४××;
 वैश्रौ २०, २६: ८; आमिष्ट;
 -न्नेन गो १, २; या १४, ६;
 -न्नेषु वौश्रौ २९, १: ३.
 भिन्न-कर्णⁱ- पा ६, ३, ११५.
 भिन्न-कार्पाण- -गम् वाध
 १९, ३७.
 ऋभिन्न-काल- -लेषु आपश्रौ
 २४, १, ४३.
 ऋभिन्न-काल^j- -लस्य शांष्ट १,
 ३, ९.
 भिन्न-कृ(ष्ण >)ष्णा- -ष्णसोः
 काश्रौ १६, ७, २७.
 भिन्न-छिन्न-मल-वल्मीक-केश-
 कपाला(ल-आ)स्थि-तुषा(व-आ)
 ज्जारो(र-उ)षरे(र-ई)रिण-पाषा-
 ण-वृक्षमूलो(ल-उ)देश^k-
 -नान् वैष्ट ५, ३: ५.
 भिन्न-तन्त्र^l- -न्त्राः काश्रौ १५,
 १, २; १९, ६, १; -न्त्रान् काश्रौ
 २०, २, ६.
 भिन्न-ता- -ता कौशि ६०.
 भिन्न-देव(ता >)त्^m- -तान्
 वैश्रौ १७, १०: ७; -तानाम्
 वैश्रौ १७, १०: ११; १२; १६:
 ७; १८: ५; ६.
 भिन्न-देश- शेषु पावा १, १, ९.
 भिन्न-द्रव्य-हुत- -न्तम् अप
 २३, ७, ३.
 भिन्न-पात्र- -त्रेण वैध २, १४,
 १५.
 भिन्न-पात्र-भोजिन्- -जी वैध
 ३, १५, ११.

a) कर्मणि कर्मकर्तारि च रूपम् । b) भिद्यते इति पाठः ? यनि शोधः (तु. Knauer.) । c) = कुडय- ।
 d) कर्तारि शः प्र. उत्सं. (पा ३, २, १३८) । e) पाभे. वैष १ विद्वान्नाः शौ ६, ३२, ३ टि. द्र. । f) वैष १ द्र. ।
 g) वैष १, २३३०० द्र. । h) वच. । i) द्रस. > कस. ।

भिन्न-भाजन- -ने विध ६८,
२०.

भिन्नभाजन-भिन्नभाण्ड-

भक्त^१ - -कानाम् सुध २६.

भिन्न-योनि^१ - -निः वौश्रौ २९,
१२ : १९.

भिन्न-विवाह- -हम् वौश्रौप्र १ : ६.

भिन्न-साधन^१ - -नाः अप ६९,
१, २.

भिन्न-सिक्त- -क्तानि आश्रौ ३,
१०, २१.

भिन्न-स्वर^१ - -रम् अप ३, २, ४;
-रे अप ३, ३, १.

भिन्ना(ल-अ)न्त^१ - -न्तम्
आपश्रौ १८, ८, १९; वाश्रौ ३, ३,
१, ८.

भिन्ना(ल-आ)सन-गत- -तः
विध ६८, १८.

भिन्नो(ल-उ)दात्ता (त्त-अ)नुदा-
त्त-क- -कौ याशि १, ८६.

मेत्तवै काश्रौ १८, २, ५.

फंभेत् - -त्ता शाश्रौ ८, १७, १; बौश्रु
३, ५, ११; -त्तारम् वौश्रौ ३, ९ :
१०; भाश्रौ ६, ३, ३; बौश्रु १, ४,
११.

भेद- पाग ५, १, ६४; -दः काश्रौ
१, ७, ४; अप; -दम् बौध २, ६,
११; -दाः अप ६८, ५, १६;
बौश्रु ५ : १८; चव्यू २ : १;
२; ४ : १; दंवि २, १०; -दात्
काश्रौ २०, ३, १७; -दात् अप
५८^२, २, ३; बौध २, ६, ३०;
बौश्रु ५ : १८; -दे काश्रौ ७,

९, ११××; वौश्रौ २८, ११ : ५;
माश्रौ ३, १, २४; वैगु ६ १ : १८;
वृदे १, ४३; पावा ८, १, ५१;
-देन काश्रौ ८, ८, १०; २२, ३,
२१; २५, ३, २६; ५, ३; -दौ
या ९, २१.

भैदिक- पा ५, १, ६४.

भेद-काम- -साः आश्रौ २, ११,
१३.

भेद-योजन- -नयोः अप ४८,
१७.

भेद-व्यपदेश- -शात् मीसू १०,
६, ३४^६.

भेदा(द-अ)मिघात- -तः आज्यो
८, ४.

भेदा(द-अ)र्थ- -र्थम् मीसू ६, ४,
१५.

भेदन- -न्तम् काश्रौ १८, २, ६; २५,
१२, २७; या ११, ३७; -नात्
या १, १४; -ने अप ५१, २, ४;
५, ५.

√भिन्द् पाथा. भ्वा. पर. अत्रयवे.

भिन्द- , ँन्त- √भिद् द्र.

भिन्दव^१ - -वाः बौश्रौप्र २५ : २.

भिन्दान- , ँन्दु- प्रभृ. √भिद् द्र.

भिल्ल- पाठभो २, २, २४३; -ल्लम्
या १, २०.

भिल्ल- पाठभो २, ३, ९२.

भिल्लिभायन^१ - -नाः बौश्रौप्र २४ : २.

भिल्लु(क>)का^१ - -का (१काम^१)
हिश्रौ १६, ६, ३९; ४०.

शमिषज्^१ - पाठ १, १३८; पाग ३,
१, २७; -फंषक् आपश्रौ १६,

११, ११^३; वैश्रौ १८, ९ : १२;
१० : १; ३; हिश्रौ; या ६, ५;

-षजः फंआपश्रौ ८, ७, २५;
१६, ११, ११^३; वौश्रौ; वृदे ७,
१५४; -फंषजा आपश्रौ १४,
२९, १; कौश्रु १, १०, ६; शांश्रु १,
१६, ७; शुप्रा ४, ३१; -फंषजाम्^१
अप १, ४१, ७; अशां ११, ७;
-षजौ वौश्रौ १४, २६ : १४.

भेषज^१ - पाठश्रु १, १३८; -फंषजम्
आश्रौ १, ११, १३; १०, ७,
३५^१; ९, २^३; शाश्रौ ३, १९,
३; १६, २, ९५^१××; काश्रौ;
आपश्रौ ३, ११, २^३क; वौश्रौ १,
२१ : १२^३क; भाश्रौ ३, १०, २^३क;
वाश्रौ १, ३, ७, २०^३क; हिश्रौ २, ६,
१^३क; कौश्रु १, ५, २९^३क; आमिगृ
१, ५, २ : १५^३क; कौसू ५,
१३^३क; ११७, ३^१; ४^३; अप्राय
२, २^१; अप ४८, ६४^३म;
७५^३म; ६७, ७, ३^१; ६९, ४,
३५; वाध २६, १८५; शंघ ४५;
वोघ ४, ६, ७५; फंनिघ १, १२^३म;
३, ६^३म; या १०, ३५^१; आज्यो
१०, ४५; -फंषजस्य आमिगृ १,
१, १ : ५१; ५, २ : २; बौश्रु १,
३, ३३; भागृ १, ५ : ८; वागृ
१, २३; हिश्रु १, २, १८; अप १,
८, ५५; -फंषजा आपश्रौ ८, ८, ७;
२१, २२, १; हिश्रौ १४, ४, ५७;
या १०, ७; -जानाम् अप १८^२,
५, २१; -फंषजन बौश्रौ २७, ६ :
६; वैश्रौ २०, ३० : ५.

a) उप. = १भक्त-। b) वस.। c) उप. = वस्त्र-प्रान्त-। d) व्यपदेशात् इति कासं.। e) = ऋषि-
विशेष-। f) = गीति-विशेष-। g) पाठः ? यति. शोधः (तु. सपा. आपश्रौ २१, २०, १; २ हिल्लुकाम् इति पाठे.।।
h) वैप १ द्र.। i) पाठः ? शमिषजाम् अस्य > षजौ अस्य इति वा शेषजस्य इति वा संस्कृतः टि.। j) = (भेषज-
प्रतिपादक-] मन्त्र- वा ब्राह्मण- वेति भाष्यम्। k) पाठे. वैप १, २३३१ ङ द्र.। l) पाठे. वैप १,
२३३२ ङ द्र.। m) = सुख-। n) = उदक-।

भेषजी- पा ४, १,
३०.
१ भेषज^१- ज्ञे अत्र ७०,
१२, १.
१ भेषज्य^२- पा ५, ८, २३;
-ज्यः अप ३२, १, २४^०; -ज्यम्
कौस् २५, २; अप १, १०, ८;
३३, १, ९^०; ६, २९; वृदे ८,
६४; अत्र ७, ४५; आज्यो १०,
३; -ज्यानाम् कौस् ३२, २६;
-ज्यानि कौस् २५, १; या १०,
७; ३५; -ज्याय वैताश्रौ ३८,
१; -ऋज्येन^३ आपश्रौ १२, ९,
१३; हिश्रौ २३, १, ५०; ऋश्र
२, ४०७.
भेषज्य-नाग- -गस्य
अत्रभू १.
भेषज्या(ज्य-अ)मि-
चार- -रयोः काश्रौ १५, ७, ३४.
भेषज्या(ज्य-आ)युर-
धन्वन्तरि-देवत- -तम् अत्र २,
३.
भेषज्या(ज्य-आ)युर-
वनस्पति-देवता-> ^४थ्य-
-न्यम् अत्र २, ७.
भेषज्या(ज्य-आ)
युष्य- -न्यम् अत्र ८, ७.
भेषज्या(ज्य-आ)
युस- -युः अत्रभू १; अत्र ६,
१०९.
भेषज्या(ज्य-अ)र्थ-
-थे बौध २, १, २५.

भेषज-करण- -गम् बौध २,
१, ४४.
भेषज वनस्पति- -तिम्
आमिष्ट १, ६, ३ : ३.
भेषजा(ज-अ)र्थ- -र्थम् वाध
२३, ९; वृदे ७, ९१.
भेष(ज>)जा-वत्- -वान
ऋप्रा ९, १११.
भिषक्-कर्मन्- -र्म अप १, १०, ८.
भिषक्-काम^५- -मः अप १, ४५, ३.
भिषक्-क्रिया- -यावाम् मुधप
८३ : २.
भिषक्-तम- -मः काश्रौसं ३६ :
१२.
भिषग्-व(त् >)वी- -तीभिः
आपश्रौ १६, ११, ११; वाश्रौ २,
१, २, ३२, वैश्रौ १८, १० : ३.
✓ भिषज्य पा ३, १, २७; भिष-
ज्यन्ति शाश्रौ १६, १३, ३;
भिषज्यथः ऋप्रा ४, ९३१;
भिषज्यतु आपश्रौ १४, २०, ७१;
भिषज्यत आपश्रौ १४, २०, ७१;
वाधूश्रौ ४, ७९ : ३; अभिषज्यन्
वाधूश्रौ ४, ७९ : ४; १०३ : २;
आमिष्ट ३, ७, ३ : १९; वौपि २,
२, १.
रभिषज् [L, ज]^६- पाग ४, १, १०५;
२, १११; -षक् ऋप्रा २, १०,
९०; शुभ्र २, १२७; -षजः
चात्र १६ : १८.
रभेषज्य- पा ४, १, १०५.
रभेषज- पा ४, २, १११.

१ भिषज्^७- पाग ३, १, २७.
✓ भिषज्^८ अभोष्णात् आपश्रौ
१२, २, १९१.
✓ भिषज्य पा ३, १, २७.
रभिषज्^९ (> भैःगज्य- L > ^{१०}ज-
पा.) पाग ४, १, १०५; २, १११.
✓ भी^१ पाधा. जु. पर. भये, भयन्ते ऋप्रा
७, ४५१; भयामसि^{११} हिष्ट १,
१६, १७१; ऋभयामहे आपश्रौ
७, ४, ४; शाश्रौ.
विभेति वाधूश्रौ २, ८ : २; सु
१६, ५; वाध २७, ६; या १४,
२६; विभीतः माष्ट १, २, १३;
दंवि १, ४१; विभ्यति वाधूश्रौ
३, १९ : १७; या १, २०; १०,
११; विभेषि सु १४, ४; विभेमि
वाधूश्रौ ३, ९ : १; ५; ९; १४;
आष्ट ३, ११, ११; ऋविभीत^{१२}
आश्रौ २, ५, १७; काश्रौ ४,
१२, २१; आपश्रौ ६, २७, ३;
वैश्रौ २, १० : १८; हिश्रौ ६,
७, ८; दाश्रौ ७, ३, १; लाश्रौ
३, ३, १; कौष्ट ३, ४, ५;
शांष्ट ३, ७, २; भाष्ट १, २७ : २;
हिष्ट १, २९, १; विभीतन हिश्रौ
६, ७, ८१^{१३}; भाष्ट; विभेतन काष्ट
२७, ३१^{१४}; विभ्यत कौष्ट ३, ४,
५^{१५}; ऋविभेत् बौश्रौ २, १७ :
९; भाशि १०३; अविभीताम्
या १०, १०; अविभयुः वाधूश्रौ
४, ४८ : ५; विभीयात् आपश्रौ
३, १५, ७; १८, ९, १४; बौश्रौ;

a) स्तार्थे अण प्र. । b) वैप १ द्र. । c) = गण-विशेष- । d) पाभे. वैप १, २३३३ ० द्र. ।

e) पूष. = भेषज- । f) पाका. पाठः । g) = ऋषि-विशेष- । h) क्विबन्तः नाधा. द्र. । i) पाभे. वैप १,
२३३४ १ द्र. । j) ऋप्रा १४, ४४ पा १, ३, ६८; ४, २५; ३, १, ३९; ६, १, ५६; १९२; ४, ११५, ७, ३, ४० परामृष्टः द्र. ।
k) पाठः ? अजामसि इति संस्कृतुः टि. (तु. Böht LZDMG ५२, ८४.) । सप्र. बौष्ट ४, २, ११ माष्ट २, ३१ : १३
दिशाम्यहम् इति पाभे. । l) पाभे. वैप १, २३३४ h द्र. । m) सकृत् पाभे. वैप १ वैपध्वम् मा ३, ४१ टि. द्र.,
अन्यत्र पाठः ? मा ३, ४१ विभ्रतः इति पाभे. ।

या ३, १६१; विभीषाः शांत्
३, ८, ५१.
‡विभय आश्रौ २, १३, ७; या
१०, ११६; १४, २६; विभ्यतुः या
८, १५१; विभय>या ऋषा ७,
३३१; †भेषोः^१ आपसं २, १६,
१४; गोष्ट ४, ९, १५; द्राष्ट ४,
४, १; †भेषोः^२ माश्रौ १, ३, २,
१२; २, ३, ३, ८; †भेषोः^३ काश्रौ २,
५, २४; ९, ४, १३; आपश्रौ
२, १८, ९; १२, १०, २; वौश्रौ १,
५ : ३; १२; १६ : १२; भाश्रौ
२, १७, ९; वैश्रौ ६, ८ : २;
१५, ११ : १७; हिश्रौ २, २, २१;
८, ३, ८; छुअ १, ४२९; अमैषम
ऋषा १४, ४४१; †भेम शाश्रौ
१२, ३, २२; साअ २, १५५.
‡विभः^४ माष्ट १, २, १३१.
विभयां/कृ, विभयांचकार
वायूश्रौ ४, ३७ : ३.
विभीवस्->विभ्युषी- षी या
११, ४७.
विभ्यत्- भ्यत् माश्रौ ५, २, ७,
१; माष्ट २, १६, १; वृदे ४, ८९;
-‡भ्यतः आपसं २, २२, १२;
भाष्ट २, ३० : ११; हिष्ट १, १६,
५; -‡भ्यन्तः आपध २, १३, ६;
बौध २, २, ३५; हिध २, ३, ६.
‡भय^५- पावा ३, ५६; -यः^६
अप ७०^३, ११, २३; -यम्
‡आश्रौ ४, ४, २; ६, ४,
१०; शाश्रौ; अप १९, १, ८१;
या ६, १२, ९, १९; १०, २१, २४;
-यात् †शाश्रौ २, १४, २-४; १५,

२; ४; ५; आष्ट; -यानाम् या
४, २१; -यानि वायूश्रौ २, ८ :
१; अप ७०^३, ११, ८; १८; २०;
-वाय कौस् ५६, १३१; अप;
-ये आपश्रौ १४, ३२, ५; हिश्रौ
१५, ८, ३१; भाष्ट ३, १४;
२११; कौस्; गौध २३, २०१;
-येत् अप ५१, १, ५; पा २, १,
३७; -येभ्यः कौष्ट ४, १, ४;
विध ५०, २०; -यैः अप ४,
६, २; ६९, ७, १.
भय-कर- रम् अा ६४, ७, ७.
भय-कारुण्य-हान^७- नम् वाध
१९ २.
भय-कृत्- -कृत् अप ७१, १७, ९.
भय-कर- पा ३, २, ४३; -रः
या ६, २५.
भय-द^८- -दः या ६, ३२.
भय-पीडित- -ताः अप ५५,
३, २.
भय-प्रतीक^९- -काः या १०, २१.
भय-भीत- -तेन अप ४, १,
२२; ६८, ५, १८.
भय-वित्र(स्त>)स्ता- -स्ताः
सु ४, २.
भय-वेपन- -नयोः या ३, २१.
भय-हेतु- -तुः पा १, ४, २५.
रभ(य>)या- -या सु २४, २;
-याम् सु २४, ३.
भया(य-आ)गम- -मः अप
५८^२, ४, १६.
भया(य-आ)ब्ध्या(ब्ध-आ)दि-
ग्रहण- -गम् पावा १, १, ७२.
भया(य-आ)तु(र>)रा- -राः

सु ४, ३.
भया(य-अ)न्वित- -ताः अप
७०^३, १५, ३.
भया(य-अ)भय- -यम् अप
५०, १, २.
भया(य-आ)र्त्त, र्त्ता- -र्त्तः कौष्ट
४, १, १; -र्त्तस्य अशा १७, ५;
-र्त्तं सु २, २; काष्ट ५६, १;
माष्ट २, १७, १.
भया(य-आ)वह, हा- -हः अप
२९, २, ४; -हम् अप ६४, ९, ६;
७१, १६, ५; -हा अप ५८^३,
३, ५; -हाः अप ९, ४, १; -हान्
अप ७०^३, ७, ३.
भये(य-ए)डक^{१०}- -कः आपश्रौ
१५, १९, ४; वौश्रौ ९, १८ : १३;
भाश्रौ ११, १९, १३; हिष्ट १,
१७, १.
भयो(य-उ)द्विधा- -न्ना वृदे ८,
३५.
भयमान- -नः या ६, २१.
भयानक- पाउ ३, ८२; पाग ३,
४, ७४.
भय्य- पा ६, १, ८३.
भय्या(द्य-आ)दि-प्रकरण- -णे
पावा ६, १, ८२.
भी^{११}- भियः या ५, २८; भीः आपश्रौ
१७, १४, ४; वैश्रौ; या ९, ३०१.
‡भीत, ता- -तः आपश्रौ १३,
७, ४; माश्रौ ३, ५, ९-१२;
हिश्रौ; या ४, २; १०, ११;
-त्तम् याशि १, २ ८; नाशि १,
३, ११; -ता माश्रौ ३, २, ११;
अप्राय २, ४१; वैशि १६५;

a) पाभे. वैप १, २३३४ i द्र. । b) पाभे. वैप १, २३३४ i द्र. । c) पाठः ? विभेः इति शोधः
(तु. संस्कृतः टि.) । d) वैप १ द्र. । e) अर्धचंद्रित्वं द्र. । f) उत्तरेण संघिरार्षः । g) अभये इति पाठः ?
(तु. भाष्यम्) । h) द्रस. > षस. । i) जप. < √ दा [दाने] । j) वस. । k) नाप. ([जाङ्गल-] मेष-) ।
मलो. कस. पररूपम् (पावा ६, १, ९३) ।

पाशि; -ता: सु २४, १; ताशि
२, ८, २६.

भीत-मत्तो(न-उ)न्मत्त-ग्रमत्त-
त्रिमनाह-स्त्री-वाल-वृद्ध-ब्राह्मण-
-णः बौध १, १०, ११.

भीना (न-अ) वगीत-रुदिता (त-
आ)कन्दिता(न-अ)वयुष्ट-क्षुधित-
परिभुक्त-विस्मितो (त-उ) न्मत्ता
(न-अ) वधूत-राजपुरोहिता (त-
अ) च-चानि शंघ २२९.

भीम,मा^a- पाउ १, १४८; पा^b, पाग
५, ३, १००^c; पाग ३, ४, ७४;

-०म विध १, ५१; -[†]मः
आश्रौ २, १०, १४; ६, ३, १; शांश्रौ

३, १, ३; १५, २५, १; आपश्रौ;
या १, २०[†]××; -[†]मम्

आमिष्ट २, ६, ३; १६; बौध २,
५, २०; -[†]मस्य आमिष्ट २,

५, ८; २४; २९; ६, ३; २०;
२३; बौध; -[†]मा वाश्रौ २,

१, ८, १; अत्र १२, ५(३); -माः
पाग २, १७, १६[†]; -मानाम्

विध ४३, ३७; -[†]माय आपमं
२, १८, २०; आय.

भीम-पराक्रम^d- -मे आज्यो ३,
५; -मौ वृदे ४, ६७.

भीम-बल^d- -लः सु २७, १.
भीम-रूप^d- -पा: अप ५२, १३,
१.

भीम-से(ता >)न^e- -नम् शांश्रौ
१६, ९, ३.

भैमसेति^f- -ने: चात्र
७: २.

भीमसेना(न-अ)र्जुन[†]- पाग
२, २, ३१.

भीमा(म-अ)र्जुन[†]- पाग २, ४,
१८.

भीरु- पा ३, २, १७४; -रु: माग
२, १४, २९[†]; -रुव: वैग १, १८:

११[†]; -रुणाम् विध ९, २९.
भैरव^h- -वम् अप ७०[†], ६, ४

भीरु-ता- -ता बौश्रौ २, ५, ८[†].
भीरु-घान- पा ८, ३, ८१; पाग
८, ३, ९८[†].

भीरु-क- पाउ २, ३१; पावा ३, २,
१७४.

भीषण- -ण: अप ७०[†], ३, ३; -णा:
अप ५३, १, ४; -णाय अप ३६,
९, १५[†].

भीषयमाण- -ण: सु २३, २.
भीष्म- पाउ १, १४८; पाग ३, ४,
७४; -ष्म: या १, २०.

भीष्म-द्रोण[†]- पाग २, २, ३१[†].
भीषीस[†]- भीषा आश्रौ ३, ११, १;
शांश्रौ. ३, २०, २; १३, २, २-६;
आपश्रौ.

रभीत[†]- (> भैतायनि- पा.) पाग
४, १, १५४.

†भुक्, ग[†] आश्रौ ८, ३, २२; शांश्रौ १२,
२३, २; वैताश्रौ ३२, २३; वृदे
१, ५५.

भुग्न- ✓भुजू (कौटिल्ये) द्र.
✓भुजू(बधा.) पाधा. रुधा. उम. पालना-
भ्यवहारयोः, भोजते निघ २,
१२[†]।

भुजे(म >)मा ऋप्रा ८, २८[†].

भुङ्क्ते कठश्रौ १३०; १५०;
१५२; आमिष्ट; †भुनक्ति वाध
२, ११; बौध २, ३, १८; या २,
४; भुङ्क्ते आपश्रौ ५, २०, ३;
६, १२; ३[†]; बौश्रौ; सुजन्ति

विध ८१, २०; †भुनक्नु आपश्रौ
१, १४, १२; भाश्रौ १, ११,
१; वैग १, १४: २; †भुङ्क्ताम्

आमिष्ट ३, ११, १: १४; वैग
५, १३: २२; †भुङ्क्त्वा आमिष्ट
३, ११, २: १४; ३: १८;

वैग ७, ७: ४; भुङ्क्ती आपश्रौ
१५, २०, १३; १४; काठश्रौ;
भुङ्क्तीयाताम् कौग १, १०,
१४[†]; गोय १, ५, २७; ६, ४;

द्राग; भुङ्क्तीरु आपश्रौ १०, १५,
१६; भाश्रौ १०, ९, ६; वैश्रौ.
भोक्ष्यते वाध १४, ९; भोक्ष्यामि
कौग ३, १२, १६.

†भुक्षिषीय आपश्रौ १०, १, ४;
१३, १६, ८[†]; बौश्रौ; हिश्रौ १०,
५, १२[†]; अभुक्षमहि पावा ३, २,
१११.

भुज्यते †आमिष्ट ३, ११, १:
१४; २: १४; आपध २, ४, २३;
१८, ९[†]; बौध.

†भोक्ष्यताम् वैग ७, ८: २.
भोजयति हिश्रौ २, ७, ६३; ३, ८,
८६[†]××; वैग; भोजयन्ति काग
५२, ८; गोय २, १०, ६; भोजय
पावा २, ४, ३२; भोजयत बौग
१, २, ५८; भाग २, २५: २; हिग
१, १३, १५; भोजयेत् आश्रौ ३,

a) वैप १ द्र. । b) <भीम-क- । c) = कुन्तीपुत्र- (तु. पागम.) । d) वस. । e) व्यप. ।
वस. । f) तु. पागम. । g) पामे. वैप १, २३३६ I द्र. । h) भावे अण् प्र. उस्. (पा ५, १, १२०) ।
i) व्यप. । j) धा. क्रोधे वृत्तिः । k) सह भुङ्क्तीयाताम् इति पाठस्य स्थाने सप्र. शंग १, १७, १ संविब्याताम्
इति पामे. । l) पामे. वैप १, २३१७ i द्र. । m) सप्र. हिघ २, ५, ६१ भोज्यते इति पामे. । n) पाठः ३
= भुङ्क्त्वा इति C. ।

१४, १; काश्रौ ४, ६, ११; २३,
४, २३; आपश्रौ; भोजयेयुः हिध
२, १, ७३^६.
भोज्यते हिध २, ५, ६१^७.
बुभुक्षमाण- -णः वाश्रौ १, ५, ५, १;
गौध २४, ३.
बुभुक्षा- पाग ४, ४, ६२; ५, २, ३६.
बौभुक्ष- पा ४, ४, ६२.
बुभुक्षा-पिपासा-गर्ध- -धेषु पा
७, ४, ३४.
बुभुक्षा-मार^८- -रम् अप ७२,
४, ५.
बुभुक्षित- पा ५, २, ३६; -तः
सु १८, १; -ताय या ७, १३.
भुक्त, क्ता- -क्तम् आमिष्ट १, ७, ३ :
२, २, ६, २ : ६†; ३, १२, १ : ५;
वैगु; वैध १, ७, ६^९; हिध १, ३,
५२^{१०}; पा ५, २, ८५; -क्ता विध
५, १८७; -क्ताः वाध २८, ५; या
१४, ६†; -क्ते माश्रौ १, १, १,
११; वैगु ६, ५ : २; १९ : ७;
विध ५९, १८; -क्तेन वाध ६,
२९; -क्तेः अप ७०^२, ७, १.
भुक्त-भोग^१- -ग्म् आमिष्ट ३,
८, १ : ७; बौधि १, १४ : ७;
-भेन आमिष्ट ३, ८, २ : ४८;
बौधि १, १५ : ५५; हिधि १५ :
२३; २५.
भुक्त-यज्ञ- -ज्ञः बौश्रौ २८, ११;
१४.
भुक्त-विभुक्त- पावा २, १, ६०.
भुक्ता(क्त-आ)धि^६- -धिः गौध
१२, २९.

भुक्ता(क्त-अ)नुभुक्त-दशवर्ष^{११}-
-र्वम् वाध १६, १७.
भुक्तवत्- -वतः आमिष्ट २, ३, ३ :
२३; ३, १, २ : २२; आपगु;
-वताम् विध ८१, २१; -वति
विध ९६, ६; -वत्सु आगु ४, ७,
२८; कौगु ३, १४, ५; शांगु ४, १,
९; बौगु; विध २१, ४×४; -वद्भ्यः
आमिष्ट २, ४, ५ : २६; बौगु १,
२, ६१; आपध २, १८, १०; बौध;
-वन्तम् आश्रौ ८, १४, ६; वैगु
२, ५ : १०; -वान् सु १५, ५;
बौगु १, १, २४; वाध ४, ३१;
३२.
भुक्तवती- -तीम् बौगु १, १,
२४.
भुक्ति- -क्तिः हिश्रौ १६, ७, १८^{११};
वाध १६, १०; विध ५, १८४;
-क्तिम्^१ आपश्रौ १०, १, ४;
बौश्रौ; -क्त्या विध ५, १८६.
भुक्ति-दिन- -नेषु वेज्यो २६.
भुक्त्या(क्ति-आ)चार- -रेण विध
५, १८६.
भुक्त्वा काश्रौ २५, ८, १५; आपश्रौ.
भुक्त्वा-सुहित- पाग २, १, ७२.
भुज्^{१२}- भुजः आश्रौ ७, ४, ३;
शाश्रौ; §वाध ११, ३७; १२, २३;
भुजम् आपश्रौ १२, ७, १०; २१,
२२, ६; हिश्रौ ८, २, ९; १६, ७,
१८; भुजे आपश्रौ १६, ६, ६;
माश्रौ ६, १, २, २५; वाश्रौ.
भुजि- पाठ ४, १४२.
भुजिभ्य- पाठ ४, १७९.

भौजिभ्य^१- -भ्यम् सु १९, १.
भुज्यमान- -नः बौध २, ७, २०.
भुज्यु^{१३}- पाठ ३, २१; -भ्युः^{१४}
आमिष्ट १, ५, २ : ४३; वैगु १,
१८ : ४; -भ्युम् वृदे ७,
१०६†^{१५}.
भुज्या(ज्यु-आ)दि- -दीनाम्
पावा ७, १, १.
भुज्जत्- -ज्जतः जैगु २, १ : ३१;
अप ४२, २, ७; -ज्जन् शाश्रौ
१८, २०, ८.
भुज्जती- -ती द्राश्रौ ४, ३, २१;
लाश्रौ २, ७, १९; कौसू ६२, २१.
भुज्जान, ना- -नः वैश्रौ १, १६ : ३;
आमिष्ट; -नम् शंध २५४;
आपध १, १६, ३३; हिध १, ५,
३३; -ना वाध १७, ५५; २१,
६; -नाः आपध २, १७, २१;
२२; हिध २, ५, ४९; -नान्
आमिष्ट ३, ३, २ : २०^३; ११, ३ :
१९; कागु; -ने आमिष्ट ३, ११,
२ : १४; या ९, ३६; -नेषु कौगु
३, १४, ४; शांगु ४, १, ८;
आपध १, १७, ३; हिध १, ५,
३५; -नौ आमिष्ट १, ६, ३ :
४४.
भोक्तव्य, व्या- -व्यम् आपश्रौ ५,
२५, १५; आमिष्ट २, ६, ७ : १६;
वाध १४, १७; शंध; -व्या
आपध १, १९, ७; हिध १, ५,
१०९.
भोक्तुम् अप २०, ७, ११; आज्यो
५, १२.

a) सपा. आपध २, ४, २० पूजयेयुः इति पाभे. b) पाभे. पृ १८५९ m द्र.। c) विप. (जानपद-)।
बस. उप = मरण-। d) पृ १६०९ m द्र.। e) पाठः ? शुक्लम् इति शोधः (तु. आपध १, १०, २५ शूक्लम्
इति पाभे.)। f) बस.। g) कस. उप. = निक्षेप-। h) उभयत्र सुष्ठुपीयः समासः (तु. मनुः ८, १४८)।
i) पाठः ? मुक्तिम् इति शोधः। j) पाभे. वैप २, ३ खं. मुक्तिम् तां १, १, १ टि. द्र.। k) वैप १ द्र.।
l) = दास्य-। व्यञ्ज्.। m) वैप १, २३३८० द्र.। n) व्यप.।

भोक्तृ- क्ता बौघ २, ११, ६६;
 कप्र २, ३, ६; वाध; -क्तुः गौषि
 २, ४, २; शंघ २२७; गौघ १२,
 ३४.
 भोक्ष्यत्- -क्ष्यन् वैघ ६, १७: ८;
 १८: ४.
 भोक्ष्यमाण- -णः आपध १, १६,
 ९; हिघ १, ५, ८; -णाः शांश्रौ
 १८, २४, १४.
 भोक्तृ- पाग ६, १, १५६; -गः
 शांश्रौ १८, २०, ८; वाधूश्रौ;
 -गम् आगृ ४, ८, २६१; अप १,
 ४४, ८; ६८, १, ५४; या ६, ८१;
 -गः शांश्रौ १५, १७, ११; या
 ४, १९; ५, ५; ८, ५; -गात्
 द्राश्रौ ५, ४, २५; लाश्रौ २, ८,
 २५; -गात् आपध १, २८, ७;
 ऋप; -गाय शांश्रौ १८, २०, ८;
 आश्रौ; -गेन विघ ५, १८५;
 -गैः या १०, २१.
 भोग-क्लाम- -मः गौघ ४, ५, २८;
 द्राघ ४, १, १३.
 भोग-प्रत्यय- -ययोः पा ८, २,
 ५८.
 भोग-लाम- -भेन लाश्रौ ८, ६,
 १.
 भोग-वर्धन^b- -नम् अप १, ४३,
 ९; ४५, ७.
 भोगो(ग-उ)त्तरपद- -दात् पा
 ५, १, ९.
 भोग्य^a- -ग्यः अश्र १०, ११;
 -न्यम् वाधूश्रौ ४, २९: १४;
 ५९^c: ४; -ग्याय वाश्रौ २, १,
 १, ५२^c.
 भोज^c- -जस्य वृदे १, ४८; ६,
 ४२; या ७, ३^c; -जाः वृदे

४, ९८; ८, २३.
 भोजक- -कः विघ ५, ११५.
 भोजन^a- -नम् आपश्रौ ६, २२, ११;
 १०, ६, १०; हिश्रौ; हिघ १,
 ७, १४^c; निघ २, १०^c; -नस्य
 कप्र ३, १०, १०; मीसू ९, १, ६;
 -नात् गौघ १६, ४३; -नानि
 वौश्रौ २८, २: ४५^c; वौघ १, ३,
 ३; या ४, ५^c; ऋया ७, २७^c;
 -नाय सु १३, ४; वौघ २, ११,
 ६४; -ने आपश्रौ २२, ६, १७;
 हिश्रौ; पा ८, ३, ६९; -नेउ-ने
 श्वाग्नि २, ६, ७: ३४; -नेषु
 वौश्रौ २८, १३: ४; वौघ १,
 ११, २७; -नैः विघ ५१, ७७.
 भोजन-तन्निवृत्ति- -त्योः पावा
 ३, १, २१^e.
 भोजन-भक्षण- -णे काश्रौ ८, ४,
 २३.
 भोजन-वत् मीसू १०, ५, ५५.
 भोजन-विलम्बित- -न्वी माशि
 १५, ८; याशि २, १०२; नाशि
 २, ८, २४.
 भोजन-संवेदान- -ने द्राश्रौ ७,
 ३, ९; लाश्रौ ३, ३, ११.
 भोजन-समय- -ये विघ ७१,
 २५.
 भोजन-स्थान- -नेषु बौषि २,
 ९, ११; भाघ ३, १६: ३.
 भोजन-हविष्- -वीषि कौसू
 ५२, १६; ५८, २४.
 भोजना(न-अ)चमन- -नयोः
 बौघ २, ३, ५९.
 भोजना(न-अ)च्छादन- -ने जैघ
 १, १७: ४.
 भोजनाच्छादन-तत्पर- -रस्य

वाध २०, २०.
 भोजना(न-अ)नायिन- -यिनः
 विघ ५, ९५.
 भोजना(न-अ)दि- -दिवृ पावा
 ५, १, १९; -दौ वाध ६, ३४.
 भोजना(न-अ)ध्ययने(न-ई)
 प्सु- -प्सुः विघ २२, ७५.
 भोजना(न-अ)न्त- -न्ते आग्नि २,
 ४, ५: २५; शंघ १४७.
 भोजना(न-अ)भयञ्जन- -नात्
 वाध २, ३०; वौघ २, १, ५२.
 भोजना(न-अ)र्थ-त्व- -त्वान्
 मीसू ९, ४, ३०.
 भोजनीय,या- -न्यम् हिघ २, ५,
 ७५; -नीयाः आपश्रौ ९, ३, १२;
 भाश्रौ ९, ५, २; हिश्रौ १५, १,
 ६०; वाध २, ११; या २, ४.
 भोजनीय-मृत^f- -ते वाश्रौ
 २३, ४, २२.
 भोजयितव्य- -व्यः आपध २, १७,
 ५; हिघ २, ५, ३४.
 भोजयित्वा काश्रौ २५, ८, १; लाश्रौ.
 भोज्य,ज्या^g- -ज्यम् वैश्रौ ११, ११:
 १२; आग्नि २, ३, ३: १७; कप्र
 २, ३, ६; शंघ १८३; ४६०;
 वौघ १, ५, ५५; वैघ २, १५,
 २; पा ७, ३, ६९; -ज्यस्य
 अप्राय ३, १०; -ज्याः शंघ २८;
 १२०; -ज्यानि अप ७०^c, १६,
 ५; -ज्याम् वाध १४, १६;
 आपध १, १९, १३; हिघ १, ५,
 ११५; -ज्ये आपध २, ५, ५.
 भोज्या(ज्य-अ)न्न,न्न^h- -न्नाः
 विघ ५७, १६; तुघप ८४: ३;
 गौघ १७, ६.
 भोज्यान्न-न्ता- -न्ता बौघ २

a) वैप १ द्र. । b) उप. कर्त्तरि कृत् । c) पामे. पृ २२ ० द्र. । d) =धन- । e) तु. पाति. ।
 भोजने, तन्निवृत्तौ इति प्राक्. । f) =अजीर्ण-मृत- इति कर्कविवाधरौ । g) बस. ।

१,२१.

भोज्या(ज्य-अ)भोज्य- -ज्यम्
वाध १४,१.

√मुञ्ज पाधा. तुदा. पर. कौटिल्ये.

मुञ्ज^१- -अम ऋप्रा २,३१.

मुञ्ज^२- पा ७,३,६१; -जौ वैष्ट १,
२: ११;२०.

मुञ्ज-ना- -गम् शंघ ४२६.

मुञ्ज(ग-इ)न्द्र-राजो- -जौ

सु २८, १.

मुञ्ज-ना- -जौ: दिघ ४३,३४.

मुञ्जंगा(ग-अ)भोग-वेष्टित-

-ता: विघ ४३,४३.

२भोग^१- -गा: वाधूश्रौ ४, ६४^२:

३; ५; -गान् सु ८, ३; -^१गै:

आपश्रौ २०, १६, १२; वाधूश्रौ

४, ६४^२:२; हिश्रौ १४, ३, ३७;

आयु ३, १२, ११; काय ४२, १;

या ९, १५.

भोग-वत्- -वन्त: सु ९, १०.

मुञ्जि- प्रथ. √मुञ्ज द्र.

मुञ्जायन^१- -ना: बौश्रौ प्र ४: ३.

√मुण्ड^१ पाधा. भ्वा. आत्म. भरयो.

√मुर् (वधा.)^१ > मुरण- पाठभो

२,२,१२६; पाग ३,१,२७.

√मुरण्य पा ३, १, २७;

मुरण्यति निघ २, १४^१.

†मुरण्यत्- -ण्यन्तम् या

१२, २२^१; २३-२५.

†मुरण्यु^१- -ण्यु: अप ४८,

१०६; निघ २, १५; या १२, २२^१; १६;

-ण्युम् बौश्रौ १०, ३४: ९.

भूमि^१- पाठ ४, ५२; -^१णिय:

आपश्रौ १६, १८, ७; वैश्रौ १८,

१६: ४; हिश्रौ ११, ६, २९;

अप्रा ३, ४, १; -^१णिम् आपश्रौ

५, १०, ४; माश्रौ १, ५, २, १४;

वाश्रौ १, ४, २, ५; हिश्रौ ३, ३,

३६; या ६, २४.

भुरिज्(वप्रा.)^१ - पाठ २, ७२; -रिक्

शांश्रौ ७, २७, २८^१; अज् १,

३, १५; १७××; ऋप्रा^१ १६,

१८; २०××; उनिस्^१ २: ४;

४: २२; -रिज: निस् १, ६;

३××; वृदे ८, १०७^१; अज् २,

२४; ३, २१××; -रिजो: शांश्रौ

१२, १५, ११^१; -रिजौ अप ४८,

८१^१; अज् २, २४; ३५××;

निघ २, ४^१.

भुरिक्-त्रिष्टुभ्- -दुभ: अज् १०,

३; १४, २.

भुरिक्-सास्रय(त्री-अ)लुष्टुभ्-

-दुभौ अज् १२, ५ (५).

भुरिक्-स्वराज्- -राजौ उनिस् ५:

२३.

भुरिग्-अतिशति- -तय: अज् १३,

३.

भुरिग्-जगती- -त्यौ अज् ५, २४.

भुरिग्-बृहती- -त्य: अज् १९, १९.

भुरिग्-विष(म>)सा- -मा: अज्

२, १९.

भुलिङ्ग- पाठभो २, ३, ६४.

भुव- √भू द्र.

भुवंग^१- -गयो: वैष्ट ३, ७: १९; -गात्

वैष्ट ३, १६: १०; १३.

भुवत्- भुवन- √भू द्र.

भुवनु- पाठभो २, १, ७९.

भुवन्यु- पाठ ३, ५१.

भौवग्यव^१- -वम् आपश्रौ २०, ६,

७; हिश्रौ १४, २, १५; १८; -वे

हिश्रौ १४, २, १६.

भुवस्, भुविस्- √भू द्र.

√भू(वधा.)^१ पाधा. भ्वा. पर. सत्ता-

याम्, चुरा. आत्म. प्रातौ, भवते

अप ५१, ५, १; २; नाशि २, ५,

७; भवति आश्रौ २, १७, ५; ९,

८, ३^१; शांश्रौ; वैश्रौ १८, १६:

४१^१; हिष्ट १, १६, ११^१; बौध

३, ८, १०^१; या १४, २९^१; पावा

१, १, ४४; २, १; भवत: आश्रौ

८, ६, १०; शांश्रौ; आपर्म

१, ६, ८^१; भवन्ति आश्रौ

१, ५, २; शांश्रौ; आश्रिष्ट ३,

५, ८: ११^१; ६, ४: ८^१;

वैध १, ९, १४^१; या ७, २३;

पावा ३, २, १२३; ५, १, ११९;

†भवति आश्रौ १०, ९, २;

शांश्रौ १६, ६, १; आपश्रौ ९,

८, ६; बौश्रौ; भवय: या ३,

१५; †भवय आपश्रौ १०,

१७, ११^१; बौश्रौ; आश्रिष्ट

३, ७, १: २२^१; या ११, १६;

†भवामि बौश्रौ ४, ११:

१०; माश्रौ; भवाम: आपश्रौ

५, १, ७^१; †भवति आपश्रौ

२, २०, ६; आपर्म २, ११, २९;

a) = संघि-विशेष- । b) = बाहु- । घा. ऋथै: ? । c) वैप १ द्र. । d) = ऋषि-विशेष- । e) तु.

BPG. । f) धा. गतौ वृत्ति: । g) विशेष: टि. द्र. । h) = छन्दस्- । i) वैप १, २३४० । f द्र. । j) = बाहु- ।

k) = देहली- इति भाष्यम् । l) = आख्यान- । तस्येदमीय: अण् प्र. । m) पा ३, २, १७९; ५, ४, ५०; ७, ४, ७३;

८, ४, ३४ पावा ३, १, १२; ४० परामृष्ट: द्र. । n) पाभे. वैप १, २३४० । k द्र. । o) पाठ: ? भवन्ति इति शोध:

(द्र. पृ ७७० d) । p) पृ १७९८ j द्र. । q) पाभे. वैप १, २३४० । l द्र. । r) पाठ: ? भवति इति शोध:

(तु. बौपि १, ७: १३; १३: ८) । s) आद्रियन्ते इति सूत्रे. । t) पाभे. वैप १, २३४० d द्र. ।

बौपि १,८ : ५; ऋभवास्ति आश्रौ
 ४, १०, ५; आपश्रौ; या ९,
 ४; भवताम् आपमं २, १९, १४^०-
 १६^०; आश्र २, ६, ७; आश्रिण्ट
 २, १, ५ : ६^b; ३, १, ३ : २४;
 २८; ३२; माश्र २, १२ : १२;
 १७; १३ : ४; हिण्ट २, १३,
 १^३; ऋभवतु माश्रौ ६, १, ५, २२;
 हिश्रौ; ऋभवताम् आश्रौ ८, १४,
 १८; ऋभवन्तु आश्रौ २, १६, १४;
 शाश्रौ; आपश्रौ ४, १५, ४^०; ७,
 १६, ७^d; भाश्रौ ४, २१, २^d;
 वैताश्रौ १४, १^०; माश्र २, १,
 १३^f; हिण्ट २, ५, ३^d; ऋभव,
 वा आश्रौ १, ४, ८; २, ९, १०^०;
 १२, २^३; ५, ६, २६^h; ८, १४,
 १८^h; शाश्रौ ३, ५, ९^३; ४, ८,
 १६^x; काश्रौ; आपश्रौ ८, १२,
 ४^१; लाश्रौ ५, ३, २^३; वैताश्रौ
 १९, १८^h; आपमं १, १,
 ४^६; ३, १४^{२m}; ५, १^h; ६, ६^{३०};
 २, २, २^h; ७^३; १५, १८^६; आश्र
 १, ७, ७^h; १९^{३m}; २, ३, ६^q;
 शाश्र १, ७, ९^६; १३, १^०; १२^h;

१४, ६^m; २, १३, ५^१; ३, ४, २^६;
 ८, ३^६; पाश्र १, ४, १६^६; ७,
 १^h; माश्र १, १०, ६^६; २२,
 १२^h; हिण्ट १, ४, १^h; १६,
 १८^q; २४, ५^१; २५, १^३; कौसू
 ६८, ३१^१; ७६, २४^m; ऋभवन्तु
 आश्रौ ४, १२, २^m; शाश्रौ; माश्र
 १, १०, १६^h; ऋभवन्तु, > ता
 आपश्रौ २, २०, ६^v; वौश्रौ २,
 ९ : १५; भाश्रौ २, १९, १^v;
 हिश्रौ २, ५, ४७^v; द्राश्रौ;
 या ८, १०^m; भवानि सु १४,
 ३; कौश्र २, २, ६^x; ७,
 १०; वौश्र १, ८, ३; हिण्ट १,
 ५, २^x; भवाम^v आपमं २, ५,
 १७; भाश्र १, ९ : १७; हिण्ट १,
 ७, १०; ऋभवन्तु शाश्रौ ८, २०,
 १; आपश्रौ; अभवताम् वौश्रौ
 १८, ३५:३; ५० : ३१; अभवन्तु
 शाश्रौ १४, ३२, १; वौश्रौ; आश्रिण्ट
 ३, ८, ३ : ६^z; बौपि १, १५:७७;
 अभवः शाश्रौ १, १५, १२; वौश्रौ;
 या ४, १४; ऋप्रा २, ४२; ऋत
 ३, २, ८; अभवम् आपमं १, १६,

४^१; भवेत् आश्रौ १, १०, ९;
 वौश्रौ; भवेयाताम् कप २, ८, ३; ३,
 ९, ७; भवेताम् वौश्रौ ११, ८:१०;
 भवेयुः आश्रौ १०, ५, १; वौश्रौ
 १५, ३१ : १०; जौश्रौ; भवः सु
 १८, ४; ऋभवेयम् आपश्रौ २०,
 २५, ४; हिश्रौ १४, ६, १५.
 भूतु आपमं १, ७, २^१; भूयाम,
 ०तो(म-उ)काश्रौ २५, ५, २९^१;
 ऋप्रा ५, १८^१.
 इवभूयान्^{०१} वाश्र १६, १^१;
 ऋभूयामः आपमं १, ११, २;
 काश्र ३०, ३; माश्र १, १४, १६.
 ऋभूय शाश्रौ ४, १२, १०^३;
 आश्रौ; माश्रौ १, ८, ४, ३६^{०१};
 आपमं २, २२, १९^{०१}; माश्र
 २, ४, ५^{०१}; ऋश्रौ ३, ७, १०^{०१};
 १६^{११}; या १, ५, २, ८; १०,
 ४३^{०१}; १४, २; १०^{०१}; बभूवतुः
 वाभूश्रौ ४, ७५ : ३०; वृदे ४,
 ११; या २, १०; ६, १३; बभूवुः
 शाश्रौ १५, १७, १; वौश्रौ; या
 १, ९; १२, ३८; ऋभूय वौश्रौ
 ४, ७ : १५^{०१}; कौसू ४५, ११^{०१};

a) भव, ताम् इति पाठः? यनि. शोघः (तु. आश्रिण्ट २, १, ३ : २४ प्रष्टु; वैतु. हरदत्तः द्वे एव पदे) ।

- b) पाभे. वैप १, २३४४ t द्र. । c) पाभे. वैप १, रुमन्ताम् शौ ७, १२०, ४ टि. द्र. । d) पाभे. वैप २, ३खं.
 तैत्रा २, ५, ३, ३ टि. द्र. । e) पाभे. वैप १, २३४५ m द्र. । f) पाभे. वैप १, २३४८ a द्र. । g) पाभे.
 वैप १, २३४६ e द्र. । h) पाभे. वैप १, २३४६ g द्र. । i) पाभे. वैप १, २३४७ l द्र. । j) पाभे. वैप १
 यज मै ४, ११, ४ टि. द्र. । k) पाभे. वैप १, १२३७ k द्र. । l) पाभे. वैप १, २३४७ a द्र. ।
 m) सकृत् पाभे. वैप २, ३खं. अभूम तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द्र. । n) पाभे. वैप २, ३खं. भव सं १, २, १
 टि. द्र. । o) पाभे. वैप १, २३४६ j द्र. । p) पाभे. वैप १, २३४६ b द्र. । q) पाभे.
 वैप १, २३४६ m द्र. । r) पाभे. वैप १, २३६५ b द्र. । s) सकृत् पाभे. वैप १ चिन्स्व शौ ३,
 २३, ४ टि. द्र. । t) पाभे. वैप १, २३४४ f द्र. । u) पाभे. वैप १, २३४४ t द्र. । v) पाभे. वैप १,
 २३४४ ० द्र. । w) पाभे. वैप १, २३४८ b द्र. । x) पाभे. वैप २, ३खं. असाणि माश्र ११, ५, ४, १
 टि. द्र. । y) पाभे. वैप १, २३४९ k द्र. । z) ष्वान् इति पाठः? यनि. शोघः (तु. बौपि. तैत्रा ६, ९,
 १ च) । a^१) पाभे. वैप १, २३५५ f द्र. । b^१) पाभे. वैप २, ३खं. भूयाम सं १, ६ टि. द्र. । c^१) पाठः?
 ष्वाः इति शोघः (तु. आपमं. प्रष्टु., ऋ १०, १८३, २ च) । d^१) पाभे. वैप १, २३५० p द्र. । e^१) पाभे.
 वैप १, १३४३ g द्र. । f^१) पाभे. वैप १, ११३८ m द्र. । g^१) पाभे. वैप १, २३४४ b द्र. ।

या ५, ८; ऋभूव्यथि आपश्चौ
 २२, १५, १३; हिश्री १७, ६,
 २६; ऋभविष्यति आपश्चौ २,
 १५, १; वौश्री; भविष्यतः छुसू
 ३, १० : ६; भविष्यन्ति गोगु
 ४, २, १३; माशि ७४; ऋसू
 ३, ६, ४४; भविष्यसि वौश्री
 २, १५ : १; शांश्री १, १९, ७; ऋ
 अप ३३, १, ४; वृदे ४, ७८; अश्र
 ११, ३(२); ऋभविष्यथि शांश्री
 १५, २७, १; काश्री २०, २, १७;
 भविष्यामि वौश्री १३, १८ : १;
 वाधुश्री ३, २० : २; हिश्री २२,
 ३, ८; कौश्री ३, १२, १२; भवि-
 ष्यावः वाधुश्री ४, ७५ : १८;
 ऋभूयात् शांश्री २, १०, २; ३;
 काश्री; आपश्चौ १६, ६, ६;
 वौश्री; वाश्री २, १, १, ५२;
 वैश्री १८, ४ : ७; कौसू २३६,
 ३; ऋभूयासुः वौश्री २, ५ :
 २९; वैश्री १६, २५ : १५;
 आमिष्ट २, ६, २, ११; वौध २, ५,
 ५; ऋभूयाः आश्री १, ११, ६;
 शांश्री ४, ११, ३; काश्री;
 आपमं २, ३, २५; हिष्ट २,
 ४, २; ऋभूयास्तम् आपश्चौ
 २, १३, ३; माश्री २, १३, ३;
 हिश्री २, १, १७; ऋभूयास्त
 वौश्री ३, ८ : २३; माश्री ६,

२, ५; माश्री २, ३, ७, ३; गो
 २, २; ऋभूयास्य^१ शांश्री ४,
 ५, १; वाश्री १, २, ३, २९; हिष्ट
 १, १८, ३; ऋभूयासम् आश्री ३,
 १, १४; ५, २, ८; शांश्री २, १३,
 २; १०, ३, १०; ४, १२;
 काश्री ४, ४, २२; आपश्चौ २, ५,
 १; ४, १३, २; ३; १४, ४;
 ६, १९, ७; २१, १२, ५; वौश्री
 १, १२ : ३०; माश्री १, ९,
 १०; माश्री १, ४, १, २७;
 २, १; ३; ५; ६; ६, १, २,
 २५; वाश्री १, १, ३, १;
 २; ४; ५; ६; ४, १; २, ३,
 २९; वैश्री २, ८ : ११; हिश्री
 १, ७, २१; ६, ४, १; ४२;
 जैश्री २ : ९; आपमं २, ६,
 १; ११०; ९, १४; हिष्ट १, ५,
 १३; १३, ४; कौसू ६, १०;
 ऋभूयासम् आश्री ३, १४, १२;
 शांश्री ४, ५, १; आपश्चौ ३, २०,
 ९; ४, १३, ७; ६, २५, १०;
 वौश्री ४, ६ : ४६; माश्री १, १,
 २, २४; वाश्री १, २, ३, २६;
 हिश्री ६, ६, १६; वाश्री ४, १,
 ८; लाश्री २, १, ७; आपमं २,
 १५, १७; कौसू ९२, २५; वौध
 १, ४, ७; भुवत् आपश्चौ ५, १२,
 १; वौश्री २, १७ : ४०;

वैश्री १९, ६ : ४; हिश्री ३, ४,
 १२; वाश्री ६, २, १८; लाश्री
 २, १०, १८; वृदे ३, ७९; ऋ
 ऋभूत् आश्री १, ९, १; शांश्री;
 ऋभूत् वौश्री १७, ५० : ११;
 या ५, ८; कौसू ८३, ५; ऋभू-
 ताम् आपश्चौ २, ८, ६; वौश्री
 २४, २९ : १६; माश्री २, ८, ७;
 हिश्री २, ५, ११; माष्ट २, ४ :
 १०; या ७, २९; ऋभूवत् शांश्री
 १२, ५, १३; ऋभूवत् वौश्री
 १०, ५६ : ९; भूवत् या १०, ५;
 ऋभूवः आश्री १, ६, १; वांश्री;
 ऋभूः आश्री १, ८, १; शांश्री
 १०, ६, १६; लाश्री; आपमं २, २,
 ८; आमिष्ट १, ५, १ : २५;
 काष्ट ४१, ७; वौष्ट २, ५,
 १२; माष्ट १, ६ : २; हिष्ट
 १, ४, ३; ६, ३; ऋभूः शांश्री
 १, १३, ४; काश्री ६, ५,
 २५; १०, ८, १५; अमूत्
 आपमं १, ७, ११; ऋभूत्
 आश्री ३, ८, १; वौश्री ६, २४ :
 ३४; अमूत् या ६, १६; भूत्
 या ६, २२; ऋभूवत् आश्री ६,
 ४, १०; शांश्री ९, ११, ३; वृदे
 ७, ५७; ऋभूवत् आपश्चौ १०,
 ९, ४; वौश्री २४, १८ : २; हिश्री
 १०, २, ७; ऋभूवत् आपमं १, ३,

- a) तु. जीसं. । b) पामे. वैप १, २३४४ k द्र. । c) पामे. वैप १, २३५१ o द्र. । d) पामे. वैप १, २३५१ w द्र. । e) पामे. वैप १, २३४५ i द्र. । f) पामे. वैप १, २३५२ o द्र. । g) पाठः ? (छन्दस्तः) भूयास्त्वम् इति द्विपदः शोधः इति Böht (ZDMG ५२, ८६) । h) पामे. वैप १, २३५२ d द्र. । i) पाठः ? भूयास्त इति शोधः इति संस्कृतैः टि., c. (शांश्री.) च; भूयासम् इति Old. । j) पामे. वैप १, ११४५ q द्र. । k) पामे. वैप १, ११४५ r द्र. । l) पामे. पृ १५५० e द्र. । m) पामे. पृ ४४७ x द्र. । n) पामे. वैप १, २३५२ q द्र. । o) पामे. वैप १ वर्षिषीमहि मा २, १४ टि. द्र. । p) पामे. वैप २, ३ खं भूयाम ष १, ६ टि. द्र. । q) पामे. वैप १, २३५२ u द्र. । r) पामे. वैप १, २३५२ f द्र. । s) पामे. वैप १, २३४६ p द्र. । t) पामे. वैप १, १०९१ k द्र. । u) पामे. वैप २, ३ खं. भूत् माश्री १३, ८, १, ४ टि. द्र. । v) पामे. वैप १, २३४६ b द्र. । w) पामे. पृ ४४६ n द्र. ।

१४^{अ०}; आसिष्ट १,५,४:४५^०;
भाग १,१७, ६^०; हिष्ट १, २१,
२^०; ऋभूम आश्रौ ५,६,२६;
काश्रौ १०,९, ८; आपश्रौ १,२,
२२; १०,२३,१^०; वौश्रौ; वौष्ट
१,१, २९^०; ऋभूम वैताश्रौ ४०,
७^०; ४१, १२^०; ऋप्रा ८, १७;
अभविष्यत् वाधूश्रौ ४,९९ : ८;
लाश्रौ ८,४,६; निस् २,९ : २९;
या ६, २८; अभविष्यन् या ७,
२३.
भाव्यन्ते क्रप्र १, ९, ३.
बुभूषत्^० आपश्रौ २, १९, ४;
६, ४, १; वौश्रौ ३, ४ : १९;
भाश्रौ ६,९,१; हिश्रौ ३,७,१९;
निस् ४, ३ : ५.
बोभवीति या १०, १७^०;
बोभूत् पा ७,४,६५.
बभूव > बभूव-पैतृक-यच्छा (च्छ^०-
अ)न्त- -न्ते वैष्ट १,१८:१५.
बभूवस्- -वान् शाश्रौ ८,१७, १^०.
ऋभूवुषो- -षी या ११, ४०;
दंवि २,११.
बुभूषत्^० -षत्: आश्रौ १०, १,५;
शाश्रौ; -षता आपश्रौ १२, ८,
१२; वाश्रौ ३, २, ५, १८; अप
४, १, २२; -षन् आश्रौ १०,
३, १२; आपश्रौ २, १९, १४;
१२, १९, ३; २२, १३, १७; २२;
माश्रौ १, २, १, ३३; वैश्रौ १५,

२२ : १४; हिश्रौ ८,५,२२; १७,
५, ३६; -षन्तः आश्रौ १०,५,
१२; ११, ६, ८.
बुभूषद्-यज्ञ^० -ञः निस् ८,
२ : १; ५.
बुभूषु^० - -षु: काश्रौ १८, ५, १०.
ऋभव- पावा ३, १, १४^३; -वः
पा ४, ३, ५३; पावा १, ३, १०;
-वा: या १२, ४३; -वे पा ४,
४, ११०; पापवा १२; पावा ४,
२, ३४^२; ३, ६६; ५, १, ९४;
-वेऽथे अप २०, ६, १^०.
भव-वत् पा ४, २, ३४; ५, १, ९६.
भव-व्याख्यान- -नयो: पावा
४, ३, ६६.
भवा (व-अ) र्थ- -र्थम् पावा ४,
३, ६६.
रभवत् - -वत् वृदे १, ६१^१; कौस्
९२, १३^१; या १४, १०^१;
-वत् सु ३०, २; आसिष्ट ३, ८,
२ : ४४^१; वौषि १, १५:
५१^१; ऋप्रा २, ३७; -वन्तस्
वाधूश्रौ ४, २८^१ : ५; छुस् ३,
१६ : ७.
ऋभवन्ती- -न्ती या २, ९;
पावा ३, २, १२^३; -न्ती:
आपश्रौ १, ११, १०; १२, ११;
१४; वौश्रौ १, ३ : १६; भाश्रौ
१, १२, ३; ६; माश्रौ १, १, ३, ७;
१७; हिश्रौ १, ३, १९; ३४;

-न्तीम् वाधूश्रौ ४, २८^१ : ७.
भवन्ती-पर- -र: पावा
२, ३, १.
भवन्त्य (न्ती-अ) र्थ- -र्थे
पावा ३, २, १०२; ३, १३३.
भवद्-वसु^० - -सु: अश्र १३,
४ (६)^१.
भवन्^० - पाउभो २, २, १८९; पाग
२, ४, ३१; -नम् अप २४, ६,
४; -नात् या ४, ५; पा, पावा ४,
१, ८७; -नानि अप ६८, १,
३५; -नाय वैष्ट ५, २ : २९^१;
-ने पा ५, २, १; पावा ५, २,
२९^१; -नेषु अप ७०, ५, २.
भवन्-चर- -रान् अप ६८, ३,
११.
भवन्ति- पाउ ३, ५०.
भवितव्य- -व्यम् आपश्रौ २१, १,
१३; हिश्रौ १६, १, ३९; आसिष्ट
३, ३, १ : ९; ११; अप ३०^१,
१, २; विध ३१, ३.
भवितुम् विध ९८, २; वृदे ५, ५९.
भवितोस(ः) वौश्रौ १३, १७: ६^१.
भविल- पाउ १, ५४.
भविव्य^० - -व्यम् वृदे १, ४०;
-प्याणाम् विध २०, २०.
भविव्यत् - -व्यत् शांश्रौ ८, २१,
३^१; आपश्रौ; अप ४८, ७५^१;
निध १, १२^१; या १४, १०;
११^१; -व्यता मीस् ४, १, २६;

a) सप्तपदा बभूव इति पाठः? सप्तपदाव(दौ,अ)भूव इति शोधः (तु. पाभे.)। b) पाभे. वैप २, ३६.
अभूम तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द्र.। c) आन. पाठः? (तु. a टि.)। d) पाभे. वैप १, २३५५ ज द्र.।
e) धा. दीप्तौ वृत्तिः। f) =मन्त्र-त्रय- (तु. तैसं ३, ४, ४, १; ५, १; ७, ३)। g) =सर्वतोम-
(अतिरात्र- [तां २०, २, २])। h) तु. पाका.। i) =वर्तमान-काल-। j) सपा. भवव <>
भविव्यत् इति पाभे.। k) भव इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र. शौ १८, ४, ५२ आसिष्ट.)। l) =लृट्
लकार-। m) वैप १ द्र.। n) नाप. (गृह- [अप. या ४, ५ प्रसृ.] [देवता-विशेष-] रुद्र- [वैष्ट.]), व्यप.
(द्वादशमृगणात्मन्यतम- [संध-])। गृहेऽर्थे अधिकरणे ल्युट्, अन्यत्र कर्तारि ल्युः प्र.। o) विप., नाप. (अल-विशेष-)
नैप. < भविव्यत्- इति शक.। p) उदक-नामन्-।

-व्यति आश्रौ १, २, १; पा ३, ३, ३; १३६; पावा; -ःव्यते शांश्रौ ६, २, २; आपश्रौ २०, १, १७x५; बौश्रौ.

भविष्यन्ती-न्त्याम् वैश्रौ १, १७: १५.

भविष्यन्त्य(न्ती^३-अ)र्थ-
र्थे पावा ३, ३, १५.

भविष्यत्-पुराण-णे आपघ २, २४, ६; हिघ २, ५, १७१.

भविष्यत्-प्रतिषेध-धात् पावा ३, ३, १३३.

भविष्यद्-अधिकार-रे पावा ३, ३, १५६.

भविष्यद्-आधमर्ण्य-ण्ययोः पा २, ३, ७०.

भव्य,व्या^३- पा ३, ४, ६८; -व्यः सु ३०, २; -ःव्यम् आपश्रौ १६, ३३, १; २०, ११, ८; बौश्रौ १५, १८: १५; ३२: ५; ३६: १२; वाश्रौ ३, २, १, २०; वैश्रौ १८, १६: ६६; आपमं २, ५, २२; बौघ २, ५, २६; भाघ २, २७: ९; हिघ १, १३, १९; कौसू १०६, २; १३५, ९; वृदे १, ४०५; -ःव्यस्य आश्रौ ८, १०, ३; शांश्रौ ३, ५, ८; माघ १, १०, १५; वृदे १, ६१५^६; -ःव्या^३ आमिघ २, ६, ६: २९; हिघ १, १३, १२; गो १, ३३; २, १२; हिघ १, ८, ३०; -ःव्याय आपश्रौ २०, ५, ९; बौश्रौ १५, ७: १६; हिश्रौ १४, १, ४५; या १०, ४२५; -ःव्ये आपश्रौ ९, १४, २^६; आपमं २, १८, ५^६;

बौघ ४, ७^६; भाघ २, २: १६^६; पा ५, ३, १०४^६.

भव्या(व्य-आ)दि-दीनाम् पावा २, ३, ७१.

भव्याद्य(दि-अ)र्थ-र्थम् पावा ३, ४, ६७.

भव्या(व्य-अ)पत्य-त्यः हिघ २, ५, १२.

भाव-पा ३, ३, २४; पाग ५, २, ९५; पावा ३, १, १४३; -वः काश्रौ ४, २४; द्वाश्रौ ७, ४, २७;

लाश्रौ; शंघ ३३३^३; वृदे ४, ७३^३; या १, १३; पा ५, १, ११९; पावा १, १, ५६; ५७x५; मीसू ६, ४, ३३^३; -वम् माश्रौ ३, ५, २; वृदे ४, ५९^३; ६८; ६, ३८; अपं २: १; या १, १; ऋपा १२, १९; -वस्य वृदे १, ३०; या १, १; ७, ३; पावा ४, १, ३; -वाः अप ६१, १, २०; पावा ५, १, ११९; -वात् वृदे १, ३१; ८, २१;

या १, १३; १४^२; या ७, ३; पावा; -वाय आमिघ २, ४, ८: २४; अप ५२, ११, ३; या ७, २८; -वे पाघ २, १७, ९; गोघ १, ७, १७; बाघ ५, ३; बौघ २, २, ४६; पा ३, १, १०७; ३, १८x५; -वेन पा २, ३, ३७; पावा ५, १, ११९; आज्यो १२, ७^३; -वैः या १, १२; आज्यो १४, ४^३.

भाव-वः पावा १, १, १९; ६, १, १x५; -वस्य पावा ३, १, ३६; ६, ४, ६२; -वात् पावा ८, ३, १३; -वे पावा १, १, २७x५;

-वेभ्यः पावा ७, १, ९६.

भाव-दीघत्व-त्वे पावा ७, ४, ९३.

भाव-निवृत्ति-त्तिः पावा ७, १, ३.

भाव-प्रतिषेध-घः पावा ३, ४, ८५; ७, १, ३.

भावप्रतिषेधा(घ-अ)र्थ-र्थम् पावा ३, १, २१.

भाव-वचन-नम् पावा ५, ३, ६६; ६, १, १; -नात् पावा ६, १, ६५.

भावा(व-अ)र्थ-र्थम् पावा ३, २, १०९; ६, ४, ५२.

भाव-करण-णयोः पा ६, ४, २७; ८, ४, १०.

भाव-कर्मकर्तृ-तरिः पावा ३, १, ६७.

भाव-कर्मन्-र्मणोः पा १, ३, १३; ३, १, ६६; ६, ४, ६२; पावा ३, १, ६७.

भावकर्म-निवृत्त्य(त्ति-अ)र्थ-र्थम् पावा १, ३, १४.

भावकर्म-वचन-नः पा ६, २, १५०.

भाव-क्षय-यात् अप ५८^२, १, ५.

भाव-गर्हा-र्हायाम् पा ३, १, २४.

भाव-ग्रहण-णम् पावा ३, ३, ४४.

भाव^३-दुष्ट-ष्टम् बाघ १४, २८; विघ ६८, ४९; गौघ १७, ११.

भाव^३-दूषित-ते विघ ६८, ४९.

भाव-प्रत्यय-ये निम् ३, १०: ४६^६.

a) = लृट्कार-। b) वैप १ द्र.। c) = भविष्यत्-काल-। d) पामे. पृ १३६१ b द्र.।
e) पामे. वैप १, २०५७ c द्र.। f) वस.। g) भावे कर्तरि च कृत्। h) = अभिप्राय-। i) = (सज-)
कृत्-। j) उप. < √क्षि [क्षयो]। k) अर्थः?। भागप्रत्यवाये इति संस्कृतः टि.।

भावप्रत्यया (य-ञ)न्त-
 -न्तात् पावा ४, ४, २०.
 भाव-प्रधान^१ -नम् वृदे २,
 १२१; या १, १; -ने या १, १.
 भाव-प्रवृत्ति- -त्तौ पावा २,
 ३, ३७.
 भाव-युक्त-त्व- -त्वात् पावा ४,
 १, ३.
 १भाव-लक्षण- -णम् पा २,
 ३, ३७; -णे पावा २, ३, ३७.
 २भाव-लक्षण^२ -णे पा ३, ४,
 १६.
 भाव-वचन^३ -नः पावा ५, १,
 ११९; -नाः पा ३, ३, ११;
 -नात् पा २, ३, १५; -नानाम्
 पा २, ३, ५४; पावा ३, ३, ११;
 -ने पावा १, ३, १; २, २, ६.
 भाववचन-त्व- -त्वम् पावा
 १, ३, १^३.
 भाव-वर्त्- पा ५, २, ९५.
 भाव-विकार- -राः या १, २, ३.
 भावविकार-ज- -जाः वृदे
 २, १२२.
 भाव-वृत्त^४ -त्तम् ऋञ् २, १०,
 १२९; १५४; १९०; वृदे २,
 १२०^४; ५, ८७; ११२; ७,
 १२३××; -त्तानि वृदे २, ८६^४;
 भाववृत्ती^५ -त्ती साञ् १,
 ६०२.
 भाव-वृत्ति^६ -त्तिः वृदे ७,
 १३५.
 भावा(व-ञा)दिकर्मन्- -र्माणोः

पा १, २, २१; ७, २, १७.
 भावा(व-ञा)भाव- -वयोः
 पावा १, ३, ९; -वौ अप ५९,
 १, ३.
 भावा(व-ञा)रम्म-वचन-
 -नात् पावा २, ३, ३७.
 भावा(व-ञा)र्थ- -र्याः मीसू
 २, १, १.
 भावा(व-ञा)विराम-भावि-
 -त्व- -त्वात् पावा १, ४, ११०.
 १भावैर्व^७ अप ७०, ६, ४.
 भावन^८ -नम् शंघ ११६; ५५;
 -नाय या ७, २५, -ने अप
 ४८, ५१.
 भावना^९ -नाः विध ६, २३.
 भावयत्- -यन् कौसू १३५, ९१.
 भावयित्वा नाशि १, ४, १०.
 भावि(त >)ता- -ताम् बौश्रौ
 ९, १ : ३; २ : ९; १०, १ : २.
 २भाविन्- पाठ ४, ८; पाग ३, ३, ३;
 आपध २, २८, १; हिध २, ६, १.
 भाविनी- -०नि विध ९६, ९८;
 -नी विध १, ३१.
 ०भाविन्- -विनाम् पावा ६,
 ३, ६१^१.
 २भावुक- पा ३, २, १५४.
 २भाव्य- पा ३, १, १२३; -व्यम्
 कप्र १, १, ४; विध २८, ४१;
 पावा १, २, ९^१.
 १भुवन्- -वः आपश्रौ^{१०} १६, ३२, १;
 २०, १९, १२; २१, १३, ९;
 बौश्रौ^{११} १०, ३५ : ४; १४,

२२ : ९; वैश्रौ^{१२} १८, २० : ५८;
 हिश्रौ^{१३} ११, ८, ५; १४, ४, ३९;
 १६, २, १०; कौसू १२८, ४;
 -वाय कौसू ११६, २; अप्राय
 २, ६.
 भौवायन^{१४} -नः बौश्रौ १०,
 ३५ : ४; १४, २२ : ९; शुञ्
 ४, १९१.
 १भुव-पति^{१५} -त्ये^{१६} काश्रौ २५,
 २, २६; शुञ् १, १००.
 भुवत्^{१७} -वत् वाध्रौ ४, ९८ : ५^{१७};
 -वतः हिश्रौ १७, ८, ३२१.
 भुवद्-वत्- -वद्भवः आश्रौ ४,
 २, ५; बौश्रौ.
 भुवन(वप्रा.)^{१८} -पाठ २, ८०; -नः^{१९}
 अप ४३, ५, १५; ऋञ् २, १०,
 १५७; शुञ् ३, ५५; साञ् १;
 ४५२; -१नम् आश्रौ २, १३,
 ७××; शाश्रौ; आपश्रौ १९, ३,
 ५^२; हिश्रौ १३, ८, ३०^२; सु
 ३०, २; शंघ ११६ : ५५^२;
 अप ४८, ७५^२; निध १, १२^२;
 या १३, २४; १४, ११; पा ६, २,
 २०^३; -१नस्य शाश्रौ ५, ८, ४;
 आपश्रौ; या ३, १२; ७, ९; १०,
 ४; १४, १६; २१; -१नस्य
 आश्रौ ४, १२, २; काश्रौ;
 -१ना आश्रौ ८, ३, १; शाश्रौ;
 या ४, २७; -१नात् आश्रौ ४,
 ११, ६; आपश्रौ; हिश्रौ ६, २,
 १७^४; -१नानाम् आश्रौ ७, ७,
 ७; ९, ५, ५; शाश्रौ; या ७, २२;

a) वस. । b) उप. करणे कृत । c) विप. (Lभाववृत्तदेवत्य-I सूक्त-). d) भाप. (सृष्टयादिपदार्थानां प्रवृत्ति- [तु. षड्गुरुशिष्यः]) । e) = ऋच्- । f) भावैः एव > नैप्र. यनि. ? । g) भावावर्थे प्र. । द्वादशसमाखा- मन्यतम- । h) भावे युच् प्र. । i) तु. पाका. पासि. । j) वैप १ द्र. । k) पासे. वैप १, २३५७ ० द्र. । l) पासे. वैप १, २३५७ k द्र. । m) = व्याहृति-विशेष- । n) विशेषः टि. द्र. । o) व्यप. । p) पासे. वैप १, १०३८ ० द्र. । q) अपु २१९, २४ भवनम् इति । r) उदकनामन्- । s) 'ना इति पाठः ? यनि- शोधः (तु. आपश्रौ. भाश्रौ.) ।

-कानि शाश्रौ ६, ११, ९, ९, ५,
१; आपश्रौ; या ४, २७; ७,
२९; ८, १४; १०, २६; ३४;
माशि; -कानास्य आपश्रौ ३, ८,
२ : १७; बौषि; या ७, २५;
-काने आपमं १, ९, ३; अप १,
११, १; -नेमिः आपश्रौ ४, ५,
५; माश्रौ ४, ७, १; हिश्रौ ६, २,
४; -कानेषु शाश्रौ १५, २,
१८xx; आपश्रौ; या १४, ३; २४^१.

भौवन^१ -०न शाश्रौ १६.
१६, ३^१; -नः शाश्रौ १६, १६,
२^१; वाश्रौ २, २, ४, ५^१; सु^१
२२, १; २२, १; २५, ६; ऋअ
२, १०, ८^१; १५, ७^१; शुअ २,
२८^१; ३, ५५^१; साअ १,
४५^२; २, ९३^१; या १०,
२६^१; -नस्य सु २०, ३^१; -नस्य
चाअ २९ : ५^१; ८^१.

भौवनि^१ -नयः बौश्रौप्र
३१ : ६.

भुवन-नाग- नान् शंघ ११६ :
३४.

भुवन-पति- तये आश्रौ १,
४, ९; ३, १३, १५^१; आपश्रौ;
-तिः काश्रौ २, १, १८; आपश्रौ
३, १८, ४; बौश्रौ ३, २३ : १४;
माश्रौ ३, १४, २; माश्रौ ५, २,
१५, २; वाश्रौ १, १, ५, २; ९;
हिश्रौ २, ८, १; वैताश्रौ ७, १८;
-तिभ्यः आश्रौ ४, २, ५; -तिम्
वैगु १, ४ : ३; -०ते शाश्रौ ४,

२०, १^१; काश्रौ.
भुवनस्-पति^१ -तिः कौगु ३, २,
६^१; -०ते माश्रौ २, १, ४, ३१^१.
भुवनस्-परि शागु ३, २, ९^१.

भुवनस्(रः) पाउ ४, २१७; आश्रौ
१, २, ३xx; ५, ९, ११^१; शाश्रौ;
शौच २, ५२; ऋत ३, ७, ४;
पा ८, २, ७१; पाग १, १, ३७.
भुवर्-लोक- -कम् शंघ ११६ :
६६; नाशि १, २, ६.

भुविस्- पाउ २, ११२.
भुवे या ७, २८^१.

भुव^१ - पा ६, ४, ८५; पावाग ३,
३, १०८^१; भुवः वैगु १, १८ :
९^१; विध ३, ८२; २२, ५७;
या ७, २७^१; पा १, ४,
३१^१; भुवः^१ आपश्रौ
१०, २९, १; बौश्रौ ६, १६ :
५; माश्रौ १०, २०, १; वैश्रौ
१२, २० : ९; हिश्रौ ७, ३,
१८; भागु २, २८ : १२; भुवम्
जैश्रौका १०५; विध ३, ८१;
८३; ५, १८१; ७१, ४१; ७८,
१२; ९२, ४; भुवा^१ आश्रौ ९,
५, ११; आपश्रौ २२, ७, २६^१;
भुवाम् वैताश्रौ १, १८; कौसु
११६, २; अप्राय २, ६; भुवाम्
वैताश्रौ १, १७^१; भुवि जैश्रौका
९५; वैगु; भुवे आपश्रौ २०,
५, ९; बौश्रौ १५, ७ : १६;
हिश्रौ १४, १, ४५; भुः आपश्रौ
४, ४, ४^१; १२, २१, २;

१६, २३, ७; १०; २०, ५, ९;
माश्रौ ४, ५, ५^१; माश्रौ ६, १,
७, १६; वाश्रौ १, १, २, १६^१;
वैश्रौ १८, १७ : २८; २० : ३१;
हिश्रौ ६, १, ५१^१; १४, १,
४५; १७, ३, २४^१; अप ४८,
७२; ९८^१xx; वाघ; निघ १, १;
३^१; या १४, ११^१.

भू-कम्प- -म्पे वैध २, १२, ३.
भूकम्पो(म्प-उ)ल्कापात-

दिग्दाह- -हेषु विध ३०, ९.
भू-गत- -तम् वैध ३, ४, ४.

भू-चर- -राः अप ५२, १, ३.
भू-जतु-चर्म-वीर-त्रेणु-फल-

वल्क- -ल्कानाम् सुधप ८७:१७
भू-तल- -लात् शंघ २२६; -ले
कप्र १, १०, १४; माशि १६, ७;

नाशि २८, २७; आण्यो १२, ४.
भू-तृण-दृष्टान्त- -न्तेन अअ २,

३०.
भू-प^१ -पः अप ६८, ४, ५.

भू-पति^१ -कृतये आश्रौ १, ४,
९; ३, १३, १५^१; आपश्रौ;

-कतिः आश्रौ ८, २, २१; काश्रौ;
-तिम् वैगु १, ४ : ३^१; -तीन्
अप ३५, १, ६; -कते शाश्रौ ४,

२०, १; काश्रौ; -तेः विध ६३,
५१; वृदे ५, १९.

भूपत्या(ति-आ)दि- -दीन्
वैध २, १३, ५.

भू-प्रचाल- -लः अप ७०^१, ११,
२९.

- a) वैप १ द्र. b) व्यप. (विश्वकर्मन्) । c) पाभे. वैप १, २३६० d द्र. । d) = असुर-विशेष- ।
e) = (भुवनपुत्र-) साधन- । f) = [भुवनपुत्र-] नाभि- । g) = ऋषि-विशेष- । h) पाभे. वैप १, २३६० h द्र. ।
i) परस्परं पाभे. । j) पाभे. वैप १, १८९३ a द्र. । k) पाभे. वैप २, ३खं भुवस्(ः) ऐत्रा २, ३१ टि. द्र. ।
l) विशेषः टि. द्र. । m) तु. पागम. । n) = अप्सरो-विशेष- । o) भाप. । p) = एकाह-विशेष- ।
q) सपा. भुवा <> मूः इति पाभे. । r) अन्तरिक्ष-नामन्- । s) उप. <√पा [रक्षणे] । t) वैप १
निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । u) पाभे. वैप १, २३५७ k द्र. ।

भू-प्रदान- नम् अप ७०^३, ९, ३.
 भू-प्रदेश- श्चो कप्र २, २, ८.
 भू-मण्डल- लम् विध १, ३५.
 भू-लोक- कम् अप ४१, २, ८;
 शंघ ११६ : ६६.
 भू-स्थित- तः बौघ ४, ८, १२.
 भू-स्पर्श- शीः जैश्रीका १७८.
 रभू- ऋभूः आपश्री १०, ६, ५;
 माश्री ६, १, ८, ५^b; वाश्री ३,
 २, १, ३१^३; चाश्री १६:२९.
 १भूत, ता^a- पाजभो २, २, १३१;
 पाग २, १, ५९^३; ४, ३१^३; ४, २,
 ३८; ७५^d; -०त काश्री २, ३,
 १^३; -ऋतः काश्री २, ३, १; १८,
 ५, ११; आपश्री; निघ ३, १३;
 या ३, १६; ऋप्रा २, ४६;
 -तम् शाश्री ८, २१, ३^३;
 आपश्री; वाधूश्री ४, १९ : ११;
 आपम २, १०, १३; सु १३, १^३;
 आश्री २, ५, ११ : ११^३; भाग
 २, २५ : १; वैग ३, २ : ३^३,
 द्राग १, ५, १९; अप ४८,
 ७५^३; आपघ २, ३, १०;
 बौघ २, ७, २^b; विघ २०,
 २२^३; वृदे १, ४०^b; निघ १,
 १२^३; या १४, १०^b; ११^b;
 -ऋतस्य आश्री २, १०, १८××;
 शाश्री; वृदे १, ६१^b; या १०, २३^३;
 -ऋतस्य आपश्री ३, १८, २; ४,
 ४, २; बौश्री ३, २३ : १२;
 हिश्री ६, १, ४७; वैताश्री १, १७;
 -ऋता बौश्री १६, २७ : १०;

१४; हिश्री ६, ३, २^३; १७, ६,
 ३७; -ऋताः आग २, १०, ८;
 बौग २, ८, ३८; ३९; भाग २,
 १४ : १६; वैग २, २ : ८; अप
 १, ८, ३; -तान् वैघ १, ४, ४^३;
 -तानाम् ऋश्री १, ४, ९; २,
 १३, १५; शाश्री ४, २०, १;
 ५, १४, १२^३; १५, ११,
 १^३; १६, १५, १^३; काश्री;
 या ३, १२; ४, ९; ७, ९; २२;
 २७; २०, २६; १२, १५; -तानि
 शाश्री १४, ५०, १; १६, १५,
 १^३; काश्री; अप ७०^३, १०, १^b;
 या २, ५; ८; १०; १८; ४, १३;
 २७^३; ५, ४; ५; १४; ६, १५^३;
 ७, २१; ८, ११; १४; १०, ८;
 ११; २६; ३४; ४६; ११, ३१;
 ४१^३, १२, ११; १३, ११; -ताम्
 बौश्री २, १०; २०; २४; २८; १६,
 २७ : १०; ११; हिश्री; -ताय
 ऋशाश्री १, ४, ५; ६, २, २; काश्री
 २, ३, २३^३; आपश्री; शुश्री १,
 ४२^३; या १४, ३५; ३७; -ते
 आश्री १, २, १; १२, ४, १०;
 आपश्री; पा ३, २, ८४; ३, २;
 १४०; -ऋतेन बौश्री ३, १८; ५;
 माश्री; -ऋतेभ्यः काश्री ५, ४,
 १३; आपश्री; या ३, ९९; भाशि
 २४; -तेषु शाश्री १६, १५, १^३;
 काश्री; या १४, २४; -तैः
 वाधूश्री ४, ९६ : ३०.
 भौत- पा ४, २, ३८; ७५;

-नः^m कप्र २, ३, ३; विघ ५९,
 २४.
 भूत-करⁿ- रस्य अप्रा १, ३, ३.
 भूत-करण- गम् वृदे ८, ८५;
 -गस्य गौघ ३, ४९ⁿ.
 भूत-काल- ले लुप्रा ५, ११;
 अप्रा २, ३, ४; ७.
 भूतकाल-लक्षण-त्व- स्वात्
 पावा ५, ३, ६७.
 ऋभूत-कृत्^a- कृतः आपश्री ६,
 ५, ६; भाश्री; -कृतम् आपश्री
 १, १०, १०; हिश्री २, ७, ५९.
 भूतकृतां (वात्यस्तीम-)
 शाश्री १४, ७२, १.
 भूत-गृह^b- ह्येभ्यः पाग १, १२,
 २; २, ९, ३.
 ऋभूत-गोच^c- श्चो अप १, ३९,
 २; अशा ९, २.
 भूत-ग्राम^d- मम् कप्र २, २,
 ३-८; विघ १, १७; नाशि १,
 २, १६; -माः या १४, ४; -मे
 चाश्री ११ : ३.
 भूतग्राम-स्थावर-जङ्गम^e-
 -माः या १४, ४.
 भूत-न्त^f- न्द्रम् वैघ ३, १२,
 ७; आज्यो ४, ९.
 भूत-स्व- स्वात् मीस २, १, ३.
 १भूत-दाह- > णीघ^g- -यान्
 आपघ १, २३, ३^३; ४; ३१, २३;
 हिघ १, ६, १२; ८, ४२.
 २भूत-दाह^h- हात् हिघ १, ६,
 ११^३.

a) वैप १ द.। b) पाभे. वैप १, २३५७ e द.। c) = पिशाच- इति पागम.। नैप्र. < *बाध-
 भूत- इति। d) भूत- इति पाका.। e) = प्राणिन्-। f) = भोज्य-द्रव्य- (तु. C.)। g) = अन्न-।
 h) = भूत-काल-। i) पाभे. वैप १, २३६२ c द.। j) पाभे. वैप १, २३६२ j द.। k) पाठः ? (तु.
 पृ १७४५ ० टि.)। l) पाभे. वैप १, १२६३ ० द.। m) = भूत-यज्ञ-। तस्येदमीयः अण् प्र.।
 n) = (पारिभाषिक संज्ञा-) आगम-। o) = देवता-विशेष-। p) घस. उप. = सन्त-। पाप्र. ग्रामच् प्र. उसं.
 (पावा ४, २, ३७)। q) कस. > दस.। r) विघ. (दोष-)। हितार्थीयः छः प्र.। s) परस्परं पाभे.। t) वस.।

भूत-दैव (त्य>) त्या^१ - त्याः
 वैग २, २ : ८.
 भूत-नामधेय- -यानि या १४,
 १०.
 †भूत-पति- -तिः मागु १, ११,
 ९; अत्र २, १४; -०त्ते शांश्री
 ४, २०, १.
 भूत-पूर्व- -र्वस्य पावा १, १,
 २९^१; -र्वे पा ५, २, १८; ३,
 ५३; ६, २, २२.
 भूत-प्रकृति- -तिः या १४, ३.
 भूत-प्रवाक^b - -काय मागु २,
 २५ : १५^१.
 भूत-प्रवाचन- -ने क्रम २, ९,
 २३.
 भूत-बलि- -लिः आपध १,
 १२, १५; हिध १, ४, १५;
 -लिम् आमिगु २, ५, ११ : १; ६.
 भूत-भविष्य-काल- -लः अप
 १, ८, ३.
 भूत-भविष्यत्- -व्यतोः पावा
 ३, २, ११०.
 भूत-भव्य^c - -व्यस्य कौसू
 १३५, ९.
 भूत-भव्य-भवद्-रूप^d - -पम्
 विध २७, १९.
 भूत-महेश्वर- -रम् विध १, ६०.
 भूत-मात्र- -त्रे पावा ३, २,
 ११८.
 भूत-यक्ष-ग्रहा (ह-आ)यतन-
 -नेषु शंघ १५७.
 भूत-यज्ञ- -ज्ञः आगु ३,
 १, २; ३४^१; आमिगु; -ज्ञम्

आमिगु २, ६, ७ : ३; बौध
 २, ६, ४; -ज्ञाय वैगु ३, ७ :
 ७; -ज्ञेन बौगु २, ९, १५^१.
 भूत-वत् वृदे ४, २९; पा ३, ३,
 १३२.
 भूतवद्-अतिदेश- -शो पावा
 ३, ३, १३२.
 भूतवद्-वचन- -नात् पावा
 ५, ३, ६७.
 भूत-विग्रह- -हे अप ६८, २,
 ३९.
 भूत-संख्य- -वात् आपध २,
 २४, ५; हिध २, ५, १७०.
 भूत-हित- -ते विध २९, २०.
 भूतहिता (त-अ) र्थ- >
 १^१र्थिन्- -र्थिना विध १, १२.
 भूतां (त-अं) श^१ - -शाः ऋअ २,
 १०, १०६; वृदे ८, १८; या १२,
 ४०; -शम् वृदे ८, १९.
 भूता (त-आ) त्मन्- -त्म वाध
 ३, ६०; बौध १, ५, २; ३, १,
 २३; विध २२, ९२; या १४, ३.
 भूता (त-आ) दि- -दिभ्यः
 अत्रा २, ३, १०; -दिषु पावा
 ४, १, ३.
 भूता (त-अ) धिकार- -रस्य
 पावा ३, २, ८४.
 भूता (त-अ) धिपति- -तये
 बौध ३, ६, १२.
 भूतानाम्-अवेष्टि^e - -ष्टीः आपश्री
 १८, १५, ९; १६, १२; बौश्री
 २०, ५९ : १; ११, ७ : १९;
 १२, ११ : २०; हिश्री १३, ५,

३१; ३६.
 भूता-भव्य^f - -व्यौ आपश्री
 २०, १२, ९; बौश्री १५, ३६ :
 २१.
 भूता (त-अ) र्म- पा ६, २, ९१.
 भूता (त-अ)वेष्टि-मन्त- -न्त्रैः
 वैश्री १९, ३ : १५.
 भूते-च्छद्^g - -च्छः आश्री ८,
 ३, २७; वैताश्री ३२, ३०;
 -च्छदाम् तैत्रा १४, ८^१.
 भूते (त-इ)न्द्रिय- -यैः या १४,
 १०.
 भूते (त-इ) छका^h - -काः आपश्री
 १७, २, ६; बौश्री १०, ४६ :
 ७××; वैश्री.
 भूतो (त-उ) पदेश- -शाः मीसू
 ११, ३, ४१.
 भूतो (त-उ) पमा- -मा या ३,
 १६.
 भूतो (त-उ) पसृष्टⁱ - -ष्टः
 आपश्री १५, १९, ४; माश्री ११,
 १९, १३; -ष्टानाम् आमिगु २,
 ५, ३४५; बौगु ३, ७, २७; २८.
 †भूतर^j - -तः माशि ११५; १२०.
 भूति^k - -त्तये आश्री १, ४, ९^१;
 वैश्री २०, २७ : ४^१; कौसू ३,
 ११; -तिः आश्री ३, १३, १५^१;
 शांश्री; पागु २, १७, १५^१; †वैगु^१
 १, २१ : ८; २, ७ : ११; ३,
 ७ : २३; अप^१ ४०, ५, १^१; २^१;
 -तिनाम् अप^१ ४, ५, १५; ६, २,
 ७; -तिम् †शांश्री २, १३, ६; ५,
 १, १०^१; आपश्री; अप ४, ४, ८^१;

a) बस. । b) नाप. । उप. कर्तरि अण् प्र., कृत्वम् (पा ७, ३, ५३) च । c) वैप १ द्र. । d) द्रस. >
 बस. । e) सप्र. भूतयज्ञेन <> भूतियज्ञेन <> आमिगु २, ६, ५ : १६ (यज्ञभूतिकैः इति पाभे. । f) = आहुति-
 विशेष- । g) होम-विशेषयोः द्रस. पू. आनङ्गोदेशः उरसं. । h) पू. = पिशाच- । i) विशेषः उत्तरत्र टि. द्र. ।
 j) पाभे. वैप १, २३६४० द्र. । k) = (उपचारात्) देवता- । l) = १भस्म- । m) पुंसं छान्दसं द्र. ।
 न) पाभे. वैप २, ३४. सुकितम् तां १, १, १ टि. द्र. ।

५, ११^a; ६, २, ३^a; ७, १, ६^a;
१७, २, १५^b; वृद्धे ३, ३२;
-इतीनाम्^b भाग ३, १५: २५;
-फं०ते बौश्रौ १२, १: १७;
अत्र ६, ८४; -तौ द्वाश्रौ २, २,
३३; १०, ३, ७^१; लाश्रौ ३, ११,
४^१; -त्या: अत्र ९, ६(५)^१;
-फं०तै काश्रौ १७, २, ४; आपश्रौ
९, १३, ६; १५, ११, १; १६, १६,
१०^x; बौश्रौ; माश्रौ ६, १, ५,
२१^०; वाश्रौ २, १, ४, २७^०;
वैश्रौ १२, १३: ३; १८, १४:
१०^०; २०: ३१; हिश्रौ ११, ६,
१२^०x.

भौतिक^d- कम् अप ३१,
१०, १; २.

भूति-कर- रम् अप ७, १, ३.

भूति-कर्मन्- -र्मणाम् कौष्ट १,
६, १; शांष्ट १, १०, १; बौष्ट १,
१, २१; -मैसु कौष्ट १, ८, १६;
शांष्ट १, १२, १३; आपश्रौ १, १३,
९; हिध १, ४, २३; आज्यो ५,
३; -मांणि बौध १, ३, १२.

भूति-काम- -मः आश्रौ ९, ७,
२८; आपश्रौ; -मम् माश्रौ ५,
१, ७, १; ९, ३७; १०, २६; वाधुश्रौ
४, ९०: २९; -मस्य माश्रौ ५,
१, ५, ५; ७१; वाश्रौ; -मै: विध
१००, ३.

भूतिकाम-राजकामा(म.अ)
बाद्यकामे(म-इ)न्द्रियकाम-तेज-

स्काम- -मानाम् आश्रौ ९, ८,
२३.

भूति-कामिन्- -मी आमिष्ट २,
४, ११: २५.

भूति-देवता->^०व(त्य>)

त्या- -त्या शुभ्र २, १२१.

भूतिन्- -त्तिनः वौष्ट ९, १५^b.

भूति-मत्- -मान् आमिष्ट २, ४,
११: २५.

भूति-यज्ञ- -ज्ञेन भाग ३, १५:
२५^f.

फंभूति-वर्धन- -नम् आपश्रौ
५, १८, २; हिश्रौ ६, ५, १६.

भूति-साध(न>)नी- -नी
अप २६, ४, ३.

भूत्या(ति-आ)दि- -दिषु अप
६३, ५, २.

भूत्वा आश्रौ ३, १०, ६^१x; शांश्रौ;
फंआपमं १, १५, ५^०; १७, ७^b.

भूम^f- -माय वौष्ट २, ८, ९^१.

फंभूमन्^g- -म आपमं २, १५, १;
आग २, ७, २^१; या १०, ४;

ऋप्रा ८, १७; अप्रा १, १, १२;
-मा ऋप्रा ७, ३२; ८, ४८.

फंभूमा^h ऋप्रा ८, १५.

रभूमन्ⁱ- पा ६, ४, १५८; -मा
क्षुस् ३, १: ३; अप्रा ३, १, ६^३;

मांसू १, ४, २७; -मानम् आपश्रौ
४, १०, १^१x; बौश्रौ; हिश्रौ

१६, ५, १४^१; १८, ४, ६५^१;
-मनः क्षुस् ३, १: ५; निस् ४,

३: ३३; ८: ८; -फंमा: काश्रौ
४, ९, १५; आपश्रौ; -मने जैश्रौ
११: ५.

भूमि,मी(वप्रा.)^jम- पाउ ४, ४५;

पाग ३, ४, ७४; ४, १, ११२^०; ३,
७६; ८, २, ९; -मयः या १२,
२; -फं०मि आपमं २, १८, १^०;

पाय; आमिष्ट ३, ८, २: ३४^p;
वौषि १, १५: ४२^p; -फंमि:

आश्रौ ३, १४, १२x; शांश्रौ;
आपश्रौ ८, ४, २^१ बौश्रौ ५, ४:

२६^१; हिश्रौ ५, १, ४५^१; पाय २,
१७, १५^f; या १४, ११; ऋमा

४, ४०^०; -मिम् फंआश्रौ २,
२०, ४x, शांश्रौ; या २, ८; ६,

२२^१; ७, २३^१; १०, ४; ११,
३७^१; -फंमी: आश्रौ ३, ८, १;

बौश्रौ १२, २१: ९; सु २८, ३;
या १२, २; -फं०मे वैताश्रौ २७,

८; कौसू; -मे: शांश्रौ १६, ९,
२२; १७, ४, ७; १०, १३; आपश्रौ;

शुवा ४, ४०; आज्यो ८, ५; -मौ
आश्रौ १, ३, २२; शांश्रौ; -फंभ्या:

आपश्रौ ४, ५, ५; बौश्रौ; -भ्याम्
आपश्रौ ६, ११, ४; ७, १८, १२;

बौश्रौ; -भ्ये बौश्रौ ४, १: १५;
१२, २४: ९; वैश्रौ १०, १:

१३; हिश्रौ ४, १, १४; आमिष्ट
३, ६, ३: १६^१; बौषि १, ११:

१२^१.
सौम,मा(वप्रा.)^jम- पा ४,

a) = १भस्मन्-।

b) पाठः? ष्तिनाम् इति शोधः। सपा. वौष्ट २, ९, १५ भूतिनः इति पाठे.।

c) पाठे. वैष १, २, २३६४ ० द्र.।

d) विप. > नाप. (पशुपतेर्दन्त-).। तस्येदमीयष् ठक् प्र. उस्. (पा ४, ३,
१२४)।

e) मत्वर्थे इति: प्र. उस्. (पा ५, २, ११६)।

f) पाठे. पृ १८७० e द्र.।

g) पाठे. वैष १,
२३६४ i द्र.।

h) पाठे. वैष १, २३६५ a द्र.।

i) = देवता-विशेष-। वैष ३, ६२० i द्र.।

j) वैष १ द्र.।

k) = १भूयस्-। पाप्र. < बहु-।

l) वैतु. भाष्यम् = स्थान- इति।

m) विशेषः टि. द्र.।

n) व्यप.।

o) पाठे. वैष १, २३६६ a द्र.।

p) पाठे. वैष १, २३६७ b द्र.।

q) पाठे. वैष २, ३३६. भूमिः तैत्रा १,
५, ५, १ टि. द्र.।

r) = (उपचारात्) देवता-।

s) वैष १, २३६६ ० द्र.।

१, ११२^३; ३, ७६; -मः काश्रौ
२३, ४, २०; अप ५१, ३, २^३;
ऋञ्च २, ५, १^०; साञ्च^० १, ३३६;
३४५; ३६६; ४१५; ५६४; २,
११०२; अप^० ४: ३४^०; आज्यो
८, १; -मम् आपश्रौ २२, २१,
४; वाश्रौ ३, ४, ५, २४; हिश्रौ
१७, ७, २९; माण्ट २, १६, १;
कौसू ३८, १६^०; अप; अत्र १२,
१^०; -मस्य कौसू ३८, १२;
अप ५२, १५, ५^३; -मा^० अत्र
३, २९; १८, ३; -मा: आपश्रौ
२०, १४, ६^०; -मात् वेणु १, ४:
२१^०; शंघ ११६: २६;
-मानाम् काश्रौ २४, ६, २^१;
-माय^० आण्ट २, १, ४; ८, १५;
पाण्ट १, ४, १०^० x x; बौण्ट; -मे
अप ७०, ३, १; आज्यो ६, १२^१;
-मेन अप ७०^३, ७, १^०.

भौम-दिव्य- -व्यान्
वेणु १, ४: २२^०.

भौम-वार- -रे आमिण्ट
२, ७, ६: २१.

भौमा(म-आ)न्तरिक्ष-
दिव्य- -व्यम् अप ८, १, ७.

भौमिक^१- -कै: विध २३,
५४^६.

भूमि-कपाल^१- -लः काश्रौ २०,
३, १६; -लम् बौश्रौ २४, १०:
१५; २७, १४: २२; २८, ४:
१३.

भूमि-कम्प- -मप: अप ५७, ४,
७; ७०^३, २३, १; -स्या: अप

६२, १, १; ६४, २, ७; ६८, ५,
१६; -स्पान् अप ६४, १, ४;
-स्पानाम् अप ६२, ४, ५; -म्ये
अप ७१, १६, ३.

भूमिकम्पै (म्प-ए) वसादि-
क- -कम् अप ६९, ५, ५.

भूमि-काम- -मस्य अशां १७,
५.

भूमि-खात^३- -तस्य अप ३९,
१, १.

भूमि-ग- -नौ: बौध १, ५, ८९^६.

भूमि-गत, ता- -तम् वाध ११,
२४; विध ८१, २३; -ता शंघ

२३४; -ता: बौध १, ५, ५७;
-तात् माश्रौ १, ८, ४, ६; -तात्

आपध १, १५, २; हिध १, ४, ६१.

भूमि-गमन- -नस्य या १४, ३१.

भूमि-चल^३- -लः कौसू ९८, १;
-ले द्राण्ट ३, २, ३०; कौसू ९३,
६; आपध १, ११, ३०^०.

भूमि-चलन- -ने कौसू १४१,
२१; वाध १२, ३३; हिध १, ३,
८०^०; काध २७५: १०.

भूमि-ज- -जः या १, १४.

भूमि-जोषणा(ण-आ)दि- -दि
पाण्ट ३, १०, १०.

भूमि-दान- -नेन वाध २९, १६.

भूमि-दुन्दुभि^३- -भि: वाश्रौ ३,
२, ५, २८; हिश्रौ १६, ६, २७;
-भिम् वाश्रौ १७, ५, १०; १४,
११; १७, ६; आपश्रौ.

भूमि-देव- -वान् बौध २, ५,
२६.

भूमि-देव(त्य>)त्या^१- -त्या:
वेणु ३, १६: ९.

भूमि-दोह- -हान् अप ४, ६, ४;
६९, ७, ३.

भूमि-धेनु^१- -नुम् आमिण्ट ३,
१०, २: १०; बौषि ३, ९, ५.

भूमि-प^१- -प: शंघ ९४; -पम्
विध ३२, १७; -पा: यासि २, १.

भूमि-पति- -ति: कौसू ९४, २;
१२६, २; -ते: अप २, ३, ४;
-तौ गोण्ट ३, ३, २४.

भूमि-परिद्वहण- -णम् आपश्रौ
७, १०, १२.

भूमि-परिलेख- -खम् कौसू ५२,
४; -खे कौसू १८, २२.

भूमि-पाल- -ला: अप ५१, ३,
४.

भूमि-पाश- -शे पावा ६, ३, ९.

भूमि-पुत्र^३- -त्रेण शंघ ११५.

भूमि-पुरुष-ब्राह्मणस्व-वर्जम्
काश्रौ २०, ४, २७.

भूमि-पुरुष-वर्जम् आश्रौ १०,
१०, १०; वाश्रौ ३, ४, ४, २७.

भूमि-प्रदान- -नेन विध ९२, ३.

भूमि-प्रदेश- -शे वाण्ट १४, ६.

भूमि-प्रमाण- -णेन अप २, ३,
२.

भूमि-प्राप्त, सा- -साम् काश्रौ
१७, ४, १८; -से काश्रौ ८, ५,
३३.

भूमि-सर्व- -र्वणाम् अप ७०,
१, ८.

भूमि-भाग- -गः लाश्रौ १०,
२.

a) = मङ्गल-ग्रह-। b) व्यप-। c) = (भूमिदेवत्य-) अनुवाक-विशेष- [शौ १२, १]। d) = अनुवाक-
विशेष-। e) = ऋच्-। f) विप- > नाप- (यज्ञाङ्ग-)। g) = देव-विशेष-। h) पाभे- वैप २, ३खं-
भूमाय तैआआ ६७, टि- द्र-। i) = मङ्गल-वार-। j) भवार्ये ठञ् प्र-। k) सपा- भौमिकैः
<> भूमिगैः इति पाभे-। l) बस-। m) = तडागादि-। n) = भूमि-कम्प-। o) सपा- °चले <>
°चलने इति पाभे-। p) वैप १ द्र-। q) मलो- कस-। r) = क्षत्रिय-। उप- <√पा [रक्षणे]।

१५, १०; शंघ २५३; -गम्
आगृ ४, १, ६; २, १०; -गे द्रागृ
४, २, ६.

भूमि-मन्- पा ८, २, ९.

भूमि-यज्ञ- -ज्ञम् वैगृ ३, १८ :
४; -ज्ञाय वैगृ ३, १६ : ६; -ज्ञेन
वैगृ ३, १६ : ४.

भूमियज्ञ-देवत्य^१- -त्यौ वैगृ
३, १६ : ७.

भूमियज्ञ-देवत्या(त्य-अ)
दि- -दयः वैगृ ३, १७ : १४.

भूमि-लाभ- -भः अप ६०, १,
२; -भाय आप्रथो ६, ४.

भूमि-लोक- -के^१ आप्रथो १३,
१८, ९; बौश्रौ १४, २० : १७;
२१; २५.

भूमि-वत् गौध १३, १९०.

भूमि-व(त्>)ती^१- -तीम्
बौश्रौ १२, १० : १०.

भूमि-शीहि-यवा(व-अ)जा(जा-
अ)व्य(वि-अ) इव(इव-ऋ)षभ-
धेन्व(नु-अ)नडुह- -डुहः गौध
७, १५.

भूमि-शुद्ध-वर्जम् काश्रौ २२, १,
१०.

भूमि-ष्ठ- पा ८, ३, ९७; -ष्ठः
काश्रौ ७, ९, १२; -ष्ठम् विध
२३, ४३; ६४, १७.

भूमि-संस्कार- -रान् वागृ १४,
४.

भूमि-सम- -मम् काश्रौ १६, २,
२; वाश्रौ १, ६, १, ११.

भूमि-स्तोम^१- -मे वैताश्रौ ४०, १.

भूमि-स्थ-पात्र- -त्राणाम् काथ
२, ७८ : ५.

भूमि-स्पृश- -स्पृशः द्राश्रौ १०,
४, ७; लाश्रौ ३, १२, ६१^१.

भूम्य(मि-अ)नधिष्ठान- -नम्
काश्रौ १५, ८, २५.

भूम्य(मि-अ)नृत^१- -तम् बौध
२, १, ४१; सुधप ८६ : १; -ते
बौध १, १०, ३१.

भूम्य(मि-अ)पहरण- -णम् विध
३६, ३.

भूम्य(मि-अ)पहारिन्- -री
शंघ ३७८.

भूम्य(मि-अ)म्बु(म्बु-उ)त्सर्ग-
-तसः(ः) शंघ ४५७ : १८.

भूम्य(मि-अ)स्थि-काष्ठ- -ष्ठानाम्
सुध २९; सुधप ८७ : १३.

भूम्या(मि-आ)दान- -ने आपध
२, २७, १६; हिध २, ५, २३५.

भूम्या(मि-आ)दित्या(त्य-अ)
न्तर- -रम् अप ४१, ४, २.

भूम्यस^१- पा ६, ४, १५८; पाग
१, ४, ५७; -यः^१ आश्रौ १, ९,
५१; २, ५, १४; ५, १६, २१;

शाश्रौ १, १४, १७; २, १०, २१;
७, २४, ४१; १७, १७, ११; काश्रौ;

निसू ८, ७ : २६१^१; आपमं २,
१, ५१^१; आगृ १, १७, १३१^१;

पागृ २, ६, २६^१; मागृ १, २१,
६१^१; २२, १११^१; -यः^१ऽयः

बौध ४, १, २; २, २; -यसः
आपश्रौ ५, १, ५; ८, १०, ८;

बौश्रौ; -यसा शाश्रौ १२, २, ११;

आपश्रौ; या ३, २; -यसाम्
शाश्रौ १३, १४, ५; हिश्रौ १६,
१, २३; लाश्रौ ६, ४, १५; कप्र

३, ९, १७; नीसू १२, २, २३;

-यसि आश्रौ १, ७, ७१; शाश्रौ
१, १२, ११; काठश्रौ ४२; पावा

१, ३, ११; -यसे आमिगृ २, ४,
१२; १२; या १, १९; २, ११ x ४;

-यसाः आपध २, ६, १७;
हिध २, २, १८^२; -यांसि आश्रौ

९, १, ९; शाश्रौ ८, २१, ११;
आश्रौ ५, २९, ४१; २४, ४,

१३; बौश्रौ; -यांसम् आपश्रौ
१२, ९, ७; बौश्रौ; -यांसि

आपश्रौ २४, ४, १२; द्राश्रौ;
-यांसौ वाधुश्रौ ४, ३३ : ५;

-यान् शाश्रौ २, १०, २; १५,
१७, ११; आपश्रौ.

भूम्यसी^१- -सि आपश्रौ
४, १०, ४; भाश्रौ; -सी पागृ ३,

१५, २१; अप २२, ३, ५; अशां
१८, ११; -सीः शाश्रौ ७, १९,

१७; १३, ५, २१; काश्रौ;
-सीसिनाम् कौगृ ३, ५, ९; शांघ

३, १०, २; गो २, १५; -सीम्
आश्रौ २, ३, १८; शाश्रौ; -सीषु

निसू २, २ : २९; -स्यः वाश्रौ
३, २, ५, ४२१^१; लाश्रौ ९, ५, ७.

भूम्यस-कर^१- -र शुभा २,
२०१.

भूम्यस-कृत^१- -कृत आपश्रौ
१७, ५, १०; बौश्रौ १०, ४५ :

३२; माश्रौ; -कृतः आपश्रौ

a) वस.। b) पाभे. वैप १, २३६७ ऽ द्र.। c) तु. जीसं.। d) = इष्टका-विशेष-। e) = एकाह-
विशेष-। f) *स्पृशः इति पाठः? यनि. शोघः (तु. द्राश्रौ.)। g) मलो. कस.। h) वैप १ द्र.। i) क्वचित्
वा. क्विवि.। j) भूम्यसः इति संस्कृतुः टि.। k) भूम्यश्चरत्ययम् इत्यस्य स्थाने सपा. आगृ १, १७, १३ भूम्यश्च
राश्र्याम् इति, मागृ १, २१, ६ भूम्यश्चरत्ययम् इति, पागृ २, १, १६ भूम्यश्चरा दिवम् इति च पाभे.। l) सप्र. मागृ १,
९, २४ सर्वस्मै इति पाभे.। m) पाभे. वैप १, २३६८ ० द्र.।

१७, ५, १०; बौश्रौ १०, ४५ :
 ३२; वैश्रौ १९, ५ : २४; हिश्रौ
 १२, २, ७.
 भूयस्-त्व- -त्वम् हिश्रौ ३, ८,
 ३३; कप्र २, १, १३; -त्वात्
 काश्रौ १, ५, ९; ५, ११, २४; १५,
 ४, १९; हिश्रौ ३, ८, ३४; -त्वेन
 वाश्रौ १, १, १, ७०; मीस् ३, ३,
 १०; १२, ३, ३.
 भूयो(यस्-ञ्)क्षर, रा^१ -रामिः
 छुस् १, ७ : २०^१.
 भूयोक्षर-त्(र >) रा-
 -रामिः माश्रौ ३, ७, १^१.
 भूयो-म(घ्य >) घ्या^१ - घ्या
 उनिस् २ : ८.
 भूयो-मय- पावा ५, २, ४७.
 भूयो-मात्र- -त्रम् कौस् ९१,
 १८.
 भूयो-वादिन्- -दी भास् ३, ६.
 भूयो-वि(दा >) द्य^१ - द्यः या
 १, १६; १२, १२.
 भूयिष्ठ, छ^१ - पा ६, ४, १५९; पाग ८,
 १, २७; -छम् आश्रौ २, ३, २०;
 शाश्रौ २, ९, ५; काश्रौ ४, १४,
 १८; आपश्रौ; -छा आमिष्ट ३,
 ८, ३ : ४^१; -छाः शाश्रौ ८, ८,
 ७; १५, २६, १; आपश्रौ; या ७,
 ३; १३; -छान् बौश्रौ ४, ३ : २८^१;
 निस् २, २ : ४; -छानाम् बौश्रौ
 ४, ३ : २७^१; निस् ४, ८ : १०;
 -छानि लाश्रौ १०, १, १५; निस्
 २, २ : २५; ७, ५ : २५; २८;
 ९, ३ : ६; -छाम् कौश्रौ ६,
 ३० : २७; ८, ५ : १४; आप्राय

१, ५; -छे लाश्रौ ६, ६, ८; माग
 १, २१, १.
 भूयिष्ठ-नात- -त्ते काग ४०, १^१.
 २भूयिष्ठ-नात^१ - -त्तेषु काग ३२,
 २.
 भूयिष्ठ-भाज^१ - -भाक् निस् १,
 १० : २३; ९, ८ : २५; -^१भाजः
 आपश्रौ ३, १२, १; ४, १४, ४; ६,
 २५, १०; भाश्रौ ३, ११, १; हिश्रौ
 २, ६, १४; ६, १६; भाशि ४६.
 भूयिष्ठा(ष्ट-ञ्)चिस्^१ - -चिचि
 काश्रौ ४, १५, १६.
 भूयस्^१ (:) आश्रौ १, २, ३; ५;
 ११, १३^२; १२, १२; ३२;
 ३३; १३, ७; २, ३, १२; १६;
 २७; ४, २५; ५, १३; १७, १०;
 ३, १२, ४; ५, २, १२^२; १३;
 ९, ११; शाश्रौ; वैश्रौ १२०, ५ :
 ४; ५; पाग १, १, ३७^१.
 भूय-आदि- -दयः कप्र २, १, ६.
 भूय-लोक- -कात् नाशि १, २,
 ६.
 भूयि^१ - पाउ ४, ६५; -^१यः
 आमिष्ट ३, ८, २ : १९; बौपि १,
 १५ : २९; -^१रि^१ आश्रौ १,
 १०, ८; ४, १०, १; शाश्रौ ५,
 १४, ८; ९, २८, ३; १६, ११,
 २७; आपश्रौ १४, ३३, ६; १६,
 ३४, ४; बौश्रौ; या २, ७^१xx;
 ११, २१^१; -^१रिः पाग २,
 १, १६^१; निघ ३, १; -रिम्
 शाश्रौ ६, ११, ७^१; या १२,
 २२; -^१रीणि^१ आपश्रौ १६,
 ३५, २; बौश्रौ १३, ३९ : ११;

वैश्रौ १२, १ : ११; १५; हिश्रौ
 ११, ८, २३; -^१रिः आपश्रौ ५,
 २३, ९; ६, २३, १; पाग १, १८,
 ४; कौस् ५, २; शुप्रा २, १९.
 भूयिष्ठ-कर्मन्^१ - -मार्^१ आपश्रौ २,
 ११, १०; बौश्रौ १, १० : १७;
 भाश्रौ २, ११, ११; हिश्रौ १, ८,
 ३१.
 भूयिष्ठ-ज- -जानाम् शाश्रौ ८,
 १७, १^१.
 भूयिष्ठ-जित्^१ - ^१जित् आपश्रौ
 १६, ३०, १; वैश्रौ १८, २० :
 ३९; हिश्रौ ११, ८, ४.
 भूयिष्ठ-तोक^१ - -काः या १, १०^१.
 भूयिष्ठ-दा^१ - -दाः बौश्रौ ४, ३ :
 २७^१.
 भूयिष्ठ-दावत्-तर^१ - पावा ८,
 २, १७; -रा या ६, ९^१.
 भूयिष्ठ-दानन्^१ - -न्नः शैशि ७३^१.
 भूयिष्ठ-घन^१ - -^१नाः^१ आपश्रौ ६,
 २७, ३; काग २७, ३.
 भूयिष्ठ-घा(र >) रा^१ - -रा अत्रा
 २, २, १६; -रे या ५, २.
 भूयिष्ठ-घु(त्र >) त्रा^१ - -^१त्रा
 आपश्रौ १५, ७, ७; बौश्रौ ९,
 ७ : १२; भाश्रौ.
 भूयिष्ठ-रेतस्^१ - -तसा आपमं
 २, २०, ३१; -ताः^१ माश्रौ १,
 २, ४, ४; वाश्रौ १, १, २, १९.
 भूयिष्ठ-श्ल^१ - -ज्ञाः या २, ७^१.
 भूयिष्ठ-सख^१ - -खाः^१ हिश्रौ ६,
 ७, ८; हिष्ट १, २९, १.
 भूयिष्ठ-संपद्- -पदः अप्र ५९, १, ७.
 भूयिष्ठ-स्या(त्र >) त्रा^१ - -त्राम्

a) बस. । b) सपा. षरामिः (तां ९, ३, ८ च) <> षरतरामिः इति पामे. । c) वैप १ द. ।

d) कस. । e) कचित् वा. क्वि. । f) पामे. वैप १, २३६९ d द. । g) पामे. वैप १, २१०१ n द. ।

h) पामे. पृ १८७३ d द. । i) पामे. वैप १, १७५५ r द. । j) पामे. वैप १, २३७० m द. । k) पामे.

वैप १, २३७० g द. । l) बसं. समासान्तः अच् प्र. उंसं. (प ५, ४, ७५) ।

ऋप्रा ५, २७.
 भूष्णु- पावा ३, २, १२९; -ष्णुः
 शांश्री १५, १९, १.
 १-२भू- √भू द.
 भूक- पाठ ३, ४१.
 भू-कम्प- १भूत- प्रभृ. √भू द.
 २भूत^१- पाग ४, १, १८; १०५.
 भौत्य- पा ४, १, १०५; -त्यम्
 शंघ ११६: ४६^०.
 भौत्याय(न>)नी- पा ४, १,
 १८.
 भूतांश- प्रभृ., भूम-, १-२भूमन्-
 √भू द.
 †भूमने-घ्रा- -घ्रा.^० आश्री ४, ६, ३;
 शांश्री ५, ९, ६.
 भूमि- प्रभृ. √भू द.
 †भूमना^१ हिश्री १०, ५, ११.
 १भूयस्- √भू द.
 २भूयस्^१-(>भौयसि-, भौयि- पा.)
 पाग ४, १, ९६.
 भूयस्-कर- प्रभृ., भूर, १भूरि-
 √भू द.
 २भूरि^१- पाग ४, १, ११२; -रयः^१
 बौश्रीप्र १७:३; २७: १.
 भौर- पा ४, १, ११२.
 भूरी^१- अप ४८, ७५^१.
 १भूर्ज^१- पाठमो २, २, ९२; पाग २,
 ४, ३१^०.
 भूर्ज-वृक्ष-म(य>)यी- -व्यः
 कागृठ ४०: २२.

भूर्ज-शकल- -लेन कौष्ट ३८, ९.
 २^१भूर्ज^१->√भूर्जि > भूर्जयत्-
 -†यन्तस् साश्र १, ७४; उनिम्
 ४: ११.
 भूर्णि- √भूर् द.
 †भूर्वरि^१ आश्री १४, १७, ३; हिश्री
 १५, ५, ३.
 √भूर्प पाथा. भ्वा. पर., जुरा. उभ.
 अलंकारे.
 भूषण^१- पाग २, ४, ३१; ३, १,
 १३४^१; -णम् अप ४१, ६, ५;
 ६८, ५, १२; -णानि अप १, ३१,
 ३; आज्यो ७, १; -णे पा १, ४,
 ६४; ६, १, १३७; -णेषु अप ७०,
 ५, ३; -णैः जैश्रीका १२.
 भूषण-प्राचुर्य-वाक्य- -व्येषु
 ऋत ४, ५, ८.
 भूषा->भूषा-कर्मन्- पावा ३,
 १, ८७.
 भूषित- -ताः अप ६८, १, १७.
 √भृ(=हावधा.)^१ पाथा. भ्वा. उभ.
 भरणे; जु. उभ. धारणपोषणयोः,
 †भरन्ति आश्री २, ६, २^३;
 शांश्री; भरथः या ५, ५^१; †भरथ
 बौश्री १०, ४: २२; वैश्री १८,
 १: ५३; या ९, ९: †भरामि
 आपश्री १, ७, १३; बौश्री २, ९:
 ७; भाश्री; †भरामः आपश्री
 १६, ३, १३; बौश्री १०, ४:
 २२; वैश्री; †भरत्, >ता आश्री

६, ४, १०; शांश्री; †भरत्
 गोष्ट २, ७, १४; या ११, २;
 १२, १०; †भरेम^१ आश्री ३, ८,
 २: ४४; बौवि १, १५: ५१.
 †विभर्ति आश्री २, १०, २१;
 ३, ८, १; शांश्री १२, १९, ४^०;
 आश्री; विभृतः माश्री १, ५, २,
 ४; वाश्री १, ४, १, १९; ५, ४, ३८;
 या ३, २२; तैप्रा ४, ५२; विभ्रति
 वाश्री ४, ६५^१: १०; निम् १, ६:
 २१^१; अप १८, ३, १०^१;
 †विभर्षि शांश्री ५, ९, १३; बौश्री;
 †विभृथः आपश्री ५, ८, ८;
 बौश्री; †विभृथ, >या आश्री
 ७, ११, ७; पाग ३, ५, ३; या ६,
 २३^१; †विभर्मि आश्री २, ५, ७;
 आपश्री ६, २५, २; बौश्री;
 †विभृवः आश्री २, ५, १०;
 माश्री १, ६, ३, १६; †विभरत्^१
 हिश्री २, २, ४९; आश्री १, ७,
 ३: ३७^१; †विभर्तु आपश्री
 २, २१, ७^१; वाश्री २, १, ३, ५;
 आपमं १, १२, ८^१; हिश्री १, २५,
 १^१; †विभृताम् आपश्री १, १२,
 २; हिश्री १, ३, २३; ४, ३; या
 ९, ४०^१; †विभृहि^१ आश्री २,
 ५, ३; बौश्री ३, १३: ३; माश्री
 १, ६, ३, ९; वाश्री १, ५, ४, २९;
 विभृत बौश्री १८, ४४: २१^१;
 या ६, २३; †विभृता^१ तैप्रा ३,

a) व्यप. । b) =मनु-विशेष- । c) वैप १, २३६० p; २३७१ h द. । d) पाठः? भूः (क्रिप.), मा
 (अव्य.) इति शोषः (तु. सपा. मा ६, १२ आश्री १३, १८, ७) । e) तु. पागम. । f) बहु. < भौर- ।
 g) =उदक- । h) वैप १ द. । i) पाठः? भूवे इति शोषः (तु. वैप १, ६३० m) । सपा. काठ ३५, ३? विभृ
 इति पाभे. । j) भाप., नाप. । k) पृ १२९५ b द. । l) या २, १७; ३, ९ पा ३, ४६; ७, २, १३; ४९; ४,
 ७६ परागृष्टः द. । m) पाभे. वैप १, २३७२ b द. । n) पाभे. वैप १ स्तृणामि शौ १८, ४, ५१ टि. द. ।
 o) पाभे. वैप १, २०८३ g द. । p) पाभे. वैप १, २३७३ a द. । q) अवि^१ इति पाठः? यनि. शोषः (तु.
 हिश्री.) । r) पाभे. पृ १६२५ m द. । s) पाभे. वैप १, २३७३ n द. । t) पाभे. वैप १, २३७३ o द. ।
 u) वैप १, २३७३ p द. ।

१०^१; ऋबिभराणि^१ आश्रौ २,
५, ३; वौश्रौ; ऋबिभः कौश्र
५, १, १३; आमिष्ट ३, ५, २ :
७; वौषि १, २ : ११; ऋप्रा १,
८५; तैप्रा ८, ८; शौच २, ४४;
बिभृयात् वाधुश्रौ ३, ४ : २;
वागृ ९, १२; हिगृ; बिभृयुः
बौध २, २, ३८.

ऋभरिष्यत्^१ आपश्रौ १६, १०,
८; वैश्रौ; ऋभरिष्यामः आपश्रौ
१६, २, ७; वौश्रौ १०, २ : १४;
माश्रौ; ऋभभाः वौश्रौ १०,
२२ : १०; शुप्रा १, १६५; तैप्रा
८, ८; भाः ऋप्रा १, ८२^१.

जर्भरि^१ - नी या १३, ५^१.

ऋब्रि^१ - भ्रिः या ६, १७; -भ्रेः
कौसू ६२, १५, १६; अश्र ११, १.

बिभ्रत् - भ्रत् आश्रौ ३, १२, १४^१;
शांश्रौ; आपश्रौ १०, २८, ३;
माश्रौ १०, १९, १५^१; -ऋत्
आश्रौ ४, ६, ३; शांश्रौ; आपश्रौ
६, १६, १२^१xx; कौसू ८९, १^१;
-अन्तस्^१ विध १, ३७.

ऋब्रिती - ती पागृ ३, ३, ५;
कागृ २७, ३^१; कौसू २४, ३१xx;
अप; -तीः आगृ २, १०, ६^१; दंवि
१, ४; -त्यः शांश्रौ १७, १४,
१३; १७, ८.

भ्रुमूर्षा - र्षा आपध २, १०, १; हिध
२, ४, १.

भ्रमण, णा^१ - पाग ३, १, २७^१; ४,
४, १६; -णम् आमिष्ट ३, ७, ३ :

२०; वौषि २, २, २; हिषि १९ :

७; वाध १७, ५४; शंघ २७९;

आज्यो १०, ४; -णात् या १,

१४; ३, १८; -णानाम् या ९,

२८^१; -णाय या ७, २५; -णे

शंघ २७९.

भरण-कल्प - ह्यानाम् आपश्रौ

५, ७, १३.

भरण-शेष - षम् भाश्रौ ५, ३,

१९.

भरणिक - पा ४, ४, १६.

भरणिय - याः विध १५, ३९.

√भरण्य पा ३, १, २७.

भरण - > णी^१ - णि अशां

५, ८; -णीः अप १, ५, २; ८,

१०; -णीनाम् माश्रौ ६, २, ३,

८; वाश्रौ २, २, १४; -णीभिः

अप १, ३०, २; ४१, ८; ४५, ८;

५०, ८; अशां ११, ८; -णीभ्यः

शांश्र १, २६, २८; अशां १२, ५;

-णीषु जैगृ २, ५ : २०; अप १,

१०, ९; अशां १३, ५; -ण्यः

अप १, १, २; २-३, १; ४, ८; ११,

५; १४, १; ५७, १, १; वेज्यो १८.

भरण-संज्ञक^१ - कम् अशां

५, ८.

ऋभरत्^१ - रत् वौश्रौ १०, ४ : १७;

१९; वाश्रौ २, १, १, २९; -रन्तः

वौश्रौ ३, ८ : २७; कौसू २, १;

अप ४५, २, १५; ऋप्रा २, ४५;

शुप्रा ४, ६४; -रन्तम् अश्र १०,

११.

भरन्ती^१ - न्तो या ११,
३६^१.

भरद्-वसु^१ - सुः शैशि १३८;

-सोः चाअ ४० : ६.

भरद्-वाज^१ - पाग ४, १, १०४;

११०; -जः शांश्रौ १४, १२,

२xx; निस्; -जम् आपश्रौ

२४, ७, १०; वैगृ १, ४ :

१५; अप १, ३९, ५^१; अशां

९, ५; वृदे ५, १२४; -जस्य

वौश्रौ १८, ५२ : १०; दाश्रौ १,

४, ४^१; लाश्रौ १, ४, ४^१; शुअ

२, ३५८; चाअ ३९ : १; १४;

-जाः^१ आश्रौ १२, १३, २;

आपश्रौ २४, ७, ३; वौश्रौ १७ :

१; १८; हिश्रौ २१, ३, १०; वृदे

४, ९८; -जानाम्^१ आपश्रौ २४,

६, १८; वौश्रौ १९ : ९; हिश्रौ

२१, ३, १०; -जाय शांश्रौ १४,

१२, २; आमिष्ट १, २, २ : १५;

वौगृ ३, ९, ३; ६; भागृ ३, १० :

१; ११ : ३; वृदे ५, १३९; ऋप्रा

१८, ५७^१; उस् ३, ३^१; -जे

ऋप्रा ७, ३४; -जौ अश्र २०,

१०.

भारद्वाज^१ - पा ४, १,

१०४; -ज आश्रौ १२, ११, २;

५xx; आपश्रौ; -जः आश्रौ ७, ६,

५; काश्रौ; या ३, १७^१; ६, ३०;

-जम् शांश्रौ १०, ११, ८xx;

हिश्रौ; -जस्य पा, पावा ७, २,

६३; -जाः वैश्रौ १२, १ : १९;

a) पाभे. वैप १, २३७३ n द्र.। b) पाभे. वैप १, २३७४ c द्र.। c) पाभे. वैप १, २३७४ f द्र.।

d) विप. (अश्विन-). यक्षुलुगन्तात् कर्त्तरि प्र.। e) वैप १ द्र.। f) *अन् इति पाठः? यनि. शोधः (तु.

आपश्रौ १०, २८, ३)। g) पाभे. वैप १, २३७४ j द्र.। h) शतुः नुम् उरसं. (पा ७, १, ७८)। i) पाभे.

वैप १, २०८५ n द्र.। j) भावे कर्त्तरि च कृत्। k) तु. पागम.। l) विप. (श्रीषधि-).। m) वस. पृ.।

ह्रस्वः (पा ६, ३, ६३)। n) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.। o) = ऋषि-विशेष-। वस.। p) बहु. <भारद्वाज-।

q) व्यप. (ऋषि-, आचार्य- [पा.])।

ऋञ्च २,६,५२; -जानाम् वैषष्ठ,
३,१; -जाय ह्यि २,१९,३; -जे
वृदे ३,१२८; पा ४,२, १४५^a.

भारद्वाजी- -जी
ऋञ्च २, १०, १२७^b; साञ्च १,
६०९^b; ऋप्रा १७, ४८०; चव्यू
२: १६^d; -जीपु छुसू ३,४:
९०; -ज्या: पाण १,१९,७^e.

भारद्वाजक^f- -कम्
याणि २,४.

भारद्वाज-स-गोत्र-
-त्रम् चव्यू ४: २३.

भारद्वाजायन- पा ४,
१, ११०; -ना: बौश्रौप्र २७:
१०; निसू ९,९: २३.

भरद्वाज-कुत्स-विश्वामित्र-
-त्रा: अञ्च २०,८^g.

भरद्वाज-दुहितृ- -ता शुञ्च
४,१९.

भरद्वाज-धन्वन्तरि^h- -ये
कौष्ट ३,१०,४ⁱ; शाण्ट २,१४,४.

भरद्वाज-प्रत्रस्क^j- -स्केन
कौसू ४७,१२.

भरद्वाज-वत् आपश्रौ २४,६,
१८;७,४;६; १०; बौश्रौप्र १७:
१९×४; हिश्रौ.

भरद्वाज-शिक्षा- -क्षाम्
भाशि १३०.

भरद्वाजा(ज-आ)ग्निवेद्य-
-रयानाम् आश्रौ १२,११,५.

भरद्वाजा(ज-आ)दि- -द्यः

बौध ४,६,९.

भरत^k- पाठ ३, ११०; पाण ४,
१,८६^m; १२३^m; १७६^m; ५,३,
११७^o; -तः कौसू ७३, ६^o;
साञ्च^p १, ६११; २,९४६;
या ८,१३; -^qतम् आपश्रौ २,
१८, ९; बौश्रौ १, १६: १३;
माश्रौ २, १७, ९; माश्रौ १,३,
२,१२; हिश्रौ २,२,२१; -तस्य
आश्रौ ४, ५, ३^r; बौश्रौ १०,
१७: १२^r; ऋञ्च २, ६, ५२^r;
-ता: अप ४८, ९६^r; निघ
३, १८^p; -^sतः आपश्रौ
१८, १२, ७; १४, १०; बौश्रौ
१२, ९: २०; हिश्रौ १३, ५, ४;
-तान् अप ५०, १, ६^m.

भारत^l- पा ४, १, ८६;
५,३,११७; पाण ४, १, १२३;
-^tत आश्रौ १, २, २७; ७,
८, १; शाश्रौ १,४,१४; बौश्रौ
१३, ५: ५; माश्रौ ५, १, ४, १२;
हिश्रौ २१, २, ७; -तः आश्रौ
६, १, २; ७, ८, १; ऋञ्च २, ५,
२७; -तम् शंघ ११६: ४०^t;
-तेन वृदे ५, ८३; -तौ ऋञ्च
२, ३, २३; शुञ्च १, १८३; ५९०;
२, ३४६; ४, ८; १२.

भारती^u- पा ४, १, १७६.

भारतेय- पा ४, १, १२३.

भरत-द्वादशाह^v- -हः आश्रौ
१०, ५, ८; काश्रौ २४, ७, ११;

आपश्रौ २१, १८, १५; बौश्रौ
१६, ३२: ८, २६, २०: ७;
८; -हा: लुसू २, १५: १.

भरत(न-ऋ)र्षभ- -०म शाश्रौ
१५, २५, १^o.

^qभरत-वत् काश्रौ ३, २, ७;
आपश्रौ २, १६, ५; बौश्रौ १,
१५: २९; १६, २: २९; २४,
२८: ३९; माश्रौ २, १५, ८;
माश्रौ १, ३, १, २६; वाश्रौ १,
३, ४, १८; हिश्रौ २, १, ५०.

भरथ^w- पाठ ३, ११४.

भरमाण- -णः या ५, ४^o.

भरिञ्चत्- पा ७, ४, ६५; -^xञ्चत्
आपमं २, ११, २५; -अतम्
बाधूश्रौ ३, ४८: २^o.

भरिमन्- पाठ ४, १४८.

भरिष्यत्- -व्यन्ती तैप्रा ४, १९^o.

भरीमन्^y- पाठभो २, १, २९७;
-^zमभिः बौश्रौ १४, १४: ३५;
द्राश्रौ ११, ४, ९; लाश्रौ ४, ४,
८; अश्राय ४, १.

भरतव्य- -व्यः गौध १०, ६०; १८,
३५; या ४, २६; ९, १०; -^{aa}व्यम्
काण्ट ३, १०; माण्ट १, २, १७;
वाण्ट ९, १७; -व्या: विध १५,
३३; -व्यौ गौध २८, ४४.

^qभरतुम् आपश्रौ ६, १९, ७; १५,
१०, ७; बौश्रौ.

रभर्तु^{bb}- -र्तुरि भाण्ट ३, १: ४; शंघ;
-र्ता शाश्रौ ८, १७, १^o; बौश्रौ:

a) = देश-विशेष- । तस्येदमीयः अण् प्र. । b) = [भरद्वाज-पुत्री-] रात्रि- । c) = ऋच्- ।

d) = शाखा-विशेष- । e) = पक्षिणी-विशेष- । f) तस्येदमीयः वुञ् प्र. (पा ४, ३, १२६) । g) 'जः कुं' इति
पाठः? यनि. शोधः । h) मलो. कस. । i) 'धा' इति पाठः? यनि. शोधः (तु. शाण्ट). । j) = सूक्-
विशेष- (शौ २, १२) । मलो. कस. । k) विप. > नाप. (अग्नि, आदित्य- प्रभू.) । विशेषः टि. द्र. । l) वैप १ द्र. ।

m) = देश-विशेष- । n) व्यप. । o) = आयुधजीविसंघविशेष- । p) = ऋत्विज्- ।

q) बहु. < भारत- । r) = ग्रन्थ-विशेष- । s) = [तद्देशजा-] कन्या- । t) = ऋतु-विशेष- । u) वैप १
निर्दिष्टानां समावेशः द्र. ।

या १३, ५; -^१तारः आपम् २, २, १०^३; काय ४१, ११^३; बौय २, ५, १४^३; बौपि ३, २, ३९; जैय १, १२: ४८^३; -^२तारम् आपश्चौ १९, १६, २०^३; आपयु; -^३तारौ या १३, ५^३; -^४तः आमिण्य २, ७, ६: १; ३, ७, ३: २०^३; काण्ड; -^५तृभिः^६ कौय ३, १५, ५; शांय ३, १३, ५; -^७तृन् वैयु ६७: ८; माय २, १४, १५; -^८त्रै शंघ १८९.

†भर्त्री- -त्री कौस् १०६, ७; -^९त्रीभिः^{१०} आपम् २, १९, २; आमिण्य ३, १, १: १५; -^{११}त्रीम् आपश्चौ ५, २, १; -^{१२}त्र्यः भाशि ६६.

भर्तृ-भ(क्त>)क्ता- -क्तया कप्र २, १०, ३.

भर्तृ-वध- -धः वाध २८, ७.

भर्तृ-विप्रवास- -से हिघ २, ३, ३०.

भर्तृ-सकाश- -शम् वाधु १७, ७६.

भर्तृ-सूक्त- -केन^१ वौपि २, २, २; हिपि १९: ७.

भर्तृ-स्थिता- -त्ता आय्यो ७, १९.

भर्तृ-हित- -ते बौध २, २, ४८.

†भर्मन्^२- -र्म निघ १, २^३; -^४र्मणे या ७, २५.

भार^३- -रम् †आश्रौ १०, ८, १२^६; १३^६; शाश्रौ; अप ७१, १५, ७.

भार-तप्त- -साय बौध २, ३, ५०.

भार-भरा(र-आ)क्रान्त- -न्ताः याशि २, ६६.

भार-हार- -रः या १, १८^१.

भारा(र-अ)मिनिहत- -तस्य आपय २, ११, ७; हिघ २, ४, २३.

भारिन्- > °रि-बाधुषिक- तस्कर- -राणाम् सुध २६.

भारक- -काः वैयु ५, २: १३.

भारण- (>°णिक- पा.) पाग ४, ४, १६.

२भारा- पाग ३, ३, १०४.

भा(र्षि>)र्षा- -र्षया बौपि २, ७, १०; जैय १, २१: ७; कप्र; -^१र्षा आश्रौ ३, १३, १२; वाश्रौ; -^२र्षाः काश्रौ २०, ८, २४; आमिण्य;

-^३र्षाम् आश्रौ २, १६, २५; आपश्चौ; -^४र्षायाः हिश्रौ ३, १, २८; शांय; -^५र्षायाम् आमिण्य २, ७, ४: ३; बौय ४, ११, १; कप्र;

-^६र्षायै आश्रौ १२, ९, ९; आपश्चौ २२, २, १६; हिश्रौ १७, १, ३२; -^७र्षासु शंघ ३६७; ३६८; विघ २२, ४३; -^८र्षे आमिण्य २, ७, ३: १.

भार्या-गो- -गोषु काश्रौ २५, ४, ३५.

भार्या-जित- -तस्य वाध १४, ११.

भार्या(र्षा-अ)तिक्रमण^१- -णम् विघ ५, १९२^१.

भार्या-त्व- -त्वम् विघ ४४, ४५.

भार्या(र्षा-आ)दि- -दिः बौध २, २, ७५; गौध ५, ७.

भार्या-पत्ति- पाग २, २, ३१.

भार्या-पिण्ड- -ण्डम् शंघ १८९.

भार्या-पुत्र- -त्रैः सु १८, ५.

भार्या-मय- -यम् वैध १, ९, १५.

भार्या-संयुक्त- -क्तम् मीसू ६, ८, १३.

भार्या-संज्ञा->°ज्ञिता- -त्ता आमिण्य ३, १०, १: २^१.

भार्या-सं(ज्ञक>)ज्ञिका^२- -का बौपि ३, ५, १^१.

भार्यो(र्षा-ऊ)ढ^३- पाग २, २, ३७.

भार्यो(र्षा-उ)पयमन- -नम् आमिण्य १, ६, ३: ६८.

भृत^१- -तात् विघ ३७, २१.

भृत-क- -कः विघ ५, १५३; -कम् विघ ५, १५७.

भृतक-दोष- -पात् विघ ५, १५९.

भृतका(क-अ)ध्यापक^३- -कः शंघ ३८; -कार् विघ ८२, २०.

भृतका(क-अ)ध्यापन^३- -नम् विघ ३७, २०.

भृतका(क-अ)ध्यापित- -तात् विघ ८२, २१.

†भृतकण्व^०- -ण्वः अप १, ३१, ५; अशां ९, ५.

भृत-त्व- -त्वात् मीसू १२, १, ३२.

भृत-पत्नी- -त्न्यः वाध १९, २४.

भृति^०- पाग ४, ४, १२^३; -^१तिम् आपश्चौ १०, १८, ४; माश्रौ २,

a) पाभे. वैप २, ३खं. घर्तारः मंत्रा १, ६, २८ टि. द्र. । b) = (भर्तृ-सूक्तेन [तैत्रा ३, १४] ह्ययमाना-) आहुति- । c) सप्र. भर्तृ- सूक्तेन <> भर्तृसूक्तेन इति पाभे. । d) सपा. भर्तृभिः <> भर्त्रीभिः <> घर्त्रीभिः (परि.) इति पाभे. । e) वैप १ द्र. । f) = हिरण्य- । g) पाभे. वैप १, २३७७ d द्र. । h) नाप. (आत- ताथि-विशेष-) । उप. कर्तारं कृत । i) °मिणम् इति जीसं. । j) परस्परं पाभे. । k) बस. । l) = भृति-, सेवक- । m) कस. । n) = उपपातक-विशेष- । तृप्त. । o) अर्थः व्यु. च? । p) तु. पागम. ।

१,३,१२; ६, १, ४, २६; वैश्रौ
१२, १४: १; विध ५, १५३;
-तौ पा ३,२,२२.

भार्तिक- पा ४,४,१२.

भृत्ति-प्रत्यय-पूर्वपद- दात्

पावा ५,४,११६.

भृत्ति-वचन- -नात् मीस् १०,
२,२६.

भृत्व^१- पा ३, १, ११२; -त्याः
कौस् ७६,२९; १४०, १३; अप
१९,३, २; हिध २, १, १२५^१;
-त्यान् विध ५७,१३; ६७,४२;
-त्यानाम् आपध २, २६, १;
हिध २,५, १९६; आज्यो ४,८;
-त्ये आपध २, २६, २२; हिध
२, ५, २१७; -त्येषु विध ६७,
४१; -त्यैः विध ६७, ३७; गौध
५,४५.

भृत्व-जना(न-अ)वशिष्ट- -ष्टम्
बौध २,३,१८.

भृत्व-पक्ष- -क्षाः शंघ २५१.

भृत्व-भरण- -णम् गौध १०,
५४.

भृत्या(य-अ)तिथि- -थीनाम्
बौध २,३,१७.

भृत्या(त्य-आ)दि- -दिषु अप
७२,३,१२.

भृत्या- पा ३, ३, ९९; -त्याम्
या १४,२५^१.

भृत्वा बौधौ २२,३: ६; मात्रौ.

भ्रियमाण- -णे आपध्रौ १६, ११,
११; वाध्रौ २, १, २, ३१; वैश्रौ
१८,९: १२; ११: १ हिश्रौ ११,
४,११; १२; १३; १४.

√भृ (=√हृ [दीर्घ]) > भृगि- >

√भृणीय, ऋणीयते अप
४८,२६; निघ २,१२९.

भृ (= भृ-) > भृ-कु (टि >) टी-

पावाग ६,३,४१.

√भृश् पाधा. चुरा. उभ. भापथे.

√भृक्ष^१ पाधा. भ्रा. उभ. अदने.

१भृगु^१- पाउ १,२८; पाग ७,३, ५३;

-गवः^१ ऋापध्रौ १३, २१, ३;
२४, ६, ९; बौध्रौ; ऋाप^१ ४८,
१३४; १३९; वृदे^१ १, १२८;

६, १५६; ८, १२५; निघ ५,
५^१; या ४,२३^१; ११, १८^१;

१९^१; -गुः आध्रौ ६, ३, १^१;

शाध्रौ; या ३,१७^१; -ऋगुभिः^१
आपध्रौ ४,१२,१०; १७,२३,९;

बौध्रौ; -ऋगुभ्यः^१ आध्रिण्य १,
२,२: ११; बौध्र ३,९,३; भाग्य
३,९:११; हिण्य २,१९,१; -गुम्
वैण्य १, ४: १६; अप ४३, ३,

१७; ६९,१,१; ७०, १,१; ७,८,
१; -ऋगुणाम्^१ काध्रौ २,४,३७;

आपध्रौ; -गुम्^१ हिश्रौ २१, ३,
७; आध्रिण्य २, ५,३:३२^१; बौध्र
३, ७, २१^१; शंघ ११६: ५६;

-गोः अप ६३,४,४; आज्यो ९,
१; -गौ आज्यो ६,१२^१.

भार्गव^१- -व आध्रौ १२,१०,
६-१३; आपध्रौ; -वः शाध्रौ
१५,१२,२; काध्रौ; अप ५१,१,
४^१; आज्यो ८,१^१; -वम् बौध्रौ
२२,२०: १८; द्राध्रौ २,२,२२^१;

लाध्रौ १, ६, २०^१; जैण्य २,९:
१०^१; अप; -वस्य आपध्रौ

५, ११, ७; भाध्रौ; -वाः वैश्रौ
१२, १: १९; -वाय काण्य ४,
२०^१; अप २५,१,२; -वैः अ
४६,२,३.

भार्गव^१- -वी अगां

१६, १; वृदे ४, ११^१; -वीम्
असां १७, १; -व्याम् अशां
१८,२; १९,१.

भार्गव-जामदग्न्य-वत्स-

-त्सानाम् वैध ४,२,१.

भार्गव-भौमा(म-अ)क-

-काः अप ६८,१,३.

भार्गव-शासन- -नम् कण्य

३,८,१०.

भृगु-पुत्र- -त्राः अप ५२,५,४.

भृगु-भाषित- -त्म् अप ६९,
८,६.

भृगु-वत् आपध्रौ २४, ५, १२××;

बौध्रौप्र.

भृगु-वत्सा(त्व-२आ)प्रायण- -णेषु
पा ४,१,१०२.

भृगु-शुनक-वसिष्ठ- -ष्ठानाम् मीस्
६,६,२६.

भृगु(गु-अ)क्त्रिस्^१- -रसः बौध्रौप्र
१: ६; कौस् ९४, ४; -रसाम्
बौध्रौ २,१६: ४३; बौध्रौप्र २:
५; वाध्रौ; -रसोः अप ३३, २,
२; -राः अत्रभू २; अत्र १,
१२; २५××; -रोभ्यः कौस्
१३९, ६^१.

भार्गवाक्त्रिस्^१- -सः वाध्रौ

१,४,३: १.

भृगुक्त्रिः-प्रोक्त- -क्तैः अप ४६,
७,१.

a) = सेवक- । b) पासे. पृ १८४२ d द्र. c) हृणीयते इति दे. । d) तु. BPG. । e) वैष १
द्र. । f) बहु. <भार्गव- । g) (= (माध्यमिक-) देवगणाऽन्यतम- । h) = शुक्र-वार- । i) = शुक्र-ग्रह- ।
j) = साम-विशेष- । k) = महा-शान्ति- । l) व्यप. । m) व्यप. (ऋषि-, [तद्द्रष्ट-] अथर्ववेद-) ।
मलो. कस. वा द्रस. वा । n) अणि प्र. उभयपदवृद्धिः ।

भृग्वङ्करो-गण- गेषु बौध्रौप्र
२: ६.
भृग्वङ्करो-रूप- -पम् अप ३७,
१८, ११.
भृग्वङ्करो-रूपधारिन्- -रिणे
अप २७, १, १.
भृग्वङ्करो-विद्- -वित् कौसू
९४, ३; अप ४४, २, ४; ७०,
१, ६; -विद्: कौसू ६३, ३;
-विद्म अप ३, १, १३; ३, ६;
७२, ४, ६; -विदा वैताश्रौ १, ५.
भृगु^b-> षु-तुङ्- -ञ्जे शंघ १९४;
विध ८५, १६.
भृगु-पतन-> न-सप्राण^d-देशा-
न्तर-सृत- -तानाम् काध
२७४: १.
भृग्व(गु-अ)ग्नि-जल-संग्राम- -मेषु
सुध १७.
भृग्व(गु-अ)ग्न्य(ग्नि-अ)नाशका-
(क-अ)म्बु-संग्राम-विद्युन्-नृप-
हृत- -तानाम् विध २२, ४७.
भृङ्ग-ङ्गा^e- पाठ १, १२५; पाग ४,
१, ४१; -ङ्गा: अत्रा ३, ४, ११.
भृङ्गी- पा ४, १, ४१.
भृङ्गार^f- पाठ ३, १३६; -र: अप ६८,
२, ३०; -रा: अप ६४, ७, ६.
भृङ्गार-पात्र- -त्रेषु विध २९, १३.
भृङ्गारो(र-उ)द्धृतोर्वरा-रज्जुबद्धैक-
पशु-कुमारी-मीन- -नान् विध
६३, ३३^g.

√भृज्^h पाधा. भ्वा. आत्म. भर्जनं,
भर्जन्ति बौध्रौ १३, २५: १६;
१७, ३१: १३; भाश्रौ ८, १६,
१२.
भर्जयति वैश्रौ ११, १: ९;
हिश्रौ ५, ४, २३; ८, १, ५४;
भर्जयन्ति बौध्रौ ५, ११: १६;
भाश्रौ ८, १६, १; भर्जयेत् भाश्रौ
८, ५, २०; कप्र ३, ४, ३.
भर्जन- -नात् आपश्रौ १६, ९, ८;
हिश्रौ ३, ४, २६; ११, ३, १२.
भर्जना(न-अ)र्थे -र्थम् भाश्रौ
८, १६, १; हिश्रौ ५, ४, २२;
-र्थे आपश्रौ १२, ४, १; भाश्रौ
८, ५, १४; वैश्रौ १५, ४: ८;
१०; हिश्रौ ८, १, ४९.
भर्जयित्वा वैश्रौ १५, ५: १.
भृग्ण- -ग्नान् बौध्रौ १७, ३१: १६.
भृज्यमान, ना- -न: या ३, १७;
-नासु भाश्रौ २, ३, २, ६ⁱ.
√भृज्(दीप्तौ)> १भर्ग^j- -र्ग: शांश्रौ
५, १, १०^k; द्राश्रौ^l ७, ४, ९;
११-१३; लाश्रौ^m ३, ४, ६; १०-
१२; अप ४८, ९१ⁿ; -र्ग^oम्
शांश्रौ ५, १, १०^o; आपश्रौ २१,
२२, ६; -र्गात्^p द्राश्रौ ९, ३,
१०; लाश्रौ ३, ६, ३०.
२भर्ग(वप्रा.)- पाठमो २, २, ५३^m;
पाग ४, १, १७६ⁿ; -र्ग^oऋअ २,
८, ६०; साअ २०, ११८^p.

भा(र्गिं)>र्गी- पा ४, १,
१७६.
भार्गायण- पा ४, १, १११.
भर्ग^q- पाठ ४, २१६; -र्गी:
आश्रौ ६, १२, २^q; शाश्रौ २,
१०, २; १८, २०, ८; काश्रौ १३,
१, १२^r; आपश्रौ १०, १,
४ⁱ; बौश्रौ २, ४: २२ⁱ;
३, ९: ४; १७, ४३: १०;
माश्रौ ५, २, १५, २ⁱ; वाश्रौ १,
१, ५, २ⁱ; हिश्रौ ७, १, ११ⁱ;
वैताश्रौ २१, ९; आश्रु १, २३,
१५ⁱ; आश्रिगु.
√भृज्ज, भृज्ज (= √भृज्ज)^h पाधा.
तुदा. उभ. पाके, भृज्जति वाश्रौ
१, ७, ४, १६; सागु १, ११, २;
गोश्रु ३, ७, ७; अप ४८, १९^h.
भृज्जन^o- पाठ २, ८०.
भृज्ज्यमा(न>)ना- -नासु भाश्रौ
१, ७, ६, ८ⁱ.
भृष्ट, ष्टा- -ष्टा: भाश्रौ ८, ५, १८^h.
कप्र ३, ९, १^h.
भृष्ट-पिष्ट- -ष्टम् कौसू २२, १.
अष्ट^o- -ष्टात् भाश्रौ १, ५, ४, ४;
६, १, ३, २७; वाश्रौ १, ४, ३, ६;
कौसू ६९, ८; -ष्टे कौसू ४७,
२८; ४९, २१.
आष्ट^o- पाठ ४, १६०; -ष्टात्
काग २५, ८; -ष्टे या ५, १२.
आष्ट-ज- पा ६, २, ८२.

a) उप. <√विद् [ज्ञाने]। b) नाप. ([अतट-]प्रपात-। c) = [केदारवि-साहचर्यात्] तीर्थ-
विशेष-। d) पाठः? संग्राम^o इति शोधः (तु. सप्र. विध २२, ४७)। e) वैप १ द्र.। f) = सुवर्णमय-पात्र-।
g) षड्पशु इति जीसं.। h) पावा १, १, ४७ परामृष्टः द्र.। i) सपा. भृज्य^o<> भृज्ज्य^o इति पाभे.।
j) = साम-विशेष-। k) सुवर्ण-नामन्-। l) पाभे. वैप २, ३खं. भर्ग^o-> -र्ग: तां १, १, १ टि. द्र.।
m) <√भृ। n) = देश-विशेष-। o) = ऋषि-विशेष-। p) षाम इति पाठः? यनि. शोधः। q) पाभे.
वैप १, २३७८ i द्र.। r) वर्गः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. चौसं.। s) पा ६, १, १६; १७; ४, ४७; ७,
२, ४९; ८, २, ३६ पावा ६, ४, ४७ परामृष्टः द्र.। t) घा. हिंसायां वृत्तिः। u) अष्टाः इति पाठः? यनि.
शोधः। v) एकतरत्र भष्टाः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. अष्टु.)। w) = भृज्जन-।

आप्ट्म-इन्ध- पावा ६, ३, ७०.
 भृज्यकण्ठ^a-> ंण्ड-साहित्य-वेद्य-
 वेदेहक-कान् गौध ४, २०.
 √भृङ् पाधा. तुदा. पर. निमज्जने.
 भृणि-, √भृणोय √भृ (दीर्घौ) द.
 भृत-, भृत-क- प्रभृ. √भृ (वधा.) द.
 √भृम्, भ्रम् (वधा.)^b पाधा. भ्वा.
 पर. चलने; दिवा. पर. अन-
 वस्थाने, भ्रमते अप २९, २, ३;
 ७०^३, २३, २; भ्रमति वैद्य ५, १:
 १८; अप ५८^३, ३, ३; ६८, ३,
 १२^३, ७२, १, ५; निघ २, १४^३;
 भ्रमन्ति अप ५२, ४, १; ६८, १,
 ४७; ७०^३, ११, २०; २२; भ्रमेत्
 आग्नि ३ ६, ४: ९.
 भ्रम्यात् पाठ ३, ७, ३; १४, १३.
 भ्रामयति अप १८^३, १, १०;
 भ्रामयेत् अप २२, ८, २.
 भृम^c- भ्रम् ऋपा ७, ४०^३.
 भृमि^d- पाठ ४, १२१; -मयः
 आश्रौ ७, ९, २^३; शांश्रौ १२,
 ११, २४^३; या ९, २४^३; -^eमिः
 द्राश्रौ ७, २, ७; लाश्रौ ३, २, ७;
 निघ ४, ३; या ६, २०^३.
 भृम्य(मि-अ)श्^f- -श्चः या ९,
 २४.
 भार्म्यश्च- -श्च आश्रौ
 १२, १२, १; आपश्रौ २४, ८, ७, ८;
 बौश्रौप्र २५:३; वैध ४, ३, ९१^६,
 -श्चः ऋअ २, १०, १०२; वृदे
 ६, ४६; ८, १२; या ९, २३; २४.
 भृम्यश्च-वत् आपश्रौ २४, ८,

७, ८; बौश्रौप्र २५:४; वैध ४, ३,
 ९६^६.
 भ्रम- पा ३, १, १४०; -मान् काशु
 ७, ४^६.
 भ्रमन्- पाग ३, १, १२; -मन् वैद्य
 ५, १: २६; -मन्तः अप ६८,
 १, ४६; ७०^३, ७, ४.
 √भ्रमाय पा ३, १, १२.
 भ्रमयन्- -यन् कौसू ९९, २^३.
 भ्रमर- पाठ ३, १३२; -रः शंघ
 ३७७: १७.
 भ्रामर- पा ४, ३, ११९.
 भ्रमि- पाठ ४, १२१.
 भ्रमिन्- पा ३, २, १४१.
 भ्रान्त-> ंन्त-चित्ता(त्त-प्रा)प्लुते-
 (त-ई)क्षण^g- णाः अप ६८, १,
 ४०.
 भ्रान्ति- -न्त्या याशि २, ६८.
 भ्राम- पा ३, १, १४०.
 भ्रामक- -कः अप २२, ७, ५.
 भ्रामयित्वा वैश्रौ १, २: ४; ३: २.
 √भृश पाधा. दिवा. पर. अघःपतने.
 १भृश^h- पाठभो २, ३, १४१; पाग ३,
 १, १२; ५, १, १२३; ८, १, ६७;
 -शम् अप ३०^३, १, ७; ५३, १,
 ४४४; वृदे ४, २३; या.
 भाश्यं- पा ५, १, १२३.
 भृश-ता-, भृश-त्व- पा ५, १, १२३,
 भृश-दण्ड^k- ंण्डः विध ३, ९६.
 भृश-दारुण- णाः अप ५२, ८, ३.
 √भृशाय पा ३, १, १२.
 भ्रशिमन्- पा ५, १, १२३.

२भृ(ग>)शाⁱ- -शा काय २८, ४^३.
 भृष्मि^j- -ष्टीः कौसू १६, २९^३; -ष्टीन्
 अशां २१, १^०.
 १भृष्टिमतः साअ १, ३२७.
 भृष्टि-ल^l- -लः नाश्रौ १, २, १, ७;
 -लम् वाश्रौ १, ३, १, ३१.
 √भृ^m पाधा. क्था. पर. भर्त्सने, भरषेⁿ
 हृच्छने^f.
 भेक- पाठ ३, ४३.
 भेत्तवै, भेत्तु-, भेद- प्रभृ. √भिद् द.
 भेर- पाठ २, २८.
 भेरि, री^o- पाठ ४, ६६^३; -र्यः अप
 ७०^३, २, २.
 भेरी-सुरज-गोमुख- -खाः अप ७१,
 १५, ६.
 भेयां(री-प्रा)वात-वत् पावा १, १, ७०
 भेल- पाठ २, २८.
 √भेष पाधा. भ्वा. उभ. भये, गतौ^p.
 भेषज- प्रभृ. १भिषज्-द.
 भैक्ष- प्रभृ. √भिक्ष द.
 भैक्षवाह^q- -हाः बौश्रौप्र २४: २^३.
 भैक्षुक-, भैक्ष्य- प्रभृ. √भिक्ष द.
 भैतायनि- रभीत-द.
 भैदिक- √भिद् द.
 भैमगव^r- -वः बौश्रौप्र २२: १.
 भैमसेनि-, भैरव- √भौ द.
 भैलि^s- -लिः बौश्रौप्र २४: २.
 १भैषज-, १भैषज्य- १भिषज्-द.
 २भैषज-, २भैषज्य- २भिषज्-द.
 भैष्णाज-, ंज्य- २भिष्णज्-द.
 भोक्तव्य- प्रभृ., १भोग- √भुञ्
 (पालना^t) द.

a) = जाति-विशेष-। b) या ६, २० पा ३, १, ७०; ६, ४, १२४; ७, ३, ७४ परामृष्टः द.। c) वैप १ द.।
 d) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द.। e) विप. (अश्व-).। f) ऋषि-विशेष-। बस.। g) यक. धार्म्या इति धर्म्या
 इति च पाठौ इ यनि. शोधः (तु. आश्रौ. प्रभृ.)। h) भाप.। i) बस.>कस.>वस.। j) = अति-नाय-। -शम् इति
 वा. क्तिवि.। k) बस.। l) विप. (तनू-).। अर्थः व्यु. च?। m) नाप.। अर्थः व्यु. च?। n) = पवि-
 इति दारिलः। o) = वनस्पति विशेष-। p) पाप्र. मत्वर्थीयः लृच् प्र. उत्सं. (पा ५, २, ९७)। q) पा ७, ३, ८०
 परामृष्टः द.। r) तु. BPG.। s) = वाद्य-विशेष-। t) <√भौ। u) व्यप.। v) भैक्षवो इति संस्कृतुः टि.।
 वैप४-प्र-५४

२भोग- √भुज् (कौटिल्ये) द्र.

३भोग- > २भोगन्वत्- (> १^० -
पा.) पाग ४, १, ७३.

भोगक^१- (> भौगक- पा.) पाग २,
४, ६७; ४, १, १०४.

भोगवत्- भोग्य-१भोज- √भुज्
(पालना^०) द्र.

२भोज^१- (> भोज्या- पा.) पाग ४,
१, ८०.

भौजि^०- (> १भौजीय- पा.)
पाग ४, २, १३८.

भोज-दुहितृ-, भोज-पुत्री- पावा
६, ३, ६९.

भोजा(ज-आस्था >) ह्य- ह्यः
वैध ३, ११, ६.

भोजक-, भोजन- प्रभृ. √भुज्
(पालना^०) द्र.

भोजसिन्^१- -सिनाम् बौश्रौप्र २६:
२.

भोजि^०- (> २भौजीय-).

भोज्य √भुज् (पालना^०) द्र.

भोस्^१- भोः आश्रौ ८, १४, १५;
बौश्रौ १८, ४६ : १६; आण्य;
आण्य ११, ८^०; हिर १, ६,
१०^०; भोः आण्य १, २१, ४^०;
शाण्य २, ५, ११^०; ७, ८^० × ×;
पाण्य; पावा ८, ३, १.

भो-भगो-अधो-अ-पूर्व- -र्वस्य पा
८, ३, १७.

भो-नाजन्त्य-विश्व- -विशाम् पावा
८, २, ८३.

भोः-शब्दा ब्द-अ)न्त^१- -न्तम्

विध २८, १७.

भौजिद्य- √भुज् (पालना^०) द्र.

भौत-, भौतिक- प्रभृ. √भू द्र.

भौत्य-, भौत्यायनी- २भूत- द्र.

भौम- प्रभृ., भौमिक- √भू द्र.

भौयसि-, भौयि- २भूयस्- द्र.

भौर- २भूरि- द्र.

भौरि^०- (> ०री- पा.) पाग ४, १, ४१.

भौरिकि^१- पाग ४, १, ४१^१; ८०;
१५४; २, ५४; ११६.

भौरिकी- पा ४, १, ४१.

भौरिकायणि- पा ४, १, १५४.

भौरिकिका-, ०की- पा ४, २, ११६.

भौरिकि-विध- पा ४, २, ५४.

भौरिक्या- पा ४, १, ८०.

भौलिकि^१- पाग ४, १, ४१; ८०;
१५४; २, ५४.

भौलिकी- पा ४, १, ४१.

भौलिकायनि- पा ४, १, १५४.

भौलिकि-विध- पा ४, २, ५४.

भौलिक्या- पा ४, १, ८०.

भौलिङ्गि^१- पाग २, ४, ५९; ४, १, ४१;
२, ११६.

भौलिङ्गी- पा ४, १, ४१.

भौलिङ्गिका-, ०की- पा ४, २,
११६.

भौवन-, ०नि- √भू द्र.

भौवन्यव- भुवन्यु- द्र.

भौवायन- √भू द्र.

√भ्यस् पाधा. भ्वा. आत्म. भये,
भ्यस्ते निघ ३, २९^१; या ३,
२१; अभ्यसेताम् ण्या ३, २१;

१०, १०.

विभ्यस्यत्- -स्यन्तः या १, १०^१.
अ- (= १भू- >) अ-कुंसी- अ-कुटि^१-
पावाग ६, ३, ६०.

√अंश्^१ पाधा. भ्वा. आत्म. अवसंसने;
दिवा. पर. अधःपतने, अंशते
तैप्रा १६, २२^१.

अशत् बौश्रौ १८, १६ : १५^१.

अंश- > अंश-कला^{१०} (> ०ला
√कृ पा.) पाग १, ४, ६१.

अष्ट- अष्टः शैशि १५ ९^३; माशि ३,
२^३; -ष्टम् वाध ६, २; -ष्टाः
अप ४१, ४, ३.

√अंस^१ पाधा. भ्वा. आत्म. अवसंसने.
अंस- > अंस-कला (> ०ला/√कृ
पा.) अंश-कला टि. द्र.

अ-कुंस-, ०कुटि- अ- द्र.

√अक्ष् पाधा. भ्वा. उभ. अदने.

√अञ्ज् √सृज्ज् द्र.

√अण् पाधा. भ्वा. पर. शब्दे.

√अभ्रम्, अभ्र- प्रभृ. √*सृम् द्र.

अशिमन्- १सृश- द्र.

अष्ट- √अंश् द्र.

अष्टक^१- पाग २, ४, ६९; -काः बौश्रौप्र
१९ : २.

अष्टक-कपिष्ठल- पाग २, ४, ६९.

अष्ट- √सृज्ज् द्र.

अस्ता^१- -स्ताम् आपश्रौ १३, १९, ८.

√आञ्^१ पाधा. भ्वा. आत्म. दीप्तौ,
आजते अप ४८, २०^१; वृदे १,
९३; निघ १, १६^१; नाशि २,
८, १९; आजन्ति अप्राय २, ७;

a) व्यप. । व्युः! । b) = क्षत्रिय-विशेष- । c) भोजि- इत्यपि पागम. । d) वैप १ द्र. । e) पामे.
पृ १८४८ k द्र. । f) कस. > बस. । g) तु. पाका. । भौरिकि- इति पाभं. । h) भूरि-क- > यनि. इति
पागम. । i) तु. भारुडा. पासि. च । j) = स्त्रीविषधारि-नर्तक- । बस. उप. = भाषण- वा शोभा- वेति पासि.
प्रभृ. । k) = भ्रुकुटि- । l) या २, २२, ५, १९ पा १, ३, ९१; ३, १, ५५ परासृष्टः द्र. । m) पामे. वैप १,
२३७९ ४ द्र. । n) = हिंसा- (तु. पागम.) । o) तु. पाका. पासि. । अंस^० इति भाण्डा. प्रभृ., [पक्षे] पासि. ।
p) < भस्त्रा- इति भाष्यम् । q) पा ६, ४, १२५; ७, ४, ३; ८, २, ३६ परासृष्टः द्र. ।

†भ्राजतु^a आधिग १, ५, ४ :
 ४७; मागृ १, १९ : ९; हिर्य १,
 २२, १४.
 †भ्राज्^b- भ्राजस् बौध्रौ ६, १२ :
 ७; जैगृ १, २३:६.
 २भ्राज्^c- पा ३, २, १७७; †भ्राद्
 आपथौ १६, ३०, १; वैश्रौ;
 ०भ्राद् बौध्रौ १९, १० :
 २६†^d.
 †भ्राजिष्ठ- ०ष्ठ काश्रौ १२,
 ३, ६^d; -ष्ठः शुप्रा २, ४०.
 †भ्राज्^e- †०ज् काश्रौ ७, ८, २२;
 आपथौ १०, २६, १५; बौध्रौ.
 भ्राज-भृष्टि^f- -ष्टिमिः गोगृ ३,
 ४, १९^f.
 भ्राज-भृष्णु^g- -ष्णुः पागृ २, ६,
 १६^g.
 २भ्राज^h-> भ्राजा(ज-भ्रा)दि-
 -दि जैश्रौका ५४.
 भ्राजा(ज-भ्रा)भ्राज- -जयोः निस्
 १०, १३ : १; २; -जाभ्याम्
 जैश्रौ २६ : १३.
 †भ्राजत्- -जन् कौस् १७, ८; अप
 ३३, ५, २; ६, ४; अशां १८, २;
 -जन् वैताश्रौ १४, १ⁱ; -जन्तः
 आपथौ १६, १२, १; हिश्रौ.
 †भ्राजन्ती- न्ती साअ १,
 ६१६; उनिस् ६ : १३.
 भ्राजद्-भृष्टि^j- -ष्टयः शांश्रौ
 १८, २३, ३†.
 भ्राजमान- -†नः आपथौ १६, १२,
 १; बौध्रौ; -नाः या ३, १५.

†भ्राजस्^b- -जः बौश्रौ १३, ३५ :
 १४; १४, ११ : २६; वाश्रौ;
 -जसा या ३, १५; -जसे
 बौश्रौ १४, ११ : २३.
 भ्राजस्-कर^b- -०र वाश्रौ ३,
 २, ४†^d.
 †भ्राजस्-वत्- -वते आपथौ
 १९, २३, ३; बौश्रौ १३, ३० :
 ३; ४; १४, ११:१९^f; २१^f; १६,
 १८ : २^g; माश्रौ ५, २, २, १९;
 -वन्तः या ३, १५; -वन्तम्
 बौश्रौ १४, ११ : २२^f.
 भ्राजस्वती- -न्तीः आपथौ
 १६, ११, १३^k; -न्तिमिः वाश्रौ
 २, १, २, ३१; वैश्रौ १८, १० :
 १०^l.
 †भ्राजस्-विन्- -विन् शांश्रौ
 १०, ४, १२; आपथौ; -वी^m
 शांश्रौ १०, ४, १२ⁿ; बौश्रौ
 १४, ११ : २१.
 भ्राजिष्णु- पा ३, २, १३८.
 भ्राजिनाक्षत्रेय^m- -याः बौश्रौ १९ :
 ३.
 भ्रातृ^b- पाउ २, ९५; पागृ ४, १, ३५;
 ५, १, १३०^o; -†०तः वृदे ४,
 ५२; ऋप्रा १, १०१; -तरः
 शांश्रौ १५, २६, १†; बौश्रौ;
 -तरम् शांश्रौ १३, ११, १;
 माश्रौ; -तरि वाधूश्रौ २, १ : २;
 गौघ १८, १९; पा ४, १, १६४;
 पावा ४, २, ३६; -तरौ पागृ १,
 १६, २४; वृदे ७, १५५; या २,

१०; -ता आश्रौ ३, ३, १†;
 शांश्रौ; -तुः आपमं २, २, ५†^p;
 शांश्रौ ५, ९, ६; मागृ २, २७ :
 १४†^p; हिर्य १, १४, २†^p;
 आपथः पा ५, ४, १५७; -तुमिः
 कौगृ १, ५, २६†; शांश्रौ १,
 ९, ९†; कप्र ३, १, १०; वृदे
 ७, ७७; -तुषु आपथ १, १४,
 ९^q; वृदे ७, ६१; ऋअ २, १०,
 ५०; -तृणाम् काश्रौ २२, ११,
 ११; वैगृ; -त्रा सु २१, ४;
 अप २०, २, ९; -त्रोः काश्रौ
 २२, ११, १२; बौश्रौ १८, ३५ :
 १२; पागृ ३, ७, २.
 भ्रातृष्-पुत्र- पाग ८, ३, ४८.
 भ्रातृष्पुत्र-ग्रहण- -णम् पावा
 ८, ३, ४१.
 भ्रातृ-गामिन्- -मि विष १७, ८;
 शंघ २९३.
 भ्रातृ-पत्नी- पाग ४, १, ३५;
 -त्नीनाम् बौध १, २, ३४.
 भ्रातृ-पितृभ्रातृ-मातुला(ल-भ्रा)चार्य-
 (र्य-ऋ)विंगा(पू-२भ्रा)द्य- -द्यैः
 वैघ ३, ३, ८.
 †भ्रातृ-पुत्र^r- -त्राः गौपि १, ४, १.
 भ्रातृपुत्र-गामिन्- -मि विष
 १७, ९.
 २भ्रातृ-पुत्र- -त्रौ पा १, २, ६८.
 भ्रातृ-पुत्र-पितृ-भृश्रु- -राणाम् पावा
 १, २, ७१.
 भ्रातृ-भगिनी- -नीषु हिघ १, ४,
 ४१^r.

a) पामे. पृ ८११ h द्र.। b) वैप १ द्र.। c) पामे. वैप १, १७६९ l द्र.। d) पामे. वैप १,
 २३८० i द्र.। e) वस.। f) पामे. वैप २, ३३६. मंत्रा १, ७, ६-८ टि. द्र.। g) = साम-विशेष-। घा. अर्थः ?।
 h) उप. टः प्र. डसं. (पा ३, २, २१)। i) पामे. वैप १, २३८० g द्र.। j) पामे. वैप १, २३८० j द्र.।
 k) सप्र. आपथौ १६, ११, १२ वाश्रौ २, १, २, ३१ रश्मिबलीः इति, वैश्रौ १८, १० : ७ रश्मिबलीभिः इति च पामे.।
 l) पञ्च इति पाठः? यनि. शोघः (तु. वाश्रौ)। m) पामे. वैप १, २३८० k द्र.। n) व्यप.। o) पृ १८५३
 भ्रातृ- इति नेष्टम्। p) सपा. पागृ ३, ७, २ मातुः इति पामे.। q) पामे. पृ १८४१ f द्र.। r) वस.।

आत्-भार्या- -र्याणाम् गौघ ६, ८.
 आत्-मत्- -मान् हिश्रौ ४, ३, १.
 आत्-वल- -पावा ५, २, ११२.
 आत्-विही(न>)ना- -ना विघ १५, ६.
 १आतृव्य^b- पा ४, १, १४४.
 आत्-स्त्री-काम- -माय अप २०, ४, २१.
 आत्-स्थान^c- -नः आगृ १, ७, ८.
 आत्- पा ५, १, १३०.
 आत्नीय- पा ४, १, १४४.
 २आतृव्य^b- पा ४, १, १४५; -व्यः शाश्रौ ४, १२, १०१; १४, ४२, ६; आपश्रौ; -व्यम् ऋशाश्रौ १, ५, १५; -व्यस्य आपश्रौ ४, १२, ६१; बौश्रौ; -व्याः बौश्रौ २४, २५; १८; अप्राय ३, २; -ऋत्याणाम् आपश्रौ ६, २०, २; वाश्रौ १, ५, ४, २१; हिश्रौ; -व्यान् शाश्रौ १०, १५, ८१; १४, २३, १; आपश्रौ; -व्याय आपश्रौ ३, १६, ८१; २२, ३, १३; बौश्रौ १३, १० : ५१५; हिश्रौ; -व्ये बौश्रौ २, ५ : ४१; १३, १६ : २; -व्येण आपश्रौ १२, २१, १९; २२, ५, १६; बौश्रौ.
 १आतृव्य-क्षयण^b- -णम् कौसू ४८, १, अथ २, १८; अपं २ : ११.
 आतृव्य-क्षेत्र- -त्रम् आपश्रौ १९, १९, १०; -त्रे हिश्रौ २२, ३, ९.
 आतृव्य-गवी- -वीम् आपश्रौ १९, १९, ३; हिश्रौ २२, २, २६.

१आतृव्यतान्^d अप ३३, ६, ९१.
 आतृव्य-तिस्तीर्षा^e- -र्षा आपश्रौ २२, २, ९.
 आतृव्य-देवता->°व(त्य>)त्या- -त्या बौश्रौ ३, १७ : १८.
 आतृव्य-पराणुत्ति- -स्यै भाशि ३११.
 आतृव्य-यज्ञ- -ज्ञे आपश्रौ १३, ९, ४
 आतृव्य-वत्- -वतः आश्रौ १०, १, ३; काश्रौ; बौश्रौ ७, ७, १०१; -वता आपश्रौ १२, ८, १२; वाश्रौ ३, २, ५, १८; हिश्रौ; -वन्तम् आपश्रौ १८, ९, ९; वाधूश्रौ ४, ९० : ६; हिश्रौ; -वान् आश्रौ ९, ५, ११; १०, २, २५; आपश्रौ.
 आतृव्य-वध- -धम् लाश्रौ ८, ५, ११; निसू ६, १० : २४.
 आतृव्य-सङ्ख्य^f- -ङ्ख्येषु वौगृ २, १, १९.
 आतृव्य-ह^g- -हम् अप ३३, ६, ८१;
 आतृव्य-हर्^h- -हगम् आपश्रौ १६, ३०, १; वैश्रौ १८, २० : ४३; हिश्रौ ११, ८, ४; -हा आपश्रौ ११, १२, २; बौश्रौ ६, २८ : २८; वैश्रौ १४, ७ : १४.
 आतृव्या(व्य-अ)पनुत्ति- -स्यै भाशि ३११.
 आतृव्ये(व्य-ई)प्सा- -प्सायाम् हिश्रौ १७, २, १५.
 आन्त-, आन्ति- ✓सुम् द.
 १आपराग्न्यव्यय वाश्रौ ३, ४, ३, १८.

भ्राम-, भ्रामक-, आमर- ✓सुम् द.
 भ्रामरिन्ⁱ- -री विघ ४५, २६.
 ✓भ्राश^j पाधा. भ्वा. आत्म. दीप्तौ, ऋशाश्रौ अप ४८, २०; निघ १, १६.
 आश्रयति निघ १, १६१;
 भ्राष्ट- प्रभृ. ✓सृज् द.
 भ्राष्ट्रविन्दु- -न्दवः बौश्रौप्र १९ : २.
 भ्राष्ट्रम्-इन्ध- ✓सृज् द.
 भ्रियमाण- ✓सृ द.
 ✓भ्री (वधा.) पाधा. कया. पर. भये, भरणे च, ऋशाश्रौ अप ४८, १८; निघ २, १२.
 भ्रुमल- पाठना १, १०४.
 भ्रुमि^k- -मिमि भाशि २११.
 भ्रुव^l-> वा(व-अ)शिलोम-शिखा- वर्जम् वाध २४, ५०.
 १भ्रू^m- पाठ २, ६८; पाग ५, २, २४५;
 भ्रुवः काश्रौ ७, ३, २७; याशि १, ५५; ५७; भ्रुवि भाशि २११;
 भ्रुवोः आपश्रौ ४, ५; वृदे ८, ११३; ११७; नाशि १, ७, १; भ्रुवो पागृ ३, ६, २; विघ ९६, ९२; भाशि १२, ५.
 भ्रु-कुंस्ⁿ- पावाग ६, ३, ४१; ६०.
 भ्रु-कुटि^o- पावाग ६, ३, ६०.
 भ्रु-कुटि, टी^p- पावाग ६, ३, ६०; -टीम् विघ ३, ९०.
 भ्रु-जाह- पा ५, २, २४.
 १भ्रू-भङ्ग^q-
 भ्रू-मध्य- -ध्यम् वैध १, ११, ४.

a) तु. पाम. । b) वैप १ द. । c) बस. । d) पाठः? आतृव्याणाम् इति शोधः (तु. संस्कृतः टि.) । e) षस. उप. भाप. <✓सृ (हिंसायाम्) । f) °व्यतः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र. तै ६, ४, ११, १) । g) उप. =संभ्राम- । h) उप. डः प्र. उसं. (पा ३, २, ५०) । i) =अपस्मारिन् (तु. मनुः १३, १६१) । j) पा ३, १, ७०; ६, ४, १२५ परामृष्टः द. । k) घा. क्रोधे वृत्तिः । l) वैप २, ३ खं. द. । m) षमे. वैप १, २३७९ ० द. । n) =भ्रू- । o) भ्रुवोक्षि^r इति पाठः? यनि. शोधः । p) भ्रू-भङ्ग- इति पाठा. ? । q) =भ्रू-कुंस् । r) षस. उप. <✓कुट् ।

अमध्य-ना- नाः वैध १, १०, ३; ११, ४.
 अमध्य-गत- -तस्य वैध १, ११, १०.
 अ-भ्र- भ्रुवः चाञ्च ३८ : १०.
 औवेय- पा ४, १, १२५.
 √अण् पाथा. चुरा. आत्म. आसा- विशङ्कोः
 अण्^१- पाठमो २, १, १२३; -णः वौघ १, ७, ६; वैघ १, १ : १५; -णम् वौघ १, ७, १६; -णानि वाध १७, ७१.
 अण-अ- -अन वौधौ २७, ९ : ६.
 अण-हत्या- -त्या वाध १, २०; ५, ८; २८, ७; -त्याम् वैघ ७, १ : ९; वैघ ३, १४, ९; या ६, २७; -त्यायाः वौधौ २६, १० : २३; वाध ५, ८; वौघ २, १, ५९; ३, ७, ३; गौघ २४, ९; -त्यायाम् वाध २३, ३८; -त्यायै शाश्रौ १६, १८, १९; आपश्रौ २०, २२, ६^०; हिश्रौ १४, ५, ४^०; वाध ५, ८^०; वौघ ४, १, १३; १९.
 अणहत्या-विधि- -धिः वौघ ४, २, ६.
 अणहत्या-सम- -सम् वौधौ २९, ८ : २४.
 अण-हन्- पा ३, २, ८७; -न्ना विध ५१, १७; गौघ १७, ११; -न्ने आपघ १, २९, १; हिघ १, ७, ५७; -०हन् वाध ५, ८^०; -हन्म् वाध २०, २३; २६, ४; वौघ ४, १, २९; गौघ २०, १;

-हनि गौघ २१, ९; -हा आमिघ २, ४, ४ : २; वैघ.
 अण्^२- -श्रीम् वौघ ४, १, २२.
 औगहत्या- पा ६, ४, १७४; -त्ये पावा ६, ४, १७४.
 अण-हनन- -नम् वौघ ३, ५, ६; ६, १८.
 अण्क^३- -के वौधौ २५, ८ : १६.
 अण्मुखे^४ वौघ १, १, २६.
 √अञ् पाथा. भ्वा. आत्म. दीप्ति.
 √अण्ये (वधा.) पाथा. भ्वा. उभ. गतौ, अण्येते अप ४८, १८^०; अण्येति निघ २, १२^०.
 अण्ये- -यः आपश्रौ ९, १६, ४^०; १४, ३२, ७^०; वैश्रौ २१, ३ : ११; -षम् वौधौ १६, ९ : ४^०; २०, १९ : ३२; ३३; ३५; लाश्रौ ९, १२, १२; -षाः वौधौ २०, २३ : १२; १३; -षात् वौधौ १८, २ : ७; १३ : १७; ४१ : १८; -षे माश्रौ ३, १, १^०.
 अण्ये-कृत- -तम् वौधौ २०, १९ : ३४; ३५.
 √अण्ये पाथा. भ्वा. उभ. अदने.
 √अण्ये पाथा. भ्वा. आत्म. गतौ.
 √अण्ये पाथा. भ्वा. उभ. गतौ.

म

म^१ पि १, १.
 म^२ वाधुश्रौ ३, ४१ : १^०.
 म^३- ऋन ३, ३, १०×४; मः ऋत ४, ४, १०; माशि ७८; ८०.

म-कार- -रः शाश्रौ १, २, ११; आमिघ; -रन् विध ५५, १०; -रस्य वौघ २, २५; ३१; वौघ; -रान् ऋप्रा ६, २३; -रे आश्रौ १, ५, १४; हिश्रौ.
 मकार-निलय- -यम् या १४, ३०.
 मकार-पर^०- -रः तैप्रा ८, ४; -रे शुप्रा ४, १८८.
 मकार-पूर्व^०- -र्वः तैप्रा ५, ३५.
 मकार-लोप- -पः तैप्रा १३, १; अप्रा २, १, ४; -पे ऋप्रा ११, ४८.
 मकारा(र-अ)न्त^०- -न्तः आश्रौ ७, ११, १३; शाश्रौ १, १, २०; -न्तम् आश्रौ १, २, १०; शाश्रौ १, १, २२; -न्तानि अप्रा २, १, १५; ४, १७; १८; -न्ते याशि २, ४२; -न्तेन वैताश्रौ २१, ४.
 मकारान्त-त्व- -त्वम् पावा १, ४, ७४; ४, ३, २३; -त्वान् पावा २, ४, ८१.
 मकारान्ता(न्त-अ)र्थ- -र्थम् पावा ३, ४, २६.
 मकारा(र-अ)बाध- -धे अप्रा २, ४, १६; १८.
 मकारा(र-अ)वग्रह^०- -हाणि अप्रा २, ३, २७.
 म-थो(थ-उ)द्य^०- -यः शुप्रा ३, ६७.
 म-पूर्व^०- -र्वः पा ६, ४, १७०.
 मपूर्व-प्रतिषेध- -धे पावा ६, ४, १७०^०.

- a) =योगि-विशेष-। b) व्यप.। c) षोः इति पाठः? यनि. शोधः। d) वैप १, २३८४ d द्र.। e) पाभे. वैप १, २३०४ g द्र.। f) =भू-मध्य-। g) पाठः? अमके इति शोधः (तु. वौधौ २५, ८ : १६ इत्यत्र संस्कृतुः टि.)। h) धा. क्रोधे वृत्तिः। i) परस्परं पाभे.। j) सपा. यज्ञं अण्ये-<> यज्ञं अण्ये-<> अण्ये इति पाभे.। k) पा ३, १, ७०; ६, ४, १२५ परासृष्टः द्र.। l) =म-गण- [छन्दोगण-]। m) पाठञ्जितः। n) =वर्ण-विशेष-। o) बस.। p) द्रस.>बस.। q) तु. पाका.। मपूर्वात् इति भाष्या. प्रसृ.।

१म-र- नौ अप्रा ३, २, २४.

म-लोप- -पः पावा ५, ३, ७, २; -पाव
तैप्रा १५, १; १७, ४.

मलोप-वचन- -नस् पावा ८, १,
६७; -नात् पावा ६, ४, १७४.

म-सवर्ण- -र्णम् वाशि २, ४२.

मा(म-आ)दि- -दीनाम् फि ५३.

मा(म-अ)न्त^१- -न्तः भाशि ९९;
-न्तस्य पा ७, ३, ३४; -न्ते
माशि ४, १०.

मान्ता(न्त-अ)व्यय-प्रतिषेध-
-धः पावा ३, १, ८.

मंश्च(श्-च)तु^१- -तोः ऋप्रा ४, ८२१.
!मंस्तः^० बौश्रौ २५, ३२ : १२; २२;
२८.

√मंह् (बधा.)^{b'd}, मघ्, मह् पाधा.
भ्वा. आत्म. वृद्धौ; भ्वा. पर.,
चुरा. उभ. पूजायाम् भाषायाम्
च, मंहते निघ ३, २०^१;
मंहस्व काण ३२, ३^१; मंह
बौश्रौ ८, ६ : ७^१; मंहत् अप
१, ४८, १-४; ४९, ६; अशां
१३, २; अमंहत् शाश्रौ १६, ९,
१३^१.

महते अप ४८, १३^१.

१मामहन्ताम् अप्राय ६, १;

ऋप्रा ९, ३२; श्रुप्रा ३, १२९.

१मामहे शाश्रौ १२, १४, १.

महयति बौगृ १, २, ६३; भागृ
२, ५ : ९; १६; १७; अप ४८,
९^१; निघ ३, १४^१; महयन्ति
कौगृ ३, १२, ११; काण ५७, १;

महयसि कौस् ४६, ५४^१; मह-
य > या ऋप्रा ८, १३^१; महयत्
कौस् ८४, ९^१; महयाम् आग्निगृ
२, ५, ३ : ३३^१; महयत् बौगृ
१, २, ६३; वाध ८, १२.

१महयिष्यतः द्राश्रौ ११, २, ५;
लाश्रौ ४, २, ४^१.

मंह-> १मंहिष्ठ- -ष्ठः शाश्रौ १८,
१५, ५^१; आपश्रौ; -ष्ठस्य तैप्रा
१६, २७; -ष्ठाय आश्रौ ६, १, २;
७, ८, १; ८, ६, १३; शाश्रौ.

मंहन-> १नीय- -न्यः या ३, १३;
-यस् या ४, ४; १२, ६.

मंहना^१- -ना निस् १, ५ : ५.

मंहमा^१- -माय गौध २६, १२.

१मघ^१- -घः भाशि ४०; -घम्
अप ४८, ९०; निघ २, १०;
या १, ७^१; ४, १५; -वस्य ऋप्रा
९, २०^१; -घा या ५, १६^१.
१मघ-वत्- -वते बौश्रौ १८,
२८ : २१; २६, ३१ : १०; ११;
-वत्सु बौश्रौ १३, ९ : ४;
-वद्धिः आग्निगृ २, ५, ८ : ११;
-वन्तम् बौश्रौ २६, ३१ : ८;
-वान् शाश्रौ १८, १९, ८;
वाधूश्रौ ४, २८, ११; वैताश्रौ.

मघवती- -ती या १, ७.

मघ-वन्^१- पाउ १, १५९; पा
६, ४, १२८; -१मघवन् आश्रौ
५, १४, २६××; शाश्रौ; या ६,
१××; -१मघवा आश्रौ २, १०,
१६; ३, ८, १; ५, २०, ६; शाश्रौ;

-१मघवानः शाश्रौ ४, ९, १^१; १२,
२०, २; आपश्रौ; -१मघवानम्
आश्रौ २, २०, ४; शाश्रौ १८, ४,
८; आपमं २, ११, ८; -१मघोना^१
कौगृ १, १६, ७; शांगृ १, २४,
४; -१मघोनाम् बौश्रौ १८, ६ :
१३; आगृ १, १५, १^१.

१मघोनी^१- -नी बौश्रौ
३, १८ : २५; हिश्रौ ६, ३, २;
या १, ७^१; ऋप्रा १, १००.

मघव-देवता-> १व(त्य>)
त्या- -त्या श्रुअ १, ४४२.

मघवन्-वर्जम् पावा १, २,
३७.

मघव-श्रुति- -तिः भाशि ४०.

१मह^१- महः माश्रौ २, ५, १, ८; ९;
महा आश्रौ^१ ४, १५, ७, ८, ११,
१; शाश्रौ ६, ४, ५; १०, ११,
२; १४, ५६, १; आपश्रौ १६,
३५, ५; माश्रौ २, ५, ४, १३^१;
वाश्रौ २, १, ८, १६; हिश्रौ ११,
८, २३; साअ २, ६५४; महे
आश्रौ २, १०, ३××; शाश्रौ; कौस्
१२, १^१; अपं २ : ४६^१; या ९,
२७^१; १०, ४७^१; ११, ९^१.

१मह- -०ह शांगृ ३, ५, २^१; -हस्य
या ५, ७^१; -१हानाम् आश्रौ
८, १, १४^१; हिश्रौ १२, ६, ६;
-हानि आश्रौ ९, ५, १६^१;
-हाय शांगृ ३, ५, १^१; -१हे
आश्रौ ६, २, ६; ३, १; ४, १०;
शाश्रौ ९, ६, ६; १८, ४; आपश्रौ.

a) बस. । b) वैप १ द्र. । c) =कुम्भवतः (यद्र.) इति सूची । d) या १, ७ परामृष्टः द्र. ।

e) धा. दाने वृत्तिः । f) महये^० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. द्राश्रौ.) । g) पाभे. वैप १, २३८५ e द्र. ।

h) =छन्दो-विशेष- । i) वैप २, ३खं. द्र. । j) शब्दाऽनुकरण- । k) पाभे. वैप १, २३८८ f द्र. । l) सपा.

मघोना <> मघोनाम् इति पाभे. । m) पाभे. वैप १, २३८९ c द्र. । n) पाभे. पृ ७३६ j द्र. । o) पाभे.

वैप १, १५७९ d द्र. । p) सपा. मह विश्वाय <> महायमाय इति पाभे. । q) पाभे. वैप १, २३८९ p द्र. ।

r) सपा. विश्व महाय <> महायमाय इति पाभे. ।

†महः^a आश्रौ ८, १, १२; ७, २२;
शांश्रौ; आपश्रौ ११, ७, ७^b; १६,
३५, ५^c; अप ४८, ६८^d;
या ६, ६; ९, २५^e; ११, २७^f;
३२; १२, ११; ३२; १३, ७^g.
महो (हः-अपस>)पो-वर्जम्
कप्र १, ७७.
महत्^a- पाउ २, ८४; पाग ४, १,
४१; ८६; ५, १, १२२; -हत्
†आश्रौ ६, ४, १०; १०, ९, २^b;
शांश्रौ; आपश्रौ १०, १, ४^c;
१६, १९, १^d; हिश्रौ ७,
१, ११^e; ११, ६, ३१^f;
द्राश्रौ १, १, १०^g; लाश्रौ
१, १, १०^h; आश्रौ १, २३,
१५ⁱ; या ५, १९××;
†निघ १, १२^k; -हत्: †आश्रौ
४, १३, ७; ९, ५, १६; शांश्रौ;
या १, ७××; पा ६, ३,
४५; -हत्ता बौश्रौ १७, ४८:
१०; कौस् ६८, २७^l; कप्र;
-हत्ताम् शांश्रौ १२, २, १४^m;
भाश्रौ १, २४, ५ⁿ; कौश्र; -हत्ति
आश्रौ १०, ९, ५^o; शांश्रौ १६,
७, १^p; काश्रौसं; या ७, २६;
१४, ७; -हत्ते †आश्रौ २, ११,
९; १२, ५××; शांश्रौ; आपश्रौ
१०, ३, ८^q; या ९, २७××;
-हत्सु निस् १०, ७: १५;
शंघ २५१; २६१; विध २२,
४६; अप २: ३; ७; -हत्ति:
या २, २४; -†हद्भ्यः आश्रौ
१, ४, ९; शांश्रौ; -हान्
†आश्रौ १, २, २७; ६, १^r××;

८, १०, ३^s; शांश्रौ; या ३,
१०^t; १३^u; -हान्तः शांश्रौ ८,
२१, १; काश्रौ २५, १, ११^v;
बौश्रौ; -हान्तम् काश्रौ ८, ५,
२६; आपश्रौ; आपघ २, २०,
८; हिध २, ५, ९^w!; -हान्ति
वैश्रौ ९, ३: १३; सु १२, २;
अप ६३, ५, ३; ६८, १, ३५;
-हान्तौ सु १४, १.
महती- पा ४, १, ४१;
-०ति या ११, ३०^x; -ती
आपश्रौ १९, १५, ६^y; २०, ७,
११; बौश्रौ १९, ९: १०^z; हिश्रौ;
-ती: आश्रौ ४, ७, ४^{aa}; बौश्रौ
१५, १४: १२; -तीभ्यः बौश्रौ
१८, २८: १९^{ab}; -तीम् माश्रौ
६, २, ५, २४; कौश्र ५, ७, २;
अप ३१, २, २; ६६, ३, ४;
बुदे ७, ४३; -त्यः या ८, १०;
-त्या शांश्रौ १७, १५, १०; वाश्रौ
२, २, ४, २; या २, २५; -त्यौ
या ८, ११.
माहत- पा ४, १, ८६; ५, १,
१२२.
महत्-काण्ड^a- †ण्डाय अप
४६, १०, १८; अत्र १९, २३;
-ण्डैः अप ४६, २, ८.
महत्-त्ता(म-अ)धर्म-संबद्ध-
-द्धः वाध ५, ८.
महत्-तर- -रः वैश्र ४, १४:
१७.
महत्-त्ता- पा ५, १, १२२.
महत्-ज्यङ्ग-ङ्गयोः हिश्रौ ४, ५,
९.

महत्-त्व-पा ५, १, १२२; -त्वम्
अप ३१, २, ४^b; ३, ४; बौध २,
१०, १०; या ७, २३; आशि ८,
२१; -त्वान् उनिम् ६: ३४^c;
-त्वे पावा ४, १, ४९; -त्वेन या
१०, ४; १०: ११, ३७; १२, १६.
महत्-पति- -०ते विध ९८, २६.
महत्-सर्प- -पान् अप ६४, ८,
८.
महद्-अप-स्वस-नप्त- -प्तणाम्
पावा १, १, ७२.
महद्-आत्व- -त्वे पावा ४, १,
१; ६, ३, ४५.
महद्-उक्त्य^a- -क्यः या ६, ४.
महद्-उत्त(म>)मा- -माम्
अप ६६, १, ३.
महद्-श्रेष्ठ्य^a-दायक- -का:
आमिग २, ४, १२: ९.
महद्-दि(व>)वा^a- -वा या
११, ४९.
महद्-दुःखा(ख-अ)नुभवन-
-नम् विध ९६, ३३.
†महद्-भूत^a- -तम् सु १९,
५^b!; बौश्र २, २, ९^c!.
!महद्-वर्ष-संवृत- -ते अप ६५,
२, ५.
महन्-नामन्- -मानि निघ ३,
३; या ३, १३.
मह(हा-ऋ)र्विज्- -र्विग्यः
शांश्रौ १६, १, २; आपश्रौ;
-र्विजः आपश्रौ १८, ५, १६;
६, १२; २०, १, ६; २१, १०,
१३^d; बौश्रौ; -र्विजम् भाश्रौ
१०, १, ७; अप २९, १, १;

a) वैप १ द्र.। b) पाभे. वैप १, २२८६ m द्र.। c) पाभे. वैप १, २३९० e द्र.। d) सपा.

महत्<>महः इति पाभे.। e) साप. (तु. P.W. प्रवृ.)। f) पाभे. वैप १, २२८६ f द्र.। g) =उदक-।
h) पाभे. वैप १, २२८७ d द्र.। i) पाभे. वैप १, २२८६ d द्र.। j) ण्ते इति पाठः? यति. शोघः (तु-
आपघ. २, २०, ८)। k) बस.। l) वैप १, २२९० t द्र.। m) शोघः वैप १, २३९४ g द्र.।

-विजाम् वौश्रौ ७, १४: २५×४;
 वैश्रौ १६, १४: २; वृदे ७, ११३.
 मह(हा-अ)र्वि- -र्वयः क्रप्र ३,
 १०, १०; अप १, ३८, ३१;
 ३९, १, १; अशां ८, ३; वृदे १,
 ८१; ८, १२७; -र्विभिः अप
 २३, १३, ५; -र्विम् वृदे ५, ६५;
 -र्विन् अप ५४, १, १; बौध २,
 ५, २७१.
 महा-कक्ष- -क्षे वाध २१, ३२.
 महा-कर- पावा ६, ३, ४५.
 महा-कल्प- -ल्पः विध २०,
 १७; -ल्पम् शंघ ११६: ४४.
 महा-कापोल- -लाः नव्यू ३:
 ५०.
 १महा-काय- > °कायिक^d-
 -०क विध ९८, ३९.
 २महा-काय- -याः अप ५२,
 ६, ३; १३, ५.
 महा-किल्बिष-कारक- -काः
 बौध १, ११, २१.
 महा-कुल- -लम् वौश्रौ १८,
 २६: २०.
 माहाकुल-, कुलीन- पा
 ४, १, १४१.
 माहाकुलीन- पा ४, १, १४१.
 महा-कू(ल >)ला^e- -ला या
 ९, २६; -लाम् या ७, २०; १४,
 ३३.
 महा(हा-आ)कृति^f- -तिः विध
 १, ५.
 महा-कोश- -शः बौश्रौ २६,
 ८: १३.
 महा-कौषीतक^g- -कम्^h आगृ

३, ४, ४; कौगृ २, ५, ३.
 महा-कौषीतक^g- -कम्^h आगृ
 ४, १०, ३; ६, १, १; अप ४३,
 ४, ३०.
 महा(हा-अ)कृ- -क्षाः वौश्रौप्र
 ३६: २.
 महा-गङ्गाⁱ- -ङ्गायाम् विध ८५,
 २३.
 ऋमहा-गण- -गणभ्यः अप ४६,
 ९, १७; अशां २४, ६; अत्र १९,
 २२.
 महागणा(रा-अ)धिपति-
 -तिभ्यः अशां २४, ६.
 महा-गति^j- -तेः या २, ७.
 ऋमहा-गय^k- -यम् आश्रौ ५,
 १७, २; हिश्रौ ३, ४, ४७.
 महा-गिरि- > °रि-महानदी-
 रथाहर्-वायु-व्यवाय^l- -येषु
 द्राश्रौ ३, ३, २१; लाश्रौ १,
 ११, १२.
 महा-गुरु- -रुषु आगृ ४, ४, १७.
 महा-गृष्टि- पा ६, २, ३८.
 महा(हा-अ)ग्नि-वत् वौश्रौ १९,
 १०: ३८.
 महा-ग्रह- -हः बौश्रौ २५, १३:
 २५; अप ५२, १२, १; ५३,
 ५, २; -हाः अप ५२, २, २;
 १५, ४.
 महाग्रहो(ह-उ)दय- -यम्
 अप ६३, ४, ५.
 महा-घास- पावा ६, ३, ४५.
 ऋमहा-घोर- -राय बौगृ २, १,
 १८.
 महा-चक्र- -क्रम् अप ५८ⁱ,

१, ९.
 महा-चमस^m- -सम् वाधूश्रौ २,
 ८: ५.
 महा-चिति- -तिम् वौश्रौ १०,
 २७: १.
 महा(हा-अ)ज- -जम् वाध ४, ८.
 महा-जञ्जुⁿ- -ज्वे^o, -ज्जु^p
 बौध ३, ९, २१.
 महा-जन- पाग ४, ४, ९९.
 माहाजनिक- पावा ५,
 १, ९.
 माहाजनीन- पा ४, ४,
 ९९.
 महाजन-गजा(ज-अ)श्च-
 -श्चानाम् अप ७०, ७, २.
 महा-जह्नु^q- -ह्वे^r, -ह्वु^s
 जैगृ २, ८: ३०.
 महा-जाति- > °तीय^t- पा ६,
 ३, ४६.
 महा-जाबाल- पा ६, २, ३८.
 महा-तपस^u- -पाः विध १, ३;
 वृदे ४, २५.
 महा-तापश्चित^v- -तम् आश्रौ
 १२, ५, १४; शाश्रौ १३, २७, ४;
 काश्रौ २४, ५, ६; निस् १०,
 ९: ५.
 महा-तुषित^w- -०त विध ९८,
 ४८.
 महा-तेजस- -जाः अप ३१,
 १, ३.
 महा-तैजस- -सम् शंघ ११६:
 ४५.
 महा(हा-आ)त्मन्^x- -त्मनः
 उनिस् ८: ३०; आज्यो १, ३;

a) = काल-विशेष-। b) = सामशाखाविशेष-, तदथ्येतृ- वा । c) °कालोपाः इति संस्कृतुः टि. ।

d) विष्णु-नामन्-। e) बस. उप. = २काय-। f) बस.। g) व्यप.। h) परस्परं पाभे. । i) = नदी-विशेष-।

j) वैप १ द्र. । k) द्रस. > षस. । रथाहर्- = रथाह- (यद्र). । l) = मन्त्रपाठविशेष- (तु. ०.)। व्यु. ? ।

m) उप. ? । n) परस्परं पाभे. । o) पात्र. जातीयर् प्र. । p) = क्रतु-विशेष-। q) कस. उप. < √तुषः

१४, ११; -त्सना अप २२, १३, ४××; नाशि १, ५, १४; -त्सने अप ६८, १, २; -त्समिः ऋअ ३, ३७; -स्मा काण्ड उ ६: १६; अप २४, ३, १××; या उ, १८; -त्सानः अप ५२, १०, ३; -त्सानम् विध १, ६०; आज्यो १४, ८.

माहात्म्य- -त्स्यात् वृदे १, ७०.

महा-त्रिककुद्^a - -कुदः शांश्रौ १६, २९, १३.

महा-त्रिककुम्^b - -कुप् आश्रौ १०, ३, २१.

महा(हा-अ)त्रेय^c - -याः बौश्रौ २७: ६.

महा-दन्त^d - -न्तः सु १३, २.

महा-दान- -नानि अप १४, १, ८.

महादाना(न-अ)तिदान- -नानाम् अप ११, २, ३.

महा-दिवाकीर्त्य^e - -त्यम् आश्रौ ८, ६, ७; शांश्रौ ११, १३, १; २३; १६, १४, १३; १४; बौश्रौ १६, १४: १६; द्राश्रौ ८, ३, ४; लाश्रौ ७, ७, १; बौध ३, १०, ११; गौध १९, १३; -त्यस्य शांश्रौ ११, १३, २४; लाश्रौ ७, ६, ११; -त्ये शांश्रौ ११, ११, ३४; १४, ४; ७.

महा-दिवाकीर्त्य^e - -त्यः हिश्रौ १६, ५, २८^o.

महादिवाकीर्त्य-स्तोत्रीया- -या लाश्रौ ४, ६, २३; -याः

द्राश्रौ ८, २, २२.
महा-देव- -वः वायुश्रौ २, २०: ५१; क्षुत् १, १: ७; माण्ड २, १४, २९१; अप; -वम् वैण्ड १, ४: ५१; अप १, ३७, ४१××; अशां ७, ४; शंघ ११६: २५; चाअ १७: १३; -वस्य शांश्रौ ४, २०, ११; -वैवाय आण्ड ४, ८, ९; १९; पाण्ड ३, ८, ६; वैण्ड; -वे अप ७१, १७, २.

महादेव-नाणाधिप- -पान् अप ७०, ९, ३.

महादेव-ह(त>)ता- -ताम् आपश्रौ १०, १९, २; भाश्रौ १०, १२, ८; हिश्रौ १०, ३, ९.

महादेवा(व-आ)यतन- -ने अप ४०, १, ५.

महा-दोष- -घः वृदे ४, ११९.

महादोष-विनाशन- -नाः बौध ४, ३, ७.

महा(हा-अ)द्भुत- -तानि अप ७२, १, १; ४, ३.

महा-घृति^f - -तिः अप ४३, ५, १७१; वृदे ५, १४७; १५२.

महा(हा-अ)दि- -दौ सु ३१, १. िमहा-धन^g - -ने आश्रौ ३, १३, १२; शांश्रौ ३, ५, ४××; बौश्रौ.

महा-ध्वज- -जः अप २१, ६, ४.

महा-नक्षत्र- -त्राणाम् अप १२, १, ४.

महा-नद- पाण्ड ४, १, ८६; -दे कौसु १७, १.

माहानद- पा ४, १, ८६;

-दम्^h आपध १, २७, १; हिष १, ७, २५; २६.

महा-नदी- -दीम् आश्रिण्ड ३, ५, ५: ४; बौशि १, ४: ४; हिशि १: ४; वृदे ६, ९६; -द्याम् बौध १, ६, ३९.

महा-नरक- -कम् विध ४३, ७.

महा-नर्मा(र्म-आख्या>)ख्यⁱ - -ख्यः वैध ३, १२, १२.

महा-नवमी- -न्याम् अप १८, २, १; १२, २.

महा(हा-अ)नस(वप्रा.)^j - पाण्ड ४, १८९; पाण्ड ४, १, ८६; -सम् वायुश्रौ ३, ७६: १०^k; -सानाम् आश्रौ ९, ९, १४^l; -सानि हिश्रौ १३, १, ३१^m; -से ऋ २, ९, २४ⁿ.

माहानस- पा ४, १, ८६.

माहात्सी- -सी बौश्रौ १५, २५: १०.

महानसिक- -कः बौश्रौ २६, १: १४^o.

महा-नाग- -गः सु १३, २^p; -गे अप ५३, ४, २^q.

महा-नाद- -दः नाशि १, ५, १०.

महा-नानात्व^r - -त्वानि लाश्रौ १०, ७, ३.

महा-ना(मत् >)स्त्री^s - पावाम ५, १, १४^t; -स्त्री^u आपश्रौ २२, १८, २१; निस् ६, ५: ५; -स्त्रीः

आश्रौ ८, १४, २; १५; निस् २, १३: ३२××; वैण्ड; -स्त्रीनाम्

शांश्रौ १२, ६, ९; लाश्रौ ७,

a) = ऋतु-विशेष-। b) व्यप-। c) बस-। d) = साम-विशेष-। e) सप्र- आपश्रौ २१, १५, १६ दिवाकीर्त्यसामानम् इति पाठे-। f) वैप १ द्र-। g) तत्रमशार्थिचः प्र-। h) जाति-विशेष-। बस- पू-?। i) कस- समासान्त ष्टच् प्र-। j) = महा-शकट-। k) = षाक-शाब्दा-। l) माहा-नसिक- इति संस्कृतः टि-। m) = हस्ति-। n) अर्थः?। o) = छन्दोविधानविशेष-। p) = [उपचारात्] महानाम्नी-वत-।

५, २; ५; निसू ७, १३: ७; १९;
८, ७: १९; २८; -स्त्रीभिः
बौश्री १९, १०: ८; द्राश्री ९,
१, १४; लाश्री ३, ५, १३; निसू
८, ७: १५; २३; -स्त्रीभ्यः आश्री
८, २, २३; -स्त्रीषु लाश्री १०, २,
१; निसू ३, १३: १; कौश्र २,
७, २५; शाश्र २, १२, १३;
-भ्यः आश्री ७, १२, १०;
शाश्री १०, ६, १०×४; लाश्री;
-भ्यः बौश्री ३, २५: ५;
१७, ४४: ४; आश्रिगृ २, ६,
६: २२; बौश्र १, २, ३६; बौषि
२, ९, ९.

माहानामिक^१ -

पान्त्रिक- पावा ५, १, ९४.

माहानामिक^२ - काः गोश्र
३, २, १; जैश्र १, १७: १; -केन
गोश्र ३, २, ४७.

माहानामिक-कारित- -तान्
निसू ८, ७: २६.

माहानामिक-गर्भ^३ - भंश्र निसू
८, २: ३१.

माहानामिक-बल- -लाव निसू
८, ७: १८.

माहानामिक-साम^४ - सा
आपश्रौ २०, १३, १; हिश्री १४,
३, ७^६.

माहानामिक- -श्रः आश्री ९, ४,
६; -श्रम् बौश्री १२, ५: २५;
१७: १०.

माहानामिक-नीलोत्पल-वर्ण^५ - णं: चव्यू
४: २०.

माहानामिक- -यः आश्री ८, ५,
७.

महा-पङ्क्ति^६ - इक्तयः ऋश्र
२, १, १९१; -इक्तः ऋश्र १,
१०, ३; शुश्र.

महा-पङ्क्ति^७ - इक्तम् ऋश्र २,
८, ३७; ३९; ४७; १०, १३४.

महा-पङ्क्ति-प्रस्तार-पङ्क्ति-
-इक्ती शुश्र १, ५३१.

महा-पङ्क्ति-इक्ति-अ)न्त^८-
-न्तम् ऋश्र २, ८, ३६; १०, १६६.

महा-पङ्क्ति- -थः द्राश्री १, १,
१७; लाश्री १, १, १६; अंश्र ३:
२; -थम् वाश्र २१, १; २; ३;
आपश्र १, १६, १४; हिश्र १, ५,
१३; -थे गौषि १, ७, ४; आपश्र
१, ११, १०; हिश्र १, ३, ६६.

महा-पङ्क्ति-थ)था^९ - थाम्
पाश्र ३, ४, ८.

महा-पङ्क्ति^{१०} - इक्तः ऋश्र
१, ६, २; २, ४, १०; शुश्र ५, ३३.

महा(हान्-श्र)पराङ्क्त्वा- पा ६, २,
३८.

महा-परिधि- -धीन् बौश्री ६,
३४: ७; ७, १: १७; -धीनाम्
बौश्री १४, ४: ८; २१, १६: ४.

महा-पर्वत- -तान् शंश्र ११६:
९.

महा-पवित्रेष्टि- -ष्टिः बौश्री २८,
१: ३२.

महा-पशुपति- -तये अश्र ३६,
९, २२^१.

महा-पातक- -कानि वाश्र १,
१९; विध ३५, १; काश्र २७५:
१; -केभ्यः वाश्र २३, २२; गौष
२६, २१.

महा-पातक-ज- -जानि वाश्र

२७, ७.

महा-पातक-दोष- -षेण अश्र
३६, १६, २.

महा-पातक-नाशन- -नम्
आश्रिगृ २, ७, ७: ८.

महा-पातक-नाशनी- -नी
शंश्र ४५४.

महा-पातक-संयुक्त- -क्तः
बौश्री २८, १: ३१; कश्र ३,
४, ४; -क्तम् बौष ३, ६, ८.

महा-पातक-सं(ज्ञा)ज्ञ^{११}-
-ज्ञः काश्र २७५: ५.

महा-पातक-संबन्ध- -न्धात्
अश्र ३६, १७, १.

महा-पातक(क-श्र)दि-
पतितकर्मन्- -र्माणि आश्रिगृ
२, ४, ७: १.

महा-पातकित्- -कितः शंश्र
३८७; विध ५, १; ३५, ६; ३६,
८; ४३, २४; -किनाम् विध
८, २५; ४४, ३; ४८, १३; वैध
३, ९, १; सुध ५२; -किनि
कश्र ३, १, १२.

महा-पाथिक्त्वा(त)ती^{१२}- -ती
अश्र २, ३.

महा-पार^{१३}- -राय गौष २६,
१२.

महा-पार^{१४}- -रः या ४, १८.

महा-पाशा(श-श्र)मिपरीत-
-ताः बौश्री २६, १२: १३.

महा-पिङ्गल^{१५}- -लाय अश्र ३६,
१, १५; ९, १.

महा-पितृ- -तरः आश्रिगृ २, ६,
३: ६; बौष २, ५, १८.

महा-पितृयज्ञ- -ज्ञः बौश्री ५,

a) पाक. पाठः। b) तस्येदमीयष् ठन् प्र.। c) वस.। d) साम इति पाठः इ यनि. शोषः
(तु. आपश्री.)। e) वैष १ द्र.। f) कस. > वस.। g) = लन्दो-विशेष.। h) विप. (महापङ्क्ति-
लन्दो-सूक्त-). i) = इष्टि-विशेष.। j) वैष २, ३ खं. द्र.। k) = रुद्र-।

१५:३४; २५, ३:१; वैश्रौ ९,
४:१; -ज्ञम् वौश्रौ ६, ११:
१; -ज्ञम् वौश्रौ २१, ४:१;
-ज्ञे वौश्रौ २०, ३:१८; २६,
२५:१६; २९:११; हिश्रौ ७,
४, १६; -ज्ञेन हिश्रौ ५, ४, १.
महापितृयज्ञ-वत् वैश्रौ १४,
२:८.

महापितृयज्ञ-हविस्- -वीषि
वौश्रौ १७, ५७:२०; २२;
६०:१३; ६२:७; २६, २५:
१९; २९:१५.

महा-पु(ण्य>)ण्या^a - -०ण्ये सु
३, ४.

महा-पुरुष- -०ष विध ९८, ८४;
-पाय गौध २६, १२.

महा-पृष्ठय^b - -तैप्रा ११, ३.

महा-पैङ्गय^c - -ङ्गयः अप ४३, ४,
४८^f; -ङ्गयम् आग ३, ४, ४;

कौश्र २, ५, ३; शांगृ ४, १०, ३;
अप ४३, ४, ४२.

महा-पैठीनसि^e - -सिम अप ४३,
४, ५५.

महा-पैतृ(क>)की^d - -की हिश्रौ
१२, ८, १५.

महा-प्रजापति^e - -०ते विध ९८,
१६.

महा-प्रती(क>)का^a - -का या
१०, २१.

महा-प्रदेश- -शम् ऋप्रा ११,
४२.

महा-प्र(भा>)भा^a - -भा: अप
५२, २, २.

महा-प्रभा(व>)वा^a - -०वे

विध ९९, ३.
महा-प्रभु- -भु: विध ९७, १५.
महा-प्रवर- -रे वौश्रौप्र ५४:
१८.
महा-प्रवृद्ध- -पा ६, २, ३८.
महा-प्राज्ञ- -ज: अप २९, १, २;
-ज्ञम् अप ३१, ४, १; ३९, १, १.
महा-प्राण- -पाग ४, १, ८६; -ण:^f
आशि ८, १३; २६; -णा:^f
आशि ४, ३; ५.

माहाप्राण- -पा ४, १, ८६.

माहाप्राण-व- -त्वान् आशि
८, १९.

महा-फल^a - -लम् अप ३१, २,
२; ५, ३; ३८, ३, ३.

महा-बल, ला^a - -ल: अप ४३, ५,
२९; -ला^b अप ७१, १७, ७;

-ला: अप ५२, ५, ४; शंथ २११.
महा-बल पराक्रम- -०म विध
१, ५०.

महा-बलि- -लिम् अप ७०^c,
१६, ५.

महा-बृहती^a - -ती ऋअ १, ९,
९; २, १, १०५××; शुअ २,
८५; ४, १०५; ५, ६८; अअ; -त्य:

शुअ २, ४००; अअ ४, ३९; १८,
४; १९, ४५; -त्यौ अअ ९, १.

महाबार्हत^a - -त: ऋअ १,
११, ४; ४, १०; ऋप्रा १८, १०.

महाबार्हत-बार्हत- -तौ
ऋअ २, ६, ४८.

महाबृहती-महासतोबृहती-
-त्यौ ऋअ १, ११, ४.

महाबृहती-मुख^a - -ख: ऋप्रा

१८, १०.
महा-ब्रह्म- -ब्रह्म- पा ५, ४,
१०५.
महा-भय- -यम् अप ५५, ६, २;
७०^c, ७, १६; २२; ७०^d, ११, ३३.
महा-भाग, गा^a - -०ग अप ९, ४,
३; अगां २, १; ४, २; विध ९८,
४५; -गा आज्यो १३, १०;
-गा: शंथ २११; -०गे अशां
५, ७.

माहाभाग- -यम् या ७,
२३; -ययात् या ७, ४; ५; १३, १.

महा-भार- -भरत^d - पा ६, २,
३८.

महा-भास्वर^k - -०र विध ९८,
४३.

महा(हा-अ)भिषव^d - -व:
आपथौ १३, १, ७; १०, ५; वैश्रौ

१६, १०:१२; -वम् आपथौ
१२, १२, १; -वाय वैश्रौ १५,

१३:१; हिश्रौ ८, ३, ३२; -वेषु
आथौ १२, ८, ४; ११, ११.

महा(हा-अ)भिषेक- -कम् अप
३०^e, २, १.

महा-भूत- -तानाम् कौसू १९,
३१; -नानि विध ९८, २; या
१४, १०; -तेषु या १४, ५.

महा-भूमि- > महाभूमि^m-
-म: अप १, ६, ५.

महा-भूमिका-वत् या १४, ७.
महा(हा-अ)अ- -अेण अप ५८^f,
२, ५.

महा-मख- -खा: कप्र २, ३, २.
महा-मति^a - -ति: अप २९, १,

a) बस. । b) = षडनुवाक-संज्ञा- । c) = ऋषि-विशेष- । d) = वेदि-विशेष- । कस. । e) विष्णु-
नामन्- । f) = प्रयत्न-विशेष- । g) = देवता-विशेष- । h) = छन्दो-विशेष- । i) = प्रगाथ-विशेष- ।
j) = प्रन्थ-विशेष- । k) विप. > व्यप. (विष्णु-) । l) = कर्म-विशेष- । m) विप. । तस्येदवरीथि अथि प्र.
(पा ५, १, ४२) उप. वृद्धिः ।

३; -०त्ते अप ९,४,३.
 महा-सदमित्र^३- -त्रम् अप ४३,
 ४,५०.
 महा-माजार्ज-श्रवण-प्रमाण^३-
 -जात् कप्र २,३,१४.
 महा-मुख^३- पा ६,२,१६८.
 महामुखी- -ख्याम् काश्रौ
 १६,७,८; १८,३,४.
 महा-मुनि- -नि: विध १, २०.
 महा-मेघ- -घ: सु २६,५; -घा:
 अप ६२,३,२.
 महा-यज्ञ- -०ज्ञ विध ९८,५४^d.
 -ज्ञ: शाश्रौ १४, ५, ४; बौश्रौ
 १३,१२ : ९×४; माश्रौ; -ज्ञम्
 बौश्रौ १४,८ : २; -ज्ञा: वाधूश्रौ
 ३,४१: १८; कौश्र ३, १०, ३५;
 पाश्र १,२,६; २,९, १; बौश्र २,
 ९, ७; भाश्र; -ज्ञान् आश्रिण्ट ३,
 १२,२ : २; वैश्र ४,४ : २५; ६,
 १६ : २१; शंघ १३०; -ज्ञानाम्
 आश्रिण्ट २,७, ९ : ४३; भाश्र ३,
 २१ : ६; -ज्ञे शाश्रौ १४, ८,
 ११; १५,११, ९; वृदे ४,११२.
 महायज्ञ-क्रिया-क्रम- -म:
 वाध २७, ७.
 महा-यत्न-प्रदर्शन- -नात् कप्र
 ३,१०,१०.
 महा-यन्त्र-प्रवर्तन- -न्म् विध
 ३७,२३.
 महामहा-यम^३- -माय कौश्र ३,
 ४,१^f; २^g.
 महा-यशस्^३- -०श: पाश्र ३,६,

३; -शा: सु २, ६; वृदे ५,१५२.
 महा-युद्ध- -द्धम् अप ५५,६,२.
 महा-योग-बलो (ल-उ)वेत-
 -तम् विध १,५९.
 महा-योगिन्- -नी विध १,११.
 महा-रक्षस्- -क्षोभ्य: अशां २४,
 ६^क.
 महा-रजन्^३- पाउना २, ७५.
 माहारजन- पावा ४,२,
 २.
 माहारजन-रक्त- -क्तेन विध
 ९०,२१.
 महा(हा-अ)रण्य-निवासिन्-
 -सिन: शंघ २२२.
 महारत्न-सामन्^३- -न्ना सस्
 ३७,६८.
 महा-राज- पाग ५, १, १२४:
 -ज: काश्र २०, २; माश्र २,
 १४, २९^क; -जम्^३ आपघ २,
 २०, ३; हिध २, १३, ९०;
 -ज्जाय^३ भाश्र १,८ : १; २, ५;
 १५; गोश्र ४,७,३६.
 माहाराजिक- पा ४,२,
 ३५; ३,९७.
 माहाराज्य- पा ५, १,
 १२४.
 महाराजा(ज-आ)हिताग्नि-
 -अय: अप २३,९,३.
 महाराजिक^३- -०क विध
 ९८,४०.
 महारात्र^३- -त्र: बौपि १,१४ :
 २१; -त्रे शाश्रौ ६, २,१; १७,

७,१; आपश्रौ; लाश्रौ ८,३,१^म.
 महारात्र-प्रवेशा(श-आ)दि-
 -दि जैश्रौका ३६.
 महारात्रिक^३- -कम् बौश्रौ
 २५,१४ : १; -केण बौश्रौ २६,
 १३ : ९.
 महा-राष्ट्र^३- -ष्ट्रे अप ५१,१,४.
 महा-रिष्ट^३- -ष्टान् आश्रिण्ट २,४,
 ८ : ७.
 महारोग- -गोण आश्रौ २, ७,
 १७; ९,७,२२.
 महारोग-प्रनाशन- -नम्
 आश्रौ ११,४.
 महारौरव^३- पा ६, २, ३८;
 -वम् विध ४३, ५; -वे अप
 ६९,४,१.
 महारौरव-संज्ञा- >^३सं-
 जित- -तम् विध ५४,७.
 महा(हा-अ)र्व^३- -र्वम् बौध १,
 ५,७९; वाध २,४१.
 महा(हा-अ)र्णव->^३व-म-
 हेन्द्र^३- -न्द्राणाम् अप ६८,
 २,३८.
 महा(हा-अ)र्थ^३- -र्थम् आश्रौ
 ९,१; -र्थानाम् मैअ १.
 महा(हा-आ)लय^३- -ये काश्र
 ४५ : ६; विध ८५,१८.
 महालया(य-अ)ष्टकाश्राद्धो-
 (द-उ)पाकर्मा(मै-आ)दि- -दि
 काश्र ४३ : १२.
 महा(हा-अ)वकाश^३- -शे कौस
 २४,३.

a) कस. । b) कस. > षस. > षस. । श्रवण- = १कौ^३- । c) बस. । d) विष्णु-नामन्- ।
 e) वैप १ द्र. । f) पाभे. पृ १८८६ I द्र. । g) पाभे. पृ १८८६ p द्र. । h) = कुसुम्भ-मुष्प- । i) पाठ: ?
 महाव्रत इति शोघ: (तु. सस् ३५,३८ समहाव्रतै: इति) । j) = देवता-विशेष- । k) = विष्णु-(तु. अक्षी. Jolly;
 वैतु. अत्रा. <महा-राजि-इति) । l) = (रात्रे:) तृतीय-भाग- । m) त्रै: इति पाठ: ? यनि. शोघ: । n) तत्र-
 अवाधे प्र. । o) = प्रदेश-विशेष- । p) = वृक्ष-विशेष- । q) = नरक-विशेष- । r) उप. = पर्वत- ।
 s) = श्राद्ध-रक्ष- ।

महा-वक्रत्र^१ - वक्राय अप ३६, १, १६१.
 महा-वध^२ - धात् या १०, ११११.
 महा-वन - नम् काण २६, ९.
 महा-वराह^३ - ०ह विध ९८, ७९.
 महा(हा-आ)वर्त^४ - तैयु अप ६५, १, ६.
 महा-वर्ति-द्वय - येन विध ९०, २०.
 महा-वर्ष^५ - र्षं काघ २७५ : १०; - र्षेयु बौध्रौ २, ५ : १८१.
 महा-वात - ताः अप ५५, ६, २; - ते काघ २७६ : १.
 महा-वाल-भिद्^६ - भित् आश्रौ ८, २, १८; - भिदम् आश्रौ ७, २, १६.
 महा-विक्षेप^७ - पम् या ६, ३३.
 महा-विघ्न - भानि माण २, १४, १९.
 महा-विशिष्ट - पावा ६, ३, ४५.
 महा-विष्णु - ण्वे आमिण ३, ११, ४ : १४; - ण्युः आमिण २, ४, १० : ७.
 महा-वीणा - > णा-विशील-
 वीणा - णे द्राश्रौ ११, २, ४; लाश्रौ ४, २, ३.
 महा-वीर(वप्रा.)^८ - रः आपश्रौ १५, १७, ७; भाश्रौ; - रम् आश्रौ ४, ७, ४; शाश्रौ ५, ९, २७; ८, १५, ११; १३, १२, १३; काश्रौ; बौध्रौ ३, ४, १६; - राः बुदे ५, ३५; - रात् बौध्रौ ९, ४ : ८; - रान् काश्रौ २६, १, १; आपश्रौ;

- राय बौध्रौ ९, १९ : ६१;
 वौध्रौ ३, ४, ३६; वेंयु २, ११ : ३६; - रे आपश्रौ १५, १०, १; १४, १०१; बौध्रौ; - रेयु बौध्रौ ९, १५ : ३; भाश्रौ ४, १, ३२; - रौ काश्रौ २६, २, ३५; आपश्रौ १५, ६, ११; बौध्रौ.
 महावीर-पयः - शेष - पम् वैश्रौ १३, १३ : ४.
 महावीर-पात्र - त्रेयु शाश्रौ ५, ९, ४; १०, ३२.
 महावीरपात्रो (त्र-उ)द्-
 वासन - नम् शाश्रौ ५, १२, २.
 महावीर-संमित - तौ वैश्रौ १३, ७ : १२.
 महावीरसंमिता (त-आ)
 वस्क - स्कौ हिश्रौ २४, २, ५१.
 महावीरसंमिता (त-आ)
 वस्क्य - स्क्यौ^९ आपश्रौ १५, ५, ११; भाश्रौ ११, ५, १३.
 महावीरा(र-आ)यतन - नम् द्राश्रौ २, २, १४; लाश्रौ १, ६, १३.
 महा-वीर्य^{१०} - र्यम् सु १४, २.
 महा-वृक्ष - क्षः द्राश्रौ १, १, १७; लाश्रौ १, १, १६; निस् ४, ११ : १५; - क्षम् निस् ४, ११ : २३; काण २६, ९; जैय २, ५ : १५; - क्षस्य निस् ४, ११ : २२; - क्षाः अप ५५, ६, २; - क्षान् गोयु २, ४, २; - क्षेषु कौसु ७७, ९; - क्षौ निस् ६, १० : २४.
 माहावृ(क्ष >)क्षी - क्षी

निस् ४, ११ : १४.
 माहावृक्ष-फल - लानि गोयु ४, ५, १८; द्रायु ४, १, ११.
 महा-वेदि - दिः बौध्रौ १८, २१ : ७; आपश्रु ५, ८; बौध्रु; - दिम् बौध्रौ ९, १३ : २८; १०, १९ : ४×४; भाश्रौ; - देः काश्रौ १७, २, ६; आपश्रौ १४, २३, ११; २१, १८, १; हिश्रौ १६, ६, २६; जैश्रौका ६८; द्राश्रौ १४, ३, १०; लाश्रौ ५, ७, ९; बौध्रु ३ : २७; ३१; ४ : ४; - द्याः बौध्रौ ६, २२ : २२; २३ : ८×४; - द्याम् आपश्रौ १४, ८, ५; हिश्रौ १०, ८, १०; - द्यै बौध्रौ ११, २ : १०; १८, ५० : ११; २५, २६ : १५; ३३ : १३.
 माहावेदिक - कम् हिश्रौ ७, ४, ५८.
 महावेदिक - कम् भाश्रौ १२, ६, ३.
 महा-वैराज^{११} - जम् बौध्रौ ३, १०, ११; गौध्रौ १९, १३.
 महावैराजी^{१२} - जी आश्रौ २, ११, १.
 महा-वैश्वदेव^{१३} - पा ६, २, ३९.
 महावैश्वदेव-ग्रहण - गम् काश्रौ १०, ६, २.
 महा-वैश्वामित्र^{१४} - त्रम् क्षुस् १, ७ : २३.
 महा-वैश्वम्भ^{१५} - म्मम् क्षुस् २, १० : १९; ११ : ९; निस् ३, १० : ३; - म्भस्य क्षुस् २, १० : १९; ११ : ९.
 निस् ४, ११ : १४.
 महावृक्ष-फल - लानि गोयु ४, ५, १८; द्रायु ४, १, ११.
 महा-वेदि - दिः बौध्रौ १८, २१ : ७; आपश्रु ५, ८; बौध्रु; - दिम् बौध्रौ ९, १३ : २८; १०, १९ : ४×४; भाश्रौ; - देः काश्रौ १७, २, ६; आपश्रौ १४, २३, ११; २१, १८, १; हिश्रौ १६, ६, २६; जैश्रौका ६८; द्राश्रौ १४, ३, १०; लाश्रौ ५, ७, ९; बौध्रु ३ : २७; ३१; ४ : ४; - द्याः बौध्रौ ६, २२ : २२; २३ : ८×४; - द्याम् आपश्रौ १४, ८, ५; हिश्रौ १०, ८, १०; - द्यै बौध्रौ ११, २ : १०; १८, ५० : ११; २५, २६ : १५; ३३ : १३.
 माहावेदिक - कम् हिश्रौ ७, ४, ५८.
 महावेदिक - कम् भाश्रौ १२, ६, ३.
 महा-वैराज^{११} - जम् बौध्रौ ३, १०, ११; गौध्रौ १९, १३.
 महावैराजी^{१२} - जी आश्रौ २, ११, १.
 महा-वैश्वदेव^{१३} - पा ६, २, ३९.
 महावैश्वदेव-ग्रहण - गम् काश्रौ १०, ६, २.
 महा-वैश्वामित्र^{१४} - त्रम् क्षुस् १, ७ : २३.
 महा-वैश्वम्भ^{१५} - म्मम् क्षुस् २, १० : १९; ११ : ९; निस् ३, १० : ३; - म्भस्य क्षुस् २, १० : १९; ११ : ९.

a) वस. । b) वैप १ द. । c) विष्णु-नामन्. । d) उप. = वृष्टि । e) = (वालखिल्यमन्त्रे-
 च्चेतस्संज्ञकर्षिदृष्ट-) विहार- (पादव्यतिषजन) इति (तु. सा [ऐवा ६, २८]) । f) = यज्ञिय-पात्र- । कस. ।
 g) = प्रवर्त्य देवता- । h) परस्परं पाभे. । i) परस्परं पाभे. । j) = साम-विशेष- । k) = इष्टि-विशेष- ।

महा-व्याधि- -धिम् आञ्यो
७,९.

महा-व्याहृति- -त्यः बौश्रौ
२७, १०:३; २८, ११:११; कौष्ट;
शांष्ट ४, ९, ३^१; -तिभिः शांश्रौ
२, १०, ३; १२, ८; १४, ९××;
काश्रौ; -तिभ्यः पाष्ट १, ५,
५; -तीः बौश्रौ २८, १०:
५; १३; २९, १३: २१; कौष्ट
३, ६, ३; ७, १२^२^३; १४, ४^१^२;
४, १, ४^१^२; शांष्ट २, ९, २; ४,
१, ८; ५, १२; १७, ५; आप्रिय;
-तीनाम् शांश्रौ ४, २, ७; कौष्ट
३, १५, ५; शांष्ट ३, १३, ५;
-त्या शांश्रौ ४, २, २; वैश्रौ १२,
६: १२; कौष्ट १, १०, ३; शांष्ट.
महाव्याहृति-पूर्वक- -कैः
अप ५, ३, ४.

महाव्याहृति-सर्वप्रायश्चित्ता
(त्-अ)न्तर- -रम् कौष्ट १,
५, २७^०.

महाव्याहृति-सर्वप्रायश्चित्त-
प्राजापत्या(त्य-अ)न्तर- -रम्
शांष्ट १, ९, १२^०.

महाव्याहृति-सावित्री-
शान्ति^१- -न्तिम् अप ११,
१, ५^१.

महाव्याहृति-होम- -मः
काश्रौ २५, १, ४; विध ५४, १०;
-मम् अप ६९, ३, १.

१महा-व्रत(वप्रा.)^१- -तम् आश्रौ
८, १३, ३१××; शांश्रौ; हिश्रौ
१८, ३, २^१; शोध ४०५^१; विध
५०, ५^१; ११^१; ५२, ३^१; -तस्य
शांश्रौ १३, १५, १३; १७, १, १;
वाधूश्रौ ४, १०३: ३: ४^३;
द्राश्रौ १०, १, १^६; लाश्रौ ३,
९, १^६; शांष्ट ६, ४, २^३; ६^३;
-तात् आश्रौ ८, २, २२××;
शांश्रौ; -ताय शांश्रौ १७, ७, १;
-ते आश्रौ १२, ७, १३; शांश्रौ;
-तेन लाश्रौ १०, ९, १; -तेषु
हिश्रौ २३, ३, २७^३.

महाव्रतिक^२- -कम्
शांश्रौ १६, १४, २; ४; १८, २७,
८; कौष्ट २, ७, १६^०; -कानाम्
बौश्रौ २३, ११: ३०; -कानि
आपश्रौ २१, १७, ७; -के शांश्रौ
१६, १४, ३; ५.

महाव्रत-चतुर्थ^३- -र्थानि
शांश्रौ १३, १५, ७.

महाव्रत-त्व- -त्वम् वाधूश्रौ
४, १०३: ३-५.

महाव्रत-पृष्ठ^४- -ष्ठः लाश्रौ १०,
१३, १६.

महाव्रत-वत्- -वान् आपश्रौ
२२, २२, ९४; २०; बौश्रौ १६,
२९: ४××; हिश्रौ.

महाव्रत-विधान- -नेन विध
५३, १.

महाव्रत-शिल्प- -ल्पानि
हिश्रौ १, ६, ६६.

महाव्रत-सप्तम^५- -मानि
शांश्रौ १३, १५, १०.

महाव्रत-सामन्^६- -मा हिश्रौ
१६, ६, ४.

महाव्रतीय- -यम् शांश्रौ १२,
२७, ४; १४, ४८, २; -ये
काश्रौ २६, ७, ५६; बौश्रौ १४,
२२: ४; १६, १८: १४; २०: ७.

महाव्रतो(त-उ)दयनीय-
-याम्याम् आपश्रौ २३, ९, ९;
१५; हिश्रौ १६, ६, ३^१^२.

२महा-व्रत^७- -तः या ३, १७.

महा-व्रीहि- -पा ६, २, ३८;
-हीगाम् कौसू ५४, ११; अप
१६, १, ४.

महा-शाङ्खायन^८- -नम् अप
४३, ४, ३३.

महा(हा-अ)शन^९- -नः या २,
२७.

महा-शब्द- -ब्दाः अप ७०^३,
२, ४.

महा(हा-आ)शय^{१०}- -यः अप
४३, ५, ११^१.

महा-शक्^{११}- -कम् विध ८०,
१४.

महा-शाखा^{१२}- -खाम् कौशि ४५.

महा-शान्ति- -न्तिः जैष्ट १, २३;
१३; अप; -न्तिम् शांष्ट ५, ११,

a) सपा. आष्ट ३, ४, १ व्याहृतयः इति, बौध २, ९, १४ व्याहृतीः इति च पाठे. । b) ष्यः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. शांष्ट ४, ५, १२) । c) ष्यः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. शांष्ट ४, १, ८) । d) ष्यः इति पाठः ? यनि. शोधः । e) परस्परं पाठे. । f) द्वस. । शान्ति- = (शान्ति-प्रतिपादक-) शान्ति-सूक्त- । g) ष्न्तिभिः इति संस्कृतैः टि. । h) वैप १ द्र. । विशेषः टि. द्र. । i) ष्यः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ २३, ७, ६) । j) = व्रत-भेद- । k) क्रतु-नामन्- इति लाश्रौ. भाष्यम् । l) = प्रकरण-विशेष- । m) सप्र. आपश्रौ १९, १५, ७ समहा^० इति पाठे. । n) तस्येदमीयष् ठक् प्र. । o) सप्र. शांष्ट २, ११, १२ व्रातिकम् इति पाठे. । p) बस. । q) ष्यनीभ्याम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.) । r) = ऋषि-विशेष- । s) = मत्स्य-विशेष- । बस. । t) = कृष्णयजुःसंहिता- ।

२; कौस्; -न्ती: अशां १६,
१; -न्ते: अप ७०, १, ८;
-न्त्या: अप ६९, ६, ४.

महाशान्ति-त्रयस्त्रिंशत्-
-शत् अप ३३, ७, ७^३.

महाशान्ति-विधान- -नेन
अप ३३, ५, ६.

महा-शाम्बक^b- -कम् कौश्र २, ५,
३.

महा-शा(ला >)ल^b- -लः
वाधूश्रौ ४, ८९: ३१.

महा-शुद्ध- -द्र: कौस् १७, १६.

महा-संग्राम- -मस् वौश्रौ १८,
४६: १; १९; ४९: १.

महा-सतोबृहती- -ती ऋअ १,
१०, २; २, ६, ४८; १०, १३२;
शुअ ५, ७२; ऋप्रा १६, ७७.

महासतोबृहत्य(ती-अ)न्त^c-
-न्त: ऋप्रा १८, १०.

महा-सतोमु(ख >)खा- -खा
ऋप्रा १८, २७.

महा-सत्र- -त्राणि काश्रौ २४, ५,
१५; निस् १०, ९: २१; कप २,
३, २; आपध १, १२, १४; बौध
२, ६, १; हिध १, ४, १४.

महा-संवद्^d- > माहासांपद्^e-
-देन वाधूश्रौ २, ४: १.

महा-सरित्- -रित् अप ६९, ४,
२.

महा-सस्य- -स्यात् अप ५९,
१, १०.

महा-सांतपन^f- -नस् काश्रु ७,
४४; बौध ४, ५, १६४; विध
४६, २०४; -नेन विध ४०, २.

महा-सिद्धि- -द्धि: अप २१, ७,
६.

महा(हा-अ)सुर- -रस् अप १,
३८, १; अशां ८, १; -रं: अप
३१, १, १.

महा-सूक्त^g- -क्ता: ^h आश्रु ३,
४, २; कौश्र २, ५, १.

महा-मेनⁱ- -न: माश्रु २, १४,
२९; -नस् बौध २, ५, २२.

महा-स्तोत्र- -त्रेषु वैताश्रौ ३३,
१८.

महा-स्वन^j- -न: अप ७०^३, ५,
३.

महाहन^k- -नात् बौश्रौ १७,
१०: ९.

महा-हविस्^l- -वि: काश्रौ ५,
२, ८; ७, ४; आपश्रौ २२, ८, १८;
काश्रौसं २९: ८; -विभि: बौश्रौ

१७, ६०: १२; ६२: ७; २६,
२९: १४; हिश्रौ ५, ३, ४०;
-विष: आपश्रौ ८, १२, १;
-विषा वाश्रौ १, ७, ३, २४;

-विषाम् बौश्रौ २५, ३: १९;
भाश्रौ ८, १३, १५; -विषि शाश्रौ

३, १५, १६; १४, १०, १६; काश्रौ
५, ११, २८; -वि:षु बौश्रौ २१,
६: १९; -वीषि बौश्रौ ५, १८:

१३; १५, ११: १^३; १७, ५७:

१८; ६०: ११; ६२: ५.

महा-हविस्^m- -वि: शाश्रौ
१०, १८, १; बौश्रौ १९, ७: ४०;
नाश्रौ ५, २, १४, ४; वाश्रौ १, १,
३, १९; आपश्रु १, ७, १: ११;

३, ४, १: ३४; वैश्रु ५, ४: १२.
महा(हा-अ)हुनि- -नी: आश्रौ
१७, २०, १५; हिश्रौ १२, ६,
२२.

महा-हेम- -मस्ⁿ अप १,
४१, ६; अशां ११, ६.

महा-हे(, हौ, कौश्रु,)म- > म-
व(त् >)नी^o- -नीम् कौश्रु १,
१४, ११; शाश्रु १, २२, १७.

महा-हैलिहिल^p- -पा ६, २,
३८.

महा-होन्^q- -तार: भाश्रु ३, ५:
१२.

महा-हृद्- -दस् याशि १, ३४;
-दे अप १, ४४, ९.

महिमन्^r- -पा ५, १, १२२;
-हिनि^s आश्रौ ३, १२, ९;
काश्रौ ९, ३, १८^३; आपश्रौ;

हिश्रौ २४, १, २११^३; -हिमनः
ऋप्रा ८, ३^३; -हिमा काश्रौ

७, ८, ८; आपश्रौ; बौध २,
१०, ८५; १०४; -हिमानः
आपमं २, २०, ३०; कौश्रु ३,
१५, २; शाश्रु; -हिमानम्

आश्रौ १, ३, २२××; शाश्रौ;
माश्रौ १, ४, २, ६^३; या ३, २२५;

a) मह् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. संस्कृतः टि.)। b) = ऋषि-विशेष-। c) वस.। d) = अमन्यु-
पस्थान-विशेष-। e) तदस्यप्रयोजनमित्यर्थे अण् प्र. उसं. (पावा ५, १, ११०)। f) = कृच्छ्रव्रत-विशेष-।
g) = (महासूक्त [ऋ १०, १-१२८] संबन्धिन्-) ऋषि-। h) क्षुद्रसूक्ताः महासूक्ताः इत्यस्य स्थाने सप्र. शाश्रु ४,
१०, ३ क्षुद्रसूक्तमहासूक्ताः इति पाठे.। i) = त्रिनाथक-विशेष-। j) पाठः? महाह- (= मध्याह्न-) इति शोधः
(तु. संस्कृतः टि.)। k) = [साकमेधान्तर्गत-] इष्टि-विशेष-। वैप २, ३खं. द्र। l) वैप १ द्र.। m) यं
महाहेमम् > यं सामहे इति संस्कृतः टि.?!। n) = गाथा-विशेष-। o) उप. अर्थः?। p) = मन्त्र-विशेष-।
q) पाठे. वैप १, २३९६ ट द्र.। r) पाठे. वैप १, २३९६ व द्र.। s) पाठे वैप १, २३६५ व द्र.।

-हिमालौ काश्रौ २०, ५, २^३;
 आपश्रौ २०, १२, ६^३; १३, २^३;
 बौश्रौ १५, २२: १३^३; २६, ८: ५^३;
 माश्रौ ५, १, ३, २७; वाश्रौ ३, ४,
 २, १५^३; ४, २३^३; हिश्रौ १४, ३,
 ८^३; -हिमाभ्याम् बौश्रौ २६, ८:
 ६^३; -हिम्नः आश्रौ १०, ९, ५;
 शाश्रौ १६, ७, १; १२; जैश्रौ
 १७: ८; -हिम्ना आश्रौ १०, ९,
 ४; काश्रौ २०, ७, १६; आपश्रौ;
 -हिम्नि आश्रौ ५, ५, २०;
 -^३हिम्ने आपश्रौ १२, १७, ४;
 बौश्रौ १४, १४: ५; माश्रौ;
 -हिम्नोः^३ आपश्रौ २०, २०,
 ३; बौश्रौ १५, १५: ९; ३८:
 ७; वाधूश्रौ ३, ७६: २१; वाश्रौ
 ३, ४, २, १३; हिश्रौ १४, ४, ४१.
 महे (हान्) न्द्र- न्द्रः आश्रौ
 २, १८, १८; शाश्रौ; -न्द्रम्
 आश्रौ १, ३, ११; शाश्रौ; शंघ
 ११६: ९^३; -न्द्रस्य शाश्रौ १, ९,
 २^३; आपश्रौ; -^३न्द्राय आपश्रौ
 १, २, ६; बौश्रौ; -न्द्रेण बौश्रौ
 ८, ८: १६^३; वाश्रौ ३, २, ५,
 ५७^३.
 माहेन्द्र^३ पा ४, २,
 २९; -न्द्रः शाश्रौ ३, १५, १८;
 १४, ८, ५; काश्रौ ५, ७, ६; ११,
 २८; १४, ५, ३१; आपश्रौ; -न्द्रस्य
 शाश्रौ १, ३, १७; १७, ११, १;
 काश्रौ; अप ५७, ४, १^३; ३^३;
 -न्द्रस्य शाश्रौ १, ८, १३;
 आपश्रौ; अप ५७, ४, ७^३;
 -न्द्रात् आपश्रौ १८, २, १७; ४,

१; १२, ११; बौश्रौ; -न्द्राणि
 आश्रौ ९, २, १६; -न्द्राय बौश्रौ
 ८, ७: २५; ८: ७×४; -न्द्रे
 वैश्रौ १६, ९: १३; -न्द्रेण वाश्रौ
 ३, १, २, २७; वैश्रौ १७, १६: ३;
 माहेन्द्री- न्द्री
 आश्रौ २, १८, १७^३; अशां १६,
 १^३; -न्द्रीम् अप^३ ५४, २, ४;
 ६२, ४, ६; ६८, ३, ९; ७०^३, १७,
 १; ७१, १९, ८; अशां १७, ३^३;
 शुअश्रौ ४७९^३; ३, ६३^३; -न्द्रयाम्
 वैताश्रौ ९, ६^३; अशां १८-१९, ४^३.
 माहेन्द्र-काल- ले
 वाश्रौ ३, १, १, ३१; २, १, ४३;
 ४५; ३, २, ७.
 माहेन्द्र-जाल-
 प्रभृति-कर्मा(र्म-आ)दि-
 दिषु अप ३, १, १३.
 माहेन्द्र-प्रभृति-
 तीनि हिश्रौ १३, २, १९; ६,
 ४१.
 माहेन्द्र-शुनासीरीय-
 यौ शाश्रौ १४, १०, ११.
 माहेन्द्र-स्तोत्र- न्त्रम्
 हिश्रौ १६, ३, १८^३; ६, ४३^३;
 १७, ५, २३.
 माहेन्द्रस्य-स्तुत-
 त्त् आपश्रौ २१, २०, ६^३.
 माहेन्द्रस्य-स्तोत्र-
 न्त्रम् आपश्रौ १३, ८, ५^३; १८,
 १५, १०×४; २१, ६, १७^३;
 बौश्रौ; -त्रे आपश्रौ २१, १९,
 १; बौश्रौ.
 माहेन्द्रा(न्द्र-आ)

दि- दि काश्रौ १४, ५, २९;
 १५, ७, २३; -दौ काश्रौ १५, ५,
 १६.
 माहेन्द्रा(न्द्र-अ)न्त-
 न्ते काश्रौ १४, २, १६.
 माहेन्द्र-चाप- प- अप ७०^३;
 ११, ११.
 माहेन्द्र-याजिन्- -जिनः
 आपश्रौ १, २, ७; माश्रौ; -जी
 बौश्रौ १, ३: १७×४; माश्रौ.
 माहेन्द्र-रेखा- -खा अप ७०^३;
 ११, ११.
 माहेन्द्र-सदन- -नम् वृदे ४,
 ७६.
 माहेन्द्रस्य (अयन-) लाश्रौ
 १०, १३, १६.
 माहेन्द्रा, न्द्रीपत्र^३ पा ४, २,
 २९.
 माहेन्द्रे(न्द्र-इ)ज्या- -ज्याम्
 बौश्रौ २३, १७: १०; ११.
 महे(हान्-ई)स्वर- -र अप ३६,
 ९, ३^३; -रः वैश्र १, २: १७^३;
 अप ४०, ४, २; ३; ५; -रस्य अप
 ४०, ३, १.
 महे(हान्-इ)ष्वास^३- पा ६, २,
 ३८.
 महे(हान्-ऐ)तरेय^३- -यम् आश्रौ ३,
 ४, ४; कौश्र २, ५, ३; शांश्र ४, १०,
 ३; ६, १, १; अप ४३, ४, ३६.
 महो(हान्-उ)क्ष- पा ५, ४, ७७;
 -क्षम् वाधूश्रौ ४, ५२: ४.
 महो(हान्-उ)क्षन्- -क्षान्म् वाध
 ४, ८.
 महो(हान्-उ)त्पात- -तम् अप

a) = (तदाख्य-) ग्रह-द्वय- । b) = पर्वत-विशेष- । c) = माहेन्द्र-स्तोत्र- । d) वैप १ द. ।
 e) = मण्डल-विशेष- । f) = इष्टि-विशेष- । g) = शान्ति-विशेष- । h) = [माहेन्द्रग्रहदेवत्या-] ऋच्- । i) = [माहेन्द्र-
 देवत्या-] ऋच्- । j) सपा. ंद्रस्तोत्रम् <> ंद्रस्य स्तोत्रम् इति पाभे. । k) सपा. ंद्रस्तोत्रम् <> ंद्रस्य
 न्तुतम् इति पाभे. । l) = धनुर्-विशेष- इति वापाभा. । m) व्यप. ।

७०^३, ७, १२; -ताः अप ६८, ५, १४; १७.
 महो(हा-उ)न्माह^१ -हः शंघ २४४.
 महो(हा-उ)व(य>)या^२ -याम् सु १५, २.
 महो(हा-उ)दर^b -रः वौश्रौप्र २२ : २; -राः वौश्रौप्र १४ : १; -राय अप ४२, ५, ५२१.
 महो(हा-उ)दर-भुजो(ज-उ) रस्क -दीर्घ-केश-नख-द्विज^३ -जाः अप ६८, १, २१.
 महो(हा-ऊ)र्मि -र्मिभिः अप ७०^३, ११, १६.
 महौ(हा-ओ)जस्^४ -जमाम् अप ५५, ६, ४.
 महौ(हा-ओ)दवाहि^b -हिम् आण ३, ४, ४; शाण्ट ४, १०, ३.
 महौ(हा-ओ)षच^d -धम् अशां २१, ४.
 महौ(हा-ओ)षधि -धिम् वृदे ८, ५६.
 मंहन- पाउभो २, १, २७८; -ह्वा आपमं २, १८, ९; कौस् ७०, ६; कृया १०, १०; ११, ३७.
 महयित्वा भाण्ट २, ५ : १२×५.
 महस्(रः)^e - पाण ५, १, १३०; -हः ङआश्रौ १, ३, १४×५; शाश्रौ; माश्रौ २, १, १, ५१^f; वैश्रौ १, ३ : ८^g; ङआमिण्ट २, ६, ३ : १३^h; ८ : २५ⁱ; कप्र २, १, ६^g; शंघ १०७^h; ङबौध २, ५, २०^h;

१०, ३२^h; ३३^h; निघ १, १२^h; या १४, ११^h; -ङहसः गोण्ट ४, १०, १५; द्राण्ट ४, ४, १८; -ङहमे आपश्रौ १९, ७, ६; माश्रौ १, ६, ३, १६ⁱ; वाश्रौ; -ङहोमि आपश्रौ २, १८, ८; माश्रौ ६, ३, ८; आपश्रौ; -होमिः आश्रौ ४, १३, ७^g; -ङहोभ्यः आश्रौ ३, १, १४; आपश्रौ २०, ११, १८; वैताश्रौ १८ : १.
 माहम- पा ५, १, १३०.
 महर-लोक- -कम् शंघ २१६ : ६६.
 मंहसन्व- -वतः माश्रौ ५, १, १, ३९.
 महस्वती- -ती अप ४८, ७४^g.
 महा अप ३६, १, १४^g.
 मंहमहाम^g आश्रौ ७, ५, २०^g; शाश्रौ १२, ३, ६; ७^g; १४, १६, १^g; १७, ८, ८^g.
 महि^e -हि ङआश्रौ २, ८, ३; १०, २१^h×५; शाश्रौ; वैताश्रौ ६, १^h; ऋअ २, ५, ३३^h; ङया ११, १९^h; तैप्रा ६, २^h.
 महित्री^h - पाण ५, २, ६१.
 माहित्र^h - पा ५, २, ६१; -त्रम् शाश्रौ २, १२, ६; वाध २६, ५; वृदे ८, ८६; -त्रेग माश्रौ ६, ४, ४; वैश्रौ २, ८ : ८; हिश्रौ ६, ६, १६.
 मंहित्व- -त्वम् शाश्रौ २,

४, ३; वौश्रौ; या ४, ११; ६, ८^h; ७, २३^h; -त्वा^h आपश्रौ ५, ९; ११×५; वौश्रौ; -त्वे^h आपश्रौ २२, १२, २०; वौश्रौ. महिन्वन्^h -नम् आपमं २, २, ४^h.
 महिन्माय- -०य आश्रौ ४, ११, ६^h.
 मंहिन्वृष्^h -वृधे^h आश्रौ ७, ११, ३४; शाश्रौ.
 मंहिन्वत्^h -०त छुस् १, ९ : ३; ४; या ३, १७^h.
 ✓महोय, महायते वौश्रौप्र ५४ : १९^h; कौण्ट ३, १०, ३५; आमिण्ट.
 महोयमान, वा- -नाः वौश्रौ ११, ११ : ४; -नाम् ऋप्रा ९, ४१^h.
 महीया^h -या हिश्रौ १०, ५, ३४; -याम्^h आपश्रौ १३, २२, ५; वैश्रौ १६, २७ : ३; हिश्रौ ९, ५, ४८.
 म(हि>)ही-वाह- -वाट अप्रा ३, ४, १.
 मंहिन्^h -दिनः आश्रौ २, ९, १४; ३, ७, १०.
 मंहिनी- -०नि आपमं २, १८, ९; या ११, ३७^h.
 महिन- पाउ २, ५६.
 मामहान- -नः शुप्रा ३, १२९^h.
 मंह-मंहन-प्रण्ट. ✓मंह द.
 मक् पाण १, १, ३७.

a) वस. । b) व्यप. । c) वस. > वस. > कस. > वस. > वस. । d) = अपमर्ग- । e) वै १ द. । f) पाभे. वृ १८८७ d द. । g) = व्याहृति-विशेष- । h) = उदक- । i) पाभे. वै १, १५३५ j द. । j) वैप १, २३९९ क द. । k) पाभे. वैप १, १४३८ g द. । l) वैप १, २४०० ० द. । m) पाभे. वैप १, २४०० g द. । n) <महित्रीणाम् (ऋ १०, १८५, १) । o) = सुक्ल-विशेष- । p) पाभे. वै १, २४०१ ० द. । q) वैप १, २०४६ j द. । r) पाभे. वैप १, २४०१ k द. । s) = ऋण्-विशेष- (ऋ ८, ४८, ३) । t) पाभे. वृ ५३६ h द. । u) = महत्- ।

मक- पाग २, ४, ३१^३.

मकथु- (> माकथेय^३- पा.) पाग ४,
१, १२३.

श्मकर^०- रैः अप ६१, १, ७.

मकर-संस्थित- ताः अप ६२, ३, २.

रमकर- (> माकरायण- पा.) पाग ४,
२, ८०.

मकरी- (> श्री-प्रस्थ- पा.) पाग ६,
२, ८७.

मकट्टु^६- (> माकट्टेय^३- पा.) पाग
४, १, १२३.

म-कार- प्रसृ. म- द्र.

मकि^० अप ४८, १२६^१.

मकुर- पाउ १, ४०.

मक्कोल- पाउमो २, ३, ११५.

√मक्ष^१ पाघा. भ्वा. पर. संघाते.

मक्ष^०-> मक्षा^०- श्वाः अत्र २, १^१.

माक्षिक, का^०- पाउ ४, १५४; पाउमो
२, २, १८; पाग ५, २, ९७;

पावाग ४, ३, ११६; -का जैग

१, ३: ३; शंघ १६९; विघ २२,

५२; -कामिः वाघ ३, ४६;

-कायाम् बौश्रौ २, ५: २१;

-कैः बौग ४, ९, ५.

माक्षिक- पावा ४, ३, ११६.

माक्षिका-मशक- कैः शंघ ४३१.

माक्षिका-ल- पा ५, २, ९७

†मक्षु^०- श्चु > क्षू आपश्रौ १९, १९,
८; बौश्रौ १३, १७: ७; माश्रौ ५,

१, ६, ७; हिश्रौ २२, ३, ७;

काग ३८, २; अप ४८, १०६;

बुदे ६, ७३; चात्र ४१: ९; निघ

२, १५; ऋषा ७, ५; तैषा ३, १३;

पा ६, ३, १३३.

मक्षुं-ग(म>)मा- -माभिः ऋषा
७, ९^१.

रमलु- [> यक्र. माक्षव्य- (> माक्ष-
व्यायान >]नी-] पा. पाग ४,
१, १०५^६; १८.

√मख्, डख् पाघा. भ्वा. पर. गतौ.

मख^०- पाउमो २, २, ४७; पाग ५, २,

२४^३; -फखः आपश्रौ १५, ३,

७; बौश्रौ; -खम् ऋषा ७, ५४;

-फखस्य काश्रौ १६, ३, २२××;

आपश्रौ; -खाय फकाश्रौ २६,

१, १०; १२; १४, १६××; आपश्रौ;

कौग १, १६, ७^१; शांग १, २४,

४^१; -खे बुदे १, ११५; ३,

४५; -खेभ्यः या ३, २१^१; -खेषु

अप ३, ३, ७.

मख-जाह- पा ५, २, २४.

फमख-हन्- -ध्वे आपश्रौ १२, २०,
३^३; बौश्रौ.

मगदिन्- (> मागद्य- पा.) पाग ४,
२, ८०.

मगद्य, धा^०- पाउमो २, २, १७६; पाग
३, १, २७; ४, २, १३८; -घाः

अप ५१, ४, ४; -घायाम् अप

५१, १, ३; -घेभ्यः अषा ३,

४, १^१.

१मागद्य^१- पा ४, १, १७०; -घाः

अप १, ७, २; ५०, ३, ३; -घैः

अप ३३, ३, ३;

मागद्य-देश-> शीय-

-याय काश्रौ २२, ४, २४; लाश्रौ

८, ६, २८.

मागद्य-प्रस्थ-संमि(त>) ता

-ता अप ३३, २-३, ५.

मागद्य-वङ्ग-मत्स्य- -रस्याः
अप १, ७, ७.

मगधीय- पा ४, २, १३८.

मगन्द^६- -न्दः या ६, ३२^६.

मगुन्दी^०- -गुन्द्याः अप्रा ३, ४, १^१.

मगुशा- पाउमो २, ३, १४९.

मगन- √मज्ज द्र.

मघ- मघ-वत्- प्रसृ. √मह द्र.

मघष्टु^६- (> माघष्टेय^३- पा.) पाग
४, १, १२३.

मघा^०- पाउना ५, ८२^१; -घा अप १,

३८, ३; ३१, ८, ६; अशां ८, ३;

वेज्यो ३६; -घाः अप १, १, २;

२-३, १; ५, १; ११, २^१; १२, १;

३३, ११; ५७, १, १; -घानाम्

अप ५०, ४, २; -घाभिः आपगृ

३, १^१^३; मागृ १, २: १७^१^३;

अप १, ९, ९; २८, १; ४३, ८; ४८,

५; -घाभ्यः बौश्रौ २८, ४: ५;

शांग १, २६, ८; वैगृ ३, २०: ५;

अशां १२, २; -घाम् अशां २,

३; -घाम् आमिगृ २, ५, १२:

२; जैगृ २, ५: १९; कौसू ७५,

५^१^३; अप.

मा(घ>)वी^३- -घी काश्रौ १३,

१, ८; विघ ७६, १; ९०, ६; मीसू

६, ५, ३२; -घ्याः शांश्रौ १५,

१२, ३; हिश्रौ १६, ५, १७;

वैताश्रौ ३१, १; ३६, ४; आपगृ;

-व्याम् शांश्रौ ३, १८, १८; १५,

१२, १०; बौगृ ३, ९, २; मागृ

३, ८: १२; बौघ १, ५, १४३;

विघ ९०, २०; -घ्यै आपश्रौ

२१, १५, ६; बौश्रौ १६, १३: ४-

a) मल- इति पाका. b) डे उवर्णस्य लोपः (पा ६, ४, १४७)। c) वैप १ द्र.। d) व्यप.।

e) प्रतिषेधे अन्व.। f) तु. BPG.। g) तु. पाका.। मक्षु- इति भारुडा. पासि.। h) अर्थः ?। i) पामे.

दृ १०३० k द्र.। j) = जनपदविशेष- वा तद्राजन्- वा। k) = कुसीदिन्-। वैप १, २१८८ j द्र.।

l) < √मक्ष्। m) पामे. वैप १ परि. मघासु ऋ १०, ८५, १३ टि. द्र.। n) = वौषमावी-।

माघ^१- घः वेज्यो ६; मघी^२- >मघी-प्रस्थ-) मघी-
-घस्य दांश्रौ १३, १९, ३-४; मघी- (>मघी-प्रस्थ-) मघी-
-वे वाध्रुश्रौ ४, २८ : ११; वौगृ टि. द.
२, ११, ३; कौस् ८३, ५१; $\sqrt{\text{मङ्क्}}$ पाधा. भ्वा. आत्म. मण्डने.
अप ७२, ७, ४; विध ९०, २७; मङ्कट- (>ंठिन्- पा.) पाग ४, २,
वैध २, १२, ७. ८०.

माघ-प्रौष्ठपद- दयोः मङ्कण- पाउभो २, २, १२४.
वैगृ ४, ३ : १. मङ्किल^१->माङ्किल- -०ल वैध ४,
माघ-फाल्गुन- नयोः ८, १२^६.
अप ५५, ४, १; -नौ विध ९०, मङ्किल-वत् वैध ४, ८, १२^६.
२९. मङ्कीर^१- रस्य^६ आपश्रौ २१, २०,
माघ-मास- से बौश्रौ ३; वौश्रौ १६, २३ : ४; हिश्रौ
२६, २९ : ६; अप २, ४, ६. १६, ६, ४१.

माघ-शुक्लपक्ष-प्रतिपद- मङ्गीर-दासक- -कौ वौश्रौ १६,
-पदि कौगृ ३, ८, २^७. २३ : ७^११.

माघ-शुक्ल-प्रतिपद- मङ्किकल^१- >माङ्किकल- -०ल
-पदि शांगृ ४, ६, १^७. बौश्रौप्र ५३ : २०.

माघ-शुक्ल-प्रपन्न- -न्नस्य मङ्किकल-वत् बौश्रौप्र ५३ : २^६.
वेज्यो ५. मङ्कि- पाउभो २, १, २२४.

माघ-श्रावण- -णयोः शमङ्कु- पाग १, १, ३७.

वेज्यो ७. २मङ्कु- [>माङ्कु- (>ण्याय-
काश्रौ १५, १, ४. [न>]नी-)] २मङ्कु- टि. द.
मघा-त्रयोदशी-श्राद्ध- -द्धम कागृ ४३ : २०. $\sqrt{\text{मङ्क्}}$ $\sqrt{\text{मख्}}$ द.
मघा-नक्षत्र-जात- -तानाम् सु ४, मङ्क- पाउभो २, २, ४४.
६. $\sqrt{\text{मङ्ग्}}$ पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
मघा-भाग- -नो अप १, ६, १०. मङ्कल^१- पाउ ५, ७०; पाग २, ४, ३१;
मघा-यु(क्त>)का- -काम् शंघ ४, १, ४१; -लम् सु १, ४^२;
१९३. कौस् ७५, ५; अप १, ३५, १^३; २^२;
मघा-यु(त>)ता- -ता विध ९०, ६ गौध ८, २१; या ९, ४^१६;
मघी^१- (>मघी-प्रस्थ- पा.) पाग ६, आज्यो १०, २; -लात् वृदे १,
२५; २२^३; -लानि वाश्रौ १, १, १, ७९; आपगृ; -लाय निस् १,
२, ८७. ११ : १७; -लैः अप १८^३, १, २.

मङ्गली- पा ४, १, ४१.
माङ्गल^१- -लः वौश्रौ २४, २ : ४;
-लानि आश्रौ ४, १५, ७.
माङ्गल्य- -ल्यम् विध २७, ६;
-ल्यानि आश्र ४, ६, ६; -ल्ये
मागृ १, ११, १६^६.
मङ्गल-दर्शन- -नम् शंघ २५०.
मङ्गल-पाठक- -कैः अप १९^३, ४, ५.
मङ्गल-युक्त-का- -कम् वैगृ २, ५ :
४; ३, २२ : ३; २३ : २; -काम्
वैगृ ३, १० : ४.
मङ्गल-योग- -गः वैगृ ५, १४ : २.
मङ्गल-वादिन्- -दिभिः अप १९^३,
४, ३.
मङ्गला(ल-आ)वार-तत्पर- -ता-
-ता विध २५, ८.
मङ्गला(ल-अ)मङ्गल-वचन- -नम्
पावा ५, ४, ४२.
मङ्गला(ल-अ)र्थ- -र्थः पावा १, ३,
१; -र्थम् कागृ ४०, ७; कागृउ
४४ : २१; वागृ ४, १९; अप
३, २, २.
मङ्गलिक^१- -किभ्यः^१ अप ४६,
१०, २९; अश्र १९, २३.
मङ्गल्य, ल्या^१- -ल्यम् माश्रौ २, १,
२, २८; वैगृ ५, ६ : २४; विध
२३, ५७; ५९; ७२, ५; १००,
२; -ल्याः अप ७०^३, ३, ३;
-ल्यान् अप १९^३, ४, १;
-ल्यानि भागृ १, ११ : ८; मागृ
१, ८, ५; ६; कौस् ४३, १५;
-ल्याभिः गोश्र २, ७, १२;
-ल्याय वैगृ ५, १२ : २; -ल्यैः

- a) = मास-विशेष- । b) परस्परं पाभे. । c) तु. पाका. । मघी- इति भाण्डा. प्रभृ. । d) व्यप. ।
e) सपा. माङ्किल<>माङ्किकल इति पाभे. । f) सपा. मङ्किकल<>मङ्किकल इति पाभे. । g) सपा.
मङ्कीरस्य<>मङ्गीरस्य<>मन्दीरस्य इति पाभे. । h) सपा. मङ्गीरदासकौ<>मङ्गीरदासकौ
इति पाभे. । i) वैप १ द्र. । j) तदस्यप्रयोजनमित्यर्थे अण् प्र. उंसं. (पावा ५, १, ११०) ।
k) म^० इति Knauer. ।

वागृ १६, ७, ७.
 मङ्गल्य-नामन्^१ -न्तः आपश्चौ
 १८, १९ ः १०, १० २; वाश्च
 ३, ३, ३, ३; हश्चौ १, ३, ३, ३; ३;
 २३, १, ५२
 मङ्गल्य-वन्त- -वान् वैध ३, ५,
 ७.
 मङ्गीर^२ -रस्य वैनाशौ ३, ४, ९^०
 मङ्गीर-नामक- -कौ देताशौ ३४,
 ९^०.
 मङ्गुण^३ - (> माङ्गुण्य- पा.) पाग
 ४, १, १५१.
 √मङ्गु पाधा. भ्वा. पर. गत्याक्षेपे
 क्तने, मण्डने च.
 √मच् पाधा. भ्वा. आ-म क्तने.
 मचक- > मचक-चात् (न>) नी^०-
 -न्याः गांयु १, २३, १^०.
 मच्छ- पाठो २, २, ८३.
 √मज्ज^४ मजायमे अप ४८, ११५^१.
 मज्जिरक^५ - (> माज्जिरक- पा.) पाग
 ४, १, ११२.
 √मज्ज (< √मस्ज), मज्जते इप ६८,
 २, ५; मज्जति अप ३, ३, ३; ४,
 ६, २; ६९, ७, १; वाध २, ३०;
 बौध २, १, ५२; विध १२, ८;
 याशि १, ३५; मज्जसि वाधुश्रौ ३,
 १०५:४.
 मज्जयति काश्रौ ५, ५, २९; १०,
 ९, ३; या ९, ४.
 मग्न, ग्ना- -न्तः अप ६८, ५, २;
 विध ४६, ५; या १४, ७;
 -न्स्य काश्रौ २०, ८, १६;

-नानाम् शोध ४; -न्नाम्
 आपश्चौ १०, १९, १; भाश्रौ १०,
 १२, ६; हिश्रौ १०, ३, ७.
 मज्ज(त>)ती- -तीम् कौसू ४२,
 १९.
 मज्जन- -नम् काश्रौ १९, ५, १४;
 विध २८, ५; ४६, ४; -नात्
 या ९, ५.
 मज्जयतृ- -यता पागृ २, १, १८^१; ६;
 मज्जयित्वा शांगृ ५, २, ७.
 मज्जूक^६ - -काः या ९, ५^०.
 मज्जन्^७ - पाठ १, १५९; -ज्जसु
 आपमं २, ११, १९; -ज्जा वैश्रौ
 १३, १७: १०; विध २२, ८१;
 वृदे ७, ७९; या १४, ६; अप्रा
 २, ३, १२; -ज्जानम् कागृ ६५,
 ६; अप्राय २, ९; वाध २०, २६^१;
 गौध २४, ८; शुप्रा ४, १६१;
 -ज्ज्जा आपश्चौ १६, १९, १;
 वैश्रौ १८, १६: ९; हिश्रौ ११,
 ६, ३१.
 मज्ज-तस(ः) द्वाश्रौ ५, २, ३; लाश्रौ
 २, ६, १.
 मज्जा^८ - पाठभो २, १, २७८; -ज्जा:
 जैगृ २, ३: १२; -ज्जानाम् भाश्रौ
 ११, १५, २३; -ज्जाभिः वाध
 २०, २६^१; -ज्जाम् हिश्रौ २४,
 ६, १८^१; अप ७१, ८, ३.
 मज्जा-तस(ः) या १४, ६.
 मज्जा-रुधिर-वर्षम् अप ७२, ३, ४.
 मज्जा-रूप- -पम् आपश्चौ १५,
 १५, १^१.

मज्जा(जा-अ)स्थि-स्नेह-मांस- -सम्
 अप ७०^२, १८, २.
 मज्जि- -ज्यः^६ शाश्रौ १८, २१, ११;
 काश्रौ १३, २, २४.
 मज्जुका^१ - -का कागृ ६२, ४.
 मज्जमन्^१ - -ज्जमना अप ४८, १०३;
 निघ २, ९.
 √मज्ज् पाधा. भ्वा. आत्म. धारणोद्वाय-
 पूजनेषु.
 मज्ज- पाठभो ३, २, ८२; पाग ४,
 २, ९०; -ज्जम् बौश्रौ १९, १०:
 ५७.
 मज्ज-क- पाग २, ४, ३१.
 मज्जीय- पा ४, २, ९०.
 मज्जरी- पाठभो २, ३, ३८.
 मज्जरित- पा ५, २, ३६.
 मज्जि^{१०} -> मज्जि-घ- पा ८, ३, ९७.
 मज्जिष्ठा^{११} -> माज्जिष्ठ^० -घम् आपृ
 १, १९, ११; कौगृ २, १, ९;
 वाध ११, ६५; आपध १, ३,
 १; हिध १, ७३; -घाः अप
 ५८, १, ७.
 माज्जिष्ठ-हारिद्र^{१२} - द्वे गौध १,
 २३.
 मज्जीर- पाठभो २, ३, ४८.
 मज्जीरक^{१३} - (> माज्जीरक- पा.) पाग
 ४, १, ११२.
 मज्जु- (> मज्जु-रु- पा.) पाठवृ १,
 ३७; पाग ५, २, ९७.
 मज्जुषा- पाठ ४, ७७.
 मट्मट^{१४} - -टाः अप्रा ३, ४, १^१.
 √मट् पाधा. भ्वा. पर. मदनिवासयोः.

a) वस. । b) व्यप. । c) पाभे. पृ १९९९ g द्र. । d) पाभे. पृ १९९९ h द्र. । e) = ओषधि-
 विशेष- । व्य. ? । < मशक^० इति MW. । f) सपा. कौगृ १, १५, १ मशकादन्याः इति पाभे. । g) पाभे. वैप १,
 २५१६ ० द्र. । h) मण्डूक-पर्याय- । i) वैप १ द्र. । j) सपा. मज्जाम् <> मज्जारूपम्
 इति पाभे. । k) पाठः ? मतयः इति PW. शोधः । l) अर्थः व्य. च ? । वपा-न्यूप- इति भाष्यम् । m) अर्थः
 व्य. च ? । n) = ओषधि-विशेष- (मजीठ इति नभा.) । व्य. ? । < मज्जु- इति अभा. MW., अभा. [पक्षे] <
 मज्जि-घ- इति । o) विप. । रक्ताथे अण् प्र. (पा ४, २, १) । p) विप. (वासस्-) । द्वस. ।

मठ- पाग २, ४, ३९^१; ४, १, ४१;
-ठम बौध ३, १, १३; -ठे वैच
३, ६, ६.

मठी- पा ४, १, ४१.

मठर^१- पाउ ५, ३९; पाग २, २, ३८;
४, १, १०४; १००; -राः^१ बौधौप्र
४३: १.

माठर- पा ४, १, १०४; -रः वैताश्रौ
१, ३; वृदे ८, ८५.

माठरायण- पा ४, १, १००.

मडर^१- (>र-क [न्या] >) न्य-
पा.) पाग ६, २, १०५.

मडार^१- (> माडार्य- पा.) पाग ४,
२, ८०.

मडुर^१- (>र-क [न्या] >) न्य- पा.)
पाग ६, २, १०५.

मडूपिका^१- काम आगृ ३, ११.

मड्डुक^१- पाउभो २, २, २६.

माड्डुक^१, माड्डुकिक^१- पा ४,
४, ५६.

✓मण् पाधा. भ्वा. पर. शब्दे.

मणि^१- पाउ ४, ११८; पाग ५,
२, ९७; ४, ३; २९; ६, ३,
१२०; -णयः आपश्रौ २०, १५,
९; हिश्रौ १४, ३, २२; अप ६५,
१, ८; वेज्यो ४; -णिः भागृ २,
२१: ८; ९; कौसू ७६, ९; अप;
-णिना कागृ २९, ११; वैगृ
२, १५: ४; हिपि ५: १०;
गोगृ; -णिम् बौश्रौ १७, ३९:
४; ४१: ५; १९, १०: ३२१;
हिश्रौ; -णीन् काश्रौ २०, ५,

१६; आपश्रौ १८, १७, १२;
१९, १७; २०, १५, १०; बौश्रौ;
-णीनाम् बौश्रौ २२, १९: ३;
शंघ ३९५; अत्र १९, ३११;
-णौ अत्र १९, ४६१.

मणि-क^१- पा ५, ४, ३; २९; पावाग
५, १, १२४^१; -कः कप्र ३, ९,
११; -कम् आगृ २, ९, ३;
कगृ ३, १; पागृ ३, ५, २;
गोगृ ३, ९, ६; -काः आश्रौ
१२, ९ ११^३, -कान् गोगृ १,
१, २६; -कान् आगृ ४, ६, ४;
-के कागृ ३ १०, ११; आगृ २,
१४, २३; पागृ २ ५, ६, गोगृ ३,
३, ३०; ९, ७; अप ६७, १, १०^१.

मणिक्य- पावा ५, १, १२४.

मणिक-देश- -शे द्रगृ १, ५,
२४.

मणिक-प्रतिष्ठापन- -नस् कागृ
३, ३, ८.

मणिका(क-प्र)वधान- -नस्
पागृ ३, ५ १.

मणि-कनकरजत-शङ्ख-गुक्त्यु(क्ति-
उ)पल-प्रवल- -लानाम् सुधप
८७: १२.

मणि-कार^१- -रः वैध ३, ११, ९.

मणि-कुण्डल- -लय बौश्रौ ७,
४: २४१; कगृ ३, १, १३;
शागृ ३, १, १८.

मणिकुण्डल-बन्धन- -ने भागृ
२, २२: २.

मणि धनुस्^१- -नुः पागृ २, ७, १३;

वाध १२, ३३; बौध २, ३, ३३;
गौध ९, २३.

मणि-धारण- -ये भागृ २, २१:
१०.

मणि-पा(ल >)ली- (> माणि
पाल- , लिक- पा. यक्र.) पाग
४, ४, ४८; १, १४६.

मणि-युच्छ >)च्छी^१- पावा ४,
१, ५५.

मणि-प्रतिमोचन- -ने हिश्रौ १४,
३, २३.

मणि-बन्ध^१- -न्यात् वाध ३, २६;
बौध १, ४, १५१; ५, ९; गौध
१, ३८.

मणिवन्ध-जानु-तस्(ः) वैगृ १,
२: ४.

मणि-भद्र^१- -द्रः आज्यो ५, १७.

मणिभद्रा(द्र-आ)दि- -द्वयः अप
७१, १८, ३.

मणि-भय- -यम् विध २३, ३.

मणि-मुक्ता(क्ता-आ)दि- -वेध^१-
-यः वैध ३, ११: ९.

मणि-मु-हा-प्रवाल-ताम्र-रजता(त-अ)
यः-क्रांस्थ- -स्थानाम् विध ५२,
१०.

मणि-मुक्ताफल- -लेपु अप ७०,
५, ३; -लैः अप २१, ६, ५.

मणि-रत्न- -त्तम् अप २०, ५, २.

मणि-रत्न-वर-प्रतिरूप- -यः अप
२०, ६, ७.

मणि-रत्न-विभूषित- -त्तम् अप ९,
४, ४.

a) मव- इति पाका. । b) व्यप. । c) बहु. <माठर- । d) मदुर-, मन्दर- इति [पक्षे]
भारवा. । e) मार्जार- इति पाका. । f) तु. पाका. । मद्रुमर- इति भारवा. प्रष्ट. । g) =कन्या-। अर्थः
व्यु. च? । वामना- वा मरडुक-त्वच्- वेति भाष्यम् । h) =वाद्य-विशेष. । i) =शिल्पि-विशेष. । j) वैष १ द. ।
k) =उदक-भाण्ड- । l) =मणि- । m) = (पशुस्कन्धीय-मणिसहस्र-) मांस-खण्ड- (तु. सा [ऐत्रा ७, १]) ।
n) अर्थः? । o) जाति विशेष- । p) =इन्द्र-धनुस्- । q) वस. । r) =पाणि-मूल- । उप. अधिकरणे
कृत. । s) =यक्ष-विशेष- । t) द्रस. > वस. > उस. उप. कर्तरि कृत. ।

मणि-ल,ला- पा ५, २, ९७; -लाः^a
 आपश्चौ १९, १६, ७; हिश्रौ २२,
 १, ६.
 मणि-व- पावा ५, २, १०९.
 मणि-वत् वाध ३, ५१; याशि २,
 ३०; नाशि २, ५, २.
 मणि-श्रृङ्ग^b- -ङ्गः विध १, ९.
 मणि-संख्या- -ख्याभिः काश्चौ २०,
 ७, १.
 मणि-सुवर्ण- -र्णयोः विध ६६, ४.
 मणि-सूत्र-वत् शैशि १८०; माशि
 ९, ६; याशि २, ८; नाशि १, ६,
 ११.
 म(णि>)णी-व(त्>)ती- पा ६,
 ३, १२०.
 मणी(णी-इ)वा(व-आ)दि- -दीनाम्
 पावा १, १, ११.
 ✓मण्ड^c पाधा. भ्वा. आत्म. शोके.
 ✓मण्ड^c पाधा. भ्वा. पर. भूषायाम्;
 आत्म. विभाजने; चुरा. पर. भूषायां
 ह्रस्वे च > मण्डन- पा ३, २,
 १५१.
 मण्डयन्त- पाउ ३, १२८.
 मण्डयित्नु- पाउभो २, १, ८३.
 मण्ड^d- पाउ १, ११४; पाग २, ४, ३१;
 ५, २, ९७; ८, २, ९; -ण्डः या
 ९, ५^e ६^e.
 मण्ड-मत्- पा ८, २, ९.
 १मण्ड-ल- पा ५, २, ९७.
 मण्डक^f- -काः कप्र ३, ९, १८; -कैः
 अशां १३, २६.
 १मण्डचरवत्^g बौश्रौ ६, ५ : १७.

मण्डप^h- पाग २, ४, ३१; -पम् अप
 १९ⁱ, १, ५; २१, ४, ४; ६८, ५,
 २७; -पस्य अप २०, १, ३;
 -पानाम् कागृ ७१, १४; अप
 २५, २, ४.
 मण्डप-मध्ये- -ध्ये अप १९ⁱ, २, ३.
 मण्डप-वेदि- -द्याम् अप १०, १, ९.
 मण्डर^j- (> माण्डरिक- पा.) पाग
 ५, ३, १०८.
 २मण्डल,ला^k- पाउभो २, ३, ९३;
 पाग २, ४, ३१; ४, १, ४१;
 ५, ३, १०८; -लम् काश्चौ १७,
 १, ५; माश्रौ ६, १, ५, १; वाश्रौ;
 आपश्च ३, २-४; काश्च १, २;
 बौश्र १ : ११; हिश्र १, ४०;
 ऋअ^l २, २, १; ३, १; ३२; ४,
 १; ६-७, १; ९, १; ३, ३३;
 वृदे ५, १०३^l; शुअ १, १^m;
 -लात् काश्चौ १६, ७, ३०;
 -लानाम् अप ६४, ३, १०; ७,
 ८; -लानि वैगृ २, १ : ६×४; अप;
 ऋअ ३, ३८^l; चव्यू १ : १०^l;
 -लाम्ⁿ माश्रौ ६, १, ७, १४;
 २, १, १६; २, १२; वाश्रौ २, १,
 ६, ३२; २, १, ११; २, ६;
 -लायाम्^o आपश्च ७, ७; हिश्र
 २, ५५; -ले आगृ ३, ७, ४;
 कौगृ २, ६, ३; आगृगृ;
 ऋअ १, २, २^l; ५, १^l; वृदे
 ३, २८^l; ऋप्रा ४, ९४^l;
 -लेऽले ऋअ २, ३, ५; -लेन
 आगृगृ २, ६, ७ : १०; १२;

-लेषु अप ५२, ७, ३; विध ११,
 ६; -लैः अप ६३, ३, १.
 मण्डली- पा ४, १, ४१.
 माण्डलिक- पा ५, ३, १०८;
 -कः अप ३६, २६, ३५;
 -कानाम् अप ७०^l, १०, ४५.
 मण्डल-कुष्ठ-> ष्टिन् - -ष्ठी शंघ
 ३७७ : १७.
 मण्डल-चक्र^p- -क्रे हिश्रौ ७, ५, १.
 मण्डल-चारिन्- -रिणः अप ७०^l,
 ६, ४.
 मण्डल-दर्शन- -नात् आगृ ३, ७,
 ६; कौगृ २, ६, ४; शागृ २, ९, ३.
 मण्डल-द्वीप-संमित- -तम् गोगृ
 ४, ७, १२.
 मण्डल-प्रवेश- -शः शागृ ६, २, ५.
 मण्डल-भाग- -नेषु वेज्यो २२.
 मण्डल-संस्थि (त्>)ता- -ता अप
 ५८^l, ४, ७; -ताः अप ५८^l, २, ६.
 मण्डल-सप्तक- -कम् विध ११, २^q.
 मण्डल-समुत्पत्तित- -ताः अप ७०^l,
 ११, २२.
 मण्डला(ल-आ)कार^r- -रम् बौश्रौ
 २०, १३ : १९.
 मण्डला(ल-आ)कृति^s- -ति अप
 १३, १, ९; शंघ १४१; -तिम्
 अप १२, १, ३.
 मण्डला(ल-आ)गार- -रे आगृगृ २,
 १, १ : ८^l; २ : ९^l; हिगृ २, १,
 ३, २, २.
 मण्डलागार-च्छाया- -यायाम्
 आगृ १, १३, ५.

a) मल्ल- = मलि-द्वा- (तु. वैप १)। b) बस.। c) या ९, ५ परामृष्टः द्र.। d) बप्रा.। = पिच्छ,
 मस्तु- (तु. पाउश्वे १, १०७) प्रमृ.। व्यु. ? <√मद् वा <√मुद् वेति या., <√मन् इति पाउ.। e) = जल-
 इति स्कन्द.। f) = अपूप-। g) = पुरोडाश- इति Bolling.। h) = लाङ्गलपाशवत् इति भाष्यम् (तु. सूची)।
 i) नाप.। j) = जीव-विशेष- इति पागम.। k) वैप १ द्र.। l) वैप १, २४०६ h द्र.। m) = सूर्य-
 मण्डल-। n) = मण्डलेश-का-। o) = परि-मण्डल- (गाहपत्य-चित्ति-).। p) = प्रान्ताधिप-। रक्षतीत्यर्थे ठक् प्र.
 (पा ४, ४, ३३)। q) लं स० इति जीसं.। r) कारे इति पाठः इ यनि. शोषः (तु. हिगृ.।

मण्डला(ल-अ)प्र- -ग्रम् अप २७,
२,४.
मण्डला(ल-आ)दि- -द्विषु ऋअ
१,१२,१२.
मण्डला(ल-अ)भ्यन्तर-स्थ- -स्थाः
अप ६४,७,३.
मण्डला(ल-अ)भ्याश-सेविन्-
-विन् अप ५२,८,२.
मण्डलिन्^१- -ली शंघ ३७६;३७७:
१.
मण्डली^२√कृ> °ली-कृत- -तः
अप ६३, १, ५; -तान् बौश्रौ
२६,२४:१३.
मण्डले(ला-इ)एका^३- -काः बौश्रौ
१०, ५: १३; ६: ७; १२××;
वैश्रौ १८,१: ७६;१९,५: १६;
हिश्रौ ११, ५, १८; -काम्
आपश्रौ १६, २३, ९; १७, १,
१५; ४,२; ७; बौश्रौ १०,३१:
१३; ३९: २२××; वैश्रौ १८,
१७: २७; ४×××; हिश्रौ ११,
७, ३१; १२,१,११; ३७.
मण्डवित्^४- -वित् बौश्रौ ३: ८.
मण्डाकक^५- -कः^६ माण्ड २, ७: २२;
ह्रिण्ड २,७,२^१.
मण्डु^७- पाठभो २,१,५१; पाग ४,१,
१८; १०५; -ण्डुम् शाण्ड ६,
१,१.
माण्डव^८- -वम् द्राश्रौ ९, ३,
१३; लाश्रौ ३,६, ३३.
माण्डव्य- पा ४,१,१०५; -व्यः
वाधूश्रौ ४, १०८: १६; -व्यम्
शाण्ड ६, १, १; -व्याः बौश्रौ

३: २.
माण्डव्यायन- -तः अर १,
३,१.
माण्डव्यायनी- पा ४,
१,१८.
मण्डु-माण्डव्य- -व्यौ अप ४३,
४,२११.
१मण्डूक^९- पाठ ४,४२; -कः निस्रु
३, ११: २; आश्रिण्ड २,५, २:
४; बौग ३, ६, १; जैग; -कम्
आपश्रौ १७,१२,७; बौश्रौ १०,
४७: १५××; वाश्रौ; -कस्य
आपश्रौ १७,१२, ८; माश्रौ ६,
२,४, १२, वैश्रौ १९, ६: ५७;
हिश्रौ १२,४,२; -काः अप ६४,
८,८^१; वृदे १, १०९; निघ ५,
३१^१; या ९, ५४××; -कान्
आपश्रौ २०, २१, ९१^१; बौश्रौ;
ऋअ २, ७, १०३; वृदे ६,
२७; अअ ४, १५; या ९, ६;
-केन माश्रौ ६,२,४,११; -कौ
कौसू ९६, १.
१मण्डूकी- -०कि या ९,
७^१.
मण्डूकिका- -का सु ९,
४.
१माण्डूक- -कान् वाश्रौ २,
२,३,१८^{१६}.
मण्डूक-नकुल-काक-बिम्ब-दहर-
मूषक-भ-हिंसा^{१७}- -सासु गौघ
२२,२१.
मण्डूक-सर्प-मूषिक-मार्जार(र-अ)
न्तरागमन- -ने बौग ४,१,९.

मण्डूका(क-अ)वका-वेतव- -वैः
वेताश्रौ २९,१३.
मण्डूका(क-अ)वका-वेतवशाखा-
-खाः काश्रौ १८,२,१०.
२मण्डूक^{१८}- -कस्य माशि २,३; -केन
माशि १६,१६.
२माण्डूक- पा ४, १, ११९; -काः
बौश्रौ ३: १.
माण्डूकायनी^{१९}- -नाः चव्यू १: ८.
माण्डूकायनी- पा ४, १,
१९.
माण्डूकि- पा ४, १, ११९.
माण्डूकेय- पा ४, १, ११९; -यः
कौग १, ५, २५; १६, १६××;
शाण्ड १, ८, १३××; -यम्
शाण्ड ४, १०, ३; अप ४३,
४, ४६^१; -यस्य ऋप्रा ३, १४;
-याः बौश्रौ ३: ३.
१२मण्डूकी^{२०}- -क्या^{२१} कौग ५, ५, ५.
१३मण्डूकी^{२२}- -क्यौ आपश्रौ १६,
१८,४; वैश्रौ १८,१५: १२^१;
हिश्रौ ११,६,२६.
मण्डूर- पाठभो २,२,५७.
मत् अस्मद्- द.
१मत- (>मत-क- पा.) पाग ४,
२,८०.
२मत- √मत् द.
११मतङ्ग- -ज्ञाः अप १,८,२.
२मतङ्ग^{२३}- पाठभो २,२,६२.
मतङ्ग-वापी^{२४}- -व्याम् विघ ८५,
३८.
मतङ्ग(अ-अ)लुचर^{२५}- -रौ सु १४,१.
मतस्न^{२६}- -स्नम् आश्रिण्ड ३, ५, ७:

a) = मण्डलकुष्ठिन्- । b) वैप १ द. । c) व्यप. । d) सपा. मण्डाकक: <> मन्थाकक: इति पाठे. । e) = साम-विशेष- । तेनदृष्टीयः प्र. । f) वैप १, २४०६ j द. । g) ण्डुके इति पाठः? यनि. शोषः (तु. सपा. माश्रौ ६, २, ४, १२) । h) बिम्ब- = कृकलास- , दहर- = बाल्मूषिका- । i) = ऋग्वेद-शाखा- , तदथेत- वा । j) ण्डु इति पाठः? यनि. शोषः । k) वैप १, २४०७ a, b द. । l) ण्डु इति पाठः? यनि. शोषः (तु. आपश्रौ) । m) = मुनि-विशेष- । n) = [गयास्थ-] तीर्थ-विशेष- । o) पूष. अर्थः? ।

२०१^b; हिपि ६:११; -स्नाभ्याम्
 आपमे १,१७, ३^क; -स्ने हिथौ
 ४,४,५२^०; ५, ११; आमिण् ३,
 २,५:९^०; ५,६:१२; माण् २,
 १६:१०^०; हिण् २, १५, ५^०;
 -स्तौ वौश्रौ ४,८:४^०; ९:११;
 २५,३२:९; वौपि १, ४: २६^०;
 ६:१४; हिपि ५: ६.
 मतस्नु^d - स्नुम् वौश्रौ २, १०:१८;
 ११:१४; -स्नु वौश्रौ २, ९:
 ३३^०; वैश्रौ १०,१७:६^०; १९:५.
 मति- √मन् द्र.
 मतिनुथा^e अप ४८, ८५; निघ ३,
 १५.
 मत्कुण^f -ग: वौश्रौ २७,९:२.
 मत्त- √मद् द्र.
 मत्तस्(ः) प्रथ्. असमद्- द्र.
 मत्तैः^g कौस् ११७,२.
 मत्वा √मन् द्र.
 मत्सखि-, मत्सख्य- असमद्- द्र.
 मत्सर- √मद् द्र.
 मत्स्य^h -पाठ ४,२:१०४; पा,पाग ५,
 ३,१००; पाग ४,१,४१; -त्स्यः
 सु १७, २; शंघ ३७७:२०;
 -त्स्यम् वाधूश्रौ ४, १९:३८;
 वाश्रौ २,१,६,३६; वैध २, १५,
 ५^१; या १०,१२^क; -त्स्यस्य बौण्
 २,११,५४; आपघ २, १७, २;
 हिघ २, ५, २९; -स्याः आश्रौ
 १०, ७, ८^१; बौध १, ५, १३४;
 गौध १७, ३४; ऋअ २,८, ६७;
 या ६,२७^०; नाशि २, ५, १०;

-स्यान् शाश्रौ १६, २, २३^१;
 वौश्रौ: -त्स्यानाम् अप ६५, २,
 ६; वाध १४, ४१; आपघ १,
 १७,३८; हिघ; या ६, २७^०;
 -त्स्येषु शंघ २२४; -त्स्यैः पाण्
 १, १९, ९; -स्त्यौ वाधूश्रौ ४,
 १९:२९; ३७.
 मत्सी- पा ४, १,४१; पावा
 ४,१,६३, ६,४,१६३.
 मात्स्यⁱ - -त्स्यम् कौण् १,१९,
 ४; शाण् १,२७,४.
 मात्सी- -त्स्याम् चाअ १:८.
 मात्स्यिक- पा ४,४, ३५.
 मात्स्य-गन्ध^j -न्धा: वौश्रौप्र ९:२.
 मात्स्यगन्ध- -न्धानाम् चाअ २:
 ३; १६:९.
 मात्स्य-वातिन्- -ती विध ५, ५३;
 वैध ३,१४,१२.
 मात्स्य-वन्ध- -न्धेन अप १,०९,४.
 मात्स्य-वन्धिन्- -न्धी वैध ३, १४,
 ११.
 मात्स्य-बन्धु^k -न्धु: वैध ३, १४,
 ११.
 मात्स्य-मांस- -सेन विध ८०, २.
 मात्स्य-मांस-इधि-क्षीर-रुधिरा(र-
 आ) गम- -मे अप ६८,२,१२.
 मात्स्य-मुद्गर^l -रौ अप ३९, १,
 १०.
 मात्स्य-रूप- > ०पिन्- -पी अप
 ६१,१,१७.
 मात्स्य-वध- -धे शंघ ३७७:२३.
 मात्स्य-विद्^m -चिदः शाश्रौ १६.

२,२३^०.
 मात्स्य-सर्प-द्विजाति- -तीनाम् अप
 ७१,१,५.
 मात्स्या(त्स्य-अ)व- -दान् शंघ ४२६.
 मात्स्या(त्स्य-आ)दि- -नीन् अप ३९,
 १,९; वैध ३,५,७.
 मात्स्याद्य(दि-अ)र्थ- -र्थम् पावा
 १,१६८.
 रमात्स्यⁿ - -त्स्यः आश्रौ १०, ७, ८;
 शाश्रौ १६,२, २०; ऋअ २, ८,
 ६७; वृदे ५, १५२; -त्स्यात्
 ऋअ २,८,१.
 रमात्स्य^o - -त्स्याः अप १,७,२^३; ५६,
 १,५; -त्स्यान् अप ५०, २, ५;
 ५३,१,८.
 रमात्स्यक्राथ^p - -था: वौश्रौप्र १७:१७.
 रमात्स्यति अप ४८,१३^क.
 √मथ्, न्य् पावा. भ्वा. पर हितासं-
 दलशभ्याः, भा. क्वा. पर.
 िलोडने; मन्थते बार्श्रौ १६,१:६;
 मन्थति काश्रौ ५, २, २; ६,
 ३, २२; १२, १, १५; आपश्रौ
 ५, १०, ७xx; वौश्रौ; मन्थन्ते
 काश्रौ १२, २, ४; मन्थन्ति
 वाधूश्रौ ४, ५:९; वाश्रौ ३, २,
 १, ५१; कप १, ७, १२; ८,
 ४; मात्थाम कौस् ७०, १^क;
 मन्थन्तु कौस् ६६, ९: अथ ८,
 ८; अं ४:०९; मन्थन्तु अप
 ३५,१,२; ३६, ९, ३; मन्थन्त,
 >ता वौश्रौ २, १६:३३; वृदे;
 अमन्थत् आपनं १, ११, ८^क;

a) स्नाम् इति पाठः? यनि. शोघः (तु. हिपि.)। b) सपा. स्ने<> स्नौ<> स्नु<>
 आपश्रौ ७,२२,६ वृक्यौ इति पाभे.। c) सपा. स्ने<> स्नौ<> स्नु इति पाभ.। d) = मत्स-।
 e) वैप १ द्र.। f) नाप.। g) मत्तैः इति संस्कर्तुः टि.। h) वैप १ निर्दिष्टानां समावेश. द्र।
 i) = मत्स्यमांसम् इति C.। j) पाभे. वैप २, ३खं. माश १३, ४, ३, १२ टि द्र.। k) अपत्ये इदमर्थे च अण्
 प्र.। l) व्यप.। बस.। m) = मत्स्य-वन्धिन्-। n) उप. = मीन-विशेष-। o) उप. <√विद् [ज्ञाने]।
 p) पाभे. वैप २, ३खं. मत्स्यहृन्ः माश १३, ४, ३, १२ टि. द्र.। g) व्यप.। x) = देश-विशेष- वा तद्वासिन- वा।

†अमन्यास कौष्ट ५, ५, ५^{१३};
 आमिष्ट ३, ६, ३: १०; बौषि;
 मन्थेन् आपश्रौ ६, २८, १३××;
 बौश्रौ; मन्थेयु आश्रौ ३, १२,
 २१; माश्रौ ६, ८, ८; हिश्रौ १५,
 ६, ८; अप्राय २, ४.
 मथन्ति वाधूश्रौ ४, २८ : ७.
 †मथीत् शाश्रौ १४, ५७, १३;
 ऋश्र २, १, १४८.
 मथ्यते वाश्रौ ३, ३, १, ४५;
 †मथ्यति^b वृद्धे ३, ६२.
 मन्थयेत् आश्रौ ३, १०, ८; १२,
 २२; लाश्रौ ८, ५, ३; अप २२,
 ५, ५.
 मथ- पा ३, १, १४०.
 √मथाय, मथायति अप्रा ३, ४,
 १†.
 †मथित्, ता- न्तः अप २२, ६, १;
 -त्म् शाश्रौ १४, ५३, ६†;
 बौश्रौ; -ते कौसू ६८, ३७; ७३,
 ४†; अप्राय २, ४; अप; -तेन
 कौसू ३९, १३.
 मथित्वा आश्रौ २, २, १××; शाश्रौ;
 मथित्वाऽमथित्वा बौश्रौ १६, १ : ७.
 मथिष्यत्- -ष्यन् माश्रौ ६, ६, ११;
 वाश्रौ १, ४, २, १२.
 मथ्य- -थ्यः माश्रौ ३, ८, ८; वाश्रौ
 १, ५, ४, ४३; अप २२, ६, २;
 -थ्यम् वाश्रौ १, ४, ३, ५.
 मथ्यमान- -नः काश्रौ २५, ४, १;
 आपश्रौ ७, १३, ४; ९, ३, ३†;
 बौश्रौ; या ८, २; -नम् वैताश्रौ
 ५, १४; २४, १८; अप १३, १,
 ४; -नाथ शाश्रौ ३, १३, १६;

काश्रौ ५, २, १; आपश्रौ; -ने
 आपश्रौ ५, १०, ११; माश्रौ.
 मन्थ- पा ७, २, १८; षम २, १,
 ४०; ४, २, ८०^d; ६, १, १५६^e;
 -न्थः काश्रौ ५, ८, १२; १८;
 माश्रौ १, ७, ६, ३०; वाधूश्रौ; हिपि
 १५; १६; कौसू ९२, ४; -न्थम्
 काश्रौ ५, ९, १०; आपश्रौ;
 -न्थस्य काश्रौ ५, ८, १९; आपश्रौ;
 -न्यात् माश्रौ ८, १८, १९; वैश्रौ
 ९, ७ : १२; ८ : ५, ९; ९ : ६; हिश्रौ
 ५, ४, ६७; ७१; -न्थान् आपश्रौ
 १९, १३, १२; २२, २६, १; १०;
 बौश्रौ २, ७ : २४; १९, ५ :
 २८; २१, ६ : २१; हिश्रौ; -न्थाम्
 शाश्रौ १२, १७, १††; -न्थाय
 माश्रौ १; ७, ६, ६; ९; -न्थे
 आपश्रौ ८, १५, २३; माश्रौ १,
 ७, ६, ४०; कौसू ११, १८; -न्थेन
 माश्रौ १, ७, ६, ३५; काष्ट ६५,
 ७; माष्ट २, १, ६; कौसू ८०, २५.
 मान्थय- पा ४, २, ८०.
 मन्थ-पुरोडाश-धाना- नानाम्
 काश्रौ ५, ९, ७.
 मन्थ-प्रतिरूप- -पम् कौसू २३,
 ७.
 मन्थ-मूल- -ले वैश्रौ १, १: २७.
 मन्थ-शिरस- -रसि कौसू ३८, ९.
 मन्थ-श्री- -श्रीः अप्राय ३, ३†.
 मन्था(न्य-आ)चमनो (न-उ)
 पस्यात्- -नम् कौसू २८, १६.
 मन्था(न्य-आ)दि- -दीनाम्
 वाश्रौ १, ७, ४, ४७.
 मन्था(न्य-आ)न्त- -न्तानि

कौसू १२, ४; १८, २६.
 मन्था(न्य-आ)भिधान- -ने पावा
 ७, २, १८.
 मन्था(न्य-आ)र्थ- -र्थम् हिश्रौ
 ५, ४, १५.
 मन्थिन्¹- -†न्थिन् बौश्रौ ७,
 १४ : ७; वैश्रौ; -न्थिनः काश्रौ
 ९, १०, ११†; १५, ७, १४;
 आपश्रौ; -न्थिनम् काश्रौ ९, ६,
 १३†; आपश्रौ; -न्थिना काश्रौ
 ९, १०, २; -न्थिने माश्रौ २, २,
 ५, २९; -†न्थी आपश्रौ १२, २२,
 ८; बौश्रौ ७, १३ : २३; वैश्रौ.
 मन्थि-ग्रह- -हम् वैश्रौ १५,
 २७ : २३.
 †मन्थि-प- -पाः आपश्रौ
 १२, २२, १; बौश्रौ.
 मन्थि-पात्र- -त्रम् आपश्रौ
 १२, २३, १२; काश्रौ ११६;
 बौश्रौ ७, २ : १२^२; ६ : ४९; १४ :
 २४; ८, ४ : १३; वैश्रौ १५, २ : ७.
 मन्थि(न्य-आ)काश्रौ.] -वत्-
 -वतः काश्रौ १०, २, ३; आपश्रौ
 १२, २३, ४; १३, ४, १४†; बौश्रौ
 ७, १४ : १०†; ८, ४ : ६†; २१,
 २० : ३; माश्रौ.
 †मन्थि-शोचिस्- -चिषा
 आपश्रौ १२, २२, ८; बौश्रौ ७,
 १३ : २३; वैश्रौ १५, २८ : १;
 हिश्रौ ८, ७, १४; १८.
 मन्थि-संज्ञाव- -वस्य बौश्रौ
 २१, २० : ५; -वात् बौश्रौ २५,
 १८ : १०.

a) मन्थाम इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सपा. तैआ ६, ४, १) । b) कर्मणि रूपम् (तु. या ८, २ मध्य-
 मानः इति) । c) नाप. (पेय-द्रव्यं, मन्थन-दण्ड- [आपृ.]) । कर्मणि कण्ठे च कृत् । d) अर्थः? । पन्थ-
 इति [पक्षे] भाष्ये । e) पृ १२७९ n द्र. । f) वैप १, २४० c f द्र. । g) षस. > मलो. कण. (वैतु. भाष्यम्
 द्र. इति?) । h) षस. । i) वैप १ द्र. । j) तु. चौसं. ।

मन्थो(न्थ-ओ)दन- नम् वैश्रौ
१६, ६: ५.
मन्थौ(न्थ-ओ)दन- नौ कौसू
७, ७.
मन्थौ (न्थ-ओ)दन-तिल-माष-
-घा: काश्रौ १०, २, ११; हिश्रौ
१०, ४, ३५.
मन्थत्- न्थन्तौ कौसू ६०, १९.
मन्थन- नम् आश्रौ ३, १४, १७;
शाश्रौ: -नस्य बौश्रौ २७, ७:
७; १०: ५; -नात् भाश्रौ ५,
४, १०; -ने कप्र १, ७, १२;
-नेन बौश्रौ २७, ७: १; वैश्रौ
२०, ३१: ६; अप २२, ९, १.
मन्थन-कल्प- न्प: हिश्रौ ३, ६,
२८.
मन्थन-यन्त्रक- कम् कप्र १,
७, ५.
मन्थन-शेष- षम् बौश्रौ २७,
८: ६.
मन्थन-सामर्थ्य- थ्यम् बौश्रौ
२७, ८: ६.
मन्थव्य^a- न्य: अप २२, ३, ५;
८, ४.
मन्थान^b-> न-भङ्गन- ने काघ
२७६: ११.
मन्थितव्य- न्य: आपश्रौ ९, ९,
११; भाश्रौ.
मन्थियत्- न्यत्सु द्राश्रौ १२, २,
१; लाश्रौ ४, १०, १; -घ्यन्
माश्रौ १, ६, ३, ५; -घ्यन्त: द्राश्रौ

१२, १, २२; लाश्रौ ४, ९, १६.
मन्थय- न्थय: आमिष्ट १, ६, ३:
५४; २, ७, २: ३; आप ५,
१५; भाष्ट १, १८: १५; हिष्ट
१, २२, ४.
माथ- पा ३, १, १४०.
मथ- √मथ् द्र.
मथल.न्थ^cक्र^d- पा, पाग २, ४, ६३.
मथा^e- लाश्रौ ७, १०, १०; ११.
मथित- √मथ् द्र.
मथित^d- त: ऋअ २, १०, १९.
मथित्वा √मथ् द्र.
मथुरा^f- पाउ १, ३८^g; पाग ४, २,
८२.
माथुर->र-वत् मीसू १, ३,
२१.
मथुरा-पुरज-देश- शान् अप ५६,
१, ८.
मथो(थ-उ)दय- म- द्र.
मथ्य- मथ्यमान- √मथ् द्र.
√मद्, न्द् (बधा.)^h पाघा. भ्वा.
पर. हर्षलेपनयोः, आत्म. स्तुति-
मोदमदस्त्रन्कान्तिगतिषु; दिवा.
पर. हर्षे; चुरा. आत्म. तृतीयगे,
मदति निघ ३, १४ⁱ; ऋमन्ति
आश्रौ ४, ७, ४; शाश्रौ; काश्रौ
८, २, १०^j; ११^j; हिश्रौ
१५, ५, १^k; आपमं २,
१९, ७^l; आमिष्ट ३, १,
२: २^l; मद्थ > था ऋप्रा
७, ३३; ऋमदन्ताम्^m आपश्रौ

१२, ३, ७; हिश्रौ १३, ८, ३३;
ऋमदन्तु आश्रौ ३, ९, ३ⁿ;
बौश्रौ २, १०: ३३; ३५; ३७;
हिष्ट २, ११, १^o; ऋमदध्वम् जैष्ट
२, १: ६××; अमदत् वा १३,
४^o; ऋमदत् शंश्रौ १२, १३,
२; वैताश्रौ ३२, १७; ऋमदन्^p
आश्रौ ५, १८, २; शाश्रौ ८,
३, ४; मदेमहि निघ ३, १९^q;
ऋमदेम आपश्रौ ९, ८, ६^r××;
बौश्रौ १३, ४२: १०^r××;
माश्रौ; हिश्रौ १२, ४, ४^r; १५,
२, ३५^r; अप्राय १, ३^r.
ऋमत्सि आश्रौ ६, ४, १०; ८, ५,
१२; शाश्रौ; ऋमत्स्व, > स्वा
आश्रौ ६, २, ९; ३, १××; शाश्रौ.
ममत्तु बौश्रौ १३, २०: ६^s;
ममद्धि आश्रौ ६, ३, १६^s;
ऋमत्तन आपश्रौ १३, ३, ४;
माश्रौ ४, ५, ४; वैश्रौ.
ऋममाद् बौश्रौ १३, ७: ४; आपमं
२, ११, ८; ऋमत्स्व आश्रौ ६,
२, ११; शाश्रौ; मत्सताम् शाश्रौ
८, १९, १^t; ऋमत्स्व शाश्रौ
८, २०-२१; १^t; २३, १^t;
ऋमत्सत् आश्रौ १, ८, ७; शाश्रौ
१, १३, ३; आपश्रौ; हिश्रौ २१,
२, ६२^u.
म(इमा)घन्ते अप ६७, ४, ४;
माघन्ते अप ७०^v, ११, ५; या
६, २७; अमाघत् शाश्रौ १६, ९,

a) मन्थितव्य->नैप्र. यनि. । b) =मन्थ-दण्ड- । c) पाका., [पक्षे] भाण्डा. पासि. पाठः ।
d) व्यप. । e) =निघन-विशेष-(तु. MW.) । f) =नगरी-विशेष- । g) <√मथ् । h) या २, ५; ४, ८; २४;
९, ५; १७; ११, ७ पा ३, ३, ६७; ६, १, ९२; ७, ३, ७४ परामृष्टः द्र. । i) घा. अर्वायां वृत्तिः । j) घा. उष्णी-
भावे वृत्तिः । k) सपा. ऋ १, ८९, ९ मवन्ति इति पाठे. । l) सपा. मदन्ति <>मदन्तु इति पाठे. । m) पाठे.
वैप १, १४९५ f द्र. । n) पाठे. वैप १ मुदन्तु मा २१, ४२ टि. द्र. । o) प्रतिगरदिश = अमदत्
(ऋ १०, ८६, १) । p) पाठे. वैप १, २४१० f द्र. । q) सपा. अप ४८, १२ वनेमहि इति पाठे. । r) पाठे-
वैप १, २४०९ g द्र. । s) श्ते इति पाठः? यनि. श्लेषः (तु. तैत्रा ३, ५, ९, १ आश्रौ. प्रमु.) ।

१००; या १३, ४.
 मादयन्ति या ९, ८०; मादयसे
 वृदे ४, ७८; ऋमादयन्ताम् आश्रौ
 ५, १७, ३; आपश्रौ १, ८, ७, ७;
 ५, १^१; वौश्रौ ३, १८: २८^१ × ×;
 भाश्रौ ७, ४, १^१; वाश्रौ १, ३,
 ५, ११^१; २, २, २, १२^१ ७;
 हिश्रौ ४, १, ६२^१ × ×; द्राश्रौ
 १२, ४, १^१; आम्रिण ३, ५,
 ७: ६^१; वौषि १, ६: २^१;
 भागृ; लाश्रौ ४, १२, १^१; वैताश्रौ
 ४, ३^१; ऋमादयस्व शाश्रौ १,
 ८, १४; बौश्रौ; ऋमादयध्वम्
 आश्रौ^० २, ७, १ × ×; शाश्रौ^०
 ४, ४, ११ × ×; आपश्रौ; वौश्रौ
 १, १९: ३८^१; माश्रौ १, ७, ६,
 ४८^१; २, ५, १, ३५^१; ६, २,
 ३, ८^१; वाश्रौ १, २, ३, २६^१;
 ७, ४, ५०^१; जैश्रौ १८: १६^१;
 द्राश्रौ ६, २, ४^१; लाश्रौ २,
 १०, ४^१; काण्ड ३९: १५^१;
 मोण्ड ४, ११^१; गौषि २, ३,
 ७^१; जैण्ड २, २: ११^१; द्राण्ड ३,
 ५, १७^१; कौसू ८८, १८^१; विध
 ७३, २२^१.
 ऋमीमदन्त आश्रौ २, ७, २;
 शाश्रौ; अमीमदन् माश्रौ २, ३,
 ७, १०; अमीमदम् वौश्रौ १४,
 ८: २८^१.
 ऋमन्दते निध १, १६^१; ३, १४^१;
 मन्दति अप ४८, ५०^१;

ऋमन्दतु आश्रौ ५, १५, २३; ७,
 ११, २७; शाश्रौ; मन्दन्ताम्
 चाञ्च ३०: १९^१; ऋमन्दस्व,
 >स्वा वौश्रौ ८, ९: २१^१;
 ऋञ्च २, २, ३७; वृदे; ऋमन्दध्वम्^०
 आपश्रौ १, ९, ९; ८, १६, ८;
 वौश्रौ २, १०: २९; ३, १०:
 २३; ५, १५: ९; ८, १२: ४४;
 १७: ११; भाश्रौ १, ९, २; ८,
 २०, १; वैश्रौ ९, ९: १२; हिश्रौ
 २, ७, ३; ५, ४, ७७; भाण्ड २,
 १३: ६; अमन्दन् चाञ्च ४१: ७.
 ऋमन्दिषीमहि वौश्रौ ५, १५:
 १०^१; ६, ७: १^१; भाश्रौ ८,
 २०, १^१; १०, ११, १०^१; द्राश्रौ
 १३, २, ७^१; लाश्रौ ५, २, १०^१.
 ऋमन्दय > या ऋप्रा ८, ३३.
 मत्त, चा- पा ८, २, ५७; -त्त आपघ
 १, १९, १; हिध १, ५, १०३; वृदे
 ७, २३; या २, ५; अप्रा २, ३,
 १६^१; -त्तम् अप ६८, २, २८;
 विध ७१, ३१; -त्ताम् बोध १,
 ११, ९; -त्तायाम् अप ७२, २,
 ७; -त्ते विध ९९, ११.
 मत्त-कुद्धा(द्ध-आ)तुर- राणाम्
 विध ५, १९.
 मत्त-द्विप-चतुष्क- ष्कम् अप
 ५, ४, ५.
 मत्त-मातङ्ग- ङ्गः शैशि १०९.
 मत्तो(त-उ)न्मत्त-व्यङ्ग- ङ्गान्
 विध ६३, ३४.

मत्तवन्- पा ८, २, ५७.
 मत्स्रम्- पाउ ३, ७३; -ऋः शाश्रौ
 १८, १८, ४; आपश्रौ २०, १३,
 ४; वाश्रौ; या २, ५^१ ४^१; -रम्
 शाश्रौ १७, १७, ३^१; वाधूश्रौ
 ४, ७९: ५^१; या २, ५^१.
 मत्सरिन्- -री शंघ ३७७: १७.
 मद्- मद्: वौश्रौ ३, ९: २^१.
 मद्-वृत्- वान् शाश्रौ ७, १९,
 १६; ८, ३, १२; ६, १५; माश्रौ
 २, ५, १, ४७.
 मद्दवती- -व्य: निसू २,
 ११: २४.
 ऋमदि(छ>)छा- छयाक्षुस् १,
 ३: २१; ५: १७; या ११, ३.
 मद्- पाग ३, १, १३४^१; ४, २,
 ८०^१; -ऋदः आश्रौ ८, ६, १३;
 शाश्रौ; -ऋदम् आश्रौ ७, ८, २;
 शाश्रौ; -ऋदस्य आश्रौ ८, ४, ३;
 शाश्रौ १२, २६, ११; -ऋदाः
 आश्रौ ६, ३, १; शाश्रौ ९, ५, २;
 या ४, १५; -दानाम् आपश्रौ
 १७, ७, ८^१; -ऋदानाम् आश्रौ
 ६, १, २; शाश्रौ ९, ४, ७;
 -ऋदाय आश्रौ ६, ३, १^१ × ×;
 शाश्रौ; या ४, ८^१; -ऋदासः
 आश्रौ ७, १२, १६; ८, ७, ११;
 -ऋदे आश्रौ ६, ३, १; ४,
 १० × ×; ७, ४, ४^१; ९, ५, १६^१;
 शाश्रौ ८, २५, १^१ × ×; १८,
 ६, ४^१; आपश्रौ १२, ११, ९;

a) पाभे. वैप १, २४११ c द्र. । b) पाभे. वैप १, २४११ b द्र. । c) व्यताम् इति पाठः ? यनि.
 शोधः । d) पाभे. वैप १, २४११ a द्र. । e) पाभे. वैप १, २४११ ७ द्र. । f) सपा. शौ ७, ६०, २
 मादयेयाम् इति पाभे. । g) घा. ज्वलने वृत्तिः । h) घा. अर्वायां वृत्तिः । i) पाभे. वैप १, २४१५ f द्र. ।
 j) पाभे. वैप १, २४१० d द्र. । k) पाभे. वैप १, २४१२ e द्र. । l) पाभे. वैप १, २४१२ f द्र. । m) वैप १
 द्र. । n) = अन्यशुभ-द्वेष- (वैतु. आनर्तायः क्विवि. इति ?) । o) पाभे. वैप १, ८३३ h द्र. । p) एप. घातु-
 निर्देशपरं द्र. । q) भावे वर्तते च कृत् । r) मर- इति पाका. । s) तु. पापि. । अर्थः ? । t) पाभे. वैप
 १, २४१३ c द्र. ।

११, ५^०; हिश्रौ; -^१देऽ-दे आश्रौ
७, ४, ३; शाश्रौ १२, ४, १२;
-देन सु ६, १; -देषु वाश्रौ ३,
३, ३, १^१.

मदं-गिल- -लः या ९, २४.

^१मद-पति- -न्ती आश्रौ ६, १,
२; शाश्रौ ९, ४, ७.

मद-भागिन्- -गिनः अप ७१,
३, २.

मद-मित्र^०- -त्रम् अप ४३, ४,
४९.

मद-र- पा ४, २, ८०.

मदा(द-अ)वासि- -सिः अप
६४, ४, ६.

मदिन्- > ^०न्-तम- -^१ं०म
आपश्रौ १४, २९, १; वैश्रौ;
-^१मः आपश्रौ १४, १८, १; २०,
१३, ४; बौश्रौ.

^१मदिन्-तर- -रम् आश्रौ
७, ८, २; शाश्रौ १२, २५, ६.

मद्व- -द्विः अप ६८, ४, ४; -द्वन्
वैताश्रौ ३१, २२^१; -^१द्वन्तः
आश्रौ १, १२, ३६^१; ४, ११,
६; आपश्रौ; माश्रौ ३, १, २७^१; ३;
अप्राय ४, १^१.

मदन्ती^०- -न्तीः आश्रौ ४, ५,
५; काश्रौ ८, १, ८××; आपश्रौ;
या ५, ६^१; -न्तीनाम् बौश्रौ
२०, ८ : २७; -न्तीभिः शाश्रौ
५, ६, ९; आपश्रौ; -न्तीभ्यः
बौश्रौ १, ९ : ६; २०, ८ : ३०;
-न्तीम् बौश्रौ १, ४ : १२;
-न्तीषु बौश्रौ ६, २० : २; ९.

^१मदन्तिपयोदोहस्तावत्यपः-

पूर्णा वैश्रौ, ११, ९ : ९.

^१मदन्तीक- -कम् जैश्रौका
४८.

मदन्त्य(न्ती-अ)वशेष- -यम्
वैश्रौ १४, २ : २.

^१मदन्^०- > ^०नीय- -यम् या ५, १;
-याय या ४, ८.

२मदन्, ना^१- पाउना २, ७७; पाग
३, १, १३४; -नम् या ९, २४;
-नस्य अप ३६, ११, १; -ना
या ११, २८; २९.

मदन्-त्रयोदशी- -इयाम् अप
१८^३, १५, १.

मदन्-सखि^०- -खा या १३, ४.

मदय(त>)न्ती^१- -न्ती अप ५,
१, ५.

मदयन्ती-प्रियङ्गु- -ङ्गुभिः
अप १, ४३, ६; ४५, ७.

मदयित्तु- पाउ ३, २९.

मदितव्य- -व्यम् अप ४६, ३, ६^१.

मदिर^०- पाउ १, ५१; -^१रस्य आश्रौ
८, ४, ३; शाश्रौ १२, २६, ११;
आपश्रौ.

मदिष्णु- -ष्णू या ४, १२.

मदेरु^०- -रू या १३, ५^१.

मद्य^०- पा ३, १, १००; -दयम्
अप ७१, १४, १; आपघ १, १७,
२१; हिघ ५, ५३; गौघ २, २६;
या ५, १^१कृ; -दयानाम् विघ ५१,
२; -द्यानि आश्रौ ६, ५, २४^१;
विघ २२, ८४; -दये अप ७०^३,
८, ३; -दयैः वाघ ३, ५९; विघ
२२, ७७; २३, १.

मद्य-प^१- -पः शंघ २०१.

मद्यप-स्त्री-गामिन्- -मी
शंघ ३७८.

मद्यप-स्त्री-निषेवण- -णम्
विघ ३७, ३३.

मद्य-पान- -न्ने वाघ २०, १९.

मद्य-पीत- पाग २, २, ३७.

मद्य-भाण्ड- -ण्डे वाघ २०,
२१.

मद्यभाण्ड-(स्थ>)स्था-
-स्थाः विघ ५१, २४.

मद्यभाण्ड-स्थित, ता- -न्तम्
शंघ ४२२; -ताः शंघ ४२६.

मद्य-मांसा(स-अ)नृत-प्रिय-
-याः अप ७०^३, १६, ४^१.

मद्या(द्य-अ)नुगत-भोजन-
-नम् विघ ४१, ३.

^१मद्व^०- पाउ २, १३; पाग ३, १,
१३.

मद्व-कार-, मद्व-कर- पा ३, २,
४४.

मद्वा√कृ पा ५, ४, ६७.

√मद्वाय पा ३, १, १३.

मद्वन्- पाउ ४, ११३; -^१द्वने
आश्रौ ६, ४, १०; शाश्रौ ९, १०,
१; १८, ६, २; वैताश्रौ ४०, १.

^१मद्व- > मन्दिद्व- -द्वः माश्रौ २,
१, ३, ११.

२मद्व, न्दा^१- पाग ३, १, १२; १३;
४, १, ४; ५, १, १२२; १२३;
१२८^३; -न्दः आशि ८, २१;
-न्दम् हिश्रौ १३, ५, १४; वैघ.
१, ३; १३; -न्दम्-न्दम् वैघ.
५, १; २५; -न्दा पा ४, १,
४.

a) पाभे. वैप १, २४१३ b द्र. । b) = ऋषि-विशेष- । c) वैप १ द्र. । d) हि मामद^० (तु.

BC.)? हिमाः, मद^० इति बोधः । 'शतं हिमा मदन्तो हे देवा इह नः सुप्रजास्त्वं महि शर्म यच्छत' इति वा. ।

e) माप. । f) कर्तरि क्त. । g) बस. । h) = नवमालिका- । i) पाभे. वैप १, २४१५ b द्र. । j) विप.,

चाप. । k) उप. <√पा (पाने) । l) घा. आलस्ये वृत्तिः । m) घृ १८०३ O द्र. । n) वा. क्विपि. द्र. ४

मान्दय- पा ५, १, १२३;
 १२८.
 मन्द-गति-त्व- -त्वात् आशि
 ८,२१.
 मन्द-त्वा(र>)री^०- नी आज्यो
 १२,१०.
 मन्द-त्वा-मन्द-न्व- पा ५, १,
 १२२;१२३.
 मन्द-फल^०- -लाः अप ५२, ८,
 ३; १६,२.
 मन्द-फलो(ल-उ)द्वय^०- -न्याः
 अप ५२,१४,३.
 मन्दा(न्द-अ)नि^०- -गिनः कप्र
 १,९,१२.
 √मन्दाय पा ३,१, १२; १३.
 मन्दिमन्- पा ५, १, १२२;
 १२३.
 मन्दी√भू,मन्दीभवति वाध
 ११,३६.
 मन्दन^०- पाउ २,८१.
 मन्दन-जिह्व- -ह्रस्व या ६, २३.
 मन्मन्मान^०- -नः शाश्रौ १४,१६,
 १०; -नाय या ११,९४.
 मन्मन्दयत्- -न्यन् खुसू ३,२: ३३;
 उस् ३,१.
 मन्दसान^०- पाउ २, ८७; -नः या
 ८,२१; -मना आपमं १,६,१२;
 काय २६, १२; कौसू ७७, ८;
 अप १०,१, १२; अप्रा ३,४,१.
 मन्दिन्- -न्दिने आश्रौ ८, ७,
 २३; शाश्रौ; -न्दी वैयु १, ४:
 २७; २,१०: १०; गौफि; या ४,
 २४; १३,६.
 मन्दु^०- -न्दुना वृदे २, १४१; या
 ४, १२; -मन्दू अप ४८,११५;
 वृदे २, १४१; १४२; निघ ४,

१; या ४,१२४;
 मन्दु(र>)रा- पाउ १,३८.
 मन्दु,द्वा^०- पाउ २,१३; पाग ४,
 ४,६२; -न्दः आश्रौ १,८,७१;
 शाश्रौ; अप १,३६,१; -न्दम्
 आश्रौ ४, १३,७१; द्विश्रौ २१,
 १,१०; जैश्रौका ९६; ११९; द्राश्रौ
 ४, १, १८; लाश्रौ २,२,६; वृदे
 ८, ११५; ऋश्रा १३, ४२; तैप्रा
 २३, १०; पाशि ७; नाशि
 १, ७, ७; -न्दया शाश्रौ
 १, १४, २२; ८, १४, १;
 ८; वैताश्रौ २०, २१; ऋश्रः
 -न्दस्य ऋश्र २, ६, ३९१; वृदे
 ८, १२०; नाशि १, ७, २;
 -मन्दा आपश्रौ १२, २४, ७;
 १९, १३, २४; बौश्रौ; अप
 ४८, १०२; निघ १, ११; या
 ११, २८-२९; -मन्दाः
 काश्रौ ४, २, ३२; आपश्रौ;
 -न्दाणि आश्रौ २, १५, १७; -
 मन्दासः शाश्रौ १५, ८, २०;
 -न्दासु अश्र ५, २७; -न्द्रे
 द्राश्रौ ३, ४, ७; नाशि; -न्द्रेण
 आश्रौ १, ५, २५××; आपश्रौ;
 -मन्दैः शाश्रौ १, ५, ९; १२,
 ९, ११; १८,११,३; बौश्रौ.
 मान्द्र- पा ४,४,६२.
 मन्द्र-कर्षण-संयुक्त- -क्तम् वृदे
 ८,११३.
 मन्मन्द्र-जिह्व- -ह्रस्व बौश्रौ ३,
 १८: २; -ह्रस्व या ६, २३४.
 मन्द्र-तर- -रेण आपश्रौ १०,
 ४, ११; -रेणऽरेण वैश्रौ १२,
 ५: ८.
 मन्द्र-मध्यम-तार- -राणि तैप्रा

२२, ११.
 मन्द्र-स्थान-समाहित- -तः वृदे
 ८,१२०.
 मन्द्र-स्वर- -रेण लाश्रौ १, ११,
 २६.
 मन्द्र-स्वार- -रः वाश्रौ १, १,
 १,८१.
 मन्मन्द्रा(न्द-अ)जनी^०- -नी अप
 ४८,१०२; निघ १,११.
 मन्दा(न्द-आ)दि- -द्वयः तैप्रा
 २३, १७; -दिः मीसू ३, २, २६;
 -दिषु तैप्रा २३, १३.
 मन्दा(न्द-अ)न्त- -न्तात् नाशि
 १,१,११.
 √मन्दि, मन्दयते निघ ३,
 १४१.
 माद-> °दन्थ- -स्थयोः पा ६,
 ३,१६.
 ममादि^०- -नम् आश्रौ ६, ४, १०;
 शाश्रौ ९,८,१.
 मादयित्- -त्वे लाश्रौ ७, १०,
 १३१.
 मादिन्- पा ३, २, १४१.
 मद्- मद्, मद्व- √मद् द्र.
 मदिन्^०- (> मादय- पा.) पाग
 ४,२,८०.
 मद्नुग्रह- प्रसू. अस्मद्- द्र.
 मद्यत्- प्रसू. √मद् द्र.
 मदाघ^०- पाग २,४,६९.
 मदार- पाउ ३,१३४.
 मदावाप्ति-, मदि^० √मद् द्र.
 मद्घ^०- -घम् कौसू ३८, १७; -वात्
 अप्रा ३,४,११.
 मद्घ-मणि- -गिः अप ३७,९,१;
 -गिम् कौसू ७६,८; ७९, १०.
 मदुर-> (मदुर-कन्थ-)मडर- टि.द्र.

a) उस. उप. अणन्तम् । b) बस. । c) बस. > षस. । d) वैप १ द्र. । e) विप., नाप. (स्वर-। ऋप्रा. प्रसू.) । f) अर्थः ? । g) =वाच्- । h) शरदिन्- इति पाका. । i) व्यप. ।

मद्गु^a- पाठ १, ७; पाग ७, ३, ५३;
 -द्गुः विध ४४, २२; वैध ३,
 १२, १२; -द्गोः वैध ३, १५, ३.
 मद्गु-हंस- -स्म शंघ ४२६.
 मद्गुर- पाठभो २, ३, ५२; पाग ६,
 २, १२५^b.
 मद्गुर-कन्ध- पा ६, २, १२५.
 मद्गु-ह- प्रभु. अस्मद्- द्र.
 १मद्- मघ- प्रभु. √मद् द्र.
 रमद्^c- -द्गान् अप ५०, २, ४; -द्गैभ्यः
 पा ४, २, १०८.
 मद्-क- पा ४, २, १३१; पावा ४,
 ३, १००^d; -काः अप ५७, २, ५;
 -कान् अप ५०, १, ५.
 मद्क-स्थ(ल>)ली-(>माद्रक-
 स्थलक- पा.) पाग ४, २, १२७^e.
 मद्-कूल- (>माद्रकूलक- पा.)
 पाग ४, २, १२७.
 मद्-कैक्य- -याः अप १, ७, १.
 मद्रा(द्र-त्र)र्म- पा ६, २, १११.
 मद्रण^f- -गाः बौधौप्र २० : १.
 मद्रशर्म^g- (>माद्रशर्मि- पा.)
 पाग ४, १, १६.
 मद्रुक->क-स्थ (ल>)ली^h-
 (>माद्रुकस्थलक-)
 मद्रुमर->र-कन्ध-मडुर- टि. द्र.
 मद्रयच्- अस्मद्- द्र.
 मद्रन्- √मद्, द्र.
 मधविक-, मधव्य- १मधु- द्र.

१मधु^a- पाठ १, १८; पा ४, ४, १२९;
 पाग २, ४, ३१; ४, २, ८०^b; ८६;
 ३, ११८; ५, ४, ३^b; ३८^b; १५१;
 ८, २, ९; पागम ४३१; -^कधवे
 काश्रौ ९, १३, २^h; आपश्रौ १२,
 २६, १२^h; बौश्रौ ७, १६ : २^h;
 भाश्रौ ८, ३, ६; माश्रौ १, ७,
 २, ७; २, ४, २, २^h; ३^h; हिश्रौ
 ५, १, ३०; ८, ८, ४^h; शुश्र १,
 ४७२^h; -धु ऋश्रौ २, १०,
 ४ⁱ; ४, ७, ४^h; १२, २^h; ५, ५,
 १८; १०, १०××; ऋश्रौश्रौ १, ५,
 ९ⁱ××; १७, १४, १४^h; ऋश्रौ
 १३, ३, २६^h××; ऋश्रौश्रौ
 ४, ८, ३; १४, ४^m××; काश्रौसं;
 ऋश्रौश्रौ १, २० : ३३^m; १४,
 १३ : १२ⁱ; १६, २३ : ११^h;
 भाश्रौ ४, २०, ६^h; माश्रौ २, ४,
 २, ११^h; हिश्रौ ६, ४, १५^h; म
 द्राश्रौ ११, ३, १७^h; लाश्रौ ४,
 ३, १८^h; कौश्र १, १७, ६^h;
 शांश्र १, २५, ७^h; ५, १०, १;
 ऋश्रौश्रौ १, ५, ४ : १७^h; २,
 ६, ८ : ३८^m; बौश्र ३, ६, १;
 भाश्र १, १७ : १२^h; हिश्र १,
 १७, ५^h; २४, ६^h; जैश्र १,
 ४ : २७^h; २, ७ : ३; ऋश्र
 ४८, ७५^h; १०२^h; निघ १,
 १२^h; या २, २; ४, ८^h××;

१०, ३१^h; -^कधुः-धु आपश्रौ
 १५, ८, ६; बौश्रौ ९, ८ : ३;
 भाश्रौ;-^कधुः काश्रौश्रौ ४, २४^h;
 आपश्रौ ८, २, १८^h; १२, २६,
 ११^h; १४, २८, ४^h; १६, २४, ९^h;
 २०, २०, ५^h; बौश्रौ १०, ३२ :
 ३^h; माश्रौ ६, १, ८, ७^h; वाश्रौ;
 वैश्रौ १५, ३४ : १^h; आपमं १,
 १०, ८^h; आमिश्र १, ७, ४ : १०^h;
 बौश्र ४, १२, ४^h; -धुनः आपश्रौ
 ४, ३, ८××; बौश्रौ; आश्र १,
 १५, १^h; या ४, ८; -धुना
 आश्रौ २, १०, १८^h; काश्रौ
 ४, २, ३२^h; १२, ३, १४;
 आपश्रौ; कौश्र १, २१, ७^h;
 शांश्र १, २८, ८^h; या ८,
 ६^h; १७; १८^h; १०, ३१;
 -धुनाः-धुना वाश्रौ ३, २, ५,
 ५७^h; -धुनि जैश्रौ २५ : ६;
 कौश्र ९३, ३९; अप; -^कधुनाम्
 आश्रौ ५, ५, ४; ऋश्रौ ७, ३२;
 -धुनि अप ७०^h; २३, ९; वाघ
 २२, ९^h; बौध ३, १०, ११^h; गौध
 १२, १३^h; -^कधो हिश्रौ १२,
 ६, ६^h; -धोः ऋश्रौ ४, ७, ४, ६,
 ३, १; ८, ४, ३; शाश्रौ; द्राश्रौ
 १४, ३, ४^h; लाश्रौ ५, ७, ३^h;
 कौश्र ३, २, २^h; शांश्र ३, २,
 ५^h; -धौ या ६, २७^h, -ध्वः

a) वैप १ द्र.। b) तु. पासि.। c) =देश-विशेष- वा तद्वासिन्- वा। d) <माद्र-। e) तु. पागम.। मद्रुकस्थली- इति भाण्डा. प्रभु.। f) व्यप.। g) अर्थः ?। h) =चैत्रमास-। i) पाभे. वैप १, २४१९ e द्र.। j) सकृत् पाभे. वैप १, १५७१ l द्र.। k) पाभे. वैप १, २४१९ g द्र.। l) सकृत् पाभे. पृ ५९३ i द्र.। m) पाभे. वैप १, २४१९ j द्र.। n) पाभे. वैप १, २४१८ n द्र.। o) पाभे. वैप २, ३खं. मिथु तैत्रा ३, ७, ११, ५ टि. द्र.। p) सकृत् मधु हे<>?मधुगे इति पाभे.। अन्यत्र मध्वद् मधु इत्यस्य स्थाने सपा. बौश्र १, ४, ४ ?मध्वगाहे इति, भाश्र १, १७ : १३ ?मध्वगाहे इति च पाभे.। q) =मधुमक्षिका-(तु. सप्र. शांश्र [५, १०, १]; वैतु. शब्दसूची मध्वगारे इति समस्तं पदमिति)। r) =उदक-। s) =वाच्-। t) सपा. शांश्र १, २४, ४ मधुमत् इति पाभे.। u) पाभे. वैप १, १९०८ d द्र.। v) पाभे. वैप १, २४१९ b द्र.। w) =(मधुशब्दयुक्त-) अनुवाक-विशेष-। x) पाभे. वैप १, २४२० p द्र.। y) सपा. पाश्र ३, ४, ४ बसोः इति पाभे.।

†आश्रौ २, १९, ३२; ४, ७, ४^a; ५, ५, १९; ६, ३, १^b; ७, ८, २^c; ८, ८, ९; †शाश्रौ ३, १७, १; ८, १५, ११^d; ९, ५, २^b; १२, २५, ६^e; काश्रौ २५, ६, ७†^f; आगु; या ४, ८†^g; -†ध्वा शाश्रौ ७, १०, १२; आपश्रौ; या ८, ६; १०, ३१^h.

१माधव^o - पा ४, ४, १२९; ५, ४, ३८; -†व: आश्रौ ४, १२, ३; काश्रौ १७, ४, २४; आपश्रौ; -†वाय आपश्रौ १२, २६, १२; बौश्रौ.

माधवक- पा ४, ३, ११८.

१मा(ध्व>)ध्वी^o - पा ६, ४, १७५; -ध्वी विध २२, ८२; -†ध्वी: आमिगु ३, ३, २: १; ३; कौसू ९१, १ⁱ.

मधविक- पा ४, २, ८०.

मधव्य- पा ४, ४, १२९; १३९; -†व्य: वाधूश्रौ ४, २९: ५^j; जैश्रौ; -†व्यम् आपमं २, १०, ५; पागु १, ३, २०; आमिगु १, ४, १: ५; बौगु १, ३, ३७; भागु २, २४: ७; वैगु २, १६: ५; हिगु १, १३, ८; -†व्यस्य कागु २४, १३^k; -†व्येन आपमं २, १०, ५; पागु १, ३, २०; आमिगु १, ४, १: ६; बौगु १, २, ३७;

भागु २, २४: ८; हिगु १, १३, ८.

१मधु-क^h - पाउमो २, २, २६^l; पा ५, ४, ३; -क: अप २६, ५, ६^m.

मधुक-मणि-सूक्त^k - -क्तम् अत्र १, ३४.

मधुक-मरिच- -चयो: पावा ५, १, ७७.

मधु-कण- (> माधुकणिक- पा.) पाग ४, २, ८०.

†मधु-कशाⁱ - -शया काश्रौ २३, ३, १; आपश्रौ २२, १९, १; हिश्रौ १७, ७, १०.

†मधु-कृत्ⁱ - -कृत् आपश्रौ १६, २७, ७; -कृत: बौश्रौ ३, ९: २; ७वाधूश्रौ ४, २९ⁿ: ६-८.

मधु-कैटभ^l -सूदन- -०न विध १, ५४.

मधु-क्रोडा-फल^m - -लानि अशां १५, ४.

मधु-क्षीर-समन्वित- -तै: अप ७०, १२, ५.

१मधुगे^m बौगु १, ४, ४.

मधु-ग्रह- -हम् काश्रौ १४, २, ९; ४, १५; १७; -हस्य शाश्रौ १६, १७, ९.

मधु-लुन्थ^o - -न्थ: आपश्रौ ६, ३१, ५.

१मधु-घृत- -तम् नाशि २, ८, ७^p;

-तस्य अप ७०, ४, ९; -ते पागु १, १६, ८; २, १३, २.

२मधु-घृत- -नात् कौसू १३२, १७.

मधुघृत-युत- -तम् विध ९०, २६.

मधुघृत-संयुक्त- -क्तम् विध ७९, १०.

मधु-घृत-तिल- -लै: विध ७३, २४.

मधु-घृत-तैल-वसा-प्रदिग्ध-

गात्र- -त्र: अप ६८, ४, १

मधु-चर्मन्^q - -माणि बौश्रौ १५, १६: २.

मधु-च्छन्द^r -> माधुच्छन्द- -०न्द वैध ४, १, ८.

मधुच्छन्द-वत् वैध ४, १, ८.

मधु-च्छन्दस्^s - -न्दस: शाश्रौ १५, २६, १^q; वृदे २, १२६; अप ४३, ४, ३८^r; -न्दसि ऋप्रा १७, ३१^s; -न्दा: शाश्रौ १५, २६, १^t; कौगु २, ५, १; ऋअ २, १, १; ९, १; वृदे ३, ५७; छुअ १, १९१××; साअ.

माधुच्छन्दस्^v - -०स आश्रौ १२, १४, ४^u; आपश्रौ २४, ९, ४; ६; बौश्रौप्र: -स: शाश्रौ १०, २, ३××; ऋअ; -सम् आश्रौ ५, १०, ९; लाश्रौ ७, १, १; निसू ३, १०: ५; गौपि २, ४, ७; -सा: आपश्रौ २४, ९, ५; -सान् शाश्रौ ७, १०, ३; -सानि शाश्रौ ११,

माधुच्छन्दस्^v - -०स आश्रौ १२, १४, ४^u; आपश्रौ २४, ९, ४; ६; बौश्रौप्र: -स: शाश्रौ १०, २, ३××; ऋअ; -सम् आश्रौ ५, १०, ९; लाश्रौ ७, १, १; निसू ३, १०: ५; गौपि २, ४, ७; -सा: आपश्रौ २४, ९, ५; -सान् शाश्रौ ७, १०, ३; -सानि शाश्रौ ११,

माधुच्छन्दस्^v - -०स आश्रौ १२, १४, ४^u; आपश्रौ २४, ९, ४; ६; बौश्रौप्र: -स: शाश्रौ १०, २, ३××; ऋअ; -सम् आश्रौ ५, १०, ९; लाश्रौ ७, १, १; निसू ३, १०: ५; गौपि २, ४, ७; -सा: आपश्रौ २४, ९, ५; -सान् शाश्रौ ७, १०, ३; -सानि शाश्रौ ११,

माधुच्छन्दस्^v - -०स आश्रौ १२, १४, ४^u; आपश्रौ २४, ९, ४; ६; बौश्रौप्र: -स: शाश्रौ १०, २, ३××; ऋअ; -सम् आश्रौ ५, १०, ९; लाश्रौ ७, १, १; निसू ३, १०: ५; गौपि २, ४, ७; -सा: आपश्रौ २४, ९, ५; -सान् शाश्रौ ७, १०, ३; -सानि शाश्रौ ११,

माधुच्छन्दस्^v - -०स आश्रौ १२, १४, ४^u; आपश्रौ २४, ९, ४; ६; बौश्रौप्र: -स: शाश्रौ १०, २, ३××; ऋअ; -सम् आश्रौ ५, १०, ९; लाश्रौ ७, १, १; निसू ३, १०: ५; गौपि २, ४, ७; -सा: आपश्रौ २४, ९, ५; -सान् शाश्रौ ७, १०, ३; -सानि शाश्रौ ११,

माधुच्छन्दस्^v - -०स आश्रौ १२, १४, ४^u; आपश्रौ २४, ९, ४; ६; बौश्रौप्र: -स: शाश्रौ १०, २, ३××; ऋअ; -सम् आश्रौ ५, १०, ९; लाश्रौ ७, १, १; निसू ३, १०: ५; गौपि २, ४, ७; -सा: आपश्रौ २४, ९, ५; -सान् शाश्रौ ७, १०, ३; -सानि शाश्रौ ११,

a) पाभे. वैप १, २४२० p द्र.। b) पाभे. वैप १, २४२१ c द्र.। c) पाभे. वैप १, २४२१ c द्र.।

d) सृ इति पाठ: ? यनि. शोघ: (तु. शौ ७, ३, १)। e) ञासौ प्र.। f) वैप १ द्र.। g) =सुरा-।

h) नाप.। i) <√मच्। j) =वृक्ष-भेद-। k) तु. सा (भू. [शौ १, ३४], मधुव^o इति w.। l) द्रस.

पूप. =राक्षस-विशेष-। m) द्रस.। क्रोडा- =वाराहीकन्द-। n) पाठ: ? तु. पृ १९१० q टि.। o) अर्थ: व्यु.

च ?। = [अनिश्चित-मधु-] मधुकोश- इति [तु. C.], अन्ये [मधुमिश्र-] गुह- इति भाष्यम्। p) घूमवृ^o

इति पाठ: ? यनि. शोघ: (तु. लासं.)। q) उप. = [चर्ममय-] पात्र-विशेष-। r) = मधुच्छन्दस्-। s) ऋषि-

विक्षेप- वैप २, ३खं. द्र.। t) न्दासि इति पाठ: ? यनि. शोघ: (तु. प्रकरणम् [ऋषितर्पणम्])। u) = मधुच्छन्दसा

दृष्टायाम् ऋचि.। v) विप., व्यप.।

१०,४; -से शांश्रौ १०,१,१९;
निस् ३,१२ : १०.

माधुच्छन्दसी- न्सी
गौपि २,४,७.

माधुच्छन्दस-गार्त्समद्-
-दौ शांश्रौ ११,१०,३.

मधुच्छन्दः-प्रभृति- -त्यः शांश्रौ
१५,२६,१; -तिभिः ऋञ्च २,
३,४.

मधुच्छन्दो-वत् आपश्रौ २४, ९,
४;६; बौश्रौ ३६:४; ३७:२;
हिश्रौ २१,३,१२.

मधु-जालक- -कम् अप ६७,२,१.

मधु-जिह्व- -ह्वाः आपश्रौ १,२०,
२; भाश्रौ १,२१,९; हिश्रौ १,
५, ५४^२; -ह्वाः आपश्रौ १६,
१८, ७; वैश्रौ १८, १६:३; हिश्रौ
११, ६, २९.

मधु-तोक्म-मिश्र- -श्रम् वाश्रौ ३,
३,२,३१.

मधु-दधन्- -ध्नि अप ७०,६,३.

मधु-दधि-धृता (त-अक्त >) क्ता-
-क्तानाम् काध २७६:३.

मधु-देवता-> त्य- -त्यम् अञ्
९,१.

मधु-धामन्- -न्नोः वैश्र २,
१७:३.

मधु-धार, रा^३- -रम् या १०,१३;
-रा अप्रा २,२,१६.

मधु-धेनु- -नुम् अप ९, ३, २.

मधु-नाडी^b- -ड्यौ शांश्रौ १५, ३,
१.

मधु-पयः-कुल्या- -ख्याभिः कप्र

२,४,१३.

मधु-पर्क- पाग ५, १, ६६; -र्कः

शांश्रौ ३,१२,६; ४,२१,६; २४;
काश्रौ ४, ६, १९; आपश्रौ ६,
३१, ५; आण्ट १, २४, ७; ३३;

कौश्र १,१६, ५; ४, ४, ८; शांण्ट
४,१७,६; आण्टि २,६,६:१८;

आण्ट १३, १०; काण्ट १३, ६;
२४,२०; वीण्ट १, २, ३३; भाण्ट

२, २४:७; माण्ट १, ९, २२;
हिण्ट १,१२,१४; १३,७; कप्र ३,
१०,१८, कौसू ९०,२३^३; ९२,

१-६^४; ८-१०^४; ११; १६;
आपध २,८,७; ८; हिध २, १,
१०९; गौध ५,२८; -र्कम् बौश्रौ

६, ११:२२; १७, ४३:१६;
वैश्रौ; -र्कस्य द्राश्रौ १, २, ५;

लाश्रौ १,२, १; काण्ट २४, १३;
-र्कात् वीण्ट १,२, ६२; -र्काय

कौसू ९०,३; -र्के कौण्ट ३, १०,
३५; शांण्ट २,१६,१; नाध ४,६;

विध ५१, ६४; -र्केण भाण्ट २,
२३:४.

माधुपर्कि(क>)की^c- -क्यः
कौण्ट १,८, १०^d; -क्यौ शांण्ट

१,१२,१०.
मधुपर्क-दान- -नम् वैश्र २,
१६:९.

मधुपर्क-पुरोग(म>)मा^e-
-माम् अप १,४९८.

मधुपर्का(क-२आ)इय- -दयेन
अप ३,१,१४.

मधुपर्का(क-अ)थ- -थान्-

आण्टि २, ६, ६:६.

मधुपर्क्य- पा ५,१,६६.

मधु-पांसु-वर्ष^f- -वर्षम् कौसू ९४,
१४^१.

मधु-पान^g- -नम् बौश्रौ २, ९:
१६; माण्ट २,१४, २८.

मधु-पायस-स्वर्षिस्- -र्षिषाम् अप
७०^३, ५, १.

मधु-पूर्ण- -र्णम् वैश्रौ १७, १४:
५.

मधु-पूर्व^h- -वर्षम् बौश्रौ २८, ८:६.
मधु-फाणित- -न्ते अप १, ४८, ७.

मधु-मक्षा(ध-अ)नाचार- -रे कौसू
९३, २५.

मधु-मक्षिका- -काः कौसू ११८,
१.

मधु-मत्ⁱ- पा ४, २, ८६; पाग
८, २, ९; -मत् आपश्रौ ५,
१८, ५; काश्रौ ९, ८, १५^२;

आपश्रौ १, ११, १०××; बौश्रौ;
कौण्ट १, १६, ७^३; शांण्ट १, २४,
४^४;

-मत्तः आश्रौ ४, ७, ४^५;
शांश्रौ; -ममति शांश्रौ १८,
१५, ५; गौपि २,४, ७; -मन्तः

आपश्रौ १,२१,५; वैश्रौ; या १०,
२४; -मन्तम् आश्रौ ५, १,
१५; ६, ३, १६; ९, ११, १५;

शांश्रौ; आपश्रौ १६,१२,११^६;
माश्रौ ६, २, ६, २०^७; आण्टि

३, २, २:१६^८; हिण्ट २, १४,
७^९; या १०, १६; -मन्ति^१

आपश्रौ १४, २८, ४; माश्रौ;
हिश्रौ १५, ७, १२^{१०}; -मान्

a) वैप १३.।

b) =सूक्त-विशेष- [ऋ ३, ५४; ५५]।

c) विप. (गो-। तस्येदमित्यर्थे तत्र

देयेऽर्थे वा ठक् प्र.।

d) वैतु. भाष्यम् 'क्य- > -क्यः इति ?।

e) बस.।

f) द्रस. > षस. उप.=इष्टि।

g) कस. वा षस. वा।

h) 'न्तमम् इति चौरसं.। पाभे. वैप १, २४२३ d द्र.।

i) पाभे. १९१० u द्र.।

j) पाभे. वैप १, १०१० k द्र.।

k) सकृत् पाभे. वैप १, ९८७ ० द्र.।

l) पाभे. वैप १, २४२३ i द्र.।

m) 'मति इति पाठः ? यनि. शोचः (तु. आपश्रौ. प्रमृ.)।

आपश्री ५, ९, १०; १७, ४; १३, १५, १४; बौश्री; या ७, १७.
 १मधुमती- ती वैश्री १५, २१: ८; हिश्री ८, ५, १०; -ती: आश्री ९, ११, १६; शाश्री ७, १८, ९^३; ८, ९, २^३; काश्री; बौश्री ८, ६: १८^३; या १०, १९; -तीभि: शाश्री ८, ९, २^३; बौश्री; -तीम् शाश्री १, ५, ९; काश्री; -त्य: निसू २, ११: २४^३; आमिग.
 १मधुमत्-तम, मा- म: शाश्री ६, ६, ८; ९, २०, १६; उनिसू ५: ३५; ७: १८; -मम् आश्री ३, १, १४^३; शाश्री ६, ९, १७^३; आपश्री; वैताश्री १८, ५^३; -मस्य आश्री ६, १, २; शाश्री ९, २, ६; -मा बौग २, ५, ४१; -मा: आश्री ५, १६, २; ७, ४, ३; ८, ३, २२; शाश्री.
 मधु-मस्य-मांस-सूतकप्रेतकाश्वाद्य- (दि-अ)भोज्य-भोजन- ने वैग ६, ९: ८.
 मधु-मन्त्र-विवर्जित- -त: कप्र १, ३, ७.
 मधु-मन्थ- न्थ: आपश्री ६, ३१, ५; -न्थम् हिश्री ६, ८, १; कौसू ६६, १५; ८३, ३१; अप १, ४९, ४; अशां १३, ३; -न्थस्य द्राश्री १, २, ११; लाश्री १, २, ७; -न्थान् आप २, ५, २; -न्थानाम् वाश्री १, ६, ६, १४; -न्थे कौसू २९, १५; ३५, ९; -न्थेन अशां १३, ३.

मधुमन्थ-वर्जम् आग २, ५, ४.
 मधु-मांस- -सानि हिध २, ५, १४५; -स काग १, ७; माग १, १, १२; २ २१; १८, ७; वाग ६, १९; गोग ३, १, २१; -सन शंघ २८१^३; -सै: वाघ ११, ४०^३.
 मधुमांस-भक्षिन्- -क्षी आमिग २, ७, १: १.
 मधुमांस-वर्जम् वाघ १०, २४.
 मधुमांसा(म-अ)शन- ने विध ५१, ४५.
 मधु-मांस-गन्ध-मालय-दिवास्वप्ना- (प-अ)ञ्जना(न-अ)म्यञ्जन- यानो(न-उ)पानत्-छत्र-काम- क्रोध-लोभ-मोह-वाद-वादन- स्नान-दन्तधावन-हर्ष-नृत्त-गीत- परिवाद-भय- -यानि गौघ २, १९.
 मधु-मांस-घृत-तैल-क्षार-लवणा(य- अ)वराह-वर्ज- -र्जेषु बौघ ४, १, ७.
 मधु-मांस-मज्जनो (न-उ)पर्यासन- स्त्रीगमना(न-अ)नृता(त-अ) दत्तादान- -नानि पाग २, ५, १२.
 मधु-मांस-मस्य-नस-शुक्लाद्य(दि- अ)भोज्य-भोजन-वर्जिन्^३- -र्जी वैघ १, २, ९.
 मधु-मांस-मद्य-लवण- -णानि बौघ- २, २, ६०.
 मधु-मांस-लवण-पर्युषिताह- -हम् वैघ १, ९, ३.
 मधु-मांस-लवण-श्राद्ध- -द्धानि काग ५, ८.

मधु-मांस-लवण-स्य- स्त्री अ)लले- खन- नानि आश्र २, १६, २४.
 मधु-माधव- -वे अप ६४, ९, २.
 मधु-मिश्र- -श्रम् वी^३ ९, १३: २; १०, २७: ७××; कौग; -श्रान् आपश्री १६ २०, १; बौश्री १५, २५: ११; हिश्री ११, ६, ४७; लाश्री ८, ११, २५; कौसू २२, १०; अप १, ४८, ५; -श्रे माश्री ६, २, ४, १९; -श्रेण आपश्री १५, १४, १३; १५, १××; बौश्री; -श्रै: गौघ १५, १४^३.
 मधुमिश्र-तिल- -लै: अशां १३, २.
 मधु-मेह- -> षिन्- -ही शंघ ३७८.
 मधु-युत, ता- -तान् शंघ २२१; -ताम् शंघ २२०.
 मधु-र- पा ५, २, १०७; पाग ४, २, ८०^३; ५, १, १२३; -र: माशि १४, ७; -रम् विध ६१, ६; शुभा; नाशि १, ३, १^३; -राणि अप ६८, १, ३४; -रै: अप २१, ४, १; ६, ५.
 माधुर्ये- पा ५, १, १२३; -र्यम् शेशि २०७; २११; माशि ४, ३; १४, १०; याशि १, ३७; २, ८३; नाशि २, ८, ५; -र्यान् माशि १४, ७.
 मधुर-ता- , त्व- पा ५, १, १२३.
 मधुर-श्वेत-पीत- -तानि अप ६८, १, ३६.
 मधुरस्वररिष्टव्याहरण- -णम् अप ६५, २, ९.

a) पामे. वैप १, २४२४ d द्र. । b) पामे. वैप १, २४२४ e द्र. । c) पामे. वैप १, २४२४ g द्र. ।

d) = ऋञ्- । e) पामे. वैप १, २४२३ d द्र. । f) समाहारे द्रस. । g) पररं पामे. । h) द्रस. > कस. > उस. । i) मासयो: समाहारे द्रस. । j) St. पाठः । k) = रोप-वशेष- । l) अर्थः ? ।

m) = गानयुगवृत्तिविशेष- ।

मधुरा(र-आ)स्वाद- -दम् आगु
२,८,६.
मधुरिमन्- पा ५,१,१२३.
मधुरिल- पा ४,२,८०.
मधुरेतो^३ आश्रौ ४,१२,२१.
मधु-लवण-नास-माष-वर्जम् कौसु
१,३२.
मधु(ल>)ला^३- -ल्ला आपश्रौ
१५,२,२; ६; बौश्रौ ९, ३:९;
भाश्रौ;-लाम् अत्र ५,१५.
मधुला-वृष-लि(ङ्ग>)ज्ञा^३-
-ज्ञामि: कौसु २९,१५.
मधु-लाजा-मिश्र- -श्रै: अप १८,
१,११.
मधु-वनस्पति^३- -तिम् अत्र १,
३४.
मधु-वर्ण^३- -र्ण: आश्रौ ३,८,११.
मधु-वाच्- -वाच: अत्र ५,७.
मधुवातीय,या^३- -यम् शंघ २१८;
-या: कौगु ३, १४, ४; शांगु ४,
१,८.
मधु-वादि(न्>)नी- -नी बौगु
१, ४, ४; भागु १, १७, १३;
हिय १,२४,६.
मधु-श्चुत्- -श्चुत: काश्रौ ९,१०,
१२; १०, २, २; ३६; आपश्रौ;
-श्चुत्^३ वाश्रौ ३, २, ५, २१;
आपमं २, १८, ४८; आमिगु २,
५, १२: ११; या १०,१६.
मधुश्चुत्-निघन^३- -नम् छुपु
२, १५: १४; ३, ८: ५; गौपि
२,४,१२.

मधु-श्च्युत्->श्च्युत्-निघन^३-
-नम् जैश्रौ २५: ७; जैश्रौप १५;
-नात् द्राश्रौ ८, २, ३; लाश्रौ ४,
६, ३.
मधु-छा(<स्था)ल^३- -लम् आपश्रौ
१८, ५, ५; हिश्रौ १३, १, ६४^३.
मधु-संयुक्त,क्ता- -क्तम् वाघ २६,
१८; -क्ता अप २६, ४, १.
मधु-संयुत्- -त: गौपि २, ३, १७^३;
बौघ ३, ६, ४; विघ ४८, १७.
मधु-संसृष्ट- -ष्टम् आपघ २, ८, ८^३;
हिय २, १, ११०^३.
मधु-सर्पिस्- पाग २, २, ३१; ४,
१४; -र्पिर्म्याम् अप ३६, १२,
१; -र्पिषा आमिगु ३, ११, ४:
४६; अप १, ४५, ६; ५, ४, १;
-र्पिषि अप ७०, ६, २; -र्पिषी
वाघ २८, २२; विघ ८७, १०;
-र्पिषो: गौघ १३, २०.
मधुसर्पिः-समन्वित- -तम् अप
७०^३, ९, २.
मधु-सर्पिस्-तिला(ल-आ)त्मक-
-कम् अप ३६, ३०, १.
मधु-सहित- -तान् अशां १३, १.
मधु-सूक्त^३- -क्तेन वैताश्रौ १६, १२.
मधु-सूदन^३- पाग ३, १, १३४; -न:
विघ १, १३; -नम् आमिगु २,
५, ७: १०; बौगु १, ११: ७;
वैगु ३, १३: ४; बौघ २, ५, २४;
विघ १, ४०: ४४; -नस्य विघ
९९, ७; -ने विघ ९९, २२.
मधु-सोम-पान- -नम् आज्यो ८, ३.

मधु-लाव- -वे अप ७०^३, ८, ४.
मधु(धु-उ)क्त- -क्ते वैघ ३, ५, ६.
मधु(धु-उ)च्छिष्ट^३- -ष्टे अप ३१,
१, ४.
मधु(धु-उ)त्कट- -टेन विघ ७८, ५३.
मधु(धु-उ)त्सिक्त- -क्तेन कौसु ८२,
२७.
मधु(धु-उ)दक- -के आपश्रौ १९,
२१, १६; हिश्रौ २२, ४, ६; बौघ
१, ६, ४७; मीसु ८, १, ४०.
मधुदक-वत् मीसु ९, ४, ३०.
मधु(धु-उ)दशिवत्- -शिवत् कौसु
३१, २३.
मधु(धु-उ)द्युत- -तान् माश्रौ ६,
१, ६, २; वाश्रौ २, १, ५, ८.
मधु(धु-उ)द्वाप^३- -वान् कौसु २९,
१०.
मधु > मधुयु^३- -युवा
ऋषां ९, १६.
मध्व(धु-अ)पूप- -पान् अप १, ४८,
३.
मध्व(धु-अ)लाभ- -भे आगु १, २४,
६.
मध्व(धु-अ)शान^३- -न: भाश्रौ ८,
३, २७.
मध्वा(धु-आ)ज्य-कुल्या- -र्याभि:
कप्र २, ४, १६.
मध्वा(धु-आ)ज्य-दधि-दुग्ध- -धेषु
अप ७०, ५, २.
मध्वाप^३ वाश्रौ ३, ४, २, ४.
मध्वा(धु-आ)शिन- -शी काश्रौ ५,
२, २१.

a) शोष: वैघ १, २४१९ g द्र.। b) वैघ १ द्र.। c) नाप.(ओषधि-)। d) विप.(श्चुन्-)। द्रस.>
बस.। e) पूष. = मधुघ- (तु. कौसु ३८, १७)। f) < मधु वाता: (ऋ १, ९०, ६)। g) पाभे. वैघ १, -
२४२५। द्र.। h) = साम-विशेष-। बस.। i) ष्वोष्ठा इति पाठ: ? यनि. शोष: (तु. आपश्रौ)।
j) पूष. = मधुशब्द-वत्-। k) विप. > नाप. (विष्णु-)। उस. पूष. = राक्षस-विशेष-। l) = सिक्थक-
(मोम इति नभा.)। m) = मधुवृक्षघृतिका- (तु. केशव:)। n) विप.। बस. वा उस. वा। o) पाठ: ? (तु. सप्र-
आपश्रौ २०, १०, ५)।

मध्वा(धु-आ)हुति- -तिभिः आगृ ३, ३, २.
 मध्व(धु-क्)च्^१- -ध्वचः वाय २८, १३; शंघ १०५; बौध २, ८, ५.
 मध्वो(धु-ओ)दन- -न्त् कौष्ट १, १९, ६.
 १मधु^२-(>माध्व्य- पा.) पाग ४, १, १०५.
 १मधु-क- १मधु- द्र.
 २मधुक्^३- -कः वाधुश्रौ ३, ४१; २६; वृदे १, २४.
 मधु-कर- प्रसृ. १मधु-मत्- १मधु-द्र.
 २मधुमत्^४-(>माधुमत- पा.) पाग ४, २, १३३; ३, ९३.
 माधुमतक -पा ४, २, १३४.
 मधुमत्स्य^५ प्रसृ. १मधु- द्र.
 मधुस्^६- पाठ २, ११६; -धुः आग्नि ३, २, १:२; अप ४०, ६, १४; ४८, ७६१.
 मधु-संयुक्त- प्रसृ. १मधु- द्र.
 मधूक (वप्रा.)^७- पाठभो २, २, २९; -काः शांथ ५, १०, १^६; -कानि कौष्ट १, ८, ९; शांथ १, १२, ९.
 माधूक^८- -कम् विभ २२, ८३.
 मधूक-घृत-मण्डा (ण्ड-आभ >) भा^९- -भाः अप ६३, ४, ८.
 मधूक्त- प्रसृ. १मधु- द्र.
 मधूलक^{१०}- -कम् अप्रा ३, ४, ११.

मध्य, ध्या^१- पाठभो २, ३, ४; पाग २, ४, ३१; ४, १, ४^१; १२६^२; पागवा ४, २, १३८; -ध्यः आपश्रौ ३, ८, ९^३; -ध्यम् आपश्रौ ४, १२, २^१; ७, २, १०४; शांश्रौ; आग्नि २, ३, ५: २२^१; या ६, ३^१; -ध्यस्य निस् १, ११: २५^३; -ध्या आपश्रौ १४, १६, १; वाधुश्रौ ३, ४: १२; हिश्रौ १५, ५, १; आपर्म; या ४, ११^४; -ध्याः कौस् १५, १७; अप्राय २, १; अप ६८, १, ४; माशि २, ३; -ध्यात् शांश्रौ ४, २१, १२; काश्रौ १, ९, ६×४; आपश्रौ; -ध्यानि आपश्रौ ८, १३, ३; १४, ६, ११; बौश्रौ; -ध्याय वाश्रौ २, १, ५, १३; -ध्ये आश्रौ ५, २०, ६×४; शांश्रौ; आपश्रौ ७, ३, ४^१; २१, २०, ३^१; वाश्रौ ३, २, ५, ४३^०; हिश्रौ १६, ६, ४१^१; २२, ६, २५^१; कौष्ट ३, ४, १^१; या २, १६^१; ४, ११×४; -ध्येऽ-ध्ये काश्रौ २४, ५, १८; -ध्येन आपश्रौ १४, ६, १०; बौश्रौ; जैश्रौका ९१^१; -ध्येषु कौस् १५, १७; वृदे ३, ११६; -ध्यैः आपश्रौ २, ४, ५; भाश्रौ २, ४, ५; हिश्रौ १, ७, ८.
 ऋमाध्य^२- -ध्यम् वाश्रौ १, ४, ४, ४१.

४, ४१.
 १मध्य- -ध्ये पा ६, ४, १२०.
 मध्य-ग, गा^३- -गाः शशि ५८; भाशि १५; -गम् भाशि ६५; -गा काश्रु ७, ३८.
 मध्य-नात- -तानि ऋप्रा ११, २५.
 मध्य-त्वर- -रः निस् ५, ८: ८.
 मध्य-चारिन्- -रिणः अप ५२, ६, २.
 मध्य-जिह्व^४- -ह्वम् शौच १, २१.
 मध्य-तल^५- -लम् वैश्र १, ५: ६.
 मध्य-तसः(ः) शांश्रौ १४, २७, ८; १५, ८, २; आपश्रौ; मध्यतऽ मध्यतः माश्रौ ५, २, १, ५.
 मध्यतः-कारिन्^६- -रिणः वाश्रौ ३, २, १, १२; ४, ५, ७; वैश्रौ; -रिणाम् आपश्रौ १२, २३, ४; माश्रौ; -रिभ्यः माश्रौ ५, २, १; ११; ६, २, ५, २७; वाश्रौ.
 मध्यतः-कारिन्-चमस- -सान् माश्रौ २, ४, १, १.
 मध्य-देश- -शः जैश्र २, ९: ११; -शम् बौश्रौ २, १, ९; -शयोः बौश्रु २: १८; -शे आपश्रौ १, २१, ६; २, ७, ३×४; -शेन द्राश्रौ ५, २, १३; लाश्रौ २, ६, ७.
 मध्यदेशा(श-अ)देश- -शयोः कप्र १, ३, १२.
 मध्य-निम्न- -न्मन् वैश्रौ १, ३:

a) पू. = मधुशब्दवती-। b) व्यप. (तु. पागम.)। c) = ऋषि-विशेष-। d) = देश-विशेष-।

e) वैप १ द्र.। f) नाप. (वृक्ष-विशेष- तदीय-पुष्प-)। व्यु. ? < √मह इति अभा. प्रसृ. < १मधु- इति MW.। g) = मधुमक्षिका-। h) नाप. (मद्य-विशेष-)। तस्यविकारीयः अण् प्र.। i) द्रस. > बस.। j) तु. पागम.। k) ष्य इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. प्रकरणात्)। l) पाभे. वैप १, ८७१ C द्र.। m) ष्यमस्य इति मूके.। n) मध्ये संनतम् इत्यस्य स्थाने सपा. काश्रौ ६, १, २७ मध्यसंगृहीतम् इति पाभे.। o) पाभे. पृ ३२८ G द्र.। p) ष्यः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. तै २, ४, ११, ५ आपश्रौ १९, २७, १५)। q) येषां मध्ये विप्रवसन्ति, ये सौमनसो बहु > येषाम् अध्येति प्रवसन्, येषु सौमनसो बहुः इति शोधः (तु. सपा. मा ३, ४२ प्रसृ. शांथ ३, ७, २)। r) वा. क्तिन्.। s) उप. < √गम्। t) अस.। u) कस. (तु. C.)। v) नाप. (क्त्विक-चतुष्टय-)। उस.।

३; ७; १०.

मध्य-दिन^१- पाग ४, १, ८६; २, १३८^b; -नः आश्रौ ७, ५, १९xx; शांश्रौ ११, १५, ५^cxx; बौश्रौ १५, ५७:१३^d; लाश्रौ ८, ५, २३^e; अत्र ९, ६(५)^f; अप्रा ३, ४, १^g; -नम् भाग १, १२: ७^h; अप ४८, १४१^d; अप्रा ३, ४, १^h; -नस्य कौसू २२, ३ⁱ; -नाⁱ पाग ३, ४, ८^j; -नाः आश्रौ ८, ५, ७; शांश्रौ १२, ३, ३; -नात् शांश्रौ ८ १, १; बौश्रौ २४, २०: ५; ६; भाग २, ३१: ४; अप ४२, १, ५; -नाय शांश्रौ ८, १, १; -ने शांश्रौ ३, १५, ५xx; काश्रौ; -नेषु आश्रौ ८, ८, १^k; शांश्रौ; -नौ आश्रौ ९, ७, २.

माध्यदिन, ना^१- पा ४, १ ८६; पावा ४, ३, ६०; -नः शांश्रौ १४, २३, २xx; बौश्रौ; -नम् शांश्रौ ८, १४, ३xx; काश्रौ; -नस्य ऋश्रौ ५, ४, ३; ५, १५; शांश्रौ; वैश्रौ १६, ५: १^l; -नाः बौश्रौप्र ४६: ३^l; चव्य २:३६^k; -नात् शांश्रौ १३, ८, १; काश्रौ; निसू ८.७: २३^l; -नानाम् शुप्रा ८, ३५^k; -नाय शांश्रौ ७, १४, १२; आपश्रौ; -नायाम् तुसू ३, १०: २२; -ने आश्रौ ५, २, १३xx; शांश्रौ;

अप्राय ६, ४^m; -नेन आश्रौ ६, ७, ८; शांश्रौ; -नेषु आश्रौ ९, २, १६; शांश्रौ १२, ३, १.

माध्यदिनी- न्यः

आश्रौ ५, ५, १९.

माध्यदिन-काल- ले

आपश्रौ २१, २४, ८.

माध्यदिन-पवमान-वत्

वैश्रौ १६, १२: १८.

माध्यदिन-युग^१- नाम्

पाशि ८.

माध्यदिन-वत् काश्रौ

१०, ५, ५; आपश्रौ.

माध्यदिन-विरोधिन्-

-धी याशि १, ८६.

माध्यदिन-सवन- नम्

बौश्रौ २५, २२: २.

माध्यदिनसवन-भाज्-

-भाजः वाधूश्रौ ४, ७६: ३.

माध्यदिनसवन-शास्त्र-

-स्त्रम् वैश्रौ १६, ९: ३.

माध्यदिना(न-अ)न्त-

-न्तान् निसू ५, ६: २.

माध्यदिनान्ती(य>)

या- -याः निसू ६, २: १४.

माध्यदिना (न अ)न्य^१-

-न्यम् क्षुसू ३, १०: ४४; ११:

४; निसू; -न्त्यानि क्षुसू ३,

१०: २७xx; निसू.

माध्यदिना(न-आ)र्भव-

-वौ बौश्रौ १८, २३: ५; ९; १३.

माध्यदिनीय, या- न्यः

बौश्रौ २५, २३: ६; माश्रौ २,

३, २, ३; -यम् माश्रौ २, ३, १,

१९; ४, ३, २२; निसू ६, १०:

८; -या निसू ६, २: २६; -याः

बौश्रौ १८, २: १२; २५, २१:

१; २६, ३०: ३; ४; वाधूश्रौ;

-यान् शांश्रौ १४, २, १८;

आपश्रौ; -यानाम् याशि २,

४०^k; -याम् निसू ६, २: ५;

-ये आपश्रौ १४, १९, ११;

बौश्रौ; शुअ १, १^p; -येषु बौश्रौ

१८, ३७: १५^q; -यैः काश्रौ^p

१४, २, २६; १५, ४, ४०^r; काठश्रौ

१४२; बौश्रौ १८, ३४: १;

वाधूश्रौ ३, ६१: १०.

माध्यदिनीया (या-आ)

र्भवी(य>)या- न्ये निसू ६,

२: २९.

मध्यदिन-च्छन्दस्- न्दः निसू

७, ५: २७^d.

मध्यदिना(न-अ)पराह्- -ह्योः

लाश्रौ १०, २०, ४.

मध्यदिनीय, या- पा ४, २, १३८;

-या लाश्रौ ६, ९, १५.

मध्य-पथ- न्यम् अप ५३, २, ५.

मध्य-पूर्वा(र्वे-अ)पर- तसः() वैश्र ५,

३: ११.

मध्य-पूर्वा(र्वे-अ)पर-यमा(म-अ)गिन्-

निर्द्धति-सोमे(म-ई)शान-मरुत्-

-रुतः वैश्र १, ९: ३.

a) वैप १ द्र. ।

b) तु. पाशि. । मध्यम- इति भाण्डा. प्रभृ. ।

c) (उपचारात्) निष्केवल्य-

मरुत्वतीयशास्त्रयोः संज्ञा- (तु. आश्रौ ७, ५, १९ शांश्रौ ११, १५, ५ भाष्यं च) ।

d) = सवन- ।

e) वैप १, २४२८८ द्र. ।

f) तु १ ।

g) = सूक्त- ।

h) विप. (पवमान- सवन- प्रभृ.) ।

i) वैप १ द्र. । विशेषः टि. द्र. ।

j) पञ्च^० इति पाठः ? यनि. शोधः ।

k) व्यप. ।

l) = माध्यदिन-शाखिन्- ।

m) उत्तरेण आर्भवम्य इति पदेन संधिः (तु. संस्कृतुः टि.) ।

n) विप. ।

उस. उप. कः प्र. (पावा ३,

२, ५), इत्त्वम् (पा ७, ३, ५३) ।

o) बस. ।

p) माध्यदिनशाखीय- (यजुर्वेद-) ।

q) विप. > नाप. (हविस्-)

r) तु. चौसं. ।

s) मा^० इति संस्कृतुः टि. ।

मध्य-भङ्ग- -ङ्गे अप १९, १, १२.
 मध्य-भागे(ग-इ)न्द्र- -न्द्रः वृदे २,
 ३१.
 मध्यम,मा^b- पा ४, ३, ८; पाग
 ४, १, ४; १२६; २, १३८^c; -मः
 शांश्रौ ७, २७, २०; आपश्रौ; वृदे
 १, ९३^d; ९४^d; ९९^d; २,
 २६^d; या २, ८^e; ४, २६^f; ७,
 १६^gx; माशि १, ८^e; पा १,
 ४, १०५^f; -मम् आश्रौ २, ७,
 १२xx; काश्रौ; कौश्र १, ५, २९^g;
 विध ५, ३०^h; ४१^h; ५६^h; ६३^h;
 ६८^h; १७६^h; ३१, १०ⁱ; ऋप्रा
 १३, ४२ⁱ; तैप्रा २३, ११^j; पाशि
 ८^e; याशि १, ८^e; नाशि १,
 ५, ३^e; -मया आश्रौ ४, ८, २५;
 शांश्रौ; काश्रौ १७, ५, २^k; माशि
 १, ५ⁱ; -मयोः लाश्रौ ६, ८,
 १२xx; ऋप्रा १४, २४; मोस्
 ७, ३, २४; -मस्य आश्रौ २,
 १०, २२; १०, २, ७; शांश्रौ;
 -मस्याम् हिपि १८:२; या १२,
 ३१^k; -मा आश्रौ २, १९, २३;
 बौश्रौ; वैध १, ६, ५^m; माशि १,
 २-४ⁱ; ११, ९ⁱ; याशि १, ५०ⁱ;
 कौशि ३८ⁱ; ६४ⁱ; ६६ⁱ; नाशि २,
 ८, २ⁱ; -माः आपश्रौ १४, ६, २;
 बौश्रौ; या ११, १८^k; -मात्
 शांश्रौ १०, ८, १६xx; काश्रौ;
 या १०, २; २८xx; -मान् शांश्रौ
 ७, २६, १३; काश्रौ २५, ४, ३८;
 -मानाम् शांश्रौ १३, १०, ९;

१४, ७२, १; -मानि आश्रौ ६,
 ४, ४; शांश्रौ; -माभ्याम् बौश्रौ
 ६, २२: २xx; वैश्रौ; -माम्
 आपश्रौ १६, २८, ६; १९, २२, ५;
 बौश्रौ; बंध १२७ⁿ; ऋप्रा १३,
 ४६ⁱ; ४९ⁱ; याशि १, ४९ⁱ;
 कौशि ६२ⁱ; ६२ⁱ; नाशि १,
 ६, २१ⁱ; -माय ऋत्र २, १,
 ७९; -मायाः लाश्रौ ६, ६,
 ८xx; काश्र ११, २; -मायाम्
 काश्रौ १७, ७, ६; आपश्रौ;
 काश्रौसे २७: १५^o; ऋन २,
 ४, २ⁱ; माशि २, १; -मासु
 माश्रौ ६, १, ६, १८; -मे आश्रौ
 ६, ४, ४; शांश्रौ; माशि १, ९^e;
 कौशि ३९^e; नाशि^e १, २, १२;
 ४, १०; ६, ६; -मेऽ-मे लाश्रौ
 ६, २, २७; -०मे शांश्रौ १२,
 २२, १^p;^p; -मेन आश्रौ १, ५,
 २७; ३, १०, २३; शांश्रौ; तैप्रा
 १८, ४^e; -मेषु आश्रौ ७, ११,
 ३०; शांश्रौ; -मैः लाश्रौ ६, १२,
 ३; ऋप्रा ५, ४२; -सौ वैश्रौ
 १५, १३: ६; लाश्रौ ६, ८, ७;
 ८; ऋत्र १, ८, ९; शुभ्र ५, ५९.
 माध्यम^q- पावा ४, २, १३८;
 ३, ६०; -माः^r आश्र ३, ४, २;
 कौश्र २, ५, १; शांश्र ४, १०, ३;
 ऋत्र १, २, २.
 माध्यम-क^s- -कः सात्र
 १, ५२४; -काः या ५, ४; ६,
 १५

माध्यमिका- -क्या
 या १२, ९; -का या २, ९; १०,
 ४६; ११, ४२; ४३; १२, ५;
 -काम् या ११, २७; १२, १०;
 ३२; -कायाः या ६, २.
 माध्यमिक^t- -कः या ८,
 १४; ११, १८^u; १९^u; -कम्
 या ५, ३; -काः अप ४३, ४, २;
 या २, २२; ७, २६; १२, ३२;
 -कान् या १०, ९; ११, १८;
 १२, ९; -के वृदे ३, २५.
 माध्यमिकी- -क्या या
 १२, ९.
 माध्यमिनेय- पा ४, १,
 १२६.
 मध्यम-क- , 'मिका^v- (>मा-
 ध्यमकीय- , 'मिकीय- पा.)
 पाग ४, २, १३८.
 मध्यम-ग्राम^w- -मम् नाशि १,
 ४, ७^w; -मे नाशि १, २, ८.
 मध्यमग्राम-संभव- -वम्
 नाशि १, ४, ११.
 मध्यम-च्छिद्र- -द्रम् हिश्रु ३,
 २१.
 मध्यम-ज- -जम् आपश्रौ २०,
 २३, १; हिश्रौ १४, ५, ११.
 मध्यम-स्व- -स्वम् नाशि १, ५,
 १०.
 मध्यम-दक्षिणे(ए-उ)त्तर-
 -नान् काश्रौ २, ८, १; वैताश्रौ २,
 १३.
 मध्यम-धर्मन्^x- -र्मा या ७, २३.

a) कस. > षस. । b) विशेषः टि. द्र । c) पृ १९१६ b द्र. । d) = अग्नि- । e) = संगीत-स्वर- । f) पारिभा-
 शिक-संज्ञा- । g) पाठः? (तु. भाष्यम्, सप्र. शांश्र १, ९, १४) । h) = दण्ड-विशेष- । i) = अन्तरिक्ष-लोक- ।
 j) = वाक्-स्थान- । k) = ऋन्- । l) नाप. ([उच्चारणार्था-] वृत्ति-) । m) = वेदि-विशेष- । n) = मध्याह्न-
 संघा- । o) मध्यम इति पाठः? यनि. शोषः । p) पाषे. वैप १, २४२८ g द्र. । q) वैप १ द्र. ।
 r) = ऋषि-विशेष- । s) स्वार्थे कः प्र. । t) तत्रभवार्थे ठक् प्र. । u) तु. पागम. । v) = सामस्वर-
 भेद- । w) पाठः? 'मः इति शोषः (तु. लासं.) । x) बस. ।

मध्यम-पञ्चक- -केन विध ७३,
६.
मध्यम-पद- -दानि उस् २, २९.
मध्यम-पर्य- -र्णम् माण्ड १,
१७, ६; -र्णे माश्रौ १, ७, ७, ५;
-र्णेन काश्रौसं ३२:१३; गोण्ड ४,
४, २५.
मध्यम-पर्वन्- -र्वणा वैश्रौ १, ३:
१२; -र्वसु नाशि १, ६, ९.
मध्यम-पलाश- -शे कौस् २१,
२; ७७, १८; -शेन कौस् ४८,
२८; -शैः कौस् ८६, ६.
मध्यम-पिण्ड- -ण्डम् शाश्रौ ४,
५, ८; काश्रौ ४, १, २२; कौस्
८९, ५.
मध्यमपिण्ड-प्रदान- -नस्
अप ४४, ४, ११.
मध्यम-पुरुष- -षाय गौष २६,
१२१.
मध्यमपुरुष-यो(ग>)गा^३-
-गाः या ७, २.
मध्यमपुरुषे(ष-ए)कवचन-
-नस्य पावा ३, ४, २.
मध्यम-पूर्व- -र्वौ बौशु ७ : १७.
मध्यम-भाव- -वः पावा ४, २,
१३८.
मध्यम-राग- -गे नाशि १, ४, ५.
१ मध्यम-वर्ण^४-> र्णयि- -ये
ऋत ४, ४, ८; -वैः ऋत ५, ६,
१०.
२ मध्यम-वर्ण^५- -र्णे ऋत ४, २, ३.
मध्यम-विलम्बित- -तयोः पावा
१, १, ७०; ४, १०९.
मध्यम-साहस^६- -सः शंघ २६३;
-सम् शंघ ३३०; विध ५, १०८.

मध्यम-स्थ-(>माध्यमस्थ-
पा.) पाग ५, १, १२४.
१ मध्यम-स्थान- -ने काश्रौ २४,
४, ९; -नेन आश्रौ ४, १५, १०.
२ मध्यम-स्थान^७- -नः वृदे १,
१२१; २, ७; -नाः वृदे १,
१०३; -नैः वृदे ३, ७४.
मध्यम-स्थूणा- -णायाः आण्ड
२, ८, १५.
मध्यम-स्थेय^८- -याय^९ बौश्रौ
१०, ४४ : १७१.
मध्यम-स्वर- -रेण आश्रौ ५,
१२, ८; हिश्रौ २१, १, ९१.
मध्यमा(म-अ)ङ्गुलि- -लेः वैश्रौ
१, ३ : १२; -ल्या आश्रिण्ड २, ३,
१ : ९.
मध्यमा(म-अ)ङ्गुलो(ल-उ)च्छ्र
(त>)ता- -ताम् वैश्रौ १०,
४ : १५.
मध्यमा(मा-अ)ङ्गुष्ठ- -ष्ठाभ्याम्
आश्रिण्ड २, ६, १ : २१.
मध्यमाङ्गुष्ठ-योग- -गेन
शंघ ४५७ : २; ४५८.
मध्यमा-त्व- -त्वम् नाशि १,
७, १२^१.
मध्यमा(म-आ)दि- -दि आश्रौ
४, १, २७.
मध्यमानां(त्रात्यस्तोम-) शाश्रौ
१४, ७२, १.
मध्यमा(मा-अ)नामिका-
-काभ्याम् शंघ ५७; ४५६.
मध्यमा(म-अ)पर- -रयोः माश्रौ
२, २, ३, २७.
मध्यमा(म-अ)ष्टका- -कायाम्
आण्ड ३, ५, २०;

मध्यमीय- पावा ४, २, १३८;
३, ६०.
मध्यमे(म-ई)षा- -षायाम् १९,
२०, १५; बौश्रौ १३, २२ : ६;
७; माश्रौ ५, १, ८, ६; हिश्रौ
२२, ३, २९.
मध्यमो(म-उ)च्चैस्व र>)रा-
-रया वैताश्रौ २२, १०.
मध्यमो(म,मा-उ)त्तम,मा- -मे
बौश्रौ १९, ५ : ३१; -मौ वृदे
२, ३९.
मध्यमो(म-उ)त्तर- -रौ आपश्रौ
८, १४, १०; वैश्रौ ९, ४ : १०.
मध्यमौ(म-ओ)दन- -नस्य हिण्ड
२, ८, ८.
मध्य-रात्र- -त्रात् बौश्रौ २४, २०,
२; ४; बौण्ड ३, १, १६; हिध
१, ८, ५६६; -त्रे आपश्रौ ६, ४,
१०; १०, १७, ३; बौश्रौ.
मध्य-लक्षण^{११}- -णानि निस् ५,
८ : ९.
मध्य-वेदि- -द्याम् वैध १, ६, ४.
मध्य-संगृहीत,ता- -तम् काश्रौ
६, १, २७^{१२}; १७, ५, ३; २६, १,
१७; -तानि काश्रौ ९, २, १४;
-ताम् काश्रौ २, ६, १.
मध्य-सम- -सम् आपध १, ५, १६;
हिध १, २, १६.
मध्य-संपद^{१३}- -पदः अप ५९, १, ७.
मध्य-स्थ- पाग ५, १, १२४^{१४};
-स्थम् विध १, ३९; मीसु ४, ४,
३; -स्थाः वाधुश्रौ ४, ९८ : २०;
-स्थानि जैश्रौका ६२.
माध्यस्थ्य- पा ५, १, १२४.
मध्य-स्थान,ता^{१५}- -नः निस् १०, ३,

a) बस. । b) कस. । c) =दण्ड-विशेष- । d) वैप १ द्र. । e) पाभे. वैप १, २४२९ f द्र. ।

f) ष्वत्त्व- इति लासं. । g) सपा. आपध १, ३२, १४ अर्धरात्रात् इति पाभे. । h) पाभे. पृ १९१५ n द्र. ।

i) तु. पागम. ।

८; -ना या ७, २३; -ना: या १०, १; ११, १३; २२; १२, ४१; सात्र १, ४४५.
 मध्यस्थानो(न-ऊ)र्ध्व-शब्द^१-
 -न्द: या १४, २१^२.
 मध्या(ध्य-अ)ग्नेय-दक्षिणै(ए-ऐ) शान्थो(न्य-उ)त्तर-पूर्व-पश्चिम-
 नैर्ऋत-वायव्या(व्य-आ)श्रित-
 -ता: दैगृ ४, १३: ५.
 मध्य(ध्य-अ)ग्रो(घ-उ) पनत-
 -नम् काथौ ६, १, ८.
 मध्या(ध्य-अ)धिदेवन^३-ने वाश्रौ १, ४, ४, ११.
 मध्या(ध्य-अ)न्त-न्ताभ्याम् कौशि ५०.
 मध्यान्त-स्थावर-राणाम् अप ५२, १०, ५.
 मध्यावर्ष^४-र्षम् शाश्रौ २, ५, ४; -र्षे कौगृ ३, १५, ४^५; शांगृ ३, १३, १; ५, १०, ६; पागृ ३, ३, १३.
 माध्यावर्ष^६-र्षम् आगृ २, ५, ९; हिगृ २, १३, ३.
 मध्या(ध्य-अ)ह-ह्ला^७ अप १, १९, १; -ह्लात् वैध ३, १४, ९; -ह्ले वैश्रौ १२, १३: ७; आपिगृ २, ६, ८: ४५; कागृउ ४४: १; वैगृ १, ३: १८; अप १, २१, २; १८^८, १५, १; ४१, ६, २; ७०^९, ११, २९; शंघ ९८^{१०}; बौध ३, ५, ३; विघ ६३, ९; ६८, ११;

७१, २१; वैध २, १३, १; आज्यो १, ८.
 मध्याह्ना(ह-अ)पराह-ह्यो: अप ९, २, ८.
 मध्ये✓कृ पा १, ४, ७६.
 मध्ये-गुरु- पा ६, ३, ११; पाग २, २, ३७^{११}.
 मध्ये-छन्दस्^{१२}-न्दस: पागृ ३, ३, ५१.
 मध्ये-ज्योतिस्^{१३}-ति: निसू १, २: १४; १६; ऋअ २, ८, १०; अअ १०, १०; ११, ४; ५; पिं ३, ५३.
 मध्ये-निघन^{१४}-नम् लाश्रौ ६, ४, ५; -नानि निसू ५, ७: २१; ९, ३: २७; २८; -ने लाश्रौ ७, ८, १३; -नेन निसू १, १३: ७; ८; -नेषु दाश्रौ १०, १, ६; लाश्रौ ३, ९, ७.
 मध्ये-पृथ्वी^{१५}-थवा: शाश्रौ १३, २१, ४; आपश्रौ २३, ९, ४; -थवान् शाश्रौ १३, २१, ११; -थ्वौ शाश्रौ १३, २१, ११.
 मध्ये-बि(ल>)ला^{१६}-लाम् वैश्रौ १९, ६: ११२.
 मध्ये-शरीर-रम् जैगृ २, ४: ६.
 मध्यो(ध्य-उ)दात्त-त्तम् कौशि ३५; नाशि २, ७, ५; -त्ते शुप्रा १, १४९.
 मध्यो(ध्य-उ)द्वाय^{१७}-यम् निसू १०, ३: ३६.

मध्यम,मा- प्रसृ. मध्य- द.
 मध्यमैक्येग्रहानमसवनयति वाश्रौ ३, २, ५, ५६.
 मध्यायु^{१८}-युव: ऋपा ९, १६१.
 मध्वगाहे^{१९} बौगृ १, ४, ४.
 मध्वागाहे^{२०} भागृ १, १७: १३.
 ✓मन् (वधा.)^{२१} पाधा. दिवा. आत्म. ज्ञाने; तना. आत्म. अत्रवोधने, ऋमनामहे आपश्रौ ९, ३, २०; १०, १७, ९; १७, ७, ४; बौश्रौ; या ६, २५९; मनै या ९, २८१^{२२}.
 मन्यते शाश्रौ १६, ३४, ४^{२३}; आपश्रौ; मन्येते वृदे ३, १००; मन्यन्ते बौश्रौ १०, ५४: २१××; वाधुश्रौ; या ४, १६; ७, १७××; मन्यन्ति या १०, २९; मन्यसे शाश्रौ १२, २२; १^{२४}; वाधुश्रौ ३, ४०: ७; मन्ये आश्रौ २, १४, ३५^{२५}××; शाश्रौ; पाग १, ४, ५७^{२६}; मन्यामहे आपश्रौ १९, २२, १५××; वाधुश्रौ; मन्यताम् माश्रौ १, २, ६, १८^{२७}; या ९, १३; अमन्यत निसू २, १२: ११; वाघ ५, ८^{२८}; अमन्यन्त बौश्रौ १८, २९: २०; वाधुश्रौ ३, १७: ९; मन्यथा: या ३, २०^{२९}; मन्येत आश्रौ ६, ८, ८; ८, १३, ४; शाश्रौ; वाघ २, १०^{३०}; हिघ १, १८^{३१}; या २, ४^{३२}; मन्येत विघ ३०, ४७^{३३}; मन्वेरन् आश्रौ

a) विप. (आदित्य-) कस. > बस । b) वैप १ द्र. । c) अस. उप. = वर्षा- । d) मां इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. मूको. शांगृ. पागृ. च; वैतु. माष्यम् अन्यथादर्शि) । e) = कर्मन्- । तत्रमवीयः प्र. । f) = ष्ळे (स१) । g) मां इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. बौध.) । h) तु. पागम. । i) बस. । j) = छन्दो-विशेष- । k) = साम-विशेष- । l) पामे. पृ १९१० p द्र. । m) या ३, ७; ४, ४; १०, २९ पा १, ४, १०६; २, ३, १७; ६, ४, ३७; ७, ३, ७८ परामृष्टः द्र. । n) पामे. वैप १, २४११ f द्र. । o) विभक्तिप्रतिरूपकम् अर्थ. । p) पामे. वैप २, ३४. अनुमन्यताम् तैत्रा ३, ७, ५, २ टि. द्र. । q) पामे. वैप २, ३४. मन्येत संज्ञा ३ टि. द्र. ।

७, ११, २१; १२, ८, ३५; वाधुश्रौ;
मन्वेयाः द्राश्रौ १०, २, १३;
लाश्रौ ३, १०, १५.
मनुते बौध २, ६, ३३१; ऋमन्वते
आपश्रौ ३, १२, १; बौश्रौ;
वृदे १, २४५; कौशि ६४५;
ऋमन्वे आपश्रौ २०, २३, ४;
बौश्रौ; वैताश्रौ १५, १३^३;
ऋमन्महे अप ४८, १२; अअ ४,
२४^३; २९; निघ ३, १९;
ऋमन्वत आश्रौ ४, ६, ३; शाश्रौ
५, ९, १६; १५, ३, ७; नाशि २, १,
८; मनुताम् या ९, १३१^३;
ऋमन्वै आपश्रौ २४, १३, ३;
बौश्रौ ३, २८ : ११; अमन्वत
आश्रौ ९, ८, ३१; बौध ३, ८, ९;
ऋया २, ६; ४, २५^३.
मेने ऋश्रौ १८, ४४ : ३; ४७ :
१; कप्र २, ८, २४; वाध;
मेनिरे शाश्रौ १५, २६, १^३;
मनिष्ये शाश्रौ १, ५, ९^१; मंसते
ऋया १४, २६; २७; ऋमसीय
आश्रौ^० १, २, १; ४, ९;
आपश्रौ; मंसीय या ३, ८^१;
ऋमंसोमहि ऋप्रा १६, ३२;
अमस्त निस् ३, ९, ४४; ऋमंसत
वैताश्रौ ३२, १७; या १, ४; १३,
४^३; अमंसि वाधुश्रौ ४, २२ :
४; अमनि^१ अप ४८, ५१^१.
मनयति लुस् ३, २ : ३२;
मानयन्ति या ३, २१.
रमत, ता- पा ६, ३, ४३; पाग

२, १, ५९; -तः बौश्रौ १६,
२७ : २४; अप ४७, १, १४;
२, १; शध २७९; वृदे १ ८४;
-तम् आश्रौ ३, १२, १^१;
२१, १२, ३^६; बौश्रौ २९, १ :
३; आमिगु; -ता शंघ १००;
वृदे २, १४३; कौशि ५४,
-ताः कप्र ३, ८, २; अप ४७
२, ३; ३; बौध १, ५, ९४; २,
२, ४७^१; शंघि १०; पाशि ३:
याशि २, ३; दंघि १, १०;
-तानि या १०, २६; १४, १४^३;
१९^३; -ते वृदे ३, १२२.
मत-वचस्^१ -> मातवचस्-
आश्रौ १२, ११, २; आपश्रौ
२४, ७, ६; बौश्रौ १८ : २;
हिश्रौ २१, ३, १०^३; वैध ४, ३, २.
मतवचो-वत् आपश्रौ २४, ७,
६; ७; बौश्रौ १८ : २; हिश्रौ
२१, ३, १०^३; वैध ४, ३, २^१.
मता (त-अ) क्ष^१ -क्षः बौश्रौ
१२, १५ : १८.
मय्य- पा ४, ४, ९७.
मनि- पा ३, ३, ९६; -ऋतयः वैश्रौ
१८, ५ ११; वैताश्रौ; अप
४८, ८५^३; निघ ३, १५^३;
-तिः आश्रौ ६, ३, १^१; शाश्रौ
९, ५, २^१; आपश्रौ; या ६,
१२; ११, १५^१; पा ४, ४, ६०;
-ऋतिभिः या ४, १९^४;
ऋप्रा ७, २७; -तिम् ऋआश्रौ
२, १५, २; ४, ६, ३; शाश्रौ;

विध ७१, ४८; वृदे ३, १४४;
या २, ११; ११, ११; -ती
बौश्रौ ५, १५ : १४^१; -तीः
काशु ७, ६; -ऋतीनाम् आश्रौ
६, ७, ६; शाश्रौ; या १४,
१२^३; -तौ या ३, १९; ७,
२२^४, -त्या काश्रौ ४, ८,
१७^४; वाध १०, १९.
मति-पूर्व^३ -ऋम्व बौध २, १,
६; -र्वे गौध १२, ४६.
मति-प्रवृत्त -से बौध ४, ३, १४.
मति-बुद्धि पूजा (जा-अ)थं-
थैम्यः पा ३, २, १८८.
मति-मत् -मत् वैताश्रौ ३७,
२^१; -मान अप ७०, ११, ३.
मति-मोहित -तः कौशि ४०.
ऋमति [ती^१]-विह^० -विदः
आश्रौ ६, १२, ११; शाश्रौ;
-विदे शुप्रा ३, ९७.
मत्वा ऋअ २, १०, ५६; वृदे.
ऋमन^० -ऋना आश्रौ ३, ७, ५;
वैश्रौ १८, ५ : १२; वैष्ट २, १०,
५; -नात् या ७, १२; १२,
३३; -नानि या ८, ६; १०,
४२; -नाय या ११, ४२.
मननीय -यैः या १०, ५.
ऋमनस् -पाउभो २, १, ३२१; पा
१, ४, ५७^३; ७, २, १८; पाग
३, १, २७; ५, ४, ३८; १०७;
-तः ऋआश्रौ १, ४, ९; २, ५,
१४; ७, ८५; १०, १६^४; ऋशाश्रौ
२, ७, ५^४; १६, ४, ६^३; काश्रौ

a) पाभे. वैप १, २४३१ f द्र. । b) पाभे. वैप १, २४३१ g द्र. । c) वैप १, २४३१ l द्र. ।
d) पाभे. वैप १, २४३२ a द्र. । e) पाभे. वैप १, २४३२ g द्र. । f) घा. भावने वृत्तिः । g) पाभे.
पृ ३३९ e द्र. । h) व्यप. । बस. । i) चसव^० इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ. प्रमृ.) । j) बस. उप.
= १ अक्ष- । k) मेधावि-नामन्- । l) पाभे. वैप १, २४३२ k द्र. । m) बस. । n) शुप्रा. पाठः ।
o) वैप १ द्र. । p) नियमार्थे अव्य. इति पागम. । q) तु. आन. । नमः इति BI. ? । r) सपा. मा २३, २५
प्रमृ. सुखम् इति पाभे. ।

२, १, १८××; ७, ४, ३५^५;
 ऋआपश्रौ १, १०, ५××; १०,
 १८, ३^५; १६, ३२; ३^५; १७,
 २३, ११^५; १८, १७, ७^०; काश्रौमं;
 वीश्रौ १२, १२: ९^०; १३:
 २४^०; माश्रौ २, १, ३, ११^५;
 ऋवाश्रौ २, २, ५, ७^५; ३, ३,
 ३, ५^०; वैश्रौ १२, ७: ११^५;
 हिश्रौ १०, २, ६५^५; १३, ६,
 ८^०; ९^०; २२, १, १५^५; कौश्र
 ३, ५, ४^०; आग्निश्र १, १, ४:
 ३७^५; काश्र ४१, १८^५; बौश्र
 १, ५, २९^५; माश्र १, २२,
 ११^५; वाश्र ५, ३०^५; वैश्र ३,
 ८: ६^५; हिश्र १, ८, ४^५;
 जैश्र १, १२: ४२^५; पाशि ६^३;
 माशि २, १२; याशि १, २३;
 भाशि ४४; नाशि १, ६, १२;
 आश्रौ ७, १८; -नसः ऋआश्रौ
 १, ७, २; २, ११, ८^५; शाश्रौ;
 आपश्रौ १०, ११, ४^५; माश्रौ
 २, १, २, २०^५; हिश्रौ १०, २,
 १४^५;^५; या २, २५××; पा ६,
 ३, ४; -ऋनसः बौश्रौ ४, १०:
 २४; वैताश्रौ; -नसा आश्रौ २,
 ३, १९××; शाश्रौ १, ११, १^५××;
 ३, १९, ३^५; काश्रौ; आपश्रौ
 ३, ११, २^५; ६, २७, ३^५; ५^५;
 ११, १८, ७^५; १६, १६, ४^५;
 बौश्रौ १, २१: १६^५; १८^५; ६,
 ५: २५^५; २१, ९: २२^५; २४,

२: ९^५; भाश्रौ १०, ७, ३^५;
 वाधूश्रौ ४, ७१: ४^५; वैश्रौ १२,
 १०: ११^५; १४, १७: १^५; १८,
 १४: १२^५; हिश्रौ २, ६, २^५;
 ऋआमं १, ४, १६^५; ५,
 १८^५; २, २२, १३^५; आग्निश्र
 १, १, २: ७^५; ५, ४:
 १२^५; ६, ३: ५६^५; २, ७, २:
 २४^५; बौश्र २, ६, २९^५; माश्र
 २, ३०: १८^५; हिश्र १, ३, ६^५;
 २६, १३^५; ऋश्रौ ५, १३^५;
 ९७, ४^५; या २, ४^५; ३, ३-५××;
 १४, २२^५; -नसाम् या १, ९;
 १३ १३; -नसि आपश्रौ ११,
 १, ६^५; बौश्रौ; या ११, १९;
 -ऋनसे काश्रौ २, १, १८; आपश्रौ;
 -नांसि वाधूश्रौ ४, ६७: २; ३;
 ६; आपमं १, ३, १४^५; काश्र.
 मानस^०- पा ५, ४, ३८;
 -सः वैताश्रौ ३३, २७^५; अश्राय
 ६, ३^५; वाध २६, ९; विध ५५,
 १९; या १४, ९; -सम् शाश्रौ
 १०, १२, ३; आपश्रौ; -सत्य
 बौश्रौ १६, ७: १२; जैश्रौ १५: १४;
 -सात् निसू ५, १०: ७; ९, ७:
 ११; बौध १, ११, ३८; -सान्
 अश्र ४७, १, ५; -से निसू १०,
 ७: २१; बौध १, ११, ३९;
 याशि १, १२; -सेन आश्रौ ८,
 १३, ३; शाश्रौ १०, १३, २६;
 द्राश्रौ ९, ४, ४; लाश्रौ ३, ८, १;

निसू ४, ८: १८; -सेषु आश्रौ
 ८, १३, २१.
 मानस-ना- -तया निसू
 ४, ६: २०.
 मानस-वत् द्राश्रौ १५,
 ३, १३; लश्रौ ५, ११, १३.
 मानस-संयुक्त- -क्ता:
 निसू ९, ७: ८.
 मानस-स्तोत्र- -श्राव
 वैताश्रौ ३३, २५.
 मानसीन^०- -नः बौश्रौ १२,
 ७: ६; -नेन वाधूश्रौ ३, ४२:
 १०.
 मन-आवर्तन- -नम् ऋश्र २,
 १०, ५८; वृदे ७, ९०.
 मन-न्यून- -तम् विध ९६, १७.
 मन-प्रियतम- -मानि आश्रौ
 ७, १.
 मनश्-चक्षुस्- -क्षुषोः आपश्र
 ३, २१.
 ऋमनश् चिन्^५-चिन्^५ अश्र ४८,
 ८५; निध ३, १५; -चिन्ते बौश्रौ
 १०, २३: १५; वैश्रौ १८, १४:
 ३३.
 मनश्-शुद्धि- -द्धिः बौध १, ५,
 ३.
 ऋमनः [श्र^५] -श्रुम- -मा:
 आग्निश्र ३, ४, २: १६; बौपि ३,
 २, ३; गौपि १, २, ४१.
 मनस-पति^०- -तिः शुश्र १,
 १४०.

- a) पांशे. वैप १, २४३४ f द्र.। b) सपा. मै २, १३, ३ पृथिवीम् इति पांशे.। c) पांशे. वैप १, २४३४ g द्र.। d) मनः इति पाठः १ नमः इति शोचः (वृ. तै ३, ३, ९, १)। e) सपा. शंश्र ३, ९, १ अंसः इति पांशे.। f) पांशे. वैप १, २४३४ d द्र.। g) सपा. मनः <> मनांसि इति पांशे.। h) पांशे. वैप २, ३३. मन्सा तैत्रा २, ४, ६, १२ टि. द्र.। i) पांशे. वैप १, २४३५ k द्र.। j) उत्तरेख संघिराषः। k) पांशे. वैप १, २४३६ n द्र.। l) पांशे. वैप १, २४३६ g द्र.। m) पांशे. वैप १, १९०८ f द्र.। n) पांशे. वैप १, २२६७ r द्र.। o) विप. (स्तोत्र- प्रह- अहन्- प्रसृ.)। वैप १ द्र.। p) तस्येदमैयः ख्व प्र. उखं. (पा ४, ३, १)। q) वैप १ द्र.। r) मेवादि-नामन्-। s) बौपि. पाठः। t) = ऋषि-विशेष-।

मनसि√कृ पा १,४,७५.
 मनस्-पाप^० - ०प शौच २,७९.
 √मनस्य पा ३,१,२७.
 मनस्यमान-नेन या ३,७.
 †मन(स्य) > स्या^० - स्याम्
 आपमं २,२१,३३; भाग्य २,२६:
 १३; हिय १,१५,६०.
 मनस्-वत् -वते बौश्रौ १३,१३:
 ६; -†वान् वैताश्रौ ३३, १२;
 या १०,१०.
 मनस्वती- ती^० बौश्रौ २७,
 १०:३; २८, ११:१०; २९,
 १२:२; आसिय २, ६, ५:३;
 बौग्य २,९,८; ४,६-७, १; भाग्य
 ३,१५:१३; -ती^० माश्रौ १,
 १,२,४०; वाश्रौ १,२, ३, ३३;
 ७,४,५५; बौग्य^० ४,१०, १; ३;
 -तीभिः आपश्रौ १, १०, ५;
 भाश्रौ १, ९, १३; हिश्रौ २, ७,
 ५३; -तीभ्याम् आपश्रौ १६,
 ३, १; बौश्रौ १८,१:२९; हिश्रौ
 ११,१,२५; -तीम् बौश्रौ^० २७,
 ९:१०; ११:३; २८,१०:५;
 वैश्रौ^० २०,११:१२; २६:१२;
 हिश्रौ ५, ४, ८८^०; आसिय^० २,
 ७, २:२१; ३, ९,२:८; बौग्य
 ४, ९, १२^०; वैग्य ६, १६:७^०;
 हिय १, २६, १३^०; अय २२,
 ९, ३^०; -त्या बौश्रौ २७, ५:
 १२^०; वैश्रौ २०,१४:६^०; भाग्य
 ३,२:१०^०.
 मनस्वती-मिन्दाहुती-

महाव्याहृति- तीनाम् आसिय
 २,७,४:१७.
 मनस्वती-मिन्दाहुती-
 व्याहृति- तीभिः आसिय २,
 ७,४:१६.
 मनस्-विन्- वी या १०,१०.
 मनस्विनी-> नी-त
 (म>)मा- मा: वाधुश्रौ ४,
 ४७:१०.
 मनस्वी/भू > स्वी-माव-
 -वे या ३,७.
 मनः-संयमन- नात् शंघ ३७२.
 मनः-समाधाना(न-अ)र्थ- र्थम्
 बौध १,२,२७.
 मनः-समेत- तानि आज्यो ७,
 २३.
 मनो-गत- तान् बौध ४,५, १.
 मनो-ग्रह^० - हम् हिश्रौ १६, ४,
 १५; -हाय आपश्रौ २१, १०,
 १; हिश्रौ १६,४,१४.
 मनो-ग्रहण- गम् अत्र २, ३०.
 †मनो-जव^० - वेपु या १,११.
 २मनो-जव^० - वा: अय २०,
 २,१;४; -†०वा: माश्रौ १,१,
 २,१२^०.
 मनोजव-ता- ता आपघ
 २,२३,८^०; हिघ २,५,१६१.
 †३मनो-जव^० - वा^० वाअ १७:
 ११; -वै: आसिय २,५,८:११;
 बौग्य २,७,१६; हिय २, ८, २.
 †मनो-जवस्^० - वस: आपश्रौ
 १,७, १३^०; -वसम् माश्रौ ५,

२,६,१९; आसिय २, ५, १०:
 ८; -वसाम् चाअ १६:८५;
 -वा आपश्रौ २२, २६, ११;
 बौश्रौ ४, ३:१^०; १८,९:३६;
 हिश्रौ २३,४,२६; सु ३१, ९५;
 आसिय २, ४, ६:३५; माशि
 ८,७^०.
 †मनो-जात^० - ता: आपश्रौ
 १०,१७,९; बौश्रौ ६, ७:१०;
 भाश्रौ १०,१०, १४; वैश्रौ १२,
 १३:३; हिश्रौ १०, २, ५७;
 बौध ३, ६, १५; विघ ४८, ८.
 †मनो-जुष्- जुष: विघ ४८,
 ८^०.
 मनो-ज्ञ,ज्ञा^० - पाग ५,१, १३३;
 ६, ३, ३३; -ज्ञम् वैग्य ३, ५:
 १०; -ज्ञाम् आसिय १, ६, १:
 २; विघ ९०, ७; -ज्ञाय वैश्रौ
 ८,१४:५; -ज्ञेन हिय १, २३,
 २; -ज्ञेषु विघ ८५,६३.
 मानोज्ञक- पा ५,१,१३३.
 मनो-दत् > ता^० - ता काष
 २८०:२.
 मनो-दुष्ट > ष्टा- ष्टा विघ
 २२,९१.
 मनो(नस्-अ)नु (ग>)गा-
 -गाम् माशि २,१४.
 मनो-ने(त्र>)त्रा^० - त्राम्
 आश्रौ ४,१३,२.
 मनो(नस्-अ)भिधान- ने पावा
 ७,२,१८.
 मनो(नस्-अ)मिरा(म>)मा^०-

a) वैप १ द्र. । b) तात्रभक्तिः यत् प्र. । c) वैतु. Böht (ZDMG ५२,८४) मानसीम् इति शोधः? (तु. पृ ५७४ e) । d) = आहुति-विशेष- । e) = ऋग्-विशेष- । f) = ग्रह-विशेष-, (उपचारात्) आहुति-विशेष- । कस. । g) बस. । h) सप्र. ष्वा: <> ष्वसः इति पाप्मे. । i) ष्ताम् इति पाठः? यति. शोधः (तु. हिघ.) । j) पाठः? ञ्वैः इति शोधः (तु. मै २,९,१ आसिय. प्रग्य. च) । k) पाप्मे. वैप १,२४३८ f द्र. । l) पाप्मे. वैप १,२४३९ b द्र. । m) पाप्मे. वैप १, २४३९ f द्र. । n) उप. < √दा [दाने] । o) तु. बृहस्पति-नेत्र- (वैप १) । p) विप. । उस. ।

-०मे विध १९, २४.
 मनो-मन्थन- -नम् अत्र २, ३०.
 मनो-युञ्- -युक् वाधुशौ छ,
 ३६; ३; -ङ्गुञ्-^b आपश्रौ १०,
 १७, ९; बौश्रौ ६, ७; १०; माश्रौ
 १०, १०, १४; माश्रौ २, १, ३, ६;
 वैश्रौ १२, १३, ३; हिश्रौ १०, २,
 ५७; बौध ३, ६, १५.
 मनो-रम, मा- -मा अप ५९, १,
 ८; -मे वैगृ छ, १३; ७; -मैः
 अप १९^३, ४, ३.
 मनो-वश- -शन विध ७२, ६.
 मनो-वाक्-काय-कर्मन्- -र्मभिः
 वैध २, १५, ११.
 मनो-वाक्-प्राण-चक्षुस्- -क्षुषाम्
 वैश्रौ १६, ७; १०.
 मनो-वाग्-देह-भोजन- -नैः वृदे
 ६, १४३.
 मनो-हन्-^a -हा पागृ २, ६,
 १०; अत्र १६, ११.
 मनो-हर, रा- -रः अप २१, २, ५;
 ६८, ५, २६; ७०^३, ४, ५; -राणि
 अप २१, १, ३; -रान् अप ६८,
 ३, ४; -राम् अशां ३, २; -रे
 अप १९^२, १, ४; २०, १, ३; -रेषु
 विध ९९, १३.
 मनीषा^a - पाग^d ५, २, १३६; ६, ३,
 १०८; पावाग ६, १, ९३;
 -षया ङ्गुआपश्रौ छ, १, ८; ९;
 १०^३; बौश्रौ; या २, २५^६; ९,
 १०^६; -ङ्गुषा आश्रौ २, १९,
 २२; ३, ७, ७xx; शाश्रौ; -षाः
 आश्रौ २, १९, २४; ऋषा २, ५९;
 -षाणाम् आपमं २, ११, २७^३;

-षाम् या १४, १४^१.
 मनीषा-वन्- पा ५, २, १३६.
 मनीषित- पाग ६, ३, १०८^d.
 मनीषिन्^e - पा ५, २, १३६;
 -षिणः शाश्रौ ६, ४, ९^१;
 आशिणः या १३, ९^१६;
 -ङ्गुषिणः ऋषा २, १०, १११;
 वृदे ८, ३८; -षिणाम् वैगृ ५,
 ४; ३५^१; आज्यो १४, ९^१;
 -ङ्गुषिणे अप १, ३९, २; अशां
 ९, २; -षिभिः ङ्गुअप १, ३८,
 २; ५; ३९, ४; अशां; -षी
 अप ४८, ८५^१; बौध २, ६, ३०;
 निध ३, १५^१.
 मन्तवै^a या ३, ३^१६.
 मन्तव्य- -व्यः या ३, ३; नाशि
 २, ५, ५.
 मन्तु^a - पाउ १, ७३; पाग ३, १,
 २७.
 √मन्तूय पा ३, १, २७.
 मन्त- पाउवृ २, ९४.
 मन्त्र^a - पाउभो २, ३, ८५; पाग २,
 १, ५९^d; ६, १, २०३; -०न्त्र
 विध १, ५३^६; -न्त्रः शाश्रौ २,
 ८, १८; ७, ४, १६; काश्रौ;
 या १, २; ५, ४xx; नाशि १,
 १, ६^h; पा छ, ४, १२५; -न्त्रम्
 शाश्रौ ३, २०, १८; काश्रौ; -न्त्रस्य
 आपश्रौ ९, १३, १२; माश्रौ;
 मीस् ११, ४, ३७^१; -न्त्राः
 आश्रौ १, १, २१; काश्रौ १, ३,
 १; ङ्गुआपश्रौ ५, १९, ४; ८, १३,
 ६xx; बौश्रौ; -न्त्राणाम् आश्रौ
 ३, २, १८; शाश्रौ; -ङ्गुआप

आश्रौ छ, १३, १; आपश्रौ;
 -न्त्रान् आपश्रौ छ, १, ३;
 बौश्रौ; -न्त्राभ्याम् आपश्रौ
 १६, १४, ९; बौश्रौ; -न्त्रे
 आश्रौ १, ११, १०; १२,
 ३१; काश्रौ; पा २, ४, ८०;
 ३, २, ७१; ३, ९६xx;
 आज्यो ८, ५^१; -न्त्रेऽन्त्रे
 वृदे १, २; १२; वृत्र छ, १५७;
 -न्त्रेण आश्रौ १, ३, २९; शाश्रौ;
 -न्त्रेभ्यः हिश्रौ छ, १, ४४; या
 १३, ११; -न्त्रेषु वागृ १, २, ५;
 कप्र; पा ६, ४, १४१; -न्त्रैः
 आश्रौ १, ११, १०; आपश्रौ;
 -न्त्रौ आपश्रौ १६, २४, १५;
 द्राश्रौ ३, २, ९; १५; लाश्रौ १, १०,
 ७; ११; मागृ १, ३, ४.
 मन्त्र-करण- -णे पा १, ३, २५.
 मन्त्र-कर्मन्- -र्म बौश्रौ २१,
 ४; ९xx; शंघ; -र्मणि अप
 २, ६, ५; २६, ३, ४; ७०^३, १, २.
 मन्त्र-कार^a - पा ३, २, २३; -रः
 मागृ १, ८, २.
 मन्त्र-कृत^a - -कृतः काश्रौ ३,
 २, ९; आपश्रौ २, १६, ६xx;
 बौश्रौ; -कृताम् कागृ ४१, ११^१;
 -ङ्गुकृत्यः आश्रौ ८, १४, १८;
 बौश्रौ ९, १९; ८; बौगृ ३,
 ४, ५.
 मन्त्र-कृत- -तम् बौश्रौ २७,
 १; २; -तस्य जैगृ २, १;
 ३८^१.
 मन्त्र-कृष्ट-वत् काश्रौ १८, २,
 १०.

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १, २४३९ b द्र. । c) विप. । उस. । d) तु. पागम. ।

e) <१मन्स- + √ईक्ष इति शाकटायनः (तु. पागम.) । f) षी^० इति पाठः ईयनि. बोधः । g) यन्त्र^०
 इति जीसं. । h) वै मन्त्रः इत्यस्य स्थाने वि मन्त्रः इति लासं. । i) तु. ज्ञान. । j) = शुभ-वाद- । k) उष.
 <√कृ[करणे] । l) विप. > नाप. ।

मन्त्र-क्रम- -मेग काश्रौ १७,
५,१७^६; १२, १०; २६, ४, १७;
७, १३.
मन्त्र-क्रिया- -वा शंघ ३३८.
मन्त्र-गण- -णम् शुभ्र ३,
१४३; २१६; ४, १६१; -णेन
हिश्रौ ३, ८, १९.
मन्त्र-गणा(रा-आ)म्नात-
-तानि बौश्रौ २७, १: १; २:
२३.
मन्त्र-घृ(त>)ता^६- -ता:
बौश्रौ २२, ८: २२.
मन्त्र-विकीर्षा(र्षा-अर्थ)- -र्थम्
मीसू ९, ३, ८.
मन्त्र-चोदना- -नयोः काश्रौ
१, ५, ७.
मन्त्र-ज्ञ- -ज्ञेषु शंघ २५१.
मन्त्र-तस(ः) आपश्रौ ३, ११,
२१; बौश्रौ.
मन्त्र-त्व- -त्वे मीसू १०, ४,
२१.
मन्त्र-दर्श-विद्^०- -वित् अप
३१, ३, १.
मन्त्र-दर्शिन- -र्शिमिः वृदे १,
३४; -र्शौ वृदे ५, ६६.
मन्त्र-दूर्वा^६- -र्वा बौश्रौ २२,
५: १९.
मन्त्र-दृश्- -दृग्भ्यः वृदे १, १;
-दृशम् वृदे ५, ५८.
मन्त्र-दृष्टि^०- -दृष्टयः या ७, ३;
-दृष्टि वृदे १, ३.
मन्त्र-देवता- -ताभ्यः शांघ १,
३, ४.

मन्त्र-दैवत-ज्ञ- -ज्ञः शुभ्र ४,
१५६.
मन्त्र-दैवत-वर्जि(त>)ता-
-ता कप्र १, ८ २१.
मन्त्र-दैवत-विद्^१- -वित् वृदे
८, १३३.
मन्त्र-दृष्ट- -ष्टा अत्रभू १.
मन्त्र-निरुस- -प्तम् बौश्रौ २३,
२: १३; १८: ४.
मन्त्र-पति^६- -तिभ्यः आश्रौ
८, १४, १८; बौश्रौ ९, १९: ९;
बौघ ३, ४, ५; वैघ २, ११: ५;
-तीन् बौश्रौ ९, १९: १७; बौघ
३, ४, ११.
मन्त्र-परिक्रम^६- -मान् कौसू
७३, १९.
मन्त्र-पवित्र^६-वत्- -वान् अप
६९, ८, २.
मन्त्र-पाठ-फल- -लम् अत्रभू ८.
मन्त्र-पुरी(ष>)षा^१- -षा
बौश्रौ २२, ८: १५.
मन्त्र-पूत- -तः विघ ८३, १३;
-तम् कागुउ ४६: ९; -तस्य या
१३, ६.
मन्त्र-पृथक्त्व- -त्वात् शाश्रौ १,
२, २४.
मन्त्र-प्रणिधि^१- -धयः शंघ
२५१.
मन्त्र-प्रतिलाभ- -भात् बौश्रौ
२०, २: ३२.
मन्त्र-प्रत्यभिर्मान- -नम् बौश्रौ
२०, २: २८.
मन्त्र-प्रयोग- -गः माश्रौ ४, १,

३२; वाघ ९, ३; कप्र ३, ९, १४
-गात् वाघ २, ३; -गे माश्रौ
५, २, १५, १३.
मन्त्रप्रयोग-मन्त्र- -न्त्रयोः
वृदे ५, ९४.
मन्त्र-बल- -लम् काश्रौ १,
५, ७.
मन्त्र-ब्राह्मण^६- -णम् बौघ २, ६,
२; ३, २, ६३; मैत्र ३; -णयोः
आपश्रौ २४, १, ३१^१; हिश्रौ १,
१, ७; कौघ ३, १२, २३; बौघ
२, ६, ३; चव्यू २: २१; -णानि
वाघ ६, ३२; -णे आपश्रौ २४,
१, ३०; हिश्रौ २३, ३, ३३;
बौघ २, ६, ४; ५.
मन्त्रब्राह्मण-मात्र- -त्रम्
बौश्रौ २८, १०: ८.
मन्त्रब्राह्मण-विद्^१- -वित्
वाघ ३, १९; गौघ १५, २८.
मन्त्र-ब्राह्मण-कल्प- -ल्शानाम्
चव्यू २: ३९; -ल्यैः या १३, ७.
मन्त्रब्राह्मणकल्प-पत्रुमेघ-
महावता(त-अ.ष्टापदी-वैषुवत^१-
-तानि माघ १, ४, १२.
मन्त्र-मार्ग-प्रमाण^३- -णम् बौघ
४, ६, ९.
√मन्त्रय > मन्त्रयु- पाउना
१, ३७^३.
मन्त्र-लिङ्ग- -ङ्गात् काश्रौ ९,
४, २४; १९, २, ७; मीसू १०,
३, १३.
मन्त्र-लोप- -पात् आश्रौ २,
१९, २७.

a) तु. चौसं. । b) बस. । c) षस. > उस. उप. <√विद् [ज्ञाने] । d) = [दूर्वाशब्दवती] इष्टका-विशेष- । e) सस. । f) उप. <√विद् [ज्ञाने] । g) वैप १ द्र. । h) तृस. उप. पवित्र- = पवित्रता- । i) = [पुरीषशब्दवती] इष्टका-विशेष- । j) मलो. कस. पू. = गुह्य-वादः, उप. = दूत- । k) दस. उप. = ब्राह्मण- । l) 'पदी वैषु' इति पाठः ? यनि. शोचः (तु. भाष्यम्, Knauer; वैतु. भाष्यम् अन्यथाव्याख्यानमिति) । m) मलो. कस. । मन्त्रमार्ग- = मन्त्रपाठ- इति भाष्यम् । n) <मन्त्र- +√या-

मन्त्र-वचन- -नम् काश्रौ १,
७,८; १०,२,३०; १८६,९.
मन्त्र-वत्- -वत्^a आश्रौ १,
१२, २३; आपश्रौ: आमिष्ट ३,
१०,४: २३, मागृ १, १०, २;
२, २, २; -वतः आमिष्ट ३,
१, १: ३; -वता आपश्रौ २४,
२, १४; बौध १, ७, ७;
-वताम् आश्रौ ६, ३०, ९;
२०; -वती आपश्रौ २, १४, ११;
भाश्रौ २, १४, २; वैश्रौ ६, ३:
१२; -वत्सु शाश्रौ ४, ६, १०;
काश्रौ ८, ५, ३४; आपश्रौ: -वन्तः
बौश्रौ २१, १: ६; २५; २२,
९: १९××; -वन्तम् आपश्रौ
१४, २३, ९; १०; बौश्रौ: -वन्ति
बौश्रौ २१, १: १०××; भाश्रौ;
-वान् बौश्रौ २०, १६: २४××;
गोय २, २, ८; १०, १७; द्रागृ
२, ४, १०.
मन्त्रवती- -ती बौश्रौ २१,
१९: ९; ११; २६: ३××;
-तीम् आपश्रौ १४, २३, ८;
बौश्रौ २६, ३१: ३; -त्यः बौश्रौ
२१, १३: २५; २४, ३६: ५;
-त्या आपश्रौ ५, १९, ३.
मन्त्र-वर्गम्^b वाश्रौ २, २, ५, ३.
मन्त्र-वर्जम् वैश्रौ १२, १२: १३;
पागृ १, ४, ११; आपगृ.
मन्त्र-वर्जित, ता- -तम् विध
७५, ७; -ता वैगृ ५, ९: ४;
-ताम् वैगृ ५, ९: १३.
मन्त्र-वर्ण- -र्णः निसू २, १२:
८; गोय ३, ४, १२; मीसू १०,
१, १३; -र्णाः या २, १६; -र्णात्
काश्रौ १, ४, १२; शुश्र ४, १९४;

मीसू ३, ५, ३८; ६, १, ५०; ९,
३३; ९, २, ५४.
मान्त्रवर्णि(क^c>)की-
-की शुश्र ३, १५६; -क्यः शुश्र
४, ११३.
मन्त्र-वह^d- -०ह विध १, ५३.
मन्त्र-वाक्या(क्य-अ)र्थ- -र्याः
वृदे १, ६०.
मन्त्र-विकार- -रः मीसू १०, ३,
२३.
मन्त्र-विद्^e- -वित् वाध ११,
२०; वृदे १, २२; ९०; ३, १३३;
५, ९३; -विदः आगृ २, ३, १०;
हिय २, १७, ८.
मन्त्रवित्-तम- -मः वृदे ३,
१३३; -मैः वृदे २, १२२.
मन्त्र-विधि- -धिः द्राश्रौ १, १,
२; लाश्रौ १, १, २; वागृ ९, २;
मीसू ३, २, २०.
मन्त्र-विपर्यास- -सम् आपश्रौ
१७, १९, ९; -से आमिष्ट २,
७, ४: ४; बौगृ ४, ११, १.
मन्त्र-विवर्जित- -ते बौध १, ५,
८३.
मन्त्र-विशेष- -षः गोय १, ३,
१२; ३, २, ४३.
मन्त्रविशेष-निर्देश- -शात्
मीसू १०, ४, २९.
मन्त्र-व्यतिरेक- -के बौश्रु ६:
१८.
मन्त्र-संस्कार-कर्तृ- -र्तुः शंघ
२८९.
मन्त्र-संस्कृत, ता- -तम् आपगृ
४, ३; आप ३६, २८, १; -ता
वाध १७, ७३; ७४; -ताः बौश्रौ
२४, ३६: ७.

मन्त्र-संताम- -मः आपगृ २, ८.
मन्त्र-समापन- -नात् आपश्रौ
१७, १७, ८; वैश्रौ १९, ६: ११४;
हिश्रौ १२, ६, १.
मन्त्र-सहि(त>)ता- -तया
काश्रौसं ३५: २.
मन्त्र-सागर- -रः याशि १,
३१.
मन्त्र-साधन- -ने अप ३६, ७,
२.
मन्त्र-सिद्धि- -द्धये शागृ ४, ५,
१६.
मन्त्र-स्कन्ध- -न्धम् आपगृ ४,
३.
मन्त्र-स्थान- -ने आपश्रौ २१,
६, १२; १५.
मन्त्र-स्नान- -नम् वैगृ १, ५:
२; ६.
मन्त्र-स्फिर्ज- -स्फिर्ज् विध १,
६
मन्त्र-स्वर- -रः भासू १, २.
मन्त्रस्वर-वत् भासू ३, २५.
मन्त्र-हीन- -नम् आमिष्ट २,
७, ७: २; वैगृ ७, ३: १२; -ने
बौश्रौ २८, ११: १.
मन्त्रहीन-ज- -जः वैध ३,
१३, १०.
मन्त्रहीनो(न-उ)पनीत^f-
-तः वैध ३, १३, ८.
मन्त्रा(न्त्र-आ)ख्या- -ख्या मीसू
२, १, ३०.
मन्त्रा(न्त्र-अ)तिरेक- -के हिश्रौ
२२, २, ६.
मन्त्रा(न्त्र-आ)दि- -दिः
आपश्रौ ८, ८, २१; १९, ९; २१,
१; -दिम् हिश्रौ ८, १, ७८.

a) क्विद् वा. क्वि. । b) पाठः ? 'वर्जम्' इति शोधः । c) तत्रमवौषष् ठक् प्र. । d) = विष्णु ।
उस. । e) उप. < √विद् [ज्ञाने] । f) विप. (वराह-विष्णु-!) । बस. । g) सुस्पृपीयः समासः ।

२मन्त्रा(न्त्र-आ)दि^३ - > ष्य-
(दि-अ)र्थे - थंस् पावा १, १,
६८.

मन्त्रा(न्त्र-आ)नर्थक्य- -न्यम्
मीस् १, २, ३९.

मन्त्रा(न्त्र-अ)नादेश- -शे
वैताश्रौ १, ३; द्राष्ट २, २, १६.

मन्त्रा(न्त्र-अ)नुदिशम्^० बौश्रौ
२०, २६: १७; २२, ९: २५.

मन्त्रा(न्त्र-आ)नुपूर्व्य- -र्व्यम्^०
बौश्रौ २, ६: १४; -व्यात् माश्रौ
४, १, २.

मन्त्रा(न्त्र-अ)नुलोकम्^० बौश्रौ
२०, २६: १७; २२, ९: २५.

मन्त्रा(न्त्र-अ)नुवाक् -का: मैअ
१०.

मन्त्रा(न्त्र-अ)न्त- -न्तम् वाश्रौ
१, १, ३, १६; हिश्रौ १, ४, ३;
द्राष्ट १, १, १८; -न्तान् आपश्रौ

१९, २५, ६; आप्रिण्ड; -न्ते शाश्रौ
१, २, २५; माश्रौ; -न्तेन शाश्रौ

१, २, २६; माश्रौ; -न्तै: काश्रौ
१, ३, ५; आप्रश्रौ २४, २, १;
भाश्रौ १, २, २.

मन्त्रा(न्त्र-अ)न्तर- -रे काश्रौसं
३१: ३.

मन्त्रा(न्त्र-अ)न्तर्भू(त>)वा-
न्ता: शुअ १, ७.

मन्त्रा(न्त्र-अ)भिवाद- -दात्
द्राष्ट १, ३, ४; ३, १, ९.

मन्त्रा(न्त्र-अ)भ्यास- -स: बौष्ट
२, ८, ८; मीस् ११, ४, ४७.

मन्त्रा(न्त्र-अ)मन्त्र- -न्त्रे बौश्रौ
२०, १६: २४; २१, १: ६××.

मन्त्रा(न्त्र-आ)ज्ञान- -नात् काश्रौ
६, ३, १८; २०, ७, २.

मन्त्रा(न्त्र-आ)ज्ञाय- -ये कप्र

३, ६, १.

मन्त्रा(न्त्र-अ)र्थ- -र्थम् शुअ ४,
१५८.

मन्त्रार्थ-चिन्ता(न्ता-अ)
भ्यूह- -ह: -हस् या १३, १२.

मन्त्रार्थ-ज्ञान- -नात् शुअ
४, १५९.

मन्त्रार्थ-नानात्व- -त्वात्
मीस् ११, ४, ४२०.

मन्त्रार्थ-प्रत्यय- -याय या
१, १५.

मन्त्रार्थिन्-> ०र्थि-त्व-
-त्वात् मीस् १०, ३, १५.

मन्त्रा(न्त्र-अ)वहत- -तम् काश्रौ
१४, ४, ९.

मन्त्रा(न्त्र-आ)वृत्ति- -त्ति:
काश्रौ ७, ९, ११; ८, ३, २९; ५,
२०.

√मन्त्रि, ऋमन्त्रयते अण ४८,
९; निघ ३, १४; मन्त्रयन्ते

वाधूश्रौ ३, १८: १६; मन्त्रयते
अण ३७, ४, १; मन्त्रयेरन् माश्रौ

१, ५, ५, १६.

मन्त्रणा-> ०णा(णा-अ)हं-
(> ०र्हीय- पा.) पाण ४, २,
९०.

मन्त्रिन्- पाण ३, १, १३४;
-न्त्रिणः अप १, ३१, ६; ५८^३,

४, ७; ६३, ४, २; -न्त्रिणम् अप
५, ५, ३; १९, १, १२; -न्त्रिणाम्

अप ५३, ६, २; ७१, १९, ५;
-न्त्रिभिः वाध १६, २०; -न्त्री

वाध १६, २.

मन्त्रै(न्त्र-ए)कदेशा (श-अ)
भ्यास- -स: जैश्रौ २६: १०.

मन्त्रो(न्त्र-उ) क्त, क्ता- -क्त:
अश्र ७, ३६; -क्तम् वैताश्रौ ३०,

२७; कौस्; -क्तस्य कौस् २६;
१४; ३६; ३१, २२; -क्ता: कौस्

३९, ५; अश्र ३, २४××;
-क्तान् कौस् १९, २२××; अश्र

१, १××; -क्तानि वैताश्रौ ११,
१५, कौस् ३४, १४××; -क्ताम्

वैताश्रौ १, १४; अश्र ४, १२××;
-क्ते वैताश्रौ ५, ७; कौस् ३५, ८;

अश्र ६, ४३; -क्तेभ्यः कौस् ७७,
२३; -क्तेषु कौस् ७७, ११;

-क्ते: कौस् ४६, ४२; -क्तौ कौस्
३५, २०; ८०, ४.

मन्त्रोक्त-ऋमैमात्र-देवता-
> ०य- -त्यम् अश्र १९, ६८.

मन्त्रोक्त-काम-देवत- -तम्
अश्र १९, ५२.

मन्त्रोक्त-कुष्ठ-देवता->
०य- -त्यम् अश्र १९, ३९.

मन्त्रोक्त-गुल्गुलु-देवताक-
-कम् अश्र १९, ३८.

मन्त्रोक्त-गृध्र-देवता->
०य- -त्यम् अश्र ७, ९६.

मन्त्रोक्त-तपो-देवता->
०य- -त्यम् अश्र १९, ४१.

मन्त्रोक्त-त्रिषंधि-देवता->
०य- -त्यम् अश्र ११, १०.

मन्त्रोक्त-दन्त-देवता->
०य- -त्यम् अश्र ६, १३९.

मन्त्रोक्त-दर्भमणि-देवता-
> ०य- -त्यम् अश्र १९, २८.

मन्त्रोक्त-दुःस्वप्ननाशन-
देवता-> ०य- -त्यम् अश्र ७,
२३.

मन्त्रोक्त-देव- -वान् अश्र १,
२५; ३, ११××; -वौ अश्र ७, ८.

मन्त्रोक्त-देवता- -ता: अश्र
१, १७; ४, ६; ७, १५; -तायाम्

वैताश्रौ ३१, ४१^a; -ताम् अश्र
२, २४; ५, ११; ६, ९; १७;
-ते अश्र २, ९.

मन्त्रोक्तदेवता-स्तुति-

-ति: अश्र ६, ५५.

मन्त्रोक्तदेवत्य, त्या-

-त्य: अश्र ११, ३(३); -त्यम्
अश्र ६ ११××; -त्यया अश्र ७,
१२; -त्या अश्र १९, ४; -त्या:
अश्र १०, ५; ११, ३(२)××;
-त्ये अश्र ६, ४०××.

मन्त्रोक्त-देवताक-कम्

अश्र २, १४; ५, २९.

मन्त्रोक्त-देवपत्नी-देवताक-

-कम् अश्र ७, ४९.

मन्त्रोक्त-देवत-तम् अश्र

६, ८९××; -ते अश्र ७, ९९.

मन्त्रोक्त-नक्षत्र-देवता->

त्य-त्ये अश्र १९, ८.

मन्त्रोक्त-नानादेवता->

त्य-त्ये अश्र ६, ७४.

मन्त्रोक्त पितृ-देवता->

व(त्य>)त्या-त्या: अश्र १८,
१.

मन्त्रोक्त-पिप्पली-देवता-

> ०य-त्यम् अश्र ६, १०९.

मन्त्रोक्त-प्राण-देवता->

त्य-त्यम् अश्र ११, ४.

मन्त्रोक्त-फालमणि-देवता-

> ०त्य-त्यम् अश्र १०, ९.

मन्त्रोक्त-बहुदेवता-> ०त्य,

त्या-त्यम् अश्र ५, २७××;

-त्या: अश्र १९, १६; २४.

मन्त्रोक्त-ब्रह्मचारि-देवता-

> ०त्य-त्यम् अश्र ११, ५^b.

मन्त्रोक्त-ब्रह्म-देवता->

व(त्य>)त्या-त्या: अश्र
१९, ४२^c.

मन्त्रोक्त-मन्यु-देवता->

त्य-त्यम् अश्र ६, ४२.

मन्त्रोक्त-मन्युशमन-

देवताक-कम् अश्र ६, ४३.

मन्त्रोक्त-मरुद्-देवताक-

-कम् अश्र ७, ७७.

मन्त्रोक्त-यक्षमनाशन-

देवता-> ०त्य-त्यम् अश्र ६,
९१.

मन्त्रोक्त-रात्रि-देवता->

व(त्य>)त्या-त्या: अश्र
१९, ४७.

मन्त्रोक्त-रुद्र-देवता-> ०व

(त्य>)त्या-त्या: अश्र १५,
५.

मन्त्रोक्त-रुद्र-दैवत^d-तम्
अश्र ११, २.

मन्त्रोक्तर्षिदेवता-> ०त्य-

त्यम् अश्र ६, ४८.

मन्त्रोक्त-वज्र-देवता-> ०व

(त्य>)त्या-त्ये अश्र ६, १३४.

मन्त्रोक्त-वरण-देवता->

०त्य-त्यम् अश्र १०, ३.

मन्त्रोक्त-वशा-देवता->

०त्य-त्यम् अश्र १०, १३; १२,
४.

मन्त्रोक्त-वागादि-दैवत-

-तम् अश्र १९, ६०.

मन्त्रोक्त-वृश्चिक-देवताक-

-कम् अश्र ७, ५६.

मन्त्रोक्त-शतौदन-देवता-

> ०त्य-त्यम् अश्र १०, १२.

मन्त्रोक्त-सर्वात्मक-काल-

देवता-> ०व(त्य>)त्या-

-त्या: अश्र १९, ५३.

मन्त्रोक्त-स्करभा(म्-अ)

ध्यात्म-देवता-> ०त्य-त्यम्
अश्र १०, १०^e.

मन्त्रोक्त-स्वर्गौदनारि-

देवता-> ०त्य-त्यम् अश्र
१२, ३.

मन्त्रोक्ता(क-अ)जपञ्चौ-

दन-देवता-> ०त्य-त्यम्
अश्र ९, ५^f.

मन्त्रोक्ता(क-आ)जन-

देवता-> ०त्य-त्यम् अश्र १९,
४४.

मन्त्रोक्ता(क-आ)म-देवता-

> ०त्य-त्यम् अश्र ७, २१.

मन्त्रोक्ता-फल^g-लम् कौसु
३१, २८.

मन्त्रोक्ता(क-अ)ब्-देवता-

> ०व(त्य>)त्या-त्या: अश्र
१९, ६९.

मन्त्रोक्ता(क-अ)डुदि-देवता-

> ०त्य-त्यम् अश्र ११, ९.

मन्त्रोक्ते(क-इ)डा-देवता-

> ०त्य-त्यम् अश्र ७, २७.

मन्त्रोक्ते(क-इ)द्रामि->

०कै(क-ऐ)न्द्रामि^h-मम् अश्र
७, १७.

मन्त्रोक्तौ(क-औ)दुम्बर-

मणि-देवता-> ०त्य-त्यम्
अश्र १९, ३१.

a) पाठः ? ०दाभ्यः इति श्लोघः (उ. तै ३, ३, ८, ४-६ प्रश्न., ०.) । b) चारी इति पाठः ? यनि.

श्लोघः । c) ०ह्मा इति पाठः ? यनि. श्लोघः । d) कस. > बस. । e) ०भोऽप्या इति पाठः ? यनि. श्लोघः ।
f) कस. > द्वस. > कस. । ०ं पञ्चौ इति पाठः ? यनि. श्लोघः । g) पूष. = काकमाची इति दारिलः । h) साऽत्य-

देवतीये अणि उप. वृद्धिः ।

मन्त्रोक्तौ(क्त-ओ)षधि-

देवताक- -कम् अत्र ८,७.

मन्त्रो(न्त्र-ऊ) न- -नम् बौश्रौ
२७,४: ३.

मन्त्रो(न्त्र-उ)पदेश- -ज्ञा: मीसू
१२,३,२१; -ज्ञात् काश्रौ ४,
३,६.

मन्त्रो(न्त्र-उ)पनी(त)ता-
-ता वाध १७,७२.

मन्त्रो(न्त्र-उ)पवेशन- -नम्
वाश्रौ १,१,६,२; ६.

मन्त्रो(न्त्र-ऊ)ह- -हेण विध
७५,७.

मन्त्रौ(न्त्र-ओषधि >) षधी-
-ध्व: अप ३, २, २.

मन्मन्त्र^a - -न्म शांश्रौ १६, २१,
२७; बौश्रौ; या ४, २५; ६,
२२; १०, ४२; -न्मन: आश्रौ
५, १०, २८; ७, २, ४; ५, १७;
शांश्रौ; -न्मना^b आश्रौ १, ५, ३५;
माश्रौ; -न्मभि: द्राश्रौ १३, २,
८; लाश्रौ; -न्मानि या ८, ६.

मन्य^c - -न्यात् हिश्रौ ६, ३, १४.
मन्य-तम- -मात् हिश्रौ ६, ३,
१४.

मन्यस्^d वैगृ २, २: ६१.

मन्यमान- -न: आश्रौ २, १०,
९१×५; बौश्रौ; -मना: आश्रौ
३, ३, १; ७, ९, २; शांश्रौ.

मन्यु^e - पाठ ३, २०; -न्यवे
आश्रौ ६, ४, १०१; शांश्रौ; गोश्रु
१, ४, १०; कप्र २, ४, १-५;
-न्यु: आपश्रौ १८, १७, १२१;

बौश्रौ; अप ४२, २, ११; वाध
३, १८; आपध १, २६, १३;

बौध १, १०, १२; विध ५,
१९०; हिध १, ७, २४; ६३;
६४; ऋश्र २, ९, ९७^o; १०,
८३^o; वृदे १, १२३^o; २,
५३^o; साश्र १, ५४०^o;

या १०, २९; -मन्नुना
आश्रौ २, १०, १६; आपश्रौ
१२, २२, ५¹; माश्रौ १, ६,
५, ७; २, ४, १, १५¹; बौध
३, ४, ४; अश्र ७, ९३; -न्युम्
आपश्रौ २०, २०, ७¹; आपमं
२, २२, ३१¹; हिश्रु १, १५, ३१¹;

आपध १, २९, ७; बौध १,
१०, १२; विध ५, १९०; हिध १,
७, ६३; ऋश्रा ८, ३४¹; वृद ४,
१३४; अश्र ५, ३१¹; -मन्नुो
आश्रौ १, ७, २²; वौगृ; या १,
१७; १०, ३०¹; -मन्नुो: आपमं
२, २२, १; पाश्रु ३, १३, ५; हिश्रु
१, १५, ३.

मान्यव^f - -वम् ऋश्र २,
१०, ८३; -वे वृद ७, ११७;
या १, १७.

मन्यु-दैवत- -ते अश्र ४, ३१.
मन्नु-परोस^g - -सस्य आपश्रौ
५, २७, १२; माश्रौ ५, १९, १०;
वाश्रौ १, ५, १, ९; वैश्रौ.

मन्नु-मत्- -मते बौश्रौ १३,
१३: ६^h; -मन्त: आपश्रौ
२१, ९, १५; हिश्रौ १६, ४, १३¹;
-मन्तम् अप्राय १, ३.

मन्यु-विनाशन- -नम् अश्र ६,
८९.

मन्यु-सूक्त- -कम् अश्र ४,
३१¹; -क्ते आश्रौ ९, ८, १९;
वाश्रौ १४, २२, ५.

मन्वान- -न: वैश्रौ १२, १८: ८;
२०: १३; वृदे ६, ११२.

ममानⁱ - -नम् शांश्रौ १५, २७, ११¹;
सु २७, ६; वाध २, १२; बौध
१, २, ५०; माशि ३, ७; -नात्
माशि १६, १५.

ममानिन्- -निन: नाशि २,
८, २६; -निनम् वाधूश्रौ ३,
७६: १०.

ममानिन्^j - -निनि पावा ४, १, १.
ममानिन्- -निनो: पा ६, ३,
३६.

मनिन्-ग्रहण- -णम् पावा ६,
३, ३५.

ममान्य-न्या- -न्य: विध ६३, ५१;
-न्यम् वाध १३, ५६; -न्यानि
गौध ६, २०; -न्या कप्र ३,
१, १३; -न्या: शंघ ४३.

मन- (>मानायन-) षधर्म-
टि. द्र.

मनन- √मन् द्र.

मननम्- (>माननायन- पा.) पाठ
४, १, ११०.

मन-शिला^k - -लया अप १८,
३, १.

मन:शिला-प्रियङ्गु-तगर- -राणि
अप ३५, २, १.

१मनस्- √मन् द्र.

मन्यु-विनाशन- -नम् अश्र ६,
८९.

मन्यु-सूक्त- -कम् अश्र ४,
३१¹; -क्ते आश्रौ ९, ८, १९;
वाश्रौ १४, २२, ५.

मन्वान- -न: वैश्रौ १२, १८: ८;
२०: १३; वृदे ६, ११२.

ममानⁱ - -नम् शांश्रौ १५, २७, ११¹;
सु २७, ६; वाध २, १२; बौध
१, २, ५०; माशि ३, ७; -नात्
माशि १६, १५.

ममानिन्- -निन: नाशि २,
८, २६; -निनम् वाधूश्रौ ३,
७६: १०.

ममानिन्^j - -निनि पावा ४, १, १.
ममानिन्- -निनो: पा ६, ३,
३६.

मनिन्-ग्रहण- -णम् पावा ६,
३, ३५.

ममान्य-न्या- -न्य: विध ६३, ५१;
-न्यम् वाध १३, ५६; -न्यानि
गौध ६, २०; -न्या कप्र ३,
१, १३; -न्या: शंघ ४३.

मन- (>मानायन-) षधर्म-
टि. द्र.

a) वैप १ द्र.। b) पाभे. वैप १, १३५५ f द्र.। c) कर्मणि यत् प्र. उरं. (पावा ३, १, ९७)।

d) <मन्यवे (मा १६, १) वा <मन्युम् (तु. C.) इति वा ?। e) = ऋषि-विशेष-। f) पाभे. वैप १, २४४३ d द्र.।

g) साऽऽस्यदेवतीयः प्र.। h) सपा. माश्रौ ५, १, १०, ५ मरुवते इति पाभे.। i) पाभे. वैप १, २४४३ m द्र.।

j) स्वरमन्यु^o इति पाठः ? स्वरसरे-च यनि. च शोधः (तु. सपा. कौ १, ४५८ आपश्रौ. प्रयु.)।

k) न्यु: सु इति पाठः ? यनि. शोधः। l) पा ३, २, ८२; ८३। m) व्यप. (तु. पासि.)। n) = धातु-विशेष-।

रमनस् [स^३]^३ - (> मानस्य-
मानसायन- पा.) पाग ४, १,
१०५; ११०.

मना- ना^० आपश्रो ४, १०, ४;
१०, २२, ८; वौश्रो ६, १२:
१७; माश्रो ४, १५, ३; १०,
१५, ५; वैश्रो ६, १२: ८; १२,
१६: १३; माश्रो २, १, ३, ३५;
हिश्रो ६, ३, २; या ५, ५; -नायं
कौस् १०७, १; २; अप १८^३,
१, ६.

मनाक्^४ बौश्रो ३, २८: ९; ५, ५:
५××; वैश्रो ८, १०: ८; आमिष्ट
१, ६, ३: ३२; पाग १, १, ३७.

मनाक- पाठभो २, २, १३.

मनाका- पाठवृ ४, १४.

मनायु^५- यु: बौश्रोप्र २२: २.

?मनिपाण^६ हिश्रो १४, ४, ३८^३.

मनीषा- प्रष्ट. √मन् द्र.

मनु(वप्रा.)^१- पाठ १, १०; पा ४,
१, ३८; पाग ४, १, १८;
१०५; -नव: आपश्रो १४, १६,
११; हिश्रो: विघ २०, २४^६;
-नवे आपश्रो १४, ११, ३^६;
बौश्रो ६, २४: ३५; ८, १२:
२८^६; हिश्रो २, १, ६^६××;
हिष्ट १, २, १३^६; -नु^३ ऋअ
३, १४; -नु: आश्रो ९, ७, २१;
१०, ७, १^६; शाश्रो १६, २, १^६;
आपश्रो: कौष्ट ३, १०, ३५^१; शांष्ट
२, १६, २^१; वैष्ट ३, ४: १२^६;
वाघ १, १७^१; आपघ २, १४,

११^६; बौघ ४, १, १४^१; २, १६^१;
गौघ २१, ७^१; ऋअ^३ २, ८, २७;
९, १०१; १०६; वृदे ६, ६, ८^६;
शुअ ३, २५१^६; या १, ५^१; २,
४^१; १२, १०^६; ३३^१कृ; ३४^१;
-मनुना आपश्रो ३, १, ७; वौश्रो:
-नुस् काष्ट ४१, ७^१; शंघ
११६: ४०^१; ५६^१; वृदे ७, २^६;
१०७; -नून् कौस् १०६, ७^१;
-नो: शाश्रो १०, ११, ८; काश्रो:
बौष्ट २, ९, १५^०; या ३, ७^६;
-नौ आपश्रो ६, ३०, २०^६;
वौश्रो ३, १२: २८^६; माश्रो
६, १८, ७^६; शाश्रो १, ६, ४,
२४^६; वाश्रो १, ५, ५, ८^६;
हिश्रो ६, ८, १^६; जगृ १, २४:
७^६; ऋअ २, ८, ५१××; वृदे
२, १३०^०.

मनायो- पा ४, १, ३८; पाग
४, १, १८; १०५.

मानाय्य- पा ४, १, १०५.
मानाय्याय(न>)

नी- पा ४, १, १८.

मनावी- पा ४, १, ३८.

मानव^१- -०व आश्रो १, ३, ५;
शाश्रो १, ४, १८; आपश्रो २४,
१०, १२××; बौश्रोप्र; -व: शाश्रो
१६, ११, २९; आमिष्ट; -वस्
शाश्रो १२, ९, १७; वाघ; -वा:
आमिष्ट ३, ८, २: १८; बौषि १,
१५: २८; अप ४८, ७८^१; वाघ
१९, ४५; विघ ११, ११; शंघ

५; चव्यू २: ७^१; -वाय दाश्रो
७, ४, ६; ८, २, २; लाश्रो ३, ४,
१५; ४, ६, २; -वानाम् कौस्
१३७, १६^१म; या १२, ३४;
-नवाय आपश्रो १७, १३, २;
हिश्रो १२, ४, ४; -नवेम्य:
माश्रो २, ५, ४, २४; हिश्रो १५,
७, १२; वताश्रो १६, १५; -नवे:
वौश्रो १०, १०: २; भाग २,
१: १५.

मानवी^१- -वी आश्रो
१, ७, ७^१; शाश्रो १, १२, ११,
आपश्रो १९, १९, ८; बौश्रो १३,
१: १०; १७: ७; हिश्रो २१,
२, ६^१; २२, ३, ७; -वी: बौश्रो
३, ८: १९^१; -व्य: काश्रो २४,
२, ८^१; आपश्रो २४, १०, १८^१;
बौश्रो २४, २८: ४^१; बौश्रोप्र
५४: ५; ८; हिश्रो २१, ३, १८;
-व्या: चाअ ७: १; ४१: १०;
मानव-वत्^० काश्रोसं २९:
२१.

मानवा(व-आ)दि^१- -दि:
लाश्रो १०, ४, १.

मानव्य- पा ४, १, १०५.

मानव्याय(न>)नी- पा
४, १, १८.

मनु-ज- जेषु विघ २०, २५.

मनुजा(ज-अ)धिप- -य: अय
७०^३, १७, १.

मनु-कनु^१- -न्तव: बौश्रोप्र ३१:
८.

- a) पाका. पाठ:। b) = ऋषि-विशेष-। c) वैप १, २४४ k द्र.। d) अल्पाबेँ अन्व.। व्यु-
वैप १, २४४ ० द्र.। e) वैप १, ८३९ h द्र.। f) वैप १ द्र.। विशेष: टि. द्र.। g) = प्रनापति-
विशेष-। h) मनुष: (ऋ १०, ११०, १) इत्यस्य प्रतीकम्। i) = स्थिति-चर-। j) = द्वादशसाध्याऽन्यतम-।
अपु २१९, २५ मन: इति। k) पाठ: ? मजौ इति श्लेष: (तु. वैप १, २४०६ b)। l) = मैत्रायस्त्रीयशाखा-
शेद-। m) पाशे. वैप १, २४४ ५ g द्र.। n) = (मनु-दृष्टा-) ऋन्-। सप्र. आपश्रो २३, ३, ६ मनोर्वच इति
पाशे.। o) पूष. = मानवश्रोतसूत्र-। p) बस. पूष. = साम-विशेष-।

†मनु-प्रवल्ह- -हः शांश्रौ १०, ११, ८.

मनु-चत् काश्रौ ३, २, १२; आपश्रौ.

मनु-वृत- -तः शांश्रौ ७, ९, ३१.

मनोर-ऋच्- -ऋचः आपश्रौ २३, ३, ६^६.

मन्व(नु-अ)न्तर^६- -रम् शंघ ११६: ४४; ५६^६; विघ २०, ११; ४३, २४.

†मन्वि(नु-इ)द्व^६- -द्वः आश्रौ १, ३, ६; शांश्रौ १, ४, १९; ७, ९, ३; बौश्रौ ३, १८: २; माश्रौ ५, १, ४, १३; हिश्रौ २१, २, १०.

मनु-ज- प्रम्. मनु-द्र.

मनुष्य^६- -षाय या ६, २६^६†.

मनुष्य^६- पा ४, १, १६१; पाग ४, १, ४१; -ष्यः †आपश्रौ ४, १६, ४^६x; बौश्रौ; माश्रौ ६, ३, ७^६; हिश्रौ ६, ६, १७^६; -ष्यम् आपश्रौ १, १६, १४; हिघ १, ५, १३; -ष्यस्य बौप ३, १, २, ४; आपश्रौ १, २१, १५; हिघ;

-ष्यस्यऽ-ष्यस्य या ८, ५; १२^६; १०, ८; -ष्या या ३, ११^६†;

-ष्याः आश्रौ १, ७, ७^६; १०, ७, १; १२, ९, १८; शांश्रौ; या ३, ७^६; -०ष्याः आश्रौ ३, ३, १^६;

-ष्याणाम् शांश्रौ १०, १८, ६^६; काश्रौ १, १, ४; २, १, १८^६; ६, ४, ३^६; †आपश्रौ १, १३, ४; ३, १८, ४x; काठश्रौ;

†बौश्रौ ३, २३-२१^६; माश्रौ ३, १४, २^६; माश्रौ ५, २, १५, २^६;

वाश्रौ १, १, ५, २^६; हिश्रौ २, ८, १^६;

-ष्यान् शांश्रौ ३, २०, ४^६x; आपश्रौ; -ष्याय या ६, २६; -ष्ये काग ४१, १८^६; पा ४, २, १२९; ५, ३, १८; पावा ५, ३, ९८, -ष्येभ्यः शांश्रौ १, ४, ५x; आपश्रौ; -†ष्येषु आश्रौ १, ३, २३; ६, ३, २२; शांश्रौ; -ष्यैः आपश्रौ २४, ५, ३^६; हिश्रौ २१, ३, ३^६; आपश्रौ १, १७, ५; २०, १५; हिघ.

मनुषी- पा ४, १, ४१; पावा ४, १, ६३^६.

†मानुष्य^६- -ष्यम् आमिगृ २, ६, ७: ३; -ष्याः वाध २, ३९; -ष्यान् अप १, ६, ७; -ष्ये कप्र ३, ३, ५.

मानुष्यक- पा ४, २, ३९.

मनुष्य-कक्ष^६- -क्षः या २, २, ६, १०.

†मनुष्य-किल्बिष- -षात् आपश्रौ ७, २१, ६; बौश्रौ ४, ७: २६; माश्रौ ७, १६, १३; हिश्रौ ४, ४, ४४.

†मनुष्य-कृत- -तस्य आश्रौ ६, १२, ३; शांश्रौ.

मनुष्य-न(व >)वी^६- -वीः आपश्रौ ४, १०, ४; माश्रौ ४, १५, ३; वैश्रौ ६, १२: ८; हिश्रौ ६, ३, २.

†मनुष्य-ज, जा^६- -जः काग २५, २२^६; -जा^६ आमिगृ १, १, ४: ३८; हिगृ १, ८, ४; जैगृ १, १२: ४२.

मनुष्य-जा- -जा^६ आपमं १, ३, १;

पागृ १, ४, १६; आमिगृ.

मनुष्य-जात- -तस्य गौध ८, २६; -तानि या १०, २९; ३१.

मनुष्य-जाति- -तेः पा ४, १, ६५;

मनुष्य-जार- -रः या ३, १६.

मनुष्य-तत्स्थ- -त्स्थयोः पा ४, २, १३४; पावा ४, २, १००; १३०;

मनुष्य-तस्(ः) वाधश्रौ २, ८: ४; वाश्रौ १, ३, ७, २०^६.

मनुष्य ता- -ताम् कप्र २, १०, ११.

†मनुष्य-तीर्थो(र्थ-उ)च्च^६- -च्चम् याशि १, ५३.

मनुष्य-धर्म- -र्मैः मीस् ३, ४, १; ६, ७, २६; ३३.

मनुष्य-धृत्- -०धृतः या १२, ४०.

मनुष्य-नामन्- -म या ३, १५; ४, २; १०, २२; -मानि निघ २, ३; या ३, ७; -मनः पा ५, ३, ७८.

मनुष्य-पूर्ण- -पिटक- -कस्य अप १, ३२, २.

मनुष्य-प्रकृति^६- -तीनाम् आःघ १, ११, ३.

मनुष्य-मिथुन- -नौ या ७, २९.

मनुष्य-मृग-हृस्य(स्ति-अ)श्व-वृक्षा- (क्ष-अ)श्म-पथ-वेरमन्- -श्मसु अप ५८^६, १, १०.

मनुष्य-यज्ञ^६- -ज्ञः आगृ ३, १, २; ३; बौगृ २, ९, ६; भागृ ३, १५: ९; वैगृ १, १: ६; ६, १७: १; ८; बौध २, ६, १; -ज्ञम् बौध २, ६, ५^६; -ज्ञाय वैगृ ३, ७: ७; -ज्ञै वैध २, १२, १; -†ज्ञेन आमिगृ २, ६, ५: १७; बौगृ २, ९, १५;

a) पाभे. पृ १९२९ ० द्र.। b) =कालपरिमाणविशेष-। c) पाठः?। अपु २१९, २५ अनुमन्तारम् इति। d) वैप १ द्र.। e) पाभे. वैप १, २४४६ १ द्र.। f) वैप १, २४४६ १ द्र.। g) पाभे. वैप १, २४४७ ० द्र.। h) पागम. Kielhorn ष्यी-इति। i) इदमादयश्च अण प्र.। j) उप. =शरीरावयव-। k) =मन्त्र-विशेष- (तु. खदतः)। l) उप. <√जन्। m) सपा. षजः <>जाः इति पाभे.। n) पाभे. वैप १, २४५० f द्र.। o) थैम् ङ > [आर्षसंघिना] यनि.। p) वस.। q) =पञ्चमहायज्ञाऽन्यतम-।

भाग ३, १५: २६.
 मनुष्य-यशस- -मेन ऋषी १४,
 ५: १; ६.
 मनुष्ययशसिन्- -सी ऋषी १४,
 ५: २; ७.
 मनुष्य-रथ- -थेन वाधुश्री ३, १४: १.
 मनुष्य-राजन्- -ज्ञाम् निसू ७, ५:
 ३६.
 मनुष्य-लोक- -कम् बौश्री १७,
 ५०: १८; २९, १३: ७; -के
 आपश्री २३, ११, १४; आण्ड ४,
 ४, ४.
 मानुष्यलोक- -कम् अप्राय
 ३, ८.
 मनुष्यलोक-काम- -मः आपश्री
 १०, ५, ५; -मस्य आपश्री
 १४, ६, १०; बौश्री १७, १२:
 ७; हिश्री ७, १, २९; ९, ८, १७.
 मनुष्य-वत् अप ६४, ५, १०; ६, ३;
 या १, २; ८, १३३.
 मनुष्य-शिरस- -रसः आपध १,
 १७, ३९; हिध १, ५, ७०.
 मनुष्य-रंयुक्त- -क्तानि आपण्ड १,
 १७; बौण्ड १, ३, ७.
 मनुष्य-संभुक्त- -कम् बौध १, ६, १५
 मनुष्य-साक्ष्य- -क्ष्ये निसू ३, ८: २१
 मनुष्य-स्तुति- -तिम् गोण्ड ३, ५,
 २६.
 मनुष्य-स्त्री-कूप-क्षेत्र-नापी-
 -पीनाम् विध ५२, ६.
 मनुष्य-स्थ- -स्थे पावा ४, २,
 १००.
 मनुष्य-हित- -तः या १४, ३६.

मनुष्या(ष्य-अ)धम- -माय कौसू
 ६३, २.
 ✓मनुष्य मनुस्- द.
 मनुष्य-कक्ष- प्रसू. मनुष्य- द.
 ऋमनुष्यत्^b- -प्यत् अप्रा ३, ४, १;
 शौच ४, ६५.
 मनुष्यतत्स्थ- प्रसू. मनुष्य- द.
 मनुष्यत् मनुस्- द.
 मनुष्यत्^c- -प्यत् या ८, १३३.
 ऋमनुस्^d- -नुषः आश्री ३, ७, ५; ८,
 १, ९; ९, ५, १६; शंश्री ५, १६;
 ६; १८, २३, ११; आपमं १, ६;
 १२^e; काण्ड २६, १२^f; या ३, ७;
 ८, ५३^g; १२३.
 मानुष^h- पाण्ड ५, १, १२४;
 -ऋषि माश्री ५, १, ४, १२; या
 १४, ३६; -ऋषिः आश्री १, ३,
 २३ⁱ; ऋशंश्री १, ६, १४४;
 ४, ६, ९^j; काश्री; माश्री १, ८,
 ३, ६^k; वाश्री १, ६, ४, १५^l; ४,
 १५, ३, ६^m; लाश्री २, ४, ६ⁿ; ४,
 ९, १६^o; ५, ११, ६^p; वाध १,
 २९; ३५; विध १०, ११; ११,
 १२; १२, ८; १३, ७; छप्रा ३,
 १२९^q; -षम् आश्री ९, ३, १२;
 शंश्री; -षस्य हिश्री १०, १,
 १८; बौश्री ८: ८; ऋप्रा ८,
 ४७^r; -षाः आश्री १, ९, ५^s; ५;
 शंश्री; -षाणाम् कौसू १०६, ७^t; ७;
 अप ७०^u, ११, १४; -ऋषाणि
 बौश्री १७, ३९: २४; आपण्ड
 १, ३, २: ५; अप ७०^v, १२, २६^w;

बौण्ड १, ३, ८; -ऋषात् शंश्री
 २, १८, २; १५, ५; आश्री;
 -षात् आपश्री ७, १३, ८^x;
 बौश्री ४, ५: १८^y; माश्री ७, १०,
 ८^z × ४; वैश्री १०, १००: ११^{aa};
 हिश्री ४, ३, १९^{ab}; दाश्री; या
 १२, २४^{ac}; -षे आश्री ६, ४,
 १०^{ad}; शंश्री ९, ११, १^{ae};
 काश्री; -षेण आश्री ९, ३, १२;
 शंश्री १५, २७, १; बौश्री;
 -ऋषेभ्यः आपश्री ३, ७, १०;
 ५, १४, ५; काश्री; -षेषु
 वाश्री १, ३, १, ३७^{af}; अप ५०,
 ९, ६; -षैः अप ७०^{ag}, २३, १०;
 -ऋषी बौश्री ७, ९: ५; माश्री
 २, ३, ६, १७.
 मानुषी^{ah}- -ऋषी आपमं
 २, ४, ६^{ai}; माण्ड १, २२, ११^{aj}; वाण्ड
 ५, ३०^{ak}; गोण्ड; -ऋषीः आश्री
 ३, १३, १२; शंश्री; आपमं २,
 १७, २६^{al}; आण्ड १, १४, ७^{am};
 पाण्ड १, १५, ८^{an}; हिण्ड २, १६, ८^{ao};
 -षीणाम् बौश्री ९, ८: १९^{ap};
 अप ७०^{aq}, ११, २६; -ऋषीभ्यः
 शंश्री ८, २२, १; बौश्री; -षीम्
 आपश्री १०, १२, ९; २३, १४,
 २; माश्री; -ऋषीषु आपश्री ४,
 ५, ३; माश्री ४, ६, ६; हिश्री
 ६, २, १; -ष्याम् कौसू ९३, ९८
 मानुष-पञ्च-विक्रयिन्-
 -यिणः शंघ २०१.
 मानुषा(ष-अ)मानुष-
 प्रभव- -वाः अप ७२, ३, ८.

a) = मस्य-विशेष-। बस। b) वैप १, २४४८ p द्र.। c) वैप १ द्र.। d) पाभे. वैप १, २४३७।
 द्र.। e) वैप १ निर्दिष्टानां समविशः द्र.। f) पाभे. वैप १, २४४७. c द्र.। g) पाभे. वैप १, २४४९ g द्र.।
 h) षाः इति पाठः? इति. शोचः (तु. पाभे.)। i) पाभे. वैप १, २४४९ o द्र.। j) पाभे. वैप १, २४५० f
 द्र.। k) = सपा. आण्ड २, ३, ३। कौण्ड ४, ९ शंण्ड ४, १८, १ पाण्ड २, १४, ४ माण्ड २, ७, १ तु वसुष्मीः इति
 पाभे.। l) पाभे. पृ १८२२ o द्र.।

मानुषा(व-अ)स्थि- स्थि
 वाघ २३, २४.
 २मानुष्य- पा ५, १, १२४;
 -ष्यम् विध ५८, ४.
 ✓मनुष्य^१, मनुष्यति अप ४८, १९^१.
 मनुष्य-वत्^२ काश्रौ ३, २, ७; आपश्रौ;
 पावा १, ४, १८.
मनो-गत- प्रभृ. ✓मन् द्र.
मनोता^३-न्ता आश्रौ ३, ४, ७; ४;
 १२, २^१; शांश्रौ; -ता: बौश्रौ
 १०, ५९ : ५; ११, १३ : ७×४;
 -ताम् आश्रौ ३, ४, ६; बौश्रौ
 १२, ५ : १०; -ताया: आपश्रौ
 १२, १३, १५; काठश्रौ ६५; बौश्रौ
 १२, ५ : १०; हिश्रौ २३, २, ४७;
 -तायाम् मीस् १०, ४, ४१;
 -तायै आश्रौ ३, ६, १^१; शांश्रौ;
 -ते बौश्रौ १२, १६ : १९; १८ : २२
मनोता-काल- ले आपश्रौ १२,
 १, २; हिश्रौ २३, १, ४४.
मनोता-त्व- त्वम् वाधूश्रौ ४, ६७ :
 ११.
मनोता(ता-आ)दि- दि आश्रौ ५,
 १७, ४; शांश्रौ ८, १, ९.
मनोतादि-पशु- -शुना शांश्रौ
 १४, १०, २१.
मनोता-प्रभृति^४-तिना बौश्रौ ८,
 १२९; १७, २२ : ११; २५, २३.
 ४; -तिभिः बौश्रौ १७, ३७ : ५.
मनोता-चसा-होम- -मौ काश्रौ ८,
 ८, ३६.
मनोता-सूक्त- -कम् शांश्रौ ५,
 १९, १३; माश्रौ ५, २, ८, २.

मनोत्^५-न्ता शांश्रौ ५, १९, १३^१;
 वाधूश्रौ ४, ५ : १७.
मनो-दुष्ट- प्रभृ. ✓मन् द्र.
**मनोमापायनसहपरिसुन्नियोज-
 सहान्तौ** अप १, ७, १.
मनो रम- प्रभृ. ✓मन् द्र.
मनोर्कच्- मनु- द्र.
मन्तवै प्रभृ., १मन्तु ✓मन् द्र.
२मन्तु^६- [>मान्तव्य- (>मान्त-
 व्यायान >] नी- पा. यक.]
 पाग ४, १, १०५; १८.
मन्तु-मन्त्र- प्रभृ. ✓मन् द्र.
मन्त्रित^७- पाग ४, १, १०५; २,
 १११; -ताः^८ बौश्रौ प्र ४१ : १७.
 मान्त्रित्य- पा ४, १, १०५.
 मान्त्रित- पा ४, २, १११.
मन्त्रिन्- प्रभृ. ✓मन् द्र.
 ✓मन्थ, मन्थ- प्रभृ. ✓मथ् द्र.
मन्थर- (>री- पा.) पाठभो २,
 ३, २८; पाग ४, १, ४१.
मन्थाकक^९-कः आपमं २, १६, ८^१;
मन्थान- प्रभृ. ✓मथ् द्र.
 ✓मन्द् ✓मद् द्र.
२मन्दर- पाठभो २, ३, ३८.
२मन्दर- (>र-कथ-) मडर- टि. द्र.
मन्दाक- पाठवृ ४, १३.
 ✓मन्दाय ✓मन्द् द्र.
मन्दार- (>मान्दार्थ- पा.) पाठवृ
 ३, १३४; पाग ४, २, ८०.
मन्दारु- पाठवृ ३, १३४.
मन्दिन्- ✓मद् द्र.
मन्दिर- पाठ १, ५१; -रम् अप ३६,
 २९, १^१.

मन्दिष्ट- ✓मद् द्र.
मन्दिर^{१०}-रस्य काश्रौ १३, ३, २६^१.
मन्दु- मन्द्- प्रभृ. ✓मद् द्र.
मन्दित्र^{११}- (>मान्द्रित्य- >त-)
मन्धातक^{१२}- > मान्धातकि-
 (>मान्धातकायन- पा.) पाग
 २, ४, ६१.
मन्धात्^{१३}-न्ता आपश्रौ २४, १३, ३;
 अप ४८, ८५; निघ ३, १५;
 -तारम् आश्रौ १२, १२, ४^१.
 मान्धात्र- -त्र आश्रौ १२, १२, ४;
 आपश्रौ २४, ७, १२; ८, १.
मन्धुक^{१४}->मान्धुक- -कः आपश्रौ
 १७, १४, ८; -कम् बौश्रौ १४,
 १८ : २; ३.
मन्मथ- पाग ६, ३, १०८^२.
मन्मन्- ✓मन् द्र.
मन्मन- पाठभो २, २, १९२.
मन्थ- ?मन्थम्, मन्थमान- ✓मन् द्र.
मन्या^{१५}- पाठभो २, ३, १; -न्या याकि
 २, ७२^०; नाशि २, २, ३.
मन्यु- मन्थु-दैवत- प्रभृ. ✓मन् द्र.
मन्वन्तर- मनु- द्र.
मन्वान- ✓मन् द्र.
मन्विद्ध- मनु- द्र.
मन्पूर्व- म- द्र.
 ✓मभ्र पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
मम, मम-क- अस्मद्- द्र.
मममध्यमे अप्राय ४, ३.
ममापताल- पाठ ५, ५०.
 ✓मय पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.
मय^{१६}->मय-खर-सूकर-वानार(र-अ)
 धिरूढ- -डः अप ६८, ४, ३.

a) घा. हिंसायां वृत्तिः । b) वैप १ द्र. । c) = देवी, (मनोत्- [ऋ ६, १, १] शब्द-वृत्ती-) ऋन्, आहुति-? । d) बस. । e) वैप १, २४५१ e द्र. । f) = ऋषि-विशेष- । g) = मन्दित्र- इति पागम. । h) बहु. <मान्त्रित्य- । i) पाभे. पृ १९०३ d द्र. । j) नाप. । k) पाभे. पृ १८९९ g द्र. । l) सप्त. आपश्रौ २४, ७, १२ मान्धातारम् इति पाभे. । m) वैप १, २२६३ h, i, j द्र. । n) तु. पागम. । o) अनुनासिकसंज्ञाविशेष- । मध्या- इति मूको. (तु. संस्कृतः टि. [२, ७३.] ।

मयट- पाउठ ४, ८१.
 १मयन्त^१- नन्म माश्रौ ६, २, १, ६^१.
 मयम् शंघ ११६: ५७.
 १मयस(वप्रा)^१- न्य: आश्रौ ३, ८, १;
 ४, १२, २^१; शाश्रौ ७, १८,
 १-५^१××; आश्रौ १४, ११.
 २××; हिश्रौ १०, ६, ९××;
 आपमं.
 मयस-कृत^१- कृत: वौश्रौ १५,
 १३: १४; १४: १०.
 १मयो-भव^१- वाय^१ आपश्रौ १०,
 २२, १२^१; काश्र २५, ४२; जैश्र
 १, २१: २९.
 १मयो-भु^१- सु कौसू ११७, ४^१;
 या १०, ३५; शैश्र ५५; -सु:
 हिश्रौ १२, ६, ६^१; -१^१भूर,
 -भूनि या १४, २५.
 मयो-भुव^१- १^१व^१ आपश्रौ ५,
 १३, ८; वैश्रौ १, १२: १०;
 हिश्रौ ३, ४, २२^१म.
 १मयो-भू^१- भुव: आश्रौ २, ९,
 ९××; आपश्रौ; वैश्रौ १६, १९:
 २^११; आश्र २, १०, ६^१; सुश्र २,
 २२^१; या ९, २७^१; -सुवा आश्रौ
 १, ९, १; शाश्रौ १, १४, ५;
 वौश्रौ ५, ८: ७; अप्राय ६, १;
 -भू: आश्रौ २, ९, १०^१; ३, ७,

६; ४, ७, ४; शाश्रौ; माश्रौ १,
 ६, ४, २५^१; वाश्रौ १, ५, ५,
 ८^१; कौश्र ३, ५, १^१; शाश्र ३, ८,
 ३^१; पाश्र ३, १, ४^१; जैश्र १,
 २४: ५^१; अश्र ५, १७^११.
 १मायोभव^१- वाय^१ आपमं १
 ३, १०; पाश्र १, ८, १; आश्रिगृ
 १, ५, ४: ४३; वौश्र १, १, २८;
 भाश्र १, १७: ३; वाश्र १४, २३;
 हिश्र १, २१, १.
 १मायोभव्य^१- व्वाय^१ आश्र
 १, ७, १९; कौश्र १, ८, २८.
 १मियि^१ आश्रौ १, १२, ३६; माश्रौ ३,
 १, २७.
 १मयु^१- पाठ १, ७; -यु: वौश्रौ १५,
 २३: १४; -युस वौश्रौ १०,
 ३४: २.
 मयूख (ष^१)^१- पाठ ५, २५;
 -ख: पाश्र २, ६, १०^१; -१^१खा:
 अप ४८, ११२^१; अश्र १०, १०;
 अपं ३: १८; निघ १, ५^१;
 -खान् आपश्रौ १५, ५, ११××;
 वौश्रौ; -खे आश्रौ ९, ९, ८;
 काश्रौ २६, ५, ८; काश्रौसं ३५:
 १२; १३; १४; कौसू ४०, १६;
 -खै: वौश्रौ ६, २४: ३६^१; -खौ
 हिश्रौ २४, ६, १२.

मयूत- पाउमो २, २, १४८.
 १मयूर^१- पाउ १, ६७; पाग ६, ३,
 १०८^१; -२: लाश्रौ ८, १२, ६; सु
 २८, १; माशि १, ९; नाशि १, ५,
 ३; -रम शंघ २२३: -रस्य
 अप ७०^१, ३, ४; -रा: अप २०,
 २, ३; ७१, ३, २; -राणाम्
 वेज्यो ४; -रे वौश्रौ २, ५: २२.
 मयूर-कर्म^१- पाग २, ४, ६९; ४, १,
 ११२.
 मायूरकर्म- पा ४, १, ११२.
 मयूर-कोकिला(ल-आ)दि-दीनाम्
 अप ६४, ४, ६.
 मयूर-गल-> ल-शकूले(कू-इ)न्दु-
 मुक्ता-गोक्षीर-पाण्डुर^१- रा:
 अप ६३, ४, ७.
 मयूर-चक्रवाक(क-आ)दि->
 १दि-इंकारणवादि- विभि:
 अप २१, ४, २.
 मयूर-पुच्छा(च्छ-अ)तुग(त>)वा-
 -ता अप ५८^१, ४, ८.
 मयूर-रोमन्- मभि: भाश्र २, २८:
 ८^१.
 मयूर-न्यंसक- क-प्रिय^१- पाग २,
 १, ७२.
 मयूर-हंसा(स-आ)दि-सुदु-
 स्वर^१- राणाम् माशि ४, ६.

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १, २४५३ h द्र. । c) पाभे. वैप १, २४५३ k द्र. । d) पाभे.
 वैप १, २४५३ m द्र. । e) नाप. (चर्म-कार-) । पूष. = चर्मन्- । f) उस. उप. भावे प्र. । g) पाभे.
 वैप २, ३खं. मायोभववाय तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द्र. । h) मायो^१ इति C. शोघ: । i) पाभे. वैप १, २४५३ u
 द्र. । j) पाभे. वैप १, २४५४ b द्र. । k) विप. । उस. उप. √भू+क: प्र. उखं. (पावा ३, २, ५) ।
 l) पाभे. वैप १, २४५४ c द्र. । m) १व: इति पाठ: ? यनि. शोघ: (तु. आश्रौ.) । n) १भव: इति पाठ: ?
 यनि. शोघ: (तु. पूर्वोत्तरस्थलम्) । o) पाभे. वैप १, २४५४ h द्र. । p) = ऋषि-विशेष- । q) पाभे. वैप १,
 २४२४ a द्र. । r) वैप २, ३खं. द्र. । s) प्यल् प्र. । t) पाठ: ? महि इति शोघ: (तु. पृ १९०८ d) ।
 u) पाश्र. काश्रौसं ३५: १२; १३ पाठ: । v) नाप. (अभि-भेद- [वैतु. जयराम: < मयु- + √सो इति] ।
 w) पाभे. वैप २, ३खं मरुक: मंत्रा १, ७, १ टि. द्र. । x) = रश्मि- । y) वैतु. पाका. < २मही- + √ह ।
 z) द्रस. > उपमानसमास: (पा २, १, ५५) । a^१) भोज: इति पागम. । b^१) द्रस. > वस. >
 वस. > कस. ।

मयूरा(र-अ)हाल(?) -> शङ्खाल-
पद्मे (अ-इ)न्दु-काश-नील-
निभ- -भानि अप ६१, १, १२.
मयूरा, र्थ(र, री-अ [पावाग.]) षड्-
पावा ६, ३, ४१.
रमयूर^b - रा: बौश्रौप्र ३१: ७.
मयोभु- प्रमृ. मयस्- द्र.
मद्- √मृ द्र.
श्म-र- म- द्र.
२, ३मर- मरक- √मृ द्र
मरकत^c -> °त-त्विष्- -त्विषा
जैश्रौका १.
मरण-मरुत्- √मृ द्र.
मराय^d - य: बौश्रौ १८, ४८: १९.
मराय-कृत^e - तम् बौश्रौ १८, ४८:
१९, २३, १८: ३९, २६, ३३: १६.
ममरायु^f - यु या १३, ५.
मराल- पाठभो २, ३, १००.
मरिच- पाठभो २, २, ७७.
मरिच्यत्- √मृ द्र.
मरीचि, ची^g - पाठ ४, ७०; पाग ४,
१, १६; -कचय: आप्रिण १, ५,
२: ३९; वैपृ १, १८: ३; अप
४८, ११२; -चि: वृदे ५, १४३;
अत्र ७, ६३; -चिम् अप ४३,
३, १९; माशि ४५; -कची:
काश्रौ १५, ४, ३८६; आगृ २,
४, १४; पागृ ३, ३, ६; मागृ २,
८, ६; -चोनाम् हिश्रौ १४, ४,
३८; -चे: अप ५२, १६, २;
-च्य: सु ८, ३.
मारीच- च: ऋअ २, ८, २९;
वृदे ५, १४३; सात्र.

मारीचि- पा ४, १, ९६.
मरीचि-कश्यप- -पौ शंघ ११६: ४३.
ममरीचि-प^h - पा: निघ १, ५;
-पेभ्य: आपश्रौ १२, ११, १;
बौश्रौ ७, ५: ४५; ६: ३१;
माश्रौ २, ३, ३, १९; वैश्रौ १५,
१२: ९; हिश्रौ ८, ३, २२.
मरीच्या(चि-रआ)घ- -घा: कप्र
१, १०, ८.
मरीमुश- √मृ द्र.
मरुⁱ - पाठ १, ७; पाग २, ४, ३१;
-रु: कप्र ३, १०, १५.
मरु-पिशाच- -च: शंघ ३७७: १९.
मरुच्छब्द- मरुत्- द्र.
मरुत्^j - पाठ १, ९४; पाग ४, २,
८६; ५, २, ६१^k; ३, ११७^l; ४,
३८; ८, २, ९; -मरुत् अप ४८,
७९^m, ९१ⁿ; निघ १, २^o; ३, ७^p;
-रुत: आश्रौ २, ११, १५××;
शाश्रौ: सु २२, ३; २६, १; २;
कागृ ५, १०; ७, २; अप १, ४,
१^q; ४८, ९६^r; शंघ ११६:
५५; ४०९, गौघ २५, २; अत्र
२०, १३७^s; मनिघ ३, १८^t;
या ३, १५; ४, १५^u; ५, ५^v;
६, १६^w; ७, २३; २४^x; ९,
३^y; २६; ११, १३^z; १४, २४;
-मरुत: आश्रौ २, ११, १४××;
शाश्रौ: -मरुताम् आश्रौ ६, ७,
२; शाश्रौ: निघ १, १५;
-मरुताम् आश्रौ ३, ८, १^{aa}; -रुते
चात्र ४१: १३^{ab}; -रुत्सु वृदे
५, ७२; १०३; या ११, ५०^{ac};

-मरुत्: आश्रौ २, ११,
१२^{ad}××; शाश्रौ: -रुद्भ्य:
आश्रौ २, १८, ३××; शाश्रौ.
मास्त^e - पा ५, ३, ६१; ३.
११७; ४, ३८; पावा ५, ४,
३६; -त: शाश्रौ १४, ७, ४;
काश्रौ: सु ४, २; पाशि ७, ९;
-तम् आश्रौ २, १८, १६^f;
शाश्रौ: लाश्रौ ७, १, १^g; निम्
९, ११: २७^h; अप ४१,
५, ७; पाशि ६; -तस्य आश्रौ
८, ४, १२; शाश्रौ: चात्र २:
१७ⁱ; -ता: शाश्रौ १६, ९,
२९; आपश्रौ: -ता: बौश्रौ
११, १०: २^j; -तात् आश्रौ
९, १०, १६; बौश्रौ ५, २: १८;
३: ११; २४, १०: १२; -तान्
काश्रौ १८, ४, २३; २०, ८, ३०××;
आपश्रौ: -तानाम् कौसू ३०, १२;
-तानि कौसू २६, २४; वृदे ३,
१२१; ५, ३७; ६, ३; -ताय आश्रौ
२, ११, १४; बौश्रौ ५, १: २१;
-ते आश्रौ ८, ८, ५; लाश्रौ ७,
१, ११^k; कौसू: -तेन शाश्रौ
१३, १२, ३; काश्रौ २५, १२,
१६; आपश्रौ: कौसू ४०, ७^l;
बौध १, ५, ५४; विध २३, ४१;
-मरुतेभ्य: माश्रौ १, ८, ६, २२;
अप ४३, १, १८; -तै: आपश्रौ
१७, १६, १७; बौश्रौ १०, ५२:
३२; माश्रौ: कौसू ४०, ७; -तौ
काश्रौ १८, ४, १७.
माहृती- तौ शाश्रौ ३, १४,

a) तु. पागम. । b) = ऋषि-विशेष- । c) = मणि- । d) = एकाह-विशेष-, ज्यायो-राशि- (तु. पृ १३४५ j) । e) विप. (धान्यराशि-) । f) वैप १ द्र. । g) = निर्जल-प्रदेश- । h) मरुत्व- इति पात्र. । i) = आयुष्यजीविसंघविशेष- (तु. वागभा.) । j) = रूप- । k) = सुवर्ण- । l) = मृगशिरनक्षत्र-देवता- । m) = ऋत्विज्- । n) पाठ: ? मारुतः इति शोधः (तु. सा [ऋ ८, ९६, १४]) । o) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । p) = साम-विशेष- ।

४:१५, १४, १३; काश्रौ ५, ४, २, १;
१५, ९, १४; आपश्रौ; ऋअ २,
१, १५; १३९; वृदे ४, ९; ५,
३८; छुअ १, २, १२; २, १३; साअ
१, १३५; १४८; अअ १, २, ०^{१३};
१३, १; -ती: वौश्रौ १८, ११:
३; २३, १८: १२; -तीभि:
आश्रौ १०, २, २९; -तीभ्याम्
बौश्रौ २३, ३: ४; -तीम् आश्रौ
२, ११, १५; काश्रौ; -रुत्य:
आपश्रौ २२, २०, १८; हिश्रौ;
अअ २०, ७०^{१३}; -त्या आश्रौ २,
११, १५; आपश्रौ १८, २१,
१४; बौश्रौ; -त्या: काश्रौ ५,
५, २२; आपश्रौ: मीस् ११,
२, ३७^{१३}; -त्याम् काश्रौ ५,
५, ३; आपश्रौ ८, ६, १२;
१७; भाश्रौ; -त्यै बौश्रौ ५, ८:
२९××; भाश्रौ; -त्यौ वृदे ५,
११७; साअ १, २, ५७; २, ५८;
४०४; ४४४; ४४५.

मारुती-वर्जम् काठश्रौ
३१; वाश्रौ १, ७, २, १५.

मारुती-सप्तम^६-
-मानि काश्रौसं २९: २.

मारुत्या (ती-आ)
आवण-प्रभृति- नति बौश्रौ २२,
२१: ८.

मारुत-गण- -ण: साअ २,
१९७.

मारुत-पर्जन्य- -न्यान् अअ
४, १५.

मारुत-पर्यङ्क- -ङ्का: अअ
६५, १, ८.

मारुत-प्रक्षोप- -य: अअ
७२, ३, ६.

मारुत-प्रतिलोम-(ग>)
गा^१-गा: अअ ५८^१, ४, १७.

मारुत-वारुण- -णौ आश्रौ
९, २, १०.

मारुत-वेग-तुङ्ग- -ङ्गानि
अअ ६८, १, ४५.

मारुत-श्रुत^८- -तम् कौस्
४०, ७.

मारुता(त-अ)शन- -न: वाध
२७, १७; बौध ४, ५, ३०.

मारुतै(त-ऐ)न्द्र- -न्द्र:
वृदे ४, ४४.

मारुति^१- -ति: ऋअ २, ८, ९६.

मरुत्-छ (<श)ब्द- -न्दस्य पावा
१, ४, ५९.

मरुतां(वात्यस्तोम-)^{१३} शाश्रौ १४,
७०, १; ७२, १.

मरुतांसंस्तोम^{१३}- -भम् लाश्रौ ६,
४, ८; निस् ६, ११: ३५.

मरुतांस्तोम^{१३}- -मेन आपश्रौ २२,
१३, ४; हिश्रौ १७, ५, २७.

मरुतां-धेनु^१- -नु लाश्रौ ७, १, १.

मरुतां(प्रयति-)^{१३} आपश्रौ २२, ५,
१७; हिश्रौ १७, २, ४५.

मारुतां-भूति- -तौ द्राश्रौ २, २,
३३^१.

मारुत्-त-पावा ५, २, १२२.

मरुत्-पति- -ति: वृदे ६, ११३;
-०ते विध ९८, २७.

मरुत्-पर्जन्य-देवता->त्य-
-त्यम् अअ ४, १५.

मरुत्-मत्- पा ४, २, ८६; ८, ३, ९.

मरुत्-वृत्^{१३}- पाग ५, २, ६१^१:

-फं०व: आश्रौ ५, १४, २; ८,

१, १४××; शाश्रौ: या १०,

३०^{१३}; -वन् निस् २, ११:

१६; -वत: चाअ ३०: ७;

-वता फंश्रौ ८, ७: १२; १९;

-वते फंश्रौ ७, १५, १६; १९,

१^{१३}; काश्रौ; माश्रौ ५, १, १०,

५^{१३}; -फं०वन्म आश्रौ ५, १४,

२; शाश्रौ; -वान् फंश्रौ २, ११,

८; ११६; ७, ११, २५; ८, ८,

२; १२, १७; ९, ७, ३१; शाश्रौ

या ४, ८६.

मरुत्वती- -ती निस् ६,

२: २८; -ती: आपश्रौ १४,

१९, ५; बौश्रौ १४, ४: २९;

वैश्रौ २१, ५: १०; हिश्रौ १५,

५, १९; -तीषु काश्रौ २५, १३,

२^{१३}; माश्रौ ३, ७, १०; छुअ १,

१०: २; -त्य: निस् २, ११:

१४.

मारुत्वत- पा ५, २, ६१.

मरुत्वतीय, या^{१३}- पा ४, २, ३२;

-य: आश्रौ ५, १४, १८;

-यम् आश्रौ ५, १४, २××;

शाश्रौ; -ययो: बौश्रौ २१, २१:

३; २२: ५; हिश्रौ ८, ६, ५;

१०, ४, ७७; छुअ ३, १६८;

-यस्य आश्रौ ५, १४, ४; ७, ६,

४××; शाश्रौ; -या: ऋअ २, १,

१७१; -यात् शाश्रौ ८, १४, ४;

११, १०, ७; वैताश्रौ २७, ४;

३६, ५; -यानाम् आश्रौ ७, ३,

६; आपश्रौ २२, २७, ९; बौश्रौ;

a) ऋत् इति पाठः? यनि. शोषः। b) तु. जीसं.। c) बस.। d) षस. > उस.। e) कस.

उप. नाप. (तु. सा [भू. शौ ३, १३]). f) = ऋषि-विशेष.। g) = ऋतु-विशेष.। h) = एकाह-विशेष.।

i) = साम-विशेष.। j) = साम-नविशेष.?!। पृ १८७१ सस्य. सूक्ति-> -तौ इति नेष्टम्। k) वैप १ द.।

l) पृ ११३४ h द.। m) पामे. वैप १, २४६० b द.। n) पामे. पृ १९२८ h द.।

-याभ्याम् आपश्रौ १३, ८, १;
-याम् आश्रौ ५, १४, २०;
-याय वौश्रौ ८, ४: ३०; वैश्रौ
१६, ८: २; -ये आश्रौ ५,
५, २०××; शाश्रौ; साश्र
१, ४४४; ४४५; -येन आश्रौ
५, १४, १; वाश्रौ ३, २,
४, ६; -यैः आश्रौ ७, ५, २२;
आपश्रौ २१, ७, १७; १७, ५;
वौश्रौ; -वौ आश्रौ ७, ३, २;
आपश्रौ १३, २, ३; वौश्रौ ८,
१: २५; माश्रौ।

मरुत्वतीय-ग्रह- -हस्य
शाश्रौ १४, ५३, ३.

मरुत्वतीय-ग्रहण- -णम्
काश्रौ १०, ३, ३; ७.

मरुत्वतीय-माहेन्द्र-
-न्द्राणाम् आपश्रौ २२, २७,
१८; हिश्रौ २३, ४, ३९; -न्द्रौ
काश्रौ १२८.

मरुत्वतीय-वैश्वदेव- -वयोः
शाश्रौ ७, ९, ५.

मरुत्वतीय-होम- -मम्
वैताश्रौ २२, ३.

मरुत्वतीया(य-अ)न्त-
-न्ते काश्रौ १४, ३, १; १५,
५, १.

मरुत्वत्-य- पा ४, २, ३२.

मरुत्वद्-अनुग्रह- -हः निस् ६,
१३: ५.

मरुत्वत्-सखि^a- -खा शाश्रौ ८,
१६, १; आश्र ३, ५, ७; कौश्र
३, ७, १०; शाश्र ४, ५, ८; अशां
१०, १; अप १, ४०, १.

मरुत्व-स्तोत्र^b- -त्रः शाश्रौ ८, १६,
११.

मरुत्व-स्तोम^c- -मः काश्रौ २२,
११, ११; -मे वैताश्रौ ३२,
१८; -मेन आपश्रौ २२, १०,
१९; हिश्रौ १७, ४, ३८; लाश्रौ
९, ४, २५.

मरुत्व-अङ्गिरस- -रसः काश्र ५, २;
-०रसः काश्र ८, २.

मरुत्व-आदि- -दीन् अश्र ७, ३३.

मरुत्व-गण- -णः वृदे ५, ६७;
-णम् वृदे २, १४४; -गानाम्
काश्र ८, ६.

मरुत्व-ग(ण>)णी^d- -णी
अशां १६, १; -णीम् अशां
१७, ५; -ण्याम् अशां १८-१९,
७.

मरुत्व-गण-प्रधान, ना^e- -नः
वृदे २, १४१; -ना वृदे २, १४३.

मरुत्व-गणप्रधान-त्व- -त्वात्
वृदे २, १४४.

मरुत्व-गण^f- -णः शाश्रौ ८,
१६, ११.

मरुत्व-वृष, धा^g- -वृषः शाश्रौ ८,
१६, १; काश्रौ ५, १३, ३; ऋषा
७, ३२; -घाः या ९, २६७;
-०धे या ९, २६९.

मरुत्व-वृषा(ध-आ)दि- -दीनाम्
पावा ६, २, १०६.

मरुत्व-त्- मरुत्- द्र.

मरुत्त^h- -त्तः शाश्रौ १६, ९, १४;
-त्तस्य शाश्रौ १६, ९, १६.

मरुत्-पति- प्रमृ. मरुत्- द्र.

मरुत्व- (>)मरुत्व-मत्- पा. पाग ४,

२, ८६.

मरुत्क- पाउ ४, ३९.

मर्कⁱ- पाउ ३, ४३; -मर्कः काश्रौ
९, १०, ४; १०; आपश्रौ; आपमं
२, १३, ९ⁱⁱ; आश्रित्य २, १, ३;
१३ⁱⁱⁱ; काश्र ३५, १^{iv}; भाश्र १,
२३: ३^v हिश्र २, ३, ७^{vi};
-काश्र आपश्रौ १२, १५, १;
वौश्रौ ७, ६: ५१; जैश्र १, ८: १४^{vii}
मर्कट^{viii}- पाउशौ २, २, ९७; -टः
वौश्रौ २४, ५: २१; मर्कौ ९५,
१; ३; विष ४४, ४०; -टे वौश्रौ
२, ५: ९^{ix}.

मर्कट^x-> ष्ट-क^x- -काः आपश्रौ
१६, १९, १३.

मर्गा^{xi}- -र्गो आपश्र २०, १२.

मर्च^{xii}- पाधा. सुरा. पर. शब्दे.

मर्चयत्- मृच् द्र.

मर्जू- पाउ १, ८१.

मर्थ- मृच् द्र.

मार्जित्- मृच् द्र.

मर्त^{xiii}- पाउ ३, ८६; -मर्तः आश्रौ
३, १२, ९××; शाश्रौ; -मर्त्तम्
या ५, १७^{xiv}; -मर्तः
अप ४८, ७८; निष २,
३; -मर्तांसः आपश्रौ ३, १२,
१^{xv}; १२, १८, ७; माश्रौ ३,
११, १^{xvi}; हिश्रौ २, ६: १७^{xvii};
आश्रित्य १, ५, ४: २०^{xviii}; या
११, १६^{xix}; १४, २०; -मर्तैषु
आपमं २, ११, २५^{xx}; शुप्रा ४,
१६२; भाशि ८५.

मर्त-शब्दा (ब्द-अ)दि-वः—
पर^{xxi}- -रे ऋषा ७, २६.

a) वस. b) वैप १ द्र. c) = एकाह-विशेष- d) = शान्ति-विशेष- e) = नदी-विशेष- f)

g) = वृष-विशेष- h) वैप १, २४६१ ह द्र. i) सपा. शण्डो मर्कः <> शण्डाय मर्काय <> पाश्र १, १६,

२३ शण्डामर्कौ इति पाभे. j) उत्तरेण संघिरार्षः k) = अन्न-विशेष- l) स्तार्थे कः प्र. 1) = १मर्गा-1

m) पावा १, ४७ परामृष्टः द्र. n) पाभे. वैप १, २४६३ j द्र. o) पाभे. वैप १, २४६२ d द्र. p) वस. > वस. 1

मर्त्य, त्या^०- पाउना ४, २११; पावा ५, ४, ३६; -^०न्त्य आपश्रौ ८, २१, १; बौश्रौ; -^०न्त्यः आश्रौ १०, २, १८; आश्रौ १६, १६, ३; आपश्रौ; -^०न्त्यम् आपश्रौ १२, ६, ५; १२, १५, ३; बौश्रौ; -^०न्त्यस्य काश्रौ १०, ९, ८^b; आपश्रौ ६, १७, १२; बौश्रौ; -^०न्त्याः निघ २, ३१; -^०न्त्यान् शाश्रौ १२, १७, १; आपश्रौ ५, १७, ४; हिश्रौ; या १३, ७४; -^०न्त्यानाम् आपश्रौ १९, ३, ५; बौश्रौ १७, ३८ : १; हिश्रौ; -^०न्त्याभ्यः आपश्रौ ८, २१, १; बौश्रौ ५, १८ : १९; हिश्रौ ५, ६, ४; -^०न्त्याय आपश्रौ १६, १६, १; बौश्रौ; -^०न्त्यासः आपश्रौ ५, ११, ६; १६, १५, ५; बौश्रौ; -^०न्त्ये आपश्रौ १२, ७, १०; हिश्रौ ८, २, ९; -^०न्त्ये[>] ना या १४, २३^०; -^०न्त्येभ्यः या १२, १०^०; -^०न्त्येषु शाश्रौ ६, ४, ५; आपश्रौ १४, १७, १; बौश्रौ; -^०न्त्यैः बौश्रौ ८, २० : १२; द्राश्रौ ६, ४, ८; लाश्रौ २, १२, ९.

मर्त्य-कृत- -तम् बौश्रौ ८, २० : १२; द्राश्रौ ६, ४, ८; लाश्रौ २, १२, ९.

मर्त्य-लोक- -कः कप्र ३, ३, ६.

मर्त्य-वासिन्^०- -सिनाम् कप्र २, ३, ९.

मर्द- √सृद् द्र.

मर्दल- पाउभो २, २, ९३.

मर्दित- √सृद् द्र.

मर्मन्^०- -मंगाम् या ९, २८; १४, ७; -^०र्मणि कौसू ४७, ५१; ४८, ४; विघ ७१, ७५; या ६, ३३; -^०र्मणि काश्रौ १३, ३, १३; वैताश्रौ.

मर्म-शत- -तम् विघ ९६, ८६.

मर्म(मि>)र्मा-विघ^०- -विघम् अथ ११, १०; अत्रा ३, ४, १.

मर्मर- पाउभो २, ३, ३५; पाग २, ४, ३१^d.

मर्मरीक- पाउ ४, २०.

मर्मृज्यमान- √सृद् द्र.

मर्म्य^०- पा ३, १, १२३; -^०र्म्यः अप ४८, ११६^०; या ३, १५४^०; -^०र्म्यम् या ३, १५१^०; -^०र्म्याः अप ४८, ७८; निघ २, ३; या ४, २; -^०र्म्याः आश्रौ ९, ९, ८; शाश्रौ; या ४, २४^०; -^०र्म्यासः उसू २, १८; -^०र्म्यैः या ४, २.

मर्या^० वाधूश्रौ २, १३ : ३; ५; ४, ८९ : ३३.

मर्याकरोरपि शाश्रौ १२, १६, १^f.

मर्यादा^०- -दा आशिष्ट ३, १ : १३^०; या १, ७; ४, २^०; -^०दाः कौसू ७६, २१; ७९, १; या ६, २७; अत्रा ३, ४, १; -^०दायाम् पावा ३, १, २६.

मर्यादा-न्तस्(ः) या १, ७.

मर्यादा(दा-अ)भिधान- -न्म् या ४, २.

मर्यादा(दा-अ)भिविधि- -धौ पावा

१, १, १४; -^०व्योः पा २, १, १३.

मर्यादा-लोष्ट- -ष्टम् काश्रौ २१, ४, २८.

मर्यादा-वचन- -ने पा १, ४, ८९; ३, ३, १३६; पावा ३, ३, १३६.

मर्यादा-वर्चस्क- -स्कयोः कृत ४, ५, ९.

मर्यादिन्^०- -दिनोः या ४, २^e.

मर्च^० पावा. भ्वा. पर. गतौ.

मर्षण- प्रसृ. √सृद् द्र.

मर्षी(क>)का^०- -का कप्र १७, २०.

मल^०- पाउ १, ११०; पाग २, ४, ३१; -^०लम् शाश्रौ १५, १७, १; आपश्रौ ६, २०, २; ७, १२, ४; २१, ६; बौश्रौ; -^०लाः कप्र १, १०, १०; विघ २२, ८१; २३, ४०; ५१; -^०लानाम् विघ ५१, २; -^०लानि वैघ ३, १४, ७; -^०ले काण्ड ४३^० : ९; १३; -^०लैः विघ २२, ७७; २३, १.

मल-कर्षण^०- -णम् शंघ १००^०.

मल-ज(ल>)ला^०- -लाम् अप ६८, १, १४.

मल-जु^०- -जुः काण्ड २, ४; माण्ड १, २, ६; वाण्ड ६, ३०.

मल-मास- -सः काण्ड ४३ : ७; -^०से काण्ड ४३ : १८; ४५ : १२.

मल-वत्- -वति विघ ७१, २४.

मलवद्-वासस्^०- -ससः मीसू ३, ४, १८; -^०ससम् आपण्ड ८, १२; माण्ड १, २० : १०; -^०ससा काण्ड ३, १४; माण्ड १, २, १९;

a) वैप १ द्र.। b) शोषः पृ ३२८ p द्र.। c) उप. < √वस [निवासे]। d) तु. पायम.।

e) सत्यमित्यर्थे अन्वय.। f) पाठः ? शोषार्थे वैप १, २४६५ e द्र.। पृ २६६ सस्थ. अपि, तत्रत्यं टि. च नेष्टम्।

g) मर्या- (भूयन्त-) + षादि- (भूय्यादि-) > द्रस. मर्यादि- > मलर्थायः इतिः प्र. इति दु. रू. प्रसृ.। h) शोषोः इत्यपि पाठः (तु. रू.).। i) = छन्दो-विशेष-। j) = मल-मास-। k) निप. (स्नान-).। उसू.। l) बह. पूष. = मलिन-। m) बस.।

वागृ ९, १९; हिगृ १, २४, ७^३;
आपघ १, ९, १३; हिघ १ ३, १३;
-सा: आपघ ८, १२; बौगृ १,
७, २२; भागृ १, २०:९; वैगृ
३, ९: १.

मल-वर्द्धित- -ने विघं ९९, १८.

मल-संयोग-ज- -जम् शंघ १६३.

मला(ल-अ)न्धकार- -रौ वैगृ ६, ७:
११.

१मला(ल-अ)पकर्षण^६- -णम् शंघ
१००.

२मला(ल-अ)पकर्षण^६- > णा(रा-
अर्थे >) र्था- -र्था शंघ १००.

मला(ल-अ)पोहक^६- -कः वैघ ३,
१५, ११.

मला(ल-आ)यतन- -नम् विघ ९६,
४७.

मला(ल-आ)वह- -हानि विघ ४१,
४; -हेषु विघ ३३, ५.

१मलिन, ना- पाउवृ २, ४९^६; पा
५, २, ११४; -नः विघ ६९,
१२; -नाम् शंघ ३३४; विघ
६९, ११.

मलिन-वसत^६- > न-

जीर्ण-रक्त-वासस^६- -सा: अप
६८, ४, १.

मलिन-वासस^६- -ससा वाघ
१२, ५.

मलिना(न-अ)न्तर^६- -रम् वैगृ
६७: १२.

मलिनी √ कृ > णी-करण- >

णीय- -येषु विघ ४१, ५.

मलीमस- पा ५, २, ११४.

मलदा- -दा वैगृ ५, ४: ३५^६.

मलय^६- पाउ ४, ९९^६; फि ५३;
-यम् शंघ ११६: ९.

मलय-क^६- -के अप ५१, १, ४.

मला^६- -लया अशां २१, ४^६.

२मलिन- (> मालिन्य- पा.) पाग
४, २, ८०.

१मलिम्बु^६- -म्बुवः आपघ्रौ १६,
१०, ४; बौघ्रौ १०, १४: ५;

वाघ्रौ; -म्बुल् आपघ्रौ १६, १०,
३; बौघ्रौ १०, १४: ४; माघ्रौ;

वैघ्रौ १८, ७: २०^६।

मालिम्बुव^६- -वम् चात्र १६:
१३.

मलिम्बु-सेना- -ना तैप्रा ६, ७^६.

मलिम्बुच्^६१- -म्बुचे आपघ्रौ १४,
२५, ११^६.

√मलिम्बुच्^६, १मलिम्बुचामह^६
कागृ ४५, ७; मागृ २, १, १०.

१मलिम्बुच्^६२- -चः शाघ्रौ ६, १२,
१४; आपघ्रौ ११, १५, १;
१६, १८, ८; वैघ्रौ; अप ४८, ८३;

निघ ३, २४; -चाय^६ हिघ्रौ
१५, ६, २९; -चे कागृउ
४३: १०^६; २१; ४५: ११^६।

मलि^६-हा^६- -हा वाघ्रौ ३, ४, ४४.

मलीमस- मल-द्र.

मलुक- पाउना ४, ४३.

मलोप- म-द्र.

१मल(ल >) ला^६- > ञ्ला √ सू >

फ़ला-भवन्- -फवन् आ ४८,
२०; निघ १, १७.

√मल्ल पाधा. भ्वा. आत्म. धारणे.

मल्ल- (> माल्ल- पा.) पाग ४,
२, ७५.

मल्लक- पाउभो २, २, ७.

म(ल्लक >) लिलका- पाउवृ २, ३२.

मल्लूर- पाउवृ ४, ९०.

१मल्व^६- -ल्वः अप ४८, ११६; -ल्वम्
अत्र १२, १^६।

मल्हा^६- -ल्हा काघ्रौ १५, १०, ३;
माघ्रौ ५, २, १०, १३; -ल्हा:

आपघ्रौ १९, १६, ६; हिघ्रौ २२,
१, ६; -ल्हाम् आपघ्रौ १८, २१,
१३; बौघ्रौ १२, १९: ६; २४,
११: ५; ३८: ७; हिघ्रौ १३,
७, २२.

√मव^६ पाधा. भ्वा. पर. बन्धने.

मव^६-

१मवतासाम् माघ्रौ ६, २, १४.

१मवानारम्भमक्षणम् जैश्रौका १८६-

मवूल- पाउना ४, ९६.

√मव्य पाधा. भ्वा. पर. बन्धने.

√मश पाधा. भ्वा. पर. शब्दे, रोष-

कृते च.

मशक^६- पाउभो २, २, ७; -कः

बौघ्रौ १६, २७: २३; लाघ्रौ

७, ९, १४^३; आपघ २, १६, १५-

१७^६; हिगृ २, १६, ५^६; शंघ
३७७: १२; -फकान् आपघ्रौ

a) तु. भाष्यम्; वैतु. Böht [ZDMG ५२, ८६] Old. च ञ्साः इति शोघः ?। b) विप. (स्नान-)।
उस.। c) षस.। d) < √मल्। e) बस.। f) = पर्वत-विशेष-। g) = देश-विशेष-। अदूरभवार्ये
कः प्र. उरसं. (पा ४, २, ८०)। h) = ओषधि-विशेष-। i) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.। j) म्बुन् इति
पाठः ? यनि. शोघः (तु. आपघ्रौ.)। k) विप. (सूक्त-)। l) = मलिम्बुच्-। व्यु. वैप १, २४६६ n द्र.।
m) पाभे. वैप १, २४६७ b द्र.। n) घा. मलाधाने वृत्तिः। o) पाभे. वैप १, २४६६ g द्र.। p) नाप. (बाल-
ग्रह-असुर-)। शिष्टं वैप १ द्र.। q) = मल-मास-। r) ञ्चः इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. पूर्व स्थलम्)। s) वैप १ द्र.।
t) पाठः ? शोघार्थं वैप १, २४६७ i द्र.। u) पा ६, ४, २० परामृष्टः द्र.। v) पृ १९०१ a द्र.।

२१, १२, ३; हिश्रौ १६, ४, ३५;
 -कैः बौध ४, ९, ५; बाध ३,
 ४६.
 मशक-मक्षिका-निलीन- नम् वैध
 ३, ४, ८.
 मशका(क-अ)द(न>)नी- न्याः
 कौय १, १५, १०.
 ✓मष् पाधा. भ्वा. पर. हिंसायाम्.
 मष- -षम् शांय १, २४, ७.
 मषी- -षीम् कौय १, १६, १६.
 मष्मषा- -षा भाशि ११९; १२०.
 ✓मस् पाधा. दिवा. पर. परिणामे.
 मसमसा (>सा✓कृ पा.) पाग
 १, ४, ६१.
 म-सवर्ण- म-द्र.
 मसामित्वा वाधुश्रौ ३, २९ : ३.
 मसार- पाठभो २, ३, ४५.
 मसि- पाठ ४, ११८.
 मसिन- पाठवृ २, ४९.
 मसीय ✓मन् द्र.
 मसुर- पाठ १, ४३; -राः अशां
 १२, ३.
 मसुर-कर्ण- पा २, ४, ६९; पाग २,
 ४, ६९; ४, १, ११२.
 मासुरकर्ण- पा ४, १, ११२.
 मसुराक्ष- > मासुराक्ष- -चाः
 बौश्रौप्र १२ : १.
 मसुर- पाठ ५, ३; पाग ४, ३, १३६;
 -राम् अप ४६, १, ४.

मासुर- पा ४, ३, १३६.
 मसुर-कर्ण- (>मासुरकर्ण-)
 मसूस्य- -स्यानि आपश्रौ २०, १०,
 ५; हिश्रौ १४, ३, ३.
 मसूस्य-चर्मन्- -साणि बौश्रौ १५,
 १६ : ५.
 मसृण- पाठभो २, २, १२३.
 ✓मस्क् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.
 मस्कर- ऋत ४, ७, ६; पा ६, १,
 १५४; पाग ६, १, १५३.
 मस्करिन्- पा ६, १, १५४; पाग
 ६, १, १५३.
 ✓मस्ज् पाधा. तुदा. पर. शुद्धौ.
 मस्तक- पाठवृ ३, १४८; पाग २,
 ४, ३१; -कात् आश्रित २, ६,
 ७ : १६; -कै वैय २, ५ : ५;
 ३, २३ : ७.
 मस्तम् अप ३६, ७, २.
 मस्तिक- -ष्कः वाधुश्रौ ४, २० : २;
 -ष्कस्य आपश्रौ १७, २४, ३;
 वैश्रौ १९, ८ : ४; -ष्कात्
 आपमं १, १७, ११.
 मस्तु- पाठ १, ६९; -स्तु काश्रौ
 ७, ८, ८; -स्तुना कौस् ८७,
 १८.
 मस्मसा- -सा शुप्रा ५, ३७१;
 पाग १, ४, ६१.
 मस्मसा- कृ पा १, ४, ६१.
 ✓मह, मह-, मह- ✓मंह द्र.

मह- पाग ४, १, ४१; २, ८०.
 मह- १मही- पा ४, १, ४१.
 महिन्- पा ४, २, ८०.
 महत्- ✓मंह द्र.
 महत्- माय १, २१, १०.
 महत्- प्रयु. ✓मंह द्र.
 महयु- > माहयव- -०व हिश्रौ
 २१, ३, १०.
 महयु-वत् हिश्रौ २१, ३, १०.
 महवन्- -होनाम् गौषि २, ४, ७१.
 महस्- ✓मंह द्र.
 महस्- पाठ ३, ११७.
 महा ✓मंह द्र.
 महा- माश्रौ २, ५, ४, १३.
 महा- (>महिन्-)
 महाकर्णायन- -नाः बौश्रौप्र ४७ : ३.
 महाचक्रेय- -याः बौश्रौप्र ४१ : ११.
 महाचित्त- (>माहाचित्त- पा.)
 पाग ४, २, ८०.
 महाजपत्र- -त्रम् कौय २, ५, ३.
 महादमत्र- -त्रम् शांय ४, १०, ३.
 महानग्न, श्रा- -गम् शांश्रौ १२,
 २४, २१; -गनाम् आपश्रौ १५,
 २०, ८; भाश्रौ ११, २१, ९;
 भाय ३, ६ : १८.
 महानग्नी- -ग्नी शांश्रौ १२, २४,
 २; वृदे १, ५५.
 महान(ज्>)श्री- -घ्न्याः कौस्
 १३९, १५; अप ३२, १, १०.

a) विप. (वीर्य-). उस. । b) पाभे. पृ १९०० f द्र. । c) नाप. । d) वैप १ द्र. । e) ✓मस् इत्येके । f) परिमाणे इति दे. MW. । g) = मसुर- । h) व्यप. । i) तु. पागम. । मसुर इत्यपरे, मसु इति भाण्डा. प्रमु. । j) °सु इति पाका. । k) = धान्य-विशेष- । l) = वेणु- । <मा + ✓कृ इति केचित् । m) तु. पागम. । n) = परिव्राजक- । <मा + ✓कृ इति पागम. । o) पा ७, १, ६० पावा १, १, ७; ४७; ७, २, ११४ परामृष्टः द्र. । p) = मस्तिक- । q) महा- इति पाका. । r) पाभे. वैप २, ३ खं. बहुधा तैत्रा २, ७, १७, ३ टि. द्र. । s) पाभे. पृ ३३६ ० द्र. । t) पाभे. पृ ३३६ ७ द्र. । u) पाभे. वैप १, २३८९ p द्र. । v) महा (महान्ता) कवी युवाना, सत्याद् आ धर्मणस् पती [सं२]। परि सत्यस्य धर्मणो वि सख्यानि सज्जामहै इति शोभितः पाठः द्र. । w) पाभे. पृ ७३६ j द्र. । x) सथा. महाजपत्रम् <> महादमत्रम् इति पाभे. । y) पाभे. वैप १, २४६८ 8 द्र. ।

महापुत्र- (>महापुत्रि- पा.) पाग
४,२,८०.

महावाक्य^१- -ल्याः बौश्रीप्र ७ : २.

१ महाम् √मंह् द्र.

महामनेन अत्र ६, १३३.

महामहयोः वाघ १९, १६.

महावेल्- -लाः बौश्रीप्र १७:१०.

महासीः निस् ९, ९ : ५३.

महि- √मंह् द्र

महित^१- (>माहित्य- |>हित-|
पा.) पाग ४,१,१०५;२,१११.

महित्री, महिन्- √मंह् द्र.

२महिन्- २मह- द्र.

३महिन्- महा- द्र.

महिन्- √मंह् द्र.

महिम् हिश्री २१,१,१;२.

महिमन्- √मंह् द्र.

महिर- पाउन्ना १,५०.

महिल,ला- पाउ १,५४; पाग ५, ४,
१३८.

महिला-पाद- पा ५,४,१३८.

महिष^१- पाउ १, ४५; पाग ६, ३,
१०८^०; -फंष आपश्री १६,१२,
११; माश्री २,३,७,४^१; हिश्री
११, ५, ७; -फंषः आश्री ६, २,
६××; शाश्री; या १४,१३^३; १७;
-षाः आपमं २,११,२३^३; अप
७१,३,५; या ७, २६^१फं.

महिषी^१- पाग ४,४,४८^१;

-षी शाश्री १२, २१, २^३फं^१;

काश्री^१ १६, ३, २०××; आपश्री;
अप ७१, ७, ४^६; शंघ ३०५^६;
विघ ५, १४०^६; -फंषीः^१ बौश्री
४, २ : २२; माश्री ७, ३, ५;
माश्री; -षीणाम् बौश्री १८,
४५: ४^६; -षीम^१ आश्री १०,
८, ९; शाश्री; अप ६८, २,
३२^६; -व्याः काश्री १५, ३, ६;
बौश्री २६, १ : १२; वाश्री ३,
३,१,३५^१; वृदे ५, ६३; -व्याम्
बौश्री १२,११:१०; -व्यै बौश्री
१२,५:२०^१.

१महिष^१- पा ४,

४,४८^६; -षम् बौश्री २८,१३:

४; वैश्री ११,११:१०; शंघ

१५५; ४१८; -षाणि कौस्

१७,२६^१.

माहिषेय^१- -यः

आपश्री ९,२०,७.

माहिव्य^१- -व्यम्

शंघ ४१८.

महिषि-(क>)का^१-

-काम् काग १९,७.

महिष्य(षी-अ)षाढा-

-द्वयोः फि ६८.

२महिष^१- -षम् शंघ २२२;

-षेण आपघ २, १६, २७; विघ

८०,१०; हिघ २,५,२६.

महिष-क->क-वृषभ- -भाः

अप ५१,४,५.

महिष-वृष-वराहादि-द्विरद-

जलराण- -णैः अप ६५, २,२.

१महिष-मत्^१- पावा ४,२,८७.

२महिषमत्^१->माहिषमती^१-(>
व्येक- पा.) पाग ४,२,९५.

१मही- २मह- द्र.

२मही^१- पाग ४,२,९७;-फं०हि आश्री

२,१,२९; शाश्री; -फंही आश्री

२, ९, १४××; शाश्री; आपश्री

१६, ७, ३^६; हिश्री ११, २,५^६;

कौग १,१६,१८^६; ३, १५,५^६;

शांघ ३, १३,५^६; माग १, १४,

८^६; अप ४८, ९२^६; १०२^६;

निघ १, ११^६; २, ११^६;

३, ३०^६; या ४, २१^६; ५,

२२^६; -फंहीः आश्री २,१९,

२२; बौश्री १८, १६:१४;

आपमं; -फंहीनाम् काश्री २,

५, ९; ७, २,३०; आपश्री;

-फंहीम् आश्री २, १, २९;

१०, २१; ३, ८, १××; शाश्री;

-फंहा बौश्री २, १०:३; १०,

३१:६××; आपमं; -फंहाः

आपमं १, ६, १३; २, १९,४^६;

आपमि ३, १,१:१५^६; काग;

बौग २,११,२६^६; माग २,११:

१४^६; हिग २, १०,७^६; -फंही

आपमं १,६,१४; ८,९.

१माहेय(वत्रा.)- पा ४, २,

९७;-यः^२ बौश्री १७,१८:५;

a) व्यप. । b) वैप १ द्र. । c) तु. पागम. । d) पाभे. वैप १, २४०० गृ.द्र. । e) वैप १

निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । f) = राज-महिषी- । g) = सैरिमी- । h) वैप १, २४६९ l, m द्र. ।

i) परस्परं पाभे. । j) विकारार्थे प्र. । k) = राजमहिषीप्राह्यभाग- । l) = राजमहिषी-गृह- ।

m) अपत्यार्थे ढक्>एयः प्र. उस्. (पा ४,१,१२३) । n) = क्षीर- । विकारे यञ् प्र. उस्. (पावा ४,१,८५) ।

o) = देवता-विशेष- । स्वार्थे प्र. । p) विप. (मास-) । श्रवणार्थे प्र. । q) = देश-विशेष- ।

r) = नगरी- । तेननिर्दिष्टः प्र. । s) पाभे. वैप १, २३८९ i द्र. । t) महीम् इति पाठः ? यनि. शोषः

(तु. शांघ.) । u) सप्र. मही<>महाः इति पाभे. । v) पाभे. वैप १, २४७० गृ.द्र. । w) = गो-

x) = वाच्- । y) = यावा-पृथिवी- । z) = नाग-विशेष- ।

बौध ३, १०, ६^{१६}; -यस् वाध
१५, २०^b.
मही-तल- लं अप १०, १, २१;
५७, २, ४.
मही-देवता->°य- स्यम् अग्र
२, ३१.
मही-ध्र°- पावाग ३, २, ५.
मही-निखन- -नेन विध २३, ३.
मही-पति- -तये अप २०, ४, १;
-ति: अप २, १, ३; ६××;
-तिम् अप ५३, ३, ४; -ते:
अप ६३, ४, ५.
मही-पाल- -०ल विध १८, १२;
-ल: अप २, २, ५.
मही-भस्म-प्रदिग्धा(ग्व-अ)
ङ्ग-ङ्ग: अप ६८, ५, १०.
मही-भाग- -गम् अप २, ३, १.
मही-म(य>)यी- -यी कप्र ५, १०
मही-रुह^d- -हम् अप २३, ९, ४.
३मही->√२महीय पा.) पाग ३,
१, २७.
√१महीय √मंहू द्र.
महीयत्व[.ल°]-(>माही° पा.) पाग
५, २, ६१.
महीयमान-°या- √मंहू द्र.
महीलुका^f- -का अत्रा ३, ४, ११.
महीपाह-, महेन्द्र- प्रघ. √मंहू द्र.
महेला- पाउभो २, ३, ११३.
महेश्वर- प्रघ. √मंहू द्र.
महोदकि- -कय: बौश्रौप्र ४३: २.
महोदय- प्रघ. √मंहू द्र.
मह्य- -ह्यौ चाअ १५: ६.

मह्यम् अस्मद्- द्र.
मा^१ ऋश्रौ २, १९, ३६××; शाश्रौ;
माश्रौ २, ३, ७, २^३फ^६; आपमं
२, ३, ३१^१फ^१; आग १, २०, ७^१फ^१;
कौष्ट २, ८, ९^१फ^१; शांष्ट २, १८,
४^१फ^१; आग्निष्ट २, ४, १: २०^१फ^१;
काग ४१, १७^३फ^१; ह्यिष्ट १, २, ७,
८^१फ^१; या ६, २४^१फ^१; पाग १, १,
३७:४, ५७^२; पावा १, २, ९.
मो(मा-उ) काश्रौ ५, ५,
११^१फ^१.
२मा(मा-आ)^k- माभ्याम् ऋत ५,
६, ३.
माकिम् पाग १, ४, ५७.
माकिस्(:)^१ अग्र १९, ४७^१फ^१; निघ
३, १२^१फ^१; ऋश्रौ ३, ७३:५, ३७;
तैप्रा ६, ५^१फ^१; पाग १, ४, ५७.
माकीम्^१ पाग १, ४, ५७.
मानस्तोक^१- -कैन अप ३८, २, ५.
मानस्तोकीय^१- -यम् बौध ३, २, ६.
मान-शब्द- (>°बिदक- पावा.)
पावाग ४, ४, १.
√मा ([=√मि] बधा.)^m पाधा.
अदा. पर., जुहु. दिवा. आत्म.
माने, मिमीते शाश्रौ १७, १०,
७; ८; काश्रौ ४, ८, २; ५, ३,
१९×× आपश्रौ; बौश्रौ २१, १२:
१२^१; मिमते आपश्रौ ५, २१,
१०; ऋमिमीमहे कौसू ८५, ३;
१२; ऋमिमीताम् आश्रौ ८,
१, २३; ९, ५, ५; शाश्रौ;
ऋमिमीहि° अप ४८, १२; निघ

३, १९; मिमीत नाशि २, ६, २;
ऋमिमीत आश्रौ ४, ६, ३; शाश्रौ
५, ९, ७; बौश्रौ; या ९, १०^१फ^१.
ऋमिरे कागृउ ४०: ७; बौष्ट
३, ११, ४; मीयात् बौश्रौ
२३, १९: ७; ऋमासि कौसू
८५, १७; अग्र १८, २.
मीयते वाधुश्रौ ४, ११३: ७;
अप ६१, १, २१; बृदे ५, १५३.
मापयति बौश्रौ १८, २१: ४;
मापयन्ति बौश्रौ १८, ४८: २४;
४९: ७; १५; ५०: ३; २५,
५: ६; मापयेत् बौश्रौ २५,
५: ७; ८; अग्र २, ७, १०: ८, ९;
आपय २, २५, २; ह्यिष्ट ५, १८.
ऋमा^१- मा काश्रौ १७, ९, ९;
आपश्रौ १५, ८, २; १७, २, ४;
भाश्रौ; ऋप्रा १७, १९.
२मा(मा-आ)दि- -दीनाम् ऋप्रा
१७, २०.
मात्र^१- पा ५, २, ३७; -त्रे शौच
४, २२.
मात्रा^१(बप्रा.)- पाउ ४, १६८;
-त्रम्^१ माशि १३, ३^१; -त्रया
ऋश्रौ ३, ८, १; ७, ९, ४; शाश्रौ;
कौशि ६०^१; -त्रयो: अप ४७,
१, १८; -त्रा आश्रौ १०, ९,
२^१फ^१; शाश्रौ; या ४, २५^१फ^१;
ऋप्रा १, २७^१; ३, २७; शुप्रा १,
५६^१; ७३^१; २, २८; ऋत २, ३,
८^१; ४, १^१; ६^१; ५, २^१; शौच १,
३८^१; माशि^१ ४, १२; ९, ९; १३,

a) मह्यः इति पाठः ? यनि. शोचः (तु. बौश्रौ.) । b) विप. (पात्र-) । c) = पर्वत- ।
उप. < √ घ [धारणे] । d) = वृक्ष- । e) पाका. पाठः । f) वैप १ द्र. । g) पाभे. वैप १, १९९१ n द्र. ।
h) पाभे. पृ ४६८ g^१ द्र. । i) पाभे. वैप १, १८९४ g^१ द्र. । j) वैप १, ६११ y द्र. । k) द्वस. ।
l) < मानस्तोके (ऋ १, ११४, ८) । m) पा ३, २, २; ६, ४, ६६; ७ ४, ४०; ५४; ७६ परामृष्टः द्र. । n) उत्तरेण
संधिरार्षः । o) धा. याच्नायां वृत्तिः । p) = [प्रनाणार्थक-] प्रत्यय-विशेष- । q) पाठः ? आम् इति शोचः
(तु. सप्र. ऋप्रा १३, ५०: याशि १, १७:) । r) = हस्वकालपरिमाण- ।

२, याशि १, ११^३; १८^३; २, २०^३;
 नाशि २, ३, ८^३; -त्राः आपश्रौ
 २, २, ८; बौश्रौ; वाध २०, ४५^३;
 या ११, १२; -त्राणाम् याशि
 १, १८^३; -त्राभिः बौश्रौ २६,
 २४ : ३; अप ४७, २, ७; -त्राम्
 बौश्रौ १६, २६ : ११; २०,
 २४ : २८; आपमं; विघ ६५,
 १४^०; या १, ८^३; याशि १, १७^३;
 -त्रायाः कौशि ६५; -त्रायाम्
 हिश्रौ १, ८, १६^३; निस् ९, २ :
 १२; शैशि १८९; याशि २,
 २३^३; -त्रे याशि १, १४^३;
 -त्रेभ्यः या १३, ११.
 प्मात्र-त्रस्य पावा १, १, ३;
 -त्रे पावा ५, २, १४.
 मात्रा-काल^३ -लः याशि १,
 १०; -लम् कौशि ६९.
 मात्राणुमात्रा^३ -त्राः शुप्रा ४,
 १४९.
 मात्रा(त्रा-त्र)णू-भाव-न्वात्
 या ६, ३०.
 मात्रा-द्विमात्रा-वृद्ध^३ -द्धानाम्
 नाशि १, ६, ७.
 मात्रा(त्रा-त्रा)धिक्य-क्यम्
 शैशि १९५.
 मात्रा(त्रा-त्र)पचार-रे आपश्रौ
 २४, ३, ५४; हिश्रौ ३, १, २६.
 मात्रा(त्रा-त्र)पपाठ-ठात् याशि
 १, ४२.
 मात्रा-परिग्रह-हः ऋप्रा १३,
 ५०; माशि १३, ३.
 मात्रा(त्रा-त्र)र्ध-धम् पावा १,

२, ५०^३; -र्धे पा २, १, ९.
 मात्रा(त्रा-त्र)र्ध-धम् शौच १,
 ५०; १०७.
 मात्रा-लक्षण-णम् कौशि ६८;
 ७०.
 मात्रा-वत् काश्रौ १, ९, ७; ८,
 २, २३.
 मात्रा-वर्णा(र्ण-त्र) विभक्तत्व-
 त्वात् मीसू ७, २, ९.
 मात्रा-विशेष-षः ऋप्रा १३,
 ४८.
 मात्रा(त्रा-त्र)वेदन^३ -ने वैश्रौ
 २०, १ : ४.
 मात्रा-संसर्ग-गात् ऋप्रा १३,
 ४०.
 मात्रा-सङ्ग^३ -ङ्गात् वाध १०,
 २२.
 मात्रा-संपूरण-णाय निस् ९,
 १२ : २७.
 मात्रिक, का^३ -कः शैशि ३२;
 याशि २, ४२; ७१; नाशि १, ८,
 ३; -कम् शैशि १९४; २२७;
 याशि १, १२; ९१; नाशि २,
 ३, ६; ४, ३; ६, १०; -काः याशि
 १, १७; -के याशि १, ६७; २,
 ४२.
 मात्रैकम्^३ माशि ११, १.
 मात्रो(त्रा-उ)पज्ञो(ज्ञा-उ)पक्रम-
 च्छा(या>)य-ये पा ६, २,
 १४.
 माथित्वा शंगृ १, ८, १४^३; मायृ
 २, ११, १६.
 मथित्वा काश्रौ १६, ८, १; बौश्रौ

२५, १० : २; वाश्रौ.
 मिमान-नः बौश्रौ ६, १४ : १७;
 ७, ५ : १२; ८, १ : ८; वैश्रौ;
 -नम् वैताश्रौ १५, ७; कौसू
 १३७, १०; -ना या ८, १२^३कृ;
 -नाः या ६, ६^३.
 मीयमान-नः अप्राय ३, १^३;
 -ने आपश्रौ १४, ८, ५^३; ९, ४;
 हिश्रौ १०, ८, १०; १३; -नेषु
 हिश्रौ १६, २, ३.
 मे(या>)या-या बौश्रौ १९, १ :
 ८; -यायाः निस् ७, २ :
 १३.
 √मा पाधा. जु. आत्म. शब्दे, ऋमिमति
 आश्रौ २, १३, ७; या २, ९कृ;
 ११, ४२.
 मायु^३ पाउ १, १^०; -युः शाश्रौ
 १६, ३, १४^३; १२, १३^३; अप ४८,
 १०२^३कृ; निघ १, ११^३; -युम्
 शाश्रौ ४, १७, १२; काश्रौ; या
 २, ९कृ; ११, ४२कृ; -युम्
 बौश्रौ ११, ४ : १७; २१; १५,
 २८ : २८; २९ : १३.
 रमा^३ अस्मद्-द्र.
 रमा- मा द्र.
 रेमा- √मा (बधा.) द्र.
 र्मांश्चत्व^३ -त्त्वः अप ४८, ९३;
 निघ १, १४; -त्वे ऋप्रा ४, ८२;
 १३, २७.
 मांस्^३ पावा ६, १, ६२.
 र्मांस्-पच(न>)नी^३ पावा ६,
 १, १४०; -न्याः ऋप्रा ४, ८२;
 शुप्रा ४, ४२; ५, ४३.

a) = ह्रस्वकालपरिमाण-। b) = संपत्ति-। c) = दर्पण-। d) = स्वर-भक्ति-। e) वस-। f) पाठः ?
 मात्रार्धमात्राऽणुमात्राः इति शोधः (तु. भाष्यम् [१, ६०])। g) मात्र-द्विमात्र इति लासं। h) वस- (तु. भाष्यम्)।
 i) उप- = अत्रालम-। j) पूष- = इन्द्रिय-। k) विप., नाप. (एकमात्रात्मकत्वर-). भवार्थे इदमर्थे च प्र.। l) मात्रिक-
 > -कम् इति शोधः (तु. मूको.)। m) पामे, पृ १७१८ m द्र.। n) वैप १, २४७४ l द्र.। o) < √मि।
 p) = श्याल-। q) = वाच्-। r) पृ ४६८ यनि. संख्यानिर्देशः द्र.। s) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.। t) वैप १ द्र.

मांस-पाक- पावा ६,१,१४०.

मांस^a- पाठ ३,६४; पाग ४,१,४१^b;
४, १०२^b; ५, २, ९७; पागवा
५,१, १०१; -सम् शाश्रौ २,
३, २६; ४, १८, १०; आपश्रौ
५,७,६; १६; २५,१९; ६,१५,४;
८, ४, ५; ९,४, १५; १५, २१,
७; १६,८,९; १०; २२,३, १६;
काठश्री; आगृ १, २३, २३;
आमिगृ २,४,४: ६; ५,८: १६;
३,१,३: ३७; आपगृ २२, ११;
बौगृ २, ७, १८; ११, १५; ३४;
६५; ३, ४, ३४; मागृ २, १४,
२८^c; वागृ ३, ७; वैगृ ५, १२:
६; ११; हिगृ २, १३, ४; गोगृ ४,
७, २९; जैगृ १, १४: १४; द्रागृ
३, ५, ४; कप्र ३, ८, ६; अप १,
३३, २; २७, १, २; ६७, ४,
१; ७०^d, १९, ७; ७१, १४, १;
वाध २, २६; ४-५, ७; ११, ३४;
३७; १२, २३; २०, २६; २३,
११; शंघ ३९०; ४१८; ४४८;
आपध १, १६, १६; १८, १; २५,
१३; २, ५, १६; १६, २८; १८,
१; १९, १४; बौध १, ११, ३६;
३, ३, ६; ४, २; ७, ८; विध २३,
५०; ४३, ३९; ४४, २१; ५१,
७१^e; ७३; ७८; ८०, १४;
वैध २, १५, ५; ६; ३, ५,
९; हिध १, ५, १५; ७१; ७,
१०; २, १, १८; ५, २७; ३१;
५३; ८५; गौध १४, ३७; १६,
३; २४, ८; वृदे ७, ७८; या ४,
३३^f; १४, ६; माशि ४, १४; ९,

११; मीस् ३, ८, ४२; -सस्य
आपश्रौ १५, १५, १; भाश्रौ ११,
१५, २५; हिश्रौ २४, ६, १२;
आगृ; -सात् आपश्रौ १५, १७,
८; भाश्रौ ४, ३, ३; ११, १७, १०;
माश्रौ; -सानाम् भागृ २, १७:
१; हिगृ २, १५, ९; १०;
-सानि पागृ १, ११, ५; अप्राय
३, १०; विध-५१, ७६; -से
अअ १, ११^g; माशि ४, १४;
-सेन आपश्रौ ६, १५, १; १६, १९,
१; भाश्रौ ६, १४, १४; वाधूश्रौ;
पागृ १, १६, २^h; -सेषु आपमं
२, ११, १९^h; -सै: पागृ १,
११, ५; अप १, २७-२८, २;
३०, २; ४४, ३, १०.
मांसीⁱ- पा ४, १, ४१; -सी
अप ३५, २, ४.
मांस-काम- -म: गौपि १, १, २७;
-मा: हिपि २१: १६; आमिगृ
३, ९, १: ४; बौपि २, ५, १.
मांस-श्रीरौ(र-ओ)दन-मधु-कु
(ल्य>)ल्या- -ल्याभि: कप्र २,
४, १५.
मांस-चर- -रुम् गोगृ ४, १, ६; २,
१४.
मांस-त्तस() माश्रौ १, ५, १, १७;
२, १, २, २; ३.
मांस-तैल-विपाक- -का: अप ६४,
६, ८.
मांस-स्व- -स्वम् विध ५१, ७८.
मांस-स्वग्-अस्थि- -स्थि अप्राय ३,
८.
मांस-धौत^e- -त्स्य आपश्रौ ६, १२,

३^g.
मांस-परिवर्जन- -नात् विध ५१,
७७.
मां.मांस-पाक^h- पाग ७, ३, ५३;
-क: मीस् १२, २, ६.
मांसपाक-प्रतिषेध- -ध: मीस्
१२, २, २.
मांस-पिप्पलि^h- -०लेⁱ आपमं २,
२१, १^g.
मांस-पेशी^h- -शम् अप ६७, ७, २.
मांस-पेशी^h- -शी अप १, ३५, १;
-शीम् गोगृ ४, २, १२:
मांस-प्रतिषेध- -ध: काश्रौ १, १,
२१.
मांस-भक्षण- -णम् आपध १, २१,
१४; हिध १, ६, ४४.
मांसभैशाहार^h- -र: सुघ ४७.
मांस-मत्स्य-तिल-संसृष्ट-प्राशन-
-ने बौध २, ३, २३.
मांस-मधु-घृतौ(त-ओ)षधि-गन्ध-
पुष्प-मूल-फल-रस-दारु-यत्रा(त्र-
अ)जिन-मृन्नाण्डा(ण्ड-अ)
श्मभाण्ड-वैदल- -लेभ्य: विध
३, २५.
मांस-मय- -न्या: निस् १०, ९:
२०.
मांस-माष-लक्षण-वर्जम् वाश्रौ १,
१, २, २.
मांस-सुख^h- -स्व: कौस् १२९, १;
-स्वे कौस् ९३, ३६.
मांस-मैथुन- -ने काश्रौ २, १, ८.
मांस-ल,ला- पा ५, २, ९७; -लाम्
बौश्रौ २, ८: १; -ले अप ६३,
१, ८.

a) वैप १ द्र.। b) तु. पागम.। c) पाभे. वैप १, २४७५ i द्र.। d) = ओषधि-विशेष-। जटा-
मांसी-,'सुरामांसी-। e) तुस. पूष. = [उपचारात्] हस्त.। f) भाण्डा. [पक्षे], पासि. पाठः। g) नाप.।
उस. उप. कर्तारि अण्प्र.। h) नाप.। अर्थः?। i) सगा. शांगृ ३, १२, ५; १४, २ सुमनामुषि इति पाभे.।
j) = मांस-खण्ड-। k) पाठः? मांसं भैक्षं इति द्विपरः शोषः (तु. सप्र. सुघप [८६: ११])। l) बस.।

मांस-लवण-मिथुन-माष^१- -वेभ्यः
 शांश्रौ ४, १, ३.
 मांस-लवण-लाक्षा-क्षीर-विक्रयिन्-
 -यी विघ ५५, २१.
 मांस-वत्- -वत् आपमं २, २०,
 ३३; पाण्ड ३, १०, ४८; आम्रिण्ड
 ३, २, ६; १; भाण्ड २, १७: २;
 हिण्ड २, १५, ९.
 मांस-वर्जन- -नम् आश्रौ ३, १४,
 १९.
 मांस-वर्जम् आपश्रौ १०, १६, १४;
 आण्ड १, ९, ५.
 मांस-वर्ष^२- -र्षेण अप ७१, ८, ३.
 मांस-शेष- -शेषेण बौण्ड २, ११, ५०,
 भाण्ड २, १७: १५; हिण्ड २, १५,
 १३.
 मांस-शोणित- पाण्ड २, ४, ११.
 मांसशोणित-कर्दम^३- -माः
 अप ६२, १, ८; २, ४.
 मांसशोणित-नान्ध- -नधानि अप
 ७१, १२, २.
 मांसशोणित-वर्षण- -णे अप
 ७१, १, ३.
 मांस-संहित, ता- -ताभ्याम् काश्रौ
 २, ६, ३२; आपश्रौ २, १८,
 १०; भाश्रौ २, १७, ९; वाश्रौ
 १, १, १, ३१; वैश्रौ ६, ८:
 ३; हिश्रौ २, २, १४; जैण्ड १, ३:
 २२; -ते काश्रौ ७, ३, १७; भाश्रौ
 १०, ५, १४; हिश्रौ ७, १, ४५.
 मांस-सस्या (स्य-अ)न्न-विद्वेष-
 -वः अप ६४, ५, ५.
 मांस-सुख^४- -खाः आम्रिण्ड ३, ४,
 २: १७; बौपि ३, २, ३; गौपि १,

२, ४१.
 मांस-स्त्र्य (स्त्री-अ)नृत- -तानि
 काश्रौ ५, २, २२.
 मांस-स्त्र्य (स्त्री-अ)नृत-मूत्रकृतवा-
 सस्^५- -सांसि काश्रौ ४, ४, २७.
 मांसा (स-आ)दि- -दीनाम् सुवप
 ८७: १६.
 मांसा (स-अ)नशन- -नम् शांश्रौ ३,
 १३, ३०.
 मांसानशाना (न-आ)दि-व्रत-
 -तानि वैश्रौ ८, ८: ६.
 मांसा (स-अ)भाव- -वे आम्रिण्ड
 ३, १, ३: ३७; हिण्ड २, १३, ५.
 मांसा (स-अ)भिघार^६- -राः गौण्ड ४,
 २, १३.
 मांसा (स-अ)वदाना (न-अ)र्थ-
 -र्थः कप्र ३, १०, ३.
 मांसा (स-अ)शन- > ^७न-श्राद्धसूतक
 भोजन- -नेषु शाण्ड ६, १, ७.
 मांसा (स-आ)शा- -शा आपश्रौ ७,
 २८, ८^१.
 मांसा (स-अ)ष्टका^८- -का जैण्ड २, ३:
 २.
 मांसिक- पा ४, ४, ६७; १०२; ५,
 १, १०१.
 मांसीय, मांसीयन्ति आपश्रौ ७,
 २८, ८^१; वाधूश्रौ ४, १०: २.
 मांसो (स-उ)क्त- -क्ते वैध ३, ५, ६.
 मांसो (स-ओ)दन- -नम् अप १, ३६,
 ५; बौण्ड २, ११, ३६; जैण्ड २,
 ९: २७^१.
 मांसो (स-उ)पर्यासन- -ने काश्रौ
 १६, १, २९.
 मांसो (स-उ)ष्णता- -ता अप ६८,

१, २५.
 मांसो (स-ओ)दन- पाण्ड ४, ४, १०२^६;
 १०३; पाण्डवा ५, १, १०१;
 -नम् आम्रिण्ड २, ५, १: ३६^१;
 आपण्ड २२, ५.
 मांसोदन-पिण्ड- -ण्डान् माण्ड
 २, ९, ८.
 मांसोदनिक- पा ४, ४, ६७;
 १०२; १०३; ५, १, १०१.
 मांसोदनिका (क-आ)दि-
 -दिषु पावा ५, १, १९.
 मांस-काम- प्रभु. मांस- द्र.
 मांस्ता √मन् (परि.) द्र.
 मांस-पच-, ^९पाक- ^{१०}मांस- द्र.
 माकथेय- मकथु- द्र.
 माकरायण- रमकर- द्र.
 माकष्टेय- मकष्टु- द्र.
 माकिम्, माकिस्, माकीम् मा द्र.
 माक्षव्य-, ^{११}व्याथनी- रमन्तु- द्र.
 माक्षिक- मक्षिक- द्र.
 मागद्य- मगदिन्- द्र.
 रमागद्य- मगद्य- द्र.
 रमागद्य^{१२}- -वः आपश्रौ २१, १९, ६;
 हिश्रौ १६, ६, २४; वाण्ड १०, १८;
 बौध १, ९, ६; वैध ३, १३, ११;
 अप्रा ३, ४, १; -वस् भासि
 ४८; -धानाम् विघ १६, १०;
 -घाय आपश्रौ २१, १७, १९.
 मागद्य-वाक्य^{१३}- -क्यः बौश्रौ १८,
 २५: ६; ८.
 मागद्यदेश- प्रभु. मगद्य- द्र.
 मागीर^{१४}- -रस्य वाश्रौ ३, २, ५, ४३^{१५}.
 माघ- प्रभु. मघा- द्र.
 माघष्टेय- मघष्टु- द्र.

a) अप्रकृतत्वाद् मिथुन-शब्दो मध्ये प्रक्षिप्त इवेति C. । b) उप. = वर्षा- । c) बस. । d) 'सूत्रकृत' इति चौसं. । मूत्रकृतं = मूत्रक्लिननं इति P.W. प्रभु., रजकघ्नौ इति त्रिद्याधरः । e) = माघमासकृष्णशुक्लष्टमी-कर्षण- । मलो. कस. । f) सपा. मांसो <> मांसो इति पाभे. । g) तु. पाण्ड. । h) वैप १६. । i) = मङ्कीर- । j) पाभे. पृ १८९९ g द्र. ।

माधी- मधा- द.
 माड्^h- माडि पा ३, १७५.
 माड्- पा ६, १, ७४.
 माड्-योग- गो अप्रा २, ३, ७; पा ६, ४, ७४.
 माङ्गिल- मङ्गिल- द.
 माङ्गिकल- मङ्गिकल- द.
 √माङ्क्ष पाधा. भ्वा. पर. काङ्क्षायाम्.
 माङ्क्षव्य-^oव्यायनी- रमङ्क्षु- द.
 माङ्गद^h- -दः या ६, ३२४.
 माङ्गल- मङ्गल- द.
 माङ्गलि^o- लयः बौश्रौप्र २७ : २.
 माङ्गल्य- मङ्गल- द.
 माङ्गुष्य- मङ्गुष- द.
 माच^d- (>^oची- पा.) पाग ४, १, ४१
 माचाकीय^o- -यस्य तैप्रा १०, १२.
 माजिरक- मजिरक- द.
 माजिष्ठ- प्रभृ. मजिष्ठा- द.
 माञ्जीरक- मञ्जीरक- द.
 माटव- चम् निस् ७, ११ : १७.
 माठर^f- मठर- द.
 रमाठर^h- (>^oक- पा.) पाग ४, २, १२७.
 माठरायण- मठर- द.
 √माड्^h पाधा. भ्वा. उभ. माने.
 माडार्य- मडार- द.
 माड्डुक-^oकिक- मड्डुक- द.
 माणमिन्द्व्य^o- न्याः बौश्रौप्र १७ : ५.
 माणव^h->माणवक^h- -कः गोगृ २,

१०, ६; १६; ३२; -कस्य चाञ्च
 १६ : १९; -काय काय २८, ५.
 माणवीन- पा ५, १, ११.
 माणव्य- पा ४, २, ४२; ५, १, १२४.
 माणि- -गिः बौश्रौप्र ३१ : २.
 माणिक्य- मणि- द.
 माणिचर^h- -राय पाय ३, १४, ७.
 माणिपाल-^oलिक- मणि- द.
 माण्डरिक- मण्डर- द.
 माण्डलिक- रमण्डल- द.
 माण्डलेखि^o- लयः बौश्रौप्र ४७ : १.
 माण्डव- प्रभृ. मण्डु- द.
 माण्डुक- रमण्डुक- द.
 रमाण्डुक-^oकायन- प्रभृ. रमण्डुक- द.
 मात^h- पावा १, १, १४.
 मातर-पितृ-^oमातरि-पुरुष- मातृ- द.
 मातरिभ्व(व>र>)री^m- -री^m अप्रा ३, २, ३२; ४, १.
 मातरिश्चन्^m- पाठ १, १५९; पाग ५, २, ६२; -^oश्वन्-^oश्वन् या ७, ३१; -^oश्वन्ः काश्रौ ४, २, २०; आपश्रौ; -श्चन बौश्रौ ३, २८ : १९^o; -श्चनि शाश्रौ १६, ११, २६; -श्चने सु ६, ५; -श्वा माश्रौ १, ६, १; ४, १२, २; ५, ९, १; शाश्रौ; ऋग्र २, ८, ५४^o; या ७, २६^o; -श्चान्म्

या ७, १८^o; २६; -^oश्चानो^m आपश्रौ ६, २१, १^o; -^oश्चानो^m वाधूश्रौ ३, ५४ : १^o.
 मातरिश्चक- पा ५, २, ६२.
 मातलि^o- -लिम् शंघ ११६ : १५.
 मातली^m- -ली आश्रौ ५, २०, ६; शाश्रौ ८, ६, १३; वैश्रौ ९, ९ : १; कौस् ५८, २५; अप्र ३२, १, ३१; ४६, ६, ४; अग्र ११, ६.
 मातवचस- √मन्<मतवचस- द.
 मातवै^o या ११, ४२.
 माता-पितृ- मातुल- प्रभृ. मातृ- द.
 मातुल्ल- पाठभो २, २, ६५.
 मातृ^h- पाठ २, ९५; पाग ४, १, १०; पावा ६, १, १४; -^oतः काश्रौ १, ५, ९^o; काश्रौ १५, ६, २५^o; वैताश्रौ; सु ६, ३; ७, ४; ९, ५; ११, ३; २१, ४; माय १, २, २^o; -^oतः आश्रौ ६, १३, ११; ८, १२, ६; काश्रौ; आपमं १, ११, ४^o; काय ३०, ३^o; बौय १, ९, ३^o; या ३, ६; १२, ७^o; १४, ६; -^oतम् आश्रौ २, १, २९; ७, ११; १०, २१; ३, ८, १××; ८, १३, २^o; शाश्रौ; माश्रौ २, ५, ४, २१^o; लाश्रौ ३; ७, ८^o; कौय ३, ६, १^o; शाय ३, ११, ४^o; या २, ४; १०, ४६; -^oतरा आपश्रौ १३, १९, ५^o;

a) = मा । b) = मगन्द- । व्यु. ? । c) = ऋषि-विशेष- । d) तु. पागम. ।

e) पाठः? माटचम् (<मटची-) इति शोधः संभाव्यते (तु. [अंशतः] मूको.) । f) पृ १९०१ गनि. यनि. संख्यासंकेतः द्र. । g) = देश-भेद- । ग्राम- इति पागम. । h) तु. BPG. । i) = बाबल- । व्यु. ? । पाय ४, १, १६१ <मनु[णु]- इति । j) अनुकम्भायां कन् प्र. । k) अर्थः व्यु. च ? । = [रथाधिष्ठात्री-] देवता- इति जयरामः, असुरविशेष- इति Old., पूष. < मणि- इति M.W. । l) = मातृ- । m) वैप १ द्र. । n) वैप १, २४७६ द्र. । o) शोधः वैप १, २२८७ & द्र. । p) परस्परं पाभे. । q) = इन्द्र-तारयि- । व्यु. ? < मतल- इति अम. शक. । r) वैप १, २४७७ & द्र. । s) पाभे. वैप २, ३३६. माता तैआ १०, २६, १ टि. द्र. । t) वा विदुर्बलोपः उच्च. (पावा ८, ३, ३६) सपा. प्तरः <> *तरी इति पाभे. । u) पाभे. वैप १, २४७७ II द्र. ।

बौध ३, ११, ३; या ९, ३९;
 -तरि आपश्रौ १६, २६, १२१;
 वैश्रौ; शंघ २७०; ३४८; आपघ
 १, १०, ४; १४, ६; या ३,
 ४; ७, २६^३; पावा ४, २, ३६;
 -त्तौ माय १, १४, ०६^३; या ९,
 ३९; -त्तौ आश्रौ १, ३, २२;
 शाश्रौ; आपश्रौ १६, २६, १२^{२०};
 वैश्रौ १८, १८: १६०; हिश्रौ
 ११, ७, ५१^{२०}; आम्रिय २,
 ६, ८: २२^d; ३, ८: ११^०;
 या २, ८^३; -त्तु: शाश्रौ १२,
 २२, १; आपश्रौ; शाय ३, १३,
 ५^६; पाय ३, ७, २^६; या २,
 ८^३; ८, १८; पा ४, १, ११५^६;
 -तृभि: आश्रौ ४, ७, ४^३;
 काश्रौ; -तृभ्य: बौश्रौ १०, ४:
 ११^१; बौश्रौ २, १, १९; ११,
 ३४; आम्रिय; -तृ: आपश्रौ २१,
 ८, ३; बौश्रौ; -तृणाम् काश्रौ ४,
 २, ९; -त्रा शाश्रौ १५, १७, १^१;
 काश्रौ २०, २, ९^१; आपश्रौ;
 सु १५, ३; १८-१९, १; आम्रिय
 २, २, ३: ३; विध १५, २५;
 पा १, २, ७०; -त्रे काश्रौ १४,
 ५, १४^१; आपश्रौ; आय १, १७,
 ११; माय १, ११, ३;
 अप ३२, १, १९; शंघ ११६:
 ७३; आपघ १, ७, १५; विध
 ७४, १; हिध १, २, ७२.
 मातर-पितृ- पा ६, ३, ३२.
 मातरि-पुरुष- पाय २, १, ४८; ६,
 २, ८१.
 माता-पितृ^१- तरि हिध २, ३, ४४;

-तरौ आय १, १५, ८; कौय;
 -तृभ्याम् वाघ १७, ३७, ७१; बौध
 २, २, २०; २३; विध १५, १९;
 वैध ३, ३, ८; गौध १४, ४१; -त्रो:
 काश्रौ १५, ४, १६; पाय.
 मातापितृ-कृत- -त्म् अप ३८,
 ३, ५.
 मातापितृ-निमित्तक^१-
 -क: वाघ १५, १.
 मातापितृ-रहित- -त: विध २४,
 २३.
 मातापितृ-विहीन- -न: बौध २,
 २, २८.
 माता-पुत्र^१- -त्रयो: आम्रिय २, १,
 ५: १; -त्रौ भाय १, २६: ३;
 हिय २, ४, ६; वृदे ४, ३९.
 माता-मह- पा, पावा ४, २, ३६; पाय
 ४, १, ४१; -ह: वाघ १७, २३;
 विध २४, ३८; -हयो: पाय ३,
 १०, ४०; -हस्य वाघ १७, २२;
 -हान् आम्रिय २, ६, ३: ४८;
 कय २, २, ३-८; बौध २, ५,
 २८; -हानाम् विध ७५, ७;
 -हाय शंघ ११६: ७३; -हे
 विध २२, ४२; -हेभ्य: आम्रिय
 १, २, २: ३२×४; बौध ३, ९, ७;
 भाय ३, ११: ६; हिय २, २०,
 २; अप ४३, ६, ३.
 मातामही- पा ४, १, ४१;
 पावा ४, २, ३६; -ही बौश्रौ १२,
 १८: ७; -ही: आम्रिय २, ६, ३:
 ४९; बौध २, ५, २८; -हीभ्य:
 आम्रिय १, २, २: ३३; ३, ११,
 ४: २५^१; बौध २, ११, ३४^१;

-ह्यै शंघ ११६: ७४.
 मातामह-पितामह- -हाभ्याम्
 शंघ २९०.
 मातामह-प्रभृति- -तीन् कय
 १, ३, १२.
 मातुल^१- पा, पावा ४, २, ३६; -ल:
 आम्रिय २, ३, ५: १४; बौध १,
 २, ६५; वैध २, ११, २; -लम्
 बौपि ३, १, ५; आज्यो १२, ६:
 -लस्य या १४, ३०^१; -ला:
 सुधप ८५: २.
 मातुलानी- पा, पावा ४, १,
 ४९; -नी बौध २, २, ६४.
 मातुलानी-पितृष्वस्-
 स्तुवा-भगिनी-दुहितृ-गमन-
 -नेषु शंघ ३८६.
 मातुली- पावा ४, १, ४९.
 मातुल-पितृ-ष्वस्- -सा बौध
 २, २, ६४.
 मातुल-पितृष्वस्-दुहितृ-
 गमन- -नम् बौध १, १, १९.
 मातुल-मातामह- -हेभ्य: अफ
 ४४, ४, ९.
 ?मातुलयोगकन्याभागम् या
 १४, ३०.
 मातुल-स्वसुर- -रौ बौध २, ३,
 ५७.
 ?मातुलसुतामातृष्वसुगोत्रापौ^६
 सुध ४५.
 मातु-ष्वस्-मातु-स्वस्- पा ८,
 ३, ८५.
 मातृ-क- पावा ६, १, १४; पाय ४,
 २, १३८^१.
 मातृ-गण- -ग: अप ३२, १, ४; -गै:

a) = (वायु-मातृस्थानीय-) अन्तरिक्ष- । b) पामे. पृ १९४५ t द्र. । c) पामे. वैप १, २४७८ f द्र. । d) पामे. वैप २, ३खं. माता तैत्रा १०, २६, १ टि. द्र. । e) पामे. वैप १, १६१२ & द्र. । f) पामे. पृ ५३३ d द्र. । g) पामे. पृ १८८३ p द्र. । h) वैप १ द्र. । i) बस. । j) दस. पू: धानङ्कदेशः (पावा ६, ३, २४) । k) पाठै: ? प्रतिपत्त्यर्थं संस्कृतु: .टि. द्र. । l) तु. पायम. ।

अप २०, २, ६.
 मातृ-गमन- -नम् विध ३४, १.
 मातृ-गामिन्- -मि विध १७, ७.
 मातृ-गोत्र-नामा(म—अ)न्त-
 -न्तात् वैट्ट १, ७: ८.
 मातृ-घात- -त्तेन आभिप २, ४, ८:
 १९.
 मातृ-घ्न- -घ्नः शंघ ३७७: १०.
 मातृ-त(म>)मा^१- -मासु बौश्रौ
 १२, ९: १०^१.
 मातृ-तस(ः) आश्रौ ९, ३, २०; आग्र;
 शंघ ७०; विध २४, १०; ५७,
 ४; सुघप ८८: ८; या १४, ५^२.
 मातृ-त्व- -त्वात् वृदे ६, ११; -त्वे
 वृदे ६, ३८.
 मातृ-नामन्^१- -मभिः वैताश्रौ ५,
 १०; कौसू ९४, १५; ९५-९६, ४;
 १०१, ३; ११४, ३; अप ३३, ५,
 ६; -मा अप ३२, १, ४; अशां
 २३, ११; अश्रभू २^१; अश्र ४, २०;
 -मानि कौसू ८, २४; १३६, ९;
 अप ३२, १, ४; ३३, ६, २; -म्नो:
 कौसू २६, २९.
 मातृनाम-गण- -णस्य अश्रभू
 २^१; -णेन अप १९^२, ४, २.
 मातृनाम-देवता- >प्य-
 -स्यम् अश्र ८, ६.
 मातृनाम-देवत- -तम् अश्र ४,
 २०.
 मातृनाम-वास्तोष्पत्य- -त्यौ
 अप ३३, १, ९.
 मातृ-पक्ष- -क्षाणाम् शंघ ११६:
 ७६^१; ११८^२.

मातृ-पितृ->पृ-क^१- -काणाम्
 शंघ १६२.
 मातृ-पितृ-तद्वन्धु- -न्धूनाम् गौघ
 ६, ३.
 मातृ-पितृ-भक्त- -क्तः काथ २७०:
 ४.
 मातृ-पितृ-भगिनी-गामिन्- -मी
 शंघ ३७८.
 मातृ-पितृ-भ्रातृ-सखि-मत्-
 -मन्तम् वैश्रौ १०, ९: १४.
 मातृ-पितृ-वंश- -शः वाध ३, १९.
 मातृ-पितृ-शुश्रूषु- -शुः अप ४४,
 २, ४; शंघ १९९.
 मातृ-पितृ-संयोग- -गात् या १४,
 ६.
 मातृ-पूर्वक^१- -कम् अप ४४, १, ५.
 मातृ-बन्धु- -न्धुभ्यः वागृ १०, २;
 वाघ ८, २; गौघ ४, ५.
 मातृ-भक्ति- -क्त्या विध ३१, १०.
 मातृ-भगिनी-गामिन्- -मी शंघ
 ३७८.
 मातृ-मत्- -मन्तम् आपश्रौ २०,
 २, १०; हिश्रौ १४, १, २४;
 -मात् हिश्रौ ४, ३, १.
 मातृ-म(य>)यी- -यी कागृ १८,
 २^१.
 मातृ-मातामह- -हानाम् गौपि २,
 २, १७.
 मातृ-मातृ^१- -त्रोः पावा १, २, ६४.
 मातृ-याग- -गम् शांघ ४, ४, ३.
 मातृ-युक्त^१- -क्ते विध ५, ३४.
 मातृ-योगीश्वरी- -रीम् शंघ ११६:
 २७.

मातृ-वंश- -शः शांघ ४, १०, ६;
 अथ ४३, ४, ६०^१.
 मातृ-वत् बौश्रौ ५४: ६; बौघ
 २, १, ३८; वैघ २, ५, ३; ११, २.
 मातृ-वल- -पागम ४३०.
 मातृ-वृत्ति- -त्तिः वाध १९, ३०^३.
 मातृ-श्राद्ध- -द्धम् शंघ १९०^२.
 मातृ-ध्व, स्वस्- पा ८, ३, ८४;
 -सा विध ३२, ३; -सारः सुघप
 ८५: २; -सारम् सुघप ८७: ६१.
 मातृध्वस्-पितृध्वस्-स्तुषा-भगि-
 नी-भागिनेयी-गो-चण्डाली-
 -लीनाम् सुघप ८७: १.
 मातृध्वस्-स्तुषा-भगिनी-भगि-
 नेयी-चण्डाली- -लीनाम् सुघ
 ४८.
 मातृध्वसेय-, मातृध्वसीघ-
 पा ४, १, १३४.
 मातृ-सपिण्ड- -श्रदाः गौघ १५,
 १३.
 मातृ-सवर्ण- -र्णाः विध १६, २.
 मातृ-स्थान- -न्ने कौगृ १, १८, २.
 मात्र, त्रा- प्रसृ. ✓मा (बधा.) द्र.
 ?मात्रातलेखनी^१- -नीम् अप ३३,
 ६, ७.
 ?मात्वमध्यवच्छित्वासौ^१ कौगृ २,
 २, १३^१.
 मात्सी-, मात्स्य-, मात्स्यक- १मत्स्य-
 द्र.
 माथ- ✓मथ् द्र.
 माथुर- मथुरा- द्र.
 माद- ✓मद् द्र.
 मादृघ- मददिन्- द्र.

a) वैप १ द्र.। b) = ऋषि-विशेष- [अप. अश्र.], ऋषि-गण-, सूक्त- [वैताश्रौ. कौसू. प्रसृ.], देवता-
 [अश्र.].। c) 'भाग' इति पाठः? यनि. शोघः। d) विप. (दोष-).। ततश्चागतार्थे उन् प्र. (पा ४, ३, ७८)।
 e) बेस. घृप. = षोडशमातृ-यूनन-। f) उप. (<✓मा [माने]) = परिच्छेत्-। g) = (मातृद्वेषक-) आक्षेप-।
 h) उप. = (धर्म-) कुलक-। i) पाठः? वाऽत्रा(त्र-आ)व इति वा तत्रा(त्र-आ)व इति वा मात्रा(त्र-आ)व इति
 वा संस्कर्तुः टि. शोघाः। j) पाठः?। सप्र. शांघ २, ३, ५ हृदयदेशमभिमुखति इति पाठे.।

मादन-, °दयित्नु- ✓मद् द.
 मादाधि^१- घयः बौश्रौप्र ७ : ३;
 ३२ : २.
 ?मादानक^१-> °क-श्रुत- .तम् कौसू
 १२, १.
 ?मादायिषु निस् २, ९ : ३२.
 ?मादि^१- म-र्.
 रमादि- ✓मा (बधा.) द.
 रेमादि- मादेः^१ द्राश्रौ ६, २, ९.
 मादिन्- ✓मद् द.
 माद्रकस्थलक- रमद- द.
 माद्रकारि^१- रयः बौश्रौप्र २२ : ४.
 माद्रकूलक- रमद- द.
 माद्रपथि^१- थयः बौश्रौप्र १७ : ७.
 ?माद्रव- वम् शंघ ११६ : ६२९.
 माद्रशर्मि- मद्रशर्मन्- द.
 माद्रकस्थलक- मद्रुक- द.
 माद्रय^१-> °द्रेय-ताम्रलिस- सः
 अप ५६, १, ४.
 रमाधव- १मधु- द.
 रमाधव^१- वम् आम्रिण २, ५, ७ :
 ९; बौण १, ११, ७; वैण ३,
 १३ : ४; बौध २, ५, २४.
 माधवक- १मधु- द.
 माधव्य- २मधु- द.
 माधुकार्णिक- प्रभु. १मधु- द.
 माधुमत-, °तक- २मधुमत- द.
 माधुर्य- १मधु- द.
 माधूक- मधूक- द.
 माध्व-, °ध्वदिन- प्रभु. मध्य- द.

माध्यमेय^१- -याः बौश्रौप्र ६ : ३.
 माध्यस्थ- °ध्यावर्ष- मध्य- द.
 ?माधि^१- °ध्वी आश्रौ ४, ७, ४;
 शाश्रौ ५, १०, २१; बौश्रौ ७,
 ३ : २; -ध्वीभ्याम् बौश्रौ ७,
 ८ : २१; माश्रौ २, ३, ६, १४.
 माध्वी- १मधु- द.
 ✓मान^१ पाधा. भ्वा. आत्म. चुरा.
 उभ. पूजायाम्; चुरा. आत्म.
 स्तम्भे.
 रमान- ✓मर द.
 रमान^१- नः अप्राय ३, १०; -नम्
 शाश्रौ १२, १९, ४; अप्राश्रौ
 २१, १३, १४; १५; बौश्रौ
 १७, ३१ : १८; १९, १ : ४;
 २४, ६ : ४; ७ : ११; १२;
 वैश्रौ १, ३ : १२; ११, ९ :
 १२; कप्र १, ७, ४; अप्र २२,
 २, ५; आपध २, १८, १५^६;
 हिघ २, ५, ६८^६; काशु ७, १५;
 २०; २८; या ११, ५; -०नस्य
 भाण २, ३ : १३^१; -नात्
 या ४, २५; २७; -नानि आपश्रौ
 २१, १३, ८; ९^३; १०; कौसू
 ८५, १; -ने बौश्रौ २१, १२ :
 ११; हिपि १३ : ८; अप्र २५,
 २, ४; आपध २, १८, १७^६;
 हिघ २, ५, ७०^६; या २,
 २२^१; पा ४, ३, १६२;
 -नेन आपश्रौ २१, १३, १६;

बौश्रौ ६, २२ : १२; १८; हिश्रौ
 ७, ४, ४१; अप्र २४, १, ४; वृदे ५,
 १५३; या ३, १३; -नैः बौश्रौ
 १३, २७ : ८^१.
 मान-कर्तृ- नैरि कप्र १, ६, ११.
 मान-कूट- °टम् अप्र ९, ३, ४.
 मान-कृत्- °कृत् कप्र १, ६, ११.
 मान-क्रिया- -यायाम् कप्र १, ६,
 ११.
 मान-पश्च- °ज्ञयोः पा ५, ३, ५१.
 मान-सूत्य-मा(त्रा >)त्र- °त्रम्
 वाध १९, १५.
 मान-योग- °गः बौश्रु ३ : २४; ४ :
 ४; ७; १०.
 मान-विद्^१- °वित् काशु ७, २९.
 मान-हविर्-निवास-सामिधेनी-
 °नीषु पा ३, १, १२९.
 माना(न-अ)धिक,का- °कम् काशु
 ७, ३०; -का काशु ७, १२.
 माना(न-अ)भिमर्शन-वर्जम् काश्रौ
 १०, ३, १६.
 माना(न-अ)र्थ, र्था- °र्थाः बौश्रु.
 १६ : ८; -थेषु आपश्रु ६, १४;
 बौश्रु १ : ७; हिश्रु २, ४३.
 मानो(न-उ)न्मान- °ने वाध १९,
 १३.
 मानो(न-उ)पावहरण- °गे मीसू १०,
 ६, ७७^{१०}.
 रमान्य^१- °न्यः वृदे ५, १५३; -न्यम्
 वृदे ४, ५२.

a) = ऋषि-विशेष-। b) = वृक्ष-विशेष-। मादनक- [< मदनक-] इति पाठः संभाव्येत (तु. B [भू. LIII] MW. च)। c) पृ १८८६ यनि. संख्यानिर्देशः द्र.। d) यन्मे मनः (तांब्रा १, ५, १७) इत्यादिरिति भावः (तु. सा. तांब्रा १, ५, १८)। e) = विश्वेदेव-विशेष-। सपा. अप्र २१९, २२ माद्रवाः इति, शक. आद्रवाः इति च पाठे.। f) = महजनपद- वासिन्-। g) वैप १, २४८० । द्र.। h) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.। i) पा, पावा ३, १, ६ परामृष्टः द्र.। j) बप्रा.। k) = चिष्य-। < ✓मि इति हरदत्तः । l) पाठे. वैप १, १८९४ g द्र.। m) पाठे. पृ १७५६ p द्र.। n) उप. < ✓विद् [ज्ञाने] । o) °भौ इति पाठः? यनि. शोषः (तु. जी.सं.)। p) रमान- (अगस्थ-ऋषि-) (वैप १) > संमितार्थे यत् प्र-
 षंस. (पा ४, ४, ११)।

३मान^१->मान-शब्द- -व्दे अप्रा ३,
४, १.

१मानः^२ आपश्रौ २१, १८, ८; द्राश्रौ
११, १, ७; लाश्रौ ४, १, ७.

मानङ्गि^३-ङ्गिः बौश्रौप्र २७: ९.

मानतन्तव्य- -व्यः गोष्ट १, ६, १;
द्राष्ट २, १, ५^d.

माननायन- २मनन- द्र.

मानव- प्रष्ट. मनु- द्र.

मान-वल्ली^४-(>वल्लक- पा.) पाग
४, २, १२७.

मानवी-, -व्य- प्रष्ट. मनु- द्र.

मानस- प्रष्ट. √मन् द्र.

मानसायन- २मनस्- द्र.

मानसीन- √मन् द्र.

मानसोत्तर^५->श(र-आख्या >)
ख्य^६- -ख्यम् शंघ ११६: १५.

मानस्तोक-, °कीय- मा द्र.

मानस्थ(ल>)ली^७-(>स्थलक-
पा.) पाग ४, २, १२७.

मानस्य- २मनस्- द्र.

मानायन- मन- द्र.

मानाय्य-, मानाय्यायनी- मनु- द्र.

१, २मानिन्- √मन् द्र.

१मानिस्वाङ्ग-ङ्गानि अप ६८, १, ९.

मानुष-, °षी- प्रष्ट. मनुस्- द्र.

१मानुष्य- मनुष्य- द्र.

२मानुष्य- २मनुस्- द्र.

मानुष्यक-, °ष्यलोक- मनुष्य- द्र.

मानोक्षक- √मन् > मनो-ज्ञ- द्र.

मा(म-अ)न्त- म- द्र.

मान्तव्य-, °व्यायनी- २मन्तु- द्र.

मानत्रवर्णिकी- √मन् द्र.

मान्त्रित-, °व्य- मन्त्रित- द्र.

मान्थाल^८- -लाः भाशि ५७.

मान्थ्य- √मथ् द्र.

मान्दा^९- -न्दाः आपश्रौ १४, १८,

१××; बौश्रौ १२, ८: १३××;

वाश्रौ ३, ३, २, १६; हिश्रौ १३,

५, १४; १५, ५, ४××; आग्निष्ट;

-न्दासु^१ आपश्रौ १२, ८, २;

बौश्रौ १४, १२: ९; वैश्रौ १५,

१०: ३; हिश्रौ ८, २, ३८.

मान्दार्थ- मन्दार- द्र.

मान्ध-, मान्द्र- √मद् द्र.

मान्द्रित-, °व्य- मन्द्रित- द्र.

मान्धातकायन-, °तकि- मन्धातक-
द्र.

मान्धातु^{१०}- -तुः बौश्रौप्र २२: ३.

मान्धातृ^{११}- -तारम् आपश्रौ २४, ७,
१२^१.

२मान्धात्र- -त्र आपश्रौ २४,

७, १२^m; ८, १^m.

मान्धातृ-वत् आपश्रौ २४, ७, १२;
८, १.

१मान्धात्र^{१२}- मन्धातृ- द्र.

मान्धुक- मन्धुक- द्र.

मान्धूप^{१३}- -पः बौश्रौप्र २२: ३.

१मान्य- √मन् द्र.

२मान्य^{१४}- -न्यः ऋश्च २, ८, ६७.

मान्यव- √मन् > मन्तु- द्र.

मापयित्वा √मा (बधा.) द्र.

मामक-, °की-, °कीन- ऋस्मद्- द्र.

मामण्ड^{१५}- -ण्डाः बौश्रौप्र १७: १.

मामतेय^{१६}- -यः वाधूश्रौ ३, १४: ७.

मामन्थरेषण^{१७}- -णाः बौश्रौप्र १२:
१.

मामहान- √मंद् द्र.

मामिका- ऋस्मद्- द्र.

मायते निघ ३, १९.

माया^{१८}- पाउ ४, १०९; पाग ४, २,
९७^{१८} ५, २, ११६; -यया

माश्रौ ४, ६, ३; १०, ९, २^१;

शाश्रौ १६, ६, १^१; आपश्रौ;

लाश्रौ ९, १०, १२^१; वाध ६,

५; वृदे २, ४३; -या सु २५,

१; २; अप ४८, ८४^१; निघ ३,

९^१; -मायाः निस् ७, ११: २०;

अप्राय ६, ९; या १२, १७^१; शुप्रा

४, २७; -याम् आश्रौ १०, ७,

७; शाश्रौ १६, २, २१; बौश्रौ;

या ७, २७^१; -यायाः अप्रा

३, १, ६^१; -यायाम् पा ४,

४, १२४.

माया-देव^{१९}- -वाः हिष्ट १, १४, ४.

माया-बल- -लात् वृदे ७, ८८.

माया-भेद^{२०}- -दम् ऋश्च २, १०
१७७; वृदे ८, ७५; -दे वृदे ८

७६.

माया-वत्- -वान् ऋद्रा ४, ७३.

माया-विन्- पा ५, २, १२१; -विनः

काण्ड ४०: ७^१; -विनम्

वाध ६, ५; -विनौ ऋश्च २,

a) = [यजमानादि-शब्दानाम्] उत्तरांश-। b) पाठः ?। = सपा. जै १२३ जैमि २, ४५। हिश्रौ १६,

६, १५ तु आनः इति पाठे. (तु. घन्वी)।

c) = ऋषि-विशेष-। d) 'दन्त' इति आन., old. च।

e) = देश-विशेष-। f) = पर्वत-विशेष-। g) बस.। h) मानक^२ इति [पक्षे] पागम., माष^३ इति पाका.

पासि.। i) वैप १ द्र.। j) पाठे. वैप १, २४८१ ० द्र.। k) संस्कृतः टि. भूयान् पाठे.। l) पाठे.

पृ १९३२। द्र.। m) पृ १९३२ निराकृतं द्र.। n) पृ १९३२ यनि. संख्यानिर्देशः द्र.। o) वैप १

२४८१ पृ द्र.। p) मावा- इति पाका. पागम.। वामा- इति वामनः (तु. पागम.)। q) = नगरी- इति पागम.।

r) पाठे. वैप १, २४८२ j द्र.। s) नाप.। बस.। t) विप. ([मायाभेद-देवताक] सूक्त) बस.।

१०,५६^२; वृदे ७,८६.
 मायिक- पा ५,२,११६.
 मायिन्- पा ५,२,११६; -फयिनः
 बौध् ३, ११, ४; ऋप्रा २, ४५;
 -फयिनम् आश्रौ ८,८,२; शाश्रौ
 १०,५,८.
 मायु- √मा (शब्दे) द्र.
 मायुक- √मि,मी द्र.
 मायूरकर्ण- १मयूर- द्र.
 मायोभव- ,भय्य- मयस्- द्र.
 मारण- √सृ द्र.
 मारायण^१- -णाः बौश्रौप्र ४१: ८.
 मारिषामगि^२- -गिम् वाधुश्रौ ४,
 १०८: १६.
 मारी- √सृ द्र.
 मारीच- ,पिचि- मरीचि- द्र.
 मारुक- √सृ द्र.
 मारुत- प्रसृ. मरुत्- द्र.
 मार्कण्डेय- मृकण्ड,रुदु- द्र.
 मार्कायण^३- -णाः बौश्रौप्र ३: ११;
 ४: २.
 मार्कूल- पाउभोवृ २,३,११२.
 √मार्ग^४ पाथा. चुरा. उभ. अन्वेषणे.
 र्मार्ग^५- -र्गः अप ५०, ४, २; ५८^६,
 ४,१९; वैध १, ११, २; नाशि
 १,६,१६; -र्गम् अप ५०, ४, ३;
 -र्गे माय २,१०: १३; हिय २,
 ९,८; अप ५२, ३,४; ७२, ३, ५;
 -र्गेण वैश्रौ २०, १९: ६; -र्गेषु अप
 ५२, १२, २.
 मार्गक्षेत्र- -त्रे शंघ ३०८; ३१०;
 -त्रेभ्यः वाध १६, ११.
 मार्ग-ग^७- -गाः वैध १,१०, २; ८.

२मार्ग- मृग- द्र.
 ?मार्गपाली^८- > ल्य(ली-अ)हन्-
 -ह्नि कप्र ३,७,८^९.
 १-२मार्गशीर्ष- ,मार्गिक- मृग- द्र.
 मार्गीयव^१- -वम् लुसू ३, १०: २३;
 -वस्य लाश्रौ ६,११, २.
 मार्ग्य- √सृज् द्र.
 √मार्ज^२ पाथा. चुरा. पर. शब्दे.
 मार्जन- प्रसृ. √सृज् द्र.
 र्मार्जार^३- पाउ ३, १३७^४; -रः शंघ
 ३७७: १५; विध २३, ५२; -रैः
 शंघ ४३१.
 मार्जार-नकुल-मण्डूक-रव-सर्प-गर्द-
 भ-वराहा(ह-अ)शवा(श्व-आ)
 दि- -दिसु वैध २, ११, ९.
 मार्जार-मुख-संस्पृष्ट- -ष्टम् वाध
 १४, २७.
 मार्जार-मूषक-स्पर्श- -शै कप्र १,
 २, १४.
 मार्जार-लिङ्ग- > ङिन्- -ङिनः
 विध ९३, १०.
 मार्जार-वत् अप ७१, १३, १.
 मार्जारा(र-आ)दि- -दिभिः वैश्रौ
 २०, ३६: ८.
 २मार्जार- (>मार्जार्थ-) मडार-
 टि. द्र.
 मार्जालीय^५- पाउ १, ११६; -यः
 शाश्रौ ६, १२, २१^६; बौश्रौ ६,
 २७: ३२x; माश्रौ; -यम्
 आश्रौ ५, ३, १७; शाश्रौ; -यस्य
 शाश्रौ ६, १३, १०; -ये आश्रौ
 ६, १०, २१; ९, २, १७; शाश्रौ.
 मार्जालीय-देश- -भम् काश्रौ २६,

७, ३१; -शे शाश्रौ १०, २१,
 ११; १३, ११, ३; आपश्रौ.
 मार्जालीय-न्यन्त- -न्ते आपश्रौ
 १८, ७, २; २१, १८, ७; वैश्रौ
 २१, ८: ७; हिश्रौ १३, २, ३१;
 १५, ५, ३७.
 मार्जालीय-सदेश- -शे लाश्रौ ८,
 ८, ४.
 मार्जालीया(य-अ)न्त- -न्ते वाश्रौ
 ३, २, ५, ४१.
 मार्जाल्य^७- -त्यः बौश्रौ २८, २: ४५^८.
 मार्जित- √सृज् द्र.
 मार्डीकव- ,वायन- मडाकु- द्र.
 मार्डीक- √सृज् द्र.
 मार्तेण्ड^९- पावाग ६, १, ९४; -ण्डम्
 आमिगृ २, ४, ११: १३; शंघ
 ११६: ४४; -फण्डाय अप १४,
 १, ७; १७, १, ८.
 मार्त्तिक- √सृ द्र.
 मार्त्यव- , मार्त्वी- , मार्त्य-
 √सृ > सृत्यु- द्र.
 मार्द- रसृद- द्र.
 मार्दव- √सृ द्र.
 मार्दायन- रसृद- द्र.
 मार्ष^१- -र्ष काय २४, ९.
 मार्षण्य^२- -ण्याः बौश्रौप्र ११: २.
 माल- पाउ २, २८; पा, पाग ४, २, ७५.
 मालक- पाग २, ४, ३१^३; ४, १, ४१.
 मालकी- पा ४, १, ४१.
 मालकुज^४- -जः बौश्रौप्र २७: ३.
 मालत- पाउवृ ३, ११०; पाग ४,
 १, ४१.
 मालती- पा ४, १, ४१.

a) = ऋषि-विशेष-। b) = पयिन्-। c) उप. <√गम्। d) अर्थः व्यु. च ?। = सुखरात्रि-
 प्रतिपद्- इति गोय. भाष्यम्। e) ल्येऽह्नि इति पाठः ? यनि. शोषः (उ. भाष्यम् [गोय ३, ६, १४])। f) = साम-
 विशेष-। g) = विडाल-। h) <√सृज्। i) वैप १ द्र.। j) मर्जा इति पाठः ? यनि. शोषः
 (उ. ऋ. ५, १, ८)। k) वैप १, २४८३ h द्र. (वैतु. पाशे. < सृताण्ड- इति)। l) = आदर्शीय-पुरुषः।
 m) = प्रामान्तरात्पटवी- इति पायम.।

मालति- पाउवृ ४,५९.
 मालव^१- पाउभो २, १२४; पाग
 ४,२,५३^१; -वान् अप ५०, २,
 ५.
 १मालवक- पा ४,२,५३.
 २मालवक^१- -कः वैध ३,१२,२.
 माला^१- पाउ २, २८^१; पाग ५, २,
 ११६; १३१; ६, २, ८५; ८८;
 पावाग ५, १, १२४^१; -ल्या
 बौगृ १,५,२९; -ला आगृ ३,
 ८, १८; -लाम् आगृ १, ३,
 १ : ५; मागृ १, २, १५; वागृ
 ९, ११^२; कौसू ३६, १६××;
 अप; वाघ १२, ३९; बौध २,
 ३,३०.
 माल-भारिन्- पा ६,३,६५.
 माला(ला-अ)ञ्जन- नम् अप
 ६८,२,२६.
 माला-निष्प्रमन्द्^१-दन्तधावन-केश-
 -शम् कौसू ३६,१५.
 माला-प(द्)दी- पाग ५,४,१३९.
 माला-पृष्ठ- -ष्ठे अप २०,१,३.
 माला-प्रस्थ- पा ६,२,८८.
 १माला(ला-अ)भ्यञ्जन- नम्
 कौसू ९२,२२.
 माला-वत्- पा ५,२,११६.
 मालिन्- पा ५, २, ११६; १३१;
 -ली आपघ १,८, २; हिघ १,
 २,९.
 मालो(ला-उक्त)क्ता- क्ताम्
 आगृ ३,८,१७; गोयु ३,५,१७.

१माल्य- पात्रा ५,१,१२४; -ल्यम्
 मागृ २, १४, २८^१; अप १,
 ४५, ७; ३०^१, २, ५××;
 शंघ ३४७; विघ ७१, ११;
 -ल्येन बौगृ २,५,५४; ३, ११,
 २; -ल्यैः कौगृ १,१२,२; गौपि
 १, ४, १७; अप ४, ५,५××.
 माल्य-वत्^१- -वन्तम् शंघ
 ११६ : ८.
 माल्य-इ(स्त >)स्ता^१- स्ता
 अप ३०^१,२,७.
 माल्या(ल्य-अ)जुलेगन- नम्
 अप ६८,१,१२.
 मालिन्य- २मलिन- द्र.
 मालिम्लव- मलिम्लु- द्र.
 मालु- पाउभो २,१,५.
 मालूर- पाउभो २,३,५८.
 २माल्य^१- -ल्याः बौश्रौप्र ७ : २.
 माल्ल- मल्ल- द्र.
 मा-वत्- अस्मद्- द्र.
 मावा- (>मावेय-) माया- टि. द्र.
 १मावार्थम् भागृ २,४ : १३.
 १मा वो रत्तो मनः^१ कौगृ ३,५,४^१.
 माशब्दिक- मा द्र.
 १माष^१म- पाउभो २,३, १०५; पाग
 २, ४, ३१; ५, १, २०; ४,३;
 -षः वाघ १९, २१; विघ ४,
 ७; -षम् शंघ ३०४; ३०५;
 -षाः बौश्रौ २६, २२ : १९;
 वैश्रौ; -षाणाम् काञ्चु ७, २८;
 -षान् आपश्रौ १३, ५, ४^१;

१६, ६, २; ३; बौश्रौ; -षेण
 आपश्रौ १९,२१,२; हिश्रौ २२,
 ४,२; -षेभ्यः आपश्रौ १५,१७,
 ८; भाश्रौ; -षेषु बौश्रौ १८,
 २३ : ११; -षैः बौश्रौ १०,९ :
 १८××; गोयु; -षौ आगृ १,
 १३,२; जैगृ १,५ : २.
 माष-क- पा ५, ४, ३; -कम्,
 -काणि अप ३३,३,२.
 माष-कण^१-मन्थ^१- -न्येन कागृ
 ४५,५.
 माष-कमण्डलु^१- -लुम् आपश्रौ
 २२,२६,५; हिश्रौ २३,४,२१.
 माष-कलमाष-मूल-फल- -लम् मागृ
 २,१४,२८.
 माष-कोदव-गौरा(र-आ)दि- -दि
 कप्र १,९,१०.
 माष-धान्य- -न्यौ वैगृ ३,११ : ४.
 माष-पिष्ट- -ष्टानि कौसू ७१,६.
 माष-भगन-मात्र^१- -त्रम् आगृ
 २,६,१ : ५.
 माष-मत्स्य-मांस-भक्ष्याशन- नम्^१
 आगृ २,३, २ : ८; -नैः^१ जैगृ
 १,६ : ८.
 माष-मन्थ- -न्थम् कौसू ७०,१२.
 माष-म(य>)यी- -यीम् अप ३६,
 ५,३.
 माष-मांस-वर्जम् वैश्रौ ३,२ : ११.
 माष-वर्जम् वाश्रौ १,१,२,९.
 माष-सक्तु- -क्तवः अप १,३४,४.
 माष-स्मर^१- -रान् कौसू ३६,१३^१.

a) जनपद-विशेष- वा तद्वासिन- वा तद्राज- वा । b) तु. पाका. । c) =जाति-विशेष- । d) =सज्- ।
 e) <√मा (माने) । f) तु. पागम. । g) अर्थः ? । h) =पर्वत-विशेष- । i) बस. । j) =ऋषि-
 विशेष- । k) पाठः ? गावः शंशः (१सः =स्कन्धः [सपा. शांय. अपि यनि. शोघः द्र.] न वः इति शोघः (तु.
 सपा. शांय ३,९,१) । l) =धान्य-विशेष-, परिमाण-भेद- । m) वैप १ द्र. । n) माषकण- =माषचूर्ण- ।
 o) मलो. कस. । p) बस. उप. परिमाणार्थे मात्रच् प्र. (तु. बौश्रौ ४, ७, ३ अंशं तु तन्मात्रम् इति पाभे.) ।
 q) परस्परं पाभे. । r) = [पुनरङ्कुरित-] पकञ्चुष्क-माष- । वस. उप. (√सू>)सव- > *सवावा[र-
 > स्व [स्वा[र- [तु. दारिलः] >यनि. = *अङ्कुर- । s) माषान् इति सा (भू [शो ६, १३०]) पाभे. ।

माषा(ष-आ)ज्य^० - ज्येन आपश्रौ
२, ३, २२; वैश्रौ १८, ३: ४;
हिश्रौ १५, १, ७१.

माषिक- पा ५, १, २०.

माषीण- पा ५, २, ४.

माषो(ष-ऊ)ण, न]- पावा ८, ४, १०.

माष्य- पा ५, १, ७; २, ४.

रमाष^० - पाग ४, १, ९६^०; -षा: ऋअ
२, ९, ८६; साअ २, २३६; ३८१.

माषि- पा ४, १, ९६.

माषशराविन्- > माषशरावि- पा
४, १, ९६^०; -वय: बौश्रौप्र ४१:
४; द्राश्रौ ८, २, ३०; लाश्रौ
४, ६, २१; निस् ५, २: २६;
८: १७.

माष-स्थ(ल>)ली-(>थ्यलक-)
मानस्थली- टि. द्र.

मास्^० - पा ६, १, ६३; मास: बौश्रौ
१२, ३: ३xx; माश्रौ; मासाम्
हिश्रौ १८, ३, ८; अप; मासि
आश्रौ १२, ४, ३; शाश्रौ; भाग
२, ११: १०^०; हिग २, १०,
६^०; मासिऽमासि आश्रौ
१२, ६, १२; बौश्रौ; मा:सु लाश्रौ
१०, ६, १; निस् ५, ३: ६; ४:
२; ६: १९; तैप्रा १६, १२^०.

मासि-ग्रहण- णम् मासू १०, ८,
२३; २७.

मासि-मृष्ट^० - षम् बौश्रौ १६, १५:
७.

मासि-श्राद्ध- ढम् आमिग ३, ३, १:
२; ९; बौग २, ११, ६८; भाग
२, ११: १; वैग १, १: ७; ४, ७:
९; हिघ २, ५, ४; -ढस्य आपग

२१, १; भाग २, १७: १५; -ढे
आमिग ३, ३, २: ११; बौग १,
८, १४; वैग ६, २०: १; आपघ
२, २०, १; -ढेन आपग २२,
१२; भाग ३, १७: १२.

मासिश्राद्ध-वत् बौपि २, ११, २०.

मास^० - पाउमो २, ३, १६८; -स:
आश्रौ १२, ४, १०; शाश्रौ; या
११, ५^०; आज्यो ४, ४; -सम्
आश्रौ ९, ८, १xx; शाश्रौ; लाश्रौ
४, ७, ११^०; बौग १, ७, १४;
३, १, १४; बौपि १, १७: ३५;
भाग ३, ८: ११; वैग २, ३: ५,
हिपि १४: १६; अप ५७, ४,
७xx; वाघ ११, ७७xx;
शंघ ११६: ४७; ४१०; ४२६;
४३१; ४३४; ४३६; ४३९;
४४८^०; विघ ७८, ५३; ८०, १;
८२, २xx; गौघ १२, २६xx;
-सम्-सम् काश्रौ २४, ४, १६;
-सयो: आश्रौ २, १७, १८;
९, ३, २५; आपश्रौ २०,
२३, १२; वाधूश्रौ; -सस्य
आश्रौ १२, १, ५; ६; २, ५;
बौश्रौ; वाघ २, ४८; २३, ४५;
-सा: आश्रौ १, ११, ७^०xx;
शाश्रौ; कौग ३, १५, ५^०xx;
वैग ५, १: ९; ११; या ४, २७^०xx;
वेज्यो २८; -सात् आपश्रौ २०,
७, ७; हिश्रौ १४, २, २०; द्राश्रौ
८, ३, २७; लाश्रौ ४, ७, ८^०; अप
७१, ६, ६; वाघ २१, ७; २६, ४;
शंघ ३४९; बौघ ४, १, २९; विघ
५५, १३; पावा ५, ४, ११६;

-सान् आश्रौ ११, ७, २xx;
शाश्रौ; आग ३, ५, १४; कौग ३,
८, ३; १५, ३; शाग ४, ६, ७xx;
पाग २, ११, १०xx; आमिग
३, ७, २: १५xx; काग ९,
१०xx; बौग १, ७, १६xx;
बौपि १, ११: २xx; भाग २, १:
१८; भाग १, ४, ७xx; वाग ८,
७; वैग २, १२: २१; जैग २,
८: २३^०; द्राग ३, २, २४; कौस्
१३२, २०; कप्र २, २, ३-८xx;
अप ७१, ४, ५; वाघ ४, ३३xx;
शंघ ४०३xx; आपघ १, ९,
३xx; बौघ २, १, ४८xx;
विघ ३०, १; वैघ १, ७,
६; हिघ १, ३, ३xx; गौघ
१६, २; वृदे ४, ३४; -सानाम्
बौश्रौ १८, ५१: १६; २५, वाश्रौ;
-साभ्याम् वाधूश्रौ ३, ६९: १८;
अप ६२, २, ६; -साय शाश्रौ
१८, २४, ६; बौश्रौ १८, २४: २;
-से शाश्रौ २, २, २; काश्रौ; पाग
१, १४, २xx; काग ३९, १;
कागु ४३६; वैग ५, १२: २xx;
अप १, ३३, ८xx; विघ ९०,
२७; वैघ २, १२, ७; या १४, ६^०;
याशि २, ६०; वेज्यो ११; -सेऽ-
से या ६, ३५; -सेन बौश्रौ
१८, ६: २२xx; वाधूश्रौ; वाघ
४, ३०; शंघ ४४८; -सेभ्य:
बौश्रौ २४, ३२: २०; कौग ३,
१०, १^०; शाग २, १, ४^०;
वैग २, १२: ११; अप २,
५, २; वाघ ९, ११xx; बौघ

a) वैप १ द्र. । b) व्यप. [पा.], ऋषिगण- [ऋअ. साअ.] । c) माष-, नाराविन्- इत्यस्य स्थाने
माष^० इति पागम. । d) पासे. वैप १, ७२७ III द्र. । e) विप. > नाप. = गवाम्-अयन- । बस. ।
f) वैप १, २४८४ O द्र. । g) पासे. पृ १२४३ f द्र. । h) पासे. वैप १, २४८५ b द्र. । i) *सान् इति
पाठः ? यति. शेषः (तु. द्राश्रौ.) ।

२, १, ४७; -सेषु आपश्रौ ७, २८, ६××; काठश्रौ ४५; बौश्रौ ५, ५: १; भाश्रौ ७, २३, ८; माश्रौ; -सेषु-सेषु माश्रौ १, ७, ८, १८; -सै: आश्रौ १२, ३, ५; बौश्रौ २, १०: ५^१××; आपमं; आमिष्ट ३, १, १: १८^१; बौष्ट २, ११, २७^१; भाष्ट २, ११: १७^१; अष्ट ७०^२, २३, ३; शंष २१८; आज्यो १२, ११; -सौ शाश्रौ १३, २५, ४; आपश्रौ १७, २६, ६××; बौश्रौ।

मास-कृत्- -कृत् या ५, २१^१।
मासकृद्-विग्रह- -हेण वृदे २, ११२।

मास-क्षण- > णिक- पागम ३६०।

मास-गण- -गणाम् बौश्रौ २६, १६: १।

मास-चतुष्क- -ष्केण या १४, ६।

मास-जात- पावा २, २, ३६।

मास-तनु- -न्वो: पा ४, ४, १२८।

मास-तम- पा ५, २, ५७।

मास-तुल्य- -ल्यै: विध २२, २५।

मास-त्रय- -येण या १४, ६।

मास-द्वय- -यम् कप्र १, १०, ५।

मास-द्वित्रिचतुष्षडसंवलसर-द्वादश-संवलसर-परिमित- -त्म् अप ४०, १, ३।

मास-नामन्- -मभि: आपश्रौ ८, २, १८××; भाश्रौ; -मानि आपश्रौ १९, १२, ११; माश्रौ; -म्ना आपश्रौ ८, २०, ८; भाश्रौ ८, २३, ७; वैश्रौ।

मास-निचय^b- -य: विध ९४, ११।

मास-परा(र्घ्य>)र्घ्या^b- -र्घ्या कौस

६७, ९।

मास-पाक- मांसपाक- टि. द्र.
मास-प्रभृति- -तिषु आपश्रौ १६, १३, ५; वैश्रौ १८, ११: २१; हिश्रौ ११, ५, १७।

मास-भाज्- -भाज: निस् १०, ८: २
मास-मात्र- -त्रात् या १४, ६; -त्रे लाश्रौ ८, ११, १३।

मास-वर्ष- -र्षाणाम् वेज्यो ४४।
मासवर्ष-गणना- -नया विध २०, १५।

मास-शब्द-वैयर्थ्य- -र्थ्यम् निस् ५, ४: २।

मास-शस(ः)काश्रौ १७, ७, १४।

मास-सर्व^c- -व: बौश्रौ १८, ३: १३।

मास-स्तोम^c- -मा: शाश्रौ १४, ७६, १।

मासा(स-अ)दि-षणमास-पर्यन्त- -न्तम् वैश्रौ २०, १५: ९।

मासा(स-अ)नुमास-> षंसिक^d- -कम् कप्र २, ७, ६।

मासा(स-अ)न्त- -न्ते द्राश्रौ ८, ४, १६; लाश्रौ ४, ८, १४।

१मासा(स-अ)न्तर- -रे निस् ५, ४: ३; -रेण अष्ट ७०^२, ७, २०; -रेषु वैताश्रौ ३६, ३।

२मासा(स-अ)न्तर^b- -रा: काश्रौ १५, ९, १६; -राणि काश्रौ १५, ९, ७।

मासा(स-अ)पवर्गा^b- -र्गा: आश्रौ १०, १, १२; शाश्रौ १६, २०, ८; काश्रौ २३, १, १।

मासा(स-अ)भ्यवहार- -रेण विध ४६, १४।

मासा(स-अ)यतने^b- -ना: आपश्रौ

२१, १, १४; हिश्रौ १६, १, ११।

मासा(स-अ)धेमास- -सान् हिष्ट २, १७, २^१।

मासा(स-अ)वर्त-कारिन्- -रिण: लाश्रौ ४, ७, ६^१।

मासा(स-अ)वृत्त-कारिन्- -रिण: द्राश्रौ ८, ३, २५^१।

मासा(स-अ)ष्टक- -कात् अत्र ७१, १४, २।

मासाष्टक-युत- -तस्य अष्ट ३६, २०, १।

मासिक- -क: अष्ट ५१, ५, ५; ६८, २, ५९; -कम् आमिष्ट ३, १, १: १; बौष्ट ३, १२, १; हिष्ट २, १०, १; वृदे २, ५७; -के वैष्ट ३, २१: ४; हिष्ट २, १४, १०; १५, ११; १४; शंष ४३२।

मासिक-श्राद्ध- -द्धम् आमिष्ट ३, १२, १: ५।

मासिका(क-अ)र्थ- -र्थे विध २१, २१।

मासिकार्थ-वत्- -वत् विध २१, १९।

मासीन- पा ५, १, ८१; -न्म् गोष्ट ४, ४, ४।

मासे(स-इ)ष्टका- -का: बौश्रौ १९, ३: २९।

मासो(स-उ)पवासिन्- -सिन: वैष्ट १, ९, ४।

मास्य- पा ५, १, ८१।

मासपूजाद्याज्युदुलिकापि-ष्टका: वाश्रौ ३, २, ५, २६।

मासर^d- पाठभो २, ३, ६८; -र: आपश्रौ १९, ४, ८; ५, ९; बौश्रौ १७, ३१: १८; हिश्रौ २३, १, ८; -रम् काश्रौ १९, १, २०;

a) पामे. वैष १, ३४८५ b द्र. 1. c) =कतु-विशेष- d) मवर्षे ठष् प्र. 1

e) परस्परं पामे. f) वैष: १ द्र. 1

आपश्रौ १२, ४, ७; वाश्रौ ३, २, ७, ३; वैश्रौ ११, ६ : ३; हिश्रौ १३, ८, ४१; -राणि वाश्रौ ३, २, ७, ८६; -रेण आपश्रौ १२, ४, ६; ५, ११; बौश्रौ; -रैः वाश्रौ ३, २, ७, ८५.
 मासुर-कुम्भ-म्भम् काश्रौ १२, ५, १३; वैताश्रौ ३०, २२.
 मास-वर्ष- प्रभृ. मास- द्र.
 मासुरकर्ण- मसुर-कर्ण- द्र.
 मासुराक्ष- मसुराक्ष- द्र.
 मासूर- मसूर- द्र.
 मासूरकर्ण- मसूर-कर्ण- द्र.
 मास्य- मास- द्र.
 √माह (बधा.) पाधा. भ्वा. उभ. माने, माहवे अप ४८, ३९१^१.
 माहकस्थ(ल >)ली- (>थ्यलक- पा.) पाग ४, २, १२७.
 माहत- √मंह द्र.
 माहनी^१ कौसू १०८, २.
 माहय्यच- महय्यु- द्र.
 माहस-, माहाकुल- प्रभृ. √मंह द्र.
 माहाचित्ति- महाचित्त- द्र.
 माहाजनिक- प्रभृ. √मंह द्र.
 माहापुत्रि- महा-पुत्र- द्र.
 माहाप्राण- प्रभृ. √मंह द्र.
 माहित-, थ्य- महित- द्र.
 माहित्र- √मंह द्र.
 माहित^१- पाठ २, ५६; -नः निघ३, ३१^१ माहि(न >)ना-वत्- -वान् ऋप्रा १, ११^१.
 १-२माहिष-, थ्येय- महिष- द्र.
 माहिष्मती-, थ्येयक- २माहिष्मत्- द्र.

माहिष्य- महिष- द्र.
 माहीयत्व[ल]- महीयत्व[ल]- द्र.
 माहुः अप ४८, ७०^१.
 माहेन्द्र- प्रभृ. √मंह द्र.
 √मि(=√मा [बधा.])^१ पाधा. स्वा. उभ. प्रक्षेपणे, मिनोति काश्रौ ६, ३, ८; ८, ५, २६; ३०; १४, ३, १७; १६, ८, १७; २३; आपश्रौ ११, ९, ४; ५; ९××; बौश्रौ; काशु ६, १०; निघ २, १९१^१; मिनुतः हिश्रौ ७, ५, २०; ७, १२; मिन्वन्ति आपश्रौ २०, १०, ४; २२, ८, ६; ८; भाश्रौ; ऋमिनोमि कौशु ३, २, ५; शांशु; ऋमिनोतु आपश्रौ ११, १०, १^१; बौश्रौ ६, २७ : ६^१; वैश्रौ १४, १० : १२^१; हिश्रौ ७, ७, ८^१; जैश्रौ ६ : ७^१; आग्निश्रु; मिन्वीत हिश्रौ १४, ३, १; मिनुयात् आपश्रौ ११, १०, ७; १४, ५, २२××; बौश्रौ.
 मित- मितः^१ आग्निश्रु ३, ८, २ : ३५; बौपि १, १५ : ४३; बौशु १ : २७.
 रमित्वा भाश्रौ ७, ८, १४.
 √मि, मी^१ (बधा.) पाधा. दिवा. आत्म., कया. उभ. हिंसायाम्; नुरा. उभ. गतौ, मिनाति ऋनिघ २, १४^१; १९; शौच ३, ८६; मिनन्ति आपश्रौ ६, २२, ११^१; ऋमिनीम- सि^१ बुदे ८, ४८; ऋप्रा १८, ५३; अमिनात् या ५, ९१^१.
 ऋमीमाय अप्रा ३, १, ७; शौच ४, ९६.
 मीयेत ऋआपश्रौ १०, १४, १०;

२१, १, ९; वैश्रौ १२, १२ : १०; कौसू ४, १६.
 ऋमायुक^१- -कः अप ४८, ६७; निघः ३, २.
 ऋमेनि^१- -निः अत्र १२, ५(३)^१; निघ २, २०; -निम् वैताश्रौ ३८, ६.
 √मिक्ष(संमिश्रणे)^१, ऋमिमिक्षताम् शांश्रौ ३, १८, १४; बौश्रौ १४, १४ : ३५; द्राश्रौ ११, ४, ९; लाश्रौ ४, ४, ८; अप्राय ४, १; ऋमिमिक्षतम् काश्रौ २३, ३, १; आपश्रौ २२, १९, १; हिश्रौ १७, ७, १०.
 ऋमिमिक्षे^१ शांश्रौ ८, ४, १; शुभ्र २, ३२२.
 मेक्षयति माश्रौ २, ५, १, ५; मेक्षयेत् बौश्रौ २३, ६ : २.
 मेक्षण^१- -णम् आश्रौ २, ६, १४; शांश्रौ ४, ४, २; काश्रौ ७, ५, १५; आपश्रौ १, ७, ५××; बौश्रौ १, ४ : ९; १७ : १८××; भाश्रौ; अप २३, ४, ५; कप्र २, ५, १४; १५; -णस्य बौश्रौ २०, १३ : ३०; २१, ३ : ३; -णानि बौश्रौ ५, १ : ५; ३ : १४; ५ : ३; ८ : ३३; १० : ३; १८ : ३; -णाभ्याम् गोशु ४, १, ६; २, १४; द्राश्रु ३, ४, १८; -णे आपश्रौ १, ८, ३; ५; भाश्रौ १, ८, ३; १०, १४, ११; हिश्रौ २, ७, १७; गोशु ४, २, २६; -णेन आश्रौ २, ६, १२; शांश्रौ ४, ३, ७; काश्रौ ४, १, ६; आपश्रौ १३, १३, १७;

a) धा. दृशिहाने वृत्तिः । b) श्लोचः वैप १, २४०४ k द्र. । c) वैप १ द्र. । d) या ७, २९ परामृष्टः द्र. । e) धा. वधे वृत्तिः । f) वैप १, २४८६ k द्र. । g) वैप १, २४८७ a द्र. । h) पा ६, १, ५०८, ५-१५ परामृष्टः द्र. । i) मिनति इति लघुवाक्यैः पाठः । j) पामे. वैप १, ७५१ c द्र. । k) धा. अल्पीभावे वृत्तिः (वैतु. दे. < √मि [प्रक्षेपणे] इति) = हस्- । l) व्यु. पामे. च वैप १, २४८८ a, b द्र. ।

बौश्रौ; कौय ५, २, १०; वैय
 ६६: १२; आमिग २, ५, ८:
 १६××.
 मेक्षणन्याय-येन बौश्रौ २०,
 १३: ३१.
 मेक्षयित्वा आपश्रौ १३, ९, ७; वैश्रौ
 १६, ११: ४.

√मिघ्. मिह्^१(बवा.) पाधा. भ्वा. पर.
 सेचने, मेहते अप ६८, २, ३१;
 मेहति काश्रौ ७, ४, ३२; बौश्रौ
 १३, ३८: ५; ३९: १८; मेहेत्
 वैश्रौ १५, १८: ३; आमिग २, ७,
 ८: ६; शंघ ५०, ९९.
 ऋमिमिह्^२ अप ४८, १२;
 निघ ३, १९.

धमेहयन् या ९, २३१.

मीह^३-डस् अप ४८, ९०१.

ऋमीह्वल, ऋव^४स्-डुषः बौश्रौ
 ५, ८: २; -डुषे आश्रौ २, ५,
 ९; ३, ११, ११; ४, ८, ५; शाश्रौ ३,
 २०, २१; १३, २, २१; आपश्रौ ६,
 २५, ७; ९, ५, ११; १७, ६१;
 माश्रौ ३, २, ११; ५, १२१;
 हिश्रौ १५, २, ११; आपमं २, ११,
 ४६; अप्राय २, ४१; -०ह्वः
 आश्रौ ८, ८, २; शाश्रौ; -ड्वान्
 आपमं २, १८, ११; भाग २, ८:
 ८; हिग २, ८, ५; पा ६, १, १२०.

मीह्वी-षी आपमं २,
 १८, १२१; भाग २, ८: ९; हिग;
 -षीम् आपग २०, २; भाग;
 -ऋष्यै आपमं २, १८, १२; भाग.
 ऋमीह्वृट (<त)म-०म

शुप्रा २, २०; -मस् तैप्रा ६, ५;
 -माय उस् ५, २१.
 मेघ^५- पाग ४, ३, ४५; ५, १, ६६;
 ३, १०३; ७, ३, ५३; -घः सु १३,
 २; अप; या १, २०; २, २, १६१;
 २१०१××; -घम् या ५-६, १;
 ७, २३; १०, ४; ९; ३२; ११;
 ५०; -घस्य अप ४८, १००;
 या ६, २०; -घाः बौश्रौ २३,
 ७: ६; अप; -घात् या ११,
 ४७; -घान् अप ५५, १, ७; वृदे
 ५, १६६; -घानाम् अप ६१,
 १, २०; निघ १, १०; या २,
 २२१; ११, ३७; -घे विघ ९९, ९;
 वृदे ४, ४१; या २, ९; -घेन
 या १०, १२; -घेषु अप ६१, १,
 ३; १०; २१.

मेघ-गर्जन-ने काघ २७६: २.
 मेघं-कर-पा ३, २, ४३.

मेघ-दुन्दुभि-निर्घोष-घः
 याशि २, ५९; -घैः अप २१,
 ७, २.

मेघ-नामन्-मानि निघ १, १०;
 या २, २१.

मेघ-वारण^६-णाः अप ६१, १,
 २२.

मेघ-सखि^७-न्वा सु ३, २.

मेघ-स्थायिन्-यी या १, २०.

मेघ-हन्-हनम् या ७, २३.

मेघा(घ-अ)भिवृष्ट-घानाम् अप
 ७०१, ५, १.

√मेघाय पा ३, १, १७.
 मेघायत्-यते तैप्रा ३, ५१.

मेघे(घ-इ)न्द्रचाप-अग्पा^८(ग्मा-
 २आ)घ-घान् विघ १, १७१.

मेघ्य-पा ४, ३, ५४; ५, १, ६६;
 ३, १०३; पाग ६, २, १३१; -घ्यः
 भाशि ३८१.

मेह^९-पा ३, २, १८२; पाग २, ४,
 ३११; -हस् काश्रौ ६, ६, ३;
 आपश्रौ; -हस्य आपश्रौ १५,
 १५, १; भाश्रौ ११, १५, २०;
 हिश्रौ २४, ६, १२; -है जैग २,
 ४: ४; शुभ्र ४, २०८.

मेह-पाग ३, १, १३४^१.

मेहन-नम् वाघ ६, १२^२; -नात्
 आपमं १, १७, ५^३; -ने शंघ
 ५३^४.

मेहमान-नम् विघ ७१, २७.

√मिच्छ् पाधा. तुदा. पर. उत्कलेगे.
 मित्-√मि(बवा.)द्र.

१मित, ता^५-पाग २, १, ५९;
 -तः आश्रौ ३, ६, २४१; ८,
 १३, ३१; -तस् शाश्रौ १४,
 १६, ३; आपश्रौ १९, ३, ४१^६;
 बौश्रौ; वैश्रौ ११, ५: ३१^७;
 हिश्रौ १३, ८, २४^८;
 ६९, ३, १, ३^९; आज्यो १२, ४^९;
 -ता वाधुश्रौ २, १९: १; ऋप्रा
 १६, १२; -ताः लाश्रौ ८, ९,
 १०; निसू ५, १२, ९; वृदे ८,
 १०९; -तैतासः आपश्रौ १७,
 १६, १९; बौश्रौ १०, ५३: ७; ८;
 वैश्रौ १९, ६: ११०; -ते वैश्रौ
 १६, १: ११; -तेषु शाश्रौ ५,
 १४, १.

a) या २, २१ पावा ६, १, १२ परामृष्टः द्र. । b) घा. याच्चायां वृत्तिः । c) =घन- । d) आश्रौ.
 अमृ. पाठः । e) वैप १ द्र. । f) पामे. वैप २, ३खं. मीह्वेषे ऐत्रा ५, २७ टि. द्र. । g) पामे. वैप १, १५६६ अ
 द्र. । h) उप. =हसिन्- । i) बस. । j) विप. (विद्युत्-). बस. । k) षंसंपातान् इति जीसं. । l) तु.
 पागम । m) =मृत्- । n) =मेह- । o) पाठः? अपाने इति मदनपारिजातः (४६) । सप्र. वैघ २, १, ५ वृदे इति
 पामे. । p) पामे. वैप १, ११५६ ० द्र. । q) =स्वल्प- ।

मित-दक्षि(ण)णा^१- णा निस्
६, १ : १३.

मित-दु^१- पाठ १, ३४; पावा ३,
२, १८०; -^१द्रवः आपश्रौ १८,
४, २१; या १२, ४४^१.

मित-भोजिन्- -जिनः आपध १,
२५, ११; बौध २, १, ४१; द्विध
१, ७, ७.

मित-पच- पा ३, २, ३४.

मित-राविन्^१- -विणः या ११, १३.

मित-रोचिन्- -चिनः या ११, १३.

मित-शरण^१- -णः कौसू २१, १६.

मिताक्ष- -क्षाः बौश्रौ २५, १.

मिताक्षर^१- -रः निस् १, १३;
१९; -रे ऋप्रा १२, २६; -रेषु
वृदे २, ९०; ९२; या १, ९.

मिता(त-त्रा)लम्भन^१- -नम् काश्रौ
९, ४, ८.

शमित- (>मैतायन-) मिमत्-
टि. द्र.

शमित^१- -तः वैगृ ६७ : ५.

मितकुम्भ- -म्भाः बौश्रौ ४१ : ७.

मित्र,त्रा (वप्रा.)^१- पाठ ४, १६४;
पाग ४, १, ९९^१; २, १२७^१; ३,
५४; -^१त्र आश्रौ ३, १२, ९;
४, ११, ६; शाश्रौ ४, १०, १^१;
काश्रौ; -^१त्रः आश्रौ २, ११,
२××; शाश्रौ १०, १५, ४^१;
आपश्रौ ९, २, ६^१; माश्रौ ९,
३, ८^१; माश्रौ ३, २, ८^१;
हिश्रौ १५, १, ४५^१; पागृ १,

५, १०^१; आमिगृ १, ५, २ :
२७^१; वैगृ १, १७ : ८^१; ५,
४ : १०^१; अप १, ४, ४^१××;
वृदे २, ४९; ५, १४७^१; १४८^१;
शुश्र ४, १४१^१; या १०, २१^१;
२२^१; वेज्यो^१ १०; ३३;
-^१त्रम् आश्रौ २, ११, ४; ५,
५, १८××; शाश्रौ; पागृ २, ७,
१८; आमिगृ ३, २, ४ : १२^१;
१५^१; ६; १७^१; २०^१; ७; १६^१;
१७; १९^१; अशा ९, ५^१; शंघ
११६ : ४३; ५८^१; विध ५०,
१०; सुधप ८८ : १०^१; या ७,
१८; १४, १; -^१त्रयो.^१ आश्रौ
७, ५, ९; शाश्रौ ७, ११,
४; १२, १, ३; ऋत्र २, ७,
६६; ऋप्रा २, ६१; -^१त्रस्य
आश्रौ १, १३, १; ६, ५,
१८××; शाश्रौ; वृदे ८,
१०७^१; या २, १३^१; १२, १६;
-त्राणाम् वैगृ १, १९ : १५^१;
अप ६७, ५, १; -त्राणि विध ७८,
२२; -त्रात् अत्र १९, १६^१;
-त्राम्^१ आपगृ ३, १२; -^१त्राय
आश्रौ ३, ११, २; ५, १०,
२८; ७, ५, ९; शाश्रौ; माश्रौ
३, २, ८^१; अप्राय ४, ३^१;
-त्रे आश्रौ ७, १०, ५^१; शाश्रौ
१०, ४, ५^१; विध ३, ७४; ऋत्र
२, ५, ७२^१; ऋत ५, १, ५; पा
६, ३, १३०; पावा ६, २, १६५;

-^१त्रेण आय २, ९, ५; आमिगृ:
-त्रेभ्यः कौसू १६, १८; -त्रैः
शंघ २६४.

शमैत्र(वप्रा.)^१- पावा ५, ४, ३६;
-त्रः शाश्रौ ३, १७, १०; १४,
१०, १६; काश्रौ; वाध २६,
११^१; विध ५५, २१^१; आज्यो
१, ७^१; ९, ४^१; -त्रम् काश्रौ
२५, २, ११; आपश्रौ; अप ४१,
५; ७^१; आज्यो २, ३^१; ९,
९^१; -त्रस्य आपश्रौ १८, ११,
२३; बौश्रौ; अशा ६, १^१; -त्राः
वैगृ ३, १७ : १४; -त्राणि
आज्यो २, ३; -त्रात् आपश्रौ
६, २०, २^१; -त्रात् वाश्रौ ३,
३, १, ५४; अप ८, ४^१; -त्रे
विध ७८, २२^१; आज्यो २, ३^१;
९, ९^१; १०, १०^१; ११, ५^१; -त्रेण
काश्रौ ४, १५, १८^१; आपश्रौ;
आपमं १, ७, १०^१; कागृ २६,
६^१.

मैत्री^१- -त्रिया हिश्रौ ११,
१; ६३; -त्री ऋत्र २, १, १५१;
वृदे; नाशि १, २, १०^१; -त्रीभिः
आपश्रौ १६, ५, १०; वैश्रौ
१८, २ : २; बौध २, १०, ६२;
-त्रीभ्याम् वैश्रौ १३, ५ : ९;
बौध २, ४, ११; -त्रीम् बौश्रौ
२४, २२ : १०; वृदे ४, १७;
-त्र्यः आश्रौ ७, ५, ९; -त्र्या
आपश्रौ ६, २६, ७; १५, ४, ४;

a) बस. उप. = २दक्षिणा. b) उस. उप. <√दु। c) उस. उप. <√ह। d) बस. उप.
= गृह-। e) बस.। f) पूष. [प्रकरणतः] = सोम-। g) = विनायकाऽन्यतम-। h) वैप १ द.।
i) पृ १२५५ b द.। j) तु. टि. मित्रवर्ध-। k) पामे. वैप १, २४९१ b द.। l) पामे. वैप. १,
८१२ m द.। m) = अनुराधानक्षत्र-देवता-। n) = द्वादशादित्याऽन्यतम-। o) = विराट्छन्दो-देवता-।
p) = मैत्री-। q) = [मित्रवती] कन्या-। r) पामे. वैप १, २४९३ b द.। s) स्वाग्ने प्र.। t) = सुहृत्-विशेष-।
u) = नक्षत्रवर्ण-विशेष-। v) = अक्षरदैवत-विशेष-। w) = सुहृद्-। x) पामे. वैप १, २४९७ c द.।
y) = सूच्यना-विशेष-।

वैश्रौ २०, ५ : ७; २१, १६ : ११.
 मैत्र-कटा (उ-आ) पस्तम्ब-
 सूत्र- -त्रेषु काठश्रौ ४.
 मैत्र-पात्र- -त्रम् हिश्रौ १३,
 ४, २३.
 मैत्र-युक्त- -क्तम् आज्यो ५,
 ५.
 मैत्रा(त्र-अ)नुवाक->
 ँकिक- -कः मैत्र ३३.
 मैत्रो(त्र-उ)त्तर^a- -रेषु अप
 ३१, ५, २.
 मैत्रक- पा ४, २, १२७.
 मैत्रायण- पा ४, १, ९९; पाग
 ४, २, ८०^b.
 मैत्रायणक- पा ४, २, ८०.
 मैत्रायणीय^c- -याः चव्यू
 २ : ४; ६.
 मैत्रायणीयक^d- -के वृदे
 २, १३८.
 मैत्रायणीय-ब्राह्मण-
 -णम् बौशु ८ : ९.
 मैत्रायणीय-सूत्र- -त्रस्य
 वागृ १, १.
 मैत्रायणि^e- -णिः मागृ १, २१,
 १३; वागृ ९, १.
 मित्र-कर्मन्- -र्मं गौध १५, १२.
 मित्र-कार्य- -र्याणि आज्यो २, ३.
 मित्र-तूर्ण^f- -र्याय अपरा ३, २, १२१.
 मित्र-दुह- -धुक् शंघ ३७७ : ७;
 ३९०; ४१४; भाषि १७१.
 मित्र-धा-> ँधेय^g- पावा ५, ४,
 ३६.

मित्र-धिति^h- -तये निसू १, ७ : ६१.
 मित्र-भृत्ⁱ- -भृत्तः वौश्रौ १३,
 ३८ : ९; गो २, ३१; अप्राय
 ६, २.
 मित्र-महस^j- -हः आपश्रौ ४,
 १५, १२; १४, २९, ३; भाश्रौ.
 मित्र-वत् शंघ १३५.
 मित्र-वत्- -वत् आश्रौ ४, १२, २२;
 -वान् कौगृ ३, १२, २९.
 मित्र-वर्ग- -र्गः आज्यो ९, ४; -र्गाः
 आज्यो ११, ५.
 मित्र-वर्धन- -नः^k आपश्रौ २२,
 २६, १६; वौश्रौ १८, १० : १८;
 हिश्रौ २३, ४, ३०.
 मित्र-वि(न्द>)न्दा^l- -न्दा आश्रौ
 २, ११, ११^m; काश्रौ ५, १२, ११ⁿ;
 -न्दायाः शाश्रौ ३, ७, १.
 मित्र-विरोध- -धे अप ७२, ३, ११.
 मित्र^o मित्रा ऋप्रा ४, ९२१.
 मित्रा(त्र-अ)तिथि^p- -थौ ऋत्र २,
 १०, ३३; वृदे ७, ३५.
 मित्रा(त्र-आ)दि- -दयः वैश्रौ २०,
 १९ : ३; -दिभ्यः वृदे ३, १२७;
 -दीन् वृदे ३, ५१; अत्र ३, ८.
 मित्रा-बृहस्पति-> मैत्राबर्हस्पत्य,
 त्या^q- -त्यः काश्रौ १५, ३, २६;
 -त्यम् आपश्रौ २२, २५, ११;
 बौश्रौ; -त्यस्य आपश्रौ २२, २५,
 १६; बौश्रौ २२, १७ : २०;
 हिश्रौ २३, ४, १०; -त्या आपश्रौ
 १८, ११, ८^r; वाश्रौ ३, ३, १,
 ४१^s; -त्ये बौश्रौ २४, ३ : ९;

-त्येन वाश्रौ ३, ३, १, ५७.
 मित्रा(त्र-अ)मित्र- -त्रयोः पा ५,
 ४, १५०.
 मित्राय-> मित्रायु- -युवः
 ऋप्रा ९, २४१.
 मित्रा(त्र-अ)र्यमन्- -र्यगोः माश्र १,
 २०६; -माणौ वृदे ६, ८१.
 मित्रा-वरुण- पा, पाग २, ४, १४^t;
 -णयोः मिश्रौ ३, १, १६; १७;
 शाश्रौ; आश्रिण २, ५, १२ : २^u;
 वाध ३०, १११^v; या २, १३; ५,
 १४; -णा आपमं १, ७, १२; १४, १;
 कौसु; या ११, २३^w; -मिणा
 आश्रौ २, १४, ११; शाश्रौ;
 आपश्रौ १२, १४, १२^x; हिश्रौ
 ८, ४, १४^y; -णाम्याम् आश्रौ
 ६, ११, १६^z; शाश्रौ; काश्रौ ९,
 १, १५; वौश्रौ १७, ५१ : १३;
 -णौ आश्रौ ४, १२, १; शाश्रौ;
 काठश्रौ १३०; १३१; वाधुश्रौ ४,
 ८३ : १०; शुभ्र ४, १८५; या ११,
 २३; पि ३, ६३; उनिस् ८ :
 १९; -मिणौ आश्रौ २, ५, २;
 १२; शाश्रौ.
 मैत्रावरुण^{aa}- -ण^{ab} आश्रौ
 १२, १५, २; आपश्रौ; -णः आश्रौ
 ३, २, ४xx; शाश्रौ; बौगृ ३, १०,
 ६; वृदे ८, १२०; साश्रु^{ac} १, २६;
 ३८; ४५; या ५, १४^{ad}; -णम्
 आश्रौ २, १४, १०xx; शाश्रौ;
 -णस्य आश्रौ ५, ३, २३xx;
 शाश्रौ; मीसू ४, २, १६^{ae};

a) = अनुराधायां तिस्रषु उत्तरासु चेति भावः । b) अर्थः ? । c) = शास्त्र-विशेषः, तदन्वयेत्- वा ।

- d) चरुो वृत् प्र. (पा ४, ३, १२६) । e) = आचार्य-विशेषः । अपत्यार्थे फिन् प्र. उरसं. (पा ४, १, १५४) ।
 f) वैप १ द्र. । g) वैप १, २४९४ f, i द्र. (वैतु. पात्र. धेयः प्र. इति) । h) पाभे. वैप १, २४९५ & परि. च द्र. ।
 i) = इष्टि-विशेषः । j) विप. (दीक्षणीयेष्टि-) । k) प्ल्यम् इति पाठः ? यनि. शोचः (तु. आपश्रौ) ।
 l) तु. पागम. । m) = (मित्रावरुणदेवत्य-) नक्षत्रद्वयः । n) पाभे. वैप १, ८२८ m द्र. । o) = ऋषि-विशेषः ।
 p) = वसिष्ठ-ऋषिः । q) ण्याय इति जीसं. प्रवृ. ।

-१०० गस्य काश्रौ ९, ३, ३; माश्रौ २, ३, २, ९; बौश्रौ १५, ५ : ६; हिश्रौ ८, १, ५८; -णाः शाश्रौ १६, ९, ३०; बौश्रौ; -णान् काश्रौ २०, ८, ३०; -णानि वृदे ५, ८१; -णाय शाश्रौ ५, १५, ८; १३, १०, ९; काश्रौ; -णे आश्रौ ८, ७, ७; काश्रौ ९, ११, २३; माश्रौ २, ४, १, ४; हिश्रौ १०, ४, २४; -णेन आश्रौ ७, ५, १६; काठश्रौ; -णौ वाघूश्रौ ४, ८३ : १९; ८४ : ५; अत्र ९, १०.

मैत्रावरुणी- णी आश्रौ १, ७, ७; ६, १४, ७××; शाश्रौ; काश्रौ १५, ४, ४०^०; १८, ६, २५^०; ऋअ २, १, १५; ४३××; -णीम् आश्रौ १२, ७, १२; आपश्रौ; -ण्यः शाश्रौ १२, २, १६; गो २, १०; वृदे ६, ६५; १२४; -ण्या शाश्रौ ९, २८, १८; १४, ४०, २३; आपश्रौ; -ण्याः आपश्रौ ११, ५, १२; चाअ २ : १३; -ण्याम् हिश्रौ १०, ५, ४७; -ण्यै बौश्रौ २१, २४ : ७; २६ : ५; ७; माश्रौ.

मैत्रावरुण्या (णी-आ) मिक्षा- क्षायाम् बौश्रौ २१, १ : ११.

मैत्रावरुण-चमस- -सम् काश्रौ ९, ३, ९; १८; आपश्रौ; -सात् आपश्रौ १२, ६, २; वैश्रौ; -मे काश्रौ ९, ३, १०; आपश्रौ; -सेन काश्रौ ९, ३, ५; आपश्रौ.

मैत्रावरुणचमस- मुख्य^b- ख्यः आपश्रौ १४, ३,

१०; -ख्यान् आपश्रौ १२, २८, १३; काठश्रौ; हिश्रौ ८, ८, ४५^०.

मैत्रावरुणचमसी-

(य>)या- -याः आपश्रौ १२, १६, ११; बौश्रौ; -यानाम् माश्रौ २, ३, २, २१; -यासु माश्रौ २, ३, २, २१; २५.

मैत्रावरुण-चमसाध्वर्यु- र्युः हिश्रौ ८, १, ५९.

मैत्रावरुण-चोदित- -तः माश्रौ ५, २, ८, ४.

मैत्रावरुण-दण्ड- -ण्डम् आपश्रौ ७, ८, ३; बौश्रौ; -ण्डे बौश्रौ ३, ३१ : ५; -ण्डेन काश्रौ ६, ३, १०; आपश्रौ.

मैत्रावरुण-देव(ता>) त^b- -ते आश्रौ ३, ६, ४.

मैत्रावरुण-धिष्ण्य- -ष्ण्यम् वैताश्रौ १८, १८; -ष्ण्यस्य काश्रौ १५, ४, ४०; वाश्रौ १, १, ६, ६.

मैत्रावरुण-पात्र- -त्रम् बौश्रौ ७, २ : १०; ६ : ४०; १४ : ३६; वैश्रौ १५, २ : ६; -त्रे बौश्रौ ७, १५ : ३.

मैत्रावरुण-प्रभृति- -तयः शाश्रौ ६, १३, २.

मैत्रावरुण-मरुवीय- वैश्रवदेव-वौष्ण- -ष्णाः ऋअ २, १, २३.

मैत्रावरुण-षष्ठ^b- -ष्टाः आपश्रौ ७, २३, ३; २६, ५; माश्रौ ७, १७, १३; वैश्रौ १०, १८ : २; हिश्रौ ४, ५, ३२.

मैत्रावरुण-सामन्- -म निस् २, ११ : २२; ६, ५ : ५;

८ : ४१; ७, २ : ६; ८, ६ : ७; ४५; -मनी छुस् ३, २ : ८.

मैत्रावरुणा(ण-अ)प्र^b-

-आः आपश्रौ १४, २२, ४; माश्रौ ३, ८, ७; हिश्रौ १५, ५, ३७;

-ग्रान् काश्रौ २५, १३, ४०; बौश्रौ १४, २७ : १७; २३, ८; २५; वैश्रौ २१, ८ : ७.

मैत्रावरुणाज्ये निस् ६, १३ : ३६.

मैत्रावरुणा(ण-आ)दि- -दिभ्यः वैताश्रौ २५, १.

मैत्रावरुणा(ण-२आ)घ- -घाः वैश्रौ १५, २७ : १६.

मैत्रावरुणि^d- -णिः ऋअ २, ८, ६७; वृदे ५, १६०.

मैत्रावरुणीय^d- -यम् माश्रौ २, २, ४, ४.

मित्रावरुणयोर्-अयन- -नम् आश्रौ १२, ६, १०; शाश्रौ १३, २९, २२.

मित्रावरुण-वत् आपश्रौ २४, १०, ७; बौश्रौ ४६ : ६; हिश्रौ २१, ३, १४; वैष ४, ६, ३.

मित्रावरुण-समीरि(त>)ता- -ताम् आपश्रौ ३, १, ७; बौश्रौ १, १८ : ३; भाश्रौ ३, १, १; हिश्रौ २, ३, ८.

मित्रा-वरुण-दक्षां (क्ष-अं) श-तुवि- जात-भगा(ग-अ)वैमन्- -ष्णाम् वृदे ४, ८२.

मित्रा-वरुणा (ण-अ) येमा (म-आ) दित्य- -त्यानाम् साअ १, १९२.

मित्रो/कृ > ऋ-कृत्य वृदे २, ४९.

a) तु. चौसं. । b) बस. । c) ख्यौ इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. आपश्रौ.) । d) व्यप. ७

e) तस्येदमीयश् छप् प्र. डसं. (पा ४, २, १३८) ।

√मित्रीय > मित्रोयत् -यन्तः ऋग्र २, १०, १०८.
 मिथ्य- पा ४, ३, ५४; पाग ६, २, १३१; -ञ्यः काश्रौ १५, ५, ३०.
मित्र-कर्मन्- प्रसृ. मित्र- द्र.
मित्रयु^१- पाउ १, ३७^७; पा, पाग २, ४, ६३; पाग ४, १, १००^७; १०४^७; १३६; -युवः बौश्रौ ७ : १; ४; हिश्रौ २१, ३, ७^७; -युवास् आश्रौ १२, १०, १२.
मैत्रेय- पा ४, १, १०४; १३६; ६, ४, १७४; ७, ३, २; -यः बौश्रौ २०, १ : ३४; वायूश्रौ ३, ९४; ४; -यस्य बौश्रौ २०, २४; २६; -ये पावा ६, ४, १७४.
मैत्रेयो- -यी आश्र ३, ४, ४; कौष्ट २, ५, ३; शांष्ट ४, १०, ३; अष १, ३, १^७; ४३, ४, २७^७.
मैत्रेयायण- पा ४, १, १००.
मैत्रे(यक >)यिका- पा ७, ३, २.
मित्र-चत् प्रसृ. मित्र- द्र.
मित्रवर्ध- °वर्ध^१ (>मैत्रवर्धक-
 श्रक- पा.) पाग ४, २, १२७.
मित्रा, √मित्राय, १ मित्रायु- मित्र- द्र.
२ मित्रायु^१- युवः आपश्रौ २४, ६, ५^७.
मित्रा-वरुण- प्रसृ. मित्र- द्र.
मित्राहे वाश्रौ ३, २, ६, ३९.
मिषी- (>२मैत्र-पा.) पाग ५, २, ६१.
मिषी √कृ मित्र- द्र.
मिषेरु^१- रुन् शैशि ३१०^७.

१मित्वा √मा(वधा.) द्र.
२मित्वा √मि(वधा.) द्र.
√मिथ्, मेथ^१ > मिथ(त् >)ती-
 -तीः भाशि ५६^७.
मिथस्^१- पाउना ४, २२४; पाग १, १, ३७; -थः आश्रौ ३, १३, ५; शाश्रौ ३, ४, ३^१; काश्रौ १, ३, ३; २५, ४, ३१; आपश्रौ; भाश्रौ २, ५, ६^१; कौस् ११९, २^१; पावा २, २, ३५^७.
मिथो-भेद- -दः अष ६४, ८, ६; ७०^२, ७, १२; ७१, १०, ५.
मिथो(थस् अ)वगृह्य- -ह्ययोः शौच ४, ४२.
मिथु^१- पाग १, १, ३७; -^१थु आपश्रौ ३, १२, १^७; भाश्रौ ३, ११, १^७; वाश्रौ १, ३, ७, २०^७; हिश्रौ २, ६, ४^७; शुप्रा ३, १२१^७; तैप्रा ३, १३.
मिथुया^१ भाग २, ३२ : १९^७; आपघ २, १३, ११; हिथ २, ३, ११; अप्रा ३, ४, १^७.
मिथ्या^१ भाश्रौ १, ७, ४, ११^७; आश्रिण २, ४, ८, १७; २०; २२; वाच.
मिथ्या √कृ^१ पा १, ४, ७४
मिथ्या-चरत्- -रन् विष ५, १७५.
मिथ्या-दर्शन- -ना^१ या १४, ५.

मिथ्या(थ्या-अ) धीत्-
प्रायश्चित्त- -त्तम् आपघ १, २६, १०; हिथ १, ७, २१.
मिथ्या-प्रयुक्त- -क्तः पाशि ५२; नाशि १, १, ५.
मिथ्या(थ्या-अ) भिंश-
सिन्- -सी शंघ ४०३; ४०४; ४१४.
मिथ्या-वचन- -ने गौघ १३, २३.
मिथुन, ना^१- पाउ ३, ५५; पाग १, १, ३७^७; ५, १, १३०; -नम् शाश्रौ १५, १७, १^७; काश्रौ १३, ३, ११; बौश्रौ; आमिष्ट २, १, ३ : २३^७; -नयोः कौस् ५१, ११; -नस्य ^१बौश्रौ ७, ८ : ८४; वायूश्रौ ४, २८^२; १; -^१ना आपघ १, ७, ११; बौष्ट ३, ११, ४; या १२, १०; -नाः आपश्रौ ५, ६, १^७; बौश्रौ; या ३, ४; -नात् निसृ ८, २ : ४३; -नात् बौश्रौ १७, ४७ : १२; माष्ट २, १०, २; -नानाम् कौष्ट ४, ४, १९; शांष्ट ४, १९, २; या ३, ४^७; -नानि वायूश्रौ ४, २९ : ३; द्राश्रौ ५, ३, १८; लाश्रौ २, ७, १७; ^१कौस् ११४, २; १२८, २; -^१नाम्याम् आपश्रौ १०, २५, १५; भाश्रौ; -ने आश्रौ ३, २, १२; -^१नेन

a) व्यप. । b) <मित्र- + √या । c) तु. पागम. । d) सपा. मित्रयुवः <> मित्रायुवः इति पाभे. । e) विप. ([मित्रयु-ऋषिका-] अनुराधा- [नक्षत्र-]) । f) तद्भावार्थे बुञ् प्र. (पा ५, १, १३४) । g) मित्र- (तु. पागम.), श्वल- इति पाका. । h) = मित्रयु- । i) वैप १ द्र. । j) √मिद्, मेद् टि. द्र. । k) या ४, २ परामृष्टः द्र. । l) श्वः सं इति सूत्री ? । m) मिथौ इति पाठः ? यनि. शोषः । n) पाभे. वैप २, ३ खं. १ मिथु-> थु तैप्रा ३, ७, ११, ५ टि. द्र. । o) तु. पासि. । p) पाभे. वैप १, २३१८ k द्र. । q) पाभे. वैप १, २४९८ c द्र. । r) पा १, ३, ७१ परामृष्टः द्र. । s) तु १ रूपम् (तु. B.N.M.) । t) पाभे. वैप २, ३ खं. मिथुनी भवन्ति ऐत्रा ७, १३ टि. द्र. । u) सपा. आपघ २, १४, १ विधुरम् इति, हिथ २, ३, ७ विधुरम् इति च पाभे. ।

आपश्रौ १३, २१, ३; बौश्रौ;
-नेभ्यः आश्रौ ३२, १५; -नेषु
शाश्रौ ६, १, १३; -नैः काश्रौ
३, ३, ३; वाधूश्रौ ४, १५ : १०;
९७^३ : ८; ११६ : ५; -नौ
काश्रौ ४, ५, २२××; आपश्रौ;
या ७, २९^१कृ; १२, १०^३.

मैथुन- पा ५, १, १३०; -नम्
शाश्रौ ९, २८, १८; काश्रौ; वाध ६,
२९××; शंघ १३××; आपध १,
२, २६××; हिध १, १, ५९××;
-नस्य बौध २, १०, ४१; -नात्
आय ३, ९, ६; शांय ४, ११, १;
आपध; -नाय वृदे ४, १२; ७,
४; -ने आपध १, ९, १२; २,
१३, ३; विध.

मैथुन-क्षुरकृत्य-स्ताना-
(न-अ) वलेखन-दन्तधावन-
पादधावन- नानि द्राय २, ५,
१२.

मैथुन-मांसभोजन- -नम्
काश्रौ २५, ४, २७.

मैथुन-वर्जन- -नम्
आपध २, १, ९; वैध ३, ६, ५;
हिध १, ९, ९.

मैथुन-वर्जम् आमिण् २,
४, ११ : ३.

मैथुन-व्यपेत, ता-
-तायाम् वाध १३, २५;
-तेन वाध १३, २६.

मैथुन-शङ्का- -ङ्कायाम्
गौध २, २२.

मैथुन-संयोग- -नो गौध

१३, १९.

मैथुना(न-आ)चरण-

-णम् विध ३८, ४.

मैथुना(न-अ)र्थ- -र्थम्
वृदे ६, १५४.

मैथुने(न-इ)च्छा-

-च्छायाम् पावा ७, १, ५१.

मिथुन-काम- -मः जैय १, २१ :
२.

मिथुन-चारिन्- -रिभ्याम् वाश्रौ
३, २, ५, ३६.

मिथुन-त्व- -त्वाय बौश्रौ १०,
५ : १५.

मिथुना(न-आख्या >) ख्य-
-ख्ये ऋत ३, ८, १.

मिथुना(न-अ)र्थ- -र्थम् ऋअ २,
१०, १०.

मिथुनी √भू > मिथुनी-भूय
आपध १, ३२, २; हिध १, ८, ४४.

मिथुनि^a - नी वाधूश्रौ ३, ७० : ७;
४, ३१ : ७; जैश्रौ ७ : ९^१; बौय
३, ५, ७^२; गौध ९, २६; ऋतैप्रा
४, ५३^b; १०, १८^b.

ऋमिथुस^a - -थुः आपश्रौ २, २०,
६; भाश्रौ २, १९, १; हिश्रौ २, ५,
४७.

मिथुश्-चरत्- -रन्तम् भाशि
५६^१०.

मिथ्- > मिथ्-कृत्^a - -कृतम्
शाश्रौ १८, ११, २^१.

ऋमिथ्-दृश^a - -दृशा ऋप्रा ८,
३१; ९, ८.

मिथो^d पाग १, १, ३७.

मेथत्- -थन्तौ या ७, २९.

मेथन- -ने वैताश्रौ ३८, १०.

ऋमेथि^a, लिथित^a - -त्^a आपश्रौ ९,
३, १; भाश्रौ ९, ४, २; हिश्रौ १५,
१, ४९.

मिथत्- , मिथस्^a √मिथ् द.

मिथिन- पाउना ४, ११.

मिथि(ल >) ला- पाउ १, ५७.

मिथु^a -, मिथुन- प्रथ., मिथ्या
√मिथ् द.

√मिद्, मेद्^a पावा. भ्वा. उभ. मेधाहि-
सनयोः, भ्वा. आत्म., दिवा. पर.
स्नेहने, मेघति या ६, १२;
मेघन्तु या ८, ३^१.

मेदयन्ति वाधूश्रौ ४, ५२ : ५;

मेदयेयुः वाधूश्रौ ४, ५२ : ५.

मेद^a - -दम् विध ७९, ७.

मेदा(द-आ)हुति-भक्ष^a-

-क्षेभ्यः माश्रौ ४, १, १६.

मेदस्^a - -दः काश्रौ ६, ६, २४^१म्;

२०, ७, ७; आपश्रौ; बौश्रौ ४, ७ :

१२^१म्; ११, ५ : १३^१म्; वैश्रौ

१०, १६ : १०^१म्; या ४, ३^१कृ;

१४, ६; -ऋदसः आश्रौ ३, ४, ३;

काश्रौ ६, ६, २२^१म्; आपश्रौ ७,

२१, १^१म्××; काश्रौसं; बौश्रौ ४,

७ : ११^१म्; भाश्रौ ७, १६, १^१म्; ७^१म्;

माश्रौ १, ८, ४, ३३^१म्; वाश्रौ १, ६,

६, १०^१म्; वैश्रौ १०, १६ : ९^१म्; हिश्रौ

४, ४, ३७^१म्; ङ्या ६, १६; १४, ६;

-दसा आपश्रौ ७, २४, ९; २६, ३;

माश्रौ; -ऋदसाम् आपश्रौ २०,

१९, ३^१; ५^१; -दांसि बौश्रौ १८,

a) वैप १ द. । b) शोधार्थं वैप १, २४९९, e, d यथाक्रमं द. । c) पाप्मे. वैप १, २४९८० द. ।

d) = मिथस- (तु. MW.) । e) णे इति C. शोध-प्रस्तावः । f) भाश्रौ. पाठः । g) वैप २, ३६. द. ।

h) पाप्मे. वैप १, १०८०० द. । i) √मिथ्, मेथ् इति च √मिध्, मेध् इति च पाठांतरम् (तु. भारुणाः प्रथ.) ।

j) सा ४, ३; १०, २१ पा १, २, १९; ३, ११; ३, १, ५५; ७, ३, ८२ परासृष्टः द. । k) = मेदस्- । l) प्रस. > दृष. &

m) सपा. मेदः <> मेदस् इति पाप्मे. ।

४० : २१ ; २४.
 मेदः कुल्या- -ख्याभिः कप्र २,
 ४, १४.
 मेदस्-तरस्^१- -सः वाधूश्रौ ३,
 ९५ : २.
 मेदस्-तसः(ः) या ४, ३; ६, १६^१;
 मेदस्तःऽमेदस्तः माश्रौ ५, २,
 ९, ५.
 मेदस्-पिण्ड- पाग ८, ३, ४८.
 मेदस्-वत्- -वत् बौश्रौ ४, ९ :
 ३५; हिश्रौ ४, ५, ३१.
 मेदस्वती- -ती भाग् २,
 १६ : ५^१^b; -तीम् भाश्रौ ७,
 २१, १; हिय २, १५, २^१^b.
 मेदस्-विन्- -विन्म् वैश्रौ १०,
 २० : ८.
 मेदस्विनी- -नीम् वैश्रौ १०,
 २० : ६.
 मेदो-मजा(जा-अ)स्थि-वृष्टि-
 -ष्टयः अप ६४, ५, ८.
 मेदो-मधु-श्यामाके(क-इ)षीक-
 तूल- -लानि कौस् ११, ४.
 मेदो-मि(श्र>)श्रा- -श्राम्
 हिश्रौ ४, ५, ३०^१.
 मेदो-रूप^d- -रूप् बौश्रौ २८, ७ :
 ८.
 मेदिन्^d- -डी अप ४८, ११६^१;
 -दिन्म् पावा ६, १, ६७; ८, २,
 ६.
 मेदिनी^d- -नी वैग् ३, १६ : ७;
 ४, ११ : ९^१; -नीम् अप ६१,
 १, १७; ६८, ३, १२.
 मेदुर- पा ३, २, १६१.

√मिष्, मेष् √मिद् टि. द.
 √मिन्द् (बधा.) पाधा. चुरा. पर.
 स्तेहने > मिन्दा^१- -न्द्या^१
 आपश्रौ १३, १७, ८; हिश्रौ ९,
 ४, ५६; १०, ५, १६; -^१न्दा
 आपश्रौ ९, १२, ११; १३, १७,
 ८; बौश्रौ.
 मिन्दा(न्दा^१-आ)हुति- -ती
 बौश्रौ २१, २४ : ९^१××; वैश्रौ;
 -त्योः बौश्रौ २१, २४ : ८.
 मिन्दाहुत्या(ति-आ)श्रावि-
 तादि- -दीम् वैग् ६, १० : ३;
 १३ : ४; २० : ३; ४; ७, ८ :
 १०.
 √मिन्व् (बधा.) पाधा. भ्वा. पर.
 सेचने, मिन्वति भाश्रौ ५, २,
 १९^६.
 मिमत^d- पाग ४, १, ९९^१.
 मैमत- पा ४, १, १५०.
 मैमतायन- पा ४, १, ९९.
 मैमतायनि- पा ४, १, १५०.
 मिमान- √मा (बधा.) द.
 √मियञ् (= √म्यक्ष), मियक्षति
 निघ २, १४^१.
 †मियेध^k- -धः आश्रौ ६, ११, ११.
 मियेध्य^d- -ोध्य बौश्रौ ९, ७ :
 २^१.
 मिरिका^१- > ^१का-वन- पावा ८, ४, ६.
 †मिर्मिर^d- -रः आपश्रौ २२, ७, ७;
 बौश्रौ १८, १ : ४; ५^११^१; हिश्रौ
 १७, ३, ७.
 √मिल् पाधा. तुदा. पर. श्लेषयो,
 उभ. संगमे, मेलयति हिश्रौ ९,

३, १०.
 मिलिक- (> मैलिक्य- पा.) पाग
 ५, १, १२८.
 †मिलिऽमिलि अप ३६, १, १२.
 √मिश् (बधा.) पाधा. भ्वा. पर.
 शब्दे रोषकृते च > मिश्र, श्रा^m-
 पाउवृ २, १३; -श्रः बौश्रौ
 १०, ११ : १२; सु १४, ३;
 माशि ८, ६; -श्रम् आपश्रौ १३,
 २४, १६^१; बौश्रौ; -श्राः बौश्रौ
 १५, ८-९ : ८; वाश्रौ ३, ४, १, ३७;
 ३९; अप १, ४८, ६; अशां १५,
 ५; -श्राणि अप ४४, ३, ३;
 -श्रान् अप ४३, ६, १; ऋप्रा १,
 ५३; -श्रासु विघ २६, २; -श्रे
 पा ६, २, १२८; -श्रैः काश्रौ
 १९, २, २५; अप ७०^२, ७, १७.
 मिश्र चोर- -रः विघ ४५, १०^m
 मिश्र-देवता-त्व- -त्वात् मीस्
 ५, ४, २१.
 मिश्र-धान्य^१- -न्यानि कौस् ८,
 २०; -न्यैः अप १, ४४, ६.
 मैश्रधान्य- -न्यम् कौस्
 १९, ५; २२, १; २४, ८; ४६,
 १०; -न्यस्य कौस् १३३, १;
 -न्यानि अप १७, २, ५.
 मिश्र-निघन- -नम् निस् ४, १ :
 २३.
 मिश्र-मिश्र^१- -श्रान् वाश्रौ ३,
 ४, १, ४८.
 मिश्र-वत्- -वन्तः निस् ७, ७ : २.
 मिश्र-वर्ण^d- -र्णः आमिग् २, ४,
 १२ : ७.

a) मलो. कस. । b) परस्परं पाभे. । c) ^१श्रम् इति पाठः ? यनि. शोधः । d) वैप १ द. । e) धा.
 स्खलने वृत्तिः । वैप १ द. । विशेषः टि. द. । f) = ऋग्-विशेष- । तद्वति वृत्तिः । g) धा. प्रक्षेपयो वृत्तिः ।
 h) व्यप. । i) रमित- इति [पक्ष] पागम. । j) लघुशास्त्रीयः पाठः । k) वैप १, २५०० k, m द. ।
 l) अर्थः व्यु. च ? । = शोध-विशेष- इति प्रसिद्ध. । m) धा. संमिश्रणे वृत्तिः । n) ^१चौ^१ इति जीसं. ।
 o) नाप. (मिश्रित-धान्य-) । p) विप. [श्रौद्धप्रमण-होम- (तु. म।मा २२, २०)] । सप्त. । q) बस. ।

†मिश्र-वासस्^a- -स्सः आपर्म
२, १३, ११^b; भापृ १, २३, ९^b;
वैपृ ३, १५ : ५^b; १७ : ६.
मिश्र-स्वप्न-स्वभाव^c- -वेषु अप
६८, १, ४८.

√मिश्रि पा ३, १, २१; मिश्र-
यति काश्रौ १०, ४, ६.

मिश्रण- -णम् काश्रौ ५,
१०, ९.

मिश्रि(त>)ता- -ताः अं
५ : २.

मिश्री√कृ > मिश्री-करण-
-णम् पा, पावा २, १, ३५.

मिश्री√भू > मिश्री-भाव-
-वः अप ७०^३, ११, ४.

१मिश्रीभाव-कर्मन्-

-र्मणः या २, १६.

२मिश्रीभाव-कर्मन्^a-

-र्मा या ५, १५.

मिश्री-भूत- -ताः अप ५२,
६, १.

√मिश्र^d पाधा. चुरा. उभ. संपर्के.

मिश्रक- (>°कान्वात्>)ण-पा.)

पाग ६ ३, ११६; ८, ४, ४.

मिश्र-चोर- प्रसृ. √मिश्र द.

मिश्रोदन^e- -नाः बौश्रौप्र २२ : २.

√मिष्^f पाधा. भ्वा. पर. सेचने, तुदा.

पर. स्पर्धायाम् >†मिषत्-

-षत् बौश्रौ १७, १९ : १०; हिपि

१८ : १३; -षतः भापृ ३, ९ :

४; अत्र ४, २९; -षन्नयः हिपि

१८ : १३; -षन्तम् आश्रौ ४,
७, ४; या ११, ४२^क.

मिष्ट^g- -ष्टात् माशि १५, १०.

मिष्टै(ष्ट-ए)क-भोजिन्- -जौ
शंघ ३७७ : १५.

मिष्टै(ष्ट-ए)का(क-आ)शिन्-
-शी शंघ ३७७ : ५.

ऽमेष- पाग ३, १, १३४.

मेषा(ष-आ)द्य(दि-अ)र्थ- -र्थः
पावा ३, १, १३५.

†मिषे^h आपश्रौ २४, १४, १३.

√मिस्, मिस्वतिⁱ निघ २, १४.

√मिस्^d

√मिह् √मिष् द.

मिहिर- पाठ १, ५१.

√मी √मि (बधा.) द.

√मी (=√मा [माने]), †मिमया

बौश्रौ १९, १० : २७; आद्रिण्ये

२, ५, १ : २४; अत्र ९, १०; या

११, ४०.

†√मी (=√सा[शब्दे]), मिमेति अप

४८, ४; मीमयत् या २, ६^क;

अमीमेत् आश्रौ ४, ७, ४;

शाश्रौ ५, १०, ६; या ११, ४२.

मीढ-, मीढुषी- प्रसृ. √मिष् द.

‡मीतम् वाधूश्रौ २, १६ : ९.

मीन^j- पाठ ३, ३^क; पाग ४, २, ८०^१;

-नान् बृदे ६, ८८; -नानाम्

नाशि १, ६, १६.

मैनिक- पावा ४, ४, ३५^म.

मीन- पा ४, २, ८०.

√मीमांसⁿ, मीमांसते अप ३३, १,

९; मीमांसन्ते वाधूश्रौ ४, ९० :

२९; बौध १, ४, १०; वाध २२,

२; गौध १९, ४; तैषा १६, १९^१;

मीमांसित वाधूश्रौ ४, २८^१ : ५;

जैश्रौ १ : ५; ६; मीमांसिरन्.

आपश्रौ २३, १, १५; वाश्रौ ३,

३, ४, १८; हिश्रौ १८, १, २०.

मीमांसमान- -न्स्य आपध २, ६,

१९; हिध २, १०, २०.

मीमांसा- पाग ४, २, ६१^१; -सा

शाश्रौ १८, २४, ३४; आपश्रौ

१५, १८, १२; १९, १६, ९;

बौश्रौ २, १२ : ११; १४××;

वाधूश्रौ; नव्यू २ : २८^०.

मीमांसक- पा ४, २, ६१;

-कानाम् तैषा ५, ४१^२.

मीमांसित- -न्स्य आपध २, ६,

१९; हिध २, १०, २०.

मीमांसित्वा बौध १, ५, ६३.

मीमांस्य- -न्स्यम् गोश्रु १, २, ९;

वाध ३, ४४.

मीमांस्यमान- -नाः आश्रौ ११,

२, ६.

मीयमान- √मा (बधा.) द.

मीर- पाठ २, २५.

√मील्^p पाधा. भ्वा. पर. निमेषणे.

√मीव् पाधा. भ्वा. पर. स्थौल्ये.

मीव- पाठ १, १५४.

मीवर- पाठ ३, १.

मुकय^q- पाठभो २, ३, ७; पाग ४, १, ४४

a) बस. । b) सपा. हिपृ २, ३, ७ विश्रवासः इति, आद्रिण्ये २, १, ३ : १७ विश्रवासाः इति च पाभे. ।

c) कस. > बस. । d) √मिस् इत्यपि BPG. । e) = ऋषि-विशेष- । संस्कृतुः टि. भूयान् पाभे. । f) या ३-

१६ परामृष्टः द. । g) नाप. । < √*सृष् 'माधुष्ये' (तु. पंजा. मखीर [मधु-]; नभा. मखाना [शर्करित-धान्य-];

पार., नभा. मिल्सी) । h) पाठः? इष्- > इषे इति शोधः (तु. C., अत्रैव ऊर्ज- > ऊर्जे च) ।

i) वैतु. दे. < √मस इति । j) = मत्स्य- । व्यु. ? । k) < √मी [हिंसायाम्] । l) अर्थः ? ।

m) तु. पाधि. । n) वैपृ १ द. । o) = मीमांसा-शास्त्र- । p) पा ७, ४, ३ परामृष्टः द. ४

g) = मृगजाति-विशेष- ।

मुकयी- पा ४,१,४१; पावा ४, १,६३.
मुकुट^१- पाउभो २, २, १०६^b; -टेन विध १,४२.
मुकुट^२- पाउ १, ४०; पाग ५, २, ३६^d; पावाग ८, २, १८^e.
 मुकुरित- पा ५, २, ३६.
मुकुल^१- पाग २, ४, ३१; ५, २, ३६; १३६^e; पावाग ८, २, १८^e.
 मुकुलित- पा ५, २, ३६.
 मुकुलिन- पा ५, २, १३६.
 मुकुलो (ल)प(मा >)म^१- -मम् वैश्रौ ११, ८: २.
मुक्त- √मुच् द्र.
मुक्ता- > मौक्तिक^१- -कम् अप ९, १, ५; -कानि अप ६७, ५, १. मौक्तिक-लाङ्गूल-सूषित- -तम् विध ८७, १.
 मुक्ता-मणि-सुवर्ण- -गेन अप १, ४३, ३.
 मुक्तामणिसुवाशुङ्ग- -ज्ञा: अप ६८, १, ३१.
 मुक्ता-लाङ्गूल (ल >)ला^१- -लाम् विध ९२, ८.
 मुक्ता-स्फटिक-रजत-वैडूर्या (र्थ-अ) -ञ्जन-भ्रमर-सर्प-संनिकाश- -शेषु अप ६५, १, ५.
मुक्ति-, मुक्त्वा √मुच् द्र.
मुक्षति अप ४८, २८^१.
मुक्षीयमाण- √मुच् द्र.
मुक्षीजा^१- -तजा, -जा या ५, १९^१.
मुक्तु- पाउभो २, १, १०८.
मुख^१- पाउ ५, २०; पाग २, ४, ३१; ४, ३, ५४; ५, २, २४; ३, १०३;

-खम् आश्रौ १, ३, २८४^x; शांश्रौ; पा ६, २, १६७;
 -खयो: वौश्रौ १५, २: २१;
 वाधूश्रौ ३, ७०: ४; -खस्य शांश्रौ १, १२, ५^१; आपश्रौ; -खा अप ४६, ३, ४^१; -खात् काश्रौ १९, ४, १४; आपश्रौ १७, १९, १०; वौश्रौ १०, ५७: २२; ११, ७: ११; माश्रौ ५, २, ११, २४; ६, २, ५, ३१; वैश्रौ १९, ६: १२५; हिश्रौ १२, ६, १३; कप्र १, ९, १५; वैध ३, ११, ३; वृदे ६, १०२; या ७, १२^१; -खानि काश्रौ १०, ८, ९; आपश्रौ; -खाय आपश्रौ ६, २८, ११; वैश्रौ २, ११: ९^१; -खे आश्रौ ३, ११, ३; काश्रौ; वाध ३, ४१^१; -खेन आश्रौ १, १३, १^१; आपश्रौ; या ७, ३^१; -खेषु आपश्रौ १२, १२, ११^१; कप्र ३, २, ५.
 मुख-कमल-, मुख-चन्द्र- पाग २, १, ५६^e.
 मुख-जाह- पा ५, २, २४.
 मुख-तस(ः) शांश्रौ १६, १, १२; आपश्रौ.
 मुखतीय- पागवा ४, २, १३८; पावा ४, ३, ६०.
 मुख-दध्न- -धम् वाधूश्रौ ३, ७६; ५; -ध्ने वौश्रौ ९, १३: १६; १०, ४८: ३; १९, ४: २६; वैश्रौ १९, ६: ३६; ४५.
 मुख-देश- -शम् आपश्रौ २४, १४, १३.
 मुख-दोष- -षान् माशि २, १३.

मुख-नासि(का >)क- -कम् शौच १, २७; -कं अप ४७, १, १२.
मुख-नासिका^१- > मुखनासिका-करण^m- -ण: गुप्ता १, ७५.
 मुखनासिका-वचन- -न: पा १, १, ८.
 मुखनासिक्य- -क्या: तैत्रा २, ५०.
मुख-नासिका- -काम्याम् ऋषा १३, २०.
 मुख-नासिका(का-अ)क्षि-श्रोत्र- -त्रम् या १४, ६.
 मुख-पद्म- पाग २, १, ५६.
 मुख-पुच्छ-पाद-शुङ्ग-शुक्लⁿ- -कल्म विध ८६, ७.
 मुख-पुण्डरीक- पाग २, १, ५६^e.
 मुख-बाहू(हु-ऊ)रु-पाद- -देषु वैध १, १, २.
 मुख-मात्र- -त्रे काश्रौ ४, १४, १२; १८, १, ४.
 मुखमात्री- -त्रीम् काश्रौ १६, ८, २३.
 मुख-र- पावा ५, २, १०७.
 मुख-वत् वैश्रौ ११, ७: १३.
 मुख-व(त् >)ती- -त्य: हिश्रौ १, ४, ३२.
 मुख-वर्ण-विनाश- -शो विध ८, १८.
 मुख-वल्मीक^१- -क: काध २७८: ९.
 मुख-वात- -तेन वौष्ट ४, २, ६; हिष्ट १, १६, ४.
 मुख-वाद- -द: आपश्रौ १६, २१, १०; वैश्रौ १८, १६: ४३; हिश्रौ

a) =किरीट-। b) <√मुच्। c) =दर्पण-। d) पृ ८८४ n द्र.। e) तु. पागम.। f) =कुहमल-। g) बस.। h) स्त्रार्थे ठक् प्र.। i) धा. सादरे वृत्तिः। j) वैप १ द्र.। k) मूखे इति पाठः! यति. शोषः (तु. कश्चन मूको., सप्र. मनुः [५, १४०])। l) मलो. कप.। m) =अनुनासिक-। n) द्रस.>सस.। o) उपमार्थे बस. इति?।

११,७,१०; बौधु ६: २०.
 मुख-वाद्य^१- -द्यम् अप ३६, २५,
 २.
 मुख-वास^२- -सम् वैट्ट ४, ४: १८;
 १२: १०; ५, १३: १८.
 मुखवास-दान- -नम् वैट्ट २,
 १६: १०.
 मुखवासा(स-आ)दि-दक्षिणा^३-
 -गाम् वैट्ट ५, १५: १४.
 मुख-विकृति- -ति: अप ४७, २, ७.
 मुख-विगन्ध^४- -न्ध: शंघ ३७७:
 १६.
 मुख-विमार्जन- -नम् शांश्रौ ४,
 २१, २१; ८, ९, ८.
 मुख-विस्तीर्ण- -र्ण: अप २३, १, ४.
 मुख-शब्द- -ब्दम् शंघ ९५; आपघ
 २, १९, ६; हिघ २, १३, ७८;
 -न्देन शंघ २२६.
 मुख-षड्-गण्ड^५- -ण्ड: काघ
 २७८: ९.
 मुख-संमित, ता- -तम् काश्रौ ७,
 ४, १; वैश्रौ ६, १२: ५; १२,
 ९: १; -ताम् शांश्रौ १, १०,
 ७; बौश्रौ ३, २८: २५; वैताश्रौ
 ७, ८; अप ४५, १, १६.
 *मुख-स्वर-> श्रो(र-उ)पचार-
 -रा: पावा १, १, ४१.
 मुख-हृदय- -ये आश्रौ ५, ६, २६.
 मुखा(ख-आ)दान^६- -ना: हिघ
 १, ६, ३४^१.
 मुखा(ख-आ)दि- -दीनि कौस् ४४,
 १८.
 मुखा(ख-अ)न्त- -न्तात् गौपि १, २,
 ३३.

मुखेना(न-आ)दायिन्^७- -यिन: बौध
 ३, ३, ९; १२.
 ?मुखोच्चक: भाशि ६१.
 मुखो(ख-उ)पस्पर्शन- -नम् काश्रौ
 ६, ९, ११.
 मुख्य, ख्या^८- पा ४, ३, ५४; ५, ३,
 १०३; पाग ६, २, १३१; -ख्य:
 शांश्रौ १३, १४, ४××; आपश्रौ;
 -ख्यम् आश्रौ ३, १३, १८;
 आपश्रौ; -ख्यम्-ख्यम् आपश्रौ
 १४, ३, ११; बौश्रौ; -ख्यया
 बुदे ३, ३७; -ख्यस्य आपश्रौ
 १६, २७, १९; बौश्रौ; मीस् ११,
 ३, ३५^१; -ख्या आश्रित ३, ६,
 ३: १३; बौपि १, ११: १०;
 ऋप्रा ६, ३३; -ख्या: आपश्रौ
 १४, ४, १३; बौश्रौ; -ख्यात्
 बौश्रौ ९, ४: ८; २०, ८: ११;
 मीस् ३, ४, ४७; -ख्यात्-ख्यात्
 भाश्रौ ८, १८, ४; -ख्यान्
 आश्रौ ५, ६, १७; माश्रौ;
 -ख्यानाम् आश्रौ ४, १, १७;
 बौश्रौ २३, १३: २४; भाश्रौ
 ७, १९, १; मीस् ११, २, १;
 -ख्याम् बौश्रौ १०, ६: ३××
 वैश्रौ; -ख्याया: बौश्रौ १०, ७:
 ९; वैश्रौ १८, २: ३; -ख्यायाम्
 वैश्रौ १८, १८: ११; -ख्ये
 आपश्रौ १२, २८, १६××;
 काठश्रौ; ऋप्रा १४, २२; -ख्येन
 बौश्रौ २१, २०: २७; २२:
 १०; अश्र; -ख्येभ्य: आश्रौ ९,
 ४, ३^१; -ख्येषु: माश्रौ १, ६,
 ४, ८; -ख्यौ ऋप्रा २, ४, १०.

मुख्य-काल^९-त्व- -त्वम् मीस्
 ४, ३, ३८; -त्वात् मीस् ५, १,
 २३; ११, ३, १.
 मुख्य-क्रम- -मेग मीस् ५, १,
 १४.
 मुख्य-चमस- -सात् आश्रौ ५,
 ६, २०.
 मुख्य-तन्त्र- -न्त्रेण मीस् १२,
 १, ३.
 मुख्य-तम, मा- -मा हिपि १४:
 ४; -मौ वुदे २, ८.
 मुख्य-त्व- -त्वम् हिश्रौ ३, ८,
 ३२; -त्वात् हिश्रौ ३, ८, ३३;
 मीस् ४, १, ३९; १२, ३, १४.
 मुख्य-देवता(ता-अ)नभी-
 ज्य^{१०}-त्व- -त्वात् मीस् १०,
 ७, ४६.
 मुख्य-नामन्- -म या २, २२.
 मुख्य-प्रथम^{११}- -मान् माश्रौ ५,
 २, १२, २२; २६.
 मुख्य-प्रवाद^{१२}- -द: हिश्रौ २२,
 ३, २५^१.
 मुख्य-भेद- -दे मीस् ७, १, १.
 मुख्य-लक्षण- -णम् मीस् ४,
 ४, ३४.
 मुख्य-विप्रतिषेध- -वात् मीस्
 ३, ६, ८^{१३}.
 मुख्य-शब्द-संस्तव- -वात्
 मीस् ४, १, २४.
 मुख्य-स्थान- -ने हिश्रौ ११,
 ७, ६१.
 मुख्या(ख्य-अ)धिगम- -मे
 मीस् ६, ३, ३६.
 मुख्या(ख्य-अ)नन्तर्य- -र्यम्

a) षत्. । b) सुगन्धि-द्रव्य- । उप. <√वस् [गन्धे] । c) उप. = २दक्षिणा- । d) बस. ।
 e) बस. > कस. । f) = वानप्रस्थ-विशेष- । g) विष., नाप. । h) मुख्यधा^{१०} इति जीसं. प्रष्ट. ।
 i) तु. आन. । म^{११} इति BI. ? । j) कस. > बस. । k) = ग्रामणी- । बस. । l) सप्र. आपश्रौ १९, २०, ७
 अश्रयवादी इति पाभे. । m) मुखप्र^{१२} इति जीसं. ।

मीस् ५, २, १८; -यात् मीस्
१२, २, २७.
मुख्या (ख्य-अ)र्थ- र्थः मीस्
३, ८, ३५.
मुख्या (ख्य-अ) वदान-परिमाण-
-गात् मीस् १०, २, ६.
मुख्या (ख्य-आ)सन- न्नेभ्यः
काश्रौ २४, ४, ४७.

मुग्ध- √मुह् द्र.

√मुड्स्^१ पाधा. भ्वा. पर. गतौ.

√मुच,ञ्च् (बधा.)^० पाधा. तुदा. उभ.

मोक्षणे; चुरा. उभ. प्रमोचन-
मोदनयोः, ङमोग्धि^० आमिष्ट
२, ४, ४ : १६; बौध ३, ७, ११.
ङमुमुग्धि आपश्रौ ६, २२, १;
अप २ : ५८; या ४, ३; ङमुमु-
क्त^० अत्र ५, ६; अप ३ : ९;
अमुमुक्तम् ऋप्रा २, ४०^१.
मुच्यन्ति अप ७०^३, ११, २७.
मुञ्चति भाश्रौ १०, २०, १५;
वाश्रौ ३, १, १, ३३; कौस् ३२,
१५; अप १, ५०, ७; ४८,
३६^१; मुञ्चन्ति अप ७०^३,
७, ३; ७०^३, ११, १३; मुञ्चथः
अप्राय ६, ९^१; ङमुञ्चामि शाश्रौ
१६, १३, ४; काश्रौ; ङमुञ्चतु
आश्रौ ३, ६, २४; १३, १५; काश्रौ;
आपमं १, ४, ७^१; ङमुञ्चताम्
आपश्रौ ३, १२, १; बौश्रौ २७,
६ : १२; वैश्रौ २०, ३० : ९;
ङमुञ्चन्तु काश्रौ २५, १, ११;
आपश्रौ; मुञ्चस्व या १४, ३२;
ङमुञ्च आश्रौ ३, ६, २४^३; शाश्रौ;

बौश्रौ ३, ४ : ८^६; ९^६; २४, ३० :
१०^६; १२^६; भाश्रौ ६, ७, ६^६;
वाश्रौ १, ५, २, ४^६; हिश्रौ
३, ७, ५^६; ६^६; अप्राय १, २^६;
मुञ्चऽमुञ्च अप २०, ७, ८;
ङमुञ्चतम् बौश्रौ १३, ३४ : ५;
६; अमुञ्चताम् हिश्रौ २४, ३, ६;
ङमुञ्चन् आपमं २, १२, १०^६;
आमिष्ट; ङमुञ्चतम् आपश्रौ
१५, ८, १२; बौश्रौ; ङमुञ्चत
>ता आपश्रौ ६, २२, १; तैप्रा
३, १२; मुञ्चेत् शंघ २२६.
मुमुचे शाश्रौ १६, ११, २; मुमोच
वृदे ६, १५; मुमुचुः वृदे ६, ८९;
मुमुचिम वैताश्रौ १०, १७^१;
ङमुक्षीय आपश्रौ ८, १८, ३;
बौश्रौ; या १४, ३२^०; ङमौक्
बौश्रौ १, ११ : ११; १६ : २१;
भाश्रौ २, १, ९; ङमुमुक्तम्^१
आपश्रौ १२, २५, ६; हिश्रौ २२,
५, १७.
मुच्यते वाश्रौ ३, ४, ५, १९;
कौष्ट ४, १, ४; ९; आमिष्ट; या
५, १९^१; मुच्यन्ते बौध १, १०,
३०; ४, २, ६; मुच्यस्व सु ११,
६; मुच्येत सु ३१, ६; अप ३५,
२, ७; ५४, २, ६; शंघ ३७०;
बौध २, १, १६; मुच्येय बौश्रौ
२७, १४ : १६^१.
अमोचि आपमं २, १२, ९^१;
मोचि वाश्रौ १, ६, ५, १०^१.
अमुक्याः अत्र २, १०^१.
मुमुक्षते आश्रौ ४, ११, ६.

मुक्त,का- -क्तः सु २९, १^३; ४^२.
कौष्ट; -क्तम् शाश्रौ १, १५, १०;
माष्ट; -क्तयोः अप ५३, ६, ५;
विध ६८, २; -क्ता सु २९, १;
४; -क्ताः माशि ४, ८; दंवि १,
३.
मुक्त-केश^६- -शाः वाध २, २१.
मुक्त-ग्रन्थि^६- -न्धीन् वैश्रौ ५,
५ : ३.
मुक्त-बन्ध,न्धा^६- -न्धाः वैष्ट १,
१० : २; -न्धे वैष्ट ५, १ : २१
मुक्त-योनिदोष^६- -घाः वैष्ट ५,
१३ : ३.
मुक्त-शि(खा)>ख^६- -खः वैष्ट
५, ५ : २०; गौपि १, २, २; शंघ
२५; बौध १, ५, १५; -खाः वैष्ट
५, ६ : ९; गौध २०, ५.
मुक्त-संशय^६- -यम् पावा १, २,
६४; -ये पावा ३, २, १२३;
-येन पावा ३, १, २६; ४, ३, ३९.
मुक्ति- -क्तिः माष्ट १, १३, १५^१;
अप २३, १४, ४; वैध १, ११,
१२; १३; -क्तिम् वैध १, ११,
१३.
मुक्ति-द- -दम् अप २३, १४,
५.
मुक्ति-सिद्धय(द्धि-अ)र्थ- -र्थम्
अप २६, ३, ४.
मुक्त्वा पाठ ३, ७, ३^१; वैष्ट.
मुक्षा^१->√मुक्षीय^१>मुक्षी-
यमाण- -णः माष्ट १, १३, १५.
मुचिर- पाठ १, ५१.
मुच्य बौध २, ९, ४.

a) √थक्स् इति [पक्षे] BPG. । b) पा ७, १, ५९; ४, ५७ परामृष्टः द्र. । c) हेः पित्वाद्
गुणः (पा ३, ४, ८८) । d) पामि. वैप १, २१९१ । द्र. । e) घा. शुद्धौ अपि वृत्तिः । f) पामि. वैप २, ३ खं.
मुञ्चतु मंत्रा १, १, १० टि. द्र. । g) पामि. पृ १५५९ k द्र. । h) पामि. वैप १, २५०५ e द्र. । i) सपा.
तै २, ३, १३, १ मुञ्चतम् इति पामि. । j) सपा. शौ २, १०, ६ अमुक्याः इति पामि. । k) वस. । l) भाप. ।
m) क्यजन्तः नाधा. ।

†मुच्यमा(न>)ना- नाम् आग्रिण
३, २, ६: ५; भागृ २, १७: ६.

मुञ्चत्-ञ्चन्तम् शंघ २५४.

मुमुक्षु- क्षुणा विध ९६, ९८; -चो:
वैश्रौ २, ९: १.

मुमुचान^a- पाउ २, ९३; -तैः
आग्रश्रौ १९, १०, ५; हिश्रौ २३,
१, ५५; बौध ४, ४, ४.

मोक्तव्य- व्याः अप १९२, ५, ६.

मोक्ष^b- पाउभो २, ३, १६८; -क्षः
सु १०, ३; अप ३५, १, १४; वाध
१०, २०; आपध १, २५, ४;
हिध १, ७, १; पाशि २५; -क्षम्
वैध १, ७, ८; ९, २; ३; याशि २,
३४; ३५.

मौक्ष^b-क्षम् निसू ६, ८:

१८; ९, ४: ३१; -क्षस्य द्राश्रौ
९, ३, ३; लाश्रौ ३, ६, २२.

मौक्ष-सोम-सामन्-

-मनी द्राश्रौ ९, ३, ४; लाश्रौ ३,
६, २२.

मोक्ष-कर-रम् अप ३१, १०, २.

मोक्ष-काङ्क्षन्-ङ्क्षणा वैध
१, ११, १३.

मोक्ष-काल-ले अप ४०, ५, ५.

मोक्ष-विद्^c-वित् वाध १०,
२३; -तैः विदः आग्रिण ३, ४, ४:

११; वौपि ३, ४, १४; १५.

मोक्ष-संसार-मोचन^d- नम्
वाध २९, २०.

मोक्षा(क्ष-अर्थे)->०थिन्^e-

-थिनः वैध १, ९, १.

मोक्षण-गम् अप ४०, ५, ५; -जे

अप ६५, २, ६.

मोक्षयिष्यत्-व्यन् गौध ९, ७१.

मोक्षित-तः अप ४१, ४, ४.

मोचन-नात् या ५, १९; ६, १; ३.

मोचयितुम् सु १०, २.

मोचयित्वा वैधृ २, १३: ४; शंघ ३७९.

मोच्य-च्यः गौध १२, १.

मुचिर-√मुच् द्र.

मुचुर्कर्ण->मौचुर्कर्णिक-पा.) पाग
४, २, ८०.

मुचुकुन्द्-पाउभो २, २, १६९.

मुच्य √मुच् द्र.

√मुञ्ज,ञ्ज पाधा.भ्वा.पर.शब्दे.

√मुञ्च् √मुच् द्र.

√मुञ्च् पाधा.भ्वा.आत्म.कत्कने
कथने च.

१मुञ्ज^a-ञ्जः या ९, १६; -जान्

आपश्रौ १५, ४, २; १६, ९, ६;

भाश्रौ ११, ३, १६; माश्रौ ६, १,

३, २३; हिश्रौ ११, ३, ६; कौसू

३३, १; -ञ्जानाम् शाश्रौ १७, ४,

५; -ञ्जैः माश्रौ २, १, ४, २४.

मौञ्ज^a-ञ्जः माश्रौ ४, २, २;

-जम् काश्रौ १७, २, ८; २६,

२, ७; बौश्रौ ९, ५: ८^१; १५:

७; १०, १२: ७; माश्रौ; हिपि

१५: ६, -ज्जाः काश्रौ १३,

२, २६; -ज्जान् आपश्रौ २१,

१७, ९; -ज्जानि आपश्रौ १५,

५, १७; भाश्रौ ११, ५, २२;

वैश्रौ; -ञ्जे आपश्रौ १५, ५, २०;

१६, १०, ८; भाश्रौ; -ञ्जेन

आपश्रौ २, ५, ४; १६, ३, ७;

बौश्रौ; -ञ्जैः कौसू ३२, ३;
४६, २६; -ञ्जौ भाश्रौ ११, ५,
२१; वाधूश्रौ ३, १००: ४.

मौञ्जी-ञ्जी आपश्रौ

१०, ९, १३; २०, २, ७; वाधूश्रौ;

-ञ्जीभिः शाश्रौ १७, २, ९;

आपश्रौ; वाश्रौ ३, २, ५, २५ १६;

-ञ्जीभ्याम् बौश्रौ १५, ६:

६; -ञ्जीम् बौश्रौ १५, २: ३;

भाश्रौ; -ञ्ज्यः द्राश्रौ ११, १,

२; लाश्रौ ४, १, २, विध २७,

१८; -ञ्ज्या आपश्रौ २१, १७,

१३; भाश्रौ १०, ९, १०; वैश्रौ

१२, ९: ४; भागृ १, ६: ६;

हिपि १३: ९; -ञ्ज्याम् वाधूश्रौ

३, ६९: ३५; -ञ्ज्यौ शाश्रौ

१७, २, १; बौश्रौ १०, १: २.

मौञ्जी-ज्यामौर्वी-

सौत्री^b-ज्यः गौध १, १७.

मौञ्जि L,ञ्जी^c-

बन्धन^d-नम् विध २८, ३७;

-नात् वाध २, ६; बौध १, २, ७;

विध २८, ४०; -ने वाध २, ३.

मौञ्जी-मेखला-

-लाम् आग्रिण १, १, १: १६.

मौञ्ज-परिहि(त>)ता-

-ताः कौसू २१, १४.

मौञ्ज-प्ररन^e-इनेन कौसू

२६, २.

मौञ्ज-विचय(न>)नी^f-

-नी भाश्रौ १०, २०, ८^m.

मौञ्ज-विचा(न>)ना^g-ना

आपश्रौ १०, २९, ७^m; १६, १०,

a) वैप १ द्र. b) =साम-विशेष- c) उप. <√विद् L ज्ञाने J। d) तुस.>उस. उप.

कर्त्तरि कृत्। e) =संन्यासि-विशेष- f) विप. (२वेद-तन्तु-प्रमु.)। वैप १ द्र.। g) णञ्ज इति पाठः? यनि.

शोधः। h) द्रस. सौत्री- =शणतान्तवी-(तु. मनुः [२, ४२])। i) विध २८, ४० पाठः। j) षस. पूष. वा ह्रस्वः

(पा ६, ३, ६३)। k) कस. उप. =उष्णीष- वा इश्व- वा। l) उस. उप. <वि√वे। m) पररपरं

पाप्मे.। n) वस.।

१६; १९, १, १०; वैश्रौ १२, २१ :
२१; हिश्रौ ७, ३, २२; ११, ३,
३८; २२, १, ४८; -नाम् आपश्रौ
२१, १७, १२; द्राश्रौ १, ४, १;
लाश्रौ ३, १२, १.

मौञ्ज-वेद^० -दम् भाश्रौ
११, १५, ३; २४.

मौञ्ज-शिक्य, क्या- -क्यम्
वाश्रौ २, १, ३, ५; -क्या वाश्रौ
२, १, ३, ४.

मौञ्जिन्- -ञ्जी शंघ ३९०.

मुञ्ज-कल्क-हलि- -लिषु पा ३, १,
११७.

मुञ्ज-काश-ताम्बली^० -ल्यः गोगृ
२, १०, ९.

मुञ्ज-कुलाय^० -यम् बौश्रौ २, ६ :
२६; १२ : ५×५; वैश्रौ; -येन
आपश्रौ १६, ९, ४; हिश्रौ ११,
३, ३.

मुञ्जकुलाय-प्रभृति- -तिना
बौश्रौ २९, ६ : १०; -तीनि
वैश्रौ २१, १७ : ६.

मुञ्जकुलाय-स्थिति- -तिम्
जैश्रौका १८.

मुञ्जकुलाया(य-ञ्ज)वस्ती(र्ण^०)
र्णा- -र्णाम् काश्रौ १६, ४, ३१.

मुञ्ज-केश- -फि ७२.

मुञ्ज-ज्या-बल्बज-म(य^०)यी-
-य्यः विध २७, १८^०.

मौञ्ज-नेजन^० -नम् क्रपा ८, ३२.

मुञ्ज-प्रलव^० -वाः वाधूश्रौ ३,
१०० : ४; वैश्रौ १३, ७ : २१;

-वान् आपश्रौ १५, ५, २०; ७,
३१; काश्रौ; हिश्रौ २७, २, ६१^०;

-वैः बौश्रौ ९, १४ : १७; १६ : ३.

मुञ्ज-बल्बज- -जैः आपध १, २१,
१; हिध १, ६, ३०.

मुञ्ज-म(य^०)यी- -यी काश्रु ७,
१४.

मुञ्ज-मि(श्र^०)श्रा- -श्राम् जैगृ
१, १२ : ४९.

मुञ्ज-मेखला- -लाम् गोगृ २, १०,
३३; द्रागृ २, ४, २०.

मुञ्ज-योक्त्र- -क्त्रेण काश्रौ २,
७, १; १६, ३, ५.

मुञ्ज-रज्जु- -ज्जवः काश्रौ १६,
५, २.

मुञ्ज-वर्^० -वान् या ९, ८.

मुञ्ज-वेद- -दम् काश्रौ २६, २,
१९; -देन काश्रौ २६, ५, १५.

मुञ्ज-शिरस्^० -रः कौसू २५, ६.

मुञ्जा(ज-ञ्ज)भाव- -वे द्राश्रौ १०,
४, ३; लाश्रौ ३, १२, ३; पागृ २,
५, २४;

मुञ्जा(ज-ओ)वलोप^० -वान् माश्रौ
१, ५, ३, १.

२मुञ्ज^० - पाग ४, १, ९९.

मौञ्जायन- पा ४, १, ९९;
पाग ४, १, ७३; ५, ३, ११६^१;

-नाः बौश्रौप्र ४३ : ३.

मौञ्जायनी- पा ४, १,
७३.

मौञ्जायनीय- पा ५, ३,
११६.

मुञ्जक^० -> मौञ्जकि- -क्यः बौश्रौप्र
४९ : ३.

√मुद् पाधा. भ्वा. पर. प्रमर्दने^०; तुदा.
पर. आच्यमर्दनयोः; चुरा. पर.
संचूर्णने.

√मुद् पाधा. भ्वा. पर. मर्दने; तुदा
पर. उत्सर्गे^०.

मौमुडिज्ञाना अप ४८, ११६.

√मुण् पाधा. तुदा. पर. प्रतिज्ञाने.

√मुण्ट पाधा. भ्वा. आत्म. पालने.

√मुण्ड पाधा. भ्वा. आत्म. मार्जने
मुण्डने^० च, पर. खण्डने प्रमर्दने^०
च > मुण्ड, ण्डा^० - पाग २,

१, ५९; ४, ३१; -ण्डः कागृ
१, २४; मागृ; -ण्डाः कागृ

४०, ४; कागृउ ४४ : २०;
-ण्डान् मागृ २, १४, ८; -ण्डाम्

आपगृ ३, १२; -ण्डेन विध २८,
४१.

मौण्डय- -ण्डयम् वैगृ २, ५.
८; वैध २, १, २.

मुण्ड-जटिल-शिखाजट- -याः
गौध १, २९.

मुण्ड-तारा^० -नाः अप५२, ५, १.

मुण्ड-संभावित^० - पा २, १, ५९.

√मुण्डि पा ३, १, २१.

मुण्डिन्- -ण्डि अप ४०, २, ९.

मुण्डित- -तः वैध २, ६, २.

मुण्डिम^० - भः शुअ ३, ४७.

√मुद्^० पाधा. भ्वा. आत्म. हर्षे; चुरा.
उभ. संसर्गे, मोदते बौध २, ९,
५; ४, ८, १२; मोदन्ते अप ६२,

a) मो^० इति पाठः? यनि. शोधः । b) उप. = २वेद- । c) ताम्बली- (।= शणतान्तवी-। < तम्बल-) ।

वास्नी- (< वास्न-) इति संस्कृतैः टि. पाप्मे । d) मलो. कस. (तु. वैप २, ३खं; वैतु. बौश्रौ. सूची बस. इति ?) ।

e) मयः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. जीसं.) । f) वैप १६. । g) उप. = खण्ड- । h) प्रलवान्

इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र. आपश्रौ १५, ५, २०) । i) = पर्वत-विशेष- । j) पुङ्गाधार-काष्ठ- । k) व्यप. ।

व्यु. ? । l) = आयुषजीविसंघविशेष- । m) तु. BPG. । n) विप. (मुण्डित-विरस-), नाप. (शिरस-)

o) मेलो. कस. । p) तु. पागम. । q) या ९, ५; ११, ७ परामृष्टः द. ।

४, ४; †मोदाम आपमं २, ५, १६; आमिगृ १, १, ४ : १२; भाग्य; मोदेत आ ४, २, १२; आपघ १, २२, ८; हिघ १, ६, ८.
 मुद्- पात्रा ३, ३, १०८^६; मुदः अप ६२, ४, ४; शंघ ११६ : १६^{१०};
 मुदा वागृ १५, २४; वृदे ५, ५३.
 मुदं-गिल- -लः या ९, २४.
 सु(द >)दा^० - †दाः^० आमिगृ १, ५, २ : ४७; वैगृ १, १८ : ७.
 सुदित- -तः अप ६८, ४, २; -ताः अप ५२, १६, ७; ७१, १९, ९.
 †मोद^० - †दः आमिगृ १, ५, १ : ९; -दाः सु २५, ५; -दाघ आपश्रौ १९, ७, ४; वाश्रौ २, २, ७, ६७; हिश्रौ २३, १, २६.
 मोद इव^० आपश्रौ १२, २७, १२^२; १४^३; १७; १३, १३, ९; १०; १४, ३, ४; बौश्रौ; मोद इवम् आपश्रौ १२, २७, १५^२; मोद इवोम् आपश्रौ १२, २७, १५; वैश्रौ १५, ३६ : २; मोदा मोद इव आश्रौ १३, १३, ८-१०××;
 बौश्रौ; मोदा मोद इवोम् वैश्रौ १५, ३५ : १५; मोदामोदैव माश्रौ २, ५, १, ४७; मोदामोदैवो शाश्रौ १२, ११, १०; मोदामोदैवोम् आश्रौ ५, २०, ६; मोदैव आश्रौ ५, ९, ४; ५××; शाश्रौ; मोदैवमदे आश्रौ ६, ३, १४; शाश्रौ; मोदैवोम् आश्रौ ८, ३, ११××; मोदैवोश्म आश्रौ ७, ११, १५××; माश्रौ.
 मोदक- पाग २, ४, ३१; -कान्

अ ६, १, ७; -कानि शंघ २२६.
 मोदति-> †ति-कर्मन्- -र्मणः या ९, ५.
 †मोदन-> †न-जिह्व^१- -ह्वम् या ६, २३.
 †मोदमान, ना- -नः^१ काश्रौ २५, ५, २८; आपश्रौ^१ ६, २७, ३××; वैश्रौ १८, १४ : १३^१; हिश्रौ^१ ६, ७, ८; ११, ६, १४; आगृ; कौगृ ३, ४, ५^१; शागृ ३, ७, २^१; भागृ १, २७ : ३^१; हिगृ १, २९, १^१;
 -ना सु ३, ५; कागृ २७, ३^१;
 -नाः †कौसू ४०, १३; ७०, १;
 -नाय या ११, ९.
 मोदमानी^१ - -नीम् कौगृ १, १४, ११; शागृ १, २२, १६.
 मोदि(त >)ता- -ताः अप ६२, ४, ४.
 मुदिर- पाउ १, ५१.
 मुदेर- पाउभो २, ३, ६१.
 मुद्^०- पाउ १, १२८; पाग ४, ३, १३६;
 -द्वाः कप्र ३, ७, १३; -द्वाः विघ ८०, १.
 †मौद्- पा ४, ३, १३६; ४, २५.
 मुद्-गिल- -लः या ९, २४.
 मुद्-पायस-मिश्रधान्य-मोदक- -कानि अप २०, ३, ४.
 मुद्गन्वत्- -वान् या ९, २४.
 मुद्गा(द्-अ)घ- -घम् आमिगृ २, ५, ६ : ८.
 मुद्गा(द्-अ)दन- -नम् कौगृ १, १४, ३; शागृ १, २२, ५.
 मुद्गर^१- पाउभो २, ३, ३६^१; -रः काशु ७, ८; -रम् काशु ७, ११.

मुद्गल^०- पाउभो २, ३, ९९; पाग ४, १, १०५; २, १११; -लः ऋअ २, १०, १०२; वृदे; या ९, २३^१; २४^१; -लम् अप्रा ३, ४, १^१; -लस्य चाअ ४२ : ४; -लाः^१ बौश्रौप्र २५ : १; ३; ३० : १; ३; -लानाम^१ आश्रौ १२, १२, १; आपश्रौ २४, ८, ७; वैघ ४, ३, ९.
 मुद्गलानी- पावा ४, १, ४९.
 मौद्गल्य- पा ४, १, १०५; पाग ४, २, ८०; -ल्य आश्रौ १२, १२, १^२; आपश्रौ २४, ८, ७; ८; बौश्रौप्र २५ : ३; वैघ ४, ३, ९; -ल्यः बौश्रौ १६, १४ : १६××; बौघ; या ११, ६; -ल्यस्य बौश्रौ २०, १३ : २०; २३, १९ : ३१.
 मौद्गल- पा ४, २, १११.
 मौद्गलीय- पा ४, २, ८०.
 मुद्गलन्वत् आपश्रौ २४, ८, ७; ८; बौश्रौप्र २५ : ४; वैघ ४, ३, ९.
 मुद्गा- पाउ २, १३; पाग ५, २, ३६; ४, ३^१.
 मु(द्वा < द्वा)क > द्विका- पा ५, ४, ३.
 मुदित- पा ५, २, ३६.
 मुद्या^१ पाग १, १, ३७; ४, ५७; वृदे ७, ४३.
 मुनि^०- पाउ ४, १२३; पाग ४, १, ४५; ११२; २, ८०^१; ५, ३, १००^०; ३, १०८; ६, २, ८५; ३, ११९; -नयः सु १, ३; १३, ४; अप; -निः वैगृ २, १ : १७; वाघ; -निभिः अप २३, ७, ५; ५१,

a) तु. पागम. । b) परस्परं पाभे. । c) वैप १ द्र. । d) भवे कर्तारि च कृत् । e) वैप १, २५०६ f द्र. (वैतु. सा L एत्रा ३, १२] आमोद इति) । f) बस. । g) पाभे. पृ १६०८ f द्र. । h) पाभे. वैप १, २५०६ j द्र. । i) = गाथा-विशेष. । महाकाली- इति भाष्यम् ? । j) नाप. । k) < √मुद् & l) बहु. = < मौद्गल्य- । m) अर्थ. । n) अर्थः ? । मुनिस्थल- टि. द्र. । o) पाका. मुनि- इति ? ।

१, २; शंघ; -निम्ब्यः वैगृ २,
१२ : १०; -निम्ब वृदे ७, ४७;
-नीनाम् वीगृ ३, ५, १११;
-०ने अय ७०, १, २; -नेः वौश्रौ
१८, १२ : १६; भागृ.
मुनी- पा ४, १, ४५.
मौन- -नम् अय ४२, २, ७;
शंघ; -नात् वाध २२, ५; विध
५५, १७; -ने बौध २, १०, ५७.
मौन-व्रत- -तेन वैगृ २, ८ :
४; ६.
मौनव्रतिन्- -ती बौध ४,
७, ६.
मौनिन्- -निनः वैध १, ८,
११; -नी आग्नि २, ४, ५ :
२१; जैगृ २, ८ : ११; वैध २,
१२, ६.
२मौन^b- पा ४, १, ११२; -नः
बौश्रौ ६ : १.
मौनिक- पा ४, २, ८०; ५, ३,
१०८.
मुनि-काण्ड^c- -गडे भाशि ८११.
मुनि-चित्, च^d]- (> मौनचिति
[, त्ति]- पा.) पाग ४, २, ८०.
मुनि-प(द् >)दी- पाग ५, ४, १३९.
मुनि-मुख्य- -ख्यैः बौध १, ४, १६.
मुनि-वसु-पिशाच- -चाः कप्र ३, ६,
९.
मुनि-व्रत^e- -तः कागृ ४, १४.
मुनि-श- पा ५, २, १००.
मुनि-सत्तम- -मः वृदे ८, १८.
मुनि-सत्रे(त्र-इ)ष्टि- -ष्टया शाश्रौ
१४, ६, ६.

मुनि-स्थ, स्थ^f]- (> मौनस्थ
[, स्थू] लिक्- पा.) पाग ४, २,
८०^g.
म(नि >)नी-व(त् >)ती- पा ६,
३, ११९.
मुन्य(नि-अ)न्न- -न्नानाम् विध ५१,
७७.
मुन्य(नि-अ)यन- -नम् शाश्रौ ३,
११, १०; वौश्रौ १६, ३ : १.
मुमुक्षु-, मुमुक्षान- √मुच् द.
मुमुषेत्-, मुमुषे- √मुच् द.
√मुर् पाधा. तुदा. पर. संवेष्टने.
मोर- पाग ३, १, १३४.
मुर्^b- (> मौर्य- पा.) पाग ४, १,
१५१.
मुरज- पाउमो २, २, ११.
मुरल- पाउमो २, ३, १९; पा, पाग ४,
१, १७३^h.
√मुर्ल √मूर्ल द.
मुर्मुर्- पाउमो २, ३, ५२.
√मुर्व पाधा. भ्वा. पर. बन्धने.
√मुल्ⁱ पाधा. चुरा. पर. रोहणे.
रिमुल्^b- (> ल-वत्, लिन्- पा.)
पाग ५, २, १३६.
२मुल- १मूल- टि. द.
मुराल¹- पाउवृ १, १०६.
√मुष् (बधा.)^k पाधा. भ्वा.¹,
क्रया. पर. स्तेये; दिवा. पर.
खरडने, मोषथ > था या ६,
४१; ऋप्रा ७, ३३.
मुष्णात्ति बौश्रौ २५, १० : १४.
मुष्यते द्राश्रौ ३, ४, २१; आपध
२, २६, ८; हिघ २, ५, २०३.

मुमुषाण- पाउना २, ८९.
मुषि- > मुषी-वत्- -वान् निघ
३, २४¹.
मुषि(त >)वा- -ताम् कागृ १, १८;
मागृ १, १, ८.
मोषण- -णात् या ६, १; ३.
मोष्य^m- -ष्यः वाध १९, २२.
मुषल¹- पाउवृ १, १०६; -लम् लाश्रौ
८, ८, ३१.
मुष्कⁿ- पाउ ३, ४१; -फक्कोः
आग्नि १, ५, १; ८; १०; -फक्कौ
शाश्रौ १२, २४, २; ३; लाश्रौ
९, १०, ५.
मुष्कर- पा ५, २, १०७; -रः
आपश्रौ ३, १५, ७; -रम् आपश्रौ
५, २०, १६; माश्रौ १, ५, ६, ९;
-राः हिश्रौ ११, २, १; -रान्
आपश्रौ १६, ७, १; वाश्रौ २, १,
२, ३; वैश्रौ १८, ४ : १३.
मुष्क-वत्- -वान् ऋअ २, १०, ३८.
मुष्टि^o- पाउमो २, १, १८९; पाग ४,
२, ८६²; -ष्टिः या ६, १७; भाशि
२, ११; -ष्टिन शाश्रौ ४, ३, ६;
आपश्रौ; -ष्टिभिः वाधूश्रौ ४,
७४ : ७; वैगृ ५, ३ : १२; -ष्टिम्
आश्रौ १०, ८, १०¹; शाश्रौ
१६, ४, १¹; आपश्रौ; कौगृ ४,
४, ३¹; -ष्टी आपश्रौ १०, १८,
२; ११, २, १×४; वौश्रौ; -ष्टीन्
काश्रौ २, ३, २०; आपश्रौ;
-ष्टीनाम् मीसू ६, ५, १८; -ष्टेः
मीसू १०, २, ६४; -ष्टौ काश्रौ
१, ७, ११; पा, पावा ३, ३, ३६;

a) = वानप्रस्थ-विशेष-। b) व्यप.। c) कस. पूष. = सप्तम-। d) पाका. पागम. पाठः।

e) बस.। f) पाका. पाठः। g) मुनि, स्थल- इति [पक्षे] पागम.। h) तु. पागम.। i) तु. BPG.।

j) = मुसल-। k) वैप १ द.। l) बौध २, ७६ या ४, ५ पा १, २, ८ परामृष्टः द.। m) घा. उन्मोचने वृत्तिः।

n) तु. पाका.। रुष्टि- इति भारुडा. पासि., रिष्टि- इति पागम., हृष्टि- इति [पक्षे] पाका.। o) वैप १, २५० c d द.।

p) पाभे. वृ १६२९० द.।

वैप-प्र-६५

-श्याम् कप्र २,९,२५.
 मुष्टि-कपाला (ल-अ) वदाना (न-अ)
 क्षना (न-अ) भयक्षन-वपन-पावन-
 न्नेषु मीसू ५,२,४.
 मुष्टि-करण^१ - णम् बौश्रौ २१,
 ९:२४; वैश्रौ १८,७:१; ९:११;
 -णा: बौश्रौ २१,९:२१^०; -णात्
 माश्रौ ६,१,३, २१; हिश्रौ ११,
 ३,३; -णे बौश्रौ २१, ९:२४.
 मुष्टिकरण-प्रभृति- -ति आपश्रौ
 १६, ११, १०; माश्रौ ६, १,४,
 १९; -तीनि हिश्रौ ११,४,१.
 मुष्टिकरणप्रभृति-कर्मन्-
 -मणि वैश्रौ १८,९:१.
 मुष्टिकरण-वाग्यमन- -ने काश्रौ
 ७,४,४.
 मुष्टिकरणा (ण-आ) दि- -दि वाश्रौ
 २,१,३,१९.
 मुष्टि-कर्मन्- -र्मण: आपश्रौ १६,
 ९,४.
 मुष्टि- (क >) का^० - > का (का-आ)
 कृति^१ -ति: याशि १,४४.
 मुष्टि-नाह^० -हम् वैश्रौ १२,९:१०.
 मुष्टि-धम- पा ३,२,३०; पावा ३,
 २,२९.
 मुष्टि-धय- पा ३,२,३०.
 मुष्टि-परामशम् वाधूश्रौ ४,७४:८.
 मुष्टि-प्रमाण- णम् आमिग ३,११,
 १:४; बौपि २,१०,२.
 मुष्टि-प्रसुता (त-अ) ज्जलि^१ - -लिभि:
 कौसू ६१,११.
 मुष्टि-बन्धिन्- -न्धी याशि १,४४.
 मुष्टि-मात्र- -त्र: हिश्रौ ७, १, ५५;

-त्रम् अप २३,२,३.
 मुष्टिमात्रो- -त्रीम् हिश्रौ ११,
 १,११.
 मुष्टि-मुख- पा ६,२,१६८.
 मुष्टि-मेखल^१ - -लम् काश्रौ ८,२,४.
 मुष्टि-लोप- -पात् मीसू १०,२,६२.
 मुष्टि-विसर्ग- -र्गात् काश्रौ ७, ४,
 १७; ८,१,९.
 मुष्टि-संयुक्त- -क्तम् अप २२,७,२.
 मुष्टि^१ कृ. मुष्टिकुरुते माश्रौ २,१,२,
 २०; वैश्रौ १२, २४:१××;
 हिश्रौ १०, ३, ३४××; मुष्टि-
 करोति आपश्रौ १०, ११, ४;
 बौश्रौ ६, ५:२६; माश्रौ; मुष्टी
 ...करोति बौश्रौ १०, १४:८;
 १६:११; १२, १७:१४××;
 मुष्टीकुरुष्व बौश्रौ ६, १९:२४;
 मुष्टीकुर्यात् वैताश्रौ ११, २३.
 मुष्टी-कृत्वा काश्रौ ७,३,७; माश्रौ.
 मुष्टया (ष्टि-आ) कृति- -ति: याशि
 १,६१; -तिम् माशि ४,१०.
मुष्टिन:^१ बौश्रौ १७, २४:४.
१मुसल^१ - पाउभो २,३,९९; पाग २,
 ४,३१; ४, १,४१^१; ५, १, ४;
 ६६; २,३६; ६, ३,१०८^१; ८,
 ३, १०८; -लम् काश्रौ २, ४,
 ११; १७, ५, ३; आपश्रौ;
 या ९, ३५६; -लस्य बौश्रौ
 २०,६:२७; २५,३१:६; वृदे
 ३,१०१; -लानाम् अप ६४,
 ४,१०; -लै काश्रौ ३, ८, १;
 आपश्रौ; -लेन आपश्रौ २०,३,
 १२; बौश्रौ; -लै: विध ४३,३८^१.

मुसली- पा ४,१,४१^१;
 १मौसल^१ - -ल: कौसू ९२,६;
 -ला: आश्रौ ९,७,६; -ले शुअ
 १,५५.
 १मौसली- -ली: अशां २१,
 २; -ल्यौ ऋअ २,१,२८.
 मुसल-धर्म- -र्मान् आपश्रौ १२,
 ४,१५.
 मुसल-प्रपतन- -ने माग २,१५,६.
 मुसल-प्रपात- -त: अप ३७,१,६१.
 मुसल-बुधन्^१ - -धनेन कौसू २९,२२.
 मुसल-संसर्ग- -र्गे माग २, १५,
 ६०.
 मुसला (ल-आ) कृति^१ - -ति: अप
 ५४, २,२.
 मुसलित- पा ५,२,३६.
 मुसलिन- -ली गौघ १२, ४०.
 मुसलीय- पा ५,१,४.
 मुसलो (ल-उ) ल्खल- -लम् अप
 २३, १३, २; -ले कप्र २, ५,
 १६; वृदे १, ११३.
 मुसल्य- पा ५,१,४; ६६.
२मुसल^१ - पाग ४,१,१०५; २,१११;
 -ला: बौश्रौ प्र ४१:१६.
 मौसलि- -लय: बौश्रौ प्र ४९:४.
 मौसल्य- पा ४,१, १०५.
 २मौसली- > ली-पुत्र-
 -त्र: अप ४,४,१२.
 २मौसल- पा ४,२,१११.
मुसल-धर्म- प्रभृ. १मुसल- द्र.
मुस्त^१ पाघा. चुरा. पर. संघाते.
मु(स्त >)स्ता^१ - पाउभो २,२,१३४;
 -स्ता अप ३५,२,९.

a) = कर्म-विशेष-। उप. भावे कृत्। b) = मन्त्र-विशेष-। करणे कृत्। c) स्वार्थे प्र। d) = हस्तदोष-
 विशेष-। बस.। e) उप. करणे कृत्। f) तु. कौसू ६७,२६। g) समाहारे द्रस. उप. = मेखला-। h) पाठ: ६
 मुष्टिना इति संस्कृत: टि.। i) वैप १ द्र.। j) तु. पागम.। k) मुष् इति जीसं.। l) = ओषधि-विशेष-।
 m) सास्यदेवतीयस्तस्यैदमीश्वच प्र.। n) बस.। o) तु. Knauer। p) = ऋषि-विशेष-। q) बहु. <मौसलि-
 वा मौसल्य- वा। r) = तृण-विशेष- (नभा. नागरमोघा)।

मौस्त-स्तेन बौश्री १५, २५:३^a.

मौस्त कृत- तेन आपश्री
२०, १५, १२^b; १३^c; हिश्री
१४, ३, २३^d.

मौस्त-फाण्ट- ण्तेन वाश्री
३, ४, ३, ४४^{e,f}.

मुस्त्र- पाञ्च २, १२.

√मुह^g पाधा. दिवा. पर. वैचित्थे,
मुह्यति वैगृ ५, १: २३; बौघ
२, २, १९; विघ २०, ४९;
मुह्यन्ति वाधूश्री ४, ४०:१७;
१८; कप्र १, ४, ११; मुह्यन्तु
या १०, २७^h; मुह्येत बौश्री
२७, १२:१४, १९; मुह्येत् चुसू
३, १४: ११; आपघ १, २३, १;
हिघ १, ६, ९; मुह्येयाताम्
आपश्री १४, २८, ४; हिश्री १५,
७, १२; मुह्येयुः बौश्री १७, १४:
७ⁱ; माश्री ३, १, १८; हिश्री
९, ८, ३३^j.

मुमोह वृदे ७, ८८.

मोहयति बौश्री १७, १४: ८^k;
हिश्री ९, ८, ३३.

अममुहत् अश्र २, २^l.

ममोमुहत्^m आश्री ८, १४, ४ⁿ;
भाग २, ३२: १९.

मुग्ध- ङ्गधा: आपश्री ३, १२,
१; बौश्री २७, ६: ११; वैश्री २०,
३०: ८; ङ्घै: बौश्री २७, ११:
१६; १९; ङ्घौ वैश्री २१, १५:
११.

मूढा, ल्ह^o]-ढ: हिश्री १५, ३, २८;
आगृ ३, ७, ९^p; या२, २५; ढम्

वैगृ ६७: १२; -ढा: अज ११,
१०^q; या ६, ८; -ढे आपश्री ९,
११, १; भाश्री ९, १४, १४; वैश्री
२०, २०: ४.

मूढ-गर्भ-> णि(न् >)णी-
-णी वैगृ ५, ३: ९; -णीम् वैगृ ५,
९: १३.

मूढ-स्वस्तर^r- ढे आपघ १,
१५, १३; हिघ १, ४, ७२.

मोह-ह: आपघ १, २३, ५; -हम्
विघ ९६, ३४; वैघ १, ११, १२;
-हात् कप्र १, ३, ४; २, १०, ११;
अप ६९, ९, ३; शंघ.

मोहन^s- नात् या ६, १; ३; -नानि
कौसू १४, १७.

मोहनी- ङ्नि अप ३६, १,
४; -नी बौगृ २, १, १९^t.

मोहयित्वा मागृ २, १८, २^u.

मोहयिष्यत्- ष्यन् अप्राय २, ६.

मोहित- त: वृदे ७, ५४.

मोहियत्- ष्यन् कौसू १२५, २^v.

मुहिर- पाञ्च १, ५१.

मुहुस्(, र, :)^w सु ३, ३; वैगृ ५, ४,
२८^x; अप; आपघ १, ८, २२^y;
हिघ १, २, ११०; या २, २५^z;
पाञ्च २, १२०; पाग १, १, ३७.

मुहुस्मुहुः अप ६३, २, ६;
७०^{aa}, २०, ५; ७०^{ab}, ११, ७; शंघ.

मुहुः-सर^{ac}- रम् या ९, ३५.

मुहूर्त^{ad}- पाञ्च ३, ८९; पाग ४, ३,
७३; -त: अप १, ५, ५; या २,
२५^{ae}; आज्यो १, ६; -तस्य
काश्री ४, १५, ३२xx; बौश्री;

वृदे ७, १५७; या २, २५^{af};
आज्यो १, ३; १४, २; -तस्य

आज्यो १, ५; ७, १६; १७;
वेज्यो ३८; -ता: शाश्री १४,

८०, २; आज्यो १ ११; -तान्
आपश्री १९, १२, २xx;

हिश्री २३, २, १२xx;
-तानाम् बौश्री १९, ३: ३३;

आज्यो १, ८; -तं अप ४, २,
२; ५, ४, २xx; वाघ १२, ४७;

१७, ६१; शंघ ४९; ३०४;
बौघ २, १०, २२; आज्यो ७,
११; -तेन वृदे ४, ६६; ५,

१५०; आज्यो २, ५; ६; ३, ३;
७, १३-१५.

मौहूर्त- पा ४, ३, ७३.

मुहूर्त-ज्ञान- नम् आज्यो १, ३.

मुहूर्त-मात्रा- ङ्गा: निसू ९, ८: ३.

मुहूर्त-स्तोम^{ag}- मा: शाश्री १४,
८०, १.

मुहूर्ते(त-इ)ष्टका^{ah}- का: बौश्री
१९, ३: ४; ९; १५; २०; ३३.

मुहूर्तो(त-उ)दय-पर्वन्- र्वेणाम्
वेज्यो ४४.

मुहेर- पाञ्च १, ६१.

√मू पाधा. भ्वा. आत्म. बन्धने.

१मूक^{ai}- पाञ्च ३, ४१; पाग ५, १,
१२३; १२४; -क: आश्रिगृ ३,

१०, १: ४; बौपि ३, ५, २; शंघ
३७६; ३७७: १८; विघ; -का:
विघ ४५, ३३.

मौक्य- पा ५, १, १२३; १२४.
मूक-ता- मूक-त्व- मूकमन्- पा

a) परस्परं पाभे. b) फाटेन इति पाठः? यनि. शोषः। c) पा ७, २, ४५; ८, २, ३३ १२मूकः द.।

d) पाभे. वैप १, ११४९ d द्र.। e) आगृ. या. पाठः। f) मूढः इति जीसं.। g) कस. उप. = [पलालाप्रमूढ-

भागनिर्मिते] आसन-। h) भावाद्यर्थे प्र.। i) = मातृ-विशेष-। j) वैप १ द्र.। k) मुहूर्त् इति पाठः (तु-

आष्यम्)? यनि. शोषः (तु. हिघ.)। l) उर. टः प्र. उत्सं. (पा ३, २, १८)। m) = याग-विशेष-। वस.।

n) = इष्टका-विशेष-।

५,१,१२३.

२मूक^a-कः बौश्रौ ६: १.

मूचिक-> (मौचिक्य- पा.) पाग

५,१,१२८.

मूचीप^b-पा: शांश्रौ १५,२६,१.मूज-> ११मूज-वत्^c-वतः आपश्रौ

१२,५,११; बौश्रौ; -वता३:

बौश्रौ ६, १४: २४; -वति या

९,८; -वत्सु बौश्रौ २,५: १९;

-वान् या ९, ८६.

मौजवत्^c-तः या ९, ८६;

-तस्य माश्रौ ३, ६,४; या ९,

८१.

३मूज-वत्^d->मौजवत्^d-वान्

ऋत्र २,१०,३४.

१मूह-√मुह द्र.

२मूह^e-पाग ४, १, १५१; -डा^e

बौश्रौ १०: २.

मौह्व-पा ४,१,१५१.

मूत^f-तः लाश्रौ ८, ३, ८; -तयो:

काश्रौ ५,१०,१८; आपश्रौ; -ते

आपश्रौ ८, १७, ५; १८, ७;

बौश्रौ; -तेन माश्रौ १,७, ७, ४;

-तेषु आपश्रौ ८, १७, ६; १८,

७; २१, ३; हिश्रौ ५, ५, ६.

मूत-कार्य^g-र्यम् काश्रौ १, ३, २३;

आपश्रौ.

मूत-कृत-तम् बौश्रौ २६, ३३: १७.

√मूत्र पाधा. चुरा. उभ. प्रक्षवणे.

√मोमूत्र्य पावा ३, १, २२.

मूत्र^h-पाउ ४, १६३; पाग ५, २, ३६;

-त्रम् आपश्रौ ९, १८, ९; १०,

१३, १५x; बौश्रौ; -त्रे कौसू

२२, ८; बौध १, ५, ६९; -त्रेभ्यः

आश्रौ ५, ११, ३; -त्रैः वाध ३,

५९.

मूत्र-कृच्छ्रⁱ->°च्छ्रून्-च्छ्री शंघ

३७७: १२.

मूत्र-पुरीष-पा, पाग २, ४, ११; -षम्

आमिष्ट २, ६, ८: ५; कौसू ४८,

३२; या १४, ७; -षयोः आपध

१, ३०, १४; १६; १८; १९; ३१,

३; बौध; -षे काश्रौ ९, ६, २२;

आपश्रौ; गौध ९, ३९^h; -षेणवाध २८, १; -वौ वैध २, ९, २^l.

मूत्रपुरीष-करण-णे बौगृ ४,

११, १.

मूत्रपुरीष-प्राशन-नम् आपध

१, २१, १६; हिध १, ६, ४६.

मूत्रपुरीष-मध्य-ध्ये विध ९६,

३१.

मूत्रपुरीष-लेप-पान् आपध १,

१५, २३; हिध १, ४, ८२.

मूत्रपुरीषा(ष-अ)पकर्षण-णम्

गौध ९, १५.

मूत्रपुरीषो(ष-उ)त्सर्ग-र्गम्

शंघ ४२; विध ६०, १.

मूत्र-पुरीष-पूय-शोणित-रेतः-श्लेष्मो-

(ष-उ)च्छिष्टा(ष्ट-अ)ङ्गनिष्पेप-

-षान् वैध ३, २, ८.

मूत्र-पुरीष-रेतस्-तसाम् गौध

२३, ४.

मूत्रपुरीषरेतो-विसर्ग-र्गो वैध

२, १२, ३.

मूत्र-पुरीष-रोहित-रेतः-प्रभृत्यु-

(ति-उ)पहत-तानाम् बौध

१, ४, ५^h.

मूत्र-पुरीष-लोहित-रेतः-प्रभृत्यु-

(ति-उ)त्सर्ग-र्गो वैध १,

६, ३२.

मूत्र-पुरीष-लोहित-रेतः-प्रभृत्यु-

(ति-उ)पहत-तानाम् बौध

१, ६, ११; २८^l; ३४^l; ३७^l.

मूत्र-पुरीष-वातकर्मो(र्म-उ)च्चैर्भाषा-

हास-धीवन-दन्तस्क्वन-निःश्व-

ङ्खण-भूक्षेप-ताल-निष्टय-

-ष्टयानि हिध २, १, ९०^l.

मूत्र-पुरीष-वातकर्मो(र्म-उ)च्चैर्भाषा-

-हास-धीवन-दन्तस्क्वन-निःश्व-

ङ्खण-भूक्षेप-ताल-निष्टय-

-ष्टयानि आपध २, ५, ९^l.

मूत्र-पुरीष-धीवना(न-आ)दि-दिषु

शंघ ६०.

मूत्र-पुरीष-स्नेहु-विसंसना(न-अ)

भयवहार-संयोग^m-नेषु गौध

१, ५०.

मूत्र-पुरीषा(ष-अ)मेध्य-ध्यानि

गौध ९, १३.

मूत्र-पुरीषा(ष-अ)सृक्-शुक्ल-

कुणप-सृष्ट-ष्टानाम् बौध १,

५, ४२.

मूत्र-फेन-नेन कौसू ३१, ११.

मूत्र-मेहⁿ->°हिन्-ही शंघः

३७८.

मूत्र-मौण्डय-ण्डयम् शंघ ३२५.

मूत्र-वत् बौध १, ५, ७३; वैध २,

९, ९.

मूत्र-विसर्जन-ने शंघ ३७७: ११.

मूत्र-शकृत्-लुका(क-अ)भयवहारⁿ-

-रेषु वाध २०, २०.

मूत्र-शकृत्-पाग २, २, ३१^o; ४,

११.

a) व्यप.। b) =क्षत्रिय-जाति-विशेष-। c) वैप १ द्र.। d) अपत्यार्थस्य प्र. लोपश्चान्दसः इति

बहुगुहाशयः। e) बहु. <मौढ्य-। f) विप.। उस.। g) =रोग-विशेष-। h) St. पाठः। i) षे

इति ०.। j) परस्परं पाभे.। k) 'लोहि' इति Hultschi। l) परस्परं पाभे.। m) द्रस.>द्रस.

>षस.। n) द्रस.>षस.। o) तु. पागम.।

सूत्रित- पा ५, २, ३६; -तः गौध
१६, ११; -तस्य वाध १३,
२९.
सूत्रो(त्र-उ)च्चार- -रे गौध ९, ३८.
मूर, रा^१- पावाग ८, २, १८; -ःराः या
६, ८६; ११, २.
मूर-मूल^२- > लो(ल-उ)पधा(न >)
ना^३- नायै हिय २, २, ६.
मूर्ख, खी^४- पाउ ५, २२; पाग ३, ४,
७४; ५, १, १२३; -खैः वाध ३,
९; बौध; -खाः वाध ३, ६; बौध
१, १, १२; -खां विध ७१,
२; -खां आमिष्ट ३, ५, ३ : २;
बौपि १, ३ : १; हिपि ४ : ४;
-खै कप्र २, ५, ८; वाध ३, ९;
बौध १, ५, ८३.
मौख्य- पा ५, १, १२३.
मूर्ख-ता, मूर्ख-त्व- पा ५, १, १२३.
मूर्ख-संयोग- गात माशि १६, १५.
मूर्खिमन्- पा ५, १, १२३.
✓मू (<मु)च्छै, छै (बधा.) पाधा.
भवा. पर. मोहसमुच्छ्राययोः,
मूर्छति वाश्रौ ३, ३, १, ४४.
मूर्छना^१- -ना नाशि १, २, ११;
१२; -नाः नाशि १, २, ४;
९; १०; १३; १४.
मूर्छमान- -नाः विध ४३, ३६.
मूर्छयिष्यत्- -ष्यन् बौश्रौ १, ३ :
३३; २०, ४ : २९; ३०.
मूर्छयित्वा कौस् १२, २; ३५ ४.
मूर्छा- पाग ३, १, १३; ५, २, ३६;
९७.
✓मूर्छाय पा ३, १, १३.

मूर्छा-ल- पा ५, २, ९७.
मूर्छित- पा ५, २, ३६.
मूर्त्^१- पाउना ३, ८९; पा ८, २,
५७; -तम् या १, १; ७, २७;
-तैन वृदे २, ३३.
मूर्ति- -तिः या १४, ५.
मूर्ति-मत्- -मन्त्व वृदे ७,
१४६.
मूर्तिमती- -त्यौ सु २, १.
मूर्ति-सामान्य^२- -न्यात् मीस्
८, २, १५.
मूर्द्ध^३, र्धन्^४- पाउ १, १५९; -धन्
आपश्रौ ५, १२, २१××; १९, १,
१८; २०, २२, ६; बौश्रौ; -र्धनि
शांश्रौ १६, १८, १९; काश्रौ; शांश्रु
१, ६, ९; १३, १××; पाग १, ८,
५; ११, ४; माग १, १८, ६; २, १४,
२६; २७; या ९, ३१; १६;
ऋप्रा ८, ४५; शुप्रा १, ६७;
तैप्रा २, ३७; ऋत २, १, ६;
नाशि १, ७, १; वेज्यो ४; -र्धा
ःआश्रौ १, ६, १; ८, ६, २३;
शांश्रौ; वाधूश्रौ ३, १४; ४१;
११; १३; १७; २०; विध २६,
८९; वृदे ४, १२०; या ७,
२७; १६; -र्धानम् आश्रौ ८, ६,
२३; ६; आमिष्ट २, १, ३ : ८;
वाग ३, ९; वैश्रु १, २ : १३;
१८; हिग २, ३, ३; द्राग २, ३,
१३; २९; शंघ ५७, ९७; ११६;
५५; विध ६२, ८; ६८,
३८; ऋसाश्र १, ६७-६८;

-धैः वेताश्रौ ५, १, ४; जैग १, ७;
५; द्राग; -र्धा आपश्रौ १,
४, १५; बौश्रौ; -र्धि बौश्रौ १५,
३७ : ३; २६, ११ : १९; वाश्रौ;
शैशि १२९; याशि ९; आशि
८, ७; -धौः कौस् ७८, ११.
मूर्ध-देश- -शे गोग २, २, १४.
मूर्धन्य^५- -न्यः अप ४७, २, ५;
शौच १, ६३; २, ६०; पा ८, ३,
५५; -न्यम् शुप्रा ३, ४०; ७९;
ऋत ५, ६, ७; -न्याः शुप्रा १,
७८; ८, ४२; पाशि १७; याशि
२, १; ९४; आशि १, १३;
-न्यानाम् शौच १, २२; आशि
२, ६; -न्यानि कप्र ३, १०, २;
-न्यौ कौस् १२४, १; ऋप्रा १,
४३.
मूर्धन्या(न्य-आ)पत्ति- -त्तिः
शुप्रा १, ४२.
मूर्धन्-वत्- -वतः आश्रौ २, १०,
११; -वता वृदे २, १८; -वान्
आश्रौ १०, ६, ३; वाधूश्रौ ४, ४७;
४; ऋश्र २, १०, ८८.
मूर्धन्वती- पा ४, ४, १२७;
-ती^० बौश्रौ २६, ४ : १४; निस्
१०, १ : ४; -ती^० बौश्रौ १०,
३८ : १५; हिश्रौ १२, १, ५; ४१;
८, २; -तीभ्याम्^१ आपश्रौ १६,
२२, ७; वैश्रौ १८, १७ : १३;
हिश्रौ ११, ७, २५; २६; -त्याः^२
शुश्र १, १८१.
मूर्ध-भिन्न, न्ना- -न्नाः सु २५, ६;
-न्नैन् बौश्रौ १७, ४५ : १.

a) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. । b) = उडुम्बरमूल- इति भाष्यम्? Old. च । c) विप.
[सोष्यन्ती-] खी-) बस. । पृ ७५३ ऊरुमूलो इति नेष्टम् । d) वैप १ द्र. । e) = संगीत-प्रकार- । f) तु.
पागम. । g) पूष. = घनत्व- । h) शांश्रु. पाग. प्रभृ. पाठः । i) सु इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. उत्तरं
स्थलम्) । j) मूर्धनि इति आन. । k) = मृगु-विशेष- । l) णम् इति पाठः ? यनि. शोषः । m) विप.,
नाप. ([मूर्धस्थानीय-] वर्ण-) । n) व्यप. । o) = इष्टका- । मूर्धन्वत्-वत्- > यनि. । p) = ऋन्- ।

मूर्ध-ललाट-नासाग्र-प्रमाण^a- -गाः
 बौध १, २, १६; गौध १, २८.
 मूर्धा(र्ध-अ)क्षि-कर्ण-वल्- -क्षाणि
 कप्र १, ७, ८.
 मूर्धा(र्ध-अ)वसिक्त^b->°क्त-क्षत्रि-
 य-धीवर-पुल्कस- -सान् गौध
 ४, १९.
 मूर्ध्नि-गत- -तम् याशि १, २९.
 ?मूर्धपधानाय^c आमिष्ट २, १, १ :
 १४.
 ✓मूल पाधा. भ्वा. पर. प्रतिष्ठायाम् ;
 चुरा. पर. रोहणे.
 १मूल^d- पाठ ४, १०८; पाग २, ४,
 ३१; ४, २, ८०^e; ५, १, ५०;
 १२३^f; ४, ३; पावाग ८, २, १८;
 -लम् आश्रौ १२, १, ६; काश्रौ;
 आपश्रौ ७, १०, ११^g; या ५, ४;
 ६, ३^h; -लात् काश्रौ ४, २, १२;
 आपश्रौ; -लान् कौस् ६९, १९;
 -लानाम् बौधौ २८, १३ : १७;
 -लानि काश्रौ २, ६, ३; आपश्रौ;
 -ले शाश्रौ ४, ४, २१; १७, १, ८;
 ३, ६; आपश्रौ; -लेन भाश्रौ ५,
 १, २; वैश्रौ; -लेषु काश्रौ २, ७,
 १७; -लैः काश्रौ २, ६, ३९;
 आपश्रौ.
 मौल^d- -लाः शंध २५१.
 मौलक- पा ४, २, ८०.
 मौलिक- पा ५, १, ५०; -कम्
 विध ९१, १९ⁱ.
 मौल्य^j- -ल्येन काश्रौ २२,
 ८, १६.

मूल-क- पा ५, ४, ३; पाग २, ४,
 ३१; -कम् वैध ३, ५, ८^k.
 मूल-कन्द-फल- -लानि वैश्रौ ११,
 ११ : ८.
 मूल-कर्मन्^l- >°र्मा(र्म-आ)दिक-
 -कम् अप ७, १, १२.
 मूल-कारण- -गम् भाशि १.
 मूल-कुण्ड- -ण्डम् कौष्ट २, ४, २४.
 मूल-कृच्छ्र^m- -च्छ्रः विध ४६, १५ⁿ.
 मूल-क्रिया^o- -यासु विध २५, ७.
 मूल-क्षीर^p- -रात् अप ३६, ११, १.
 मूल-गामिन्- -मी वैष्ट १, १४ :
 १४.
 मूल-तस् (:) आपश्रौ १, ६, ७; ७,
 ३, १; भाश्रौ.
 मूलतः-पुष्कर^q- -राणि बौश्रौ
 २०, १६ : ९.
 मूल-दण्ड, ण्डा^r- -ण्डः अप २३,
 २, ४; -ण्डा अप २३, ३, १;
 -ण्डाः काश्रौ १, ३, ३८; भाश्रौ
 १, १६, ६.
 मूलदण्डा(रड-अ)रत्नी- -त्नीम्
 भाष्ट १, १ : ३^p.
 मूल-देश- -शे माश्रौ १, १, २, १६;
 २०; २, ५, २७; २, २, १, २६;
 कप्र १, ३, ११.
 ?मूलपलाशकानि^q भाश्रौ ६, १८,
 १५.
 मूल-पाक- पाग ७, ३, ५३.
 मूल-पूर्ण- -णम् अप २०, ३, ४.
 मूल-फल- -लम् कौष्ट ३, ९, ५०;
 शांष्ट ४, ७, ५५; वाध ९, ४;

-लेन अप ५३, ३, ३; -लानि
 आपध १, १८, १; २, १६, २३;
 हिध १, ५, ७१; २, ५, २३;
 -लेभ्यः आश्रौ १२, ८, ४०;
 आपध २, १९, १०; हिध २,
 ५, ८२; -लैः बौष्ट २, ११, ५५;
 बौष्टि ३, ६, ९; आपध १, २१,
 १; विध ८०, १; हिध १, ६,
 ३०.
 मूलफल-भक्ष- -क्षः काश्रौ २२,
 १, २५; -क्षौ आपश्रौ १७, २६,
 १५.
 मूलफला(ल-आ)द्वि-व्यञ्जन-
 -नानि आमिष्ट २, ६, ७ : ३०.
 मूलफला(ल-अ)शान^r- -नः वाध
 २७, ५.
 मूलफला(ल-आ)शिन्- -शी
 बौध २, ६, १७; वैध १, ७, ३;
 गौध ३, २६.
 मूल-फल-पान- -नेभ्यः शंध २१८.
 मूल-फल-पुष्पौ(ध्य-श्रौ)षध-मनु-
 मांस-तृणे(ण-इ)न्धन- -नानाम्
 गौध १०, २६.
 मूल-फल-पुष्पो(प-श्रौ)षध-मनु-
 मांस-तृणो(ण-उ) दका(क-अ)
 पथ्य- -थ्यानि गौध ७, १२.
 मूल-फल-भैक्ष^s- -क्षेण वाध ९, ७.
 मूल-फल-शाक- -केभ्यः बौध २,
 ६, ५.
 मूल-बर्हि(ण>)णी- -णी अज १२,
 ५(४)†.
 मूल-भक्ष- -क्षः हिश्रौ १७, १, १३.

a) द्रस. > बस. । b) = त्रिज्याद् ब्राह्मण्यां जात- । c) पाठः ? सपा. हिष्ट २, २, ६ मूल-
 मूलोपधानायै इति पाभे. । d) वैप १ द्र. । e) सकृत् १मूल- इति [पक्षे] पागम. । f) तु. पागम. । g) पाभे.
 पृ १७९७ k द्र. । h) = स्थानीय-मूलनिवासिन- । ततश्चागतेऽर्थे अण प्र. । i) तत्रभवीष्य ठक् प्र. । j) भवार्थे
 न्यः प्र. उसं. (पावा ४, ३, ५८) । k) = शाक-विशेष- । l) = वशीकरण-क्रिया- (तु. मनुः [९, २९०]) ।
 m) = व्रत-विशेष- । n) अर्थः ? । o) बस. । p) ण्डामर° इति मूको. । q) मूलफलशाकानि इति संस्कृत-
 टि. । r) उप. कर्तारि कृत. । s) समाहारे द्रस. ।

मूलभक्षन्ता-न्ता बौध ३, १०,
१२.
मूल-भङ्ग-ङ्गे अप १९, १, १२.
मूल-भार- (>मौलभारिक- पा.)
पाग ५, १, ५०.
मूल-मध्या(ध-अ)ग्र- ग्राणि वैश्रौ
१०, ८: ३; वैगृ १, १४: ३.
मूलमध्याग्र-देश- -शेषु कप्र १,
४, २.
मूल-वत्- -वत्सु अप ६५, १, ६.
मूल-विभुज- पावा, पावाग ३, २, ५.
मूल-शाखा-समन्वित- -त्सु अप
१२; १२: १७; २५××.
३६, २१, १.
मूल-षड्-भाग^a- -ने अप २२, ४, ४.
मूल-स- पा ४, २, ८०.
मूल-स्तम्भ- -म्भा: अप २१, ५, २.
मूल-होम- -म: वैगृ १, १८: १५;
३, १८: ६; -मस् वैगृ २, ६:
मूलहोमा(म-अ)ङ्गहोम- -मौ
वैगृ ३, ९: १४.
१मूलहोमा(म-अ)न्त- -न्ते वैगृ
३, ४: २; २३: २.
२मूलहोमा(म-अ)न्त^b- -न्तस्
वैगृ २, १३: ६.
मूला(ल-अ)ग्र- -ग्राभ्याम् वैगृ १,
१४: २; -ग्रे वैश्रौ ११, ११: ४.
मूलाग्र-व(त् >)ती- -तीम्
काश्रौ १७, ४, १८.
मूला(ल-आ)घार->श(र-अ)ना-
हत-भूमध्य- -ध्वे आम्रिगृ २,
४, १२: १०.
मूला(ल-आ)शिन- -शी विध १५,

११.
मूले-नाह^b- -हस् वैश्रौ ११, ७: ३.
मूलो(ल-उ)च्छेदन- -नात् काश्रौ
२, ६, २.
मूल्य- पा ४, २, ८०; ८८; ४, ९१;
-ल्यम् विध ५, ५१; १५३; १५७;
९, ४; -ल्यत् शंघ ३२४;
विध ५, ८३; -ल्येन विध २९, २.
मूल्य-सम- -सम् विध ५, ८८.
२मूल^c- -ल अशां ४, २; -लम् अप
१, १, २; २-३, १; ५, १; ७, ९;
४०, २; ३१, ८, ६; ५७, ३, १;
अशां ४, २; १०, २; वेज्यो ३६;
-लस्य अप १, ४, ५; अशां ६,
५; -लाय शां १, २६, १७;
वैगृ ३, २०, ८; अशां १२, ३;
-ले अप १, १०, ५^d; ३३, ९;
-लेन अप १, २९, १; ४४, ७; ४९,
६; अशां १३, ३.
मूलाट^e- (>श्री- पा.) पाग ४,
१, ४१.
मूलिक- (> मौलिक्य- पा.) पाग
५, १, १२८.
१मूलिपुरोडाश- -शेन निस् २, ५: २५.
मूलर- पाउ १, ६१.
१मूष्- मूष: अप ४८, ११५;
निघ ४, १; या ४, ६६.
मूष- पाग ४, १, ४५^g.
मूषा- पाउभो २, ३, १५१; पा ४,
१, ४५^f.
मूषी- पा ४, १, ४५^f; -व्याम्
वागृ ४, २१^f.
मूषक^h- > क-मार्जार-नकुल-मण्डू-

क-हुण्डुभा(म-अ)जगर-
-राणाम् विध ५०, ३१.
मूषक-स्थल- -ले वाध ६, १७.
१मूषकलाङ्ग^k- -ङ्गम् हिध १, ५, २६.
मूषिक, का- पाउ २, ४, ३१; पा, पाग ४,
१, ४; पाग २, ४, ३१; -कम् अप
७०ⁱ, ६, २; -का: अप १, ६, १;
या ४, ६; -कै: शंघ ४३१^l.
१मूषिकलाङ्ग^k- -ङ्गम् आपध १, १६,
२७.
मूषिका^m- (>मौषिकि- पा.) पाग
४, १, ९६.
मूषी-वत्- √मुष् द.
√मृⁿ पाधा. तुदा. आत्म. प्राणत्यागे,
मरते^o या ११, ३८^oक^o.
मृणाति अप ४८, १९^o.
सुरीय या ७, ३^o.
म्रियते काश्रौ २२, ६, ५; बौश्रौ;
म्रियन्ते वैगृ ६७: ९; मागृ २,
१४, १७; अप ५५, २, २××;
१म्रियसे आपश्रौ ७, १६, ७; ९,
१८, ८; ११; बौश्रौ; म्रियेत काश्रौ
२५, ९, ४; १३, २७; १४, १;
आपश्रौ; बौषि ३, ९, १०.
१ममार बौश्रौ १४, ७: ४; १८,
४८: १६५; कौस् ८१, ३७;
या १४, १८; मसु: आपश्रौ १,
८, ७^o; मरिष्यति आपश्रौ ९,
२०, ७^o; वाधुश्रौ ४, ४: ४;
१५: ५; ८०: ६××; अप;
मरिष्यसि आपमं २, १६, १४^o;
गोगृ ४, ९, १५^o; बौध १,
१०, ३२; अम ११, ३(२)^o;

a) षस. > कस. । b) बस. । c) = नक्षत्र-विशेष- । d) ल्हेन इति संस्कृतेः शोषः? (तु. प्रकरणम्) ।

e) < १मूल- + √अट् इति पागम. । f) वैप १ द. । g) तु. पागम. । h) घा. अर्थः? । i) = सुवर्णाद्यावर्तन-
स्थान- वा आखु- वेति पागम. । j) = गर्त- । k) परस्परं पाप्मे. । l) = मूषक-पुरीष- मूषकाङ्ग- इति भाष्यम् ।
l) दू^o इति पाठः? यनि. शोषः (तु. शंघ [असृ. ४१८]) । m) व्यप. । n) पा १, ३, ६१ परामृष्टः द. ।
o) मृवायाम् इति B. ।

†मृत^३ आपर्मे २, ३, ३१^३; आगृ
१, २०, ७, कौगृ २, ८, ९; कागृ
४१, १७^३.
मारयति अप्रं ३: ५८†; या ११,
६; मारयेत् अप्र ६८, २, ५४.
मारयिष्यति वाधुश्रौ ३, ४६: ५.
मार्यति अप्र ७०^३, १५, ४.
मुमूर्षेत् काश्रौ २२, ६, १९;
लाश्रौ ८, ८, ४०.
मर्- > मर्-मृत्यु-पाग ६, २, १४०.
२मर्^३ > मर्-क- -कः अप्र ५७,
१, ८; -के अप्र ६९, ४, १.
३मर्^३-
मरण- -गम् काश्रौ २५, ७, ५;
आम्रिगृ; -णस्य काश्रौ २५, १३,
३६; मीसू ११, ३, ३५, ४३; -णात्
वैश्रौ २०, २३: १; वाध;
-णानि अप्र ६२, १, ४; २, ५;
-णाय अप्र ७०^३, ४, ४; -णे
आम्रिगृ ३, ९, ३: २३; बौपि २,
७, १९; ८, ७; वैगृ; -णेषु सुध
१०.
मरण-काम- -†मः आपश्रौ २२,
७, २१; हिश्रौ १७, ३, २०;
-मस्य शाश्रौ १५, १०, १; काश्रौ
२२, ६, १.
मरण-काल- -ले गौपि १, १, ८.
मरण-धर्मन्^३ - -र्मा या ३, १५.
मरण-प्रमृति- -ति वैगृ ७, ७: २.
मरण-संशय- -ये आम्रिगृ ३, ४,
१: १; बौपि ३, १, १८; हिपि
१: २.
मरणा(ण-अ)न्त^३ - -न्तम् शाश्रौ
४, १४, २; काश्रौ २५, ७, ९;
कौगृ ५, १, २; कप्र ३, ३, ८.

मरणा(ण-अ)शङ्क^३ - -ङ्कम् निस्
४, २: ३२.
मरणा(ण-अ)शौच-मध्य- -ध्ये
विध २२, ३८.
मरत- पाउ ३, ११०.
मरिष्यत् - -ष्यन्तम् वाधुश्रौ ३, ९४:
३; ७, १०.
मारण- -गम् विध ५१, ६०; -णे
आपध २, २८, ६९.
मारणा(ण-अ)दि- -दौ अप्र
२५, १, ११.
मा(रि>)री^३ - -रीम् अप्र ५०,
५, १.
मारुक- -का: मागृ २, ११, २.
मुमूर्षत् - -षत्: या ९, २६.
मुमूर्षु^३ - -र्षु: वैगृ ५, १: ४; -षो:
वैगृ ५, १: ८.
१मृत, ता- -तः आपश्रौ १४, २९,
१^३†; बौश्रौ; -तम् शाश्रौ ३,
५, ७; काश्रौ; -तस्य शाश्रौ १३,
२, ८; आपश्रौ; -ता कागृ ४ ४२:
१८; -ता: आम्रिगृ ३, ५, ८:
५†; †बौपि १, ७: ७; २, १२,
२; वैगृ ५, १५: ६; -तान् शाश्रौ
१३, ५, १२; जैश्रौका ८७;
-तानाम् बौपि २, ८, ३-५; ३,
७, १; वैगृ ५, ८: १३; -ताम्
आपश्रौ १०, १८, ९; १९, ४;
वैश्रौ १२, १४: ४†; वैगृ ५, ९:
१०; ७, ३: ११; -तायाम्
काश्रौसं ३२: १५; कागृ ३९:
२; कप्र ३, १, ८; ९; -तासु विध
२२, ४३; -ते शाश्रौ १३, २, १;
६; ७; ३, १; २९, १९; काश्रौ;
-तन् कागृ ४२: २०; -तेषु

विध २२, ४३; -†तै: आगृ ४,
४, ९; आम्रिगृ ३, ७, १: १९;
बौपि १, १७: १७.
मृत-क^३ - -कः आम्रिगृ २, ७,
८: २५; वैगृ ७, १: ४; -कम्
वैगृ ५, २: १; १७; ३: १७;
२३; ७, २: ८; ३: २; -कस्य
वैगृ ५, ३: १.
मृतक-निमित्त-त्व- -त्वात्
वैगृ ५, १३: ५.
मृतका(क-अ)र्थ- -र्थम् वैध
३, ९, १.
मृत-चैल-धारण^३ - -णम् विध
१६, १४.
मृत-जात- -ते विध २२, २६.
मृत-दार^३ - -रः वैगृ ५, ९: ६;
-रम् वैगृ ७, २: ७.
मृत-पञ्चनख^३ - -खात् विध २३,
४४; ५४, २.
मृत-पतिका^३ - -काया: आम्रिगृ
३, ७, ४: १९.
मृत-पत्नीक^३ - -कः आम्रिगृ ३, ७,
४: १७; बौपि २, ४, २; -कस्य
बौपि २, ४, १३.
‡मृतपत्नीकसमा(म-अ)
मि- -मिभि: आम्रिगृ ३, ७, ४:
२७.
मृत-प्र(ज>)जा^३ - -जाम् बौध
२, २, ५९.
मृत-प्रतिकृति- -तिम् गौपि १,
६, ५.
मृत-बलि- -लिम् आम्रिगृ ३,
११, १: १.
मृत-बान्धव- -वानाम् विध
१९, २४.

a) सपा. शागृ २, १८, ३ मृध: इति पाठे. | b) = मरण- वा व्याधि- वा | c) पृ १९०७ I द्र. |
तत्र यनि. संख्या-निर्देश: द्र. 1 (d) बस. | e) सपा. हिष २, २, ६ हरणे इति पाठे. | f) = व्याधि-विशेष- |
g) स्वार्थे प्र. | h) 'तच्चे' इति जीस. |

मृत-भर्तृका^१ - कायाम् वैध ३,
११, ४.

मृत-भाव- -वेन वाध २, ४९.

मृत-मत्स्य- -त्स्यान् अप ७१,
१३, ५.

मृत-व(त्स>)त्सा^२ -त्सा अप
६९, ५, १; -त्सायै बौश्रौ २४,
३१ : ६.

मृत-शब्द- -ब्दः आश्रौ ३, १३,
११.

मृत-शिष्ट- -ष्टेभ्यः वृदे ७, ११.

मृत-संस्कार- -रः बौपि ३, १,
४; वैगृ ७, १ : १; ३; -रेण
बौपि ३, १, ४.

मृतसंस्कार-प्रायश्चित्त-

-नम् वैगृ ७, १ : १.

मृत-सूतक- -कयोः सुध २५.

मृतसूतका(क-अ)न्न-भोजन-

-ने काध २७७ : २.

मृता(त-अ)दर्शन- -नयोः काश्रौ
२०, ३, २१.

मृता(त-आ)दि- -दीनाम् अप
७०^३, ७, ४.

मृता(त-अ)ह- -हे विध २१,
११; २२, ५७.

मृता(त-अ)हन्- -हनि शंघ
१९०.

मृता(त-आ)हिताग्न्या(मि-आ)
वृत्- -वृत् काश्रौ २२, ६, १४.

मृति- -तिः आमिगृ ३, १०, २ : ११.

मृत्यु^४ - पाउ ३, २१; -त्यवः अन्न
८, २^५; -त्यवे शाश्रौ ४, ५, १^२५;

आपश्रौ १९, १३, १५××; बौश्रौ;
हिश्रौ २२, ३, ३२; कागृ ५४,

६; हिगृ २, १९, ६; कौगृ ७४,
५; अप ५३, ५, १; विध ६७,

१०; -त्युः ऋशाश्रौ ४, १६,
५××; आपश्रौ; आमिगृ १, ५,

३ : ५^६; अमभू ३^१; निध ५,
५^६; या ७, ३^६; ११, ६^६; उनिस्

८, ३९; आज्यो ५, १७; -त्युना
बौश्रौ ९, १८ : ९^६; वाधूश्रौ

३, ४६ : १७; ४, १०८ : २८;
दिश्रौ १०, ३, ९; १७, ७, २९;

हिगृ; -ऋत्युस शाश्रौ ६, ३, २;
आपश्रौ; आपमं २, ३, १^६;

आमिगृ १, १, ३ : १^६; हिगृ
१, ५, १^६; -ऋत्युन् आपश्रौ

१६, १६, १^२; वैश्रौ १८,
१४ : ५^२; हिगृ १, १९, ७^६;

कौसू ९७, ८; -ऋत्यो काश्रौ
२१, ४, ७; आपश्रौ; -त्योः

आश्रौ ३, ६, २७^६; शाश्रौ;
बौश्रौ १३, २३ : १; वाधूश्रौ ३,

३२ : २^३; ४, ९५ : ८; १०;
वैश्रौ १०, १ : ३; सु १६, ५;

आमिगृ ३, ८, २ : ५४^१; बौपि
१, १७ : २०; २, ९, ८; अप

१९, १, १०; ५२, ३, ३××; ऋअ
२, १०, ५९; वृदे ७, १०; चाअ^६

३० : २७; ३८ : ७; ११; ३९;
१५; -ऋत्यौ हिश्रौ १४, ४, ३८;

बौध.
मार्त्यव^१ - वम् अन्न ६,

१३^१; -वाय कौसू ५६, १३^६-
मार्त्यव^१ -त्यवः अपा ३, २,

१२^६.
मार्त्वी^१ -र्त्वी अन्न १०,

६; -त्यवः अन्न १२, २.
मृत्यु-काल- -ले वाध ६, ३.

मृत्यु-ग्रह^१ - -हः आपश्रौ १९,
१३, १७; बौश्रौ; -हम् बौश्रौ

१९, ५ : ११.
मृत्यु-जाति-प्राय- -ये मागृ ३,

१४ : २२.
ऋत्युं-जय^३ - -यम् बौध २, ५,

२५.
मार्त्युंजय^१ - -याय कौसू

५६, १३.
मृत्यु-तस(ः) अप ६३, ३, ५.

मृत्यु-दायक- -काः अप ७१, ७,
४.

१ मृत्यु-देवता- > श्य, त्या-
-त्यम् बौश्रौ २४, ३६ : ४;

-त्याम् शुअ ४, ४७; ५२.
२ मृत्यु-देव(त>)ता^१ - -ताः

ऋअ २, १०, १८.
मृत्यु-नाशन^१ - -नम् शुअ १,

६०७.
मृत्युं-धय^१ - -यम् वागृ १५,

११.
ऋत्यु-पाश- -शात् आपमं १,

४, ७; आगृ.
मृत्यु-पीत- -तस्य बौश्रौ १९,

५ : २२^६.
मृत्यु-भय- -ये अप ३१, ८, १.

- a) वस. । b) = मरण, तदधिष्ठातृ-देवता-। वैप १ द्र. । c) परस्परं पाभे. । d) ल्यु^१ इति पाठः? यनि. शोधः (तु. प्रकरणात्) । e) सपा. मंत्रा १, ६, १४ मत्थम् इति पाभे. । f) पाठः? ल्यो इति शोधः (तु. तैशा ६, ७, २) । g) = ऋषि-विशेष- । h) साऽस्यदेवतीयस्तस्येदमीयश्च अण् प्र. । i) ल्यम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. ष.) । j) = मार्त्यव-। यत्नेपः यथादेशश्च उसं. (पा ६, ४, १७५) । k) सपा. शौ ८, १३, ७ मार्त्यवः इति पाभे. । l) = ग्रह-विशेष-। m) = छद्-। n) स्वार्थे षण् प्र. । o) उप. कर्तारि कृत् । p) उस. उप. खञ्ज प्र. उसं. (पावा ३, २, ३०) ।

मृत्युभय-प्रद- -दाः अप ६२, १,३.
मृत्यु-भीरु- -रवः उनिस् ८ : ३३.
मृत्यु-मत्- -मान् वाधूश्रौ ४, ८४ : १.
मृत्युमती^१- -तीः बौश्रौ १९, १० : २, १.
मृत्यु-लाङ्गल^२- -लम् बौध ४, ३, ७.
मृत्यु-लोक- -कम् अग्रभू ८.
मृत्यु-वत्- -वन्तम् वाधूश्रौ ३, ४ : १; ४.
मृत्यु-विमोच(न>)नी- -नी ऋग्र २, ७, ५९.
मृत्यु-शस्त्र (स्त्र-अ)ग्नि-तस्कर- -रैः अप ५२, १५, १.
मृत्यु-संयुत- -तः तैप्रा ६, ७^३.
मृत्यु-सर्व^४- -वः बौश्रौ २४, ११ : २; -वेन बौश्रौ १८, १६ : १.
मृत्युसवा(व-अ)न्त- -न्ते बौश्रौ २३, १८ : २, २.
मृत्यु-सूक्त- -क्तेन आमिष्ट ३, ७, ३ : २४; बौपि २, २, २; हिपि १९ : ११.
मृत्व(स्यु-अ)न्तक- -कौ शाश्रौ १४, २२, ४.
म्रियमाण- -गस्य हिपि २१ : ३^५; -णान् विध २०, ३८; -ण आमिष्ट १६, १२, २; बौपि २, ६, १२.
मृ^६ वेज्यो १८.
मृकण्ड, षडु [पाउभो]^७- -पाग ४, १, १२३; पाउभो २, १, ५३.

मार्कण्डेय- पा ४, १, १२३; -याः बौश्रौ प्र ३ : १.
मुक्त- √मृच् द.
√मृक्ष् (वधा.)^८ पाधा. भ्वा. पर. संघाते; ^९चुरा. पर. म्रक्षणे म्लेच्छने संघाते च>मृक्ष^{१०}- -क्षः शाश्रौ १८, ८, १५^{११}.
मुक्षित- -तेषु काश्रौ सं २८ : २.
√मृग^{१२} पाधा. दिवा.^{१३} चुरा. आत्म. अन्वेषणे.
मृग(वप्रा.)^{१४}- -गः आश्रौ २, १०, १४^{१५}; शाश्रौ; आश्रौ १३, ७, १६^{१६}; वैश्रौ १६, ८ : ९^{१७}; हिश्रौ १०, ५, १^{१८}; अप ७०^{१९}, ६, ७; ७, २; वाघ ३, ११; शंघ ३७७ : १४; बौध १, १, ११; ऋ^{२०}या १, २०; ९, १९; १३, ३; पा ४, ३, ५१; -गम् माश्रौ ५, २, १०, २४; वाधूश्रौ; ऋया ५, ३; ६, २४; -गस्य आपमं ११३, ६^{२१}; आण्य; -गाः आपश्रौ १७, १८, १; अप; -गाणाम् अप १, ६, ६; ७०^{२२}, २३, १०; विध ४८, ६^{२३}; या १४, १३^{२४}; -गान् आपश्रौ २३, ११, १३; हिश्रौ १८, ४, १६; द्राश्रौ ५, ३, १६; लाश्रौ २, ७, १५; कौसु १२७, ५^{२५}; -ऋगेषु आपश्रौ १६, ३५, १; वैश्रौ १९, १ : ५; हिश्रौ ११, ८, २१; कौसु ११५, २; या १३, १६; -गैः आमिष्ट २, ७, १० : १५; बौध ३, २, १६; ३, २३.
मृगी- पावाग ६, ३, ४१.
मृगी-श्रीर- -रेण आपश्रौ

१७, ११ ३; वैश्रौ १९, ६ : ३५; हिश्रौ १२, ३, ४.
रमार्ग^{२६}- -गम् लाश्रौ ८, २, ९; काण्य ५, ९; शंघ २२२; आपघ १, १८, १; हिध १, ५, ७१; -गान् आपश्रौ ४, ३, ८; भाश्रौ ४, ४, ६; हिश्रौ ६, १, ३७.
मार्ग-वासस्^{२७}- -साः वाण्य ६, ३; काण्य १, २; माण्य १, १, २.
मार्ग-वैयाघ्र-बास्त- -स्तानि विध २७, २०^{२८}.
मार्गिक- पा ४, ४, ३५.
मृग-क्षीर- पावा ६, ३, ४१.
मृग-ग्रहण- -णे वाघ २८, ८; बौध १, ५, ४९; विध २३, ४९.
मृग-चप(ल>)ला- पावाग ६, ३, ४१^{२९}.
मृग-चार-> ऋिक- -काः वैध १, ८, १.
मृग-जीविन्-> ऋि-श्ववृत्ति- -त्तिनाम् शंघ ४३^{३०}.
मृग-तीर्थ^{३१}- -र्थम् आश्रौ ५, ११, ३; द्राश्रौ ५, २, २२; लाश्रौ २, ६, १५.
मृग-द्विज- -जैः अप ६३, २, ३.
मृग-पक्षिन्- -क्षिगः अग ६२, १, ४४; -क्षिगाम् आमिष्ट २, ७, ७ : ४; अप; -क्षिभिः बौध ३, ३, २१; -क्षिषु अप ५०, ९, ६.
मृग-पद- पावाग ६, ३, १.
मृग-मय- -यः या ९, १९.
मृग-महिष-गण्डक-वराह-शरभ- (म-ऋ)क्षि-सिंह-व्याघ्र-मण्डक-

a) = ऋग्-विशेष-। b) = मन्त्र-विशेष-। c) = याग-विशेष-। d) = मृगशिरो-नक्षत्र-।

e) = ऋषि-विशेष-। f) = √मृक्ष्। g) तु. BPG.। h) या ९, १९ परामृष्टः द्र.। i) वैप १ द्र.।

j) पाणे. वैप १ वृषा शौ ३, ७, २ टि द्र.। k) विकाराथे प्र.। l) वस.। m) ऽघ्रवा० इति जीसे.। n) तु. चयम्.। o) = [सवनान्ते] बहिःसर्पणमार्ग-।

सूकर-मत्स्य-ग्राह-शिंशुमार-

हुण्डुमा(भ-अ)दि- -दोनाम
काथ २७१: ९.

मृग-मांस- -सैः अप १, २७, २.

✓मृगय> मृगयु- पाठ १, ३७;
-युः अप्रा ३, १, १४^क; -युम्
शुप्रा ५, २१^क; -योः वाध १४,
१४; १९; आप्रथ १ १९, १४;
हिध १, ५, ११६.

मृग-यो न- -नयः विध ४४, ७.

मृग-रमण- -गे पावा ६, ४, २४.

मृग-लोमन्-> षिक- -कानाम्
विध २३, २४.

मृग-वत्- -वान् अप ७१, १५, ७.

मृग-वाचि-त्व- -त्वात् पावा ७, १,
९६.

मृग-व्याघ^ब- -घः अप्र ४३, ५, ९^क;
५२, ९, ५^द; विध ४५, २३^द;
-घाय वैगृ ५, २: २९^द.

मृग-शकुनि-गण- -णः अप ७०^३,
११, २६.

मृग-शिर^१- -रम् अप १, ४, १.

मृग-शिरस्^२- -शिरः काय १४,
१०; वैगृ; -रसि आप्रौ २, १,
१०; माश्रौ; -रसे शांग्र १,
२६, ३; पागृ ३, २, ३; अशा^३
१२, १.

मृगशिरः-अविष्टो(ष्ठा-उ)त्तर-
-राणि वागृ १०, ४.

मृग-शीर्ष^४- -र्षम् हिश्रौ ३, २, ४;
बौगृ १, १, २०; -र्षाय वैगृ ३,
२०: ४; -र्षे आप्रथ्रौ ५, ३, ६;
भाश्रौ ५, १, १०; -र्षेण वाधुश्रौ

२, १८: ३.

१मार्गशीर्ष-> षी^५- -र्ष्याः
आपृगृ १९, २; हिगृ २, १६, १०;
-र्ष्याम् हिश्रौ ५, ३, १; ४४;
वैश्रौ; -र्ष्ये बौश्रौ १८, ११: २;
पागृ ३, २, ३.

२मार्गशीर्ष^६- -र्षे अप
५५, ३, १; विध ३, ४०.

मार्गशीर्ष-ज्येष्ठ-

मास- -सयोः वैध १, ५, ५.

मार्गशीर्ष-पौर्णमासी-

-त्याम् आप्रिगृ २, ५, ८: १.

मार्गशीर्ष-पौष-मा-
घा(घ-अ)परपक्ष- -क्षेपु कौसू
१४१, २४.

मार्गशीर्ष-शुक्ल-

पञ्च-दशी- -श्याम् विध
९०, १.

मार्गशीर्ष-शुक्लै-

(क्ल-ए)कादशी- -श्याम् विध
४९, १.

मृग-शृङ्ग- -ङ्गम् वैताश्रौ ११, २५.

मृग-संयोग- -गे शुप्रा २, २५.

मृग-हन्तृ- -न्तुः विध ५१, ६३^१.

मृगा(ग-आ)खर^७- -रात् कौसू ३४,

१४; -रे आप्रथ्रौ २०, ७, १२;

बौश्रौ १५, ८: ११; २४, १०:

१५; अप्राय ६, ७.

मृगाखर-कुलाय-मृत्तिका->

का-रोचना-गुग्गुल- -लाः मागृ
२, १४, २३^१.

मृगा(ग-अ)र्थ- -र्थस्य अप्र ४६,

१, ९; -र्थेषु अप्र ४६, १, १०.

मृ(ग>)गा-व(त् >)ती^८- पाभ
६, ३, ११९.

✓मृगि, मृगयन्ते या ५, ३^क.

मृगयत्- -यज्जयः कौसू १२७,
५^क.

मृगया- -याम् आप्रथ्रौ २३,
११, १२; बौश्रौ; -यायाम् शंघ
१७७.

मृगय(या-अ)क्ष स्त्री-पाना-
(न-अ)भिरति- -तिम् विध ३,
५०^१.

मृगार^९- -रः आप्रिगृ २, ४, ५: ८^९;
बौध ४, ७, ५; अज ४, २३^९; -रैः
कौसू २७, ३४.

मृगार-संज्ञक- -कानि अत्र ४, २३.

मृगार-सूक्त- -क्तानि कौसू ९, १;
अप ३२, १, १८; २६.

मृगारे(र-इ)ष्टि^{१०}- -ष्टिः बौश्रौ २८,
१: ३३; वैश्रौ २०, ३४: ४;
बौध ४, ६, २; -ष्टिम् आप्रथ्रौ
२०, २३, २; वाश्रौ; -ष्टेः माश्रौ
५, २, ११, ४८; हिश्रौ १४, ५,
१४; -ष्ट्या वैश्रौ २०, ३३: ४.

मृगारेष्टि-पशुपुरोडाश- -शानाम्
वाश्रौ ३, ४, ५, २७.

✓मृचू, मर्चयति शैशि ९२.

मर्चयत्^{११}- -र्चयता आप्रमं २, १, ७;

आगृ १, १७, १६; भागृ २, १९:
६; हिगृ १, ९, १६.

मृक्त-> ऋक्त-वाहस^{१२}- -हाः ऋभ
२, ५, १८; साश्र १, ८५.

मृचय^{१३}- -यस्य आप्रौ ६, ५, १८^१.

मृचय-, मृचय- ✓मृद् द्र.

a) वैप १ द्र. । b) बप्रा. । उस. । c) = शिव- । d) = ऋषि-विशेष- । e) = लुब्धक- ।
f) = नक्षत्र-विशेष- । g) = पौर्णमासी- । h) = मास-विशेष- । i) 'गंह' इति जीसं. । j) 'ना गु'
इति बडोदासं. । k) तु. पागम. । = नदी-विशेष- । l) 'नैवभि' इति जीसं. । m) = मृगारेष्टि-मन्त्रगण-
(अग्नेर्मेन्वे [तै ४, ७, १५, १] प्रमृ)- । n) पृ ८ द्र. । o) = याग-विशेष- । p) पाभे. वैप १, २५१६
० द्र. । q) वैप २, ३ खं. द्र. । r) पाभे. वैप २, ३ खं. मृचयस्य एवा ४, १० टि. द्र. ।

√मृज्^१ पाधा. अदा. पर. शुद्धौ;
 चुरा. उभ. शौचालंकरणयो;
 मारिष्टि वैश्रौ १२, ७ : ११;
 आम्रियु; निघ २, १४^{११}; मृजाते
 बौश्रौ २६, ५ : १७; ँमृजन्ति
 आश्रौ ५, १२, १५; शाश्रौ ७,
 १५, ७^३; ऋप्रा ४, ८३; ँमृज्महे
 आपश्रौ ९, ३, २२; हिश्रौ १५,
 १, ७१^{१०}; ँमृज्द्वम् कौस्
 ७१, १६; ८६, १९; अमृजत
 बौश्रौ २४, २७ : २; मृज्यात्
 जैश्रौका १००.
 मिमारिष्टि पागृ ३, ६, २.
 ँमामृजुः आपश्रौ १, ४, १५;
 भाश्रौ; ँमृजन्त ऋअ २, ९,
 २६.
 ँमृज्यते बौश्रौ २८, २ : ४५,
 मर्जयन्ति वैताश्रौ १०, १९;
 ँमर्जयन्त आश्रौ २, १६, ७;
 शाश्रौ ३, १३, १७; या १२,
 ४३^{११}.
 मर्जयते आपश्रौ ६, १४, ६;
 ११, २, ३; १४, ९, ३; काठश्रौ;
 मर्जयति बौश्रौ २, ८-९ : १८;
 १० : ३०××; माश्रौ; मर्जयेते
 बौश्रौ १, २० : १७; ४, १० :
 १८; भाश्रौ; मर्जयन्ते आश्रौ ३,
 ५, १; शाश्रौ १, १२, ८;
 काश्रौ; मर्जयन्ति वाश्रौ ३,
 ४, १, २८; वैताश्रौ ८, २०;
 मर्जयताम् आश्रौ १, ११, ७^{११};
 ँमर्जयन्ताम् आश्रौ १, ११, ७^{११};
 शाश्रौ; मर्जयस्व बौश्रौ ६, १९ :
 २५; मर्जयेत द्राश्रौ १५, १, १६;

लाश्रौ ५, ९, १४; जैगृ १, १३ :
 १; मर्जयेत् आम्रियु १, ६, ३ :
 २१; मागृ २, २, २७^{११}; मर्जयेत्
 द्राश्रौ १२, ३, ५; लाश्रौ ४, ११,
 ७; जैगृ १, २१ : ३१.
 मर्जयेत गौघ २६, १०; मर्ज-
 येत् गौघ १४, ३६.
 अमृजन्त बौश्रौ ५, १५ :
 १६^{११}.
 मर्ज्यते बौश्रौ १०, २ : १७××;
 पावा ७, ४, ९१; ँमर्ज्यन्ते
 आपश्रौ १८, १५, ३; हिश्रौ १३,
 ६, ३९; मर्ज्य पा ७, ४, ६५^{११}.
 ँमृजन्ते कौस् १२४, ४;
 ँमृज्म > जमा ऋप्रा ७, ३३.
 ँमर्ज्य^{११} -ज्यम् वाश्रौ ७, १५, ७.
 मर्ज्यमान, ना- ँना आपश्रौ ४,
 ५, १; भाश्रौ ४, ६, ४; हिश्रौ ६,
 २, २; -नासः पावा ७, ४, ९१.
 मर्ज्य- पा ३, १, ११३.
 मर्जन्- नम् आश्रौ १, ८, २; २,
 १९, १३; ३, ५, ३; ४, २, ६;
 काश्रौ ४, २, ४०××; आपश्रौ;
 -नात् आश्रौ १, १२, १७; वाश्रौ;
 -नानि माश्रौ ४, ३, ४३; -ने
 बौश्रौ २३, १९ : २३; जैश्रौका
 ८३.
 मर्जनी- -०नि^{११} वाश्रौ ३, २,
 ५, ३२; द्राश्रौ ११, ३, १०; लाश्रौ
 ४, ३, ११; -नी आपश्रौ ४,
 १०, ८; भाश्रौ ४, १६, १; हिश्रौ
 ६, ३, २.
 मर्जन्-कर्मन्- -मणि जैश्रौका
 १२९.

मर्जन्-अभृति- -तीनि हिश्रौ ८,
 ७, ६१.
 मर्जन्-मन्त्र- -न्त्रम् वैश्रौ १६,
 २५ : ४.
 मर्जन्-वेला- -लायाम् माश्रौ
 ४, १, २०.
 मर्जन्-सादन- -ने वैश्रौ १५,
 १५ : ९.
 मर्जना(न-२अ)घ- -घैः वैघ
 ३, ४, ३.
 ँमर्जना(न-अ)न्त- -न्ते पागृ
 ३, २, ५.
 २मर्जना(न-अ)न्त^{११} -न्तम्
 वैताश्रौ २४, ७.
 मर्जो(न-उ)पलेपना(न-अ)
 प्लेक- -कैः वैघ ३, ४, ३.
 मर्जो(न-उ)पाजन- -नैः विघ
 २३, ५६.
 मर्जयित्वा आश्रौ १, ८, १; १३,
 २××; आपश्रौ.
 मर्जित- -ते काश्रौ ६, ७, २९; ९, ७;
 ९, १२, १; वाश्रौ १, १, ५, १६.
 मृजा- पाग ३, ३, १०४^{११}.
 मृजान- -नः आश्रौ ५, १४, २४;
 शाश्रौ १०, १३, ५^{११}; -नाः काश्रौ
 २२, ४, २६^{११}; लाश्रौ ८, ६, २८;
 कौस् ८४, १०.
 मृज्य- पा ३, १, ११३.
 मृज्यमान- -नः आश्रौ ५, १२,
 १५^{११}; -ने आश्रौ ५, १२, १७.
 ँमृष्ट- -घः शुअ १, ३, ४४^{११}.
 मृष्ट-लुञ्जित- पाग २, २, ३१.
 मृष्ट-व(त् >)ती^{११} -तीः शाश्रौ
 ७, १५, ७.

d) या १, २०; १३, ३ पा ७, २, ११४ पावा १, १, ३; ६, १, १३ परामृष्टः द्र. । b) घा. गतौ वृत्तिः ।

c) घ^{११} इति पाठः? यनि शोधः (तु. सपा. शौ १२, २, १३) । d) मर्जयेते इति Kn. । e) लिटि प्रपु १ रूपम्
 इति पाका. प्राप्ति. । f) वैप १ द्र. । g) भाप., नाप. । h) विप. (पुंश्रुली-) । कर्तरि कृत् । i) बस. ३।

j) सजा- इति पाका. । k) पाभे. वैप १, २००० h द्र. । l) = ऋग्-विशेष- ।

मृष्टा(ष्ट-अ)अन-पद-स्वर^२-रन्-
वैप ३, १९ : ५.
मृष्ट्वा आश्रौ १२, २९, ९५×;
बौश्रौ.
√मृड्, ल् (वधा.)^{१००} पाधा. तुदा.
पर. सुखने; कया. पर. क्षोदे
सुखे च, ँमृडाति आपम २,
१८, ४७; या १०, १५६; मृडातः^१
शुप्रा ४, ३१०; मृड-
तात् अप्रा २, ४, १८०; मृड-
ताम् सु ३१, ३०; ँमृड, > डा
आश्रौ ३, ८, १; ८, १०, ३;
शाश्रौ; ँमृडतम् वैताश्रौ २९,
१०; कौस्; ँमृडत > ता
आपश्रौ २, २०, ६; भाश्रौ.
मृडयाति शाश्रु ६, ५, ६०;
मृडयताम् आपम २, १७,
१४; १९; ँमृडयन्तु वाश्रौ ३,
२, ५, २१; आपमं; या १०,
१६६; ँमृडय, > या आपश्रौ
९, १, ११; भाश्रौ; मृडयत आपमं
२, १७, २५.
मृडिन्-त्ता या १४, २८; -तारम्
बौश्रौ २४, १३ : १०
मृडि-डः सु ९, ४; अप ५२, १०,
१; -डाय आश्रु ४, ८, १९१^{१००}.
मृडानी- पा ४, १, ४९.
मृडक- पाठना ४, २५.
मृडङ्ग- पाठ ४, २४.
मृडयत्^० -यद्भ्याम् ऋप्रा ७,
१९; -यन्तः ऋप्रा ८, २४.

मृडित्वा वाधुश्रौ ४, ७४ : ९.
मृडोक्^०- पाठ ४, २४; -कः^१ ऋष
२, ९, ९७; १०, १५०; -कम्
आमं १, ४, १५; आश्रिप १,
५, ४ : ११; अप्राय ४, १.
मृडाक^०- -कम् आपश्रौ ८,
१४, २४.
मृडाकु^१- (>मार्डाकव- L >
वायन-] पा.) पाग ४, १,
१०४; १००.
√मृण पाधा. तुदा. पर. हिंसायाम्,
मृणन्ति बौश्रौ १८, २१ : ५;
मृणमृणः लाश्रौ ७, १०, १२८;
निसू ७, ११ : ८.
मृणाल^१- पाठ १, ११८^६; पाग २,
४, ३१; ५, २, १३५; ६, ३, १०८.
मृणाल-कोमल- लौ विध १, २५.
मृणाल-पद्म-दूर्वा(र्वा-आ)भ-
कुमुदो(द-उ)त्पल-गन्ध-
सुक्^३-सुक् अप २४, २, ५.
मृणाल-पद्मा(द्म-अ)निल-
तुल्य-गन्ध-न्धे अप २४,
५, २.
मृणाल-फलक- कानि अप ६८,
१, ३१.
मृणाल-बद्ध- द्वाः अप ७०^३, ११,
२०.
मृणाल(त् >)नी- पा ५, २, १३५.
मृ(णि >)णी^१- -ण्यः अप ४८, १३०^१.
√मृण्^० पाधा. चुरा. पर. प्रेरणे.
मृण-भय- प्रमृ. √मृद् द.

मृमृत- √मृ द.
मृमृत- पाठ ३, ८८.
मृमृतक- प्रमृ, मृति- √मृ द.
मृमृत्वन-, मृत्तिका- प्रमृ. √मृद् द.
मृमृत्यु- प्रमृ. √मृ द.
मृमृत्सा-, मृमृत्सा- √मृद् द.
√मृद्, प्रद्^१ (वधा.)^१ पाधा. भ्वा.
आत्म. मर्देने; कया. पर. क्षोदे,
मर्देति अप ७०^३, ३, २^१; विध २,
१४^१.
मृदति अप ४८, ३८^१.
मृदनाति माश्रु २, १४, ४; अप
४८, १९^१; मृदनीयात् माश्रौ
२, १, ३, १६; १७.
मर्देयेत् आश्रौ ३, २.
मर्देयिष्यति अप ४, १, १३^१.
मर्दे^१->र्दे-कर्मन्- -र्मभ्यः अप
४५, २, १९.
मर्दित- -ताः अप ४, १, १३^१.
मृद्^०- पाग ४, ३, १४२; मृत् काश्रौ
१६, १, २०; बौश्रौ ९, ३ : २३;
४ : २५××; वाधुश्रौ; बौध
१, ६, ३६; विध २२, ८८; मृदः
आपश्रौ १५, ३, १०; १६, ५, ४;
बौश्रौ; मृदम् काश्रौ १६, २, २१;
आपश्रौ; आश्रिप २, ६, ८ : ३^१.
मृदा काश्रौ १६, ७, ९; आपश्रौ;
मृदि आपश्रौ १६, ४, ४; बौश्रौ;
मृद्धिः अप ४२, १, ६; शोध १०३;
१६२; विध २३, ४२; ६०, २४.
मृत्-चय- -यः या ६, ११^१.

a) बस. > दस. । b) या १०, १५; १६ पा १, २, ७ परामृष्टः द. । c) वैप १ द. । d) वैप १,
२५१८ g द. । e) सपा. मै २, १३, २१ मृडताम् इति पाभे. । f) विप. > व्यप. । अर्थः ? । g) 'दा' इति
पाठः ? यनि. शोधः (तु. जीसं. old. MW.) । h) = रुद्र. । i) व्यप. । j) = बिस. । k) < √मृण् ।
l) तु. पागम. । m) विप. (अनल.) । दस. > बस. > कस. > दस. > षस. > उष. । n) = सीमिक- । व्यु. ?
< √मृण् [हिंसायाम्] ? । वज्रयः इति संस्कृतुः शोधः ? । o) तु. BPG. । p) पा ७, ४, ९५ परामृष्टः द. ।
q) पा १, २, ७ परामृष्टः द. । r) धा. गतौ वृत्तिः । s) धा. सुखने वृत्तिः । t) भाप. । u) प्रकरकृतः
= श्लोष्ट- । v) उप. < √चि [चयने] ।

सृच्-छ (<श)य^३- -यः आश्रिष्ट
२,४,११:३.

सृच्-छि (<शि)ला-मय-
-येभ्यः वैध २,७,२.

सृण्^३न्-मय- पा ४, ३, १४२;

-यः बौश्रौ २६, २२ : २०; अप
२३, १, ४; ३३, ६, ६; -यम्

काश्रौ १९, ३, १२१; २५, ५, २९;

आपश्रौ; आश्रिष्ट २, ४, ६ : ७; ६,
८ : १; वैध २, ८, ३; -यान्

याशि २, ९३; -यानाम् अप
२१, २, १; बौध १, ६, ३३;

विध २३, ३३; काध २७७ : ९;

-यानि आश्रौ ३, १४, १२;
काश्रौ; -ये आपश्रौ १, ७, ९;

पाय; -येन आपश्रौ १, १४,
४xx; बौश्रौ; बौपि २, ७, ५१^०.

सृन्मथी- -थी वैश्रौ ११,
९ : ७; कप्र २, ५, १२; -थीः

आपश्रौ १६, १३, ६; माश्रौ;
-थीम् शुषा ५, २०^१.

सृण्मय-भाजन- -ने आश्रिष्ट
३, ९१ : १७^१.

सृण्मय-भोजन^०- -नाः^१ बौपि
२, ६, ६^१.

सृण्मया(य-अ)श्ममयौ (य-
औ)हुम्बर- -नाणि शंघ २१७.

सृण्मय-पात्र- > ^०त्र-पतित-
शिष्टाञ्च-भोजिन्- -जी शंघ
३७९.

सृण्मयपात्र-भोजिन्-
-जिनः वैश्रौ २०, २३ : ४.

सृण्मय-भोजन- -नाः हिपि
२२ : १४^१.

सृन्मय-वर्जित- -तम् गौपि
२, ३, २१.

सृन्मया(य-अ)पान^३- -नम्
काश्रौ २२, १, ३०.

सृन्मया(य-अ)श्ममय-
-यानाम् काश्रौ २५, ७, ३५.

सृत्-खन^३- -नः आपश्रौ १५, १,
९; भाश्रौ ११, १, १२; वैश्रौ १३,

१ : १२; हिश्रौ २४, १, ६; -नम्
आपश्रौ १५, १, १०^२xx; भाश्रौ;

-नात् आपश्रौ १६, २, ११;
हिश्रौ ११, १, २३; -ने आपश्रौ

१५, १, १०; १६, ३, ७; भाश्रौ.
सृत् ति(क>)का^१- पा ५, ४,

३९; -का शंघ ५३; ४५२; शुषा
६, २६^१; -काः वाध ६, १७;

१८; शंघ ५३^२; १०२; -काम्
वैश्रौ १८, १ : ५७; द्राश्रौ; -^१के

आश्रिष्ट २, ६, १ : २५; २७.
मार्त्तिका^१- -कः बौश्रौ

२३, १८ : १०; -कम् माश्रौ १,
२, १, ९; १०; माश्रु २, १५, ५;

अप्राय ६, ५; -कान् वाश्रौ ३,
१, १, १४; -कानि बौश्रौ २२,

२ : २१; -के वाश्रौ ३, २, ५, २१;
-केन माश्रौ १, २, १, ८.

सृत्तिका-स्नान- -नम् अप १,
४४, १.

सृत्-तोय- -यैः विध २२, ७७;
७८; ९१; ६४, १८; वैध ३, ३, ३.

सृत्-पात्र- -त्रम् वैश्रु ५, ४ : १५;
-त्राणाम् सुध ३०; -त्रे वैश्रु ७,

६ : ९; -त्रैः वैश्रु ५, ७ : १०.
सृत्पात्र-लोह- -हानाम् सुधप

८७ : १३.

सृत्पात्र-विनियोग- -गे
अप्राय ३, ८.

सृत्पात्र-संपुट- -टम् कप्र ३,
४, १२.

सृत्-पिण्ड- -ण्डः बौश्रौ २६,
२७ : १३; शुश्र २, ५८; -ण्डम्

काश्रौ १६, २, २; आपश्रौ;
-ण्डान् बौध २, ३, ७; वैध २,

१४ : १; -ण्डानाम् वैश्रु ५, ३;
१; -ण्डानि वैश्रु ५, २ : २३;

-ण्डेन वैश्रु ५, ३ : १३.
सृत्-पिण्ड^१- -ण्डः याशि २,
९१.

सृत्-प्रक्षेप- -पेण विध २३, ३८^१.

सृत्-(स >)सा- , सृत्-(स्न >)
स्ना- पा ५, ४, ४०.

सृद्-अरिष्टके(क-इ)ङ्गुड-बिल्व-
तण्डुल-सर्षपकल्क-त्तार-गोमूत्र-

गोमया(य-आ)दि- -दीनि शंघ
१६८.

सृद्-गोमय-जल- -लैः शंघ १६४.

सृद्-ग्रह(ण >)णी^१- -णीम् वैध
२, ६, २; ३, ८, २.

सृद्-दि(वध >)ग्धा- -ग्धाः
काश्रौ १६, ५, २.

सृद्-द्वय- -यम् वाध ६, १८.

सृद्-भस्म-गोमूत्र-क्षरो(र-उ)
दक- -कैः शंघ १७४.

सृद्-भस्म-मिश्रित- -तेन बौपि
२, ८, ७.

सृद्-भाण्ड- -ण्डानाम् अप
६४, ५, १.

सृद्-वारि- -रि विध २३, ३९

a) उप. कर्त्तरि कृत् । b) अप ३३, ६, ६ आश्रिष्ट २, ४, ६ : ७ प्रमृ पाठः । c) सृन्मयम् इति शोषः [तु. B.] । d) प स्वरं पाठे । e) बस. । f) भोजिनः इति B. । g) चौसं. । उप.अ-पा^० इति । h) = [सृत्खन-नीय-गर्त-] उप. अधिकरणे प्र. । i) वैप १ द्र. । j) विकारार्थे प्र. । k) सृद्-क्षे^० इति जीसं. । l) नाप. । उप. अधिकरणे कृत् ।

सृहारि-शुचि- -विः विध
२२,८९.
१सृदु- पाठ १, २८; पाग २, १,
७०; ५, १, १२२; २, ९७; -द्वः
अप ६८, १, ४०; -दु नाशि
२, ७, ९; -दुः आपध १, ३, १७;
५, ११; हिश्रौ; नाशि १, ७, १३^३;
-दुम् शाश्रौ १७, ३, १६; याशि
१, ६१; नाशि १, ६, १०^३; -दूनि
आज्यो १४, ६.
मादैव- पा ५, १, १२२;
-वम् आपध १, २३, ६; हिध १,
६, १४; तैषा २२, १०.
†सृदु-क^०- -कम् द्राश्रौ ११, २,
९; लाश्रौ ४, २, ८.
सृदु-कर्मन्- -मंसु अशा १, ४;
३, २; ५; ५, ६.
सृदु-तर- -रः तैप्रा २०, ११;
माशि ८, ३^३; -रौ माशि ८, २.
सृदु-ता- पा ५, १, १२२; -ता
कौशि ४.
सृदु-तृण- -णैः गोग ४, ७, ११;
द्राय ४, २, ११.
सृदु-त्व- पा ५, १, १२२; -त्वम्
नाशि १, ७, १२; मीसू १०, ८,
५१.
सृदु-दारुण- -णाः अप ५२, १६,
१.
सृदु-ध्रुवो(व-उ)प्र-क्षिप्र- -प्रेषु
अप ५२, १५, ३.
सृदु-नादिन्- -दिना माशि ४,
४.

सृदु-पद-वर्ग-स्वर-कुहरण-
युक्त- -कम् नाशि १, ३, ९.
सृदु-फलो(ल-उ)दय^०- -याः
अप ५८^२, ४, १८.
सृदु-मण्डल- -ले अप ६२, १, ८.
सृदु-मध्यम- -मयोः नाशि १,
७, ९.
सृदु-मध्या(ध्या-आ)य (त >)
ता^१- -ताः नाशि १, ७, ११.
सृदु-मन्द-दिवाकर^०- -रः अप
६२, २, ७.
सृदु-ल- पा ५, २, ९७.
सृदु-वाच्^०- -वाचः या ६, ३१.
सृदु-स्पर्श- -शंस माशि १६,
१२; याशि २, १०६.
सृदु(दु उ)दर^०- -रः, -रेषु या
६, ४.
सृदु√भू >सृदु-भाव- >व-
कर्मन्^०- -मैगः या ५, १५.
सृदु(दु-अ)ङ्ग^०- -ङ्गाः अप ६८,
१, १०.
सृदु(दु-अ)वग्रह^०- -हेण ऋप्रा
१५, १६.
अदिमन्- पा ५, १, १२२.
अदिष्ट^१- -ष्टात् आश्रौ ५, १७,
५.
अदीयस्- -यान् माश्रौ २, १,
१, १९^१.
सृदु- √सृद् द.
१सृदु^०- -दान् वाधूश्रौ ४, ५९^१: ७.
२सृदु^०- (>मादै- [>वायन-]
वा.) पासा^१ ४, १, १०४; १००.

सृदुङ्ग^१- पाठ १, १२१^३; -ङ्गम् काय
१७, २; -ङ्गाः अप ७०^३, २, २;
-ङ्गानाम् अप ६४, ४, २; -ङ्गेन
पावा २, २, ३४.
सृदुर- पाठ ५, ४१.
सृदुरिष्ट^० प्रसृ. √सृद् द.
२सृदु^० - (>मादैव- [>वायन-])
मादैव^१- >व-पुर- पा ६, २, १०१.
सृदुर^०- -रः आपध १, १७, ३९; हिध
१, ५, ७०.
सृदुगो^० प्रसृ. √सृद् द.
सृद्य माश्रौ १, ८, ५, ८.
सृद्वीका^०- पाठभो २, २, २०; -काम्
शंघ २२०.
सृद्वीका-रस-माध्वीक^०- -के विध
२२, ८३^११.
√सृध्र(वधा.)पाघा. भ्वा. उभ. उन्दने,
सृधति आश्रौ २, १०, १६^१;
†सृध >धा^१ आश्रौ २, ९, १०;
कौय ३, ५, २; शांय ३, ८, ५.
सृधन्ति काश्रौ २२, ३, ४५.
†सर्धाः बौश्रौ १३, १४: ३;
हिश्रौ २२, ४, ६; सृधः शांय २,
१८, ३^११.
सृध- -द्वस्य हिण् १, १५, ३^१.
†सृध्^०- -सृधः आश्रौ २, १०,
१४^२; १८; १३, ८××; आपश्रौ.
†सृध्र^०- -ध्रम् बौश्रौ ७, ३: १६;
-ध्रस्य आपमं २, २२, १^१.
†सृध्र-वाच्^०- -वाचः या ६,
३१^१; उस् २, १६; -वाचम्
उस् २, १७.

a) ँदु इति लासं. b) रार्थे कः प्र.। वा. क्वि.। c) कस. > वस.। d) ँदु इति लसं।
e) वस.। f) तु. आन.। सृ इति BI. ?। g) स्वरूपम्? यव-पर्याय- इति वा यव- इति शोधो वेति संस्कर्ता।
h) व्यप.। i) तु. पाका.। २सृदु- इति भाण्डा.। j) = वाद्य-विशेष-। k) <√सृद्। l) अपत्ये ढकि (पा
४, १, १२३) उकार-लोपः। m) = मकर-। n) = द्राक्षा-। o) वस. > दस.। p) सृधि इति पाठः? यनि.
शोधः। q) पाभे. वैप २, ३३६. जूपागः तैत्रा २, ५, ३, १ टि. द.। r) सपा. मंत्रा २, १, १४ (तु. आन. [आश्रौ.])
सृधा इति पाभे.। s) पाभे. पृ ११७६ द. द.। t) पाभे. पृ १४३ ० द.। y) वैप १ द.।

मृन्-मय- प्रसृ. $\sqrt{\text{मृद्}}$ द्र.
 $\sqrt{\text{मृत्}}$ पाधा. तुदा. पर. आमर्शने >
 मरीमृत्^३ - शम् अप्रा ३, ४, ११.
 मृत्त्रय^० - यस्य शांश्रौ ९, २०,
 २६.
 $\sqrt{\text{मृष्}}$ (माधुर्ये) > २मृष्ट-ष्टम् विध
 ६८, २६.
 मृष्टशान्तिकरण- गानि वाश्रौ
 ३, ४, २, ४.
 मृष्टा(ष्ट-त्र)शन- -ने विध ९९,
 १८.
 मृष्टा(ष्ट-त्र)शिन- -शी विध
 ४५, २७.
 $\sqrt{\text{मृष्}}$ पाधा. भ्वा. पर. सेचनसहनयोः;
 दिवा. चुरा. उभ. तितिक्षायाम्,
 मृष कौसू ३, ७६; १३७, ३९६.
 मर्मर्ष बृदे ४, १३; $\sqrt{\text{मीमृष}}$:
 द्राश्रौ ७, २, ७; लाश्रौ ३, २, ७;
 आश्रु १, २३, २५.
 मर्षण^३ - गः शोध २४४.
 मृष्^३ - मृषा शांश्रौ १६, १६, ३१;
 आपश्रौ; सु ६, ४; कप्र २, १०,
 १; बौध १, १०, ३४; ३५; विध
 १०, ९; या १, ५; पाग १, ४, ५७.
 मृषा-वादिन्- -दी वाधुश्रौ ४,
 १० : २४.
 मृषो(षा-उ)घ^१ - पा ३, १, ११४;
 -घम् आपध १, २३, ५; दिघ
 १, ६, १३.
 १मृष्ट- $\sqrt{\text{मृज्}}$ द्र.
 २मृष्ट- $\sqrt{\text{मृष्}}$ (माधुर्ये) द्र.
 मृष्ट्वा $\sqrt{\text{मृज्}}$ द्र.
 $\sqrt{\text{मृक्}}$ पाधा. ऋया. पर. हिंसायाम्.

$\sqrt{\text{मे}}$ पाधा. भ्वा. आत्म. प्रणिदाने.
 मे पाग १, ४, ५७.
 मेकल^३ - पाउभो २, ३, ११७.
 मेकलालयौ अप ५६, १, २.
 मेक्षण- , क्षयित्वा $\sqrt{\text{मिक्ष्}}$ द्र.
 मेख(ल)ला^३ - पाउभो २, ३, ११७;
 पाग ५, २, ११६^३; १३६^१; ६,
 ३, १०८^१; -लया भाश्रौ १०,
 ६, १०; वैश्रौ १२, ८ : १२;
 आम्रिष्ट १, १, २ : ३५; भाग्य; -ला
 आपश्रौ १०, ९, १३; वैश्रौ; -ला:
 वैश्रौ १, ३ : ७; आश्रु १, १९,
 १२; बौध १, २, १४; गौध;
 -लाम् काश्रौ ७, ३, २२;
 आपश्रौ; पाग २, २, ८; ६, १५;
 बैगु ६५ : ६; आम्रिष्ट १, ३, ३ :
 १; आपगु १० ११; १२, ४; कागु
 १, ६; ४१, ११; बौगु २, ५, १३;
 ७०; ७२; भागु १, २ : ६; २,
 १९ : १०; मागु १, १, २; २२, ७;
 ८; २३, २७; वागु ५, ७; ४२;
 ६, ३; वैगु २, ५ : १३; हिगु १,
 १, १७; ९, १०^२; गोगु २, ४,
 २२; जैगु १, १२ : ४४; १९ : ५;
 द्रागु ३, १, २०; कौसू ५६, १;
 ५७, १; विध २७, २९; वैध २, ७,
 ७; -लायाः काश्रौ २६, १, १७;
 आपश्रौ १३, १८, ७; कौसू ४७,
 १७; -लायाम् वाधुश्रौ ३, १० १:
 ३; वैश्रौ ३, ३ : ८; -ले बौश्रौ
 ८, २० : १९; वैश्रौ; - $\sqrt{\text{मृं}}$ ले
 आपमं २, २, १०; कौगु.
 मैखल^० - लम् गुञ्ज १, २४९.

मेखला-क्षेत्र- -त्रम् अप ३०^१, १, ८.
 मेखला-च्छेदन- -ने आम्रिष्ट २, ७,
 ४ : ५.
 मेखला-त्रय- -यम् अप ३०^१, १, ९.
 मेखलात्रय-संयुन- -तः काश्रु ७,
 २२.
 मेखला-दण्डा (पड-त्र) जिन्नो(न-उ)
 पवीत-धारण- -णम् विध २८,
 ८.
 मेखला(ला-आ)दि- -दि काश्रौ ७,
 ४, ५; ९; -दीन् वैध २, २, २७;
 -दीनि वैगु २, १४ : ४^३; अप
 ३७, १६, १.
 मेखला-देवताक- -कम् अत्र ६,
 १३३.
 मेखला-धारण- -णत्र आम्रिष्ट २,
 ७, १ : ११.
 मेखलाधारण-भैक्षचर्य-दण्डधा-
 रण-समिदाधानो (न-उ) दको-
 पस्पर्शन-प्रातरभिवाद- -दाः
 गोगु ३, १, २५^१.
 मेखलाधारण-भैक्षचर्य-दण्ड-
 समिदाधानो (न-उ) पस्पर्शन-
 प्रातरभिवाद- -दाः द्रागु २, ५,
 १६^१.
 मेखला-यज्ञोपवीत- -तस्य बौगु ४,
 ११, १.
 मेखला-वत्- पा ५, २, ११६; १३६;
 -वन्तस् काश्रौ २६, १, १७.
 मेखला-विन्- पावा ५, २, १२२;
 -वी अप्रा ३, ४, ११.
 मेखलिन्- पा ५, २, ११६; १३६;
 -लिन्ः कौगु २, १, १२; शांगु २,

a) पावा ३, १, ४४ परामृष्टः द्र.। b) वैप १ द्र.। c) विप.। d) पाभे. वैप २, ३४. मृचयस्य :
 ऐत्रा ४, १० टि. द्र.। e) मि^० इति जीसं.। f) पा १, २, २०; २५ परामृष्टः द्र.। g) पृ १२६० ० द्र.।
 h) कर्तारि कृत्.। i) तु. पागम.। j) उप. < $\sqrt{\text{वद्}}$ । k) $\sqrt{\text{स}}$, $\sqrt{\text{स्व}}$ इति BFG.। पा २, ३, ८०
 परामृष्टः द्र.। l) पा ८, ४, १७ परामृष्टः द्र.। m) = पर्वत-विशेष-। n) तु. पाका.। o) सास्यदेवतीयः अणु-
 प्र.। p) परस्परं पाभे.। q) परस्परं पाभे.।

१, १४; -ली आम्निष्ट १, १, ४ :
 ४६; वैष्ट २, ८ : १२; हिष्ट १,
 ८, १०; शंघ ३९०; वैघ १, ३,
 ५^३: सुधप ८५ : ६.
 मेखलो (ला-उ)पवीता (त-अ) जिन-
 दण्ड-धारणा(रा-आ) दि-ब्रह्म-
 चर्य-वर्जित^५ -ते वैष्ट ६, ९ :
 २.
 मेखलो (ला-उ)पवीता(त-अ)जिन-
 दण्ड-धारिन्-री वैघ १, २, १.
 मेघ-प्रष्ट. √मिष् द्र.
 मेचक- पाउ ५, ३७.
 म्मेडि^६ -डि: अप ४८, १०२; निघ
 १, ११; -डिम् साश् ३, २३७^६.
 मेद्-प्रष्ट. √मिष् द्र.
 √मेथ् √मिष् द्र.
 मेथ^७ (> १मेथी^८ पा.) पाग ४, १,
 ४१.
 मेथत्-मेथन- √मिष् द्र.
 रमेथि,थी^९ -थिष् वैश्रौ १४, ६ : ६;
 -थी माश्रौ ११, ५, १३;
 वाधूश्रौ; आपमं १, १, १०^{१०};
 काष्ट २५, ९^{११}; -थीस् आपश्रौ
 ११, ७, ३; १५, ५, ११××;
 बौश्रौ; -थ्यः^{१२} बौपि १, १४ :
 ४; १४; -थ्याः हिपि १४ : ६;
 -थ्योः आश्रौ ४, ९, ६; बौश्रौ
 २१, १४ : २७; माश्रौ २, २, २,
 २५; -थ्यौ माश्रौ २, २, २, २४.
 मेधि-ष्ट (< स्था)^९ -ष्टाः भाशि
 ५६^{१३}.

मेथि(त्थि)त्- √मिष् द्र.
 √मेद्, १मेद- √मिद् द्र.
 रमेद- (>मेदी- पा) पाग ४, १,
 ४१.
 मेदस्-प्रष्ट. √मिद् द्र.
 √मेघ^{१४} पाधा.श्वा.उम.संगमे.
 रमेघ,घा^{१५} - पाग ३, १, १३४^{१४}; -घः
 आश्रौ ३, ४, १४^{१५}; शाश्रौ ७, ५,
 २२^{१६}; आपश्रौ २, ११, ११^{१६};
 बौश्रौ १, १४ : ५^{१६}; भाश्रौ २,
 १०, ४^{१६}; माश्रौ १, २, ६, २२^१;
 वाधूश्रौ ४, १९ : १२^{१६}; १८-१७;
 १९^{१६}; २०; २२-२७; हिश्रौ १, ८,
 २५^{१६} आमिष्ट; -घम् आश्रौ ३, ३,
 १^{१६}; शाश्रौ ५, १७, १; काश्रौ^{१७}
 २५, १०, ९; १०; १४^{१७};
 आपश्रौ; -घाः वैताश्रौ ३८,
 १५; आम्निष्ट ३, ७, ४ : ३५;
 बौपि २, ४, २०; -घान् शाश्रौ
 ६, १, ५; १६, १५, ८; वैताश्रौ
 ३८, १२; कौस् ६१, १३^{१८};
 -^{१९}घाय आपश्रौ २०, ३, ३;
 ४; बौश्रौ; -घायाम् आश्रौ ३, २,
 १४^{१९}; -घे वृदे २, १५३; -घौ
 शाश्रौ ६, १, ५.
 मेघ-पति- -तये शाश्रौ ६, १, ५;
 माश्रौ ५, २, ९, ३^{२०}; भाष्ट १, ४ :
 ११^{२०}; -तिभ्यः शाश्रौ ६, १,
 ५; माश्रौ ५, २, ९, ३; -तिभ्याम्
 आश्रौ ३, ३, १^{२०}; शाश्रौ ५, १७,
 १; माश्रौ ५, २, ९, ३; -ती

आश्रौ ३, २, १३^{२०}.
 मेघपती- -तीभ्यः माश्रौ
 ५, २, ९, ३; -तीभ्याम् माश्रौ
 ५, २, ९, ३; -त्यै माश्रौ ५, २,
 ९, ३.
 मेघपति-त्व- -त्वम् मीस् ९,
 ३, ३५.
 मेघ-पति-सो(स-उ)त्तर^{२१} -रे भाशि
 ८८.
 मेघ-त्ववर्ण^{२२} -णम् काश्रौ २५, १०,
 ७^{२२}.
 रमेघ- (> १मेघी- पा.) पाग ४, १,
 ४१^{२३}.
 रमेघ^{२४} -घः शुअ ३, २५२^{२४}.
 मेघस्^{२५} -घाः अप ४८, ८५^{२५}.
 रमेघा^{२६} -> मेघा^{२६} तिथि- थिः ऋञ्
 २, १, १२; ८, २^{२६}××; वृदे;
 -थिम् अप्रा ३, १, १७; -थेः
 वृदे २, १५७; -^{२७}थेः जैश्रौ ३,
 १४; द्रश्रौ १, ३, ३; लाश्रौ १,
 ३, १; -थौ वृदे २, १३०; १५५;
 ऋप्रा ४, ९०.
 मैघातिथि^{२८} -थः शाश्रौ ११,
 ७, २; वाधूश्रौ ४, ७५; १७; -थम्
 शाश्रौ १६, ११, १६; लाश्रौ ७,
 ४, १; तुस् २, १५ : २८; निस्
 ७, २, ८; ७ : ३९; या ८, २२.
 मैघातिथी- -थ्यः शाश्रौ
 ७, ८, ५; ११, ७, ३.
 मघातिथि-मेघ्यातिथि- थौ
 ऋञ् २, ८, १.

a) तु. C. भाष्यम् । b) द्रस. > षस. > वस. > कस. > तुस. । c) वैप १ द्र. । d) अर्थः व्यु. च ? । < √मेथ् इति पागम. । e) शाक-भेद- इति पागम. । f) पाभे. वैप १, २५२२ ङ द्र. । g) सपा. आम्निष्ट ३, ८, १४; १५ मेघ्यः इति पाभे. । h) √मिद् टि. अपि द्र. । i) वै १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. । j) पृ १४५० C द्र. । k) °ध इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. l टि.) । l) वैप २, ३३३. तैत्ति ३, ७, ५, ३ टि. द्र. m) = गर्भ-रस- । n) सर्वमेघम् इति कांस. । o) = स्त्री-पशु- । p) °तीस् इति आन. । q) द्रप. > वस. । r) षस. पूष. = गर्भ-रस- । s) °श्रा° इति चौस. ? । t) < √मेघ् [संगमे] इति पागम. । u) = ऋषि-विशेष- । v) मेघाः इति भाष्यम् । w) = मेघाविन्- । x) विप. (शास्त्र-सूक्त-सामन्-) ।
 वैप ४-प्र-६७

३मेघा(वप्रा.)^२- पाग ३, १, २७; ३, १०४; ४, ३, ५४; ५, १, २; ६६;
-^१घया आश्रौ ४, ५, ६; शाश्रौ;
-घा वाधुश्रौ ४, २९; ५; आपमं
२, ४, ६^१; आग्निष्ट; काग ४१,
१८^१; माग १, २२, ११^१; वाग
५, ३०^१; हिग १, ८, ४^१; निघ
२, १०^१; या ३, १७; १९^१;
-घा^१; वाग ८, २^१; -^१घाम
आपश्रौ १३, ८, १०; बौश्रौ;
काग ९, २०; माग १, ४, २^०;
शंघ ११६: ३०; -घायसः साअ
१, १७१; -घायाम् भाग २, ६:
२^१; -^१घायै बौश्रौ ६, ४: १;
वाधुश्रौ; -^१घे कौसू १०, २०;
५७, २८; अअ ६, १०८; अर्प
२: ६१.
मेघा-काम-^१मः काग ४१, २०;
माग १, २२, १७; हिपि १७:
३; शुअ ३, १५२; -मम् बौग २,
५, ५; -मस्य बौश्रौ १४, १९: ४.
मेघा-कार^१-^१रम् आपश्रौ १६, ३५,
५; वाश्रौ २, १, ८, १६; हिश्रौ
११, ८, २३; जैग १, १४: ७;
चाअ ३९: १६.
मेघा-गुण-^१गैः याशि २, ११२;
नाशि २, ८, २८.
मेघा-जनन^१-^१नम् आग १, १५, २;
२२, २०; २६; कौग १, १६, १७^०;
शाग १, २४, ९^०; आग्निग २, १,
४: १^०; भाग १, १०: ४^०; हिग
२, ३, ९^०; गौग २, ७, १९; -नानि

वैग ३, १५: ९^१; कौसू १०, १;
-ने^० भाग १, २७: २१; कौसू
५७, ३१.
मेघाजनना(न-आ)युष्य-^१व्ये
पाग १, १६, ३.
मेघा-तपस्- पाग २, ४, १४.
मेघा-देवता->^१व्य-^१व्यम् अअ
६, १०८.
मेघा(घा-अ)धिक^१-^१कम् शंघ १६.
मेघा-प्रद-^१दम् वैघ २, १२, ६.
√मेघाय पा ३, १, २७.
मेघा(घा-अ)र्थ->^१र्थिन्^१-^१र्थी
बौघ ३, ६, १६^१.
मेघा-वत्- पा ५, २, १२१.
मेघा-विन्- पा ५, २, १२१; पाग ५,
१, १३३; -विनः अप ४८, ८५;
आपघ २, २९, ५; हिघ;
-^१विनम् कौसू ८९, ६; वाघ
२, ९; विघ; -विनाम् निघ ३,
१५; -विने या २, ३; -वी
आपश्रौ ४, ५, ३^१; भाश्रौ; विघ
४८, ११^१; या ३, १९^१.
मेघावक- पा ५, १, १३३.
मेघावि-नामन्-^१म या ९, ५;
-मानि निघ ३, १५; या ३, १९.
मेघावि-शस्त-^१स्ताः या १२,
३३.
मेघा-सूक्त-^१क्तम् वृदे ८, ५८.
१मेघ्य- पा ४, ३, ५४; ५, १, २; ६६.
मेघा^१-तिथि-^१प्रम्. २मेघा-^१द्र.
मेघानर्त-^१पृ १४५० Cद्र.
मेघिर^१- पावा ५, २, १०९; -^१रः

शाश्रौ ३, १८, १५; आपश्रौ ८,
२०, ५.
२मेघी- २मेघ-^१द्र.
२मे(वि>)घी^१-^१घीः, -घीम्
माश्रौ ५, २, ९, ३; -घ्यः^१
आग्निग ३, ८, १: ४; १५; -घ्यौ
माश्रौ ५, २, ९, ३.
२मेघ्य, घ्या^१-^१घ्यः शाश्रौ १५, १८,
१^१; आपश्रौ; अप ६, २, २^१;
ऋअ २, ८, ५३^१; ५७^१; साअ
१, २८^१; -घ्यम् शाश्रौ १६,
३, २७; ९, १३^१; काश्रौ;
आपश्रौ २०, ३, ३; -घ्यस्य
बौश्रौ १५, ७: १; वृदे ४, २७
-घ्याः आश्रौ ३, १, १^१; शाश्रौ:
-घ्यान् आपश्रौ २०, २५, १२;
हिश्रौ १४, ६, २२; २३; माशि
७५^१; -घ्यानि वाघ २२,
११; बौघ ३, १०, १२; विघ;
-^१घ्याय आपश्रौ ५, ५, ८^१;
बौश्रौ २, १४: ६^१; माश्रौ;
वैश्रौ १, ५: १३^१; हिश्रौ ३, २,
४४^१; -^१घ्यास्तः आपश्रौ १६,
२९, १; वैश्रौ; -^१घ्ये शाश्रौ
१६, ११, २६; तैप्रा ४, ११;
-घ्येन शाश्रौ १६, १८, ११;
आपश्रौ; -घ्यौ वाघ १४, ४६.
मेघ्य-त्व-^१त्वाय बौश्रौ १४, १८:
३०; हिश्रौ १, २, ६१^१.
मेघ्य-पाश-^१शेन वाश्रौ १, ६, ४, १४.
मेघ्या(घ्य-अ)मेघ्य-विभाग-
(ज>)ज्ञा-^१ज्ञे कौग २, ८-

a) वैप १ द्र.। b) = घन-। c) °घा अमृ° इत्यस्य स्थाने सपा. ऋ ८, ६, १० काग ९, २ प्रम्. °घाम् ऋत° इति पाभे.। d) विप. (सर्पिसू-), नाप. (मन्त्र-)| उप्त. उप. करणे कृत। e) = संस्कार-विशेष-। षस.। f) = (मेघाजननोपयोगिन-) पदार्थ-। g) बस. उप. = आधिक्य-। h) °घावी इति मैसू.। i) सप्र. मेघार्थी <> मेघावी इति पाभे.। j) = २मेघी-। k) पाभे. पृ १९८५ g द्र.। l) मध्यः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सूको.)। m) = ऋषि-विशेष-। n) पाभे. वैप १ वृद्याय ऋ ५, १५, १ टि. द्र.।

४; शांय २, १३, ५.
३मे(घ्य>)घ्या->मेघ्या-तिथि^१-
 -थ्ये ऋअ २, ८, १; -थि: ऋअ
 २, ८, ३; ३३; अअ.
 मेघ्यातिथि-प्रियमेघ- -घौ अअ
 २०, १८.
३मेन(क>)का^०- पाउभो २, २, ७;
 पावा ६, ४, १२०; पागम ६१.
२मेनका^०->मैनाक^०- -कम् अप
 ५६, १, ९.
मेना(बप्रा.)^०- -कना अप ४८, ८६३;
 निघ १, ११^०; ३, २९; -ना:
 या ३, २१०^०; -कंने जैश्रौ ३:
 १५; द्राश्रौ १, ३, ३; ७^०; लाश्रौ
 १, ३, १.
 मेने-ब्रुवाण- -णयो: लाश्रौ १, ३, ७^०.
मेनि- √मि, मी (बधा.) द्र.
 √मेप् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.
मेया- √मा (बधा.) द्र.
मेरु^०- पाउ ४, १०१; -रु शंघ
 ११६ : ८; -करो: वैगृ ५, २ :
 १६; २०; -रौ आग्निगृ २, ४,
 १० : ३८.
 मेरु-हुहितु-, मेरु-पुत्री- पावा ६,
 ३, ७०.
 मेरु-मात्र^०- -त्रम् सु १४, २.
 √मेव पाधा. भ्वा. आत्म. सेवने.
१मेघ- √मिष् द्र.
२मेघ^०- -कंष आपश्रौ ९, १८, २;
 बौश्रौ; -ष: आश्रौ ३, ४, १०;
 काश्रौ; या ३, १६१^०; -षम्
 कंआश्रौ ६, ४, १०; ८, ६, ६; १२;
 शाश्रौ; -षस्य हिश्रौ ५, २,
 २७; -षा: आपश्रौ १९, ३, २१;

-कंषाणाम् आपश्रौ २०, १९, ५^०;
 काश्रौसे २६ : ५; वाश्रौ; -वान्
 या ५, २१^०; -षाय बौश्रौ
 ५, १६ : १४^०; वैश्रौ ८, १० :
 ५; द्राश्रौ; -खे जैश्रौ २५ : ७;
 द्राश्रौ २, २, ५०; लाश्रौ १, ६,
 ४७; -षौ काश्रौ ५, ५, १६;
 आपश्रौ.
 मेषी- -षी आश्रौ ५, ३, ३; शाश्रौ;
 ऋप्रा १६, १२^०; -षीणाम्
 काश्रौसे २६ : ५; -षीम् आपश्रौ
 ८, ५, ४३×४; काश्रौसे; -ष्य:
 बौश्रौ २४, ११ : ८; -ष्या: माश्रौ
 १, ७, ४, ३; -ष्यै बौश्रौ ५,
 १६ : १४^०; वैश्रौ.
 मेष्य (षी-अ) थं- -थान्
 आपश्रौ ८, ५, ३८.
 मेष-प्रतिकृति- -तिभ्याम् आश्रौ ८,
 ५, ९; १४; -ती आपश्रौ ८, ५,
 ४२; ६, ११; १६; भाश्रौ.
 मेष-मिथुन- -नम् काश्रौ ५, ३, ६;
 ५, २.
 मेष-वध- -धे काथ २७२ : २.
 मेषा(ष-अ)ज-वध- -धे विध ५०,
 २८.
 मेषा(ष-अ)थं- -थान् आपश्रौ ८, ५,
 ३८.
मेषत्- पाउना १, १२४.
मेष्क^०->मेष्क-ह(त>)ता- -ताम्
 आपश्रौ १०, १९, १; भाश्रौ १०,
 १२, ९; हिश्रौ १०, ३, ९.
 मेह-, मेहन- √मिष् द्र.
कमेहना^०- -ना आश्रौ ७, ८, ३^०; शाश्रौ
 ११, ११, १५^०; १८, १८, ८^०;

अप ४८, ११५; निघ ४, १;
 या ४, ४०^०.
मेहमान- √मिष् द्र.
मैतायन- रमित- द्र.
१मैत्र- मित्र- द्र.
२मैत्र- मित्री- द्र.
मैत्रक- मित्र- द्र.
मैत्रवर्धक-, -ध्रक- मित्रवर्ध- द्र.
मैत्रानुवाकिक-, मैत्रावाहस्पत्य-,
 मैत्रायण-, -णक- प्रष्ट., मैत्रा-
 वरुण-, -णि-, -णी-, -णीय-,
 मैत्री- मित्र- द्र.
मैत्रेय-, -यायण-, -श्रेयिका-, -त्रेयी-
 मित्रयु- द्र.
मैथुन- प्रष्ट. √मिष् द्र.
मैघातिथ- रमेघा- द्र.
मैघावक- रमेघा- द्र.
मैनाक- रमेनका- द्र.
मैनिक- मीन- द्र.
मैमत-, -तायन- प्रष्ट. मिमत- द्र.
मैरेय^०- पा ६, २, ७०; -यम् विघ
 २२, ८३.
मैरेय-पान- -नम् मागृ २, १४, २८.
मैल^०- -लम् अप ४६, ६, ३.
 मैलो(ल-उ)त्तर^०- -नम् अप ४६, ६,
 ३.
मैलिक्य- मिलिक- द्र.
मैश्रधान्य- √मिष् द्र.
मो मा द्र.
कमोकी^०- -की अप ४८, ७४; निघ
 १, ७.
कमोक्त- अप ४८, ७०^०कं^०.
मोक्तय-, मोक्ष- प्रष्ट. √मुच् द्र.
मोघ^०- -घम् बौश्रौ १८, ४५ : २०;

a) वैप १, २५२५ de द्र.। b) वैप १ द्र.। c) अर्थ: व्यु. च ?। d) = पर्वत-विशेष-।
 e) = वाच्-। f) सपा. मेने ब्रुवाण <> मेनेब्रुवाणयोः इति पाभे.। g) विप. (हास्तन-).। h) पाठः ई
 सपा. खि ४, ९, ४ महिषी इति (तु. संस्कृतुः टि.)। i) = हिंस-पशु-। j) पाभे. वैप १, २५२६ h द्र.। k) = सुरा-
 विशेष-। l) = व्रत-विशेष-। m) पुरातन-नामन्-। n) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र.।

माय २, १७, १९; कौय ३, १०, ३०; शंय २, १४, २६; कप १, ३, २; वाध १७, ८; ९; आपध २, १३, ६; ऋषीध २, २, ३६; ७, १६; हिष २, ३, ६; वृदे १, ४९; माशि ३८.

मोचन-, चयितुम् प्रभृ. √मुच् द.
मोद-, मोदक-, १मोदन- √मुद् द.
२मोदन^१- पाग ४, २, ९५^२; ११६.
मौदनिक>]का-, षकी- पा ४, २, ११६.
मौदनेयक- पा ४, २, ९५.
१मोदमान- √मुद् द.
२मोदमान^२- (>मौदमानिक>]का-, षकी- पा.) पाग ४, २, ११६.
१मोमुसुहु: सु १४, ३.
मोषण-, मोष्य- √मुष् द.
मोह-, मोहन- √मुह् द.
१मोहम^१- माय काय ४, २०^३; गौध २६, १२.
मोहमान^१-(>मौहमानिक>]का- षकी-)
मोहयित्वा प्रभृ. √मुह् द.
मौकुलि- पाठभो २, १, २३३.
मौक्तिक- मुक्ता- द.
मौक्य- १मूक- द.
मौक्ष- √मुक् द.
मौचिक्य- मूचिक- द.
मौचुकार्णिक- मुचुर्ण- द.
मौजवत्- २मूजवत्- द.
मौजवत- मूज- द.

मौञ्ज- प्रभृ. १मुञ्ज- द.
मौञ्जिक- मुञ्जक- द.
मौजायन- प्रभृ. २मुञ्ज- द.
मौञ्जिगन्ध^१- न्धाः बौश्रौप्र २१: २.
मौञ्जिन- १मुञ्ज- द.
मौञ्जिमौञ्जि^१- अयः बौश्रौप्र २१: १.
मौञ्जी- १मुञ्ज- द.
मौञ्ज्य^१- ऋज्याय गौध २६, १२.
मौढ्य- २मूढ- द.
मौण्ड्य- √मुण् द.
मौद^१- दः अप २, ५, २; -देन अप २२, २, ४.
मौद-पैष्वलाद- पाग ६, २, ३७.
मौदायन- नाः अप २३, १०, ५.
मौद्र- मुद्र- द.
मौद्रल- प्रभृ. मुद्रल- द.
मौद्रलयाकर-(>रीय- पा.) पाग ४, २, ८०.
१-२मौन- प्रभृ. मुनि- द.
मौर्ख्य- मूर्ख- द.
मौर्य- मुर- द.
मौर्व>]वीं- वीं पाग २, ५, २३; वैगृ २४: ३; -वीं काय ४१, १२; भाग १, २: ६; वागृ ५, ७; जैगृ १, १२: ४८; कौसू ५७, २.
मौल- लह- लभारिक- १मूल- द.
मौलि- पाठभो २, १, २३३.
मौलि(ल-इ)न्दु- पाग २, २, ३७.
मौलिक- १मूल- द.
मौलिक्य- मूलिक- द.
मौलय- १मूल- द.

मौषिकि- मूषिका- द.
मौषीतकि^१- किः बौश्रौप्र २६: ३; ४१: ४.
१मौसल- १मुसल- द.
२मौसल-, सलि- २मुसल- द.
१मौसली- १मुसल- द.
२मौसली-, मौसल्य- २मुसल- द.
मौस्त- मुस्ता- द.
मौहूर्त- मुहूर्त- द.
√मना पाधा. भ्वा. पर. अभ्यासे.
१√म्यक्ष्, म्यक्षति निघ २, १४^६.
 अम्यक् अप ४८, ११५; निघ: ४, ३; या १, १५; ६, १५^६.
√म्रक्ष् पाधा. भ्वा. पर. सङ्घाते; चुरा. पर. म्लेच्छने.
√म्रद्, म्रदिमन्- प्रभृ. √मृद् द.
१म्रागैत्त-वेणि^१- णिः अप २४, ६, ३.
म्रियमाण- √मृ द.
√मुच्, इच्^१ पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
श्रोक^१- कः अत्र १६, १९.
√म्रेड् पाधा. भ्वा. पर. उन्मादे.
म्लानि- √म्लै द.
√*मिलच्छ, म्लेच्छ पाधा. भ्वा. चुरा. पर. अव्यक्ते शब्दे.
म्लिष्ट- पा ७, २, १८.
म्लेच्छ- पाग ६, १, १६०; -च्छः बौश्रौ २, ५: १८^१; -च्छान् अप ५०, २, ५.
म्लेच्छ-देश- शः विघ ८४, ४; -शम्, -शे शंघ १९१.
म्लेच्छ-भाषा- -शाम् वाध ६, ४१.

a) = नगर-, ग्राम- वेति पागम. । b) पौदन- इति पागम., सोदन- इति वामनः (तु. पागम.) ।

c) मोहमान- इति पाका. । d) व्यप. । e) = ऋषि-विशेषः, तत्प्रोक्तशाखाध्यायिन्. । व्यु. ? <मोद- इति PW., <मुद्- इति MW. । f) विप. (मेखला-) । व्यु. ? <मूर्वा- इति शक., अभा., आदित्यनारायणः (काय.), MW.; <मुर्व- इति देवपालः (काय.), <मुरु- इति पाग. भाव्यकृतः । g) मियक्षति इति लघुशास्त्रीयः पाठः । h) विप. (अवनि-) । बस. पूष. ? (तु. संस्कृतः टि.) । i) पा ३, १, ५८ परामृष्टः द. । j) वैप १ द. ।

म्लेच्छ-वत् - वान् अप १, ६, १.
म्लेच्छ-विषय^४ - यस् विध ८४,
२; -ये विध ८४, १.
म्लेच्छा (च्छ-अ)न्यज- -जान्
विध ७१, ५९.
म्लेच्छा(च्छ-अ)न्यज-पतित-
-तैः विध ६४, १५.
म्लेच्छा(च्छ-अ)शुच्य(वि-अ)
धार्मिक- -कैः गोष ९, १७.

म्लिष्ट- √ म्लिच्छ् द्र.
√ म्लुच्, इच् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
√ म्लेच्छ् प्रभृ. √ म्लिच्छ् द्र.
√ म्लेद् पाधा. भ्वा. पर. उन्मादे.
√ म्लेव् पाधा. भ्वा. आत्म. सेवने.
√ म्लै पाधा. भ्वा. पर. हर्षक्षये,
म्लायते अप ६४, ७, १०.
म्लानि- पाठवृ ४, ५१.

य

य^५->य-अच्-पर- -रः पा ८, ३, ८७.
य-उदय^६ -यः शुभ्रा ३, ६६.
य-व- -वाभ्याम् पा ७, ३, ३.
य-व-कार- -रम् ऋप्रा १४, ४८.
१य^७-यः याशि २, ५२^२; यस् ऋत
३, ६, ७; यस्य पा ६, ४, ४९;
यात् अप्रा १, ३, १४.
य-कार- -रः अप ३४, १, २; ऋप्रा;
-रम् ऋप्रा १४, ४१; ४७;
शुभ्रा; -रात् ऋप्रा १४, ५२;
-रे ऋप्रा ७, ४१; ९, १३x४;
शुभ्रा; -रेण शैशि ३२७.
यकार-प्रतिषेध- -धः पावा ६,
१, १६.
यकार-रेफ- -फौ शैशि ११९.
यकार-लोप- -पः शुभ्रा ४, १३०;
अप्रा २, १, ८; ९.

यकार-वकार-विकर्ष- -षेण
उनिस् २ : ९.
यकार-स्पर्श-संहित- -तम् ऋप्रा
५, ४७.
यकारा(र-अ)कार- -रयोः शुभ्रा
४, ४१.
यकारा(र-अ)दि- -द्वयः उस्
१, ४; -दि ऋप्रा २, ३५;
-दिम् या १, १३; -दौ अप्रा
३, १, ७; १४; शौच ३, १८.
यकारा(र-अ)न्त^८ -न्तः अप्रा
३, २, १२; २१.
य-र-ल-व- -वाः याशि २, ७३; ९४.
य-र-वो(व-ः)ष्मन्- -ष्मसु माशि
९, ७.
य-र-वोष्मो(ष्म-उ)द्वय^९ -याः
ऋप्रा ६, २३.
य-रो(र-ः)ष्मा(ष्म-आ)पत्ति- -तौ
शौच १, ६८.
य-ल-व- -वेषु नाशि २, ४, ४.
य-लोप- -पे पावा ६, ४, ४९.
यलोप-प्रतिषेध- -धः पावा १,
१, ५७.
यलोप-वचन- -नम् पावा १, १,
५७; ४, १, ७८; ६, ४, १७४;
-नात् पावा ५, २, १२^३.
०य-लोप^{१०} पावा ६, ४, २२.
यलोप-स्वर-सवर्णा (री-अ) जु-
स्वर-दीर्घ^{११} पा १, १, ५८.
१य-व- -वम् माशि ७, ७; -वयोः
शुभ्रा ४, १२७; शौच २, २१;
-वाभ्याम् उनिस् २ : ९; -वौ
शुभ्रा १, ११५; माशि ७, ६; याशि.
य-व-कार- -रे शैशि ८२; -रौ
तैप्रा १०, १५; १९; शैशि ८४.
यवकार-पर^{१२} -रः तैप्रा १३,

३; -रौ तैप्रा १४, २१.
यवकार-भाव- -वेतैप्रा २०, १.
य-व-भाव- -वः कौशि १२.
य-व-लोप- -पे शौच ३, ३५.
यवा(व-अ)न्त^{१३} -न्तात् शौच
३, ५७.
य-वचन- -नम् पावा २, ४, ५४.
य-व-न-ह-पर- -रः तैप्रा १२, ४.
य-व-ल- -लाः माशि ११, ९; पावा
८, ३, २६.
य-व-ल-पर^{१४} -रे पावा ८, ३, २६.
या(य-अ)दि- -द्वयः अप ४७ १,
९; पाशि ४; शैशि १३; २७;
-दौ शौच ४, २९.
यादि-लोप-निपातन- -नम्
पावा ६, ४, १७४.
यो(य-उ)पाधा(>)घ^{१५} -धात् पा
५, १, १३२.
योपध-प्रतिषेध- -धे पावा ४,
१, ६३.
योपध-प्रस्थादि- -दीनाम् पावा
४, २, १०४.
२य- , यक, का- यद्- द्र.
यकृत्^{१६} - पा ६, १, ६३; -न्नः भाश्रौ
७, १८, १२; १९, १०; माश्रौ १,
८, ५, १८; आपमं १, १७, ३१^१;
अप्रा ३, २, २२^१.
यकृत्^{१७} - पाठभो २, १, २६७; -कृत्
काश्रौ ६, ७, ६; आपमं २, १४,
२१^१; आम्रिणः या ४, ३१^१.
यकृत्-त्स (ः) या ४, ३.
यकृन्-मेदस्- पाग २, ४, ११.
यकृल्-लोम, मन्^{१८} (> याकृलोम
[. मन]- पा.) पाग ४, २, ११०.
यकृल्-लोम-नख^{१९} - (> याकृलो-
मनख- पा.) पाग ४, २, ११०.

a) उप. = देस-। b) = वर्ष-विशेष-। c) वस-। d) वैप १ द्र-। e) पाका. पागम. पाठः।

f) = ग्राम-विशेष- इति शाकटायनः (तु. पागम.)। g) तु. पागम.।

✓यक्ष (बधा.) पाषा. सुरा. आत्म.
 पूजायाम् > यक्ष^a - क्षः माण २,
 १४, २९[†]; -[†]क्षम् गोग ३,४,
 २७; द्राण ३, १, २५; अत्र १०,
 १०; -क्षाः आण ३,४,१; कौण २,
 ५, १; शाण ४, ९, ३; कप्र ३,
 ६, ९; अप ४३, २, ३७[†]; ७१,
 १८, ३; नाशि १, २, १४;
 -क्षाणि कौसू ९५, १; -क्षाणाम्
 अप ३६, १, ९; -क्षान् आणिण
 २,५, ३; ३[†]; बौण ३,७, २१;
 कप्र २, २, ३-८; शंघ ११६ :
 २१; नाशि १,२, १६; -क्षेभ्यः
 माण २, १२, १७; -क्षेषु कौसू
 ९३, ३.
 यक्षी^b - > स्त्री-बलि - लिः
 बौण ३, ११, ५.
 यक्ष्य (क्षी-अ) तमी^c -
 -स्यौ बौण ३, ११, १.
 यक्ष-पति - तिः अप ६७, ५, ३.
 यक्ष-राक्षस - साः वृदे ७, ६८.
 यक्ष-राक्षस-किन्नर - राः आणिण
 २, ६, ७ : ११.
 यक्ष-राक्षस-नाग - नौः अप ७०[†],
 १०, ७.
 यक्ष^d - पाठ १, १४०; -[†]क्षम
 पाण २, ९, १०; भाण; -[†]क्षमः
 आपमं २, १२, ८; आणिण २,
 १, ४ : १३; हिण; -[†]क्षमम्
 आश्रौ २, १०, ४; आपमं १,
 १७, १-६; कौण; -क्षमस्य या ३,
 १५[†]; -क्षमाः आपमं १, ६, ९[†];
 बौण; -[†]क्षमात् आपमं २, १२,

९; अप्राय; -क्षमाय शांश्रौ १२,
 १५, ५[†].
 यक्षम-गृहीत, ता - तस्य आण
 १, २३, २०; ३, ६, ३; -ताम्
 आपण ९, १०.
 यक्षम-धन - धनम् ऋत्र २, १०,
 १६३.
 यक्षम-चात (न >) नी - नीः वाण
 ५, २८[†].
 यक्षम-नाश - शाय वृदे ७, १५४.
 यक्षम-नाशन^e - नः ऋत्र २,
 १०, १६१[†]; अश्रमू २; -नम्
 वृदे ८, ६४; ६६; अत्र ३, ७.
 यक्षमनाशनी - नीः अत्र
 १४, १.
 यक्षमनाशन-काम - मः अत्र
 ६, ८५.
 यक्षमनाशन-कुष्ठ-देवता - >
 -स्य - त्यम् अत्र ५, ४.
 यक्षमनाशन-देवता - > -स्य -
 -त्यम् अत्र ३, ११; ६, १२७.
 यक्षमनाशन-देवताक^f -
 -कम् अत्र १, १२.
 यक्षमनाशन-दैवत^g - तम्
 अत्र ३, ७; ६, २०; -ते अत्र २,
 ९.
 यक्षमनाशना (न-अ) गिन -
 दैवत^h - तम् अत्र १, २५.
 यक्षम-नाशि (न >) नी - नी
 ऋत्र २, १०, ८५; वृदे ७, १३३.
 यक्षम-निर्गमन - नम् अत्र २,
 ३३.
 यक्षम-विबर्हण - णम् अत्र २,

३३.
 यक्षिमन् - क्षमी विष ४५, ३.
 यक्षमो (क्षम-उ) पघात - तः अशौ
 २३, २[†].
 यक्षमन्ⁱ - पाठभो २, १, २८५;
 -क्षमणा आपश्रौ १०, १९, ४;
 २०, ७, २०; २२, २१, ११.
 यक्ष्य^j - क्ष्येण अप २०, ३, ३[†].
 यक्ष्यत् - यक्ष्यमाण - ✓यज् द्र.
 ✓यच्छ, यम् (बधा.)^k पाषा. भ्वा.
 पर. उपरमे दाने च; सुरा. पर.
 परिवेषणे, यच्छति शांश्रौ २, ७,
 १९; ४, ८, ३××; काश्रौ; यच्छतः
 आपश्रौ १, १६, ७; ६, ७, ३;
 वाधुश्रौ; यच्छन्ति आश्रौ ८,
 १३, २२; काश्रौ १२, ४, २२;
 भाश्रौ; ङयच्छामि आपश्रौ ५,
 ८, १; बौश्रौ; यच्छताम् बौश्रौ
 ३, २७ : १८[†]; ङयच्छतु आणिण
 २, १, ५ : १०; १२; बैण ६५ :
 १०; माण २, ८, ६; यच्छताम्
 या ९, ३८[†]; ङयच्छन्ताम्
 काश्रौ २, ३, १९; आपश्रौ १,
 १७, १२; बौश्रौ; यच्छन्तु
 भाश्रौ १, १९, १०[†]; हिश्रौ;
 ङयच्छ, > च्छा आश्रौ १, १२,
 ३७; २, ३, १७××; शांश्रौ;
 आपश्रौ ६, ८, ११[†]; हिश्रौ ३, ७,
 ३६[†]; ५९[†]; आपमं २, ४, २[†];
 या ९, ३२[†]; ऋप्रा ७, ३३;
 शुप्रा ३, १०७; यच्छतम् आश्रौ
 ४, १२, २; आपमं १, ८, ५;
 ङयच्छत, > ता आश्रौ १, १२,

a) वैप १ द्र.। b) = देवी-विशेष-। c) द्रस. उप. ?। d) पाठः ? (तु. वैप १, १० b)।
 e) पाषे. वैप १, २५२९ a द्र.। f) उप. भावादर्थे प्र.। g) = ऋषि-विशेष-। h) बस.। i) द्रस. >
 बस.। j) पा १, २, १५; १६; ७, २, ७३; ३, ७७; ७८ पावा ६, ४, ४० परामृष्टः द्र.। k) धा. नियमनदानादिषु
 वृत्तिः। l) पाषे. वैप १, १५५६ ० द्र.। m) सपा. आपश्रौ ६, ६, ८ दृंह इति पाषे.। n) सपा. शांण १, २७, ७-
 चैसत् इति पाषे.।

३६; आपश्चौ ६, २१, १^०; माश्चौ;
अयच्छत् या २, १२^१; अयच्छत्
आपमं २, २, ३^१; यच्छेत् आश्रौ
८, १४, ७; शाश्रौ; यच्छेताम्
वाश्रौ १, २, ४, ११; यच्छेयुः
द्राश्रौ ३, ३, ४××; लाश्रौ.

यन्त्रि निघ ३, १९^१^b; यन्त्र>
न्ता ऋप्रा ७, ३३^१.

फ्येसिरे माश्रौ १, ६, ३, १;
अप्राय ५, ३; फ्यंसत् आश्रौ २,
११, १२^०; शाश्रौ ३, ६, २^०××;
शांश्रु १, २७, ७^d; फ्यंसत्
या ९, १९^०; तैप्रा १६,
२०; अयंसत् या ७, २^१;
अयांसम् ऋप्रा १२, २७^१.

यमयति आपश्चौ १०, १६, १६;
१७, २; माश्रौ; यमयत् आपमं
२, ११, १८; यमयेत् द्राश्रौ १४,
१, ७; लाश्रौ ५, ५, ५.
यंयम्यते पावा ७, ४, ८^५.

१यत्->^०त-वाच्-^० -वाक् विध
६१, १६.

फ्यत्-सुच्-^० -सुचः अप ४८,
९६; निघ ३, १८.

यत्(त-आ)त्मन्-^० -त्मनः बौध
४, ५, १५.

यत्वा शाश्रौ २, १४, ९; आपश्चौ.
यन्त्र(व्य>)व्या-^० -व्या आपश्चौ

१०, १६, ३.
यन्तु-^० -न्तोः चाञ ४० : १५.

यन्तु-^० -न्ता काश्रौ १४, ५, १८^१;
१५, ६, २९^b; बौश्रौ; आपध २,
२०, २०^१; हिध २, ५, १०^५;
-^०न्तारः अप ४८, १२; निघ
३, १९; -^०न्तुः बौश्रौ १०, ५८;
२^१××; वैश्रौ; चाञ ४० : १५^१.
फ्यन्त्री-^० -न्त्री आपश्चौ १७, २,
५; बौश्रौ.

यन्त्र (वप्रा.)^६ - पाठ ४, १६७;
-^०न्त्रम् बौश्रौ ६, १२ : ९^१;
वाधुश्रौ; जैश्रु २, ९ : ३६^१;
आमिश्रु २, ५, १ : ४८^१; कप्र १,
८, १; ३; -^०न्त्राणि बौध
४, ७, ३; -^०न्त्राम्याम् आपश्चौ
४, ६, ५; भाश्रौ ४, ९, ३; हिश्रौ
६, २, १६; -^०न्त्राय आपश्चौ
१८, ५, २०; बौश्रौ; -^०न्त्रे
आपश्चौ २, ९, १३; ४, ६, ५;
बौश्रौ; -^०न्त्रेण फ्यौश्रौ १०, ५८;
२××; वैश्रौ; आमिश्रु २, ५, १ :
४८^m; जैश्रु २, ९ : ३६^m; वैध
३, ८, १^b; -^०न्त्रैः शाश्रौ
६, १०, १०^१; बौध ४, ७, १;
४; विध ४३, ४३; बृदे ८,
५८^१; या १०, ३२^१.

यन्त्र-प्रयोग-^० -नाः अप २२, ८, ३.
यन्त्र-प्रासाद-^० -दे अप ७०^३,
१०, ६.

यन्त्र-वाहन-शस्त्र-^० -स्त्रेषु अप
७०, ५, २.

१यम-^० -पा ३, ३, ६३; -^०मात् पाश्रु
२, ७, १; वैध २, ४, ४; ८, ७.

यम-नियम-मन्त्र-^० -न्त्रैः
आमिश्रु २, ७, १ : ५^१.

यम-नियम-मन्त्र-व्रतो(त-उ)प-
वास->^०सा(स-आ)दि-
-दिभिः शंघ १६२.

यमनियममन्त्रव्रतोपवा-
सिन्-^० -सी आमिश्रु २, ७, ११ :
१४^d.

यम-नियम-मन्त्रो (न्-उ)पवा-
सा(स-आ)दि-^० -दिभिः आमिश्रु
२, ७, १० : ८; शंघ ३६२.

यम-नियमा (म-आ)सन-प्रा-
णायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-
समाधि-^० -धयः वैध १, १०, ९^f.

यमन-^० -^०फ्तः बौश्रौ १५, ५ : ५;
वाश्रौ ३, १, २, २२; वैश्रौ १७,
१५ : ६; हिश्रौ १३, २, १२; -^०नात्
काश्रौसं २७ : १२; या २, १५.

यमनी-^० -नी वाश्रौ २, १, ८, १^१.
फ्यमि(तु>)त्री^६ -^० -त्रि आपश्चौ
१४, ३३, २; अप्राय ६, १.

यम्य आमिश्रु १, २, ३ : ११.
यम्य, म्या-^० -पा ३, १, १००; -^०म्या
निघ १, ७^१; -^०म्येन बौश्रौ २६,
१२ : १९^५.

१याम-^० -पा ३, ३, ६३; -^०मः शाश्रौ
१५, ५, १३^f; बौश्रौ १८, १५ :
१५^१.

- a) पासे. वैप १, १५५६ C द्र. । b) घा. याच्छायां वृत्तिः । c) पासे. वैप १, २५३१ C द्र. ।
d) पासे. पृ १९९० n द्र. । e) बस. । f) = ऋषि-विशेष- । तुन् प्र. उंसं. (पाठ १, ६९) । g) वैप १
निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । h) = सारथि- । i) = अदातु- इति भाष्यम् । j) पासे. वैप १, ७५३ f द्र. ।
k) वैप १ द्र. । l) अर्थः ? यातना इति ?, घोरम् इति C. शोधः (तु. बौधयो [१, १६, ३७]) ।
m) = पूजाधार-यन्त्र- [चित्र-] । n) = उपस्तम्भोपकरण- । o) भाप. (योगाङ्ग-) । p) 'मयन्त्रैः इति
पाठः ? यनि. शोधः (तु. आमिश्रु २, ७, १० : ८) । q) 'मयन्त्र' इति पाठः ? यनि. शोधः । r) नियमयमास^०
इति C. । s) भावे कर्तृरि च कृत् । t) = रात्रि- । u) भाप. (नियमन-) । वाचंयम्येन इति संस्कृतुः दि. ? ।
g) = अन्त- इति C., = नियामक- इति सा (तां २०, ३, ५) ।

येमान-नः उस् ३, ११.

✓यञ् पाधा. भ्वा. उभ. देवपूजासह-
तिकरणदानेषु, यजते आश्रौ २,
१, ४१; शाश्रौ; यजति आश्रौ १,
५, ३××; शाश्रौ; काठश्रौ ३६^{२b};
यजतः शाश्रौ १०, ७, ९; काठश्रौ
१४१; बौश्रौ; यजन्ते आश्रौ ३,
१४, १०^१; ६, १४, २३××;
शाश्रौ; यजन्ति आश्रौ १, १०,
४××; शाश्रौ; ऋजसि आश्रौ ५,
१९, ३^d; या ८, ५; ऋजसे आश्रौ
८, १४, ४^०; काश्रौ; माश्रौ १,
८, ३, १^f; आपमं २, ८, ५^e;
हिग् १, २, १८^e; यजामि अप
६६, ३, २; ऋजामहे आश्रौ ७,
११, ३८; ८, १४, ४; शाश्रौ;
आपश्रौ २, २०, ५^e; भाश्रौ २,
१८, १६^e; हिश्रौ २, ५, ४५^e;
यजामः गोपि २, ६, २२^१; यजतै
वाधूश्रौ ४, २६; १८; या १४, २७;
ऋजयति आपश्रौ ३, १२, १;
बौश्रौ; यजात् कौसू ५, १२^१;
ऋजसि हिश्रौ २१, १, १; तैप्रा
१६, १८; ऋजस्व शाश्रौ १४,
५५, ४; १५, १८, १^f; ऋञ
२, ६, ११; या १०, २७; ऋज,
>जा आश्रौ ३, ९, ३; १२,
१४^h; ५, ८, ५××; शाश्रौ; बौश्रौ
३३, ४३; २०^h; हिश्रौ १५,
१, ८६^h; ऋजऽयज काश्रौ
३, २, १८; ५, ७; ९, ११,
७; आपश्रौ; यजतात् आपश्रौ
१४, १७, १^{१d}; ऋजतम्

आपश्रौ १२, २७, ६; २१, ७, १५;
काठश्रौ; ऋजध्वम् आपश्रौ २०,
२०, ९; माश्रौ ५, २, ७, १५;
वाधूश्रौ ४, १०३^२; १०; या
१२, ५; यजत > ता आपश्रौ
२२, २५, १०^१; बौश्रौ ९, ९;
२४^१; ऋजै शाश्रौ १५, १८, १^f;
२०, १; १६, १०, १४; आपश्रौ;
ऋजाम आश्रौ १, ४, ११; शाश्रौ;
अयजत शाश्रौ १४, ६, १××;
बौश्रौ; अयजेताम् बौश्रौ १८,
३५; ३; ५०; ३१; अयजन्त
आश्रौ २, १६, ७; शाश्रौ;
अयजन् वाधूश्रौ ४, ४३; २-६;
ऋजयथाः आपश्रौ २०, ६, ५;
बौश्रौ; यजेत, > ता आश्रौ १,
१०, ६; शाश्रौ; यजेत् आश्रौ १,
११, ११××; शाश्रौ; यजेयाताम्
बौश्रौ १८, ३५; ६; लाश्रौ
९, ४, ३०; ३२; यजेरन् शाश्रौ
१३, ११, १; २०, ८; काश्रौ;
यजेयुः माश्रौ ३, ८, ४; विष ३७,
३५; यजेयम् शाश्रौ १४, २७, १;
२८, १; यजेमहि शाश्रौ १४,
४०, १.
ईजे शाश्रौ १५, १६, १०; १६, ९,
८××; बौश्रौ; ईजिरे बौश्रौ १८,
३; १८; ४; १४; २६; ४-६;
यक्षते वाधूश्रौ ३, ६९; ५; ४,
५; ३; यक्षयन्ति शाश्रौ १४, ४०,
१; यक्ष्ये आपश्रौ २२, २, १६^१;
काश्रौसि; यक्ष्यामि कौगृ ३, १२,
१३; यक्ष्यावः माश्रौ १, ३, १,

१२^२; वाश्रौ १, ३, ४, ७^१;
ऋजि आपश्रौ ५, ६, ३; बौश्रौ;
ऋजत् आश्रौ १, ६, ५^१; ३, ४,
३××; शाश्रौ; चाञ् ४१; १४^१.
यक्षतः माश्रौ ५, १, ३, २७^३१^१;
ऋजयक्षत आपमं १, ५, ५७;
आयु; अयष्ट शाश्रौ १५, १६,
११; अयाक्षीत् बौश्रौ २६, १४;
३; ऋयाद् आश्रौ १, ३, १४;
६, ३^२; ८, ७××; शाश्रौ; अयाद्
ऽअयाद् आश्रौ १, ६, ४; अया-
ष्टम् माश्रौ ५, १, ३, २७^३१^१;
अयाः या ४, २५^११^१; अयाक्षीः
या ४, २५; अयध्वम्
वाधूश्रौ ४, ५५; ९; अयक्षथ
वाधूश्रौ ४, ५५; ८; अयक्षमहि
वाधूश्रौ ४, ५५; ८.
इज्यते शाश्रौ १, १६, ३; इज्येते
वाधूश्रौ ४, ४५; २; इज्यन्ते
आपश्रौ ८, ९, १०; १३, ५^१;
बौश्रौ; इज्येत मीसू १०, ७, १०;
इज्येरन् लाश्रौ ८, ९, १३.
याजयते शुभ्र १, ५; याजयति
बौश्रौ १३, ३; ११; १७; ४;
वाधूश्रौ; याजयन्ते लूसू १, ११,
१४; याजयन्ति आश्रौ ४, १, ७;
शाश्रौ; याजयसीइ वाधूश्रौ ३,
४१; ५; याजयतु बौश्रौ २, ३;
१८^१; याजयतात् वाधूश्रौ ४,
७५; १९; ३०; याजय
ऋश्रौ १८, ४७; ३; ९; याजयत
शाश्रौ १४, ४०, १; बौश्रौ
१८, २०; १२; वाधूश्रौ ४,

- a) या ७, १२ पा २, ३, ६३ परामृष्टः द्र. । b) सङ्घत् यत्रति इति पाठः? यनि. शोधः । c) पाभे.
वैप १, १५४० d द्र. । d) पाभे. वैप १, २५३४ c द्र. । e) पाभे. वैप २, ३३३. युजे माश १४, ९, ३, ३ टि. द्र. ।
f) सपा. तै ३, १, ४, १ यजाम इति पाभे. । g) पाभे. वैप २, ३३३. यजामहे तैत्रा ३, ७, ५, १३ टि. द्र. । h) पाभे.
वैप १, २५३४ c द्र. । i) पाठः? यजेत इति C. शोधः । j) ष्ट इति पाठः? यनि. शोधः (तु. उत्तरं स्थलम्) ।
k) पाभे. वैप १, २५३५ m द्र. । l) सपा. मा २१, ४७ प्रमृ. अयाद् इति पाभे. । m) पाभे. वैप १, २५३५ p द्र. ।

१०८ : २५; याजयानि वाधूश्रौ
 ४, ७५ : २०; ३२; या २,
 १०; याजयाम वाधूश्रौ ४,
 १०८ : २१; अयाजयत् बौश्रौ
 २४, १२ : ७; वृदे ५, ३३; ५३;
 ऋयाजयन् आपश्रौ १४, १२,
 ६; हिश्रौ १०, ६, ६; याजयेत्
 शंघ ८८; याजयेत् आपश्रौ ९,
 १४, १२; १०, २०, ८५; बौश्रौ;
 याजयेयुः आश्रौ ६, १०, २४; ९,
 ७, ४; ९, ४; शाश्रौ.
 याजयिष्यथ बौश्रौ १८, २० :
 ९; याजायिष्यामि बौश्रौ १८,
 ४५ : १५; ३४; कौश्र ३, १२,
 १४; वृदे ८, ५.
 याजयां/कृ, याजयांकार
 शाश्रौ १६, ८, २७; बौश्रौ.
 इज्य^a - ज्यम् वैश्र २, ७ : १३;
 १८ : १३; -ज्यानि काश्र ४७,
 १६.
 इज्यमान, ना - ना बौश्रौ १७, ४९ :
 ७; -नाः शाश्रौ १, १६, १०;
 -ने काश्र ५७, ४; -नेषु वाश्रौ १,
 १, ५, १४.
 इज्या^b - पा ३, ९८; -ज्याया वाध
 २५, ७; -ज्या आश्रौ २, ८,
 १०^c × ×; शाश्रौ; -ज्याः मीस्
 ४, ४, २९; -ज्यानाम् माश्रौ ५,
 १, १, ७; कौस् ८, ३; -ज्याम् निस्
 २, ५ : २९; मीस् ११, १, ६२;
 -ज्यायाम् शाश्रौ १, ३, ७; मीस्
 ६, ६, ३९; -ज्यायै बौश्रौ २१, ६;
 ९; -ज्यासु माश्रौ ५, २, १०, ३.
 इज्या-नामिन् -मी मीस् ६, ४,
 २२.
 इज्या-चोदना - ना मीस् ६,

५, १.
 इज्या-दर्शन - नात् काश्रौ ८, ९,
 ५.
 इज्या-दानो(न-उ)पनयनसंस्कार-
 क्रिया - याः शंघ ७६.
 इज्या(ज्या-अ)ध्ययन-धर्म-
 मेषु वाध ६, २२.
 इज्या(ज्या-अ)नुवाक्या^d - क्ये
 आश्रौ ५, ५, ५; ६, ११, १०.
 इज्या-प्रधान^e - नम् वाश्रौ १,
 १, १, ६१.
 इज्याप्रधान-त्व - त्वात्
 मीस् ६, ६, ३८.
 इज्या-योग - नात् काश्रौ २५,
 ४, ४०.
 इज्या(ज्या-अ)र्थ - र्थम् बौश्रौ
 २१, ६ : १२; वृदे ४, १०६.
 इज्या-विकार - रः मीस् ३, ५,
 ४९.
 इज्या-विशेष-वत् मीस् ६, ६,
 ३७.
 इज्या-शेष - वात् मीस् १०,
 ७, १०.
 इज्या-संयुक्त - क्तम् बौध १,
 ६, ४.
 इज्या-संयोग - नात् मीस् १०,
 १, ३४.
 इज्या-स्तव - वः ऋश्र २, ८, ३१.
 इज्यै(ज्या-ए)कत्व - त्वात्
 काश्रौ ६, ७, १८.
 ✓ इयक्ष, इयक्षति ऋप्रा १७, २९; ऋ;
 इयक्षेत बौश्रौ २३, १७ : १०^f;
 इयक्ष्येत बौश्रौ १७, ४९ : ३^f.
 यियक्षेत भाश्रौ १, १५, १७^f.
 इष्ट - यद्र.
 इष्टवत् - वान् कप्र ३, ७, १७; शंघ

१३८.
 इष्ट्वा आश्रौ २, १६, २२ × ×; शाश्रौ.
 इष्ट्वीनम् पा ७, १, ४८.
 ईजान - नः काश्रौ ८, ९, ७; बौश्रौ
 १३, ४१ : २ × ×; वाश्रौ; - ऋनम्
 बौश्रौ १२, ५ : १६; १७, ५० : २०;
 ऋश्र २, १०, १३२; वृदे; - नस्य
 शाश्रौ १४, ४०, १०; काश्रौ; - नाः
 काश्रौ २५, ९, ७; या १३, ८.
 यक्ष्यत् - क्ष्यन् बौश्रौ १, १६ : ३;
 ६, १८ : २८; हिश्रौ ४, ४, ३६.
 यक्ष्यमाण - णः आश्रौ २, १,
 १५ × ×; वाश्रौ; - णम् जैश्रौ १ :
 १९; जैश्रौका ७; - णस्य शाश्रौ
 २, १, ६ × ×; बौश्रौ १०,
 ९ : २ × ×; माश्रौ; - णाः आपश्रौ
 २१, २, १३; हिश्रौ १६, १, २८;
 लाश्रौ; - णानाम् वाश्रौ ३, २, १,
 ७; - णे बौश्रौ २०, ४ : ४०; ऋ.
 यज् > ऋयजिष्ठ - ष्टः आश्रौ ५,
 ९, २१; आपश्रौ; - ष्टम् आश्रौ
 ७, ८, १; आपश्रौ.
 ऋयजीयस् - वान् आश्रौ ३, १३,
 १२; आश्रौ २४, १३, ३; वैश्रौ;
 या ८, ८^g.
 यज् > ऋयजिष्ठ^h - वाणि काश्रौ
 १५, ४, ४; १८, ६, १९.
 यज-स्थान - ने काश्रौ ६, ४, ८.
 यजत् - जतः वधूश्रौ ३, १७ :
 २१; वृदे ६, ५८; चाश्र १४ :
 २; - जताम् अप १९ⁱ, १, २;
 वृदे ६, ७३; - जति शाश्रौ १६,
 ९, १०; - जन् वैश्र १, १ : १४.
 यजत, ता - पाठ ३, ११०; - तः^k
 ऋश्र २, ५, ६७; साश्र २, ४९६;
 - ऋनम् आश्रौ २, १६, ११ × ×;

a) क्यप् प्र. उत्सं. (पा ३, १, १०९)। b) आप., नाप.। c) = देवता-देश- इति भाष्यम्।
 d) = याज्यानुवाक्या- इति भाष्यम्। e) वस.। f) परस्परं पाठे.। g) = ऋषि-विशेष-।

आपश्रौ; या १२, १७६; -तस्य
या ८, ७१६; -ते या ८, १११६.
यजति^a - तस्यः काश्रौ १, २, ४;
६; -तिः काश्रौ ४, ३, १; मीस्
२, ३, १४; -तेः मीस् ७, ४, १.
यजति-चोदना - ना मीस् ४, २,
२७.
यजति-जुहोति - तीनाम् काश्रौ
१, २, ५.
यजति-शब्द - च्दात् काश्रौ
१३, १, १३; १४, २, २८.
यजत्या(ति-आ)दि - दिषु काश्रौ
१४, १, ११.
यजति^b - > ँति-कर्मन् - र्मी या
३, १९.
यजति-चोदन - नात् मीस् ८,
२, २७; १०, ६, ६१.
यजति-शब्द^c - च्देषु द्राश्रौ १,
३, ९^d.
यजति-श्रुति - न्तेः मीस् ८, २,
२६.
यजते > यजते-शब्द - च्देषु लाश्रौ
१, ३, ९^d.
यजत्र^e - पाठ ३, १०५६; -०त्र
आश्रौ ३, १४, १०^f; पाठ १, ५,
११^g; -०त्रा आश्रौ ९, ११,
१९; -त्राः गौपि २, ३, ७;
अप्राय ६, १; -०त्राः आपश्रौ
६, २२, १; १४, १६, १; हिश्रौ;
-त्रैः आपश्रौ ७, १४, २; बौश्रौ;
यजथ^h - थाय आपश्रौ ५, ६, ३;

हिश्रौ ३, २, ५५.
यजथै या ८, १२१६.
यजथै नम्ⁱ पा ७, १, ४३.
यजन - नम् बौध ३, १, १४; सुध
७; ८; -नाय या ८, १२; १०,
८; १३, ७.
यजन-याजना (न-अ)ध्ययना(न-
अ)ध्यापन-प्रदान-प्रतिग्रह - हम्
सुध ६.
यजना(न-अ)ध्ययन - ने विध
२, ९.
यजना (न-अ)ध्ययन-दान -
नानि वैध १, १, ६.
यजनीय^j - यस् हिश्रौ १३, ७,
३३^k; -ययोः काश्रौ २४, ६, ३;
२७; -ये आपश्रौ १०, १५, २^l;
४^m; बौश्रौ; हिश्रौ १७, ६, १४ⁿ;
लाश्रौ ९, ३, ७^o.
यजनीय-काल - लः काश्रौ
२४, ६, २५.
यजनीय-प्रयोग^p - नाः गोगृ
४, ६, ४; ८, २३; -गंगु गोगृ ४,
५, १२; द्रागृ ४, १, ४.
यजमान, ना^q - पा ३, २, १२८; पाग
४, ४, ४८; ५, १, १३०; -फंन
आश्रौ १, ९, १; ५, ३, ९^rxx;
शाश्रौ; -नः आश्रौ १, ७,
७xx; शाश्रौ; आपश्रौ ९, २,
९^s; हिश्रौ १५, १, ४८^t;
-नम् आश्रौ १, १, १५; ४, ६,
३xx; शाश्रौ; आपश्रौ ४, ५,

५^u; ७, १७, २^v; ९, १८,
१^w; बौश्रौ ६, ३० : १२^x;
माश्रौ ४, ८, २^y; हिश्रौ ४,
३, ५५^z; ६, २, ९^{aa}; १५,
८, ३^{ab}; वैताश्रौ ४, १५^{ac};
आग्निगृ ३, ९, १ : ५^{ad}; गौपि २,
५, १^{ae}; -नयोः काश्रौ २२,
११, १५; वैश्रौ; -नस्य आश्रौ
१, ३, १; ५, ६, २३xx;
शाश्रौ; -फंना वैश्रौ ७, ९ : ११;
हिश्रौ २, ५, १९; -नाः आश्रौ
५, ६, १६; ८, १३, १४xx;
शाश्रौ; -०नाः द्राश्रौ १४, ३, ८;
लाश्रौ ५, ७, ७; कौस् ७३, १५^{af};
-नात् द्राश्रौ १२, २, २३; लाश्रौ
४, १०, २५; -नान् आपश्रौ २१,
२०, २^{ag}; बौश्रौ; -नानाम् शाश्रौ
१०, १५, ८^{ah}; छुस् १, १ : १४;
१७; कप्र १, ७, १४; शुअ
१, ५४०; -नाभ्याम् शाश्रौ
६, १, ५; -नाय फंआश्रौ
१, ३, ६xx; शाश्रौ; आपश्रौ
४, ६, २^{ai}; हिश्रौ ६, २,
१०^{aj}; वैताश्रौ ६, १^{ak}; -ने
आश्रौ १, १०, ८^{al}; शाश्रौ;
-नेन शाश्रौ १६, १८, १२; काश्रौ;
-नेभ्यः शाश्रौ ६, १, ५; १०,
१६, ८^{am}; १८, ८; १९, २^{an}; काश्रौ
१२, ४, १८^{ao}; -नेषु भाशि २४^{ap};
-नैः काश्रौ १२, ३, ६; १३, २,
२४; बौश्रौ १६, ५ : १०^{aq}.

a) = याग-। b) घा. निर्देशः। c) पूष. = क्रिप. अनुकरण-। d) 'निश<>' 'तेश' इति पाभे.। e) वैप १ द्र.। f) पाठः १ यद्, अत्र इति द्विपदः शोधः (तु. सपा. मै १, ७, १; BC. च)। g) सपा. ऋ १०, ७, १ देव इति पाभे.। h) वैप १, २५३९० द्र.। i) विप., नाप. (प्रतिपत्-तिथि-). j) सप्र. आपश्रौ १८, २२, १५ उद्दष्टे इति पाभे.। k) वस. वा उस. वा। उप. कर्मणि घञ् प्र.। l) पाभे. वैप २, ३खं. युजमानः वैत्रा ३, ७, २, ७ टि. द्र.। m) पाभे. वैप २, ३खं. युजमानम् तैत्रा ३, ७, ६, ५ टि. द्र.। n) पाभे. वैप १, २५४१ d. द्र.। o) णः इति c. शोधः। p) सपा. हिपि २१ : १६ गौपि १, १, २७ यजमानमांसम् इति पाभे.। q) यजमानमांसम् इति B.। r) पाभे. वैप १, २३६४ h द्र.।

यजमानी^३- नी शंश्रौ
१, १५, ६.
याजमान^४- पा ४, ४, ४८;
५, १, १३०; -नः बौश्रौ २१,
५ : २५, २६; २५, ३, २२; -नम्
शंश्रौ २, ११, १; १४, ७; ५,
४, १; १३, १४, ३; काश्रौ ४,
१२, १५; १२, १, ९; २५, १३,
४१; आपश्रौ ४, १, १; १६,
१८; २१, १, १९; काठश्रौ २१^३;
बौश्रौ १३, १ : ८; २०, १८ :
१६××; भाश्रौ; लाश्रौ ८, ८, ९^०;
निसू ९, ९ : १२; आपिश्रौ १, २,
१ : ८; काण्ड २५, ३४; बौण्ड
३, १, २१; शुभ्र १, १४४;
मीसू ३, ८, १९; -नम्S-नम्
माश्रौ १, ८, ६, २७; -नस्य
बौश्रौ २०, १८ : १६; २३, १ :
५; -नाः आपश्रौ १४, १५, ४;
२१, ३, ३; बौश्रौ २०, १० :
३४××; हिश्रौ; -नात् वैताश्रौ ४,
२३; निसू ३, ८ : १९; -नानि
वैश्रौ २०, २० : ५; वैताश्रौ ४,
२३†; -ने आपश्रौ २१, १, १८;
बौश्रौ २०, २ : ५; २३, १९ :
१५; २७, ६ : १५†; भाश्रौ;
-नेन बौश्रौ २१, ८ : ३९; वैताश्रौ
४, २३†; -नेषु मीसू १२, ४, १;
-नैः आपश्रौ २१, ३, १०; बौश्रौ
२०, १० : ३०^३; ३२^३××; भाश्रौ
२, ७, ७; हिश्रौ १६, १, ३६.
याजमान-काल- -ले
भाश्रौ ४, २२, १४.
याजमान-ब्रह्मत्व- -त्वे
द्राश्रौ ४, ४, १; लाश्रौ २, ३,

१७.
याजमाना(न-ञ्)संयुक्त-
-क्तः बौश्रौ २६, १ : ११.
यजमान-कर्मन्- -मार्गि अप्राय
३, ५^२.
यजमान-गण- -णे मीसू १२,
४, ३२.
यजमान-गुह्य^१- -ह्याः काश्रौ ५,
३, ३; ६, २४; १०, १.
यजमान-चमस- -सः काश्रौस
३० : ९; -सम् वैश्रौ १५, ३१ :
३; हिश्रौ ८, ७, ४३; -सात्
वैश्रौ १५, ३१ : ४.
यजमानचमसो(स-उ)न्नयन-
क्रम- -मे वैश्रौ १५, ३१ : ३.
यजमान-स्व- -त्वम् मीसू ३, ७,
३७; १०, ६, ५२.
यजमान-दशपद्-> °प(य>)
द्या^०- -द्याम् काश्रौ ५, ३, २९.
यजमान-देवता-> °व (त्य>)
त्या- -स्या शुभ्र २, १२०.
यजमान-नर- -राः जैश्रौका
१३७.
यजमान-नामधेय- -यानि द्राश्रौ
१, ३, १९; लाश्रौ १, ३, १८.
यजमान-निमित्त^१- -त्तः शंश्रौ
४, ६, ३.
यजमान-पञ्चम^१- -माः शंश्रौ
१, १२, ६; आपश्रौ.
यजमान-पत्नी-होत्रा (तृ-आ)
दास- -शिषः ऋञ २, १०,
१८३.
यजमान-पात्र-> °त्र(त्र-ऋ)
जीष-हविस- -वीषि काश्रौ २२,
६, ७.

यजमान-पाद-मा(त्र>)त्री-
-त्रीम् काश्रौ १६, ३, २१.
यजमान-पितृ- -नृभ्यः काश्रौ
१०, ५, १२; वैश्रौ १६, १५ : २.
यजमान-पुरोहित- -तौ अ५ २९,
१, ५.
यजमान-प्रथम^१- -मान् वैश्रौ
१६, २६ : ११; हिश्रौ ९, ५,
४४.
यजमान-प्रशंसा- -सा ऋञ २,
८, ३१.
यजमान-प्रसङ्ग- -ङ्गात् वृदे ६,
७२.
यजमान-बहुत्व- -त्वेन मीसू १०,
६, ६०.
यजमान-बाहु- -हुम् काश्रौ
१५, ४, १४.
यजमान-ब्राह्मण- -णम् अश्र
९, ६(२).
यजमान-भयंकर- -रम् अ५
३०^३, १, ६.
यजमान-भाग- -गः काश्रौ ८,
१, ६; बौश्रौ २०, २४ : ३९××;
वाधूश्रौ २, १५ : १; -गम्
आश्रौ १, १३, ३; शंश्रौ;
-गस्य आपश्रौ ४, १६, ९;
बौश्रौ २५, ६ : ८; भाश्रौ ४,
२२, ३; -गात् माश्रौ १, ३, ३,
१९; -गे बौश्रौ ३, १८ : २३;
२०, २४ : २९; वैश्रौ ६, ११ : ६.
यजमानभाग-प्राशन- -नम्
हिश्रौ ६, ४, १६.
यजमानभाग-ब्रह्मभाग- -भौ
बौश्रौ २४, ३ : ७; ३७ : ५; २५,
६ : ९.

a) स्त्री. डीष् प्र. (पा ४, १, ४८) । b) बप्रा. सत् विप. (मन्त्र- प्रमृ.), नाप. (यजमान-कर्मन्, [याज-
मानाध्वर्यवकारणोक्त-] मन्त्र- प्रमृ.) । तस्य धर्म्यमित्याद्यर्थे अण् प्र. । c) °ज्वय° इति पाठः इ यनि. शोचः
d) उप. = पारिवारिकजन- । e) विप. । प्रमाणे यत् प्र. । f) वस. ।

यजमान-मांस-सम्^१ हिपि
२१: १६; गौपि १, १, २७.

यजमान-मात्र,त्रा-त्रम् हिशु
२, ६; -त्राम् वाश्रौ १, ३, १,
४३.

यजमानमात्री-त्री बौश्रौ
२४, २४: ४; भाश्रौ २, १, २^३;
आपशु; -त्रीम् काश्रौ ८, ५, २६;
आपश्रौ २, १, १^३xx; भाश्रौ.

यजमानमात्री-संमि
(त>)ता-त्ता: हिश्रौ ७, ७,
१२.

यजमान-मुख-खेन बौश्रौ
२४, २४: १०.

यजमानमुख-मात्र-त्रम्
काश्रौ ६, ४, ४.

यजमान-यज्ञकति-वाद-दान्
माश्रौ ५, ३, १३, १.

यजमान-योग-गात् काश्रौ ९,
१३, २३.

यजमान-लोक-के बौध ३, ७,
११.

यजमान-लोमन्-मानि काश्रौ
४, १, १८.

यजमान-वत् वैश्रौ १५, २४: ४;
मीस् ९, ४, १०.

यजमान-वशा-शा: बौश्रौ १७,
४: १२.

यजमान-वाचन-नम् द्राश्रौ
५, २, ११; लाश्रौ २, ६, १२;
-नात् द्राश्रौ ६, ३, ६; लाश्रौ २,
११, ३; -ने द्राश्रौ ४, १, ६;
लाश्रौ २, १, ६.

यजमान-वाचिन्-चि माश्रौ ५,
२, १, ३.

यजमान-वत्-तम् बौश्रौ २१,
९: २९.

यजमान-वत्तदुघा-घाम् काश्रौ
२६, ७, ४३.

यजमान-शब्द-ब्दम् द्राश्रौ
३, २, ८; लाश्रौ १, १०, ६;
-ब्दात् आश्रौ ५, ३, ७; निस्
५, १३: ९.

यजमान-षष्ठ-ष्टा: काश्रौ ८,
२, ६; वैश्रौ ८, १३: १०; १३,
१४: ६.

यजमान-संस्कार-र: मीस्
११, ३, ३४.

यजमान-संचर-र: लाश्रौ ४,
१०, २८; -रेण लाश्रौ ३, ७,
११.

यजमान-सदन-नम् वैश्रौ १५,
२३: १८.

यजमान सप्तदश-शा: आपश्रौ
११, १, २; भाश्रौ १२, १, २.

यजमान-समाख्यान-नात्
मीस् ३, ८, १९^६.

यजमान-संमि(त>)ता-त्ता
आपश्रौ ११, १०, २; -ताम् वैश्रौ
१४, १०: ८.

यजमान-सहित-तम् काश्रौ
७, ८, १७.

यजमाना(न-आ)ग्नि-दैवदय-
न्यम् शुअ २, ३४०.

यजमाना(न-आ)ग्न्यु(मि-उ)
पस्थान-नम् शुअ १, १७७.

यजमाना(न-आ)नुज्ञात-त:
वैश्रौ १२, १: ६.

यजमाना(न-आ)यत्-तम्
वैश्रौ ११, १: १.

यजमाना(न-आ)यत्तन-नम्
आपश्रौ १२, २०, ७; -नात्
बौश्रौ ११, ११: १०; -ने
आपश्रौ १४, २०, ५; १९, ९, १४;
२२, २५, ५; २८, २; १०; बौश्रौ.

यजमाना(न-आ)रूढ-ठम्
वैश्रौ १७, १३: ५.

यजमाना(न-आ)र्यजन-नात्
(?ना:°) वेताश्रौ ९, १८.

यजमाना(न-आ)र्षेय-याणि:
काश्रौ ३, २, ८.

यजमाना(न-आ)शिस-शिसम्
शुअ १, २२६; -शी: शुअ १,
१७०; २, ३८९xx.

यजमाना(न-आ)सन-ने आश्रौ
६, १०, २८; अप्राय ३, ५.

यजमाना(न-आ)हत-तम्
वाश्रौ १, ५, २, १५.

यजमानो(न-उ)क्ति-क्तौ काश्रौ
१०, ८, ३२.

यजमानो(न-उ)च्छ्रय-यम्
अप २१, ५, ३.

य(ज>)जा-जायै पाठ २, १७,
१०.

यजुस् (:, १, ४)^१-पाठ २, ११७;
पाग ४, २, ६०^१; -जु: शाश्रौ
६, २, २; काश्रौ २४, ७, १९;

आपश्रौ ४, ३, ५; ११, ६^१xx;
बौश्रौ; हिश्रौ १, १, २२; मैअ
७; २९; ३१; ३२; या १, १६^१;

७, १२^१; -जुभि: आश्रौ २,
१३, ८; ऋआपश्रौ १०, ३,
६xx; बौश्रौ; -जुभ्य: जैगृ
२, ८: ७; बौध ३, ९, ५^१;

-जुभ्याम् आपश्रौ ३, ८, ५;

a) पाभे. पृ १९९४ p द्र. 1

b) परस्परं पाभे. 1

c) बस. 1

d) याजमाने समा इति जीसं.

अर्थात्. 1 e) पाठ: इ यनि. शोध: (तु. c., सप्र. लाश्रौ ५, ३, ६ यजमानस्यामात्या: इति पाभे. च) 1 f) बस. 1.

g) = देवता-विशेष. 1 h) वैप १ द्र. 1 i) तु. पागम. 1

१६, २२, ७; वाधूश्रौ; -जुषः
 बौश्रौ ७, १७ : ३; माश्रौ; -जुषा
 काश्रौ २५, १, १३; आपश्रौ;
 -जुषाम् शाश्रौ १३, २०, ७;
 अप्राय ३, ४; शंघ २००; शुअ
 १, २; अयं २ : २; चव्यू २:१२;
 ३९; ऋप्रा १६, १०; १३; याशि
 १, ३१; उनिस् ३ : १७; पिं २,
 ६; १६; -जुषि शुप्रा १, १३२;
 पा ६, १, ११७××; -जुषी
 बौश्रौ ६, ६ : २४××; शुअ;
 -जुषेऽजुषे शाश्रौ ४, ८,
 १; बौश्रौ; -जुषोः बौश्रौ २१,
 १० : १; वाधूश्रौ ४, ११५ : ८;
 -जुषु आमिष्ट १, १, ३ : २९१;
 शुपा ४, ८०; चाअम् ४; -जुःषु
 वैष्ट २, ६ : ६१; हिष्ट १, ५, १३१;
 वृदे २, १५३; १५४; -जूषि
 शाश्रौ १५, ११, ६; काश्रौ;
 आष्ट ३, ३, १-३; आमिष्ट २, १,
 ४ : ३१^०; चव्यू २ : १०; ३१.
 याजुष^० -षः बौश्रौ २२, २:
 ३; -षम् शाश्रौ १६, २, ६; बौश्रौ
 २०, २ : ३८; ४०; -षाः मैअ
 २०; -षाणि याशि १, ३९०;
 -षात् बौश्रौ २०, २ : ३८; ४०;
 -षेषु मैअ २८.
 याजुषी- षी अअ ८,
 १०(२); ९, ६ (१, ६)××; -षीः
 बौश्रौ १०, २० : १४××; -षीम्
 बौश्रौ १०, ५५ : ३-६; -ष्यै
 बौश्रौ २२, २ : २.
 याजुषी-गायत्री-
 -ष्यः अअ ११, ३(२).

याजुष्क- पा ४, २, ६०.
 १यजुर्-अन्त- -न्ते शुअ २, १३.
 २यजुर्-अ (न्त >) न्ता^० - न्ता
 शुअ १, १३२; ३५५××; -न्ताः
 शुअ २, १८२; -न्ताम् शुअ १,
 १३०; ४६८; २, १०३; -न्ते
 शुअ १, ३२२.
 यजुर्-अन्तम^० - मानि वैश्रौ
 १८, १ : १३.
 यजुर्-अन्तरय^० - ये द्राश्रौ १,
 १, २६; लाश्रौ १, १, २५.
 यजुर्-अष्ट(म >) मा^० - माभिः
 आपश्रौ १६, १, ४; हिश्रौ ११,
 १, ७.
 यजुर्-आदि- -दि माशि १२९.
 यजुर्-इष्टका- -काः बौश्रौ १९,
 ७ : ४५; -के बौश्रौ १९, ७ : ६;
 १५; २६; ३४.
 यजुर्-वत्पूत, ता- -ताभिः भाश्रौ
 ७, १७, ८; माश्रौ १, ८, १, २५;
 २, २, १, १९; वैश्रौ १६, २३ : ५;
 हिश्रौ ९, ५, ६; १२, ५, १९;
 -तेन हिश्रौ ५, ३, ९.
 यजुर्-उन्न^० -न्नः या ३, १९.
 यजुर्-ग(र्म >) भा^० - भां शुअ
 २, १९.
 यजुर्-निगद- -देषु आश्रौ ३, २,
 १६.
 यजुर्-म(ध्य >) ध्या^० - ध्या
 शुअ १, ६१५.
 यजुर्-मय- -यः लाश्रौ १, ६,
 ३७१; सु २७, ३; शुअ ४, २१९;
 -यम् बौश्रौ १६, ६ : १७; -याः
 मैअ २१.

यजुर्-मान- नम्^० आपश्रौ
 २१, १३, ८; ९; -नस्य हिश्रौ
 १६, २, १^०; -नेन^० हिश्रौ १६, २,
 १०; ११.
 यजुर्-युक्त- -क्तः आपश्रौ १८,
 ३, १३; वैश्रौ १७, ११ :
 ६××; मीस् १०, ३, ७४^०;
 -क्तम् काश्रौ १४, ३, १८;
 आपश्रौ १५, ६, २^१; १८, ३,
 १०××; बौश्रौ; -क्तात् काश्रौ
 १४, ४, १२.
 यजुर्-युज्- -युजः बौश्रौ ११, ७:
 २२; ९ : ४; -युजम् बौश्रौ ११,
 ९ : ९.
 यजुर्-विद्^० - विदम् वैताश्रौ
 ११, २.
 यजुर्-वेद^० -दः आश्रौ १०, ७,
 २; शाश्रौ १६, २, ६; वाधूश्रौ;
 -दम् कौष्ट १, १६, १६१^०; शांष्ट
 १, २४, ८^१; आमिष्ट; -दस्य
 बौष्ट २, ९, ५; माष्ट ३, १५ :
 ४; चव्यू २ : १××; -दात्
 वैताश्रौ १, ८; -दाय आमिष्ट
 १, २, २ : २५; बौष्ट; -दे
 शाश्रौ ३, २१, ३; आमिष्ट २, ४,
 १२ : ११; पाष्ट २, १०, ५; साअ
 १, १९२; -देन आपश्रौ २४, १,
 ६; ९; १८; माश्रौ.
 यजुर्वेदा(द-आ)मनाय- -ये
 शुअ १, १.
 यजुः-शब्द- -ब्दः मीस् २, १,
 ३५.
 यजुः-श्रुति- -तौ ऋअ ३, १३.
 यजुष्-कृत- -तम् बौष्ट ३, ५, ७;

a) सपा. यजूषि <> यजुर्वेदम् इति पाभे. b) विप. तस्येदमाद्यर्थे अण् प्र. c) भाप. d) बस. e) उप. = त्याग- इति भाष्यम्. f) उप. <√उद्. g) सपा. णम् <> णस्य <> णेन इति पाभे. h) ष्के इति जीसं. i) शोषार्थं वैप १, २५४२ g द्र. j) उप. <√विद्. (ज्ञाने) k) = वेद-विशेष-

-तानाम् बौश्री ३, १५: १३.
यञुष्-क्रिया- -या काश्री १, १०,
१३.
यञुष्-ट(<त)स(:) आश्री १,
१२, ३२; आपश्री.
यञुष्-टव(<त्व)- -ट्वम् मैत्र
१५.
यञुष्-पात्र- पा ८, ३, ४८.
यञुष्-मत्- -मत् या ११, ४३.
यञुष्मनी^१- -ती: काश्री १६,
७, १८; १७, ९, १५.
†यञुः(, ष् [हिष.]) -पवित्र^२-
-त्रेण आपध १, २, २; हिष १, १,
३५.
यञुः(, स[वैध.]) -संहिता- -ताम्
वैगृ ६, ८: ९; वैध २, १३, ५.
यञुः-सहस्र- -स्राणि चव्यू २:
१८.
यञुः-साम(म-रु)र्च- -मर्चाम्
उनिस् ३: १?^३.
यञुः-सुत^४- -तम् या ११, ४.
यञु^५- पा ३, ९०; पाग ४, २,
६०: ३, ७३^६; -†०ञ् आश्री १,
११, १५; शाश्री; आपश्री १४,
२७, ७^६; विध ९८, ५३^६; -ञः
†आश्री १, ११, ७; १२, ३४; ३,

१०, ६; १३, १५^६; १४, १०^६xx;
शाश्री; आपश्री २, १४, १३^६; ३,
१२, १^६†; १४, २६, ५^६†;
बौश्री †४, ३: २३^६; भाश्री ३,
११, १^६†; ७, ५, ६†^६mm; हिश्री
२, ६, १६^६†; ४, २, २०†^६;
आमिगृ १, ५, ४: १८^६†; निघ
३, १७†; या ३, १९^६; ७, ४;
७; -ञम् †आश्री १, ३, २३xx;
शाश्री १, १५, १७†^६; १०, ९,
१७^६†; काश्री २, २, २१†^६;
आपश्री ७, १७, २†^६; ९, १६,
४^६; १४, ३०, ४†^६; ३२, ७†^६;
२२, १९, १^६†; हिश्री ४, ३,
५५†^६; १५, ७, १९†^६; शां ४,
१२, ७^६; -ञम्-ञम् शाश्री
४, ११, १; काश्री ३, ३, १२;
बौश्री १, २१: ७; ३, २०: ६; माश्री
१, ३, २, ७; -ञस्य आश्री १,
६, १†; ३, १३, १५xx;
शाश्री; आपश्री ३, १२, १^६;
भाश्री ३, ११, १^६†; हिश्री २,
६, ४^६; १५, ७, ८^६; आमिगृ
१, ५, ४: १७^६; -†ञाऽञा
आश्री ५, २०, ६; शाश्री;
-ञा: आपश्री १३, २२, १†^६;

वाधुश्री; हिश्री ९, ५, ४३†^६;
-†ञात् आपश्री ६, २४, ८;
बौश्री २, ९: ३^६; भाश्री; -ञान्
शाश्री १५, ५, १; द्राश्री;
-†ञानाम् आश्री १, ३, ६xx;
शाश्री; उनिस् ४: ४; -†ञाय
आश्री ७, ११, १४; १७; शाश्री;
आपश्री १२, २२, ९^६†; बौश्री
७, १३: २८^६; हिश्री ८, ७,
१९^६†; -ञे †आश्री १, ९, १;
१०, ८; २, २०, ४^६xx; शाश्री;
काश्री २२, ३, १^६†; माश्री १,
६, ३, १८†^६; हिश्री १७, ७,
१०^६†; कौगृ ३, ११, ६†^६; ४,
४, ११†^६; अत्र ७, ९७^६†;
-ञेऽञे वाधुश्री ४, ११४: ५;
निस् ३, १०: ४२; -ञेन
†आश्री १, ३, २२; २, १६,
७xx; शाश्री; आपश्री २, १४,
१३†^६; †हिश्री २, १, ३७^६; या
१२, ४१†^६; -†ञेभिः आश्री
७, ११, २४; शाश्री १०,
५, ६; -ञेषु आश्री ८, ९, २†^६;
†शाश्री; -†ञैः आश्री ३, ८, १;
शाश्री; हिश्री ३, ६, १५^६†; -ज्ञौ
कौसू ७२, ४४; ७३, १६†.

- a) = इष्टका-विशेष- । b) = मन्त्र-विशेष- (तै १, २, १, १) । c) षचि इति पाठः ? यनि. शोधः
(तु. संस्कृतः टि.) । d) उप. <√सु [अभिषवे] । e) वैप १ द्र. । f) तु. पागम. । g) पामे. वैप १,
२५४३ d द्र. । h) = विष्णु- । i) पामे. वैप १, १२७२ 8 परि. च द्र. । j) पामे. पृ १७५५ 8 द्र. ।
k) पामे. वैप २, ३ खं. यञुः तैत्रा ३, ७, ११, ५ टि. द्र. । l) सपा. हिश्री १५, ६, ३६ यञुःकतुः इति पामे. ।
m) सपा. आपश्री ७, ७, २ विष्णुः इति पामे. । n) वृद्धितः पाठः (तु. सपा. हिश्री ४, २, २०) । o) पामे.
वैप २, ३ खं. यञुम् शां २६, ६ टि. द्र. । p) सकृत् सपा. शौ ६, ३५, ३ आश्री ८, ११, ४ उक्थम् इति पामे. ।
q) सपा. शौ ९, ५, २ यञे इति पामे. । r) पामे. पृ १८८५ j द्र. । s) पामे. वैप २, ३ खं. यञे तां २१, १०,
१९ टि. द्र. । t) सपा. यञुम् <> यञे इति पामे. । u) पामे. वैप २, ३ खं. यञुस्य तैत्रा ३, ७, ११, ५ टि. —
द्र. । v) पामे. वैप १, २३८८ f द्र. । w) पामे. वैप १, २५४९ ० द्र. । x) सपा. मै १, ३, १२ यञे
इति पामे. । y) पक्षे इति BI. । z) पामे. पृ ४४९ ० द्र. । d¹) सपा. शां ४, १८, ७ चने इति
पामे. । b¹) पाठः ? यञुस्य इति शोधः । c¹) पामे. पृ १७५६ l द्र. । d¹) पामे. वैप १ परि. यञे
शौ १२, ३, ६ टि. द्र. ।

याज्ञ^१- पा ४, ३, ७३; -ज्ञे
अप्राय १, १; या १, १७^०; ६,
२२; -ज्ञेषु या ७, ३.

याज्ञ-देवत-तः या ७,
४०; -ते या १, २०^०.

याज्ञिक-का^०- पा ४, २, ६०;
-कः वायु ६, ३२; काशु ७, ३४;
-कम् वैश्रौ ११, ९ : ५; आग्निगृ;
-कस्य पायु २, ६, ८; बौध १, २,
१६; -काः बौश्रौ प्र ३ : १३^१;
जैश्रौका २१५; निसू २, १ : ७;
२८^१; वैगृ १, ८ : ८^६; कप्र;
-कात् आग्निगृ २, ७, २ : १५;
३, ९, ३ : १; बौगृ १, ३, २; भागृ;
-कानाम् बौश्रौ २८, १३ : १४;
वैश्रौ; -कानि बौपि ३, १, २०;
-के आग्निगृ २, ४, ९ : १४; अप
२३, ५, २; -केभ्यः शांगृ १,
१४, १७^०; -केषु अप २३, ६,
३; -कैः शांश्रौ ७, ४, १३; वैश्रौ.

याज्ञिकी-की शांश्रौ
१, २, ३; काशु ७, २७; -कीभ्यः
बौगृ ३, १, ४; २, ५××.

याज्ञिक-शकल-लानि
आग्निगृ ३, १२, २ : २.

याज्ञिका(क-अ)नुमत-
-तेन अप २३, १४, १.

याज्ञिक्य- पा ४, ३,
१२९.

यज्ञ-कर्मन्-र्म मीसू ९, १, १;
९; -र्मणि काश्रौ १, ८, १९;
बौश्रौ.

यज्ञकर्मा(र्म-अ)र्थ-थ्याः
हिश्रौ १, १, १५.

यज्ञ-काण्ड-परिच्छद^१-दम्
अप २४, ४, १.

यज्ञ-काम--०म शांश्रौ १६, २९,
७^१; -मः आपश्रौ ५, ३, ६; ७,
१, १६; माश्रौ; -मस्य शांश्रौ
५, २, २; हिश्रौ २१, २, ५०^१; या
१०, ४५; -माः आपश्रौ २१,
१, १४; निसू २, ३ : १६.

यज्ञ-कात्स्न्य-त्स्न्यम् हिश्रौ ३,
१, ८.

यज्ञ-काल-लः लाश्रौ ८, १,
१; निसू २, ५ : १५.

यज्ञकाला(ल-अ)र्थ-सिद्धि-
-द्वये वेज्यो २.

यज्ञ-कीर्ति-र्तिम् चाञ्ज ३० : ९.

यज्ञ-कृत^१-कृतः बौश्रौ ७,
१० : २; वैश्रौ १५, २३ : २; हिश्रौ
८, ५, २४; -कृतम् लुसू ३,
२ : २.

यज्ञ-कृत्स्न्य(प्ति-अ)र्थ-र्थम्
अप २३, ११, ४.

यज्ञ-कृतु^१-तवः शांश्रौ १६,
२३, ६; बौश्रौ १४, ४ : २४^१××;
वाधूश्रौ; -तुः शांश्रौ १६, २०,
१३; २९, ८^१; बौश्रौ; हिश्रौ

१५, ६, ३६^६; -तुना शांश्रौ १४,
२७-२८, १; १५, १, १०; बौश्रौ;

-तुभिः शांश्रौ १५, १, ३; बौश्रौ;

-तुम् शांश्रौ १०, १४-१८, २××;
आपश्रौ; -तुषु बौश्रौ २७, २ :

१६; भाश्रौ ६, १, ६; -त् शांश्रौ
१४, ३८, १^१; -त्सु शांश्रौ १४,
६९, २; ७५, २××; आपश्रौ;
-त्तानम् बौश्रौ ७, ४ : ६^१××;

वाधूश्रौ ३, ९२ : ९; -तोः
बौश्रौ २, ३ : १५; १८, १३ :
५; १३; वाधूश्रौ; -तौ हिश्रौ
१७, २, ५९^१; -त्वोः वैश्रौ
४, १ : २.

यज्ञ-क्रम-मः वैताश्रौ ४३,
४५

यज्ञ-गत-तौ काव २७५ : ८.

यज्ञ-नाम्य^१-म्य विध २८,
५६.

यज्ञ-नाथा-था आश्रौ २, १२,
६; ५, ५, २१; ८, १३, ३१; शांश्रौ.

यज्ञ-ज्ञ-ज्ञाः कप्र १, ५, ३; या
११, १८.

यज्ञ-तति-तिः शौच ४, १०४.

यज्ञ-तनू^१-नूः आपश्रौ १२,
१, ३; १४, १७, २; १७, ६, ३;
बौश्रौ; -नूभिः वैताश्रौ १६, ५;

-नूम् वैश्रौ १५, १ : १०; -न्वा
वैश्रौ १५, १ : १०; ११.

यज्ञ-तन्त्र-न्त्रे वाध १, ३१;
आपध २, ११, १९; हिध २, ४,
३४.

यज्ञ-तपस-पसोः निसू १०,
८ : २४.

यज्ञ-तुर^१-तुर^१ > याज्ञतुर^१ -रः
शांश्रौ १६, ९, ८; -रे शांश्रौ
१६, ९, १०.

यज्ञदत्त (> याज्ञदत्तक-पा.)
पाग ४, २, ८०.

यज्ञ-दान-यु(क)क्ता-क्ताः
काश्रौ २०, २, ७.

यज्ञ-देवता-> व(त्य) > स्या-
स्या शुभ्र १, ५४९; २, ३०३.

a) तस्येदमाद्यर्थे अण् प्र. । b) यज्ञे इति कश्चन मूको. । c) कस. । d) द्वस. । ०३० इति केचन मूको. । e) विप., नाप. (याजक-) । तस्येदमाद्यर्थे प्र. । f) व्यप. । g) = याज्ञिकी- । h) पाभे. पृ ११२५ ● द्र. । i) पस. > बस. । j) वैप १ द्र. । k) पाभे. पृ १९९८ l द्र. । l) सपा. आपश्रौ २२, ६, १४ क्रतौ इति पाभे. । m) = विष्णु- । n) वैप २, ३६. द्र. ।

यज्ञ-दैवत- > ंत-विश्व^a-
 -श्वान् वैष्ट १, १३: २; ३; वैष
 १, ६, ४; -श्वभ्यः वैष्ट १, १५:
 १४; १७; वैष १, ६, ४.
 २यज्ञ-दैवत^b -तम् वैष्ट ३, १६:
 ६; शुभ्र १, २१६.
 यज्ञ-नामन्- -म या १, ८;
 -मानि निघ ३, १७; या ३, १९.
 यज्ञ-निघन^c -०न विघ ९८,
 ५७.
 यज्ञ-नी- -नियम्^d बौश्रौ १,
 ७: १२; १३: ३५; -नी: भाश्रौ
 ९, १९, ३; -न्यम् शाश्रौ ४, ८,
 ३^d; -न्यो: या ७, ३०.
 यज्ञ-पति^e -पाग ४, १, ८४४;
 -तये शाश्रौ १०, १५, ६;
 आपश्रौ १२, २२, ९^f; बौश्रौ^f
 ७, १३: २८; ३०-३४; हिश्रौ ८,
 ७, १९^g; अय; -ति: आश्रौ
 १, १२, ३४; शाश्रौ ४, ११, ४;
 १३, ३६; काश्रौ ३, ८, २६६;
 आपश्रौ १, १३, ११xx; ४,
 १३, ९६; ७, १४, २६; बौश्रौ १,
 ९: १४; ३, २०: ९^hxx; ६:
 ६^h; ७, ३: २६^h; भाश्रौ^h ४,
 १९, ८; ७, ११, ३; भाश्रौ^h
 १, ४, ३, ५; ८, ३, १२;
 वाश्रौ^h १, १४, १४; ६, ४, १९;
 वैश्रौ ७, १२: ३६; हिश्रौ^h ४, ३,
 २५; ६, ४, ११; वैताश्रौ ४,
 २१^h; मैत्र १६६; -तिना
 आपश्रौ १४, २६, १; हिश्रौ १५,
 ६, २९; -तिम् आश्रौ १, ७,

७; १३, ६xx; शाश्रौ; -०ते
 बौश्रौ ४, १०: २३^h, ५, ४: २२^h;
 ८, १८: ९^h; २०: ९; १७, ३७:
 १०^hxx; भाश्रौ ७, २२, १७^h;
 वैश्रौ; -ते: बौश्रौ १, १५: २२;
 वाश्रौ १, ६, १, २३; -तौ आश्रौ
 ३, ११, २; शाश्रौ.
 यज्ञपत्नी- -त्नी भाश्रौ
 ९, १९, ३^f.
 याज्ञपत- पा ४, १, ८४.
 यज्ञपति-वत् मीसू १०, ४,
 ५०.
 यज्ञ-पथ- -थम् शाश्रौ १६, १०, ८.
 यज्ञ-पद्- > षदी^b -दी अअ
 १०, १३^f.
 यज्ञ-परिभोजन^c - नम् बौश्रौ
 १२, ५: ३.
 यज्ञ-परुस्^d -रु: बौश्रौ २९,
 १०: १२^f; -रुषा बौश्रौ १९,
 २: ११.
 यज्ञ-पा- -पा: वैताश्रौ ३७, २.
 यज्ञ-पात्र- -त्राणाम् अय २३, १,
 १; विघ २३, १०; -त्राणि शाश्रौ
 ५, १४, ५; काश्रौ; -त्रेषु लाश्रौ
 ८, ८, ३५; अय २३, १४, २; -त्रै:
 वैश्रौ २१, ९: ९; लाश्रौ.
 यज्ञपात्रा (त्र-आ)युध-विभू-
 विन- -त: कप्र ३, २, १६.
 यज्ञ-पार्व- > ंश्व-हौत्रक^e-
 -कम् चव्यू २: ३१.
 यज्ञ-पुच्छ^f -च्छम् आश्रौ ६,
 ११, २; बौश्रौ २५, १६: १६;
 २६, ३२: २१; ३३: १०; लाश्रौ

९, ५, ४; -च्छानि बौश्रौ २६,
 १२: १२.
 यज्ञ-पुरुष^g -ष: शुभ्र ३, ३;
 ७०; -षम् वैष्ट ४, १२: ११.
 यज्ञपुरुष-देवता- > ष्य-
 -त्य: शुभ्र २, ३२४.
 यज्ञ-पृत- -त: विघ ८३, १०.
 यज्ञ-प्रत्यवहार- -रेण निस् ८,
 ४: ३५.
 यज्ञ-प्रत्युक्त- -क्तम् मीसू ९, १,
 ३.
 यज्ञ-प्रयोजन- -नम् मीसू ९, १,
 १९.
 यज्ञ-प्रवा(द>)वा^h -दा:
 निस् २, ११: ९.
 यज्ञ-प्रसारणी-काल- -ले बौश्रौ
 २८, ११: ८.
 यज्ञ-प्रायश्चित्त- -त्ते वैष्ट ३, ६:
 ६.
 यज्ञ-मीⁱ -मी: आश्रौ २, १२,
 ५; ५, १०, ४; शाश्रौ ७, १०, ९.
 यज्ञ-फल- -लम् वैष्ट ५, ८: ९;
 अय १३, ५, १; शंघ १२४.
 यज्ञ-बलि-होम-जल-पुष्पा
 (घ-२वा)घ- -घै: वैष १, ४, ४.
 यज्ञ-भाग- -नाम् या १४, ३०.
 यज्ञभाग-विवर्जित- -ता:
 गौपि २, ४, १८.
 यज्ञभाग-हर^j -०र विघ
 ९८, ६६.
 यज्ञ-भाण्ड- -ण्डम् वैष्ट ५, ३:
 २; -ण्डानि वैष्ट ५, २: ७.
 यज्ञभूतिक- -कै: आमिष्ट २,

a) वा. उप. उत्तरवर्तिना देव- इत्यनेन संबद्धं द्र. । b) बस. । c) = विष्णुः । d) पाभे.
 वैष १, २५५२ a द्र. । e) वैष १ द्र. । f) सपा. मै १, ३, १२ यज्ञपतौ इति पाभे. । g) पाभे. वैष १,
 २५३९ h द्र. । h) पाभे. वैष १, २५३९ g द्र. । i) ंदी: इति पाठ: ? यनि. शोष: (तु. शौ १०, १०, ६) ।
 j) उप. = [यज्ञोपकरण-] दर्मादि- । k) = परिशिष्ट-द्वय- । l) वैष २, ३३६. द्र. । m) = विष्णुः, श्ववि-विशेष-
 (शुभ्र.) ।

६, ५: १६^a.
 यज्ञ-श्रेष- -षः^b बौश्रौ २७, २: ३; ४: ५; २९, ४: १२; वैश्रौ २०, २५: ८; हिश्रौ १५, ८, ३३; -षम् बौश्रौ ३, १४: २.
 यज्ञ-मनस्^c- -ना: आश्रौ १, १२, ३०.
 यज्ञ-मय- -यम् वाधूश्रौ २, १६: ५.
 यज्ञ-मह^d- -हे सु १२, ३.
 यज्ञ-मुख- -खम् ऋश्रौ ३, १७: २; ५; ९×४; निस् ३, १: ६; -खस्य शाश्रौ १६, २०, १४; -खात् निस् ३, ३: २१[†]; -खे शाश्रौ १४, ३१, ४; बौश्रौ; -ऋखेन आपश्रौ ५, ६, १; बौश्रौ.
 यज्ञ-मुष्^e- -ऋमुष: बौश्रौ १४, २१: ३; १०×४; बौगु ४, ४, १.
 यज्ञ-मूर्ति^f- -०र्ते विध १, ५२.
 यज्ञ-यशस^g- -सम् आपश्रौ ११, १, ४; -ऋसेन आपश्रौ १२, २९, १; १६, १, ६; माश्रौ.
 यज्ञ-याजिन्- -जी विध ३, ७८.
 यज्ञ-योग- -गेन वैश्रौ ४, ६: १७.
 यज्ञ-योग^h- -०ग विध ९८, ५५.
 यज्ञ-रूप- -पम् बौश्रौ २३, १७: ३.
 यज्ञरूप-स्युतⁱ- -तम् काश्रौ १५, ५, ११.
 यज्ञ(ज्ञ-ऋ)र्त- -र्त: अश्रौ ८, १०[†].
 यज्ञ-लक्ष(रा)>ण^j- -णा श्रप

२१, २, ५.
 यज्ञ-लोप- -प: हिपि २१: ३[†].
 यज्ञ-वज्र- -ज्रम् वाधूश्रौ ४, ६३: १; ८०: २; -ज्रेण वाधूश्रौ ४, ८०: ३.
 यज्ञ-वराह- -हेण विध १, १२.
 यज्ञ-वल्क^k- -पाग ४, १, १०५; २, १११; -ल्का^l बौश्रौप्र ३१: ५.
 यज्ञवल्क्य- पा ४, १, १०५; पावाग ४, २, ६६. -ल्क्य: शुश्र १, १; -ल्क्यम् शंघ ११६: ४२; बौध २, ५, २७[†]; -ल्क्याय बौगु ३, ९, ६[†]; -ल्क्येन याशि १, १९; २, १८; ११७.
 यज्ञवल्क- पा ४, २, १११.
 यज्ञवल्कीय- -यम् शुश्र ४, १६७.
 यज्ञवल्क्या(ल्क्य-आ)- दि- -विभ्य: पावा ४, ३, १०५.
 यज्ञ-वाङ्^m- -दान् अष ६८, १, १, ३५.
 यज्ञ-वास्तुⁿ- -स्तु बौश्रौ १४, १९: १३; २६, ७: १३; आग्निगु २, ५, ६: २३; गोगु^o १, ८, २५; २८; द्रागु २, १, २७[†]; कौसु; -स्तुनि कप्र २, ९, २५; -स्तौ बौश्रौ १४, ५: ३६[†].
 यज्ञवास्तु-रूप^p- -पम् बौश्रौ १७, ११: १३.
 यज्ञवासव(स्तु-अ)न्त- -न्ते

कप्र १, ८, १०.
 यज्ञ-वाह^q- -हानाम् बौश्रौप्र ५१: १; वैध ४, ८, ३.
 यज्ञवाह- -०ह बौश्रौप्र ५१: १; वैध ४, ८, ३.
 यज्ञवाह-वत् बौश्रौप्र ५१: २; वैध ४, ८, ३.
 ऋयज्ञ-वाहस्^r- -हस: बौश्रौ ५: ७: १२[†]; -०हस: वैश्रौ २०, ३८: ७; हिश्रौ १५, ८, २५; -हसम् बौश्रौ ६, ७: ८[†]; -०हसा आपश्रौ २१, ७, १६; हिश्रौ १६, ३, ३५; माश्रौ २, ४, २, ११; वाश्रौ ३, २, २, १.
 यज्ञ-विद्^s- -विद: कप्र ३, ६, ३; अष ५३, २, ४; -विद्भि: कप्र २, १०, १६.
 यज्ञ-विधि- -धि: अष २२, ७, १.
 यज्ञ-विश्रष्ट^t- -ष्ट: आपश्रौ २२, ६, १४; बौश्रौ १३, २६: १[†]; हिश्रौ १७, २, ५९; २२, ४, ७; -ष्टम् आपश्रौ १४, १४, ११; -ष्टस्य काश्रौ २२, ४, ३२; हिश्रौ २२, ४, ७; क्षुसु १, ४: २६; -ष्टे क्षुसु १, ८: ३०.
 यज्ञ-विलोप- -प: निस् २, ६: ३; गौपि २, ७, ३.
 यज्ञ-विवर्ध(न)>नी- -नी अष १८, १, ७.
 यज्ञ-विवाह- -हयो: गोगु ४, १०, २६[†]; द्रागु ४, ४, २६[†]; गौध ५, ३०.
 यज्ञ-विष्णु- -ष्णु अश्रौ ३, ४.

a) पाठः ? भूतियज्ञकैः वा भूतयज्ञकैः वेति शोचः संभाव्येत (तु. सप्र. बौगु २, ९, १५ भूतयज्ञेन इति पाभे.) ।
 b) पाभे. पृ १८८५ ज द्र. । c) बस. । d) उप. = उत्सव- । e) वैप १ द्र. । f) = विष्णु- । g) विप. (वस्त्र-). बस्त्र. पूष. = सुकृशुवादि-विह- । h) = ऋषि-विशेष- । i) बहु. < यज्ञवल्क्य- । j) परस्परं पाभे. । k) उष. अणन्तम् । l) = कर्म-विशेष- । m) नाप. । बस. । n) पाभे. वैप १, २५५३ II द्र. । o) पाभे. वैप १, २५५३ II द्र. । p) उप. < विद् [ज्ञाने] ।

यञ-वृक्ष- -क्षः अप २३, १, २;
 -क्षाः अप २३, ६, ५.
 यञ्वृक्ष-ज-वल्कल- -लैः
 अप २२, ७, २.
 यञ्वृक्ष-मय- -यैः अप २६,
 ४, ६.
 यञ-वृध^a- -वृधः या १२, ३३.
 यञ-वेशस^a- -स्म बौश्रौ १४,
 ११: ३१; १७, ११: १३.
 ?यञवोढवे^b निसू १, ६: २३.
 यञ-शरीर- -रम् बौश्रौ २९, ४:
 २६.
 यञ-शर्मन्^c- -र्मणः आमिष्ट ३,
 ३, १: ३^३; ४-६.
 यञ-शिष्ट- -ष्टम् वैध २, १५, ६.
 यञशिष्टा (ष्ट-ञ) शन- -नम्
 विध ६७, ४३.
 यञ-शेष- -षम् द्राश्रौ १५, ३,
 २०; लाश्रौ ५, १२, ४.
 यञ-श्रेष्ठ^d- -ष्ठौ कौसू ७३, १७^३.
 यञ-सयोग- -गात् या ९, ११;
 मीसू २, ३, ३; -गे पा ३, २,
 १३२; ४, १, ३३; -गेन या १०,
 २१.
 यञ-संसिद्धि- -द्धिस् गोष्ट १, ६,
 १७.
 यञ-संस्था- -स्थाः शांष्ट १, १,
 १५; -स्थाम् हिश्रौ १७, ३, २३.
 यञ-संकर- -रम् अप ७२, ४, २.
 यञ-समास- -सः निसू १०,
 ८: ७.
 यञसमास-त्व- -त्वात् निसू
 १०, ८: १७.
 यञ-समृद्धि- -द्धये आमिष्ट २,

६, ५: ९; बौष्ट २, ९, ११; भाष्ट
 ३, १५: १८; -द्धिस् आश्रौ १०,
 ८, ३; -द्धीः बौश्रौ १, २१: ११;
 बौष्ट ४, ९, ६.
 यञ-संपादिन्- -दिनः या ९,
 ३७; -दिनाम् या ७, २७.
 यञ-संपूर्ण-काम- -मः अत्र ७,
 ९७.
 यञ-संप्रदाय- -यम् भाश्रौ ३,
 १५, ६; हिश्रौ १०, ८, ३.
 यञ-संबन्धि(न् >)नी- -नीम्
 अप्राय ६, ८.
 यञ-साधन- -नम्^e आपश्रौ
 १७, २२, १; हिश्रौ १२, ६, २६^f.
 यञ-सामान्य- -न्यात् निसू ६,
 ७: ४६.
 यञ-सारथि^g- -थि जैश्रौ २५:
 १; जैश्रौका २०५; द्राश्रौ २, २,
 ४३; लाश्रौ १, ६, ४०.
 यञ-सिद्धि- -द्धये बौश्रौ २१,
 १०: ८; बृदे ५, ५२.
 यञ-सेन^h- -नस्य चात्र ३९:
 १८.
 यञसेन- -नः वायूश्रौ ४,
 ३७: १; ६.
 यञसेन^h- > नी- -नी
 आपश्रौ १७, २६, ९^३; -नीनाम्
 बौश्रौ २२, ८: १९; -नीम्
 आपश्रौ १७, ४, ९; हिश्रौ १२,
 १, ४०; -न्या वैश्रौ १९, ५: २.
 ?यञ-सोमैक-शौच- -चम् शंघ
 १६७.
 यञ-स्तम्भⁱ- -म्भाः बौश्रौप्र
 १७: १४.

यञ-स्तुति- -तिः शुअ २, ३२१.
 यञ-स्थ-ऋत्विज्- -त्विजे
 विध २४, २०.
 यञ-स्थान- -नम् निसू ७, ६:
 ६; -नानि निसू २, ५: १; -ने
 निसू ७, १२: ९; ८, १: १४^३.
 यञ-हन- -हनः आपश्रौ ४, ६,
 ४^३; १४, १०; ७, ७, २; बौश्रौ.
 यञ-हुत्^l- -हुताम् विध २९,
 १४^k.
 यञ-हेतु-त्व- -त्वात् मीसू ९,
 ४, ५४.
 यञा(ञ-आख्या >) ख्य-
 -ख्येभ्यः पा ५, १, ९५.
 यञा(ञ-अ)गार- -रेषु शाश्रौ ५,
 १४, १; -रैः शाश्रौ १८, २४,
 १४.
 यञा(ञ-अ)गिनसाधन-वादि-
 (न् >)नी- -न्यः शुअ २,
 २९५.
 यञा(ञ-अ)ङ्ग- -ङ्गम् कौसू २,
 २८; या ७, ४; १४, १; -ङ्गस्य
 भाश्रौ ६, १५, ७; -ङ्गानि आश्रौ
 ३, १, १९; काश्रौ; -ङ्गे भाश्रौ १,
 २, ५; पा ७, ३, ६२; मीसू ४, ३,
 १८; -ङ्गेन आपश्रौ २४, २,
 १४; भाश्रौ १, १, १५^३; वाश्रौ;
 -ङ्गेभ्यः बौध १, ७, ११; -ङ्गेषु
 हिश्रौ ६, १, ३; ६; -ङ्गेः द्राश्रौ
 १, २, २१; लाश्रौ १, २, १५;
 द्राष्ट १, १, २७.
 यञाङ्ग-काम- -मम्
 आपश्रौ २४, ४, ११; बौश्रौ २,
 १: २.

a) वैप १ द्र. । b) पाठः ? 'ञम् वो' इति द्विपदः शोधः (तु. MW.) । c) व्यप. । d) सप्त. ।
 e) पामे. वैप १, २५५४० द्र. । f) 'धचम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.) । g) = साम-विशेष-ः ।
 h) विप. (चिति-). दृष्टार्थे अण् प्र. । i) सपा. हिश्रौ ६, २, १५ यातुधानाः इति पामे. । j) = ऋत्विज्-ः ।
 k) 'ञ्हुताम् इति जीसं. ।

यज्ञाङ्ग-कार्य- -ये अप २३,
७, १.
यज्ञाङ्गाङ्गा(ङ्-आ)दि- -दौ
आपश्रौ २४, ४, ११; बौश्रौ २,
१ : २.
यज्ञा(ङ्-आ)स्मन्^१- -त्मने वैद्य
३, १०, ४१.
यज्ञा(ङ्-आ)दि- -दिषु वृदे ८,
१३५.
यज्ञा(ङ्-आ)धिक^२- -काय
आमिष्ट २, ७, १० : १४.
यज्ञा(ङ्-आ)धिगम- -मे बौश्रौ
२४, १३ : २.
यज्ञा(ङ्-आ)न्त^३- -न्तेन पाण्ड १,
१०, २.
यज्ञा(ङ्-आ)न्वारम्म- -म्भेण
वैश्रौ १२, १० : ११.
यज्ञा(ङ्-आ)पचार- -रः भाश्रौ
१, १७, ३.
यज्ञा(ङ्-आ)पस्य (त्ति-अ)र्थ-
-र्थम् वैष्ट ३, २ : ७.
यज्ञा(ङ्-आ)भिधान- -नम् मीस्
८, ४, १.
यज्ञा(ङ्-आ)भिपरीत- -तः बौश्रौ
२४, ३७ : १७.
✓यज्ञाय > यज्ञायत्- -यते
ऋप्रा १, २३१.
यज्ञायज्ञिय^४- -यम् काश्रौ
१०, ७, १; १८, ३, २; आपश्रौ;
बौश्रौ १०, १५ : ७१^०; कौष्ट
१, १४, १११^०; -यस्य आपश्रौ
१३, १५, ३; बौश्रौ; -याय
अत्र १५, ३१; -ये हिश्रौ ३,
४, २२; ३८; १०, ५, १०;
-येन आपश्रौ १३, १५, ५;

बौश्रौ ८, १४ : ३६; -यैः वैश्रौ
१६, १८ : १३.
यज्ञायज्ञिय-स्तोत्र- -त्रम्
वैश्रौ १६, १८ : ९.
यज्ञायज्ञिय-स्थान- -ने
काश्रौ २२, ६, ५.
यज्ञायज्ञिय- -यम् शाश्रौ ६,
३, ८१; ८, ६, १; १७, १२,
१××; काण्ड; -यस्य आश्रौ ६,
८, १२; ७, ५, ७; ८, ५, २; ६,
२१; शाश्रौ; -यात् क्षुस् १, ९ :
१०; निस् ४, १० : १५;
-य्याय^५ शाश्रौ १७, १३, ५;
द्राश्रौ १०, ३, ६; लाश्रौ ३, ११,
३; -ये आपश्रौ ५, ११, ६; १३,
८; १५, ६; वैश्रौ १, १३ : ९;
लाश्रौ ७, ५, १२; -येन आश्रौ
९, ६, ४; माश्रौ १, ५, ४, १५.
यज्ञायज्ञिय-कारिन्- -री क्षुस्
३, ९ : १; १२.
यज्ञायज्ञिय-गौरीविति-
रथन्तर-वामदेव्य- -च्यानि
निस् ४, ९ : १४.
यज्ञायज्ञिय-चतुर्थ^६- -र्थेषु
निस् ७, ८ : ८.
यज्ञायज्ञिय-धर्म- -र्मान्
निस् २, ७ : २१.
यज्ञायज्ञिय-निधन^७- -नम्
क्षुस् ३, १० : ४७; ४८; -ने
लाश्रौ ६, १२, ६.
यज्ञायज्ञिय-प्रथमा- -मायाम्
लाश्रौ ६, ८, १२.
यज्ञायज्ञिय-प्रभृति- -तीनि
लाश्रौ ६, ४, १.
यज्ञायज्ञिय-वृहत्- -हती

द्राश्रौ ८, ३, १४; लाश्रौ ४, ७, २.
यज्ञायज्ञिय-भास- -से द्राश्रौ
८, २, ३१; लाश्रौ ४, ६, २२.
यज्ञायज्ञिय-योनि- -नौ
आश्रौ ९, ६, ८.
यज्ञायज्ञिय(य-ऋ)र्त्- -यक्षु
लाश्रौ ६, ८, १२.
यज्ञायज्ञिय-सामन्- -म
जैश्रौका २३.
यज्ञायज्ञिया(य-अ)नुरूप-
-पः क्षुस् २, ५ : १७; -ये निस्
२, ७ : १२.
यज्ञा(ङ्-आ)यतन- -नम् कौस्
१८, ३७.
यज्ञा(ङ्-आ)युध^८- -धः बौश्रौ
१८, ३५ : ७; -धानाम् बौश्रौ
२४, २५ : १८१; -धानि आपश्रौ
९, ११, १३; बौश्रौ; -धैः माश्रौ
५, १, ५, ५९.
यज्ञायुधिन्- -धी निस्
२, ६ : ३५; बौपि १, ७ : २;
हिपि ६ : ८; गौपि २, ७, ३५.
यज्ञा(ङ्-आ)रण्य- -ण्ये आपश्रौ
१८, ७, १११.
यज्ञा(ङ्-आ)र्ति- -र्तिस् हिश्रौ
८, १, ५१.
यज्ञा(ङ्-आ)र्थ- -र्थः निस् २, १ :
८; -र्थम् भाश्रौ १०, ९, ५;
हिश्रौ; विध ५१, ६३^६; -यै
आपश्रौ १०, १५, १६; वैश्रौ १२,
४ : १४; आपध १, १८, २६;
हिध १, ५, ९४; -येन मीस् ९,
१, १९; -र्थेषु विध ५१, ६५.
यज्ञार्थ-तत्त्व-वेत्- -त्तारः
कप्र ३, ७, १०.

a) = विष्णु- । b) विप. । बस. । c) ऋभेण इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. संस्कृतुः टि.) ।

d) वैप १ द्र. । e) पाभे. वैप १, २५५४ h द्र. । f) पाभे. वैप २, ३४. भद्राय देवा ५, १, २ टि. द्र. ।
g) ॐ इति जीसं. ।

यज्ञार्थ-स्व- स्वात् मीस्
१०, ६, ३३.
यज्ञार्थ-हेतु- तुभिः अप
२२, ८, ३.
यज्ञा (ज्ञ-अ)विक्षेप->पिन्^१-
-यी मागृ २, १४, २१^१.
य(ज्ञ>)ज्ञा-साह^२- -साहम्
ऋषा ९, ३.
यज्ञिय, या^३- पा, पावा ५, १,
७१; -यः आश्रौ ३, १४, १३^४;
आपश्रौ; -यम् शाश्रौ ८, २०,
१^४; आपश्रौ; -यस्य बौश्रौ
१३, १४: ७^४; लाश्रौ; -य्या
आश्रौ ३, १०, ६; आपश्रौ;
-याः शाश्रौ १८, १, २^४;
काश्रौ; -०याः आगृ ३, ५,
७^४; कौगृ ३, ७, १०^४; शागृ; या
३, ८; -यात् बौपि २, ७, २;
-य्यान् आश्रौ १, ४, ११; शाश्रौ;
-य्यानाम् शाश्रौ १७, ८, ७;
आपश्रौ; या ७, २७^४; ११, ११;
-य्याम् आपश्रौ ५, १, ४^४; बौश्रौ;
-य्याय शाश्रौ ८, २२, १; बौश्रौ
९, १०: १६; हिश्रौ; -य्यायाम्
आगृ ४, ८, ११; -य्यासः शाश्रौ
६, १०, ६; कौगृ ५, ३, ३१; या ७,
२९; -य्यासः आपश्रौ २४,
१३, ३; बौश्रौ ३, २८: १४; ६, २;
२५^४; हिश्रौ; -ये ण् आपश्रौ ५,
१२, २, १३, ८, १५, ६××; बौश्रौ;
-येभ्यः शुषा ४, ७८^४; -य्यैः
आश्रौ २, १, १७; ४, २, ३^६;
आपश्रौ; बौश्रौ ६, ३०: ११^६;
कागृ ३०, ३^६.
यज्ञिय-वृक्ष- -क्षस्य वैश्रौ

१२, ९: १०.
यज्ञियवृक्ष-चमस- -सेतु
गोपि २, ३, १४.
यज्ञियवृक्ष-दण्ड- -ण्डैः
काश्रौ १५, ७, ५.
यज्ञियवृक्ष-शङ्कु- -ङ्कुः
काश्रौ ७, ४, ८.
यज्ञीय- -यस्य द्राश्रौ ५, २, १;
१०, ४, २; वागृ ५, ४२.
यज्ञे(ज्ञ-ई)धम- -धमः साअ २,
६९७; या ८, ५.
यज्ञे(ज्ञ-ई)श- -शम् वैश्रौ १७,
६: ३.
यज्ञे(ज्ञ-ई)श्वर- -राय वैध ३,
१०, ४^४.
यज्ञे(ज्ञ-इ)ष्टि-प्रारम्भ^४- -म्भे
वैश्रौ २०, ३: १३.
यज्ञो(ज्ञ-उ)क्त-वृक्ष- -क्षाणाम्
वैश्रौ ११, १०: १३.
यज्ञो(ज्ञ-उ)खा- -खा या १०,
४५.
यज्ञो(ज्ञ-उ)त्पत्ति- > प्त्यु-
(त्ति-उ)पदेश^४- -शे मीस् १२,
१, ४२.
यज्ञो(ज्ञ-उ)त्पत्ति^४- -त्तौ हिश्रौ
३, ८, ४५.
यज्ञो(ज्ञ-उ)ङ्गव- -वैः अप ६२,
४, ४.
यज्ञो(ज्ञ-उ)पकरण- -णम् काश्रौ
२४, ६, ९; -णानि वैश्रौ १५,
२३: २; लाश्रौ ८, ६, १.
यज्ञोपकरण-शेष- -षान्
लाश्रौ १०, १७, १६.
यज्ञो(ज्ञ-उ)पवीत- -तम् बौश्रौ
३, १०: १४××; भाश्रौ; कौगृ

२, ८, ७^४××; शागृ २, २,
३^४; १३, ७××; आमिगृ १,
१, १: २२; ४, १: १८××; पागृ
२, २, ११^४; बौगृ २, ५, ७^४; १^४;
११, ४८××; भागृ १, २: १२;
३: १४; २२: ८; २, ७: १××;
वागृ ५, ८; वैगृ २, ५: १४^४;
हिगृ १, १, २२; गोगृ १, २,
१; गोपि २, ३, २८; जैगृ १,
१२: ७२; द्रागृ १, १, ४; अप
३७, १६, १; ४३, ३, १; बौध १,
५, ५; वैध २, ९, २; -तस्य
आमिगृ २, ७, ४: ५; -तानि
आपश्रौ ८, १५, १; १६, १५;
बौश्रौ; -ते वाध १२, १४; वैध
३, १, १; -तेन पागृ २, २, ११^४.
यज्ञोपवीत-क- -कम् कागृ
४६: ९.
यज्ञोपवीत-प्राचीनावीत-
-तयोः द्राश्रौ १३, १, १९; लाश्रौ
५, २, १.
यज्ञोपवीत-मेखला(ला-अ)
जिन-दण्ड- -ण्डान् वैध २, ११,
६.
यज्ञोपवीत-विधि- -धिम्
आमिगृ २, ४, ९: १.
यज्ञोपवीत-शौच- -चे आश्रौ
१, १, १०.
यज्ञोपवीता(त-आ)दि- -दि
अप ३७, १६, १.
यज्ञोपवीतिन्- -तिनः काश्रौ
५, ८, २२; ९, १६; वैश्रौ; बौपि ३,
४, १७; -तिनम् बौगृ २, ५, ८;
जैगृ १, १२: १२; -तिना आमिगृ
३, ७, ४: ३३; आपगृ; -तिनाम्

a) = देव-विशेष- । b) ष्यः इति सूको. । c) वैप १ द्र. ।
d) पाभे. वैप १, २५५७ a द्र. ।
e) पाभे. वैप १, २५४७ e द्र. । f) पाभे. वैप १, २५५६ a परि. च द्र. ।
g) पाभे. वैप १, २०१० i द्र. ।
h) पाभे. कस. > षस. । i) उपदेश- = समीपदेश- इति भाष्यम् ? । j) बस. ।

कौस् ८२, १; -नी आश्रौ १, १,
४; २, ६, १३; शाश्रौ; आगृ ३,
२, २; ७, ३; कौगृ २, १, ३३;
शांगृ १, १, १४; छ, १, २; ११, २३;
वैगृ ६६ : १२; १४; आमिगृ
१, १, १ : ३८; २, ३, २ : ४; ४,
९ : २३xx; बौगृ २, ८, ३५;
३, ४, ७; १३; बौपि २, ९,
२१; ११, ८; भागृ ३, १४ :
१२; वैगृ ५, ५ : १७; हिगृ १,
२, ६; २, ७, २; १०, ७; हिपि
११ : १; गोगृ १, २, २; जैगृ १,
४ : २१; ६ : ४xx; द्रागृ १,
१, ७; कौस् १, ११; ८, १; ६७,
१८xx; अप ४७, ३, १; वाध
१०, ३१; शंघ ११०; आपध १,
६, १८; १५, १; २, १९, १२; हिध
१, २, ४१; ४, ६०; गौध १, ३८.

यज्ञोपवीतिनी-नीम्

आमिगृ १, ६, १ : ११; गोगृ २,
१, १८.

यज्ञोपवीति-विपर्यय-

-यम् काश्रौ ५, ९, २३.

यज्ञोपवीतो(त-उ)दकाचमन-

-ने द्राश्रौ १, २, २०; लाश्रौ १,
२, १४; जैगृ १, १ : ५.

यञ्- (> याज्ञायनि- पा.) पाग

४, १, १५४.

यज्यु^b- पाउ ३, २०.

यज्वन्^b- पा ३, २, १०३; -ःज्वनः

अप १, ३७, १; अशां ६, ७; ७,

१; -ज्वनाम् या १०, ८; -ःज्वने

बौपि २, ८, ५; अश्र ४, २१;

-ज्वनोः वृदे ६, ७४; -ःज्वा

शाश्रौ १२, २०, २; वाध ११,

४८; वृदे ६, ७३; शैशि ६९;

-ज्वानः विध ८, ८^०.

यञ्ज्वर(>)री^b- रीः आश्रौ ४,

१५, २; शाश्रौ ६, ६, २; ७, १०,

१२.

यष्टव्य- व्यः कप्र २, ९, १५;

-व्यम् आपश्रौ ८, ५, २; बौश्रौ;

-व्याः कप्र ३, ६, ९; अप ७०^३,

१९, २.

यष्टुम् आपश्रौ १४, ३२, ५१; बौश्रौ.

यष्टृ- ःषः^d बौश्रौ १, १५; १४;

भाश्रौ; -ष्टा जैश्रौका ११३;

-ष्टारम् जैश्रौका ८६; हिपि

१८ : २४^१; -ष्टुः जैश्रौका

१६३; वैताश्रौ ४३, ४७; अप;

-ष्टू जैश्रौका १४.

यष्टृ-तर- -रः या ८, ८.

यष्टृ-पत्नी-संयुक्त- -क्तः जैश्रौका

६६.

यष्टृ-पद-क्रम^e- -माः जैश्रौका

१२२.

याग^f- -गः कागृउ ४४ : २; ५; अप

६७, ६, ६; -गम् कागृउ ४२ :

२१; अप ७०, २, ४; ५; ९, २;

३; -गानाम् अप १२^१, १, ३; -गे

अप २६, १, ५; वाध ४, ७; विध

५२, ११.

याग-ग^h- -नाम् शंघ ३८८.

याग-स्थ- -स्थम् शंघ ३८८.

विध ५०, ७; -स्थस्य विध ३६,

१.

याग-होमा(म-आ)दि- दिषु

शुश्र ४, १२७.

यागो(ग-उ)पनयन-योग्यता-

रहित- -तान् काश्रौसं ३० : ४.

याजक- पाग २, २, ९; ६, २, १५१;

-कः बौध २, १, ३९; विध ५४,

१६.

याजन- -न्म् कौगृ ३, ११, ४४;

शांगृ ४, ११, १३; वागृ; वाध २,

१४^h; आपध २, १०, ४; -नात्

अप २, ६, ५.

याजन-प्रतिग्रह- -हौ विध २,

११.

याजना(न-अ)ध्यापन- -नात्

वाध १, २२; २७, ९; बौध २,

१, ६२; -नाभ्याम् ऋअ १, १, १-

याजना(न-अ)ध्यापन-प्रतिग्रह-

-हाः गौध ७, ४.

याजयितृ- -तारः वाधूश्रौ ४, ६४^१ :

६; ८.

याजयित्वा काश्रौ २५, ८, १५;

आपश्रौ.

याजयिष्यत्- -व्यन् वैश्रौ १२, १ :

११; जैश्रौ १ : १९; आगृ १-

२३, १९; कौस् ४६, ४.

याजि- पाउ ४, १२५.

याजिन्- पा ३, २, ८५.

याज्य, ज्या^b- तैत्रा ११, ३^१; पा

७, ३, ६६; -ज्यः द्राश्रौ १०, १,

८; लाश्रौ १, १, ८; वाध १९,

४४; शंघ ३०३, ३१७; हिध

१, ५, ११८; -ज्यम् आपश्रौ

२१, १, ५; हिश्रौ १६, १, १५;

शंघ ३०३^१; वृदे ५, ५५; -ज्यया

शाश्रौ ९, २५, २; बौश्रौ; आमिगृ

२, ५, ३; १३; ३५xx; बौगृ १, ६,

१०; १०, ४xx; -ज्या आश्रौ १,

५, २९xx; शाश्रौ; -ज्याः आश्रौ

३, ७, ३; ५, ४, ७; ९, ११, २०;

a) = ऋषि-विशेष-। b) वैप १ द्र.। c) यज्वनः इति जीव.। d) सपा. काठ १, १२ यथा इति
पाप्मे.। e) तु. जैश्रौ ११ : २४-२६। f) = यज्ञ-। g) उप. < ✓गम्.। h) य^० इति पाठः! यनि.
श्लोकः (तु. आपध.).। i) = याज्याऽनुवाक-।

शांश्रौ; -ज्यात् वाण ११, २;
 -ज्यानाम् शांश्रौ १, २, २; वैताश्रौ
 १२, ७; -ज्याभिः शांश्रौ १०,
 ७, २; -ज्याभ्यः आश्रौ ६, ४, ९;
 -ज्याम् आश्रौ २, १६, १४××;
 आपश्रौ; -ज्यायाः आश्रौ १, ५,
 ६; २, १५, १५; ३, ६, ८; शांश्रौ;
 -ज्यायाम् आपश्रौ २४, ४, १८;
 हिश्रौ २२, ४, १७; -ज्यायै काश्रौ
 ६, ८, १६; आपश्रौ २४, १४, ३;
 बौश्रौ; -ज्यासु शांश्रौ १, १, ३९;
 ७, ७, ६; तैषा ३, ११; -ज्ये
 आश्रौ १, ५, ३४; २, १२, ३××;
 शांश्रौ; -ज्यै हिश्रौ २१, २, ४६.
 याज्या(ज्या-आ)दि-दिः आश्रौ
 १, ५, ४.
 याज्या-निदर्शन- नम् आश्रौ
 १, ५, २०.
 याज्या(ज्या-अ)नुवाक्या^a- पाग
 ६, २, ३७; -क्ययोः आश्रौ ४,
 १, ११; -क्या वाश्रौ ३, २, ८,
 १५^b; वैश्रौ २०, ३:१६; -क्याः
 आश्रौ १, ६, १××; काश्रौ; हिश्रौ
 २२, ५, २१^c; -क्यानाम् आश्रौ
 ४, ८, ११; -क्याभिः बौश्रौ १७,
 ३६: ११××; वैश्रौ; -क्याभ्यः
 हिश्रौ १, १, ३६; -क्यासु काश्रौ
 १, ८, ९; आपश्रौ २४, २, ६;
 मीस् १२, ४, ३; -क्ये आश्रौ १,
 ५, ३६××; आपश्रौ.
 याज्यानुवाक्या-वत्- वन्ति
 वाश्रौ १, १, ५१.
 याज्या(ज्या-अ)न्त- पावा ८,
 २, १०७; -न्तः माश्रौ ५, १, १,

११; पा ८, २, ९०; -न्तम्
 आश्रौ १, ५, ८; -न्ताः हिश्रौ
 २१, २, ३४; -न्ते शांश्रौ १, २,
 ८; हिश्रौ २१, २, ३३^d; ३६;
 -न्तेन शांश्रौ १, १, ४२.
 रयाज्या(ज्या-अ)न्त^e- न्तानि
 आश्रौ ५, १०, २१.
 याज्या(ज्या-अ)पनय- न्ये मीस्
 ३, ५, ४५.
 याज्या-पुरोनुवाक्या- -क्याः
 बौश्रौ १५, १७ : १२××; हिश्रौ;
 -क्यानाम् शांश्रौ १, १७, १××;
 -क्याभ्याम् बौश्रौ २३, १ : २७;
 ३२××; -क्यासु बौश्रौ २७,
 १२ : १३; २९, २ : १४; -क्ये
 शांश्रौ १, १६, ८××; बौश्रौ.
 याज्यापुरोनुवाक्या-वत्-
 -वन्तः काश्रौ १, २, ६.
 याज्यापुरोनुवाक्यावती-
 तीषु हिश्रौ २, २, ८.
 याज्यापुरोनुवाक्या-विप-
 र्यास-से वैश्रौ २१, १२ : ६.
 याज्यापुरोनुवाक्या-संप्रैष-
 षः हिश्रौ २, २, ४०; -बौ वैश्रौ
 ६, ९ : २.
 याज्या-पुरोरुच्- -रुचोः मीस्
 २, १, १९.
 याज्या(ज्या-अ)र्चित- -तौ वृदे
 ५, ६४.
 याज्या-लक्षण- -णानि शांश्रौ
 १, १७, १५.
 याज्या-वत् शांश्रौ ३, ७, ८; मीस्
 २, १, १३.
 याज्या-वत्- वत्सु वाश्रौ १, १,

१, ५०; ५४.
 याज्या-वर्जम् आपश्रौ २४, १३,
 १२.
 याज्या-वषट्कार- -रयोः मीस्
 १२, ३, ३२.
 याज्या-शब्द- -ब्दः मीस् ३, २,
 १२.
 याज्या-संप्रैष- -षः वैश्रौ ६, ५ :
 ८; हिश्रौ २, २, २; ८, ६, ७;
 २१, २, ३५; -षस्य हिश्रौ ४, ३,
 ३०; -षात् हिश्रौ २१, १, ७.
 याज्या-होम- -मान् वैताश्रौ २५,
 २.
 याज्यमान- -नः वाधुश्रौ ४, १०१ :
 ९.
 यायजूक- पा ३, २, १६६; -कम्
 भाण १, ११ : १०.
 यज्-, जत्- प्रभृ. ✓यज् द्र.
 यज्जे जैश्रौका ५३.
 यज्ञ- प्रभृ. ✓यज् द्र.
 यज्ञपयः^e बौश्रौ ९ : १.
 यज्ञादेतसम्^f शांश्रौ १२, १९, २.
 यज्ञायज्ञिय-, ज्ञीय- प्रभृ. ✓यज् द्र.
 यज्ञायुगनुसंचर^g- -नान् आपश्रौ
 १, ६, १; माश्रौ १, ५, १३; वाश्रौ
 १, २, १, ३२; हिश्रौ १, ३, ६६.
 यज्ञिय-, यज्ञीय- प्रभृ. ✓यज् द्र.
 यग्व^h- -ण्वम् लाश्रौ १०, ५, ७; निस्
 १०, ३ : ३४;
 यग्वा(ण्व-अ)पत्य- -त्ययोः लाश्रौ
 ७, ३, १३; -त्ये लाश्रौ ७, ३,
 ११.
 ✓यत् (बधा). पाधा. भ्वा. आत्म. प्रयत्ने;
 चुरा. उभ. निकारोपस्कारयोः,

a) वैप १ द्र. । b) सकृत् पाठब्रुवितः । उपक्षेपव्येन उत्तरा इत्यनेनाऽन्वितम् एकवचनं द्र. (तु-
 काशीकरः) । c) आज्या इति कैवि. पाठः ? यनि. शोधः (तु. सा [तै २, ५, १२, १]) । d) बस. । e) भूयान्
 पाभे. संस्कृतं. दि. द्र. । f) शोधः वैप १, १८६५ h, २५४९ b द्र. । g) वैप २, ३३३. द्र. ।
 h) = साम-विशेष- ।

फियते निघ २, १४^३; या ७, २२^६; २३^६; यतन्ते या ४, १३^६; फियत्स्व काश्रौ १०, २, १७; बौश्रौ ८, ६: १७; १०, २९: १३; वैश्रौ; यतेत शंघ २५१; बौघ २, ३, ५१; गौघ ९, ६५; वृदे २, ११९.

यातयते अप ४८, १९^६; फयातयति आश्रौ ३, ११, २२^६; आपश्रौ ६, २६, ७^६; माश्रौ ३, २, ८^६; अप्राय ४, ३^६; बौघ २, ४, ११^६; निघ २, १९^६; या १०, २२^६; यातये बौश्रौ १८, १३: ५.

फियतमान, ना- न्ता: आमिष्ट ३, ७, १: ८; बौपि १, १७: ८; बौघ २, २, ४८; -ने आश्रौ ४, ९, ४; हिपि १७: १७.

यतिष्यमाण- ण: बौश्रौ २३, २: ५; बौघ १, ४, १५^६.

यत्- पा ३, ३, ९०; -त्त: बौश्रौप्र ५४: १७; -त्तम् कौप ३, १२, ३१; वैघ १, ११, १४; -त्तात् बौघ १, १०, ३१; विघ ८२, ३; वैघ; -त्तेन वैश्रौ १२, १: ३; जैश्रौका.

यत्-तस् (:) हिपि १७: ५; अप ५, १, ३; १९^६, ४, १; शंघ. यत्-नत्- -वान् अप २४, २, २; बौघ २, ९, ११.

यातना-> ँना-क्षम^६- -मै: विघ ४३, ४४. यातना-दु:ख- -खम् विघ ६४,

४२. यातना-स्थान- -ने विघ २०, ३५.

यत्- ✓इ द्र. श्यत- ✓यच्छ द्र.

श्यत, ता^६- -त: फअप ४८, ७०^६; १०४^६; -तायै कौस् ३९, ९^६.

यतम-, यतर- यद्- द्र.

फियत् (व्य>) व्या^६- -व्या आपश्रौ १९, २५, ५; बौश्रौ १३, ३४: ४; हिश्रौ २२, ५, १७.

यत्सु- यत्सु- ✓यच्छ द्र.

श्यति^६- पाउ ४, ११८; -ति: आश्रौ ६, ३, ११^६; शाश्रौ ९, ५, २१^६; आमिष्ट; -फितिभि: आश्रौ ४, १२, १०; माश्रौ ४, १८, ७; हिश्रौ ६, ३, २०; -तिभ्य: ऋपा ७, ४६^६; -तिम् आमिष्ट ३, १०, ४: ५; ३१; -तीन् शाश्रौ १४, ५०, १^६; गौपि २, २, ९; वाध ११, १७; -तीनाम् आमिष्ट ३, १०, ४: २; वाध; -ते: आमिष्ट २, ७, ११: १२; ३, १०, ४: २३.

यति-चान्द्रायण- ण: विघ ४७, ७; -णम् बौघ ४, ५, १९.

यति-धर्मन्- -र्मा शंघ १३३.

यति-पात्र- -त्राणाम् शंघ १६७.

यति-संस्कार- -रम् आमिष्ट ३, १०, ४: ३.

यतिसमयपात्र- -त्राणाम् शंघ १६७.

यति-सांतपन^६- -नम् शंघ ४४५.

यत्(ति-अ)तिथि-व्रतिन्- -तिभ्य:

बौघ ३, ३, ५-७.

श्यति- यद्- द्र.

यती- ✓इ द्र.

यत्कर- यद्- द्र.

यत्र यद्- द्र.

यत्रस्यते अप ४८, ९^६.

यत्रास्मन्नत: अप ४८, ११६^६.

यत्वा ✓यच्छ द्र.

यथा प्रम्. यद्- द्र.

यद्-> २य, या- फय: आश्रौ १, ३, २२; ६, १^६; शाश्रौ; यम् फआश्रौ १, ३, २२; ४, ६, ३; ५, ५, १९; शाश्रौ; आमिष्ट ३, १०, ५: १०^६; यम्ऽयम् बौश्रौ २५, ३०: ५; अप ३०^६, २, ५; ७०, १२, ६; बौघ २, ६, १०^६; यथा आपश्रौ २०, १६, २०; हिश्रौ; ययो: माश्रौ २, ५, २, २५; क्षुस् ३, १: ८; अप्राय ६, ९^६; या ९, ४२^६; यस्मात् आश्रौ ३, ११, १; वैश्रौ; अप्राय ५, ६^६; यस्मिन् आश्रौ २, १, १४; ३, १३, ११; आपश्रौ; यस्मिन्ऽयस्मिन् विघ ८, ४०; आज्यो ११, ६; यस्मै आश्रौ २, १०, ९^६; लाश्रौ ८, ६, २८; पाठ; यस्य फआश्रौ २, ११, १४; ३, ८, १^६; आपश्रौ; पावा १, ४४x४; यस्यऽयस्य शांघ २, ७, १८; अप ७०, ३, ३; यस्या: आपश्रौ ४, १३, ४^६; वाश्रौ १, १, ४, १०; वैश्रौ; यस्याम् आपश्रौ १, १३, ४^६; हिश्रौ; यस्याम्ऽयस्याम्

a) धा. गतौ वृत्तिः । b) धा. हिंसायां वृत्तिः । c) परस्परं पाठे । d) पाठे. वैप १, २५५७ h द्र. । e) तु. मैस्. । f) विप. । उत्स. । g) बप्रा. । ल्यु. ? । h) पुरातन-नामन्- । i) =वज्र- । j) =ओषधि-विशेष- । k) वैप १ द्र. । l) वैप १, २५५८ d द्र. । m) पाठे. वैप १, २५५८ h द्र. । n) वैप १, २५५८ k द्र. । o) =व्रत-विशेष- । p) पाठः! अयम् इति शोघः (तु. सपा. आपश्रौ ९, ११, २३) । q) सङ्घत् सपा. ऋ ५, ७, ४ आपश्रौ १४, २९, ३ सु स्मा इति पाठे. ।

अप ६४, २, ६; यस्यै कौट १,
१२, ६^०; शांठ १, ५, ९; बौट
१, २, ६९; छुञ्ज १, ५१७^०;
यस्यैऽयस्यै आपश्रौ १४, १२,
६^०; बौश्रौ २७, ३: ९; हिश्रौ
१०, ६, ६^०; या आश्रौ ५, २०,
६^०; शांश्रौ ४, ५, १^०; ६, १०,
८^०; आपश्रौ; माश्रौ २, ४, १,
२४^०; या: आश्रौ १, ५, ३१;
११, ८^०; शांश्रौ; यान् आश्रौ १,
८, ७^०; वाश्रौ १, ७, २, २९;
यानि ण्आश्रौ २, ९, ९; १०,
१६; आपश्रौ; ण्आश्रौ २,
२०, ४; ३, ८, १; आपश्रौ ५,
२, १; वृदे १, ८६; या १०, १९;
याभ्याम् वाश्रौ १, ६, ४, ३४;
लाश्रौ ८, ६, ११; बौपि १, ३:
९^०; याम् आश्रौ १, १२, ४;
शांश्रौ; याम्ऽयाम् बौश्रौ २६,
२९: १८; ऋप्रा १७, २४;
यासाम् आपश्रौ ४, ६, १^०;
बौश्रौ; यासु द्राश्रौ ३, १, १६;
लाश्रौ; ये आश्रौ १, ३, १५; ७,
७^०; २, १९, १९; शांश्रौ; कौट
३, ४, ५^०; बौट १, ५, ५^०;
माट १, १३, ४^०; येऽये
बौश्रौ २७, ११: १२; बौट;
येन, > ना शांश्रौ १, १, ८; ६,
३^०; आपश्रौ; पाग १, १, ३७^०;
येनऽयेन आपश्रौ ५, १६, २; हिश्रौ

२, ८, १३; माट १, १३, १८^०;
अप ६३, ५, २; ६८, १, ५१;
येभि: आपमं २, ३, २; काट;
येभ्य: काठश्रौ १५; माश्रौ १, १,
२, २१; येषाम् आश्रौ ३, ४, १३;
आपश्रौ; येषु वाधुश्रौ ३, १०२:
३; द्राश्रौ; शांठ ३, ७, २^०; ये:
द्राश्रौ ९, ३, ११; कप्र: यौ शांश्रौ
४, २०, १^०; आपश्रौ १, ५, १;
हिश्रौ; आपमं २, २१, १७^०;
पाट ३, १४, ६^०।

यतस् (ः) ण्आश्रौ ३, १०, ३१;
१४, १०; ७, ४, ४; १०, ९, ५;
शांश्रौ; यतऽयतः कौसू ४, ६;
अप ५८^०, ४, १९।

यत-उच्चार^१- -रम् बौश्रौ
१०, ३०: १३; वैश्रौ १८, १७:
१५।

यतो-बृहतीक^१- -कः शांश्रौ
११, १२, १।

यत्र > न्आश्रौ १, १२, १०;
३४^०; शांश्रौ; लाश्रौ ९, १०,
१३^०; पा ६, १, १६१; ८, १,
३०; यत्रऽयत्र ण्आश्रौ ५,
१३, ४; २२, १३, ३; बौश्रौ।

यत्र-स्थ- -स्थम् अप ७०,
६, ५।

यथा, यथो (था-उ)^१ आश्रौ २,
१३, ७^०; १४, १५; ६, २, ६; ७,
४, ४^०; शांश्रौ; काश्रौ १३, ३,

२६^०; आपश्रौ २१, २०, ३^०;
वाश्रौ ३, २, ५, ४३^०; हिश्रौ
१६, ६, ४१^०; आपमं २,
१, ३^०; आट १, १३, ६^०;
आमिष्ट ३, ५, २: ८^०; आपष
२, ४, ६^०; या १, १४।

यथ (<था)-कृत्विज्^०-

-त्विजौ कौसू ७३, ४; १३।

यथ (<था)-कृवि^०- -वि
आश्रौ ३, २, ७^०; आमिष्ट २, २,
५: १७^०।

यथ (था-ऋ)च^०- -चम् लाश्रौ
७, ११, ९।

यथ (था-ऋ)तु^१- -तु
ण्आपश्रौ ६, ३१, १४; १०,
२५, १^०; बौश्रौ; हिश्रौ ७, २,
४७^०।

यथतु-ज, जा- -जा:
काश्रौ २२, ७, १५; आपश्रौ २२,
९, ७; हिश्रौ १७, ४, २।

यथ (था-ऋ)र्षि^१- -र्षि काश्रौ
४, ९, १; आपश्रौ; हिट २, ६,
११^०।

यथर्ष्या (र्षि-आ)घान^१-
-नम् हिश्रौ ३, ४, ५; -नानि
आपश्रौ ५, ११, ७; -नेन आपश्रौ
५, ११, ६; १३, ८; १५, ६;
१७, १; माश्रौ।

यथ (था-ऋ)र्षि-पक्ष^०- -क्षे
ऋञ्ज ३, १२।

- a) सपा. शांठ १, १९, ६ हिट १, २५, १ यस्य (क्रिप. L <√यस्) इति, आपमं १, १२, ८ व्यस्य इति च पामे. । b) या: इति पाठः ? यनि. शोषः । c) पामे. वैप १, १४४७ a द्र. । d) पाठः ? शोघार्थं पृ १९१५ Q द्र. । e) या (यानि) इति शोषः । f) सपा. तै १, ७, ७, २ यौ इति पामे. । g) तु. पागम. । h) बस. । i) वैप १ द्र. । j) सपा. यथा <> यदा इति पामे. । k) सपा. शौ ६, ६८, ३ विशिष्टः पामे. । l) तु. जीसं. । m) पामे. वैप १, २५६८ W द्र. । n) सपा. यथा देवताभ्यः <> यथादेवतम् इति पामे. । o) विप. (पूर्णहोम- वैश्वदेव-). बस. पूष. ह्रस्वः (पा ६, १, १२८) । p) अस. पूष. ह्रस्व. । q) यथा इति BI. ! । r) सपा. यथाकृषि <> यथर्षि इति पामे. । s) अस. । t) पामे. वैप १, २५६९ X द्र. । u) = मन्त्रसमूहविशेष- । बस. उप. भाप., यद्वा उः-उप. करणे <आ/√धा द्र. ।

यथा-कथा-च^a या १०,
१६.

याथाकथाच- पा ५, १,
९८.

यथा-कनिष्ठ^b- -ष्टम् पाण्डू ३,
२, ६.

यथा-कर्मन्^b- -र्म आश्रौ १,
१२, १३; शांश्रौ.

यथा-कर्म-संयोग^b- -गम्
वाश्रौ १, १, २, १५.

यथा-काण्ड^b- -ण्डम् अपं
२: ६.

१यथा-काम^b- पाग ५, १,
१२४; -मम् काश्रौ २२, ५, १;
भाश्रौ ७, १९, १; माश्रौ.

याथाकाम्य^c- पा ५,
१, १२४; -स्यम् शांश्रौ २, १,
६; १०, १३, ५; -स्यत् निसू २,
४: २१; -स्ये पावा ८, १,
६६^d.

याथाकामी- -मी
शांश्रौ १, ३, ७; ६, १८; काश्रौ;
द्राश्रौ २, २, २०^d.

याथाकाम-कल्प-तर-
-रा: छसू ३, १४: १७.

याथाकाम-कल्प्य-त्व-
-त्वात् निसू ५, ५: २२.

याथाकाम-प्रयोग- -गः
बौश्रौ १७, ४७: ११.

याथाकामी- -मी
वाश्रौ १, २, २, ३७; ५, २, ६; ४९;
६, ६, ६; लाश्रौ २, ५, १६^d;
१०, १, ६; पाण्डू.

२यथा-काम- -मः बौश्रौ २,

१: १६; -मा: वाधूश्रौ ४, १९:
९; १०.

यथा-काय^{b1}- -यम् काश्रौ
६, १, ३२.

यथा-कारम् पा ३, ४, २८.

यथा-कार्य^b- -यम् अप्राय
३, ६.

यथा-काल^b- -लम् काश्रौ
४, १२, १५; १६, ७, ७××;
आपश्रौ; -ले शंध ३१२.

यथाकाल-विधान- -नात्
पावा ३, ४, १.

यथाकालो(ल-उ)पपात-
-त्ते काश्रौ २५, २, २३.

यथा-कुल^b- -लम् शंध २७.

यथा-कुलधर्म^b- -र्मम् आगृ
१, १७, १; १८; काण्ड ४०, ८;
काण्ड ४४: २१; कौसू ८२, ३५.

यथा-कृत^b- -तम् काश्रौ १६,
४, १०; निसू ५, १: १७; बौगृ
४, ५, ३; विघ ६, ४२.

यथा-कृत्य^b- -स्यम् वाधूश्रौ
३, १०६: ६.

यथा-कृष्ट^b- -ष्टम् काश्रौ १७,
३, ३.

यथा-क्रतु^b- -तु बौश्रौ १४,
४: ३४; २१, १७: ३; २२, ११:
२४.

यथा-क्रम^b- -मम् काश्रौसं
३: ६; वैश्रौ १५, १२: १××;
आमिण्ड; मीसू ११, १, १६^b;
-मेण बौश्रौ २२, २: ८; आमिण्ड
२, ५, १: १४; वैगृ ४, १४:
२; अप २६, ५, ७.

यथा-कोश^{b1}- -शम् काश्रौ
२२, ३, ३७.

यथा(था-अ)क्षर^b- -रम् अप
४१, २, ६; अत्र १०, ६; ११,
३(२).

यथा-खात^b- -तम् काश्रौ ८,
५, ८; १२; ८, १८; वैश्रौ १४,
८: १०; आपण्ड १७, ५.

यथा-ख्यात^b- -तम् बौश्रौ
६, ६: ५; ६.

यथा(था-आ)गत^b- -तम्
बौश्रौ २१, १३: ८; जैश्रौका ३०;
१७५; अप ३०^३, २, ८.

यथा(था-आ)गम^{b1}- -मम्
आपघ १, १७, १३; २, ५, १८;
हिघ १, ५, ४५; २, १, १००.

यथा(था-आ)गम-प्रज्ञा-श्रुति-
स्मृति-विभव- -वात्^d शाण्ड ६,
६, १६.

यथा-गव^b- -वम् बौश्रौ १०,
२५: १०; आमिण्ड ३, ८, २: १४;
बौपि १, १५: २५; २२: १४.

यथा-गात्र^b- -त्रम् कौसू ८१,
२६.

यथा-गीत^b- -तम् द्राश्रौ
२, १, २७; लाश्रौ २, ५, २१.

यथा-गुण^b- -णम् आपघ २,
२५, ९; हिघ २, ५, १८८.

यथा-गृह^b- -हम् बौश्रौ १८,
२५: ४.

१यथा-गृहीत^b- -तम् आश्रौ
३, ६, २७; काश्रौ २, ७, ८; भाश्रौ;
-त्तेन आपश्रौ ३, ८, १०; भाश्रौ
३, ७, ११.

a) अनादरे निपातसमाहारः। b) अस.। c) व्यञ्जि प्र. वृद्धिः (पा ७, २, ११७)। d) सपा.
याथा° <> यथा° इति पाठे.। e) वैतु. पाका. य° इति?। f) उप. = २काय-। g) वैप १ द्र.।
h) यथाप्राप्तम् इति जीसं. प्रयु.। i) उप. = २कोश-। j) उप. = शास्त्र-। k) वा. क्तिवि.। l) अस.
समासान्तषु टच् प्र. (तु. आयती-गव- L पा २, १, १७)।

२यथा-गृहीत^०- -तस्य पावा
६, १, १३; ७, १, ३३.

यथा-गोत्र^०- -त्रम् बौश्रौ २,
१६; ४९; १७; ५; ४३.

यथा-गोत्र-कुल-कल्प^०-
-ल्पम् गोश्रु २, ९, २३; द्रागृ २,
३, ३०.

यथा(था-अ)गिन- -गिन
काश्रौ १६, ८, २१; काश्रु ६, १.

यथा(था-आ)ग्नीध्रभाग^०-
-गम् वाश्रौ १, ६, ७, २०.

यथा-ग्रहण^०- -णम् आश्रौ ५,
१०, २०.

यथा(था-अ)ङ्ग^०- -ङ्गम् शाश्रौ
१७, १२, ६; काश्रौ २१, ४, ८;
आपश्रौ.

यथा-चमस^०- -सम् शाश्रौ
८, २, १३; ९, २; आपश्रौ १३,
१७, ९; काठश्रौ.

यथा(था-आ)चरित^०- -त्सम्
काश्रु ४७, ४; ५०, २.

यथा(था-आ)चार^०- -रम्
काश्रु ५०, ३; ५१, १३.

यथा-चिति^०- -ति काश्रौ
१८, ४, १५.

यथा-चोदित^०- -त्सम् आश्रौ
१, ५, २४; शाश्रौ २, ५, १७;
आपश्रौ १४, ५, २; बौश्रौ २२,
२: १०.

यथा-छन्दस्^०- -न्दः वाश्रौ
३, २, ४३; अशा १८, ३.

यथा-छन्दस्^०- -सम् शाश्रौ
९, २०, ५.

यथा-जात^०- -तम् जैश्रौ ७:
६.

यथा-जाति^०- -ति द्राश्रौ ५,

३, १६; लाश्रौ २, ७, १५; ६, ५,
२५; ८, २, १७; १८.

यथा-ज्ञात^०- -त्ते मीसू २, ४,
२३.

यथा-ज्ञान^०- -नम् गोश्रु ३,
९, १९; कप्र २, १०, ५.

यथा-ज्येष्ठ^०- -ष्टम् बौश्रौ
२४, १२: ११; द्राश्रौ.

यथा-ज्यैष्ठ्य^०- -ष्टयम् कप्र
२, १०, ५.

यथा-तत्त्व^०- -त्वम् वाघ
१६, ३२.

यथा-त(था>)थ^०- पाग ५,
१, १२४^०; -थम् आपश्रौ ३,
१२, १^३; भाश्रौ ३, ११, १^३;
हिश्रौ.

१याथातथ्य- पा ५, १,
१२४; -थ्यात् निसू ५, ७:
२६; -थ्येन वृदे १, ४; शुश्रु ४,
१६०.

यथा-तथा (>)२याथा-
तथ्य- पा.) अश्रु ११, ३ (२);
पाग ५, १, १२४^०.

यथा-तृप्ति^०- -त्ति वैश्रु ४,
४: १५.

यथा-दत्त^०- -त्तम् बौश्रौ
११, ९: १०; विध ६, १.

यथा-दधिभक्ष^०- -क्षम्
शाश्रौ ८, ९, ९.

यथा-दिश^०- -दिक् आश्रु २,
८, ९; अप ५८, १, १२.

यथा-दिश^०- -शम् आश्रु
१, ७, २: ५; काश्रु २३, ४;
वैश्रु.

यथा(था-आ)दिष्ट^०- -ष्टम्
आपश्रौ १९, १८, ३; २२, १, २;

वाश्रौ.

यथा-दृष्ट^०- -ष्टम् हिश्रौ
१६, ७, २३; बौश्रौ १, १०, २९;
मीसू ९, ३, १५.

१यथा-देवत^०- -तम् शाश्रौ
४, ९, ६; १४, १०, १४; काश्रौ;
हिध २, १, ५९^१.

२यथा-देव(त>)ता^०-
-तया वाश्रु १, २५.

१यथा-देश^०- -शम् शाश्रौ
१३, २४, १५; काश्रौ ४, १५, ३;
२०, ५, १५; २४, ६, २; जैश्रौका
३३; लाश्रौ १०, १५, १०.

२यथा(था-आ)देश^०- -शम्
जैश्रौ १८: ११; आश्रु १, २३,
१८^१; गोश्रु १, १, ४.

यथा-दैवत^०- -तम् हिश्रौ ८,
६, २८; १४, ५, १७; जैश्रौ.

यथा-द्रव्य^०- -व्ये काश्रौ
२२, २, २२.

यथा-धर्म^०- -र्मम् बौश्रु
११: १५; १२: १२; १३: ७.

यथा-धवित्र^०- -त्रम् बौश्रौ
२३, ६: २.

यथा(था-आ)धान^०- -नम्
वैश्रौ ७, ५: ९.

यथा(था-अ)धिकरण^०- -णम्
बौश्रौ २०, ८: २१; २४, २: १;
भाश्रौ ५, १४, १३; ८, ६,
१६.

यथा(था-अ)धिकार^०- -रम्
निसू २, १०: २४; गौघ ११,
२४; पावा ४, २, ६६; ४, २०;
मीसू ७, १, १; ४, ८.

यथा-धिगिण्य^०- -यम्
आपश्रौ २१, १२, ६; हिश्रौ १०,

a) कस.। b) अस.। c) अस.>दस.>षस.। d) वैप १ द.। e) तु. पागम.।

था इति भारुडा.। f) पाप्मे. पृ २००८ n द.। g) बस.।

४, ५७; १६, ५, २.

यथा-धिष्ण्य^a - -ण्यम् शाश्रौ

५, १९, १; वैताश्रौ १८, १८.

१यथा(था-अ)धीत^a - -त्तम्

द्वाश्रौ ६, ३, १८; ९, ३, १७;

१५, ४, ९; ११; लाश्रौ.

२यथा(था-अ)धीत^b - -तानि

जैश्रौ २६: ९.

१यथा-धुर^c - -रम्^d माश्रौ २,

३, २, २२; हिश्रौ ८, १, ७६.

यथा(था-अ)ध्याय^e - -यम्

आमिष्ट १, २, १: ७; २: ४२; हिष्ट

२, १८, ७; २०, ९; आपध १,

११, २३; हिघ १, ३, ७३.

यथा-नामन्^f - -म वैश्रौ १३,

११: ६.

यथा-ना(मन् >)मा^g - -मा

आश्रौ १५, ९, ४; भाश्रौ ११,

९, ५; हिश्रौ २४, ४, २; आमिष्ट

१, १, ३: ५; हिष्ट १, ५, ५.

यथा-निपात^h - -त्तम् ऋश्र २,

१०, १२४.

यथा-निमित्तⁱ - -त्तम् वाष्ट

१४, ४.

१यथा-निरुप्त^j - -प्तम् बौश्रौ

२०, ६: ९; आष्ट १, १०, ७;

कौसू ८८, ३.

२यथा-निरुप्त^k - -सान्

अप्राय २, २.

यथा-निर्भेद^l - -दम् बौश्रौ

२२, १८: ९.

यथा-निवेश^m - -शम् मीसू

१०, ५, ९.

यथा-निशान्तⁿ - -न्तम्

आश्रौ ५, ९, १२; ७, १२, १३;

१४; ८, ३, २२.

यथा-निःसृष्ट^o - -सम् शाश्रौ

७, १४, १२.

यथा(था-अ)नुकूल- -लम्

कौष्ट १, २०, ५.

यथा(था-अ)नुपूर्व^p - -र्वम्

माशि १, १.

यथानुपूर्व-करण- -णम्

बौष्ट ४, ११, ३.

यथा(था-आ)नुपूर्व्य-करण-

-णम् काश्रौ २५, ५, १८; १०, २३.

यथा(था-अ)नुरुप^q - -पम्

शंघ २५१.

यथा(था-अ)नुक^r - -कम् अप

६८, १, ५४.

यथा(था-अ)न्तर^s - -रम्

आश्रौ ५, ३, २४; ८, ७, १५;

कौसू ८, १०; ऋप्रा १, ५६.

याथान्तर्य- -र्यात्

निसू ८, १०: ३३; १३: २८.

याथान्तर-प्रत्यासत्ति-

-त्ति: निसू २, १३: ४४.

यथान्याय^t - -यम् काश्रौ

१४, २, २२; बौश्रौ २, २: २०;

वैश्रौ.

१यथान्युस^u - -सम् काश्रौ

९, ७, ५; १०, ६, १४; बौश्रौ.

२यथान्युस^v - -सै: बौश्रौ

७, ८: २७.

यथा(था-अ)न्ववेत^w - -त्तम्

भाश्रौ ३, १८, १०; ४, २२, ११.

यथा-पद^x - -दम् ऋप्रा ११,२३; ३३; उसू ७, १९^b; ८, ३१.यथापद-लोभ^y - -भा:

माश्रौ २, २, ४, १२.

यथापद-संधि^z - -धि:

उसू ७, १८.

यथा-परिदत्त^{aa} - -त्तम् कौष्ट२, ७, ३१^b.यथा-परिधित^{ab} - -त्तम् आपश्रौ

२, १३, १; माश्रौ १, ३, १, ८;

४, २.

यथा-परिमाण^{ac} - -णम् हिष्ट

१, ३९.

यथा-परिलिखित^{ad} - -त्तम्

काश्रौ ८, ५, ७.

यथा-परीत^{ae} - -त्तम् शाष्ट२, १२, १८^b.यथा-परु^{af} - -रु कौसू ६४,

१०; ८५, २५; ८६, ८.

यथा-पर्युक्षित^{ag} - -त्तम् काश्रौ

४, १४, ३०.

यथा-पर्वन्^{ah} - -र्वं शाश्रौ १४,

१०, ४.

यथा-पिण्ड^{ai} - -ण्डम् द्राष्ट २,५, २०; २८^{aj}.यथा-पु(रा >)र^{ak} - -रम्आपश्रौ ९, २०, ७^{al}; जैश्रौका

२०४; कौसू ७२, ४३; आपध २,

२७, १; हिघ २, ५, २२०.

यथा-पुरुष^{am} - -षम् हिश्रौ ११,

७, २७.

यथा-पुरोडाश^{an} - -शम् हिष्ट

२, १४, ४.

यथा-पूर्व^{ao} - -र्वम् काश्रौ १,

८, ३२; २, १, ७××; आपश्रौ.

यथा-पृष्ठ^{ap} - -ष्ठम् निसू ५,

९: २४.

यथा-पृष्ठ्य^{aq} - -ष्ठ्यम् शाश्रौ

१४, ८, ७.

a) अस. । b) मलो. कस. । c) वैप १ द्र. । d) पाभे. वैप १, २५०० & द्र. । e) बस. ।

f) = यथापठित- । g) तु. Pertsch; वैतु. कालिसं. उत्तरेण समस्तम् 'दप्रत्या' इति ? । h) परस्परं पाभे. ।

i) वैप २, ३खं. द्र. ।

यथा-प्रकाश^a -शम् शंघ
११६: ७१.
यथा-प्रकृति^a -ति शांश्रौ
११, १३, ४; काश्रौ ८, २, २६;
आपश्रौ २, ७, ५; भाश्रौ.
यथा-प्रकृति -इतिम्^b
बौश्रौ २३, ११: ३; १८: १६.
यथा-प्रदान^a -नम् मीसू ५,
४, ३.
यथा-प्रदेश^a -शम् वैश्रौ
१३, १५: १९.
यथा-प्रधान^a -नम् शांश्रु ६,
३, २; मीसू ५, १, ७; १०, ८, ५३.
यथा-प्रपन्न^a -न्नम् शांश्रौ ५,
१८, १२; २०, ७; १७, १२, ४;
बौश्रौ.
यथा-प्रयोग^a -गम् बौश्रौ
२१, १: ५; तैप्रा १८, ७.^c
यथा-प्रवृत्त^a -त्तम् काश्रौ
९, ८, १५.
यथा-प्रवेश -शम् वैश्रु ५,
२: १७.
यथा-प्रसूत^a -सम् आश्रौ
६, १२, २; काठश्रौ १४५; बौश्रौ
७, ११: २४; वाश्रौ १, ६, ९.
यथा-प्रस्तर^a -रम् द्राश्रौ ५,
१, २३; लाश्रौ २, ५, १८.
यथा-प्राप्तु^a -शु^c आपश्रौ
७, १३, ३.
यथा-प्रेषित^a -तम् काश्रौ
२, ६, २७; माश्रौ १, ८, ६, २; २,
३, २, १०; ४, १, २२; वाश्रौ १,
३, २, ६.
यथा-प्रैष^a -षम् आश्रौ ५,

८, ४; वैताश्रौ १९, २३.
यथा-फलविभाग^a -तसु (:)
अप २६, १, १.
यथा-बल^a -लम् कौसू ७३,
१४; बौघ १, १०, २०.
यथा-बाल^a -लम् बौघ १,
५, ११०.
यथा-ब्राह्मण^{a, d} -गम्
आपश्रौ १३, २४, १९; १७, २,
९; बौश्रौ.
यथा-ब्राह्मणोक्त^a -क्तम्
काठश्रौ १६६; अश्राय २, २.
यथा-भक्ति -क्ति निसू ८,
५: ५; २१.
यथा-भक्षित^a -तसु काश्रौ
१९, ३, १७.
यथा-भाग^a -गम् ऋश्रौ
२, ७, १×४; शांश्रौ; आपश्रौ २४,
३, १७; १८; काश्रौसं ४: ४;
बौश्रौ ३, १०: २३; हिश्रौ ३, ८,
६३; निसू ५, ९: २४; कौसू
६, ११; शंघ २७३.
यथाभाग-मन्त्र -न्त्रेण
वैश्रौ ८, ४: ७^e; ९, ४: १६;
६: २.
यथा(था-अ)भिधान^a -नम्
ऋश्र १, २, २१.
यथा(था-अ)भिप्रेत^a -तम्
द्राश्रौ १०, २, १३; ११, ३, १५;
लाश्रौ ३, १०, १३; ४, ३, १६;
९, २, २९.
यथा-भूमिपमाण^a -णेन
अप ३, १, १६
यथा-भूयस^a -य: विध

७३, २.
यथा-भूयस्य^a -स्येन निसू
१०, ७: ६.
यथा-भूयिष्ठ^a -ष्ठम् निसू २,
८: १२.
यथा-मङ्गल^a -लम् पाश्रु २,
१, ४; २१; २, ४.
यथा-मति^a -ति तैप्रा १७,
८^f.
यथा-मनस^a -सम् आपश्र २,
९, १; हिध २, १, ११६.
यथा-मन्त्र-वर्ण^a -र्णम्
काश्रौ ६, २, २०.
यथा-मात्र^a -त्रम् आपश्र १,
८, २९; हिध १, २, ११७.
यथा-मात्रविचक्षण-
ण: शैशि १८१.
यथा-मुख -> खीन- पा
५, २, ६.
यथा(था-आ)म्नात^a -तम्
काश्रौ १, ८, १६; ६, ७, २५;
१९, ५, ६; बौश्रौ.
यथा(था-आ)म्नात^a -त:
माश्रौ ५, १, २, ६, ९.
यथा(था-आ)म्नाय^a -यम्
बौश्रौ २०, ८: १६; २६, ४: ३;
जैश्रौका.
यथा(था-आ)म्नाय-प्रणि
धि^a -धि बौश्रौ २४, १: २.
यथा(था-आ)यतन^a -नम्
शांश्रौ १७, १२, ४; आपश्रौ १२,
१४, १०; १३, १३, १२; १९, १,
२०; २, १२; बौश्रौ; बौपि ३, १,
१७^g.

a) अस. । b) पाठः ? कृतम् इति शोधः (तु. संस्कर्तुः शब्दसूची) । c) सप्र. हिश्रौ ४, ३, १३

यथासुखम् इति पाठे । d) उप. = ब्राह्मण- । e) सप्र. हिश्रौ ५, १, १५ विभागमन्त्रेण इति पाठे ।

f) उप. = भूयस्त्व- । g) अस. उप. समासान्तृष् टच् प्र. (पा ५, ४, १०७) । h) अस. > षस. । i) विप. ।

मलो. कस. वा बस. उप. भाप. वा । j) यथायथम् इति R. ।

यथा-य (था >) थ^अ - थम्
आश्रौ २, ५, १०†; शाश्रौ;
आपश्रौ १२, ६, ३†^b; १६, २५,
२६†.

१यथा-युक्त^० - -क्तम् बौश्रौ
११, ७ : ३३; -क्तात् तैषा ५, २.

२यथा-युक्त^१ - -क्तः आपध
२, १२, ४; बौध १, ११, १७;
हिध २, ४, ३९.

यथा-यूप^० - -पम् काश्रौ ८,
८, २१; काशु ६, ८.

यथा-यूपावट^० - -टम् माश्रौ
२, २, ३, १३.

यथा-योग^० - -गम् काश्रौ
१७, ६, ३; आपश्रौ.

यथायोग-नत - -नत्म्
आपशु १६, ३; ५; हिशु ५, २४;
२६.

यथायोग-परिणाह^० -
-हम् वैश्रौ १, १ : २६.

यथा-योनि^० - -नि वैश्रौ २, १:
८; २०, १२ : १; हिश्रौ ८, ४, १३;
लाश्रौ ७, ९, ६.

यथा(था-आ)रम्भ^० - -म्भम्
काश्रौ १०, २, २४.

१यथा-रूप^० - -पम् शाश्रौ ६,
२, ३; बौश्रौ ६, ७ : २३; ९, १७ :
३०; १५, २४ : ७; भाश्रौ.

यथारूप-विशिष्टा-
(ष्ट-आ)क्षेप^१ - -पे शंघ ३१२.

२यथारूप^० - -पाः लाश्रौ ८,
१०, ६; ९, ४, २६; -पान् बौश्रौ
१५, १६ : ७.

यथा (था-आ) रोह^० - -हम्

जैश्रौका छष्ट.

१यथा (था-अ) र्थ^० - -र्थम्
आश्रौ १, ९, ३; ३, ११; १५××;
शाश्रौ; वागृ १७, २५†^g.

यथार्थ-दृष्ट - -ष्टम् अप
७०^३, ११, ३२.

यथार्थ-प्रत्यासत्ति - -त्तिः
लाश्रौ ९, ७, ६.

यथार्थ-स्तोमा (म-अ)-
न्वय - -यात् द्राश्रौ ९, १३, २.

२यथा(था-अ) र्थ^०, र्था^० - -र्थाः
दंवि १, ८; -र्थान् आपध २, २५,
१२; हिध २, ५, १९१; -र्थाभ्याम्
वैश्रौ १३, ३ : ८.

यथार्थ-कल्पना - -ना मीसू
७, ४, ६.

यथार्थ-लक्षण - > ण्य^{१b} -
-ण्यम् वागृ १५, ४.

यथा (था-आ) र्थ^० - -र्थम्
माश्रौ १, ५, ४, १३.

यथा (था-आ) र्थ^० - -यः
आपश्रौ २, १६, ५; भाश्रौ २,
१५, ८.

१यथा(था-आ) र्थ^० - -र्हम् पागृ
२, ९, १२; १३; कौसू १११, ११;
१२७, १३; आपध २, २६, १;
विध ३, ३८××; वैध.

२यथा(था-आ) र्थ^० - -र्हण अप
५, ५, ४.

यथा-लक्षण^० - -णम् हिश्रौ
२१, २, ३५; अप ६५, २, ४;
कौशि छष्ट.

यथालक्षण-संयुत - -तान्
अप २१, १, १.

१यथालाम^० - -भम् बौश्रौ
२, ६ : २२; २९, १ : १३; वाश्रौ

१, ५, २, २३; वैश्रौ १, ७ : १२;
११ : १५; आमिगृ २, ६, ५ : १४;
६ : ३२; बौगृ २, ९, १४; भागृ
३, १५ : २३; हिगृ १, २६, ७;
आपध १, ४, ३; हिध १, १,
१२२.

१यथालाभगन्धसक्षीर-
फलवत्^१ - -वद्भ्यः वागृ १७, ६.

यथालाभ-मिश्र - -श्रम्
वैगृ ५, ४ : १.

यथालामो(भ-उ) जत -
-तम् वैगृ १, ८ : ३.

२यथालाम^० - -भेषु अप
२३, ६, ३.

यथा-लिखित-पाठक - -कः
याशि २, ८२.

यथा-लिङ्ग^० - -ङ्गम् काश्रौ ३,
३, ७; ५, ४, १०××; आपश्रौ.

यथा-ल्ल^० - -नम् माश्रौ १,
१, १, ४२; वैश्रौ ३, ४ : १४.

यथा-लोक^० - -कम् आपश्रौ
†५, १८, १०; ३७, १××; काठश्रौ.

यथालोक-बृहद्ग्रन्थतर^० -
-राः निसू १०, १ : २५; २८.

यथा(था-अ) वकाश^० - -शम्
आपश्रौ १२, २, ८; १७, ४, १०;
१९, १४, ७; बौश्रौ; शांगृ ७, ८,
४^h.

यथा-वचन^० - -नम् या १, ३.

यथा-वत् वैश्रौ १६, १० :
६; बौगृ.
यथा(था-अ) वत्^० - -त्तम्

- a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १, २५७० a द्र. । c) अस. । d) कस. वा बस. उप. भाप. वा ।
e) बस । f) सुसुपीयः समासः > पस. । g) दत्त्वा यथार्थम् इत्यस्य स्थाने सपा. ऋ १०, ८५, ३३ दत्त्वायात्थारत्तं
इति पाभे. । h) यत् प्र. उसं. (पा ७, ४, १२) । i) मलो. कस. । j) पाठः ? ल्लामं गन्धांश्च क्षीरफलवद्भ्यः
इति संस्कर्तुः टि. । k) सपा. यथावकाशम् <> यथासनम् इति पाभे. ।

काश्रौ २०, ८, ८.
 यथा(था-अ)वदान^a- -नम्
 माश्रौ १, ३, २, १९; ३, १, ३१;
 -नेन अप्राय ३, ९.
 यथा(था-अ)वनिक्त^a- -क्तम्
 काश्रौ ४, १, ११; ५, ९, १४; पाठ
 २, १४, १३.
 यथा(था-अ)वनेजित^a- -तम्
 शाश्रौ ४, ४, ५.
 यथा(था-अ)वभृथ^a- -थम्
 काश्रौ २२, ७, २०.
 यथा-वयस्^{a, b}- -यः आश्रौ
 १२, ८, १७; आपध २, ६, ७;
 हिघ २, २, ७.
 यथा-वयस^c- -सम् लाश्रौ
 ८, १२, ३; गौगृ २, ४, १०.
 यथा-वर्ग-परिग्रह^d- -हम्
 अप ५२, १५, ४.
 यथा-वर्ण^{a, b}- -र्णम् बौश्रौ
 ९, ४ : १४; २१, ९ : २६; २४,
 १६; ४; वैश्रौ; अप ५२, १५, ४.
 यथा-वर्ण^{c, d}- -र्णानि अशां
 ६, ६.
 यथा-वर्ण-परिग्रह^e- -हात्
 अप ६४, २, १०.
 यथा-वर्तन-गोचर्मन्^f- >
 र्म-चक्र-तल्पे(रप-इ)षु-संमि-
 (त>)ता^f- -ता अप २४, १, ६.
 यथा(था-अ)वलेप^{a, b}- -पम्
 शंघ ९.
 यथा-वषट्कृत^a- -तम् शाश्रौ
 ७, ८, १०; आपश्रौ १२, २७, ९.
 यथा(था-अ)वसित^a- -तम्
 माश्रौ ३, ५, ५.

यथा-वाक्य^a- -क्यम् वृदे
 २, १२२.
 यथा(था-आ)वाहन^a- -नम्
 वैगृ १, १३ : ४.
 यथा(था-आ)वाहित^a-
 -तम् आश्रौ १, ५, २४; माश्रौ ३,
 १, ३०.
 यथा-विकार^a- -रम् हिश्रौ
 ६, ४, ४१; ८, २; ५; ७.^२
 यथा-वितान^a- -नम् कौसू
 १३७, १; अप २१, ५, १.
 यथा-विदित^a- -तः शंघ
 ३२५.
 यथा-वि(धा>)ध^a- -धेन
 विघ ५८, १२.
 यथा-विधान^a- -नम् बौध
 २, ८, १९.
 यथा-विधि^a- -धि जैश्रौका
 ६६; ७६; १५०; आमिगृ.
 यथाविधि-दत्त-जल-
 पिण्ड-दानादि- -दि वैगृ ५,
 १५ : १८.
 यथा-विभक्ति-वाचित-
 -तम् वैगृ १, ७ : १०.
 यथा-विभवा(व-अ)नुरूप^d-
 -पम् वैगृ ५, ९ : ७.
 यथा-विभाग^a- -गम् शांग
 १, ३, ३.
 यथा-विहित^a- -तम् बाश्रौ
 ३, ३, १, १५.
 यथा-विहित, ता^m-
 -तानाम् पावा ३, ११; -ताम्
 विघ ६, ४.
 यथाविहिता(त-अ)-

लुष्टान- -नम् वैध १, ९, ११.
 यथा-वृद्ध^a- -द्धम् शंघ ३४४.
 यथा-वेद^{a, b}- -दम् काश्रौ
 ७, १, ८; बौश्रौ ७, ८ : ३××; वैश्रौ.
 यथा-वेदि^a- -दि काश्रौ ५,
 ४, ८.
 यथा-व्यावर्तन^a- -ने अप
 ३३, ४, ५.
 यथा-शक्ति^a- -क्ति आश्रौ
 २, ७, २; काश्रौ; -क्तया कप्र २,
 ३, ७; अप १०, १, ५; ७०^१;
 २२, २; वाध २७, ८; विघ ६७,
 ४५; ७३, १२.
 यथा-शरीर^a- -रम् आपश्रौ
 ५, ३, १^१.
 यथा-शर्करा(रा>)र^a- -रम्
 बौश्रौ १०, २० : १३; २६ : १७;
 १९, २ : ७; आमिगृ ३, ८, २;
 २४; बौषि १, १५ : ३३.
 यथा-शाक^{a, b}- -कम् वाधूश्रौ
 ३, १०४ : १.
 यथा-शास्त्र^a- -स्त्रम्
 आमिगृ २, ४, ७ : १३; ३, १२,
 १ : १; २२; अप.
 यथा-शास्त्रा(स्त्र-अ)नु-
 सार^a- -तस(ः) आमिगृ २, ६,
 ७ : ४.
 यथा(था-आ)शिष- -षम्
 लाश्रौ ६, २, ३.
 यथा-शिष्ट^a- -ष्टम् मौसू ५,
 १, १९; ७, २, १.
 यथा-श्रुत^a- -तम् बौश्रौ
 २१, ५ : ४.
 यथा-श्रुत^m- -तान् हिश्रौ

a) अस. । b) उप. = आयुस्- । c) अस. समासान्तषु ट्च्प्र. उस्. (पा ५, ४, १०७) । d) अस. > षस. । वा. क्तिवि. । e) उप. = जाति- । f) उप. = शुक्लादि- । g) बस. । h) अस. > षस. । i) बस. > कस. । j) विप. (वेदि-) । k) उप. = ज्ञान- । l) बस. वा मलो. कस. वा । m) मलो. कस. । n) उप. = वेद- । o) उप. भाप. (शक्ति-)

२२,४,१६.

यथा-अ(डा>)द्ध^a- -द्धम्
शांश्रौ १४,१२,५; काश्रौ.यथाअद्ध-दक्षि(णा>) ^b
ण⁰⁰- -णः आपश्रौ ३,१५, ४;
भाश्रौ ३, १३, ७; -णम् बौश्रौ
२६,२० : ३; -णाः जैगृ १, ४ :
३०.यथा-श्राद्ध^a- -द्धम् काश्रौसं
६ : ६१; कौगृ ५, ७, १; कौसू
१४१,११; गौघ १५,२.यथा-श्रुत^a- -तम् बौध १,
१०,२९.यथा-श्रुति^a- -ति जैश्रौका
११५; १५५; अप ७०, ९, २;
आपघ २, ९, ९; दिघ २, १,
१२४; हिशु ४,२०; मीसू.यथा-संवाद^a- -दम् काश्रौ
२०,८,२४.यथा-संहि(ता>)त^a- -तम्
ऋप्रा १०,६; ११, ४५; उसू ३,
४; ६२; ४,२०; ६,९; अप्रा २,
४,१५.यथा-सं(ख्या>)ख्य^a-
-ख्यम् काश्रौ १, ३, २४; २,
३,५; ३,३, ३×४; पाय; पा १,
३,१०; पावा ३,३,१२७^d.यथासंख्य-वचन- -नम्
पावा १,३,१०.यथा-सदृश^a- -शम् वाश्रौ
१,१,१,६९.यथा(था-आ)सन^a- -नम्
आश्रौ ६,९,४; १०, २०; शाश्रौ
६,१३,५; ७, १४, १२; द्राश्रौ;कौगृ ३,९,५४^e.यथा-संधि^a- -धि ऋप्रा ३,
१८.यथा(था-आ)सन्न- -न्नम्
बौध १,५,११३; शुप्रा १,१४२.यथा-सप⁰¹- -पम् आश्रौ
२,१०,१४.यथा-सभक्ष^a- -क्षम् आश्रौ
५,६,१९.यथा-समाम्नात^a- -तम्
शांश्रौ ६,१,६; ७,१,३; ९,६,२०;
१०,१,१२; आपश्रौ.यथा-समाम्नात^a- -तः
कौगृ ३, १३, ८; -तानि वैश्रौ
१७,८ : ४.यथा-समाम्नाय^a- -यम् निसू
६,७ : ८; २८; ११ : १९×४.यथा-समुदित^a- -तम् बौश्रौ
८,६ : १२; १६,८ : १३.यथा-संपद्^a- -पत् कौसू
१११,११; १२७,१३.यथा-संप्रकीर्ण^a- -र्णम् शांश्रौ
१८,२४,२६.यथा-संप्रेषित^a- -तम् शांश्रौ
३,७,९.यथा-संप्रैष- -षम् बौश्रौ ६,
१० : २२,२३ : ८×४; हिश्रौ २,
३, ४१.यथा-संभव^a- -वम् वैश्रौ
२१,७ : ५; जैगृ २, ४ : १०.यथा-सव^a- -वम् कौसू ६३,
१२; २३.यथा-सवन^a- -नम् शांश्रौ ७,
१,४; काश्रौ ९,९, ७; २४, ३,

११; २५,१२,६; बौश्रौ.

यथा-सामन्^a- -म बौपि १,
१५ : २८^f.यथा-सारा(र-अ)पकार¹-
-रम् शंघ २६३.यथा-सुख^a- -खम् वैश्रौ ४,
८ : ९; हिश्रौ १,५,८८; ४, ३,
१३; १०,२,१४; ४,८; कौगृ ४,
१८,१३; मागृ १,२,२१.यथासुख-चारिन्- -रिणः
अप्राय ३,७.यथासुख-मुख^a- -खः
वाघ ६,१३.यथा-सुष्ठु^a- -ष्ठु बौश्रौ
१०,१७; ६; २० : १३; २६ : १६;
१९,२ : ७; २०, ३ : ६; आग्निगृ
३, ८, २ : २४; बौपि १, १५ :
३३.यथा-सूक्त^a- -क्तम् शांश्रौ २,
७,२८.यथा-सूत्र^a- -त्रम् बौश्रौ२४,
२२ : ६; २५, २७ : १२; २९;
२८ : १७; २७, ११ : ६; २९,
८ : ४; बौध ३, १, १०; -त्रे
अप्रा ३,३,२१.यथा-सूत्र-वचस्^k- -चः
जैश्रौका १८२.यथा(था-अ)स्त^a- -स्तम्
मागृ १,१३,८.यथा-स्तु¹- -स्तुत् काश्रौ
२२,५,३.यथा-स्तुत^m- -तम् आश्रौ ५,
१५,१४; ६,५,९; ६, ९; शांश्रौ
११,३,३; वैताश्रौ ३५,१.

a) अस.। b) बस.। c) उप. = २दक्षिणा-। d) तु. पाप्ति.। e) पाप्ते. पृ २०१३ k द्र.।

f) उप. = शेष-। g) पाप्ते. वैप २, ३खं. सापयन् तैत्रा २,४,६,५ टि. द्र.। h) मलो. कस.। i) अस. >
षस.। वा. क्तिवि.। = अर्थोपराधानुसारेण (तु. विवादरत्नाकरः [पृ ६६४])। j) पाप्ते. पृ २०१२ ८ द्र.। k) अस. >
षस.। l) अस. उप. = (अभिष्टुत्- प्रष्टु.) एकाह-। m) वैप २, ३खं. द्र.।

यथा-स्तोत्रि(या >)म्^a-
 -यम् शाश्रौ ११, ३, २.
 १ यथा-स्तोम^b -मम् शाश्रौ
 १२, ८, ११; १४, १९, २; जैश्रौ
 १५: २३; लाश्रौ १०, १४, ७.
 २ यथा-स्तोम^c -मम् क्षुस्
 ३, १५: १.
 १ यथा-स्थान^d -नम् आश्रौ
 ३, ८, ८; ४, १५, ७; ११, ६, ९;
 शाश्रौ ८, १०, ११××; काश्रौ;
 आश्रु ३, ६, ८; हिण् १, १७,
 ४; -ने आश्रौ ७, ५, ५.
 २ यथा-स्थान(त >)ना^e-
 -ना: शाश्रौ १४, १०, १२.
 यथा-स्थित^f -तम् आश्रौ १,
 ३, २२; काश्रौ २४, ६, १.
 यथा-स्व^g -स्वम् आश्रौ ४,
 ११, ३××; काश्रौ; वौण् ३, ९,
 ७; -स्वे पा ८, १, १४.
 यथा-स्वर^h -रम् वैताश्रौ
 १, १०; २, १.
 यथा-स्वल्लिङ्गⁱ -ङ्गम् अप
 १२, १, ९.
 यथा(था-आ)हित^j -तम्
 बौश्रौ २४, ३०: १७.
 १ यथा(था-आ)हृत^k -तम्
 आश्रौ ५, ६, ११; बौश्रौ.
 २ यथा(था-आ)हृत(>)ता^l-
 -ताम् वाश्रौ २, १, ५, १३.
 यथे(था-इ)च्छा^m -च्छया
 अप २२, ३, ५.
 यथे(था-इज्या >)ज्यⁿ-
 -ज्यम् माश्रौ २, ४, २, १९; ५,
 १, ७, १५, १०, २५, ३, २, ११.

यथे(था-ए)त^o -तम् आश्रौ
 २, ५, ३; १३××; शाश्रौ ८, ५, ७;
 काश्रौ २, २, २१××; आपश्रौ ३,
 ११, १; २०, १०××; काठश्रौ
 ११०; बौश्रौ १, २०: २६; २, ५:
 ३०××; लाश्रौ २, ४, १७.
 १ यथे(था-इ)ष्ट^p -ष्टम् काश्रौ
 ५, १२, ७; १४, ४, १८; बौश्रौ;
 पावा ८, १, १२.
 २ यथे (था-इष्ट >) ष्ट^q-
 -ष्टम् नाशि २, ८, ८.
 यथेष्ट-त्व -त्वात् पावा
 १, १, ७२.
 यथेष्टा(ष्ट-आ)सन^r -नः
 विध २८, २३.
 यथै(था-ए)त^s -तम् शाश्रौ
 १७, १७, ९; जैश्रौ ३: ९; २: ३;
 जैश्रौका ३०; द्राश्रौ ४, २, ६.
 १ यथो(था-उ)क्त^t -क्तम्
 काश्रौ २, ६, २२; ४, २, ६××; वैश्रौ.
 २ यथो(था-उ)क्त, क्त^u-
 -क्तस्य काश्रौ २४, ७, १९; मीस्
 ६, ४, ३६; -क्ता कौस् ६८, ४१;
 अप ५८, १, १३; -क्तात् गौध
 १०, ४; मीस् १०, २, ५९;
 -क्तान् गौध ९, १; अप २०, ७,
 ११; -क्तानि वैश्रौ १४, १५: ८;
 -क्तान् माण् १, १०, ११; अप
 ४१, ३, ६; ७; अशां २५, ५; -
 -क्ते वैण् ६, १४: ६; -क्तेन कप्र
 २, ७, १०; अप १, ४२, ३; अप
 १: ३६; -क्तेषु वैण् २, ८: १३;
 -क्ते: वैण् ५, १: २; अप १०, १,
 १; ७०, १०, ७.
 ३ यथो(था-उ)क्त, क्त^v-
 -क्तस्य काश्रौ २४, ७, १९; मीस्
 ६, ४, ३६; -क्ता कौस् ६८, ४१;
 अप ५८, १, १३; -क्तात् गौध
 १०, ४; मीस् १०, २, ५९;
 -क्तान् गौध ९, १; अप २०, ७,
 ११; -क्तानि वैश्रौ १४, १५: ८;
 -क्तान् माण् १, १०, ११; अप
 ४१, ३, ६; ७; अशां २५, ५; -
 -क्ते वैण् ६, १४: ६; -क्तेन कप्र
 २, ७, १०; अप १, ४२, ३; अप
 १: ३६; -क्तेषु वैण् २, ८: १३;
 -क्ते: वैण् ५, १: २; अप १०, १,
 १; ७०, १०, ७.

यथोक्त-काल -ले वैण् ६,
 १९: ११; -लेन विध २२, ३१.
 यथोक्त-क्रम-समन्वा-
 रब्ध -ब्ध्या: वैश्रौ १५, १९: ३.
 यथोक्त-जलदान-पिण्ड-
 निर्वाप-ब्राह्मणभोजन^w -नेषु वैण्
 ७, ८: १२.
 यथोक्त-देवता -ता:
 हिश्रौ २१, २, २७; ४९; ६३.
 यथोक्त-पृष्ट^x -ष्ट: काश्रौ
 २४, ७, २८.
 यथोक्त-प्रकाश^y -शस्य
 अश्रु ८.
 यथोक्त-फल-द्व -दम्
 शंघ १०४.
 यथोक्त-योग्य -ग्यौ
 वैश्रौ ११, ९: ६.
 यथोक्त-वस्त्व(स्तु-अ)
 संपत्ति^z -त्तौ कप्र २, ५, २१.
 यथोक्त-विधि -धिना
 अप १२, १, ५; ५८, १, १३;
 ६८, ५, २८.
 यथोक्त-विपरीत -तः
 अप २१, ७, ५.
 यथोक्त-स्थान -ने वैण्
 ५, १५: १.
 यथोक्ता(क्त-अ)नुष्ठान-
 -नम् वैध १, ११, १३.
 यथोक्ता(क्त-अ)र्ध -धम्
 वैध २, ९, ८.
 यथो(था-उ)चित^{aa} -तम्
 जैश्रौका १३७; हिण् २, ६, ११.
 यथो(था-उ)च्चारित^{ab} -तम्
 पावा २, ४, ११.

a) अस.। b) वैप २, ३खं. द्र.। c) बस.। d) स्वयम् इति पाठः? यनि. शोषः (तु. हिण् २, २०, २)। e) मलो. कस.। f) सप्र. यथे<>यथै इति पाठे.। g) तु. पासि.। h) =यथेत-
 लप. <आ/इ/वा. क्वि.। i) कस.>द्वस.। j) कस.>षस.। k) सपा. आशिण् २, २, ५: १६
 यथोदितम् इति पाठे.।

यथो (था-उ)च्छित्त^a- -तम्
काश्रौ ८, ८, २५.

१यथो (था-ओ)ठ^a- -ठम्
आपय २०, ४; भाग २, ८: ७;
८; हिगृ २, ८, ५^१.

२यथो (था-ओठ)ठा^b-
-ठाम् आपश्रौ ९, १५, २२; बौश्रौ
२७, १: ११; भाश्रौ ९, १८, ११;
हिश्रौ १५, ४, ४२.

यथो (था-उ)त्तर^c- -रम् निस्
५, १: १०.

यथोत्तरो (र-उ)पयोग-
-गम् वैश्रौ १२, १: २.

यथो (था-उ)स्पत्ति^d- -त्ति
कौस् ६३, २४; मीस् १०, ५, ८८.

यथो (था-उ)स्पन्न^e- -न्नम्
बौश्रौ २०, ४: २९; -ञ्जेन बौश्रौ
२१, ४: २७; २२, १: १५.

यथो (था-उ)स्पादित^f- -तम्
काय ४६, ६.

यथो (था-उ)स्साह^g- -हम्
काश्रौ ६, १०, १३; २२, २, २२;
५, ५; बौश्रौ १६, २: ९; द्राश्रौ १२,
१, ११; लाश्रौ ४, ९, ७; ८, ४,
१३; ५, १६××; कौय.

यथोस्साह-इक्षि (शा) >
ण^h- -गा: लाश्रौ ८, ११, ६.

१यथो (था-उ)दयⁱ- -यम्
ऋप्रा ९, ८.

२यथो (था-उ)दय^j- -यानि
ऋप्रा ८, १५.

१यथो (था-उ)दित^k- -तम्
आमिगृ १, ७, ३: ७; २, २, ५: १६^१;
४, ५: ३; ७: १२; ५, १२: १३; ७, ६:

२७; अप २५, १, ८.

२यथो (था-उ)दित, ता^l- -ता:
अप २२, १, ३; ऋप्रा १६, ३१;
-तै: अप ६८, ५, २०.

यथो (था-उ)दिष्ट^m- -ष्टम्
कौस् १३६, १३.

यथो (था-उ)दृष्टⁿ- -तम्
आपश्रौ ७, २४, ४; वैश्रौ १०,
१८: १७.

यथो (था-उ)पज्ञा > ज्ञ^o-
-ज्ञम् भाग १, २८: १.

यथो (था-उ)पदिष्ट^p- -ष्टम्
माश्रौ १, ६, २, १२; ४, १, ३;
वैश्रौ १४, १३: १; हिश्रौ १, १,
१८; ११, १, २; ऋप्रा ११, ६४;
पा ६, ३, १०९.

यथो (था-उ)पदेश^q- -शम्
काश्रौ २४, १, ३; आपय २, ७;
७, २४××; बौय ३, २, ५;
१८××; भाग २, ३२: २०××;
आपय १, ४, १६××; हिघ
१, १, १३५××; ऋय १,
१, १; मीस् ३, ५, २१; ७, ५१.

यथो (था-उ)पपत्ति^r- -त्ति
आश्रौ २, २०, २; ४, १, २; काय
२०, २; ३४, ३.

१यथो (था-उ)पपन्न^s- -न्नम्
बौश्रौ २०, २३: ३.

२यथो (था-उ)पपन्न^t- -ञ्जेन
बौय २, ११, ५२; भाग ३, १: ३.

यथो (था-उ)पपातम्^u आपश्रौ
१५, २०, ९^१; भाश्रौ १, १६, ४;
११, २१, ११^१.

यथो (था-उ)पपादम्^v शाश्रौ

७, १७, १८; बौश्रौ ७, १३:
१०××; ९, १९: ३८^१; वैश्रौ;
हिगृ १, १, २१^१६.

यथो (था-उ)पपाद-सूत्र-
पुरीष^w- -ष: गौष २, ४.

यथो (था-उ)पपादिन्- >
दि-पञ्च^x- -ञ्चु: कौस् १३८, २.

यथो (था-उ)पमुक्त^y- -क्तम्
काश्रौ १४, ५, ३६.

यथो (था-उ)पलब्ध^z- -ब्धम्
हिपि १७: २०.

यथो (था-उ)पलम्भम्^{aa}
आपश्रौ ६, ४, ३; ७, ९; हिश्रौ
३, ७, १८; निस् ८, ५: २७;
गोय २, ८, २३.

१यथो (था-उ)पस्थित^{ab}- -तम्
द्राश्रौ ७, ३, ६; लाश्रौ ३, ३, १०.

२यथो (था-उ)पस्थित^{ac}-
-तम् बौश्रौ ३०, २०: २७; ३०;
हिश्रौ १४, ३, ४६.

यथो (था-उ)पहित^{ad}- -तम्
माश्रौ ६, १, ७, २९.

यथो (था-उ)पाकृत^{ae}- -तम्
आपश्रौ २०, १७, १.

यदा आश्रौ २, ९, ३××; शाश्रौ;
आपश्रौ २१, २०, ३^१; वैताश्रौ
३४, ९^२ १^१; यदाऽयदा भाग
१, २५: १६.

यदि आपश्रौ ९, १८, १३^१; बौश्रौ
१४, १: १९; ३: २××;
भाश्रौ.

यद्-पाउ १, १३२; पा ८, ४, ३०;
पाग १, १, २७; ५, ४, १०७; यत्
पञ्चाश्रौ १, ६, ५; ९, ५; शाश्रौ;

a) अस. । b) मलो. कस. । c) बस. । d) पासे. पृ २०१६ l द्र. । e) उस. उप. णमुलन्तम् ।
f) परस्परं पासे. । g) षदम् इति पाठः? यनि. शोषः (तु. भाष्यम्, मूको.) । h) अस. > बस. >
द्रस. । i) कस. । j) पासे. पृ २००८ j द्र. । k) सकृत् यदारो इति पाठः? षदा रा० इति शोषः (तु.
आपश्रौ., C.) ।

आपश्री १६, १६, १५^०; माश्री
१, ३, ५, १७^०; वाश्री १,
३, ७, १७^०; वैताश्री २८,
२७^०; ऋश्री ४६, १९^०; ५२,
३; यत्ऽयत् अत्र १२, ३^२;
यदि पा ३, २, ११३; ११४; ३,
१६८.

यक्, क्का^० पा ७, ३, ४५;
पावाग ७, ३, ४५^०; -कः शुभा
४, ७५^०; -किका काश्री २०,
६, १८; बौश्री १५, ३० : ४.

यच्-च्छन्दस्^० - न्दाः कौट २,
४, १६; शां २, ७, १८.

यच्छन्दस्-(क>)का^०-
कायाम् निसू १, १३ : २१.

यज्-जाति->यजाती(य>)
या- न्या निसू २, ४ : १०.

यतम- पा ५, ३, ९३; पाग १,
१, २७; -कसः वाश्री १, ५, ५,
७; अप्रा ३, ४, १.

यतर, रद्, रा- पा ५, ३, ९२; पाग
१, १, २७; -रः आपश्री २२,
१६, १२; माश्री ९, १३, ८; हिश्री
१७, ६, ३५; -रत् वाधूश्री ४,
६४^३ : ७; -रस्मिन् भाश्री २, ५,
२; हिश्री १, ५, ३४; ७, १४;
९, ५, १३; -रसमै भाश्री ९, २,
८; -रस्याम् भाश्री ६, ३, १७;
-रा बौश्री २०, १९ : ३५;
अप्रा ३, ४, १^०; -राः वाधूश्री
४, ६७ : ८; -रे बौश्री १८,
१३ : १३; -रेण वाधूश्री ३, ९;
२१; -रेषाम् बौश्री १८, ४६ : १६.

ऋयति- -ति आश्रित ३, ७,
१ : ८^१; बौपि १, १७ : ८^१; ऋप्रा
५, १८.

यत्-कर- पा, पावा ३, २, २१.

१यत्-काम^० - मेन वाधूश्री ४,
७४ : २८.

२यत्-काम, मा- -मः शांश्री
४, ८, ५; १०, ३; आपश्री; -मा
आपश्री १९, १८, ४; हिश्री २२,
२, ४; -माः शांश्री १०, २१,
१४; बौश्री; या १०, ४३^०.

ऋयत्-कारिन्- -री बौश्री १४,
३० : १२; हिग १, १९, ३.

यत्-काल^० - स्थाः शैशि २००.

यत्-कृत^० - स्तौ वेज्यो ३७.

यत्-क्रिया-युक्त- -क्ताः पावा
१, ४, ६०.

यत्-गृष्ट^० - छेन शांश्री १४,
२२, ६.

यत्-प्र-पर^१ - -रः तैप्रा ४, ३३.

यत्-प्रयोग- -गात् अप ३१, ४, ३.

यत्-सामन्^० - मा निसू ८, ६ : ४.

यत्-स्थल- -ले भाशि १२८.

यत्-स्थान- -ने मीसू ९, १, ५४.

? यदत्यामन्तं वाश्री ३, ४, १, ५.

यद्-अनुपूर्व^० - वाणि हिश्री २,
२, ३३.

यद्-अन्न^० - न्नः निसू १०, ९ :
१९.

यद्-अभिहार^१ - -रम् बौश्री २४,
९ : ५.

यद्-अभीज्या- -ज्या मीसू ९,
२, ५८.

यद्-अर्थ- -र्थः निसू ७, ११ : २२.

यद्-अवसान^० - -नः लाश्री ६, ६,
१; क्षुसू ३, १३ : ८; -तम् लुसू
३, १३ : ९.

यद्-अश(न>)ना^० - -ना बौश्री
७, १५ : ३३; ८, ४ : ३१;
१२ : ४५.

यद्-उत्पत्ति- -त्तौ मीसू १, ४, २.

यद्-अच्छा^० - पाग २, १, ७२;

-च्छया बौध २, १०, ५२; काश्रु

७, ३२; वृदे १, २५; २८; ५, १९;

-च्छायाम् आपध १, १४, ५;

हिध १, ४, ३८.

यादच्छिक^१ - -कम् वृदे
१, ३०.

यदच्छ-ज^० - -जः कौसू
१३५, ९.

यदच्छा(च्छा-अ)शक्तिजानु-
करण-> ण^० - -गाः आशि
६, ६.

यदच्छा(च्छा-अ)शक्तिजानु-
करण-प्लुत्याद्य(दि-अ)र्थ- -र्थः
पाप्रा २, १.

यदच्छा-संनिपात- -ते आपध
१, २८, ८; हिध १, ७, ४४.

यदच्छो(च्छा-उ)पनत- -ते
ऋप्रा ११, ३५.

यद्-दक्षि(णा>)ण^० - -णः
जैश्री १ : १८.

यद्-देवत, ता^० - -तः आश्री ५,
३, २; शांश्री १३, २०, ९;

आपश्री ७, २२, ४; या ७, ४;
-तम् वाग १, २५; -ताः आपश्री

a) सपा. मा १२, ६५ प्रभ. युम् इति पाभे. । b) सपा. तै १, १, १०, २ युम् इति पाभे. । c) वैप १
द्र. । d) तु. पागम. । e) बस. । f) पाभे. वैप १, १२९४ a द्र. । g) कस. । h) तुस. ।
i) दस.> बस. । j) बस. उप. = प्रचुर. । k) भाप. । कस. उप. <√कच्छ (इच्छायाम् तु.
अश्री.।) । l) तत्रभवीयष् ष्क् प्र. । m) उस. पू. ह्रस्वः (पा ६, ३, ६३) । n) तद्वति वृत्तिः । o) उप.
= दक्षिणा- ।

१९, १६, १०; -ते पाण्डु ३, ११, १०.

यद्-देवता-> त्य, त्या- त्यः
काठश्रौ ६३; बौश्रौ १, १४ :
१०; ४, ५ : ६××; वैश्रौ; -त्यम्
बौश्रौ १३, १:१५; वैगृ ३, २०:१;
द्राण २, १, २३; ऋश्र २, १, ९४;
-त्या अश्र १, १९; ३२××;
-त्याः वाधूश्रौ ४, ८७ : १०;
-त्यायाम् निसू १, १३ : २२;
-त्यासु लाश्रौ ६, ९, ४.

यद्-दैवत^१- तम् अप्राय २, २; ३.

यद्-दैवत्य^२- त्यम् आमिष्ट ३, ९, ३ : १९.

यद्-द्वन्द्व^३- द्वेषु द्राश्रौ १०, १, १६^०; लाश्रौ ३, १, १८^०.

यद्-धि (< हि)-नु-पर- रम्
पा ८, १, ५६; -रस्य पावा ८, १, ५६.

यद्-युक्त- क्तः हियु १, २४, ६^१.

यद्-योग- नाः भासू २, १४;
-नात् वृदे ७, १०९; पावा ८, १, ७१; -नो माशि ६, ४.

यद्-योग (> गा)^४- ना पावा ४, ३, १२०.

यद्-योनि- नौ विध ३०, ४५.

यद्-वत् याशि २, ६१.

यद्-वाहिष्ठीय^५- > य-वत्
लाश्रौ ६, १, ३.

यद्-वित्त^६- त्तौ बौगृ १, ४, ५^१.

यद्-वृत्त- त्तात् पा ८, १, ६६.

यद्-वृत्तो(त्त-उ)पपद^७- दात्

शुप्रा ६, १४.

यन्-मात्र- -त्रम् विध २३, ३५.

यन्-सुख्य^८- ख्याः आपश्रौ १२, २८, १२.

यस्तेम(द >)दा^९- दा निसू ६, २ : २५; -दाम् निसू ६, २ : ७.

यातजतीय^{१०}- -यम् शाश्रौ १८, १९, ३.

या-दृश- -दृक् आपश्रौ ९, ५, ८; ६, १; २; ५; ६; बौश्रौ; -दृदृशिमन्^१

अप ४८, ११५; निघ ४, ३; या १, १५; ६, १५^१.

या-दृश- -शः निसू ३, १२ : ३१; ४२; भाशि १२८; नाशि १, ८, ४; -शम् वैगृ ३, ९ : ६;

अप ३१, २, ३; ५४, १, १; बौध; -शे निसू ३, १२ : २९; ४, ७ : २१; या ६, १५^१; -शेन

आज्यो १२, ७; -शैः अप ५५, १, ५; २, १; ३, १; ४, १; ५, १; ६, १.

यादशी- -शी याशि २, ७५.

-शीम् आमिष्ट ३, ७, ३ : ६.

या-वत्- पा ५, २, ३९; पाश १, ४, ५७; -वत् आश्रौ ८, १०, १^१; शाश्रौ; हिश्रौ १, ७, २६^१; पा २, १, ८; -वत्-वत् निसू ३, ७ : १३; -वतः आश्रौ ७, १०, ८^१;

शाश्रौ; -वता आपश्रौ ५, ४, ४; ७, ३, ८; बौश्रौ; -वता-वता आपश्रु ३, १५; हिश्रु १, ५४;

-वताम् शाश्रौ ४, १८, ५^१; वागृ १५, ११; शंघ; पावा १, २, ६४; -वति बौश्रौ ११, ११ : १८××; माश्रौ; -वद्विः या १, १२; -वन्तः आश्रौ १, ३, १; ४, १, १९; शाश्रौ; -वन्तम् आपश्रौ १, २५, ५; २१, ५, ४; १०, ३; बौश्रौ; -वन्ति शाश्रौ ८, ७, ५; १४, ७, १४; बौश्रौ; -वन्ति-वन्ति निसू ९, ११ : ३२; -वान् आपश्रौ ७, २, १३; १४××; बौश्रौ.

यावतो- -ती काश्रौ २६, ७, ५४^१; आपश्रौ १०, ४, १०; १३, ३, ३^१; बौश्रौ; -तीः आपश्रौ १९, २३, १२; २२, १, ७; बौश्रौ; -तीनाम् भाश्रौ १, २, १३; कौगृ ३, ५, ९; शांघ; -तीभिः माश्रौ ३, ७, १; छुसू १, ७ : १४; १९; आगृ २, ४, ६; -तीम् आपश्रौ १५, १, १२; भाश्रौ ११, १, १७; वाधूश्रौ; -तीषु अशां २०, ३; अश्र ८, ७; -त्यः शाश्रौ १५, ९, ४; आपश्रौ ३, १७, १××; बौश्रौ; -वत्यः-वत्यः आश्रौ ८, ५, ७.

यावत्-च्छ (< श)राव^१- वम् आश्रौ १२, ८, ३५.

यावत्-च्छ (< श)कं (रा >) र^३- रम् आपश्रौ १, ६, १३; भाश्रौ १, ६, १५.

यावत्-च्छ (< श)स्त्र^३- स्त्रम् शाश्रौ १८, २१, १.

२, ६४; -वति बौश्रौ ११, ११ : १८××; माश्रौ; -वद्विः या १, १२; -वन्तः आश्रौ १, ३, १; ४, १, १९; शाश्रौ; -वन्तम् आपश्रौ १, २५, ५; २१, ५, ४; १०, ३; बौश्रौ; -वन्ति शाश्रौ ८, ७, ५; १४, ७, १४; बौश्रौ; -वन्ति-वन्ति निसू ९, ११ : ३२; -वान् आपश्रौ ७, २, १३; १४××; बौश्रौ.

यावतो- -ती काश्रौ २६, ७, ५४^१; आपश्रौ १०, ४, १०; १३, ३, ३^१; बौश्रौ; -तीः आपश्रौ १९, २३, १२; २२, १, ७; बौश्रौ; -तीनाम् भाश्रौ १, २, १३; कौगृ ३, ५, ९; शांघ; -तीभिः माश्रौ ३, ७, १; छुसू १, ७ : १४; १९; आगृ २, ४, ६; -तीम् आपश्रौ १५, १, १२; भाश्रौ ११, १, १७; वाधूश्रौ; -तीषु अशां २०, ३; अश्र ८, ७; -त्यः शाश्रौ १५, ९, ४; आपश्रौ ३, १७, १××; बौश्रौ; -वत्यः-वत्यः आश्रौ ८, ५, ७.

यावत्-च्छ (< श)राव^१- वम् आश्रौ १२, ८, ३५.

यावत्-च्छ (< श)कं (रा >) र^३- रम् आपश्रौ १, ६, १३; भाश्रौ १, ६, १५.

यावत्-च्छ (< श)स्त्र^३- स्त्रम् शाश्रौ १८, २१, १.

यावतो- -ती काश्रौ २६, ७, ५४^१; आपश्रौ १०, ४, १०; १३, ३, ३^१; बौश्रौ; -तीः आपश्रौ १९, २३, १२; २२, १, ७; बौश्रौ; -तीनाम् भाश्रौ १, २, १३; कौगृ ३, ५, ९; शांघ; -तीभिः माश्रौ ३, ७, १; छुसू १, ७ : १४; १९; आगृ २, ४, ६; -तीम् आपश्रौ १५, १, १२; भाश्रौ ११, १, १७; वाधूश्रौ; -तीषु अशां २०, ३; अश्र ८, ७; -त्यः शाश्रौ १५, ९, ४; आपश्रौ ३, १७, १××; बौश्रौ; -वत्यः-वत्यः आश्रौ ८, ५, ७.

यावत्-च्छ (< श)राव^१- वम् आश्रौ १२, ८, ३५.

यावत्-च्छ (< श)कं (रा >) र^३- रम् आपश्रौ १, ६, १३; भाश्रौ १, ६, १५.

यावत्-च्छ (< श)स्त्र^३- स्त्रम् शाश्रौ १८, २१, १.

यावतो- -ती काश्रौ २६, ७, ५४^१; आपश्रौ १०, ४, १०; १३, ३, ३^१; बौश्रौ; -तीः आपश्रौ १९, २३, १२; २२, १, ७; बौश्रौ; -तीनाम् भाश्रौ १, २, १३; कौगृ ३, ५, ९; शांघ; -तीभिः माश्रौ ३, ७, १; छुसू १, ७ : १४; १९; आगृ २, ४, ६; -तीम् आपश्रौ १५, १, १२; भाश्रौ ११, १, १७; वाधूश्रौ; -तीषु अशां २०, ३; अश्र ८, ७; -त्यः शाश्रौ १५, ९, ४; आपश्रौ ३, १७, १××; बौश्रौ; -वत्यः-वत्यः आश्रौ ८, ५, ७.

यावत्-च्छ (< श)राव^१- वम् आश्रौ १२, ८, ३५.

यावत्-च्छ (< श)कं (रा >) र^३- रम् आपश्रौ १, ६, १३; भाश्रौ १, ६, १५.

यावत्-च्छ (< श)स्त्र^३- स्त्रम् शाश्रौ १८, २१, १.

यावतो- -ती काश्रौ २६, ७, ५४^१; आपश्रौ १०, ४, १०; १३, ३, ३^१; बौश्रौ; -तीः आपश्रौ १९, २३, १२; २२, १, ७; बौश्रौ; -तीनाम् भाश्रौ १, २, १३; कौगृ ३, ५, ९; शांघ; -तीभिः माश्रौ ३, ७, १; छुसू १, ७ : १४; १९; आगृ २, ४, ६; -तीम् आपश्रौ १५, १, १२; भाश्रौ ११, १, १७; वाधूश्रौ; -तीषु अशां २०, ३; अश्र ८, ७; -त्यः शाश्रौ १५, ९, ४; आपश्रौ ३, १७, १××; बौश्रौ; -वत्यः-वत्यः आश्रौ ८, ५, ७.

यावत्-च्छ (< श)राव^१- वम् आश्रौ १२, ८, ३५.

यावत्-च्छ (< श)कं (रा >) र^३- रम् आपश्रौ १, ६, १३; भाश्रौ १, ६, १५.

यावत्-च्छ (< श)स्त्र^३- स्त्रम् शाश्रौ १८, २१, १.

a) बस.। b) =साम-विशेष-(तु. P.W. प्रस.)। व्यु. ?। c) पृ १३१५ सस्थ. द्वन्द्वेषु इति नेष्टम्।

d) सपा. आमिष्ट १, ५, ४ : ४१ षयद्विक्तः इति, बौगृ १, ४, ५ यद्विची इति च पासे.। e) =साम-विशेष-।

f) <यद् वाहिष्म (ऋ ५, ३५, ७)। g) =ऋच्-। <यस्ते मूदः (ऋ ६, १९, ७)। h) विप. (नवर्च-)<या

त ऊतिः (ऋ ६, २५, १)। i) वैप १ द.। j) श्वाः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. दु. रर. राज.)। k) याव

इति पाठः? यनि. शोधः। l) विप. (यावच्छ्राव-परिमित-] सौम्य-वृत्-)<। m) अस.।

यावच्-छे(<शे)ष^a- षम्
काश्रौ १२, ६, २०.
यावच्-छु(<श्रु)ति^a- -ति
मीसू १०, ७, ६२.
यावज्-जीव^a > षक-
-कम् वैट् २, १८ : १४.
यावज्जीव-कृत- -तम्
वाध २८, १९.
यावज्जीव-प्रयुक्त-
-क्तानाम् बौश्रौ २५, १ : १;
-क्तानि बौश्रौ २१, १ : २; २५,
१ : ८.
यावज्जीव-प्रयोग- -गात्
मीसू ९, १, ३५.
यावज्जीविक^c- -कः मीसू
२, ४, १; -कम् आश्रौ ३, १४,
२२.
यावज्-जीवम् आश्रौ ३, ११,
३; शाश्रौ ३, १, ८; काश्रौ; पा
३, ४, ३०.
यावतिथ- -थः पावा १, ३,
११.
यावत्-कपाल^b- -लम् काश्रौ
२, ५, २०; माश्रौ १, २, ३, २२;
वाश्रौ १, ३, १, २१; वैश्रौ ४,
१० : ७.
यावत्-कर्मन्^d- -र्मं बौश्रौ
२९, १३ : १३.
यावत्-काम^e- -मम् हिट् १,
१३, १८.
यावत्-काल^f- -लम् शाश्रु
६, १, १३.
यावत्-कृत्वस्(:) बौश्रौ १०,
१६ : १४××; वाधुश्रौ.
यावत्-ताल^g- -लम् वैश्रौ

११, ९ : १०.
ऋयावत्सूत^h- -तम् आपश्रौ
१०, २३, ३; बौश्रौ ६, १३ : ८;
२९, १ : ४; माश्रौ.
यावत्-पदⁱ- -दम् आपश्रौ
१९, १४, १९; हिश्रौ २३, ३,
१७.
यावत्-परिमि(त>)ता-
-ताः हिश्रौ १०, ३, ३.
यावत्-पुरा(रा-आ)दि-
-दिषु पावा ३, ३, ४.
यावत्-पुरा-निपात- -तयोः
पा ३, ३, ४.
यावत्-पूर्वपक्ष^j- -क्षम् वैश्रौ
२०, २२ : २.
यावत्-प्रमाण, णा^k- -णा
काश्रु ३, ७; १२; ७, ३३; आपश्रु
३, ११; हिश्रु १, ५०; -णानि
काश्रु ६, ७.
यावत्-प्रवर- -रेषु बौश्रौ प्र
२ : ४.
यावत्-सं(ख्या>)ख्य^l-
-ख्यम् विध १९, १२.
यावत्-संनिपात^m- -तम्
आपध २, १, २१; हिध २, १, २०.
यावत्-संबन्धⁿ- -न्धम् पाट्
३, १०, १७.
यावत्-सहस्र^o- -स्रम् आपश्रौ
८, २२, ४; हिश्रौ ५, ६, १०.
यावत्-सामिधे(नी >)वि^p-
-नि काश्रौ ३, १, ९.
यावत्-सिद्धि^q- -द्धि बौश्रौ
१३, १ : ८.
यावत्-सु(त्या>)त्य^r-
-स्यम् वैश्रौ १२, ७ : २०.

यावत्-स्मृति^s- -ति काश्रौ
१४, ५, २१.
यावत्-स्व^t- -स्वम् काश्रौ
४, २, २८; मीसू ११, १, ४६;
४७.
यावद्-अग्नि-मान^u- -नाः
हिश्रौ ११, ५, २२^h.
यावद्-अङ्ग- > ऋयावदङ्गी-
न^v- -नम् कौसू ४०, १७; अप
४६, ६, १.
यावद्-अध्ययन^w- -नम्
आपश्रौ १५, २१, २; बौश्रौ ९,
२० : ३; भाश्रौ; आपध १, १३,
१३ⁱ.
यावद्-अध्याय^x- -यम् हिध
१, ४, २७ⁱ.
यावद्-अन्त^y- -न्तम् वैध
२, १२, ७; -न्ते^j आपश्रौ ९,
१५, १२; हिश्रौ १५, ४, ३२.
यावद्-अर्थ^k- -र्थम् वैश्रौ
१४, ६ : २; मीसू १०, ६, ७४.
यावदर्थ-विस्ता(र>)
रा^l- -राम् वैश्रौ ४, ११ : २.
यावदर्थ-संभाषिन्- -षी
आपध १, ३, १६; बौध १, २, २४;
हिध १, १, ८९.
यावद्-अर्थ^m- > र्था-
-र्थाम् हिश्रौ १, ६, ६०.
यावद्-अहⁿ- -हे काश्रौ ७, ९,
१७; द्राश्रौ १, ३, ४; लाश्रौ १, ३,
१.
यावद्-आदिष्ट^o- -ष्टम् शाश्रौ
५, ११, ८.
यावद्-आदेश^p- -शम् निसू
३, १ : १४.

- a) अस. । b) उप. = आयुस्- । c) तत्रभववीयष् ठक् प्र. । d) उप. = इताल- । e) वैप १ द्र. ।
f) बस. । g) कस. > बस. । h) सपा. वैश्रौ १८, ११ : २७ यावदात्मताः इति पाभे. । i) परस्परं पाभे. ।
j) विप. इति भाष्यम्? । k) वैप २, ३खं. द्र. । l) कस. (तु. MW.) ।

यावद्-आपद^a- -दम् काण्ड
 ४५ : १८.
 यावद्-आस^b- -सम् माश्रौ
 ४, १, १२.
 यावद्-आभूत-संप्लव^c-
 -वम् काथ २८१ : ६.
 १ यावद्-आम्नात^b- -तम्
 बौगृ १, ४, ४३, बौपि २, ८, ११;
 -तेन हिशु ३, ३^d.
 २ यावद्-आम्नात^e- -ताः
 वैश्रौ १८, ११ : २७^f; -तेन
 बौश्रौ २२, ११ : १८; २५,
 ३१ : १०.
 यावद्-आम्नात^b- -नेन
 आपशु ८, ३^d.
 यावदाग्नात-सारूप्य-
 -प्यम् आपशु २१, ९; हिशु ६,
 ६७.
 यावद्-आयाम^b- -मम् हिशु
 १, २.
 यावद्-इष्ट(का>)क^b-
 -कम् काश्रौ १८, ६, १३.
 १ यावद्-उक्त^b- -कम् काश्रौ
 ५, ६, १२; १५, ९, २८; २६,
 ३, ५; हिश्रौ.
 २ यावद्-उक्त^e- -कम् काश्रौ
 ९, १३, २३; १०, ६, १२.
 यावद्-उपर^b- -रम् वैश्रौ
 १०, ८ : १३.
 यावद्-नाव^g^h- -वम् हिपि
 १५ : ४^k.

यावद्-गृहीत-> ०तिन्-
 -ती द्राश्रौ ७, २, ६; लाश्रौ ३,
 २, ६.
 यावद्-ग्रहण^b- -णम् पाण्ड
 २, ५, १५; आग्निगृ १, १, ४ :
 ४७; ३, ६, २ : ६; बौपि १,
 ९ : १५; वाण्ड ६, २९; हिगृ १,
 ८, १४.
 यावद्-ग्रास^b- -सम् आपध
 २, १९, ५; हिघ २, ५, ७७.
 यावद्-घृत^b- -तम् माश्रौ २,
 १, ३, ४२.
 यावद्-घृतान्वक्त^b- -क्तम्
 वैश्रौ १२, १७ : २.
 यावद्-दध्न- -ध्नम् बौश्रौ
 १०, ४६ : ३०.
 यावद्-ध(<ह)विस^b-
 -विः काश्रौ ३, ३, २५, ४, ३.
 यावद्-घा काश्रौ १६, ४,
 १६; द्राश्रौ ३, १, ७; लाश्रौ १,
 ९, ७.
 यावद्-यजुस्^b- -जुः वैश्रौ ९,
 १ : १०; द्राश्रौ १, १, ५^f; लाश्रौ
 १, १, ५^f.
 यावद्-यज्ञ^b- -ज्ञम् आपश्रौ
 २०, ३, २; हिश्रौ १४, १, २५.
 यावद्-यूप^b- -पम् आपश्रौ
 २२, १०, १७.
 यावद्-रात्र^b- -त्रम् हिपि
 १४ : ६; -त्रा आपश्रौ १३,
 २५, ९^l^k.

यावद्-रात्रि^b- -त्री हिश्रौ ९,
 ६, ३४^k.
 यावद्-वचन^b- -नम् द्राश्रौ
 १२, २, १९; लाश्रौ ४, १०, २०.
 १ यावद्द्वय- -येन हिश्रौ १८,
 २, १०.
 यावद्-वि(घा>)घ^b- -धम्
 बौश्रौ १०, १९ : ९.
 यावद्-वेदम्¹ पा ३, ४, ३०.
 यावद्-व्यासि^m- -सि या ३,
 १५.
 यावन्-निगद^b- -दम् निम्
 २, ८ : २.
 यावन्-मन्त्र^b- -न्त्रम् आपश्रौ
 १९, १५, २; बौश्रौ १९, १० : १;
 हिश्रौ २३, ३, २३.
 यावन्-मात्र^b- -त्रम् बौश्रौ
 ३, २६ : २; ६, ७ : १२; १९ :
 १९×४; बौध २, १०, ५९^f;
 या ७, ३१^f; -त्रान् बौश्रौ २०,
 ७ : ११; -त्रे बौश्रौ २४, २३ : ६.
 यावन्मात्री- -त्रीः बौश्रौ
 १६, ३ : ५; -त्रीम् बौश्रौ २२,
 २ : २.
 यदा प्रघ्. यद्-द्र.
 यदि, >दीⁿ आश्रौ १, ६, १; २, १,
 १८×४; शाश्रौ; आपमं २, १९,
 ७^f!^o; आग्निगृ ३, ५, १ : १५^l!^p;
 बौपि १, १ : १३; भाण्ड २,
 २७ : ३; हिगृ १, १४, ४^l!^q;
 २, ११, १^l!^q; ऋप्रा ७,

a) अस. समासान्तषु टच् प्र. उत्सं. (पा ५, ४, १०७)। b) अस.। c) अस. > षस.। d) सपा. ०नेन <> ०नेन इति पाभे.। e) कस.। f) पाभे. पृ २०२० h) द्र.। g) बस.। h) समासान्तः अच् प्र. उत्सं. (पावा ५, ४, ७५)। i) तु. धन्वी; वैतु. MW. विप. इति। j) बस.। तद्वति वृत्तिः। k) परस्परं पाभे.। l) उप. <√विद् (लाभे)। m) अस. (तु. रक. PW. प्रभु; वैतु. अन्ये उत्तरेण समस्तं व्यासिभूतः इति पृथक पदमिति)। n) वैप १ द्र.। o) पाठः? यति इति शोधः (तु. सपा. ऋ १०, १८, ६ प्रघ्. [तु. Old.])। p) दिवि प्र० इति पाठः? यनि. च विप्र० इति च द्विपदः शोधः (तु. सप्र. बौपि.)। q) यदिति इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपमं २, २२, १० भाण्ड. च)।

३३१; ३४१; श्रुता ३, १२९१;
तैत्रा ३, १३१; पा ८, १, ३०.

†यदु^a - द्रवः अप ४८, ७८; निघ
२, ३; -द्वे आश्रौ ९, ५, २.

?यद्या वाश्रौ ३, २, ५, २४.

?यद्वाहि(ध्व>) घृथा- घृथा या
१४, ११^b.

यन्तव्या- प्रसृ. √यच्छ् द्र.

√यन्त्र पाथा. चुरा. पर. संकोचे.

यन्त्र- प्रसृ. √यच्छ् द्र.

?यन्त्रयः^a या ३, १६१.

†√यम् पाथा. भ्वा. पर. मैथुने,

यभति बौश्रौ १५, ३० : १;

यभ शाश्रौ १२, २४, २.

यियप्स्यते शाश्रौ १६, ४, ६;

यीयप्स्यते आश्रौ ८, ३, २४^b.

यीयप्स्यमा(न>)ना- ना शाश्रौ
१२, २३, ५१^b.

यम् पाग १, ४, ५७.

√यम्, यम- प्रसृ. √यच्छ् द्र.

रयम, मा^a - †म आश्रौ २, १९,
२२××; शाश्रौ; -मः आश्रौ २,
१९, २१^d; १०, ७, २^d; शाश्रौ
६, ३, २^१; १५, ९, २^d; १६, २,
४^d; आपश्रौ; माश्रौ १, ३, ४,
२३^१; वाश्रौ १, ३, ६, १६^१;
अप ३२, १, ११^१; वाध ११,
२०^b; १४, ३०^b; शंघ^b १४४;
१८२; २२३; ४४३; ऋअ २, १०,
१४^d; वृदे १, १२३; २, ११;
४८^b; ७, ६४; ८, ४८; साअ १,
९२^d; २, ४४१; अअभू २^b; निघ
५, ४; ६; या १०, १९^d; २०^१;

१२, २८; वेज्यो ३४^१; -मम्
आश्रौ ५, १९, ५^१; शाश्रौ; आपश्रौ
१२, २०, ४; भाश्रौ ९, १८, ५;
माश्रौ २, ५, २, ७; ६, १, २, २६^d;
वाधूश्रौ ३, ९० : १^१; ९१ :
१^१; ४^१; ४, ६१ : ८; वैश्रौ १५,
२३ : १३^d; हिश्रौ ८, ५,
३५^d; १३, ८, ३३; १५, ४,
३८^d; आमिष्ट २, ६, ३ : ३०^१;
बौष्ट ३, ४, १२; हिपि १७ :
१७; जैष्ट २, ९; १६^१; अपश्रौ ५,
३६; शंघ ११६; १८; ४०^१; अअ
५, २४; ६, २९; या ११, ३४^d××;
-मयोः ऋत्रा ९, ४४^१; -†मस्य
आपश्रौ १, १०, ६××; बौश्रौ
१७, ४६ : ३^d; भाश्रौ; वाधूश्रौ
३, ९१ : २^१; ३-५; अशा १४,
२; बौध २, २, ३४^d; विघ
४३, ३३^d; चाअ ४२ : १४^d;
वेज्यो ३६^m; -मा आपश्रौ
२३, ७, ५^d; -माः बौश्रौ २६,
११ : २३^०; ३२ : १९^०; निस्
१०, २ : ३७; या १४, १९^१;
-मानाम् अप ४६, १, ९^१;
-माभ्याम्^m काश्रौ २२, १, ३३;
बौश्रौ १८, ५० : १; लाश्रौ ८,
१, १९; -माम् आश्रौ ११, ५,
४^d; -माय शाश्रौ ४, ४, ११××;
काश्रौ; आपश्रौ १, ८, ६;
बौश्रौ २७, ३ : १७^d; आमिष्ट
१, २, २ : ९^d; ६, ३ : ४७^d;
काष्ट ५४, १२^d; काष्ट ४२ :
१९; बौष्ट ३, ४, ६; ९, ३;

बौपि ३, ६, ५; भाष्ट ३, ९ :
८; वाष्ट १७, ६; वैष्ट ३, ७ :
११; २० : १२; हिपि १८ :
४; कौस् ८४, २; -†मे
आश्रौ ४, ९, ४; शाश्रौ; -मेन
बौश्रौ ३, ११ : २३^१; आमिष्ट;
अप्राय ५, ६; अप ३४, १, ५;
-मेस्यः अप ४३, ५, ५५^१;
-मेषु अप ४६, १, १०; अअ १८,
४; अप ४ : ४१; -मौष आश्रौ
३, १३, १२; शाश्रौ ३, ४, १४; ५,
११^१; १४, ३९, ७; काश्रौ १५,
३, १६; आपश्रौ ९, १४, ७××;
बौश्रौ १८, ५० : २५; भाश्रौ ९, १६,
१३; वैश्रौ २०, ३० : १; हिश्रौ
१५, ४, १४; कौष्ट ३, ५, १०;
शाष्ट ३, १०, ४; कौस् १०९, १;
अप्राय ५, ५; वृदे ६, १६३; या
१०, २१^१; १२, १०.

यमी^a - †मि या ११,
३४^१; -मी अप ४८, १३^१;
ऋअ; -मीम् वृदे ६, १५४; या
१२, १०; -न्यम् अअ १८, १^१;
-†न्या^d आमिष्ट ३, ६, ३ : २६;
८, २ : ४५; बौपि १, १२ : १;
१५ : ५१.

यमी-यम- †माभ्याम्

गौपि १, ५, २०^१.

रयाम^a - †मः वैताश्रौ ४३, ३२;
साअ १, ३२०; -मम् वाश्रौ ३,
४, ३, १५; श्रुत् ३, ४ : ५^१; ११ :
४^१; कौस् १३२, १^१; ऋअ २,
१०, १४; १३५; अअ ६, ११६^१;

a) वैप १ द्र.। b) हिष्या इति राज.। c) पामे. पृ १३०२ I द्र.। d) = यम-राज-। e) सपा. तै ३, २, ५,
४ आपश्रौ ९, १२, ११ हिष्ट १, २६, १ बौध २, १, ३८ अमिः इति पामि.। f) = मृद्यु-। g) = स्मृति-कृत-। h) = ऋषि-
विशेष-। i) = अमि-। j) = भरणीनक्षत्र-देवता-। k) अर्थः ?। l) = शनैश्चरग्रह-देवता-। m) = भरणी-
नक्षत्र-। n) = युगल- (द्विगुण-).। o) विप. (यमदेवत्य-। छाग-).। तद्वति वृतिः। p) = युगल-। q) पामि.
वैप १, २०१० I द्र.। r) विप. (पशु-, सूक्त-, कर्मन्-).। साऽऽस्वेवताद्यर्थे प्र.। s) = साम-विशेष-।

-मस्य लुसू ३, ४: ५^३; -मान् कौसू ८१, ३४; -मानाम् बौश्रौ १५, ३१: १९; -मानि लुसू ३, ११: ६^३; -मेन^३ शांश्रौ १६, १२, २१; काश्रौ २२, ६, १५; २५, १३, ३०; आपश्रौ २०, १७, ११; बौश्रौ.

यामी^३- मी आपश्रौ ९, २०, ४; वैश्रौ २०, ३९: ६; १०; साश्र १, ३४१; ३९५; -मी: आश्रौ ६, १०, १८; आपश्रौ १४, २२, १; बौश्रौ १४, २७: १२; वैश्रौ २१, ८: ४; हिश्रौ १५, ५, ३५; -मीनाम् शांश्रौ ८, ७, १७; १४, ५७, १२; -मीभि: आपश्रौ १४, २२, ५; हिश्रौ १२, ६, २६; -स्य: शांश्रौ ८, ६, १३; -स्याम्^३ वैगृ १, १०: ११; १४; गौपि १, २, १७.

श्यास्य^३- स्ये आम्रिष्ट २, ४, ११: ९; -स्येषु अप ५९, १, १५.

याम्या(मी-आ)दि^३- दि आपश्रौ ९, २०, ८.

याम-गाथा- थाभि: वैश्रौ १८, ३: १०^३.

याम-त्रिच- चस्य गौपि १, २, ४०.

याम-सारस्वत^३- तान् कौसू ८३, १६.

रयाम्य, स्या^३- पावा ४, १, ८५^३; -स्य: आपश्रौ २२, ७, २२; हिश्रौ १७, ३, २१; अप ५२, ११, ५; विध २०, ३९;

-म्यम् वैगृ ६, १९: १४; ७, ३: ५; ४: १८; गौपि १, ५, १६; शंघ १०१; विध ४३, ३२; ६४, ४५^३; अश्र १, १४; -स्यस्य अशां ६, ५^३; -स्या अशां १६, १^३; -स्या: बौश्रौ २४, ३८: ३; -स्यात् वैगृ ३, १६: १४; -स्यानि अश्र ६, २९; -स्याम् आश्रौ ४, १२, २^३; अशां १७, ४^३; -स्यायाम् अप २५, १, ६^३; ५२, १०, २^३; ५९, १, ५^३; अशां १८, ६^३; १९, ६^३; -स्ये हिपि १७: ४; विध ७८, ३५^३; -स्येन आम्रिष्ट ३, ६, १: १९; बौपि १, ८: १७; हिपि ७: ९; -स्येभ्य: कौगृ ३, १०, ६; शांश्र २, १४, ७; -स्येषु अप २५, १, ६; -स्यौ वैगृ ३, १७: १३.

याम्या-कर्म-प्रयोग- गा: अप ७०^३, १३, २.

याम्या(स्या-आ)दि- दि वैगृ १, १५: ६.

याम्या(स्या-अ)न्त- न्तम् वैगृ १, १५: ६.

यम-क^३म्- कम् अप ७०^३, ४, ३^३.

यम-गाथा- था: माश्रौ ६, १, २, २६; वाश्रौ २, १, १, ५०;

-थाभि: आपश्रौ १६, ६, ४^३; बौश्रौ २२, २: २६; हिश्रौ ११, १, ६९; हिपि १८: १२; -थाम् पागृ ३, १०, ९.

यम-गीत- तम् वाध १९, ४८;

-तान् वाध १८, १३.

यम-जनन- ने काश्रौ २५, ४, ३५.

यम-दूत- ०त पागृ ३, १५, १९;

-ता: अप ४३, ५, ६४^३;

-ताभ्याम् हिपि १८: ९; -तेभ्य: अप ४३, ५, ६६^३.

यम-देव(ता >)त^३- त: हिश्रौ १५, ४, २५; गोगृ ४, ७, २२;

बौध २, १, ३१.

यम-देवता->त्य,त्या- त्यम् भाश्रौ ९, १८, ५^३; हिश्रौ १५, ४, ३८^३; अश्र १८, १; -त्या: अप १, ४, ८.

यम-दैनत्य^३- त्यम् आपश्रौ ९, १५, १८^३.

यम-नामन्- म या १२, १४.

यम-पद^३- द्यो: भासू ३, ८.

यम-पुत्र- त्र: वृदे २, ६१; -त्रा: अप ५५, १, ३; -त्राणाम् अप ५५, ४, ३; -त्रान् अप ५५, ४, १.

यम-पुर- रे अप ९, ४, १.

यम-पुख- खान् कप्र २, २, २; शंघ ११६: २०; -स्येभ्य: आश्र १, २, ५; आम्रिष्ट १, ७, २: ६; कागृ ५४, १२; मागृ.

यम-प्रभव^३- वौ गौध २८, ५२.

यम-भय- यम् अप १९, १, ८; -ये अशां १७, ४.

यम-यज्ञ- ज्ञम् हिपि १७: १.

यम-यमी- स्यो: ऋअ २, १०, १०; -स्यौ वृदे ६, १६३.

यम-राज- ०ज कौगृ ५, २, १३^३;

-जम् बौध २, ५, २५.

यमराज-ग- गान् अप १, ३८,

a) = साम-विशेष-। b) = ऋव-। c) = दक्षिण-दिश-। d) विप. (दक्षिणादिक्-स्थित-) पत्र-, तोयद-)। e) बस-। f) सपा. यामगाथाभि: <> यमगाथाभि: इति पाठे-। g) कस-। h) विप. (पशु-, पथिन्-, सूक्त-, दिश- प्रम्-। i) तु. पाका-। j) = भरणी-नक्षत्र-। k) = शान्ति-विशेष-। l) = युगल-। m) स्वार्थे प्र-। n) परस्परं पाठे-। o) पूष- = आग्नेहित-। p) दस-पूष- = निवृत्ति-, उप- = प्रवृत्ति-।

३१; अशां ८, २.
 ऋयम-राजन्^२- -जानः शांश्रौ ४, २१,
 ९; बौश्रौ १०, ५२ : १; माश्रौ
 ६, २, ४, १; वाश्रौ २, २, ३, २;
 काय २४, १२; -ञः काय ४५,
 ६७; कौसू ६२, २१.
 ऋयम-राज्य- -ज्यम् माय २, १, ८^b;
 -ज्ये आपश्रौ १, ९, १२; बौश्रौ
 ३, ११ : १; भाश्रौ.
 ऋयम-ल^०- पाउभो २, ३, ९६^d;
 -लानि अप ६७, ३, २.
 यमल-जनन- -ने आमिष्ट २,
 ७, ४ : ३; बौष्ट ४, ११, १.
 यम-वसा^०- -वसायाम् कौसू ९३, १७
 यम-वरुण- -णौ गोग ३, ६, १३.
 यम-विषय^०- -ये शंघ ३७५.
 यम-व्रत- -तम् कौसू ८२, ४२.
 यम-स(भा >)म-> षीय- पा
 ४, ३, ८८.
 यम-सा(<स)द्वत^६- -नम् आमिष्ट
 २, ५, १ : ३; जैष्ट २, ९ : ३;
 -नात् अञ २, १२; -र्षं ने
 आमिष्ट ३, ८, २ : ४१, ५८; बौषि.
 यम सू^१- -सूः अप्राय ५, ५; -सूम्
 कौष्ट ३, ५, १०; शांष्ट ३, १०, ४.
 यम-सुक्त- -क्तम् आमिष्ट २, ४,
 ३ : १६; पाय ३, १०, ९.
 यम-स्तोम- -मः शांश्रौ १५, ९, १;
 -मम् शांश्रौ १५, ९, २.
 यमा(म-अ)ङ्गिरस^१- -०रसा आपश्रौ
 ६, २१, १; -रसोः चाञ्च ४ : ६.
 यमा(म-अ)तिरात्र^१- -त्रः आपश्रौ

२३, ७, ४^१; निसू १०, २ : ३७;
 -त्रम् आश्रौ ११, ५, ४^१;
 काश्रौ २४, ३, ६.
 यमा(म-अ)न्यतर- -रः हिश्रौ ४,
 ३, १.
 ऋयमा(म-आ)दि- -दीन् बौध ४,
 ८, ३.
 यमा(म-अ)न्त^०- -न्ताः, -न्तानि
 माश्रौ ५, २, १०, ४.
 यमा(म-आ)लय- -यम् काघ २८१:
 १.
 यमि(त् >)नी^१- -नीम् अञ्च ३,
 २८.
 यामिन्य^६- -न्यम् अञ्च ३, २८.
 यमे(म-इ)न्द्र-वरुण- -णान् अप ७०,
 ९, ४.
 यमे(म-इ)ष्ट^१- -ष्टम् बौश्रौ १२,
 ११ : १५^१.
 रेयम^३- -मः ऋप्रा ६, ३२; अप्रा; -मम्
 ऋप्रा १४, ३४; ५३; याशि २,
 ९२; -मयोः अप ४७, १, १९;
 -माः अप ४७, १, १०; २, ३;
 ३, ६; शुप्रा; -मात् ऋप्रा ६, ३६;
 -मान् अप ४७, १, ६; ऋप्रा ६,
 २९; तैप्रा २१, १३; माशि ११,
 २; याशि २, ९१; -मानाम् माशि
 ६, ९; -मे शुप्रा ४, ११५; -मेन
 ऋप्रा ६, ३३; -मैः शौच १, ९९;
 -मौ अप ४७, १, १६; १७;
 आशि ४, २; ४.
 यम-दोष- -षाः माशि ११, ४.
 यम-स्थान-गत- -तम् शैशि २१६.

रयमा(म-आ)दि- -दयः याशि २, १.
 यमा(म-अ)नुस्वार-नासिक्य- -क्याः
 ऋत २, २, २; -क्यानाम् शुप्रा १,
 ७४.
 यमा(म-आ)पत्ति- -त्तिः शुप्रा ४,
 १६४; -त्तिम् ऋप्रा ६, ३०.
 यमो(म-उ)पदेश- -षाः ऋप्रा १, ५०.
 षयम^१- -मः ऋप्रा १३, ४३; -माः
 ऋप्रा १३, ४४; तैप्रा २२, १२;
 २३, १३.
 यम-क- , षयम-दूत- प्रमृ. रयम- द.
 रयमदूत^०- -ताः बौश्रौ ३ ३१ : ४.
 यमन्- √यच्छ द.
 यम-नामन्- रयम- द.
 यमनी- √यच्छ द.
 यम-पद- प्रमृ. रयम- द.
 रयमल-(>यामलायन-पा.) पाग ४,
 २, ८०.
 यमष्टु^०-(>यामष्टेय-पा.) पाग ४
 १, १२३.
 यमस्तम्भ^०- -म्भाः बौश्रौ १७ : १३,
 यमित्री- √यच्छ द.
 यमुना^१- पाउ ३, ६१; -ना लाश्रौ १०,
 १९, १०; शंघ ४५७ : ९; या ९,
 २६; -नाम् शांश्रौ १३, २९,
 २१; ३०; काश्रौ २४, ६, १०;
 ३६; आपश्रौ २३, १३, ६^१; १४;
 हिश्रौ; -नायाम् आश्रौ १२, ६,
 २८; -र्षंने आपमं २, ११,
 १२^१; भाय १, २१ : ८^१; या
 ९, २६६^१; शैशि १३१.
 यामुन^१- -नेषु जैष्ट २, ९ : १८.

a) वैष १ द. । b) सपा. ञः <> ञ्यम् इति पाभे. । c) = युगम- । स्वार्षिकः लृच् प्र. उत्सं.
 (पा ५, २, ९७) । d) वैत्त. <√यम् इति पाउभो., षयम-+√ला इति शक्र. । e) बस. । f) उप. = देश- ।
 g) उप. = सदन- । h) = ऋषि-द्वय- । i) = सत्र-विशेष- । j) पाभे. वैष २, ३३३. तां २४, १२, २ टि. द. ।
 k) सास्यदेवतीयः षयः प्र. उत्सं. (पा ४, १, ८५) । l) पाभे. वैष १, २५७७ q द. । m) (= अक्षरारणाम्)
 संज्ञा-विशेष- । n) = संगीतस्वर-विशेष- । o) व्यप. । p) सप्र. ञ्नाम् अवभृथम् <> ञ्नावभृथम् इति पाभे. ।
 q) पाभे. पृ. ९६८ ० द. । r) = देश-विशेष- । अण् प्र. (पा ४, २, ७०) ।

यमुना-तीर- -रे विध ८५, ९.

यमुना (ना-अ)वभृथ- -यम् हिश्रौ
१८, ४, ४०^४.

यमुन्द-(>यामुन्दायनि-पा.)पाठभो
२, २, १००; पाग ४, १, १५४^४.

यम्य- ✓यच्छ द्र.

ययाति^०- पाठभो २, १, १९७; -ति:
ऋअ २, ९, १०१; साअ १, ५४७;
अअ २०, १३७; -ते: चाअ
४०: ३.

ययावर^१- शन् अप ५०, २, २.

ययी-, ययु- ✓या द्र.

य-र-ल-व-, य-र-वो(व-रऊ)ष्मन्-,
य-रो(र-रऊ)ष्मापत्ति- १य-द्र.

यहिँ २यद्- द्र.

य-ल-व-, य-लोप- प्रभ. १य-व-
१य-द्र.

२यव^०->यविमन्- पा ६, ४, १५६.

यवीयस- पा ६, ४, १५६; -यस:

गौध २८, ७; १६; -यसाम्

कौसू ८४, १४; बौध १, २, ४६;

गौध ६, ९; -यसे शंघ २६८;

-यांसम् वृदे ४, ११२; -यान्

गौध १८, १९; -यान् ऽयान्

आमिगृ ३, ६, १: २२; बौपि १,

८: १९.

यवीयसी- -सीम् आमिगृ

१, ६, १: २; मागृ १, ७, ८;

वागृ १०, १; वाध २, २२; गौध

४, १.

यवीयः-प्रथम^१- -मानि कौसू

८२, १.

३यव^३- पाग ५, २, १००^४; ११७; ४,

३; ८, २, ९; -फं०व आमिगृ ३,

८, ३: ३३; बौपि; -फं०व: शाश्रौ

१२, १७, १; काश्रौ; काशु ७,

२४^६; -वम् फंशाश्रौ १६, ४,

४; १३, १७; आपश्रौ; -फं०वम्

ऽवम् निसू ६, ७: ३८; ऋअ

२, ९, ५५; साअ २, ३२५;

-वस्य जैगृ १, २४: ८; माशि

२, १०^१; -वा: काश्रौ २१, ४,

२९; आपश्रौ ८, ५, ३५; १२,

४, ५; काश्रौसं; काशु ७, २५^१;

-०वा: बौध ३, ६, ६-१०; विध

४८, १९-२२; -वान् आश्रौ

६, ९, १; शाश्रौ १४, ७, १; काश्रौ;

-वानाम् काश्रौ ४, ६, २; १५, ७,

३१; आपश्रौ; हिश्रौ १७, १,

४२^४; -वेन अप्राय ५, ६; या

३, २०^१; -वेभ्य: आपश्रौ ६,

३१, १३^१; बौश्रौ २८, ५:

८; भाश्रौ; -वेबुँ आश्रौ २, ९,

५; बौश्रौ १८, २०: ९××; -वै:

आपश्रौ ६, ३०, १८××; बौश्रौ.

यवानी- पावा ४, १, ४९.

१याव^१- पाग ५, ४, २९; -व:

काश्रौ ५, १२, ३; -वम् काश्रौ

४, ११, ८; शंघ १३६.

याव-क^३- पा ५, ४, २९;

-क: बौध ४, ५, २३^१; -कम्

कागृ ६, ४; वाध २१, ६; शंघ

४२२; ४४८^१; बौध; -केन

कागृ ४३, ६; वैगृ २, ३: ५;

वाध ११, ७७.

यावक-भक्ष- -क्ष: जैगृ

२, ८: २३; बौध ३, ९, १७.

यव-क- पा ५, ४, २.

यवक्य- पा ५, २, ३.

यव-कर्कन्धु-चूर्ण- -र्णानि काश्रौ

१९, २, २२.

यव-कर्कन्धु-दधि- -त्रिभि: कप्र १,

३, १३.

यव-कलापि^०- -पि: शाश्रौ १४,

४०, ९.

यव-क्री^१- > °क्री-लोष-रैभ्य-

-भ्या: अप ५२, ९, ३.

यव-खल- -ल: शाश्रौ १४, ४०, ७.

यव-गोधूम- -मानाम् आपश्रौ १९,

६, ७; हिश्रौ २३, १, १६; अप

१२, १, ३.

यव-गोधूम-पयो-विकार- -रम्

विध ५१, ३५.

यव-चूर्ण- -गै: शाश्रौ ४, १५, २२;

कौगृ ५, ६, ५.

यव-धान्य-तिल- -लै: अप ३०,

३, १.

यव-नीवार-वेणु-रयामाक-त्रीहिजा-

ति-प्रियङ्गु- -ज्ञव: वैश्रौ ११, ११:

७.

यव-पाल- पा ६, २, ७८.

यव-पिष्ट- -ष्टानि बौश्रौ ९, १७:

२६; २८, १३: ७; बौगृ ३, १०,

४; -ष्टै: हिश्रौ १४, ४, १८.

यवपिष्ट-मधु-स्वर्षिस्- -र्षिभि:

शंघ १६.

यव-पुरी (ष>)षा^१- -वा बौश्रौ

१८, २१: ५.

यव-प्रमुखा^१- -खान् शंघ ११६: १४.

a) पामे. पृ २०२४ p द्र.। b) व्यप.। c) वैप १ द्र.। d) = देह-विशेष-। e) पाप्र.

<युवन्-इति। f) बत्.। g) वैप १, २५७८ p द्र.। विशेष: टि. द्र.। h) तु. पागम.। i) = परिमाण-

विशेष-। j) = [यवाकार-] अङ्गुलिपूर्व-प्रान्त-। k) °नीम् इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु. सपा. आपश्रौ २२,

३, ४)। l) विकाराऽर्थे प्र.। m) वैनु. अभा. <यवक- इति। n) = [उपचारात्] कृच्छ्र-विशेष-। o) उप.

= तृणमुष्टि-।

वैप ४-प्र-७२

यव-प्रवाद- -दम् निस् ६, ७ : ३९.
 यव-प्रसून- -नानि बौघ १, १०, ८;
 -नैः बौघ १, १०, ७.
 यव-प्रासन- -नेम् हिश्रौ ७, ७, ६.
 यव-बर्हिस्^a- -हिः बौश्रौ १८,
 २१ : ७.
 यव-बुस^b- > यवबुसक- पा ४,
 ३, ४८.
 यव-मणि- -णिम् कौस् १९, २७;
 अशां १९, ३.
 यव-मत्- पा ५, २, ११७; ८, २, ९;
 -मत् आपश्रौ १, १७, ५; वैश्रौ ४,
 ४ : २; हिश्रौ १, ५, १; -मन्तः
 शाश्रौ १३, ३, ४; बौश्रौ ११,
 ३ : १९ x x; माश्रौ; -मान्
 शुभ्र १, १३५^c.
 यवमती- -तीः बौश्रौ ४, ४ :
 ७ x x; वाश्रौ; -तीभिः आपश्रौ
 ७, ९, ९; ११, ९, १२; १२, ५;
 भाश्रौ; -तीभ्यः बौश्रौ ४, १ : ६.
 यव-मध्य, ध्या(बप्रा.)^d- -ध्यः^e विघ
 ४७, ३; ६; -ध्यम् बौध ३,
 ८, ३३^d; -ध्या^e ऋश्र १, ४,
 ६; ९, १०; २, १, १०५ x x;
 शुभ्र; -ध्याः कप्र २, ८, २^f;
 अश्र ५, १०^g; -ध्याम् माशि ९,
 ५^h; -ध्ये अश्र ९, १.
 यवमध्यो(ध्या-उ)त्तर^h- -रः
 ऋप्रा १८, १३.
 यव-मय- पा ४, ३, १४९; -यः
 काश्रौ १५, १, २४; आपश्रौ;
 -यम् आपश्रौ २, ११, २, ५, ४,
 १५ⁱ x x; बौश्रौ; -यानि माश्रौ
 ८, १५, १५.

यव-मात्र- -त्रम् काश्रौ ३, ४, १;
 आपश्रौ ३, १, २; बौश्रौ; -त्रात्
 आपश्रौ ३, १, २; बौश्रौ.
 यव-मुष्टि- -ष्टिम् गोघ ३, ७, ७.
 यव-मेघ- -घेन वाधूश्रौ ४, १९;
 ३२.
 √यवय>यवयु- -युः ऋप्रा ९,
 ४३^k.
 यव-वत् कप्र १, ३, ९.
 यव-वेला- -लायाम् लाश्रौ ८, ३, ७.
 यव-व्रीहि-तिला (ल-आ) दि-
 -दीनाम् अप २१, २, २.
 यव-व्रीहि-महाव्रीहि-प्रियङ्गु-
 -ङ्गणाम् अप २३, ७, २.
 यव-शालि- -लीन् आज्यो ३, ३.
 यव-स्तक्तु- -भिः आपश्रौ १९, ७,
 १; वाश्रौ ३, २, ७, ६३; वैश्रौ
 १५, १६ : ६; हिश्रौ २३, १, २५.
 यवसक्त-मिश्र- -श्रम् आमिष्ट २,
 ६, ६ : १.
 यव-ससक- -कम् विघ १३, ४.
 यव-सर्षप- -पौ आमिष्ट २, १, १ : ९.
 यव-स्तम्ब- -म्बम् आपश्रौ ६, ३०,
 १४.
 यवा(व-अ)क्षत-तण्डुल- -लैः
 आमिष्ट १, ७, १ : ८.
 य(व>)वा-गिरि- ऋत ४, ७, १०.
 यवा(व-आ)ग्रयण^l- -णस्य बौश्रौ
 २८, १२ : १३; १४; -णेन बौश्रौ
 १२, ३ : ४; १५, ९ : १८.
 यवा(व-आ)ग्रयण^m- -णे वाश्रौ १,
 ५, ५, ६.
 यवा(व-आ)घारⁿ- -रौ अप ४०,
 ३, ५.

यवा(व-आ)चाम¹- -मेन बौध ४,
 ५, २५.
 यवा(व-आ)चित^k- -तम् आश्रौ ९,
 ४, १८; काश्रौ १५, ८, २३;
 आपश्रौ १८, २१, ७; बौश्रौ १२,
 १८ : १७.
 यवा(व-आ)दि- -दीनाम् अग्राय ६,
 ५.
 यवादि-रहित- -तः कप्र १, ४, ३.
 यवा(व-आ)न्तर- -रम् नाशि १,
 ६, ९.
 यवा(व-अ)न्न- -न्नम् शंघ ४४८;
 विघ ९५, १२.
 यवा(व-आ)शिर^k- -शिरः हिश्रौ
 १२, ६, ६^k; -शिरम् आश्रौ ६,
 २, ६ x x; शाश्रौ १५, २, १; क्षुस्
 १, ७ : १३; २, १० : २४.
 यविक- , यविन्- , यविल- पा ५, २,
 ११७.
 यवो(व-उ)दक- -कम् वैघ ६, २ :
 १४; -केन भाघ ३, १६ : ९.
 यवो(व-ओ)दन- -नम्¹ बौपि १,
 १७ : ३१; हिपि १२ : ४; -नस्य
 बौपि १, १७ : ३१; हिपि १२ : ५.
 यवोदन-प्राशन- -नात् हिपि
 १९ : १३.
 यवो(व-उ)दर^m- -राणि अप २६,
 १, ३; -रैः अप २३, ५, ५.
 यवो(व-उ)वै(र>)रा^m- -रा शाश्रौ
 १४, ४०, ६; आपश्रौ २२, ३, ३;
 लाश्रौ ८, ३, ४; हिश्रौ १७, १,
 ४१; -रायाम् काश्रौसं २७ :
 १६९^o.
 यवो(व-ओ)दन- -नम् आमिष्ट ३,

a) बस.। b) = [उपचारात्] काल-विशेष-। c) = ऋषि-विशेष-। d) = चान्द्रायण-। e) = छन्दो-
 विशेष-। f) विप. (कुवा-)। g) = विवृत्ति-विशेष-। h) = [वसन्ते] नवाक्षेष्टि- (तु. भाष्यम् [काश्रौ १, ८, ६; ४,
 ६; १; २])। i) = आहुति-विशेष-। मलो. कप्र.। j) उप. = [उपचारात्] पयद्रव्य-। k) वैप १ द.। l) सपा.
 यवो<>यवौ इति पाभे.। m) = प्रमाण-विशेष-। n) विप.। तुस.। o) गवो इति पाठः? यनि. शैवः।

७,२: ११^a; -नस्य आम्निष्ठ ३,
७,२: १२.
२यवौ(व-ओ)द्वन^b- नौ अवां
१२,३.
१यव्य,व्या- पा ५, १, ७; २, ३;
-व्यानि^c आपश्रौ २०, १२, १;
बौश्रौ १५, ३७: ११; -व्ये शुप्रा
२,२०^d.
२य(व्य>)व्या- -व्यायै बौश्रौ १५,
२६: ११^d.
†४यव^e- -वा:† माश्रौ ६,२, ३, ३;
वाश्रौ २,२,२,८.
३यव्य^f- -व्य: कप्र २,६,८.
यवक-, -व्य-; -की- ३यव- द्र.
यवखद->^gदिक- पा.) पाग ५,२,
११६.
य-वचन- १य- द्र.
१यवन^h- पाउ २,७४; पावा, पावाग
४, १, १७३; -ना: अप ५७,
२, ५; -नेषु अप ५१, १, ३.
यवतानीⁱ- पावा ४, १, ४९.
यवन-काल्बोज- -जान् अप ५०,
२, ४.
यवन-मुण्ड- पाग २, १, ७२.
यवन-बलय-कान्ती-सिंहल-लङ्का-
पुरी^j- -री अप ५६, १, ५.
२यवन- √यु द्र.
य-व-न-ह-पर- १य- द्र.
?यवने^k अप ४६, ३, ६[†].
√यवय प्रभु. ३यव- द्र.
यवया^l- > यवया-वन्^m- -वान:
अप्रा ३, १, ७[†].

य-व-ल- १य- द्र.
यवधि->ⁿषिन्- यवाष- टि. द्र.
यवस्- √यु (वधा.) द्र.
यवस्^o- पाउभौ २, ३, १७३; -सम्
आश्रौ ३, ११, ४; आपश्रौ ८, १,
४[†]; २०, ७, ८; हिश्रौ १४, २,
२१; आप २, ४, ८; -†से बौश्रौ
१०, ४६: ४८; माश्रौ ६, २,
३, १७; वैश्रौ; -†सेन आपश्रौ
१२, १४, १२; हिश्रौ ८, ४,
१४.
यवस-भार- -रम् शंध ४०१.
यवस-मुष्टि- -ष्टिम् शाश्रौ ३, २०,
१.
यवसो(स-उ)दक- -के काश्रौ २६,
६, २४; पाग ३, १४, १५; विध
६३, १८.
यवागू^p- पाउ ३, ८१; -?गु:† वाश्रौ
१, ५, ३, ३; ४; -गू: आश्रौ २,
३, २; शाश्रौ २, ७, ९; काश्रौ,
-गूस् आश्रौ ३, १०, ३०;
आपश्रौ ६, १५, २; ९, १, २३××;
काश्रौसं; -न्वा आश्रौ २, ४, २;
शाश्रौ ३, १२, १५; ४, ५, ११;
काश्रौ; -न्वा: माश्रौ १, १, ३,
३५.
यवागू-नियम- -म: मीस् ११, १,
५०.
?यवाचष्टि^q लाश्रौ ४, २, ९.
यवानी- ३यव- द्र.
यवाष->^rषिक-, षिन्- पा.)
पाग ४, २, ८०^{२a}.

यवास्- पाग ४, २, ८०^{२a}; ३, १३९; ५,
२, १३५^o.
यावास्- पा ४, ३, १३९.
१यवासिन्- पा ४, २, ८०.
२यवासि(न् >)नी- पा ५, २,
१३५.
यविक-, यविन्- ३यव- द्र.
यविमन्- २यव- द्र.
यविल- ३यव- द्र.
यविष्ट^s- पा ५, ३, ६४; ६, ४, १५६;
-†०ष्ट आश्रौ १, ६, २; ७, ८, १;
काश्रौ; वैश्रौ १, ६: ८[†]; आपमं
२, ११, २८[†]; -†ष्ट: शाश्रौ १२,
१९, ४; १८, २२, ६; वाश्रौ १,
३, ७, २०; -†ष्टम् आपश्रौ १६,
३५, ५; वाश्रौ २, १, ८, १६;
हिश्रौ ११, ८, ३३; -ष्टस्य चाअ
१६: २७[†]; -ष्टाय बौश्रौ १३,
५: ३; ५; अप्राय ६, ६[†]; -ष्टे
वृदे ७, ६१.
†यविष्टय^t- पावा ५, ४, ३६[†];
-०ष्टय आपश्रौ ५, ६, ३;
बौश्रौ २, १४: ३६; हिश्रौ ३,
२, ५४; ऋप्रा ७, ३०; शुप्रा ४,
१५६[†]; भाशि ८३; -ष्टय: बौष्ट
३, ५, १२-१४.
यवीयस्- २यव- द्र.
यवीयुध्- √युध् द्र.
?यवैलायाम् काश्रौसं २८: २.
?यवोहिषु नाशि २, ४, ६.
†४य(व्य>)व्या^u- -व्या बौश्रौ ५,
८: २; -व्या: निच १, १२.

a) पाभे. वृ २०२६। द्र.। b) द्रस.। c) = होम-विशेष-। विकाराऽथै यत् प्र.। d) पाभे. वैप
१, २५७९ f द्र.। e) वैप १ द्र.। f) पाभे. वैप १, २५७९. h द्र.। g) स्त्रार्थे यत् प्र.। h) नाप.
(जनपद-, तद्राजन्-।) i) = लिपि-। j) द्रस. > मलो. कस.। k) पाठः ? सपा. ऋ २, १०८, ५ पवते इति
पाभे.। l) पाठः ? षूः इति शोधः। m) पाठः ?। यच्च चेष्टितम् इति शोधः (तु. द्राश्रौ ११, ३, १०)।
n) सङ्कृतं ष- इति पासि. पागम.। अन्यत्र यवधि- इति पासि.। o) पय- इति दुर्गः (तु. पागम.)। p) पाभे.
वैप १, २५८१ e द्र.। q) पाभे. वैप १, २५८० p द्र.। r) व्यप. ?। ष्टस्य इति पाठः ? यनि. शोधः।

✓यश^a(बधा.)^b> यश^b-शस् मागृ
१५, ४^{२०}.

१यशस्^a- पाठ ४, १९१; पावाग ५,
१, १११; -शः आश्रौ ६, १२,
२^{१६}; ९, ३, १०; शाश्रौ; पागृ
२, ६, १०^{१०१}; मागृ १, ९,
२७^{३१०१}; १३, ७^१; ८^{१०}; वागृ
१२, ३^{१०१}; कौसू १३, ४^{१६};
अप ४८, ७५^{११}; -शस्:
वाधूश्रौ ४, ९४^५: ७; द्राश्रौ
९, ३, १०; लाश्रौ; -शसा
आश्रौ ९, ३, १०; शाश्रौ १६,
२९, ७; आपश्रौ; बौश्रौ १०,
४६: ११^१; -शसि बौश्रौ
१०, ४५: ३१^१; वैश्रौ; -शसि
आश्रौ १, ३, २३; २, ९, ९××;
शाश्रौ; माश्रौ १, १, ३, ७^१;
-शसि या ५, २५.

यशः-प्रती(क>)का^b- का
या १०, २१.

यशस्-कर- राय आमिगृ २, ४,
३: ११.

यशस्-काम- मः आश्रौ ९, ८,
५; ७; माश्रौ; -मस्य आपश्रौ
६, १५, १; भाश्रौ ६, १४, १४;
आमिगृ २, ४, ११: २; -मा:
बौश्रौ ३, १४: ९.

यशस्-कामिन्- मी आमिगृ
२, ४, ११: २४.

यशस्-कृत्- कृतम् बौश्रौ ३,
८: ११^१.

यशस्य, स्या- पावा ५, १, १११;
-स्यः आगृ ४, ८, ३५; पागृ ३,
८, २; -स्यम् मागृ १, १८, २;
द्रागृ ४, २, १३; अप २०, ७, २;
बौध ३, ८, ३८; विध १००, २;
शुपा ८, ३२; -स्ये बौश्रौ ६,
२४: ३५^{११}.

यशस्य-वर्चस्य- स्यानि
अप १८, १, १४.
यशस्-वत्- वन्तः बौश्रौ ३,
८: १०^{११}.

यशस्वती- ती आश्रौ
४, १२, २^०; आपश्रौ १९, १४,
१३; बौश्रौ; अप ४८, ७४^{११}.
यशस्-विन्- ँवि आपमं २,
२, ११; शागृ २, १, २९; पागृ;
-ं-विन् आपश्रौ १७, १०, २;
बौश्रौ; -विनः अप २०, ५, ३; याशि
१, ३७; नाशि २, ८, ४; -ंविन्म
आपश्रौ ६, २१, १; वाधूश्रौ;
आगृ २, ६, ९^१; अप २०, ५, ३^१;
-ंविना भागृ १, २०: ८; हिगृ
१, २४, ३; -ंवी काश्रौ ३, ३,
५; आपश्रौ ६, १४, ६××; बौश्रौ.

यशस्विनी- ँनि मागृ
२, १४, ३०^१; -नी मागृ २,
१३, ६^१; -नीः कौसू १३५, ९^१;
-नीम् मागृ २, १३, ६^१; कप्र
३, १, १०; वृदे ४, ५७; ५, ५४.

यशस्वि-तम- मः वाधूश्रौ
४, ९४^५: ४; ५; ७.

यशः-सद्^a- सत् आपश्रौ
१६, २९, २; वैश्रौ १८, २०: २८;
हिश्रौ ११, ८, ४.

यशो-(हन् >)श्री- श्री पागृ १,
११, २; ४; वैगृ ५, ९: ३; जैगृ
१, २२: २२.

यशोऽन्य(श्री-अ)न्त^a- न्तम्
वैगृ ३, ४: ४.

यशो-दा^a- दाः आपश्रौ १७,
५, ९; बौश्रौ; -दाम् आपश्रौ
१७, ५, ९; बौश्रौ.

यशो-धा^a- धाम् माश्रौ ५, २,
८, २०^१.

यशो-भग^a- > ँगिन, ना- पा
४, ४, १३२; -ंना हिश्रौ २, ५,
४३; ६, ४, ३.

यशोभग्य- पा ४, ४, १३१.

यशो-वित्त-हर- रान् विध ५,
१९२.

यशस्-आपश्रौ १, ११,
१०; बौश्रौ १, ३: १६; भाश्रौ;
-शसम् आश्रौ ३, ८, १; ४, १३,
७; काश्रौ ५, १२, १०; आपश्रौ;
-शसा आश्रौ ४, ४, ४; -शा:
आश्रौ ७, ४, ३; शाश्रौ १२, ९,
११; अश्र ६, ५८.

यशस्-तपाः आमिगृ १, ३, ४:
१६^१.

यशस्-तम- मः वाधूश्रौ ४,
९४^५: ४; ५; ७.

यष्टव्य- ✓यज् द्र.

- a) वैप १ द्र. b) = १यशस्- c) सपा. मागृ १, १३, ८ बलं यशः इति पाठे. d) पाठे.
वैप १, २५८२ h द्र. e) यशोधा^० इति पाठः? यनि. च धास्यै (तुमर्थायम्) इति च द्विपदः शोधः. f) सपा.
शौ २, १३, ३; १९, २४, ६ पै १५, ६, ३ विमे. g) पाठे. वैप १, २५८२ g द्र. h) = उदक- i) पाठे.
वैप १, २५८२ k द्र. j) पाठे. वैप २, ३खं. यशसः तैत्रा ३, ७, १४ टि. द्र. k) बस. l) पाठे. वैप १,
२५८३ d द्र. m) पाठे. वैप २, ३खं. दशस्यै तैत्रा १, ८, २ टि. द्र. n) पाठे. वैप १, २५८३ g द्र. d.
o) पाठे. वैप १, २५८३ h द्र. p) = रात्रि- q) = मन्त्र-विशेष- बस. r) पाठः? स्तमः इति शोधः
(तु. शौ ६, ५४, ३; मूको. ष्यः इति)। सपा. बौगृ १, १३, ४३ स्तमः इति पाठे. ?।

यष्टि,ष्ट्री^a- पाठभो२,१,१८६; पा,पाग
४,१,४५; -ष्टयः बौध २, १०,
१२; ३२; -ष्टिः बाध १२, १४;
-ष्टिभिः कौसू ३९, १५; -ष्टिम्
वाण ९, १४; बौध ३, १, ८; विध
७१, १३; -ष्टया कौसू ४७, २४.
याष्टीक- पा ४, ४, ५९.

यष्टि-ग्रह- पावा ३, २, ९.

यष्टुम्, यष्टृ- ✓यज्ञ द्र.

✓यस्^b पाधा. दिवा. पर. प्रयत्ने,
ऋस्य^c शाण्ट १, १९, ६; हिण्ट
१, २५, १.

यस्क^d- पाग २, ४, ६३; ४, १, ११२;
-स्काः^e बौश्रौप्र ६: १; ५.
यास्क- पा ४, १, ११२; -स्कः
बौश्रौ १६, २७: २२; वृदे २,
१११; १३७××; साञ; -स्कस्य
पि ३, ३०; -स्कानाम् वैध
४, २, ४१^f; -स्काय वाधुश्रौ ३, १:
१०; या १४, ३६.

यास्क-कात्थक्य- -न्यौ वृदे
३, १००.

यास्क-गार्थ्य-रथीतर- -रा:
वृदे १, २६.

यारक-प्रभृति- -तयः साञ
१, ५८१.

यास्क-भागुरि- -री वृदे ६,
१०७.

यास्क-वाधूल-मौन-मौक-

-का: आपश्रौ २४, ६, १.
यास्क-वाधूल-मौन-मौक-जात-
वाह^g- -हा: हिश्रौ २१, ३, ७^h.
यास्क-शाण्डिल्य- -ल्यौ वृदे
२, १३२.

यास्कौ(स्क-श्रौ)पमन्यव-
-नौ वृदे ७, ६९.
यस्क-वाधूल-मौन-मौक-शार्कराक्षि-
साष्टि-सावर्णि-शालङ्कायन-जैमि-
नि-द्वैदन्यायन- -नानाम् आश्रौ
१२, १०, १०.

यस्त्वृत्वो तत्रागोवसःⁱ वैश्र ३२.

यस्मान्मिनोति^l अप्राय ५, ६१.

✓यह्(बधा.)>यह->यहु^l- -हु:
निघ २, २१; -हुम् या ८, २;
-०हो वृदे ३, ६४^m.

य्यहⁿ- पाठ १, १५४; -०ह
या ८, ८१; -हः आपश्रौ १३,
१६, ८; वाधुश्रौ; अप ४८, ६८^o;
निघ ३, ३^p; -हम् आश्रौ ४, १३,
७; शाश्रौ ६, ४, ७××; ऋञ;
-हस्य आपश्रौ १२, ७, १०^q; १३^r;
१३, १६, ८; हिश्रौ ८, २, ९^s; १०,
५, १३; -ह्याः आपश्रौ १७, १८, १.
यह्नी^t- -ह्यः अप ४८, ७६^u.

य्यहस- -हः निघ १, १२^v; २, ९^w.
✓या(बधा.) पाधा. अदा. पर. प्राणो,
याति आपश्रौ ९, १०, १७^x;
१६, ३५, ५^y; २३, ११, १२;

बौश्रौ; यातः विध ५४, ७;
यान्ति आपश्रौ १०, २४, ३;
२३, १२, १७××; बौश्रौ;
यासि आश्रौ २, १३, ७^z;
आपश्रौ; या ८, ३; ऋयामि^{aa}
आश्रौ २, १७, १५^{ab}; ३, ७,
१५; ५, १६, २; ७, ४, ३; शाश्रौ;
आपश्रौ ३, ११, २^{ac}; ९, १२, ४^{ad};
यामः या २, २६^{ae}; ऋयात् माश्रौ
२, ३, ६, ४; वैण्ट ५, ३: २३;
ऋयान्तु बौण्ट २, ११: ४२; गौपि
२, ४, १९; ऋयाहि आश्रौ ३, ७,
१०; वैश्रौ; ऋयातम् अप्राय ६,
९; अञ २०, १४१; शैमि १२५;
ऋयात्, >ता गौपि २, ५, १४;
अप ४४, ४, १२; तैप्रा ३, १०;
यातन या ४, ७; अयात् सु २४,
३; ऋयातम् आश्रौ ९, ५, २;
शाश्रौ; यायात् वाधुश्रौ ४, ९४^{af};
७; वाश्रौ १, ७, ४, ६५; आपण्ट.
य्यौ अप्राय २, ३^{ag}; ययुः आश्रिण्ट
३, ५, ४: १८^{ah}; बौपि १, ३:
२७^{ai}; कप्र ३, २, १३; ययाथ
कौसू ८१, ३९^{aj}; यास्यति कप्र
३, ३, ६; वैध १, ६, १; यासिष्ट
बौश्रौ १८, २६: ८.

ययी^{ak}- पाठ ३, १५९; -ऋयम्
काश्रौ १२, ३, १४; आपश्रौ; वाश्रौ
३, २, २, २८^{al}; हिश्रौ १६, ३,

a) नाप. (दण्ड-) व्यु. ? <✓यज्ञ इति प्रायोवादः, <✓यम् इति P.W. प्रम्., <✓यक्ष इति [पक्षे] अभा. । b) पा ३, १, ७१ परामृष्टः द्र. । c) लोटि मणु १। पाप्मे. पृ २००८ a द्र. । d) वैप १ द्र. । e) बहु. <यास्क- । f) याक्तस्का^o इति पाठः ? यनि. शोभः । g) 'मौकरजा' इति पाठः ? यनि. शोभः (तु. आपश्रौ २४, ६, १) । h) पाठः ? यस्त्वृत्वो तत्रागोव स्यात् (यत् तु ऋत्वा उ तत्र ऋग् एव स्यात्) इत्याकारकः पाद-शोभः । i) पाठः ? प्रस्मा मिनोति इति त्रिपदः शोभः (तु. ऋ ५, ७, ४ आपश्रौ १४, २९, ३ प्रम्.) । j) नाप. (अपत्य- [निघ.]) । शेषं वैप १, २५८४ j द्र. । k) = महत्- । l) पाप्मे. वैप १, १३७४ o. द्र. । m) = जल- । n) = १बल- । o) धा. यास्वायां वृत्तिः । p) पाप्मे. वैप १, २५८५ i द्र. । q) पाप्मे. वैप १, ७५१ f द्र. । r) 'य्यम् इति पाठः ? यनि. शोभः ।

३६^४.

ययु^० - पाउ १, २१; -^१युः बौश्रौ १५, ७; १४; आपमं २, २१, २८.

यात्- यातः बौश्रौ १८, ४१; १^१; याताम् आग्निगृ २, ५, १०; ३१^१; वृदे ८, ८७; यान्तः लाश्रौ १०, ५, १०; यान्तम् बौश्रौ ६, ९; ६; २१, १०; २१; विध ७१, १८; ऋञ्च २, १०, ४०^१.

यात- पाग ४, ४, १९^१; -तः सु १८, ६; विध ७२, ६; या ८, ८; -ताः अप ३१, ३, ५; -ते विध १, १९; -तौ वृदे ७, १३१.

यात-याम^० - मम् शुञ्च १, ५; -मैः कौगृ ३, ११, ४०; शांगृ ४, ११, ९.

यातयाम-ता- -तायै गोगृ १, ८, १२.

यातयाम-त्व- > °त्व-का- रिन्- -रि कप्र ३, ८, १६.

यात-यामन्^० - मानि ऋञ्च १, १, १; -ज्ञा बौश्रौ २९, १०; १२. याता(त-ञ्च)नुयात- पावाग २, १, ६०.

यातिक- पा ४, ४, १९.

यातो(त-उ)पयात- (> पतिक- पा.) पाग ४, ४, १९.

यातवे मागृ २, ७, ५^१.

यातवै वाधुश्रौ ४, ९०; ७.

श्यात्- -ता आश्रौ ६, ३, १^१; -तारम् अप ४८, ११६^१.

यात्रा- पाउ ४, १६८; -त्रा आज्यो ६, ६; -त्राम् अप ६८, ३, ५; विध ३, ४०; आज्यो १०, ३.

यात्रा(त्रा-ञ्च)र्थ- -र्थम् कौम्

६७, १५.

यात्रा-विधान- -नम् आज्यो ७, ७.

यात्रिक- -कम् शंघ ३९०.

यात्रो(त्रा-उ)घान- -ने अप २४, १, ३.

यात्वा काश्रौ ७, ९, १५××; ऋपश्रौ.

श्यान्^० - पाग २, ४, ३१; -नम् बौश्रौ ९, १९, ४१; आगृ १, ८, १; पागृ; -नस्य अप ६८, २, १४; आपध २, ११, ७; हिध २, ४, २३; या १३, १२; -नात् आपध २, ९, २; हिध २, १, ११७; -^१नान् या ८, ६; अत्रा २, ४, १७; -नानि शांश्रौ १५, ३, १४; हिश्रौ १३, १, ३१;

लाश्रौ ८, ४, १३; अप; -नाय बौगृ ४, ४, १०; -नेन लाश्रौ ८, ५, ६; बौगृ; -नेषु आपश्रौ ६, २८, २; हिश्रौ ३, ८, ३; गौध १३, २२; -नैः बौध १, ५, ८४.

श्यानी^० - ^१नी आपश्रौ १६, २४, ८××; बौश्रौ. यान-वत्- -वन्तम् आपध २, ९, २; हिध २, १, ११७. यान-विपर्यास- -से पागृ १, १०, १; गोगृ २, ४, ३.

यान-स्थ- -स्थः गौध १६, १७. याना(न-अ)नुसर्पण- -णे अप ७१, १, ३.

याना(न-आ)सन- -ने विध ६५, १४.

यानासना(न-ञ्च)घान- -नात् वाध १, २२^४; बौध २, १, ६२.

याप(न>)ना- -नायाम् पा ५, ४, ६०.

याप्य- -प्यः गौध १३, २३; -प्याः सुधप ८५; ४; -प्ये पा ५, ३, ४७; -प्येन बौध ३, १०, २; गौध १९, २.

श्याम्^० - पाउ १, १४०; -मम् कप्र २, ६, २; -मान् कप्र २, ६, १०; -मै वैश्रौ १७, ४; ४; माश्रौ ४, ८, १; अप ६८, २, ५८; -मेषु वैश्रौ १७, ४; २; या ४, १५^१.

^१यामन्- -मन् वाश्रौ १, ३, ३, १; हिश्रौ १, ७, ४०; -मन् ऽ-मन् अञ्च ४, २९; -मनि आश्रौ ५, ७, ३; शांश्रौ ७, ६, ३; ऋत्रा ७, ३४.

याप(त् >)न्ती- -न्तीनाम् शांश्रौ १६, २२, २१.

यायावर^० - पा ३, २, १७६; -रः आपश्रौ ५, ३, २२; १६, १३, ४;

माश्रौ; -रस्य आपश्रौ ११, १७, १; -राः बौश्रौ २४, ३१; २; हिपि २१; ४; -राणाम् अप २३, ७, ५; शंघ १५८.

यायावर-त्व- -त्वम् बौध ३, १, ३.

यायावर-धर्म- -मैण बौश्रौ २४, ३१; १; ३; हिपि २१; ५.

यायावर-वनस्थ- -स्थेभ्यः बौध ४, ५, २७.

यायिन्- -यिनः अप ५१, २, १; ६३, ४, ३; -यिनम् अप ५१, २, २^३; -यिनाम् अप ६३, ४, १०; -यी अप ५१, २, २^३.

यायि-सङ्घ- -ङ्घाः अप ५१, ५, २.

a) अम् इति पाठः? यनि. शोधः। b) वैप १ द्र.। c) पाभे. वैप १, १०९३ f द्र.। d) तु. [पक्षे] पागम.। e) धा. हिंसायां वृत्तिः। f) विप. > नाप.। g) ष्वादानात् इति लैवि. पाठः? यनि. शोधः (तु. बौध., मनु ११, १८०)।

यियासु-सूत्र कप्र १,१०,९.
 १यु^१-यो: शांशौ १४,५२,५१.
 याकृल्लोम,मन-यकृत्-द्र.
 याग-प्रसृ. √यजू. द्र.
 √याच्^२वाधा. भ्वा. उभ. याच्वायाम्,
 याचते बौश्रौ २, २:१४; १०:
 ३८; ३, ११:१६; वाधूश्रौ;
 याचति आपश्रौ १०,३,१; बौश्रौ;
 याचत: बौश्रौ ५, ९:११;
 याचन्ति या ८,२; याचामि कौसू
 ४६, ६१; या ७, १५; अयाचत
 ऋअ २, ४, १५; अयाचताम्
 वृदे ३, २०; अयाचन्त बौश्रौ
 २,७:३१; अयाचन् अश्र १२,
 ४१; याचेत आपश्रौ ६,१९,३१;
 अश्र २, ६, २; वाध; याचेत्
 काश्रौ २२, १, ३१; आपश्रौ;
 याचेरन् पाठ ३,१०,१३.
 याचिष्यते या ६, २४; याचिष्व
 या ६, २४१; याचिषामहे^३ पावा
 ६, १, ८; ऋयाचिष्व गौपि २,५,
 १२; विध ७३,३०.
 याच्यते वृदे १,८.
 याचयति आश्रिण १, ६, १:६;
 याचयेयु: वैश्रौ १२, ३:१०.
 याचक-कम् माशि १५,१; -कान्
 माश्रौ २,१,३,१३.
 याचत्-चत: बौध २,२,८०; -चन्
 आपध १,१९,१५; या ६, २४१.
 याचमान-न: कप्र १,६,१५; -ना:
 या ४,३; -नाय हिश्रौ १०,४,६५.
 याचित-न्त: आश्रौ २,१०, १६१;
 आपश्रौ १३, ७, ३; कौय; -तस्
 वाय ९,२०; -न्ते जैश्रौका १४.

याचित-क- पा ४,४,२१.
 ऋयाचित्-न्तार: विध ७३, ३०;
 -न्तारम् गौपि २,५,१२.
 याचितार-दावृ^४-न्तारौ अष
 १०,१,३.
 याचित्वा बौश्रौ २, ६: ५; भाश्रौ.
 याचिष्यत्-अयन् कौसू ४६,६.
 याचज्, च्वा- पा ३,३,९०; -चज्:^५
 या ३,१९; -च्वा वृदे १, ३५;
 ४९; भाशि ५९.
 याच्वा-कर्मन्-न्मार्ण: निध ३,
 १९; या ३,१९.
 याच्वा-ऋयण-गम् मौसू ६,८,
 २८.
 याच्वा(च्वा-अन्त>)न्ता^६-
 -ताम् बौध १,२,१७.
 याच्य-पा ७,३,६६.
 याजक-प्रसृ. √यजू. द्र.
 यियाज्ञानी वाश्रौ ३,३,४,१०.
 याज्ञिक-प्रसृ. √यजू. द्र.
 यात्-, यात-प्रसृ. √या(बधा.) द्र.
 यातऊतीय-यद्-द्र.
 यातना-प्रसृ. √यत्. द्र.
 ययातवातहसहभविष्यति आश्रिण
 ३,१०,४:२०.
 यातवे, त्वै, तिक-√या(बधा.) द्र.
 यातु^७-पाठ १,७३; -तन् कौसू १०६,
 ७१; -तूनाम् या ६,३०१.
 यात(व्य>)व्या-पा ४,४,१२१.
 यातु-धान^८-न्त: या ७,३१; -न्म्
 अश्र १,८; -न्ता: आपश्रौ २,२,
 २१; वाश्रौ; हिश्रौ ६, २, १५;
 आश्रिण २, ६, ७:११; बौध
 २, ८, १५; -न्ताम् विध ८१,४;

शुप्रा ३,१५०१; -नानाम् आपमं
 २,१७,७१६; विध ७३,११.
 यातुधानी^९-नी: अश्र १,
 २८; -न्य: अश्र २,५,५१;
 -न्या: अश्र ३,७,५,५१.
 यातुधान-प्रबोधित-न्त: काश्रौ
 २५,११,३३१.
 ययातु-मावत्^{१०}-न्त् शौच ४,८१.
 ऋयातु-हन्-हन्म् आपश्रौ १६,
 ३०, १; वैश्रौ.
 ययातु-√या(बधा.) द्र.
 रयातु^{११}-पाठ २,९७; पाग ४,१,१०;
 ५,१,१३०.
 यात्र-पा ५,१,१३०.
 यात्रा-, त्रिक-, यात्वा √या(बधा.)
 द्र.
 याथाकथाच-, कामी-, काम्य-,
 १,२याथात्थ्य-यद्-द्र.
 यादस्^{१२}-पाठ २,१,३३८; -द: अश्र
 ४८, ७५१; -दसाम् अश्र ६७,
 २, ४.
 या(य-आ)दि-१य-द्र.
 यादु^{१३}-दु: निध १,१२१.
 यादच्छिक-दृशू-प्रसृ. यद्-द्र.
 ययान-, ययानी-√या(बधा.) द्र.
 रयान-(>रयानी-)२पात-दि. द्र.
 यापना-प्य-√या(बधा.) द्र.
 ययाम-√यच्छ्. द्र.
 रयाम-२यम-द्र.
 रयाम-√या(बधा.) द्र.
 धयाम^{१४}-पाग ४,१,९९.
 यामायन-पा ४,१,९९; -न: ऋअ
 २, १०, १३५; १४४; -ना:
 ऋअ २,१०,१४.

a) वैप १ द्र. । b) पावा १, ४, ५१ परामृष्ट: द्र. । c) यियाचिषामहे इति पाम. । d) द्रस. पूष.
 आरह् उंसं. (पा ६, ३, ३२) । e) विप. (यज्ञ-)। अधिकरणे नह् प्र. । f) बस. । g) सया. काठ १६, १५
 यातुधानाः इति पाभे. । h) धयातृ- (तु. वैप १) द्र. । i) = जलन्, जलजन्तु- । j) परस्परं पाभे. ।
 k) = उदक- । <√या [प्रापणे] इति दे., √याद् इति MW. । l) = ऋषि-विशेष- ।

यामन्- ✓या (बधा.) द्र.
 यामलायन- रयमल- द्र.
 यामष्टेय- यमष्टु- द्र.
 यामिन्य-, °मी- रयम- द्र.
 यामुन- यमुना- द्र.
 यामुन्दायनि- यमुन्द- द्र.
 १, २याम्य- रयम- द्र.
 यायजूक- ✓यज् द्र.
 यायन्ती-, °यावर-, °यिन्- ✓या (बधा.) द्र.
 १याव- प्रभृ. ३यव- द्र.
 २याव^a- -वाः^b आपश्चौ १७, ५, १५; बौश्रौ १०, ४५ : ४०; हिश्रौ १२, २, १२; -वानाम् बौश्रौ १०, ४२ : १५.
 याव-क- ३यव- द्र.
 यावत्- प्रभृ. यद्- द्र.
 ?यावतीशासीषाविद् वायूश्रौ ३, ६९ : १९.
 यावस- पाउ ३, १, १९.
 यावास- यवास- द्र.
 याष्टीक- यष्टि- द्र.
 ✓यास्, अयासिषम्^a जैश्रौ १३ : २१; आपमं १, ९, ८; आसिप्र.
 यियासु- ✓या (बधा.) द्र.
 यीयप्स्यमान- ✓यभ् द्र.
 ✓यु(बधा.)^d पाधा. अदा. पर. मिश्रणे-
 ऽमिश्रणे च; चुरा. आत्म. लुग-
 प्सायाम्, ङ्यौति^e अप ४८, ९;
 निघ ३, १४; यूयाताम् आपश्चौ
 १४, २९, १; ङ्यौत्^f; ङ्युद्वम्^g
 भाश्रौ ८, २०, ५; हिश्रौ २, ७,
 ४६; हिण् २, १२, ८^h; ङ्योद्वम्^h

आसिप्र ३, १, ३ : १४-१६.
 ङ्युयोतु माण १, २२, २; या ६,
 ७; शैशि ५९; ङ्युयोधि आश्रौ
 ३, १३, १२; आपश्चौ ११, १२,
 ३; बौश्रौ; युयोत>ता ऋप्रा ७,
 ५४; योयुवत कौस् ८८,
 १५; युयवन् या १२, ४४; ङ्युयोधाः
 हिश्रौ ४, ४, २२; युवते शाश्रौ
 १५, १६, १७; युवत>ता वायूश्रौ
 ३, ५५ : २; ङ्योष्टाः आपश्चौ
 १०, २३, १; आपमं १, ३, १४;
 आसिप्र; ङ्योष्टⁱ आपश्चौ १, १०, १;
 भाश्रौ; ङ्योषम् आपश्चौ १०, २३, १;
 बौश्रौ १७, ४३ : ९; हिश्रौ.
 युयते या १०, ३९.
 यवयसि ऋप्रा ९, ४३; यवयन्तु
 ऋप्रा ९, ४४; ङ्यवय, >या
 बौश्रौ ४, ४ : १४^j x x; भाश्रौ.
 यावयन्तु या १२, ४४; ङ्यावय
 >या ऋप्रा ७, ३३; ९, २२.
 ङ्युयवत् या ९, ४२^k.
 २यवन- पाग ३, १, १३४.
 यावन- नम् या ४, २१.
 याव्य- पा ३, १, १२६.
 युत, ता- त्तः वैध १, ५, ३; याशि
 १, ८२; -तम् कौस् ८४, ३; विघ
 ९९, ८; -ता वैश्रौ १८, ६ : ६;
 याशि २, ११२.
 युयुषत्- षन् या ५, १५.
 युवत्- वतः सु ७, ४.
 यूति- पा ३, ३, ९७.
 १यूथ^a- पाउ २, १२; पाग २, ४,

३१; ४, १, ४१; ३, ५४; -थम्
 कौण्ड ३, ६, ३^b; शाण्ड ३, ११, ८;
 पाण्ड ३, ९, ६^c; काण्ड ५९, ५;
 अप १८^d, १, ११; ७०^e, ११,
 ३; ङ्या ४, २४; उस् ३,
 १; -थस्य निस् १, ७ : १४;
 आप ४, ८, ३; विघ ८६, ८; या
 ११, ४९; -था अत्र १८, ३; ङ्ये
 कौण्ड ३, ६, ६; ७; शाण्ड ३,
 ११, ११; १३; पाण्ड ३, ९, ६^f;
 काण्ड ५९, ५; -थेन शाण्ड ३, ११,
 ९; अप १८^g, १, ११.
 यूथी- पा ४, १, ४१.
 ङ्युथ-(त्व>)त्वा- त्वायै कौस्
 २४, २०; अप १८^h, १, ११.
 यूथ्य- पा ४, ३, ५४; -थ्यः
 हिश्रौ ४, ३, १; -थ्यम् वैश्रौ १०,
 ९ : १४.
 यूत- नम् काश्रौ ५, ८, २८; हिश्रौ
 १६, ८, १५; -नानि काश्रौ १, ३,
 १४; -ने काश्रौ १, ३, १५.
 यूत-बद्ध- बद्धम् काण्ड ४, ४.
 ङ्युयुवि^a- -विः ऋप्रा ९, ४८;
 शैशि ५९.
 योत्र- पा ३, २, १८२.
 योयुव(त्>)ती^a- न्यः सात्र २,
 ८६२.
 १यु- ✓या (बधा.) द्र.
 २यु^b- युः या १, ८.
 युक्त- प्रभृ., १-५युग- प्रभृ. ✓युज् द्र.
 ✓युङ्ग् पाधा. भ्वा. पर. वर्जने.
 ✓युङ्ग् पाधा. भ्वा. पर. प्रमादे.
 ✓युज्^c पाधा. दिवा. आत्म. समाधौ;

a) वैप १ द्र.। b) पाभे. वैप १, २५७९ h द्र.। c) पाभे. वैप १, २५७९ j द्र.। d) या ३, १५ शौच ४, १२ पा ६, ४, ५८; ७, २, ४९ परामृष्टः द्र.। e) घा. अर्चायां वृत्तिः। f) पाभे. वैप १, २५९२ l द्र.। g) सपा. यूद्वम् <> योद्वम् <> योयुवत <> योष्ट <> युङ्ध्वम् इति पाभे.। h) Böht [ZDMG ५२, ८७] युङ्ग्ध्वम् इति शोधः? (तु. पाभे.)। i) पाभे. वैप १, २५९२ m द्र.। j) =प्रत्यय-। k) अप ४८, १७ पावा ३, १, ८७ परामृष्टः द्र.।

रुधा. उभ. योगि; चुरा. उभ.
संयमने, ङयोज> जा. बौश्रौ ५,
१५ : ११; १४; वाश्रौ; ऋप्रा ७,
१८; छप्रा ३, १०७.
ङयुजे आश्रौ ४, ९, ४; शांश्रौ ४,
१८, १^०; वैश्रौ; ङयुक्त्व> क्ष्वा
आश्रौ ४, १३, ७; ७, १०, ४;
शांश्रौ; काश्रौ १७, ५, ५^०;
आपश्रौ^० १६, २६, १३^२; १७,
१०, ११^१; बौश्रौ १०, ३३ :
१३^{२०}; वाश्रौ २, १, ७, २^{२०};
वैश्रौ १८, १८ : १२^{२०}; १९, ६ :
२१^०; हिश्रौ ११, ३, २६^०; ७,
५३^०.
युञ्जति जैश्रौ ५ : १०.
युङ्क्ते आश्रौ ४, १२, ३^१;
आमिष्ट; युनक्ति शांश्रौ १४, ३१,
४; काश्रौ; युञ्जते ङश्रौ ५,
१२, ९^१; ७, ५, २३; शांश्रौ;
युञ्जति आश्रौ ६, ४, १०^१;
शांश्रौ ९, १७, १^१; १२, १, ४^१;
१७, १५, १; काश्रौ; ङयुजे
जैश्रौ ८ : १६; द्राश्रौ २, ४, ११;
लाश्रौ १, ८, ९; ङयुनजिम आश्रौ
६, ११, ९; ७, ४, ७; शांश्रौ;
आपश्रौ १८, १७, १^०; बौश्रौ १२,
७ : ३४^०; हिश्रौ १३, ६, २^०;
ङयुनक्त आपश्रौ १, १६, १०; ४,
४, ४; १×४; बौश्रौ; ङयुक्ताम्^१
बौश्रौ १, ८ : १९; ३, १५ : १३;
वैश्रौ ४, ९ : ८; ङयुक्त्व> क्ष्वा
जैश्रौका ५८; २१३; चाश्र ४१ :
५; साश्र; ङयुद्धि आश्रौ ४,
१२, २^०; बौश्रौ; ङयुञ्जायाम्

शांश्रौ ६, ६, ६; काश्रौ; युद्ध्वम्
आश्रौ २, ७, ६^१; बौश्रौ १४, १७ :
२१^१; ङयुङ्क्त काश्रौ २१, ३, ३३;
पाय ३, १४, २; ङयुनक्त बौश्रौ
१०, २५ : ३; वैश्रौ १८, १५ : १३;
अश्र ३, १७; युञ्जानि हिश्र १,
२४, ४; अयुङ्क्त या ४, ११;
अयुनक् बाधश्रौ ४, १०३ : ८;
ङयुनक्त हिपि १८ : २१;
अश्र २, ७६; उसू २, ६; शुप्रा
३, १२९; अयुञ्जत शांश्रौ
८, २०, १^१; अयुञ्जन् बौश्रौ
११, ६ : २२^१; युञ्ज्यात् बौश्रौ
२२, ११ : २१-२३; द्राश्रौ.
युयुजे या ७, ७^१; अयुक्त या ४,
११^१; ङयुनक्त ऋप्रा २, ७७;
उसू २, १५; ङयुयोक्षीत्^१
आपश्रौ ३, १३, ५; भाश्रौ ३, १२,
४; ४, २०, २; वैश्रौ ७, १२ : ७;
अयोक्षीत्^१ हिश्रौ २, ६, ३१^१;
आयुक्ताताम्^१ ऋप्रा २, ७७^१.
युज्यते बौश्रौ २, ३ : २१; ११,
६ : २६×४; निसू; युज्यते निसू
१, १२ : १३; युज्यन्ते निसू ६, ८ :
३६; कौसू ५२, २४; या ७, १;
ङयुज्यसे आपश्रौ १६, २६, १;
बौश्रौ; युज्ये बौश्रौ ३, २३ : ७^१;
युज्याते बौश्रौ १, १२ : २३^१;
युज्यन्ताम् बौपि १, १५ : १८^१;
युज्यते पाय १, १४, ३; अयु ७०,
८, ३; गौघ १८, २१; हिश्र ४,
२०; युज्येत् अय १, ४३, ३;
युज्येथाम् माश्रौ २, १, ४, २७^१.
अयोजि बौश्रौ ७, ३ : २^१.

योजयति बौगृष्ट, ४, ६; योजयन्ति
काय ५७, ४; कय १, १, १५;
योजयेत् बौश्रौ २९, ११ : ७; अयु
४, ३, १; पाय.
योज्यन्ते गौपि १, १, १७.
योज्येत आपश्र ११, १६; बौश्र
२१ : ७.
युक्, क्ता- पाय २, १, ५९; -क्तः
शांश्रौ २, १६, २^१; काश्रौ २२, ४,
१७; आपश्रौ; पा ४, २, २३;
-क्तम् काश्रौ १०, २, ७;
१५, ८, २३; बौश्रौ; वैघ १,
११, १०^१; पाय १, १, ३७^१;
-क्तयोः कौसू १४, २४^१; २३,
१२; ५०, १७^१; -क्तस्य बौपि
१, १५ : १६; -क्ता आश्रौ ८,
५, १५; ङयुनक्त २, ५, १०;
२१, १२, ३^१; अयु; -क्ताः
काश्रौ ३, ४, १९; ५, ६, २३;
आपश्रौ; -क्तान् आपश्रौ १६,
१८, ६; वैश्रौ; -क्तानाम्
बौघ ४, ३, १; ४, १; आज्यो
५, ७; -क्तानि आश्रौ ११, १, १;
शांश्रौ १५, ३, १४; आपश्रौ १८,
३, ५; बौश्रौ; -क्ताभ्याम् कौसू
१८, १५; २३, ३×४; अयु ४४,
४, ८; -क्ताम् अय ११, ३,
१; काघ २८१ : ८; वृदे ४,
२४; -क्ताय अय १४, ३, १४;
-क्तायाम् विध ९०, १; -क्तासः
शांश्रौ ९, २८, १०^१; -क्ते
बौश्रौ १४, १९ : १९; वाश्रौ
३, ४, १, ४४; अयु; पा २, ३, ४^१;
६, २, ६६; पावा ३, २, १३५;

a) पामि. वैप २, ३३. युजे माश्र १४, ९, ३, ३ टि. द्र. 1. b) पामि. वैप १, २५९४ j द्र. 1. c) पामि.
वैप १, २५९५ b द्र. 1. d) पामि. वैप १ निमुञ्जताम् तै १, १, ७, २ टि. द्र. e) पामि. वैप १, २५९५ j द्र. 1.
f) पामि. वृ २०३२ q द्र. 1. g) परस्परं पामि. 1. h) वैप १ द्र. 1. i) पाठः अयुक्तम् इति C. 1. j) वा.
क्रिवि. (तु. पायम). 1. k) सपा. हिश्रौ १६, ४, ३५ युक्त्वा इति पामि. 1. l) भाप. (योग-) 1.

६३, ४५; -क्तेन वाधुश्रौ ४,
१०३: १२१; कौट १, ९, १६;
शांशु; -क्तेषु आपश्रौ ६, २८,
७; माश्रौ १, ६, ३, १; वाश्रौ;
-कौ आपश्रौ ३, ९, १०१; बौश्रौ.
युक्त- -क्तम् पा ८, १, ३०.
युक्त-प्रावन्^१ -वा वैताश्रौ
२५, १३.
युक्त-न्व- -स्वात् काश्रौ ४, ९,
७.
युक्त-दण्ड^२ -ण्डा: अप ५०, ४,
७.
युक्त-नामन्^३ -मभि: काश्रौ ४,
४, १७.
युक्त-नाह^४ -हम् वैश्रौ ११, ९, १.
युक्त-पूर्णा(यो-अ)न्त^५ -न्त:
पावा २, १, ३५.
युक्त-वत् पा, पावा १, २, ५१०.
युक्त व(त् >)ती^६ -तीभ्याम्
हिश्रौ ११, ७, ५३.
युक्त-संभव^७ -वे वेज्यो १९.
युक्त-सुच^८ -> यौक्तसुच^९ -
-चम् लाश्रौ ६, ११, ४१; निसू
७, ३: १५.
युक्त-स्वर^{१०} -र: पावा ६, २, ५२.
युक्ता(क्त-आ)रोहिन्- पाग ६,
२, ८१.
युक्ता(क्त-अ)र्थ-संप्रत्यय- -यात्
पावा २, १, ३५.
युक्ता(क्त-अ)श्र^{११} -> यौक्ता-
श्र^{१२} -श्रम् निसू ७, ३: २७;
-श्रयो: लाश्रौ ६, ११, ५; -श्रवे

जैश्रौप ६.
यौक्ताश्र-सौवर्ण- -र्णानाम्
लाश्रौ ६, ११, ४.
यौक्ताश्र-हाविष्मत्-
-त्ते निसू ९, ४: ३०.
युक्तो(क्त-उ)त्तम- -मात् भाशि
८७.
युक्ति- पाग ३, ३, १०८^{१३}; -युक्ति:
काग ९, २; माग; -क्तिभि:
विध ७, १२; -क्त्यै काग ९, ३१.
युक्ति-दण्ड-हर- -रेषु पावा ६,
३, २०.
युक्ति-युक्त- -क्तम् याशि २,
११७.
युक्त्वा काश्रौ १४, ४, १३xx; बौश्रौ;
हिश्रौ १६, ४, ३५; द्राश्रौ.
युक्त्वाय वाधुश्रौ ४, १०३: ९१.
युग^{१४} -नोन^{१५} आपश्रौ १४, ३१,
३१.
युग-पद्^{१६} - पाग १, १, ३७; ४,
५७; ५, १, १२४; -पत् काश्रौ
२, ४, २४; ५, १९; ३, ६,
१६xx; आपश्रौ.
यौगपद्य- पा ५, १, १२४;
-द्यम् मीसू १, १, १५; ११, १,
५५; ६७; -द्यात् मीसू १, १,
९; १९; -द्ये शाश्रौ १३, १४,
२; मीसू ६, ५, ४९; ११, १, ५४^{१७}.
युगपत्-कर्मन्- -र्मसु द्राश्रौ
३, १, १; लाश्रौ १, ९, १.
युगपत्-काल^{१८} -काल् आपश्रौ
८, ५, १८.

युगपत्-प्राप्ति- -प्ते: मीसू
११, १, १६; -सौ आग ४, ४, ५.
युगपद्-अधिकरण-वचन-
-ने पावा २, २, २९.
युगपद्-अन्वाचय-यौग-
पद्य- -द्यम् पावा १, १, ४४.
युगपद्-भाव- -व: काश्रौ १,
७, १; -वात् काश्रौ १, ५, १.
युगपद्-वचन- नम्, -नस्य
पावा २, २, २९.
युगपद्-वचना(न-अ)नुप-
पत्ति- -त्ति: पावा १, १, ६.
युगपद्-वचना(न-अ)भाव-
-व: पावा १, २, ६४.
२युग^{१९} -> युग-ग्रह^{२०} -हा: अप
५२, १२, २.
युग-ल^{२१} - पाउभो २, ३, ९९१.
युगला(ल-आ)दि^{२२} -दि:
नाशि २, २, १८.
युग-संपन्न- -न्नम् माशि ११, ८.
३युग^{२३} - पा ४, ४, ७६; पाग ५, १,
२; ६६; ६, १, १६०; -गम्
शाश्रौ १६, १३, १४१; बौश्रौ;
आपश्रु ६, ९; -युगस्य आपर्म
१, १, ९; १०; काग; -युगा
बौश्रौ १०, २५: ३; वैश्रौ १८,
१५: १४.
युग-च्छिद्र- -द्रम् आपग ४, ८.
युग-तर्धन्^{२४} -र्धन: माग १,
१०, ७^{२५}; -र्धना कौसू ३५, ६;
५०, १८; अप १८^{२६}, ६, ३; -र्धनि
काग २५, ९; कौसू ७६, १२;

a) वैप १ द्र. । b) बस. । c) कस. । d) द्रस. > बस. । e) वैतु. पाका. [पक्षे] 'वद्-व्यक्ति' इति समस्तमिव सत् पूष. क्त्वन्वन्तमिति । f) = (युक्तशब्दवती-) ऋन्- । g) पूष. = (सूर्या-चन्द्रमसोः) योग- । h) = ऋषि-विशेष- । i) = साम-विशेष- । j) 'श्रुचम्' इति पाठः? यनि. शोषः (तु. निसू.) । k) तु. पागम. । l) पाभे. पृ २०३३ k द्र. । m) वैप ३ द्र. । n) वा. किवि. (तु. भा. सा [तैत्रा ३, ७, १०, १]). । o) वैतु. श्रमा. < √यु वा युग- (अर्थः?) + √पय् वेति? । p) 'द्यात्' इति प्रयासं. । q) < √युञ् । r) षस. । s) 'तन्मनः' इति पाठः? यनि. शोषः (तु. Kn. टि., [अर्थतः] भाष्यञ्च) ।

-ईसु काय २६, ३.
युग-धार^a- -रस्य माय १, १०,
४.
युग-धुर्^b- -धुस् आपश्रौ १,
१७, ६; भाश्रौ १, १९, ४; -धुरि
आपश्रौ २०, १६, १; वैश्रौ ७, ८:
६; कौसू ७६, १२; -धुरो:
आपश्रौ ३, ८, ४^d; -धुरौ आश्रौ
४, १३, ६; वैश्रौ १५, ४: १.
युगं-धर(बप्रा.)- पा ४, २, १३०^e;
पाग ४, १, ९९^f, १७३^g; -र:
अप ६८, २, ४३^h.

यौगन्धर- , एक- पा ४, २,
१३०.

यौगन्धरायण- पा ४, १, ९९.

यौगन्धरि- पा ४, १, १७३;
-रि: आपसं २, ११, १२ⁱ.

युग-लाङ्गल¹- -लम् आपश्रौ १६,
१८, ४; बौश्रौ १०, २४: २०×४;
वैश्रौ.

युग-वरत्र, त्रा²- पाग ४, २,
४५^m; -त्राणि माश्रौ ६, १, ५,
३५; वाश्रौ २, १, ५, १.

यौगवरत्र- पा ४, २, ४५.

युग्य³- पा ४, ४, ७६; ५, १,
२; ६६; -ग्यस्य निसू २, ४:
१७; -ग्यौ आपश्रौ २२, ५, ५;
वाश्रौ ३, १, १, ४२; २, १३;
हिश्रौ १३, १, ४९; १७, २, ३३.

युग्य-कृत⁴- -ते हिश्रौ ७,
५, १७.

?युग्यक्रोदोत्सर्ग- -नेण
हिश्रौ १७, १, ३६.

युग्य-वास- -स: आपध १,
१८, १; २८, ३; हिघ १, ५,
७१; ७, ३९.

युग्य⁵- -गम् शंघ ११६: ४६;
वेज्यो ६; २८; -गस्य वेज्यो
५; -गानि या ४, २०^f; ९, २८.

युग-पर्यन्त- -न्तम् वृदे ३, २४.

युग-लब्ध- -ब्धम् वेज्यो २५.

युग-सहस्र- -सस्य या १४, ४³.

युगसहस्र-पर्यन्त- -न्तम्
या १४, ४.

युगसहस्रा(स-अन्त >)

न्ता⁵- -न्ताम् या १४, ४.

युगा(ग-अ)न्त- -न्त: अप ६३,

३, ८; -न्तम् अप ५०, ५, १;

-न्तस्य अप ५०, ७, ३; -न्तात्

बौश्रौ ६, २५: १४.

युग्य⁶- -गम् काशु २, ४; बौशु
१: ५; हिशु २, ३८; -गे
आपशु ६, १४; बौशु १: ७;
हिशु २, ४३; -गेन आपश्रौ ७,
३, १२; आपशु ६, १३.

युग-प्रमाण- -णम् काशु २, १०.

युग-मा(त्र >)त्री- -त्री भाश्रौ

७, २, १८; -त्रीम् काश्रौ ५, ३,

२९; १७, ३, १४; भाश्रौ १२, ५, ३.

युगमात्रो(त्र-उ)दित- -ते

काशु ७, ३५.

युग्म, गमा- पाउ १, १४६; -ग्मम्

वैगु ६, १: १०; गोगु २, ७,
४³, अप ७०³, ११, २; ऋत ५,
३, १; आज्यो ६, १३; वेज्यो ९;

-ग्मयो: ऋभा २, १९; -ग्मा:
काश्रौ १६, ७, २४; बौश्रौ १८,
५१: २७; २८³; लाश्रौ ६, ५,

१५; वृदे ४, ४४; ७, ३०; ऋत
२, २, ६; -ग्मान् आगु २, ५,

१३; कौगु ३, १४, १९; शांगु ४,
४, ४; आगिगु; -ग्मानाम् बौश्रौ
१८, ५१: २९; -ग्मानि आगु

१, १५, ७; गोगु ४, ५, २०;

-ग्माभि: वृदे ८, २९; -ग्माम्

आपगु ९, १; बौगु १, ७, ४५³;

-ग्मासु आश्रौ ५, १४, २२;

आज्यो १३, ३³; -ग्मे आज्यो

१४, १; -ग्मेन आगु १, १४,

४; पागु १, १५, ४³; -ग्मेग्य:

आश्रौ ८, ७, १६; -ग्मेषु आश्रौ

७, ६, ७; १२, ६, १२; वैताश्रौ

३१, २४; -ग्मै: वाश्रौ ३, ४,

२, ६; वैश्रौ ११, १०: ३; -ग्मौ

वैश्रौ १७, १३: ४; ऋभा १,

१३; १६, ५७.

युग्म-कृत⁷- -न्ते वैश्रौ १४, ५:
७³.

युग्म-कृष्णल⁸- -लम् कौसू ११,

१९; ५२, २०; अशां १९

२, ५.

युग्म-मास⁹- -सेषु द्राश्रौ ८,

४, ६; लाश्रौ ४, ८, ६.

a) = युग-कीलक- । b) षस. । c) उप. = छिद्र- इति रुद्रदत्तः (आपश्रौ १, १७, ६) C. च, = कीलक-
इति MW. । d) पांमे. पृ १३५० e द. । e) = जनपद-विशेष- । f) = ऋषि-विशेष- । g) = क्षत्रियजाति-
विशेष- । h) शकट-वंश- । i) = राज-विशेष- । j) मलो. कस. वा समाहारे द्वस. वा । k) षस. उप.
= चर्म-रज्जु- । l) आ- इति पांसि. । m) पाक. ष आ इति ? । n) वैप १ द. । o) बस. (तु. पा २, २,
३५ पांमे. च; वैतु. भाष्यम् कस. इति) । p) सप्र. आपश्रौ ११, ६, ३ भाश्रौ १२, ६, ९ नद्वयुगे इति, बौश्रौ ६,
२४: १४ योग्यकृते इति, वैश्रौ १४, ५: ४ युग्मकृते इति च पांमे. । q) = काल-वचन- । वैप ३ द. । r) बस. ।
s) = (८६ अङ्गुलि-परिमित-) प्रमाण-विशेष- । t) परस्परं पांमे. । u) कस. ।

युग्मा (गम-ञ्)न्त(स्थ>)
 स्था^१- >°न्तस्था-दन्तमूलीय-
 पूर्व-^२वैः ऋप्रा ५, २०.
 युग्मा(गम-अन्त्य>)न्त्या^३-
 -न्त्याभिः ऋप्रा २, १०, १०८.
 युग्मा(गम-अ)न्वय^४-त्व- -त्वात्
 आश्रौ ८, १२, १९.
 युग्मा(गम-अ)युक्त- -क्ताः लाश्रौ
 ६, ५, १५.
 युग्मा(गम-अ)युज्- -युग्म्यः
 लाश्रौ ६, ५, २६; -युजाम् लाश्रौ
 ६, ५, २९.
 युग्मायुक्-पर्याय- -यागाम्
 निसू १, ८ : ३०; ३४; ४१; ४४;
 युग्मायुक्-संहार- -रः लाश्रौ
 ६, ७, ८.
 २युग्य- -यम् पा ३, १, १२१.
 युज्, व्ज^५- पा ३, २, ५९; युञ्जु माश्रौ
 ५, २, १, २२; ऋयुङ् आपश्रौ
 १८, १७, १२××; बौश्रौ;
 युजः ऋश्रौ १२, २, १४; १८,
 ३, २; आपश्रौ; युजम् ऋशि
 २८८ः; ऋयुजा आपश्रौ १२,
 २२, ५^६; १७, ५, २××;
 बौश्रौ; युजाम् लाश्रौ ६, ५, २७;
 ऋयुजे काय ९, ३; माय १, ४,
 ३; वायु; युजोः ऋप्रा १३, ३९;
 युजौ ऋप्रा १, ७, ८; ८, ५; शुभ्र
 ५, ५५; ऋयुञ्जम् या २, २४^७.
 युग्-मत्- -मताम् निसू १, ८ :
 ३०; ३३; ४१; ४३; -मन्तः
 निसू १, ८ : ३; ६; ९ : १.
 युजान- पाउना २, ८७; -ऋतः
 शाश्रौ १८, ११, २; ऋप्रा २, ६,

४७; ऋशि १४६.
 युज्य- -ज्यः आगृ ३, ६, ६१.
 युज्यमान, ना- -नः अप १५, १, ३;
 अत्र ९, ७^८; -नम् काश्रौ १७,
 २, १०; माश्रौ; -ना आश्रौ ६,
 ४, १०; -नानाम् मीसू ९, १,
 २; -ने काश्रौ २१, ३, ३३.
 युज्जान- पाग ५, २, ६२; -नः काश्रौ
 १६, २, ७; आपश्रौ.
 युज्जानक- पा ५, २, ६२.
 युयुक्षमाण- -गः निसू ८, १२ : १६;
 ९, १ : ५१.
 योक्तव्य- -व्यः बौश्रौ २, ३ : २२;
 १४, ५ : ४१.
 योक्तृ- -क्ता आपध २, २०, १८;
 हिध २, ५, १०४.
 योक्त्र^९- पा ३, २, १८२; -क्त्रम्
 आश्रौ १, ११, ३; शाश्रौ १, १५
 ९; काश्रौ; -क्त्रस्य आश्रौ १,
 ११, ८; -क्त्रा बौश्रौ ३, १९ :
 ११^{१०}; -ऋक्त्राणि अप ४८, ८२;
 निध २, ५^{११}; या ३, ९^{१२}; -क्त्रेण
 काश्रौ ७, ४, ६; आपश्रौ २, ५,
 ४; १०, ९, १३; बौश्रौ.
 योक्त्र-परिहरण- -णम् काश्रौ
 १८, ६, २.
 योक्त्र-पाश- -शम् आपश्रौ ३,
 १०, ६; ८, ८, १४; १०, २८, १;
 २९, ९; काठश्रौ.
 योक्त्र-मेलला- -ले आपश्रौ
 १३, २०, १४.
 योक्षमाण- -णः या ५, २१.
 योग(बप्रा.)^{१३}- पाग ५, १, १०१^{१४};
 -नाः वाधूश्रौ ४, ८५ : ११-१३;

निसू ७, ११ : २२; कायु; वाध ६,
 २३; २५, ८^{१५}; आपध १, २३,
 ६; बौध ४, १, २७; वैध १, ११,
 १३^{१६}; हिध १, ६, १४; गौध
 १०, १२; काश्रु १, २५^{१७}; आपश्रु
 २, १^{१८}; हिश्रु १, २०^{१९}; आश्रु
 ७, २२^{२०}; वेज्यो २६^{२१}; -गम्
 बौश्रौ ११, ६ : २६; १२, ७ :
 ३६; वाधूश्रौ; अप १, २६, २^{२२};
 या १४, ६^{२३}; -गयोः पावा
 १, १, ६७; -गस्य पावा १,
 १, ४९; -गाः चव्य २ : ३३;
 -गात् हिपि १२ : ४; वाध;
 -गान् आपध १, २२, १^{२४}; हिध
 १, ६, १^{२५}; पावा १, ३, ११; -गाय
 काय ९, ३^{२६}; कौसू ४२, ४^{२७};
 या १०, ३; -गे बौश्रौ २०,
 ८ : २४; २२, ११ : २१;
 वैताश्रौ; -ऋगेऽने आश्रौ ६,
 ४, १०; शाश्रौ ९, १७, १; काश्रौ;
 -गेन बौश्रौ १, ८ : १८; ३,
 १५ : ११^{२८}××; अप; बौध ४,
 १, २७; -गैः अप ७, ११.
 यौगिक- पा ५, १, १०२.
 योग- नो पा ५, ४, ५०.
 योग-क्षेम^{२९}- -मः शाश्रौ १०,
 १८, ८^{३०}; -मम् कौसू ११४,
 २^{३१}; अप ५०, ४, ३; ७१, १९,
 १; विध १८, ४४; गौध ११,
 १८; -ऋमस्य आश्रौ ३, १४,
 १३; आपश्रौ ९, १६, ११;
 माश्रौ ९, १९, ८; हिश्रौ १५,
 ४, ५९; -माभ्याम् कौसू ५६,
 १३^{३२}.

a) कस. उप. = रेफ-वकार-। b) दस.। c) बस.। d) वैप १ द्र.। e) पाभे. वैप १,
 २५९८ द्र.। f) = अङ्गुलि-। g) भाप., नाप.। h) तु. पागम.। i) योगम् इति C.।
 j) = युक्ति-। k) = (विहरण-साधन-) रज्जु- (तु. भाष्यम् १, १)। l) = (ज्योतिष-) संज्ञान्निवेश-
 m) = योग-शास्त्र-। n) = योगाङ्ग-।

योगक्षेमा(म-अ)र्थे- -यम्
विध ६३, १; गौध ९, ६३.
योग-पर^१- -रः शंघ २००.
योग-परीष्टि^२- -ष्टिः या १, १४.
शोग-प्रमाण- -णे पा १, २, ५५.
योग-प्ररोह- -हः आज्यो ८, ७.
योग-भूत^३- -तम् विध ४९, ८.
योग-महामन्त्र-मय^४- -यः
विध १, ८.
योग-मार्ग-तत्त्व-ज्ञ- -ज्ञाः
वैध १, ३, २.
योग-मूल^५- -लः आपध १,
२३, ३; ५; हिघ १, ६, ११; १३;
-लाः बौध ४, १, २७.
योग-योग^६- -गेषु आज्यो १४,
६.
योग-विद्- -वित् काष्ठ ७, ५.
योग-विभाग- -गः पावा १,
१, १८; ४, ५८; ५९××; -गात्
पावा १, १, ३; ६१××.
योग-विमोक्त- -कौ आपश्रौ २१,
५, ६; ८.
योग-विमोक्षण- -णे हिश्रौ १६,
२, ७.
योग-विशेष- -धान् आश्रौ ११,
१, १.
योग-व्यवसान- -नम् पावा २,
४, ८३.
योग-शेष- -षे पावा १, १, ५२.
योग-संपत्तिक^७- -कम् आज्यो
२, ११^६.
योग-सामान्य- -न्यात् मीस्
४, २, १०.
योग-सिद्धि- -द्धिः मीस् ४, ३,

२६.
?योगहासया अप १, ६, ९.
योगा(ग-आ)ख्या- -ख्या मीस्
१, ३, २१.
योगा(ग-आ)पत्ति- -त्तिम्
आश्रौ १, १, १.
योगा(ग-अ)प्रख्यान- -नात्
पा १, २, ५४.
योगा(ग-अ)भाव- -वात् पावा
१, २, ५१.
योगा(ग-अ)भ्यूह- -हाभ्याम्
बौश्रौ २०, ६ : २९; -हौ बौश्रौ
२०, ८ : २२.
योगा(ग-अ)र्थे->र्थिन्- -र्थी
वैध २, ६, १.
योगा(ग-आ)विर्भाव- -वः
विध १७, ६.
योगा(ग-अ)विशेष- -घात्
काश्रौ २२, १, १०.
योगा(ग-आ)सन- -नानि
आज्यो ७, २.
योगिन्- -गिनः अप १९^२,
५, ५; विघ ८३, १९; वैध १,
१०, १; -गिनम् विघ ८३, २१;
-गिनाम् शुभ्र ४, १२६; -गी
वैट्ट ५, ८ : ३; शंघ ३७१;
विध १७, १६; शुभ्र ४, १२८.
योगि-त्व- -त्वात् वृदे ३,
११५.
योगे(ग-ई)श्वर^८- -ोर अप ३६,
९, ३^१.
योग्य- पा ५, १, १०२; -न्यः
हिश्रौ १३, ३, ४४; -न्यम्
बौश्रौ ११, ६ : २१; २४; १२,

७ : ३३; ३५; १५, २४ : ३.
योग्य-कृत^९- -तम् बौश्रौ ६,
१५ : १९; १२, १४ : ११; वाश्रौ
१, २, ४, १९; -ते बौश्रौ ६, २४ :
१४^१.
योग्य- पाठ ४, २१६.
रयोगिन्- पा ३, २, १४२.
रयोग्य^{१०}- -न्यः बौध ४, ७, १०;
-न्यम् अप ९, ४, ४; -न्यस्य
मीस् १, १, २२.
योजन^{११}- -नः हिपि २ : ११; -नम्
आपश्रौ १६, १८, ४^१; बौश्रौ
१८, २० : १८; माश्रौ ६, १,
५, ३५^१; वाधूश्रौ ३, ६९ :
१९^{१०}; वैश्रौ; -ना बौश्रौ ११,
७ : ३६; -नात् शुप्रा १, २४;
माशि ४, ९; -नानाम् माशि
१६, ८; नाशि २, ८, १५;
१६; -नानि सु १३, ४; अप
४८, ८२^{११}; निघ २, ५^{११}; या
३, ९^{११}; -ने शांश्रौ १४, ४०, १४;
काश्रौ २२, ३, ३२; आपश्रौ २२,
२, २०; हिश्रौ १७, १, ३६; अप
१, ४०, ३^१; अशां १०, ३.
यौजनिक- पा, पावा ५, १,
७४.
योजन-क- -कम् अप ६१, १, २७.
योजन-पर^{१२}- -रः अप ६०, १, ५.
योजन-माज्- -माक् अप ६१,
१, २६.
योजन-मात्र- -त्रेभ्यः काश्रौ सं
२७ : ६.
योजन-शत->यौजनशतिक-
पावा ५, १, ७४.

a) बस. । b) उप. = परीक्षण- । c) कस. । d) विप. (विष्णु-) । e) पू. = संज्ञा-विशेष- ।
f) नाप. (कोष-) । g) णाः सं० इति पाठः ? यनि. शोषः । h) = रुद्र- । i) विप. (युग्य-) अश्व-) ।
j) पाभे. पृ २०३५ p. द्र. । । k) विप. । प्यत् प्र. । l) भाप., नाप. (मन्त्र-, अर्धपरिमाण-) । m) अर्थः ? ।
n) = अनुत्ति- ।

योजना(न-ञा)दि- वीनि
आपश्रौ २२, २, २३; हिश्रौ १७,
१, ३६.

योजना(न-ञ)ध्यहन- ने द्राश्रौ
३, २, १३; लाश्रौ १, १०, ९.

योजनी(य>)या- याम् कौस्
१५, ५.

योजयत्- यन् अप १, ३८, ४[†];
अशां ८, ४.

योजयित्वा माश्रौ ६, १, ७, २६;
आपय.

योजित- ता: अप १, ७, ६.

युञ्- प्रच्. √युञ् द्र.

√युत् पाधा. भ्वा. आत्म. भासने.

युत्- प्रच्. √यु (बधा.) द्र.

√युष्^a पाधा. दिवा. आत्म. संप्रहारे,

युध्यते बौश्रौ १२, २० : २;

युध्यति आपश्रौ १८, १३, ४;

निघ २, १४^{†b}; युध्यन्ति अप

७०, ७, ३; ऋयुध्यथा: आपश्रौ

२०, ६, १४; बौश्रौ; युध्येत कौस्

१५, १०; बौध १, १०, ११;

युध्येत् शंघ २५३; युध्येयुः

आपश्रौ ११, ४, ८; माश्रौ.

योधिष्टम् शाश्रौ ६, १०, ९[†].

योधयति कौस् ४१, ६; योध-

य>या ऋप्रा ८, ३३[†]; योध-

येत् अप १, १०, ४.

युयुत्सति सु २०, ३.

यवीयुष्- युत् ऋप्रा ९, १६[†].

युद्ध- पाग ५, २, १३६; -द्धम्

अप ६४, ६, ९; ८, ७; -द्वाय

बौश्रौ १५, ७ : २०; वृदे ४,

१३१; -द्धे बौश्रौ १२, २० :

२; अप ६१, १, २०; आपघ २,

१०, १०; हिघ २, ४, १०; पा
३, ३, ७३; आज्यो ४, ८.

युद्ध-जय-यु(क्त>)क्ता- क्ताः
काश्रौ २०, २, ८.

युद्ध-वत्- पा ५, २, १३६.

युद्ध-वर्ण- -र्णाः या २, १६.

†युद्ध-शूर- -राः आमिष्ट २,

४, ४ : ९; ११; बौपि ३, ४,

१४; १५.

युद्ध-हरण- -णेन विघ २४, २५.

युद्धा(द्ध-आ)दि- -दे: वृदे ५,

१३४.

युद्धिन्- पा ५, २, १३६.

युद्धो(द्ध-उ)पकरण- -णम् वृदे

५, १२८; -णानि अत्र ६, १२६;

या ९, ११.

†युष्- युत्सु आश्रौ ३, ७, ७;

शाश्रौ; युष्: अत्र १०, १३;

युष्वा बौश्रौ १५, ६ : १३;

युष्मि आमिष्ट २, ४, ४ : ९;

१०; बौपि; वृदे ५, १२४[†]xx.

युष्वा-जि->यौधाजय^d- -यम्

लाश्रौ ६, ११, ४; ७, ८, ५; लुस्.

यौधाजय-स्थान- -ने

निस् ६, १० : २२.

युष्मि-ष्ठ(<स्थि)र- पा ८, ३,

९५; पाग ४, १, ९६.

यौष्मिष्ठि- पा ४, १, ९६.

युष्मान- पाउ २, ९०.

युष्मि->युष्मि-नाम^e- -मः शाश्रौ

१२, २१, ६[†].

युष्म- पाउ १, १४५; -†ध्मस्य

आश्रौ ७, ११, २८[†]xx; शाश्रौ.

युष्मत्- -ध्मन् वृदे ८, १३.

युष्मन्- -ना: आपघ २, २६, ३;

हिघ २, ५, १९८; -नेषु आग
३, १२, १९.

युयुत्समान- -ना: हिश्रौ २२, २, २५.

युयुत्सु- -त्सो वृदे ५, १३५.

युयुधान- पाउ २, ९३.

†युयुधि^f- -धि: ऋप्रा ९, ५०.

योत्स्यमान- -नः वृदे ६, १११.

योद्ध- -द्धारम् वृदे ५, १२९; -द्धन्

शुश्र २, २८७.

शयोध^g- > शयौध^h- -धानाम्

लाश्रौ ८, ५, १.

रयोधⁱ- पाग २, ४, ३१; ५, ४,

३८; -धा: अप ५१, ४, ४; ६१,

१, ९; ७०[†], ८, १; -धान् शांष्ट

२, २, १४[†]; अप १, ३१, ३;

-धानाम् आज्यो ४, ८.

रयौध- पा ५, ४, ३८; -धम्

कौष्ट २, २, ९[†].

योधयत्- -यन् कौस् ८७, १२[†];

वृदे ४, १३२.

योधिन्- -धिन्: अप ५०, २, ६.

√युप् पाधा. दिवा. पर. विमोहने,

योपयति माश्रौ ३, ४, ९; वाधूश्रौ

४, १४ : ५; अयोपयन् वाधूश्रौ

४, १४ : ३; ४.

योयुष्यते आपश्रौ २, ३, ९; बौश्रौ

१, ११ : ३३; भाश्रौ २, ३, १०;

योयुष्येत वैश्रौ ५, २ : २.

†योपयत्- -यन्तः[†] आमिष्ट ३, ७,

१ : २१; बौपि १, १७ : २०.

योपयित्वा कौस् ७१, १९[†]; ८६,

२२.

योयुपन- -ने बौश्रौ २०, ९ : ७.

योयुपित्वा बौश्रौ ४, ३ : २९; ५,

२ : ३xx.

a) पा १, ३, ८६ परामृष्टः द्र. । b) धा. गतौ वृत्तिः । c) वैप १ द्र. । d) =साम-विशेष- ।
e) ष्यस्य इति पाठः? यनि. योधः (तु. आन.) । f) =युद्ध- । g) तत्रभवीयः प्र. । h) =योद्ध- ।
i) सपा. योधान् <> यौधम् इति पामे. । j) पामे. वैप १, पृ २६०२ i द्र. ।

युयुत्तमाण- ✓युज् द्र.
 युयुत्समान- प्रच. ✓युष् द्र.
 युयूषत्- ✓यु (बधा.) द्र.
 युव- युष्मद्- द्र.
 युवत्- ✓यु (बधा.) द्र.
 युवद्- युष्मद्- द्र.
 युवन्^१- पाठ १, १५६; पा ६, ४, १३३; १५६; पाग ५, १, १३०; १३३; युवभ्यः आपश्चौ २४, १३, ३१; बौश्रौ ३, २८ : १५१; गौध १५, १०; युवा ऋश्चौ ३, १, ९; ७, ८, ३; शाश्रौ; काश्रौ ४, १, ११; वैताश्रौ १, ३; ४३, ३; ऋषाण २, २, ९; ६, २५; ११, १२^२; कागृठ ४२ : ११; कौसू ९, ११; अप २०, २, ६; ३८, ३, ५; आपध २, २६, १८; विध ३२, १४; हिध २, ५, २१३; या ४, १९६; पा ४, १, १६३; युवानः आश्रौ १०, ७, ३; ९; वाश्रौ १, १, १, २३; आण २, ७, ११; युवानम् आश्रौ ८, १, १८१; शाश्रौ; आण ३, १०, १०१; या १४, १८६; ऋषुवाना आश्रौ ६, १२, १२; ८, १०, २; शाश्रौ; आपश्चौ १३, १८, २; वैताश्रौ २३, १५; यूनः शाश्रौ ५, १, १; १६, २, ८; २९; आपश्चौ; यूनि पा २, ४, ५८; ४, १, ९०; ९४; पावा; यूने आपश्चौ ८, १४, २४.
 युवति^३, ती- पाठभो २, १, १९२^४; पा २, १, ६५; ४, १, ७७; पग ४, २, ३८; -तयः आश्रौ १०, ७, ४; आण ४, ६, ४; ११;

-तिः आपश्चौ ४, ५, ११×४;
 भाश्रौ; हिश्रौ ६, २, २; १०; आप्सं १, ११, ३; विध ३२, १३;
 -तिम् आमिष्ट ३, ५, ८ : ३१^०;
 कौसू; वैध २, ११, ४; या १०, २९६; -ऋषी आपश्चौ ७, ५, १;
 भाश्रौ; -तीः शाश्रौ १६, २, ११; -तीनाम् बौध १, २, ३४;
 विध ३२, १४; गौध २, ४१;
 -ऋषीम्^१ बौषि १, ७ : ६; हिषि ४ : ८; -त्यः कौष १, ८, १;
 शाण १, १२, १.
 यौवत- पा ४, २, ३८^६.
 युवति-ग्रहणा(ण-आ)
 नर्थक्य- -क्यम् पावा ४, २, ३८.
 ऋषुवति-दा- -दाः
 आपश्चौ १७, ५, १६; वैश्रौ १८, २१ : १८; हिश्रौ ११, ८, १०.
 युवत्या(ति-आ)दि-
 -दिषु, -दीन् अप्रा ३, ३, २१.
 यौवन- पा ५, १, १३०; पाग २, ४, ३१; -नम् विध २०, ४९;
 वृदे ६, ५५; ७, ४४; -नानि कौसू ४६, ५४१; -ने आमिष्ट २, ४, ५ : २३; अप ९, २, ७; ३, ३; वाध.
 यौवन-व(त >)ती- -ती नाशि २, ८, २८.
 यौवन-स्थ- -स्थान् अप ५३, २, ४.
 यौवनक- पा ५, १, १३३; पावा ६, ४, १६३.
 ✓युवकाम्य > का(म्य >)म्या-
 -म्याया वृदे ६, ७७.

युव-खलति, ती- युव-जरत्, -ती-
 पा २, १, ६७.
 युव-तर- -रः वाधुश्रौ ४, ३७ : ३.
 ✓युवन्य^५ > युवन्यु- -न्यून क्रपा ४, ६९१.
 युव-पलित, ता- पा २, १, ६७.
 युव-प्रत्यय- -त्यय पावा २, ४, ५८.
 युव-मारिन्- -रिणः आपध २, १६, २०; हिध २, ५, २०.
 युव-राज- (> यक्र. यौवराजि [क्र >] का- , की- , यौवराज्य- पा.)
 पाग ४, २, ११६; ५, १, १२४.
 युवराज-पुरोधस- -धसाम् अप ६४, २, ९.
 युवराज-भय- -यम् अप ६३, २, ९.
 युव-राजन्- -जानम् अप ६३, ३, ९.
 युव-वलिन्, ना- पा २, १, ६७.
 युव-सं(ज्ञा >)ज्ञ- -ज्ञः पावा ४, १, १६३.
 युव-स्थविर-स्त्री-पुंस^६- -सानाम् पावा १, २, ६८.
 युवा(व-आ)दि- -दीनाम् पावा ६, १, १३.
 युवादि-प्रतिषेध- -धः पावा ८, ४, ११.
 युवा(व-अ)स्प- -स्पयोः पा ५, ३, ६४.
 युवनाश्व^१- > यौवनाइव- -ऋश्व आश्रौ १२, १२, ३; ४; आपश्चौ २४, ७, ११; १२; बौश्रौप्र २२ : ५; वैध ४, ३, ६; ऋअ २, १०, १३४; साम् १, ३७९.
 युवनाश्व-वत् आपश्चौ २४, ७, ११; १२; बौश्रौप्र २२ : ५; वैध ४, ३, ६.

a) वैप १ द्र. b) शोषार्थं पृ १५०५ ए द्र. c) पाभे. वैप १, १३४९ a द्र. d) < ✓यु।
 e) सपा.। ऋ ४, १८, १३ जायाम् इति पाभे. f) पाभे. वैप २, ३४. युवतिम् तैआ ६, १२, १ टि. द्र.। g) तु. BFG, पाका.; वैतु. पासि. यौवन- इति। h) द्रस. समासान्तः भक् प्र. डसं. (पा ५, ४, ७७)। i) = ऋषि-विशेष-।

√युवन्य, युवन्यु- √युवन्- द्र.
 यु(इ-उ)वर्ण- इ- द्र.
 यु(व>)वा^१- -वा आप्तौ १७,
 २०, १४; माश्रौ ६, १, ८, १४;
 वैश्रौ १९, ६: ३०; हिश्रौ १२,
 ६, २२.
 युवाकु- युष्मद्- द्र.
 युवाचो^२ गौपि २, ५, १५.
 युष्म- युष्मद्- द्र.
 युष्मद्^३-
 त्व आश्रौ २, १०, १२; १४,
 १२^१; ३, १२, २९; आप्तौ; पा
 ७, १, २७; २, ९६.
 त्वक्- पा ४, ३, ३.
 तावक्-, तावकीन- पा ४,
 ३, ३.
 तुभ्य- पा ७, २, ९५; -^४भ्य^५ शाश्रौ
 १०, ५, १९; वैताश्रौ ३२, ६;
 -^६भ्यम् आश्रौ २, १०, १२, ३;
 ७, १५; आप्तौ २१, २०, ३०;
 वाधुश्रौ; वाश्रौ ३, २, ५, ४३^०;
 हिश्रौ १६, ६, ४१^०; वैताश्रौ
 ३४, ९^०.
 ते शाश्रौ १, ४, ५^३; ^१आप्तौ १,
 ३, १३; १४; काठश्रौ; द्राश्रौ १२,
 १, १९^१ लाश्रौ ४, ९, १३^१;
 बौध १, २, ३६^०; हिश्र १, १३,
 १७^१; पा ८, १, २२.
 ३^१त्व, ^२त्वा- त्वत् ^३आप्तौ २, १४,

१२; ३, १०, २३; ६, २, ६; ४,
 १०; काश्रौ; पा ७, १, ३२;
^१त्वम् आश्रौ १, ३, ६; २, १६,
 ७; शाश्रौ; माश्रौ ४, ४, ३५^६;
 लाश्रौ ५, ६, ८^१; आप्तं २, १९,
 १४^१-१६^१; आग्निष्ट ३, १, ३;
 २५^१; २८^१; ३२^१; भाग २,
 १२: १२^१; १७^१; १३: ४^१; हिश्र
 २, ४, २^१; पा ७, २, ९४; त्वा
 आश्रौ १, १३, १××; शाश्रौ;
 आप्तौ ३, १४, २^१; हिश्रौ
 १०, ५, १२^१; ११, ७, ५४;
 आप्तं २, ४, ५^१-९^१; १५,
 ४^१; १८^०; कौसू ४३, १३^०;
 पा ८, १, २३; त्वाम् आप्तौ
 १, ४, ५, ६, १; बौश्रौ; ^१त्वे
 आश्रौ २, १, १७; शाश्रौ.
 त्वच्-ञ्जी (<श्री)- -ञ्जियः
 निसू ३, ९: ५२.
^१त्वत्-पितृ^१- -तारः बौश्रौ ३,
 १३: १३; वैश्रौ २, १०: ११;
 तैत्रा ११, १६.
 त्वत्-पुरोहित^१- -ता: बौश्रौ १४,
 २०: ३.
 त्वत्-पूर्त- -तम् भाग २, ५:
 १३^१.
 त्वत्-प्रसाद-तस्र (:) बृदे ६, ५६.
 त्वत्-समीप- -पे विध ९८, २.
 त्वद्-अर्थ- -र्थम् विध १, ३२;

-थेँ शुप्रा २, ५^१.
 त्वदर्थ-वाचिन्- -चिनौ याति
 २, ५७.
 त्वद्-गत- -तः बृदे ४, ७३.
 त्वद्-दत्त- -त्तम् भाग २, ५:
 १२^१.
 त्वद्-भार- -रः विध १, ४७.
 त्वद्-द्वयोरधि^१ कौश्र १, ८,
 १३.
 त्वद्विच्^१- -द्विक् ऋप्रा ८, २८.
 त्वद्-विवाचन^१- -ना: बौश्रौ ३,
 १३: १३^१.
 त्वन्-सुख- -खे सु १८, ५.
 त्व-मति- -ति: पावा १, ४, ५१.
 त्व-विधि- -धि: पावा १, ४,
 ५१.
 त्वा-दात^१- -तम् या ४, ४^१क^१.
^१त्वा(त्वा-आ)दि- -दि शुभ्र १,
 १२.
 त्वाम्-आहुति^१- -तयः बौश्रौ
 ३, १३: १३^१.
 √त्वाय^१>त्वाया- -या आश्रौ
 ४, १, २३^१.
^१त्वायु^१- -यवः आश्रौ ६,
 ४, १०; वैताश्रौ २६, ५; शुप्रा ५,
 २०.
^१त्वा-वत्^१- पा, पावा ५, २,
 ३९; -वतः शाश्रौ ९, ५, ३; १८,
 १४, २; साश्रु; -^१वान् आप्तौ

- a) वैप १ द्र. । b) पाठः? सपा. मा ९, १९ प्रभृ. चाऽऽमा इति पाभे. । c) पृ ३२८ छ द्र. ।
 d) शोधार्थं पृ १४५१ i द्र. । e) पृ १४५१ j द्र. । f) पाठः? त्वा इति स्यात् (तु. पाण्य ३, १५, २२; Böht [ZDMG ५२, ८४] च) । g) पाभे. वैप १, २६०६ l द्र. । h) स्वम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. मा ४, १) ।
 i) पाभे. पृ ११३७ a द्र. । j) छन्दस्तः भूयाः इत्यनन्तरं यनि. सुपठम् (तु. Böht [ZDMG ५२, ८६]) ।
 k) पाभे. वैप १, १४०७० द्र. । l) स्वा इति पाठः? यनि. शोधः । m) पाभे. वैप १,
 २६०७ f द्र. । n) पाभे. वैप १, ७९३ b द्र. । o) पाभे. वैप १, ८५१ a द्र. । p) वस. ।
 q) = युष्मच्छब्दार्थ- । r) पाठः? त्वद्-दात्र- [= °तृ-] > -त्राय वयः (आयुः) एधि इति त्रि-पदः शोधः । सपा.
 मा ७, ४७ त्वग् दात्र एधि > तवक्-दात्रे वय एधि इत्यपि शोधः द्र. । तत्र शोधान्तरकृते सस्थ. मुयस्-, ह्यस्-
 इत्यत्रापि टि. द्र. ।

१७,८,४; वाश्रौ २,१,८,५.
 ऋत्वो(त्वा-ऊ)त-न्ताः ऋपा ८,
 २८.
 *त्वयि- त्वया आश्रौ २,९,१०;
 ४,११,६; काश्रौ; माश्रौ १, ६,
 १,४^b; ऋत्वयि माश्रौ २, २,१,
 ७; आप्रमं २, १२, ३,४; कौय.
 *युव- पा ७, २,९२; -ऋवभ्याम्
 आश्रौ ६,५,२४; -वम् ऋवभ्याम्
 १,६,१; २,५,२; शाश्रौ; -वयोः
 तैप्रा ११,१६[†]; -वाभ्याम् या
 ६,९[†]; -वाम् माय १, १०,
 १६[†]; या ४, १२; -ऋवोः^a
 आश्रौ ४,१५, २; शाश्रौ ६, ६,
 ६; १२,८,७; ऋव.
 ऋयुवा-कु^a -ऋवः ऋव २,
 १, १७; शुभ्र ३, २२१; ऋपा
 १६, २१.
 *युष्म- ष्मत् आश्रौ २,१२, ५[†];
 पा ७,१,३१; -ष्मभ्यम् या ५,
 १; पा ७, १, ३०; -ष्मान्
 ऋवौश्रौ^c १, ६, ५; १३: ३;
 वाश्रौ १,२,३, २९[†]; हिश्रौ १,
 ५, ४४[†]; सु १०,४; तैप्रा ६,
 १४[†]; -ष्माभिः वायुश्रौ ३,
 १२:२; पाय १, ३,१३; -ऋष्मे
 वाश्रौ १२,१९,३; ऋपा १,७३;
 शौच १,७७.
 युष्माक^a -ऋकम् आश्रौ २,
 ७,७; वाश्रौ ४,५,१; माश्रौ १,
 १,२, ३५; पा ७, १, ३३.
 यौष्माक-^a ऋण- पा ४,
 ३,२.
 युष्मान्-नीत^a -न्तः तैप्रा १३,

१५[†].
 युष्मद्- पाठ १, १३१; पाग १,
 १,२७; ४,१,१०^०; -ष्मदि पा
 १,४,१०५; पावा १, ४, १०८.
 युष्मत्-तत्-तत्क्षुस्- -क्षुःपु
 पा ८,३,१०३.
 युष्मत्-प्रसाद- -दात् अप ४,
 १,१७.
 युष्मद्-अस्मद्- -स्मदोः पा ६,
 १, २११××; पावा १, १,
 ६३××; -स्मद्भ्याम् पा ७, १,
 २७; पावा ४,३,१; ५, २,३९.
 युष्मद्स्मच्-छेष-वचन-
 -नम् पावा १,४,१०८.
 युष्मद्-अस्मद्- पावा ६,४,१.
 युष्म(द्-अ)स्मद्-अन्- -न्येषु
 पावा १,४,१०८.
 युष्मद्-अस्मद्-हृदं-किं-लोप-
 -पेषु पावा ६,१,१५७.
 युष्मद्-आदेश- -शे अप्रा २, ३,
 २८; शौच २, ८४.
 युष्मदीय- पा ४, ३, १.
 यूसम् वाश्रौ ४, ५, १[†]; बौश्रौ;
 पा ७,२,९३.
 ऋवः आश्रौ १, २, ७; १३, १;
 २,५,१७^३; ७, ७^३; वाश्रौ.
 वाम् आश्रौ १,६, १[†]; २, ७, १३[†];
 ४, ६, ३; वाश्रौ; पा ८,१,२०.
 √युस् √युष् (विभागे) टि. द्र.
 यूक,का^a- पाठ ३, ४७^०; पाग ५,
 २,९७; -के बौश्रौ २७,९ : २.
 यूक-मकुण-पृतीक-लिथ-मातृवाह-
 कश-जलक-कण्डूपावाहक-
 -कानाम् सुध ४०.

यूकाल- पा ५, २, ९७.
 ?यूकभिः^b अप १, ८, ८.
 यूकर- (>यौकरीय- पा.) पाग ४,
 २, ८०.
 यूति-, यूथ- √यु (वधा.) द्र.
 रयूथ- (>यूथ-र, बोध्य- पा.)
 पाग ४, २, ८०^३.
 यूथी-, थ्य-यून- √यु (वधा.) द्र.
 यूनर्-> ऋयूर-वर्- -वा जैश्रौ ६:
 ५^६; द्राश्रौ २, ३, ५; लाश्रौ १, ७, ५.
 यूप^a- पाठ ३, २७; पाग २, ४, ३१;
 ४, २, ८०^३; ५, १, ४; -पः आश्रौ
 २, ७, १५; १६; १२, ६, ४;
 शाश्रौ; -पम् शाश्रौ १४, १०,
 १०; १६, ३, २०; १७, ११; काश्रौ;
 आप्रश्रौ ७, ११, ५[†]; -पयोः बौश्रौ;
 १७, १३ : ९[†]; -पस्य काश्रौ
 ६, १, २८; २५, ६, ६; आप्रश्रौ;
 -पाः शाश्रौ १६, ३, १; १२, १;
 काश्रौ; -पात् काठश्रौ ५७; बौश्रौ;
 -पान् आप्रश्रौ १४, ५, ६; १४;
 १९××; बौश्रौ; -पाय आश्रौ ३,
 १, ८; वाश्रौ ५, १५, २; काश्रौ;
 -पे शाश्रौ १३, ४, १; १६, ११, २;
 काश्रौ; -पेन बौश्रौ ६, ३३: ५;
 १०; २०, २६: ४१; वाध-१७,
 ३५; -पेभ्यः वृदे ४, १०१; -पेषु
 आप्रश्रौ २०, २४, ४; बौश्रौ १५,
 २३ : १३; १६; वाश्रौ ३, ४, ३,
 २३; हिश्रौ १४, ३; १८; ५१;
 -पौ वाश्रौ १, ७, ५, २६.
 यौ(प>)पी- -पी साश्र १,
 ५७; -प्यौ वृदे ४, १००; ऋव
 २, १, ३६.

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. पृ ११३७ b द्र. । c) पाभे. वैप १, २६११ b द्र. । d) सपा.
 आप्रश्रौ १३, २२, १ अस्मान् इति पाभे. । e) तु. पागम. । f) छुद्रजन्तु-विशेष- । g) <√यु ।
 h) अर्थः ? । <यूकन्- इति ? । i) सकृत् यूप- इति पाका. । j) वैप २, ३खं. द्र. । k) योनोर्वा इति पाठः ? इति.
 यनि. शोधः (तु. तां ६, ४, ८) । l) पाभे. पृ १२०७ h द्र. ।

यूप्य- पा ४, २, ८०; -प्यः
मीस् १२, ७, २७; -प्यस्य वाग्
६, २१.
यूप-कर्मन्- भि काश्रौसं २७: ५;
१५.
यूपकर्मन्-त्व- त्वात् मीस् ११,
३, ५.
यूप-केना^a -> यूपकोशान्^b -शी
माग् २, १४, २१९.
यूप-चित्ति-श्मशान-रजस्वला-सुतिका-
(का-अ)ञ्चि- -चीन् वाध ४,
३८.
यूप-च्छेदन- नम् काश्रौ ७, १, २८;
-ने हिश्रौ १, १, ३८.
यूप-त्व- त्वम् वाधुश्रौ ४, १४: ३;
४; ६४^c: २.
यूप-द्वेष^d - -ष्टः विध १, ३.
यूप-दर्शन- नात् मीस् ८, १, १५.
यूप-देवता-> 'व(य>)स्था-
-स्याम् शुभ्र १, ३७१; -त्ये
शुभ्र १, ३७२.
यूप-देश- -शम् काश्रौ ९, १०, ७;
-शात् काठश्रौ ४९.
यूप-द्रव्य- -व्याणि आपश्रौ २४,
४, १३.
यूप-प्रमाण^e - -णानि हिश्रौ ४, १,
२७.
यूप-मूल- -लम् काश्रौसं ३२: २०.
यूप-लक्षण- -णम् चव्यु २: २९.
यूप-वक्र^f - -क्राः गौध १, २७.
यूप-वत् काश्रौ ७, २, ८; ८, ५,
२७; आपश्रौ ११, ९, ११;
१०, ३; पाग्.
यूप-वासस- -सांसि वैहाश्रौ २७, ८.

१यूप-विरुढ^d - -ढानि काश्रौसं
३२: २०; अत्राय ५, ६.
२यूप-विरुढ^e - -ढाः काश्रौसं ३२;
१९.
यूप-विरोहण- -णे काश्रौ २५, १०,
१.
यूपविरोहणीया^f - -यः बौश्रौ
२४, १८: १५.
यूप-वृक्ष- -क्षाः वैश्रौ १०, १:
११.
यूप-वेहन- -नम् काश्रौ १४, १,
२०; -नानि काश्रौ १४, ५, ३५.
यूप-शकल- -लम् काश्रौ ६, ३,
१५; बौश्रौ ४, ४: ८×४;
माश्रौ; -खानि माश्रौ २, ५,
४, ८; -ले बौश्रौ २४, ३५: २;
-लेन माश्रौ ७, ८, ५; वैश्रौ १०,
८: १०; हिश्रौ ४, २, ४४; -लौ
काश्रौ ९, १०, ३; माश्रौ २, ४,
१, ८.
यूप-शक- -लम् काश्रौ १, ६,
२, ११.
यूप-संयोजन^g - -नानि बौश्रौ २०,
२६: ४१.
यूप-संकाश- -शे आपश्रौ ७, १,
१२.
यूप-संमान^h - -नात् आपश्रौ १७,
२२, ६; वैश्रौ १९, ६: १४३;
हिश्रौ १२, ६, २७; -नेन हिश्रौ
४, २, ३६; ७, ८, ३५.
यूपसंमाना(न-अ)दि- -दि
वैश्रौ १४, १७: ५.
यूप-स्तुति- -तिः ऋश्र २, ३, ८.
यूप-स्थायिन्- -यी अत्र ५०, ४, ६;

५, ४.

यूप-स्थूल(?णⁱ) - -स्पर्शन- -ने
काध २७७: १.
यूपा(प-अ)शि- -शी काश्रौ ६, ६,
१५; काठश्रौ ५८.
यूपा(प-अ)अ- -अम् वाश्रौ १, ६,
३, ८; ९; ३, २, ६, २३; वैश्रौ;
-अे वैश्रौ १०, ८: २; -अेण
वाश्रौ ३, १, १, ८; -अे: बौश्रौ
१५, १४: ८; १९: ७.
यूपा(प-अ)ङ्ग- -ङ्गम् मीस् ४, ४,
२३.
यूपा(प-अ)ञ्जन- -नम् आपश्रौ
२१, २, २; वाश्रौ ३, २, १, २२;
हिश्रौ १६, १, २३; -ने काश्रौ
२, ८, ८; हिश्रौ ३, १, २१.
यूपा(प-अ)दित्या(त्य-आ)हवनीय-
निर्मन्थ्य- -न्थ्यान् आश्रौ
५, ३, १५.
यूपा(प-अ)न्त- -न्ते काश्रौ ७, १,
२८; माश्रौ १, ८, १, ६.
यूपा(प-अ)न्तर- -रे माश्रौ ५, २,
१२, ११; -रेषु काश्रौ २०, ६, ६.
यूपा(प-अ)न्तराल- -लानि आपश्रौ
१४, ५, १७; वाश्रौ ३, २, ६,
१३; हिश्रौ ९, ८, १२; -लेषु
आपश्रौ २०, १४, ३; २४, ९.
यूपा(प-अ)रोहण- -णात् हिश्रौ
१३, २, ८.
यूपा(प-अ)र्थ- -र्थम् बौश्रु ४:
२२.
यूपा(प-अ)वट^l - -टः माश्रौ ५, २,
१२, ३७; वाश्रौ ३, २, ६, ५९;
-टम् काश्रौ ६, २, ८; आपश्रौ

a) मलो. कस. । b) = देव-विशेष- (वैतु. MW. राक्षस-विशेष- इति) । c) बस. । d) उप.

= प्ररोह, अहकुर- । e) उप. = अहकुरित- । f) नाप. (विधि-) । तदस्यप्रयोजनमित्यर्थे छः प्र. (पा ५, १, १११) ।

g) नाप. (रज्जुवादि-) । h) उप. सं. √भि (प्रलेपे) । i) पाठः ? यनि. शोधः (तु. चिन्तामणिः; वैतु. सूको.
स्थूल इति) । j) वैप १ द्र. ।

७, ९, ६; बौश्रौ; -टस्य बौश्रौ
२०, २ : २४; २६ : १०; वाश्रौ
१, ६, १, २३; -टा: बौश्रु छः
१६; २४; -टान् बौश्रौ १७,
११ : ८; २६, २४ : ४; -टानाम्
बौश्रौ २६, २४ : २; -टाय वैश्रौ
१०, ३ : ४; हिश्रौ छ, १, ४१;
-टे वैश्रौ १०, ८ : ४; हिश्रौ छ,
२, ४१.

यूपावट-काल- लम् बौश्रौ
२५, ९ : २.

यूपावट-देश- शम् आपश्रौ
७, ३, १०; भाश्रौ ७, २, १९;
१२, ५, २; आपश्रु ८, १३;
हिश्रु ३, १९.

यूपावट-प्रभृति- ति माश्रौ २,
२, ५, ४, ५, २, ४, २२; ११, १७.

यूपावटा(ट-अ)न्त^३ - न्तम्
बौश्रौ ६, ३१ : २४.

यूपावटीय- यः बौश्रौ ६, २२ :
८; -यम् बौश्रौ १०, २३ : २४;
२२, ५ : ९; -यात् बौश्रौ ६,
२२ : १०; १३; १७; १०, १९ : ६;
१२, १ : १२; बौश्रु छ : ८.

यूपावट्य^३ - ट्यः भाश्रौ १२,
४, १३; -ट्यात् काश्रौ १६,
७, ३१; भाश्रौ १२, ४, १६;
काश्रु ६, १०.

यूपा(प-आ)हवनीय- यम् वैश्रौ
१८, १४ : ३८; -ययोः वैश्रौ
१०, १८ : १०; -यौ वाश्रौ १,
६, ६, २८.

यूपा(प-आ)हुति- ति: बौश्रौ २४,
३७ : ७; २६, २३ : १; वाश्रौ
३, २, ६, ३; मीस् ११, २, २५;
-तिम् आपश्रौ ७, १, ७; १४,

५, ६; बौश्रौ; -ते: माश्रौ ५,
२, १२, १; -त्यै बौश्रौ २०,
२५ : १८; २१, ७ : १४.

यूपाहुति-वत् काश्रौ ६, १०, १०.
यूपाहुत्य(ति-अ)भयादान-यवा
वपन- नानि काश्रौ ८, ८, ९.

यूवै(प-ए)कादशिनी- नी काश्रौ
८, ८, ६; २१, १, ४×४;
आपश्रौ २१, १४, ११; माश्रौ;
-न्याम् काश्रौ ८, ८, ३७.

यूपो(प-उ)त्तरवेदि- न्दी काश्रौसं
२८ : १६.

यूपो(प-उ)पर- राणि बौश्रु छ :
२४.

यूपो(प-उ)पस्थान- नम् हिश्रौ
१०, ५, ४६.

यूपौ (प-औ)दुम्बरी-द्रोणकलश-
शा: वैश्रौ २१, १८ : ३.

यूप्य, प्या- पा ५, १, ४; -प्यम्
काश्रौसं २७ : १; २८ : २; बौश्रौ
१८, २० : १; -प्यस्य बौश्रौ
१८, २० : २; -प्या: आपश्रौ
७, १, १५; भाश्रौ ७, १, ५;
माश्रौ; -प्यान् आपश्रौ ७, १,
१९; हिश्रौ छ, १, १३;
-प्यायाम् बौश्रौ ११, ३ : ३४.

यूप्यम् युष्मद्- द्र.

यूप्युधि- √युष् द्र.

यूप्युवि- √यु(बधा.) द्र.

√यूप्यु (बधा.) पाधा. भ्वा. पर.
हिंसायाम्, बोधिष्टि निघ २,
१४१^०.

यूप्य^० - पाउओ २, ३, १६७; पाग २, ४,
३१; छ, १, ४१; २, ८०^०; -षम्
शाश्रौ छ, १८, १०; माश्रौ १, ८,
५, २१; आशिष्ट २, ५, ८ : १६;

बौग २, ७, १८; ११, ३४; -षाणि
आपश्रौ १२, ९, २; हिश्रौ २३,
१, ४४; -षे आपश्रौ ७, २४, ९;
भाश्रौ ७, १९, २; ८; वाश्रौ १, ६,
७, ५; २, १, २, १४; हिश्रौ छ, ५,
१०; -षेण आपश्रौ १२, ९, ५;
माश्रौ १, ८, ५, २०; वाश्रौ;
गोष्ट छ, १, १२; कौस् ६४,
२१; -षै: अप छ, ३, १०;
शंघ २१८.

यूषी- पा छ, १, ४१.

यूष-पिशित- तानि कौस् ३२,
१४.

यूषपिशिता(त-अ)र्थ- थंम् कौस्
३२, ४.

यूष-र- पा छ, २, ८०.

यूषन्^० - पा ६, १, ६३; -षन् बौश्रौ छ,
९ : ६; ९×४; -ष्णः आपश्रौ १२,
१३, १५; बौश्रौ १२, ५ : ११;
३३; ३४; भाश्रौ; -ष्णा आपश्रौ
७, २४, १२; बौश्रौ; -ष्णि वैश्रौ
१०, १९ : ३.

यूस^० - यू: बौश्रौ छ, ८ : ७; ३३.

?यैकै: वाध्रौ छ, १००^२ : १२.

येमान- √यच्छ द्र.

येयजामह^० - ह: शाश्रौ १, १, ३६;
३९; ४०; २, २; ७, २, १५;
-हम् आपश्रौ २४, १३, ५; ६;
हिश्रौ २१, २, ६०; -ह्यात् शाश्रौ
१, २, १९; आपश्रौ ५, २८, ९;
भाश्रौ ५, २०, २.

येयजामह-वषट्कार- स्यो: शाश्रौ
३, १६, १५.

येवाष^० - ष: अषा ३, ४, ११^०.

?यो^० पाग २, ११, १२.

?योक् पाग १, १, ३७.

a) वस. 1 b) भवार्थे वत् प्र. 1 c) धा. गतौ वृत्तिः । d) वेष १ द्र. 1 e) वषट्कः ?

पृ २०४१ i द्र. 1 f) पृ १५०५ c द्र. 1

योक्तव्य- कृ- प्रभृ. √युज् द्र.
 योत्र- √यु(वधा.) द्र.
 योत्स्यमान-योद्ध-प्रभृ. √युध् द्र.
 योनि^१- पाठ छ, ५१; -नयः आपश्रौ
 १५, १७, ५१; बौश्रौ; भासू ३,
 १८; -ना या २, ८१; -निः
 आश्रौ ३, १०, ५१; ५, १५,
 १६; शाश्रौ; आपश्रौ १९, २,
 १२; बौश्रौ १४, १९ : ३३; ४१;
 २९ : ७; १८, ५० : २९; २९,
 ७ : २; ९ : ५; माश्रौ २, ५, १,
 ४४; ६, १; १, २८; ७, १; २, ६,
 ३२; वाधूश्रौ ३, १२ : ७; ३९ :
 ९××; वैश्रौ १, १ : २३; २४;
 ७ : १७; १२, १ : २०; छसू १,
 ११ : ७; २, ४ : १४; ५ : १४;
 वैताश्रौ २४, १४^३; निसू २, १ :
 ९; ३१^२; ७, ७ : ४०; शांश्रु ५,
 १, ३; बौपि १, ८ : १३; वैश्रु ३,
 १५ : ६; कौश्रु १४१, १०; अप
 २२, ६, १; २३, १, १; ४८, ७५^३;
 ८९; शंघ ३३३; गौध ३, ३^७;
 काश्रु ६, ६^{२०}; वृदे १, ६२; निघ
 १, १२^{२०}; ३, ४^०; या २, ८;
 ४, ३; १४, ११^१; -निभ्यः आश्रौ
 ३, १२, २२; भाश्रौ; -निम्
 आश्रौ ३, १०, ६१; ११, ६××; ६,
 ५, २१; ७, ३, ११; ५, ७; ८,
 ७, ४; १२, १८; शाश्रौ ४,
 ११, ६१××; ७, २१, २; १०,
 ९, १४; ११, १२, २; १३, ३२;
 १५, ६; १८, २३, १३; आपश्रौ;
 बौश्रौ ११, ३ : २१; २२, ३ :
 २७; हिश्रौ २, ४, १२; जैश्रौ ९ :
 २७; ११ : २२; आपमं १, १२,

८; ९; १३, १; २, ९, १४; २०,
 ३१; आमिष्ट १, ५, ५ : १४; १५;
 बौश्रु १, २, २९; वैश्रु ३, ८ : ६;
 ९ : १३; १५; १४ : ६; हिश्रु १,
 १४, ७; २४, ३; जैश्रु १, २२ :
 २५; अप ३०^१, १, ११;
 वाध १, ३३; वृदे ८, १४०;
 अश्रु ३, २३; या १४, ६;
 य शि २, ६४; -निषु माश्रु २,
 १५, ६१; वाध २०, १६;
 आपध २, २, ७; हिश्रु २, १, २९;
 ऋषा ८, ६१; -नी आश्रौ ८,
 ६, ८; १६; ७, ९; वैताश्रौ ३३,
 १०; -नीः आश्रौ ७, ५, ५; ८, ७,
 ६; बौश्रौ २४, १५ : ९; वाधूश्रौ;
 -नेः आपश्रौ ९, ९, ११××;
 बौश्रौ ४, १ : १५^१××; १४,
 २९ : ७; २९, ६ : ३; भाश्रौ
 ९, १३, ५; ९; वैश्रौ १०,
 १ : १३; हिश्रौ ४; १, १४;
 १५, ३; ११^३; छसू १, ४ :
 ३०; ३, ९ : १८; वैश्रु ३, १० :
 २; कौश्रु; -नौ आश्रौ २, २, ४१;
 शाश्रौ २, ११, ६××; १०, १२, ४;
 काश्रौ; बौश्रौ १४, १९ : ३३;
 वाधूश्रौ ३, ३९ : ११; १२;
 लाश्रौ ७, ९, १३; निसू २, ७ :
 १७; आपमं १, ५, १६; १७;
 २, ११, २३; आमिष्ट २, ७, ६ :
 ३२; वैश्रु ३, १४ : ५; या १४, ६;
 शौच ४, ५; -न्यः आश्रौ ७, ३,
 १३; -न्या निसू २, १ : १०६;
 -न्याम् बौश्रौ १४, १९ : ४२१;
 अप; आज्यो १२, १०.
 योनि^२- नात् वाध १, २२; २७,

९; बौध २, १, ६२; -नेन वाध
 १, २१; २०, ४५.
 योनि-सौच-मौख- लैः
 विध ३५, ५^१.
 योनि-कृत्^१- ऋतः आमिष्ट ३, ८,
 २ : ५७; बौपि १, १५ : ६२.
 योनि-गर्भ-देवता- > ण्य- न्यम्
 अश्रु ५, २५.
 योनि-गोत्र-मन्त्र-संबन्ध- न्धात्
 आमिष्ट ३, १, १ : ३.
 योनि-गोत्र-मन्त्रा(न्त्र-अ)न्तेवास्य-
 (सि-अ)संबन्ध- न्धात् आपध
 २, १७, ४; हिश्रु २, ५, ३२.
 योनि-गोत्र-मन्त्रा(न्त्र-अ)संबन्ध-
 न्धात् आपध २, १, २; हिश्रु २,
 १०, २; बौध २, ८, ६.
 योनि-गोत्र-श्रुत-वृत्त-संपन्न- न्नाः
 बौश्रौ २, ३ : १; -नान् बौश्रु २,
 ११, ५.
 योनि-देवता-> ण्य- न्यम् अश्रु
 ३, २३.
 योनि-बन्धु- न्धुः वैश्रु ६, ३ : ११;
 ७, १ : ६; ७; -न्धूनाम् वैश्रु ७,
 ६ : २.
 योनि-मत्- न्तम् वाध ६, ३०.
 योनि-मात्र- न्नात् गौध १८, ७.
 योनि-योनि- नौ बौध २, ६, ३३१.
 योनि-वधा(ध-अ)र्थ- -र्थे निसू ७,
 १ : १९.
 योनि-वाद- दः निसू ५, ९ : ८.
 योनि-विपर्यास- स्ते अप ७०^३, १२,
 ५.
 योनि-व्यतिकर- रः अप ७१, ५,
 १; -रम् अप ७१, ७, १; -रे
 अप ७१, १, ३.

a) वैप. १ द्र. । b) = उत्पत्ति-कारण- । c) = (अन्तःपात्य-गार्हपत्ययोर्मध्यस्थित-) अग्निक्षेत्र- ।
 d) = उदक- । e) = गृह- । f) = अन्तरिक्ष- । g) न्याम् इति संस्कृतुः टि. । h) भवार्थे अण् प्र. ।
 i) मौखैः संबन्धैः > मौखसंबन्धात् इति जीसं. । j) वैप २, ३३०. द्र. ।

योनि-श(स्य>)स्या- -स्याः मीस्
७, २, १७.

†योनि-षट्^a- -षट्: आसिष्ट १, ५,
३: ४^b; हिष्ट १, १९, ७.

योनि-सङ्कट-निर्गमन- -नात् विध
९६, ३३.

योनि-संकर- -रम् अप्र २२, ३, ५.

योनि-संकर-दोष- -षेण कप्र १,
७, १३.

योनि-संकर-संकीर्ण- -र्णे अप्र
२२, ४, १.

योनि-संबन्ध- -न्धाः गौध २०, ६;
-न्धान् गौध २०, २; -न्धे

आपध १, २१, ८; हिध १, ६,
३८; गौध १४, १९; -न्धेभ्यः

आसिष्ट ३, ७, ४: १; बौषि २, ३:
७; आपध २, ११, १६; १५, २;

हिध २, ३, ३२; ४, ३१.

योनि-स्थान- -नम् आश्रौ ५, १५,
१८; ८, ६, १८; -ने आश्रौ ५,

१५, १७; ७, १२, १४.

योन्य(नि-अ)नुशंसन- -नम् शाश्रौ
७, २१, ५.

यो(य-उ)पध- प्रसृ. १य- द्र.

योपयत्-, ऽयित्वा प्रसृ. √युप् द्र.

योर्युवती- √यु(बधा.) द्र.

†योषणा^a- -णासु आश्रौ ३, ८, १;
-णे या ८, ११.

योषा^a- पाठ ३, ६२; -†षा बौश्रौ
२४, २४: ९; हिश्रौ; -†षाः

आपश्रौ १७, १८, १; या ३, ४;
७, १७; २०; -षाम् शाश्रौ ८,
१८, ११; कप्र २, २, ९;
शंघ ४४०; -षायाः कप्र ३,
५, ११.

योषा(षा-अ)र्थ-> ऽर्थिन्- -र्थी
अप १, ४४, २.

योषित्^a- पाठ १, ९७; -षित् कप्र
२, २, ९; विध २५, १६; -षितः

अप ४८, ७६[†]; ६४, २, ३;
-षिताम् जैश्रौप ११; कप्र २,

११, ६; -षिद्भ्यः कप्र २, ७, ११.

योषिद्-आस्य- -स्यम् वैध ३, ४, ६.
योषिद्-देवता-> ऽवत्य- -त्यम्

अश्र १, १७.
?योषि- -षिः अप्र ४८, २[†].

†योस्^a- यो आश्रौ ३, १०, ८; आपश्रौ
५, ४, १; बौश्रौ; या ४, २१[†].

यौकरीय- यूकर- द्र.
यौकल्य- यौकल्य- द्र.

यौकल्य- यौकल्य- द्र.
यौकल्य- यौकल्य- द्र.

यौकल्य- यौकल्य- द्र.
यौकल्य- यौकल्य- द्र.

यौकल्य- यौकल्य- द्र.
यौकल्य- यौकल्य- द्र.

यौकल्य- यौकल्य- द्र.
यौकल्य- यौकल्य- द्र.

यौकल्य- यौकल्य- द्र.
यौकल्य- यौकल्य- द्र.

यौकल्य- यौकल्य- द्र.
यौकल्य- यौकल्य- द्र.

यौकल्य- यौकल्य- द्र.
यौकल्य- यौकल्य- द्र.

यौकल्य- यौकल्य- द्र.
यौकल्य- यौकल्य- द्र.

यौकल्य- यौकल्य- द्र.
यौकल्य- यौकल्य- द्र.

यौकल्य- यौकल्य- द्र.
यौकल्य- यौकल्य- द्र.

यौकल्य- यौकल्य- द्र.
यौकल्य- यौकल्य- द्र.

यौवत-, -नक- युवन्- द्र.
यौवनाश्व- युवनाश्व- द्र.

यौवराजिक-, -राज्य- युवन्- द्र.
यौष्माक-, -कीण- युष्मद्- द्र

र

र[†]-र्षि १, ३; रः पा ८, ३, १४; रि पा
७, ४, ५१; ८, ३, १४.

र[†]-व- वीः पा ८, २, ७६.
र[†]-र- रः शुभा १, ६८; ७७; ऋत ४,

३, १०; भाशि २१; पा ७, २,
१००; ८, २, ६९; रम् ऋत ३,

५, ७; ६, ५; रस्य तैषा १, १९;
पावा ७, २, १००; रात् भाशि

४; १६; पा ६, ४, २१; ८, २,
२४; पावा ६, १, ६७; रेण पावा

१, २, १८[†].
र-पर- -रः शैशि ८७; पा १, १,

५१; ६, १, १९१.
र-पर-स्व- -स्वात् पावा १, १,

५१.
र-पर-प्रतिषेध- -धः पावा १, १,

५१.
र-पर-प्रसङ्ग- -ङ्गात् पावा १, १,

५०.
र-पर-वचन- -नम् पावा १, १,

५१; ७, १, ९६.
र-प्रकृति[†]- -तिः ऋत ३, ६, ६.

र-प्रतिषेध- -धः, -धात् पावा ७,
१, ९६.

र-भावा(व-अ)प्रसिद्धि- -द्धिः
पावा ७, २, २०.

र-ल- -लाम्याम् याशि २, १७;
-लौ शुभा ४, १७; ऋत २, ३,

४; शैशि १११.

a) वैप १ द्र. । b) लुप्तयोकारः निषदः इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. हिष्ट.) । c) =नदी- । d) व्यप. ।
e) =आयुषजीविसंघविशेष- । f) ऽदिभ्याम् इति पाका. । g) =१र-, र-गण- (छन्दो-गण- [र्षि.]) ।
h) =वर्ण-विशेष- । i) तु. पाका. । j) बस. ।

र-लोप- -ने शौच ३, २०.
 र-वत्-प्रतिषेध- -धात् पाप्रवा २,
 ५.
 र-विधान- -ने पावा ४, १, ७.
 र-विधि- -धौ पावा १, १, ६३.
 र-विसर्जनीय-जिह्वामूलीयो (य-उ)
 पध्मानोय- -या: तैप्रा १४, १५.
 र-श- -शयो: याशि २, १४.
 र-घ- -घयो: माशि ९, १२^१;
 -घाभ्याम् पा ८, ४, १.
 रघ-पूर्व- -र्व: माशि ६२.
 र-स्वरित^२- -न्ता: याशि २, ३३;
 नाशि २, ३, ४.
 १२-ह- -हयो: माशि ९, १२; याशि
 २, १४.
 रह-पूर्व- -र्वम् नाशि २, २, ११.
 र-ह्य- -ग्याणम् नाशि २, २, १७.
 रा(र-आ)देश- -ने पावा ७, २,
 १००; ८, २, ६९; ३, १.
 रा(र-अ)न्त-प्रतिषेध- -घ: पावा
 १, १, ५१.
 रो(र-उ)पधा- -घयो: पा ६, ४,
 ४७.
 रो(र-रु)ष्मन्- -ष्मसु शुप्रा ४, १.
 २२^०- रम् ऋत २, ३, ६; रात् ऋत
 ४, ३, ९; ५, ६, ४; रे ऋत ३,
 १, ८; ६, ९; ५, ५, १०; रौ ऋत
 ३, ४, ३.
 र-मध्य- -ध्ये ऋत ४, २, ९.
 र-संधि- -धि: ऋत ५, ५, २.
 रंरि^३- -सु निघ ४, ३; या ६, १७^४.
 √रंह^० पाधा. भ्वा. पर. गतौ; चुरा.
 पर. भाषायाम्, रंहति निघ २,

१४^५.
 रंरिहि^३- -हि: या १०, २९; -ह्या
 अप्राय ६, ३^१; -ह्ये बौश्रौ ४, ९:
 १८; तैप्रा १६, २३.
 रंहित- -तस्य कौसू ४९, ५.
 √रक्^६ पाधा. चुरा. उभ. आस्तादने,
 आस्तादने^६.
 रक- (> राक्य- पा.) पाग ४, ३,
 ९२.
 ररक्त- (> राक्ति- पा.) पाग ४, १,
 ९६^१.
 २-दरक्त- प्रमृ. √रज् द्र.
 √रक्ष पाधा. भ्वा. पर. पालने, रक्षते
 वाधूश्रौ ३, १७: २३; अप २,
 २, २; रक्षति आश्रौ ४, ७, ४^५;
 काश्रौ; आपमं २, २०, ३२^५;
 रक्षत: अप १, ४१, ८; अशां;
 रक्षन्ति शांश्रौ १२, २, १४^५××;
 आपश्रौ; रक्षसे अश्र १७, १^५;
 रक्षसि आपश्रौ १, १४,
 ६××; हिश्रौ; रक्षथ आपघ
 २, १३, ६; बौघ २, २,
 ३६; हिघ २, ३, ६; रक्षतु
 आश्रौ ४, १२, २; बौश्रौ;
 माश्रौ ३, ५, १५^६; रक्षतात्
 शांय १, १२, ६^५; रक्षताम् कौसू
 ५, २^५; रक्षन्ताम् बौश्रौ २७,
 ६: १६××; वैश्रौ; रक्षन्तु
 बौश्रौ ३, २८: २; जैय; रक्षस्व
 आपश्रौ १, १४, ५; १२,
 २१, १२^१; काश्रौसं; माश्रौ १,
 २, २, ३; रक्ष, > क्षा
 आश्रौ २, १०, ६; ४, १२,

२; शांश्रौ; रक्षतात् शांय १,
 २५, ८^५; रक्षेताम् भाश्रौ १,
 २०, ७^५;
 रक्षतम् आश्रौ ४,
 १२, २^५; रक्षध्वम् काश्रौ २५,
 १३, २५; आपश्रौ; रक्षत, >
 ता आपश्रौ ६, २१, १; वाघ
 १७, ९; ऋप्रा ८, १५; रक्षत
 शंघ १४५; २६२; आज्यो १०,
 ९; रक्षेत शांश्रौ १३, २९, २७;
 काश्रौ २४, ६, ३०; आपश्रौ;
 रक्षेयु: लाश्रौ ९, ९, ९; १०,
 १७, ४.
 ररक्ष ऋप्रा ९, ४५^५; ररक्षु:
 वाधूश्रौ ३, ७५: ९.
 रक्षेयत् क्रप्र २, १, ४; वाघ १६,
 ६.
 रर- -क्षे अप ४८, १४.
 ररुण- -णम् गौघ ८, ३; १०, ७;
 -णात् गौघ १८, १४; -णे अप
 २, २, ५; १८, ३, ५; ५२,
 १६, ६.
 ररुणा(ण-अ)धिकार- -रात्
 वाघ ३, २५.
 ररुणा(ण-अ)र्थ- -र्याय शंघ
 ३९१.
 ररुणीय- -यम् शंघ ४४३.
 ररुत्- -क्षन् अश्र १९, ४६^५;
 -न्तत: सु २६, १.
 ररुन्ती- -न्ती सु २४, २.
 ररुमाण,णा- -णम् वाधूश्रौ ३, १७:
 २२; माय २, १५, १^५;
 -णा
 पाय ३, ४, १५^५;
 -णा: वैताश्रौ
 २५, ८^५.

- a) पाठः? रशयोः इति शोधः (तु. याशि २, १४) । b) बस. । c) स्वर- इत्यस्याऽन्त्यानुकरणम् ।
 d) वैप १ द्र. । e) या ९, ११ परामृष्टः द्र. । f) रंहात् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. अ ९, ६, ८) ।
 g) √रग्, र्ग् इत्यन्ये । h) तु. BPG. । i) तु. पासि. । j) पामे. वैप १, १३७३ g द्र. । k) पामे.
 वैप १ शुन्धत् काठ ३५, ४^५ टि. द्र. । l) पामे. वैप १, १२२५० द्र. । m) इह, रक्षतात् इत्यस्य स्थाने स्रग्.
 मा ३५, १७ प्रमृ. अभिरक्षतात् इति पामे. । n) पामे. वैप १, २६२० h द्र. ।

रक्षस्^१ - पाउवृ ४, १८९; पाग ३, ४, ७४^b; ५, ३, ११७^c; ४, ३८;
-क्षः ऋश्रौ २, ३, ७५५; शाश्रौ;
बौश्रौ १२, ४; १५; १६; सु १२,
१; अप ७०, ३२, २४; शुअ
१, ३८; या ४, १८; उनिस् ७:
१०^१; -क्षसः शाश्रौ १४, ५४,
१^१; आपश्रौ; वाश्रौ १, ६, २,
१५; या ४, १८; -क्षसाम्
ऋश्रौ ३, ८, ७; ६, ६, ८५५;
आपश्रौ; वैश्रौ १, १: २३; जैश्रौ
५: ८; २१: ८; कौश्र १, १५, २;
शांश्र १, २३, १; अप्राय ३, २;
अप ५३, ४, २; -ऋश्रसे अपं ३:
६३; या ४, १८; -क्षांसिआश्रौ
ऋश्र ६, ९; १२, ३; १०, ७, ६;
शाश्रौ ४, ४, २; १६, २, १७;
आपश्रौ; बौश्रौ १३, ३: ८;
२३, १: २२; वाधूश्रौ ४, ८८:
१०; जैश्रौ ५: ६; ७; २१:
६; ७; वैताश्रौ ६, ११; आपमं
२, १३, ६; आश्र ३, ४, १;
कौश्र २, ५, १; शांश्र ४, ९, ३;
आश्रिण २, ५, ९: १३; बौपि २,
९, ११; वैश्र ४, ४: २१;
जैश्र २, ६: १०; कप्र १, १०,
१३; २, २, २; अप २, २, ४;
६७, ३, ३; शंघ ४६२; विध ९३,
१२; वृदे ८, ११५; या ३, ८;
१०, ११; माशि ८; १११;
-क्षोभिः अप ७०^३, १५, ४;
-क्षोभ्यः आपश्रौ १८, ९, १४;
माश्रौ ५, १, ७, ३८; हिश्रौ १३,
३, ३७; जैश्रौ १०: ६; आश्र;
अप २०, ७, ३; ३३, ७, ४.

राक्षस, सा^१ - पा ५, ३, ११७;
४, ३८; -सः आश्र १, ६, १; वैश्र
३, १: २; १०; आपध २, १२, २;
बौध १, ११, ८^१; विध २४, १८;
२५^१; हिध २, ४, ३७; गौध ४,
१२; -सम् काश्रौ १, १०, १४;
कौश्र १, ६, ७; शांश्र १, १०, ९;
कप्र ३, ८, ४; शुअ १, ५२;
१४३; -सा अय २७, १, ४;
-साः बौश्रौ २४, २७: १२^१;
अप २८, १, ४; ३३, ७, ५;
-सात् वैश्र ६, १२: १०; -सान्
कौश्र १०६, ७^१; अप ७१, ७,
५; शंघ ११६: २१; -से वैश्र
६ १२: १०; शुअ १, ३३; ६०.

राक्षसी - सीभ्यः याशि
२, १०१; नाशि २, ८, २५.

राक्षसन्व - त्वम् अप
२२, ५, १.

राक्षस-पैशाच - चौ
वैश्र ६, १२: १३.

रक्षः-पतङ्ग^१ - ङैः अप ७०^३,
१५, ३.

रक्षः-पन्नग-यक्ष - चेषु अप
७१, १७, १०.

रक्षः-पिशाच (च्य-अ) मिचार^१ -
रे जैश्रौका १०६.

रक्षः-पिशाच - चाः बौध १,
११, ३७.

रक्ष (स्य >) स्या - पा ४, ४,
१२१; -स्या बौश्रौ १३, ३४:
५^१.

रक्षो-गण - ग्नाः द्राश्र १, ५,
३३^१.

रक्षो-घ्न - घ्नस् अप १८, १,

१४; शुअ १, ३४, ३२६; -घ्नानि
विध ७२, १६; शुअ १, ५९१;
-घ्नैः कौश्र १२६, ९; अप ६,
१, ९.

रक्षो-जन - नेभ्यः वाश्र १७, ११;
गोश्र १, ४, ११; कप्र २, ४, १.

रक्षो-देवजन - नेभ्यः वौश्र २,
८, १७^१.

रक्षो-देव (ता >) त^१ - तः हिश्रौ
१५, ४, २५^१.

रक्षो-देवता - ताभ्यः वाध २३,
३^१.

रक्षोदेवत्य, त्या - त्यः
आपश्रौ ९, १५, ४^१; -त्या कौश्र
४, १२.

रक्षो-दैवत^१ - तः बौध २, १,
३१^१; -तम् वाध २३, १.

रक्षो (क्षस्-अ) धिपति - तिभ्यः
शशां २४, ६^१.

रक्षो (त्स-अ) पहनन - नाय
बौश्रौ २०, २: १६^१.

रक्षो-भूत - तेन वृदे ६, ३४.

रक्षो-मुख - पाग २, ४, ६३.

रक्षो-यक्षा (क्ष-आ) दि - सत्त्व -
त्वानाम् अप ६४, १, ९.

ऋरक्षो-राज - जेन आपमं २,
१३, ११; आश्रिण.

रक्षो-रूप - पाणि अप ७०^३,
१५, ३.

रक्षो-विद्या - द्या, -द्याम् शाश्रौ
१६, २, १८.

रक्षो (क्षस्-अ) सुर - (> राक्षोसुर-
पा.) पाग ५, २, ६१.

रक्षो-हण - (> णक- पा.)
पाग ५, २, ६२.

a) बप्रा. । वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । b) रजस्- इति वाका. । c) = आयुषजीविसंघविशेष- ।
d) विप., नाप. (रक्षस्, विवाह-भेद-) । अण् प्र. । e) कस्त. । f) [तदाख्य-मन्त्राणाम्] समाहारे द्रस. (तु. काश्रौ
१, १०, १४) । g) वस. । h) सपा. °देवतः <> °देवत्यः <> °दैवतः इति पामे. ।

रक्षोहणा(ण-आ)दि-दि
बुदे ७, १४२.

रक्षो-हृत्- -घ्नः आपश्चौ १२,
२, १५^३क; माश्रौ; -घ्ने आपश्चौ
१८, ९, १२क; १९, १८, १४;
बौश्रौ १३, ३:७; १०; २३, १ :
२२; माश्रौ ५, १, ७, ३८;
हिश्रौ २२, २, १०; -हणः
कंकाश्रौ ८, ५, १९; २१^३; आपश्चौ;
-हणम् आपश्चौ ९, ८, ८^३xx;
बौश्रौ; अप ३३, ७, ३; -हणा
काठश्रौ ९६क; -हणी शुभ्र
१, ३९६; -हणौ काश्रौ ८, ५,
२२^३क; आपश्चौ; -हा कंआपश्चौ
१२, २, १५; १६, ६, ७^b; वाधूश्रौ;
हिश्रौ ७, ६, ३३^३; ३५^३; जैश्रौ
५: ६; २१: ७; बुदे ६, १३४;
ऋअ २, १०, १६२^d; अअ २०,
९६^d.

कंरक्षोघ्नी- -घ्नी माश्रौ २,
२, ३, ३६; ३७; -घ्नी: श्रापश्चौ
१६, ३३, १; १९, १८, १६^३०;
वैश्रौ १८, १६: ५९.

राक्षोघ्न- -घ्नम् बौश्रौ
२२, ३: १२; जैश्रौका ६९^६; ऋअ
२, ४, ४; ७, १०४; १०, ८७;
११८; बुदे ६, २८; चाअ ४१:
४; -घ्ना: शुभ्र २, १४४^b;
-घ्नानि जैश्रौ २५: ३^१; बौश्र
२, ११, ४०^६; बौध २, ८, ५^६;
-घ्नेन बौश्रौ १०, १४: ३; वैश्रौ
१८, ७: १९.

राक्षोघ्नी- -घ्नी साअ
१, २४; -घ्नी: श्रापश्चौ ७, १३, ४;
-घ्नीषु निस् ३, १२: ३९; -घ्नयः
चाअ १६: २१.

राक्षोघ्ना(घ्न-आ)ग्नेय-
-यम् बुदे ८, ४०; ६५.

रक्षा- पाग ६, २, ८५^१; -क्षा अप
७०^२, १५, ३; आपध १, १८, १;
हिध १, ५, ७१; -क्षाम् सु २०,
१; २७, १; आग्निम् २, ३, ५:
२३; २७; अप; -कंक्षायै वाश्रौ
१, २, ४, ३०; वाग् १४, १२.

रक्षा-बन्धन- -नम् अप १८^२,
१६, १.

रक्षा-सूत्र- -त्रे अप १८^२, १, ६.

रक्षित- -ते वाध १९, १३.

रक्षित-वत्- -वन्तौ आश्रौ २,
१०, ५; माश्रौ ५, १, १, २८; ५,
३९; ६०.

रक्षितवै वाधूश्रौ २, २०: ८.

रक्षितव्य- -व्यः वैग् २, ८: ९;
-व्यम् या ४, १८.

रक्षितृ- -ता कंआपमं २, १७, १४-
१९; अप २, २, ३; अशां १९,
६; या ११, ५क; -कंवारः बौग्
१, ३, ३५; या ४, १९; -तारम्
या ११, ५; -तारौ हिपि १८:
७क.

रक्षित्वा लाश्रौ ९, ९, ५.

रक्षिन्- -क्षिणः आश्रौ १०, ६, ७;
काश्रौ २०, २, ११.

रक्ष्य, क्ष्या- -क्ष्यम् आपध २, २६,

६; हिध २, ५, २०१; गौध १०,
३६; ४५; -क्ष्ये आपध २, २६,
२३; हिध २, ५, २१८.

रक्ष्य-तम- -मा: बौध २, २, ५५.

रक्ष्, रक्षण- प्रभृ. √रक्ष् द्र.

√रख्, ख्ख पाधा. भ्वा. पर. गतौ.

√रग् पाधा. भ्वा. पर. शक्यायाम्.

रघु- पाठभो २, १, ३२.

रघीयस्- -वांसः तैप्रा १६, १३क.

रघु-मन्यु- -०न्यवः शाश्रौ ११,
१२, १३.

कंरघु-व्यद्- -व्यदः आश्रौ ५, ५,
१९^१क; आपश्चौ १३, ७, १६^१;
वैश्रौ १६, ८: ८^१; हिश्रौ १०,
५, १^१; अप ३२, १, ७.

रङ्क- पाठभो २, २, ३१.

रङ्कु- पाठभो २, १, ३८; पाग ४, २,
१३३^m; १३४.

राङ्कव- पा ४, २, १००; १३३.

राङ्कवक- पा ४, २, १३४.

राङ्कवाय(ण)णी- पा ४, २, १००.

१-३रङ्गा- √रज् द्र.

√रङ्घ् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ; चुरा.
उभ. भाषायाम्.

√रच् पाधा. चुरा. उभ. प्रतिपद्ये,
रचयति वैश्रौ २०, २९: ७.

रचना- -ना: मीस् १, १, २४^m.

रचायम् वाधूश्रौ ३, ८१: ६.

रचित- (>रचित-^L>तायन-^J
पा. यक्र.) पाग ४, १, १०४; १००

√रज्, ज्ज^p (बधा.) पाधा. भ्वा.,
दिवा. उभ. रामे, कंरजति^p

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १, २६२३ ० द्र. । c) ष्व इति पाठः? यनि. शोधः (तु. काठ २, ११) । d) व्यप. (ऋषि-) । e) परस्परं पाभे. । f) <रक्षो-घ्न- इति MW. । g) = साम-विशेष- । h) विप. (ऋच्-) । i) रक्ष- इति पाका. । j) = कर्म-विशेष- । k) ष्व इति पाठः? यनि. शोधः (तु. ऋ १, ८५, ६ आन. च) । l) ष्वतः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र. शौ ३, ७, १) । m) = देश-विशेष- । n) धवचनाः इति जीसं. प्रयासं. । o) रचा- (रचना-)>-चायाम् इति शोधः (वैतु. C. अरचायम् इति) । p) या ४, १९ पा, पावा ६, ४, २४ परामृष्टः द्र. । q) धा. गतौ वृत्तिः ।

अप ४८, ११६; निघ २, १४.
 अरज्यत अत्र १५, ८१.
 रज्जन्ति शैशि २३०; याशि २,
 ७७.
 रज्यते याशि २, ७२; ७३;
 नाशि २, ४, ५; ६.
 रजयति निघ ३, १४^१.
 रज्जयति निघ ३, १४^२;
 रज्जयेत् शैशि २२३; याशि २,
 ७५.

ररक्त- -क्तम् पा ४, २, १.
 रक्ता(क्त-आ)दि- -द्वीनाम् पावा
 ४, २, १.
 ररक्त, क्ता^१- -क्तः आ २९, २, ४;
 याशि २, १; -क्तम् कौट १,
 ७, १; शांय १, ११, ३; आग्निगृ २,
 -क्ता अप २१, ६, २; -क्ताः
 अप ५८, १, ८; ९; -क्तानि
 आगृ १, १९, ११; बौध १, ८,
 ११; अप; -क्तम् जैगृ २, ९;
 ३२; -क्ते अप ३, ३, २; ५०,
 ५, ६; ६३, ४, ५; -०क्ते अप
 ३५, १, १; -क्तौ आग्निगृ २, ५,
 १ : ९; जैगृ २, ९ : ४.
 रक्त-कङ्कण- -णम् कौट १, २०,
 ७.
 रक्तकण्ठगत- -ते अप ६८, ५, ४.
 रक्त-कुसुम- -मैः अप १२, १, ५.
 रक्त-कृष्ण- -ष्णम् कौट १, ८,
 ८; शांय १, १२, ८.
 रक्त-चन्दन- -नेन आग्निगृ २,
 ४, ११ : १८.
 रक्त-दत्^२- -दत् अपाघ १,
 ७, ११; हिघ १, २, ६८.

रक्त-धेनु- -नुम् वैगृ ४, १४ :
 ११.
 रक्त-निर्णिक- -क्ते गौध ७, १०.
 रक्त-पाण्डुर-मेचक- -कान् अप
 ६३, १, २.
 रक्त-पाद^३- -दान् शंघ ४२६.
 रक्त-पाद-तुण्ड^४- -ण्डाः गौध
 १७, २७.
 रक्त-पीत-शुक्ल कृष्ण-नील-हरि-
 त-चित्र-वासस्- -सांसि मागृ
 २, १४, २८.
 रक्त-पीता(त-अ)स(ण>)णा^१-
 -णाम् अप ६४, ९४.
 रक्त-पीता(त-अ)सित- -तैः
 अप ६४, २, ८.
 रक्त-पुष्प- -ष्पेण आग्निगृ २,
 ४, ११ : १८.
 रक्त-भौम^५- -मम् शंघ
 ११६ : ३.
 रक्त-वर्ण, णा^६- -र्णः आग्निगृ २,
 ४, ११ : १८; १२ : ७; -र्णा अप
 ३४, १, ५; -र्णानि शंघ १९७.
 रक्त-वर्मिका-दर्शन- -ने काघ
 २७६ : ७.
 रक्त-वस्त्र-> ^७स्त्र-रङ्ग-रत्न-गन्ध-
 गुड-मधु-रसो (स-ऊ)र्णा-विक्र-
 यिन्- -यी विघ ५४, २०.
 रक्तवस्त्रा (स्त्र-आ)वृत्त-
 -तैः अप ७०^३, ७, १६; ७१,
 ११, ४.
 रक्त-वासस्- -सांसि विघ
 ४४, ३७.
 रक्तवास(स>)सा^८- -से
 अप ३५, १, १.

रक्त-वासस्^९- साः अप ३१,
 ९, ३.
 रक्त-शालि-सहज- -स्तेग अप
 १, ४३, ६.
 रक्त-सूत्र- -त्रम् कौट १, २०, ७.
 रक्ता(क्त-अ)क्ष^{१०}- -क्षाः अप
 २०, ६, ३.
 रक्ता(क्त-अ)र्का(र्क-अ)स्तमनो-
 (न-उ)दय^{११}- -याः अप ६४, ९,
 १.
 रक्ता(क्त-अ)सिता(त-अ)तिरक्त-
 श्याम-पीत-सिता (त-अ)सित-
 कृष्ण-धूस्र-वर्णा^{१२}- -र्णाः वैगृ
 ४, १३ : ४.
 रक्ता (क्त-आ)स्य-नेत्र-पाणि-
 पाद- -दम् वैगृ ४, ११ : ३.
 रक्तो(क्त-उ)ष्णोष-> ^{१३}धिन्-
 -षी अप ३१, ९, ३.
 ररक्त^{१४}- -क्तम् अप ७०^३, ७, २४;
 ७०^३, ८, ५; -क्ते अप ७०^३, ८, ३.
 परक्त^{१५}- -क्तः ऋप्रा १, ७५; १३,
 २०; ऋत ३, ६, ४; -क्तम् ऋप्रा
 १४, ५१; माशि १०, ७; ८; नाशि
 २, ४, ५; -क्ताः ऋप्रा ६, १९;
 -क्तात् ऋप्रा १४, ३२; ५३;
 ५७; -क्तैः ऋप्रा १४, ५६.
 रक्त-पर^{१६}- -रात् ऋप्रा १४,
 ३४.
 रक्त-सं(ज्ञा>)ज्ञ^{१७}- -ज्ञः ऋप्रा
 १, ३६.
 रक्त-संहित- -तम् ऋप्रा ११, १०.
 ररक्त^{१८}- -क्तम् नाशि १, ३, १^३कृ.
 ररक्त^{१९}- -क्तः माशि १०, १०; याशि
 २, १; ७०-७२; ७४; नाशि २,

a) धा. अर्चायां वृत्तिः । b) = लोहित-वर्णः वा तद्वत्- वा । c) वस. । d) = कपोत- ।
 e) वस. > दस. । f) विप. (सन्ध्या-) । g) = पाताल-विशेष- । h) अच् प्र. उंस. (पा ५, २, १२७) ।
 i) कस. > षस. > दस. । j) दस. > वस. । k) = रुधिर- । l) = अनुनासिक- । m) = गानगुण-
 वृत्तिविशेष- ।

४, ७-९; -ङ्गम् शैशि १५;
२२६; याशि २, ७६; ७७; -ङ्गाः
शैशि २००; २२९; पाशि १९;
माशि १०, ९; याशि २, ७८;
-ङ्गे याशि १, ६४; २, ६९;
-ङ्गेण याशि २, ९०.

रङ्गाङ्- > रङ्गा(ङ्-अ)वतरण- -गम्
विध १६, ८.

रङ्गा(ङ्-अ)वतार^१- -रे बौध २,
२, ५६०.

रङ्गा(ङ्-अ)वतारिन्- -रिणः शंघ
४३४.

रङ्गो(ङ्-उ)पजीवन- -नम् बौध
२, १, ४४.

रङ्गो(ङ्-उ)पजीविन्- -विनाम्
शंघ २६२.

रजक- पाउ २, ३२; पावा ३, १,
१४५; ६, ४, २४; -कः विध
४५, २२; वैध ३, १५, १०;
-कस्य शंघ ४३४.

रजत, ता^१- पाउ ३, १११; पाग २,
४, ३१; ४, ३, १५४; -तः
आपश्रौ २२, ५, ५; वाधूश्रौ ३,
७६ : २५; लाश्रौ ८, ६, १७;
-तम् आश्रौ ३, १२, १७; शाश्रौ;
-तस्य शंघ ३२५; -ताः वाधूश्रौ
३, ७६ : २९; ३३; ३४; -तान्
वाधूश्रौ ४, ५९ : ११; -तान्
बौश्रौ १५, १५ : ४; वाश्रौ ३,
४, ३, ४७; वाधूश्रौ ३, ७६ : २४;
-तानि बौश्रौ १५, ३ : १; १८,
३७ : ३; वाधूश्रौ ३, ७६ : २३;
अप ६८, ५, १२; -ताभिः वाश्रौ
३, ४, ४, १७; -ताम् आश्रौ
२, ३, १५; आपश्रौ ६, ९, ४;

बौश्रौ ३, ६ : १; हिश्रौ ३, ७,
६१; -ते शंघ २०७; -तेन
बौश्रौ १५, ३१ : १४; कप्र २,
८, ३; अप १८, ३, १; शंघ
१८३; -तैः बौश्रौ १५, २८ :
१४; ३० : २७; ३३ : ३.

राजत, ता- पा ४, ३, १५४;
-तः वाश्रौ १४, ३२, ६; काश्रौ
२०, २, ६; २२, ४, १८; हिश्रौ
१७, २, ३३; लाश्रौ ९, २, १३;
-तम् काश्रौ १९, ४, १०; आपश्रौ
१५, ७, ३; ११, २; १८, १७,
१२^०; २०, २, ५; बौश्रौ; -ताः
बौश्रौ २२, १९ : ११××; हिश्रौ
१४, ३, २२; -तान् आपश्रौ
२०, १५, १०; बौश्रौ २, १२ :
७××; हिश्रौ १४, ३, २२;
-तानाम् बौश्रौ १५, १५ : ६;
-तानि बौश्रौ १५, १५ : १३;
१६; २१, २ : १३; विध ७२, १५;
-ताभिः बौश्रौ १५, ३० : १६;
-तेन काश्रौ २०, ५, २; आपश्रौ
२०, १३, २; वैश्रौ; वैश्रु ३, २१ :
१३; शंघ ११६ : ७१; ११७;
-तैः अप २७, १, २; -तौ आश्रौ
९, ४, १३; अप ३९, १, १०.

राजती- -तीभिः
आपश्रौ २०, १८, ७; हिश्रौ १४,
४, १७.

राजत-मणि- -णिम्
हिश्रौ १३, ६, ११^०.

राजत-सुवर्ण- -गौं भाश्रौ
११, ११, १५.

राजत-सुवर्ण-सीसा^१-
-साभिः काश्रौ २०, ७, २.

रजत-कर^१- -रम् विध ९, ७.
रजत-काञ्चन- -ने वृदे ७, ७८.
? रजत-क्षत-सप्रभ- -भम् अप
६४, ५, ८.

रजत-ग(र्भे >)र्भा^१- -र्भाम्
आपश्रौ ६, ९, ४; हिश्रौ ३, ७, ६१.

रजत-ग्रन्थि^१- -न्थि वाधूश्रौ ३,
७६ : २६; -न्थीन् बौश्रौ १५,
१५ : ११.

रजत-जातरूप- -ये द्राश्रौ २, २,
२६; लाश्रौ १, ६, २४.

रजत-स्वरु^१- -रवः वाधूश्रौ ३,
७६ : २८; -रून् बौश्रौ १५,
१५ : ४.

रजत-दण्ड^१- -ण्डानि बौश्रौ
१५, १५ : १५.

रजत-धारण- -णम् काश्रौ २५,
३, २०.

रजत-नाभि^१- -भिः अत्र ८,
१०^०; -भी तैप्रा ४, १२.

रजत-निर्वाण^१- -धानि वाधूश्रौ
३, ७६ : २३.

रजत-पिपीलिका- -कानाम् कौसू
११६, ३, १.

रजत-मय- -येषु विध ७३, १३.

रजत-रा(स्ना >)स्ना^१- -स्नान्
बौश्रौ १५, १५ : १४; वाधूश्रौ
३, ७६ : २४.

रजत-शङ्कु^१- -ङ्कूनि बौश्रौ
१५, १५ : १२.

रजत-शतमान- -नम् काश्रौ
२६, २, ३९.

रजत-ज्ञ(म्या >)भ्य^१- -भ्यः
वाधूश्रौ ३, ७६ : २५.

रजत-सुवर्ण- -गौं आपश्रौ १५,

a) = रङ्ग-मञ्च- । b) = रङ्गावतारदार- [पण्यस्त्री-] । c) सप्र. मनुः [८, ३६३] आर्यभोजीविषु इति
पामे. । d) वैप १ द्र. । e) सपा. राजतम् <> राजतमणिम् इति पामे. । f) रजत् इति वीसं. ।
g) बस. उप. = रकर- । h) बस. ।

५, १५; भाश्रौ ११, ५, १९; हिश्रौ २४, २, ६.
 रजन^०- पाउ २, ७९; पाग ४, १, ४१; पावा ६, ४, २४.
 रजनी (बप्रा.)- पाउभो २, २, १८८^b; पा ४, १, ४१^b; -नीम् माय २, १३, ६१^b; नाशि १, २, १३^d.
 रजनि^०- पाउभो २, १, २१२.
 रजनिकर->र-दिवाकर- रौ अप ६८, ३, १०.
 रजस्^१- पाउ ४, २१७; पा ५, ४, ५१; पाग ३, ४, ७४^b; पावा ६, ४, २४; -जः आश्रौ ४, ६, ३; बौश्रौ ६, २: ८; ३: ७; २९, १३: १२; माश्रौ; ऋअप ४८, ७४^b; वाध ४, २३^b××; आपध १, १९, ६^१; बौध ३, ४, ४^१; ४, ८, ७^१; हिघ १, ५, १०८^१; ऋनिघ १, ७^१; या ४, १९^११^b; ९, २९^११^b; १२, २३^११^b; -जसः आश्रौ १, ११, ८^१××; २, १३, ७^११^१; ८, ११, ११^११^१; आपश्रौ ९, १७, ६^११^१; १६, १५, ७^११^११^१; १६, १^११^१××; १९, २७, १०^११^१; बौश्रौ; ऋमाश्रौ १, ६, ४, २१^१; या १२, ७^११^११^१××; -जसा बौश्रौ १९, ७: ३३^११^१; वैगृ २, २: १५^११^१; अप ६४, ६, ९^११^१; ७०^११^१, ८; वाध ३, ५८^११^१; बौध ३, ४, ४^११^१; विघ; -जसि हिश्रौ १३, २, २१; आपमं २,

११, २३; वैगृ ६, १२: ३^११^१; १३: ३; अप्राय; -ऋजसी^० बौश्रौ १८, १०: २१; अप ४८, ६०; निघ ३, ३०; या २, २१; ४, १९^११^१; -जसे बौध ३, ४, ४^११^१; -जस्सु या १०, ४४^११^१; -जःसु ऋप्रा ५, १७^११^१; -जांसि ऋश्रौ २, ११, ८; ४, १५, २××; शाश्रौ; वृदे २, ६४; या ४, १९^११^१; ऋ^११^१.
 राजसी- स्ती अप ३०, १, १०.
 रज-उद्वा(स>)सा^०-सायाः कौसु ३५, २.
 रजः-कर्णी^०- पाग ८, ३, ४८.
 रजः-प्रासि- स्ती वैगृ ६, १३: १.
 रजः-शा(य>)या^१- याम् काश्रौ ८, २, ३६.
 रजस्-तम->मा(म-आ) श्रित- तम् अप ६४, ३, ८.
 रजस्-तमस्- मसी या १४, ३.
 रजस्-वत्->वद्-वासस्- ससा वाय ९, १९^१.
 रजस्-वल, ला- पा ५, २, ११२; -लः सु १६, ५; आपध १, ७, ११^११^१; हिघ १, २, ६८^११^१; -लम् विघ ९६, ५३; -लया बौश्रौ २७, ९: ५; गोय ३, ५, ५; द्रागृ ३, १, ३४; वाध १२, ६; -ला बौगृ ४, १, १०; वाध ५, ६; शंघ ८३; विघ २२, ७२; ७३; -लाः^१ कप्र १, १०, ५; -लाम् शांय २, १२, १०; वाध; -लायाः

वाध ५, ८^११^१; विघ ३६, १; ७.
 रजस्वल-तम- मैः या ८, १९.
 रजस्वला-कृष्णशकुनि-पदो- (द-उ)पहत- तम् गौध १७, १०.
 रजस्वला-गमन- ने आग्रिगृ २, ७, ४: ३^१.
 रजस्वला-वाण्डाल-यूप- पान् विघ २२, ६९.
 रजस्वला(ला-अ)भिगमन- ने बौगृ ४, ११, १^१.
 रजस्वला(ला-अ)वधृता(ता-आ)दि-गमन- ने शंघ ४०२.
 रजस्वला-षण्ड-स्पशन- ने काध २७६: १२.
 रजस्वला-सहो(ह-उ) पपति-वेदमन्- इमनाम् विघ ५१, १६.
 रजः-सुवासि(न्>)नी- न्या माय १, २, १९.
 रजा-शय, या^१- यम् वाधूश्रौ ४, ५९^१: १०; -ऋया भाश्रौ २, २, १, ३९; वैश्रौ; -याम् आपश्रौ ११, ४, ५; बौश्रौ ६, २२: ३; भाश्रौ १२, ४, ८; ५, १३.
 रजो-दोष- षः कप्र १, १०, ७.
 रजो-निर्णेजक- कः वैध ३, १५, १०.
 रजो-नीहार-धुमा(म-अ)अ-वृक्षा आ(अ-अ)न्तरित- ते कप्र १, ९, ४.
 रजो-रोगा(ग-आ)दि- दिना

a) = रजक-द्रव्य-। b) = हरिदा-। c) = देवी-विशेष-। d) = मूर्छना-विशेष-। e) = राजि-। f) वैप १६.। g) पृ २०४७ b द्र.। h) = आर्तव-। i) = पातक-। j) = रजोगुण-। k) = ज्योतिस्, उदक-। l) = उदक-। m) = घूम-। n) पभे. वैप १, १६२५ i द्र.। o) = द्यानापृथिवी-। p) नाप. (उत्सृष्टमलवासस्-। ली-। तुस. > बस. समासान्तः डच् प्र. (पा ५, ४, ७३)। q) तु. पागम.। r) बस.। s) सपा. रजस्त्रवद्वा<>रजोवा^० इति पभे.। t) विप. (नदी-। u) परस्परं पभे.।

कप्र २, ९, २३.
 रजो(जस्-ञ्)र्कपरिवा(घा-ञ्चा)
 दि- -दयः अघ ६४, ७, ८.
 रजो-वर्षम् अघ ७२, ३, ४.
 रजो-वासस्^१- -ससा काशु ३,
 १५^०.
 रजो-द्वरण- -गम् कौसु १३, ११.
 रज्जत- -नेन सुघप ८८ : ९.
 रज्जित- -तम् याशि २, ९०.
 शराम^०- पाग ५, २, ३६.
 राग-दोष- -घात् जैग १, १७ : ४.
 राग-द्वेष- -घात् सुघप ८५ : ५.
 रागद्वेषा(ष-ञ्)ग्नि-दग्ध-
 -रधानाम् शंघ ४.
 रागा(ग-ञ्)न्ध- -न्धस्य विघ
 २६, ५.
 रागित- पा ५, २, ३६.
 शराम^१- पाग ४, १, ४५; -गात् पा ४,
 २, १; -गान् आपघ १, २०, १२;
 ३०, १०; हिघ १, ६, २६; ८, १०.
 रागी- पा ४, १, ४५.
 राग-खाण्डव^०- > च-सुक-दधि-
 गुड-गोधूमयवपिष्टविकार-
 -नेभ्यः शंघ २२९.
 राग-द्रव्य- -व्याणि शंघ १७२.
 शराम^१- -गः ऋप्रा १४, ५६.
 रागिन्- पा ३, २, १४२; पावा ६,
 ४, २४.
 रज^१-
 रजउद्वासा-, रजः-कर्णी-, प्रस्.,
 रजक- √रज् द्र.
 रजणक^१- -कस्य चाअ ४१ : ९.
 शरजत- प्रस्. √रज्- द्र.
 रजनि^१ आश्रौ ८, ३, १९; वैताश्रौ ३२,

२५.
 रजनि-, °नी-, रजस्- प्रस्. √रज् द्र.
 रजिमन्-, °जिष्ठः, °जीयस्- √ऋज् द्र.
 रजेषित^१- -तम् ऋप्रा २, ७१.
 रज्जु^१- पाउ १, १५; पा^१, पाग ५, ३,
 १००; -ज्जवः काशु २, ७;
 -ज्जुः आपश्रौ १, १२, ८^१; माश्रौ
 १, १, ३, ४२; हिश्रौ १, ३, २९^१;
 १३, ४, १०; काशु; या २, १;
 २; अप्रा २, ३, १२; -ज्जुभिः
 शांश्रौ १७, १०, १०; आपश्रौ
 १५, ५, ७; बौश्रौ ६, १० : ८;
 १०, १२ : ५; माश्रौ ११, ५,
 ९; वाधूश्रौ ३, ८१ : ३; वैश्रौ
 १८, ६ : ६; हिश्रौ २४, २, ४;
 वैगु ५, ८ : ५; -ज्जुभ्याम् बौश्रौ
 १५, ६ : ६; -ज्जुम् शांश्रौ १७,
 १०, ११; १२; काश्रौ; -ज्जुषु
 आमिगु ३, ५, ६ : २६; बौपि
 १, ५ : १२; हिपि ३ : १४;
 -ज्जु चांश्रौ १७, २, १; -ज्जुः
 शांश्रौ १७, ३, ७; आमिगु ३,
 ५, ६ : २५; बौपि १, ५ : १२;
 हिपि ३ : १३; -ज्जौ हिशु २,
 ३९; -ज्जवा काश्रौ ८, ४, १८;
 १६, ८, १७; २१, ३, ३१;
 आपश्रौ; -ज्जवाम् काश्रौ १७, ४,
 २६; -ज्जवोः कौसु ९३, १५.
 रज्जव्य- -व्यम् काश्रौ २६, २, ७.
 रज्जु-कण्ठ^१- (> राज्जुकण्ठिन्-
 पा.) पाग ४, ३, १०६.
 रज्जु-छेद- -दे अघ १९, १, १३;
 ६८, २, ५०.
 रज्जु-दामन्- -म बौश्रौ ९, ५ : ९

रज्जु-द्रव्य^१- -व्यम् बौश्रौ ९, १५;
 १८.
 रज्जु-धान^१- -नम् कौसु ४४, २३.
 रज्जु-पल्य^१- -ल्यानि अघ १, ९, ६
 रज्जु-पुष्प- -ष्वाणाम् सुघ ३३.
 रज्जु-भार^१- (> राज्जुभारिन्- पा.)
 पाग ४, ३, १०६.
 रज्जु-मय- -यम् आपश्रौ १५, १५,
 १; माश्रौ ११, १५, १७; वैश्रौ
 १३, १७ : ९; हिश्रौ २४, ६, १८;
 हिपि १५ : ६.
 रज्जु-मान- -नम् काशु ७, १६.
 रज्जु-वत् वैध १, ६, ४.
 रज्जु-विदल-चर्मन्- -र्मणाम् वाध
 ३, ५३; गौध १, ३५.
 रज्जु-वेणुविदल- -लाभ्याम् गौध २,
 ५०.
 रज्जु-शस्त्र-विष-विभ्रम-प्रतिषिद्ध-
 हत- -तः वैगु ५, ११ : २.
 रज्जु-शस्त्रो(स्त्र-उ)दका(क-ञ्)शनि-
 दंष्टि-पशु-सर्पा(र्ष-ञ्)दि-
 -दिभिः वैध ३, ९, १.
 रज्जु-संदान- -नम् काश्रौ २६, २,
 २१; ५, १; ७, २४.
 रज्जु-समास- -सम् काशु १, १.
 रज्जु(ज्जु-उत >)ता- -ताम् काश्रौ
 १५, ७, १.
 रज्जव(ज्जु-ञ्)न्त- -न्तयोः काशु १,
 ४.
 रज्जव(ज्जु-ञ्)र्थ- -र्थे माश्रौ १, १,
 ३, ४२.
 रज्जुदाल^१-> राज्जुदाल- -लः शांश्रौ
 १६, १०, ४; १२, ५; काश्रौ
 २०, ४, १७^१; वाश्रौ ३, ४, १,

a) वस. । b) पाप्मे. पृ २०५१ ४ द. । c) भाप. । d) = [रज्जन-साधन-] कुमुम्मादि- । करणे प्र. ।
 e) = मिष्ट-विशेष- (तु. MW.) । पूर्प. ? । f) = अनुनासिक- । g) पृ ११२२ । द. । h) व्यप. । i) वैप १ द. ।
 j) < रज्जु-क- । k) कस. । l) उप्. अधिकरणे प्र. । m) अर्थः ? । n) = श्लेषमातक-वृक्ष-
 (तु. भाष्यम्) । o) रज्जु इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. P.W. प्रस्.) ।

५४; वायुश्रौ ३, ७६: ७; ७९:
२४; -रुम् आपश्रौ २०, ९, ६;
बौश्रौ; -लेन वायुश्रौ ३, ८१: १.

√रञ्ज् √रज् द्र.

√रट्, रट् पाधा. भ्वा. पर. परिभाषणे.

†रडि- -डि: काय २६, १०;
५९, ३.

√रण् (वधा.)^b पाधा. भ्वा. पर.
इब्दे गतौ च, रणन्ति ऋषा ७,
४५; रण>रणा ऋषा ७, ३३.
रारण बौश्रौ १३, १३: ६;
या ११, ३९६; रणिष्टन शुभा
३, १२९.

रणय>या ऋषा २, ७४.

१रण- पाग २, ४, ३१; पावा ३, ३,
५८; पागवा ६, १, १९९; -ःणः
आपश्रौ ४, १६, १^{१०}; हिश्रौ ६,
४, १८; अप ४८, १०५; निघ २,
१७; -ःणाय आश्रौ ६, ३, १;
आपश्रौ १०, ३, ८; बौश्रौ ८, ७:
९; वैश्रौ १६, ९: १; हिश्रौ ९,
१, १३; जैश्रौ १२: ३; आपमं
२, ७, १३; या ४, ८६; ९,
२७६; १०, ४७^२; १४, २६;
-णे अप ३६, २४, ११; शंघ
४११; शुभा ३, १२९; -णेऽणे
वैताश्रौ ५, १४; -णेऽगोम^०
माश्रौ ५, १, ३, २१.

रण-कारणा (ण-अ)थे- -र्थम्
आज्यो ७, ५.

रण-देवता- -ता: वृदे ५, १३१.

रण-प्रवाद- -द: निस् ४, १२:
३१.

२रण- पाग ५, २, ३६; -णम्

बौवि २, १२, ५^१.

रणित- पा ५, २, ३६.

रण्य- -ण्या या ६, ३३१^६.

†रण्य, ण्वा- -ण्वया आपमं २, १५,
१९; पाय ३, ४, ७; काय १२,
१; माय २, ११, १९.

√रण्य > †रण्वत्^१ आपश्रौ
१०, २३, २; बौश्रौ ६, १३: २;
माश्रौ १०, १५, ७; वैश्रौ १२,
१६: १९; हिश्रौ ७, २, २५; रण्व
बौश्रौ ४, ५: ५१.

रण्व-संसृ- -ट्क् आश्रौ ४,
१३, ७१.

३रण- पागवा ४, १, ९९.

राणायन- पावा ४, १, ९९.

राणायनी-> नी-पुत्र- -त्र:
लाश्रौ ६, ९, १६; निस् ९, १:
१९.

राणायनीय- -या: चव्यू ३:
४^२.

राणायनि- पा, पाग २, ४, ५९;
-निम् जैय १, १४: ८.

राणि- पा, पाग २, ४, ५९; -णय:
बौश्रौ ११: २.

रत-, रति- √रस् द्र.

रतू- पाठ १, ९२.

रत्न- पाठ ३, १४; -ःतम् शाश्रौ ८,
३, ४; आपश्रौ; वैय ४, ११:
१२६; अप ४८, ९०^६; निघ २,
१०^६; या ५, ५६; -ःतला आश्रौ
५, १८, २; शाश्रौ; -त्नानाम्
अप ६१, १, २५; ७०, ३, २;
-त्नानि ऋश्रौ ३, १२, १४;
८, ११, ३; शाश्रौ; शंघ ३७३;

वैध ३, ३, ९; वृदे ५, १२३;
६, ५२१; -त्ने या १३, ५; -त्नेतु
विघ ९९, १०.

†रत्न-धा- -धा: बौश्रौ ९, ९: १०;
बौय; -धाम् आश्रौ ४, ६, ३;
शाश्रौ ५, ९, ७; बौश्रौ.

†रत्न-धा-तम- -मम् माश्रौ ५,
१, २, १७; अप्राय; या ७, १५६;
उस् ८, १४.

रत्न-भाज्- -भाक् बौश्रौ २७,
१४: १६१.

रत्न-भूत्- -तम् पाशि ३१.

रत्न-मय- -यौ अप ९, १, ४.

रत्न-वर्णा (रौ-आ)भा- -भा याशि
२, ७५.

रत्न-विभूषिता (त-अङ्ग >)ङ्गी-
-०ङ्गि विघ ९९, ३.

रत्न-संकाश- -श: अप ७०^३, २, ५.

रत्न-सुवर्णो (रौ-उ)पस्कर- -राणि
माय १, २०, ३.

रत्न-हविस्- -वीषि काश्रौ १५, ३,
१^१.

रत्ना (त-अ)पहारिन्- -री शंघ ३७७:
१३; विघ ५, ८७.

रत्निन्- -त्निन: आपश्रौ १८, १८,
९; बौश्रौ १२, ५: १; १४: २४;

हिश्रौ १३, ६, २५; -त्निनाम्
आपश्रौ १८, १०, १२; बौश्रौ

१८, ५-६: ६; २६, १: १६; ३: ६;
१३; हिश्रौ १३, ४, १; -त्निभ्य:

आपश्रौ १८, १२, ७; १८, १४;
२०, ५, ९; हिश्रौ १३, ६, २७.

रत्नि-हविस्- -वीषि वाश्रौ ३,
३, १, ३४^१.

a) अर्थ: व्यु. च ?। b) पावा ७, ४, ३ परामृष्ट: द्र.। c) वैप १ द्र.। d) अरण: इति पाठ: ? यनि. शोच: (तु. तैत्रा ३, ७, ६, २४ हिश्रौ ६, ४, १८ च)। e) सप्रणवो निर्देश: द्र.। f) = शब्द-। g) वैप १, २६२८ क. द्र.। h) पांमे. वैप १, २६२९८ द्र.। i) व्यप.। j) (सामवेदीय-) शाखा-विशेष-। k) = धन-। l) मलो. कस. > वस.। m) पूष. = सेनानीपश्चिद्वादशरत्नग्रह-निर्वर्त्य- (तु. सप्र. माश ५, ३, १, १-१२)। n) सप्र. रत्न <> रत्नि इति पांमे.।

रत्नो(ल-उ)त्तम-विभूषि (त>)ता-
-ताम् विध १,२,८.
रत्नि^a- पाठ ४,२.
रत्नि-मात्र- -त्रा: कप १,२,३.
रत्नि-मान- -नेषु बौश्रौ २४,११:५.
रत्निन्- रत्न- द्र.
रथ^b- पाठ २, २; पाग ४, ४, १०;
-०थ आग २, ६, ५; -य:
आश्रौ ४, १४, २; शाश्रौ;
आपमं १,१,९; या ३, ५; -थम्
आश्रौ ४, १५, २; ५,
१४, ४; १८, ५x; शाश्रौ;
आपश्रौ १८,३,३^d; -थस्य आश्रौ
१२, ८, ११; शाश्रौ १२, १४,
१; बौश्रौ; -था: आपश्रौ १३,
२१, ३; १८, ४, १७; बौश्रौ;
-थात् माग १, १४, ५; वाग
१५, १५; -थान् शाश्रौ १५,
३,१४; आपश्रौ; -थानाम् बौश्रौ
२२, १४: २१; २५, ३३:
१; क्षुस्; -थाय ऋशाश्रौ १०,
११, ६; ११, ४, ८; वाधूश्रौ;
-थे आश्रौ ६,४,१०; शाश्रौ;
-थेन आश्रौ ३, ८, १; ६,
५, २४; ७, १२, ७; ८, ९, २;
शाश्रौ; -थेभि: या ११, १४; -
थेषु आपश्रौ २१, १८, ६;
बौश्रौ १८, २०: २२; वाश्रौ;
-थौ काश्रौ २२, ३,१३; आपश्रौ
२२,४,१४; हिश्रौ.
रथ-क(ट्य>)ट्या- पाठ,२,५१;
पावाग ७,३,४४.
रथ-कार- पाग ४, १,१५१;२,८०;
-र: बौश्रौ २,१२: १५; २४,
१६: ३; भाश्रौ; -रम् बौग २,

५, ६; भाग १, १: ११; -रस्य
काश्रौ १, १, ९; आपश्रौ;
-राणाम् वाधूश्रौ ३,७६: १६;
-रान् वाधूश्रौ ३, ७६: ३;
-रेभ्य: आपश्रौ १७, ११, ४; -
राथकारिक- पा ४, २, ८०.
राथकार्य- पा ४, १, १५१.
रथकार-कुल- -ले आपश्रौ २०,
५,१८; हिश्रौ १४,१, ४८.
रथकार-गृह-वास- -सा: काश्रौ
२०,२,१६.
रथ-कुञ्जर- -रा: अप ६८,१,३२.
रथ-कृत- -कृत: काश्रौ ४, ९, ३;
बौश्रौ १५, १३: १४; १४: ९.
रथ-क्रीत- -तम् कौस् ५८,२५;
अप ३२,१,३१; अत्र ११,६.
रथ-क्षय^b- -याणि शाश्रौ १२,५,
१३.
रथ-नागक- पाग २, २, ९; ५, १,
१२९; ६,२,१५१.
राथगणक- पा ५,१,१२९.
रथ-नोप- -पान्^c ऋञ्च २, ६,
७५; वृदे ५,१३१.
रथ-नोपायित्- -तून् शुञ्च ३,१२३.
रथ-चक्र- -कम् शाश्रौ १६,१७, १;
काश्रौ १४, ३, १२; आपश्रौ;
-कस्य बौश्रौ २०, १७: २२;
कौस् १५,४; -क्राणि बौश्रु १६:
२; -क्रात् बौश्रौ ३,२: २; वैश्रौ
१७, १४: ६; -क्रे शाश्रौ १६,
१७,४; आपश्रौ १८,४, ६; २२,
२६,१७; २८, १८; बौश्रौ २५,
३४: ७; हिश्रौ १३,१,४४;५३;
२३,४,३१; ५७; द्राश्रौ १२, २,
१४; आपग २२, १४; -क्रेण

वाश्रौ १,४,३,१८; कौस् १४,२.
रथचक्र-चित्- -चित् काश्रौ १६,
५,९; बौश्रौ १७, २९: ७; काश्रु
४, १; बौश्रु १६: २२; -चितम्
बौश्रौ १७, २९: १; हिश्रौ
१२, ८, ८; आपश्रु १२, १०; -
बौश्रु १६: १; हिश्रु ४, ३१; -
-चित्ता बौश्रु १८: ३; ९.
रथचक्र-चित्- -तौ बौश्रौ २३,
१५: १५.
रथचक्रचित्वा(ति-आ)कृति^f-
-ति बौश्रौ २७,३: १.
रथचक्र-मात्र- -त्र: बौश्रौ १९,
१: १३; -त्रम् आपश्रौ १९,
११,६; हिश्रौ २३, २, ६; काग
३७,२; बौपि ३,२,८.
रथचक्रा(क्र-आ)कृति^f- -ति:
काश्रु ७,२,१; -तिम् वैश्रौ २०,
२८: ११.
रथ-छिद्र- -द्रेण वृदे ६,१०५.
रथ-छेदन- -ने अप ७२,३,११.
रथ-जङ्घ^g- -ङ्गाम् द्राश्रौ ३, १,
२३; लाश्रौ १,९,२६.
रथ-जित्^h- -जिताम् कौस् ३६,
१३; अत्र ६, १३०; १३२; अप
२: ५९.
राथजित्(य>)थी^b- -थिनाम्
अप २: ६०.
रथ-दुन्दुभि-देवता- > ष्वत्य-
-त्यौ ऋञ्च २,६,४७ शुञ्च ३,१२८
रथ-धनुष्- -नुभ्याम् गौध १०,१४.
रथ-नाडी- -डीम् बौश्रौ १४, १७:
२४; -ड्याम् बौश्रौ २३, ७:
१८; २४, ८: ३.
रथ-नीड-परिहार^h- -र: काश्रौ १८,

a) = प्रमाण-विशेष- । < भरत्नि- इति MW. । b) वैप १ द. । c) पाठ: ? रथस्य इति शोधः
(तु. सपा. ऋ ८,११,७) । d) पामे. पृ १२७९ a द. । e) परस्परं पामे. । f) वस. । g) = रथावयव-
विशेष- । h) पू. = [धान्याद्यापवनस्थान-] रथोपस्थ- ।

५,१८.
 रथ-नेमि- -मिः या ५,५.
 रथनेमि-वोष- -वः अप २४,५,
 ५.
 रथनेमि-मणि- -णिम् कौसु
 १६,२९; अवां १९,४.
 रथ-पक्षस्- -क्षसी वैश्रौ १७, १२:
 १०.
 रथ-पथ- पा^१, पाग ५, ३, १००;
 -थम् द्राश्रौ १०,२, १२; लाश्रौ
 ३,१०,११.
 रथ-परिमाण- -णम् आपशु ६, ९;
 हिशु २,३८.
 रथ-पर्युढ- -ढात् काश्रौ १५, ३,
 २८.
 रथ-पुरुषा(ष-आ)दि- -द्वयः वैश्रौ
 २०,१९: ५.
 रथ-प्रोष्ठ^१- -ष्ठः वृदे ७,८५.
 रथ-श्रेष- -षम् बौश्रौ ११,८: २५.
 रथ-म(ध्य>)भ्या^१- -भ्याम् माशु
 २,१३,६१.
 रथ-मा(त्र>)त्री- -त्री काश्रौ ५,
 ३,११; आपश्रौ ७,३,७; आपशु
 ६,४१; हिशु २,३२१; -त्रीम्
 काठश्रौ ४९; वाश्रौ १, ६, १,
 १८; हिश्रौ ४,१,३८.
 रथ-मुख- -खम् बौश्रौ १४, १७:
 १७; १८, २४: १२; -खे
 आपश्रौ १७,२०,५; बौश्रौ १०,
 ५४: १४; १४,१७: १६; २३,
 ७: १८; २४,८: २; वाश्रौ २,
 २,४,१५; वैश्रौ १९, ६: १३२;
 हिश्रौ १२,६,१७.
 रथ-यज्ञ- -ज्ञस्य काशु ७१, १६.
 रथ-यन्त्र-वारण-प्रवहण-वादित्रा-
 (त्र-आ)दि- -दिषु अप ७२,
 २,४.

रथ-यान- -नानि आज्यो ७, ५.
 रथ-यु^१- -युः या ६, ३११.
 रथ-युग- -गम् बौश्रु २,१,१६;
 -गेन बौश्रौ २०, २५: ३०.
 रथ-युज्- -युजम् आश्रौ २,८,१.
 रथ-य^१->√रथर्ष^१, रथर्षति ऋनिघ
 २,१४; ४,३; या ६, २८१.
 रथ-वत् सु १,२.
 रथ-वल्मी-मात्र- -त्रम् आपश्रौ ८,
 ५,१०.
 रथ-वर्ममात्री- -त्री बौश्रौ २४,
 २४: १२; -त्रीम् आपश्रौ २,
 २,७; भाश्रौ २,२, ८; वैश्रौ ५,
 १: ३; हिश्रौ १,६,९४.
 रथ-वाहन, न^१- -णम् शुप्रा ३,
 ८६१; -णस्य काश्रौ १५, ६,
 ३०; -णे काश्रौ १५, ६, २७;
 -नम् आपश्रौ १७, १७, ७;
 २०,१६, १८; बौश्रौ; -नस्य
 माश्रौ ५,१,८,५; -नात् वैश्रौ
 १७,११: २; -ने आपश्रौ १८,
 १७,१४; २०, ९,६; १६, १८;
 बौश्रौ.
 रथ-वाहन-वाह^१- -हः आपश्रौ
 १८,२२,६;८; वाश्रौ ३, ३, ४,
 ३६; ३८; हिश्रौ १३, ७, २४;
 -हम् बौश्रौ १२,१९: १८; २१.
 रथ-वाहिन्- -हिनः अप १,१०, २.
 रथ-वा(ह>)ही- -ही काश्रौ १५,
 १०,१८.
 रथ-विपर्यासन- -ने काथ २७६:
 ११.
 रथ-विमोचन-> णीय, या^१-
 -यम् बौश्रौ ११, ८: २६; वाश्रौ
 ३, १, २, १२; ३, ३, १६; -या:
 बौश्रौ १२, १४: ९; -यान्
 आपश्रौ १८,१७, १४; -यानि

काश्रौ १५, ६, २३; हिश्रौ १३,
 ६,२४.
 रथ-वीति^१- -तये वृदे ५, ७३;
 -तिः वृदे ५, ५०; ७७; -तिम्
 ऋश्र २, ५, ६१; वृदे ५, ७४;
 -तेः वृदे ५, ७३.
 रथ-वृत्^१- -वृत् आपश्रौ १४,
 २९,१; अप्राय ६, ३.
 रथ-शकट-हल-सीर- -रेभ्यः पावा
 ४,४,७६.
 रथ-शत- -तानि वायूश्रौ ३, ७९:
 ११.
 रथ-शब्द- -ब्दः आपश्रौ २४, १,
 ३६; -ब्देन आपश्रौ २१,६,११;
 बौश्रौ १६, ३: १८; हिश्रौ १६,
 ३,१२.
 रथ-शिरस्- -रः काश्रौ १८,५, २०;
 आपश्रौ १७, २०, ६; हिश्रौ १२,
 ६, १७; द्राश्रौ ५, ४, १; लाश्रौ
 २, ८, १; -रसा हिश्रौ १२, ६,
 १७; -रसि काश्रौ १८, ५, १७;
 माश्रौ ६,२,५,३३.
 रथ-संयुत- -ताः वृदे १,८४.
 रथ-संसारण- -णम् काश्रौ १२, ३,
 ७.
 रथ-संमि(त>)ता- -ता बौश्रौ
 २०, २५: २९; बौशु ३: २५;
 -तायाः काशु २, १; -तायाम्
 बौश्रौ २०,२६: ८; १९.
 रथ-सिंहासना(त-अ)सि-छत्र-चामर-
 ध्वज-नाज-वाजि-वस्त्रा(ल-अ)
 लंकार-सांवासर-चिकित्सक-पुरो-
 हिता(त-आ)दि- -दीनि अप
 ३,१,३.
 रथ-सीता-हल- -लेभ्यः पावा १,१,
 ७२.
 रथ-स्तुति- -तौ या २,५.

रथ-स्थ- -स्थः कौट ३, ९, २७; शांयु ४, ७, ३२.
 रथस्-पति^१- -तिः वृदे ८, १२७;
 ऋप्रा १३, ३०; उस् ८, १९.
 रथ-स्पृत्^२- -स्पृत्तम् कौसू ६, ११.
 रथस्-या^३- पाग ६, १, १५३; ऋत ४, ७, ५.
 रथ-हीन- -नाः वाध २६, १७.
 रथा(थ-अ)क्ष- -क्षः माण्ड १, १३, १७; -क्षम् बौश्रौ १७, ११: ६; माश्रौ ५, २, १२, ९; वाश्रौ ३, १, १, ३२; वैश्रौ १७, १२: ८; -क्षस्य कौट १, ९, ३; शांयु १, १५, ३; -क्षाम् बौश्रौ २६, १०: ५; २३: ४; बौश्रु ४: १७; १९; -क्षान् काण्ड ९, १; -क्षेण बौश्रौ १७, ११: ४; २०, २५: २९.
 रथाक्ष-मात्र- -त्राणि काश्रौ ८, ८, ६; आपश्रौ १४, ५, १७; वाश्रौ ३, २, ६, १३; हिश्रौ ९, ८, १२.
 रथाक्षमात्री- -त्री आपश्रु ६, ५; हिश्रु २, ३४; -त्रीम् हिश्रौ ४, १, ३९.
 रथाक्षा(क्ष-आ)कृति^४- -ति आपश्रौ १८, ४, ३; हिश्रौ १३, १, ४१.
 रथाक्षा(क्ष-अ)न्तराल^५- -लाः बौश्रौ २६, २३: ७; बौश्रु ४: १६.
 रथा(थ-अ)ङ्ग- -ङ्गम् आपश्रौ १०, १९, ७; माश्रौ १०, १२, १५; २१; आण्ड २, ६, ७; कौट १, ९, १३;

शांयु १, १५, ९; माण्ड १, १३, १७; पा ६, १, १४९; -ङ्गे काण्ड २७, २; पावा ४, ३, १२०; -ङ्गेन आपश्रौ १०, १९, १४; माश्रौ २, १, ३, १५; हिश्रौ १०, ३, १२.
 रथाङ्ग-स्तुति- -तयः ऋअ २, ३, ५३.
 रथा(थ-अ)भिमर्श(न>)ना- -नाः वृदे ५, ११२
 रथा(थ-आ)रोहण- -णम् पाण्ड ३, १४, १; भाण्ड २, २९: १.
 रथा(थ-अ)वहरण- -णम् काश्रौ १४, ३, १.
 रथा(थ-अ)वृ-गज-धान्य- -न्यानाम् बौध २, ३, ५४.
 रथ(>)था-सह- -सहा ऋप्रा ९, ३.
 रथा(थ-अ)ह^६- -है काश्रौ २५, १४, २४.
 रथाह्व^७- -ह्वम् आपश्रौ १४, २०, ४; हिश्रौ १५, ५, २३.
 रथिक- पा ४, ४, १०.
 रथिन्- -थिभ्यः वाश्रौ २, २, ३, ४; शुप्रा ४, ८५; -थी शैशि १४७.
 ररथिन्-> ंती- पावा, पावाग ४, २, ५१.
 रथी^८- -थीः आश्रौ १, ३, ६; ७, ८, ३; शाश्रौ १, ४, २०; ७, ९, ३; १८, १८, १३; आपश्रौ १६, ६, ७; वाश्रौ २, १, ५, २०; हिश्रौ ११, १, ७३; -थीनाम् बौश्रौ १८, १७; ५; ऋप्रा ९, ५१; शुप्रा ३, १११;

-थ्यः आपश्रौ ३, १५, ५.
 रथी-त्तम^९- पावा ८, २, १७;
 -मः ऋवा ९, ७; -मम् बौश्रौ १८, १७: ५; वृदे ५, ११९; शुप्रा ३, १११; उस् ४, १९; -मौ तैपा ३, ७.
 रथी-तर^{१०}- पावा ८, २, १४;
 -रः वृदे ४, ७३; ऋवा ९, २३.
 रथीय> रथीय(त>)न्ती- -न्ती ऋवा ९, ५०.
 रथे-शुम्^{११}- -शुसम् काण्ड २२, १.
 रथे (थ-ई)पा- -षया बौश्रौ २०, २५: २९.
 रथेवा-मा(त्र>)त्री- -त्री भाश्रौ ७, २, १८, हिश्रु २, ३४; -त्रीम् हिश्रौ ४, १, ३९.
 रथे-ष्टा^{१२}- -ष्टाम् शाश्रौ ८, १८, ११; रथो(थ-आ-ऊ)ह^{१३}- -ह ऋप्रा २, ७१.
 रथो(थ-उ)पस्थ- -स्थः बौश्रौ १८, २४: १५; -स्थम् द्राश्रौ ३, १, २३; लाश्रौ १, ९, २५.
 रथ्यथ्या^{१४}- पा ४, २, ५०; ३, १२१; ४, ७६; पावा ५, १, ६; -थ्यः भाशि ५७; -थ्यम् आश्रौ ७, ४, १२; आपश्रौ १७, ८, ७; वाश्रौ १, ४, ३, ८; वैश्रौ १९, ५: ५३; द्राश्रौ ५, ४, २; २०; लाश्रौ २, ८, २; २०; -थ्यस्य हिश्रौ १२, ६, १७; -थ्याः, -थ्यासः या १०, ३; १; -थ्याम् गोग १, २, ३३; विध २२, ७५; -थ्यायाम् कौट ३,

a) वैप १ द्र. 1

b) =नदी-विशेष- 1

c) रथा- इति न्यासः 1

d) बस. 1

e) रथस्य अहः (= अहर्गमः) इति कृत्वा षस. समासान्तः अच् प्र. 1

f) सप्र. ङ्हे <> ह्वम् (जैवा १, ३६० च) इति पाठे. 1

g) स्वार्थे र्यः प्र. 1

h) प्थाध्वम् इति संस्कृतेः शोधः ? 1

i) पाठे. वैप १

रथीनाम् ऋ १, ११, १ टि. द्र. 1

j) विप., नाप. (रथ-समूह-, प्रतोली-) 1 वैप १ निर्दिष्टयोः

समावेशः द्र. 1

१,२५; शांणु ४, ७, ३०; कौसु
१४१, ३८; विष ६०, १२; -ध्वे
ऋषा १४, ३९१.
रथ्या-कर्म-तोय- -यानि विष
२३, ४१; -येन शंघ १८४.
रथ्या-कर्म-वर्षा^१- -र्षासु शंघ
१०२.
रथन्तर^२- पाग ४, १, ८६; १००^०,
१०४^०; -१००० जैश्रौ १७: ८;
१०; -रम् ऋषाश्रौ ४, १२, २;
५, १५, २४; शांश्रौ; निसू १०,
१३: १७^४; -रस्य आश्रौ ७, ३,
१७; ८, ६, ९; शांश्रौ; -रात्
ऋषाश्रौ १०, ३५: ६; १४, २२:
११; द्राश्रौ; -ऋषाय शांश्रौ १७,
१३, २; द्राश्रौ १०, ३, ६; लाश्रौ
३, ११, ३; आग्निष्ट १, ५, २: २०६;
अप्राय ६, ९; -रे आपश्रौ ५, ११,
६; १६, ४^१; १४, ३१, ३^१; भाश्रौ;
-रेण आश्रौ ऋषा, ३, २२; ७, ७^२;
९, ११, ५; आपश्रौ.
रथन्तर^३- पा ४, १, ८६;
१०४^०; -र: आश्रौ ४, १२,
१; बौश्रौ १६, २५: १६;
१८, १५: १३; निसू ७, १०:
१५; अप्राय ३, ३; भाशि ५७;
-रम् शांश्रौ ७, १४, २; १०, १३,
११; १८, ४, ६; माश्रौ; -रस्य
क्षुसू २, १५: २४; निसू ९, ४:
११; २८; -राणाम् आश्रौ १०,
५, २०; -राणि क्षुसू २, ५: ८;
निसू; -रात् निसू ८, ४: २०;
-राय शांश्रौ ९, २७, १^१;
आपश्रौ; -रे काठश्रौ १६६; क्षुसू
१, २: ६; निसू ३, १०: ४१;
६, ८: १२; १४; -रेण निसू

१०, ४: १०; ११; -रेषु निसू ५,
५: २३; ६, ३: १५; ४: १;
९, ४: ३३.
रथन्तरी- -री द्राश्रौ ८,
२, १४; लाश्रौ ४, ६, १४; निसू
३, ११: ४; ७, १०: १५.
रथन्तर-बाहृत- -ता: निसू
८, ३: ९; ९, ४: ३; -तानि
द्राश्रौ ८, १, २०; लाश्रौ ४, ५,
१९; निसू ९, ८: १४; -ते लाश्रौ
१०, १८, ५^२; निसू ६, ३: १५.
रथन्तर-बाहृते (?तित-ते)
ड- -डानि निसू ९, ५: ३०.
रथन्तरायण- पा ४, १,
१००.
?रथन्तरीयो निसू ५, ७: ६.
रथन्तर-णि (<नि)घन^४- -नानि
निसू १, १३: १४.
रथन्तर-धर्म- -र्मान् निसू ७, १३:
१८.
रथन्तर-पृष्ठ^५- -ष्ठ: आश्रौ ६, १०,
२२; शांश्रौ; -ष्ठम् शांश्रौ १०,
२, १; १०, १; वाश्रौ ३,
२, १, ४२; द्राश्रौ ८, १,
१०; लाश्रौ ४, ५, १०; निसू
१०, १३: १९; -ष्ठस्य वैश्रौ
२१, ८: ९; द्राश्रौ ८, २, २४;
लाश्रौ ४, ६, १४; -ष्ठा: क्षुसू
२, २: १; -ष्ठानि आश्रौ ७,
५, २; -ष्ठे शांश्रौ ७, २०, ८;
२१, २; २३, १; बौश्रौ; -ष्ठेन
शांश्रौ १५, १६, ९; निसू ६, १:
२२; -ष्ठेषु आश्रौ १२, ७, ४;
आपश्रौ.
?रथन्तर-पृष्ठोमा निसू ६, ३: ४.
रथन्तर-प्रभृति- -तीनि द्राश्रौ २,

१, १३; लाश्रौ १, ५, १०.
रथन्तर-बृहत्- -हृती द्राश्रौ ८, २,
१९; लाश्रौ ४, ६, १५.
रथन्तर-बृहत्-पृष्ठ^६- -ष्ठ: निसू ९,
११: १४; -ष्ठम् द्राश्रौ ८, १,
२८; लाश्रौ ४, ५, २३; क्षुसू २,
५: २३.
रथन्तर-बृहत्-सामन्^७- -मा
दृशिौ १७, १, २३^६.
रथन्तर-बृहती-व्यव्यास- -सम्
द्राश्रौ ८, १, २९; लाश्रौ ४, ५,
२४.
?रथन्तर-भक्ति- >^८क्तिन्- -क्तिन:
निसू ७, ४: ३.
रथन्तर-भक्ति^९- -क्ति: निसू ६,
४: ८.
रथन्तरभक्ति-त्व- -त्वात्
निसू ६, ४: २०.
रथन्तर-मध्यन्दिन^{१०}- -न: लाश्रौ
१०, १४, ३; ८; -ना: क्षुसू २,
३: १.
रथन्तर-माध्यन्दिन^{११}- -ना: निसू ४,
१२: २५.
रथन्तर-वत् आपश्रौ १७, ८, ८^१;
९, २; वैश्रौ १९, ५: ५४; ६:
५.
रथन्तर-वर्ण(>)र्णा^{१२}- -र्णा द्राश्रौ
३, ४, २४; लाश्रौ १, १२,
१०; -र्णाम् जैश्रौ १९: १६;
-र्णायाम् लाश्रौ ७, ११, ६; निसू
२, ८: १६.
रथन्तर-संनिपात- -ते निसू १,
१३: १०. -तेषु निसू १, १३:
१३.
रथन्तर-सामन्^{१३}- -मा शांश्रौ १३,
२९, १०; आपश्रौ; -मान:

- a) षस. > मलो. कस. । b) वैप १ द्र. । c) व्यप. । d) रथा^{१४} इति पाठः ? यनि. शोघः ।
e) पाठः ? यनि. शोघः । f) बस. । g) पाभे. पृ १८१४ n द्र. ।

आपश्रौ २१, १४, १४; २२, ५,
४; ७, १; बौश्रौ २६, २० : ८;
हिश्रौ १७, २, ३२; -मानम्
आपश्रौ १०, २, ७; २१, ६, १०;
९, १; १५, १०^१×x; बौश्रौ;
-मानौ आपश्रौ २२, ५, २; -ग्ना
आपश्रौ १०, २, ६; २२, ६, २;
७, २६; १०, २; ६; १२, ११; १७;
हिश्रौ; -मिन् हिश्रौ ८, ४, १.
रथन्तर-स्तोत्रिय- -यम् लाश्रौ १०
७, १०; निस् ५, ४ : १८.

रथन्तरा(र-अ)मिष्टोम-सामन्^a-
-मा छुस् २, १ : १०.
रथन्तर(र-अ)पचिति- -त्या निस्
१०, २ : २७.

रथाऽऽस्य^b अत्राय ५, २.

१-२रथिन्- प्रमृ. रथ- द्र.

रथिर- पावा ५, २, १०९.

१रथीतर- प्रमृ. रथ- द्र.

२रथीतर^c- पाग ४, १, १००; १०४;
-रः वृदे ३, ४०; ७, १४५; -रा^d
आपश्रौ २४, ८, ४; बौश्रौप्र २४ :
१; ३.

राथीतर- पा ४, १, १०४; -०र
बौश्रौप्र २४ : ४^e; -रः बौश्रौ
७, ४ : २५; २०, १ : ३६; ५ :
१०; ११ : २५; १३ : १९; २६;
२८ : ८; भाशि ५४^f; -राणाम्
बौश्रौ २०, १६ : २; १८ : १.

राथीतर-स्तुति- -तौ वृदे ५,
१४२.

राथीतरायण- पा ४, १,

१००.

रथीतर-वत् बौश्रौप्र २४ : ४¹.

✓रथीय, रथ्य, थ्या- प्रमृ. रथ-
द्र.

✓रद्^g पाधा. भ्वा. पर. विलिखने, णिदति
अप ४८, ४६; या ६, ३०;
रद>दा ऋप्रा ७, ३३^h; अरदव
या २, २६^h.

✓रध्, न्धु(बधा.)^h पाधा. दिवा. पर.
हिंसासंराधोः, रारन्धि या १०,
४०^hक^h.

रध्वन्ताम् माश्रौ १, ६, २, १७^h;
ऋरध्व बौश्रौ १२, १५ : ११;
हिश्रौ १३, ६, २७.

रध्वासम् बौश्रौ १२, १५ : ११^h;
ऋरध्वम् आपश्रौ ४, १५, १; भाश्रौ
४, २१, १; माश्रौ १, ६, २, १७;
हिश्रौ ६, ४, १८; भाशि ४८;

ऋरध्वाम बौश्रौ १७, ४२ : १४^h;
आपमं २, ९, ६; आम्रिय १, ३,
५ : १५; काय ५९, ५^h; माय २,
२२ : १६; हिश्रौ १, २२, १३; कौस्
८२, १३; विध ८६, १६; या
१०, ४०; भाशि ४८.

रन्धयति माश्रौ १, ३, ३, ११;
५, ९; माय २, ९, ७; कौस् ८४,
३; ऋरन्ध्व, > या या ६, ३२;
१०, ४०; ऋप्रा ८, ११; अरन्धयत्
अप्रा २, ४, १५^h.

रध्वⁱ- ध्रः अप ४८, ११६^h.
ऋरन्धयत्- -यन् आपश्रौ ४, १५;
१; भाश्रौ ४, २१, १; हिश्रौ ६,

४, १८.

रन्धयित्वा माश्रौ १, ५, ५, १५;
माय २, ९, ८.

रधीतर^o->राधीतर--०र^o, -राणाम्
वैध ४, ३, ८.

रधीतर-वत् वैध ४, ३, ८¹.

ऋरन्धि^k- न्तिः आश्रौ ४, १२,
२¹, काश्रौ २०, ३, ४^m;
आपश्रौ ६, ५, ७ⁿ×x; बौश्रौ; भाश्रौ
६, १०, ५ⁿ; हिश्रौ ३, ७, २८ⁿ;
द्राश्रौ २, ४, २२^m; लाश्रौ
३, ८, १२^m; माय २, २ :
६ⁿ; छुय ३, १३^m; -न्तिस्
आम्रिय १, ४, १ : १९; -न्ती
वाश्रौ १, ३, २, ५; उनिस् ७ :
२९; -०न्ते काश्रौ १३, ४, १८;
आपश्रौ.

रन्तु अप ४८, ११६^h.

रन्धस- पाउभो २, ३, १७३.

रन्ध्र^l- पाउभो २, ३, ३०; -न्ध्रम्
बौश्रौ २५, ७ : ५^o; -न्ध्रे लाश्रौ
१, ६, ४२.

रिन्धिणी->णया(शी आ)मिक्षा-
-श्वाम् कौस् ६५ : ५.

✓रप्(बधा.)^h पाधा. भ्वा. पर.
व्यक्तार्थां वाचि, अरपत् ऋप्रा
२, ४४^h.

रारपीति ऋप्रा ९, ३२^h.

रपस्^l- -यः वृदे ७, ९५; या ४, २१;
-पसः वृदे ७, ९५; ८, ५०.

राप्य- पा ३, १, १२६.

र-पर- प्रमृ. १२-द्र.

a) कस.>बंस. । b) पाठः? रथाऽश्वः वा रथः अश्वः इति द्विपदो वा शोधः (तु. संस्कृतुः टि. सूत्रो.) ।

c) व्यप. । d) बहु. <राथीतर- । e) सप्र. °थी° <> °धी° इति पाभे. । f) सप्र. °थी° <> °धी° इति

पाभे. । g) या २, २६ परामृष्टः द्र. । h) या ६, ३२ पा ७, १, ६१; ६२; २, ४५ परामृष्टः द्र. । i) रा° इति

पाठः? यनि. शोधः (तु. ऋ १०, १२८, ५ प्रमृ.) । j) वैप १ द्र. । k) तु. वैप १ १रन्धि- ।

l) पाभे. वैप १, २६३९.० द्र. । m) पाभे. वैप १, २६३९ n द्र. । n) पाभे. वैप १, २६३९ p द्र. ।

o) = कटि-प्रदेश- इति संस्कृतुः सूची । p) या ६, २१; ९, ११ परामृष्टः द्र. ।

१रपि^a शांश्रौ १२, १६, १.

र-प्रकृति- प्रसृ. १र- द्र.

१रप्रसादे^b अप ४८, २८.

✓रप्ञा^c

रप्सु^d-प्सु^e अप ४८, ७९१.

✓रफ, रम्फ पाधा. भ्वा. पर. गतौ.

✓रस्, रम्स् पाधा. भ्वा. आत्म. राभस्ये,
रभते हिश्रौ २१, २, ३४; रभस्व
माश्रौ ३, ५, १३१.

*रस्- > रभीयस्- -यसः शांश्रौ
६, १, ५; -यांसौ शांश्रौ ६, १, ५;

-यान् आश्रौ ३, ४, १४१.

रभमाण-णे माश्रौ ३, ५, १३.

रभस्- > भस- पाठ ३, ११७;

-सः बौध १, ५, ८६; निघ ३,

३१^f; -सम् आश्रौ ८, १, १२१.

रभसो(स-उ)स्व-वे शंघ
१५७.

†रम्भ-म्भः अप ४८, १२२; निघ
३, २९; -म्भम् या ३, २१७.

र-भावा^g १र- द्र.

✓रम्(बधा.)^h पाधा. भ्वा. आत्म. क्रीडा-
याम्, †रमते आश्रौ ५, १८, २ⁱ;
शांश्रौ ८, ३, ४^j; आपमं १, १५,
४; पाण्डु; रमन्ति अप ६४, ७,
९; रमे या ११, ३९; †रमताम्
आपश्रौ ४, १, ८^k; बौश्रौ; हिण्ट
१, १२, २; †रमन्ताम् आपश्रौ
४, १, १०^l; ७, १७, १; बौश्रौ;
†रमस्व आश्रौ ३, १२, २३;

काश्रौ; गोण्ड ३, ४, २४^m; रम
आश्रौ ८, १३, १ⁿ; †रमेयाम्
काश्रौ ८, ४, ५; आपश्रौ; †रमध्वम्
आश्रौ ८, १३, १; शांश्रौ; आपश्रौ
२१, ९, १३; हिश्रौ १६, ४,
१२^o; रमत आमिण्ट २, ४, ८;
१६; अरमत वाधुश्रौ ३, १९;
११; अरमन्त या १२, ४३.

रन्त या १२, ४३१^o.

†रारन्धि जैश्रौ १४: २१; द्राश्रौ.

रम्णाति निघ २, १९^o;

रम्णातु माश्रौ २, १, ३, ३९^o;

†अरम्णात् आश्रौ ९, ८, ४;

शांश्रौ ८, २५, १; या १०, ३२^o;

अरम्णाः या १०, ९^o१^o.

रमयति माश्रौ ९, १२, १२; या

४, १०; रमयतः बौश्रौ ६, २५;

७; रमये वृदे ६, ५४; †रमयतु

काश्रौ ४, १४, २२^o; आपश्रौ;

वैताश्रौ ७, १७^o; †रमय > या^h

आश्रौ १, २, १; ऋप्रा ९, ४३;

†रमयत आपश्रौ १९, २५, १८;

बौश्रौ; रमयन्त या १२, ४३;

अरमयत् या १०, ३२; अरमयः

ऋप्रा ९, ४३.

रमया^o ✓कृ, रमयामकः पा ३, १,

४२.

रत- तम् अप ७०, १, १; -तस्य

वाध १०, २०.

रति- तयः अप ४८, ८६^o; -†तिः

आश्रौ ४, ७, ४^o; काश्रौ १२, ४,
८^o; आपश्रौ २१, ९, १३^o; हिश्रौ
१६, ४, १२^o; शांश्रौ ३, ११, ४^o;
पाण्डु १, १०, १^oxx; वाध १२,
२३^o; विघ ८६, ९^o; शुभ्र १,
५३८; -तिम् अप ७०^o, १६,
२; विघ ५१, ७०; वृदे ६, ५५;
-तौ शंघ १७७^o.

रति-संश्रय- नों वाध २८, ८;

बौध १, ५, ४९.

रति-संश्रय- नो वाध १६, ३६

रत्य(ति-अ)न्त- न्तम् आमिण्ट

१, ६, ३; ६७; २, ७, ६; ३४.

रत्य(ति-अ)र्थ- र्थम् विघ २६,

५; ऋज २, १, १७९.

रन्त्य- न्त्यम् शांश्रौ १८, ३, २^o.

रम्- -मः शांश्रौ १८, २१, ११;

काश्रौ १३, २, २४^o; द्राश्रौ ९, ४,

२२^o; लाश्रौ ३, ८, १२^o; हिण्ट

१, १२, २^o; जैण्ट १, २२: ११^o.

रमक- पाठ २, ३३.

रमण- पाण्डु ३, १, १३४; -णम् या

१, ११; -णात् या ६, १७; -णाय

वाध १८, १८; या १२, १३.

रमणीय- न्यम् माश्रौ १, ५,

५, १६; -यानाम् या ७, १५;

-यानि अप ५५, ६, ३; ५७,

२, ७; -याय या ४, ८; ९,

२७; १०, ४७; १४, २६; -ये

या १, २०; -यौ या ६, ३३.

a) पाठः ? रभि- > -भिम् इति शोधः (तु. वैप १, २४६५ ० टि.) । पृ २६६० यदुक्तं तत्रोद्यम् ।

b) पाठः ? अग्रमादे इति शोधः संभाव्येत (तु. मू.श्रौ.) । c) ऋप्रा ६, २२ परामृष्टः द्र. । d) =रुण- ।

e) सपा. निघ ३, ७ प्सु इति पाठे. । f) पा ७, १, ६३; ४, ५४ परामृष्टः द्र. । g) वैप १ द्र. । h) =महत्- ।

i) या १०, ९ पा ७, २, ७३ पाना ६, ४, ५२ परामृष्टः द्र. । j) पाठे. वैप १, ११७९ f द्र. । k) पाठे. वैप २,

३खं. तैत्रा ३, ७, ४, ३ टि. द्र. । l) पाठे. वैप २, ३खं. रमस्व मंत्रा १, ७, ११ टि. द्र. । m) पाठे. वैप १,

२६३९ ङ द्र. । n) घा. वधे वृत्तिः । o) पाठे. वैप १, २६२९ ० द्र. । p) घा. संयमने वा विसर्जने

वा वृत्तिरिति या. । q) पाठे. वैप १ रमयतु का ३, २, ५ टि. द्र. । r) पाठे. वैप १, २६३५ j द्र. । s) =मैथुन-

t) तु. चौसं. । रसः इति अच्यु. ? । u) कर्त्रार्थे क्व ।

रमणीय-क^a - -कम् लु ७, २.
 रमण्य- पाठ ३, १०१.
 ररमति^b - पाठ ४, ६३; -ति:
 आपश्रौ ४, १०, ४; १०, ३, २;
 २१, ९, १३^c; १२, ७^c; बौश्रौ
 १५, ७: ४; १६, ८: १२^c; १७,
 ४३: ६^c; माश्रौ; हिश्रौ १६, ४,
 १२^c; -तिम् आम्रिण १, ४,
 १: १९; -०त्ते हिश्रौ ६, ३, २.
 रममाण-ण: या ९, ११; -णम्
 या १, २०; -णा: बौश्रौ ११,
 ११: ३.
 रमयत् -यन्त: बौश्रौ १५, ३: ४;
 १८, १८: ९.
 रम्य, म्या- -म्यम् अप ६८, १,
 २९; -म्या अप ४८, ७४^d;
 -म्यान् अष ७, ६०; -म्ये वृदे
 ५, ७५; -म्येषु विध ९९, १६.
 रम्या(म्य-अ)क्षि^e - -क्षि: शुअ
 ३, ५९.
 रम्या(म्या-अ)वसथ-प्रिय^f -
 -यस्य वाध १०, २०.
 रा(म्य>)म्या^g - म्या निघ १,
 ७^h.
 ररिसत् -सतो: वृदे ४, ५९.
 ररिसु-सु: वृदे ४, ५८.
 रमठ- पाठभो २, ११४.
 र-मध्य- २२- द्र.
 √रम्क् √रफ् द्र.
 √रम्ब्, रम्भ पाधा भ्वा. आत्म. शब्दे,
 रम्भन्ति^b याशि १, ८; नाशि

१, ५, ३; रम्भान्ति माशि १, ९^b.
 रम्भण- -णम् अप ७०^c, ३, ५.
 √रम्स् √रम् द्र.
 ररम्य- (> रम्य-वत्- पा.) पाग
 ४, २, ८६.
 √रम्ब् पाधा. भ्वा. पर गतौ.
 √रय् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.
 रय¹ -य: माश्रौ १, ५, २, १३.
 ररयि^b -यि: शाश्रौ ४, १६, ५; ५,
 १०, ८^d; आपश्रौ; अप ४८, ७५^k;
 निघ १, १२^k; या ४, १७^l;
 -यिम् आश्रौ १, ६, १××; शाश्रौ;
 बौश्रौ २, १६: ५¹; आपमं १, ३,
 २^m; ८, ४^m; पाग १, ४, १६^m;
 काग २५, २२^m; बौग १, ४,
 ८^m; भाग १, १६: ३^m; माग १,
 १०, १०^m; वाग १४, १०^m; जैग
 १, २१: ५^m; -यीगाम् आश्रौ ३,
 ८, १; आपश्रौ; या ४, १७^l;
 -य्या आश्रौ २, ५, ९; आपश्रौ,
 -य्याम् बौश्रौ १६, २७: ५;
 -य्यै आपश्रौ ९, ९, १०××;
 बौश्रौ १४, २४: ३९^o; भाश्रौ
 ९, ११, ८^o; १२, १२^o; माश्रौ;
 हिश्रौ १५, ३, १^o; १०^o;
 अप्राय ५, १^o.
 रयि-धारण-पिण्ड^p - ण्डान् कौस्
 २८, ३.
 रयिन्-> ररयिन्-तम- -म:
 शाश्रौ १०, ६, १४; १८, १८, ९;
 शांग ६, ४, ४.

ररयि-पति- -तये आपश्रौ ६, १३,
 २; हिश्रौ ३, ७, १०५; -०त्तेप
 बौश्रौ १४, ८: १५; हिश्रौ १०,
 ४, २५.
 रयि-मत्- -ररमते शाश्रौ २, १०, १;
 काश्रौ ४, १४, २२; वैताश्रौ;
 -मन्त: वृदे ४, ७२; -मन्तम्
 माश्रौ १, २, ६, ४¹; -मन्तौ
 बौश्रौ २०, १८: १४; २८, ३: १६;
 माश्रौ ५, १, ३, १८; ५, ४; ३१;
 १०, ११; -ररमान् आश्रौ २, ५,
 १२; शाश्रौ २, १५, ४; बौश्रौ.
 ररयिमती- -त्यै आपश्रौ २०,
 ४, ३; बौश्रौ १५, ५: २२; हिश्रौ
 १४, १, ३८.
 ररयि-वत्- -०व: शाश्रौ¹ १०, ६,
 १४; १८, १८, ९; शांग ६, ४,
 ४¹; ऋअ २, ६, ४४¹; ३, २५.
 ररयि-वृष्- -वृष: आश्रौ ३, ८,
 १; ८, १०, १; आपश्रौ १९,
 १६, ५; वैश्रौ.
 ररयि-(ष्ठ >)ष्ठा^b - -ष्ठा आपश्रौ
 १९, १७, ११; बौश्रौ १४, १५:
 १३; हिश्रौ २२, १, २२; -ष्ठा
 आश्रौ ३, १०, १६; आपश्रौ
 ९, १०, १५; बौश्रौ.
 रयि-स्थान^b - -न: ऋप्रा ५, २९¹.
 √रयीय > रयीयत्^b -यन् ऋप्रा
 ९, १४¹.
 रराका^a - (> राराक्य- | > राराक-|
 पा.) पाग ४, १, १०५; २, १११.

a) = द्वीप-विशेष-। MW. रामणीयक- इति शोधः। b) वैप १ द्र.। c) पाभे. वैप १, २६३९ ० द्र.।
 d) = रात्रि-। e) सपा. रम्या <> राम्या इति पाभे.। f) = ऋषि-विशेष-। बस.। g) कस. > बस.।
 h) परस्परं पाभे.। i) = रयि-?। j) पाभे. वैप १, २६३५ j द्र.। k) = उदक-। l) पाभे. वैप १, १२३१ k
 द्र.। m) पाभे. वैप १ रयिम् ऋ १०, ८५, ४१ टि. द्र.। n) पाभे. वैप २, ३खं. धनम् तैत्रा ३, ३, ११, २
 टि. द्र.। o) पाभे. वैप १ राये मा १३, ३५ टि. द्र.। p) = मृलोष्ठ- (तु. दारित्तः BW. प्रमृ.)। मदनफल्-
 इति केशवः?। q) पाभे. वैप १, १५८८ h द्र.। r) पाभे. वैप १, २६१२ e द्र.। s) तु. पागम.।
 अरराका- इत्यन्यः (तु. पागम.), अवरक- इति पासि., अररक- इति साण्डा. प्रमृ.।

रराट^३-^३कृत्स् काश्रौ ८, ४, १५;
 आपश्रौ; -टात् पागु ३, ६, २;
 -टानि आपश्रौ १८, ३, २; वाश्रौ
 ३, १, १, २७; हिश्रौ १३, १,
 २८; -टे हिश्रौ ७, २, ७८.
 रराटी^०-टी आश्रौ ४, ९, ४;
 हिश्रौ ७, ५, २५; -टीम् आश्रौ ४,
 १३, ४; आपश्रौ; -ट्याः आपश्रौ
 ११, ८, ४; हिश्रौ ७, ५, २६;
 -ट्याम् आपश्रौ ११, ८, १.
 रराट्या(टी-आ)लम्भन-
 नम् काश्रौ ९, ३, १६.
 रराट्य, ट्या^०-^३कृत्स्या आपमं २,
 २२, १; पागु ३, १३, ५; हिगु १,
 १५, ३; -ट्याम् काश्रौ ८, ३, २३;
 ४, १५; द्राश्रौ ३, १, ९; लाश्रौ १,
 ९, ९; -ट्येषु बौश्रौ २६, ११, ५.
 रराण-, ररिवस्- ✓रु द्र.
 ✓रफ्^३ पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
 र-ल-, र-लोप- १र- द्र.
 रव-, रवण-, रवत- ✓रु द्र.
 रवत्प्रतिषेध- १र- द्र.
 रवथ- प्रसृ. ✓रु द्र.
 ?रवन्ति^० या १४, ३१.
 रवमाण- प्रसृ. ✓रु द्र.
 रवि^३-विः सु ३, ५; कप्र १, ९, २;
 वाध ११, २२; वेज्यो २२; -विम्
 आश्रिगु २, ४, ११; १४; अप
 ५३, १, १; बौध ४, ८, ३; -वेः
 अप ५२, ९, ३; ५३, १, २; ६५,
 २, ११; वृदे ३, १०; १७; -वौ
 कप्र १, ९, ४; वाध २७, १८;
 बौध ४, ५, ३१.

रवि-कल्प^३-ल्पम् आश्रिगु २, ४,
 ११:१.
 रवि-वर्ष^३-वर्षेण वैगु ३, २१:७.
 रवि-संक्रम-हीन- -नः कागुउ
 ४३: १७.
 रवि-सोम^३-समयोः अप ६४, ४, ५;
 ७, ३; -सौ अप ६४, ७, ४.
 रवितृ- ✓रु द्र.
 र-विधान- प्रसृ. १र- द्र.
 ✓रश(बधा.)>रश(न>)ना^३- पाउ
 २, ७५; -नया आश्रौ ९, ५, २१;
 शाश्रौ ५, १९, २०१; आपश्रौ ७,
 ११, ५; १५, ९, ५; बौश्रौ; -नयोः
 बौश्रौ १७, २८: ३; -ना काश्रौ
 ६, ३, १३; आपश्रौ २०, २,
 ७; बौश्रौ; -नाः शाश्रौ १६,
 १८, १०; काश्रौ ८, ८, १६;
 आपश्रौ; लाश्रौ ८, ११, २३^१;
 अप ४८, ८२^१; निघ २,
 २५^१; -नानाम् आपश्रौ १४,
 ७, ५; हिश्रौ ९, ८, ३७; १३, १,
 २४^१; -नाभिः या ३, १४^१;
 -नाभ्याम् आपश्रौ १४, ५, १२;
 ६, १२; बौश्रौ; -नाम् काश्रौ ९,
 ८, १; २०, १, ७; २५; आपश्रौ;
 -नायाः आपश्रौ १९, १६, १५;
 भाश्रौ ७, ८, ६; वाधुश्रौ ४, ६३:
 ५, ८; वाश्रौ; -नायाम् आश्रौ ८,
 १५; अप्राय ३, २; -नासु बौश्रौ
 १७, १२:७; -ने काश्रौ ८, ७, ५;
 आपश्रौ ७, ८, ३; ११, २; काठश्रौ.
 रशन-गुण- -णे वाश्रौ १, ६, ३,
 २५^१.

रशन-संसि(त>)ता- -ताम्
 आपश्रौ १४, ६, १०; बौश्रौ १७,
 १२: ६; हिश्रौ ९, ८, १७.
 रशना-काल- -लान् बौश्रौ २०,
 २५: १०; -ले आपश्रौ १८, १,
 १२; हिश्रौ १३, १, ९.
 रशना-कृत^३- -तः कौसू १२७,
 ५^१.
 रशना-गुण- -णे^३ आपश्रौ ७,
 ११, ९; भाश्रौ ७, ९, ६.
 रशना(ना-अ)प्र- -ग्रम् वाश्रौ १,
 ६, ३, २१.
 रशना(ना-अ)दान(न-अ)दि-
 -दि काश्रौ २०, ३, २१.
 रशना-देश- -शे आपश्रौ ७,
 १०, ४; वैश्रौ १०, ८: १४;
 हिश्रौ ४, २, ४९.
 रशना(ना-अ)न्त- -न्तेन हिश्रौ
 ४, ३, १७.
 रशना-परिचयाण- -णे वैश्रौ १७,
 ८: १.
 रशना-पृथक्त्व- -त्वात् शाश्रौ
 ६, ९, ४.
 रशना-स्थान- -ने वाश्रौ ३, १,
 १, ९.
 रशना-हस्त^३- -स्तः बौश्रौ ७,
 ९: १.
 रशनो(ना-उ)दसन- -नम् वैश्रौ
 १७, १०: १०.
 रशिम^३- पाउ ४, ४६; -श्मयः
 ऋआपश्रौ १०, १, १४; ३, १;
 १६, ११, १२; १२, १; बौश्रौ;
 -ऋश्मये आपश्रौ १५, १०, २;

a) वैप १ द्र.। b) = ([पूर्वद्वारस्थूणयोर्बद्धा-] ऐषीकी-) रज्जु-। c) विप., नाप. (रराटी-)। स्वार्थाविधे
 यत् प्र.। d) तु. BPG.। e) RN. द्रवन्ति इति. शिवसं. भडकमकरश्च द्रवम् इति ?। f) = सूर्य-।
 व्यु. ?। g) = कर्म-विशेष-। h) उप. = संवत्सर-। i) उप. = चन्द्र-। j) रसनाः इति पाठः ? यनि. शोः
 (तु. MW.)। k) = अङ्गुलि-। t) रशनाम् इति पाठः ? यनि. क्रोधः (तु. पूर्व स्थलम्, आपश्रौ. च)। m) सपा.
 नगु^०<>नागु^० इति पाठे.। n) बस..।

बौश्रौ ९, ९ : २६; भाश्रौ ११,
९, १८; -रश्मिः शाश्रौ^a ४, १२,
१०; १७, १३, १०; आपश्रौ १४,
१०, १^b; १७, ३, ५^b; काश्रौ;
बौश्रौ १०, ४५: ८^b; १४, २०: ७^b;
माश्रौ २, ५, २, २६^a; वैश्रौ १७,
६ : ६^b; हिश्रौ १०, ८, ४६^b; १२,
१, ३२; द्राश्रौ १५, ३, १^b; लाश्रौ
५, ११, १^b; वैताश्रौ १७, ४^b; बृदे
३, १७; चाश्र १७ : ५^b; ङ्या
२, ६; १४^c; १५^c; -रश्मिना
काश्रौ ११, १, २१; १७, ११, ९;
आपश्रौ १६, ११, १२; माश्रौ^b
५, २, १६, १४; ६, २, २, ३;
वाश्रौ १, १, ६, ५^b; २, २,
१, २२^b; वैश्रौ १८, १० : ६;
हिश्रौ ११, ४, १२; शुश्र २,
२१२; -रिमभिः आश्रौ ६,
१४, १८; आपश्रौ; बौश्रौ १४,
१२ : १२; २१, ३ : १२; ८ :
२३; भाश्रौ; -रश्मिभ्यः बौश्रौ
९, १२ : ७; भाश्रौ ११, १२, २;
माश्रौ ४, ३, ३९; वैश्रौ १३,
१० : १७; १४ : १३; हिश्रौ
२४, ३, ७; -रिमम् आश्रौ २,
१३, ७^c; -रिमषु आपश्रौ ५,
१०, ८; माश्रौ १, ७, ५, ३१;
५, १, ६, ६; वाश्रौ; -रमी द्राश्रौ
१, २, २५; लाश्रौ १, २, १९;
-रश्मीन् आश्रौ ३, १०, १६;
आपश्रौ ९, १०, १७; २२, २८,

२१^c; बौश्रौ; -रमीनाम्
आपश्रौ १२, २१, २; ११; १३,
१६, ८^a; बौश्रौ ३, २१ : ६^aफ;
७, ५ : ४४^a; ६ : ३०^a; १८,
२३ : ४; ऋश्रौ १५, १२७ :
७^a; १६, २० : ६; ऋश्रौ^a
१०, ४, २२; ५, १२; अप;
-रमैः साश्र १, १४७; -रमौ
पा ३, ३, ५३.
रश्मि-नामन्-मानि निघ १,
५; या २, १५.
रश्मि-पवि(त्र >)त्रा-त्राभिः
आपश्रौ ४, ४, ४; बौश्रौ २, १ :
४; भाश्रौ ४, ५, ५; हिश्रौ १,
४, ५०.
रश्मि-पोषम् या १२, १६.
रश्मि-भेद-वे अप ५३, ६, २.
रश्मि-वत्-वन्तः या १२, ३२;
-वान् अप ५१, २, ५.
रश्मि, रमी^cवती^d-त्तीः^e
आपश्रौ १६, ११, १२; वाश्रौ २,
१, २, ३१; -त्तीभिः वैश्रौ १८,
१० : ७^e; -त्तीम् शुश्र ३, ९७.
रश्मि-संसर्जन-नम् अप ५१,
२, ३.
रश्मि-संगम-मे अप ५१, २, ४.
र-श-र-प- १२-द्र.
√रस्(बधा.)^f पाधा. भ्वा. पर. शब्दे;
चुरा. उभ. आस्वादनस्नेहनयोः;
रसति निघ ३, १४^gफ.
रसत्-रसिः अप ६३, २, ३; ६४,

७, ५.
रसन-नम् अप ६४, ६, ४; ९, ५.
रस्^d-पाग २, ४, ३१^a; ५, २, ९५;
-सः शाश्रौ ७, १५, ८^फ; १५, १,
३६; काश्रौ १५, ६, २४; २५, ११,
२२; आपश्रौ; द्राश्रौ ७, ३, १^g;
लाश्रौ ३, ३, १^g; निस् १, ५ :
१९^फ; ऋश्र ४८, ७५^फ; ८८;
१०२; ऋनिघ १, १२^फ; २, ७;
-सम् शाश्रौ १५, १, ३७; आपश्रौ;
गोश्र ४, १, ८^म; कौस् २१, १७^म;
-सस्य आपश्रौ १०, १३, ११^फ;
बौश्रौ २८, ९ : १०^फ; वैश्रौ २१,
१ : ७^फ; वैताश्रौ १२, ९^फ; माश्र
२, ४, १०; विघ ६, १४^फ; बृदे
२, १९; -साः बौश्रौ २, ११ :
१; वैश्रौ १, ४ : ११^फ; हिश्रौ;
कौस् ८, १९; वाघ ६, ३१^फ; ऋश्र
१८, ५९; -रसात् आपश्रौ १६,
२९, २; वैश्रौ १८, २० : २७;
हिश्रौ ११, ८, ४; या १४, ६^फ;
-सात् बौश्रौ १८, ८ : ३; निस्
४, २ : ३४; पाश्र १, १९, ५^फ;
कौस्; हिघ १, ५, ४७^फ; -सानाश्र
हिश्रौ १२, ६, ६^फ; अप ७०, ६,
१; ७१, १, ५; शंघ १७^फ;
आपश्र १, १७, १५^फ; २०,
१५; हिघ; -सानि या ११,
२५^फ; -रसाय आपश्रौ २, ७,
७; शाश्रौ ४, ५, १; आपश्रौ;
-रसे काश्रौ २५, ८, ५; माश्रौ ४,

a) परस्परं पाभे. b) परस्परं पाभे. c) शुश्र. पाठः। d) वैप १ द्र.। e) पाभे. पृ १८८३ क
द्र.। f) या ६, २१; ९, ११; ११, २५ परामृष्टः द्र.। g) धा. अर्चने वृत्तिः। h) तु. पागम.। i) पाभे.
वैप १, ११२३ द्र.। j) = छन्दो-विशेष-। k) = उदक-। l) = अन्न-। m) = मांस-यूष-। n) अर्थः!।
o) = तरल-पदार्थ-। p) = [शरीरस्थ-] धातु-विशेष-। q) = [मधुरादि-] षड्-रस-। r) परस्परं पाभे.।
s) णि तानि इति पाठः? ण्वितानि इति समरतैकपदः शोधः। अस्मिन् कल्पे 'वर्थ रसाया [= यानि
(रसमयानि) वैतु. पपा. ष्याः इति]। पयांसि अतरः' इति मन्त्रस्य वा. (तु. [अर्थतः] दुः; वैतु. अन्वये सर्वेऽन्य-थादशः!
तथाहि— लसं. शिवसं. पूर्वेणाऽसमस्तं कथं रसानि इति, स्क. BN. BNM. भडकमकरश्च तदेव समस्तमिति)।

१, १९^a; आसिग्य ३, ६, ३: २९;
 वीपि १, १२: ५; -सेन आश्रौ
 १, ३, २३^१; ऋशांश्रौ २, ८, १०;
 ८, ९, २; आपश्रौ; वाग्य २,
 १३, ८^b; या १४, ४^c; -सेभ्यः
 निस् ४, २: ३६; -सेषु कौसू
 १३९, १६; अप १, १२-१६,
 ४; १७-२०, ३; २३, ३; २४,
 ३; -सैः कौसू २१, २४; ६२,
 १८; ६६, ९; ६८, २३; अप;
 आपध २, ६, १४^d.
 रस-कर्मन्- -र्माणि कौसू २१, २२.
 रस-ज- -जानाम् विध ५०, ४९.
 रस-देवता->व(त्य)>त्या-
 -त्या शुभ्र १, ५५५.
 रस-धारण- -णम् या ७, ११.
 रस-पूर्ण- -र्णम् अप २०, ३, ४.
 रस-प्रतिषेध- -धः मीसू ९, ४, ३८.
 रस-प्राशन- -नात् वाश्रौ ३, २, २, ६.
 रस-प्राशनी^e- -नी कौसू २१, २, १;
 -न्या वैताश्रौ २१, २०; ३०, ६.
 रस-भोजन- -नम् मीसू १०, ६, २, ७.
 रस-मिश्र- -श्रम् कौसू ११, १४;
 २२, १; २३, १५.
 रस-वत्- पा ५, २, ९५; -वत् वैश्रौ
 ११, ११: १२; -वत्: कौसू २०,
 २३; -वत्ते बौश्रौ १३, ७: ४;
 हिश्रौ २२, २, १८; -वान् बौश्रौ
 १३, ७: ५.
 रस-वर्जम् शंघ ६२.
 रस-वाचित्व- -त्वात् पावा ४, ४,
 २४.
 रस-हरण- -णात् या २, २०; ३,

१६; ११, ५.
 ऋसा(स-अ)प्र-भुज्- -भुक् अप १,
 ३७, १; ३९, ३; अशां ७, १; ९, ३.
 रसा(स-आ)दान- -नम् अप ४८,
 १४५; वृदे २, ६; या ७, ११.
 रसा(स-आ)दि- -दयः वैगृ २, १८: ५.
 रसादि-धेचु^f- -न्तः अप ९, ३, ३.
 रसा(स-आ)देश- -शाः द्राश्रौ १, २,
 १४; लाश्रौ १, २, ८.
 रसा(स-आ)धारण- -णम् अप ४८,
 १४५.
 रसा(स-अ)नुप्रदान- -नम् या ७,
 १०; -नेन या १०, ३४.
 रसा(स-अ)न्यत्व- -त्वे अप ७०, ६,
 १.
 ऋरसिन्- -सिनः आश्रौ ३, ९, ५;
 ५, १५, २१; ७, १२, ७; शाश्रौ.
 ऋरसिनी- -नी आपश्रौ २२, १५,
 १३; हिश्रौ १७, ६, २६.
 रसो(स-उ)वृत्ति- -त्तिः अप ६४,
 ९, ८.
 रसो(स-उ)दक^g- -कम् शंघ ११६: ७.
 ररस^h- (>रासायनि- पा.) पाग ४,
 १, १५४.
 र-संधि- २२- द्र.
 रसाⁱ- -सा या ११, २५; -साम् वृदे
 ८, ३२; -सायाः या ११, २५^१ ६.
 रसा-तल^k- >ल-ग(त)>ता-
 -ता विध १, १२.
 रसातल-तल- -लम् विध १, ४५.
 रसातल-समुद्भव- -वान् अप
 ६४, १, ४.
 रसा-पार->र-निवासिन्- -सिनः

वृदे ८, २४.
 रसायु- पाउभो २, १, ४.
 रस्न- पाउ ३, १२.
 र-स्वरित- १२- द्र.
 ✓रह^l पाधा. भ्वा. पर., चुरा. उभ. त्यागे.
 रहस्^m- पाउ ४, २, १५ⁿ; पा ५, ४,
 ५१; पाग ३, १, १२; ४, ३, ५४;
 -हः सु ११, ६; अप १, ८, १०;
 -हसि वैगृ ३, १: ११; आपध
 १, ४, २५; २, २, ७, १८; हिध १,
 १, १४४; २, ५, २३७; या ४,
 १८.
 रहसि, शू^o शील- -लः आपध १,
 ३, १४; हिध १, १, ८७.
 रहस्य, स्या- पा ४, ३, ५४;
 -स्यम् कौगृ २, ७, १७^p; वाग्य
 २, ११, १३^q; आपध १५, ३;
 माग्य १, २३, २१^r; वाग्य ७,
 १७^s; वैगृ ३, १९: ८; गौध
 २, ४, १; -स्यानि द्राश्रौ १२,
 १, ३५^t; कप्र ३, ९, २^u;
 -स्यासु सात्र^v १, ५८९; २, १-९;
 -स्ये वाग्य ७, १८^w; वृदे ६,
 १२९^x; उनिस् ६: १^y; -स्येषु
 वाध ५, ४^z.
 रहस्य-प्रायश्चित्त- -त्तानि
 विध ५५, १.
 रहस्य-ब्राह्मण- -णम् निस् २,
 ४: २२; ३०; ४, १२: ३५;
 -णे निस् २, १२: १२; ५, २:
 १४; ५: ३४.
 रहस्य-मन्त्र-प्रयोग- -नो
 माश्रौ ४, ८, ४.

a) पाभे. वैप १ रसे मै ४, ९, १ ति. द्र. । b) =प्रयव- । c) =तन्मात्रान्यतम- । d) पाभे. पृ १८३९ d द्र. । e) =ऋच्- (शौ ५, २, ३) । उप. करणे ल्युट् प्र. । f) मलो. कस. । g) =समुद-विशेष- । h) =ऋषि-विशेष- । i) पृथिवी-, नदी- । j) वैप १ द्र. । k) =लोक-विशेष- । l) धा. अर्थः? । m) <✓रस् । n) आपध. पाठः । o) =उपनिषद्- । p) =ऋग्-विशेष- । q) =ऐतरेयारण्यक- । r) =सामवेदीय- । आरण्यक- । s) =प्रायश्चित्त-विशेष- ।

रहस्य-मर्षादावचन-व्युत्क्र-
मण-यज्ञपात्रप्रयोगा (ग-अ)भि-
व्यक्ति- -क्तिषु पा ८, १, १५.

रहस्य-विद्- -वित् बौध २,
८, ३.

रहस्ये(स्य-इ)ष्टि- -ष्टिः बौधौ
२८, १: ३३; -ष्टया बौधौ २८,
१: ३.

रहस्यो(स्य-उ)क्त- -क्तम्
वाध २५, २.

रहः-संयोग-कास्या- -म्यया
बुदे ४, ५७.

✓रहाय पा ३, १, १२.

रह-ह- १र-द्र.

२रह^१- (>राह्य-पा.) पाग ४, ३,
१२.

रहःक्षित^१- -तः वाधूश्रौ ४, १०८: ५.

रहूगण^०- पाग ४, १, १०५^d: २,
१११; -णः ऋअ २, ९, ३७;

-णानाम^० आश्रौ १२, ११, १.

१राहूगण^१- -णः ऋअ २, १, ७४;

बुदे २, ४६; शुअ १, १००: साअ;

-णाः बौधौ ११: २६.

राहूगण्य- पा ४, १, १०५; -ण्य

आश्रौ १२, ११, १.

२राहूगण- पा ४, २, १११.

रहोगण^d- (>राहोगण्य-
राहोगण-]).

✓रा (बधा.) पाधा. अदा. पर. दाने,

रारति अप ४८, १३; निघ

२, १४^d; ३, २०; रारिस्व, >

स्वा आश्रौ १, ७, ८; शाश्रौ;

काश्रौ ७, ५, २; शुअ १, २६४^१;

शुप्रा ४, १४७^१.

ररते ऋपा ९, ४५^१; रिरीहि कप्र

२, ४, ११; अप ४८, १२^१;

निघ ३, १९^१; ररीध्वम् बौधौ

१३, ३९: १२^१; पावा ६, १,

४५.

रारिम >मा ऋपा ७, ५४;

८, ३५; शुप्रा ३, १२९; रारिसति

अप ४८, १३; निघ ३, २०;

रासत् या १२, १८^१क^१;

रासताम् अप १, ११, ४^१क^१;

रारिस्वन्ताम् आश्रौ १, ९, ५;

शाश्रौ; रासन् शाश्रौ १०, ७, ७^१क^१;

अरासत् शाश्रौ १५, २४, १^१क^१.

रारिगण, ण^१- -णः आपमं १,

४, १५; ११, १; आमिण्य;

या २, १२^१क^१; शुप्रा ३, १२९;

-णा वाश्रौ १, ४, ४, ४१; आपमं

२, ११, ११; आमिण्य २, १, ५:

१६; भाय १, ६: ७; कौस

१०६, ७.

रारिक्स्- -वान् या ४, २५^१क^१.

रारिस्व, ता- -तम् बौधौ ७, ४: १४;

-ताम् आपठ ३, ११.

रात्-हव्य^०- -व्यः आश्रौ २,

११, १२^१क^१; शाश्रौ ३, ६, २^१क^१;

ऋअ २, ५, ६५^m.

राति^०- पा ३, ३, ९६; पाग ४, १,

४५; -रारिस्व: आश्रौ ६, २, ६;

शाश्रौ; -तये भाय २, २४:

१२; -रारिस्व: काश्रौ १७, १२,

१५; आपश्रौ; अप्राय ६, ९ⁿ,

या १२, १७^१क^१; ३९^१क^१;

-तिना आपठ १२, १४^१;

-रारिस्व: आपमं १, ११, ४;

बौय १, ९, ३; -तिस्व अप १,

३२, ७; -ते: बौधौ १७, ४०:

१८; -रारिस्व: शाश्रौ १, ६, ३;

आपश्रौ २४, १२, ६.

राती- पा ४, १, ४५.

राति-कुल- -लेषु आमिण्य १,

१, ४: १८; हिण्य १, ७, १४.

राति-षा (<सा)च्^०- -षाच:

शाश्रौ ८, २१, १^१क^१.

राका^०- पाठ ३, ४०; -का बौधौ

२४, २०: १०; ११; निस्व;

या ११, २९^२; ३०^१क^१; -काम्

रारिस्व १, १०, ६; ७; ५, २०,

६; शाश्रौ; या ११, ३१^१क^१;

-कायाः शाश्रौ ८, ७, १४;

१४, ५७, ९; आपश्रौ; -कायाम्

अप १, ७, १; -रारिस्व: बौधौ

८, २२: ७; १२, ४: २०;

भाश्रौ; -रारिस्व: शाश्रौ १, १५,

४; हिश्रौ.

राका-सिनीवाली- -लीभ्याम्

शाश्रौ ९, २८, २; -ल्यो: ऋअ

२, २, ३२; बुदे ४, ८७; -ल्यौ

शाश्रौ १, १५, ३; हिश्रौ २, ५,

१०.

राक्ति- १रक्त-द्र.

राक्य- रक-द्र.

राक्षस्- प्रश्न. ✓रक्ष्.द्र.

?राक्षे(?)ति वैशिशि २१३.

राक्षोघ्न-, °प्राभ्ये-, °घ्नी-

✓रक्ष्.द्र.

a) भोजः यनि. इति. वामनः वह- इति च (तु. पागम.)। b) व्यप.। c) वैप १ द्र.। d) राहोगण-
इत्यन्यः (तु. पागम.)। e) बहु. < राहूगण्य-। f) अपत्ये अण प्र. (तु. सा. P.W. प्रश्न.)। g) रहू^१
वा. रहो^१ वेति केचन मूको.। h) धा. गतौ वृत्तिः। i) वैप १ रास्व मा ४, १६ टि. द्र.। j) धा.
याच्चायां वृत्तिः। k) वैप १-निर्दिष्टानां समावेशः द्र.। l) पाभे. वैप १, २५५६ द्र.। m) =ऋषि-विशेष-।
n) °त्रिः इति पाठः? यनि. शोषः (तु. ऋ १, ११७, १)। o) वैतु. सुदर्शनाचार्यः <✓रम् इति।

√राख् पाधा. भ्वा. पर. शोषणा-
लमर्थयोः

?राखन्दी^१ - न्द्यौ बौश्रौ १६, २३ः
७^१.

?राखाटी^२ - न्द्यौ आपश्रौ २१, २०,
३; हिश्रौ १६, ६, ४१^३.

१-३राग- √रज् द्र.

रागक्षति^४ - पा, पाग २, ४, ५९.

राग-दोष- प्रभृ. √रज् द्र.

?रागायान्यै^५ आमिष्ठ १, ३, ५ः ६.

रागित-, °गिन्-, °गी- √रज् द्र.

√राख् पाधा. भ्वा. उभ. सामर्थ्ये.

†राघटी^६ - टी वाश्रौ ३, २, ५, ४३;
वैताश्रौ ३४, ९^६.

राङ्कव- प्रभृ. रङ्कु- द्र.

राचित-, °तायन- रचित- द्र.

√राज् (बधा.)^१ पाधा. भ्वा. उभ.

दीप्तौ, राजते काश्रौसं २६ः २;

कौशि ६६; नाशि २, ८, ११;

राजति †आश्रौ ८, २, २१^{१६}; ९, ५,

५; श्रप ११, २, ५; ४८, २१^१;

निघ २, २१^१; पाशि २६; माशि

१५, ५; राजसि ऋश्र ३, ११^१.

राज्^२ - राजि^३ लाश्रौ ९, ४, १;

वैताश्रौ ३९, १२; राट् काश्रौ १७,

९, १४^१; २२, १०, ७^१; †आपश्रौ

१७, २, ५^१; १८, ५, २०; १९,

२४, २; २२, १०, २०^१; २३,

२२; २८, २; बौश्रौ; हिश्रौ १७,

४, ३९^१; निस् १, ५ः १८^१; या

१२, ४६^१; ऋप्रा १७, ५^१.

राङ्-विराज्^१ - राजोः आश्रौ ९,
८, २१.

राजत् - जन्तम् बौश्रौ ३, ८; २०^१.

राजन्^२ - पाउ १, १५६; पाग ४,

२, १३८^३; ३, ११८^३; ५, १,

१२४; १२८; ४, ३८; -†०जन्

आश्रौ ३, ६, २४; शाश्रौ; आपश्रौ

८, ७, २५; बौश्रौ ८, १९ः १४;

१३, ३२ः १७^३; १८, ९ः ३१^३;

वैश्रौ १६, २४ः १०; हिश्रौ

९, ५, २१; लाश्रौ ७, १२,

५^३; कौश्र १, १९, १०^३;

बौध २, १, १६^१; †वृदे ३,

१४५; ५, ५५; ८, ५; या ४,

७; ६, ६; १०, ४०; -जनि

आश्रौ ४, ४, ५; ६, ८, १; शाश्रौ;

पावा ४, १, १६६; ८, २ ७०;

-जभिः शाश्रौ १६, १, २५;

आपश्रौ २०, ६, १३^१; हिश्रौ १४,

२, १६^१; वाध १९, ४५; -जन्म्यः

या १२, ३६^१; -†जसु बौश्रौ

१७, ४१ः २२; आपमं; विध

५, १९१; ऋश्र २, ८, १०१; -जा

†आश्रौ १, १०, ५४४; शाश्रौ ३,

१४, २०^१××; ५, ८, ४^१; काश्रौ;

आपश्रौ १८, १९, ५^१; बौश्रौ १२,

१५ः १५; हिश्रौ १३, ६, ३०;

या २, ३^१; पा ६, २, ६३; -जानः

बौश्रौ १८, १८ः ७××; वाधूश्रौ;

†०जानः आपश्रौ २०, ३, १;

बौश्रौ; -जानम् आश्रौ ३, ९,

५^१××; शाश्रौ; काश्रौ ७, २, १;

२५, १३, ३०; आपश्रौ १०, २,

९; ३, ७××; काठश्रौ १४६;

काश्रौसं २७ः १३; २९ः २४;

बौश्रौ ६, १ः १८; १४ः ४××;

माश्रौ १०, १३, ९; १०××; माश्रौ

२, १, ३, ४८; ५२××; वाधूश्रौ २,

२२ः ३; ३, ७१ः ४××; वाश्रौ

३, २, १, २५; ३, ४, १३; वैश्रौ

१२, १ः १२; ३; ५××; हिश्रौ ७,

१, ७२; २, ३६××; जैश्रौ ३ः

८; ९ः १७××; दाश्रौ ३, १,

१०; २, ३०××; लाश्रौ १, ९,

११; १०, २१; वैताश्रौ १३,

१२; १५, १६××; सु १७, ४;

-जाना या ११, २३^१; -जानौ

ऋश्र २, ५, २७; ९, ११०; वृदे;

-†०जानौ आश्रौ ६, १, २; ८,

२, १६; शाश्रौ ९, २, ५; १२,

१०, ५; -ज्ञः आश्रौ २, ९, ६; ३,

६, २४^१; शाश्रौ; काश्रौ २०, १,

१^१; वैताश्रौ १५, ३^१; हिघ १,

५, ९६^१; या २, ३; ९, १०; ११,

१२^१; पावा ४, १, १; १३७;

-ज्ञा आश्रौ ५, १९, ५^१; शाश्रौ;

-ज्ञाम् आश्रौ १, ३, ४; १२, १५,

४; वाधूश्रौ; आपध १, १८,

२८^१; -ज्ञि गौध १६, ३२;

ऋश्र २, १०, ३३; वृदे ७,

३५; -ज्ञे आश्रौ ९, ३, ९; १०,

६, १०; शाश्रौ १५, १४, ४; २२,

a) परस्परं पाभे. । b) रागान्धौ इति सूको. । c) तु. पाका. । व्यर. । d) पाठः ?

(तु. पृ ८६२ d टि. सपा. पाय २, ६, २३ कामायेन्द्रियाय इति पाभे.) । e) शोषः पृ २०१७ k द्र. ।

f) या २, ३; १२, ४६ शौच २, ३६ पा ३, २, ६१; ६, ४, १२५; ८, २, ३६ परामृष्टः द्र. । g) पाभे.

वैप १ राजति मा ३६, ८ टि. द्र. । h) वैप १ द्र. । i) शेषं टि. द्र. । j) = एकाह-विशेष- ।

k) = ठन्द्वा-विशेष- । l) (एकाहयोः) द्वस. । m) तु. पागम. ।) पाभे. वैप १, २४९० g द्र. । o) = गीति-

विकार- (< ऋ ९, ११, ३) । p) पाभे. वैप १, ८१२ k द्र. । q) राज्यज्ञः इति चौसं. ।

r) परस्परं पाभे. ।

१; आपश्रौ; वैताश्रौ १६, ११^a.
 राज्ञी-०ञि वृदे ४, २; -ञी
 काश्रौ १७, ९, २; १२, १; आपश्रौ.
 राज-ऋषि- -षीन् आश्रिण् २,
 ६, ३; ३६^क.
 राजक- पा ४, २, ३९.
 राज-कर्मन्- -र्मणि विध २२,
 ४८; -र्मणि अप ४, २, १; १७,
 १, १; १८^३, १९, १.
 राजकर्म-सर्वस्वरीय^b- -यम्
 अप १८^२, २०, १.
 राजकर्म(र्म-आ)भिचारिक-
 -केषु कौस् ३, १५.
 राज-किल्बिष- -षम् बौध ३, ६,
 ८.
 राजकीय- पा ४, २, १४०.
 राजकीय-क- -कः अप ६७,
 १, ४.
 राज-कुमार- पा ६, २, ५९.
 राज-कुल- -लम् विध ३, ४८;
 -लात् आपध २, ४, २०; -ले
 बौगृ ४, ३, ९.
 राजकुल-रक्षण- -णम् शंघ
 २५१.
 राज-कृत्वन्- पा ३, २, ९५.
 राज-कोश- -शः अप १९, १, १३.
 राज-कतु- -तुः शंघ २५३.
 १ राज-ऋय- -यः आश्रौ ४, २,
 १८; -ये लाश्रौ ९, ९, ५.
 २ राज-ऋय^c- > ष्या(य-आ)घ-
 (दि-अ)हः-संख्यान^d- -नेन
 आश्रौ ४, ८, १३.
 राज-ऋय(रा >)णी^e- -णी

माश्रौ २, १, ३, ३०; वाश्रौ ३, १, १,
 २; २, १, २६; -णीम् माश्रौ २, १,
 ३, ३३; ३५; ५०; -ण्या माश्रौ
 २, १, ३, ४७; -ण्याः द्राश्रौ १४,
 १, १०; लाश्रौ ५, ५, ७.
 राजऋयणी-पदा(द-अ)र्ध-
 -धेन माश्रौ २, २, २, १५.
 राज-ऋय- -धात् गौध १४,
 १०.
 राज-क्षप(रा >)णी^f- -णीम्
 आश्रिण् ३, ५, ५; ७^g.
 राज-ग(व >)वी- -वी आश्रिण्
 ३, ५, ३:८; बौपि १, ३:७; -वीम्
 कौय ५, २, ३; ८, १२; आश्रिण्
 ३, ५, ६:१; बौपि १, ४: १७;
 हिपि २:८; ४:३; ९; -व्या
 हिपि १२:१०.
 राजगवी-क्षीर- -रे पावा
 २, १, १.
 राज-गामिन्- -मि शंघ ३००;
 बौध १, १०, ३२; विध १७, १३;
 ३७, २; गौध २१, १०; -मिषु
 अप ७०^३, २३, १३; -मीनि
 वाध १६, १९; शंघ ३०१.
 राज-गुरु-माता-पितृ- -तृन् वैध
 ३, ३, ६.
 राज-गृह- पाग ४, २, १२७;
 -हाः^h बौश्रौ १५, ३:३; १८,
 १८:७; -हान्^h बौश्रौ १८,
 १८:१५; -हे बौश्रौ २, ५: २^क.
 राजगृहक- पा ४, २, १२७.
 राज-घ- पावा ३, २, ५५.
 राज-घातक- -कम् गौध २०, १.

राज-छत्र- -त्रे अप ७२, २, ६.
 राज-जन-संपत्- -कृत्- -कृत्
 अप २५, २, ३.
 राज-जाति- > षीय-त्व-
 -त्वात् निसू ६, २: १९.
 राज-तस् (:) अप ६३, ३, ५.
 राज-ङण्ड- -ण्डः अप ७१, १३,
 २; शंघ ३९२.
 राज-दन्त- पाग २, २, ३१.
 राज-दर्वि- -र्वीणाम् अप ६४,
 ५, १.
 राज-दुहितृ- पावा ६, ३, ६९;
 -तरः काश्रौ २०, १, १३.
 राज-द्रोह-साहसⁱ- -सेषु विध
 ९, २; २२.
 राज-द्वार- -रे अप ७०^३, ६, १.
 राजद्वार-कृत- -तम् विध
 ४८, २२.
 राजद्वारिक- -कम् आज्यो
 ५, ६.
 राज-द्विज-वृष- -षात् अप ६८,
 २, ४८.
 राज-घन- -नम् गौध १०, ४२.
 राज-धर्म- -र्माः विध ३, १.
 राज-धानी- -नीषु अप ७१, १८,
 ५.
 १ राजन- पा ५, ४, ३८.
 २ राजन^j- -नम् शाश्रौ १६, १४,
 ७; ८; जैश्रौ २३: ९; जैश्रौका
 ५५; द्राश्रौ १०, ४, ८^क; लाश्रौ
 ३, १२, ७^क; -ने लाश्रौ ७, ६,
 २०; निसू ३, १२: १०; ऋत्
 ३, ७, ३.

a) पाठः? राशि इति श्लेषः (तु. प्रकरणम्, C., सा [शौ २, ५, १]) । b) = परिशिष्ट-विशेष- । षसं.
 उप. भवार्थे छप प्र. उंसं. (पावा ४, २, १३८) । c) बस. । d) बस. > कस. > षस. । e) = [सोमऋयणी-]णे- ।
 f) = ओषधि-विशेष- । पूष. = राज-रोग- । g) सपा. बौपि १, ४: ७ राजवृक्षपणीम् इति पाठे. । h) अर्थः ?
 = राजद्वार- इति शब्दसूची ? । i) षस. > द्वस. । j) = साम-विशेष- । < ऋ ७, २७, १-३ (तु. सा
 [प्रा २, ३, ४]) ।

राजन-रौहिण^१- ण वाघ
२२, ९; बौध ३, १०, ११; गौध
१९, १३.

राजन-रौहिणक^२- के द्राश्रौ
२, २, ३९; लाश्रौ १, ६, ३५.

राज-नक्षत्र- -त्रम् अप १, १०, ५.

राज-नन्दन- -नः अप ६९, ४, ४.

राजन्य-न्या^३- पाठ ३, १००^०;

पा ४, १, १३७; पाग ४, २, ५३;

फि ७६; -न्यः आश्रौ २, १, ३;

शाश्रौ २, ६, ५; काश्रौ १४, ३,

२०; १५, ५, ३०; १६, १, १७;

२०, २, ८; २२, १, २९; आपश्रौ;

-न्यम् आपश्रौ १२, २४, ५;

१७, १९, ६; ८; बौश्रौ;

-न्यस्य आश्रौ ४, १५, ५;

शाश्रौ २, ३, ६; काश्रौ; -न्या

वाघ १७, ७८; शंघ ७२; -न्या:

शाश्रौ १६, १, १६; काश्रौ १५,

८, १९; बौश्रौ २६, १० : १५;

लाश्रौ ९, १, २२; -न्यानाम्

शाश्रौ १, ७, ३; काश्रौ २०, १,

१४; लाश्रौ ९, १०, ४; विघ

२४, २८; -न्याम् वाघ २०,

३८; -न्याय आपश्रौ २२,

२६, ५; बौश्रौ १२, ९ : ११;

१८, ९ : १०; निसू; -न्याया:

वाघ १७, ४९; -न्यायाम् वाघ

१८, २; ५; २१, ४; -न्ये

आपश्रौ १७, २६, १८; १९,

२७, २२; बौश्रौ ९, १३ : २२†;

हिश्रौ; -न्येन हिश्रौ १०, २,

३२; वाघ १८, ६.

राजन्यक- पा ४, २, ३९;

५३; पावा ४, २, ५२; ६, ४, १६३.

राजन्य-तस्(ः) वैघ ३, १३, ३.

राजन्य-न्व- -त्वात् अप ५२,
८, २.

राजन्य-पुरोहित- -तौ
काश्रौसं ३० : ८.

राजन्य-बन्धु^४- -न्धुः लाश्रौ
८, २, १०; -न्धुनि बौश्रौ २,

५ : १५†; -न्धोः माश्रौ ६,

१, २, २३; वाधूश्रौ ३, ४६ :

१२; वाश्रौ २, १, १, ४९.

राजन्य-बहुवचन-द्वन्द्व-
-न्द्वे पा ६, २, ३४.

राजन्य-वध- -धे गौध २२,
१३.

राजन्य-वैश्य- -श्ययोः
आश्रौ २, १७, ७; आपश्रौ १७,

१९, ९; वाघ २१, १७; -श्या-

भ्याम् शंघ १३५; -श्यौ आपश्रौ

४, ३, २; १०, ११, ६†; १२,

८; भाश्रौ.

राजन्यवैश्य-कर्मन्- -र्मा
गौध ६, १८.

राजन्य-व्रत- -तेन वैश्रौ १२,
१३ : १२.

राजन्य-हिंसा- -सायाम्
वाघ २०, ३७.

राजन्या(न्य-ञ्)त्रि-वध्रयश्च-
वसिष्ठ-वैश्य-शुनक- -कानाम्
माश्रौ ५, १, १, १७.

राजन्या-पुत्र- -त्रः गौध
२८, ३६.

राजन्या-वैश्या- -श्ययोः
वाघ २१, ५.

राजन्यावैश्या-पुत्र-
समवाय- -ये गौध २८, ३८.

राजन्यो(न्य-उ)च्छिष्टा (घ-
अ)शन- -ने विघ ५१, ५२.

राजन-वत्- पा ८, २, १४.

राज-पक्ष- -क्षः अप ६३, ४, ३.

राज-पति- -तिः काश्रौ ५
१३, १†.

राज-पत्नी- -त्नी आज्यो १३,
१०; -त्नीम् अप ५८^२, ४, ६;

६३, ४, १; -त्न्यः वाघ १९, ३३.

राज-पथ- पा^१, पाग ५, ३, १००.

राज-पीडा- -डा अप ६०, १, ४.

राज-पुत्र- पा ४, २, ३९; ६,

२, १३३; -०त्र शाश्रौ १५,

२५, १†; -त्रः आपश्रौ १२,

१६, ४; १८, ३, १४; ४, २;

७, ९; काठश्रौ; -त्रस्य चात्र

३८ : १२; -त्राः शाश्रौ १६,

१, १६†; †आपश्रौ २०, ५,

१३; २१, १९, १६; बौश्रौ;

-त्राणाम् कंबौश्रौ १५, १ : १७;

५ : १०; वाधूश्रौ ३, ७९ : २;

वाश्रौ ३, ४, १, १७; -त्रान् काश्रौ

२०, २, १७; वाधूश्रौ ३, ९२ :

५; शंघ ११६ : २८; -त्रैः

आपश्रौ २०, ४, १; हिश्रौ १४,

१, ३८; -त्रौ वृदे ७, १५५.

राजपुत्रक- पा ४, २, ३९.

राजपुत्र-सहस्र- -त्ताणाम्
अप ६२, २, ५.

राजपुत्रा(त्र-ञ्)पहार- -रे
शंघ ३२१.

राजपुत्रापहार-वत्
शंघ ३२२.

राज-पुत्री- पावा ६, ३, ६९;

-त्री लाश्रौ ९, १०, १; वृदे ५,

५४; -त्रीः आपश्रौ २०, १५;

८†; -त्रीभिः वाधूश्रौ ३, ९० :

२; -त्रीम् वृदे ५, ५४; -श्याः

a) साश्रौः द्वस. ।

b) वैघ १ द. ।

c) <√राज् ।

d) नाप. पुं. न. (क्षत्रिय-) ।

e) <राजपथ-क- ।

आश्रौ १०, ८, ११; १३.
 राज-पुमंस्- -मान् वाध १९,
 १३.
 राज-पुरुष- पाग ५, १, १२४;
 पागवा ७, ३, २०; -षः आश्रिपृ
 ३, ४, ४; १६; बौषि ३, ४, १६;
 गौषि १, ४, ४; या २, ३.
 राजपौरुष^०- षम् आज्यो
 २, ६.
 राजपौरुष्य- पा ५, १, १२४;
 पावा ७, ३, २०.
 राज-पुरोहित- -तयोः काश्रौ
 २२, ११, १५; -तौ आपश्रौ
 २२, १०, १९; १३, १०; हिश्रौ
 १७, ४, ३८; ५, ३१; लाश्रौ ९,
 ४, ३०.
 राजपुरोहितयोर-यज्ञ- -ज्ञः
 निसू ७, १० : ३१.
 राज-पूजित- -तम् अप १, ४३,
 १.
 राज-प्रथमा(म-अ)भिषेक- -के
 अप ३, १, १.
 राज-प्रभृति- -तिभ्यः काश्रौ
 १५, ७, १८.
 राज-प्रेषित- -तः पागृ ३, १५,
 २०.
 राज-बन्धव^०- -वैः^० भागृ २,
 १ : १५; हिगृ २, १६, ८.
 राज-बन्धवी- -वीः आपमं २,
 १७, २६^०.
 राज-बान्धव- -वैः^० कौगृ ४, ४,
 ९; शांगृ ४, १८, १; पागृ २,
 १४, ४.
 राज-बान्धवी- -वीः आगृ २,
 ३, ३^०; -व्यः मागृ २, ७, १^०.

राज-बाल-धन- -नानि वाध
 १६, ७.
 राज-ब्राह्मण- पा ६, २, ५९.
 राज-भङ्ग- -ङ्गम् अप ७०^३, २३,
 १२.
 राज-भव्य^०- -व्यः वाश्रौ ३, १,
 १, ४५.
 राज-भृत्- पाग ४, २, ७५;
 -भृतः वैश्रौ १९, ६ : १३१.
 राजभृत्- पा ४, २, ७५.
 राज-भृत्य- -त्यः अप ६८, २,
 ५५; शंघ २०१; हिघ २, ५,
 ४९.
 राज-भोग^०- > शीन- पावा ५,
 १, ९.
 राज-भ्रातृ- -ता काश्रौ १५, ७,
 १२.
 राज-महिषी- -ष्याः वाध १९,
 ३१.
 राजमहिषी-गामिन्- -मी
 शंघ ३७७:२१.
 राजमहिषी-भय- -यम् अप
 ७१, १७, ७.
 राज-मात्र- -त्रः शाश्रौ १७, ५,
 ४; १५, ३; -त्रम् शाश्रौ १७,
 ५, ३; -त्रस्य निसू ७, १०:१०.
 राज-मार्ग-रथ-परिवर्तन- -नम्
 शंघ ३१०.
 राज-माष^०- > ष-मसूर-पर्यु-
 षित-कृतलवण- -णानि विघ
 ७९, १८.
 राज-मुख- -खम् अप ३०^३, २,
 ८.
 राज-मृत्यु- -त्यवे अप ६४, १०,
 ४; ७०^३, १७, ४; ७०^३, ११,

१०; -त्युम् अप ५०, ३, २;
 ७, ४; ८, १.
 राजमृत्यु-कर- -रम् अप
 ७०^३, १४, १.
 राज-भैष्य^०- -व्यस्य आपश्रौ
 १३, २४, ८.
 राज-यक्षम^०- -क्षमः अश्र ११,
 ३(२); -क्षमे कौसू १३, १२.
 राजयक्षम-गृहीत- -तः माश्रौ
 ५, १, १०, १५.
 राजयक्षम-घ्न- -घ्नम् ऋअ
 २, १०, १६१.
 राजयक्षम-हन्- -हणम् वृदे
 ८, ६४.
 राज-यज्ञ- -ज्ञः काश्रौ २२, ११,
 १३; निसू ७, १० : १; १९; ८,
 ७ : १; -ज्ञाः बौश्रौ २४, ११;
 १; -ज्ञे निसू ७, ५ : ३९; ४१;
 ६ : १९; १३ : २; ८, ७ : ७;
 -ज्ञेषु निसू ६, २ : १७; ३ : ३;
 -ज्ञौ काश्रौ २२, १०, २९.
 राज-युध्वन्- पा ३, २, ९५.
 राज-रथ- -थः अप ७२, २, ८.
 राज-राष्ट्र-भय- -यम् अप
 ५८^३, ४, १.
 राजराष्ट्रभया(य-आ)वह, हा-
 -हः अप ६४, २, २; -हम् अप
 ६४, ३, १; -हाः अप ५८^३, ४,
 १०; १२; -हौ अप ६४, २, ५.
 राज(ज-ऋ)त्विक्-श्रोत्रिया-
 (य-अ)धर्मप्रतिषेधु(यि-उ)
 पाध्याय-पितृव्य-मातामह-
 मातुल-श्वशुर-ज्येष्ठभ्रातृ-संब-
 न्धिन्- -न्धिनः विघ ३२, १.
 राज(ज-ऋ)र्षि- -र्षयः अप १३,

a) भावे ङण प्र. । b) उप. = बान्धव- । c) सपा. °बन्धवैः <> °बन्धवीः <> °बान्धवीः <> °बान्धवैः <> °बान्धव्यः इति पठि. । d) = राज-भव्य- । e) षस. उप. = शरीर- (तु. पाका.) । f) माष-भेद- । राजदन्तादिषु उच्यते. । g) = युवराज- । व्यु. वैप १ धेनुं-भ्रम्या- टि. द्र. । h) वैप १ द्र. ।

५, ४; विध २०, २६; वृदे ४, ९८; -षिः वृदे ५, ५०; ७, २; -षिभिः काश्रौ २०, ३, २; ८; -र्षिणाम् चाश्र १५ : ६; ४१ : २५; -र्षीन् आश्रौ १, ३, ४; शंघ ११६ : ३१; बौध २, ५, २७; वृदे ३, ५४; ५, २९; -र्षेः वृदे ६, ५१; -र्षौ वृदे ७, १४७. राज-लक्षण-संपन्न- -ञाः बैगृ ६७ : ७. राज-वंश- > श-ग(त >) ता- -ता आज्यो १३, १०. राजवंश्य- -श्यानाम् अप ६१, १, १६. राज-वत् अशा २५, ५१; वैध ३, ११, ७. राज-वत् -वति आपध २, २९, ७; हिध २, ६, २०. राज-वध- -धः अप ६४, ८, ७. राज-वाहन- -नम् जैश्रौ ३ : ८; द्राश्रौ १, ३, १९; -नस्य जैश्रौ ३ : ४; -नात् जैश्रौका ४४; वैताश्रौ १३, १२; -हने जैश्रौका ४३. राज-वाहिन्- -ही अप १, ४५, ५. राज-विनिषिद्ध- -द्धम् विध ५, १३०. राज-विप्र-स्व- -स्वात् शंघ ३०९. राज-विश्व^b- -विशाम् आश्रौ १, ३, ३; बौश्रौ २४, २३ : १९०. राज-विशि(ष्ट >)ष्टा- -ष्टायाः पावा २, १, १. राज-वी(धि >)थी- -थी अप

५०, ४, २; -थीम् अप ५०, ६, ४. राज-वृक्ष-प(री >)णी^d- -र्षीम् बौवि १, ४ : ७०. राज-वृद्धि- -द्धिम् अप ६०, १, १. राज-वेद्मन्- -द्मनि अप ४, ५, ९; ७०^३, ६, ९; -श्मसु अप ७०^२, १३, ५. राज-शब्द- -ब्दम् लाश्रौ ३, १२, ९^f. राज-शासन-प्रतिषेध- -धे शंघ ३१६. राज-श्रोत्रिय-गो-ब्राह्मण-च्यसन- -ने विध ३०, २३. राज-श्रोत्रिय-प्रव्रजित-कितव- तस्कर-पराधीन-खो-बाल-साह- सिका(क-अ)तिवृद्ध-मत्तो (त-उ) न्मत्ता(त-अ) भिशस्त-पतित- क्षुत्तृष्णातै-न्यसनि-नागान्ध- -न्धाः विध ८, २. राज-संयोग- -गात् या ९, ११. राज-संवृत्- -वृताम् अप ६४, ८, ४. ऋराज-सनि- -नि वैगृ ५, ४ : २४. राज-सर्षप- -पः विध ४, ३; -पैः अप ३६, ८, ३. राज-साक्षिक^h- -कम् विध ७, २; ३. राज-सामन्^h- -म निस् ७, ५ : २०; -मसु निस् ७, ५ : ३३; -मानि निस् ७, ५ : १७. राज-सायक- -कः अप ५२, ५, २. राज-सूय, याⁱ- पा ३, १, ११४; पाग २, ४, ३१^j; -यः काश्रौ १५,

१, १; आश्रौ १८, २२, २०; बौश्रौ; -यम् शाश्रौ १५, १२, १; २०, १; आश्रौ २२, २५, १०; १५; बौश्रौ; -यस्य आश्रौ १०, २६, ८; भाश्रौ १०, १७, १५; -याः आश्रौ ९, ३, १; ४, १; वाश्रौ ३, ३, २, २८^k; चाश्र १५ : १^k; -यात् माश्रौ ५, २, ७, १; -याय बौश्रौ १२, ८ : ६^k; १६; ९ : ७; -ये शाश्रौ १५, २०, १; १६, १८, १; काश्रौ ७, ३, ३; आश्रौ; -येन आश्रौ ९, ९, १९; शाश्रौ १५, १२, १; आश्रौ; -येषु वैताश्रौ ४०, ४. राजसूय-नाण- -गाभ्याम् बौश्रौ १२, १० : ४. राजसूय-याजिन्- -जिनः काश्रौ १५, १०, २३; निस् ७, ५ : ३४. राजसूय-वत् आश्रौ १९, ९, १२; १०, २; हिश्रौ २३, १, ४९; ५२. राजसूय-विध^h- -धेन लाश्रौ ८, ११, ७. राजसूय-सोम- -मैः काश्रौ १४, १, ७. राजसूय-हविस्- -विभिः बौश्रौ २६, ३ : १९. राजसूया(य-अ)भिषिक्त- -क्तः बौश्रौ १८, २ : ९. राजसूया(य-अ)श्वमेध- -धाभ्याम् अप २३, १४, २. राजसूयिकⁱ- -कः बौश्रौ ९,

a) अथैतद्वाजवाहनम् इत्यस्य स्थाने लाश्रौ १, २, २३ दक्षिणमनद्ववाहम् इति पाठे. b) उप. = वैश्य-। c) पाठः ? ञा वि० इति शोभाः (तु. भवस्वामी संस्कृतुः टि. च)। d) = श्लोषधि-विशेष-। पस. > बस.। e) पाठे. पृ २०६६ ट्ट द्र.। f) सपा. द्राश्रौ १०, ४, १० राज्यशब्दम् इति पाठे.। g) बस.। h) = साम-विशेष-। i) वैष १ द्र.। j) तु. पागम.। k) विप. (२अप्-) पाठे. वैप १ राजत्वः मा १०, १ टि. द्र.। l) तस्येदमाथर्थे ङ्क प्र.।

१८:४; २५, १३: २४; -कात्
बौश्रौ २४, १०: १२; -कानि
हिश्रौ १३, ५, ३५; -केषु हिश्रौ
१३, ३, ६.

राजसूयिकी- क्रीभिः
काण्ड ४४, ३.

राजसूये(य-इ)ष्टि-पशुबन्ध-
-न्धानाम् हिश्रौ १३, ३, ९.

राज-सेवक- -कम् कप्र १, ६, ७;
-कान् विध ८२, २६.

राज-स्त्री-दर्शन- -नम् शंघ
१२.

राज-स्थली-(>°लक- पा.)

पाग ४, २, १२७.

राज-स्नातक- -क्योः वाध १३,
५९.

राज-स्व- -स्वम् वाध १६, १८.

राज-हंस-प्रतीकाश- -शम् अप
६८, १, ३४.

राजा(ज-आ)क्रोशक- -कः शंघ
३७७: २१.

राजा(ज-आ)चार्य- -यौ गौध
११, ३४.

राजा(ज-आ)ज्ञा-कारिन्-

-रिणाम् विध २२, ५२.

राजा(ज-आ)तङ्क- -ङ्कम् विध
१४, ४.

राजा(ज-आ)द्य(दि-अ)र्थ-

-र्थम् पावा २, १, ६८.

राजा(ज-आ)धिकरण- -णे विध
७, ३.

राजा(ज-आ)धिस्त- -ढः अप
७२, ३, ८.

राजा(ज-आ)धीन- -नेभ्यः आपध
२, २५, १४; हिध २, ५, १९४.

राजा(ज-आ)भय- -यम् अप ३५,
२, १०.

राजा(ज-अ)भिद्रोह- -हात् शंघ
२५५.

राजा(ज-अ)भिषेक- -कः आपश्रौ
२२, २८, २५; हिश्रौ २३, ४, ६६;

-के विध ९९, १६; -केण वाध
२, ४९.

राजा(ज-अ)मनुष्य-पू(र्ध>)
र्वा- -र्वा पा २, ४, २३.

राजा(ज-अ)र्थ- -र्थे वाध २०, २७.

राजा(ज-अ)र्षित- -तानाम् हिश्रौ
२, १, ५५.

राजा(ज-अ)शक्ति- -क्तेः विध
५, १७.

राजा(ज-आ)सन्दी- -न्दीम्
आपश्रौ १०, ३१, २; बौश्रौ

६, १०: ७; ८, १९: ३;
हिश्रौ २४, २, ४^३; -न्द्या बौश्रौ

२१, १२: २७; २८; -न्द्याः
काश्रौ २६, २, ३२; आपश्रौ १५,

५, ७; ६, १०; वैश्रौ १३, ८: ७;
भाश्रौ ११, ५, ८; ६, ८; हिश्रौ

२४, २, १०.

राजा(ज-अ)हः-सखि- -खिभ्यः
पा ५, ४, ९१.

राजा(ज-आ)हार^३- -रः अप्राय
६, ४.

राजे(ज-इ)क्ष्वाकु-प्रभृति- -तयः
अप १३, ५, ४.

राजो(ज-उ)पसेवा- -वया बौध
१, ५, ८४.

राजो(ज-उ)पसेविन्- -विनाम्
आज्यो ५, ६^१ b.

राज्य^१ पा ५, १, १२४; १२८;
-ज्यम् काश्रौ ५, १३, ११; आपश्रौ

१८, १२, ९^१; २२, १०, २०;
बौश्रौ; पा ६, २, १३०; -ज्यस्य

क्षुम् ३, १४: ८; -ज्यानाम् शाश्रौ

१५, १२, १^३; -ज्यानि शाश्रौ

१६, २, ३२; -ज्याय शाश्रौ १७,

१६, १^१; आपश्रौ ६, १४, ७^१;

२०, २, १२; बौश्रौ; -ज्ये भाण्ड
२, ५: १३^१; वृदे ८, २; या २,

१०; आज्यो ८, ४; -ज्येन वृदे
७, १५७; ८, ४; या २, १०.

राज्य-काम- -मः आश्रौ १०,
२, १०; अप ७२, ५, २; -मस्य

काश्रौ २२, १०, ७; २३, २, ९;
अशा १७, ३.

राज्यकाम-यज्ञ- -ज्ञः
निसू ७, ७: ४.

राज्य-क्षयं-कर- -रम् अप
७२, ६, ५.

राज्य-धी- -धीः अप २६,
५, १.

राज्य-नाश- -शो अप ६९,
४, १.

राज्य-भाज्- -भाक् विध
९०, २५.

राज्य-भ्रंश- -शम् अप ५३,
५, ४.

राज्य-यशस्-काम- -मस्य
काश्रौ ४, ११, २.

राज्य-योग्य- -यः अप ६९,
४, ४.

राज्य-वर्धन- -नम् अप २५,
२, २.

राज्य-वाब्द- -ब्दम् द्राश्रौ
१०, ४, १०^०.

राज्य-हर- -रम् अप ३०^०;
१, ७.

राज्या(ज्य-अ)भिषेक->
°क-गण- -गस्य अश्रमू ३.

राज्याभिषेक्य- -क्यम्
अश्र ४, ८.

a) वैप १. द. । b) राज्ञो इति पाठः इ यनि. शोधः । c) पाठे. पृ २०६९ f द. ।

राज्या(ज्य-अ)र्थ श्री-ब्रह्म-
वर्चस-काम- -मस्य अशां १७,
१.
राज्यो(ज्य-उ)पकरण- -गम्
अश्र ४,२२.
राज- -जम् शंघ ११६: ५६^a.
राज-अधि-, राजक- प्रमृ. √राज् द्र.
राजत-, ली- √रज् द्र.
राजन्-, १-२राजन- प्रमृ. √राज् द्र.
राजल^b- पा, पाग ४, १, ११२.
राजसी- √रज् द्र.
राज-सूय- प्रमृ. √राज् द्र.
राजस्तम्भ^b- -म्भा: बौश्रौप्र १७:
१२.
राजस्तम्भि^b- -मिभ: बौश्रौप्र १७:
८.
राजायन-(> °नक- पा.) पाग ४,
२, ५३.
राजार्थ- प्रमृ. √राज् द्र.
राजि^b- -जय: बौश्रौप्र १९: ५.
२राजि^c- पाठ ४, १२५; -जिम भाश्रौ
१०, ५, १४; -जी आपश्रौ १०,
८, १६; माश्रौ २, १, २, ४; हिश्रौ
१०, २, ५.
राजी-> राजी-व, वा^d- पाग ५, २,
१३५; -वा: आपश्रौ २२, २०,
१४; बौश्रौ १८, ११: १३; हिश्रौ
१७, ७, २७; शंघ २२४.
राजीव-पृथिन^e- -इनय: काश्रौ
२२, ९, १३.
राजी-वि(न >)नी- पा ५, २,

१३५.
राजिका^f- -काम् अप ३५, १, ९.
राजिततयिन्^b- -यिन: बौश्रौप्र ६: २.
राजितवाह^b- -हा: बौश्रौप्र ३: १५.
राजिश्वा^g प्रमृ. √राज् द्र.
राज्जुकण्ठिन्- रज्जु- द्र.
राज्जुदाल- रज्जुदाल- द्र.
राज्जुभारिन्- रज्जु- द्र.
राज्ञी-, राज्य- प्रमृ. √राज् द्र.
राणायन- प्रमृ. ३रण- द्र.
रात-, रात्रि- प्रमृ. √रा द्र.
रात्र- प्रमृ. रात्रि- द्र.
रात्रि, त्री^h- पाठ ४, ६७; पा ४, १,
३१; -त्रय: ऋश्रौ २४, १०:
२०; २५, १: १५; वाधूश्रौ;
-त्रये शाश्रौ ९, २८, ५१; बौश्रौ
१७, ५: १०; -ऋंश्रि शाश्रौ
९, २८, १०; आमिण; या ९,
२९; -त्रि: आश्रौ १, २,
११; शाश्रौ; गौध २५, १३^b;
ऋअ २, १०, १२७^b; साअ १,
६०९^b; निघ ५, ३१; या २,
१८४; -त्रिभि: या १२, २३;
-त्रिम आश्रौ २, ३, १५१;
काश्रौ; आपश्रौ १६, ११, ४१¹;
वैश्रौ १८, ९: ६¹; हिश्रौ ११,
४, ५¹; कौण्ड ४, ३, २¹; पाण्ड
२, १६, ५¹; अप ४, ५, ४¹;
या १४, ४; ८; -ऋंश्रिम
-त्रिम¹ बौश्रौ १०, १४: १;
अप्राव ४, ४; अप ४५, २, १५;

अश्र १९, ५५; -त्रिया ऋश्रौ
३, ४: ८; २४, ३०: ११; माश्रौ;
-त्रिया: वाधूश्रौ २, २६: ३××;
भाशि ११, ५१; -त्रियै आपश्रौ
१५, १२, ७¹१¹; बौश्रौ; -त्रियु
शाश्रौ ४, १५, ८; वैश्रौ; -त्री
ऋश्रौ ६, ११, ६; ९, २८, १०;
काश्रौ ४, १५, ९; ऋपाण्ड ३, ३, ५;
४, १५; काण्ड; अप २: ४१¹; ऋपाण्ड,
१९; ४, ११; -त्री: आपश्रौ ६,
२८, ५××; १९, १२, ३¹; ७¹; बौश्रौ
हिश्रौ २३, २, १४¹; १८¹; बौपि;
१, ११: २⁰; -त्रीणाम् आपश्रौ
१९, १२, ४; ८; बौश्रौ १४, २१:
५१; हिश्रौ २३, २, १५; १९;
-त्रीभि: बौश्रौ २०, १: १४;
तैपा ३, ७१; -त्रीम् शाश्रौ १६,
१८, १५; १८, २३, १८; बौश्रौ;
शाण्ड ४, १६, ४¹; वृदे ५, ७४¹;
-ऋंश्रिम-त्रीम्¹ काश्रौ १६, ६,
२¹१; माण्ड १, ५, ४; -त्रे: आश्रौ
४, १३, १; आपश्रौ १८, ९, १०;
बौश्रौ; या २, १८; ३, १६; १४,
८; पा ४, १, ३१; ५, ४, ८७; ६,
३, ७२; पावा ६, ६, ७१; -त्री
शाश्रौ ७, १४, ८; काश्रौ ४, ७, १६;
२०, ७, २७¹; बौश्रौ; वाध ६, १०;
१३××; शंघ १९१; ३०४; ३९०;
बौध ४, ५, ६; ३०; विघ ४६, ७;
६०, २××; वैश्रौ २, ५, १; ९, २××;
गौध ९, ३७; ४१××; या ३, १५;

a) पाठ: ?। = द्वादशसृष्टवन्व्यतम-। अपु. २१९, २४ याजनम् इति । b) व्यप। c) = पङ्क्ति-।
व्यु? √राज् इति पाठ. अभा. शक. < √रज्, रज्ज् इति MW. । d) विप. [रेखावती-] वस्तवती-
नाप. (कमल-मत्स्य-). e) कय. । f) = सर्षप-विशेष-। g) वैप १ द्र. । h) तु. St. ।
i) = इष्टका-विशेष-। j) सपा. ऋंश्रिम् <> ऋंश्रिम् इति पाठे. । k) = [उपचारात्] देवी-। l) पाठे. वैप १
शुक्रिम्-शुक्रिम् तै ४, १, १०, १ टि. द्र. । m) पाठे. वैप २, ३ खं. रात्रियै तै ४, १०, ४ टि. द्र. । n) ऋत्रि इति
पाठ: ? यनि. शोघ: (तु. शौ ५, ५, १) । o) पाठे. पृ ३४७ ऽ द्र. । p) ऋत्रि: इति पाठ: ? यनि. शोघ:
(तु. सप्र. मै २, ७, ७ प्रमृ., चौसं.) ।

४, १८; ६, १९; १४, १८; पाप
१, १, ३७; -ञ्या आश्रौ २, २,
६१; शाश्रौ २, ६, ८१; आपश्रौ ६,
१, ७१; बौश्रौ; वृदे ५, ७५^०;
-ञ्याः शाश्रौ ६, ११, ६; अप
१, २४, १; २; वृदे ८, ४४; अय
१३, ४ (४)१; या ५, २८;
-ञ्याम् आश्रौ २, १८, ८; शाश्रौ
२, ६, ३; आपश्रौ; लाश्रौ ६, १०,
११^०; आश्रु १, १७, १३^०; हिघ
१, ८, ३८^०; -ञ्यै आपश्रौ ६,
५, ६; काश्रौसं ३५: ९^०; माश्रौ
४, ३, ४६^०; वैताश्रौ २२, ४^१.
? रात्र- -त्रस् वाश्रौ ३, ४, १, ४३.
? रात्रा(त्र-अ)नुबन्ध-ता- -तया
निस् ३, ५: १४.
रात्रि-कर्मन्->मिन्- -मिणः
बौश्रौ १५, १९: १०; १३; २२:
१०; -मिणौ बौश्रौ १५, २२: ३.
रात्रि-कारित- -तः लाश्रौ ९, १२,
१६; निस् ८, १२: २५.
रात्रि-कृत- -तात् बौघ २, ४, २१.
रात्रि-गेष्ण- पाठभो २, २, १२९.
रात्रि-चर- -राः अप ५२, १, ३;
७०^३, ५, ५.
? रात्रि-देवता->ल्य, ल्या- -ल्यम्
शुअ १, १८८; -ल्या साअ १,
६०९; -ल्याम् शुअ ४, १९.
? रात्रि-देव(त)>(ता^०- -ता गोघ
३, १०, १; -ताम् आघ २, ४,
१२.
रात्रि-नामन्- -म या ८, १०;
-मानि निघ १, ७; या २, १८.

रात्रि-दिव- पा ५, ४, ७७.
रात्रि-पर्याय^१- -यः काश्रौ २०, ८,
१४; माश्रौ २, ५, ३, २७; वैश्रौ
१७, ४: ७; ५: ६; हिश्रौ ९, ७,
४३; ४४; -यस् आपश्रौ ६, ४,
१०^३; माश्रौ ६, ९, ८^३; -यस्य
बौश्रौ २६, २२: १५; द्राश्रौ ७, ४,
८; लाश्रौ ३, ४, ७; निस् ८, १:
१०; -याः निस् ३, ५: १७;
१८; अप्राय ६, ९; -य्यात्
द्राश्रौ १५, ३, ३; लाश्रौ ५, ११,
३; -य्यान् शाश्रौ ९, १९, ४;
वाघूश्रौ ४, ३२: २२; लाश्रौ
६, ६, १५; -ये आपश्रौ १४,
४, १३; -येण माश्रौ २, ५,
३, १२; -येभ्यः बौश्रौ २१,
१९: ५; २६, २२: ११; -येषु
शाश्रौ ६, १३, १३××; काठश्रौ
१६६; बौश्रौ २३, १३: २४;
-यैः आपश्रौ १४, ३, ९; २३,
१२; वैश्रौ १७, ४: २; हिश्रौ
९, ७, ३९.
रात्रिपर्याय-स्थान- -नम् निस्
३, ५: २४.
रात्रि-भृत्- -भृत्तः बौश्रु ७: २०;
-भृत्तम् बौश्रौ १०, १२: २.
रात्रि-यज्ञ- -ज्ञस्य काश्रु ७१, १८.
रात्रि-श्रु(त)>ता- -तया काश्रौ
४, ११, १५.
रात्रि-शेष- -षम् आपश्रौ २०, १२,
१०; आघ ३, ७, १; -षे वाघ
४, २५; विघ २२, ३६; गौघ
१४, ७; पावा ३, २, ११०.

रात्रि-षा(<सा)मन्^१- -म लाश्रौ
९, ७, १०^१; निस् ८, १: ३०;
८: २६^१.
रात्रि-संस्तव- -वः वृदे ३, १०५.
रात्रि-सत्र- -त्राणि आश्रौ ११, ६,
१६; शाश्रौ १३, १४, ९; काश्रौ
२४, १, १; वैताश्रौ ४२, १२;
१५; -त्रेषु आपश्रौ १९, १५,
७; बौश्रौ १४, २२: २३; हिश्रौ
११, १, २; २३, ३, २७; लाश्रौ
८, २, १६; १०, ३, २०; निस्
९, ११: २८.
रात्रिसत्र-न्याय- -यः निस् ९,
१०: १२; -येन निस् १०,
५: २६, १९.
रात्रि-संध्या- -ध्ये शंघ ११६: ४९.
रात्रि-संबन्ध- -न्धात् मीसू १०,
५, १३^१.
रात्रि-सामन्^१- -म बौश्रौ १६, २५:
१५^१.
रात्रि-सूक्त- -क्तानाम् अप ४, ५, १.
रात्रि-स्तनित- -तः अप ६५, २, १०.
रात्रि-स्त्व- -वम् ऋअ २, १०,
१२७.
रात्रि-दुत-शेष- -षम् काश्रौ २०,
५, १८.
रात्री-पूर्व- -र्वाणि अप १, ५, ५.
रात्री-सूक्त- -क्तेन शांघ ५, ५, ९.
राश्र्य^१- -ञ्याणि अप ४, ४, १.
राश्र्य(त्रि-अ)पाथ- -यात् निस् ८,
११: १७.
राश्र्य(त्रि-अ)हस-संवासर- -रात्
पा ५, १, ८७.

a) = [उपचारात्] देवी-। b) = साम-विशेष-। c) पामे. पृ १८७३ k द्र.। d) सपा. आपघ १,
३१, १९ निशायाम् इति पामे.। e) पामे. वैप २, ३खं. रात्रियै तैआ ४, १०, ४ टि. द्र.। f) पामे. वैप १ रात्रियै
तै ४, ४, १, १ टि. द्र.। g) बस.। h) वैप २, ३खं. द्र.। i) उप. षत्वं वैकल्पिकम् उरसं. (पा ८, ३, ९८)।
j) सपा. 'त्रिषा' <> 'त्रिसा' इति पामे.। k) रात्रं इति पाठः ?। l) 'त्रिषा' इति जीसं. प्रम.।
m) = रात्रि-षामन्-। n) तस्येदमीयः यत् प्र.।

रात्र्यु(त्रि-उ)पवास-सः बौध २, ४, १६.

रात्र्यु(त्रि-उ)पाय^३-यम् निसू ९, १: ४९; -यात् लाश्रौ ८, १, १४; -ये लाश्रौ ८, १, १३.

रात्र्यु(त्रि-उ)षस्-षसोः वृदे ३, १३८.

राथकारिक-कार्य-रथ-द्र.

राथन्तर-प्रसृ. रथन्तर-द्र.

राथीतर-तरायण-रथीतर-द्र.

रादले अप ४८, २८.

रा(र-त्रा)देश-१२-द्र.

✓राध(बधा)^१ पाधा. दिवा. पर. वृद्धौ; रसा. पर. संसिद्धौ, ऋराधत् आश्रौ ४, ६, ३; शाश्रौ; राधाम शाश्रौ १२, २, १४^१.

राध्यति आपध १, १२, १२; हिघ

१, ४, १३; ऋराध्यताम् शाश्रौ ४,

८, ३०; बौश्रौ १, १२: २६; २८;

३, १५: ५; ७; ९, १९: २४;

२६; माश्रौ १, ७, २, २४^०; वाधूश्रौ

२, ११: ७^०; आमिष्ट १, ५, ४:

३४-३७; बौगृ १, ५, १४^०××;

भागृ ३, ४: ९××; जैगृ १, १२:

६३-६६^०; कौसू २०, ६××;

५६, ६^०.

राधोति आश्रौ ८, १३, १४;

शाश्रौ १०, २०, २; राधुवन्ति

आश्रौ ८, १३, १४; शाश्रौ १०,

२०, २; या ४, ४; भासि ८६^१;

ऋराधुहि आपश्रौ २०, ३, ४;

बौश्रौ १५, ४: १४; अराधुत्व

वाधूश्रौ ३, २१: १; अराधुवन्

आश्रौ ८, १३, १०.

रात्स्यति आगृ ४, ४, २-४;

रात्स्यसि अत्र ११, ३(२)^१;

रात्स्यामि वाधूश्रौ ४, २२: ३;

रात्स्यामः आश्रौ ८, १३, १०^१;

ऋराध्यासम् आश्रौ ८, १४, ६^०;

शाश्रौ; आपश्रौ ४, ३, ४^०; ८,

४, ३^०; १३, ६, १२^०; बौश्रौ

५, ४: ३१^०; ८, ६: २^०; भाश्रौ

४, ३, ७^०; माश्रौ १, ७, २, २४^०;

वाश्रौ १, १, २, ६; वैश्रौ^१ १६,

७: ५; हिश्रौ ६, १, २७^०; १०, ४,

४६^०; कौसू ५६, ६^०; ऋरात्सीत्

आपश्रौ २२, १६, ९; हिश्रौ १७,

६, ३३; ऋरात्सुः काश्रौ १२,

४, १८; आपश्रौ; ऋरात्सम्

शाश्रौ ४, १२, १०^०; माश्रौ;

ऋरात्सम् आश्रौ ८, १३, १५;

१९; आपश्रौ.

राध्यते वृदे ८, ९८.

ऋराधि आश्रौ १, ४, ९; बौश्रौ

१, २१: ४^०××; वाधूश्रौ २,

१२: २^०; बौगृ २, ५, ६७××;

भागृ ३, ५: ७××; जैगृ १, १२:

६७^०.

राधयामसि जैगृ १, २०: २१^१;

राधयेत् हिश्रौ १२, ७, ५.

ऋराद्ध-द्धः काश्रौ ४, ८, ७; बौश्रौ

२, १४: ९××; वैश्रौ १, ६: २;

कौसू ५६, ७; -द्धम् कौसू ५६, ७.

राद्धि-द्धिः आश्रौ १२, १०, ४;

द्राश्रौ; -द्धिम् आश्रौ १२, १०,

४; ऋराश्रौ १०, ३, ४^०; ११, २,

३; ऋलाश्रौ ३, ११, ३^०; ४, २,

२; -ऋद्धीः द्राश्रौ ११, १, ६;

लाश्रौ ४, १, ६.

राध^१-धेन कौसू १०६, ७^१.

ऋराध-श्रुत्-श्रुत् भासि ५०.

राधस्^१-ऋधः आश्रौ ६, १२, २६;

शाश्रौ १२, १९, २; ३; आपश्रौ;

अप ४८, ९०^१; निघ २, १०^१;

या ४, ४; ६, २२; -धसः

शाश्रौ १८, १८, ७^१; -ऋधसा

आपश्रौ १४, १६, १^१; बौश्रौ ६,

७: २२; भाश्रौ १०, ११, १४;

हिश्रौ ८, ४, ४५^१; १५, ५, १;

कौसू; अप्राय ६, १^१; या ११,

२४^१; -ऋधसे आश्रौ ७, ८,

३; १०, ८; वैताश्रौ १६,

१७^१; -ऋधांसि आश्रौ २, ८, ३;

काश्रौ; या १४, ३५^१.

ऋराधस-पति^१-००ते शाश्रौ १८,

१५, ५; ऋराध १३, ३०; उसू ८, १९

राधस-व(त्>)ती-त्यः निसू

७, ४: ५२.

राधो-गू(र्त्त>)र्त्त^१-र्त्तः बौश्रौ

७, ५: १६^१.

ऋराधे^१ अप १, ११, ३^१.

राध्य^१-ध्याः शाश्रौ १५, २७, १^१.

ऋराधा अप ५२, ५, ३.

राधि->धी-पा. पाग ४, १, ४५.

राधीतर-रधीतर-द्र.

रा(र-त्र)न्त^० १२-द्र.

रान्ध्य^१-न्ध्या बौसि ३२९.

राप्य-रपृ द्र.

ऋराभु-भुः या १४, ११.

शराम^१-पाग ४, १, १६^१; -सः कप

३, १, १०^१; ऋअ २, १०, ११०^१;

-मम् शंघ ११६: ४४^१.

a) उप. = आगम- । b) पा १, ४, ३९; ६, ४, १२३ पावा ६, ४, १२३; ७, ४, ५४ परागृष्टः द्र. ।

c) परस्परं पामे. । d) पामे. वैप १, १०१५७ द्र. । e) परस्परं पामे. । f) वैप १ द्र. । g) पामे. वैप १

वृचः मै २, ३, ४ टि. द्र. । h) = घन- । i) परस्परं पामे. । j) बप्रा. । व्यु. ? < ✓रम् इति प्रायोवादः ।

k) व्यप. । l) = दाशरथि- । m) = [जाम्दन्मन्] परशुराम- ।

शरामराष्ट्रकान्वीतान् अप ५६, १, ७.
 रामा(म-अ)यण^० - पागम ३६०.
 रामि- पा ४, १, ९६.
 रराम->रामा^० - मा वाध १८,
 १८; या १२, १३^०; -रामास्
 आपश्रौ १५, १२, १३; १७, २४,
 २; बौश्रौ; वैश्रौ १३, १५: २१^०;
 या १२, १३.
 रराम, मा^० - म: आपश्रौ १५,
 १२, १३^०; बौश्रौ ९, १२: २६^०;
 भाश्रौ ११, १२, २०^०; वैश्रौ १३,
 १५: २^०; हिश्रौ २४, ५: ७^०;
 कागृ ६३, १९^०; कागृउ ४१:
 २०^०; विध ७३, २६^०; -मा
 जैगृ २, १: ३७^०.
 रामक^१ - क: वाध १८, ४.
 रामठ- पाउ १, १०१.
 रामोद^२ - (> दायन- पा.) पाग ४,
 १, ११०.
 राम्या- √स् द्र.
 रायत् - √रै द्र.
 रायस् - प्रसृ. रै- द्र.
 राराक- ^०क्य- रराका- द्र.
 रावण- √र द्र.
 रावणि^० - (> गायन- पा.) पाग २,
 ४, ५९; ६१.
 √राश् √रास् टि. द्र.
 शरशि^० - पाउ ४, १३३; पाग २,
 १, ५९; -शि: अप ३६, १५, १;
 ४७, १, ११; -शिस्र वाध २१,
 २५; ररुप्रा ८, २३; २७;
 -शौ हिश्रौ ३, ८, ६४.

राशि-कृत- न्तम् बौश्रौ १८, ४८:
 १८^०; २३, १८: ३९; २६,
 ३३: १६.
 राशि-पल्य^१ - ल्याणि कौसू २५,
 २६^१; -ल्येषु कौसू २१, २.
 रराशि^२ - शि: बौश्रौ १८, ४८: १८.
 राशि-मराय- -यम् जैश्रौ २२:
 ५; -ययो: आश्रौ ९, ८, २२;
 वैताश्रौ ४०, ३; -यौ शाश्रौ
 १४, ३९, १; बौश्रौ १८, ४८: १७.
 राशि-मरायु^१ - यू आपश्रौ २२,
 ११, १४.
 राशि-वैराज-सं(ज्ञा>)ज्ञ-
 -ज्ञयो: जैश्रौका २०.
 रराशि^३ - शि: वेज्यो १३; -शौ
 आमिगृ २, ५, ४: १०.
 राष्ट्र^० - पाउ ४, १५९; पाग २, ४, ३१;
 -ष्ट्रम् शाश्रौ १४, ५०, १; काश्रौ
 ५, १३, १^३फ; आपश्रौ; -ष्ट्रस्य
 बौश्रौ १७, ४१: २१फ; निस्र
 ५, १२: ९; आपमं; -ष्ट्राणि
 आपश्रौ ५, ७, १७फ; बौश्रौ;
 -ष्ट्रात् शाश्रौ १५, १६, १७;
 बौश्रौ १४, १७: २०; कौश्र;
 -फष्ट्राय आश्रौ ४, १२, २^३;
 आमिगृ १, १, २: ४७; हिगृ १, ४,
 ८; जैगृ १, १२: ७; -ष्ट्रे शाश्रौ
 १२, १७, १^३फ; आपश्रौ; -ष्ट्रेण
 बौश्रौ १४, १७: ४; ९; १३;
 आपमं १, ८, ७फ; -ष्ट्रेषु अप ३,
 ३, ७; ५०, ४, ७; ७१, १५, १;
 वाध ३, १२.

राष्ट्र-काम- -माय बौश्रौ १४,
 १७: १^३फ.
 राष्ट्र-जिवांसु- -सु: द्राश्रौ ३, २,
 १८; लाश्रौ १, १०, १३.
 रर्राष्ट्र-दा^० - दा: आपश्रौ १८,
 १३, २०^२; बौश्रौ १२, ८: ७xx;
 हिश्रौ १३, ५, ११; १३^२.
 राष्ट्र-नाश- -शाय अप ७०^१, ११, २९
 राष्ट्र-पति- पाग ४, १, ८४;
 -ति: काश्रौ ५, १३, १फ.
 राष्ट्र-पत- पा ४, १, ८४.
 राष्ट्र-मय- -यम् अप ५८^२, ४, ९.
 राष्ट्र-भृत्^० - फभृत् बौश्रौ १७,
 ४३: ८; आपमं; -भृत्: काश्रौ
 १८, ५, १६^०; आपश्रौ १७,
 १०, २^३; १९, १२^०; १९, १७,
 १८^०; बौश्रौ रर, ११: १७;
 १३: ६; १०, ४६: ११^३;
 ५४: १३^०; १४, १६: २५^०xx;
 माश्रौ ६, २, ५, ३२^०; वाश्रौ २,
 २, ४, १३^०; -भृताम् वाअ
 ३८: ७; -भृज्य: आमिगृ १,
 ६, ३: ५८.
 राष्ट्र-भ्रंश- -शाम अप २, ५, २.
 राष्ट्र-मर्यादा- -दायाम् आपश्रौ
 ९, १२, ५; वैश्रौ २०, २५: ७.
 राष्ट्र-वर्धन- -न: बौश्रौ १८,
 १७: ३फ^१.
 राष्ट्र-विद्रव- -व: अप ६४, ८, ६.
 राष्ट्र-विभ्रम- -म: बौश्रौ २९, ८: १.
 राष्ट्र-संवर्ग^२ - नौ: अप १९, १,
 ६.

a) =ग्रन्थ-विशेष-। b) वैप १ द्र.। c) ०म् इति पाठः! यनि. शोधः (तु. आपश्रौ. प्रसृ.)।
 d) =शब्द- इति भाष्यम्। e) =कृष्ण-शकुनि-। f) =(वैश्याद् ब्राह्मण्यां जात-) जाति-विशेष-।
 g) व्यप.। h) 'शौ' इति मूको.। i) =धान्य-राशि-। मलो. कस.। j) 'नि' इति संस्कृते: टि.। k) =एकाह-
 विशेष- वा साम-विशेष-वा। l) एकाहयो: द्वस.। m) नाप. (मेवादि-)। n) =सपा. तै ४, १२, ३, ३
 ३, १३, ४ पै १५, १, ७ तु चन्नाणि इति. पा.मे.। o) =होम-विशेष-। p) =इष्टका-विशेष-। q) पा.मे. वैप १,
 २४९५ b द्र.। r) =अथर्ववेदीय- परिशिष्टान्यतम- इति MW.।

राष्ट्र-संप्लव- -वम् अप ७१,
९,४.
राष्ट्रा(ष्ट्र-अ)वगमन- -नम् कौस्र
१६, २७.
राष्ट्रिय- पा ४,२,९३.
राष्ट्रीय^२- -यः माश्रौ ५, १, ७,
४८.
राष्ट्र- > क्राष्ट्रि, ष्ट्री^०- -ष्ट्रिः
गोष्ट्र ४, १०, १२; द्राष्ट्र ४, ४,
१५; -क्रीष्ट्री आश्रौ ४, ६, ३;
शाश्रौ ५, ९, ६; १८, १,
२; ष्ट्राष्ट्रौ^० ४, ८९: २४;
२८; अप ४८, ११४^०; निघ
२, २२^०; या ११, २८; शैशि
६९.
√रास्त्र^० पाधा. भ्वा. आत्म. शब्दे.
रास्त्रभ^०- पाउ ३, १२५; -भः
काश्रौ १६, २, ४; ३, ११;
बौश्रौ; -भम् आपश्रौ १६, २,
२१; बौश्रौ; पाष्ट्र ३, १५, ६;
भाष्ट्र २, ५: ३; -भस्य अशां
१५, ५; -क्रीमौ अप ४८, ९४;
निघ १, १५.
रास्त्रभ-करभ^०- पाग २, २, ३१.
रास्त्रभे(भ-इ)न्द्र- -न्द्रेण अप १,
३१, ८.
रास्त्रभे(य >)शी^०- -यी शुअ
२, ४६.
रासायनि- २२स- द्र.
रा(स्त्र>)स्त्रा^०- पाउ ३, १५;
-क्रीस्त्रा काश्रौ २, ७, १; १६,
३, २९; २६, ५, ३; आपश्रौ;

-स्त्राम् आपश्रौ १५, ३, ३; १६,
५, १; बौश्रौ; -स्त्रायाः आपश्रौ
१६, ५, २; माश्रौ ६, १, २, १०;
वाश्रौ २, १, १, ३८; हिश्रौ ११,
१, ५६
रास्त्रा-व^०- -वम् काश्रौ २, २, ५.
रास्त्रा-वत्- > वत्-परिघ्रीवा- >
वित्- -वि बौश्रौ ७, ६: ३६.
रास्त्रा-संधि- -विषु बौश्रौ १०,
५: १८.
रास्त्र^०- > स्त्रित्- -स्त्री या ६,
२१.
रास्त्रिन^०- -नः निघ ४, ३१; या ६,
२१०; -नस्य या ६, २११.
राहक्ष, क्षिति^०- पा, पाग २, ४,
५९^०.
?राहस- -सम् गौपि २, ४, ७.
राहु^०- पाउ १, ३; -हवे आमिष्ट्र
२, ५, १: २०; ३१; -हुः वैष्ट्र ४,
१३: ३; जैष्ट्र २, ९: २०; कौस्र
१००, २१; अप ५१, १, ४;
५२, ११, ५××; -हुणा अप
७०^०, ११, ४-६; -हुम् वैष्ट्र १,
४: १११; जैष्ट्र २, ९: ६; १०;
शंघ ११६: ४८; बौध २, ५,
२३१; -होः आमिष्ट्र २, ५, १:
१७; ३६; ४६; वैष्ट्र ४, १४:
१३; जैष्ट्र.
राहवि- पा, पाग २, ४, ५९.
राहु-केतु- -त् आमिष्ट्र २, ५, १: ११.
राहु-केतु-शनैश्चर- -नाः अप ६८,
१, ४.

राहु-घात- -तः अप ५१, ५, १.
राहु-चन्द्र^०- पाग २, २, ३१.
राहु-दर्शन- -नम् विघ ७७, ८;
-ने शंघ ४६.
राहुदर्शन-दत्त- -त्तम् विघ ७७, ९.
राहुदर्शन-वज्रम् विघ ६४, ७.
राहु-निपीडित-मण्डल- -लः अप
७०^०, ११, ३.
राहु-पुत्र- -त्राः अप ५२, ७, ५; ८,
१; ६४, ७, ३.
राहु(हु-उ)शनस^०- -नसौ अप ५१,
२, १.
१-२राहूगण-, ष्य- रहूगण- द्र.
राहोगण-, ष्य- राहोगण- द्र.
राह्य- २२ह- द्र.
√रि, री^० पाधा. दिवा. आत्म.
श्रवण^०, स्वा. पर. हिंसायाम्:तुदा.
पर. गतौ, क्रया. पर. गतिरेषणयोः,
क्रीरिति अप ४८, १९.
क्रीरयते आष्ट्र १, ८, २; काष्ट्र ४,
६; १३××; निघ २, १४.
क्रीरिणाति निघ २, १४; या १४,
२४; क्रीरिणाः आश्रौ ८, ३, २७;
शाश्रौ १२, १६, १; वैताश्रौ ३२,
३०.
रीति^०- -तिः आपश्रौ ५, २३, ९१;
-तिम् आपश्रौ १७, ६, ७; ९;
१९, १४, ११; १२; हिश्रौ २३,
३, ९; १०.
रीति-वाद- -दः आपश्रौ १६,
२१, ९; वैश्रौ १८, १६: ४२;
हिश्रौ ११, ७, १०; बौश्रु ६: १९

a) वैष १ द्र. । b) विप., नाप. (तु. नृ-> नारि, री-) । c) = वडवा । d) ईश्वर-
नामन्. । e) √राह इति [पक्षे] BPG. । f) तु. पागम. । g) = ऋवृ- । साऽस्येदेवतीयष् ढक् प्र.
उसं. (पा ४, २, ३३) । h) मत्वर्थीयो वः प्र. (पावा ५, २, १०९) । i) = रास्त्रा-व- । j) भाप. । व्यु. ?
√रप् वा √रस् वेति ? । k) = स्तोत्र- । मत्वर्थीयः प्र. । l) व्यप. । व्यु. ? । < रह-क्ष L, क्षिति-
इति पागम. । m) रौहक्षिति- इति पाका. । n) व्यप. (पाग.), नाप. (ग्रह-विशेष) । o) उप. = शुक्र-ग्रह- ।
p) पा ७, ३, ३६ या १४, २४ परामृष्टः द्र. । q) स्रवणे इति PW. ।

रीती √सू>रीती-भूत^a- -ताः
पाठ ३, १०, २३.

†रीत्या(ति-आ)प्^b- -न्यापा
आश्रौ १, ९, १; शांश्रौ १, १४,
५; उस् ८, २९.

रेरिवन्^c- -वा बौध २, ५, २४.

†रिक्त्न्^d- -का अप ४८, ८३; निघ
३, २४.

रिक्षा^e- पावाग ८, २, १८.

√रिख् पाधा. भ्वा. पर. गतौ > रेखा^f-

पाग ३, १, २७; ३, १०४; पावाग
८, २, १८^g; -खाः वैश्रौ २०,
३९; १०; हिश्रौ १, ६, ५७; वैश्र १,
९; ४; ६; आपध २, १, १३^h;
-खाम् कौश्र १, ३, २; जैश्र १,
१; २; २, २; २; -खायाम्
शंघ ५४; -खासु आम्रिय २, ६,
१; ८.

‡रेखान्तरापुराराणि अप ५३,
१, ४.

√रेखाय पा ३, १, २७.

√रिङ्ग् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.

√रिच् पाधा. रुधा. उभ. विरेचने; चुरा.

उभ. वियोजनसंपर्चनयोः, †आरि-
णक् ऋप्रा २, ७७; उस् २, ७.
अरिचत् या २, १९; २०; †आरैक्
माश्र २, ७, ५; या २, १९; २०;
३, ६; ऋप्रा.
रिच्यते या ३, २.

रिक्त, का- -ः आपध १, १०,
८; हिघ १, ३, ३७; -कम्
आपश्रौ १२, ११, ५; माश्रौ
१, २, २, ९; २५×४; -काः गो
२, २२; आज्योⁱ ६, ८; १०;

-क्ताम् काश्रौ १७, १, २०;
आपश्रौ; आज्यो ६, १२^j;
-कायाम् आज्यो ७, ४^k; -क्ते
पा ६, १, २०८.

रिक्त-कुम्भ- -म्भम् कौस् ८४,
९; -म्भान् अप १, २६, ४^l†.

रिक्त-गुरु- पा ६, २, ४२.

रिक्त-पाणि^m- -णिः अप २८,
१, ४; आपध १, १५, ७; हिघ १,
४, ६६.

रिक्ता-पर्वन्ⁿ- -वैणी वैश्र २,
१२; १.

रिक्थ^o- पाठ २, ७; -क्थम् अप
४८, ९०†; शंघ २७१; २९२;
बौध; -क्थयोः शांश्रौ १५,
२७, १†; -क्थस्य वाध १९,
३६; वृदे ४, १११.

रिक्थ-ऋय-संविभाग-परिग्रहा-
(ह-अ)धिगम- -मेधु गौध १०,
३८.

रिक्थ-ग्राहिन्- -हिभिः विघ
१५, ३३; -ही विघ ६, २९.

रिक्थ-पिण्ड- -ण्डौ शंघ २९१.

रिक्थ-पिण्डो (एड-उ)दक-
-कानि शंघ २९९.

रिक्थ-पिण्डो (एड-उ)दक-यज्ञ-
-ज्ञेषु शंघ ८५.

रिक्थ-प्रतिषेध- -धे या ३, ५.

रिक्थ-भाग- -गः शंघ २७१;
२७४.

रिक्थ-भाज्- -भाक् गौध २८,
२९; -भाजः बौध २, २, ३१;
गौध १२, ३७; २८, ३३.

रिक्थ-मूल^p- -लम् शंघ २७०.

रिक्थ-लोभ- -भात् वाध १७,
६५.

रिक्थ-विच्छित्ति- -त्तिः सुधप
८८: २.

रिक्थ-विभाग- -गः शंघ २७०.

रेक्णस्^q- पाठ ४, १९९; -ः ऋणः
अप ४८, ९०; निघ २, १०; या
३, २४†; ऋप्रा १६, ३३.

रेक्णस्-व(त>)ती- -ती या
११, ४६††.

√रिङ्ज्, रिञ्जति अप ४८, २†.

√रिघ्^r, रिघ्यते, रिघ्यति आज्यो ५,
१०.

√रिप्^s>†रिप्- रिपः^m अप ४८,
७२; निघ १, १.

रिपु^t- पाठ १, २६ⁿ; -पवे माश्र २,
१६, ३†; -ः ऋप्रा ६, ४, ४;
हिश्रौ; -पुणा आपश्रौ १७, १८,
१†; -पुम् आश्रौ ७, ११, २१†;
-पून् माश्रौ १, ६, २, १७†; अप
३६, १२, १; -पोः अप ३१,
९, ४; -पौ विघ ३, ७४.

रिपु-त्रय- -यम् विघ ३३, १.

रिपु-मित्रा(त्र-अ)र्थसंबन्धि-वि-
कर्म-दृष्टदोष-सहाय- -याः विघ
८, ३.

रिपु-संधि-कार्य- -यम् आज्यो
८, ५.

†रिस- -सम् आश्रौ ३, ९, ५^o;
आपश्रौ १९, ८, ११; हिश्रौ ३३,
१, ३८.

रिस-लेप- -यम् आपश्रौ ८,
१६, ८.

a) = पङ्क्ति-बद्ध-। b) वैप १ द्र.। c) वैप २, ३ खं. द्र.। d) नाप. (चौर-)। व्यु. ? < √स्वि.
इति दे.। e) = लिखा-। f) = पङ्क्ति-। g) तु. पागम.। h) सपा. रेखा: <> लेखा: इति पामे.।
i) = तिथि-विशेष-। j) बस.। k) द्रस. पूष. = तिथि-विशेष-। l) = √ऋघ्। m) वैप १,
२९६५ i द्र.। n) < √रिप्। o) शिष्टम् इति आन.।

रिप्र^०- पाउ ५, ५५; -प्रम् आपश्रौ
७, ४, ५५; बौश्रौ; या ४, २१;
-फ्राणि आपश्रौ ९, ३, २२;
हिश्रौ १५, १, ७१.
रिप्रि-वाह^०- -हः कागृ ४५, ६;
मागृ २, १, ८.

रेपस^०- पाउ ४, १९०.

√रिफ्^० पाधा. तुदा. पर. ^०कथनयुद्ध-
निन्दाहिंसादानेषु, रेफत् हिश्रौ
१, ७, ४०^०।

√रिफ्^०, रिफ्यते आश्रौ १, ५, १०.

रिफित- -तः शाश्रौ १, २, ९;
शुप्रा १, १६०; उस् ७, ११;
-तम् शुप्रा ४, १९; -तात्
शुप्रा १, ३३; -तानि ऋप्रा १०,
२२; २३; -ते शुप्रा ४, १९५.

रेफ^०- पाउ ५, ५४; पावा ३, ३,
१०८; -फः अप ४७, २, ५;
ऋप्रा ४, ८६; ६, ८; १२, ४; ८;
१३, ३४; तैप्रा २१, १५; ऋत
२, १, ८; अप्रा ३, १, १; ३, २;
शौच १, ६६; २, २९; ४२;
शैशि १९६; २२०; पाशि १४;
माशि १०, १; ४; याशि २,
४६; ९४; कौशि ७८; आशि
१, १७; नाशि २, २, १५; ३, ४;
४, ७; ५, ४; ६, ३; ६; ७; -फम्
शाश्रौ १, २, ९; अप ४७, ३,
१; २; ऋप्रा १, ४६; ४, २७;
३९; ६९; ६, १७; ११, ४१;
शुप्रा ३, ३९; १४१; तैप्रा ५,
१०; ८, ६; २०; ९, २०; शैशि

२८७; माशि ८, ९; १०, ३३;
-फस्य अप ४७, २, ४; शौच
१, २८; ६४; २, १९; कौशि
७७; पावा ८, २, १९; पाप्रा
५, ४; -फात् ऋप्रा ६, ४; ४६;
तैप्रा १४, ४; शौच १, ७१;
१०१; माशि १५; ११४; -फे
ऋप्रा १, ९८; १४, २६; शुप्रा
४, ३५; तैप्रा २, ४१; शौच २,
१९; माशि ८, ८; ११, १०;
१२, ४; याशि २, ४९; नाशि
२, २, ६; -फेण ऋप्रा १२, ८;
उस् ७, १०; ११; शुप्रा ३, ४९;
७, ९; कौशि ५१.

रेफ-ग^०- -गः भाशि ९०.

रेफ-नकारा(र-आ)दि- -दिः
अप्रा ३, २, ३०.

रेफ-निमित्त-संशय- -यात्
ऋप्रा ११, ७.

रेफ-पर^०- -रः तैप्रा ५, २९; ८,
७; १६; १४, १९; -रस्य शौच
२, १०६.

रेफ-पूर्व^०- -र्वम् ऋप्रा १४, ४०;
-र्वयोः तैप्रा १४, ६.

रेफपूर्व-क^०- -काः आशि १,
१९.

रेफ-प्रकृति- -तिः अप्रा ३, १, १^१.

रेफ-मध्य- -ध्ये अप्रा ३, २, ९;
१०.

रेफ(फ-ऋ)कार(र-ऋ)कार-
पर- -रः ऋप्रा ५, २३.

रेफ-लकार- -रौ शुप्रा ४, १४८.

रेफ-लोप- -पः उस् ६, १; ४.
रेफ-वत्- -वतः ऋप्रा १४, ३१;
-वन्ति माशि ८, ८.

रेफ-वर्जम् ऋप्रा ४, ७.

रेफ-वर्जित- -ताः आशि ६, ११.

रेफ-शकार- > शी^१- -री
माशि ९, १३.

रेफ-षकार- -रयोः माशि ९,
१३; याशि २, १४.

रेफ-संधि- -धयः ऋप्रा ४, २७;
-धिम् ऋप्रा १५, १२.

रेफ-सहित- -तम् उस् ६, ८;
-तात् उस् ६, ७^६.

रेफ-हकार- -राम्याम् शुप्रा ४,
१०२; -रौ शौच ३, ३१.

रेफहकार-क्रम-ज- -जम्
शौच १, ५८.

रेफा(फ-आ)दि- -दिः निस् ८,
६ : ४३; अप्रा ३, २, १९.

रेफा(फ-अ)नुस्वार- -रे माशि
१२, ५.

रेफा(फ-अ)न्त^०- -न्तः अप्रा
३, २, २६.

√रेफाय, रेफायति वैगृ २, ११;
९; हिगृ १, १०, ३; आपघ २,
१४, १३; हिघ २, ३, २४.

रेफित, ता^१- -तः माशि ७, ३;
-तम्, -ता माशि ८, ८.

रेफित्- -फी आश्रौ १, ५, ११;
ऋप्रा १, ७६; ४, २७; ३१.

रेफो(फ-उ)द्वय^०- -यः ऋप्रा ४,
२८.

a) वैप १ द्र. । b) √रिह् इति [पक्षे] BPG. । c) कथन^० इति BPG. PW. । d) सपा.
वाश्रौ १, ३, ३, १ रेभत इति पाभे. । e) १र-+ डिकः प्र. उमं. (पावा ३, ३, १०८) > *रिफ- (रेफ-)>यनि.
रकारोच्चारणे नाधा. । f) भाप. > नाप. (वैतु. पावा [३, ३, १०८] १र-+ इफः प्र. इति, शुप्रा [१, ३९] १र-+
एफः प्र. इति, पाउडु [६, २३] √रा+इफः प्र. इति) । g) उप. < √गम् । h) वस. । i) णि^० समस्त
इव पाठः ? यनि. शोधः (तु. संस्कृतः दि.) । j) विफ. (स्वरभक्ति-) अर्शाद्यजन्तात् स्त्री. ङीष् प्र. उमं.
(पा ४, १, ४१) । k) षं इति Pertsch. । l) इतच् प्र. ।

रेफो(फ-उ)प(घ>)घा^२- धाम्
ऋप्रा ६, ५१.

रेफो(फ-रज्)ष्मन्- ष्मणाम्
माशि १०, २; आशि ६, १३;
-ष्मणोः ऋप्रा ४, १५; -ष्मसु
आश्रौ १, २, १८; ऋत ४, ४,
१३; शैशि २७४; नाशि २,
४, ४; -ष्माणौ ऋप्रा ५, ५६.

रेफोष्म-पर^२- -रः तैप्रा १३,
२.

रेफोष्म-संयोग- नो तैप्रा
२१, १५.

रेफो(फ-रज्)ष्म-यकार-भाव-
-नात् तैप्रा १५, १; १७, ४.

✓रिष्(बधा.), ऋरिभत्^२ अप ४८, ९;
निघ ३, १४; रंभत वाश्रौ १,
३, ३, ११^०.

रिष्यते वृदे ३, ९६.

ऋरिभ्वन्^२- भ्वा अप ४८, ८३;
निघ ३, २४^०.

ऋरिभत्- भन् विघ ४८, ६; या
१४, १३.

रिंसत्- रिंसु- ✓रम् द्र.

✓रिञ्(बधा.) पाधा. तुदा. पर.

हिसायाम् > रेव्य^२- > ष्य-
दारिन्^२ - -रिणः^२ या ६,
१४.

ऋरिशाद्स्^२- दसः शाश्रौ १२, २,
१४; २०, २६; -ऋदसः अप
४८, ११५; अप्रा ३, ४, १; निघ
४, ३; या ६, १४^०; -दसा

आश्रौ ५, १०, २८; शाश्रौ ७,
१०, ११; -दाःअप्रा ३, ४, १.

रिड्य^२- र्यस्य अत्र ५, १४^१.

ऋरिष्^२ पाधा. भ्वा. दिवा. पर.

हिसायाम्; रिष्यति आपमं
१, ६, ११; वौष्ट १, ५,
४; अण; रिष्यतः माष्ट १,
२, १३; रिष्यसि आपश्रौ ७,
१६, ७; रिष्यथः माश्रौ ५, २,
१३, १; रिष्यथ माश्रौ ५, २,
१३, १; रिष्यात् वौश्रौ ३,
१६:२८; माश्रौ; हिश्रौ १, ६,
९१^०; रिष्यतु वौश्रौ २, ५: २६;
ऋरिष्येत माष्ट १, १३, १७;
वाष्ट १५, १३; रिष्येत्^२ आपश्रौ
११, ५, १; वौश्रौ १, ११:
२७; ६, २३:४; माश्रौ २,
२, ६.

रिषत् आश्रौ २, ५, १७; शाश्रौ
१२, १५, ४^३; आपश्रौ; कौसू ३३,
९^३; रिषः आपश्रौ ९, १८, १;
वौश्रौ ८, २०: १२; माश्रौ; रिषन्
द्राश्रौ ७, ३, ५; रिषम् आपश्रौ
१, ३, १४^०××; वौश्रौ १,
२: ११^०××; माश्रौ १, २, १२^०;
५, १^०; वाश्रौ १, २, १, १८^०;
हिश्रौ १, २, ३४^०; २, ७, ५^०;
आशिष्ट ३, ८, २: ३०; वौषि
१, १५: ३९; वाष्ट १४, २३;
रिषाम् > मा आश्रौ २, ५, ९;
आपश्रौ ६, २, २××; वौश्रौ.

रीरिषत् अप्राय ६, १; ऋप्रा
९, ५०; भाशि १०; रीरिसु:
माष्ट २, १६, ३^३; रीरिषः
आश्रौ ३, १४, १३; आपश्रौ
९, १६, ११××; २१, ४,
१; भाश्रौ; या १०, ७;
११, ७; रीरिषत् आपश्रौ १४,
१६, १; वाधूश्रौ ३, ४: १२;
हिश्रौ; रीरिषीष्ट ऋप्रा ९, ४७.

ऋरिष्^२- रिषः हिश्रौ १०, २, ६५;
द्राश्रौ ६, ४, ८; लाश्रौ; रिषे
आश्रौ ६, १२, २; या १०,
४५^०.

रिषणं-> ✓रिषण्य^२, रिषण्यति
पा ७, ४, ३६; रिषण्यः आश्रौ
३, ७, १०^१; ऋरिषण्यत कौष्ट
२, २, ९; शाष्ट २, २, १४; माष्ट
१, ७: १२^०.

रिष्ट- ष्टे आपष्ट ६, ४.

रिष्ट-द- दम् अप ६९, ५, ५.

रिष्टि^२- पाठभो २, १, १८९; पाण
४, २, ८६^०; -ष्टिः वाधूश्रौ २, ९:
४; पाण ३, १४, १४; माष्ट १,
१३, १५^१.

रिष्व- पाठ १, १५३.

ऋरी(<रि)षत्- षतः ऋप्रा ९,
४७; षते माष्ट २, १६, ३; ऋप्रा
९, ५१; -षन्तम् ऋप्रा ९, ४६.
रेषणं^२- गाय या १०, ४५; -णे
आपष्ट २२, १८^०.

ऋरिह्(बधा.)^२, रिह्वि या १०, ४६.

a) बस. । b) धा. अर्चयानां वृत्तिः । c) पाभे. पृ २०७७ d) द्र. । d) = स्तेन- । धा. चौथै वृत्तिः ।
कनिष् प्र. (वैतु. दे. <✓रम्) । e) रिह्व इति मूको. । f) कर्तरि शः प्र. उसं. (पा ३, १, १३८) । g) उप.
<✓वृ [विदारणे] (तु. PW. प्रभृ.) । h) ष्यदासिनः इति दु. तत्र ष्यत्-आ^० इति तदीयोऽवग्रहः । i) वैप १
द्र. । j) पा ७, २, ४८ परामृष्टः द्र. । k) पाभे. वैप २, ३३. रिष्येत् तैप्रा ३, ७, ७, १३ टि. द्र. । l) सकृत् ष्वन्
इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. सपा. ऋ १०, १७, २०) । m) पाभे. वैप १, १०१८ n) द्र. । n) ष्वं इति
पाठः ? यनि. शोषः (तु. ऋ ८, २०, १) । o) करणे भावे वा कृत् । p) पृ १९६९ n) द्र. । q) सांप. ।
r) ✓रिक् टि. द्र. । धा. अर्चनास्वादनयान्वासु वृत्तिः ।

रिहिद्ध अप ४८, १२; निघ
३, १९.

रिहिति निघ ३, १४; रिहन्ति
या १०, ३९६; रिहन्तु हिश्रौ
२, ४, २२.

रिहा^१ हिश्रौ २, ४, २२^१.

रिहाण, णा^२ - णा: आपश्रौ ३, ६,
१; बौश्रौ १, १९: २०; माश्रौ;
-णे या ९, ३९^१.

रेरिहत्^३ - हत् शुभा ३, १२९.

रेहाण- णा: आपश्रौ १२, १७, ३.

रिहायस्^४ - या: निघ ३, २४^६.

रिहन्^५ - ह्ना^६ अप ४८, ८३^१.

√री, रीति- प्रसृ. √रि द्र.

√रु^७ पाधा. भ्वा. आत्म. गतिरेषणयो;
अदा. पर. शब्दे, ररवत् आश्रौ
३, ३, १; शाश्रौ ५, १७, ९.

रौति वैश्रौ १०, १३: १३; हिश्रौ
४, ३, ५५; अप ४८, ९१^१; निघ
३, १४^१; या १०, ५; रु^८, रु^९
यात्^१ आपश्रौ ८, ११, २०; माश्रौ
८, १३, ८; माश्रौ १, ७, ५, २०;
वाश्रौ १, ७, ३, २२; हिश्रौ ५,
३, ३८.

रुवे बौश्रौ १८, ४५: ७.

रावयन्ति आश्रौ २, १८, १२.

रुरुयते सु २२, ४; या १०, ४६.

रुरोर्वीति आपश्रौ ५, १७, ४;

हिश्रौ ३, ४, ४८; या १३, ७६;

रुरुवन्ति अप ७०^३, ६, ५.

रव^{१०} - रवम् आपश्रौ १२, १५, ६;

हिश्रौ ८, ४, २१; -त्रेण बौश्रौ

१८, १: १५^१; वृदे २, ३६;

४३; -वै: आमिग्य ३, १०, ४: ६.

रवण- पाउ २, ७४; पाग ४, १,
११२^१.

रावण- पा ४, १, ११२; पा, पाग
५, ४, ३८^१.

रवत्^{११} - त्ते आपश्रौ ८, ११, १९^१;
२१; माश्रौ ८, १३, ७^१; ९; हिश्रौ
५, ३, ३७^१; ६, ८, ८.

रवथ^{१२} - पाउ ३, ११३; -थे बौश्रौ
५, १०: २४^१; द्राश्रौ १३, १, १५;

लाश्रौ ५, १, १३.

रवमाण- णे शाश्रौ ४, १७, १२.

रवाण^{१३} - णे आश्रौ २, १८, १०.

रुत- तम् अप ७२, ५, ५; -ते काश्रौ
५, ६, ३२; कौसू १४१, ३९.

रुवत्^{१४} - वति माश्रौ १, ७, ५, २९^१;
-वन् वृदे २, ५९.

रुवथ- पाउ ३, ११५.

रोरवण- णम् या १३, ७.

रुरोस्वत्^{१५} - वत् वृदे ७, ३२; या
५, १६६.

रोरुयमाण- ण: बौध १, ५, ८६;

या ५, १६; १०, ५.

√रुंश्, सू पाधा. चुरा. उभ. भाषा-
याम्.

रुक्-काम- प्रसृ. √रुच् द्र.

रुरुत्^{१६} - पाउवृ ३, ६६.

रुरुत्^{१७} - > (> रुरोक्ष्य- [> रुरोक्ष-]
पा.) पाग ४, १, १०५; २, १११.

रुरुक्ष^{१८} - क्षा: अप ६३, ४, ९.

रुरुक्ष-वाच्^{१९} - वाक् माशि १२, ६.

रुरुक्षक^{२०} - > रुरोक्षक - ०क बौश्रौप्र
३४: २; -का: बौश्रौप्र ३४: १.

रुरुक्षक-वत् बौश्रौप्र ३४: २.

रुरुण- √रुच् द्र.

√रुच्^{२१} पाधा. भ्वा. आत्म. दीप्तावभि-
प्रीतौ च, रोचते आपश्रौ ९, १२,
९; बौश्रौ; अप ७०^३, ६, ५; ९, २;

वाध ३, ६९; रुरोचन्ते बौश्रौ
१५, २४: २; आपसं १, ६,
२; रोचसे अत्र १३, २^१;

रुरोचत आश्रौ ८, १०, ३;
शाश्रौ १०, ११, ९; माश्रौ ५,
१, २, १२; या ७, २३; अरोचथा:

बौश्रौ २, १६: ४^१.

रुरुचे भाशि २२^१; रोचासम्
जैगृ १, १८: १५^१.

रोचयते माश्रौ ४, २, ३०;

रोचयति बौश्रौ १०, ४६: १६;

रोचयत: बौश्रौ ९, ८: १२;

रोचय आपश्रौ ६, ६, ८^१;

रोचयेत् बौश्रौ २२, ८: ३४.

रुरुरुचत्^{२२} आश्रौ ४, ६, ३;

शाश्रौ ५, ९, २५; बौश्रौ;

अरोचयिष्यत निसू ८, १३: ३९.

रुरुम्^{२३} - पाउ १, १४६; -कम: आश्रौ
९, ४, १६; शाश्रौ ३, १८, ६^१;

काश्रौ; -कम् काश्रौ १५, ५,
२६××; आपश्रौ; -कम्स्य बौश्रौ
१०, २२: १०, १५; वैश्रौ १८, १७:

a) पाठ: ? मा २, १६ प्रसृ. रिहाणा: इति पाभे. b) वैप १ निर्दिष्टानां समावेश: द्र. c) वैप १ द्र. d) = स्तेन-। <√रिह् इति दे. e) परस्परं पाभे. f) = स्तेन- g) पा ३, ३, २२; ७, ३, १५ परामृष्ट: द्र. h) घा. अर्चने वृत्ति: i) माश्रौ. पाठ:। अन्यत्र छान्दसो दीर्घ: j) न रु^८, रु^९ यात् > सपा. द्राश्रौ १३, १, १५ लाश्रौ ५, १, १४ अ-रुचति इति पाभे. l) व्यप.। घा. अर्थ: ? l) तु. पागम. m) = रव-। भवे अतत् प्र. उंसं. (पाउ ३, ११०)। n) सपा. रवते <> रवथे <>। रुवति इति पाभे. o) = शब्दायमान-। p) व्यप.। q) = रुरुक्ष-। r) वस.। s) या २, ३, ४: २०; ३, १३; ६, १३; ११, ५; ३९ पा १, ३, ८९; ४, ३३; ६, ३, ११६ परामृष्ट: द्र.।

७; हिश्रौ ११, ७, २१†; -कमा कौस् ६४, २५; अत्र २, ५; माशि ११, ३; -कमान् वाश्रौ ३, ४, ५, ३०; -कमाभ्याम् आपश्रौ १९, २१, ९; बौश्रौ; -कमे आपश्रौ १५, ७, ४; माश्रौ; -कमेण आपश्रौ १५, ८, ५; बौश्रौ ९, ७; २२; भाश्रौ; -कमौ काश्रौ १९, ४, १०; आपश्रौ १५, ५, १५××; बौश्रौ.
 रौकम^० -कमे विध ७१, १६.
 रौकमी^० -कमीम् शुभ्र २, ७८.
 रुकम-कुण्डल-ले वाध १२, ३८; बौध २, ३, २८.
 रुकमकुण्डलिन्-खी वैश्रौ १७, १८ : १०.
 रुकम-केश^० -शाः अप ५२, ५, १.
 रुकम-प्रतिमुक्त-कम् आपश्रौ २२, ३, १४^d; माश्रौ ३, ७, ३०.
 रुकम-प्रतिमोचन- > ण-विष्णु-क्रम-वात्सप्र-प्रेषु काश्रौ १६, ४, ३२.
 रुकमप्रतिमोचना(न-आ)दि-दि काश्रौ १६, ६, ६; वाश्रौ २, १, ३, १७.
 रुकम-प्रतियुक्त-कम् हिश्रौ १७, १, ५२^d.
 रुकम-प्रतिहित-तम् अप्राय ६, ७०; -तेन वाश्रौ ३, ४, २, १६.
 रुकम-प्रस्तरण^० -गम् कौस् ७७, १†.
 रुकम-भाज्-भाक् अप ३६, २१, १.

रुकम-भौम^० -मम् शंघ ११६: ३.
 रुकम-म(य>)यी-च्या वाध १२, ३९.
 रुकम-ललाट^० -टः काश्रौ २२, २, ११.
 रुकम-वक्षस्^० -क्षसः वृदे ५, ६८; या ३, १५†.
 रुकम-वत्-> रुकमव(त् >) ती-तीभिः माश्रौ ४, ३, ३७.
 रुकमवच्-छिद्र^० -द्रम् काश्रौ १५, १०, १६.
 रुकम-शकल-लम् वैश्रौ १, १० : १.
 रुकम-सूत्र-त्रम् आपश्रौ १६, १५, ८; १६, १; माश्रौ.
 रुकम-स्तम्भ-निभ-भौ विध १, २५.
 रुकम-स्तेय-> णिन्-यी शंघ ३८७.
 रुकमा(कम-आ)बद्ध-द्धम् काश्रौसं २८ : ९.
 रुकमा(कम-आमा>)भ-भम् वैश्र ४, ११ : ३.
 रुकिमन्-किमणम् शाश्रौ १६, ९, १†; -कमी आपश्रौ २२, १२, ६.
 रुकिमणी^० (> रौकिमण्य-पा.) पाग ४, १, १२३.
 रुकमन्-पाउमो २, १, २८५.
 रुक्^० -रुचः आपश्रौ १६, २४, २; १७, २०, १७^३; बौश्रौ; रुचम् आपश्रौ ६, २२, १; बौश्रौ ९, ६ : ६; १०, ५४ : १६××;

माश्रौ ६, २, ६, २२; वाश्रौ २, २, ५, ७; आपमं २, २२, ४^१; भाग २, २६ : ८^१; माग १, १, २३; वाग ५, ३७; हिग १, १५, १^१; शुभ्र २, ३३५; रुचा बौश्रौ १८, ९ : ३७; १७ : २; वाश्रौ; रुचाम् आपश्रौ ९, १२, ९^१; रुचाम् आपश्रौ ६, २२, १; रुचे आपश्रौ ६, २२, १××; बौश्रौ.
 रुक्-काम-मः बौश्रौ १३, ५ : ११†; -मस्य बौश्रौ १४, १९ : ४; -माः आपश्रौ २१, १, १४; हिश्रौ १६, १, ११.
 रुक्-मत्-मते बौश्रौ १३, ५ : ११†.
 रुक्च^० -चम्, -चाय हिश्रौ १४, ४, ३८.
 रुचक-पाउ २, ३७.
 रुचान^० -नः आपमं २, ११, ३१†.
 रुचि^० -पाउ ४, १२०; -चिः वैताश्रौ १४, २; अत्र १७, १; -चिम् शंघ ११६ : ३०; -च्या सु १३, ३; -च्यै वाग १३, २†.
 रुच्य(चि-अ)थे-थैः वाग ६, ९; -थैम् काग १, २०; माग १, १, १०.
 रुचित^० -पाउ ४, १८६; -चि^० शाश्रौ ५, ९, २५; काश्रौ; -तम् द्राश्रौ २, २, २८; लाश्रौ १, ६, २६; वैताश्रौ १४, २; -तात् जैश्रौका ५४; -ते काश्रौ २६, ४, ५; जैश्रौ २३ : ९; कौग १, २, ३; शाग १, ६, ५.

a) विकारे अच् प्र. (पा ४, ३, १५४)। b) = रुकमदेवत्या-] ऋच्-। c) बस.। d) सपा. णित्युक्तम् <> णित्युक्तम् इति पाठे.। e) सपा. णित्युक्तम् <> णित्युक्तम् इति पाठे.। f) वैप १ द्र.। g) = पाताल-विशेषः। h) व्यप.। i) पाठे. वैप १ रुचिम् शौ ३, १५, ६ टि. द्र.। j) पाठे. वैप १ रुचितः मै ४, ९, ५ टि. द्र.।

रुचिर- पाठ १, ५१.
 रुचिष्य, ष्या- पाठ ४, १७९; -ष्या
 वाट १३, २१.
 रुच्य- पा ३, १, ११४.
 रोच^१- -च: जैट १, १८ : १४.
 रोचन, ना^२- पाठभो २, २, १८५;
 पाग १, ४, ७४^d; ३, १, १३४^e;
 -ःन: पाग २, ६, १०; गोष्ट ३,
 ४, १५; द्राष्ट ३, १, १४; गौघ
 २०, ११; -नम् जैश्रौ २३: ९^f;
 जैश्रौका ५५; द्राश्रौ २, २, २८;
 लाश्रौ १, ६, २६; शंघ ११६:
 ६२^g; -नया^३ अप १, ४५, ४;
 १८^३, १, ५; -ःना आपश्रौ ४,
 ६, ४^h; बौश्रौ २, १९ : १२; ३,
 १२ : १८; १३, २ : ४; ९; १५,
 २४ : २^१; भाश्रौ ४, ९, २^१;
 माश्रौ; हिश्रौ ६, २, १५^१; आपमं
 १, ६, २^१; अप^४ ५, २, १; विघ
 २३, ५८^५; ऋअ २, ५, ६९^६;
 शुप्रा २, ६१^७; -ःना: आपश्रौ
 ३, १४, २; भाश्रौ ३, १३, १;
 हिश्रौ २, ६, ३४; -ःनानि आश्रौ
 १, ६, १; ३, ८, १; कौस; -नाय
 आपमं २, २१, ६^८; -ःने वाश्रौ
 ५, १०, २१; बौश्रौ; -नेन अप
 १८, ३, १^९.
 रौचनिक- पा ४, २, २.
 रोचना ✓कृ पा १, ४, ७४.
 रोचना-चन्दना(न-२श्वा)घ-
 -घै: अप १९^२, ३, १.
 ःरोचना-वत्- -वत् बौश्रौ १८,
 १६: १०.

रोचमान- पाग ६, २, १६०; -ःन:
 वैताश्रौ १४, १; आम्रि.
 रोचिष्णु- पा ३, २, १३६; -ःष्णु:
 पाग २, ६, २८; -ःष्णू आपमं
 १, ३, १४; आष्ट १, ७, ६; पाग
 १, ६, ३.
 रोचिष्णु(ष्णु-उ)रस्क^६- -स्का:
 या ३, १५.
 रोचिस्^७- पाठभो २, १, ३११;
 -ःचिषा आश्रौ २, १, २५; काश्रौ
 १८, २, ११; माश्रौ ५, १, २, २.
 रोच्य- पा ७, ३, ६६.
 रुचि- ✓रुच् द.
 रुचि^८- > रौच्य^९- -च्यम् शंघ
 ११६: ४६.
 ✓रुञ्ज^{१०} पाधा. तुदा. पर. भङ्गे; चुरा.
 उभ. हिंसायाम्, रुजति वाधुश्रौ
 ४, ७५ : ७; ९; कौस २५,
 ३२; रुजन्ति या ६, ४; ःरुजासि
 आपश्रौ ३, १२, १; भाश्रौ ३,
 ११, १; हिश्रौ २, ६, १४;
 ःरुञ्ज, > जा ऋप्रा ७, ३३; ३४;
 अरुजत् या २, २४^{११}.
 ःरुण- -णम् आपश्रौ १२, १५,
 ६; हिश्रौ ८, ४, २१.
 रुण-व(त >) वी^{१२}- -त्या
 आपश्रौ १२, १५, ५; बौश्रौ ७,
 ७ : १०.
 रुज- रुज: विघ ३८, १.
 रुज^{१३}- -ञ: अअ १६, ३^१.
 ःरुजत्- -जन् अअ १६, १^१;
 -जन्त: बौश्रौ ७, ७ : १०;
 माश्रौ ५, १, २, १७; या १०,

३०.
 रुजा^{१४}- पाग ३, ३, १०४.
 रुजा(जा-अ)र्थे- -थानाम् पा
 २, ३, ५४.
 रुजान्विन्- पावा ५, २, १२२.
 ःरुजा(न >)ना^{१५}- -ना: अप ४८,
 ७६; निघ १, १३; ४, ३; या
 ६, ४४^{१६}.
 रोग- पाग ५, २, ३६; -ग: दिघ
 १४, ४; -गम् आश्रौ २, ९,
 १०^१; कौय; -गस्य माष्ट १,
 २५ : २०^२ ः; अप ७०, १२, १;
 -गा: अप ७, १, ९; वाध २१,
 २३; -गाणाम् या ४, २१;
 -गात् पा ५, ४, ४९; -गान्
 शंघ ११६: २१; -गाय अप
 ७०^३, १७, ३; -गे पा ५, २,
 ८१; पावा ८, ४, ६१^४; -गेण
 अप ७१, ६, २; शंघ ८३; आपघ
 २, २५, ११; दिघ २, ५, १९०;
 -गेभ्य: कौय ४, १, ४; -गेषु
 अप ६६, १, १.
 रोग-ञ- -ञ: ऋअ २, १, ५०;
 वृदे ३, ११३.
 रोग-चौरा(र-अ)गिन्-संभव-
 -वम् अप ७०^५, ११, २८.
 रोग-(द >)दा^{१७}- -दा अप २६,
 २, ८.
 रोग-नाशन^{१८}- पाग ३, १, १३४.
 रोग-निषोडन- -नात् माशि
 १६, १५.
 रोग-परिमाण- -णानि अप १,
 ३३, १.

a) भाप. । b) वैप १ द्र. । c) विशेष: टि. द्र. । d) लो^१ इति पाका. । e) विप. । ल्यु: प्र. ।
 f) = साम-विशेष- । g) विश्वेदेवानामन्यतम- । रोचक: इति शक. । h) = गो-पित्त- । i) = नक्षत्र- ।
 j) = युलोक- । k) बस. । l) व्यप. । m) = मनु-विशेष- (तु. शक.) । n) या ६, १ परामृष्ट: द्र. ।
 o) = ऋग्-विशेष- । p) तु. पागम. । q) पाभे. वैप १, २६५० g द्र. । r) तु. पाका. । s) उप.
 < ✓दा [दाने] ।

रोग-प्रद- -दाः अप ५२, १५, १.

रोग-भय- -यम् कप्र १, ७, १२.

रोग-लाम- -भाय आज्यो ६, ३.

रोग-संयुक्त- -क्तान् हिध २, १, ६५.

रोग-संबद्ध- -द्धान् आपध २, ४, १२.

रोगा(ग-आ)ख्या- -ख्यायाम् पा ३, ३, १०९.

रोगा(ग-आ)तप- -पयोः पा ४, ३, १३.

रोगा(ग-अ)धिप- -पम् शंघ ११६ : २१.

रोगा(ग-अ)न्वित- -ताः विध ४५, ३२.

रोगा(ग-अ)पनुत्ति- -त्तिः वृदे ३, ११४.

रोगा(ग-आ)र्त्ति, र्त्ता- -र्त्तः द्राश्रौ ६, २, १४; कौण्ड ४, १, १; विध ६२, १६; -र्त्तस्य अशां १७, ३; -र्त्ताम् विध ६९, १५.

रोगित- पा ५, २, ३६.

रोगिन्- -गिणः विध ५४, ३३; याशि २, १००; -गिणाम् शंघ १३८.

रोगिणी- -णीम् विध ६७, ३९.

√रुट्^१ पाधा. भ्वा. आत्म. प्रति-घाते^२; सुरा. उभ. भाषायाम्^३.

√रुट् √रुष् टि. द.

√रुट् पाधा. भ्वा. पर. उपघाते^४.

√रुण्ट् पाधा. भ्वा. पर. गतौ, स्तेये^५.

रुण्ड^६- पाउना १, १०८; -ण्डानि अप ७०^३, १०, ३.

रुत्- √रु द्र.

√रुट्^७ पाधा. अदा. पर. अशु-विमोचने, ऋरोदात्^८ आपमं १, ४, ७; आगृ १, १३, ६; पागृ १, ५, ११; आमिगृ; रोदेत् बौध १, ७, ३०; हिध १, १, ८३.

रुदिति^९ अप ६८, ३, १३; रुदन्ते ७०^३, ८, ३; रुदन्ति काश्रौ १०, २, ३४^{१०}; वाधुश्रौ; बौगृ १, ६, २६^{११}.

ऋदति आपमं २, १३, ५; पागृ १, १६, २५; आमिगृ.

अरुदत् या १०, ५^{१२}; अरोदीत् वृदे २, ३४; या १०, ५^{१३};

ऋदम् आपमं २, १३, ३; ४; आमिगृ २, १, ३ : २९; ३१; भागृ १, २५ : ७; वागृ.

रुदत्- -दत्तः अप ६८, २, १६; -दत्सु अप ७०^३, ८, ५; -दद्भ्यः आगृ १, ६, ८; -दत् वाध १५, १८; आपध १, ३२, २४; हिध १, ८, ६५; -दन्तः वाधुश्रौ ३, ९४ : २; ७; १०; अप ७०^३, ७, २.

रुदती- -तीम् आगृ १, ६, ८; -ऋत्यः आपमं १, ४, ९; आमिगृ

१, ५, २ : ५४; कागृ; -त्याम् आगृ १, ८, ४; कौगृ १, ९, २.

रुदन्ती- -न्ती बौश्रौ १८, १३ : १०; अप ७०^३, ३, ५; -न्तीम् आपगृ ३, ११.

रुदित- -तम् हिगृ १, १६, १७^{१४}; याशि २, ५९.

रुदित्वा वाध ३, ३८.

रोद- -दः बौश्रौ २, ५ : १७.

रोदन- -नाः अप ६८, १, ४३; -ने ७१, १, ४.

रोदन-गीत-साम-शब्द- -ब्दाः आपध १, १०, १९; हिध १, ३, ४६.

रोदनो(न-उ)क्कोशन- -नानि अप ६४, ६, ४.

रोदितव्य- -व्यम् कप्र ३, ३, ९; विध २०, ३०.

रुङ्- √रुष् द्र.

रुङ्, द्रा^१- पाउ २, २२; पाग ४, ३, ११८; -ऋद्र आश्रौ १, १२, ३४^{१५}; ३८, १; काश्रौ; आपश्रौ ९, २, ९^{१६}; भाश्रौ ९, ४, १^{१७}; माश्रौ १, ७, ४, ४; ३, १, २५^{१८}; वाश्रौ १, ७, ४, ६२^{१९}; हिश्रौ १५, १, ४८^{२०}; -द्रः आश्रौ ४, ११, ५; शाश्रौ ६, ३, ४^{२१}xx; काश्रौ; अप ऋट्, १७^{२२}; १०१^{२३}; साअ १, १५^{२४}; ५९५^{२५}; निघ ३, १६^{२६}; या १०, ५^{२७}; वेज्यो ३२^{२८}; -द्रम् शाश्रौ ४, १७,

a) पा १, ३, ९१; ३, १, ५५ परामृष्टः द्र. । b) दीसौ इति केचित् इति BPG. । c) √रुट् इति

[पक्षे] BPG. । d) √रुण्ट्, √रुण्ड् इति [पक्षे] BPG. । e) = कवन्ध- । f) या १०, ५ पा १, २, ८;

७, २, ७६; ३, ९८; ९९ परामृष्टः द्र. । g) पाभे. वैप १ रोदात् खि २, ११, १ टि. द्र. । h) = रोदिति ।

द्वन्द्वोद्देश रूपम् । i) ँन्ती इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. शौ १४, १, ४६) । j) सपा. शागृ १, १५, २

प्ररुदन्त्याम् इति पाभे. । k) पाभे. घृ ४२२ j द्र. । l) वैप १ द्र. । m) सपा. शौ ११,

२, १५ अस्तु इति पाभे. । n) = स्तोत्र- । o) = पर्वत- । p) = अग्नि- । q) = ऋषि-विशेष- ।

r) = आर्द्रानक्षत्र-देवता- ।

१; ६, ३, ४^१; काश्रौ ५, १०, १२^१; आपश्रौ; -^१द्वस्य आपश्रौ १, २, ८; बौश्रौ १, १ : १३; भाश्रौ; -^१द्रा शाश्रौ ६, ६, ६; आपश्रौ १०, २२, ११; बौश्रौ ६, १३ : १; भाश्रौ १०, १५, ६; वैश्रौ १२, १६ : १६; -^१द्राः ^१शाश्रौ ४, २१, ११; १२, १९, २; १४, ३३, ११५; १७, १६, २; काश्रौ; बौध ४, ६, १^१; पि ३, ६^१; -^१द्राः काश्रौ २५, १३, २६^१; आपश्रौ १४, २०, ७^१; माश्रौ; या ११, १५; -^१द्राणाम् शाश्रौ १, ६, २; ४, २१, २४; ९, २८, १५; आपश्रौ; आपमं २, १०, ९; आश्रु १, २४, ३२; पाश्रु १, ३, २७; माश्रु १, ९, २३; हिश्रु १, १३, १२; गोश्रु ४, १०, २०; अप ४१, ५, ७; वृदे १, १२७; ५, ४७; शुभ्र २, २६१; -^१द्रान् आपश्रौ ४, १, ८××; बौश्रौ; वैताश्रौ २२, ४^०; शांश्रु ३, ११, ६^१; पाश्रु ३, ९, ६^१; आपश्रु २०, ८^१; काश्रु ५९, ४^१; माश्रु १, ४, १३^१; -^१द्राय आश्रौ ३, ११, १^१; शाश्रौ ३, ४, ८; ५, ६××; काश्रौ; -^१द्रासः माश्रौ २, ५, ४, २४; ऋश्रु ३, २५; -^१द्रासः शाश्रौ १०, ६, २०; ११, ६, ८; ऋश्रु २,

५, ५७; वृदे ५, ४७; या ११, १५; -^१द्रेण वृदे २, ४; या ७, १०; -^१द्वेभिः शाश्रौ ६, ११, ११; कौसू १०, १६; १३९, १५; अश्रु ४, ३०; अश्रु २ : ३६; -^१द्वेभ्यः आश्रौ ६, ११, १६; आपश्रौ; वैताश्रौ २२, ४^०; -^१द्रेषु शाश्रौ १४, ३३, ११; आपश्रौ ६, ९, १^१; -^१द्वैः आश्रौ २, ११, १२^१; शाश्रौ ३, ६, २^१; आपश्रौ.

रुद्राणी- पा ४, १, ४९; -^१पयः बौश्रौ १९, १० : २५; -^१प्याम् भाश्रु ३, १३ : ४^१; -^१प्यै शाश्रौ ४, १९, ५; पाश्रु ३, ८, १०; बौश्रु २, ८, १६; भाश्रु ३, १३ : ४.

रौद्र^१-^१द्रः काश्रौ १५, १, २६; ३, १२; १६; बौश्रौ; अप ३२, १, १७^१; आपश्रु २, ४, ६^१; हिध २, १, ५९^१; आज्यो १, ६^१; -^१द्रम् आश्रौ ८, १, २०; काश्रौ १, १०, १४××; आपश्रौ; अप २०, ६, ४^१; ऋश्रु २, १, ४३; ११४××; अश्रु ४, ३; २८××; -^१द्रस्य शाश्रौ ६, ११, १०; बौश्रौ १०, ५६ : ११; माश्रु २, २, १९; अशां ६, २^१; -^१द्राः शांश्रु ४, १९, ४^१; अप ७१, ३, ३; शुप्रा ८, ४०; याशि २, १; -^१द्राणि आज्यो २, १; -^१द्रान् काश्रौ ५, १०, १; १६; वैश्रौ;

-^१द्राम्याम् अप ३३, ६, १२^१; -^१द्रे अप ७०^१, १७, १; विध ७८, ११^१; शुभ्र; आज्यो २, १^१; -^१द्रेण ^१शाश्रौ ६, १२, ३; १३, १; काश्रौ; -^१द्रेषु अप २५, १, ८; -^१द्वैः जैश्रौ १३ : २५; अप्राग २, ४; -^१द्रौ अप ३३, ६, ३^१.

रौद्री-^१द्रौ अप ३१, ८, २; ६३, ५, ५; ७०^१, १०, १; अशां १६, १; ऋश्रु; -^१द्वीभिः हिश्रौ १२, ६, २६; काश्रु ५८, ४; -^१द्रीम् अप ५४, २, ४××; अशां; -^१द्रयः वृदे ३, १०८; -^१द्रया आपश्रौ १५, १८, ५; अश्रु २, २७; -^१द्रयाः शाश्रौ १४, ५७, ३; -^१द्रयाम् अशां १८, ५; १९, ५; -^१द्रयौ बौश्रु ४, २, ८; शुभ्र १, २२२; अश्रु ६, ५५-५७.

रौद्र-गुलक > लिका^१-^१काः कौश्रु ४, १९^१.

रौद्र-जटिल-^१रुः अप ६८, ५, ९.

रौद्र-मन्त्र-^१न्त्रैः अप १९^१, ३, ४.

रौद्र-राक्षस-नैर्ऋत-पैतृक-छेदन-भेदन-खनन-निरसना (न-अ)वघ्राणा(ण-आ)त्माभिर्मर्शन-^१नानि वैश्रौ ४, ७ : ११; भाश्रु ३, १८ : ८.

रौद्र-राक्षस-नैर्ऋत-पैतृक-छेदन-भेदन-निरसना(न-आ)

a) = एकादश-रुद्रानुवाकाः ।

२ टि. द्र. । d) = रुद्र-मन्त्र- ।

वैप १ रुद्रेभिः तै २, १, ११, २ टि. द्र. ।

सूक्त- प्रभृ.) । साऽस्य देवतादयर्थे ङण् प्र. ।

k) = सुहूर्त-विशेष- । l) = [रुद्रापत्य-] स्कन्द- ।

गोलकाः <> रौद्रगुलिकाः इति पामे. ।

= यवादिमय-पिष्ट- ।

b) = एकादशाक्षर- । c) पामे. वैप १ रुद्रान् तै ४, ४, १,

e) पामे. वैप १ रुद्रेभ्यः तै ४, ४, १, २ टि. द्र. । f) -पामे.

g) = [प्रकरणतः] गृहावयव- । h) विप. (चरु-मन्त्र-

i) = मन्त्रगण-विशेष- । j) = [रौद्र-] बलि- ।

m) = [रुद्रदेवत्य-] आर्द्रा-नक्षत्र- । n) सपा. रौद्राः

o) = शान्ति-विशेष-, ऋग्-विशेष- । p) उप.

त्सामिमर्शन- -नानि आपश्री
२४, २, ९.

रौद्र-राक्षस-पैतृक-नैऋत-

छेदन-भेदन-निरसना(न-आ)

त्सामिमर्शन- -नानि आमिष्ट
२, ७, ९ : ५.

रौद्र-राक्षस-पैशाच- -चान्
अप २२, १३, १.

रौद्र-सूक्त- -क्तैः कौष्ट ४, १,
८.

रौद्र-सौर्यौ(र्थ-श्रौ)षस- -सेषु
वृदे ४, ९९.

रौद्र-होम-क्षपन- -नम् अप
४०, १, ९.

रौद्रा(द्र-आ)धेय- -यम्
अप १८, १, ३.

रौद्रा(द्र-आ)दि- -दिः शाश्रौ
६, १२, ४.

रौद्रा(द्र-अ)ध्याय^३- -यः
शुभ्र २, २४५.

रौद्रक- पा ४, ३, ११८.

रौद्री(य>)या^१- -या अश्र १,
१९.

रुद्र-कार्य- -याणि आज्यो २, १.

रुद्र-गण- -गः अप ३२, १, १६;
१७; अशां १८, ५; -गान् अश्र
५, ६; -गेन अप १९, ३, ५.

रुद्रगण-रौद्रगण- -गयोः अश्रभू
१.

रुद्र-ज- -जम् अप ७०^३, १०, ४.

रुद्र-त्त्व- -त्वम् या १०, ५१.

रुद्र-देवता->त्वस्य- -त्याः काष्ट
७०, ५.

रुद्र-दैवत्य- -त्यः चाश्र १७ : १७;

-त्यम् चव्यू ४ : २३; -त्यौ
वैष्ट ३, १७ : ५.

रुद्र-पत्नी- -न्याः वृदे ५, ४६.

रुद्र-पार्षद- -दान् आमिष्ट २, ६,
३ : २५^१; शंघ ११६ : २६;

बौध २, ५, २०.

रुद्र-पार्षदी- -दीः आमिष्ट २, ६,
३ : २५; बौध २, ५, २०.

रुद्र-मन्य- -न्यम् वैष्ट ३, १७ : ५;
४, ९ : ५.

रुद्र-मातृ^०- -तरम् वाष्ट ११, २१^१.

रुद्र-रौद्र- -द्राभ्याम् अप १८^१,
१, २; -द्रौ अप ३३, १, ९.

रुद्ररौद्र-गण- -णौ रूशशां २३,
५; २४, २.

रुद्ररौद्र-पर^०- -रैः अप ३३, ६,
११.

रुद्र-लोक- -कम् अप ४०, ५, ५;
-के अप ३१, १०, ४.

रुद्र-वत् निसू ७, १ : १९.

रुद्र-वत्- -वतः काश्रौ १०, ७, १३^१;
-वते आश्रौ ५, १, १५^१; शाश्रौ;

-रूवन्तम् आश्रौ ५, ३, १०;
शाश्रौ ६, ९, १३; माश्रौ ५, १,

१०, ६; हिश्रौ २२, ३, २०;
-रूवान् आश्रौ २, ११, ११;

काश्रौ १०, ७, १३.

रुद्रवती- -तीः निसू ६,
१३ : ३; -रूतीम् आपश्रौ ११,

५, १; बौश्रौ १, ११ : २६; ६,
२३ : ३; भाश्रौ २, २, ६; हिश्रौ

१, ६, ११.
रुद्रवद्-गण^०- -णस्य आपश्रौ
१२, २४, ७; बौश्रौ ८, ४ : २४;

२६, ८ : ७; माश्रौ २, ४, ४, २९;
वैश्रौ १६, ६ : १; हिश्रौ ८, २,

२०; -णेन बौश्रौ २६, १५ : १०;
१९; २६.

रुद्र-शमन- -नम् चाश्र १७ : १६.

रुद्र-संसि(त>)ता- -ते अशां
१, ५.

रुद्र-सावर्ण^०- -र्णम् शंघ ११६ :
४६.

रुद्र-सावित्री- -त्रीम् अप ४०, २,
६; ६, ४.

रुद्र-सूक्त- -क्तम् वैष्ट ६, २० : ४.

रुद्र-सूतु- -सूत् वृदे ५, ६९.

रुद्र-सेना- -नाभ्यः शाश्रौ ४, १९, ७.
रुद्र-होतृ^०- -तारम् बौश्रौ ९, १९ :

२०; बौष्ट ३, ४, १३; -त्रे
आपश्रौ १५, ११, ७; बौश्रौ.

रुद्रा(द्र-अ)भिमान- -ने काश्रौ २३,
४, १९.

रुद्रा(द्र-अ)वसु(ष्ट>)ष्टा- -ष्टा
माश्रौ २, ३, २, १३^१.

रुद्रा(द्र-अ)हुत्य(ति-अ)न्त- -न्ते
बौष्ट ३, १३, ४.

रुद्रद्वि, या^०- -या आपश्रौ ११,
२, ४; बौश्रौ ६, १९ : २५; भाश्रौ

१२, २, ७; माश्रौ २, २, १, ४६;
वैश्रौ १२, २४ : ३; हिश्रौ १०,

३, ३६; -यामिः आश्रौ २, ११,
१२; शाश्रौ ३, ६, २; -याभ्यः
काश्रौ २५, ११, २६; आपश्रौ

१०, १३, ११; बौश्रौ २८, ९ :
२४; -याय माष्ट १, १०, १०^३.

रुद्रै(द्र-ए)कादशि(क>)का^१-
-काम् बौध ४, ६, ४.

a) कस. । पृ १२५ सस्थ. अध्यायः इति नेष्टम् । b) सास्यदेवतीयश् छण प्र. उसं. (पावा ४, २, २८) ।

c) उप. = रमातृ. । d) बस. । e) वैप १ द. । f) = मनु-विशेष- (तु. शक) । g) वैप १

निर्दिष्टानां समावेशः द. । h) पाभे. वैप १ रोदात् खि २, ११, १ टि. द. । i) = रुद्रसंबन्धिन्- एकादश-

श्रुवाकिं पस. ।

√रुघ् पाधा.दिवा.आत्म. कामे; रुधा.
उभ. आवरणे, रुणद्धि आपश्रौ ९,
८,२; रुन्ध्यात् आपश्रौ ८,६,२२;
बौश्रौ ५,७:७; भाश्रौ ८,८,५;
वैश्रौ ८, १२:३; हिश्रौ ५, २,
४६.
ःअरुस्महि हिश्रौ ७,२,८३.
रुध्यते अप ६३,३,१०; रुध्यन्ते
अप ६३,४,२.
रु(द्ध>)द्धा-द्धा गोष्ट २,३,११.
रुधत्-धतः या ५,२फं.
ःरोध->°ध-च(क>)का-
-का: अप ४८,७६; निघ १,१३;
-के अप्रा ३,२,१.
रोधस-ध: या ६,१७; -धांसि
अप ७१,१२,१.
रोधस-व(त्>)ती-त्य: निघ
१,१३फं.
√रुघ्(=√रुह्)>ररोध->रोधा-
(ध-अ)वरोध-धात् कौसू ९८,
२.
रुधिर^{अ०}- पाठ १,५१; -रम् वाधूश्रौ
४,६८:७; अप १,२७,२; २७,
१,२; ६७,७,२; ७०^३, ११,१३;
७१,८,३; सुध ५०; -रस्य बौश्रौ
२,१०:३२फं; -रे अप ६४,८,
६^३; -रेण बौश्रौ ९,१८:११फं.
रुधिर-प्रकोप-पा: अप ७०^३, ११,
२४.
रुधिर-प्राशन-ने सुध १८.
रुधिरा(र-अ)गम-म: अप ६८,
२,१८.
रुधिरा(र-अ)ङ्ग^अ-ङ्गान् अप ६८,

१,१५.
रुधिरा(र-अ)म्बु^अ-म्बु अप ७१,
१९,५.
रुधिरो(र-उ)पगत-कण्ठ-ण्ठे
विध २२,६७.
रुधिरो(र-उ)पल-पांसु-वर्ष-र्षे
वैध २,१२,३.
√रुप्(वधा.)पाधा.दिवा.पर. विमोहने,
ःरुक्षाम आपश्रौ ३, १, २;
बौश्रौ १,१७:२८; भाश्रौ.
ःरुष्-रुष: या ६, १७; ऋप्रा २
७५; उसू २,११.
रुमण->रुमण-वत्- पा ८,२,१२.
रुमथा अप ४८,११६फं.
रुमा-पाउभो २,२,२४३.
रुम्र-पाठ २,१४.
रुमाल-ले आमिष्ट २, ४, १:२३.
रुमर(वप्रा.)^{अ०}- पाठ ४,१०३; पाग २,
१,५६; ४,३,१६२^६; ५,३,१०८^६;
-रव: अप ७१, ३,३; -रु: कप्र
३,८,११; अप ६८,५,८; -रम्
अप ७०^३, ५,२.
रुरैरव-पा ४,३,१६२; -वम् पाष्ट
२,५,१८; आमिष्ट १,१,२:४३;
काष्ट ४१, १३; बौष्ट; भाष्ट १,
१:७; -वेण आय १,१९, १०;
कौष्ट २,१,३; शांष्ट २,१,४; विध
८०,७.
रुरैव-पार्षत्-तानि कौसू ५७,
११.
रुरैक-पा ५,३,१०८.
रुरु->रुरैक-पा.) पाग ४, ३,
११८.

रुरु->रुरैव^क-विणाम् जैश्रौप
२१.
रुरु->रुरैक-पा.) पाग ५,२,
१००^६.
रुरु^क->रुरैक^क-कीणि^क द्राश्रौ
४,३,१^{१०}; लाश्रौ २,३,१.
रुरैक^क-नाहण-गम् गोष्ट ३,२,६.
रुवत्-, रुवथ-√ह (वधा.) द्र.
√रुश्(वधा.)पाधा.तुदा.पर.हिंसायाम्.
ःरुशत्-शत् निघ ४,२; या ६,
१३^७; १४; ऋप्रा १४,४९.
ःरुशती-ती आपमं १,
१७, ८; कौसू १०२, २; या २,
२०; अप्रा ३,४,१.
ःरुशत्-पशु^अ-शु: काश्रौ ९,३,
१; आपश्रौ १२,५,१; बौश्रौ.
रुशद्-व(त्स>)त्सा^अ-त्सा या
२,२०फं.
ःरुशाम^अ-मेभु आश्रौ ८,३,१०; शांश्रौ
१२,१४,१.
रुरैव^अ-म: वृदे ५,३४.
√रुष्^अ, पाधा.भा.दिवा.पर.हिंसायाम्;
जुरा.^अ पर. रोषे, ःरोषाति आश्रौ
६,५,१८; शांश्रौ ९,२०,२६.
रुषति नाशि १,१,६.
रुष(त्>)ती^अ-त्य: माष्ट २,७,
१फं.
रुषित-, रुष्ट-पा ७,२,२८.
रोष-ष: आपघ १, २३, ५; हिघ
१,६,१३; -षाय वाष्ट ४,२४.
रुष^अ->रुष-र-
रुषङ्कि-ङ्कि: अप ४८,११६फं.
रुष्टि^अ->रुष्टि-मत्-

a) वैप १ द्र.। b) = नदी-। c) = अस्त्य-। d) बस.। e) उपमितसमासः। f) विशेषः
टि. द्र.। g) = वृत्त-भेद-। h) तु. पागम.। i) विप. (चर्मन्-). विकाराथे अण् प्र.। j) = ऋषि-विशेष-।
k) = तत्प्रोक्तशाखाध्यायिन्-। l) = यजुस्-। m) रं इति पाठः? यनि. शोधः (तु. लाश्रौ.).। n) धा.
दीप्तौ वृत्तिः। o) अपत्यार्थे प्र.। p) पा ७, २,४८ परामृष्टः द्र.। q) √रुट् इति [१६] भारुडा. प्रुष्ट.।
r) अर्थः? = रुशती- इति इ.। s) पृ ७५९ f द्र.। t) पृ १९६९ II द्र.।

रुष्य- (> रुष्य-वत्- पा.) पाग ४,
२, ८६.

✓रुह (बधा.)^a पाधा. भवा. पर.
बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च,
रोहति शांश्रौ ११, १४, १३१;
१६, १७, १०^३; आपश्रौ; रोहन्ति
शांश्रौ ५, १०, ३२१^b; अप १०,
१, २१; ऋरोहन्तु बौश्रौ ३, २६:
४; हिश्रौ ६, ३, १४; कौश्र ५,
५, ५; रोहन्तु आश्रौ ४, ७,
४१^b; बौश्रौ १०, २४: १८;
वैश्रौ १८, १५: ५; ऋरोह बौश्रौ
११, ११: १४; वैश्रौ १७,
१४: ११; हिश्रौ; रोहाणि
बौश्रौ १७, ३९: ९; रोहाव
काश्रौ १४, ५, ६१; ७; बौश्रौ ११,
११: १२^१; वाश्रौ; रोहेत्
आश्रौ ८, २, १३; ४, १३; ६,
१५; ९, १३; रोहेयम् शांश्रौ
१६, १७, ११^१.

रुहात् निसू २, ९: ३१.

रुहन्ति अप ७०^२, ७, २४;

ऋरोहेयम् आपश्रौ १८, ४, १२;

बौश्रौ ११, ७: ३०; हिश्रौ १३,

१, ४६; वेताश्रौ २७, ६७^४.

रुह्नु: या ६, ३१^१; ऋरोहिथ

अप्र ६, १३९; अपं २: ६४;

३: ३७, ऋरोक्ष्यामि आपश्रौ

१८, ५, १२; बौश्रौ ११, ११:

१३; वाश्रौ; ऋरुक्षत् कौसू

१२५, २; अप्राय २, ६; ऋरुहम्

शांश्रौ १६, १७, ८; वैश्रौ १२,

१६: १२; १७: १०.

रोपयन्ति भाग्य ३, ११: १२;

हिय २, २०, १०; रोपयेत्

आमिय १, २, ३: ४५; माशि

२, ७; नाशि १, ६, ५.

रोहयस्व माश्रौ २, ५, ४, २४;

ऋरोहयेयम् भाश्रौ ५, १, ९;

हिश्रौ ३, २, ८.

ऋरुह^१- रुह: आश्रौ ४, ७, ४^१;

शांश्रौ ५, १०, ३२^२; अज १३, १.

ऋरुहव^२- ह्व वेताश्रौ १७, ६;

कौसू ९१, १२.

ऋरुहाण- णा: बौश्रौ १४, २१:

१३; ऋत ३, ७, २.

रुह- ढ: बौश्रौ ४, १: १६; वैश्रौ

१०, १: १३; हिश्रौ ४, १, १४;

-ढस्य अप ६८, २, ५०; -ढाय

वाश्रौ ३, २, ७, ३१.

रुह-पर्याय^३- -या: लाश्रौ ६,

७, ७.

रुह-प्रत्यवरुह- -ढम् निसू १०,

१२: १८.

रुह-श्मश्रु^४- -श्रु: गौघ ९, ७.

रुह-श्मश्रु-नख^५- -खानाम्

अप ६८, २, ४६.

रुहा(ढ-आ)वृत्त- -त्तम् निसू

९, १०: २९; १२: २७; -त्तान्

निसू १०, ८: २; -त्तौ निसू

९, १२: १३.

१रुढि-> रुढि-गत- -तम् वृदे २,

१०२.

रुढि-शब्दा(ब्-अ)र्थ-सं-

(ज्ञा>)ज्ञ^६- -ज्ञा: अप्रा ३, ३,

२१.

रोक्ष्यत्- -क्ष्यन्त: आश्रौ ११, ३, ७

रोपण- -णानि आज्यो ५, ९.

रोपयिष्यु- -ष्यु वेताश्रौ १०, १७^१.

१रोह^६- पा ३, १, १४०; -ह:

शांश्रौ १५, २, २७; २८; ४, ३;

निसू २, ८: २३×४; या ७,

२३; -हम् निसू ४, ६: १७;

-^१हा: निसू २, ९: ३१; -हाणाम्

निसू २, ९: ३१; -हात् वृदे

१, १०२; या ७, २३; २७;

-^१हान् आपश्रौ ५, ३, ५; बौश्रौ

२, १२: १८; १७, ३९: ९;

भाश्रौ ५, १, ९; हिश्रौ ३, २, ८;

आमिय १, ३, १: १०; -हेण

निसू ९, ३: १३; १०: ११;

या ७, २३.

रोह-दर्शन- -नम् निसू ६, ३:

१३.

रोह-प्रत्यवरुह- -हौ निसू ९,

१२: ६; १०, ५: २०; ८: ३;

१२: ७; १३; १४.

रोहो(ह-उ)पकार- -र: निसू ८,

८: ३८.

रोह(ण>)णी^७- -णी कौसू २८,

५^१.

रोहत्- पाग ३, १, १२; -हन्तम्

शांश्रौ १६, १७, ११.

✓रोहाय पा ३, १, १२.

रोहन्त- पाउ ३, १२७.

ऋरोहस^८- -ह: शांश्रौ ८, २५, ३;

-होभ्याम् शांश्रौ ८, २५, ३.

१रोहि- पाउ ४, ११९.

१रोहि(र>)णी^९- -णी अग्र ४,

१२^१.

रोहिव्यै बौश्रौ ४, ९: १९^१; पा

३, ४, १०.

a) पा ३, १, ५९; ७, ३, ४३ परामृष्ट: द्र. । b) पाभे. वैप १ रोहन्ति मै ४, १२, २ टि. द्र. । c) पाभे.

वैप २, ३ सं. रोहेयम् गोत्रा २, ५, ८ टि. द्र. । d) रोहेयम् इति ०. शोध: । e) वैप १ द्र. । f) पाभे. वैप १,
२०७८० द्र. । g) = व्याहृति-विशेष- । h) बस. । i) कस. > दस. । j) कस. > षस. > बस. । k) कर्त्तरि
मार्त्त क वृत् । l) पाभे. वैप १ रोहणी श्रौ ४, १२ १ टि. द्र. ।

रुहन्- पाठ ४, ११४.

√रू (= √लू), ऋराविष्ट आश्रौ ३, ३, १; शाश्रौ ५, १७, ९; माश्रौ ५, २, ८, २३.

ऋरवित्- ता आश्रौ ३, ३, १; शाश्रौ ५, १७, ९.

√रूक्ष पाधा. चुरा. उभ. पारुष्ये.

१रूक्ष, क्षा^b - क्षः द्राश्रौ ३, ४, २; निसू ८, ४ : २८; ३४; ३६; अप ५१, ३, १; ५३, ५, १; -क्षाः अप ५२, ३, ३; ४, १; ५८, १, ७; ६४, २, ४; बौध २, ३, ४०; -क्षाम् वाध २७, ११; -क्षे अप २२, ३, ४.

२रौक्ष्य- क्ष्यम् आशि ८, २०.

रूक्ष-पेपम् पा ३, ४, ३५.

रूक्ष-स्फुटित-दुर्दशै- शार्ः अप ६८, १, ३९.

रूक्ष-न्ना(व >)वा^c - वा अप ६४, ८, ५.

१रूक्षोभावुकः^d द्राश्रौ ३, ४, २.

२रूक्ष^e - (>रौक्षायणि- पा.) पाग ४, १, १५४.

रूढ-, १रूढि- प्रत्य. √रूढ द्र.

२रूढि^f - > रौढीय^g -> प्य-पाणि- नीय^h - पाग २, २, ३१.

रूढ- (>रौढेय-पा.) पाग ४, १, १२३

√रूप पाधा. चुरा. उभ. रूपक्रियायाम्.

रूप^h - पाठ ३, २८; पाग ५, २, ९५;

-पम् शाश्रौ ८, १६, ३४४;

आपश्रौ १, ६, ११४; १५, १२४; १५, १२४; बौश्रौ; भाश्रौ ११, ११, १२४.

१५, २-२८; या ३, १३६;

-ऋपम्-पम् कौट १, ८, ७;

शांग १, १२, ७; कौसू १३५, ९;

अश्र १२, ११; या १०, १७१;

-पस्य अप ४८, ७९; विध ९०,

२६; निघ ३, ७; -ऋपाणाम्

शाश्रौ ४, १०, १; काश्रौ ५, १३,

१; बौश्रौ; -ऋपाणि आश्रौ २,

६, २; ११, ४; ४, ९, ५; शाश्रौ

३, ७, ४³ × ×; काश्रौ; बौश्रौ १०,

१५ : ४ १; वाश्रौ १, ४, ४,

४१; -ऋपाणि बौश्रौ १२,

१० : २५; ४३; -पात् माश्रौ १,

२, ५, ७१; निसू ४, १२ : १५, ५,

२ : २३; वृदे १, २५; मीसू १,

२, ११; -पे वाधुश्रौ ३, २६ :

२-४; ४१ : १; ६९ : ३२; निसू

१०, ४ : ७; तैपा ४, १११;

-पेण आश्रौ २, ११, ३१; शाश्रौ

१४, २४, ३ × ×; काश्रौ; बौश्रौ

१४, १२ : १२१; या १४, ४;

-पेभ्यः शाश्रौ १५, १४, ४;

आपश्रौ १२, १९, २१; बौश्रौ

१४, ८ : ३०१; अप ४०, ३, ३;

-पेषु बौश्रौ २३, २ : २९; -पैः

आपश्रौ ७, ५, २१; भाश्रौ ७, ४,

३१; हिश्रौ ४, १, ६५१; अप

५७, १, ८; २, ८; ३, ६; या ८,

१४१.

रूप-काम- मस्य आग्रिण २, ४,

११ : २.

रूप-कृत्- कृत् काश्रौ ५, १३, ११;

वृदे १, ८४.

रूप-ग्रहण- -गम् पावा ६, ३, ४९.

रूप-तसः (ः) बौश्रौ २८, ७ : १.

रूप-धेय- पावा ५, ४, ३६.

रूप-नामन्- -म या २, ९; ३, ११;

५, ८; १३; ८, ११; -नामानि

निघ ३, ७; या ३, १३.

रूप-नियम- -मः वैश्रौ १५, १ : १;

हिश्रौ ८, ५, १४.

रूप-वति- -तिः काश्रौ ५, १३, ११.

रूप-भाज्- -भाक् विघ ९०, २४.

ऋरूप-भृत्- -भृत् अप १, ३९, २;

अशा ९, २.

रूप-यौवन-संप(ञ >)ञा- -ञाम्

विघ १, २९.

रूप-रश्मि- -श्मयः अप ५२, ४, ३.

रूप-रस-नान्ध-व(त् >)ती- -त्यः

शंघ २३४.

रूप-लिङ्ग- -ङ्गाम् मीसू ६, ८,

४०.

रूप-वत्- पा ५, २, ९५; -वतः

विघ ७८, १९; -वान् वाध १६,

२८; २९, २.

रूपवती- -०ति माण २,

१४, ३०१; -ती वृदे २, १०७;

या ५, १३; -तीम् विघ ९०, ७.

रूपवद्-भा(या >)र्षⁱ-

-र्षः वृदे २, १०७.

रूपवत्-ता- -ताम् वृदे ७, ४५.

रूप-वर्ण-प्रमा-ज्ञेह-प्रमाणा(रा-आ)

कृति-सङ्गम- -मैः अप ५८², १,

७.

रूप-विकर्त्- -र्त्ता वृदे ३, २५.

रूप-विपर्यय- -यम् विघ ९६, २७.

a) = मृत्यु- इति ०.। b) वैप १ द्र। c) बस.। d) पाठः १रूक्षंभावुकः इति शोधः।

e) तु. पागम.। f) व्यप.। g) प्रोक्ताध्ययने ङ्ण प्र. उत्सं. (पा ४, ३, १०२)।

h) वैप १ द्र.। पाप्र. (५, ३, ६६) = प्रत्यय-। i) सकृत् साम्राज्यस्य रूपम् इत्यस्य स्थाने हिश्रौ २४, ६, १२

साम्राज्यरूपम् इति पाप्मे.। j) णि इति पाठः १ यनि. शोधः (तु. ऋ ५, ८१, २)। k) पाप्मे. वैप १

रूपे मा ८, ४८ टि. द्र.।

रूप-विप्रतिषेध- -घात् द्विश्रौ १, १, १६.
 रूप-विशेष- -घैः या ११, ५.
 रूप-वीर्य- -र्याणि वृदे ४, १३४.
 रूप-शब्दा(ब्द-अ)विभाग^१- -गात् मीसू ६, ३, १२.
 रूप-शस्त्र (ः) कौसू ११४, ३; १२८, २; या १४, १९.
 रूप-संयुक्त^१- -तम् वेज्यो १३.
 रूप-समुद्भ- -द्धम् या १, १६.
 रूप-संपन्न, ज्ञा- -न्नम् वृदे ३, १४४;
 -ज्ञाः निसू ६, ८ : ३८; १० : ३०; ७, २ : ३; या १, १५; १६; -ज्ञानि निसू ८, ११ : २९; ९, ५ : २३; २७; -ज्ञाम् अप १, ४९, ४; ५०, ३; अशां १३, ३; ४; -ज्ञे निसू ९, ३ : ४१^२; ५ : १८; २६.
 रूप-सहस्र- -स्त्रेषु नाशि २, ८, १८०;
 -सैः माशि १६, ३०.
 रूप-सामान्य- -न्यात् पाप्रवा १, १६.
 रूप-सौभाग्य-वत्- -वान् विध ९०, २.
 रूप-स्थानिवद्भाव- -वस्य पावा १, १, ५९.
 रूपा(प-अ)जी(व>)वा^१- -वायाः अप १, ४५, ७.
 रूपा(प-अ)तिदेश- -ज्ञाः पावा ७, १, ९६; -ज्ञात् पावा ७, १, ९६; ४, ९३.
 रूपा(प-अ)दि- -दिभिः वृदे १, ४७.

रूपान्तरणम् काश्रौसं ४ : १४.
 रूपा(प-अ)न्यत्व- -स्वात् मीसू ६, ८, ४१; -त्वे तैप्रा २२, २.
 रूपा(प-अ)भेद- -दे पावा ६, ४, १२०.
 रूपा(प-अ)वचन- -नात् मीसू २, २, ३.
 रूपा(प-अ)सिद्धि- -द्धिः पावा ७, ४, ८५.
 रूपि पा ३, १, २५.
 रूपस्- > षस्-विन्- > ष्वि- तम- -मः पाग ३, ९, ६१.
 रूपीय^१- -यः बौश्रौ १५, १ : १४.
 रूपो(प-उ)न^१- -नम् वेज्यो २३.
 रूपो(प-उ)पदेश- -शाभ्याम् मीसू ३, २, २५.
 रूपो(प-उ)पमा- -मा या ३, १६.
 रूपो(प-उ)पलब्धि- -ब्धिः मीसू २, १, ३.
 रूप्य^१- पा ५, २, १२०; -प्ये विध ९९, १०.
 रूप्य^१- -प्यम् अप ५, २, ५.
 रूप्य-कुम्भ-निभ- -भाः अप ५२, १३, ५.
 रूप्य-खुर^१- -रम् विध ८७, १.
 रूप्यखुरी- -री अप ९, २, १; -रीम् विध ९२, ८.
 रूप्य-द्रव-समा (म- आभा>)भ^१- -भेषु अप ६१, १, ५.
 रूप्य-लाङ्गूल-दक्षि (ण>)णा^१- -णा अप ९, २, १.

रूप्य-दान- -नेन विध ९२, १४.
 रूप्य-माष^१- -षम् विध ५०, ४४.
 रूप्य-माष-क^१- -कः विध ४, ११.
 रूप्य-सुवर्ण- -र्णेन शंघ ११६ : ७८.
 रूप्य^१- (>रौप्यायणि- पा.) पाग ४, १, १५४.
 रूप^१- -राय कौसू ३२, १७; अप ३२, १, ७; अत्र ७, ११६; अर्षं २ : ७२.
 रूप^१- -रूल्ह, रूल्हति निव २, १४१.
 रूप^१- -रूष् पाधा. भ्वा. पर. भूषायाम्.
 रूप^१- (>रूष-र-) रूप्य- (>रूप्यय पा.) पाग ३, १, २७.
 रूप^१- पाउना ३, ९३.
 रूप^१- पाग १, ४, ५७.
 रूप^१- देज्यो १८.
 रूप^१->रे-वत्- पावा ६, १, ३७; १७२; -रैवत् आश्रौ ४, १२, २; आपश्रौ २२, १२, २०; बौश्रौ; -रैवतः आश्रौ ८, १, १६; शाश्रौ १०, ८, ७; छसू २, ११ : १७; -रैवान् आश्रौ ८, १, १६; शाश्रौ १०, ८, ७xx; आपश्रौ. १रेवती^१- -रैवति काश्रौ ६, ५, १०; काठश्रौ ५७; माश्रौ; या १२, ९; -ती गो २, २०१; -रैवीः आश्रौ ५, १, १९; ८, १, १६; शाश्रौ; आमिष्ट ३, ६, १ : २३१; बौपि १, ९ : ११; द्विपि ७ : १२१; चाञ्ज ४१, ६१

a) द्रस.>षस. । b) पूष. = एक- । c) परस्परं पासे. । d) विप.>नाप. । e) = रूप- । f) रूपवचनः इति लाधासं. । g) विप. । प्रशंसाथे छः प्र. उसं. (पा ५, २, १२०) । h) = रजत-दीनार- । i) विकारार्थे प्र. । j) बस. । k) कस.>तुस.>बस. । l) मलो. कस.>बस. । m) उप. = परिमाणवचन- । n) व्यप. ? । o) वैप १ द्र. । p) पृ ७५९ द्र. । q) = रेवती-नक्षत्र- । r) विप. (२अप्, गो-) । s) पासे. वैप १ रीयते ऋ १६, ५३, ८ टि. द्र. । t) ष्वीम् इति पाठः? (तु. काठ ८, १७ मूको.) यति. शोधः (तु. ऋ १, ३०, १३) ।

-**फं**न्तीः आश्रौ ४, १३, ७;
७, ११, ७; शाश्रौ; आपश्रौ ७,
१५, ७; बौश्रौ ४, ६: ३०;
माश्रौ ७, १२, ११; वैश्रौ १०,
१२: ९; हिश्रौ ४, ३, ४७;
-**फं**तीभिः काश्रौ २५, ५, २८;
आण् २, ९, ५; माण् २, ११, १७.

रैवत्य^५- पा ४, ४, १२२;

-**फं**त्यम् माश्रौ १, २, १, ११;
वाश्रौ १, २, ४, ८.

रैवेती^{५७}- पा, पाग ४, १,
४१; -**ति** अशां ५, ६;
-**ती** बौण् १, २१; माण् २,
१०, ७; अप १, १, २×४; -**फं**तीः

आपमं २, २, ३; ७, २७; आपण्
१२, ८; काण् ४१, ५; अप्रा ३,
४, १; -**ती**म् अप १, ८, ८; ४१,
६; अशां ५, ६; ११, ६; विध
९०, २६; -**त्या** कौण् ३, ५, ९;
शाण् ३, १०, १; वाण् १५,
१७; अप १, ३०, २; -**त्या**म्
कौण् ३, ६, २; शाण्; -**त्यै** शाण्
१, २६, २६; वैण् ३, २०: ११;
अशां १२, ४.

रैवैत- > ंती^६-

-**त्या**म् अप १८^२, ९, १; १८^१,
१, २.

रैवेती- पाग ४, १, १४६;
पावा ४, ३, ३४.

रैवतिक- पा ४, १, १४६;
पाग ४, ३, १३१.

रैवतिकीय- पा ४, ३,
१३१.

रैवती-प्रीति- -**त्यै** विध ९०,
२६.

रैवती-युत- -**ते** विध ९०, २६
धरेवती^१- -**ती** बौश्रौ १३, १४:

९; हिश्रौ २२, ३, ३; निस् २,
१२: ३९; -**ती**: निस् ४, ४:

८×४; -**ती**नाम् शाश्रौ १२, ६,
११; छुस् २, १०: २८; ११:

१८; -**ती**भ्यः निस् ६, ९: ७;
-**ती**षु आपश्रौ २२, ६, १०; हिश्रौ;

-**त्यः** द्राश्रौ ६, १, ८; लाश्रौ.

रैवती-गर्म^६- -**र्म**म् निस् ८,
२: ३७.

रैवती-परोक्ष- -**क्ष**म् निस्
४, ४: १८.

रैवती-पृष्ठ- ष्ट. लाश्रौ १०,
१३, १२.

रैवती-संयोग- -**गात्** निस्
६, ६: २३.

रैवैत^१- -**तः** आश्रौ ४, १२,
१; लाश्रौ ७, १, १; -**त**म् आश्रौ

८, १, १६; बौश्रौ; या ७, ११;
-**तस्य** शाश्रौ १०, ८, ७; लाश्रौ

६, १०, १२; -**फं**ताय शाश्रौ ९,
२७, १; बौश्रौ.

रैवत-गर्म^६- -**र्म**म् शाश्रौ
१५, ७, ५.

रैवत-पृष्ठ^६- -**ष्ट**: वाश्रौ ३,
२, १, ६१; -**ष्ट**म् आश्रौ १०, ७, १.

रैवत-सामन्^६- -**मा**^६
बौश्रौ १६, ४: १३; हिश्रौ १६, ३,
३१^५; -**मान**म् आपश्रौ २१, ७,

१२^६; बौश्रौ १६, ३४: १४.

रैक् पाधा. भ्वा. आत्म. शङ्क्याम्.

रैक्णस्- प्रथ्. रैक् द्र.

रैख^१- (> रैख- पा.) पाग ४, १,
११२.

रैखा-, रैखाय रैख् द्र.

रैख्(बधा.)^१ पाधा. भ्वा. आत्म. दीप्तौ,
रैखते निघ ३, २९; या ३, २१;

रैखति निघ २, १४^६; या १०,
४२^६; रैखन्ते या १४, १९.

रैखयति या १०, ४२^६.

रैद पाधा. भ्वा. उभ. परिभाषणे.

रैद्व्(क्रोधे), रैद्वते निघ २, १२^६.

रैरेण्- पाउ ३, ३८; पाग २, ४, ३१;
-**णवः** बौध १, ५, ५०; -**णु**ना

अप ५२, ६, १.

रैरेणु-ककाट^६- -**टः** आश्रौ ६, १४,
१८; ९, ५, २; अप ३२, १, १२.

रेणु-वर्ष^१- -**वैः** अप ७०^३ ११, २५.

रैरेणु^१- -**णुः** शाश्रौ १५, २६, १;
ऋअ २, ९, ७०; १०, ८९; साअ

१, ३३९; ५६०; -**णु**नाम्^३ आश्रौ
१२, १४, ६.

रैणव- -**व** आश्रौ १२, १४, ६;
बौश्रौप्र ३४: २; -**वाः** बौश्रौप्र

३४: १.
रेणु-वत् बौश्रौप्र ३४: २.

रैतस्^१- पाउ ४, २०२; -**तः** आश्रौ
२, १६, १९^६; शाश्रौ; आपश्रौ

६, ६, १^६; १०, १३, १०;
बौश्रौ ४, ६: २५^६; १३, ३२:

१७^६; १८, ९: ३१^६; ४५:
२१; २८, १: ३०; २:

५२; ९: ११; माश्रौ ६, १, ७,

a) वैप १ द्र. । b) = नक्षत्र-विशेष- । c) = पौर्णमासी- । d) = ऋन्, (तत्रस्थत्वात्) सामन्- ।

वैप १ द्र. । e) बस. । f) विप., नाप. (सामन्-). मत्वर्थे वा स्वार्थे वा तस्येदमर्थे वा अण् प्र. । g) परस्परं

पाप्मे. । h) श्मानम् इति संस्कृतः शोषः (तु. सप्र. बौश्रौ.) । i) व्यप. । j) तु. BPG. । k) घा. मत्तौ

वैप १, ८७१ b द्र. ।

१६; वाधूश्री ३, १९: २४; ३९:
 ११; १२; ४२: ४; ४, २४:
 २; ४; २८: ३; २९: ५-८;
 ८९: २६; ११६: ३; ११८:
 ३; ४: ७; ८; वैश्री २१, १:
 ७: वैताश्री १२, १; आपमं
 १, १२, ८^१; कौग १,
 १२, ६^१; द्राग २, ५, १३;
 कौसू २२, ७; अप ३६, ३,
 १; ४८, ७^५; आपध १,
 २६, ७; बौध १, ११, ३१; २, १,
 २८; ३, ७, २; ४; ४, २, १३;
 हिध १, ७, १८; गौध २५, १०;
 ऋध २, १, १६६; वृदे ४, १११;
 ५, १४९; निघ १, १२^१; या
 ५, १३; ९, २२; १४, ६: -तस:
 बौश्री १८, ४५: २६; वाधूश्री ३,
 ३९: ९; ४, २०: २×५; वैताश्री;
 या ३, ४; १४, ६; -तस
 आपश्री १३, २१, ३; आमिग
 ३, ८, २: १७; बौपि १, १५:
 २७; -तसि द्राश्री ७, ३, ४;
 लाश्री ३, ३, ४; -तस आपश्री
 १६, ३३, १; वैश्री १८, १६:
 ५७; हिश्री ११, ८, १३;
 -तसि बौश्री ८, १४: ३८;
 जैश्री १९: १८.
 रैतस^० -तस: सु १७, १.
 रेतः-पात- -तेन आमिग २, ७, ५: १.
 रेत(स्य)स्या^१ -स्या^० जैश्री ११:
 १३; जैश्रीका १२२; द्राश्री ३,
 ४, २३; लाश्री १, १२, ८: ६,
 ३, ४; -स्यामि: बौध २, १, २८;

-स्याभ्याम् गौध २३, २०;
 -स्याया.^० लाश्री ७, ११-१२,
 ३; १३, ७; -स्यायाम्^० लाश्री
 ७, ११, ४.
 रेतस्या-रथन्तरवर्णा- -र्णे लाश्री
 ७, ११, २१; निस् २, ७: १७.
 रेतस्-वत्^० -वते शाश्री २, ५, १६.
 रैतस-विन्^६ -विनम् बौश्री ५,
 ४: १७; -वी बौश्री २७, १४:
 १३.
 रेतस्-स्कन्दन- -ने बौग ४, ११,
 १; गौध २३, २०.
 रेतः-सिच्^६ -सिच् बौश्री १०,
 ३१: १४; ३९: २३×५;
 -सिग्भ्याम् माश्री ६, १, ७,
 १८; -सिच: आपश्री १६,
 २४, ३; १७, १, १६; वैश्री;
 -सिचम् आपश्री १७, ४, ३; ७;
 बौश्री; -सिचौ काश्री १७, ४,
 २२; वाश्री २, २, १, ११.
 रेतःसिग्-वेला- -लायाम् काश्री
 १७, ४, २१; ६, ३; ८, २; १०, १७;
 १२, ६.
 रेतः-स्वक^६ -कम् या ३, ५.
 रेतः-स्कन्द- -न्दे अप ४०, ६, ६.
 रेतः-स्नाव- -व: वैश्री २०, २५: ३.
 रेतो-देवता-> -त्य- -त्यम् अग्र
 ६, ११.
 रेतो-धस्^६ - पाउभो २, १, ३४४;
 -तथा: काश्री २३, ३, १;
 आपश्री २२, १९, १; बौश्री.
 रैतो-धा^१ -धायै कौसू २४, २०;
 अप १८^३, १, ११.

रेतो-धृष्^१ -धृक् वाग १४, १३^१.
 रैतो-भृत्^१ -भृत्^६ आपमं १, ३,
 १४; बौग १, ७, ४२.
 रेतो-मूत्र-पुरीष- -वाणाम् बौध ४,
 ६, ७.
 रेतो(तस्-अ)वसिक्त- -क्ता: बौध ३,
 ३, ४; ६.
 रेतो-विण्-मूत्र-प्राशन- -नम् सुधप
 ८७: ८.
 रेतो-विसर्ग- -र्ग: बौश्री २७, १:
 १८; -र्गै वैध २, ९, ९.
 रेतु^१ -तु: अप ४८, ८^५.
 ✓रेप् पाधा.भ्वा.आत्म.गतौ.
 रेपस्- ✓रिप् द्र.
 रेफ- प्रष्ट. ✓रिक् द्र.
 ✓रेम् पाधा.भ्वा.आत्म.शब्दे.
 रैभ^६ -पाग ४, १, १०५; -तंभ
 शाश्री १२, १४, १; १५, १;
 -भ: अप ४८, ९७^१; साअ १,
 २६०; २६४×५; अग्र २०, ५४;
 ५५; निघ ३, १६^१; -तंभम्
 अप्राय ६, ९; दैशि २६५;
 -भागाम्^१ आश्री १२, १४, ७;
 आपश्री २४, १, १५; बौश्रीप्र ४२:
 १; हिश्री २१, ३, १३; -भास:
 शाश्री १२, १४, १.
 रैभ-> रैमी^६ -तंभी कौग
 १, ८, २; शांग १, १२, ३; वृदे ७,
 १२३; -भी: वाधूश्री ४, २९: १९.
 रैभ^१ -०भ^० आपश्री २४,
 १, १५; बौश्रीप्र ४२: १.
 रैभ्य- पा ४, १, १०५; -०भ^०
 आश्री १२, १४, ७; हिश्री २१,

a) पाभे. पृ १४८२ f द्र. b) उदक-नामन्-। c) विप. > नाप. (अग्नि-। d) [=रितः-शब्दवर्ती-] ऋच्- (तैत्रा १, ३० अनुवाकोपलक्षणा- [तु. बौध. संस्कर्तुः टि])। e) [=बहिष्पवमानस्य हिष्कृतः] ऋच्-। f) स्याः इति पाठः? यनि. शोधः। g) वैप १ द्र.। h) उप. कर्तरि कृत्। i) उप. आप-। j) उप. धा. धारणे ऋतिः। k) परस्परं पाभे.। l) मेधावि-नामन्-। m) बहु.<रैभ-। n) =रैभ्य-। o) परस्परं पाभे.।

३, १३; -भ्यस्य अप ५२, ९, ४.
 रेमन्त् आपश्चौ २४, ९, १५;
 बौश्रौप्र ४२: २; हिश्रौ २१, ३,
 १३.
 रेमन्सुन्- नू ऋम् २, ९, ९९;
 साञ १, ५५०; ५५१; २, ३६६;
 ९८१.
 रेभत्- √रिम् द्र.
 रेभषा-> रेभप- -०प वैध ४, ७, २;
 -पाणाम् वैध ४, ७, २.
 रेभपन्त् वैध ४, ७, २.
 रेखिन्- √रि द्र.
 रेखिह्- √रिह् द्र.
 √रेव् पाधा. भ्वा. आत्म. प्लवगतौ.
 रेवण-> रेवण- -०ण वैध ४, १, ५.
 रेवणन्त् वैध ४, १, ५.
 रेवन्त् रे- द्र.
 रेवत्- पाग ४, २, ८०; -तम् शंघ
 ११६: ३५^a.
 रैवत्क^b- पा ४, २, ८०.
 १-शरेवती- प्रभृ. रे- द्र.
 रेवन्त्- पाउभो २, २, १३८.
 रेशय- -दारिन्- √रिश् द्र.
 रेशी^c- शीनाम् वाश्रौ ३, २, ५, ४.
 √रेष् पाधा. भ्वा. आत्म. अव्यक्ते
 शब्दे.
 रैरेष्^d- रै^d काश्रौ ६, ८, ११; माश्रौ
 १, ८, ५, २४; वाश्रौ १, ६, ७,
 ७; शुध १, ४०३.
 रेषण- √रिष् द्र.
 रेहत्। स्^e]-> √रेहाय पा.) पाग ३,
 १, १२.

रेहाण- √रिह् द्र.
 रै^f पाग १, ४, ५७.
 √रै पाधा भ्वा. पर. शब्दे.
 √रै (भषणे) > रायत्- -यत्सु
 अप ७२, २, २.
 रै^g- पाउ २, ६६; ऋणयः आश्रौ १, ७,
 ८××; ७, ११, ७^h; शाश्रौ; ४,
 १२, ९^h; बौश्रौ ३, २१: १३^h;
 ६, ४: ६^h; १०, १३: ५^h; ११,
 ११: १७^h; हिश्रौ १३, २, ९^h;
 पा ७, २, ८५; ऋणया काश्रौ
 ९, ६, ९; आपश्चौ १२, १४,
 १२; बौश्रौ; ऋणये आश्रौ ३,
 ७, ५××; शाश्रौ; वाश्रौ १, ४, ३,
 ३^h; २३^h; या ६, २१^h; १४,
 २६^h.
 ऋणयस्-काम- -म्: शाश्रौ १२, ४,
 २४; उसू ३, १, ५, ६.
 रायस्-पोष-> षक- पा.) पाग ४,
 २, ८०.
 रायस्पोष-दा- -दे शुप्रा ५, ६^h.
 रायस्पोष-दावन्- -न्ने बौश्रौ
 ६, १७: ४^h.
 ऋणयस्पोष-वनिⁱ- -नि: आपश्चौ
 ६, ६, ६; बौश्रौ ४, ३: ८; माश्रौ;
 -निम् आपश्चौ १९, ११, ११;
 बौश्रौ ४, ४: ३३; ६, २७:
 ८; १९, २: २०; २३, २: ११;
 जैश्रौ ६: ११; ८: २२-२४.
 रायस्पोषा(ष-आ)दि- -दिषु
 शौच २, ८०.
 रायोवाजीय^k- -यम् लाश्रौ १०,

२, १३; निस् ३, १०: ६××.
 रैख- रैख- द्र.
 रैणव- रेणु- द्र.
 रैतस्- रैतस्- द्र.
 १-रैम- रैमी- रेम- द्र.
 रैवण- रेवण- द्र.
 १-रैवत्- रे- द्र.
 रैवत् (बप्रा.)- पाग ४, २, ८०;
 -ऋतः अप ४८, १०१^l; निघ
 १, १०^m; -तम् शंघ ११६:
 ४५ⁿ.
 रैवत्क^l- पा ४, २, ८०.
 रैवतिक- ऋणय- रे- द्र.
 रो^o वेज्यो १८.
 रोच्यत्- √रुह् द्र.
 रोग- प्रभृ. √रुन् द्र.
 रोगीन्^p आश्रिण् ३, ११, १: १०.
 रोच- ऋण्यु- प्रभृ. √रुह् द्र.
 √रोह् पाधा. भ्वा. पर. उन्मादे.
 रोग- पाउभो २, २, १८४.
 रोपी^q-> रौण- पा ४, २, ७८; पावा
 १, १, ७२.
 रोणु- पाउभो २, २, १८४.
 रोद-, रोदन्- प्रभृ. √रुह् द्र.
 रोदस्^r-> रौदसी^r- सी आश्रौ ३,
 ८, १; ७, ४, ४; शाश्रौ ६, ६, ६;
 आपश्चौ; शुद्धे १, ८३; ११३××;
 कृया ६, १; १०, ४; १०;
 ११, ९; ४९; १२, २६;
 ४६; १३, २; -ऋंसी कृया
 ४, ६; ५, २१; -स्यो:
 बौश्रौ १०, ४: १०^h; माश्रौ;

- a) व्यप. । b) = पर्वत-विशेष- इति पागम. । c) वैप १ द्र. । d) पाभे. वैप १ मा ६,
 १८ टि. द्र. । e) पाका. पाठः । f) दाने अनादरे च अव्य. इति पासि. । g) न्यूनप्रकारको निर्देशः ।
 h) पाभे. वैप १, १९७३ a, १९७४ b द्र. । i) पाभे. वैप १ रायुः तै १, २, २, १ टि. द्र. । j) पाभे. वैप १
 शंघे मा १३, ३५ टि. द्र. । k) वैप २, ३खं. द्र. । l) पर्वत-नामन्. । m) मेघ-नामन्. ।
 n) = मनु-विशेष- । o) = रोहिणी-चक्षुः. । p) णिगणः इति शोषः । q) = रोड़ी [ग्राम-विशेष-]
 इति वापभा. । r) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. ।

लुप्तु ३, १० : ३६; वृदे ६, २;
७, ९.
रोद(स>)सी^०- सी वृदे
५, ११७.
रोद(सी>)सि-प्रा^०-प्राम् या
७, २८१.
रोदितव्य- ✓रुद्र द्र.
शरोध- ✓रुद्र द्र.
ररोध- ✓रुद्र = (✓रुद्र) द्र.
शरोध^०- (>रौध- पा.) पाग ४, १,
११२.
रोधस्- ✓रुद्र द्र.
रोध(स् >)सी^०- सी अप ४८,
६०१; या ६, १७.
रोध- पाउमो २, ३, २९.
रोपण- ✓रुद्र द्र.
रूपणा(क>)का^०- कासु आपश्रौ
४, १५, १; माश्रौ ४, २१, १;
हिश्रौ ६, ४, १८.
रोपमन्यप^०- पानाम्^० वैध ४, ६, ४.
रोपमन्यप- -०प वैध ४, ६, ४.
रोपमन्यप-वत् वैध ४, ६, ४.
रोपयिष्यु- ✓रुद्र द्र.
रोमक- (>रौमक-, कीय- पा.
यक्र.) पाग ४, २, ११०; ८०.
श्रोमन्^०- पाउ ४, १५१; पाग ४, २,
८६; ५, २, १००; पावाग ८, २,
१८६; -म, >मा वैश्रौ १०, ६;
२; ऋप्रा ८, २९१; -मभि:
बौगुं ४, ९, ५; -माणि शाश्रौ
१६, २४, २०; कौगुं १, १६, १६;

शांग्; या १४, ७.
रोम-कोटि- -ट्यः विध १६, ८८.
रोमण-वत्^०- -वन्तौ या ९, २१.
रोम-नख- -खानि शाश्रौ ४, १४, ४;
वैश्रौ १, ४ : १; अप ११, १, ३;
४६, १, ४.
रोम-वत्- पा ४, २, ८६.
रोम-वत्- -सा वैध ३, १५, २.
रोम-शा, शा^०- पा ५, २, १००;
पाग ४, २, ८०^०; -शाः अप ५२,
५, २; -शाम् शाश्रौ १६, १३,
१०; आपमं १, ११, ११; -शया
वृदे ३, १५५; -शा वृदे २, ७७;
८३; -शाम् बौध २, १, ५७;
वृदे ३, १५६; -शौ वैश्रौ ८,
११ : २.
रौमशीय- पा ४, २, ८०.
रोमा(म-अ)ञ- (>°ञित- पा.)
पाग ५, २, ३६.
रोमा(म-अ)न्त- -न्ते आगु १, ७, ५.
रौमन्- (>रौमण्य-, रौमायण-,
रौमीय- पा.) पाग ४, २, ८०^०.
रोमन्थ^०- (> ✓रोमन्थाय पा.)
पा ३, १, १५.
रोरवण-, रोरवत्-, रोख्यमाण-
✓रुद्र द्र.
रोष- ✓रुद्र द्र.
रोषमन्- १२- द्र.
शरोह- ✓रुद्र द्र.
ररोह- (>रौहेय- पा.) पाग ४,
२, ८०.

रोहक्षत- (> रौहक्षति-) राहक्षति-
टि. द्र.
शरोहण- ✓रुद्र द्र.
ररोहण- पाउमो २, २, १८५.
रोहत्-, रोह-दर्शन- प्रभृ., शरोहि-
✓रुद्र द्र.
ररुहोहि^०- ही बौश्रौ २६, ३१ : १६;
-होः बौश्रौ २६, ३१ : १४, १६.
रोहिण^०- पाउ २, ५५; पावा १,
२, ६४; पाग ४, १, ११०^०;
-णानाम्^० आश्रौ १२, १४, ४.
शरोहिण- -०ण आश्रौ १२, १४, ४.
शरोहिणायन- पा ४, १, ११०;
-नः शुभ्र ४, १८३.
शरोहिणी- ✓रुद्र द्र.
ररोहिणी^०- पाग ४, १, ११०^०; १२३;
ररोहिणायन- पा ४, १, ११०.
रौहिणय- पा ४, १, १२३; -यः
बौश्रौ १६, २७ : २१.
शरोहिणी- रोहित- द्र.
रोहित^०- पाउ १, ९७; -हित
बौश्रौ २६, ३१ : १४१; वाधूश्रौ
४, ३० : १०; -हितः अप ४८,
९४१; वृदे ४, १४०^०; निध १,
१३१^०; १५^०.
रोहिद्-अश्व^०- > रौहिद्श्व^०- श्वः
ऋअ २, १०, १७९.
शरोहिद्-योजन- -नः बौश्रौ २६,
३१ : १४१.
रोहिद्-वत्- -वन्तम् बौश्रौ २६,
३१ : १६.

a) विप. (ऋच्-). सास्यदेवतीयः अण् प्र. । b) वैप १ द्र. । c) व्यप. । d) = रोदसी. ।
e) बहु. <रौपमन्यप- । f) = वाल- । वैप १ द्र. । g) तु. पागम. । h) अर्थः ? । i) = भक्ति-
चर्चण- । व्यु. ? मन्थ- इति उत्र. मत्वा पूष. <उद्-√गृ वा अव-√गृ [निगरणे] वेति पा. प्रभृ., रोम- (अर्थः ?)
इति अमा., रुञ्- इति P.W. प्रभृ. । ✓रुद्र (*भक्षणे) + कर्मणि मन्थः प्र. > *रोक्मन्थ- > यन्ति
इति ऋक्वा सहप्रयुक्तः सन् ✓चर इत्यस्य भक्षणे वृत्तिः इति मतम् । j) अर्थः व्यु. च ? । k) तु. पाका. प्रभृ. ।
शरोहिणी- इति भाष्या. । l) बहु. <शरोहिण- । m) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. । n) = अग्नि-वादन-
o) यदी-नामन्- । p) रुद्रादश्च- > रौद्रादश्च- इति षड्गुरविष्णुः ।

श्रोहित, ता (ब्रा.)^a- पाठ ३, ९४; पावा १, २, ६४; -तः आप्रथौ ५, १०, १०; २०, १४, ११; बौश्रौ; वाधूश्रौ ४, १९; २९^b; ३०^b; आप्रमं २, १६, ७^c; अप्र ४२, २, ११^d; ४८, १४२^e; -तम् शांश्रौ ४, १६, २; बौश्रौ; आमिगृ ३, ७; १: २^f; -ता: याशि २, ३; उनिस् ८:६; -तान् आप्रथौ २०, १४, १३; हिश्रौ १४, ३, १८; -तानाम् अप्रं ४: ३६; -तान्भ्याम् द्राश्रौ १, ४, ५; लाश्रौ १, ४, २; -ताय हिगृ २, १६, ४^g; -ते काश्रौ ४, ८, २xx; बौश्रौ; -तेन त्रिआप्रथौ ३, ७, ३; ४, १२, ७; बौश्रौ; -तैभ्यः^d अप्र ४६, १०, २३; अत्र १९, २३; -तैषु आप्रथौ १७, ५, ३; वैश्रौ; -तैः^d कौस् ९९, ४.

श्रोहिणी^{a,b}- पाग ४, १, ४१; पावा ४, ३, ३४; पावाग ८, २, १८^h; -णि अशां १, ३ⁱ; -णी काश्रौ ७, ६, १२; आप्रथौ ५, १८, २^j; २७, ५xx; बौश्रौ; अप्र १, १, २; २-३, १; ११, २^k; १२, १; ३७, २^k; अशां ७, २^k; -णी: आप्रथौ २०, २२: ११; गो २, ३२^k; अप्र १०, १, २०^k; काश्रौ; -णीम् शांश्रौ ४, १४, १३; -णीषु विघ ७८, ९; -ण्या बौश्रौ २, १२: २०xx; आगृ; -ण्या: अप्र

५०, ४, २; -णाम् आश्रौ २, १, १०; आप्रथौ; -ण्यै शांश्रौ १, २६, २^k; वैगृ ३, २०: ३; अशां १२, १; -ण्यौ काश्रौ २२, १, २०.

रोहिणी-कृत्तिका-मृगशिरः-पुनर्वसू(सु-उ)त्तरा(रा-अ)नुराधा-श्रवण-हस्त विशाखा- खासु वैश्रौ १, १: २.

रोहिणी-गण- गम् वैगृ ३, २१: १४.

रोहिणी-प्रभृति- ति बौश्रौ १०, ४६: १७.

रोहिणी-मृगशिरः-श्रवण-श्रविष्ठो(श्रा-उ)त्तर- राणि मागृ १, ७, ५.

रोहिणी-षे(<से)ण- पाग ८, ३, ९८.

रोहित^d-चतुर्थ- र्थस्य अप्रं ५: ११ⁱ.

रोहित-चर्मन्- र्मं कौस् ७८, १.

रोहित-तूल^l- लानि माश्रौ ३, ६, ४.

रोहित-पिपीलिका- कानाम् कौस् ११६, ३^k.

रोहित-वत्- वः द्राश्रौ १, ४, ७; लाश्रौ १, ४, ४.

तरोहिता(त-अ)ञ्जि^m- ञ्जि: बौश्रौ १५, २३: ८; २६: १०; २६, ११: ६; वाधूश्रौ ३, ८६: ४.

रोहिता(त-आ)दि- द्य: शुअ ३, ४२; -दीन् काश्रौ २०, ६, ५.

रोहितादि-देवता-> ल्य-

-न्यम् अअ १३, १.
रोहितै(त-ए)त- ता: बौश्रौ २४ ११: ८.

तरोहित^k- वः शांश्रौ १५, १९, १^o -तः शांश्रौ १५, १८, १^o.

रोहितक^l- पाग ४, ३, १५२^m; -क वैश्रौ १०, १: ११; -कस्य वाधूश्रौ ४, ६४ⁿ: १०; -केन वाधूश्रौ ४, ६४ⁿ: ९.

रोहितक- पा ४, ३, १५२; -कः माश्रौ ७, १, ५; वाधूश्रौ ४, ६४ⁿ: १०; कागृउ ४०: १७; -कम माश्रौ १, १, ५२; ८, १, ३; -का: माश्रौ १, ५, ७^o; -कान् माश्रौ २, ३, १, २; हिश्रौ ८, १, ३२.

रोहितक-स्व- स्वम् वाधूश्रौ ४, ६४ⁿ: १०.

रोहितिक^p- (>रौहितिक- पा.) पाग ४, १, ११२.

रोहिद्-अश्च- प्रम्. रोहित- द्र.

रोहित्यै ✓रूद्र द्र.

रोहीतक^q->रौहीतक- पा ४, ३, १५२; -क: हिश्रौ ४, १, ११; -कम् आप्रथौ ७, १, १६; हिश्रौ ४, १, १२; बौगृ २, ५, १७; २१^o; -का: काश्रौ ७, १२०; कागृउ ४६: ६; -कान् आप्रथौ १२, २, ८; काश्रौ ६; वैश्रौ १५, २: १४; कागृउ ४१: २.

रौकथ्य^r- वः वैघ ४, १, ५.

रौकथ्य-क- कानाम् वैघ ४, १, ५.

रौकथ्य-वत् वैघ ४, १, ५.

a) वैप १ द. । b) =मल्य- । c) श्व-नामन्- । सपा. पाठ १, १६, २४ सीसरः इति, भागृ २, ७: १८ लोहितः इति च पाठे । d) = [अथर्ववेदीय-] त्रयोदश-कारण- । e) = [सूक्त-भाज्-] देवता- । f) सपा. बौषि १, १०: २ लोहितम् इति पाठे । g) विप्र., नाप. (नक्षत्र-) । h) तु. पागम. । e) रोहित^o इति पाठः ? यनि. शोचः (तु. संस्कर्तुर्बुवादः) । i) क्व. । j) क्व. । k) = हरिश्चन्द्र-पुत्र- । l) = वृक्ष-विशेष- । m) तु. पाका. पासि. । ही^o इति भाण्डा. पागम. । n) व्यप. ।

रौक्ष्य^a- -व्यानाम् वैध ४, ३, २.
 रौक्ष- प्रभृ. ✓रूक्ष् द्र.
 रौक्ष- ररूक्ष- द्र.
 रौक्षक- रूक्षक- द्र.
 रौक्षायण^b- -णाः बौश्रौप्र १: ४;
 -णानाम् बौश्रौप्र १८: १.
 रौक्षायणि- ररूक्ष- द्र.
 रौक्ष्य- ररूक्ष- द्र.
 रौक्ष्य- ✓रूक्ष् द्र.
 रौक्षिक- ✓रूक्ष् द्र.
 रौक्ष्य- ररूक्षि- द्र.
 ✓रौक्ष पावा, भ्रा. पर. अनारदो.
 रौक्षि^{a,b}- (>रौक्ष्या- पा., पावा.)
 पाग ४, १, ८०; पावाग ४, १,
 ७९.
 रौक्षीय- ररूक्षि- द्र.
 रौण- रौणी- द्र.
 रौदसी- रोदस्- द्र.
 रौदेय- रूद- द्र.
 रौद्र- प्रभृ. रूद- द्र.
 रौघ- रौघ- द्र.
 रौपमन्यप- रोपमन्यप- द्र.
 रौप्य- प्रभृ. रूप- द्र.
 रौप्यायणि- ररूप्य- द्र.
 रौमक-, रौमीय- रोमक- द्र.
 रौमण्य- ररोमन्- द्र.
 रौमशीय- ररोमन्- द्र.
 रौमायण-, रौमीय- ररोमन्- द्र.
 रौरव- ररूक्ष- द्र.
 रौरव^{a,b}- -वम् लाश्रौ ७, २, १; छसू
 १, २: ७xx.
 रौरव-यौधाजय- न्ये छसू २,
 ९: ५; गौघ २६, ९.

रौरव^c- -वम् विध ४३, ४.
 रौरवक- ररूक्ष- द्र.
 रौरविन्- ररूक्ष- द्र.
 रौरुक्- ररूक्ष- द्र.
 रौरुकिन्- ररूक्ष- द्र.
 रौरुम- ररूक्ष- द्र.
 रौरुष्यायण^d- -नाः बौश्रौप्र ७: १.
 रौरुक्षति- रोहक्षत- द्र.
 रौरुहिण- रोहिण- द्र.
 रौरुहिण (बप्रा.)^e- -णः अप ४८,
 १०१^f; निघ १, १०१^f; आज्यो
 १, ९^g; -णम् लाश्रौ १२, १६,
 ११^f; सु¹ १३, ५; १४, ३; -णस्य
 सु १५, ४^f; -णे आज्यो २,
 १०¹.
 रौरुहिण^h- -णम् काश्रौ २६, ४, १६;
 ६, १७; आपश्रौ; -णयोः आपश्रौ
 १५, ५, २०; भाश्रौ; -णस्य
 बौश्रौ ९, १२: १०; -णाभ्याम्
 दाश्रौ २, २, ३९; लाश्रौ १, ६,
 ३५; -णे जैश्रौ २३: ९; १५;
 जैश्रौका ५५, ६०; -णौ काश्रौ ४,
 ६, १५; २६, ४, ७; १०; आपश्रौ.
 रौरुहिणकपाल- -लानि माश्रौ ४,
 १, २०; -ले काश्रौ २६, १,
 २०xx; आपश्रौ.
 रौरुहिणपिष्ट- -घान् वैश्रौ १३, १६:
 १५; -घानि बौश्रौ ९, ५: ९;
 ६: १२; १३: ३; वैश्रौ १३,
 १७: १०; -ष्टैः बौश्रौ ९, १४:
 १७; १६: ३.
 रौरुहिणपिष्टलेप- -पेन हिश्रौ
 २४, ६, १२.

रौरुहिणपिष्ट-शेष- -षम् भाश्रौ
 ११, १५, २३; -षेण आपश्रौ
 १५, १५, १.
 रौरुहिण-स्तोम- -मः माश्रौ ४, ३,
 ४५.
 रौरुहिणहवनⁱ- -ने वाधूश्रौ ३, १००:
 ७.
 रौरुहिणहवणी^j, नी^k- -नी बौश्रौ
 ९, ५: ३; ६: १८; १५:
 ११; १३; -नीभ्याम् बौश्रौ ९,
 ६: १९; -न्यौ काश्रौ २६, २,
 १४; ७, १८; आपश्रौ १५, १५,
 १; भाश्रौ ११, १५, ११; वैश्रौ
 १३, ७: १०; १७: ६; हिश्रौ
 २४, २, ५; ६, १२.
 रौरुहिणहोम- -मात् आपश्रौ १५,
 ११, ८; भाश्रौ ११, ११, ९.
 रौरुहिणक^l- -कम् जैश्रौ २३: १४,
 जैश्रौका ६०.
 रौरुहिणायन- रोहिण- द्र.
 रौरुहिणायन-, रौण्य- ररोहिणी- द्र.
 रौरुहिय- -ण्याः बौश्रौप्र ११: १.
 रौरुहितक- रोहितक- द्र.
 रौरुहितिक- रोहितिक- द्र.
 रौरुहिदश्व- रोहित- द्र.
 रौरुहिष- पाठ १, ४७.
 रौरुहिष्य^m- -व्याः बौश्रौप्र ४९: ४.
 रौरुहीतक- रोहीतक- द्र.
 रौरुहिय- ररोह- द्र.
 ल
 लⁿ- लि पा ८, ४, ६०.
 लू-रा(र-अन्त- -न्तस्य पाठ, २, २.

a) व्यप. । b) < रूक्ष- इति पागम. । c) तु. पागम. । d) = साम-विशेष ।
 e) वैप २, ३खं. द्र. । f) = नरूक-विशेष- । g) वैप १ द्र. । h) विशेषः टि. द्र. । i) = पर्वत- ।
 j) = मेघ- । k) = मुहूर्त-विशेष- । l) = चन्दन-वृक्ष- । m) = पुरोडाश-विशेष-
 (वैदु. आपश्रौ. सूची विप.) । n) = रौरुहिण-हवनी- । o) बौश्रौ ९, ५: ३ हिश्रौ २४, ६, १२ पाठ ।
 p) = रूक्ष- ।

१ल^०- लम् श्रुप्रा ४, १३; लात्
शैशि ८७; ले श्रुप्रा ४, १३;
शैशि ९७.
१ल-कार- -रः ऋप्रा ६, २०; तैप्रा
१४, २६; शौच १, ६४; २,
३५; -रस्य तैप्रा ५, २५; शैशि
२८९; -रस्य शौच १, ४६;
पावा १, ३, ३; -रात् ऋप्रा ६,
५; -रे ऋप्रा ४, ८; १४, २७;
तैप्रा २, ४२; शौच २, ३५;
शैशि २८९; माशि ९, ७; -रेण
ऋप्रा १२, ४.
लकार-निर्देश- -शात् पावा १,
३, ३.
लकार-पूर्व^b- -र्वे तैप्रा १४, ७.
लकार-भाव- -वे ऋप्रा १३,
३५.
लकार-विसर्जनीय- -यौ शौच
१, ५.
लकार-स्पर्श- -शैः ऋप्रा १२,
१४.
ल-ज- -जयोः शैशि २९१.
ल-तवर्ग- -गौ तैप्रा १४, २१.
ल-पर^b- -रौ तैप्रा ५, २५.
ल-म- -मौ अप्रा ३, २, २८.
ल-श-कार- -रयोः माशि ९, १२;
याशि २, १४.
ल-श-स- -सैः ऋत् ५, ६, १०.
ल-स-तवर्ग- -गार्णाम् अप्र ४७,
२, २.
ल-ह-कार- -रयोः माशि ९, १२;
याशि २, १४.
२ल^०- > २ल-कार- -रस्य पावा १,
१, ५; २, ४, ८१; ३, २, १२४.

√लक् √लृप् टि. द्र.
लकुच- पाउभो २, २, ७९.
लकुट^d- -रम् अप्र ४०, ३, २; -टैः^e
आप्रश्रौ १०, २७, ७; भाश्रौ १०,
१८, १४.
लकुड- -डैः हिश्रौ ७, २, ८७.
लकुल- (> ल्य- पा.) पाग ४, २,
८०.
√लक्ष् पाधा. लुरा. पर. दर्शनाङ्क-
नयोः आत्म. आलोचने, लक्षेत
अप ५०, १, २.
लक्ष्यते बौध १, ५, ५९; वृदे
१, ८७; २, ५; ५, १५४; ७,
१४०.
लक्ष्येत् अप ६८, १, ३७; विध
११, १०; अप्रा ३, १, ३.
† १लक्ष^{११६}- -क्षम् शैशि २९०.
लक्ष-बन्ध- -न्धम् विध ९७, ७.
१लक्षण, गा^१- पाउ ३, ७; -णम्
आश्रौ २, १४, २५; शाश्रौ ३,
२०, ५; काश्रौ; काश्रु १, १२;
१४; ७, २; १५; ३२; आपश्रु १, ३;
१२; २, २; ४, ५; ७; ५, १; १५, ९;
बौश्रु १: १०; १८; १९××;
-णयोः पावा ३, २, १२६;
-णस्य कौस् ६९, १५; बौश्रु १:
२५; पा ६, ३, ११५; -णा शाश्रौ
१, १, १०; -णात् अप ५०, ३,
१; या ४, १०; -णानाम् शाश्रौ
१, १७, १३; बौश्रु ४, २, १५;
-णानि काश्रौ १७, ४, २६; आपश्रु
१, ५, ४; काश्रु १४, ३; भाश्रु; -णे
वैताश्रौ ५, १७; गोश्रु ४, २, १९;
कप्र; पा १, ४, ८४; ३, २, ५२;

-णेन आपश्रु १, ४; १२××;
बौश्रु; पा २, १, १४; पावा २, ३,
२१; -णेषु आपश्रु १, १२; हिश्रु १,
२२; -णैः अप्र ५५, १, ५; २, १;
३, १; ४, १; ५, १; ६, १; ६२,
४, ५.
लाक्षण^१- -णाः भाश्रु १,
११; १५.
लाक्षणि^१- पा ४, १, १५३.
लाक्षणिक-पावा ४, २, ६०.
लाक्षण्य^१- पा ४, १, १५२.
लक्षण-कर्मन्- -र्मणा आपध २,
२९, १३.
लक्षण-ज्ञ- -ज्ञः अप्र २४, २,
१.
लक्षण-तस् (:) ऋप्रा १३, ३१.
लक्षण-स्व- -स्वात् मीस् ३, १,
१३; ६, ४, २४.
लक्षण-प्रतिकूल- -लम् कौशि
२३.
लक्षण-प्रतिपदोक्त- -क्तयोः पावा
६, २, २.
लक्षण-प्रशस्त^१- -स्तान् गोश्रु २,
१, २.
लक्षण-मात्र- -त्रम् मीस् ६, ५,
१४.
लक्षण-लक्षित- -तम् अप्र ३०^३,
१, १२.
लक्षण-वत्- -वती माश्रौ ४, १,
२०; -वन्तः माश्रु २, १४, १४.
लक्षणवती- -त्यः माश्रु २,
१४, १५; १६; वैश्रु ६७: ८.
लक्षण-संयोग- -णात् मीस् ७,
१, ४.

a) =वर्ण-विशेष-। b) बस। c) =लिङ्गादि-। d) नाप. (लगुह-। व्यु. ?। e) परस्परं
पाप्मे.। f) =लक्ष्य-। g) वैप १ द्र.। h) नाप. (चिह्न-, परिभाषा-, लेखा- प्रम्)। i) =लक्षण-विद्-।
तद्देशेत्यर्थे अण् प्र. (पा. ४, २, ५९)। j) लक्षणविशिष्टाद् अपत्ये प्र. (तु. पाधिवा.)। k) तुस. वा बस.
परनिपातो वा।

लक्ष्ण-संपद्- -पदा वृदे १, ११.
लक्ष्ण-संपन्न, ज्ञा- -ज्ञा कौगृ १,
१, ८; सांगृ १, ५, ६; -ज्ञान् वैश्रौ
१२, १ : ४; -ज्ञाम् वैगृ ३, २: १.
लक्ष्ण-हेतु- -त्वोः पा, पावा ३,
२, १२६.
लक्ष्ण(ण >)णा- -णा पावा १,
१, ३.
लक्ष्णा(रा-आ)दि- -दिषु पावा
२, ३, ८.
लक्ष्णा(रा-अ)नुपूर्व- -वान्
माश्रौ १, ५, २, १०.
लक्ष्णा(ण-अ)न्त- -न्तम्
वैताश्रौ ५, १३.
लक्ष्णा(ण-अ)न्वित- -ताः विध
४५, ३२.
लक्ष्णा(णा^b-अ)र्थ- > र्था(र्थ-
अ)भिसंयोग- -गात् मीस् ११,
२, २.
लक्ष्णा(णा^b-अर्थ >)र्था^a- -र्था
मीस् ३, १, २६; ६, ५, ९.
लक्ष्णार्थ-त्व- -त्वात् मीस्
११, ४, ३०.
लक्ष्ण(रा^d-आ)वृत्- -वृत् गोगृ
१, १, १०; जैगृ १, १ : ३.
लक्ष्णिन्- -णिना कागृ १४, ३.
लक्ष्णीय- -यः कौगृ ३, १२, १५.
लक्ष्णे(रा-इ)थंभृताख्यान-भाग-
वीप्सा- -प्सासु पा १, ४, ९०.
लक्ष्णे(रा-उ)पाङ्ग- -ङ्गे अत्र
६५, १, १.
लक्ष्णे(रा-उ)पेत- -तम् अत्र
६२, १, ५.

लक्ष्णे(रा-ऊरु >)रू- पा ४,
१, ७०.
लक्ष्ण्य- -ण्यम् बौश्रौ १७,
२९ : ११; पागृ ३, १५, २०;
-ण्यस्य हिश्रौ ३, २, ५०.
लक्ष्ण्या(राय-अ)वृत्थ-
-थस्य वैश्रौ १, ६ : ४.
लक्षित, ता- -तम् वृदे १, ८६; -ताः
वृदे ८, ८१.
लक्ष्म^a- > लक्ष्म्य- -क्ष्म्यम् कौस्
४२, १९; अत्र १, १८.
लक्ष्मण^a- पाउ ३, ७.
लक्ष्मन्^a- -क्ष्मणि बौश्रौ १५, २९ :
३७; -क्ष्माणि गो २, १५;
बौश्रु ६ : १५.
लक्ष्मण- > णा^a- -ङ्गाः
आपश्रौ १७, २२, ५; हिश्रौ १२,
६, २६; -णाम् आपश्रौ १६,
१३, ९; बौश्रौ २६, १८ : ८;
हिश्रौ ११, ५, २०; बौश्रु ७ : २.
लक्ष्य- -क्ष्यम् गौध २२, २.
लक्ष्य-ज्ञ- -ज्ञः शंघ २४४.
लक्ष्य-लक्ष्ण^a- -णे पापवा १४;
पावा ४, २, ६०^m.
लक्ष- √लक्ष् द्र.
लक्ष^a- -क्षः अत्र ३३, ७, ६; -क्षम्
अत्र २६, ५, ८; ३०^३, २, ९; ६५,
३, ८; शंघ ४५४^३; -क्षाणि
विध ९६, ८४; ८८; -क्षान् अत्र
३०, ४, ४; ७०, ४, १; -क्षे अत्र
३०^३, २, १.
लक्ष-जप- -पात् अत्र ३६, २७, १.
लक्ष-जाप- -पात् शंघ ४४१.

लक्षजापो(प-उ)त्तर- -रम् अप
३६, २६, १.
लक्ष-तसः (ः) अत्र ३५, २, ६.
लक्ष-त्रय- -यम् अत्र ३६, २२, १;
विध ९६, ८५.
लक्ष-त्रितय-वर्धन- -नम् अत्र ३६,
२७, १.
लक्ष-मित- -तम् अत्र ७०^३, ११, ३६.
लक्ष-होम- -मः अप ३०^३, १, १, २;
-मम् अत्र ३०, १, २; ३०^३, १,
१, २; ७०, ३, १; -मस्य अत्र
३०, १, १; ३०^३, २, १०; -मान्
अत्र ३५, २, ४; -मे अत्र २५,
२, ५; ३०, ४, १; ३०^३, १, ४;
३१, ५, ४; -मेन शंघ ४४१.
लक्ष्ण- √लक्ष् द्र.
लक्ष्ण^a- (> लाक्षणेय- पा.)
पागवा ४, १, १२३.
लक्ष्ण-कर्मन्- प्रभृ. √लक्ष् द्र.
लक्ष्मण^a-
लाक्ष्मणि- -ण्यः बौश्रौ ४१ : ६.
लाक्ष्मणेय- पा ४, १, १२३; -याः
बौश्रौ ४७ : ४.
लक्ष्मण- १लक्ष्मी- द्र.
लक्ष्मी(बरा.)^a- पाउ ३, १६०;
पागवा ५, २, १००; पाग ५, ४,
१५१; -क्ष्मीः आपश्रौ ४, १५,
४; बौश्रौ; आपमं २, ८, ८;
कप्र ३, ६, ३; अत्र ३१, २, ५;
विध २३, ६१^p; ९९, ४; ७^p; या
४, १०; -ङ्क्ष्मीम् आपश्रि
२, ५, ३ : २२; बौगृ ३, ७, १७^p;
शंघ ११६: ६५^p; अत्र ७, ११५;

a) बस. । b) = गौणी-वृत्ति- । c) षस. । d) = [प्रकरणातः] भू-संस्कार- (तु. भाष्यम्) ।
e) षस. उप. < √आ/वृत् । f) = लक्ष्णज्ञ- । तद्वेद्वेत्यर्थे इति: प्र. उसं. (पा ४, २, ६२) । g) मत्वर्थे
यत् प्र. । h) = लक्ष्मन्- । i) = चिह्न- । j) वैप १. द्र. । k) लप. < √ज्ञा । l) उप. = सूत्र- ।
m) तु. पाका. । n) = संख्या-वचन- । o) व्यप. । तु. पाका. । लक्ष्मण- इति भाण्डा. प्रभृ. । p) = देवी-
विशेष- ।

-^१क्षम्यम् आपमं १, १, ३^३;
 बौध १, १, २४; -^२क्षम्या विध
 १, ४३^३; -^३क्षम्यै काय १७, १;
 माय २, १३, ६.
 ४लक्ष्मण- पा ५, २, १००.
^४लक्ष्मि-(हृत् >) स्त्री- स्त्री आपमं
 १, १०, ३; ६; बौध १०, ६, १२;
 माय १, १९ : १५.
^५लक्ष्मी-पति- -०ते विध ९८, २८.
 लक्ष्मी-प्रद- -दः अप २४, ६, १.
 रलक्ष्मी^० > लक्ष्मी-वटशुङ्ग-सहदे-
 वी- वीनाम् वैय ३, ९ : १०.
 लक्ष्य- √लक्ष् द्र.
 √लख् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
 √लग्^१ पाधा. भ्वा. पर. सङ्गः; चुरा.^०
 उभ. आस्वादाने, आसादाने.
 लग्न- पा ७, २, १८; -ग्रम् बौश्रौ
 ९, ३ : १६.
 लगध^१- -धः वेज्यो ४४.
 लगहा-(>) लगहि-) लहका- टि. द्र.
 लगुड- पाउभो २, २, ११८.
 लगुल- पाउभो २, ३, ११०.
 लघद्- पाउ १, १३५.
^१लघि^१ > लघि-मत्- -मान् कौय
 ३, १२, २९.
 लघु^१- पाउ १, २९; पाग १, १, ३७^१;
 ५, १, १२२; पावाग ८, २, १८;
 -ववः बौश्रौ २७, ११ : १२;
 २९, ८ : २१; -घु. बौध ३, ६,
 १४^१; ऋप्रा; पा १, ४, १०;
 -घुः आपश्रौ २२, ११, ३; बौश्रौ;
 -घुनि पा ७, ४, ९३; -घुम् माशि
 १०, ११; नाशि २, ६, ३; -घुघु

गोय ३, ३, ३४; द्राय २, ५, ४४^३;
 वाध २२, १५; बौध ३, १०, १७;
 ४, १, २; २, २; गौध १९, १९;
 -घू याशि २, ५४; -घूनि वाध
 २२, १५; बौध ३, १०, १७; ४,
 १, १; २, १; गौध १९, १९;
 तैप्रा २२, १४; -घोः ऋप्रा २,
 ३५; पा ६, ४, १६१; ७, २, ७;
 ४ ९४; पावा ८, २, ८६; -घौ
 ऋप्रा ८, ३६; याशि १, ६४.
 लाघव- पा ५, १, १२२; -वम्
 विध ४२, २.
 लाघवा(व-आ)पति- -त्तिः
 मीसू ११, ४, ६.
 लाघवा(व-अ)र्थ- > ^१र्थिन्-
 -^१र्थिभिः कप्र ३, ६, १.
 लघिमन्- पा ५, १, १२२.
 लघिष्ठ- -ष्ठम् निसू ४, २ : २३, ९;
 २; ११; ६, ७ : ९.
 लघीयस्- -यः कौय ३, ११, ४५;
 ऋप्रा १८, ४४; -यसा लाश्रौ
 ६, १०, २०.
 लघु-कण्टारिका^१- -काः अप १८,
 १, १६.
 लघु-गीति^१- -तीनि निसू २, ३ : २;
 १०; १२.
 लघु-चेतस्^१- -तसः याशि १, ७४.
 लघु-ता- पा ५, १, १२२; -ता
 तैप्रा २४, ५; -ताम् बौश्रौ १८,
 ४७ : २५.
 लघु-स्व- पा ५, १, १२२.
 लघु-पुरः-सर^१- -राः कप्र ३, ३,
 १०.

^१लघुपूर्णभास- -सः अप २०,
 ८.
 लघु-पूर्व- -र्वस्य पावा ६, ४, ५
 -र्वीत् पा ५, १, १३१; पा, पा
 ६, ४, ५६.
 लघु-प्रयत्न-तर- -रः पा ८, ३, १.
 लघु-मात्र- -त्रात् आश्रौ ८, १४;
 लघु-वृत्ति^१- -त्ति ऋप्रा १८, ६
 -त्ती निसू १, १ : २६.
 लघु-शान्ति-गण- -गणः अप ३:
 १, २७.
 लघु-शान्त्युदक-विधि^१- -धिना अ
 ६९, ८, ७.
 लघु-शास्त्रदोष-तत्त्व- -ज्ञ- -ज्ञै
 माशि ११, ४.
 लघु-समायुक्त- -क्तम् शैशि २१२.
 लघु-हस्त- -स्तः शंघ २४४.
 ल(घु >) घू-तर- -रः शैशि २०२
 २०३; याशि २, ५३^३.
 लघ्व(घु-अ)क्षर- -रम् ऋप्रा १८
 ६१; पावा २, २, ३४; -राणाम्
 ऋप्रा १८, ६१.
 लघ्व(घु-अ)र्थ- -र्थम् पाप्रा ८, १.
 लघ्वा(घु-आ)शित्- -शी शंघ
 ३७९; ४४३.
^१लङ्क,ङ्का^० (> यक. लाङ्कायन-,
 लाङ्काकायनि^१-, लाङ्कय^१-पा.)
 पाग ४, १, ९९; १५८.
 लङ्क-शान्तमुख- पा, पाग २, ४, ६८.
 लङ्कव^{१०} (> लाङ्कायनि- पा.)
 पाग ४, १, १५४.
 रल(ङ्क >)ङ्का- पाउभो २, २, ३१;
 -ङ्का जैश्रौका १९५५.

a) सपा. शौ १४, १, ६२ पुत्रिणीम् इति पाभे. । b) = विष्णु-पत्नी- । c) = लता-विशेष- ।
 d) या ४, ९, १०; ६, २६ परामृष्टः द्र. । e) √लक् इति [पक्षे] BPG. । f) = आचार्य-विशेष- । g) अर्थः
 व्यु. च ? । h) वैप १ द्र. । शिक्षाप्रतिशाख्यपाणिनीयेषु पारिभाषिक-संज्ञा- । i) तु. पागम. । j) = अल्प- ।
 k) = श्रोषधि-विशेष- । l) बस. । m) बस. > उस. । n) कस. > प्रस. । o) व्यप. । p) लङ्कायनि-,
 लाङ्क- इति भोजः (तु. पागम.) । q) अर्थः ? ।

√लङ्ख, √लङ्गा^१ पाधा. भ्वा. पर. गतौ.

√लङ्घ् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ, भोजन-निवृत्तावपि; चुरा. उभ. भाषायाम्, लङ्घयेत् अथ ६८, २, १; विध ५, १६८; ६३, ४२; ५०; ७१, ३६.

लङ्घक- पाउडु ४, १२.

लङ्घित, ता- नत् अथ ९, ३, ४;

-ता बौध ४, ६, ६.

√लङ् पाधा. भ्वा. पर. लक्षणे.

√लङ् (बधा.) पाधा. भ्वा. पर. भर्जने, भर्त्सने^२; तुदा. आत्म. व्रीडने; चुरा. उभ. प्रकाशने^३ पर. अपवारणे, लजति^४ निघ २, १४^५.

ल-ज- १ल- द्र.

√लङ्ज^६ = √लस्ज्

√लङ्ज पाधा. भ्वा. पर. भर्जने; चुरा. उभ. भाषायाम्, हिंसाबला-दाननिकेतनेषु प्रकाशने च.

√लङ् पाधा. भ्वा. पर. बाल्ये.

लङ्वा- पाउ १, १५१.

√लङ् पाधा. भ्वा. पर. विलासि^७; चुरा. पर. उपसेनायाम्, आत्म. ईप्सा-याम्.

लङ्गुलक- पाउभो २, २, २६.

√लण्ड पाधा. भ्वा. पर. जिह्वोन्मथने; चुरा. पर. उक्षेपणे, उभ. भाषायाम्.

√लत् (लम्बने)^८

लता- -वा या ५, २६.

लता(ता-अ)प्र-पल्लव- -वः वप्र ३, ६, ६.

लता-पल्लव-संजा(त>)ता-

-ता अथ २६, ३, ३.

लत^९- (> लातायन- पा.) पाग

४, १, ११०.

ल-तवर्ग- १ल- द्र.

लतु^{१०}- (> लातव्य- पा.) पाग ४, १,

१०५.

लत्तिका- पाउ ३, १४७.

√लप् पाधा. भ्वा. पर. व्यक्तायां वाचि.

लापिन्- -पिनः अथ ६८, १, ४०.

लाप्य- पा ३, १, १२६.

ल-पर- १ल- द्र.

लपेत^{११}- -०त पाण १, १६, २४^{११}क.

लप्सुद्^{१२}- > लप्सुदिन्- -दिनः शांशौ

१५, १, २२.

लब^{१३}- -बः ऋअ २, १०, ११९.

लाब^१- -बम् वृदे ८, ४०.

लब-सूक्त- -क्तम् या ७, २.

लबुक^{१४}- > लाबुकायन- -नः मीसू ६,

७, ३८.

√लम्^{१५} पाधा. भ्वा. आत्म. प्रातौ,

लभते आपश्रौ १२, २५, १६;

बौश्रौ २, ७; ७xx; लुसू; लभेते

निसू २, ९; १३; १३; २३; अथ

२९, १, ५; लभन्ते शांश्रौ ७,

२५, १७xx; आपश्रौ; लभन्ति

अथ १, ४३, ४; लभेताम् शंघ

२९३; लभस्व शंघ ४५५;

लभेत शांश्रौ १३, २४, १६;

आपश्रौ २२, १०, २०; बौश्रौ;

लभेत् आमिगृ २, ७, ६; १०;

१४^२; कप्र; लभेयाताम् निसू ९,

१३; २४; लभेरन् बौश्रौ २१, १;

१xx; द्राश्रौ; √लभेमहि गौपि

२, ५, १२; विध ७३, ३०.

लेभे शांश्रौ १५, १७, १; बौश्रौ

१८, ४५; ३; वृदे ६, ६८; ७, ५०;

८, १८; लप्स्यसि माणू २, ११,

११^१; √लप्सीय आपश्रौ ८,

१८, ४; भाश्रौ ८, २२, १; माश्रौ

१, ७, ७, ८; वैश्रौ ९, ११; १०;

हिश्रौ ५, ५, १६^{११}; अलप्स्यत

निसू २, १३; २१; २३.

लभ्यते अथ ३१, २, ४; याशि

२, ११६; लभ्येत वैश्रौ २०,

३४; ५; कौसू ८९, ३.

लिप्सते बौश्रौ ५, १६; २५;

लिप्सन्ते बौश्रौ ५, १६; २२;

वाधूश्रौ ४, १९; ३८; अलिप्सत

शांश्रौ १५, २४, १^{१०}.

लिप्सेत शांश्रौ ८, ८, ७; बौश्रौ

२४, १२; ११; ३३; ९; गोगृ १, ९,

१४; वाध १०, २१; बौध १, ३,

९; २, १०, ४२; गौध १०, ५७;

२८, २३; लीप्सेत आश्रौ १२,

८, २४.

!लप्स्यन- -नात् या ४, १०.

लब्ध, ब्धा- -ब्धः बौश्रौ २४, २०;

६; निसू १०, ९; २५; -ब्धम्

काश्रौ ७, ५, २; गौध १०, ३६;

-ब्धे वैध ३, ७; २; -ब्धेन

विध २८, ५०; -ब्धैः वैध १,

७, ५.

लब्ध-का(म>)मा- -मा

विध १८, ४; १०२.

लब्ध-लक्ष^{१६}- -लक्षः विध ९७,

७^१.

a) या ६, २६ परामृष्टः द्र. । b) तु. BPG. । c) √लम्ब्, वण्ट् इत्येके इति भारडा. । d) घा. क्तौ श्रुतिः । e) या ४, १० परामृष्टः द्र. । f) ईप्सायामिति BPG. । √लङ् इति [पक्षे] भारडा. । g) या ५, २६ परामृष्टः द्र. (तु. SBYI ७८) । h) तु. पागम. । i) = बालप्रह-विशेष- । j) वैप १ द्र. । k) व्यप. । l) = सूक्त- । m) पा ७, १, ६४; ६७; ६९; ४, ५४ परामृष्टः द्र. । n) लिं इति पाठः? यति. शोधः (तु. सपा. काठ १९, ७] प्रमृ.) । o) प्रभे. वैप २, ३ खं. अलप्सत ऐत्रा ७, १७ टि. द्र. । p) बस. उप. = १लक्ष- । q) तच्च लक्षम् इति नीलं ।

लब्ध-सं(शा >) ^१लब्ध-सम् कञ्
२, १०, ६०.
लब्धा (ब्ध-आ) शिन्- शी
शंघ ४३३^{१०}.
लब्धा (ब्ध-अ) सु^{१०} - सुम् वृदे
७, १०२.
लब्धवत्- वान् अप ३१, ३, ५;
वृदे ५, ६६.
लब्ध- न्धा पा ४, ४, ८४.
लब्धा वाधुश्रौ ४, १९: ३९; वैश्रौ,
निसू ४, २: ३५^{११}.
लभमान- नस्य बौश्रौ २०, ४:
२७; २४, ३१: ९.
लभ्य- > लभ्या (भ्य-अ) वगध^{१२}-
-यम् बौश्रौ १७, ४८: १६^१.
लभ- -भ: अप ३६, ६, ३; ६८,
२, १७; -भम् आपघ १, ३, २५;
हिध १, १००; आज्यो ७, ११;
-भात् या ४, १०; -भे अप ४८,
४०; ६८, २, ५६^२; वाघ १०,
२२.
लभ-काम- -मस्य काश्रौ ४,
७, ३.
लिप्सत्- -प्सन्त: विध ४३, ३७.
लिप्सा- -प्सा मीसू ४, १, २;
-प्सायाम् पा ३, ३, ६; ४६;
पावा १, ३, २५.
लिप्सितुम् अप १, ९, २.
लिप्सित्वा द्राश्रौ १३, ३, ६; लाश्रौ
५, ३, ९.
लिप्स्यमान- > न-सिद्धि- -द्वौ
पा ३, ३, ७.
लभस- पाठ ३, ११७.

लभ्य- प्रम्. √लम् द्र.
२लभ्य- (> लभ्य-पा.) लह्य- टि. द्र.
√लम् (√रम्), ललाम सु २२, ३.
ल-म- १ल- द्र.
लमक^{१३}- पाठ २, ३३^{१३}; पाग २, ४,
६९; ४, १, ९९; -का: बौश्रौ प्र
२३: १.
लामकायन- पा ४, १, ९९; -न:
द्राश्रौ १२, १, ३६; लाश्रौ ४, ९,
२२; ६, ९, १८××; निसू ३, १२:
२८; १३: ३८××; वृदे ३, ४७;
-ना: बौश्रौ प्र ३१: ३.
लामकायनिन्- पा ४, ३, १०५;
-निनाम् काठश्रौ २४.
√लम्^१ पाधा. भ्वा. आत्म. शब्दे
अवसंसने च, लम्बते वाधुश्रौ ४,
६४: ६; १०; सु ७, १; लम्बन्ते
वाध १६, ३२.
लम्बयति हिश्रौ १६, ६, ३३.
लम्ब- -म्बम् कप्र १, १, ३.
लम्ब-कर्मन्^{१४}- -मैण: या ५, २६.
लम्ब-चूडक^{१५}- -क: या १, १४.
लम्बो (म्ब-उ) द्र^{१६}- -र:
बौश्रौ प्र २२: २; -रम् बौध २,
५, २१^१.
लम्बो (म्ब-ओ) छ^{१७}- -छ: शैशि
१६०; पाशि २७; माशि १५,
२; याशि १, २६; नाशि २, ८,
१२.
लम्बन^{१८}- > न-स्तन^१- -नान्
आपमं २, १३, १२; आप्रिण २,
१, ३: २१; भाण १, २३: १३;
हिण २, ३, ७^{१९}.

लम्बमान- -नम् सु ७, १; -ना:
विध ४३, ४२.
२लम्ब- > लम्बा विश्ववयस्^{१०}-
लय- √ली द्र.
√लर्ब^१ पाधा. भ्वा. पर. गतौ.
√लल्^० > लालन^१- -ना: अप
६८, १, १०.
ललाट^१- पाग २, ४, ३१; ५, २, ९७;
-टम् शाश्रौ २, १२, १; ४; काश्रौ
६, ४, १०; काणु; -टात् माशि
१, १२; नाशि १, ५, ६; भासू
३, २३; -टानि वैश्रौ १७, ११:
६; -टे शाश्रौ १६, ३, २९;
आपश्रौ.
लालाटिक- पा ४, ४, ४६.
ललाट-तप- पा ३, २, ३६.
ललाट-प्रमा(ण >) णा^{११}- -णाम् अप
३०^२, २, २.
ललाट-समित- -त: शाणु २, १,
२२; पाणु २, ५, २८; कप्र ३, ८,
१२; वाघ ११, ५६.
ललाट-हृद्-बाहु-कण्ठा(रुठ-आ)-
दि- -दीन् वैणु १, २१: ८.
ललाटा(ट-अं)स-श्रोणि- -णिषु
काश्रौ ६, ४, २.
ललाटा(ट-अ)क्षि-गण्ड- -ण्डे विध
९६, ७४.
ललाटा(ट-अ)न्त- > न्तिक-
-क: कौणु २, १, २२^१.
२ललाटा(ट-अ)न्त^१- -न्त: वैणु २,
४: ३^१.
ललाटा(ट-अ)भिमर्शन- -नात् काणु
३६, २.

a) बस. । b) श्री: इति पाठ: १ यनि. शोध: (तु. ४४३ लब्धाशी इति पाभे.) । c) उप. = प्राण- ।
d) पाठ: ? लब्ध- > न्धा इति शोध: (तु. संस्कृत: टि.) । e) तु. पृ २५७ f) भूयान् सूको. पाठ: ।
g) व्यप. । h) < √लम् । i) बहु. > लामकायन- । j) या ६, २६ परामृष्ट: द्र. । k) कर्तरि क्त्वा ।
l) = बालग्रह-विशेष- । m) लम्बस्त^१ इति पाठ: १ यनि. शोध: (तु. आपमं. प्रम्. संस्कृत: टि. च) ।
n) पृ १७९२ जं. । o) पृ २०९८ f द्र. । p) वैपश् द्र. । q) परस्परं पाभे. ।

ललाटिक^१-कात् आपश्चौ ११, ४,
१२.
लला(टक >)टिका- पा ४, ३,
६५.
ललाहूल- पावा ५, ३, ९७.
ललाम^२-मः बौश्रौ १८, ३० : ७;
-मस् काश्रौ २०, १, ३१; -मान्
माश्रौ ५, २, १०, ४४.
ललामी^३-मी बौश्रौ १८,
३० : ७; -मीस् बौश्रौ २३,
१८ : ३७.
लालामिक- पा ४, ४, ४०.
ललाम-गु^४-गुस् शश्रौ १२, २४,
२; १६, ४, ६; लाश्रौ ९, १०, ६.
ललामन्- पाठमो २, १, २८५.
ललव(> लव-स-पा.) पाग ४, २, ८०.
ललव^५-वः, -वाः आज्यो १, ४.
ललवक- √लू द्र.
ललवङ्ग- पाठ १, १२०.
ललवण, णा^६ - पा ४, ४, २४; पाग १,
४, ७४; पा, पाग ५, २, १२७; -णम्
बौश्रौ २, २० : ४; २८, ८ : ४;
द्राश्रौ १, १, १२; लाश्रौ; -णस्य
कौसु ६८, ११; अप ३६, १०, २;
६८, २, ४६; -णाभिः बौध १,
५, १४; -णेन अप ३५, १, ११;
वाध २, २७.
लावणिक- पा ४, ४, ५२.
लवण-कृताज्ञ-न्नयोः गौध ७, १९.
लवण-क्रीबा(ब-आ)सव-नपुंसक-
कार्पास-रज्जु-निगड-सुककेश-
-शान् विध ६३, ३८.
लवणं/कृ पा १, ४, ७४.

लवण-जल-निधि- -धिम् अप ६८,
३, १०.
लवण-तैल-पिण्याक-जीविन्- -वी
वैध ३, १४, ६.
लवण-तैल-विक्रेतु- -ता वैध ३,
१३, १२.
लवण-प्रदान- -नेन विध ९२, १८.
लवण-मिश्र- -श्रेण आपृ १८, १;
-श्रैः अप ३५, १, ९.
लवण-सुडीची- -चीः कौसू ४७,
४६.
लवण-वर्जम् वागृ ४, २४.
लवण-व्यञ्जन- -नानि वाध १४, ३१.
√लवणस्य पा, पावा ७, १, ५१.
लवण-हिङ्गु-लशुन-मधु-मत्स्य-
मांस-पूत्यन्ना(न-अ)म्ल-परस्प-
शंन-परवाग्-वर्जिन्- -र्जौ वैध
१, ७, ३९.
लवणा(ण-अक >)का- -क्ताम्
याशि १, ३८.
लवणा(ण-आख्या >)ख्य- -ख्येन
नाशि २, ८, ६६.
लवणा(ण-आ)दि- -दिषु शंघ २२७
√लवणि पा ३, १, २१.
लवणो(ण-उ)दक^७- -कम् शंघ
११६ : ७.
लवणो(ण-उ)दक-मिश्र- -श्रेण भागृ
२, ७ : ५; हिय २, ७, २.
लवणो(ण-उ)दधत- -तः बौध २,
१, ५६.
लवणा^८- पाग ५, १, १२३; -णाः अप
६८, १, १०.
लावण्य- पा ५, १, १२३; -ण्यम्

विध ९२, १८.
लवण- (> णी^१- पा.) पाग ४,
१, ४१.
लवण- , ण- √लू द्र.
लवल^१- (> णी- पा.) पाग ४, १,
४१.
लवाक- पाठना ४, १४.
लवाणक- पाठ ३, ८३.
लवानक- पाठमो २, २, ३४.
लवि- पाठवृ ४, १३९.
लवित्र- √लू द्र.
लव्यावु^२द^३- -दः बौश्रौप्र ४९ : २.
ल-श-कार-, ल-श-स- १ल- द्र.
लशुन- पाठ ३, ५७; पाग २, ४, ३१^४;
-नस् वैध २, १५, ५.
लशुन-गुञ्जन-पलाण्डु-कुम्भीक-
श्राद्धसूतकाज-मधु-मांस-मूत्र-
पुरीष-नेतो(तस्-अ)मेध्य-
भक्षण- -णे सुध २१^५; २२^६.
लशुन-पलाण्डु-क्याकु-गुञ्जन-रले-
ष्मान्तक-वृक्षनिर्यास-लोहित-
व्रश्चन-श्वकाकावलीड-शुद्रोच्छे-
षण-भोजन- -नेषु वाध १४,
३३.
लशुन-पलाण्डु-गुञ्जनक-कुम्भीका -
(क-आ)दि- -दीनाम् सुधप ८७:
८.
लशुन-पलाण्डु-गुञ्जन-कूर्म-कुक्कुट-
भक्षण- -णे काध २७४ : ३.
लशुन-पलाण्डु-गुञ्जन-लत्राक-
नालिक-विड्वराह-भ्रामकुक्कुट-
नख-रोम-मांस-भक्षण- -णे शंघ
४१८.

a) विप. (शङ्कु-) । तत्रभवीयः प्र. । b) वैप १ द्र. । c) = काल-वचन- । < √लू इति
अभा. । d) विप., नाप. । e) पूत्यन्नघान्याम्लपरस्पशंनपरपाक इति C. । f) णाप्येन इति कालिसं. ।
g) = समुद्र-विशेष- । बस. । h) = सुन्दर- । i) = ओषधि- इति पागम. । j) तु. पागम. ।
k) व्यप. । l) लशुनं जनपलण्डुकुम्भीकः श्राद्धसूतकाः । न मधु इति पाठः ? यनि. समुदितः सोधः (तु-
संस्कृत- टि. अपरार्कः) ।

लशुन-पलाण्डु-गृह्य-विड्वराह
ग्रामकुक्कुट-कुम्भीक-भक्षण-
-णे शंघ ४२१.
लशुन-पलाण्डु-गृह्यनै (न-ए)तद्वन्धि-
विड्वराह-ग्रामकुक्कुट-वानर-गो-
मांस-भक्षण^१- -णे विध ५१, ३.
लशुन-पलाश(?) रडु^२-कुम्भी-नव-
श्राद्धसूतिका(शिकान^३) मधु-मांस-
मूत्र-रेतो(तस्-अ)मध्य-भक्षण-
-णे सुधप ८३: १.
√लष्^४ पाधा. भ्वा. उभ. कान्तौ;
चुरा. ८ उभ. शिल्पयोगे (शिल्पो-
पयोगे) > लषण- पा ३, २,
१५०.
लाषुक- पा ३, २, १५४.
लष्व- पाउ १, १५३.
√लस्^५ पाधा. भ्वा. पर. श्लेषाक्रीड-
नयो: > लालसा- सायाम्
पावा ७, १, ५१.
ल-स-तवर्ग- १ल- द्र.
लसुष- पाउना ४, ७९.
√लस्ज् पाधा. तुदा. आत्म. व्रीडने.
लस्पूजनि^६-> ०नि-प्रतिह (त>)
ता- न्तया काश्रौ ८, ४, १८.
लहका- पाग ४, १, ९६^७; पावाग ७,
३, ४५^८.
लाहकि- पा ४, १, ९६.
ल-ह-कार- १ल- द्र.
लह्य^९- (>लाह्य- पा.) पाग २, ४,
६३^१; ४, १, ११२.
√ला पाधा. भ्रदा. पर. आदाने
दाने^१ च.

लाक्षण-, ०णि- प्रथ. √लञ् द्र.
लाक्षण्य- २लक्षण- द्र.
शलाक्षा^१- पाउभो २, ३, १११; -क्षया
वाध २, २७; -क्षाम् अथ ५, ६;
-क्षया: शंघ ४०५.
लाक्षा-रक्त- -क्तम् शैशि २२४;
याशि २, ७६; -क्तेन कौसू ७६, ८.
लाक्षा-रुधिर-संकाश- -श: अप
५०, ६, ५.
लाक्षा-लि(ङ्) > ङ्गा^१- -ङ्गाभि: कौसू
२८, १४.
लाक्षा-लोहित-वर्ण- -त्व- -त्वम्
अप ६४, ५, ७.
लाक्षिक- पा ४, २, २; -कम् अथ
५, ५^३.
रलाक्षा^२- -क्षा वृदे १, १२९; २, ८४.
लाक्ष^३- -क्षम् वृदे ८, ५१.
लाक्षमणि-, ०ण्य- ३लक्षमण- द्र.
√लाख् पाधा. भ्वा. पर. शोषणात्म-
र्थयो:.
लागहि- लगहा- द्र.
√लाघ् पाधा. भ्वा. आत्म. सामर्थ्ये.
लाघव- लघु- द्र.
लाङ्गवायनि- लङ्गव- द्र.
लाङ्गाकायनि-, लाङ्गायन- १लङ्ग-
द्र.
लाङ्गि- १लङ्ग- टि. द्र.
लाङ्गेय- १लङ्ग- द्र.
शलाङ्गल^४- पाउ १, १०८; -लम्
आपश्रौ १६, १८, ६; १९,
२१; बौश्रौ; या ६, २६२^५;
-लयो: कौसू ९३, १४; -लानाम्

अप ६४, ३, ६; -ले कौसू १०६,
१; -लेन बौश्रौ १८, २०: ५;
-लेभ्य: कौसू २७, ११^६.
लाङ्गल-बन्ध- -न्धम् माश्रौ २, १,
४, ५.
लाङ्गल-योजन- -नम् पाग २,
१३, १.
लाङ्गल-वृत्ति^७- -त्ति: काध २७०: ६.
लाङ्गल-स्थायिन्- -यी अप ५०, ६, ३.
लाङ्गल-हल-चक्र-पवन- -ने काध
२७६: ११.
१लाङ्गलिन्- -ली अप ५०, ४, ५;
५, १.
लाङ्गलीषा- पावाग ६, १, ९३.
लाङ्गले-गृह्य^८
लाङ्गले(ल-ई)षा- -षा शांश्रौ १४,
४०, ८; काश्रौ २२, ३, ४८;
आपश्रौ २२, ३, ७; लाश्रौ ८, ३,
६.
लाङ्गल्य, ल्या^९- -ल्यम् बौश्रौ १८,
२०: २; -ल्यस्य बौश्रौ १८,
२०: २; -ल्याम् बौश्रौ १८,
२१: १३; १४.
लाङ्गलायन^{१०}- -ना: चव्यू ३: ५.
लाङ्गलि^{११}- -लि: अप्राय २, २; ३.
रलाङ्गलिन्^{१२}-> रलाङ्गल^{१३}- पावा
६, ४, १४४.
लाङ्गुल-> ले-गृह्य^{१४}
लाङ्गूल^{१५}- पाउ ४, ९०; -लम् बौश्रौ
१६, २०: ११; या ६, २६५^{१६};
-लेन शांश्रौ १७, ५, १०.
लाङ्गूल-गृह्य^{१७} पाग २, १, ७२.

a) ०प्रास्य^१ इति जीसं. । b) पाठ: ? यनि. शोघ: । c) या ४, १० पा ३, १, ७० परामृष्ट: द्र. ।

d) √लस् इति [पञ्चे] BPG. । e) नाप. (लुहृत्काष्ठमयी-] सूची- । f) तु. पागम. । g) लगहा- इति पागम., हलका- इति पासि. [चौसं.] । h) व्यप. । i) २लभ्य- इति पाका. । j) चन्द्रमतम् (तु. पासि.) । k) वैष १ द्र. । l) नस. । m) साऽस्थदेवतार्थे ठक् प्र. । n) = [मध्यमस्थानीय-] देवता-विशेष- । o) तस्येद- मीय: अण् प्र. । p) तु. पाका. । लाङ्गुलेगृह्य, लाङ्गुलगृह्य इति भाण्डा. । q) तस्मैहितय: यत् प्र. । r) = शाखाध्यायिन्- ।

लाङ्गूल-वत् या ६, २६.

√लाञ् पाधा. भ्वा. पर. भर्जने, भर्त्सने च.

लाज, जा^० - जा: बौश्रौ १७, ३१ : १४; वाश्रौ ३, २, ७, ३; माय; या ६, ९६; -जान् आपश्रौ १२, ४, १०; १२१; २०, १०, ५; बौश्रौ; कौय १, ८, २३१; शांय १, १४, ११; बौय १, ४, २६१; माय १, १६; १५१; माय १, ११, १२१; वाय १४, १८१; हिय १, २०, ४१; जैय १, २१; २२१; या ६, ९६; -जानाम् काश्रौ १२, १, १८; बौश्रौ १७, ३१; १९; गोय; -जेभ्यः आपश्रौ १२, ४, १४; -जेषु कौय १, ८, २२; -जैः आपश्रौ २०, १०, ६; बौय १, ६, १०१; अप ४४, ३, १०; शंघ २१८.

लाज-चूर्ण- -र्णानि काश्रौ १२, १, २७.

लाज-पूरण- -णम् वैय ३, ३ : ११.

लाज-होम- -मः काय २५, ३४; -मम् वैय ३, ४ : २.

लाजा-चर्मन्^१ - -र्माणि बौश्रौ १५, १६ : ३.

लाजा-भ्रा(र>)री^० - -र्याः माय १, १०, ४; -र्यै माय १, ११, १०.

लाजा(ज-अ)ञ्जलि- -लिना वैय ३, ३ : १.

लाजा(ज-आ)दि- -दि पाय १, ७, ४.

लाजादि-संभार-वर्जम् आमिगृ

१, ६, ३ : ५९.

लाजा(ज-अ)नुले(पक>)पिका-

-काः अप १, ३४, ५.

लाजा(ज-अ)र्थ- -र्थम् आपश्रौ १२,

४, ९; हिश्रौ ८, १, ५२; -थान्

आपश्रौ १२, ४, ५; ८; वैश्रौ १५,

४ : १०; हिश्रौ ८, १, ५१.

लाजा(ज-आ)हुति, ती- -तिम् बौध

१, ११, ४; -तीषु वाय १४, ७.

लाजि^० - -जी ३न् काश्रौ २०, ५,

१८; आपश्रौ २०, १६, १९; बौश्रौ.

√लाञ् पाधा. भ्वा. पर. लक्षणं.

लाञ्छन- -नात् या ४, १०.

√लाञ् पाधा. भ्वा. पर. भर्जने भर्त्सने च.

लाट्- (>√लाट्य पा.) पाग ३, १, २७.

लाडि^१ - (>लाड्या- पा.) पाग ४, १, ८०; पावाग ४, १, ७९.

लातव्य- लतु- द्र.

लातायन- लत- द्र.

लान्द्र- (>लान्द्रक- पा.) पाग ५, ४, २९.

लापिन्, लाप्य- √लप् द्र.

लाव- लव- द्र.

लावुकायन- लवुक- द्र.

लाभ- प्रभृ. √लभ् द्र.

लाभ्य- रलभ्य- द्र.

?लाभ्यस्वेस्वेनातमापयति वाश्रौ ३, ४, ३, ४९.

√लाम् पाधा. चुरा. उभ. प्रेरणे.

लामकायन-, णिन्- लमक- द्र.

लाय- √लौ द्र.

लालन- √लल् द्र.

लालसा- √लस् द्र.

लाला-> लाला-प्रकोप- -पः वैय ३, १० : २.

लालाटिक- ललाट- द्र.

लालामिक- ललाम- द्र.

लाव^१- पाउभो २, ३, १२७.

१लाव-क^१ - -कम् शंघ २२३.

२लावक^१ - (>कायनि- पा.) पाग ४, १, १५४.

लावणिक- १लवण- द्र.

लावण्य- २लवण- द्र.

लावर्णि^१ - -र्णिः बौश्रौ ४२ : २.

लावेरणि^१ - (>णीय- पा.) पाग ४, २, १३८.

लापुक- √लप् द्र.

लाहकि- लहका- द्र.

लाह्य- लह्य- द्र.

लिक्षा(वप्रा.)^१ - पाउभो २, ३, १७०; पावाग ८, २, १८^k; -क्षा विध ४, २^l.

√लिख् (वधा.) पाधा. तुदा. पर.

अक्षरविन्यासे, लिखति काश्रौ ५, ३, २२; ४, ९; १७, ३, १०;

आपश्रौ १, २५, १४; बौश्रौ; लिखेत् बौपि ३, ९, २; अप

१९^२, २, ४; शंघ २४३; काश्रु ७, ३८; आपश्रु १६, १०.

लिखेत् बौश्रौ १८, १९; ६१;

लिखीः काश्रौ ६, १, १६; आपश्रौ ७, २, ७; बौश्रौ ४, १ : २३; भाश्रौ ७, २, १.

लिखक- पाउना २, ३२.

a) या ६, ९ परामुष्टः द्र.। b) वैप १ द्र.। c) पाभे. पृ ११९० ० द्र.। d) उप. = [चर्मसय-]

पत्र-विशेष-। e) उप. कर्तरि <ष्ट। f) व्यप.। g) = पक्षि-विशेष-। <√ल इति अभा.। h) स्वार्थे

कः प्र.। i) <लावेरण- <लाव- इति पागम.। सौवेरणि- इत्यन्यः (तु. पागम.)। j) नाम.। वु. ?

<√लि(लि)ष् इति पाउभो.; <√रिश् इति पाउवृ ३, ६६; <√लक्ष इति अभा.। k) तु. पागम.।

l) = [त्रिस्तरेण-अष्टक-] परिमाण-विशेष-। लिख्या इति जीमं ।

लिखत्- -खन्तौ माश्रौ २, ४, १, १२.
 १ लिखित- -तम् वाध १६, १०;
 विध ३, ८२; ६, २३; २५; ७, ४; ९
 लिखित-पाठक- -कः शैशि
 २०२.
 लिखिता(त-अ)र्थ- -र्थे विध ६,
 २५^३.
 -लिखित^३- -तम् शंघ ११६: ४१;
 -ताय वैट्ट २, १२: १४.
 लिखित्वा आपश्रौ १९, ११, ६;
 माश्रौ १, २६, १०; हिश्रौ; कप्र
 १, १, १४^०.
 १ लेख, खा^३- पाग ३, १, २७; ३,
 १०४; पावाग ८, २, १८^०;
 -खयोः काशु १, २; -खाः काश्रौ
 २, ६, २०; आपश्रौ १, २, १४;
 ९, २०, ९; १९, ११, ६; १०;
 १४, २; बौश्रौ; हिश्र २, १, १३^१;
 -खान् माश्र २, १४, ६; -खानाम्
 माश्रौ १, २, ४, ८; -खाम् आश्रौ
 २, ६, ९; १४; आपश्रौ; द्राश्र १,
 २, २^३; आपश्रु १८, ८; बौश्रु १:
 १०; हिश्रु ६, १३; -स्त्रायाः
 आपश्रौ १९, ११, ६; हिश्रौ २३,
 २, ६; -स्त्रायाम् काश्रौ ४, १,
 ११; आपश्रौ १९, १२, १; बौश्रौ;
 -स्त्रासु बौश्रौ १, १०: १४;
 माश्रौ १, २, ४, ३; वैश्रौ ४, १०:
 १६; -स्त्रे शाश्रौ १७, १०, ४.
 लेखा(खा-अ)दिक- -कम् अप

३०^३, १, १४.
 लेखा(खा-अ)धिकार- -रः
 आपश्रौ १६, ३४, १; वैश्रौ १८,
 १६: ४५.
 लेखा(खा-अ)न्त- -न्तयोः
 आपश्रु ९, १; हिश्रु ३, २१; -न्ते
 माश्रौ १, २, ४, ९.
 लेखा(खा-अ)न्तराल- -लेषु
 बौश्रौ १९, ३: ३२.
 लेखा-प्रमृति^३- -तिभिः द्राश्र १,
 ४, ३.
 लेखा-भ्र^३- पा, पाग २, ४, ६, ९^१;
 ४, १, १२३.
 लेखा-भ्र^३- (> लैखाभ्रेय-पा.)
 पाग ४, १, १२३^६.
 √लेखाय पा ३, १, २७.
 लेखा-संधि- -धिषु गोश्र २, ३,
 ६^१.
 लेखा-समर^३- -रम् आपश्रु ९,
 १; हिश्रु ३, २१.
 √लेख्य पा ३, १, २७.
 रलेख^३- पा ६, ३, ५०.
 लेख-प्रदृण- -णात् पावा ६, ३,
 ४९.
 लेखक- -कः विध ७, १३; -काः
 अप ६३, ४, २; -केन विध ७, ९.
 लेखन^३- -नम् कौसू १३७, १२;
 अप ५१, २, ३; -ने अप ५१,
 २, ४, ५, ५.
 लेखन-वेला- -लायाम् माश्रौ
 ४, १, २०.

लेखयित्वा शाश्रौ १७, १०, ४.
 लेख्य- -०ख्य विध ९८, ६३^०;
 -ख्यम्^३ विध ७, १; १२; १३;
 -ख्येन आश्रिणु ३, १०, २: ३^३.
 लेख्य-प्रत्यय- -यः वाध १६,
 १४.
 लेख्या(ख्य-अ)भाव- -वे विध
 ५, १८७.
 लेख्या(ख्य-अ)संनिधान- -ने
 विध ६, २६.

लिगु- पाठ १, ३६; पाग^३ ४, १, १८;
 ९९; १०५.
 लैगवायन- पा ४, १, ९९.
 लैगव्य- पा ४, १, १०५.
 लैगव्याय(न>)नी- पा ४, १,
 १८.

√लिङ्ग् पाधा. भ्वा. पर. गतौ; चुरा.
 उभ. चित्रीकरणे.
 लिङ्ग(वप्रा.)^३- पाग २, ४, ३१;
 -ङ्गम् निस् ९, ७: ५;
 २२; कौसू; अप ३६, २६,
 १^१; बौध २, १, १४^३; वैध
 २, ९: ५^३; गौध २३, ११^३;
 -ङ्गस्य कौसू ६३, १३; अप ७०^३,
 १०, १^३; ७१, १७, १०^३; पावा
 १, २, ६८; मौसू ७, ४;
 ११^३ × ×; -ङ्गात् काश्रौ १,
 ८ ३६; १२, ६, ३३;
 वृदे; -ङ्गानाम् काश्रौ २२, ३,
 १९; -ङ्गानि आश्रौ ५, १, ७;
 अप; -ङ्गे^३ वाध ६, १६; शंघ

a) ॐ प्रविष्टे > प्रविष्टः इति जीसं.। b) = स्मृतिकार-। धा. अर्थः ?। c) लिखिता इति BI.।
 d) पुं. घन्तम्। स्त्री. = रेखा-। e) वृ. पागम.। f) पामे. पृ २०७६ h) द्र.। g) रेखाम् इति आन.।
 h) बस.। i) व्यप.। उप. = १भू.। j) भ्रू- इति पागम.। k) लेखा-भ्र- इति [पक्षे]
 भारडा.। l) उप. = संसेद-। m) कर्तारि कृत्। n) भावे कुरणे च प्र.। o) = विष्णु-।
 p) = व्यवस्था-पत्र-। q) = लेखन-साधन-। r) व्यप.। s) प्रायेण = चिह्न-। विशेषः टि. द्र.।
 प्यु. १. < √लिङ्ग् इति प्रागेवाद्; < √लग् इति MW. ?।। t) = शिव-लिङ्ग-। u) = मूर्तेन्द्रिय-।
 v) लिङ्ग-हेतुत्वात् इति जीसं.।

५३; विध ६०, २५; -ङ्गेन शाश्रौ
 १, १७, ४; हिश्रौ; पावा १, १, १;
 -ङ्गेः आश्रौ ५, ४, ३; ६, २, ११;
 आपश्रौ.
 ?लिङ्गक- -काः अप ४८, ११६.
 लिङ्ग-कर्मन्- -र्म मीसू ११, ४, ३३.
 लिङ्ग-कलस- -से शाश्रौ १४, २२, ५.
 लिङ्ग-क्रम-समाख्यान- -नात् मीसू
 ३, २, १९.
 लिङ्ग-ग्रहण- -गम् लाश्रौ ९, ६, २२.
 लिङ्ग-ज्ञ- -ज्ञाः या १, १७.
 लिङ्ग-तस(ः) आपध २, २९, ६;
 हिध २, ६, १९; वृदे १, २०; ३,
 ३९^२; ६, ६९.
 लिङ्ग-दर्शन- -नम् मीसू ३, ७,
 ४३××; -नात् मीसू १, १,
 २३××; ७, ३, ८^७.
 लिङ्गदर्शना(न-अ)व्यतिरेक-
 -कात् मीसू ९, २, २८.
 लिङ्ग-पुंवद्भावप्रतिषेधा(ध-अ)र्थ-
 -र्थम् पावा ४, ३, १२७.
 लिङ्ग-प्रतिषेध- -धः पावा १, ३,
 ६२.
 लिङ्ग-वाधन- -नम् पावा ५, ४, ३०.
 लिङ्ग-भाज्- -भाजा वृदे २, १११.
 लिङ्ग-भाव- -वात् मीसू ३, २, ३९;
 ८, १, ३०.
 लिङ्ग-भेद- -दात् मीसू २, ३, २.
 लिङ्ग-वचन^१- -नम् पावा ४, १, ९२;
 -नानि पावा १, २, ७२.
 लिङ्गवचन-भाव- -वात् पावा ४,
 १, ३.
 लिङ्गवचन-सिद्धि- -द्धिः पावा
 १, २, ६४; ५, २, ९४.
 लिङ्गवचना(न-अ)नुपपत्ति- -त्तिः
 पावा २, ३, ५२; ४, २, ३; ५, ३;

६७^२; ७४.
 लिङ्गवचना(न-अ)भाव- -वात्
 पावा ५, ३, ६६.
 लिङ्ग-वत्- -वता वैताश्रौ १, ३.
 लिङ्गवती- -त्यः माश्रौ ५, १, ५,
 २७.
 लिङ्ग-वाक्य- -क्यात् वृदे ५, ९३.
 लिङ्गवाक्य-विकार-तस(ः) वृदे
 ७, १०८.
 लिङ्ग-विरोध- -धात् मीसू ९, १,
 ३२.
 लिङ्ग-विवेचक- -काः याशि २, ७.
 लिङ्ग-विशिष्ट- -ष्टस्य पावा ४, १,
 १; -ष्टात् पावा ५, २, ५२.
 लिङ्गविशिष्ट-ग्रहण- -गात् पावा
 ६, १, ८४; -णे पावा ८, ४, ११.
 लिङ्गविशिष्ट-प्रतिषेधा(ध-अ)
 र्थ- -र्थम् पावा ७, १, १.
 लिङ्गविशिष्टा(ष्ट-अ)ग्रहण- -गात्
 पावा ७, १, १.
 लिङ्ग-विशेष- -षेण मीसू १०, ३,
 ६२; ६६.
 लिङ्गविशेष-निर्देश- -शात् मीसू
 ३, २, २७; ६, १, ६; ९, १, ४४.
 लिङ्ग-संयोग- -नात् हिश्रौ ९, ८,
 ४६.
 लिङ्ग-संख्यो(ख्या-उ)पचारा(र-
 अ)नुपपत्ति- -त्तिः पावा २,
 २, ४.
 लिङ्ग-संनियोग- -नेन पावा ४, १,
 ३६.
 लिङ्ग-समवाय- -यात् मीसू १, ४,
 २८.
 लिङ्ग-समाख्या- -ख्याभ्याम् मीसू
 ३, २, २४^८.
 लिङ्ग-साधारण्य- -ण्यात् मीसू ८,

१, २७.
 लिङ्ग-सामर्थ्य- -र्थ्यात् मीसू १०,
 ६, ७४.
 लिङ्ग-सिद्धय(द्धि-अ)र्थ- -र्थम् पावा
 ५, ३, ९८.
 लिङ्गा(ङ्ग-अ)तिदेश- -शात् पावा
 १, ३, ६२.
 लिङ्गा(ङ्ग-अ)धिकार- -रे पावा ४,
 १, २५.
 लिङ्गा(ङ्ग-अ)नुपपत्ति- -त्तिः पावा
 ४, १, ३.
 लिङ्गा(ङ्ग-अ)न्यत्व- -त्वम् पावा ४,
 १, ९२.
 लिङ्गा(ङ्ग-अ)न्वि(त>)ता- -ताम्
 विध ५, १७२.
 लिङ्गा(ङ्ग-अ)भाव- -वात् पावा १,
 २, ४७; २, ४, ८२; ७, १, ३३;
 मीसू १, ३, १८.
 लिङ्गा(ङ्ग-अ)यतन-चित्र- -त्राणाम्
 अप ७१, १, ४.
 लिङ्गा(ङ्ग-अ)यतन-चैत्य- -त्येषु
 अप ७०^३, ९, २.
 लिङ्गिन्- -ङ्गिनः अप ६८, २, ३५;
 -ङ्गिनाम् विध ९३, १३^६.
 लिङ्गि-नेष- -षेण विध ९३, १३.
 लिङ्ग्यु(ङ्गि-उ)पताप- -पः कौसू
 २५, २.
 लिङ्गे(ङ्ग-ई)प्सु- -प्सुः शाश्रौ १४,
 ५१, ८.
 लिङ्गो(ङ्ग-उ)क्त, क्ता- -क्तः शुश्र ३,
 ४; -क्तम् शुश्र १, ४६××;
 -क्ता शुश्र १, १४१××; साश्र;
 -क्ताः शुश्र १, २७१; २९६; साश्र
 १, ४२७; ६४२; २, ३४५××;
 -कानि शुश्र १, १२५××;
 -क्ते शुश्र १, ४१××.

a) समाहारे द्रस. । b) लिङ्गात् इति जीसं. । c) ख्यानाभ्याम् इति जीसं. । d) लिङ्गेन इति जीसं. ।

१ लिङ्गोक्त-देवता- -ता ऋत्र
२, ६, ७५; शुभ्र १, १७०; -ताः
ऋत्र २, ६, ४८; ७५; १०, ५९;
शुभ्र ३, १२४.

लिङ्गोक्तदेवत्व्या- -त्यम्
अत्र ७, २२; ३७; -त्ये ऋत्र
२, १, १३६.

२ लिङ्गोक्त-देवत, ता^१ -तः ऋत्र
२, १, ९४; ६, ४७; शुभ्र १,
३०५; साश्र १, ९६; ५९०;
-तम् शुभ्र १, २७३xx; -ता
ऋत्र २, २, ३२xx; शुभ्र; -ताः
ऋत्र २, ६, ७५; शुभ्र १, १७३;
२, ४६०; -तानि शुभ्र १,
४७०xx; -ताम् शुभ्र ४, ३०;
५०; -ते शुभ्र २, ४२९; -तौ
ऋत्र २, १, ११२.

लिङ्गोक्त-देवत^१ -तः शुभ्र २,
४६४; -तम् ऋत्र २, ४, १३;
१०, १८४; वृद्धे; -ते वृद्धे ४,
१२९.

लिङ्गोक्त-देवत-पा(द>)वा^१-
-दा ऋत्र २, १, ३५.

लिङ्गोक्त-बहुदेवता- > ०व-
(त्य>)त्या- -त्या शुभ्र १,
५०६; २, १०६.

लिङ्गो(ङ्ग-उ)द्धार-रः गौध १२, २.

लिङ्गो(ङ्ग-उ)पदेश- -शः मीसू १,
२, ५१.

लिङ्गो(ङ्ग-उ)पपत्ति- -त्तिः द्राश्रौ
२, १, ५.

लिङ्- (>)लिङ्ग्य (पा.) पाग ३,
१, २७.

लिङ्गुतौ^० अप ४८, ४३.

✓ लिप्, म्प^d पाधा. तुदा. उम.
उपदेहे, लिम्पन्ति वैताश्रौ २०,
६; कौसू ८०, २०; लिम्पेत्
शाश्रौ ७, ८, १२.

लिम्प्यते अप ४२, १, ३; ऋषीध
२, ६, ३२; १०, ८; गौध १९, २.
लेपथेत् अप १, १०, ३; अशां
२२, ४.

लिपि- पाउ ४, १२०; -प्याम्
पावा ४, १, ४९.

लिपि-कर- पा ३, २, २१.

लिप्त- पाउ ५, ५५^०; -सानाम्
कप्र १, ८, १४.

लिप्त-वासित- पाग २, २, ३१.

लिम्प- पा ३, १, १३८.

लेप^१- -पः बौश्रौ २३, ९; २९;

वाश्रौ १, २, ३, २३; वाघ ३, ४०;

विध २३, ३९; -पम् आपश्रौ

६, १०, १०xx; काश्रौसं; बौश्रौ

३, ६; १८; २१xx; माश्रौ

६, १२, ७; ८xx; माश्रौ १, १,

२, २०; २९xx; वाश्रौ १, २, ३,

२५; ३, १, २९xx; वैश्रौ २, ५; १;

२; ६xx; हिश्रौ ३, ७, ६७;

७१xx; -पयोः आपश्रु ७, १३;

-पाः आपश्रौ १८, १६, ७; १४^१;

हिश्रौ १३, ५, ३५; ६, ३३; आपघ

१, ५, २३; हिध १, ४, ८२; -पात्

आपश्रौ ३, २, ७; काश्रौ १४^१;

माश्रौ; आपघ २, २, १^०; -पान्

आश्रौ ८, १४, १४; आपश्रौ

१८, ४, १५; ५, १; वाश्रौ;

हिध २, १, २३; -पेन माश्रौ

१, २६, ३; माश्रौ १, ३,

३, १०; ५, ८; वाश्रौ; -पेषु
आपश्रौ १५, ११, ७; बौश्रौ
९, ११; १६; माश्रौ; -पौ
आपश्रौ १९, २१, १९; हिश्रौ
२२, ४, ७.

लेप-गन्ध- -न्धेन वैध ३, ३, ३^१.

लेपगन्धा(न्ध-अ)पकर्षण-.

-णे वाध ३, ४८; गौध १,
४८.

लेप-निमार्जन- > ०न-शेषाव-
नयनं(न-अं) शुनिधान-वर्जम्
वैश्रौ १५, १४; ९.

लेप-वत् मीसू ९, ४, ३७.

लेपन- > ०न-स्तरणो(ण-उ)पस्त-
रण- -णैः आश्रु २, ३, ३.

लेपनो(न-उ)दक- -कम् वाध
११, २४.

लिप्सत्- प्रम्. ✓ लम् द्र.

लिपि- > लिपि-कर- पा ३, २,
२१.

लिबु(ज>)जा^१- -जा अत्र ६, ८;

या ६, २८^१; ११, ३४; अप्रा ३,
४, १; दंवि २, २.

लिपि- पाउवृ ४, १२०.

✓ लिश^१ पाधा. दिवा. आत्म. क्रत्वी-
मावे; तुदा. पर. गतौ > लेश^१-
-शः तैप्रा १०, २३; -शेन ऋप्रा
१४, १७.

लेश-वृत्ति- -त्तिः शौच २, २४.

लिप्- पाउमो २, ३, १२८.

✓ लिह^१ पाधा. अदा. उम. आस्वादेन,
लिहन्ति वाधूश्रौ ४, ८९; २८;
३०; या १०, ३९; लिहान्
वाधूश्रौ ४, ८९; २८.

a) वस.।

b) क्व. > वस.।

c) ०गुप्तौ इति संस्कृतं. टि.।

d) पा ३, १, ५३; ५४;

७, १, ५९ परामृष्टः द्र.।

e) < ✓ ली।

f) = [पात्रादि-लग्न-] घृतादिद्रव्यशेष-। घष् प्र.।

g) पाठः ?

०पान् इति श्लेषः (द्र. हिध २, १, २३)।

h) लेपगन्धेन शङ्खा > तल्लेपगन्धमनश्शङ्खा इति ०.।

i) = लिपि-।

j) वैप १ द्र.।

k) = लुप्तवदुच्चारण-।

l) पा ७, ३, ७३ परामृष्टः द्र.।

ली(ढ>)ढा- > लीढा(ढा-अ)
 तिलीढ-विद्युत्^१-द्युत् याशि २,
 ४९.
 लेलिह^२-हा: सु ११, ५.
 लेलिहान-न: अत्र २४, ३, ३.
 लेह-पा ३, १, १४१.
 √ली^३ पाधा. दिवा. आत्म., क्रया. पर.
 श्लेषयो; चुरा. उभ. द्रवीकरयो,
 लीयते या ६, २८; कौशि ८१;
 लीयन्ते विध २०, २७.
 लय-न्यम् अत्र २, ५, ४.
 लय-समत्व-त्वम् याशि २,
 ८३.
 लाय^४-न्यम् वैताश्रौ ३३, १९१.
 √लु, लू^५ पाधा. क्रया. उभ. छेदने,
 लुनोति आपश्रौ १, ३, १५; ४,
 २; बौश्रौ; लुनुयात् बौश्रौ २१,
 ४: ४.
 लुनाति माश्रौ १, १, १, ३६; कौसू
 ६१, ३९.
 लवक-पा, पांवा ३, १, १४९.
 श्लवण-पाग ३, १, १२४.
 लवन-नम् आमिष्ट २, ५, १२:
 १३; -ने बौश्रौ २०, २: ४२;
 हिश्रौ १, १, ४०; पा ६, १, १४०.
 लवन-मन्त्र-मन्त्र: हिश्रौ ३, ८,
 ५३.
 लवना(न-अर्थ)-र्थे या २, २.
 लवित्र-पा ३, २, १८४.
 लु^६, लुत्वा आपश्रौ १, ४, ८; हिश्रौ
 १, २, ४०; वाश्रौ १, २, १, १८;
 कौसू १, २५.

लुत्-पा ८, २, ४४; पाग ५, ४, २९;
 -नम् बौश्रौ २०, ३: २२; २५;
 काण्ड ४१: ५; -नस्य आपश्रौ
 ७, ६, १; -ना: गोष्ट १, ५, १७;
 -नाम् कौसू ३५, ७; -ने हिश्रौ
 ३, ८, ५३; अत्र २३, ११, ४.
 लुत्-क-पा ५, ४, २९.
 लुत्-यव-पाग, पावाग २, १,
 १७.
 लुत्तवत्-पा ८, २, ४४.
 लुत्नि-पावा ८, २, ४४.
 लुत्मान->न-यव-पाग, पावाग
 २, १, १७.
 लुच्^७-लुक् वाध २१, ११.
 √लुञ्च्^८ पाधा. भ्वा. पर. अपनयने.
 √लुञ्ज् पाधा. चुरा. पर. हिंसाबला-
 दाननिकेतनेषु, उभ. भाषायाम् च.
 √लुद् (बधा.) पाधा. भ्वा^९. पर. विलो-
 डने विलोटने^६, आत्म. प्रतिघाते;
 तुदा. पर. संश्लेषणे; चुरा. उभ.
 भाषायाम्, लोटते निघ२, १४१^१.
 √लुट्^{१०} पाधा. भ्वा. पर. उपघाते, आत्म.
 प्रतिघाते; दिवा. पर. विलोडने;
 तुदा^६. पर. संश्लेषणे, लोटते
 निघ २, १४१^१.
 √लुङ्^{११}
 लुडित-ते ऋत ५, २, ९.
 √लुण्ट्^{१२} पाधा. भ्वा. पर. स्तेये.
 लुण्टक-पा ३, २, १५५.
 √लुण्ट् पाधा. भ्वा. पर. स्तेये^{१३}, आलस्ये,
 प्रतिघाते गतौ च; चुरा. पर. स्तेये.
 √लुण्ड्^{१४}

लुत्वा √लु, लू. द.
 √लुन्थ् पाधा. भ्वा. पर. हिंसासंक्लेशन-
 यो:
 √लुप्^{१५}, म्प पाधा. दिवा. पर. विमोहने;
 तुदा. उभ. छेदने, लुम्पन्ति वाधुश्रौ
 ४, ७४: ८; ऋप्रा १४, ४०;
 ४३; ४८; ५०; माशि ७, ३;
 नाशि २, १, ३; लुम्पेत् निसू ५,
 ११: २३; लुम्पेयु: द्राश्रौ ९, ३,
 २०; लाश्रौ ३, ७, ७.
 लुप्यते आश्रौ १, ५, १२: ४, ८,
 ८; शाश्रौ १, २, १०; ३, २०, १३;
 आपश्रौ; लुप्येते तैप्रा १०, १९;
 २२; लुप्यन्ते छुसू १, २:
 १६××; निसू; लुप्येत आपश्रौ
 १, १०, २१; १४, ३२, ६; बौश्रौ;
 लुप्येरन् शाश्रौ १३, १, ८.
 लोपयति माश्रौ १, ६, १, २२;
 लोपयन्ते माष्ट २, १, १३^{१६}.
 लोपयेत् बौश्रौ २७, ६: २५;
 २८, १३: २३; २४; हिश्रौ १५,
 ३, २६.
 लुस, सा-स: लाश्रौ १०, ५, ५;
 -सम् लाश्रौ ७, ११, ६; ऋप्रा ३,
 ९, १२; अत्रा १, १, २८; -सा
 द्राश्रौ १, ४, २; लाश्रौ १, ३, २१;
 -सानि बौश्रौ २८, १३: २०;
 -से तैप्रा १५, १; १७, ४; शैशि
 २३०; याशि २, ७७; पावा १,
 १, १९.
 लुस-करण^{१७}-गानि अत्रा १, १,
 २४.

a) समाहारे द्वस. । मध्यमपदे छान्दसो ह्रस्वः । b) = सर्प- । कर्तरि प्र. । c) या ३, ५ पा १, ३, ७०;
 ६, १, ५१; ७, ३, ३९; ८० पावा ६, १, ५० परामृष्टः द्र. । d) = रल्लाय- (तु. वैप १) । e) या ३, ५ पा ७, ३, ८०
 : परामृष्टः द्र. । f) आपश्रौ. हिश्रौ. पाठः । g) अर्थः ? = जलौकस्य- इति Būh. । h) पा १, २, २४ परामृष्टः द्र. ।
 i) पा १, ३, ११; ३, १, ५५ परामृष्टः द्र. । j) √लुङ्, √लुङ् इति BFG. । k) तु. BFG. । l) षा. गतौ
 अस्तिः । m) √लुण्ड् इत्यपि [पक्षे] भारुडा. प्रमृ. । n) पा ३, १, २४; ७, १, ५९ पावा ७, ४, ३ परामृष्टः द्र. ।
 o) पावे. वैप १, २६०२ i द्र. । p) बस. ।

लुप्त-ज(प>)पा^३- -पा आश्रौ
२, १९, ३.

लुप्त-धर्म^३- -र्मः वौश्रौ २९, ८:
१३.

लुप्त-नकार^३-स्व- -स्वात् पावा
७, १, ५९.

लुप्त-नामकरण^३- -णः या द्, २२.

लुप्त-पर^३- -राणि अत्रा १, १,
१५.

लुप्त-प्रत्यय^३- -ये अत्रा ३, ४, १.

लुप्त-भाग^३- -गम् निसू ३, ६:
३२.

लुप्त-वत्- -वत् ऋप्रा १०, ३.

लुप्त-शेष- -शेष अत्रा २, ४, ५.

लुप्त-श्मश्रु-लोम-नख^३- -खाय
आमिगृ ३, ११, २: २.

लुप्ता(स-आ)ख्यात^३- -तेषु पावा
२, १, १.

लुप्ता(स-अ)न्त^३- -न्तम् ऋप्रा
१०, ३.

लुप्ता(स-अ)र्थे- -र्थम् कारु
५१, ३.

लुप्तो(स-उ)प(मा>)म^३-
-मानि या ३, १८.

लुप्त्वा द्राश्रौ १५, ४, ७; लाश्रौ ५,
१२, १४.

१ लोप- -पः काश्रौ १२, ७, ६;
आपश्रौ; पा १, १, ६०; ३, ९××;

पावा १, १, ६५^२, ३, ९××;
-पम् छप्रा ३, १३६; ४, ५; ३८;

१९; -पस्य पावा ५, १, २८; ६,
४, ५२; ७, ४, ६०; ८, २, २;

-पात् निसू २, ९: २१; ६, ५:
२६; ७, १३: ९; १८; ८,
१०: २९; पावा १, १, २६;
२, ४, ८५; ८, २, २३; -पे

शौच १, ६७; पा द्, १, १३४;
८, १, ४५; पावा १, १, ६३; ३,
९××.

लोप^० पावा १, १, ५७; ४, २;
६, १, १८६.

लोप^० पावा ६, १, १२××.

लोप- -पः पा ६, १, १३२××;
-पस्य पावा १, १, ४; -पे पावा

१, २, ४५××.

लोप-धातु-प्रातिपदिक-प्रत्य-
य-समासान्तोदात्तो (त-उ)दात्त-

निवृत्ति-स्वर- -राः पावा ६, १,
९०.

लोप-पुंक्लाव- -चौ पावा
८, १, ९.

लोप-पुंक्लावा (व-अ)न्तो
दात्तत्व- -त्वानि पावा ८, १,
११.

लोप-निमित्त^३-स्व- त्वात् पावा
४, १, ७८.

लोप-प्रतिषेधा(ध-अ)र्थे- -र्थम्
पावा ७, ४, ६१.

लोप-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा ७, ४,
९३.

लोप-बलीयस्-स्व- -स्वात् पावा
७, २, ३.

लोप-नेफो(फ-रऊ)प्स-भाव-
-वम् ऋप्रा १५, १२; -वे ऋप्रा

४, ८०.

लोप-वचन- -नम् पावा ५, ३,
८३; ७, ४, ६; ८, ३, २०.

लोप-वचन- -नम् पावा ४,
१, ७८; ६, १, १; ७०; ४, १७४;

८, १, ६७; -नात् पावा ५, २,
१२^२; ७, १, ३३.

लोपवचना(न-आ)नर्थक्य-
-क्यम् पावा ४, ३, २२; ७,

१, ३३.

लोप-विज्ञान- -नात् पावा ७,
१, ३३.

लोप-संयोगादिलोप-कृत्व-
दीर्घत्व- -त्वानि पावा ८, २,
२२.

लोप-संज्ञा- -ज्ञायाम् पावा १,
१, ६०.

लोपसंज्ञिन्-> ञि-स्व-
-स्वात् पा १, १, ६०; ६२.

लोप-संदेह- -हे अत्रा २, २,
२.

लोप-स्थान- -नम् लाश्रौ १०,
५, ७.

लोप-स्वर-वर्जम् पावा १, १,
५८.

लोपा(प-आ)गम-विकार- -राः
तैप्रा २४, ५; याशि २, ८.

लोपागमविकारा (र-आ)दि-
-दि शैशि २४३; ३०४.

लोपा(प-अ)र्थे- -र्थम् पावा ३,
१, ३; ६, ४, १७१; ७, १,
२७.

लोपा(प-अ)र्थे- -र्थम् पावा ६,
४, १३५.

लोपिन्- -पिनः पावा २, ४,
६२; ४, १, ८९.

लोपि-प्रतिषेधा (ध-आ)न-
र्थक्य- -क्यम् पावा ७, ४, २.

लोप्त्र- पाउभो २, ३, ११.

लोप्त्र-हस्त- -स्तः शंघ
३२८.

लुब्ध- √ लुम् द्र.

लुब्धः निसू ९, ६: ७; १०: २५.

√ लुम् (बधा).^० पाधा. दिवा. पर.
गाथें; तुदा. पर. विमोहने,
लुलोभ कौषू ४२, १७^१.

लोभयति जैश्रौ ८ : ६^०; लोभ-
यन्ते^० माश्रौ २, २, २, ५^०; काय
४५, ८; लोभयन्ति^० माश्रौ १,
२, ५, २, २^०; लोभयेत् आश्रौ ९,
१०, १६^०.
लुब्ध- -ब्धः विध ९३, ८; -ब्धम्
या ४, १४^०; -ब्धाः माशि १६,
४; ५.
लुब्ध-योग- -गो पा ५, ४,
१२६.
लोभ- -भः आपध १, २३, ५; विध
३३, ६; हिध १, ६, १३.
लोभ-तस्रः (ः) विध ६, ४०.
लोभ-नामन्- -म या २, ५.
लोभ-मोहित- -ताः बौध १,
११, २१; काध २८१ : ५.
लोभ-शून्य-त्व- -त्वम् विध २,
१७^०.
लोभन^०- -नानि माश्रौ १, २, ५, २३;
२, २, ३, ७.
लोभयत्- -यन्तः काय ४५, ८^०।
√लुम्ब पाधा. भ्वा. पर. अदर्शने; चुरा.
पर. अदर्शने.
√लुल्^० > लोल^०- > लौल्य-
-ल्यात् वृदे ८, ३१.
लोल-जि(ह्वा) > ह्ल^०- ह्लः विध
४५, १६.
लुश^०- -शः ऋत्र २, १०, ३५; वृदे
३, ५५; शुभ्र २, ३२८; ३, १७६;
२१२; -शात् ऋत्रा २, ६२;
-शे वृदे २, १२९.
लुषम- पाठ ३, १२४.

√लू √लु द्र.
लूता- पाठभो २, २, १३३.
१लूनि- √लु, लू द्र.
२लूनि- पाठवृ ४, १०५.
√लूष् पाधा. भ्वा. पर. भूषायाम्;
चुरा. पर. हिंसायाम्.
लूष- (> लौषायणि-) अर्क-लूष-
दि. द्र.
१लूक^०- -कः आपश्रौ ५, २९, ११;
बौश्रौ ३, ३ : १६; माश्रौ ५,
२१, ११; वैश्रौ १, २० : १३;
हिश्रौ ३, ६, २७.
१-२लेख- प्रभृ. √लिख् द्र.
३लेख^०- (> लैख- पा.) पाग ४, १,
११२.
लेखक- प्रभृ. √लिख् द्र.
लेट्- (> √लेट् पा.) पाग ३, १, २७.
√लेप् पाधा. भ्वा. आत्म. गतौ.
लेप-, लेपन- प्रभृ. √लिप् द्र.
लेला- पाग ३, १, २७; > √लेलाय^०
पा ३, १, २७; लेलायति आपश्रौ
२, १९, ११; ६, १०, ३; हिश्रौ ३,
७, ६४; लेलायन्ति वाधुश्रौ ४,
११७ : ३.
लेलायत्- -यत् आपश्रौ ६, ९, २१.
१लेलि- -लिम् शाश्रौ १२, १८, १७^०।
लेलिह-, हान- √लिह् द्र.
लेश- √लिश् द्र.
लेह- √लिह् द्र.
लैगवायन-, लैगव्य- प्रभृ. लिगु- द्र.
√लैण्^० पाधा. भ्वा. पर. गतिप्रण-
श्लेषणेषु.

√लोक पाधा. भ्वा. आत्म. दर्शने;
चुरा. उभ. भाषायाम्.
१लोक(वप्रा.)^०- -कः शाश्रौ ४, १४,
३६^०; १५, १७, १^०; १६, २१,
१३^०; १५^०; २२, १३^०; काश्रौ;
आपश्रौ ७, ९, १०^०; १६, २३,
१०^०; बौश्रौ ४, ४ : १३^०; ६,
२७ : २^०; १६, ११ : २^०;
माश्रौ ७, ७, १३^०; १^०; १०,
८ : ४^०; १४, १० : १०^०; १८,
१७ : २८; १^०; हिश्रौ ४, २, ४१^०;
११, ७, ३१^०; कौस् १२५,
२^०; शुभ्र २, १५५^०; १५६^०;
-कम् १आश्रौ ३, ७, ११^०×;
शाश्रौ २, ६, ७^०; काश्रौ;
आपम १, ६, ४^०; आमिण
३, ८, २ : १९^०; बौपि
१५ : ३७^०; माय १,
१३, ६^०; या १२, ८^०;
२३; ३७^०; -कयोः १आपश्रौ
४, १०, १; ५, ८, ४; १०,
५, ५; १^०; -कस्य आश्रौ
८, १३, १४; १आपश्रौ ५,
१८, २; ६, ९, ४; बौश्रौ; -काः
१आश्रौ २, १४, १२; १०, ९,
५; १^०; १^०; १६, २१, २; २१;
१आपश्रौ ४, ७, २×; बौश्रौ;
माश्रौ ४, १०, १; माश्रौ १,
८, २, ७^०; वाश्रौ १, ६,
३, १^०; हिश्रौ ६, २, १७^०;
आमिण ३, ६, १ : १०^०; बौपि
१, ८ : ९^०; हिध २, १,

a) घा. नाशे वृत्तिः । b) सप्र. ंन्ते <> ंन्ति इति पाठे । c) नाप. (व्याघ-) । d) अलोभः इति जीसं. । e) = [प्रकरणतः] पाद-पांशु- (द्र. पूर्व सूत्रम्) । f) पाठे. वैप १, २६०२ i द्र. । g) पृ २१०६ j द्र. । h) = चञ्चल- घा. गतौ वृत्तिः । i) बस. । j) व्यप. । k) वैप १ द्र. । l) घा. दातौ वृत्तिः । m) पाठे. वैप १, २५७१० द्र. । n) द्र. BPG. । o) विशेषः टि. द्र. । p) = देव-लोक- । q) = वृथिवी-लोक- । r) परस्परं पाठे. । s) = [उपचारात्] देवता- । t) पाठे. पृ ८४१ h द्र. । u) पाठे. वैप १ लोकम् ऋ १०, ८५, ३० टि. द्र. । v) पाठे. वैप १ लोगम् ऋ १०, १८, १३ टि. द्र. ।

१२^०; शुभ्र ४, १८८^b; अन्न १०,
१०^०; या ४, १९^३; -काऽकाः
माश्रौ ६, १, ६, ११^d; -कात्
आश्रौ २, ६, २^०; १२, ९,
१८; शाश्रौ ४, ४, २^०; १६,
२२, १०; ऋआपश्रौ, १, ८,
७^०; ६, १३, ८; २२, १६, ९;
काठश्रौ ५^१; ७^१; बौश्रौ १२,
१४: १३; १८, ४८: १७^६;
माश्रौ १, ८, ५^०; माश्रौ १,
१, २, ८^०; वाधूश्रौ ४, ३०:
३०^h; वाश्रौ १, २, ३, १^०;
ऋहिश्रौ २, ७, १७^०; जैश्र २, २:
४^०; -कात् शाश्रौ १६, २१,
२१; आपश्रौ ४, ८, ४^१; ५, ९,
११^१; ६, १८, ३; ७, १, १; १६,
२५, २^१; ऋश्र ११, ९, १०; २२,
९, १९; १२, १०^१; ऋश्रौ २,
१०: ८; १४, २१: २३; १६,
११: ३; २७: ३; १९, १०:
४९; २४, ११: १८; माश्रौ ४,
१२, ३^१; माश्रौ १, ५, २,
१५^१; २, ५, ५, २२^१; ६,
१, ७, ३१; वाधूश्रौ; वैध ३, १५,
१३; हिध २, २, ३५^१; ४, ४०:
५, १९६; बृदे २, ३८; ६२;
६, १२१; ७, १२७; शुभ्र ११,
१०; या २, २२; शुप्रा ३, १४७^१;
तैप्रा ६, १४^१; -कानाम् शाश्रौ
१६, २१, १६; ऋश्रौ १३,
२८: १२; ४१: १३; जैश्रौ;
-काभ्याम् निसू ८, ६: १७;

-काय शाश्रौ १३, १४, ६; काश्रौ
२५, ७, ४०^१; आपश्रौ; -के
आश्रौ १, १३, ४^१; २, १७, १०^१;
११, ३, ७; काश्रौ २०, ६, १५^१;
शाश्रौ; आपश्रौ १, १०, १२^१;
२२, ८, २^१; ९^१; १३^१; ९, १^१;
बौश्रौ ६, २५: १३^m; १४^m;
भाश्रौ १, १०, ७^१; ११,
१^०; ५, २०, ९^१; माश्रौ २, ५,
५, २२^१; ५, १, २, ८^१; वाश्रौ
३, ४, ४, १५^१; हिश्रौ २, ७,
६२^१; ३, १, ४^१; ९, ८,
३२^१; १७, ३, २६^१; ३१^१; ३२^१;
३४^१; क्षस् २, १०: १८^१; निसू
३, ३: १२^१; ५, ४: ४; ८^१, १३:
३७; ४१; ९, १२: १७^१; १०,
२: १८^१; ऋशांश्र ५, १, ४^१; बौश्र
४, ४, ९^१; भाश्र १, १२: १३^१;
गौषि २, ६, २१^१; जैश्र २, २:
२७^१; वाध १, ३^१; ६, ६^१;
२८, ७^१; शंघ २९०^१; आपध
२, १, १२^१; गौष ८, १^१; पावा
१, १, १; २३; ४४; २, ४५; ३,
११; ६, १, १; ८२; ८३; -ऋकेन
वैताश्रौ ३६, ३०; कौश्र; -केभ्यः
ऋआपश्रौ २१, ११, ५; ६; २३,
३, १०; बौश्रौ; वैताश्रौ ३६,
२०^१; -केषु आश्रौ १२, ९, १६;
शाश्रौ; या १३, ९; -कौ आश्रौ
११, २, ११; ४, ३; आपश्रौ.
लौकिक, का^p- पा ५, १, ४४;
-कः काश्रौ १, ३, २८; आपश्रौ

२४, ४, २२; बौश्रौ २, ७: २२;
वैश्रौ २०, १५: ७; ८; कप्र २,
९, १८; मीसू ७, ४, २; -कम्
काश्रौ ४, ३, ७; ५, ११, ६; आपश्रौ
५, १३, ८××; वैश्रौ; शांश्र ५, १,
७; पावा १, ४, ५६; -काः बौश्रौ
२९, ९: १५; हिश्रौ; नाशि १,
२, १४; -कानाम् हिश्रौ ५, २,
३३; आपश्रौ; -कानि वैश्रौ ११,
१०: २; हिश्रौ ३, १, २; -के
शाश्रौ २, १७, ९^१; काश्रौ १, १,
१४; आपश्रौ; -केन आपश्रौ
८, ५, ३२; हिश्रौ ४, २, ४४, ४५;
-केषु हिश्रौ १, १, १६; या १,
१६; मीसू ११, ३, ३२.

लौकिकी- कीम् वैश्रौ
१२, ११: २; हिश्रौ १०, २, ३७;
-क्या आपश्र २०, २; आपध १,
१३, ७; हिध १, ४, २१.

लौकिक-न्व- त्वात् बौश्रौ
२, ७: २१.

लौकिक-प्रयोग- गो बौश्रौ
२९, ८: १७.

लौकिक-विधि- नधम् बौश्रौ
२९, ७: १.

लौकिक-वैदिक- -केषु पावा
१, १, १; ५६; ६, १, ८३; पापावा
१; पापावा २, ३.

लौकिक-संभार-भाण्ड-
-ण्डानि वैश्र ५, ४: ३८.

लौकिका(क-अ)मि- मिना
काण्ड ४२: १८; वैश्र ७, २: ४:

a) सपा. आपध २, १, १२ लोके इति पामे. | b) = [उपचारात्] देवता- | c) पाठः ? °कान्
इति श्लोचः (तु. शौ १०, ७, १०) | d) = [रिक्त-] स्थान- | e) पामे. वैप १, २५४९ ० द्र. | f) = [प्रकरणात्]
लोक-व्यवहार- | g) = पृथिवी-लोक- | h) = स्वर्ग-लोक- | i) पामे. वैप १, १८९७ ० द्र. | j) परस्परं
पामे. | k) पामे. वैप १ लोके मा १९, ४६ टि. द्र. | l) = स्थान- | m) = लोह- (तु. शब्दसूची) |
n) सपा. शौ ७, १०४, १ विभे. | o) पामे. वैप १ लोके शौ ६, ११७, ३ टि. द्र. | p) विप., नाप. ([वैदिक-
कर्मवर्जित-] वृथारिन्- [यद्र.]) |

-स्रौ वैट् ३, १८ : ३; ६, १ :
२१×४; वैध ३, ८, ४.
लौकिकानि-विसर्जन-
-नम् वैट् १, २१ : १३.
१लौक्य^१- -क्यम् बौश्रौ १७,
१८ : ११; -क्यानाम् वृदे १, ४;
-क्ये बौश्रौ २७, ११ : १६; १९.
लोक-काम- -मः कौस् ५९, २१;
-मस्य क्षुस् १, ४ : १७.
लोक-कृत- -कृत काश्रौ ३, ६,
११; आपश्रौ ५, १६, १;
बौश्रौ; या ३, २०; -कृतौ
आश्रौ ४, १३, ५; बौश्रौ.
लोक-क्षय-कर- -रम् अप ६१,
१, १६.
लोक-ग्रहण- -णे वाध १०, २०.
लोक-चि (त्य>)व्या^२- -त्यायै
वाधूश्रौ ४, ११५ : २.
लोक-जित्- -जित् आपश्रौ २०,
१५, १३^३फं.
लोक-न्तस्रः (ः) वाश्रौ १, १, ७९;
कौग् ४, ४, २०^३; शांग् ४, १९,
५^३; पापवा १०.
लोक-त्रय-निविष्ट- -ष्टानाम् अप
७०, १, २.
लोक-त्रया(य-आ)त्मक- -काः
आमिग् २, ४, १२ : ८.
लोक-दाम्भिक- -कः विध ९३, ८.
लोक-दृष्टि- -ष्टयः निस् ४, २ : ११.
लोक-धा(तृ)त्री^४- -न्त्रि विध ९९,
८.
लोक-धारण- -णम् अप ३१, ४, २.
लोक-नाशा(श-अ)र्थे- -र्थैः अप

७०, ८, ४.
लोक-प- -पः जैश्रौका १५४.
लोक-पाल- -लान् अप १८^३, १,
४; ३०^३, १, १४; शेष ११६ :
१५; विध १, १६; -लेभ्यः अप
१८^३, १, ३.
लोकपाल-ज- -जम् अप ७०^३,
१०, ४.
लोक-पाव(न>)नी^५- -नी वैग् १,
१४ : १३.
लोक-पितामह^६- -हः अप ३१, १,
३; ७०^३, १, ३; -हम् आज्यो
१, १.
लोक-प्रत्यय- -यात् काश्रौ १३, १, ९.
लोक-बाधिन्- -धीनि बौशु ६ :
१४.
लोक-बृहद्ग्रन्तर^७- -राः लाश्रौ
१०, ४, ९.
लोक-भूत- -तेषु मीस् ४, १, ६.
लोक-मय- -यम् वाधूश्रौ २, १६ : ५.
लोक-मातृ^८- -तरः कप्र १, १, ११^१;
-तरम् वैग् ७, ४ : ५.
लोक-पृ(ण)णा^९- -पावा ६, ३, ६९;
-णया बौश्रौ १०, ३६ : १५×४;
माश्रौ; -णा बौश्रौ १९, ८ : २;
३; माश्रौ; -णाः काश्रौ १७,
६, ५×४; आपश्रौ; -णानाम्
काश्रौ १७, ७, २१; -णाभिः
काश्रौ १८, ६, ७; आपश्रौ १६,
१४, ८; ३३, ७; १७, १०, ८;
बौश्रौ; -णाम् आपश्रौ १६, १४,
९; बौश्रौ १०, ३३ : १०; वैश्रौ;
-णायाः वाश्रौ २, २, ५, २०;

२१; मीस् ५, ३, २०; -णासु
काश्रौ १६, ७, १९; १७, १, १७;
जैश्रौप १२; द्राश्रौ १४, ४, ७;
लाश्रौ ५, ८, ७; -णे बौश्रौ १०,
३३ : १५.
लोकपृणा(णा-आ)दि- -दिः
आपश्रौ १७, १०, १०^१फं.
लोक-यात्रा- -त्रा वैग् ४, १३ : १;
-त्राम् वैग् ५, ६ : २१;
लोक-रव^{१०}- -वात् नाशि २, ८, २६.
लोक-वत् पावा ६, १, २; मीस् १,
२, १७; २०×४.
लोक-विज्ञात- -ते पावा ३, २,
१११; ८, १, १५.
लोक-विज्ञान- -नम् पावा ६, ३,
६०; -नात् पावा १, १,
२१; ६५; ३, ४, २१; ६, ३,
३६; ७, २, ११७.
लोक-विद्^{११}- -वित् आपश्रौ ७,
१६, ७; हिश्रौ ६, ८, ४; -विदः
माश्रौ ५, २, १३, १; -विदौ माश्रौ
५, २, १३, १.
लोक-विदितत्व- -न्वात् पावा १,
४, ११०.
लोक-विद्विष्ट- -ष्टम् विध ७१, ८५.
लोक-वि(ध>)धा^{१२}- -धाम् निस्
८, ५ : ३; २०; ६ : १६; ८ :
३८.
लोक-वेद- -दयोः पाशि १.
लोक-वेद-वेदाङ्ग-विद्^{१३}- -वित्
गौघ ८, ५.
लोक-न्यत्यूह^{१४}- -हौ वाधूश्रौ ४,
११५ : २.

a) विप., नाप. (लौकिकानि-)। तत्रविदिताद्यर्थेषु ण्यः प्र. उसं. (पा ४, १, ८५)। b) उप. <√चि
[चयते]। c) सप्र. मनुः ४, ११५^१ दम्भकः इति पाभे.। d) = पृथिवी-। उप. <√धा। e) विप. >
नाप.। f) = ब्रह्मन्-। षस.। g) पूष. = साम-विशेष-। h) उप. = रमातृ-। i) = षोडशमातृकाऽन्यतमा-।
j) वैप. १ द्र. १.। k) = लोकापवाद-। l) उप. <√विद्[ज्ञाने]। m) द्वस. > उस.। n) विप. (अभ्यादित्य-)
उस. उप. कर्तरि कृत्।

लोक-शब्द-पर- -रे भाशि ८६.
 लोक-संग्रहणा(ण-अ)र्थ- -र्थम् बौध
 १, ५, ९४; १०, २९.
 लोक-स्त्रिनि^१ -नि शांश्रौ ४, १३,
 १; आपश्रौ ६, ११, ५; बौश्रौ
 ३, ७: २; भाश्रौ ४, २२, ४;
 वाधुश्रौ २, १६: ३; हिश्रौ ३,
 ७, ९२; -नि: वैताश्रौ १९, १६.
 लोक-संमा^१ -मा: निसू ५, २: २१^२
 लोक-सामन्- -ममि: द्राश्रौ २, १,
 १३; लाश्रौ १, ५, १०; -मानि
 निसू ८, ५: ४.
 लोक-सिद्ध- -द्धम् कागृउ ४१: ६.
 लोक-स्वृत्^१ -स्वृते बौश्रौ १५,
 २: १०-१२; भाशि ३७.
 लोका(क-अ)मिन्^१ -मनीन् बौश्रौ
 २०, २६: ५; ६; २४, ७:
 ९; ३५: ९; -मनीनाम् बौश्रौ
 २०, २६: ४; २१, १४: ४; २२,
 ५: ४; २३, १९: २५.
 लोका(क-आ)दिपति- -तय: वृदे
 १, ७३.
 लोका(क-अ)धिपति- -तय: वृदे ८,
 १२१.
 लोका(क-आ)यत्^१ (>लौकाय-
 तिक- पा.) पाग ४, २, ६०.
 लोका(क-अ)लोक^१ ->कपाल-
 -लान् शंघ ११६: ६.
 लोकालोका(क-आख्या >)
 ख्य- -ख्यम् शंघ ११६: ५.
 लोके(क-इ)श^१ - -०श विध १, ५२.
 लोके(क-इ)ष्टका^१ -का: आपश्रौ १७,
 ९, ७; वैश्रौ १९, ६: ११.

लोके(क-इ)ष्टि^१ - -ष्टि: आश्रौ २,
 १०, १९.
 लोको(क-उक्त >)क्ता- -क्ता निसू
 १०, १०: १४; -क्ता: निसू ३,
 १३: १५.
 लोको(क-उ)त्तरपद- -दात् पावा
 ४, ३, ६०.
 लोक्य^१ - -क्य: आश्रौ ४, ८, ३५;
 -क्यम् वाधुश्रौ २, ३: १.
 रलोक^१ ->रलौक्य- -क्य: शांश्रौ
 १५, १, १२; ऋश्र २, १०, ७२.
 लोक-काम- प्रघ. १लोक- द्र.
 लोकाक्ष^१ ->लौकाक्षि^१ - -क्षय:
 बौश्रौप्र ४४: १.
 लोकाक्षि^१ - -क्षय: बौश्रौप्र ४४: ५^२.
 लोकेशी^१ ->शी-पल्लव- -वान् अप
 ३५, २, ७.
 लोग^१ -गम् शांश्रौ ५, १३, ३; कौसू
 ७५, १४; ७७, ८; -गान् कौसू
 ८६, ८.
 लोगे(ग-इ)ष्टका^१ -का: काश्रौ १७,
 ३, ११.
 लोगक्ष^१ ->लौगाक्षि- -क्षि: काश्रौ
 १, ६, २४; काठश्रौ १९; २१^३;
 ४९; १३४; शुश्र ३, ५७; -क्षिणा
 चाश्र ४२: २०.
 लोगक्षि^१ - -क्षिणाम् वैध ४, ७, ९.
 लोच^१ पाधा. भ्वा. आत्म. दर्शने;
 चुरा.उभ.भाषायाम् >लोचन्^१ -
 >न-युगम- -न्मे शंघ ४५७:
 १२.
 लोचना^१ (>ना√कृ)
 लोट् (>√लोठ्य पा.) पाग ३, १,

२७.
 लोट^१ - (>√लोठ्य पा.) पाग ३,
 १, २७.
 लोटुल- पाउना ५, ८.
 लोटु^१ पाधा. भ्वा. पर. उन्मादे.
 लोत- पाउ ३, ८६.
 लोत्र- पाउवृ ४, १७३.
 लोथ^१ - -धम् निघ ४, १; वा ४,
 १४४^१.
 लोथ्र^१ - पाउनावृ २, २७; -थ्रम् अप
 ३०^२, २, ५.
 लोप- प्रघ. √लुप् द्र.
 लोप^१ ->लौपायन्^१ -न: साश्र
 १, ४४८; २, ४५९; -ना: ऋश्र
 २, ५, २४.
 लोपामुद्रा^१ -द्रा वृदे २, ८३; शुश्र २,
 २७९; -द्राम् वृदे ४, ५७;
 -द्राया: ऋश्र २, १, १७९.
 लोपाश^१ - -श: या ५, ३^१.
 लोपत्र- प्रघ. √लुप् द्र.
 लोफाण्ट- (>ण्टी-) लोहारड-
 टि. द्र.
 लोम- प्रघ. √लुम् द्र.
 लोमा^१ - -मायाम् बौश्रौ २, ५: १२^१.
 लोमात् निसू १०, ६: २०.
 लोमक- (>लौमकायन्, कौय-
 पा.) पाग ४, २, ८०^२.
 रलोमक^१ - (>लौमकायनि- पा.)
 पाग ४, १, १५४.
 लोम-तस् (:) प्रघ. १लोमन्- द्र.
 लोमन्^१ - पाउ ४, १५१; पाग
 ५, २, १००; ३, १०७;
 पावाग ८, २, १८०; -म आश्रौ

a) वैप १ द्र. । b) विप. (स्तोम-) । उस. उप. विजन्तम्, पूष. = साम-विशेष- । c) पूष.
 = लौकिक- । d) = चार्वाक-शास्त्र- । e) = [सतद्वीपा-] वसुमती, पर्वत-विशेष- । f) = विष्णु- । g) = [लोकं-
 पृणा-] इष्टका- । h) = इष्टि-विशेष- । i) हितार्थे वा निमित्तार्थे वा यत् प्र. । j) व्यप. । k) तु.
 पाका. [६, २, ३७] । l) = श्रोषधि-विशेष- । m) = चतुस्- । n) पृ २०८१ d द्र. । o) तु. पागम. ।
 p) √लौठ् इति [१६] BPG. । q) = वृक्ष-विशेष- । r) पृ १०२२ ० द्र. । s) नाप. ।

२,७,६; आपश्रौ १,१०,१; २०, १९, ९१; बौश्रौ; -मभिः आपश्रौ १६,१९,११; वैश्रौ १८, १६: ७१; हिश्रौ; -मभ्यः आपश्रौ ११,३,१; हिश्रौ; -मसु काश्रौ १६,५,१; वाश्रौ ३,४,३, ४५; पा ७, २, २९; -मानि काश्रौ १९, ५, १०१; आपश्रौ; -ःश्रः-ऽ-श्रः आपमं १, १७, ६; शैशि २९२; -श्रा वाधूश्रौ ४, ६५: ३; १०९: ४; हिश्रौ २४, ६, १८; -श्राम् आपश्रौ १५, १५, १; भाश्रौ ११, १५, २७; हिश्रौ १४,४, १९; कौसू १४१, ४; -श्रि आश्रिण्य १,६,३: ४०; -श्रिऽ-श्रि अप १,५०,४.
लौमन्- पा ५,३,१०७.
लोमन्-तसः(ः) माश्रौ १, ५, १, १७××; माश्रु १,१,१९; १४,७.
लोमन्-त्वगा(ग्-आ)च्छाद^a -दः माश्रु १,३,६.
लोमन्-नख- -खानाम् पाश्रु २, १०, २४; -खानि कौश्रु ५,१, १२; शांश्रु ३,१,२; जैश्रु १, १८: ५.
लोमन्-मणि- -णिः कौसू १३,८.
लोमन्-मिश्र- -श्रम् कौसू २६,१४.
लोमन्-वत्- पा ५,२,१००.
लोमन्-वर्जम् वाश्रौ २,१,१,३४.
१लोमन्-श, शा^b- पा ५, २, १००; पाग २, ४, ३१; -शम् आपश्रौ ९,१९,१५; १४,७,१३; भाश्रौ; -शाम् बौश्रु २, ६, ९१; -श्रै

आपश्रौ १०,५, १५; वैश्रौ १२, ६: १०; -श्रौ आपश्रौ ८,६, ११; भाश्रौ ८, ६, ६; हिश्रौ ५, २,३९.
लोमन्-क^c- -कः, -कस्य बौश्रौ २४,२३: ५.
लोमन्-सन्ध^d- -न्धौ आपश्रौ २०,१३,१२; बौश्रौ १५, २३: ६; २६: ७.
लोमन्-सन्धि^e- -न्धौ हिश्रौ १४,३,१४^e.
लोमन्-संहरण- -णम् आपश्रु २, ५, १६^f.
लोमा(मन्-अ)प्र- -प्रात् वाध २५,५.
√लोमि पा ३,१,२५.
लोमि(क>)का^g- -काः अशां १५,३.
२लोमन्^h- पाग ४,१,९६; ९८.
१लौमायन- पा ४,१,९८.
लौमायन्य- पा ५, ३, ११३; -न्याः बौश्रौप्र ४५: ५.
लौमि- पा ४,१,९६.
३लोमन्- पाग ४,२,७५; ८०ⁱ.
लौम- पा ४,२,७५.
लौमन्य-, २लौमायन- पा ४, २, ८०.
२लोमन्श- (> लौमशीय- पा.) पाग ४,२,८०.
लोमन्श^j- -शम् ऋप्रा १४, २०.
लोल- √लुल् द्र.
√लोष्ट^k पाधा. भ्वा. आत्म. संघाते.
लोष्ट, ष्ट^l- पाउ ३,९२; -ष्टः कौसू

१६, ३२; या ६, १; याशि १, ३४; -ष्टम् काश्रौ ७, ४, ३१; आपश्रौ; माश्रु १, ७, ९; २, १४, ४; आपश्रु १, ३०, १९; शुश्रु १, २५८; २६०; -ष्टस्य वाधूश्रौ २, २१: ५; -ष्टान् आपश्रौ १६, २०, ५; बौश्रौ; बौपि १, ३: १६; २३; माश्रु १, ७, ९; -ष्टानाम् कौसू ३७, ७; -ष्टानि माश्रौ ४, ३, ४; -ष्टेन शांश्रौ ४, १५, ८; वाश्रौ ३,३, १, १२; वैताश्रौ १२, ६; कौश्रु ५, ६, २; कौसू १६, ३१; -ष्टेषु हिपि २: १६; -ष्टैः भाश्रौ १०,१८,१४; हिश्रौ ७,२, ८७; -ष्टौ बौश्रौ १०, २६: ५; वाधूश्रौ २,२,१: २.
लोष्ट-कपाल^m- -लम् काश्रौ २०, ३,१७.
लोष्ट-चित्ति- -न्तिः आश्रिण्य ३,८,३: ४६; बौपि १,१६: ३०; ३१.
लोष्ट-मर्दिन्- -र्दिं विध ७१,४२.
लोष्टा(ष्ट-आ)दि- -दिः वाश्रौ २,१, ५,१३.
लोष्टे(ष्ट-इ)ष्टका-परिमृष्ट-गुदⁿ- -दः विध ६०,२४^m.
१लोह(ब्रप्रा.)^b- पाग २,४,३१; ४,३, १५२; -हः^p शांश्रौ १४, १३, १; १५, १५, २; आपश्रौ १०, २९,५; बौश्रौ २१,१२: २९१; हिश्रौ ७, ३, २१; -हम् भाश्रौ ७,९,७^q; माश्रौ ३,१,२^o; ५,२,

a) विप. । मलो. कस. > बस. वा उस. वा । b) वैष १ द्र. । c) =पलाश-विशेष- । स्वार्ये कः प्र. । d) बस. उप. वैकल्पिकः समासान्तष् षच् प्र. (पा ५, ४, ११३) । e) परस्परं धाम्ने. । f) धाम्ने. पृ १३७० f द्र. । g) विप. । मत्वर्थीयष् ठन् प्र. । h) व्यप. । i) =घनिदोषविशेष- । j) °ष्ट- इति माश्रु. आपश्रु. बौपि. शुश्रु. पाठः । k) बस. । l) द्रस. > वृस. > बस. । m) °काभिः परिमृज्य गुदम् इति जीसं. । n) विप. [ताम्रवर्षा-] अन्न-; तूपर- । o) =ताम्र-धातु- ।

१४, ९; अप १, ६, ३^a; ४८, ९१^{ab}; विध ११, ९^c; काध २७२, १२^a; निघ १, २^{ab}; -हस्य शंघ १६४^a; -हानाम् शंघ १६४^a; -हेन आपध २, १८, १४^d.

लौह^e - पा ४, ३, १५२; -हम् आपध १, १७, ११; हिघ १, ५, ४३; -हा: काश्रौ २०, ७, ४; -हानि वैश्रौ १, ९; ९१^f; हिश्रौ ३, ३, ३३; -हे काश्रौ ७, ४, २९; -हेन आपश्रौ ८, ४, १; बौश्रौ २२, १९:३; भाश्रौ ८, ३, २४; हिश्रौ ५, १, ४६; आश्र १, १७, ९; हिघ २, ५, ६७^d.

लौही- हीभि: आपश्रौ २०, १८, ७.

लौह-राजत-सौवर्णी- -र्णीभि: काश्रौ २०, ७, ११^g.

लोह-कार- -रा: अप १, ६, २.

लोहकारा(र-अ)भि- -श्रौ काध २७८: ३.

लोह-क्षुर- -रस् काश्रौ ५, २, १७; कौश्र १, २१, ६; ११; शांश्र १, २८, ७; १४; पाश्र २, १, ११.

लोह-चारक^h- -कम् विध ४३, २२.

लोह-चूर्ण- -र्णम् कप्र ३, ९, १८.

लोह-ण्ड- -ण्ड: गौध २२, २७; -ण्डम् विध ५०, ३१; सुध ३८.

लोह-धारण- -णम् शंघ २६५.

लोह-पिण्ड- -ण्डम् शंघ २६६;

विध ११, ५; ७; १०.

लोह-बद्ध- -द्धम् माशि १६, ११.

लोह-भाण्ड- -ण्डम् विध २३, २.

लोह-मय- -यानि आमिष्ट २, ७, ८: १६; ३, ५, ७: १६; बौपि १, ६: ११; अप्राय ३, ७; -येन आमिष्ट २, ४, १०: १२.

लोहमयी- -यीभि: वाश्रौ ३, ४, १७; हिश्रौ १४, ४, १७.

लोह-मुखⁱ- -खा: अप ९, ४, १.

लोह-वेष्टित- -तम् अप २३, २, ३.

लोह-शकल- -लानि आपश्रौ ५, २, ३; वाश्रौ १, ४, २, ८.

लोह-शङ्कु^j- -ङ्कु: विध ४३, १६.

लोह-शयन^k- -ने बौध २, १, १२;

गौध २३, ९.

लोहा(ह-अ)दि- -दीनाम् अप ६४, ३, ५.

लोहा(ह-अ)यस^l- -सम् काश्रौ १५, ५, २२; हिश्रौ १३, ५, २७;

वाश्र ४, १७^l; -सा^m वाधुश्रौ ३, ७६: २९ⁿ; -सान्^m बौश्रौ १५, १५: ३; -सै: बौश्रौ १५, २८: १३; ३३: २.

लौहायस^o- -सम् आश्र ४, ३, १९; काश्र ४०, १२; माश्र १, २१, ७; -सेन माश्रौ १, ७, २, २३^p.

लौहायसी- -स्याम्

वाधुश्रौ ४, २६: १.

लोहायस-त्सह^q- -रव: वाधुश्रौ ३, ७६: ३०; -रून् बौश्रौ १५, १५: ३.

लोहा(ह-अ)श्म-करण- -जंम् बौध ३, ३, १०.

रलोह^r- (> लौहायन- पा.) पाग ४, १, ९९.

लोहारण^s- (> ण्डी- पा.) पाग ४, १, ४१.

लोहायन^t- -ना: बौश्रौ ४६: १.

१लोहित^u- पाठ ३, ९४; पाग २, ४, ३१; ३, १, १३;

६, ३, ११६^v; पावाग ८, २, १८^w; -त: काश्रौ १५, ३, १९; १०, ५; २२, ३, १४;

आपश्रौ २२, ४, १७; हिश्रौ १७, २, २३; आपमं २, १६, ८^x;

†भाश्र २, ७: १८^w; २१^v; हिश्र २, ७, २^y; अप ५३, ४, ३××;

-तम् काश्रौ ६, ७, १३; २०, ७, ८; ८, १; ८; २५, ६, ८^z;

आपश्रौ; -तस्य आपश्रौ १५, १, १५, १; भाश्रौ ११, १५, २६;

हिश्रौ २४, ६, १२; कौसू ४४, ३२; आपध; -ता: अप ५२, ७, २; ६३, ४, ९; गौध १७, ३०;

-तान् वाध १५, १२; शंघ ४२७; विध ५१, ३६; -तानाम् कौसू ४८, ४१; -तानि कौश्र १, १६, १६; शांश्र १, २४, ७; -ते

a) = ताम्र-धातु- । b) सुवर्ण-नामन्- । c) पिण्डम् इति जीसं. । d) विप. सपा. लो° <> [स्वार्थे प्र.]

लौ° इति पाठे. । e) विकाराथै प्र. । f) लो° इति पाठः? यनि. शोघ: (तु. हिश्रौ). । g) लो° इति पाठः? यनि. शोघ: (तु. बौसं). । h) = नरक-विशेष- । मलो. बस. । i) बस. । j) उप. = शय्या- । k) नाप. (ताम्र-). कस. समासान्तत् डच् प्र. (पा ५, ४, ९४) । l) = [लोहायस-विकार-] क्षुर- । m) = [तद्विकार-] असि- । n) सस्य. रङ्गण्यायस- > -सा: इत्यत्र बस. नेष्टः । o) विप. (क्षुर-) १ स्वार्थे प्र. । p) वैतु. B.W. M.W. लोहा° इति । q) व्यप. । r) लोफण्ड- इति पाठा. । s) विप., नाप. (रुधिर-, धातु-विशेष- प्रष्ट.) । शिष्टं वैप १ द्र. । t) = पर्वत-विशेष- । u) तु. पागम. । v) = [लोहितवर्ण-] श्वप्रह-विशेष- । w) पाठे. पृ २०९३ C द्र. ।

आपश्रौ ५, ५, १; १६, २१, २;
 हिश्रौ ४, ४, १५; द्रागु ४, २, ६;
 -तेन काश्रौ ६, ६, ८; आपश्रौ;
 गोयु ३, ६, ९; द्रागु ३, १, ४८^३;
 कौसू २३, १४^३; अप १८^३,
 १, ८^३; वाध २०, १६.
 लोहिनी^३ - नीः आपश्रौ
 १६, १३, ७; -नीम् आपश्रौ
 १०, २६, १३; -नौनाम् अश्र
 ७, ७४^३; -न्यः आपश्रौ ९,
 २०, ९; वैश्रौ २०, ३९ : १०.
 लोहिनी(क>)का^३ -
 का आपश्रौ ६, ९, १^३.
 लौहितीक- पा ५, ३, ११०.
 लोहित-क^३ - पा ५, ४, ३०^३; -केन
 आपध १, २४, १४; हिध १,
 ६, ६३.
 लोहित-नात्र^३ - त्राय अप २०,
 ४, २^३.
 लोहित-ग्री(वा>)व^३ - वः बौश्रौ
 १५, २८ : १६^३.
 लोहित-दुर्भ- भैः वाध २१, २^३.
 लोहित-दर्शन- ने गौध २१, २२.
 लोहित-दोह- हे काश्रौ २५, २, २.
 लोहित-पचन^३ - नान् वैश्रौ १३,
 ५ : ११^३; -नैः हिश्रौ ११, १, ६१^३.
 लोहितपचनीय^३ - यैः आपश्रौ
 १५, ३, २०^३; ४, २; १६, ५, ८;
 ९; भाश्रौ ११, ३, १४^३; १६;
 हिश्रौ ११, १, ६३; २४, १, २०^३.
 लोहित-पांसु^३ - सु गोयु ४, ७, ६.
 लोहित-पात्र- त्रेण कौसू २९,

१९.
 २लोहित-पात्र^३ - त्रः गौध २३, १८.
 लोहित-प्रवाण^३ - णानि लाश्रौ ८,
 ६, २०.
 लोहित-बलि- लीन् कायु ५२, ७.
 लोहित-मिश्र- श्रम् शाश्रौ ४,
 १९, ७.
 लोहित-लवण^३ - णन् कौसू ३१,
 १७.
 लोहित-लिप्त- सम् पायु ३, ८, १२.
 लोहित-वर्ष^३ - र्षम् कौसू ९४,
 १४^३.
 लोहित-वसन^३ - नाः आपश्रौ १९,
 १६, ६; २२, ४, २३; हिश्रौ
 १७, २, २७; २२, १, ३; २, ११.
 लोहित-वासस^३ - ससः काश्रौ
 २२, ३, १५; बौश्रौ २३, १ : २६;
 लाश्रौ ८, ५, ८; बौध १, ६, ९;
 अश्र १, १७; या ३, ४^३.
 लोहित-शकृत्- कृतोः मीसू ४, १,
 २७.
 लोहित-शिरस^३ - रसम् कौसू ४७,
 ३९.
 लोहित-श्वेत^३ - तः हिश्रौ ७, ३, २१
 लोहित-सारङ्ग^३ - ङ्गः आपश्रौ १०,
 २९, ५; वैश्रौ १२, २० : १५;
 -ङ्गम् काश्रौ ७, ९, १८.
 लोहित-सूत्र- त्रेण कौसू ८५, १८.
 लोहिता(त-अ)क्त- क्तम् वाश्रौ
 १, ६, ५, २२
 लोहिता(त-अ)क्ष^३ - क्षः मायु २,
 १४, २९^३; विध ३, ९५.

लोहिता(त-अ)क्षि^३ - क्षौ अप
 ६३, १, ९.
 लोहित>]ता-गिरि- पा ६, ३,
 ११६.
 लोहिता(त-अ)गिन-प्रभा(भ-आ)
 काश- -शम् अप ६४, ६, १०,
 लोहिता(त-अ)ङ्ग^३ - ङ्गः अप ५२,
 ११, ४; आज्यो ७, ९; -ङ्गस्य
 अप ५२, ३, २.
 लोहिताङ्ग-परिवेष- -वे अप ६३,
 ३, ३.
 लोहिता(त-अ)ज,जा- -जम् कौसू
 ३९, ३; -जायाः कौसू १९, १०;
 ३६, १९.
 लोहिताजा-पिशित- -तानि
 कौसू ३५, १८.
 लोहिता(त-अ)न्त^३ - न्तानि काश्रौ
 २२, ४, २२.
 ✓लोहिताय पा ३, १, १३.
 लोहिता(त-अ)यस^३ - सम् आपश्रौ
 १८, १५, ६; बौश्रौ; -सस्य बौश्रौ
 ५, १ : ४; ४ : २४; ५ : २; ९ :
 २५; १० : २; १७ : १२; १८ : २;
 १७; १५, १२ : ७; १७, ६२ : २०;
 -सेन वाध ५, ७; -सैः बौश्रौ
 १५, ३० : २६.
 लोहिता(त-अ)लंकृत- तम् कौसू
 २२, १; ४७, ४०.
 लोहिता(त-अ)श्वत्थ^३ - स्वस्य
 कौसू १६, २०.
 लोहिताश्वत्थ-पलाश- -शेन
 कौसू ४८, ३१.

- a) = [लोहायस-विकार-] स्वधिति-। b) वैप १ द्र.। c) वैप २, ३ खं. द्र.। d) स्वार्थे प्र.।
 e) = पञ्चराग-मरि-। f) बस.। g) विप. (तृणकाष्ठादि-] संभार-। उप. करणे कृत (तु. माष्यम्; वैतु.
 B.W. प्रसू. कर्मणि प्र. इति)। h) °नात् इति पाठः ? यनि. शोभः (तु. पामे.)। i) सपा. °नान् <> नैः
 <> नौधैः इति पामे.। j) स्वार्थे छः प्र.। k) उप. <प्र>वे। l) = सैन्धव-। m) उप. = १ वृष्टि-।
 n) कस.। o) वैकल्पिकः समासात्तत् षच् प्र.। p) = विनायक-विशेष-। q) विप. > नाप. (मङ्गल-प्रह-।
 r) उप. = प्रान्त-। s) = ताम्र-, [तद्विकार-] क्षुर-, पात्र- वा। t) = वृक्ष-विशेष-।

लोहितिमन्- -मा कप्र १, ९, ३ ^१ ; -मिन् गोष् २, ८, १.	लोहित-वत् बौश्रौप्र ३२: ४; वैध ४, १: ७.	लौम- ३लोमन्- द्र.
लोहिती ✓ भू > लोहिती-भवत्- -वन् बौश्रौ २०, १: ५; ९.	लोहित-क- प्रमृ. १लोहित- द्र.	लौमकायन- १लोमक- द्र.
लोहिते(त-इ)न्द्रधनुर्-नीहार ^१ - -रेषु गौध १६, ९.	?लोहिताक्षपक्षिता- -सा अत्र ६५, २, २.	लौमकायनि- २लोमक- द्र.
लोहितो(त-उ)ष्णीष ^२ - -षा: आश्रौ ९, ७, ४; शाश्रौ १४, २२, २०; काश्रौ २२, ३, १५; आपश्रौ.	लोहिता(त-अ)क्षि- प्रमृ. १लोहित- द्र.	लौमकीय- १लोमक- द्र.
२लोहित ^३ - पाग ४, १, १८; १०५; -ता: २ आपश्रौ २४, ९, ७; बौश्रौप्र ३२: १; २; हिश्रौ २१, ३, १२; -तानाम् ^४ वैध ४, १, ७.	लोहितायन- -ना: बौश्रौप्र ३: १४; ४१: ७.	लौमन- १लोमन्- द्र.
लौहित- -०त बौश्रौप्र ३२: ३; वैध ४, १, ७.	लोहिता(त-अ)यस- प्रमृ. १लोहित- द्र.	लौमन्य- ३लोमन्- द्र.
लौहित्यं- पा ४, १, १०५. लौहित्याय[न] >]नी- पा ४, १, १८.	लौकाक्षि- लोकाक्ष- द्र.	लौमशीय- २लोमश- द्र.
	लौकायतिक-, लौकिक- प्रमृ., १लौक्य- १लोक- द्र.	१लौमायन- २लोमन्- द्र.
	२लौक्य- २लोक- द्र.	लौमायन्य- २लोमन्- द्र.
	लौगाक्षि- लोगाक्ष- द्र.	लौमि- २लोमन्- द्र.
	✓लौड् ✓लोड् टि. द्र.	लौल्य- ✓लुल् द्र.
	लौपायन- २लोप- द्र.	लौषायणि- लूष्- द्र.
		लौह- प्रमृ. १लोह- द्र.
		लौहायन- २लोह- द्र.
		लौहायस- १लोह- द्र.
		लौहितीक- १लोहित- द्र.
		लौही- १लोह- द्र.

a) लौहित्यम् इति जीसं. । b) द्रस. लोहित- = लोहितवर्णाकाश- । c) बस. । d) = ऋषि-
विशेष- । e) बहु. < लौहित- ।

